

A VEDIC WORD-CONCORDANCE

Being a **universal vocabulary register** of about 500 Vedic works,
with complete textual reference and critical commentaries, bearing on
phonology, accent, etymo-morphology, grammar, metre,
text-criticism, and *sa-Aryan* philology

In five Volumes, sub-divided into fifteen Parts

By

VISHVA BANDHU

Director, the Vishveshvaranand Vedic Research Institute and the
D. A. V. College Research Department, formerly,
Principal, Dayananda Brahma Mahavidyalaya.

In collaboration with

BHIM DEV, RAMANAND, AMAR NATH, PITAMBAR DATT
AND MANY OTHER SCHOLARS

Vol. IV in Four Parts

(Vedāṅga-sūtras)

PART III

५-४

Pages I-IV and 1457—2116.

HOSHIARPUR

PUBLISHED BY THE V. V. R. INSTITUTE

1959

वैदिक-पदानुक्रम-कोषः

स च

संहिताब्राह्मणोपनिषद्वेदाङ्गभूतवर्गीयोपपञ्चशत[५००]वैदिकग्रन्थस्थ-सकलपदजात-संग्रहस्वरूपः

प्रतिपदप्रतियुक्त-श्रुतिस्थलसर्वस्व-निर्देशैः समवेतश्च यथासंगत-तत्तत्प्रागवर्गाग्लक्षण-

विचारसमन्वितटिप्पणैः सनाथितश्च

संभूय पञ्चदशखण्डात्मकैः पञ्चभिर्विभागैर्व्यूढश्च

सन्

दयानन्दब्राह्ममहाविद्यालयीयाचार्यपदप्रतिष्ठितपूर्वेण, विश्वेश्वरानन्दवैदिकशोधसंस्थानस्य

च दयानन्दमहाविद्यालयीयाऽनुसंधानविभागस्य च संचालकेन

सता

किशकबन्धुना

भीमदेव-रामानन्द-अमरनाथ-पीताम्बरदत्त-

प्रमुखानां बहूनां शास्त्रिणां

सायुज्य-समुपलम्भेन

संपादितः

अयं च तत्र

(वैदाङ्गिकस्य)

चतुःखण्डात्मकस्य ४र्थस्य विभागस्य

३यः खण्डः

प-ल

वृष्टानि, I-IV च १४५७-२११६ च

होशिआरपुरे

विश्वेश्वरानन्द-वैदिक-शोध-संस्थानेन प्रकाशितः

२०१६ वि०

(All Rights Reserved)

Printed and Published by Dev Datta Sharma,
at the V. V. R. I. Press, H. N. Road,
First edition, first time, 1957. (Quarto), 100 pages.
Price Rs. 40/-.

(अधिकार-सर्वस्वं सुरक्षितम्)

होशियारपुरे वि. वै. शो. सं. मुद्रागृहे

देवदत्तसाम्बिका मुद्रायितः प्रकाशितः ।

प्रथमं संस्करणम्, प्रथमः प्रकाशः, २०१३ ई.स.। प्रथमं संस्करणं, ३०५ पृष्ठानाम्।
मूल्यम्, ४०) रु.।

Prepared and published under the patronage of the Governments of the Indian Union and the States of Panjab, Jammu-Kashmir, Himachal, Uttar Pradesh, Bihar, Assam, Orissa, Madhya Pradesh, Bombay, Mysore, Kerala, Rajasthan and Madras, the former Princely States of Hyderabad, Travancore, Baroda, Indore, Kolhapur, Sangli, Patiala, Nabha, Jodhpur, Bikaner, Idar, Alwar, Udaipur, Shahpura, Sirmur and Keonthal, the former Princely Estates of Awagarh and Vijayanagaram, the Universities of Panjab, Poona, Andhra and Calcutta and the Trusts and Charities of Swami Vishveshvaranand, Shri Vishva Bandhu, Shri Moolchand Kharaitiram, D. B. Krishna Kishore, Shri Dhani Ram Bhalla, Shri Jai Dayal Dalmia, R. B. Jodha Mal Kuthiala and other donors.

अथ

वैदिक-पदानुक्रम-के-षे

वैदिक-के-चतुर्थे-विभागे

तृतीयः-खण्डः

प

प^१- पि ऋत ४, १, ६.
 प^२- >प-कार- -रः ऋप्रा ६, २२;
 -रात् शुप्रा ४, ७; -रे ऋप्रा ४,
 ४१; १३, ३०; उस् ८, १९^{b2};
 शुप्रा ३, १४०; याशि १, ६२.
 पकार-पूर्व- -र्चः तैप्रा ५, ३६.
 पकार-त्रगो(र्षी-उ)पहित- -तात्
 ऋप्रा १४, ५३.
 पकारा(र-आ)दि- -द्रयः याशि
 २, १.
 पकारा(र-न्)न्त^c- -न्ते माशि
 १४, ५; याशि २, ३८^d; -न्तौ
 भाशि ३२.
 प-वर्ग- -र्गः ऋप ४७, २, २; शुप्रा
 ८, १२; -र्गात् माशि ३३;
 -र्गे तैप्रा २, ३९; शैशि ५०;
 भाशि ५८.
 ✓पंस् पाधा. चुरा. उम. नाशने>
 पंसन->नीय- -याः या १२,
 १९.
 पः^d वेज्यो १८.
 पक्षवे, पक्ष्य- प्रस्. ✓पक्ष द.
 ✓पक्ष पाधा. चुरा. पर. परिप्रहे.
 पक्ष^{e1}- पाउ ३, ६९; पाग ४, २, ८०^e;
 ३, ५४; ५, २, १००^b; -क्षः
 पशाश्रौ १७, १३, ३; ३; काश्रौ;
 -क्षम् आश्रौ १२, ६, १७; माश्रौ
 १७, १३, ३; ३; आपश्रौ; आपश्रु
 ८, ५^f; -क्षयोः आपश्रौ १६,
 ३३, ५; माश्रौ; -क्षस्य आपश्रौ
 १७, ११, ३; बौश्रौ; -क्षाः

बौश्रौ १ : २३; वैताश्रौ ६,
 १^g; वेज्यो २३; -क्षाणाम्
 वेज्यो २३; -क्षाणि वाबूश्रौ ४,
 ८५ : २; -क्षात् आश्रौ ४, ४,
 ४; आपश्रौ; पा ५, २, २५;
 -क्षान् माश्रु २, १३, ८;
 -क्षाम्याम् आपश्रौ २, ११, २४;
 १४, ३१, १; निस् ६, ७ : १७;
 १९; -क्षे काश्रौ १८, ३, २;
 आपश्रौ; -क्षेऽक्षे वैष १, ५, ३;
 -क्षेण निस् ६, ७ : १५; आज्यो
 ७, ६; मीस् ३, ३, १८; ७, ३४;
 -क्षौ आपश्रौ १७, १२, १०;
 बौश्रौ; या १४, २९.
 पाक्षायण- पाग ४, २, ८०.
 पाक्षिक^h- -कात् बौश्रौ २२,
 ८ : १०.
 पक्ष-कर(ण)>गी^k- -ग्याः आपश्रु
 १९, ९; हिश्रु ६, २९.
 पक्ष-क्षय- -यः आज्यो ७, ८; -ये
 आज्यो ७, ७.
 पक्ष-च्छिद्र- -द्राः आमिष्ट २, ७,
 ६ : २४; -द्राणि आज्यो ६, ७.
 पक्ष-ति- पा ५, २, २५.
 पक्ष-त्रय- -ये हिपि २१ : ९; शंघ
 ४३२.
 पक्ष-द्वय- -यम् काश्रौसं ३२ : १;
 काश्रु ४१ : ११; ४५ : १३;
 -ये आमिष्ट २, ७, ९ : ४१.
 पक्ष-द्वादशको(क-उ)द्वित- -ताः
 वेज्यो १५.
 पक्ष-नमन- -नम् आपश्रु १८, ११^l.
 पक्षनमनी- -न्याः आपश्रु

१९, १०; हिश्रु ६, ३०.
 पक्ष-निर्गामि^m- -मः आपश्रु १५,
 ५; १८, १; हिश्रु ५, ५१ⁿ; ६, ५;
 -मयोः हिश्रु ५, ४३^o.
 पक्ष-पत्र- -त्राणाम् बौश्रु १० : ३१.
 पक्षपत्रा(त्र-अ)पच्छेद- -दम्
 बौश्रु १३ : ४.
 पक्ष-पार्श्व- -श्वयोः बौश्रु ९ : २.
 पक्ष-पुच्छ, छ^p- -च्छान् बौश्रौ १५,
 १९ : ६; -च्छानाम् आपश्रु २२,
 १२; हिश्रु ६, ६९; -च्छानि काश्रौ
 १७, ६, ७; १२; १८, २, ११;
 आपश्रौ १६, १७, १०; माश्रौ;
 -च्छेषु बौश्रौ २२, ६ : ११; माश्रौ;
 -छानाम् माश्रौ ६, १, ६, ११.
 पक्षपुच्छा(च्छ-अ)न्यय- -येषु
 काश्रौ १६, ८, १५.
 पक्ष-प्रवयस्^r- -वांसि बौश्रु ५;
 १४.
 पक्ष-मध्य- -म्ययोः आपश्रु २०, ३;
 हिश्रु ६, ४१.
 पक्षमध्यो(य>)या- -याः
 आपश्रु २०, ३; हिश्रु ६, ४०;
 -याम् आपश्रु १९, ७; हिश्रु ६,
 २५.
 पक्ष-वत् मीस् १०, ५, ५६.
 पक्ष-विपर्यय- -यम् आश्रौ ९, ३, ६.
 पक्ष-व्रत- -तम् शंघ ४३८.
 पक्ष-शेष- -शम् काश्रौ १५, १२, ७;
 वाघ २३, ४५; बौश्रु ८ : १८.
 पक्ष-संहित- -तानि बौश्रौ १५
 १९ : २.
 पक्ष-संक्षय- -यः आज्यो ७, ८.

a) = बर्ष-विशेष-। व्यु. ? । b) परे इति पाठः ! यनि. स्रोचः (द्र. Pertsch) । c) विप. । वस. ।
 d) = आपः (पूर्वाषाढा-देवताः) । e) = पत्र- , मासार्धक- , विभाग- प्रस्. । f) वैप १ द्र. । g) अर्थः ? ।
 h) द्र. पागम. । i) व^१ इति पाठः ! यनि. स्रोचः । j) तात्रभविकृष् उक् प्र. । k) = इष्टका- । l) पक्षि
 इति पाठः ! यनि. स्रोचः । m) = पक्षव्ययदेश- (द्र. भाष्यम् [हिश्रु ५, ४३]) । वस. । n) 'ना' इति पाठः ! यनि.
 स्रोचः । o) वैप २, ३ सं द. ।

पक्ष-संवि- -वे: बौधौ २२, ८: ९.
 पक्ष-संसि(त >)ता^१ -ता काश्रौ
 ८, ८, ८.
 पक्ष-स्तोत्री(य >)मा- ये निम्
 ८, १३: २०.
 पक्ष-हत^१ - तम् कौम् ३१, १८.
 पक्ष-होम- -म: कायु ४१: ११;
 अप २३, ७, ५; -नम् अप २३,
 ७, ४; ८, १; -मान् कायु
 ४५: १४; -मे काश्रौसं ३२: १.
 पक्षहोम-नियम- -म: कायु
 ४५: १३.
 पक्षहोम-समास- से कायु
 ४५: ११.
 पक्षा(क्ष-अ)म- -मम् आपयु १८,
 ८; हिशु ६, १३; -मयो:
 वैश्री १८, १६: ७८; आपयु;
 -माद् बौशु ८: १६; २१;
 -मे आपयु १८, ७; हिशु ६,
 ११; -श्री बौश्री १७, २८: १२.
 पक्षाश्री(य >)वा- -वा: आपयु
 २०, १; हिशु ६, ३७; -माम्
 आपयु १९, ८; हिशु ५, २०.
 पक्षा(क्ष-अ)वय- -ये भायु ३,
 २१: ५.
 पक्षा(क्ष-आ)दि- -दय: गोयु १, ५,
 ५; -दिवु पायु १, १२, १; -दौ
 काश्री २४, ४, २६; कप २, ६,
 ११; अप ५०, ६, १; ३.
 पक्षाधिक^१ - -कम् कप २, ६, ११.
 पक्षा(क्ष-अ)व- -वम् कायु
 ४४: १६; -वयो: विष ९५,
 १२; -व्या: गोयु १, ५, ५;
 -व्यात् माश्री ६, १, ५, ४०;

-न्ते वैश्री १८, १४: ४११;
 १५: १.
 पक्षा(क्ष-अ)न्तर- -नम् वायु १६, ३.
 पक्षा(क्ष-अ)पचय- -ये अप ५०,
 ३, ४.
 पक्षा(क्ष-अ)पय- -ययो: आपयु
 १०, २; २०, १. बौशु ११:
 १२: दिशु ३, ४०; ६, ३८:
 -ये आपयु १८, १; हिशु ६,
 १८; -यौ आपयु १९, १२:
 हिशु ६, ३३.
 पक्षा(क्ष-अ)भिधान- -नम् लाश्री
 १०, १६, २.
 पक्षा(क्ष-आ)धाम- -म: आपयु
 १५, ८; हिशु ५, १३.
 पक्षा(क्ष-अ)विशेष- -यम् बौश्री
 २६, ३: १२; -ये बौश्री २६,
 २: १५; २३.
 पक्षा(क्ष-आ)धय- -येण वायु १६,
 ३७.
 पक्षा(क्ष-अ)हमो- -मयाम् पायु ३,
 ३, ८.
 पक्षिक^१ - (>)पाक्षिक्य- -पा.) वाग
 ५, १, १२८.
 पक्षिक^१ - -क्षिण: आपश्री १७, २८,
 २; बौश्री; -क्षिणम् आपमं २,
 १७, ११; अप ७१, ५, ५;
 -क्षिणाम् विष ४१, १; आपयो
 ४, ८; -क्षिण्यम् आपश्री २२,
 १२, १०१; हिश्री १७, ५, १८;
 -क्षी आपश्री २२, १२, १०१;
 काश्री २२, १०, ३४; हिश्री.
 पक्षिणी- -क्षी मायु २, १७,
 १११; शंष ३४८; बौष १,

५, ११८; -क्षीम् कायु ९, ११;
 मायु १, ४, १०; १४.
 पक्षि-नागक- (>)पाक्षिगणक-
 पा.) वाग ५, १, १२९.
 पक्षि-नाम्बौ(य-अ)पवि-उत्त-
 वैदल- -त्यानाम् विष ५२, १३.
 पक्षि-पाणिन- -नी विष ५, ८३.
 पक्षि-जम्ब- -जम्ब विष २३,
 ३८; वैष २, १५, ३.
 पक्षि-मत्स्य-मृग- -गान् पा ४,
 ४, ३५.
 पक्षि-मोम- -मम् गोयु ३, ३,
 ५०.
 पक्षि-पोनि- -नय: विष ४४, ४,
 पक्षि-राज- -ज: सु १, ३.
 पक्षि-रूप- > पिन- -पिणम्
 बुं ४, ९८.
 पक्षि-वध- -धे विष ५०, ८३.
 पक्षि-सामन्^१ - -म निम् ७,
 ९: २३.
 पक्षप(क्षि-अ)भीत्या- -त्यायाम्
 निम् ७, ९: २२.
 पक्षिल- -पा ५, ३, १००.
 पक्षो(क्ष-उ)रुका- -रुामि: आपयु
 २०, ३: ११; हिशु ६, ४१, ५१,
 -काम् आपयु १९, १; हिशु ६,
 २३.
 पक्षो(क्ष-उ)पञ्चक- -वे बौश्री १०,
 २४: ३: ७.
 पक्षो(क्ष-उ)पोषण- -नम् आमिपु
 २, ७, ५१११.
 पक्षव- -पा ४, ३, १४.
 पक्षव-मोक्ष- -नम् काश्री १८,
 ६, २५.

a) वैष १६. b) विप. > नाप. (पक्षापात-). सप्त. । सा (यू. [श्री ६, ८०]) केवलम् पक्षि-रुक्म इति ।
 c) विद. (पक्षायौ दीयमान-] वरु) । तत्वेदमीयम् उरु > रुक्म प्र. वरु. (पा ५, १, ११) । d) वा. विपि. ।
 e) रुक्मः । मन्वयमिषु उरु प्र. इति । f) रुक्म इति पाठः । मणि. शोचः (दृ. अ १०, १६५, २; इ. अ. व) ।
 g) = साम-विषय-)

पञ्च-करणी- प्रभृ. पञ्च-द्र.
 पक्षस्- पाठ ४,२२०; -क्षः आश्रौ
 ११, ७, ६; १२, ३, ५; बौश्रौ
 २६, १६: १७; निस्र ५, १०: ४;
 -क्षसः आश्रौ ११, ७, ८x;
 आपश्रौ २१, १६, ६; १६: १७;
 निस्र १०, ९: ४; -क्षसा शाश्रौ
 १३, २९, ११; -क्षसि बौश्रौ
 २६, १७: २; द्राश्रौ; -क्षसी
 आपश्रौ १८, ४, ६x; बौश्रौ;
 -क्षसो: निस्र ५, ९: १२; १०,
 ८: २८; २९.

पक्षः-संमित- न्तः बौश्रौ १९, १:
 १२.

पक्षसंहित- प्रभृ. पक्ष-द्र.

पक्षमन्- पाठभो २, १, २८५; पाग
 ५, २, ९७; -पक्षमण^० आपश्रौ
 १९, ५, ७; हिश्रौ २३, १, ६.
 पक्षम-गुण^० -हम्^० माण १, २१,
 १२.

पक्षम-गुण^० -गम्^० काण ४०, १८;
 वाण ४, २३.

पक्षम-चामर-चर्म-नृण-वाल-वेत्र-
 बहकला (ल-आ) दि- शीनाम्
 शंष १७४.

पक्षम-ल- पा ५, २, ९७.

पक्ष्य- पक्ष-द्र.

पक्ष^०- पाठभो २, २, ३१ पाग २, ४,
 ३१; ५, २, १००; -क्रे सु २,
 ४; अण ४, ६, २; ६९, ७, १;
 याशि १, ४२.

पक्ष-ज^० (>°जिन् >°जी- पा.)
 पाग ५, २, १३५.

पङ्क-दन्त^० -न्तः सु १६, ५.
 पङ्क-पिण्ड-शैवाल-संयुत- न्तम्
 कप्र ३, ४, १३.
 पङ्क-भार^० (>°भारिक- पा.)
 पाग ४, ४, १६.
 पङ्क-मग्न- न्नौ सु २, ३.
 पङ्क-शैवाल-दुष्टप्राह-मत्स्य-जलौका
 (का-आ)दि-वर्जित- न्ते विध
 १२, २.
 पङ्किल- पा ५, २, १००.
 पङ्के-सख- -ञ्चान् सु २, ४.

पङ्क्ति^०- पा ५, १, ५९; पाग ४, १,
 ८६; ५, ४, ३८^१; -ङ्क्तयः
 शाश्रौ १८, १४, ४; वृदे; -ङ्क्तये
 माश्रौ ५, २, १५, २^१; वाश्रौ १,
 १, ५, २^१; वैताश्रौ १, १८; वाण
 १३, १; अप्राय ६, ९^१; -ङ्क्तः
 शाश्रौ ७, २७, ३०x; आपश्रौ;
 अण ८, १०^१; या ७, ११; १२^१;
 -ङ्क्तभिः आश्रौ ६, ३, ५; माश्रौ
 ६, २, २, २१; वाश्रौ २, २, १, ३१;
 -ङ्क्तभ्यः लाश्रौ ६, १०, २७;
 -ङ्क्तम् षंआपश्रौ १०, ९, १;
 १६, १९, १x; बौश्रौ; -ङ्क्तानु
 आश्रौ ५, १४, ११; निस्र ६, ८
 ७; ऋषा १५, २४; १८, ५८;
 -ङ्क्ती आश्रौ ६, २, ४; ऋषः
 -ङ्क्तीः शाश्रौ १२, ७, ६; काश्रौ;
 -ङ्क्तीनाम् आश्रौ ६, ३, ६;
 शाश्रौ ६, ३, १; ७, २६, ३; ऋष
 ४, ३; उनिस्र ८: २०; -ङ्क्तेः
 शाश्रौ ७, २७, १२, ९, ५, ८; कौस्र;
 -ङ्कौ शाश्रौ २, ४, २१; लाश्रौ

१, ८, ९; -ङ्क्तयः माश्रौ ५,
 २०, १०; -ङ्क्तया आश्रौ २,
 १९, ३४; आपश्रौ; -ङ्क्त्याः
 आपश्रौ ८, १६, १३; १४, १९,
 १^१; २६, २^१; वैश्रौ २१, ५: ८;
 हिश्रौ १५, ५, १^०; -ङ्क्तयाम्
 ऋषा १८, ४९; -ङ्क्तयै
 आपश्रौ ३, १८, ४^१; बौश्रौ ३,
 २३: १९; माश्रौ ३, १४, २;
 हिश्रौ २, ८, १; -ङ्क्तयो आपश्रौ
 ५, २८, २; १३, २५, ५; बौश्रौ
 ३, २: १३; वैश्रौ १, २०: ५;
 हिश्रौ २१, २, ५०.

पाङ्क्त^०- पा ४, १, ८६; -ङ्क्तः
 आश्रौ ४, १२, १; शाश्रौ;
 -ङ्क्तम् आश्रौ ४, १३, ७; १४,
 २; १५, २; शाश्रौ; -ङ्क्तस्य
 लाश्रौ ७, ९, ११; -ङ्क्ताः निस्र
 ९, १: ४४; १०, ६: ११;
 -ङ्क्तात् आपश्रौ १४, १९, २;
 २२, २८, १३; हिश्रौ २३ ४,
 ५१; -ङ्क्तानि शाश्रौ ६, ६,
 १९; १०, १२, १३; निस्र ९, १:
 ४५; -ङ्क्ताय शाश्रौ ९, २७,
 १^१; -ङ्क्ते आश्रौ ७, १२, १७^३;
 शाश्रौ १६, ७, १४; अण २,
 २४; -ङ्क्तेन आश्रौ ६, ५, १७;
 शाश्रौ ९, २०, १९; बौश्रौ ९, ३:
 १९x.

पाङ्क्त-काकुम्^० -मः ऋषा
 १८, ८.

पाङ्क्ता (ङ्क्-अ)वसान- न्ते
 आश्रौ ८, ३, ६.

a) वैप १६. । b) पामे. पृ ११६६ f द्र. । c) =पक्षम-गुण- । उप. ? । d) परस्परं पामे. ।
 e) विप. (।अर्धारण्ययुक्त-। तिल-पेचल-।) बस. । f) =कर्म-। व्यु. ? । <√पञ्च।व्यतीकरणे। इति अमा. ।
 g) =कमल- । उस. । h) विप. । बस. । i) द्र. पागम. । j) पामे. वैप २, २खं. पङ्क्तयै तैत्रा ३, ७, ६, २
 दि. द्र. । k) पङ्क्ती इति पाठः ? मनि. श्लोचः (द्र. संस्कर्तुः टि.) । l) पामे. वैप १, १८७६ ० द्र. । m) नाप.
 (प्रभाव-) । मन्त्रो. बस. । एतदनु पृ १००९.० श्लोचः द्र. ।

पाङ्क्त्येय^१ - न्याः शोध १९२.
 पाङ्क्ति-कार्ये- न्यम् हिथ्री १३, ७४, ७५.
 पाङ्क्ति-च्छन्दस^१ - न्यन्दमः आश्री १४, ४, १११; माश्री २, ५, ३, २६९; वैश्री १७, ५ : ३; हिथ्री ९, ७, ५५; -न्दवा वेताश्री १९, १७; -न्यन्दाः आश्री १९, ४, ९; वैश्री ११, ६ : ७; हिथ्री १३, ८, ४२.
 पाङ्क्ति-रूपक- काः शोध १४३; विध ८२, ३०; काथ २७८ : ११.
 पाङ्क्ति-रूपण- -गाः आश्री २, १७, २१; हिथ २, ५, ४९; -णैः वाध ११, २०.
 पाङ्क्ति-पथ्या- -ध्ये उनिम् ७ : ३२.
 पाङ्क्ति-पाद- श्रौ निम् १, ३ : ६; ८; १०; १२.
 पाङ्क्ति-पावन- -नः कौट ३, १२, २९; कप्र ३, ७, १५; वाध ११, २०; गौष १५, २७; बय्य २ : १५; -नम् शोध १९१; -नाः वाध ३, १९; शोध २००^१; आश्री २, १७, २२; शोध २, ८, २; विध ८३, १; हिथ २, ५, ५०; गौष १५, २८.
 पाङ्क्ति-प्रतिप्रबोज (न >) भा^१ - नाः निम् ८, ७ : ३७.
 पाङ्क्ति-प्राजापत्य > व्या - न्याः हिथ्री ५, ४, ८८; -न्याम्याम् हिथ्री २, ७, ५४.
 पाङ्क्ति-महापाङ्क्ति-पङ्क्त्युप (र >)

रा- -नामिः ऋम २, १०, ५९.
 पाङ्क्ति-महासूदती-पङ्क्तय (ङ्कि-प्रतिन^१ - न्यम् ऋम २, ८, ३५.
 पाङ्क्ति-सुधिन्य- -न्यः कप्र ३, ८, १५; -न्यम् गौष २, २, २१.
 पाङ्क्ति-राधर्म- -वमम् श्रौश्री ९, २ : ९; ३ : ८.
 पाङ्क्ति-वन्त उनिम् २ : ३५^१.
 पाङ्क्ति-जंयन्- -न्यम् आश्री ८, ३, ५; ८, ९; माश्री १०, ३, ४४.
 पङ्क्तय (ङ्कि-अ)नुमङ् - हाय १ न्यम् ६, ८ : २.
 पङ्क्तय (ङ्कि-अ)न्यन्^१ - न्यः ऋप्रा १८, ८; -न्यम् ऋम २, ५, ७४४; -न्यस्य ऋम २, ५, १.
 पङ्क्तया (ङ्कि-आ)दि- -न्यः ऋम २, ६, ७५.
 पङ्क्त्यु (ङ्कि-उ)त्प (र >) प्रा^१ - -राः ऋम १, ९, ११; ऋप्रा १६, ६८; मुम ५, ७०.
 पङ्क्त्यु (ङ्कि-उ) द्यन^१ - -नाः आश्री १७, १०, ५.
 पङ्क्त्यु^१ - पाठश्री २, १, ४८; -ङ्गुः आश्री ३, १०, १ : ५; श्रौश्री ३, ५, २; कप्र २, ५, १; विध ४५, १४.
 पङ्क्त्यु- पा ४, १, ६८.
 ✓पञ्च^१ पाठा. ध्या. उभ. पाठे, पञ्चते आश्री १०, १४, ७; भाग ३, १४ : २०^१; कप्र ४८, २; पञ्चति काश्री ४, ८, २; २०, १, ४; आश्री; वा १, १; ७,

२०^१; पा ५, १, ५२; पञ्चते आश्री ८, ११, ११; श्रौश्री; पञ्चति आश्री ७, २८, ८^१; १६, १३, ५; श्रौश्री; पञ्चति वा ७, २३, १^१ पञ्चामि ऋम ६, १२३; १२, ३; भाः ३ : १३; पञ्चम् श्रौश्री ४, ३ : २३; पञ्चस्य श्रौश्री ३, २, १, ५^१; १^१ पञ्च आश्री ४, १८, ५, ५, १२, १०; श्रौश्री; १^१ पञ्चस्य वा ३५, १, २, ३६, ९, ३, १^१ पञ्च, > वा ऋम ९, ५, १५ वा ७, ३३; अथवाश्रीः श्रौश्री १५, ८ : ७^१; १^१ पञ्चः आश्री २०, ६, ५; हिथ्री १४, २, ६; पञ्चेन श्रौश्री १७, १९ : २८४२; माश्री; पञ्चेन वाश्रुथी ३, ८४ : ९; भाग ४, ४, १४; पञ्चेयुः काश्री ४, ११, ९.
 पञ्चे श्रौश्री २४, १३ : ९^१; पञ्चाश्रुथी ४, १२८; पञ्चिन् पावा ६, ४, १२०^१; पञ्चवन्ति पावा १, ४, २१.
 पञ्चते श्रौश्री १२, १५ : १४; वाश्रुथी ४, १२ : १२; कप्र ५३, १, ३; आश्री २, ७, २; हिथ २, ३, २३; पञ्चते श्रौश्री २, ४ : ९; १०, ७ : ४; श्रौश्री १३, ५ : ७; कप्र ९, ४, २; शोध ३७४; विध ४३, २३; पा ५, १, ९०; १^१ पञ्चस्य काश्री १५, ९, १४; श्रौश्री १७, १२ : ५^१; ६; माश्री ५, २, ५, ५; हिथ्री १३, ८, ७^१; अथवाश्री ४, १७; पञ्चस्य

a) विप. । दम् > पयः प्र. उस्तं. (पा ४, ४, १०४) । b) विप. । वस. । c) पङ्क्तिपञ्च इति पाठः । यनि. सोषः (द. वैश्री १७, ५ : ४) । d) विप. (महाभाष्य-). वस. उप. कर्षः । e) विप. । इत्स. > वस. । f) वैप ११. । g) वा. किवि. । वैप २, १ सं. द. (द. वेताश्री ३२, १४ पदात्म्याः) । h) = विपुल-विशेष- । वस. । i) = शोध- । मु. । < ✓पञ्च इति क्त्वा. < ✓पा। कर्षः । इति पाठयो. । j) वा ६, १६ पावा १, ४, २३; १, ८, ७, ७, २, १०; १३ पराम्भः द. । k) उन्मत्तं कम्पु । द. कैवटः ।

गोय १,४, २३.
पाचयति बौश्रौ २, १२ : २८;
६, १ : २४; १२, १५ : २३; १५,
२ : २०; पाचयन्ति या २, २२;
पाचयति बौश्रौ २४, २१ : ७;
पाचयेत् वैगृ ५, १३ : ८; आपध
२, ८, ४; हिध २, १, १०५.

पक्त्वे कौगृ ५, ५, ५१.

पक्त्त्य- -व्यः या ३, १२.

पक्ति- पा ३, ३, १५; १६; -क्तिः
या १, १; -क्तीः शुभ्रा २, ६४१.

पक्ति-वैषम्य- -म्यात् आपश्रौ
२४, ४, १७; बौश्रौ २८, ५ : ७;
मीसू ११, ४, ३८.

पक्त्र- पाउ ४, १६७.

पक्त्वा कःश्रौ ४, ८, १०; १४, १,
१७; १५, १, २८; आपश्रौ.

पक्क- पा ८, २, ५२; -कः शाश्रौ
१२, १७, ११; बौश्रौ १२, १६ :
४; हिश्रौ २, ३, ३९; अश्र २,
५१; -कम् षशाश्रौ १२, १६, १;
१५, १९, १७; १८, ११, ३;

काश्रौ; या ३, ८; ५, ३××;
-कया वैगृ ४, ३ : १८;

-कस्य गौध ७, २१; -का
आपश्रौ १४, ३३, १०; हिश्रौ
१५, ८, ४३; लाश्रौ ८, ३, ४;

-काः बौश्रौ २, १० : ३४१;
-कात् आपगृ २, २, १ : ३××;

-कान् काश्रौ २२, ३, ४१; २६,
१, २७; माय २, १४, २८;
-कानि वैगृ ४, ८ : ११; -काम्
आपश्रौ १६, ५, ११; माश्रौ ६, १,
२, १९; वाश्रौ; -कायाम् काश्रौ

१५, १०, २; १६, ७, १०; -कासु
बौश्रौ १०, ७ : ५; वैताश्रौ ८,
४; -के शाश्रौ १२, १५, १;
-केन वैगृ ४, २ : २; ३ : १७;
६, १७ : ५××; -केषु आपश्रौ
६, ३१, ९; १५, ४, ६; बौश्रौ.

पक-कषाय- -यः विध २६, १.
पक-फल- -लम् आपगृ २, ४,
९ : ३.
पक-होम- -मः बौगृ १, ७,
११××; -मात् बौगृ १, ५, १५;
-मे बौगृ १, ५, १६.

पका(क-अ)मि- -नौ जैगृ
२, ९ : २५^१.
१पका(क-अ)न्न- -न्नम् काश्रौ
२०, २, १५; -न्नस्य बौपि ३,
४, २३; -न्नानाम् विध ५, ८४.
२पका(क-अ)न्न- -न्नाः शाश्रौ
८, २१, ११.

पका(क-अ)शन- -नम् बौश्रौ
१५, ७ : २१; ८ : १; वाधूश्रौ
३, ७५ : ५.
पके(क-इ)ष्टर्क[का]-चित-
-तानि विध २३, ४१; -ते विध
२३, ४५.

पच>पच-प्रकृ(ट>)टा- पच-लव
(ए>)णा- पाग २, १, ७२.
पच- पा, पाग ३, १, १३४.
पच- पा ३, २, ३३.
पचत्- -चन् कौसू ६१, ३२१; अश्र
१२, ३१; पावा ६, १, ६७;
-चन्तम् कौसू ८६, ४१.

पचत>पच-भृज(त>)ता- पाग
२, १, ७२.

पचत,ता^१- पाउ ३, ११०; -ः
आश्रौ ६, ५, २५; या ६, १६;
-ता निघ ४, ३; या ६,
१६^१; -ःतैः आपश्रौ २०,
११, १६; १७, ४; बौश्रौ १५,
२८ : १६; हिश्रौ १४, ३, ५५.
पचत-वाहस^१- -हसः शाश्रौ ८,
२१, ११.

पचन^१- -नम् बौश्रौ २, ३ : २५;
१०, ६ : ३; २२, २ : ९; माश्रौ
४, १, २१; ६, १, २, १७; शंघ
१७६; बौगृ ३, १०, ३; -नानि
अप ७०^१, ११, २१६; -ने बौश्रौ
२२, २ : १७; बौगृ २, ८, २^१;
वैगृ ३, ७ : १; आपध २, ३,
१६; हिध २, १, ४७; -नेन
बौश्रौ ९, ३ : ३०××; माश्रौ;
-नेः वैश्रौ १३, ५ : ४.

पचन-भाण्ड- -ण्डानाम् शंघ
३३५.
पचना(न-आ)लय- -ये वैध ३,
४, १०.

पचमान- -नाः बौश्रौ १५, ३ : ४;
१८, १८ : ९.
पचमान-क^१- -काः बौध ३, ३,
२; ३.

पचि- पाउ ४, ११८.
पचिलिम- पाउ ४, ३७.
पच्यमान, ना- -ना अश्र १२, ५^१;
-नान् आपश्रौ १५, ४, ४; माश्रौ
११, ४, ३; -नानाम् वैश्रौ १८,
१६ : ७५; आपश्रु ९, १७;
हिश्रु ३, ३६; -नानि वैश्रौ १३,
५ : ९; हिश्रौ २४, १, २१;

पचि- पाउ ४, ११८.
पचिलिम- पाउ ४, ३७.
पच्यमान, ना- -ना अश्र १२, ५^१;
-नान् आपश्रौ १५, ४, ४; माश्रौ
११, ४, ३; -नानाम् वैश्रौ १८,
१६ : ७५; आपश्रु ९, १७;
हिश्रु ३, ३६; -नानि वैश्रौ १३,
५ : ९; हिश्रौ २४, १, २१;

पचि- पाउ ४, ११८.
पचिलिम- पाउ ४, ३७.
पच्यमान, ना- -ना अश्र १२, ५^१;
-नान् आपश्रौ १५, ४, ४; माश्रौ
११, ४, ३; -नानाम् वैश्रौ १८,
१६ : ७५; आपश्रु ९, १७;
हिश्रु ३, ३६; -नानि वैश्रौ १३,
५ : ९; हिश्रौ २४, १, २१;

पचि- पाउ ४, ११८.
पचिलिम- पाउ ४, ३७.
पच्यमान, ना- -ना अश्र १२, ५^१;
-नान् आपश्रौ १५, ४, ४; माश्रौ
११, ४, ३; -नानाम् वैश्रौ १८,
१६ : ७५; आपश्रु ९, १७;
हिश्रु ३, ३६; -नानि वैश्रौ १३,
५ : ९; हिश्रौ २४, १, २१;

पचि- पाउ ४, ११८.
पचिलिम- पाउ ४, ३७.
पच्यमान, ना- -ना अश्र १२, ५^१;
-नान् आपश्रौ १५, ४, ४; माश्रौ
११, ४, ३; -नानाम् वैश्रौ १८,
१६ : ७५; आपश्रु ९, १७;
हिश्रु ३, ३६; -नानि वैश्रौ १३,
५ : ९; हिश्रौ २४, १, २१;

पचि- पाउ ४, ११८.
पचिलिम- पाउ ४, ३७.
पच्यमान, ना- -ना अश्र १२, ५^१;
-नान् आपश्रौ १५, ४, ४; माश्रौ
११, ४, ३; -नानाम् वैश्रौ १८,
१६ : ७५; आपश्रु ९, १७;
हिश्रु ३, ३६; -नानि वैश्रौ १३,
५ : ९; हिश्रौ २४, १, २१;

पचि- पाउ ४, ११८.
पचिलिम- पाउ ४, ३७.
पच्यमान, ना- -ना अश्र १२, ५^१;
-नान् आपश्रौ १५, ४, ४; माश्रौ
११, ४, ३; -नानाम् वैश्रौ १८,
१६ : ७५; आपश्रु ९, १७;
हिश्रु ३, ३६; -नानि वैश्रौ १३,
५ : ९; हिश्रौ २४, १, २१;

पचि- पाउ ४, ११८.
पचिलिम- पाउ ४, ३७.
पच्यमान, ना- -ना अश्र १२, ५^१;
-नान् आपश्रौ १५, ४, ४; माश्रौ
११, ४, ३; -नानाम् वैश्रौ १८,
१६ : ७५; आपश्रु ९, १७;
हिश्रु ३, ३६; -नानि वैश्रौ १३,
५ : ९; हिश्रौ २४, १, २१;

पचि- पाउ ४, ११८.
पचिलिम- पाउ ४, ३७.
पच्यमान, ना- -ना अश्र १२, ५^१;
-नान् आपश्रौ १५, ४, ४; माश्रौ
११, ४, ३; -नानाम् वैश्रौ १८,
१६ : ७५; आपश्रु ९, १७;
हिश्रु ३, ३६; -नानि वैश्रौ १३,
५ : ९; हिश्रौ २४, १, २१;

पचि- पाउ ४, ११८.
पचिलिम- पाउ ४, ३७.
पच्यमान, ना- -ना अश्र १२, ५^१;
-नान् आपश्रौ १५, ४, ४; माश्रौ
११, ४, ३; -नानाम् वैश्रौ १८,
१६ : ७५; आपश्रु ९, १७;
हिश्रु ३, ३६; -नानि वैश्रौ १३,
५ : ९; हिश्रौ २४, १, २१;

पचि- पाउ ४, ११८.
पचिलिम- पाउ ४, ३७.
पच्यमान, ना- -ना अश्र १२, ५^१;
-नान् आपश्रौ १५, ४, ४; माश्रौ
११, ४, ३; -नानाम् वैश्रौ १८,
१६ : ७५; आपश्रु ९, १७;
हिश्रु ३, ३६; -नानि वैश्रौ १३,
५ : ९; हिश्रौ २४, १, २१;

a) भाप. । b) पाभे. वैप २, ३३. स्वाहुम् ऐमा ७, १५ टि. द्र. । c) विप. । बस. उप.

=कोषादि- [तु. हैमकोषः] । d) ष्मेः इति पाठः? यनि. श्लोघः । (तु. C.) । e) विप. । बस. । f) प्रथमस्थलीयः
पाठः । g) विप. । कस. > तुस. पूष. [पक्षे] हस्वाभावः उलं. (पा ६, ३, ६५) । h) वैप १ द्र. । i) पच्ये
इति पाठः? यनि. श्लोघः (तु. उत्तरं स्थलम्) । j) स्वार्थे कः प्र. ।

-नाम् आपथ्री १६, ५, १०;
 वाथ्री २, १, १, ४४; हिथ्री ११,
 १, ६३; वेताथ्री २८, १३.
 १पाक^१- पाप ५, १, १२३; -कः अप
 ७०^३, ९, ५; बाध ११, १२;
 पावा १, ४, २३^३; मौसू १०, ३,
 ३६; -कम् अप ३६, १४, १;
 -कस्य मौसू १०, ३, ३७; -कात्
 वीथ्री २९, १२ : ७; विध ६७,
 १; -के काथ्री १६, ४, ३६;
 वैयू ३, १९ : २; विध ५९, ७;
 पा ५, ४, ६५, ६, १, २७; मौसू
 ७, २, २०.
 पाक-कम्-मूल-फल- स्नानि
 वीथ्री २८, १३ : २.
 पाक-कर्ण-पर्ण-पुष्प-फल-मूल-
 बालो(ल-उ)तरपद- -दाद पा
 ४, १, ६४.
 पाक-ता-, पाक-न्व- पा ५, १,
 १०२.
 पाक-मूल- -ले पा ५, २, २४.
 पाक-यज्ञ^१- पावाग ४, २, ३५;
 -ज्ञः लाथ्री ५, ४, २३; काय
 १३, १, २; भायू १, ३; गोयू १,
 ९, १६; द्रायू १, १, २०; -ज्ञस्य
 काथ्री ६, १०, २८; -ज्ञः द्राथ्री
 १२, १, ३; लाथ्री; -ज्ञान् कायू
 १, ३, १०; कायू; -ज्ञानाम् कायू
 १, १०, २६; मौयू ४, ५, १; ९,
 १४; बायू १, ३६; गोयू १, ९, ९;
 -ले द्राथ्री १२, १, ८; लाथ्री ४,
 ९, ५; -ज्ञेन आपथ्री १, १५, ५;

वेथ्री २०, ३२ : ९; पायू ३, १२,
 ३; आपथ १, २६, ८; विध १,
 ७, १९; -ज्ञेषु काथ्री ६, १०,
 २६; भायू १, ३, ५; कैयू १,
 ११, २; भायू ३, १२ : १, गोयू
 १, ९, ८; -ज्ञैः वैयू १, १ : १४;
 वैध १, ५, ३; गोध १, ६४.
 पाकयज्ञ-यज्ञ- -यज्ञ भायू
 २, ५, ६.
 पाकयज्ञ-यात्रिन्- -यात्री
 वैध १, ४, १.
 पाकयज्ञ-वज् मौयू ९, २, ४.
 पाकयज्ञ-विधान- -जेन अप
 ३१, ६, ३; ३३, ४, ३; ६५, ३, ४,
 अथा २५, २१.
 पाकयज्ञ-विधि- -विधिः भायू
 १, ४.
 पाकयज्ञ-शब्द- -शब्दः भायू
 २, ९.
 पाकयज्ञ-संस्थ^१- -स्थान
 वैयू ६, १८ : ११.
 पाकयज्ञ-संस्था^१- -स्थाः
 वीथ्री २४, ४ : १; ३, ५; वीयू १,
 १, १; २, ११, ७१; गोध ८, १६;
 -स्थानाम् वैयू ६, १९ : १.
 १पाकयज्ञिक^१- > षक-
 धर्म- -धर्मैः आपथ्रियू २, ४,
 ४ : ११^१; वीध ३, ७, ११.
 पाकयज्ञिक-संस्था^१-
 -स्थानि वीध १, ३, १२.
 २पाकयज्ञिक^१- पावा ४,
 २, ३५; -काः कप १, २, १^१.

पाकयज्ञे (अ-३) विकर्म-
 विदु- -विदुः अप २३, ११, ५.
 पाकयज्ञोः (अ-३) पञ्चारा-
 (१-यात्रिं)- -प्रियू भायू २, ४, १.
 पाक-वैवस्व- -वैवस्व काथ्री ८,
 ८, ३५.
 पाक-संयुक्त- -कम् मौयू १०,
 १, ४२.
 पाक-संस्था^१- -स्थाः भायू १,
 १, १५.
 पाक(क-अ)प- -श्ले कप २,
 ९, ३.
 १पाका(क-अ)धे- -भोजनान-अ)
 धे- -धेः अप २, ५, १४६.
 पाकाधे भोजनार्थे-वाग्नी-वरसु-
 दान-कात्- -मानाम् आपथ २,
 २३, १५.
 पाकिमन्- पा ५, १, १०२.
 पाकुठ- पा २, ३०.
 पाप- > पाप(अ-३-अ)भाष-
 वे काथ्री ४, ११, १०.
 पापक- -कः वैध ३, १४, ३.
 पापन- -कम् अप ६, ७, ४, १.
 पाप्य- -कम् कप २, ५, १३.
 पञ्च- प्र. ✓पञ्च ६.
 पञ्च- (> पञ्चक-पा.) पाग ४,
 ४, १०.
 पञ्चयज्ञान- ✓पञ्च ६.
 १पञ्च^१- -आव कपा ४, १११.
 पाञ्च- -कपा माध १, २८, ८.
 पञ्च-दोष^१- > १पञ्चदोषि-
 -विना वा ५, २१४^१.

a) वैप १ द. । b) वस. उप. भावे कः प्र. । c) वस. उप. भावे अक् प्र. । d) एषां उक् प्र.
 उंसं. (पा ५, ४, ३४) । e) षिच इति पाठः । ननि. शोचः (द्र. वीध.) । f) विप. (भूतिकर्मन्.) । वस. उप. भाव. ।
 g) विप. । मने व्याख्यानं तस्येदमर्थं वा ठक् प्र. (द्र. पा ४, ३, ६८) । h) षिचाः इति वीधे. । i) वस. >
 कस. । j) = सम्यक्-विशेष- । वस. । k) ननि. स्वामि सपा. विध. 'नाथे' वासवीपरासु वास-काञ्चनकादीन्ती
 पाथे. । लक्ष्मी- = [सप्तमोऽङ्ग-मात्र- । वासी- = [सप्तमोऽङ्ग-] (द्र. वैप ३ वासी- । काक- = मुद्गर- । l) = १-२
 पाञ्च- (वैप १ द.) ।

२५३- -ञम् लाश्रौ ७, ३, ३.
 पञ्च-तौरश्रवस- -सयोः लाश्रौ ७,
 ३, ४.
 √पञ्च पाधा. भ्वा. आत्म. व्यक्ती-
 करणो; चुरा. पर. विस्तारवचने.
 १५३- पाठभो २, १, २७५; पाग
 ४, १, १००; -ञ आश्रौ १, ५, २;
 २, १२, ५१; ३, ८, १५; शाश्रौ;
 या ४, २३१; २७; -ञञञ
 शाश्रौ ८, ८, ११; १३, २८, ८;
 काश्रौ १७, ६, २; ८, २, २; आश्रौ;
 -ञभिः आश्रौ ३, १, ११; शाश्रौ
 ७, २७, २५; १३, १०, ४; काश्रौ
 २५, १, १०; आश्रौ; -ञभिः
 ऽञभिः आश्रौ ९, ११,
 २३; १४, २३, १४; माश्रौ
 ३, ७, २; छसू १, ७; ११;
 आश्रौ; -ञभ्यः आश्रौ २२,
 १७, ७; द्विश्रौ १७, ६, ४२;
 जैश्रौका १६८; बौश्र २, ९, ८;
 भाश्रु; -ञसु आश्रौ १०, ९, २;
 शाश्रौ २, २३, १३; १४, ४, २;
 १६, ६, ११; काश्रौ; -ञानाम्
 आश्रौ ४, १५, २; ६, १०,
 १९; १२, १३, ५; शाश्रौ.
 पञ्च-क^१- पाग २, ४, ३१; -कः
 ऋञ १, ५, ७; २, ४, १०; शुञ
 ५, ३०; अञ १५, ७; १८; अर्प
 ५; १४; १८; २२; -कम् कम्
 ३, ६, १; बाध २, ४८; विध ४, ७;
 ६, २; ऋञ ३, १६; १९; अञ;
 -काः अञ ४७, १, ८; ऋञ १,
 ४, ३; ६, २; शुञ ५, १५; २३;
 ऋञ १६, १८; ४३; पि ३, ४४;

वेज्यो १४; -कानाम् ऋञ ३,
 ४१; -के कम् ३, ६, ३; ऋञ
 ३, ३२; पि ३, ५५; -केन काश्रु
 ६७, २; ६८, २; ६९, २; -कैः
 उनिसू १ : ५०; -कौ ऋञ २,
 ४, १०.
 पञ्चका(क-अ) वलित- -सैः अञ
 ६५, २, २.
 पञ्च-कपाल- पावाग ५, १, १२४;
 -लः शाश्रौ २, ५, ८; काश्रौ ४,
 ११, ९; १०, ९, १८; आपश्रौ; या
 ७, २४; -लम् आपश्रौ ५, २८,
 १; १३, २५, ५; बौश्रौ २०,
 १९ : १०; भाश्रौ; -लस्य बौश्रौ
 ३, ३ : १६; -ले शाश्रौ ८, १३, ५.
 पञ्च-कर्ण- -र्णानाम् काश्रु ४, ९.
 पञ्च-कला^२- -ला ऋत २, ४, ३.
 पञ्च-कल्प- पा, पाग ४, २, ६०.
 पञ्च-कुल- -लैः गौपि १, ५, २९.
 पञ्च-कृत्वस्(ः) पाग १, ४, ५७०;
 शाश्रौ १६, १८, १; काश्रौ ७, ८,
 १; ८, १, २५; आश्रौ.
 पञ्च-कृष्णल- -लम् अञ ३३, ३,
 २; गौध १२, १५.
 पञ्चकृष्णलो (ल-ऊ)- -ले विध
 ९, ९.
 पञ्च-कोण^३- -णम् आश्रु २, ५, १;
 १९; जैश्रु २, ९ : १३; अञ २५,
 १, ३; ७.
 पञ्च-कर्म^४- -मः उसू २, ३०.
 पञ्च-नाभ्य- -भ्यम् आश्रु २, ७, ७;
 ५; अञ १३, २, ५; ३८, ३, ३;
 ३९, १, ११; विध २२, १८; २३,
 ४५; ५१, ४७; ५४, ६; ७; काञ

२७७ : ३; -व्येन आश्रु २,
 ५, ९ : ४; ३, १०, २ : ११;
 बौपि २, ८, ७; अञ १९, ४, २;
 वाध २७, १४; बौध ४, ५, १४;
 विध २२, ७९; -व्यैः वैश्रु ७, ३;
 २; ४; १४; ६ : ९; जैश्रु २,
 ६ : ४.
 पञ्चगव्य-श्रुत-दधि-क्षीरा(र-अ)-
 क्षतोदक-कुतोदक-रत्तोदक-
 -कैः वैश्रु ४, १० : १४.
 पञ्चगव्य-प्राशन- -न्सु सुञ
 ३६.
 पञ्चगव्या(व्य-आ)हार^५- -रः
 शंघ ३९३.
 पञ्च-गुण, णा- -णः शंघ ३२४;
 -णम् वेज्यो २८; -ण्य या
 १४, ४.
 पञ्च-गुहाक-कारित- -तम् अञ ७,
 १, १२.
 पञ्च-गृहीत- -तम् काश्रौ ५, ४, २;
 १२; अञ १०; -तानि बौश्रौ
 ५, १२ : ७; ६, १८ : १२; २१,
 ४ : १९; १३ : १२; १३; -सै
 काश्रौ १८, ३, ३; भाश्रौ ५, २, ४;
 ६, २, ४, १७; वाश्रौ २, २, ३,
 २१; -तेन आपश्रौ १४, ३३, ८;
 काश्रौ १७, ३, २; बौश्रौ.
 पञ्चगृहीता(त-आ)दि- -दि
 काश्रौ १७, ७, ७.
 पञ्च-गुह-गुण^६- -णाः अञ ६४,
 ३, ६.
 पञ्च-सत्त्वादिशब्- -शब्द विध ९६,
 ६९; आश्रु १७, ५; -सावऽसाव
 द्विश्रु ५, ४५.

a) = साम-विक्षेप-। म्यु. १। b) वैप १ द.। c) द्व. पागम.। d) रत्रार्थे तदस्य-
 परिभाषे वा कम् प्र.। e) विप.। वस.। f) = अथर्ववेदिन्-। पान्चकल्पिक- > प्र. लुकि
 बनि. (द्व. पाम. पागम. B. कौस. भू. LVIII)। g) = कर्म-विक्षेप-। वस.। h) विप. (सत्य-)।
 कस > वस.।
 वैप-अ-२

पञ्चचत्वारिंशद्-अङ्गुला(ल-आ)
 यत्-तम् वैश्रौ १,३:९.
 पञ्च-चितिक- -कः शुभ २, ३;
 -कम्^१ वाश्रौ २, १, ४, १७.
 पञ्च-चितिक- -कम्^१ आपश्रौ १६,
 १५, ३; बौश्रौ २२, ४: ७; ९;
 वैश्रौ १८, १२: २२; हिश्रौ
 ११, ५, ३९.
 पञ्च-चू(ड>)डा- -डाः काश्रौ
 १७, १२, २०; माश्रौ ६, २, २, ५;
 वाश्रौ २, २, १, २४^०; काण्ड ४०,
 ५; काण्ड ४४: २०; वाण्ड ४,
 १८; -डानाम् आपण्ड ९, १६^१.
 पञ्चचूडा(ड-अ)ङ्गिरस्- -रसाम्
 चाश्र १७: ७.
 पञ्च-चो(ड>)डा- -डाः आपश्रौ
 १७, ३, ७^०; बौश्रौ १०, ४५:
 १२^०; वैश्रौ १९, ४: १५^०;
 हिश्रौ १२, १, ३३^०; आमिण्ड २,
 ५, ३: ४६^१; बौण्ड ३, ७, २८;
 -डानाम्^१ वैश्रौ १८, १६: ७४;
 बौण्ड ७: ४; हिण्ड ३, ३५;
 -डाभिः बौण्ड ५: २१.
 षञ्च-ञन- -पाग ४, ४, ९९; -नाः
 अप ४८, ७८^१; निघ २, ३^१;
 या ३, ७; ८; शौच ४, १०६;
 -नात् पावा ५, १, ९; -नान्^१
 आपश्रौ ९, १०, १६; माश्रौ ३,
 १३, १; हिश्रौ २, ६, ३४; ७,
 १, ६०; -नानाम् आपश्रौ २,
 ७, ९; बौश्रौ ३, १६: १२; २४,
 २७: ११.
 पाञ्चजनीन- पा ४, ४, ९९.
 १पाञ्चजन्य, न्या- -पाग ४,

२, ८०; -न्यः आपश्रौ ५,
 १७, २; हिश्रौ ३, ४, ४७;
 -न्यम् आपश्रौ ९, ५, १६;
 अप्राय ६, ९; पावा ४, ३, ५८^१;
 -न्यया आपश्रौ ७, १२, ९; शाश्रौ
 १०, ६, ८^१; या ३, ८^१;
 -न्यानि अप ३२, १, २१; -न्ये
 जैश्रौ १४^१.
 पञ्चजनीन, ना- -पावा ५, १, ९;
 -नया या ३, ८.
 पञ्चजनी(ग>)या- -या शाश्रौ
 १०, २, ८; १८, २२, ९; -यायाः
 शाश्रौ १४, ५६, १४.
 पञ्चत्- पा ५, १, ६०.
 पञ्च-तपस्- -पाः शंघ १५९:
 १०; विघ ९५, २.
 पञ्च-तय- -यः बौश्रौ १७, ४४:
 १७; -यम् बौश्रौ १५, २८:
 २६; -यानि बौश्रौ ५, १८: २;
 -येन बौश्रौ २४, १: १.
 पञ्च-तस् (-) बौश्रौ १५, २३: १५;
 १६.
 पञ्च-तारक- -काः अप ५२, ६, ५.
 पञ्च-त्रिंशत्- -शत् अश्र १०, ८.
 पञ्चत्रिंश- -शम् वेज्यो ३०.
 पञ्चत्रिंशद्-रात्र- -त्रः आश्रौ
 ११, ४, ६; -त्रम् आपश्रौ २३,
 ६, १; -त्रेण हिश्रौ १८, २, १२.
 पञ्च-त्वा- -त्वम् कप्र १, ६, १४; २,
 ७, ५; ३, ३, ७.
 पञ्च-दक्षि(णा>)ण- -णम्
 अप्राय ६, ४.
 पञ्च-दशन्- -श आश्रौ १, २, २२;
 ४, १५, २; ६, ४, १०; ७, ५, ११;

शाश्रौ २, ५, ९; ३, ७, २××;
 काश्रौ; या २, १०: १५; ३, १; १९;
 -शभिः शाश्रौ १५, २२, १;
 आपश्रौ; -शभ्यः काश्रौ ९, २,
 २२; -शसु आपश्रौ ११, ४,
 १३; आपण्ड ५, १; हिण्ड २, ७;
 -शसुऽ-शसु काश्रौ ८, ३, ९;
 वैश्रौ १४, ४: २; -शानाम्
 लाश्रौ १०, १०, ११.
 पाञ्चदश- -श्यम् शाश्रौ
 २, ३, १६; ३, ११, ६; -श्येन
 हिश्रौ २१, २, ३; ४.
 पञ्चदश- -शः आश्रौ ४, १२,
 १; शाश्रौ; -शम् शाश्रौ १०,
 १२, ६; १६, २३, ५××; आपश्रौ;
 -शस्य शाश्रौ १६, २४, ६;
 बौश्रौ १६, ३४: ७; १८, ४०:
 ११; निम् ८, ३: १८; -शाः
 आश्रौ १२, ५, १६; काश्रौ;
 -शान् वेज्यो १६; -शान् निम्
 ६, १०: ६; १०, ४: ११;
 -शानाम् आश्रौ ११, ५, ३;
 निम् १०, २: २५; -शानि
 शाश्रौ ९, २१, ३; १४, १२, ७;
 आपश्रौ; -शाय शाश्रौ ९, २७,
 १^१; -शे शाश्रौ १०, १२, १४;
 आपश्रौ; -शेन आश्रौ ४, १२,
 २; १२, ३, ३; ४, २३; काश्रौ;
 -शौ शाश्रौ १४, २५, २, आपश्रौ.
 पाञ्चदशी- -पाग ४, ३,
 १६; -शी बौश्रौ २४, २१: ५;
 बौघ; -शीम् आपश्रौ ४, १,
 ८; बौश्रौ २०, १: ३१; माश्रौ
 ४, १, ११; बाधूश्रौ ४, ९६: ३०; ३१;

a) वैप १ द्र.। b) परस्परं पाभे। c) सपा. चूडा: <> चोडा: इति पाभे। d) परस्परं
 पाभे। e) पाभे. वैप १, १८८१ n द्र.। f) तु. पाका. पासि.। g) =अभि-विशेष-। h) तस्येवमीयर् ष>
 पाभे. वसं. (पा ४, २, १३८)। i) विप.। वस.। j) =मरु-। k) उप. = २दक्षिणा-। l) भावे ष्यन्
 पाभे. वसं. (पा १, १०३३ इ द्र.। m) विप. (तिथि-, ऋच्-प्रयु.)।

वाश्रौ १, १, २, ३; हिश्रौ १, २, ५; -शीषु विध ४२, ७; -श्याः वृदे ५, १३३; -श्याम् आपश्रौ ८, २२, १; आप्रिण्.

पाञ्चदश-पा ४, ३, १६.

पाञ्चदश्या (शी-आ) दि-द्वा (<दि-)- द्वे ऋञ् २, ३, ५३.

पाञ्चदश-त्रिवृत्^१- -वृत् लाश्रौ ८, ११, १०; -वृत्तौ शाश्रौ १३, २१, ३; -वृद्भ्याम् निस् १०, ६; १०^२.

पाञ्चदश-पर्याय- -यैः लाश्रौ ६, ६, १५; -यौ लाश्रौ ६, ७, १६; ८, १४.

पाञ्चदश-प्रभृति- -तयः शाश्रौ १६, २१, ४; -तीन् निस् ७, ५; ३.

पाञ्चदश-भाग- -गः काशु ५, ८.

पाञ्चदशभागीय, या- -यः वैश्रौ १८, १६; ७३; -याः आपशु ९, १४; हिशु ३, ३३; -यानाम् आपशु २०, १६; हिशु ६, ५७; -यामिः आपशु १०, ४; ७; हिशु ३, ४३; ४६.

पाञ्चदश-वर्षनि^१- -निः बौश्रौ १०, ३६; १७; १४, २२; १७.

पाञ्चदशषट्क- -कात् निस् ४, ११; ६.

पाञ्चदश-सप्तदश- -शान् निस् ४, १३; ९; -शानि बौश्रौ १८, ३९; ६; -शौ बौश्रौ २५, ५; १२.

पाञ्चदश-सम्पद्- -म्पत् निस् १०, ६; २५; २८; ७; २८.

पाञ्चदश-स्तोत्र- -त्रम् वैश्रौ १५, ३६; ११; -त्रे निस् ३, ४; २७.

पाञ्चदश-स्तोत्र^१- -त्रात् निस् ४, १०; १.

पाञ्चदश-स्तोम- -मः या ७, १०; -मम् शाश्रौ १०, ३, १; लाश्रौ ८, १२, १०; -मस्य शाश्रौ १४, २३, २१; -माः छुस् ३, २; २२; -मेन वैश्रौ १७, ११; १२.

पाञ्चदश-स्तोम^१- -मानि लाश्रौ ९, ११, ६.

पाञ्चदशा (श-आ)घ (दि-अ) र्थ- -र्थः पादा ५, १, ५८.

पाञ्चदशै (श-ए) कर्विश- -शौ बौश्रौ १८, ३१; ८; वैताश्रौ ३५, १७.

पाञ्चदश-क^१- -कम् अश्र १९, २७^२; -के अश्र ५, १८; अपं २; ४९; -केन आपशु ५, १२.

पाञ्चदश-कपाल- -लम् बौश्रौ २८, ४; १६.

पाञ्चदश-कुत्वस् (ः) लाश्रौ १०, १२, ९; अप ४१, २, ७; ११.

पाञ्चदश-छदि^१- -दि हिश्रौ ९, ७, ४.

पाञ्चदश-छदिस^१- -दिः वैश्रौ १७, १; २.

पाञ्चदश-दभि^१- -भिः वैश्र १, ८; ६.

पाञ्चदश-पर्यन्त^१- -न्तः काश्रौ ६, १, २९.

पाञ्चदश-भेद^१- -दाः चव्यू २:

३५.

पाञ्चदश-मात्र- -त्रः नाशि २, ७, १; -त्राः गौघ १, ५५.

पाञ्चदश-मात्र- -त्रः बौश्रौ १६, ३३; ४; ७; -त्रम् आपश्रौ २३, १, ४; अप १, ३३, ६; -त्रस्य निस् ९, १०; ३७; मीस् ८, २, २९; -त्राः आपश्रौ २३, ३, १; हिश्रौ १८, १, १७; -त्राणि

आश्रौ ११, २, ९; काश्रौ २४, १, २५; -त्रे दाश्रौ १, ४, २६; लाश्रौ १, ४, २०××; -त्रेण वाघ ४, २८.

पाञ्चदश (श-ञ्)र्च^१- -र्चः शुअ ३, २१७; २३३; -र्चम् अश्र ५, २९; -र्चे शाश्रौ १८, १३, ५; -र्चेभ्यः अप ४६, १०, १२^१.

पाञ्चदश-वर्ष-> प्वाषिर्क^१-

-काणि आपश्रौ ८, २२, १२.

पाञ्चदश-वि(धा>)ध^१- -धम् निस् २, १३; २०.

पाञ्चदशविध-ता- -ताम् निस् २, १३; १९.

पाञ्चदश-सामिधेनीक, का^१-

-कम् बौश्रौ २६, ४; १; -का शाश्रौ ५, ३, ३; ५, ३; बौश्रौ २०, १८; १०; २२; १४; २३, १; २.

पाञ्चदश-सामिधेनी-दाह^१-

-रूणि भाश्रौ १, ५, ४.

पाञ्चदशा (श-अ) क्षर- -रम् वाधूश्रौ ४, १००; ८; १९;

-रात् ऋप्रा १६, ६; -रेण शाश्रौ १०, ८, ११^२.

पाञ्चदशाक्षर-ता- -तायाः निस् १, १; १३.

a) पुं. न. च द्वस.। b) वैप १ द्र.। c) विप.। वस.। d) विप.। कन् प्र. (पा ५, १, ५८)। e) विप., नाप.। f) विप. (चातुर्मास्य-विशेष-). तात्रभविके ठकि प्र. उप. वृद्धिः (पा ७, ३, १६)।

पञ्चदशाक्षर-प्रभृति- -तीनि
 निसू १,६ : १२.
 पञ्चदशा(श-अ)ष्टम- -मौ वैज्यो
 ११.
 पञ्चदशा(श-अ)ह- -हम् विध
 २२, ३; -हेन काथ २७३ : ४.
 पञ्चदशिक, का^२ - -केन आपशु
 ६, ७; १०; ११; १२; ७, १; हिशु
 २, ७^०; ३५; ४०; ४५; ४७.
 पञ्चदशिका-षट्त्रिंशिका^१-
 -कयोः बौशु १ : ३७.
 पञ्चदशिका (का-अ)ष्टिका-
 -कयोः आपशु ५, ५; बौशु १ :
 ३६; हिशु २, १४^१.
 पञ्चदशिन^१ - -शिनः आपशौ
 २०, १४, ६; २३, ९, १३.
 पञ्च-दारु-कृत- -ते विध ७०, ७.
 पञ्च-दिशु- -दिशः शुश्र २, २९^१.
 पञ्चदिश्य- -श्यानि शुश्र १,
 ४०६.
 पञ्च-धा आपशौ ५, १८, २; बौशौ;
 पाग १, ४, ५७^६.
 पञ्च-घातु^१ - -तु आपशौ १, ४, १०;
 २, ९, २; भाशौ; वैशौ ५, ६; ५^१.
 पञ्च-धारा^१ - -राम् कप्र १, १, ११.
 पञ्च-नख^१ - -खाः बौध १, ५, १३१;
 गौध १७, २५; -खानाम् वाध
 १४, ३९; आपथ १, ७, ३७; हिध
 १, ५, ६८; -खेभ्यः गौध २२, २७
 पञ्चनख-मल्य-वराह-मांस-
 -सानि विध ६६, १४.
 पञ्चनख-मांसा (सा-अ)शन-

-ने विध ५१, ६.
 पञ्चनख-विण्-मूत्रा (त्र-अ)
 शन- -ने विध ५१, ४८.
 पञ्चनख-शव- -वम् विध २२,
 ७०.
 पञ्चनखा (ख-अ)न्तरा (र-आ)
 गमन- -ने विध ३०, २२.
 पञ्चनखा (ख-अ) स्थि- -स्थि
 विध २२, ७५.
 पञ्च-नद^१ - -दम् अप ५०, ३, ५;
 -दे विध ८५, ५१^६.
 पञ्च-ना (मन् >) म्नी^१ - -म्नीम्
 पाशु ३, ३, ५.
 पञ्च-निघन^१ - -नम् क्षुसू ३, ५ : ६;
 निसू ६, ७ : ४३; -ने लाश्रौ
 १, ६, २९^३.
 पञ्चनिघन-वत् द्राश्रौ २, २,
 ३०^३.
 पञ्च-पञ्चाशत्- -शत् अश्र १२,
 २; -शतः हिश्रौ १८, ४, ६४;
 गौषि २, ४, १०.
 पञ्च-पति-> पाल्चपत्य^१ -
 -श्यानि अश्र २, १९,
 पाल्चपत्य-गण^१ - -गस्य
 अश्रम् ३.
 पञ्च-प(द् >) दा^१ - -दा शश्रौ
 १४, ४, ३; १६, २४, २; १८,
 १४, ५; निसू; -दाः शश्रौ ७,
 २६, ६; काश्रौसं ६ : १५; निसू
 २, १२ : १९; अश्र २, २४××;
 -दाम् शश्रौ ६, ६, ६; उनिस्
 १ : ५६; -दायाम् निसू १,

७; ९; -दे अश्र १३, १; १७, १××.
 १पञ्चपद्मी- पाग ५, ४, १३९;
 -पद्मी बौश्रौ १४, १४ : ३१;
 आशु १, ७, १९; कौशु १, ८,
 २८; शाशु १, १४, ६.
 पञ्च-पदा(द-आ)याम- -मम् बौशु
 २० : ८.
 २पञ्च-प(द >) दी^१ - -पराम् अश्रा
 १, ३, १४ : ३, १, १३; शौच १,
 ८८; ३, ५९.
 पञ्च-पर्याय^१ - -यः अश्र ४ : ३९.
 पञ्च-पर्वेन्^१ - -र्वेणा कौसू २६, ९;
 १०.
 पञ्चपर्वे (र्व-इ)पु-कुम्भ-कम-
 ण्डलु-स्तम्भ-कागपोलशाखा-
 युगं(ग-इ)ध्मा (ध-अ)क्ष-
 -क्षेपु कौसू ३७, ३.
 १पञ्च-पशु- -शुभिः आपशौ २१,
 २, १३; -शूनाम् वाश्रौ ३, २,
 १, ७.
 २पञ्च-पशु^१ - -शुः शश्रौ १६, ९,
 २५; बौशौ १७, ६२ : १८;
 वैताश्रौ ३७, ७; -शौ काश्रौ
 १६, ३, २४.
 पञ्च-पात्र^१ - -त्रः आपशौ २१,
 २१, १३; -त्रम् आपशौ २१,
 २१, ११; हिश्रौ १६, ७, १०.
 १पञ्च-पाद्^१ - -दम् अश्र ९, ९;
 अश्र २, १, १६४.
 पञ्च-प्रतिपक्^१ - -कानि निसू ७,
 ३ : २०.
 पञ्च-प्रयाज^१ - -जम् आपशौ ८,

- a) विप. । तदस्यपरिमाणो ऋन् प्र. । b) पा० इति पाठः? यनि. शोघः (तु. उत्तरं स्थलम्) ।
 c) 'दशिकव' इति पाठः? यनि. शोघः । d) 'काष्टक' इति पाठः? यनि. शोघः (तु. आपशु ५, ५) । e) वैप १
 द्र. । f) 'शाम्' इति पाठः? यनि. शोघः (तु. मा १७, ५४) । g) तु. पागम. । h) विप. । बस. । i) वा०
 इति पाठः? यनि. शोघः । j) =देश-विशेष- [उपचारतः] । समाहारे द्विस. उप. < नदी- + अच् प्र. (पावा ५, ४, ७५) ।
 k) = तीर्थ-विशेषः । l) वैप २, ३ खं. द्र. । m) परस्परं पाठं. । n) विप. । तस्येदमीयः ष्यः प्र.
 o) 'व्याग' इति पाठः? यनि. शोघः । p) समाहारे द्विस. । सर्वनामस्थान-संज्ञा-

२०, ७; बौश्रौ २४, ११: १०;
 -जस्य बौश्रौ २४, १०: १६;
 -जे बौश्रौ २५, ३१: ९; -जेन
 बौश्रौ २४, ११: ११.
 पञ्च-प्रश्न- -श्नेन कौसू ५७, २१.
 पञ्च-प्रस्थ^१- -स्थम् आमिष्ट २, ३,
 १: ३.
 पञ्च-प्रादे (श >)शा^२- -शाम्
 काश्रौ १६, ३, २४; आपश्रौ १६,
 ४, ८.
 पञ्च-प्रायश्चित्त- -त्तम् वैध २, १, ९.
 पञ्च-प्लव- -वानाम् चाश्र ३९: २.
 पञ्च-बिल^३- -लः शाश्रौ १५, १४,
 १२; काश्रौ १५, ९, १; बौश्रौ
 २४, २७: १४; १६; -फलस्य
 आपश्रौ २, ७, ९; २०, २५, २;
 बौश्रौ; -लेन आपश्रौ २०,
 २५, १.
 पञ्च-भाग- > शी(य >)या-
 -या: आपश्रु ११, ७; १०.
 पञ्च-भूता(त-अ)धिपति- -त्ये
 वैश्रु ५, ३: २१^४.
 पञ्च-भेद- -दा: चव्यू २: १४.
 पञ्च-म, मा^५- -म: शाश्रौ ९, २४,
 ५; १६, २४, २०; काश्रौ; या
 ३, ८; -मम् आश्रौ ५, ८, ३;
 शाश्रौ १, १०, ६; ७, १४, ७××;
 काश्रौ; -मस्य आश्रौ ७, ७,
 ५××; शाश्रौ; -मा: बौश्रौ
 २४, २७: १२^४; २६, ११:
 २७; शैशि; -मात् लाश्रौ १०,
 ६, १३; ७, १३; निसू; -मात्
 माशि १२, १०; -मानि वैश्रौ
 १, १: १९; -मायाम् बौश्रु ५:
 २०; -मे आश्रौ १, ५, २४; ७,

११, ३९××; शाश्रौ; या १४, ६;
 -मेन आश्रौ १०, ९, ८; आपश्रौ;
 -मेषु श्रुता ४, १६३; १६४;
 -मै: लाश्रौ ७, ७, १८; शैशि.
 पञ्चमी^६- -मी शाश्रौ ६,
 ६, ८××; काश्रौ; पा २, १, ३७;
 ३, १०; २४; २८; ४२;
 पावा ६, १, २; -मी: बौश्रु
 १, २, १३; -मीमि: बौश्रु ११:
 १; -मीम् आश्रौ २, ४, १४;
 काश्रौ ७, १, २१; आपश्रौ; -म्य:
 काश्रौ १७, ८, १४; आपश्रु १७,
 २; बौश्रु ८: १७××; हिश्रु ५,
 ४०; -म्या आपश्रौ १९, १७,
 ५; बौश्रौ १०, २९: ६; वैश्रौ;
 पा २, १, १२; पावा २, २, १८^७;
 -म्या: काश्रौ १८, ४, १२;
 आपश्रौ १७, ४, ९; वैश्रौ; पा ५,
 ३, ७; ४, ४४; ६, ३, २; ७, १,
 ३१; ८, ३, ५१; पावा २,
 ४, ८३; -म्याम् आश्रौ २,
 १७, १; २०, १; शाश्रौ; या ५,
 २३; पा ३, २, ९८; -म्यौ आपश्रु
 १६, १४; हिश्रु ५, ३७.
 पञ्चमी-कर्मन्^८-
 -माणम् या १, ७.
 पञ्चमी-निर्दिष्ट-
 -घात् पावा ३, १, २; ६, १, ८३;
 ८, २, ४२.
 पञ्चमी-निर्देश-
 -शा: पावा १, १, ६७; -शात्
 पावा ३, १, १; ४, ४, ८२××.
 पञ्चमी-प्रकरण- -णे
 पावा ६, ३, २.
 पञ्चमी-प्रतिषेध-

-ध: पावा २, ३, ३५; -धे पावा
 २, ४, ८३.
 पञ्चमी-प्रभृति-
 -ति गौपि २, २, ३; गौघ १५, २.
 पञ्चमी-विधान-
 -नम् पावा २, ३, २२; -ने पावा
 २, ३, २८; ३५.
 पञ्चमी-षष्ठी- -ष्ठ्यो:
 अप्रा २, २, २.
 पञ्चमी-सूत्र- -त्रे
 कप्र ३, ६, २.
 पञ्चम्य(मी-अ)न्त^९-
 -न्तस्य पावा ६, ४, १.
 पञ्चम्य(मी-अ)
 न्त्या- -न्त्ये ऋअ २, १, ८५;
 ११०.
 पञ्चम्य(मी-अ)
 भाव- -व: पावा २, ४, ८३.
 पञ्चम्य(मी-अ)र्थ-
 -र्थे या ६, १.
 पञ्चम्यर्थ-प्रेक्षा
 -क्षा या १, १७.
 पञ्चम्या(मी-आ)
 दि- -दि ऋअ २, १, ११; ८, ४६;
 -दिषु अप् दिरे, ३, ९.
 पञ्चम्या(मी-२आद्य
 >)घा- -घा: ऋअ २, १,
 १८७; १०, ७८.
 पञ्चमिक^१- -कम् निसू
 ९, ११: २७.
 पञ्चमिकी- -कीम्
 निसू ८, ६: १८.
 पञ्चम-त्व- -त्वम् नाशि १, ५,
 ११.
 पञ्चम-प्रभृति- -तितु वैश्रौ

a) विप. । द्विस. उप. = परिमाण-विशेष-। b) विप. । बस. । c) विप., नाप. [नाशि. प्रभृ.] स्वर-
 विशेष-। d) विप.(तिथि-, विमक्ति- प्रभृ.) । e) तु. पाका. पासि. । f) विप. (माहृतसामन्-) । तस्येदमीयसु
 ठक् प्र. उंसं. (पा ४, ३, १२४) ।

१०, २१: ६; -तीन् वैश्रौ १०,
२१: ५; -तीनि लाश्रौ ७, १,
११.
पञ्चम-भाग- -गस् आपणु
१६, ८; हिणु ५, ३०.
पञ्चमभागीय, या^a- -या
आपणु ११, ३; हिणु ४, ४;
-या: वैश्रौ १८, १६: ८०;
८२; बौशु; -याभि: वैश्रौ १८,
१६: ८३; आपणु १०, ४; ७;
११, १२; बौशु ८: २०××;
हिणु; -याया: बौशु ११: ७;
९; -ये काश्रौ १६, ८, १२.
पञ्चमभागीया (य-अर्थ)
पुरुषीय- -ययो: काश्रौ १६,
८, १३.
पञ्चमभागीया (य-अर्थ)
> धर्मा- -धर्माभि: बौशु १२:
३.
पञ्चम-मलेच्छ-संस्पर्श^b-
-श्रौ आमिणु २, ७, ७: ५.
पञ्चम-वर्ष- -वैश्रौ १७,
११: १०.
पञ्चम-षष्ठ^c- -ष्ठयो: ऋप्रा २,
५९; -ष्टाभ्याम् लाश्रौ ६, ११,
९; निस् ७, ३: ३३; -ष्ठे
आश्रौ ८, २, ६; लाश्रौ ६, १२,
१४; ७, १३, ३; निस् ३, ६:
२३.
पञ्चम-स्थ- -स्थ: शैशि २६३;
-स्थम् नाशि १, ४, ९.
पञ्चम-स्थान^d- -न्ता: निस् ८,
१३: ४०.
पञ्चम(म-अ)क्षर- -रस् याशि

२, ९५.
पञ्चम(म-अ)दि- -दय: मैत्र
२४.
पञ्चमा(म-आ)याम^d- -मस्
आपणु १६, ३; हिणु ५, २४.
पञ्चमा(म-अ)ष्टम- -माभ्याम्
वैश्रौ १२, ६: ५६; -मौ बौध
१, ११, १३.
पञ्चमा (म-अ)हन्-> पाञ्च-
माह्निक- -कानि शाश्रौ १५,
८, २.
पञ्च-मयूय^e- -खम् कौसू १०७,
२१.
पञ्च-महायज्ञ- -ज्ञाय वैगु ३, ७: ८.
पञ्चमहायज्ञा (ज्ञ-अ)नुष्ठान-
-नम् वैगु ६, १९: २.
पञ्च-माष-> पञ्चमाष (क>)
की^f- -की^g बौध १, ५, ७८.
पञ्चमाषि (क>)की^h- -कीⁱ
गौध १२, २६.
पञ्च-यज्ञ-विधान- -नम् शंघ
१३१.
पञ्च-योजन-> णिक- -कम्
अप ६५, २, १२.
पञ्च-योजन्य- -न्य: अप ६१, १,
२६.
पञ्च-शत्रु^j- -श्रम् माणु १, ४, १७;
गौपि; -त्रस्य आपश्रौ २२, १४,
६; हिश्रौ १७, ६, ३; निस् ८,
१०: १४; -त्रा: आश्रौ १०,
२, २८; -त्राणाम् आश्रौ ११,
४, २; ३; -त्रात् या १४, ६;
-त्राय बौश्रौ १६, २९: २;
-त्रे हिश्रौ १३, २, ३; लाश्रौ ९,

१२, १५; -त्रेण शाश्रौ १६,
२४, १; २१; निस् ३, ७: ११;
८, १२: २२.
पञ्चरात्र-प्रभृति- -तय: निस्
९, ८: २२.
पञ्चरात्रो(त्र-उ)पजन^d- -न:
आश्रौ ११, ४, ६; -नम् आश्रौ
११, २, १५: ३, ५: ११.
पञ्च(ब-ऋ)र्च, चा^g- -र्च: वैताश्रौ
३२, २; ३३, ४; गोग; -र्चम्
निस् ७, ४: २; कौशु; अश्र ७,
३८^h; -र्चा वृदे ५, ८२; -र्चानि
अश्र २, १९; अप २: ६४, ८२;
-र्चे वृदे ४, १३६; ५, २८;
अश्र ६, १२३; -र्चैन बौश्रौ
१०, १४: २; २२, ३: ११;
वैश्रौ; -र्चैभ्य: अप ४६, १०,
२१; -र्चो अप ४: १७.
पञ्चर्चा (र्च-ऋ)र्चा- -य: अप
४: ३.
१पञ्च(ब-ऋ)र्चुं-> णुं-ता-
-तया या ४, २७.
२पञ्च(ब-ऋ)र्चुं^d- -र्चु: निस् ७,
३: २०.
पञ्च-वर्ग^e- -र्गा: काश्रौ ९, ४,
१६; ऋप्रा १, ८.
पञ्च-वर्जम् अप २: ४.
पञ्च-वर्ण, णा^f- -र्णा अप ७०^g,
११, ८; -र्णा: काश्रौ २२, ९,
१३; -र्णानि अप ७२, ३, १४.
१पञ्च-वर्ष- -र्षाणाम् वेजवो ११;
-र्षेषु शाश्रौ ३, १८, २०.
पञ्चवर्ष-पर्यन्तिकृत- -ता:
आश्रौ १०, २, २९.

a) विप. (अत्रलिप्रमाणा-] इष्टका-) । b) द्वस. > षस. पूष. = निषादादि- । c) द्वस. ।
d) विप. । वस. । e) वैष १ द्र. । f) पञ्चमाषिकी- इत्यस्य वावि. द्र. । g) परस्परं पामे. ।
h) विप. । वृद्धयर्थे ष्ट्व>इकः प्र. (पा ५, १, ४७) । i) = याग- । तद्धितार्थे समाहारे च द्विस. । j) विप.,
नाष. । k) 'चै' इति पाठः ? यनि. शोचः (तु. प्रकरणम्) ।

२पञ्च-वर्ष,र्षा^a- -र्षम् आपष १,
१४,१३; हिष १,४,४५; -र्षाः
काश्रौ २२,९, १२; वाश्रौ ३,
४,३,२०; -र्षान् आपश्रौ २२,
२०, ११; हिश्रौ १७, ७, २२;
-र्षात् शंघ ३९२.

पञ्च-वलि^b- -लिः आपश्रौ १०,
९, १९; बौश्रौ ६, ५: १६;
२१, ७: २१; -लिम् काश्रौ
७, ३, २५^c; भाश्रौ १०, ६,
१३; हिश्रौ ७, १, ५२.

पञ्च-वात-> वातीय^d- -यम्
काश्रौ १५, १, १८.

पञ्च-वारुण^e- -णम् वैगृ १, १७:
२; वैध २, १, ९.

पञ्च-वाह-> हिन्^f- -ही
आपश्रौ १८, ९, १३; बाश्रौ ३,
३, १, २४; हिश्रौ १३, ३, ३६.

पञ्च-विंशत्- -शत् बौध १, ४, ९.

पञ्च-विंशति- -तये शाश्रौ १६,
१२, १४; -तिः आश्रौ ८, १३,
३१; शाश्रौ; या ३, ७; १३;
-तिःऽ-तिः आश्रौ १२, ५, १८;
शाश्रौ १३, २८, ७; १६, १२,
१४; -तिम् माश्रौ ४, ७, ४;
आमिगृ २, ४, ६: ७; शंघ; -तेः
शाश्रौ १८, १०, २.

पञ्चविंश^g- -शः शाश्रौ १६, १२,
१०××; बौश्रौ; -शम् आपश्रौ
२१, १७, १××; बौश्रौ; -शात्
निसू ८, १३: १८; भासू २,
१९; -शे हिश्रौ १८, ३, १३;
द्राश्रौ ११, ४, १; लाश्रौ.

१पञ्चविंश-क^h- -कम् शंघ
३७१; विध २७, १६; या १४, ६१

पञ्चविंश-स्तोम^b- -मम्
शाश्रौ १६, १२, ९; -मानि निसू
८, १३: १६.

२पञ्चविंशकⁱ- -कम् अम्र ८, ४;
९, २; १०, ३; अर्ष ४: २४.

पञ्चविंशति-नात्र^j- -त्रः बौश्रौ
१६, ३४: ३; या १४, ६; -त्रम्
आश्रौ ११, ३, ११; काश्रौ.

पञ्चविंशति-स्तोम- -भाः निसू
६, ७: २.

पञ्चविंशत्य (ति-अ)च(र>)
रा^b- -रा बौश्रौ २४, १९: ७;
निसू १, ३: २४; २, १२: १९.

पञ्चविंशत्य(ति-अ)ङ्गुलि^k-
-ल्या वैश्रौ १, ३: २.

पञ्चविंशत्य (ति-अ)नुवाक-
-कान् मागृ १, २३, २३.

पञ्चविंशत्य(ति-अ)रत्नि- -तयः
शाश्रौ १६, १२, २.

पञ्चविंशत्यृ(ति-अ)च^b- -चम्
शाश्रौ १७, ८, २.

पञ्च-वित्राहम् आश्रौ ३, १, १४.

पञ्च-विध,धा- -धम् शाश्रौ १६,
२४, १××; बौश्रौ; -धाः
अप ५८^r, ३, ११; बौध ३, ३, ३;
चव्यू १: ७; -धान् वैगृ ५, १: ४;
-धाम् आमिगृ २, ४, १०: ३३;
-धेन निसू १, २: २.

पञ्च-वृत्- -वृत् कौगृ १, ३, ८;
शागृ १, ८, २; -वृत्तम् गोगृ १,
७, १०; द्रागृ १, २, ११.

पञ्च-न्याकरण- पा,पाग ४, २, ६०.

पञ्च-शत- -तम् बौश्रौ १०, १९:
२; द्राश्रौ ११, ३, १८; लाश्रौ
४, ३, १८; शंघ २६३.

पञ्च-शरद्-> पञ्चशरदीय-

-यः आश्रौ ९, ८, १०; शाश्रौ १४,
६२, १; काश्रौ; -यम् आश्रौ
१०, २, २७; -यस्य आश्रौ १०,
२, २९; -याः मीसू ११, २, ५२;
-यानाम् बौश्रौ २४, १०: १३;
-ये लाश्रौ ८, १०, ६; ९, ४,
२६; १२, १०; -येन आश्रौ ९, ८,
८; आपश्रौ २०, २५, १; २२,
२०, ९; बौश्रौ १८, ११: १;
हिश्रौ १७, ७, २०.

पञ्चशरदीयवत् आपश्रौ
२०, २४, ५; २२, २१, १६.

पञ्च-शराव- -वः वैश्रौ २०, ३:
७; मीसू ६, ४, २९; -वम्
आश्रौ ३, १०, २७; काश्रौ; -वे
मीसू ६, ५, १; ६; -वेण आपश्रौ
९, १, ३२; ३३; हिश्रौ १५,
१, ३७.

पञ्च-शा(खा>)ख^l- -खेन भागृ
१, २०: ७^m; वैगृ ३, ८: ६; हिगृ
१, २४, ३ⁿ.

पञ्च-शि(खा>)ख^b- -खः बौगृ २,
४, १७; अम्र ४२, ३, ७ⁿ.

पञ्च-शिखा-> खिन्- -खी अम्र
४०, २, ९.

पञ्च-षष्टि- -ष्टिः अम्र ४७, १, ११;
३, ६××; चाश्र १७: १.

पञ्चषष्टि-वर्ण- -र्णाः शुप्रा ८,
२५.

पञ्च-संयु(त>)ता- -ता ऋश्र ४,
२; १०.

१पञ्च-संवत्सर- -रम् शंघ ४०३.

पञ्चसंवत्सर-मय-> मय-युगा
(ग-अ)ध्यक्ष- -अम् वेज्यो १.

a) तद्विद्वार्थे द्विस. । b) विप. । वस. । c) ष्व इति पाठः इ यनि. शोभः । d) वैप २, २खं. द्र. ।

e) समाहारे द्विस. उप. सास्यदेवतीयः अम्र प्र. । f) वैप १ द्र. । g) विप. नाप. (स्तोम-). h) स्वार्थे
कन् प्र. । i) वृचन् प्र. (पा ५, १, २४) । j) विप., नाप. । k) = रज्जु- ।

पञ्चसांख्यिक^a-काणि
 आपथ्रौ ८, २२, ९^b; -केपु
 आपथ्रौ ८, २२, १६.
 २पञ्च-संवत्सर^c-राणि हिश्रौ ५,
 ६, १३^b.
 पञ्च-संचर-रेपु मीसू ७, १, १७.
 पञ्च-सप्तति-न्ति-वाधूश्रौ ४,
 ९२ : ४; अपं ४ : ३७; -तिः
 ऽ-तिः वाधूश्रौ ३, ७९ : १०.
 पञ्च-सप्त-नवा(व-अ)न्यतम-मैः
 वैध २, ३, २.
 पञ्च-सप्तम-मौ अपं २ : १५.
 पञ्च-सवन^d-नः आपथ्रौ १४,
 १९, ३.
 पञ्च-सूक्त^e-क्ताः अपं २ : ३.
 पञ्च-स्तोम^f-मम् बौश्रौ २६,
 ३३ : २.
 पञ्च-स्थान-स्थित-त्व-त्वेन
 नाशि १, ५, १२.
 पञ्च-स्थानो(न-उ)स्थित-तस्य
 नाशि १, ५, ११^g; -तान् नाशि
 १, ५, १२^f.
 पञ्च-हृविस्^h-विः शांश्रौ ९, २४,
 ४, ६; बौश्रौ; -विषम् शांश्रौ २,
 ४, ६; बौश्रौ १७, २३ : ५×५;
 द्विपि २० : ३; -विषा बौश्रौ १२,
 १९ : १; १८, ५ : १६; ६ : १७.
 १पञ्च-हस्त->^hस्ता(स्त-आ)
 य(त>)त्प-न्ता विध १०, ३.
 २पञ्च-हस्त-स्तम् अप १८, १, ५.
 पञ्च-हायन-नेभ्यः आपथ्रौ १८,
 ३, ९.
 पञ्च-होतृⁱ-न्तरि शांश्रौ १०,

१६, १; -ता आपथ्रौ ८, २२,
 १६; बौश्रौ; -न्तारः आपथ्रौ
 २१, ११, ५; हिश्रौ १६, ४, ३;
 -तारम् शांश्रौ १०, १६, २;
 आपथ्रौ ४, ९, १२×५; बौश्रौ;
 -तुः आपथ्रौ १३, २, ६; २१,
 १०, ७; बौश्रौ; -त्रा आपथ्रौ
 २, ११, ५; ४, ८, ७×५; बौश्रौ.
 पञ्च-हो(त्रा>)त्र^h->^hत्रे(त्र-इ)
 एक-काः बौश्रौ १९, ७ : २०.
 १पञ्चा(क्ष-अ)क्षर->श्री-री
 वेज्यो ३९.
 पञ्चाक्षर-शसः(ः) लाश्रौ ७, ७,
 १९.
 २पञ्चा(क्ष-अ)क्षर^d-रः निसू ३,
 १३ : ९; ऋप्रा १६, ३६; -रम्
 वाधूश्रौ ४, १०० : ६; वाश्रौ
 ३, २, २, २३; -राणि छुसू १,
 ६ : २६; निसू ४, १ : २५;
 उनिसू ६ : ३१; -रान् ऋप्रा
 १७, ५०; -राभ्याम् शांश्रौ १०,
 १३, २; -रेण आश्रौ ८, १२,
 १६; शांश्रौ ९, ६, २-५; १०,
 १३, २; वाधूश्रौ ४, १०० : २५,
 उनिसू २ : १; -रैः शांश्रौ ७,
 २७, २५; -रौ निसू २, १२ : २३.
 पञ्चाक्षर-ता-तायाः निसू १,
 १ : ५.
 पञ्चाक्षर-पा(द>)दा^d-दा
 निसू १, ३ : २४; २, १२ :
 १९; -दाः निसू १, ३ : २२.
 १पञ्चा(क्ष-अ)भि-भिभिः वैश्र ७,
 १ : १३; वैध १, ६, १; -भ्रीन्

वैश्रौ १, १४ : १७; वैध २,
 ४, ३.
 पञ्चाभि-मध्य-शायिन्-
 -यिनः वैध १, ८, १.
 २पञ्चा(क्ष-अ)सि^d-गिनः अप ४४,
 २, ४; वाध ३, १९; शंघ.
 पञ्चा(क्ष-अ)सि^d>श्री^d-श्या
 काटश्रौ ९२^f.
 पञ्चा(क्ष-अ)कुलि->^hक्य^h-
 -ल्यम् याशि १, ६, २.
 पञ्चा(क्ष-अ)कुलि->^hलि-वि-
 शा(र>)रा^d-रा वैश्रौ १,
 ३ : ८; वैध १, ६, ५.
 पञ्चा(क्ष-अ)कुष्ठ-छम् आमिष्ट
 २, ३, १ : १४.
 पञ्चा(क्ष-अ)घि(क>)का^k-का
 ऋष २, १, ११२; ११६×५.
 पञ्चा(क्ष-अ)ध्या(य>)यो-यी
 शुभ ४, ५९.
 पञ्चा(क्ष-अ)नृयाक-कैः अप
 ४६, ९, ११^f.
 पञ्चा(क्ष-अ)न्त^l-न्ते काश्रौ १८,
 १, ३; मैश २६.
 पञ्चा(क्ष-अ)परय^d-त्यः अप ३२,
 १, २१; -स्यानि अप ३२, १,
 २१^f.
 पञ्चा(क्ष-अ)पवर्ग^d-र्गः काश्रौ
 १५, ४, २; आपथ्रौ १८, ८, ३;
 २२, १८; हिश्रौ १३, १, ५; ७,
 ३५.
 १पञ्चा(क्ष-अ)त्र^m-रे या ४, २०^h.
 १पञ्चा(क्ष-अ)रिभि^l-श्री वैश्रौ
 १०, २ : ५^d.

a) तेननिर्घृणमित्यर्थे ङ् प्र. उप. वृद्धिः (पा ७, ३, १५) च। b) परस्परं पामे.। c) तेननिर्घृणीयस्य प्र. लुक् उस्सं. (पा ५, १, ८८ [वैतु. भाष्यकारः बस. इति])। d) विप.। बस.। e) णस्यितः इति लासं. L. f) णोच्छ्रितः इति लासं.। g) वैप १, १३०२। द.। h) =मन्त्र-विशेष-। बस.। i) समाहारे द्विस.। j) सभाहारे द्विस.। k) लस. क. बस. वा। l) पूष. =पञ्चम-। m) वैप १ द.। n) समाहारे द्विस. द.।

१पञ्चारलि-प्रभृति- -ति माश्रौ
१,८,१,१५.
पञ्चारल्या(लि-आ)दि-
प्रमाण^a- -णम् वाश्रौ १,६,१,७.
२पञ्चा(ञ-अ)रलि- -लिः काश्रौ
६,१,२९; १६, ८, १६; वौश्रौ;
-लिम् आपश्रौ ७,२,११; वौश्रौ
४,१ : २७.
२पञ्चारलि-प्रभृति- -तयः वौश्रौ
२४,३५ : ५.
पञ्चा(ञ-आ)र्वि^b- -यः आश्रौ
१२, १०, ६; आपश्रौ; -याः
वौश्रौ १ : २; -याणाम्
वौश्रौ २ : ३.
पञ्चा(ञ-अ)वत्, त्ता- -त्तः आपश्रौ
८,१५,५; वैश्रौ ९,७ : ८; -त्तम्
आपश्रौ २,१८,२^c; ११,१,११^c;
वौश्रौ; -त्तस्य वौश्रौ २०, ६ :
१; -त्ता आपश्रौ ७, २०, १०;
११; भाश्रौ ७,१६,४;५; -त्ताम्
काश्रौ ३,४, ३; आपश्रौ ३, १,
६; वैश्रौ ६, ११ : २; हिश्रौ २,
३,७; -त्तायाः हिश्रौ २,३, १२.
पञ्चावत्त-वत् मीस् ६,७,२८.
पञ्चावत्तिन्- -त्तिनः आपश्रौ
२, १८, ९; २१, ३×४; वौश्रौ;
-त्तिनाम् आपश्रौ ८, १५, ५;
वौश्रौ २०, ५ : ३३×४; भाश्रौ;
-त्ती वाश्रौ १,१, १, ३०; गोश्रु
१,८,७; ११; द्राश्रु २,१, २०.
पञ्चावत्तीय- -यम् भाशि ८७.
पञ्चा(ञ-अ)वदान^b- -नः भाश्रौ २,
१७, ९; -नस्य भाश्रौ २, १८,
१२; १९, ३×४; भाश्रौ.
पञ्चावदान-त्व- -त्वात् मीस्
१०,७,५.

पञ्चा(ञ-अ)वसा(न>)ना^b- -नाः
अपं ३ : ७०.
पञ्चा-शत्- -शत् शाश्रौ १५, २६,
१^c; हिश्रौ; -शत्-शत् आपश्रौ
२२, ८, ६; -शतः शाश्रौ १२,
२८, ८; काश्रौ; -शतम् शाश्रौ
१४, ९, ६; आपश्रौ; -शतम्-
शतम् काश्रौ २२, ७, १४; काश्रौसं
२९ : १२; -शता आपश्रौ १८,
१४, ६; वौश्रौ; -शता-शता
आपश्रौ ९, ११, २३; आमिगृ ३,
१०, ५ : ६; वौपि ३, ८, १;
-शते वाश्रौ ३, ४, २, ८.
पञ्चाशत्-छ(<श)स् (:) आश्रौ
९, २, २५.
पञ्चाशत्-पल-> °लिक^c-
-कम् विध ११, ५.
पञ्चाशत्-प्रभृति- -ति वाश्रौ
३, ४, २, ८.
पञ्चाशद्-अक्ष(र>)रा^b-
-रा निसू ३, १२ : ४८.
पञ्चाशद्-ऊ(न>)ना- -ना
काश्रौ १७, ७, २१.
पञ्चाशद्-दिन- -नात् वैगृ ३,
१९ : १.
पञ्चाशद्-भाग- -गः गौध १०,
२४.
पञ्चाशद्-रात्र-प्रभृति- -तीनि
आश्रौ ११, ४, ८.
पञ्चाशद्-वर्ष-ता- -तायाः
आश्रौ २, ७, ६.
पञ्चा(ञ-अ)शीति- -तिः ऋश्र ३,
३७.
पञ्चाशीति-शत- -तम् आपश्रौ
१९, ११, ३; वौश्रौ १९, २ : ११;
हिश्रौ २३, २, ३; आमिगृ ३,

८, ३ : २३; वौपि १, १६ : ९.
पञ्चा(ञ-अ)ह^b- -हः शाश्रौ १३,
१७, १; काश्रौ; -हम् वौश्रौ
१८, ३२ : ६; २५, २७ : ११×४;
द्राश्रौ; -हस्य लाश्रौ १०, ४, १;
७; निसू ९, १:४८; -हाः काश्रौ
२३, ४, १×४; आपश्रौ;
-हान् निसू ९, १३ : ९; ३४;
१०, १ : १५; -हानाम् लाश्रौ
१०, ४, १; -हे लाश्रौ ८, १, १४;
निसू ५, ३ : ३६; आमिगृ ३, ४,
५ : २; -हेन वौश्रौ २६, ३ : २;
हिश्रौ १७, ७, १३; -हेषु लाश्रौ
१०, ४, ३; वैताश्रौ ४१, १४;
वैगृ ३, २ : २; -हौ निसू ९,
१३ : ३६.
पञ्चाह-वल्स- -सम् निसू
१०, १ : १३.
१पञ्चाह-तन्त्र- -न्त्राणि निसू
८, १० : २०.
२पञ्चाह-तन्त्र^b- -न्त्रः निसू ९,
११ : १०.
पञ्चाह-वि (घ>)घा- -धाः
निसू ९, ११ : ८.
पञ्चाह-विहित- -तम् निसू ९,
१३ : २.
पञ्चाहा(ह-अ)र्थे- -र्थे आश्रौ
११, १, १२; शाश्रौ १३, १५, ८;
काश्रौ २४, १, ८; निसू ९,
१० : ९.
पञ्चाहिक- -कानि काठश्रौ ४६.
पञ्चा(ञ-अ)हाव^b- -वानि आश्रौ
५, १०, १२.
पञ्चा(ञ-अ)हाव-परिमितव-
-त्वात् आश्रौ ८, ६, १८.
प(ञ-क>)ञ्चिका^c- -का वौश्रौ

a) विप. । बस. > वस. । b) विप. । बस. । c) विप. । तदस्य परिमाणमित्यर्थे ठन् प्र. उचं.
(पा ५, १, ५४) । d) वैप १ द्र. । e) = रज्जु-विशेष- । प्रमाणार्थे कन् प्र. (पा ५, १, २२) ।

२६, २२ : १७; आप्शु ५, २;
हिष् २, ९.
पञ्चिन्-ञ्चिनि लाश्रौ ६, ६, १४;
-ञ्चि लाश्रौ ८, ५, २३.
पञ्चि-प्रभृति- -तयः निसू १,
८ : ३५; ९ : १३.
पञ्चे(ञ्च-इ)ञ्म-> ष्मिण्य-यस्य
बौश्रौ २२, १६ : २७; -येन
आपश्रौ १८, ९, १०; बौश्रौ १२,
४ : १; वाश्रौ ३, ३, १, १६;
हिश्रौ १३, ३, ३१; ३६.
पञ्चो(ञ्च-उ)क्त- -क्तम् जैश्रौ २६ :
१४.
पञ्चो(ञ्च-उ)दि^१- -दिस् आपश्रौ
१५, २, १४; १६, ४, ७; माश्रौ
११, २, २३; हिश्रौ ११, १, ५१;
२४, १, १५; -दीन् वैश्रौ १३,
३ : १२.
पञ्चो(ञ्च-उज्ज>)ना- -ना ऋग्र २,
१, २४; ३२×४; अर्ष ४ : ३४.
पञ्चौ(ञ्च-ओ)दन^२- -नम् कौसू
६४, १८; अग्र ४, १४; -नेन
कौसू ६४, २८.
पञ्चौदन-वर्जम् कौसू ६३, २४.
२पञ्चन्^३- (>पञ्चि-पा.) पाग ४,
१, ९६.
१पञ्चाप्रायणषष्ठ्यै वाश्रौ ३, ३, १,
१४.
१पञ्चान्तेनव^४ मैश्र १३.
१पञ्चाप्रिय^५- -यस्य चाग्र ३८ : १६.
१पञ्चाल^६- पाठ १, ११८; पाग ४,
१, ८६; -लाः^७ बौश्रौ १८, २६;
९; उनिस् १ : २२; -नंलाः^८

आपश्रौ १८, १२, ७; हिश्रौ १३,
५, ४; -लान्^९ बौश्रौ १८, २६ :
७; ८; -लानाम्^९ ऋग्रा २, ३३;
-लेषु^९ बौश्रौ १८, २६ : १२; १९.
१पञ्चाल^१- पा ४, १, ८६;
-लः^{१०} हिश्रौ १३, ५, ४; -लम्^{११}
आपश्रौ १८, १२, ७; अप १,
८, ३.
पञ्चाल-राज- -जः वाधूश्रौ
४, ३७ : ३.
पञ्चाल-ज्येष्ठ- -ष्टाः अप १, ८, १.
पञ्चाल-पद-वृत्ति- -त्तिः शाश्रौ
१२, १३, ६.
पञ्चाल-राज- -जानाम् बौश्रौ १८,
३८ : १८.
२पञ्चाल^१- पाग ४, १, ९९.
२पञ्चाल- -लस्य चाग्र १६ :
१२; -लम् कौश्र २, ५, ३; -लाः
बौश्रौ ४१ : १२; निसू १, २ : ३.
पञ्चालायन- पा ४, १, ९९.
पञ्जर^{१२}- पाठभो २, ३, ३८; पाग ४,
२, ८०; -रेषु बौश्रौ १५, १६ :
८; वाश्रौ ३, ४, ३, २२.
पाञ्जर्य^{१३}- पा ४, २, ८०.
✓पट् (बधा.) पाधा. भ्वा. पर. गतौ;
चुरा. उभ. भाषायां ग्रन्थे च,
पाठयेत् विध ६, २५.
पट^{१४}- पाग २, ४, ३१^१; ४, १, ४१;
५, ४, २९^१; -टे अप १, ४४, ८;
विध ३, ८२.
पटी- पा ४, १, ४१.
पट-क- पा ५, ४, २९.
पट-कर्तृ- -र्ता वैध ३, १४, १.

पटा(ट-आ)दि- -दिषु कप्र १-
१, १४; -दीनाम् ऋत ४, ३, ४.
पाटन- -ने काध २७ : ७.
पाटि(त>)ता- -ता कप्र १, ७, १४;
८, १७.
पाटयमा(न>)ना- -नाः विध ४३,
३५.
पट्ट^{१५} पाग १, ४, ५७.
पटच्चर- (> पाटच्चर- पा.) पाग
४, २, ११०.
पटत्क- (> ष्क-कन्थ- पा.) पाग
६, २, १२५.
पटपटा^{१६} पाग १, ४, ५७.
पटर^{१७}- पाग ४, १, ४१; -रः बौश्रौ
१८, ४६ : ११^१.
पटरी- पा ४, १, ४१.
पटल^{१८}- पाठभो २, ३, ९७; पाग ४,
१, ४१^१; -लम् आश्रौ ४, ६, ३;
-ले शाश्रौ ११, ९, १३; १३, २१,
२; २२, ३; ऋग्रा ४, २०; ६, १६.
पटली- पा ४, १, ४१.
पटह^{१९}- पाग २, ४, ३१; -द्वाः अग्र
७०^१, २, २; ७०^१, ११, ७.
पटाक^{२०}- पाग २, ४, ६३.
पटाका^{२१}- पाठभो २, २, १३.
पटिस- पाठभो २, ३, १७९.
पटीर- पाठ ४, ३०.
पटु^{२२}- पाठ १, १८; पाग २, १, ४०;
५९; ७०; ५, १, १२२; ६, २,
२४.
पटिमन्-, पटु-ता-, पटु-स्व-,
पाटव- पा ५, १, १२२.
पटूर^{२३}- -रौ अग्रा ३, ४, ११.

a) = कर्म-विशेष-। b) विप.। बस.। c) वैप १ द.। d) व्यप.। व्यु. ?। e) (यश्च अन्ते येषां तादृशा नव) = चतुर्दश (तु. मैश्र २०)। f) पा ४, १, १६८। g) सपा. °लः <> °लम् इति पाभे.। h) नाप.। व्यु. ?। i) = वस्त्र-। अच प्र. (पा ३, १, १३४)। j) तु. पागम.। k) अर्थः व्यु. च ?। l) = सपृष्ठ-, छदि-। व्यु. ?। पट-+ल- (<√ला) वा <√पट् वेति अभा.। m) = वाय-भेद-। व्यु. ?। पट-+ह- (<√हृत् वा √हा वा) इति अभा.। n) = पटाका-। o) वैप २, ३खं. द.।

पट्ट^a - > पट्ट-बन्ध^b - न्धः वैध ३,
११,६.

पट्टानीत-तम् वैश्रौ १०,९ : १४.

पट्टार- (> पाट्टारक- पा.) पाग ४,
२, १२७.

पट्टव- पाठ १,१५३.

✓पट्ट पाधा. भ्वा. पर. व्यक्तायां-
वाचि, पठते अप ९,४, ७; ३१,
१०, ४; शैशि ३६२; आज्यो
१४,१२; पठति अप ६६,३, ४;
कप्र २,४,१८; अत्र ८,१; पठन्ति
आशि ६,१; ९; पठेत् कप्र ३,९,
१५; अप; पठेयुः शंघ २११.

पठ्यते काठश्रौ ४; ४७; काश्रौसं;
पठ्यन्ते काठश्रौ ४६; ऋअ३, ३९.
पाठयति अत्र ८, १.

पठत्- -उन् कप्र २, ४, १३३;
१४^२××; अप.

पठि- पाठना ४,१२९.

पठित- पाग ५,२,८८; -तः आश्रौ
१,११,१०; आमिष्ट १,२, १ :
१८; बौध ३,१,२५; अप्रा २,३,
६; उस् ८,३६; -तानाम् पावा
१,१,२७; -तानि अप्रा ३,४, १.
पठितस्व- -त्वात् पावा १, १,
३४.

पठित्- पा ५,२,८८.

पाठ- ठः पावा २,२, ३६; ४, २,
१३३; -ठम् अप२८,१,२; -ठाः
आपध १,१२, १०; हिध १,४,
१०; -ठात् पावा १, १, २७;
३८; -ठे पाशि २५; याशि २,९८;
कौशि २५; -ठेन पावा १,३,१.

पाठ-दोष- -वाः १, ३०.

पाठ-विशेषण- -णम् पावा ८,
१,२७.

पाठक- -के शैशि २१२; याशि २,
८३.

पाठका (क-अ)धम- -माः शैशि
२१०; याशि २, ८२.

पाठयत्- -यन् अप ६९,९,३.

पट्ट (ट, द, श)^c - ऋपडिभः आपश्रौ
१३, ७, १६^d; वाश्रौ १,६, ५, ५^e;
कौसू ४४, १७^e; निघ ४,२; या
५, ३.

पट्ट-बी,वी^f।वा^g - -शम् बौश्रौ १५,
१५ : १८; ३८ : ९; बाधूश्रौ ३,
७६ : २७; दंवि २, ३^f; -ऋशात्
आपश्रौ ७,२१,६; बौश्रौ ४, ७ :
२५; भाश्रौ ७, १६, १३; हिश्रौ
४, ४, ४४.

✓पण^h पाधा. भ्वा. आत्म. व्यवहारे
स्तुतौ च, पणते काश्रौ ७,८,१;
१०; आपश्रौ.

पणायते अप ४८,९^f; ऋपणायति
अप ४८, २७; निघ ३, १४.

पण^h - पाग ५,१,२०; -णः पा ३,३,
६६; -णाः शंघ ३२२; -णान् विध
५, ३५××; -णानाम् विध ४, १४.

पाणिक- पा ५,१,२०.

पण-पाद-माष-शत- -त्वात् पा ५,
१, ३४.

पण-शत- -तम् विध ५, १०६;
११०; १२८; १५४; १५८.

पणन- -नात् या २, १७; -ने बौश्रौ
२१, १२ : १३; -नेषु आपश्रौ

१०, २५, ५.

पणमान- -नः वैश्रौ १, १५ : २;
बौध २, १, ५४; -नम् आपध २,
१०, ८; हिध २, ४, ८.

पणस्- > ✓पणस्य, पणस्यति अप
४८, ९^f.

पणस- पाठ ३, ११७.

पणित- -तान् वैश्रौ १२, १८ : १०.

पणित्वा वाध १, ३५.

पण्यⁱ - पा ३, १, १०१; -ण्यम्
आपध २२, ५; कौसू; या २,
१७; पा ४, ४, ५१; -ण्यस्य भाट्ट
२, २६ : ६; हिट्ट १, १४, ९;

-ण्यत् आपश्रौ ४, १२, ६^f;
-ण्यानाम् आपध १, २०, ११;
हिध १, ६, २५; -ण्ये गौध १०,
२५; -ण्येन वाध २, २४;

-ण्येभ्यः गोगृ ४, ८, २२; -ण्येषु
शंघ १४.

पण्य-कम्बल- पा, पावा ६, २, ४२.

पण्य-काम- -मः कौसू ५९, ६;
अश्र ३, १५.

पण्य-त(र>)रा^j - -रा आपश्रौ
४, १२, ६^f.

पण्य-विक्रयण- -णम् आज्यो
७, ३.

पण्य-सिद्धि- -द्धिः हिट्ट १, १४,
८.

पण्य-होम- -मम् गोगृ ४, ८,
२०; द्राट्ट ४, ३, ७.

पण्यमान- -नः अप्राय ३, १.

पण्य^k - पाठभो २, ३, १३४; पाग २,
४, ३१; -चम् काट्ट १७, २.

a) = क्रिरीट- वा उष्णीष- वा. । व्यु. ? । b) नाप. । c) वैप १ द. । d) पाभे. वैप १, १९०१ ०
द्र. । e) सपा. तै ३, १, ४, ३ संभ्रा २, २, ११ शंश्रौ ४, १७, १२ काश्रौ २५, ९, १३ माश्रौ १, ८, ३, ३४ पडिः इति
पाभे. । f) भाश्रौ. दंवि. पाठः । g) या २, २६ शौच ४, ९७ पा २, ३, ५७ परामृष्टः द्र. । h) = तुल्यमान-
विशेष- वा परिमाणविशेष- वा । i) भाप. । षा. स्तुतौ वृत्तिः । j) पाभे. वैप १, १८८६ h द. । k) = वाद्य-
विशेष- । व्यु. ? ।

पणि^a- पाठ ४, ११८; -णयः ऋञ्च
२, १०, १०८; बुदे ८, २४; २६;
शुभा ४, ७७; -णिः शांश्रौ १२,
२०, २१; अप ४८, १२८; या
२, १७०; -णिना या २, १७०;
-णिभिः माश्रौ १, ३, ४, २६;
वाश्रौ १, ३, ६, १९; ऋञ्च २, १०,
१०८; या १२, २५; तैप्रा १३,
१०^२; -णिम् तैप्रा १३, १०;
-णीन् बुदे ८, ३५; ३६; ३८;
या ६, २६; शैशि २२२.

पणित- पणित्वा √पण् द्र.

पणिन्^b- पाग ४, १, ९६^०.

पणिन्-पा ६, ४, १६५.

पणिनि^d- पा ४, १, ९६; -निः

बौश्रौ ३: ७; अप ४३, ४,
१६; -नेः पावा ६, १, १, ७, १,
२; ८, ४, ६८.

पणिनीय-यम् पाशि १.

पणिनीय-रौठीय- पाग २,
२, ३१^०.

√पण्ड् पाधा. भ्वा. आत्म. गतौ;
चुरा. पर. नाशने.

पण्डक^c- कः आपश्रौ १२, ७, ११;
१३, १५, १; माश्रौ ५, २, १;
२६; या ६, ३२०; -कम् माश्रौ
५, २, १, २६; -काय आपश्रौ
१८, १५, ६.

पण्डग^e- नाः या ६, ३२; -नाः अप्रा
३, ४, ११; -गाय वाश्रौ ३, ३, २,
४४.

पण्डर-(>री-पा.) पाग ४, १, ४१^०

पण्डा^f- पाठ १, ११४; पाग ५, २, ३६.

पण्डित-पा ५, २, ३६; पाग २, १,
४०××; -तः शंघ २१९;
आपध १, २३, ३; विध ८२,
३०; हिध १, ६, ११; -ताः
माशि १६, १३; याशि २, ८४;
नाशि १, ३, १३; २, ३, ११.
पण्डित-ता-, पण्डित-त्व-,
पण्डितमन्-, पाण्डित्य- पा ५,
१, १२२.

पण्डारक^g- पाग २, ४, ६९.

पण्य- प्रसृ. √पण् द्र.

√पत्^h पाधा. भ्वा. पर. गतौ; दिवा.

आत्म. ऐध्वर्थे; चुरा. उभ. गतौ;

पतते अप ७०, ३२, १२××;

पतति आपश्रौ १७, २१, ८^१;

बौश्रौ ६, ८: ६; १६, ९: ४^१;

फ़हिश्रौ १२, ६, २६^१; १३, ५,
१४; आम्रिय; या २, ५^१; ३, १;
५, २; ९, १९^१; पततः अप ६७,

३, २; पतन्ति फ़बौश्रौ २, १०:

३४; ३६; सु ७, ४; बौय; पतसि

बौश्रौ ९, १८: १८; हिद्य १, १७,

२; पतामि सु १९, ३; पताति

कौस् १५, ३^१; पतात् ऋप्रा ४,

६३^१; पतन्तु कौस् १०७, २^१;

फ़पत आपश्रौ १३, ५, ८; बौश्रौ;

पताम या १, ११^१; फ़अपतत्

आपश्रौ ५, २, ४; सु २६, ४;

अप; पतेत् काश्रौ ६, १, १७;

आपश्रौ ९, ११, २५××; वैश्रौ.

पपात अप्राय २, ६^१; बुदे ३, २३;

७, ८८; पतिष्यामि सु ११, ३;

पसत् आपश्रौ २, २, १^१; फ़पतः

भाश्रौ २, १, ११; वैताश्रौ २, ४.

फ़पत्येते^a शांश्रौ १२, १५, १^१;

अप ४८, २१; निध २, २१;

फ़पत्येते^a आश्रौ ५, २०, ६;

शांश्रौ ३, २, ४.

पतयति निध २, १४^१; पतयतः

शांश्रौ ४, २, १^१; फ़पतयन्ति

आश्रौ २, १५, २; आपश्रौ १७,

१८, १; आपमं २, २२, १२,

आम्रिय ३, ८, २: १६; बौयि

१, १५: २६; हिद्य १, १६, ५.

पातयति आपश्रौ ७, २, ७;

वाश्रौ २, २, ४, ३; या ५, १९;

पातयन्ति वाध १६, ३७^२;

पातयामि आम्रिय १, ५, ३: ५;

पातयामसि आम्रिय २, ३, ५:

१३^१; पातयेत् ऋप १, ३, ५^२;

अप २२, ४, २; विध ११, ९;

७९, २०.

पात्यते ऋञ्च १, १, १.

पत- पा, पाग ३, १, १३४.

पतिष्ठ-ष्ठः माय २, १७, १^१.

पतत्- ततः सु ८, १; १९, ४^१;

२२, ५; आपध; -तताम् सु

१९, १; ३; अप ५८^१, ३, ११;

-तति काश्रौ २५, ११, ३३^१;

-तन्तः आपध १, १६, १२;

हिध १, ५, ११; -तन्तम् आश्रौ

४, ७, ४; काश्रौ ६, १, १६; माश्रौ.

पतन्ती-न्ती अप ५८^१, २, ३;

३, ३; या ११, ३६; -न्त्यः अप

५८^१, ४, १६.

पतत्र- पाठ ३, १०५.

a) वैप १ द्र. । b) व्यप. । व्यु. ? <पण- इति (पासि ६, ४, १६५) । c) तु. पागम. ।

d) <पणिन्- इति पासि. MW. च । e) = बुद्धि- । व्यु. ? <√पण् इति पाठ. । f) व्यप. । व्यु. ? ।

g) या २, २८; ५, २ शौच २, ७७ पा ६, ४, ९९; ७, ४, १९; ५४; ८४ पावा ७, २, ४९ परासृष्टः द्र. । h) पामे. वैप १,

१८८६ I द्र. । i) पामे. वैप १, ११६९ i द्र. । j) लघुशास्त्रीयः पाठः । k) सपा. तैप्रा २, ४, २, ४ पादयामसि

इति पामे. ।

पतत्रिर्- पाग ५, २, ६१^b;
-त्रि या ५, ३^f; -त्रिणः अप्राय
५, ६; अय १^g, १, ७; अप्रा ३,
४, १^f; -त्रिणा विध ५१, १७;
-त्रिणौ कौसू ६८, २६^h;
-त्रिषु कौसू ११५, २^f; -त्री^d
बौश्रौ १८, १७ : २१; वाश्रौ
३, १, २, १; आपमं २, २१, १७;
पाग ३, १४, ६^g; माग १, १३,
४; वाग १५, १.

पतत्रिणी- णी काग
२६, २^f^d.

पातत्रिण- पा ५, २, ६१.

पतत्रि-राज- -जम् सु ३१, १.

पतत्रि- (>पातत्र- पा.) पाउ ४,
६९; पाग ५, २, ६१^b.

१पतन- पा ३, २, १५०.

२पतन- -नम् छप ५८^c, ४, १;
१८xx; विध; -ने अप ५८^c,
४, १; ६८, २, ३७; ३८; काध
२७६ : २.

पतन-खण्डा(ण्ड-आ) दि- -दीन्
वैश्रौ २०, २९ : ६.

पतन-फालन-खण्डनो (न-उ)-
द्वर्तन-संसर्पण- -णेषु बौश्रौ २७,
४ : १३.

पतन-फालन-खण्डनो (न-उ)-
द्वर्तन-संसर्पण-विपरीतव्यवाय-
करण- -णेषु बौश्रौ २७, ३ : १४.

पतन-भेद- -दाभ्याम् शैशि १६,
५; पाशि २८; माशि ४, ७;
याशि २, ७९; नाशि २, ८, ३०.

पतना(न-अ)न्त^f- -न्ताः कप्र ३,
३, ८.

पतनीय^g- -यात् बौध ४, ५,
२४; -यानाम् आपध १, २८,
१४; बौध २, १, ५१; -यानि
शंघ ३७८; आपध; -ये विध
१५, ३६; -येन हिश्रौ २२, २,
१९; वाध २३, ३९; -येभ्यः
आपध १, २, १९; हिध १, १,
५२; -येषु हिध १, ७, ४९;
-यौ आपध १, २९, १६; हिध
१, ७, ७३.

पतनीय-वृत्ति- -त्तिः आपध
१, २९, १७; हिध १, ७, ७४.

पतनीय-सेवा- -वायाम्
गौध २१, १२.

पतनीया(य-आ) च्चप- -पे
विध ५, २९.

पतनु- पाउमो २, १, ७९.

पतन्त^h- >न्त-क^f- -कः बौश्रौ
२६, ३ : १८^f; लाश्रौ ९, ११, ६;
-कस्य निसू ८, ८ : १.

पातन्तक^h- -के निसू ८, ८ :
१०.

पतयत्- -यन्तम् आपमं २, १३,
७; माग २, १८, २.

पतयालु- पा ३, २, १५८.

पतयालू- पावा ४, १, ७१.

पतस- पाउ ३, ११७.

पतापत- पावा ६, १, १२; -तानि
कौसू १२८, १; -तेषु कौसू ९३,
३५.

पतित, ता- -०त वाध २०, ३०;

-तः बौश्रौ २८, १३ : २१;

माश्रौ २, ४, ६, २६^f; वाधूश्रौ

४, ८६; १२^f; वैताश्रौ १६, १७^f;

बौग; -तम् काश्रौ २५, १२,

८; बौश्रौ २४, ३३ : १४; कौसू;

-तस्य काश्रौ २५, ८, १५; शंघ

४३४; आपध; -ता कौसू १२६,

७; कप्र ३, ४, ८; -ताः बौश्रौ

२, १० : ३२^f; सु १३, ४; बौध;

-तानाम् वैगृ ३, ७ : २१; वाध

१५, १७; -ताम् वाध २०, १६;

बौध २, १, ४४; २, ४३; -ताथ

आमिगृ २, ६, ७ : ६; -तायाम्

आपध १, २८, ९; हिध १,

७, ४५; -ते वैगृ ५, १ : २२;

६, १४ : ४; कप्र २, ७, ९; अप;

-तेन वाध १, २२; १३, ५१;

बौध २, १, ६२; विध ३५, ३;

-तेभ्यः कौसू ४६, ७; -तैः

आपध १, २१, ५; बौध २, २,

४२; ३, ४२; हिध १, ६, ३५.

पतित-क्रीबा (ध-अ)चिकित्स्य-

रोगविकल- -लाः विध १५, ३२.

पतित-चण्डाल-सूतिको (का-उ)

दक्या-शव-स्पृष्टि-तत्स्पृष्ट्यु-

(छि-उ)पस्पृष्टान- -ने गौध

१४, २९.

पतित-चाण्डाला(ल-आ)राव-

श्रवण- -णे वाध २३, ३४.

पतित-तजात-वर्जम् बौध २,

२, ४१.

a) वैप १ द्र. b) पतत्रि- इति पाका. c) पाभे. वैप १, १८८८ d द्र. d) पाभे. वैप १,
१८८८ f द्र. e) ष्रि (वैतु. BC. ष्रिः) इति पाठः? यनि. श्लोघः। f) विप.। बस.।
g) = पाप-कर्मन्-। पाप्र. (३, ३, ११३) करणे अनीयर् प्र.। h) ह्यच् प्र. उंसं. (पाउ ३, १२८)।
i) = अश्व-भेद-। स्वार्थे कः प्र.। j) = राजसूय-भेद-। k) स्वार्थे अण् प्र.। l) पातीतः
इति पाठः? यनि. श्लोघः (तु. सपा. ऋ १०, १७, १३ स्कन्ः इति, तै ३, १, १०, १ पतितः
इति च)।

पतित-त्व- -त्वात् नाशि १,४,४.
 पतित-दन्त^२ - -न्तम् अप ३७,
 ८,१.
 पतित-ध्वज-वत्- -वान् अप
 ६८,४,३.
 पतित-प्रवृत्ति- -त्तिः बौध २,
 १,४५.
 पतित-वृत्ति^३ - -त्तिः गौध ४,२७.
 पतित-संयोग- -गः वाध १,
 २०.
 पतित-संन्यवहारिन्- -री शंघ
 ३९०; ४१४.
 पतित-संसर्ग^४ - -र्गान् विध
 ८२,२३.
 पतित-संस्पृष्ट- -ष्टः शंघ ३९०.
 पतित-संप्रयोग- -नो वाध २०,
 ४५.
 पतित-संभाषण- -णं बौध ४,
 ११,१.
 पतित-सावित्री-क^५ - -कः वाध
 ११,७६; -काः आगृ १,१९,८;
 शांशु २,१,९; पाण्ड; -काणाम्
 पाण्ड २,५,४२.
 पतित-सावित्र्यु(त्रि-उ)पनय^६-
 -ये काध २७४ : ४.
 पतिता(त-अ)न्यज-मूर्खा(ख-अ)
 धार्मिक-वैरिन्- -रिभिः वैध
 ३,३,४.
 पतिता(त-अ)न्यजात- -तान्
 वैध ३,१,१३.
 पतिता(त-अ)न्न- -न्नस्य कप्र २,
 ९,२१.
 पतितान्न-वर्जिन्- -र्जी वाध
 ८,१७.
 पतिता(त-अ)र्ध्वारीर- -रस्य

वाध २१,१५.
 पतिता(त-उ)त्तर- -रम् वैश्री
 १,१ : १२.
 पतिता(त-उ)न्मत्त-षण्डक- -कैः
 अप २२,१२,४.
 पतितुम् बौध ५ : १३.
 पतित्वा वाधुश्री ३, २८ : २; अप्रा
 ३,४,११.
 पत्र,त्र^७ - पा ३, २, १८२; पाग
 २,४,३१^८; ५, १, ४; २, ९७;
 -त्रम् सु २८, १; विध १८,
 ४४; -त्रागाम् अप ६५, ३, ८;
 -त्राणि वैशु ५, १२ : ६; १०;
 अप ३५,१,१४; बौध ११ : ६;
 १२ : ४; -त्रात् पावा ४, ३,
 १२०; -त्रे आमिष्ट २, ४, ११;
 १०; पा ३,१, १२१; -त्रेण वैशु
 ५, १० : १; -त्रैः विध ७,
 १२; वैध २,५,५; हिध^९ २, ५,
 १३२; १५७.
 पत्र-क- -पा ५,४,३.
 पत्र-तस(ः) माश्री ५,१,९,१८.
 पत्र-नाडी- -डीषु बौश्री १०,
 ४७ : ३; १९, २ : १५; वैश्री
 १९,६ : २६.
 पत्र-पुट- -टेपु गौपि २,३,२२.
 पत्र-पुष्प-यु(त>)ता- -ताः
 अप २६, २, ३.
 पत्र-पूर्व^{१०} - -वर्ति पा ४,३,१२२.
 पत्र-फल- -लानाम् सुध ३३.
 पत्र-भङ्ग- -ङ्गेन अप १,४३,१.
 पत्र-मूल- (>लक-पा.) पाग
 ५,४,३.
 पत्र-ल- -पा ५,२,९७.
 पत्र-शाक- -कम् विध ४४,३२.

पत्रा(त्र-अ)ङ्कुर-लता-
 -तानाम् अप ६४,८,१०.
 पत्राद्यवयव- -वः अप ३५,
 १,५.
 पत्रा(त्र-अ)ध्वर्यु-परिपद्- -षट्ः
 पा ४,३,१२३.
 पत्रीय- , पञ्च- पा ५,१,४.
 पत्मन्^{११} - -पत्मन् बौश्री ८,१४:४१;
 वाश्री ३,२,५,४; ऋप्रा ४,९८.
 पत्मिन्- -त्मी सु १३,२.
 प^{१२}पत्वन्^{१२} - -त्व^{१३} बौश्री १५, ७ :
 १५; आपमं २,२१,३०.
 प^{१३}पत्वन्^{१३} - -त्वने आपश्री १३,
 १२,४; १६,२९,२^{१४}; बौश्री ८,
 १२ : १८; वैश्री १६, १३ :
 १९; हिश्री ९, ३, ५०; -त्वा
 शाश्री ६, ८, १०-१२; बौश्री
 १०,४ : १७; माश्री ६, १, १,
 ३७; वैश्री १८,१ : ५१.
 पत्व(र>)री^{१५} - -री कौशु १०७,
 २^{१५}.
 पपात- पाग ३,१,१४०.
 रपात- -तः अप ७०^{१६},११, १९;
 -तम् अप ७०^{१६}, ९, ५; ११,
 ३२; -ते अप ७०, ७, २; -तैः
 अप ७०^{१६},११, २६.
 पातक- पाग २,४,३१^{१७}; -कम् शंघ
 ३९२; बौध ४,१, १४; -कात्
 आमिष्ट २, ४, ५ : २२; गौशु;
 -कानि वाध २८, ७; -कै या
 ६, २७; -कैभ्यः वाध २५, ३;
 शंघ; -केषु शंघ २६१; बौध
 ४,१,११; -कैः वाध २७,१८.
 पातक-पतनीय-वर्ज- -र्जेषु बौध
 ४,१,९.

a) विप. । बस. । b) वस. > षस. । c) = पक्ष- , पर्ण- , वाहन- । d) तु. पागम. ।
 e) सपा. आपध २,२२-२३,२ पणैः इति पाभे. । f) वैप १६. । g) पाभे. वैप १, १८८९ p. ६. ।
 h) पाभे. वैप १, १८८९ i. ६. ।

पातक-पतनीयो(य-उ)पपातक-
वर्ज- -जेषु बौध ४, १, ८.
पातक-वर्ज- -जेषु बौध ४, १, १०
पातक-वर्जम् बौध २, १, ५७.
पातक-संयोजक- -काः गौध
२१, २.
पातक-सम- -मानि गौध २१,
१०.
पातका(क-अ)भिशंसन- -ने
बौध २, १, ६०.
पातकिन्- -किनः विध ४३, ४५
पातको(क-उ)पपातक-संयुक्त-
-क्तः बौधौ २८, १ : ३१.
पातको(क-उ)पम- -मैः बौध
४, २, १४.
१पातन^a- (> पातनी- पा.) पाग
४, १, ४१.
२पातन- -नम् वाध २८, ७;
-नात् शंघ १०१.
३पातम् पा ३, ४, ५६.
पातयत्- -यताम् वाध १५, १८;
-यन् अप ७०^३, ३, ३.
पातित- -तः बौध १, ५, ५९; -तम्
वाध ३, ४५; -ते अप २३, ४, १.
पातुक- पा ३, २, १५४.
पापति- पावा ३, २, १७१.
पापत्यमान- -नः या ५, २.
पत- √पत् द्र.
पतङ्ग^b- पाउ १, ११९; -ङ्गः आश्रौ
३, ८, ११; बौधौ २६, ११;
२२१; शंघ ३७७ : ६; ३७८;
ऋअ २, १०, १७७^०; वृदे ८,

७५^०; अप्रा ३, ४, ११^d; -ङ्गम्
आश्रौ ४, ६, ३१; शाश्रौ ५, ९,
१४^१; ११, १४, १७; ऋअ २,
१०, १७७^१; वृदे ८, ७५^१;
-ङ्गाः निघ १, १४^१; -ङ्गात्
शाश्रौ ११, १४, २८; -ङ्गात्
शुप्रा ३, १५०; तैप्रा ९, २३;
-ङ्गाय सु ८, ३; अप १४, १,
७; १७, १, ८.
पतङ्ग-दंश-मशक- -काः अप ५९,
१, ७.
पतञ्जल^c- पाग २, ४, ६९; -लानाम्^f
बौधौ २६ : १.
पतञ्जलि^e- पावाग ६, १, ९३; -लिः
हिश्रौ २१, ३, १०.
पतत्- ,^०त्र-, ^०त्रि-, ^०त्रिन्- प्रभृ.
√पत् द्र.
पताका^b- पाउना ४, १५; पावाग
५, २, ११६; -काः अप १, ३१,
४; २१, ६, ३; ४.
पताका-तोरण- -गैः अप १२,
४, ५; १९^३, १, ५.
पताकिन्-, पताकिन्- पा ५, २,
११६.
पतापत- √पत् द्र.
पति^b- पाउ ४, ५७; -पतयः बौधौ
३, २२ : १२; १४, ९ : ४०;
माश्रौ; या ३, २; १०, १६^१;
४३; -पतय आश्रौ १, ४, ९;
३, १, १४^१; शाश्रौ; काश्रौ ९,
८, १५^१; आपश्रौ १४, २५,
११^१; ३४, ५; वैताश्रौ १८, ५^१;

-पतिः आश्रौ ४, ७, ४४^x;
शाश्रौ; आपश्रौ १६, ३३,
४^k; वैताश्रौ ३१, ४^१; कौसू २१,
७^१; वृदे ३, ७१^m; या ४, २५;
५, ४; ७, १०; १०, १२^१; १३;
२१^१; २३; ११, ३८; पा १,
४, ८; -पतिना आश्रौ १, ७, २^३;
९, ११, १४; शाश्रौ; या १०,
१५; -तिभिः वाध १२, २४^१;
२१, १४; -पतिभ्यः काश्रौ १०,
४, ११; आपश्रौ १३, १०, १^३;
बौधौ; आपमं १, १, ४^m; बौध
१, १, २५ⁿ; जैय १, २१ : ८ⁿ;
या ८, १०; -पतिम् आश्रौ ७,
६, ४; ८, १०, ३; शाश्रौ;
शांय ३, ११, १४^०; पाय ३,
९, ६^०; काय ५२, ५^०; विध
८६, १६^०; या ३, ५^१; ४,
२०; १२, २१; ११^१, १०;
३४; -पती आश्रौ ५, ५, १२;
शाश्रौ; -पती आश्रौ ६, १२,
१२^p; शाश्रौ ८, १०, १^p; आपश्रौ
१३, १८, २^p; १९, २, १९; बौधौ
७, १२ : २९; ४२; हिश्रौ ८,
१८, ६^p; ९, ४, ५^p; आपमं १,
६, १२; ७, ११; काय २६, १२;
बौध ४, २, १४; -तीन् वाधुश्रौ ३,
९२; ४; ऋप्रा ४, ७३^१; -तीनाम्
आपमं १, ६, ७^१; काय २५,
४७^१; वृदे १, ७५; -पतंते
आश्रौ ६, २, ६; ९, ११, १५;
शाश्रौ; आपश्रौ १०, २९,

a) कर्तरि ल्युः प्र. । b) वैप १ द्र. । c) = ऋषि-विशेष- । d) पाभे. वैप १, १८८९ U द्र. ।
e) = ऋषि-विशेष- । ल्यु. ? । °ञलि- इति भोजः (तु पागम.) । f) बहु. <पातञ्जल- । g) व्यप. । ल्यु. ? ।
पतत्- + अ° इति पासिवा. । h) = केतु- । ल्यु. ? । i) पाभे. वैप १, १८९० d द्र. । j) पाभे. वैप १, १५७६ i द्र. ।
k) पाभे. वैप १, १७६६ j द्र. । l) पाभे. वैप १, १८९१ k द्र. । m) = प्रजापति- । n) पाभे. वैप १, १९७४ f द्र. ।
o) पाभे. वैप १, १९३४ p द्र. । p) धर्मणस्वती इत्यस्य स्थाने सपा.; माश्रौ २, ५, ४, १३ वैताश्रौ २, ३, १५;
धर्मणस्वरी इति पाभे., पाय २, ११, १२ विशिष्टश्च पाभे. च । पृ १३५८ सरथ. धर्मणः > धर्मणः (सं.) इति शोघः ।

१^a; १३, १८, २^b; बौश्रौ ६, १६ :
 ५^a; ८, १८ : ६^b; भाश्रौ १०,
 २०, १^a; वैश्रौ १२, २० :
 ९^a; हिश्रौ ७, ३, १८^a; ९, ४,
 ५८^b; या १०, १६; -फंतेः
 शाश्रौ ६, ९, १७^c; आपश्रौ
 ८, १८, ३^d; बौश्रौ ५, १६ : २४^d;
 भाश्रौ ८, २१, १०^d; हिश्रौ ५,
 ५, १८^d; -लौ शुभ्रा ३, ३९^e;
 शौच २, ७०; -फंत्या काश्रौ ३,
 ८, २^f; आपश्रौ ३, ९, १०; बौश्रौ
 १, २० : ३०^fxx; भाश्रौ; माश्रौ
 १, ३, ५, १७^f; आपमं १, ५, १६^f;
 १७^f; माश्रु १, ११, २०^f; या ३,
 २१; -फंत्युः बौश्रौ १, १२ :
 ३३^g; भाश्रौ २, ५, ११^g; माश्रौ
 १, ७, ७, ७; हिश्रौ १, ७, २४^g;
 आपमं १, ६, ५; १६, ३^h; आम्रियः
 -फंथे आपमं १, ६, ४^h; काश्रु
 २६, ४^h; माश्रु १, १३, ६^h; १५;
 वाध १७, ५६, ६; या १, १९; ३, ५;
 १२, ८^h; -त्वौ कौसू ६२, १२;
 वाध; पा ६, २, १८.
 पति, लीⁱ - पा ४, १, ३३; -त्यः
 आपश्रौ १४, १३, १०; २०, १५,
 ७; १६, १९xx; बौश्रौ; -फंन्ति
 आश्रौ ४, १२, २; काश्रौ;
 -फंन्ति-ति आपश्रौ २, ५, ७;
 भाश्रौ २, ५, ८; माश्रौ १, २, ५,
 १०; हिश्रौ १, ७, २०; -तिमिः
 आपश्रौ १४, १५, २^k; -तिथै

आपश्रौ १०, २३, ४; ११, २१,
 ८^k; हिश्रौ ७, २, २९xx; -ली
 आश्रौ १, १०, ८^kxx; शाश्रौ;
 वैताश्रौ १५, ३^lफं^l; या ९,
 २९; ३३; ११, ३७; ४९; १२,
 ७; ८; ४६^l; -फंलीः आश्रौ १,
 १०, ४; ५; ५, ५, १८^lxx; शाश्रौ;
 हिश्रौ १५, ४, १०^l; या १२,
 ४५फं^l; -फंलीः आपश्रौ २, ५,
 ७; बौश्रौ; -लीनाम् शाश्रौ
 ८, ७, १३; १४, ५७, ९; आपश्रौ;
 माश्रौ १, ४, ३, १^mफं^m; वाश्रौ १,
 १, ४, ९^mफं^m; हिश्रौ ६, ४, १^mफं^m;
 -लीमिः हिश्रौ १०, ७, ४xx;
 आम्रियः; -लीभ्यः आश्रौ १२,
 ९, १०; काश्रौ ६, ९, १५;
 आपश्रौ, -लीम् आश्रौ २, १,
 २९ⁿफंⁿ; ७, १३xx; शाश्रौ;
 आपश्रौ १८, १७, १०; वाश्रौ १, ३,
 ७, ७ⁿ; हिश्रौ १३, ६, १०^o;
 आम्रिय १, ५, ३ : ९^p; -त्यः
 आश्रौ १०, ८, ८; शाश्रौ; या
 १२, ४४; ४५; -त्यः फंकीसू
 ८८, १२; १९; -त्या आश्रौ ३,
 १२, ९; शाश्रौ; -त्याः शाश्रौ १,
 १५, १०xx; काश्रौ; कौसू ६,
 १७^q; -त्याम् काश्रौ ७, ५, ११;
 आपश्रौ; -त्यै आश्रौ १, ११,
 १; काश्रौ ७, ६, २२; आपश्रौ;
 -त्योः आम्रिय २, ७, ३ : ८;
 -त्यौ हिश्रौ १४, ४, ३८^rफं^r.

पत्नी-पुत्र-शिष्य- -व्याणाम्
 वैश्रु २, ८ : १०.

पत्नी-मन्त्र- -न्त्राः वैताश्रौ
 ४, २३; -न्त्रैः वैताश्रौ ४, २३^sफं^s.

पत्नी-यजमान- -नौ शाश्रौ ४,
 १, १; काठश्रौ.

पत्नी-यजुष- -जूषि बौश्रौ
 १४, २२ : १.

पत्नी-यूपो (प-उ) च्छूयण-
 -णम् काश्रौ ८, ८, ३७.

पत्नी-योक्त्र- -क्त्रम् वाश्रौ
 १, २, ४, ४.

पत्नी-शोक- -कम् माश्रौ १,
 २, ५, १०; २, १, १, ४^t; वाश्रौ
 १, ३, २, १९; -कै भाश्रौ ६,
 ९, ५.

पत्नीलोको (क-उ) प-
 स्थान- -नम् माश्रौ १, २, ५,
 १०^uफं^u.

पत्नी-वत्त मीसू ९, ४, ९.

पत्नी-वत्त- पाग ५, २, ६१;
 -वत्त आपश्रौ ६, ५, १; -वत्तः
 बौश्रौ २५, २३ : १०; -वत्ता
 बौश्रौ २५, २३ : १३; -फंन्वत्त^v
 काश्रौ १०, ६, १९; शुभ्र १,
 ५००; शुभ्रा २, २०; -फंन्वत्तः
 शाश्रौ १८, ७, १४; अप ३२,
 १, १९^v; या ५, १८; -फंन्वत्तम्
 बौश्रौ^w ८, १४ : १८; २६, ३१ :
 १२; अशां २४, ६; -वत्ता^x
 आपश्रौ १३, १४, ८; बौश्रौ ८,

- a) पाभे. वैप १, १८९३ अ द्र. । b) पाभे. पृ १३५७ h द्र. । c) पाभे. वैप १, १८९० d द्र. । d) सपा.
 मा ३, ६० का ३, ८, ५ माश २, ६, २, १४ असुतः इति पाभे. । e) वैप १, १८९३ j द्र. । f) पाभे. वैप १, १८९३ l द्र. ।
 g) पाभे. वैप १, १८९३ p द्र. । h) पाभे. वैप १, १८९१० द्र. । i) वैप १ द्र. । j) पाभे. वैप २, ३ सं गोब्रा
 २, २, ९¹² टि. द्र. । k) पाभे. वैप १, १६०० l द्र. । l) ळी इति पाठः? यनि. शोधः (तु. आपश्रौ २, १४, ३) ।
 m) पाभे. वैप १, १८९४ m द्र. । n) सपा. ळीमन्वारभ्य <> ळ्यन्वारभ्यम् इति पाभे. । o) ळी इति पाठः ?
 यनि. शोधः (तु. आपश्रौ १८, १७, १०) । p) सपा. हिश्रु १, २०, १ विशिष्टः पाभे. । q) ळ्याज् इति पाठे ळ्याः
 अज् इति संधिः द्र (तु. संस्कृतः टि.) । r) पाभे. वैप १, १८९४ f द्र. । s) पाभे. वैप १, १८९५ f द्र. ।

१४:१९; २६, ३१:१३;
वैश्रौ १६, १७:९; हिश्रौ ९,
४, २०; -०वान् माश्रौ २, ५,
२, १२^{१०}।

पालीवत^९- पा ५, २,
६१; -तः आश्रौ ५, ५, २१^१;
बौश्रौ १७, १६:११; २५,
२०:२०; २६, २४:१५;
वैताश्रौ २०, ४; -तम् शाश्रौ
७, ३, ४; काश्रौ; -तस्य आश्रौ
५, १९, ७; शाश्रौ; -ते आपश्रौ
२०, २२, १४^१; बौश्रौ २५, २३:
१०; हिश्रौ १४, ५, १०; मीस्;
-तेन बौश्रौ १७, १५:१; माश्रौ
५, २, १२, ३४.

पालीवत-त्रयोदश^९-
-शान् बौश्रौ १७, ११:२.

पानो-वर्जम् आपश्रौ ८, १४,
१; १०, २१, ५; १७, १६, ६;
वैश्रौ १९, ६:९९.

पाली-विनाशि(न्>)नी-
-नी अप २२, ३, ३.

पाली-शाल, ला^१- लम्
आश्रौ १२, ६, ६; शाश्रौ १७,
६, ४; काश्रौ; -ला वैश्रौ १२,
४:११; लाश्रौ ८, १, २२;
१०, १५, ९; -लात् बौश्रौ ८,
१९:२; -लाम् आश्रौ ४, १०,
१; द्राश्रौ १, २, २९××; लाश्रौ;
-लायाः द्राश्रौ ७, ३, १६;
लाश्रौ ३, ३, १८; -लायाम्
काश्रौ १५२; बौश्रौ २९, ११:
२४; जैश्रौ ७:११; द्राश्रौ ७,

३, ९; लाश्रौ ३, ३, ११; -ले
शाश्रौ ९, २७, ४; काश्रौ।

पालीशाल^९- -लान्
द्राश्रौ ४, ४, ३; लाश्रौ २, ३, १८.
पली-शिरस्- -रः काश्रौ २६,
४, १४.

पली(ली-इ)ष्टका^९- -का:
बौश्रौ १९, ७:४७; -के बौश्रौ
१९, ७:८; १७; २८; ३७.

पली-संयाज^१- -जस्य बौश्रौ
१५, ३५:१२; -जाः आश्रौ
१, १०, ५; शाश्रौ; -जान् आश्रौ
१, ५, ३१; शाश्रौ; -जानाम्
आपश्रौ ५, २८, १३; बौश्रौ;
-जेभ्यः आश्रौ ८, १२, २७;
शाश्रौ १०, १३, २६; काश्रौ;
-जेषु बौश्रौ २०, १४:२७××;
वाश्रौ; -जैः आश्रौ ६, १३, १;
शाश्रौ १, १५, १; जैश्रौ २१:
१^१; -जौ भाश्रौ ४, १९, ५.

पलीसंयाज-कर्मा (र्म-
अ) न्त- -न्ते जैश्रौका २०५.

पलीसंयाज-प्रभृति^१-
-ति माश्रौ २, ५, ४, १५; वाश्रौ
१, ७, २, १५.

पलीसंयाजा(ज-अ)न्त,
न्ता- -न्तः आपश्रौ ११, २०,
१६; बौश्रौ ६, ३२:१३××;
माश्रौ; -न्तम् शाश्रौ ५, २०, ८;
आपश्रौ; -न्ता शाश्रौ ५, ३, ९;
आपश्रौ; -न्ताः वैताश्रौ १५,
१९^१; -न्तानि आश्रौ ७, १, ५;
काश्रौ १२, ३, २३; वाश्रौ ३,

२, १, ३७; -न्ते काश्रौ २०, ८,
१०; आपश्रौ १४, २१, १२;
वाश्रौ ३, ४, २, २.

पलीसंयाजान्त-ता-
-ता शाश्रौ १०, १, १५.

पलीसंयाजान्त-त्व-
-त्वम् मीस् ९, १, २९.

पलीसंयाजिक^१- -के
आश्रौ १, ४, ५.

पली-संयाजन- -नम् काश्रौ
६, ९, १४.

पली-संयोजक- -काः बौश्रौ
२०, १०:२०.

पली-संचार- -रान् वैश्रौ
१३, ७:३.

पली-संनहन- -नम् काश्रौ
८, १, ५; आपश्रौ; -नात् वैश्रौ
९, ५:६; हिश्रौ ५, ३, १३××;
-नानि बौपि ३, ४, १.

पली-हीन- -नेन अप २३,
१२, ५.

पली-होम- -मम् बौश्रौ
२४, २९:१४.

पल्य(ली-अ)गार- -रे भाश्रौ
१०, १०, १.

पल्य(ली-अ)जलि- -लौ
बौश्रौ ५, १७:२; ६, २४:
२९; ३६; वैश्रौ २, ६:३; ९,
११:१२.

पल्य(ली-अ)दर्शन- -नम्
काश्रौ २६, २, ३.

पल्य(ली-अ)न्याज-प्रति-
-षेध- -धः मीस् १०, ७, ३८.

a) अलुत्तिकः पाठः। b) पामे. वैप १, १८९४ f द्र.। c) = प्रह-, यूप-, [पलीशब्दवत्-] अथ्याय-
वा अनुवाक- वा। अण् प्र.। d) सस्थ. त्रयोदशे सूत्रे त्वाष्ट्राः इत्यनन्तरं पठितव्यम् (तु. हिश्रौ १४, ५, १० C. च)।
e) विप.। बस.। f) उप. वैकल्पिकं नपुंसकत्वं द्र. (पा २, ४, २५)। g) तावभक्तिकः अण् प्र.। h) मल्ले.
कस.। i) वैप १ द्र.। j) विप.। बस. वा पंस. वा। k) पाठः! न्वः इति शोधः (तु. सोमादित्यः C. च)।
l) तस्येदमीये प्र. उप. वृद्धिः उरसं. (पा ७, ३, १०)।

पत्न्य(ली-अ)न्वारब्ध-
-ब्धः काश्रौ ८, १, २.
पत्न्य(ली-अ)न्वारम्भम्^१
माश्रौ १, ३, ५, ५.
पत्न्य(ली-अ)भाव- वे
आपश्रौ २, ६, ४; शंघ १८८.
पत्न्य(ली-अ)भिगामिन्-
-मि विध १७, ४.
पत्न्य(ली-अ)वेक्षण- -णम्
चाश्र १ : १२.
पत्न्या(ली-आ)यतन- -ने
आपश्रौ ६, १२, ५.
पत्न्या(ली-आ)शिस- -शीः
शुश्र १, २७२; ४, ८५.
पत्न्यो(ली-ओ)दन^२- -नस्य
भाश्र २, ९ : १; हिश्र २, ८, ७.
पति-का(म>)मा- -मा आपश्रौ
८, १८, ३; बौश्रौ; -माः काश्रौ
५, १०, १५; माश्र २, १४, १५;
-मायाः आपश्रौ ८, १८, ५;
वैश्रौ १, ११ : १२; गो २, ३५;
-मायै^३ भाश्रौ ८, २२, ३;
माश्रौ १, ७, ७, ९; हिश्रौ ५;
५, १८.
पति-कुल- -लम् अश्र १, ४५, ८;
-फँले माश्र १, १४, १०^४; गोश्र
२, ३, ९; जैश्र १, २१ : ३४.
पति-अ(अ>)न्नी- पा ३, २, ५२;
५३; -घ्नी आपमं १, १, ५; १०,
३; ६; आश्र १, ५, ५; कौश्र.
पतिघ्न्य(घ्नी-अ)न्त^५- -न्तम् वैश्र
३, ४ : ३.

पति-स्व- -स्वम् मीसू ९, ३, ३९.
पति-नामन्- -म गोश्र २, १, ९;
३, ९; जैश्र १, २१ : ३४; ३६.
पति-पर- -रयोः शुश्र ३, ५१.
पति-पुत्र- -त्रौ विध ६, ३२.
पतिपुत्र-कृत- -तम् विध ६,
३१.
पति-पुत्र-पृष्ठ-पार-पद-पयस्-पोष-
-षेषु पा ८, ३, ५३.
पति-पुत्र-शील-संप(अ>)न्ना-
-न्नाः गोश्र २, ४, ६.
पति-पूजन- -नात् शंघ ३३२.
पति-पोषण- -णम् काश्र २५, ३७^६.
पति-प्रिया- -या अश्र १, ४४, ८.
पति-यान- -नः गोश्र २, १, १९;
जैश्र १, २० : १६.
पति-रेतस्- -तः^७ शाश्र १, १९, ६;
आश्रिण १, ५, ५ : १४^८.
फँपति-लोक- -कम् आपमं १, ४, ४^९;
११, ५; आश्रिण ३, ५, ६ : १३;
७, ४ : १०; बौश्र १, ४, १७^९;
बौपि १, ५ : १; २, ४, १; जैश्र
१, २१ : ११; २०^९; वाध २१,
११^९; -के आपमं १, ४, ९;
आश्रिण.
पति-व(त्>)ती- -ती शाश्रौ १६,
१३, १३; आपमं १, १०, २^{१०};
कौश्र १, १२, १; शाश्र १, १९,
१; बौश्र १, ६, २३.
पतिवत्नी- पा ४, १, ३२.
पति-वयस्^१- -यसः आपश्र १, १४,
२१; हिश्र १, ४, ५०.

पति-विमानिता- -ता कप्र ३, १,
१३.
पति-वेदन^१- -नः अश्र २, ३६;
१४, २; -फँनम् आपश्रौ ८, १८,
३^६; बौश्रौ ५, १६ : २४^६;
भाश्रौ ८, २१, १०^६; वाश्रौ
१, ७, ४, ७^६; हिश्रौ ५, ५,
१८^६; दाश्रौ १३, ३, ३^६;
काश्र २५, ३५^६; कौसू ७५, ७^६;
-नानि कौसू ३४, १२.
पति-वता^१- -ता वैश्र ६, २ : ८;
कप्र ३, ६, ६; वृदे ४, ३;
आज्यो १३, १०; -तानाम् वाध
२१, १४; -ताम् आश्रिण २, ७,
६ : १०; -तासु विध २९,
२१.
पति-शब्द- -ब्दे ऋप्रा ४, ४२; ४६.
पति-शुश्रूषा- -षया कप्र २, १०,
१२; -पायाः शंघ ३३७.
पति-संयोग-काल- -ले आज्यो १४,
५.
पति-संवननी^३- -नी वृदे ८,
५७.
पति-स्थ- -स्थः हिशि ५ : ७^१.
पति-स्थान->^४नीय- -यः आश्र
४, २, १८.
पति-हित- -तः^२ आश्रिण ३, ५, ६;
१५; बौपि १, ५ : २.
पत्य(ति-अ)न्त^५ पा ५, १, १२८.
पत्या(ति-आ)दि- -दिषु पावा ८,
२, ६९^१.
^१पत्यु(ति-उ)त्तरपद- -याम् पा ४,

a) पाशे. पृ १४८० n द्र. । b) मलो. कस. । c) सप्र. °मायाः <> °मायै इति पाशे. ।

d) उत्तरेण इयम् इति पदेनास्य संघिरार्थः । e) = मन्त्र-विशेष- । बस. । f) सपा. आपमं १, १२, ८ प्रश्र. प्रतिरेतः
इति पाशे. । g) पाशे. वैप १, १८९२ ० द्र. । h) णि इति पाठः ? यनि. शोषः (द्र. ऋ १०, ८५, २१) ।
i) विप. । बस. उप. = आयुस्- । j) विप., व्यप. (अश्र.) । वैप १ द्र. । k) पाशे. वैप १, १८९६ j द्र. ।
l) विप. > नाप. । बस. । m) = ऋग्-विशेष- । उप. <सं/वन् । n) सप्रा. पतिस्थः <> पतिविधः
इति पाशे. । o) दु. पाम. पाशि. ।

१,८५.

पतित-पतितुम् प्रसृ. √पत् द्र.
 १पती^१ जैश्रौका ९०.
 पतेर- पाउ १, ५८.
 पत्त-तस् (:) √पद् द्र.
 पत्तन^२- पाउ ३, १५०; पाग २, ४, ३१०; -ने नाशि २, २, १३.
 पत्तस् (:), पत्ति- √पद् द्र.
 पत्तूर- पाउभो २, ३, ५९.
 १पत्त्य अप्राय ३, ८.
 पत्तन्-पत्र- √पत् द्र.
 पत्रिक-(>पत्रिक्य-पा.) पाग ५, १, १२८.
 १, २पत्वन्-, पत्वरी- √पत् द्र.
 पत्सङ्गिनी- √पद् द्र.
 पत्सल- पाउ ३, ७४.
 पत्सु-तस् (:), √पद् द्र.
 √पथ्, पथ्^३ पाधा. भ्वा. पर. गतौ; चुर. पर. प्रक्षेपे^४ गतौ च, पथति अप ४८, २०^५; पथामि सु १२, ५; १३, २; पथेयम् सु १५, ५. पथ्यास्म कौसू ६८, २६^६.
 पथ्^७- पथः आश्रौ ५, १, १५; ६, २, ६; शाश्रौ ९, ६, ६; १२, १७, १^८; काश्रौ; आपश्रौ १३, २२, ५^९; बौश्रौ ४, ११: १९^{१०}; ऋया ३, २; ६, २; ८, ६; १२, ४३^{११}; ऋपथःऽपथः आश्रौ ३, ७, ८; शाश्रौ; या १२, १८; ऋपथः शाश्रौ ३, ५, ७; बौश्रौ १३, २: ११; द्विश्रौ २२, २, ७; आश्रु ३, ७, ८;

पथा ऋआपश्रौ ३, १९, ६; १०, १, ६××; काठश्रौ; या ५, २१; ६, ७; १२, २१; २८^{१२}; १४, १९; ऋपथ्याम् आश्रौ ३, ७, ८; शाश्रौ ६, १०, ४; वैताश्रौ; या २, २८; पथि शाश्रौ ६, १३, २^{१३}; बौश्रौ; विष ५, १४७^{१४}; पथे तैप्रा ८, २५^{१५}.
 ऋपथि-षद्- -षदे पागु ३, १५, ७; हिरु १, १६, ८^{१६}.
 पथि-षदिक- -द्वी शौच २, १८०^{१७}.
 पथि-स्थि(त>)ता- -तासु विष ९९, २२^{१८}.
 पथ्य, थ्या^{१९}- पा ४, ३, ५४; ४, ९२; -थ्यस् द्राश्रौ ३, २, १९; लाश्रौ १, १०, १४; निसू १, ४: १२; ७, ८: १४; विष ६८, ४८; -थ्यया^{२०} लाश्रौ ६, २, १७; १८; -थ्या आश्रौ ४, ३, २^{२१}; ६, १४, ३; शाश्रौ; वैश्रु ३, १५: ८^{२२}; अप्राय १, ४^{२३}; अप ४८, १३९^{२४}; शुश्रु १, ४२८^{२५}; निष ५, ५^{२६}; या ११, ४५^{२७}; -थ्या: लाश्रौ ६, २, २; ३०; वैताश्रौ १३, २; -थ्यान् आश्रौ १२, ८, ४०; -थ्यानाम् निसू ६, १: ६^{२८}; -थ्यानि निसू १, १: २८; -थ्याभिः लाश्रौ ६, २, १४; -थ्याम् शाश्रौ ५, ५, १; ८, १२, ३; काश्रौ; -थ्यायाः वैताश्रौ १३, २; २४, ८; -थ्या-

याम् निसू १, १०: १०; अप १, ३४, ४; -थ्यायै शाश्रौ १६, १०, ११; बौश्रौ ६, ११: १^{२९}; वैताश्रौ ३७, २०; वागु १३, १; -ऋथ्यासु आश्रौ ४, ३, २; शाश्रौ ५, ५, २; शांगु ६, ४, २; मागु २, १५, ६; -०थ्ये बौगु २, २, ७.
 पथ्य-ता- -ताम् निसू ४, ७: १६.
 पथ्य-प्रक्रम^{३०}- -मस् निसू २, ८: १८.
 पथ्या-कृत- -तेषु मागु २, १५, ६^{३१}.
 पथ्या(थ्या-आख्य>)ख्या^{३२}- -ख्या निसू ४, ७: १७.
 पथ्या-पङ्क्ति- -ङ्क्तयः अत्र १, ३; ११××; -ङ्क्ती अत्र ३, २९××
 पथ्यापङ्क्त्या(ङ्क्ति-आ) दि- -दि अत्र ११, ३ (२).
 पथ्या-पाद्- -द्ः नाशि २, ७, १.
 पथ्या-बृहती- -तीम् शुश्रु १, १९६; ४३१××; -त्थौ अत्र १०, ४; १९, १.
 पथ्याबृहती-सतोबृहती- -त्थौ शुश्रु ३, २३०.
 पथ्या-लक्षण- -णम् नाशि २, ७, २.
 पथ्या-न्व (त>)ती- -त्थै वाधुश्रौ ४, ४४: २^{३३}.
 पथ्या(थ्या-अ)वसान^{३४}- -नम्

a) पृ २३० k द्र. । b) = नगर- । व्यु. ? । c) तु. पागम. । d) या २, २८ परासृष्टः द्र. । e) √पथ् (यद्र.) इति पाभे. । f) पाभे. वैप १, १८८७ d द्र. । g) वैप १ द्र. । h) वैप १, १८९७ d द्र. । i) पाभे. वैप १, १८९७ c द्र. । j) पथि ग्रामे विचातान्ते इत्यस्य स्थाने पथिग्रामसीमान्ते इति जीसं. । k) व्यु. पाभे. च वैप १ द्र. । l) विलोलुपासु इति जीसं. । m) बप्रा. । विप., नाप. । पाप्र. <पथिन्- । n) = क्विप्पुति- विशेष- । o) = हरीतकी- । p) पाभे. वैप १, १८९८ j द्र. । q) = देवता- । r) = छन्दो-विशेष- । s) विष. । बस. । t) पाभे. वैप १, २०२७ m द्र. ।

निसू २, ८ : १८; ६, ६ : २०;
८ : ३४; ८, ४ : १३.
पथ्या-स्थान- न्ने निसू १,
१० : १२.
पथ्या-स्वस्ति-देवता->
०व(त्य>)त्या- त्या ऋत्र २,
१०, ६३.
१पथ^१- पाठवृ ४, १२; -थम् बौगृ
४, ४, १०; -थात् बौगृ ४, ४, ९.
पथ-गामिन्- -मिनः या १४,
१०.
पथे-शा^२- -ष्टाम्^३ आपमं १,
६, १२; कागृ २६, १२; बौगृ
४, २, १४.
पथि^४- पथयः वाश्रौ १, ५, ५, ७^६;
वागृ ३, १, २^६; बौघ २, ६, १३^६;
विषय, १०६\$; -पथिमिः आश्रौ
२, ७, ९×४; आपश्रौ; या ८, १९;
१४, ३; २१; -थिम्यः शाश्रौ
१५, १४, ४; -थिषु बौघ ३, २,
९; ११; १२; -थीनाम् शाश्रौ
१६, १, १४; वैताश्रौ २४, १;
कागृ २६, ७^६.
पथेय^५- पा ४, ४, १०४.
१पथिक^६- पा ५, १, ७५; पाग
५, १, १२८; -कः अप २३, ८, १.
पथिक्य- पा ५, १, १२८.
पथि-कार^७- पाग ४, १, १५१.
पथिकार्थ- पा ४, १, १५१;
-र्थाः बौश्रौ ४१ : १५.
पथि-कृत्^८- कृत् आश्रौ ३,
१०, ११; शाश्रौ १६, १०, ८;

बौश्रौ २७, ६ : २३^६; २६; अप्राय
२, ३^६; -कृतः आमिगृ ३, ८, २;
५७; बौपि १, १५ : ६२; -कृता
माश्रौ ३, १, ३४; वैश्रौ २०, १५;
१०; -कृते शाश्रौ ३, ३, २×४;
काश्रौ; -कृद्भ्यः हिपि १८ : ६^६.
पाथिकृत^९- -त्म् बौश्रौ
२३, १ : १०; १२; १७; अप्राय
३, १०; -तेन हिगृ १, २६, २२.
पाथिकृती- -ती
आपश्रौ २, ४, ५^६; बौश्रौ; -तीम्
आपश्रौ २, १०, १७; १४, ३१,
२; वैश्रौ २०, २० : ३; हिपि
२० : ४; -त्या बौश्रौ २८, ४ :
३०; हिपि २० : ४; -त्याम्
अप्राय ५, ३.
पाथिकृत्य(ती-अ)-
नाग(त>)ता- -ते माश्रौ ३,
१, ३३.
पथिकृद्-दैवत्य- -त्यम् वैगृ
६, १९ : ४.
पथिकृद्-वैश्वानरी- -यौ
वैश्रौ २०, १५ : १०.
पथि-कृत- -तयोः पा ४, ३,
८५; पावा १, ३, १०.
पथि-देवता->०व(त्य>)त्या-
-त्या शुश्र १, २८३.
पथि-पा^{१०}- -पपाः^१ आपश्रौ ६,
१८, ३; ७, २३, ६; माश्रौ १, ६,
२, १३; हिश्रौ ६, ६, १७.
पथि-रक्षि^{११}- -क्षयः सागृ १,
१३, १३; वागृ १५, ६; -क्षी

हिपि १८ : ८^६.
पथि-शद्व- -न्दे ऋपा ४, ५३.
पथ्य(थि-अ)ङ्ग-कर्म-पत्र-पात्र-
-त्रम् पा ५, २, ७.
पथ्य(थि-अ)दन^{१२}- -नम् या १,
१७.
पथ्यु(थि-उ)द्यानो(न-उ)दक-
समीप- -पे विष ५, १०६.
पथिल- पाठवृ १, ५७.
पन्थ^{१३}- > पान्थ^{१४}- पा ५, १, ७६;
-न्यः कप्र ३, २, १५.
पन्थक- पा ४, ३, २९^६.
पन्थन्^{१५}- -न्यानः पृआपश्रौ २०,
२, २; १६, १५; बौश्रौ; -न्यानम्
आश्रौ २, ५, ६; काश्रौ; या १०,
२०; -न्यानौ शुश्र २, ३९०.
पन्था^{१६}- पाठ ४, १२; पा ६, १,
१९९; पावा १, १, ६३; ७, १, १;
-पन्थाः आश्रौ २, ५, ६; शाश्रौ
६, १०, १०; आपश्रौ; आपमं
१, १, २^६; आमिगृ १, ५, १ : १^६;
कागृ २५, १^६; बौगृ १, १, १५^६;
वागृ १०, ७^६; जैगृ १, २० : ३^६;
या २, २८^६; ११, ४५; -न्याम्
आश्रौ १, ३, २५×४; आपश्रौ;
वागृ १५, २^६; या १०, २०^६;
११, ७.
२पथ^{१७}- (> पाथ-पा.) पाग ४, २,
१११.
२पथिक- (> पाथिक-पा.) पथिक-
टि. द.
√पद्^{१८} पाधा. दिवा. जुरा. आत्म.

a) =मार्ग-। अधिकरणे षः प्र. (पा ३, ३, ११८)। b) वैप १ द.। c) पाभे. वैप १, १८९८ d) द.।
d) पाभे. वैप १, १८९८ m) द.। e) पाप्र. <पथिन्- इति। f) व्यप.। उस. उप. अण् प्र.। पथि-कारिन्-
इति पागम., पाथिकारिन्- इति पाका.। g) विप., नाप. (इष्टि-).। h) षा इति छन्दोदशा पाठः।
i) साऽस्यदेवतीयः अण् प्र.। j) पाभे. वैप १, १८९९ f) द.। k) =पाथेय-। l) पाभे. वैप १, १८९९ p) द.।
m) पाभे. वैप १ लोकम् ऋ १०, ८५, २० टि. द.। n) =ऋषि-विशेष-। व्यु.। o) या २, ७, २८, ५, १९
अप्रा २, ४, १० परानुष्टः द.।

गतौ, पद्यते भाग्य २, २७ :
 ११; १७; या ५, १८;
 पद्यन्ते शांश्रौ १५, १८, १;
 ङपद्यताम् माश्रौ १, ८, ३, ३७;
 नाश्रौ १, ६, ५, ९; पद्यन्ताम् शांश्रौ
 १५, १८, १; अग्र ३, १९१;
 ङपद्यस्व आपमं २, २१, ३३;
 भाग्य २, २६ : १६; हिय १,
 १५, ६; पद्येत आपश्रौ ९, ११,
 २६××; बौश्रौ; पद्येयाताम्
 आपश्रौ १४, ३३, ४; हिश्रौ
 १५, ८, ३८.
 पेदिरे शांश्रौ १५, १८, १;
 ङपदीष्ट ऋप्रा ४, ५७; ५८;
 शौच २, ५८; अवादि पा ३, १,
 ६०; पादि बौश्रौ १०, ४ : १७१;
 अपस्तत शांश्रौ १५, १८, १.
 ङपादयामि आपश्रौ १३, १८, ९;
 बौश्रौ ७, १२, ३०××; हिय.
 अपिपादयिषीत् निसू ४, ७ :
 १६; ८, ५ : ४०.
 पत्ति^१ - पाठ ४, १८३; -त्तीनाम्
 वाश्रुश्रौ ३, ७९ : १२.
 पत्ति-गणक- पाग २, २, ९; ५,
 १, १२९^२; ६, २, १५१.
 पात्तिगणक- पा ५, १,
 १२९.
 पद्^३ - पा ६, १, ६३; ४, १३०;
 पत्सु आपश्रौ २०, ५, १९; बौश्रौ
 १५, ७ : ३; हिश्रौ १४, २, १;
 पदः आश्रौ ३, ३, ११; शांश्रौ;
 या ९, ७१; पदाकाश्रौ ७, ८, १०;
 आपश्रौ; विध २२, ५७^४; गौध

९, ५०^०; या ५, १७१^५; ऋप्रा
 ८, ३३१; पदि ङआपश्रौ ६,
 २२, १; १०, २२, १०; वैश्रौ
 १२, १६ : १४१; हिश्रौ ७, २,
 २२१; बौपि १, ३ : २; तैप्रा
 ६, २१; ङपद्भिः^६ शांश्रौ ४,
 १७, १२; काश्रौ २५, ९, १३;
 माश्रौ १, ८, ३, ३४; हिश्रौ १०,
 ५, १; पद्भ्याम् आपश्रौ १९,
 १०, २१; बौश्रौ.
 पच्-छ(<श)ब्द- पा ६, ३, ५६.
 पच्-छस् (:) आश्रौ ५, १४,
 १३; १५××; शांश्रौ; पा ६,
 ३, ५५.
 पच्छः-शस्य, स्या- -स्या
 आश्रौ ५, २०, ३; -स्ये वैताश्रौ
 २१, ४.
 पच्छःशस्य-ग(त>)ता-
 -ताम् आश्रौ ५, १४, १३.
 पत्-कापिन्- पा ६, ३, ५४.
 पत्-तस (:) शांश्रौ ४, १४,
 ३४; कौग.
 पत्त-तस (:)^७ अप्रा ३, ४, ११.
 पत्तो-दश^८ - -शेन आपश्रौ^९
 ९, ११, २३; २२, ७, २४; हिश्रौ
 १७, ३, २३^{१०}; आमिग ३, ४, १ :
 ७^{११}; ५, २ : ५^{१२}; बौपि १, २ :
 १०^{१३}; हिपि २ : ३; २३ : २६.
 पत्-सङ्गि(न् >)ती^{१४} - -नीः
 अप्रा २, १, २१.
 ङपत्सु-तस (:)^{१५} शांश्रौ ३, ५,
 १९.
 पद्-अष्टीव- पा ५, ४, ७७.

पद्-बोष- पा ६, ३, ५६.
 पद्-घ(<ह)ति- पा ४, १, ४५;
 ६, ३, ५४; पाग ४, १, ४५; २,
 ३८.
 पद्दती- पा ४, १, ४५.
 पाद्धत- पा ४, २, ३८.
 पद्-धर(ग >)णी^{१६} - -णीम्
 बौश्रौ ६, १० : ६; १२ : १२;
 -ण्याम् बौश्रौ ६, १२ : ९.
 पद्-धि(<हि)म- पा ६, ३,
 ५४.
 पद्-भाव- -वे पावा ६, ३, ५२.
 पद्य- पा ६, ३, ५३.
 पद्-वत्- -वत् या १, १७;
 -वते या १, १७^{१७}.
 पद्वती- -ती आपमं १,
 १७, ७१.
 पद्-निष्क^{१८} - पावा ६, ३, ५६.
 पद्-नेजन्त^{१९} - -नेषु अप्राय ३, २.
 पद्नेज(न>)नी^{२०} - -नीः आपश्रौ
 १२, ५, १२; १४; बौश्रौ.
 पद्-मिश्र- पा ६, ३, ५६.
 पद्^{२१} - पाग ४, २, ६०^{२१}; ६१; ३,
 ७३^{२२}; पावाग ६, ४, ४१; -दम्
 आश्रौ २, २, १७^{२३}; ३, १०,
 १४××; शांश्रौ; आपश्रौ ६, ५,
 ७^{२४}; बौश्रौ १, १ : ३^{२५}; माश्रौ ६,
 १०, ५^{२६}; माश्रौ १, ६, १,
 १५^{२७}; वाश्रौ १, ५, २, १७^{२८};
 हिश्रौ ३, ७, २८^{२९}; माग
 २, २ : ४^{३०}; कौसू १३८,
 १०^{३१}; ङया २, ७; ४,
 १९; १२, १९; १४, १३^{३२};

a) वैप १ द्र. । b) पक्षि-गणक-, पत्रि-गणक- इति पाका. । c) नाप. । पाप्र. <पाद्-, पाद्- ।

d) पादाभ्याम् इति जीसं. । e) तु. संस्कृतुः टि. Būh. च । f) पाभे. पृ १४७५ ० द्र. । g) विप. । वस. ।
 h) सप्र. वाश्रौ ३, ४, ४, १५ पादतोद^० इति पाभे. । i) विप. । पू. = [सोमक्ययी-] पादांशु- । उप. अधिकरणे
 कृत. । j) तु. पाका. पासि. । k) पाठः ? पत्नीज^० इति संस्कृतुः टि. । l) पृ ९३९० द्र. । m) तु.
 पागम. । n) पाभे. वैप १, १९०२ ० द्र. । o) = पद्दशाब्जुल-प्रमासु- ।

पा १,४,१४; ६,१,१५८; -दयोः
लाश्रौ ७, ४, २; १०; १९^३;
याशि १,१३; भाशि ३३; भास्
२, २१; -दस्य बौश्रौ २१, ११ :
१९; २२; माश्रौ; पा ८, १, १६;
-कदा आश्रौ ४, ८, ८; ५, १, १;
शाश्रौ ७, १, १; ८, १, ६, १; बौश्रौ;
-दात् बौश्रौ १९, १ : ७; २०,
२६; १४; माश्रौ; -दानाम् बौश्रौ
२६, १० : ५; २३ : ५; वैताश्रौ;
नाशि २, ७, ४^३; -दानि आश्रौ
३, ८, १^३; ६, ३, ४×४; शाश्रौ;
या २, ७; ३, १३^३; ४, ४; २५;
७, २१; ८, २१; १३, ९^३;
-दाभ्याम् लाश्रौ ७, ४, १८;
बौश्रु २० : १५; ऋप्रा १०,
१९; ११, २४; -दाय लाश्रौ
७, ६, ४; आपमं १, १४, ६;
-दायऽदाय जैश्रौ ५, ४×४;
द्राश्रौ; -दे आश्रौ २, १७,
३^३×४; शाश्रौ; पा ६, २, ७;
८, ३, २१; -देऽदे आपश्रौ
१६, १८, ७^३; बौश्रौ;
-देन आश्रौ ५, १, १५; शाश्रौ;
-देभ्यः लाश्रौ ७, ६, ७; या १,
१३; १४; -देषु आश्रौ ८, १३,
८; १०, ९, २; शाश्रौ; या २,
१; -दैः आपश्रौ ७, ३, १२;
वाधुश्रौ; -दौ बौश्रु १३ : १.
१पादिक- पा ४, २, ६०.
१पदक- पा ४, २, ६१.
पद-कर्मन्- -र्म मीस् ४, १, २५.
पद-कार^३- पा ३, २, २३; -राय
आश्रिय १, २, २ : २९; बौश्रु

३, १, ६; भास् ३, ११ : २; ह्रिय
२, २०, १; -रेण अत्रा ३, १,
२१.
पद-काल- -ले याशि १, ८८;
२, ५५; ५८.
पद-कृत्- -कृत् कौशि ४५^३.
१पद-क्रम^३- >म-विशेष-श्-
-ज्ञः तैप्रा २४, ६.
२पद-क्रम^३- पाग ४, २, ६०;
-मम् ऋअ ३, ३९.
पादकमिक- पा ४, २, ६०.
पद-कम-मन्त्र-ब्राह्मण-कल्प-
शरी(र>)रा- -रा अप ४१,
६, ५.
पद-न^३- पा ६, ३, ५२.
पद-नर्त- -र्तम् वैश्रौ १२, १७ :
९.
पद-गोत्र- -त्राणि शुप्रा ८, ५१.
पद-ग्रहण- -गम् पावा ४, ३,
१४०; -गेषु तैप्रा १, ५०.
पद-च्छेद- -दम् माशि १६,
१३; याशि २, ८३; ८४; नाशि
१, ३, १३; -दे याशि २, २६;
५७.
पद-जात- -तानाम् शौच १, १;
-तानि या १, १; १२; ऋप्रा
१२, १७.
पद-जाति- -तिः वृदे २, ११४;
-तीनाम् नाशि २, ४, १०.
कपद-ज्ञ>)ज्ञा^३- -ज्ञाः ऋअ
७, ७५; अपं ३ : ३८.
पद-तस(ः) वाश्रौ ३, ४, १, २३;
पावा २, २, २३.
पद-ता- -ताम् ऋप्रा ११, २५;

३३.
पद-तृतीय^३- -यम् बौश्रौ ६,
२४ : २५; २५, ११ : ३; भाश्रौ
१०, १५, १७; -यस्य वैश्रौ १४,
५ : १४; हिश्रौ ७, ५, २; -येन
आपश्रौ ११, ६, ४; बौश्रौ १४,
३ : ४.
पद-त्रय- -थे वैश्रु ५, १ : १४.
पद-स्व- -स्वात् शौच ४, ९८.
पदत्व-प्रतिषेध- -धेन अप्रा
३, ३, २१.
१पद-देवता^३- -ताः शुप्रा ८,
५२.
२पद-देवता^३- -ते द्राश्रौ २, २,
३१.
पद-दैवत- -तम् लाश्रौ ७, ६,
२५; निस् ३, ११ : १५; १९;
६, ७ : ४.
पद-द्वय- -यम् भाशि १२९;
कौशि ५४.
पद-नाश- -शे वैश्रौ १४, ५ :
१६.
पद-निधन- -नम् छुस् १, २ :
२२; २, १५ : ९; ३, ७ : ११;
निस् ३, १० : ४१; ४, ७ :
२०; २७; -नानि निस् २, ३ : २;
६; ९; -ने लाश्रौ ६, ११, ४.
पद-निवृत्ति(ति-ञ्)र्थ- -र्थः
पावा ८, ३, ८२.
१पदंदिनाम् वैश्रौ १३, ७ : १४.
पद-न्यास- -सम् विध ११, ६;
१९, ८; -सैः विध १, २९.
पद-पङ्क्ति^३- -ङ्क्तिः शाश्रौ ७,
२७, २५; निस् १, ३ : २५; ऋअ;

a) पादानाम् इति लासं. । b) विप. > व्यप. । c) पदक्रमात्रेयः इति पाठः ? कृत्, मात्रे इति शोचः (तु. कै. कारुडानुक्रमणिका २७) । d) षस. । e) द्वस. । पृ ९३९ ० द्र. । f) = पदाति- । उप. <√गम् । g) तु. PW.; वैतु. WLMW पद-ज्ञा- [विजन्तम्] इति । h) पू. = पद-पासु- (तु. हिश्रौ. भाष्यम्) । i) द्वस.पू. = पाद- (तु. घन्वी) । j) वैप १ द्र. ।

-ङ्क्तिभिः माश्रौ ६, २, २, २१;
 -ङ्क्तीः काश्रौ १७, १२, १४^४.
 पदपाङ्क्त^४ -ङ्क्तः ऋञ्च २,
 ४, १०; शुञ्च २, २२६.
 पद-पदार्थ-प्रकृति-विकारा (र-आ)
 गम-लोप-कृत्-तद्धित-समास-
 धातु-निपातो(त-उ)पसर्ग-स्वर-
 लिङ्ग-वृत्ति-वार्त्तिक-विभक्त्यर्थ-
 वचन- नानाम् नाशि १, ३, ५.
 पद-पांसु- -सून् बौश्रौ ६, २४ :
 ३६; २८ : १७×४; वैश्रौ १४,
 ८ : ३; -सूनाम् बौश्रौ ६, २४ :
 २९; २३, ३, १०.
 पद-पार^० -रः चव्यू २ : १९.
 पद-पूरण- -णः या १, ५^३; ६; ७;
 -णाः या १, ४; ९.
 पद-पूर्व^१ - -र्वम् शुप्रा २, १५;
 १७; -र्वस्य पावा ८, १, ७२.
 १पद-प्रकृति- -त्या उनिसू २ :
 १२.
 २पद-प्रकृति^१ - -तिः या १, १७;
 ऋप्रा २, १; -तीनि या १, १७.
 पद-प्रत्यवरुह- -हम् निसू ३,
 ४ : २५.
 पद-प्रवाद- -दे ऋप्रा ४, ४९.
 पद-मध्य-गत- -तेषु शैशि २७५.
 पद-मात्र- -त्रे आश्रौ २, १६,
 १; ४, ८, २०; काठश्रौ ४९;
 -त्रेण बौश्रौ २६, १४ : ९.
 पद-लक्ष- -क्षम् ऋञ्च ३, ४५.
 पद-लोप- -पः पावा ३, १, ८७;
 -पे पावा ८, ४, १४; -पेषु अप्रा
 १, १, २०.

पद-लोभन^० -नः माश्रौ ४, ४,
 ३३.
 पदलोभन-प्रभृति- -ति
 माश्रौ ६, २, ६, १.
 पद-वचन- -नम् पावा ५, २,
 ८४.
 पद-वत् ऋप्रा १, ६१; उसू ४,
 ११×४; कौशि ४७.
 ?पदवत्-स्तोभ^१ - -भाः निसू
 ३, १२ : २४.
 पद-वाक्य- -क्ये कौशि ७६.
 पद-वाय^६ - -यम् अञ्च १२, ५^१.
 पद-विकार- -रः मीसू ९, ४,
 १९.
 पद-विच्छेद- -दः शुप्रा १, १५६.
 पद-विद्^४ - -वित् बौध २, ६,
 ३२; माशि २, १४.
 पद-विधि- -धिः अप्रा १, १, ३;
 पा २, १, १; पावा २, १, १; ६,
 १, ८४.
 पद-विभाग- -गः या १, १७;
 अप्रा १, १, ४.
 पद-विराम- -मः तैप्रा २२, १३.
 पद-विवृत्ति^१ - -त्याम् तैप्रा २०,
 ६.
 पद-विष्कम्भ^१ - -म्भाः बौशु ४ :
 २४.
 पद-वी^६ - पावाग ४, ४, १^३;
 -वीः^६ आश्रौ ४, ११, ६; विध
 ४८, ६; या १४, १३^१.
 पादविक- पा ४, ४, ३७; पावा
 ४, ४, १.
 पद-वीथ^६ - -यम् आश्रौ ३, ८,

१^१.
 पद-वृत्त-प्रतिषेध- -धः पावा
 ५, ३, ८४.
 पद-वृत्ति- -त्तयः ऋप्रा २, २६;
 ४, ६७.
 पद-व्यक्त- -क्तम् शैशि २११.
 पद-व्यवाय- -ये वृदे २, ११३;
 अप्रा २, ४, ४; पा, पावा ८, ४,
 ३८.
 पद-व्यवेत- -तम् ऋप्रा ११,
 १३.
 पद-व्याख्यान^१ - (> पादव्या-
 ख्यान-पा.) पाग ४, ३, ७३.
 पद-शत- -तानि आप्रशु ५ १३;
 हिशु २, २४.
 पद-शब्द-नवन्- -व कौशि ३५.
 पद-शास्(ः) बौश्रौ १९, १० :
 १५^१; २५-२७; वृदे ८, १०१.
 पद-शेष- -षम् उसू ८, १५.
 पद-संहि (ता >) त^४ - -तम्
 ऋप्रा ११, १.
 १पद-संहिता-> ता-विद्^४ -
 -विदः ऋप्रा ११, ६६.
 २पद-संहिता^० - -ताम् तैप्रा
 २४, २; ३.
 पद-संघात-ज- -जम् वृदे २,
 ११७.
 पद-संज्ञा- -ज्ञाः नाशि २, ७, ५;
 -ज्ञायाम् पावा १, ४, १४.
 पदसंज्ञा(ज्ञा-ञ्च)भाव- -वः
 पावा १, १, ६२; ४, २१.
 पदसंज्ञा(ज्ञा-ञ्च)र्थ- -र्थम्
 पावा ४, १, १.

a) = इष्टका-विशेष- । b) तस्येदमपि अणि प्र. उप. वृद्धिः उसं. (पा ७, ३, १०) । c) विप. । उस. ।
 पृ ९३९ व अपि यनि. शोधः । d) विप. । बस. । e) = पद-योपन- । विप. । उस. उप. < √लुम् (= √लुप्) ।
 पा^० इति मूको. । f) पाठः ? तु. दशस्तो^० इति संस्कृतुः टि. । g) वैप १ द्र. । h) उप. < √विद्
 [ज्ञाने] । i) षस. वा सस. वा । j) तु. पागम. । k) पाभे. वैप १, १९०३ । द्र. । l) पद-, व्याख्यान-
 इत्यपि पागम. । m) समाहारे द्रस. । n) पूष. द्रस. । o) षस. ।

पद-संज्ञा-समाकुल- -ळः याशि
१,३०.

पद-संघातु- -तु लाश्रौ ७, ९,
१०.

पद-संधि- -धिषु ऋप्रा २, १४.

पदसंध्य(धि-अ)दर्शन- -नात्
ऋप्रा ११, १३.

पद-सामानाय^२- -याः आश्रौ
५, ९, १७.

पद-समूह- -हे शुप्रा ४, १७७.

पद-सविशेष- -षेण बौशु १०:
३; २०: १५.

पद-सहस्र- -स्रम् आपशु ५, ८;
हिशु २, १७; -स्रेण माशि १६,
९.

पद-साल्य- -ख्यम् भाशि १३०.

पद-सामानाधिकरण्य- -ण्यात्
पावा १, २, ४२; -ण्ये पावा २, ३,
४६.

पद-स्तोभ^३- -भः क्षुसू ३, ७:
१३; निसू ६, १०: १८; -भाः
वाध २८, १२; विध ५६, ११;
शंघ १०५^४; -भान् निसू ८,
९: १९; ३८; -भेषु लाश्रौ ७,
७, १.

पदस्तोभ-बाधित- -तम्
निसू ८, ९: ३४.

पद-स्थ- -स्थः निसू ३, ६:
२४; -स्थानि निसू ३, ५: २३.

पद-स्नात- -तस्य कौसू ६४, ३.
पदा(द-अ)क्षर-सामानाय-
-यम् ऋअ ३, ६.

पदा(द-अ)क्ता(ङ्ग-अ)धिकार-
-रे पावा १, १, ७२.

पदा(द-अ)जि- पाठ ४, १३२;
पा ६, ३, ५२.

पदा(द-आ)ति- पाठ ४, १३२;
पा ६, ३, ५२; पाग ४, २, ३८;

-तिः आमिष्ट १, ६, १: ८;
-तिभिः अप ७१, १९, ४.

पादात्- पा ४, २, ३८.

पदा(द-आ)दि- -दयः ऋप्रा
५, ६; -दिः लाश्रौ ६, १०, २२;

१२, १०; ऋप्रा ६, १२; शुप्रा १,
१६७; याशि २, ५७; -दिभिः
अप ४६, २, ४; ऋप्रा २, २;

-दिषु ऋप्रा ४, ७; ६, २३; पावा
६, १, ६२; -दीन् निसू ३, १३:

८; -दीनाम् उसू ८, २; -देः
ऋप्रा ११, ५४; शौच ३, ५३;

-दौ लाश्रौ ७, ७, २४; शैशि
२०४; माशि ८, ७; याशि २,

५२; नाशि २, २, १६; १७; पा
८, २, ६; पावा १, ४, १३.

पदादि-ना^५- -नाः माशि ५१.

पदादि-ग्रहण- -गम् पावा ८,
३, ३२.

पदादि-पर-वचन- -नम्
पावा ८, ४, ३५.

पदादि-विधि-प्रतिषेध- -धः
पावा ६, १, १.

१पदा(द-आ)देश- -शस्य, -शे
पावा ३, ४, २.

२पदा(द-आ)देश^६- -शे पावा
६, ३, ५१.

पदा(द-२आ)घ- -घम् याशि
२, ५१.

पदा(द-आ)घ(दि-अ)न्त-
-न्तम् याशि २, ८१; -न्तयोः

भाशि २६.
पदा(द-अ)धिकार- -रः पावा ८,
१, १७; २, ६; -रस्य पावा ८, १,

१७; २, ७; -रात् पावा ८, १, १;
१७; २, ८०.

पदा(द-अ)ध्ययन- -नम् शौच
४, १०७.

पदा(द-अ)ध्याय- -यः कौशि
४३.

पदा(द-अ)निर्देश- -शे लाश्रौ
६, १०, २३.

पदा(द-अ)नुपूर्व- -र्वम् आश्रौ
६, २, ११.

पदा(द-आ)नुपूर्व- -र्व्येण ऋप्रा
११, १५.

पदा(द-अ)नुरूप- -वान् निसू ३,
१२: ३७; -पे निसू ३, १२:
४३.

पदा(द-अ)नुषङ्ग- -ङ्गान् शाश्रौ
१७, १४, ३; १८, १९, १०.

पदा(द-अ)नुसारि-पद्धति- -स्या
वृदे ८, ३५.

पदा(द-अ)नुस्वार, रा- -स्व्य
क्षुसू ३, १०: १४; -रा लुसू ३,
१०: १३; -रे निसू १०, २: ३७.

पदा(द-अ)न्त- -न्तः लाश्रौ ६,
११, ६; १२, ३××; ऋप्रा;
-न्तम् लाश्रौ ६, १०, २९; नाशि

२, ३, ९; -न्तयोः शुप्रा ४, १२७;
तैप्रा १६, १४; शौच २, २१;

-न्तस्य उसू ७, १; शैशि २२०;
२७४; ३२१; भासू ३, १२; पा

८, ४, ३७; ५९; -न्ताः नाशि
२, ४, १०; -न्तात् शैशि २४२;

पा ६, १, ७६; १०९; ८, ४, ३५;
पावा ६, १, ७५; -न्तान् लाश्रौ

७, ७, २८, ऋप्रा १, ५८; २, ३;
-न्तानाम् उसू ८, १; शौच २,

२; -न्तान्याम् पा ७, ३, ३;

a) विप.। बस.। b) पृ ४४५ f टि. द्र.। c) ष्माः इति पाठः? यनि. शोषः। d) उप. <

-न्ते लाश्रौ ७, ३, २; ४; ७,
२३; छुस्; -न्तेभ्यः ऋप्रा १३,
२३; -न्तैः ऋप्रा ४, ५; -न्तौ
शुप्रा ४, १०८; शौच ३, ५५.

पदान्त-ना^० - नाः कौशि १४;
शैशि २६३; २८१.

पदान्त-ग्रहण- -गम् पावा
८, २, १०७.

पदान्त-द्विवचन^० पा १, १,
५८.

पदान्त-पदादि- -द्योः शुप्रा
३, ३; पावा ६, १, ८५.

पदान्त-वत् शुप्रा १, १५३;
शैशि २०६; पावा ७, ४, ८५.

पदान्त-विकृत- -तानाम्
शौच ४, ८१.

पदान्त-विधि-प्रतिषेधा
(घ-अ)र्थ- -थम् पावा ५, २,
५१.

पदान्त-स्पर्श-युक्त- -क्तम्
शौच ३, ८९.

पदान्ता(न्त-अ)वग्रह-
-हयोः शौच १, ४५.

पदान्तीय^b - यः ऋप्रा ६,
१५; शुप्रा ३, ८९; शैशि २९१;
-याः ऋप्रा ६, २३; शुप्रा १,
८५; -यात् शैशि २६८; -यौ
शैशि २९३; याशि २, ५४.

पदान्त्य, न्त्या- -न्त्यः शौच
१, ३; -न्त्या अप १ : ४७.

पदा(द-अ)न्तर- -रम् वैश्र ५, १ :
२७; माशि ४, १४; -रे माशि
१३, २; -रेण अत्र १२, ५.

पदा(द-अ)न्तराल- -लेषु आपश्रौ
१७, १७, ४; हिश्रौ १२, ५, ३४.

पदा(द-अ)न्तादि- -दिषु ऋप्रा

२, ५; -द्योः शैशि ३०३; ३१३.
पदान्तादि-वत् ऋप्रा २, ६.

पदा(द-अ)न्यत्व-प्रधानत्व-
-त्वात् मौसू ९, १, ५४.

पदा(द-अ)भिहोम- -मम् वैताश्रौ
१३, ६; -मात् द्राश्रौ १४, १,
११; लाश्रौ ५, ५, ८.

पदा(द-अ)भेद- -देन ऋप्रा १७,
२४.

पदा(द-अ)भ्यास- -सात् अत्र
१२, ५(२).

पदाभ्यास-प्रतिषेध- -धः
आपश्रौ २४, १४, १७.

पदा(द-अ)यतन- -ने हिश्रौ ७,
२, २८.

पदा(द-अ)र्थ- -र्थः बृदे २,
१०८; या १, ३; पावा २, १, १;
-र्थम् अप १, ८, ९; -र्थाः या
१, ३; -र्थात् पावा १, २, ४५.

पदार्थ-त्व- -त्वात् पावा ८,
१, ४.

पदार्थ-संभावना(ना-अ)न्वव-
सर्ग-गर्हा-समुच्चय- -येषु पा १,
४, ९६.

पदार्था(र्थ-अ)भिधान- -ने
पावा २, २, २४.

पदार्था(र्थ-अ)भिसंबन्ध-
-न्धस्य पावा १, २, ४५.

पदा(द-अ)र्ध- -र्धम् माश्रौ २,
२, ४, २५.

पदार्ध-न्यास- -सम् बौशु ४ :
२२.

पदा(द-अ)वग्राहम् वैताश्रौ ३२,
१४; १९; २०.

पदा(द-अ)वलि- -लिः कौशि
५१.

पदा(द-अ)वृत्ति- -त्तौ शुप्रा
४, २०.

पदा(द-अ)शय- -यम् बौश्रौ ६,
१३; १५; १०, २; २१.

पदा(द-अ)स्वैरि-बाह्या-पक्ष-
-क्ष्येषु पा ३, १, ११९.

पदा(द-अ)हुति- -तिः बौश्रौ
२५, ८ : १४.

पदिक- पावा ४, २, ६०^d; ६, ३,
५२; -कम् काशु ७, ३४.

पदे(द-इ)तरा(र-अ)र्ध- -र्धान्
या १, १३; १४.

पदै(द-ए)कदेश- -शम् आपश्रौ
१९, २०, ११; हिश्रौ २२, ३,
२७; -शाः ऋप्रा ९, ३१.

पदैकदेश-सुब(व-अ)लोप-
दर्शन- -नात् पावा ५, २, ५९.

पदो(द-उ)त्तम- -मैः अप ४६,
२, ४.

पदो(द-उ)त्तरपद- -दम् पा ४,
४, ३९; -दात् पवा ४, २, ६०.

पदो(द-उ)पस्पर्शन- -नम्
आपश्र १, ३१, ६; हिध १, ८,
२४.

पदो(द-उ)पहत्- पा ६, ३, ५२.
पदोपहता(त-अ)र्ध- -र्धम्
पावा ६, ३, ५१.

२पद्य, द्या^e - पा ४, ४, ८७^f;
-द्यः शौच १, ३; ४; -द्यम् पाश्रु
१, ३, ५^g; ऋप्रा १, ७४; शौच
१, ५७; -द्या जैश्र १, १९;
३४^f; -द्याः ऋप्रा २, १२; ५,
२७; ९, १५; -द्यान् ऋप्रा १,
६१; -द्यानि आपश्रौ १०, ५,
१३; माश्रौ १०, ३, २०; वैश्रौ
१२, ६ : ७; हिश्रौ ७, १, ३८;

a) उप. <√गम् । b) विप. (वर्ण-विशेष-). c) पूष. = पदपासु- । d) तु. पाठम्. । e) तत्र-

भ्रमाद्येषु यत् प्र. । f) नाप. । g) = [पादार्थ-] आसन- । पाद्यम् इति राजा. व्याघासं. ।

-द्याभिः शांश्रौ १२, १९, ४१;
 -द्याम् गोयु ४, १०, २१;
 -द्व्याय^१ आपसं २, ९, १३;
 वीयु १, २, २८; -द्व्यायै^१ शांश्रौ
 ४, २१, ३; आयु १, २४, १६;
 कौयु ३, ४, ६; शांयु ३, ७, ५; मायु
 २, २४ : ३; मायु १, ३, ७; वायु
 ११, ५; हियु १, १३, १; -द्ये
 ऋप्रा ४, ८५; द्, २५; उस् ५,
 २; -द्येन वायु ११, १३^१; -द्येषु
 ऋप्रा ९, २५; उस् ६, १.
 पद्या (द्या-अ)क्ष(र्व्ये >)र्था-
 र्थे ऋप्रा १८, ३.
 पद्या(द्य-आ)दि-दीन् ऋप्रा
 ३, २५.
 पद्यादि-भाज्-भाक्
 ऋप्रा ५, २१.
 पद्या(द्य-अ)न्त-न्तः ऋप्रा
 ४, ६५.
 पदन-पा ३, २, १५०.
 पदि^१-दिः या ५, १८४; -दिस्
 निघ ४, २१; या ५, १९१.
 पदन्-पाउ ४, ११३; -द्व्या^१
 आपश्रौ १०, १, ५; भाश्रौ १०, २, ४;
 वैश्रौ १२, १, १३; हिश्रौ ७, १, १३.
 पपन्न-न्नाः या १२, १९; -द्व्यात्
 कौयु ५, ३, ३१^१; आश्रियु ३, ६,
 १ : २९; वौपि १, ९ : ५; हिपि
 ८ : ३.
 पन्न-र्गा^१-नास्य कौयु ४, २, ३;
 -गाः अप ५२, ८, ४; सु २४, १;
 -गान् वाश्रौ ३, ४, ३, २२;
 -गोभ्यः मायु २, १२, १७.

पन्न-द्व^१-द्वम् काश्रौ ६, ३, १९;
 काठश्रौ ५२; माश्रौ १, ८, २, ३.
 पन्न-द्वत्^१-द्वन् हिश्रौ ४, ३, १.
 पन्न-द्वन्त^१-न्तम् वैश्रौ १०,
 ९ : १३.
 पाद्^१-> पान्-नेजन^१-नम् वीश्रौ
 ७, ३ : १०; २९, ६ : १७;
 माश्रौ २, ३, २, २०; २३; ५, २,
 २१; -नान् काश्रौ ९, ३, ८.
 पाप्नेजनी-नीभिः काश्रौ
 १०, ७, ४; -नीस् आपश्रौ १२,
 ५, ३; -न्याः अप्राय ६, ५.
 पाप्नेजन-पाणि^१->०पाणि-
 (न् >)नी-नीम् माश्रौ २, ३,
 २, १३.
 पाप्नेजन-पात्र-त्रम् वैश्रौ
 १५, ६ : २.
 पाप्नेजन-ह(स्त >)स्ता-
 -स्ताम् काश्रौ ६, ६, १.
 पपाद^१-पा ३, ३, १६; पाग ४,
 ४, १०; १२; ५, १, २०; २, २४;
 ६४^१; द्, १, २०३; २, १९४;
 -दः शांश्रौ १३, १, ७; आपश्रौ;
 या २, ७४; ७, ९; ११, ६; १२,
 २९१; अप्रा ३, ४, ११^१; पा ४,
 १, ८; द्, ४, १३; -दःऽदः
 आपध २, २७, १२; हिध २,
 ५, २३१; -द्वम् आश्रौ ८, ३,
 १०; शांश्रौ; या १२, २९१;
 -द्वम्ऽद्वम् विध ५५, ११;
 -द्वयोः आश्रौ ४, ९, ३; ५, १४,
 ११; द्, ३, ११; शांश्रौ; -द्वस्य
 शांश्रौ ९, ५, १२; १०, ५, १०××;

निस्; -दा^१ वीश्रौ ८, १९ :
 १२; -दाः शांश्रौ १७, २, ७;
 आपश्रौ ५, १७, ४१; वीश्रौ; या
 १२, ७१४; -दात् भाश्रौ ५,
 २०, २; -दान् आश्रौ ६, ३, ३;
 ७××; शांश्रौ; -दानाम् जैश्रौका
 ९३; निस् २, १२ : २०; अप्;
 -दाभ्याम् आश्रौ ८, २, १०;
 शांश्रौ; -दाय द्राश्रौ २, २,
 ३०; लाश्रौ १, ६, २८; -दै
 आश्रौ १, १, १८; शांश्रौ; या
 १०, १६; -देन आश्रौ १, १, २३;
 शांश्रौ ९, ५, ५××; काश्रौ; या
 ५, १७; ७, १२; १२, २९; -देषु
 आश्रौ ७, ११, ९××; लाश्रौ;
 -दैः आश्रौ ५, १४, १६; वैश्रौ;
 या १२, १९; -दौ आश्रौ ५,
 १५, ६; १२, ९, ८; ९; शांश्रौ.
 पाद-क-पा ५, २, ६४.
 पाद-कर-रयोः वृयु ५, २ : ३.
 पाद-कि (ष्व >)ष्व^१-षवा
 वीश्रौ २६, २२; १७.
 पाद-कुठारिका-काम् शांयु
 ४, ८, ११.
 पाद-कृच्छ्र^१-कृच्छ्रः शंघ ४३२;
 -कृच्छ्रम् वैयु ६, ९ : ३; १०,
 १; १५ : ११; १९ : ३; ७.
 पाद-नेशां(श-श्रौ)शुक-कर-
 लुपठन-ने विध ५, ६५.
 पाद-गृह्य^१ पाग २, १, ७२.
 पाद-ग्रहण-गम् विध ३२,
 १५; -गे आश्रौ १, १, १७;
 उनिस् १ : ३५.

a) सपा. पद्याय <> पद्यायै <> पाद्यायै इति पाभे. । b) = उदक- । c) वैप १ द्र. । d) सपा.
 तां १, १, ४ बद्ध इति पाभे. । e) पर्णात् इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. तैआ ६, ३, ३) । f) = सर्व- । उप.
 <√गम् । g) विप. । बस. उप. नैप्र. < दत्-, यद्वा दन्तस्य दः उस्. (पा ५, ४, १४२) । h) विप. L
 बस. । i) = १पाद- । j) विप., नाप. (माश्रौ) । उप. <√निज् । k) विप. (पत्नी-) मलो. कस. ।
 l) निपाद- इति पाका. । m) दायादः इति स्यात् । n) = प्रादौ । o) = क्रत-विशेष- । p) [पक्षे] भायडा. ।

पाद-प्राह- -ह्याः बाध १३, ४२.
 पाद-घोष- पा ६, ३, ५६.
 पाद-च्छेद- -द्दे अप ६८, २, ११.
 पाद-जङ्घा- -ङ्घे अप २२, ५, १.
 पाद-जाह- पा ५, २, २४.
 पाद-ज्ञान- -नस्य ऋप्रा १७, २५.
 पाद-तसः (ः) निस् ३, १३ : ३३;
 कौष्ट ३, १०, १४^१; ५, ६, ५; शौष्ट.
 पादतो-इश^१- -शेन वाश्रौ ३,
 ४, ४, १५^b.
 पाद-नितृत्^c- -चृत् ऋप्र १, ४,
 ४; २, १, ३०××; शुप्र; -चृतौ
 ऋप्र २, १, १७.
 पाद-निष्क^d- पावा ६, ३, ५६.
 पाद-न्यून- -ने शंघ ४४६.
 पाद-प^e- -पाः अप ५७, १, ७;
 ७०^२, ७, २; ७१, १५, १; -पात्
 बाध १९, ११; -पानाम् काघ
 २८ : ६.
 २पादप- पा ४, ३, ११९.
 पाद-पार्ष्णी- -वर्णाम् कौसू ४२,
 २१.
 पाद-पीठ- -उम् अप ५, २, ५.
 पाद-पूरण^f- -णः ऋप्रा १२, २, ५;
 -णम् पा ६, १, १३४; -णे पा
 ८, १, ६.
 पादपूरण-त्व- -त्वात् आपशु
 ३, १६; हिशु १, ५७.
 पादपूरणा(ण-अ)र्थ- -र्थम्
 ऋप्र १, ३, ६; शुप्र ५, ६.
 पाद-प्रक्षालन- -नम् लाश्रौ १,
 २, २^g; आप्रिष्ट ३, ३, २ : ८;
 -नात् हिध १, २, ८४.
 पादप्रक्षालन-क्रम- -मेण

आप्रिष्ट ३, ३, १ : १८.
 पादप्रक्षालनो (न-उ)च्छेषण-
 -णेन बौध १, ५, १०.
 पादप्रक्षालनो(न-उ)त्सादना-
 (न-अ)नुलेपन- -नाणि (१)नि
 आपध १, ११, १३^१.
 पादप्रक्षालनो(न-उ)त्सादना
 (न-अ)वलेखना (न-अ)नुलेपन-
 -नानि^१ हिध १, २, ९३; ३, ६८.
 पाद-प्रतापन- -नम् शंघ ४३९.
 पाद-प्रभृति- -ति बाध २०,
 ४२; गौपि १, २, ३३.
 पाद-प्रमाण^१- -णम् काशु ३, ८;
 आपशु ३, १५; हिशु १, ५६.
 पाद-भाग^१- -णेन शांशौ ७, २७,
 २९.
 पादम् पा ३, ४, ५६.
 पाद-मात्र, त्रा- -त्रः शैशि ३८;
 -त्रम् आश्रौ ६, १०, ६; -त्रा
 शैशि ३५; -त्रे काश्रौ १६, ७, ३.
 पादमात्री- -त्री काश्रौसं
 २५ : २; काशु ५, ६;
 आपशु ११, ४; हिशु ४, ५;
 -त्राः काश्रौ १७, १, १४;
 २३××; आपश्रौ; -त्रीम् काश्रौ
 १७, ४, १२; बौश्रौ २२, २ : २;
 -स्यः आपश्रौ १६, १३, ६;
 वैश्रौ १८, ११ : २२; आपशु ११,
 २; हिशु ४, ३; -स्यौ काश्रौ १७,
 १, १०.
 पादमात्रिक (>)का- -का
 शैशि ११५.
 पाद-मिश्र- पा ६, ३, ५६.
 पाद-युज्- -युक् अप्र ४, ४०.
 पाद-लेप-तसः (ः) अप ३५, २, २.

पाद-वत् बौध २१:८; ऋप्रा १,
 ५७; मीसू ६, ७, २०.
 पाद-वत्- -वान् मैत्र ६.
 पाद-विभाग- -णेन माशि १३,
 ४.
 पाद-विशेष- -वात् ऋप्र १, ३,
 ७; शुप्र ५, ७.
 पाद-विहरण- -णे पा १, ३, ४१.
 पाद-वृत्त^१- -त्तः शुप्रा १, ११९;
 तैप्रा २०, ६; शौच; -त्तम्
 माशि ७, ७; -त्तयोः ऋप्रा १,
 ६०.
 पादवृत्ता(त्-अ)न्त^१- -न्तः
 शैशि २३८.
 पादवृत्ता(त्-अ)मि(धा >)
 ध^१- -धः कौशि १७.
 पाद-वृत्ता (त्-अ)क्षर- -रैः
 ऋप्रा १७, २१.
 पाद-व्यवस्था- -स्था मीसू २,
 १, ३३.
 पाद-शत- -तस्य पा ५, ४, १.
 पादशत-ग्रहण- -णम् पावा
 ५, ४, १.
 पाद-शब्द- पा ६, ३, ५६.
 पाद शम् (ः) माशु १, २२, १४.
 पाद-शोधिन्- -धी वैश्रौ १, १६;
 २.
 पाद-शौच- -चात् विध ९१,
 १८.
 पाद-संस्थान^१- -ने याशि १, १५.
 पाद-संज्ञा- -ज्ञा उनिस् २ : २३.
 पाद-सूक्त-ऋग्-अथर्व-नामन्-
 -मानि वृदे २, ९८.
 पाद-स्थान- -नम् ताशि २,
 ६, १.

a) विप. । बस. । b) पामे. पृ १४८५ h द्र. । c) = गायत्री-भेद- । d) तु. पाका. पासि. । e) = वृक्ष- ।
 उप. < ✓पा [पाने] । f) उप. कृती कृत् प्र. । g) = जल- । उस. उप. करणे प्र. । h) सपा. पादप्रक्षालनम्
 <> पाद्यम् इति पामे. । i) परस्परं पामे. । j) मलो. कस. । k) = स्वर-विशेष- । l) = पाद-समाप्ति- ।

पाद-स्पृष्ट- -ष्टैः वैध ३,४,१२.
 पाद-स्वेदन- (>निक- पा.)
 पाग ४,४,१९.
 पाद-हारक- -पावाग २,१,३३.
 पाद-हीन- -नः सु ३,४.
 पादा(द-अ)ग्र-तस(ः) अप ३५,
 १,७.
 पादा(द-अ)ङ्गुली- -लीषु
 शांश्रौ ४,१५,२०; जैगृ २,४:५.
 पादा(द-अ)ङ्गुष्ठ- -ष्ठे बौध २,
 ७,१०; -ष्टेन वैगृ २, ५: १२;
 ३,३:६.
 पादा(द-अ)दि- -दिः भासृ २,
 ३; ऋप्रा २,३४; ४,५६; -दिषु
 आपृ ११,११; बौगृ २,५,४०;
 -दीनाम् अप्रा १, १, १९;
 ३, ८; -दौ ऋप्रा २, ६०;
 ७०^३xx; अप्रा.
 पादादि-वत् अप्रा १,१,२०.
 पादा(द-२अ)द्य- -द्यम् याशि
 २, ५१.
 पादा(द-अ)न्त- -न्ते ऋप्रा ९,
 १९;३९; १६,७७; पा ७,१,५७;
 -न्तेषु निसृ २,१२: २१; -न्तौ
 ऋप्रा ८,४८.
 पादान्त-गत- -न्ते ऋप्रा ४,
 ४४.
 पादान्त-वृत्त- -त्तस्य नाशि
 २,१,७.
 पादा(द-अ)म्यङ्ग- -ङ्गम् विध
 ६७,४६.
 पादा(द-अ)र्थ- -र्थम् पागृ १,३,
 ५.
 पादा(द-अ)र्धर्च- -र्चाः वृदे ४,८.

पादा(द-अ)वेनक्त- -क्ता आपध
 २,२६,१५; हिध २, ५,२१०.
 पादा(द-अ)वनेजन- -नम्
 आपश्रौ २२,३, १६; आपध १,
 ३१,१; हिध १,८,१९.
 पादा(द-अ)वनेज(न>)नी^०-
 -नीः आपमं २,९,१०, बौगृ १,
 २,२०; भागृ २,२३: ८; कौसृ
 १०,११.
 पादिन्- -दिनः आपश्रौ २१,
 २, १९; वाश्रौ ३, २, १, १५;
 हिश्रौ १०,४,४२; १६, १, ३६;
 -दिभ्यः आश्रौ ९,४,५; माश्रौ
 २,४,५,७; हिश्रौ १०,४,३९.
 पादिनी- -नीनाम् लाश्रौ ९,
 ६, ७; -नीभ्यः लाश्रौ ९,११,
 ३; -न्यः लाश्रौ ९,१,१३.
 पादू(द-ऊ)न^०- -नम् आपध
 १,२,१३^१.
 पादे-गृह्य पाग २,१,७२.
 पादे(द-इ)ष्टका- -का आपशु
 ११,४; हिशु ४,५; -काः वैश्रौ
 १८, १६: ७७; हिपि १५: ५;
 आपशु; बौशु १०, २४; २०:
 २४^१; -काभिः वैश्रौ १८,१६:
 ८१;८४; आपशु; -काम् आपशु
 १९,५; बौशु १२: ८; १३: ५;
 हिशु ६, २१; -के बौशु ८:
 १७xx.
 पादो(द-उ)दक- -कम् वैगृ ३,
 २२: १३.
 पादो(द-उ)द्गत- -तैः वैगृ १,
 ५: ४.
 पादो(द-उ)द्वृत्- -तानि

आमिगृ २,६,७: ३१.
 पादो(द-ऊ)न- -नम् शोध ३९४;
 विध ५०,१२; हिध १,१, ४६^१.
 पादोन-फल-भागिन्-
 -गिनौ कप्र १,६,३.
 पादो(द-उ)पसंस्पर्शन- -नम्
 विध ३२,५.
 पादो(द-उ)पसंग्रहण- -णम्
 विध ३०, ३२; गौध १, ५८;
 ६,१.
 पादो(द-उ)पहत- -तम् बौध
 १,७,४.
 पादो(द-ऊ)ध्व- -ध्वम् वेज्यो
 १४.
 पाद्य, घा^६- पा ५, ४, २५;
 पाग ५, ४, ३; -द्यम् शांश्रौ ४,
 २१, ३; २५; द्राश्रौ १, २, १४;
 आगृ; -द्याः आपृ १३, ४^१;
 बौगृ १, २, १९; बौशु ९-१०:
 २xx; -द्याभिः कागृ २४,१०;
 बौशु १०: २५;३३; -द्याभ्याम्
 काश्रौ ३, १, ७; -द्यायै^१ पागृ
 १,३,१२; कागृ २४,६^१; -द्येन
 भागृ २,२३: ३; मागृ १, ९,
 १३; जैगृ १,१९: ३३.
 पाद्य-क- पा ५,४,३.
 पाद्य-दान- -नम् वैगृ २,
 १६: ८.
 पाद्य-पात्रो(त्र-उ)दक- -वत्
 विध २१,१७.
 पाद्य-प्रतिग्रहण^१- -णः शांश्रु
 ३,७,५^६; -णम् कौशु ३,४,६^६.
 पाद्य-प्रथम^१- -मैः कागृ २४,
 ५.

a) विप. > नाप. (मञ्जीरादि- [तु. नागेशः]) । b) =पञ्जेजनी- । c) पररूपम् (पावा ६,१, १४) । d) सपा. पादू<>पादो इति पाभे. । e) पदे इति पाठः? यनि. शोधः (तु. बौशु १०:२४) । f) मखो. कस. । g) विप., नाप. (जलन्, इष्टका- प्रसृ.) । h) पाभे. पृ १४९१ h. । i) पाभे. पृ १४९० d. । j) भाप., नाप. (मन्त्र-) । लप. भावादर्थे प्र. । k) परस्परं पाभे. । l) विप. । बस. ।

पाद्या(द्य-आ)चमन- -नम्
वैगृ ४, १२ : ६.

पाद्या(द्य-आ)चमन-गन्ध-
पुष्प-धूप-दीपा(प-अ)क्षता(त-
आ)चमन- -नैः वैगृ ७, ६ : ५.

पाद्या(द्य-आ)चमनीय-मुख-
वास- -सम् वैध ३, १०, ३.

पाद्या(द्य-आ)धर्म-मधुपर्क-
-कैः वृदे ५, ७९.

पाद्या(द्य-आ)धर्मा(र्ध-आ)
चमनीयो(य-उ)दक- -कानि
शंघ २०४.

१पादु^१- > १पादु-(क>)का^१-
-कै वाध १२, ३४; शंघ.

पादुकिन्- -की आपध १,
८, २; हिध १, २, ९०.

२पादुक- पा ३, २, १५४.

पादू- पाउ १, ८५.

पद्- √पद् द्र.

?पद् वायूश्रौ ४, १०८ : २०.

पद्-, १पदक- √पद् द्र.

२पदक^१- पा, पाग २, ४, ६३.

पद-कर्मन्- प्रभृ. √पद् द्र.

पदञ्जल^१- पा, पाग २, ४, ६९.

पद-ता- प्रभृ. √पद् द्र.

पदनु- पाउभो २, १, ७९.

पद-न्यास-, पदिक-, पदघोष- प्रभृ.

√पद् द्र.

१पद्म^१- पाउ १, १४०; पाग २, ४,

३१; ५, २, १२७^१; १३५; -याम्

आमिगृ २, ४, १० : ५; ११ : ६;

अप १८, १, १७; १९^२, २, ४;

५; माशि ११, ३^३; -घस्य

वैश्रौ ११, ८ : २; आमिगृ २, ४,

१० : ६; -ञान् वाध २७, १२;

-ञानि अप ६८, २, ४९; -ञञे

आपश्रौ १६, ३१, १; वैश्रौ १८,

२ : ५२; हिश्रौ ११, ८, ४; विध

९९, १२५; -ञेषु या १४, ३०;

-ञैः अप ३१, ६, ५; ६८, २, ४९.

२प(द्य>)द्या- पा ५, २, १२७;

-द्या कप्र १, १, ११^१.

पद्म-कुमुदो(द-उ)पल- -लैः अप
१८, ३, १.

पद्म-खण्ड- -ण्डे विध ९९, १७.

पद्म-चारि(न्>)णी- -गी मागृ २,
१३, ६१^१.

पद्म-तन्तु-निकाश- -शेन अप ५८^१,
३, १०.

पद्म-धर- -०र विध ९८, ७५.

पद्म-धारा-धर- -०र विध ९८, ७६.

पद्म-नाभ^१- पाग २, २, ३७^१;

-०भ विध १, ५०; ९८, ७४;

-भम् आमिगृ २, ५, ७ : १०^१;

बौगृ १, ११, ७; वैगृ ३, १३ :

५; बौध २, ५, २४^१.

पद्म-निधि- -धिम् वृदे ६, ५५.

पद्म-निभ- -भम् अप २५, १९.

पद्म-निलय^१- -यम् या १४, ३०.

पद्म-पत्र- -त्रेण आमिगृ २, ७, ७ :

१९; अप ३८, ३, १.

पद्मपत्र-प्र (भा>)भ- -भः

माशि १, १३; नाशि १, ४, १.

पद्मपत्रा(त्र-अ)क्ष^१- -क्षः चव्यू

४ : १३.

पद्म-पुष्पा(ष्प-आ)कृति- -तिः अप

७०, ६, २.

पद्म-बिल्व-पलाशो(श-उ)दुम्बर-

कुशोदक- -कानि शंघ ४१७.

पद्म-योनि^१- -निना अप ६८, १, १.

पद्मयोनि-मत- -तम् अप ५२,
१, २.

पद्म-वर्ण-निभ- -भम् अप २१, ७, ४.

पद्म-वैदुर्थ-निका (श>)शा- -शा
अप ७०^१, ४, १.

पद्म-शङ्खे(ङ्ख-इ)न्दु-वज्रा (ञ-अ)हि-
मत्स्य-ध्वज-नि(भ>)भा- -भा
अप ५८^२, ३, ६०.

पद्म-संघव^१- -वम् अप ७०, २, ५;
-वे विध १, १.

पद्मा(द्य-आ)कार^१- -रम् अप २५,
१, १०.

पद्मा(द्य-आ)कृति- -तिः अप ७०,
६, ३.

पद्मा(द्य-अ)क्ष^१- -क्षैः शंघ ४४ ६
विध २३, २४; ४६, १७.

पद्मा(द्य-आ)भा>)भ- -भः अप ७०^१,
२, १; -भम् अप २५, १, ३; ८.

प(द्य>)द्या-वती^१- पाग ६, ३,
११९^१.

पद्मा(द्य-अ)ष्ट-शत- -तम् अप ३६,
२६, २.

पद्मि(न्>)नी- पा ५, २, १३५;
पावाग ४, २, ५१^१.

पद्मिनी-खण्ड- पावा ४, २, ५१.

पद्मिन्दु(नी-उ)करण- -गेन अप
३६, ७, ४.

पद्मो(द्य-उ)दुम्बर-बिल्व-पलाश-
-शानाम् वाध २०, २१.

१, २पद्य-द्या- प्रभृ. √पद् द्र.

पद्- पाउ २, १३.

पद्- पाउभो २, ३, १२७; -द्वे^१ बौश्रौ

a) वैप ३ द्र.। b) स्वार्ये प्र.। c) = १पादु-। d) व्यप.। व्यु. ?। e) तु. पाका.। f) वैप १ द्र.। g) तु. पागम.। h) = यम-विशेष-। i) = मालुकाऽन्यतमा.। j) = देवी-विशेष-। k) = विष्णु-। l) विप.। बस.। m) = २ब्रह्मन्-। बस.। n) = पद्म-बीज-। o) = नदी-विशेष-। p) = [साहचर्यति] संख्या-विशेष-। व्यु. ?।

१८,४३ : ७; २६,३३ : १२.

पद्वत्-, पद्वन्- ✓पद् द्र.

𑀧𑀺/पन्^१ पाधा. भ्वा. आत्म.व्यवहारे स्तुतौ च, पनायते निघ
३, १४; पनय > या छुप्रा ३,
११२; पनायत या ९, १६६.पन्->𑀧𑀺पनि(छ>) छ- -छा
आपश्रौ १०, ३, २; भाश्रौ १०,
१३, २.पनस्^२->𑀧𑀺/पनस्य, पनस्यति
निघ ३, १४; पनस्य अप ४८,
१२५.𑀧𑀺पनाख्य^३- -ख्यम् आश्रौ ९, ११,
१६; अत्र २०, १४३.𑀧𑀺पनिज्जत्^४- -ज्जत् आश्रौ ४,
१०, ३; अप्रा ३, २, १७; ४, ५.𑀧𑀺पन्य^५- -न्यम् ऽ-न्यम् शाश्रौ ९,
१९, २; निसू ८, १ : ८; साअ
१, १२३; १२४; -न्ये शाश्रौ ९,
१९, २.पनस्^६- पाउ ३, ११७.पनिष्प(द>)दा^७- -दा अप्रा ३, १,
७; ४, ५; शौच ४, ९६.✓पन्थ्, पन्थन्-, पन्था- ✓पथ् द्र.
१पन्- प्रथ्. ✓पद् द्र.

२पन्- पाउ ३, १०.

?पपयस्यम् अप्रा ३, ४, ११.

पप, म्पास्-(>✓पप L, म्प) स्य पा.)

पाग ३, १, २७.

पपिष्वस्- ✓पा(पाने) द्र.

पपी- पाउ ३, १५९.

पपु- पाउवृ १, २२.

पपि- ✓पृ, पृ द्र.

पफक्^८->पफक्-नरक्- पा, पाग २,

४, ६८.

पम्पा^९- पाउवृ ३, २८; पा, पाग ४,
२, ८२.

✓पय् पाधा. भ्वा. आत्म. गतौ.

पयस्^{१०}- पाउभो २, १, ३२२; पाग ३,
१, २७; ५, २, १३५; -यः आश्रौ
२, १०, २११; ३, ११, ७^१xx;
शाश्रौ; काश्रौ २५, ५, २८^१;
आपश्रौ ४, १४, ४^१; बौश्रौ ३,
२०:१८^१; माश्रौ १, ४, १, ५^१;
३, ९^१; हिश्रौ ६, ४, १४^१;
द्राश्रौ २, २, ३४^१; लाश्रौ १,
६, ३०^१; आपसं २, ९, १४^१;
पाग १, ३, १४^१; माग २, ११,
१८^१; हिग १, १३, ४^१; या
२, ५; ६, ३; ८, ५; ९, ४१^१;
१०, १६^१; ११, ४३; ४५^१;
-यसः आश्रौ ४, ७, ४; शाश्रौ;
माश्रौ १, ४, १, ५^१; वाश्रौ १,
१, २, ५^१; या २, ५^१; ४,
१९^१; ८, ५; -यसा आश्रौ २,
३, १xx; शाश्रौ; माश्रौ १, १,
३, ३२^१; वाश्रौ १, २, २,
२८^१; या ९, ३९^१; -यसाम्
बौश्रौ २०, २ : ३xx; -यसि
काश्रौ ४, ६, ४; ५, ६, ६; आपश्रौ
६, २९, १०xx; बौश्रौ; -यसी
काश्रौ २२, ८, २; आपश्रौ १५,
९, १०; बौश्रौ ९, ९ : १९; २२;
२५; भाश्रौ ११, ९, १३; वैश्रौ
१३, ११ : १५; हिश्रौ २४, ४, ४^१;
-यसे बौश्रौ ८, १२ : २८^१;
-यसोः शाश्रौ ५, १०, १०;
-यांसि 𑀧𑀺आश्रौ १, १०, ५; ५,६, २७; शाश्रौ; 𑀧𑀺या ११, २५;
२८; ४२.पायस्^{११}- -सः कौगृ ४, ३, १;
शांयु; -सम् वैश्रौ १२, ४ :
१६; २२ : ६; आगृ; -सस्य
आगृ २, ३, ३; द्रागृ ३, ३, १८;
-सात् द्रागृ ३, १, ३८; -सान्
कप्र ३, १०, ७; -सेन पागृ ३,
८, १६; बौपि; -सौ अप १,
३४, ३; ४.पायस-कृसर-गौड्या (जी-
२आद्या>)घ^{१२}- -घैः वैगृ ४,
१४ : १०.पायस-तिल-चूर्ण^{१३}- -र्णम्
आमिगृ २, ४, ३ : १५.पायस-स(य>)घी- -यीम्
अप ३६, ७, ३.पायस-शेष- -षम् वैगृ ३,
१३ : ११.पायसा(स-अ)ञ- -ञेन
आमिगृ २, ४, ५ : २५.पायसा(स-अ)पूप-संयुत-
-तैः अप ६८, ५, २१.पायसो(स-ओ)दन- -नेष
आमिगृ २, ४, ८ : १४.

पय-आहुति- -तिभिः आगृ ३, ३, २.

पय-उपसेचन^{१४}- -नम् आपध २,
७, ४.पयः-परवो(शु-ओ)षधि- -धीनाम्
वृदे ६, १४.पयः-पात्र- -त्रान् बौश्रौ १८, ४० :
१५; -त्रैः बौश्रौ १८, ४० :
२३^१; २६.

पयः-पूर्ण- -र्णम् तैप्रा १७, ८.

a) अप्रा ३, २, १७ परामृष्टः द्र. । b) वैप १ द्र. । c) = फल-विशेष- । व्यु. ? । d) व्यप. । व्यु. ? ।

e) = नदी-विशेष- । f) पाभे. पृ १३३५ j द्र. । g) पाभे. वैप १, १९०७ a द्र. । h) सञ्ज
= साम-विशेष- । i) पाभे. वैप १, १९०७ c द्र. । j) पाभे. वैप १, १९०८ d द्र. । k) विप., नाप. ।
ताद्वितः अण् प्र. । l) द्रस. > वस. । गौडी- = सिता- । m) मलो. कस. > वस. । n) विप. । वस. ।

पयः-प्रतिषेध- -घः मीस् ११, १,
५१.
पयः-प्रोक्ष^a- -क्षम् बौश्रौ १०, २७ :
२; -क्षे बौश्रौ १०, २७ : ९,
२२, ६ : ८.
पयः-क्षेप- -षम् आपश्रौ १९, ८,
१४; हिश्रौ २३, १, ४१.
पयसि(न् >)नी- पा ५, २, १३५.
पयस्-पति- -वते विध ९८, २२.
✓पयस्य पा ३, १, २७.
?पयस्य^b कप्र २, ८, २५.
पयस्य, स्या^c- पा ४, ३, १६०; -स्यः
द्राश्रौ १, २, १४; लाश्रौ १, २, ८;
जैगृ १, १९ : ३८; -स्यया शाश्रौ
९, २८, १८; १४, ४०, २३;
काश्रौ १५, ६, ३५; हिश्रौ २३,
२, ५०; -स्ययोः माश्रौ १,
७, ४, ७; -स्या आश्रौ ६, १४,
१९; १२, ८, ३३; शाश्रौ; -स्याम्
काश्रौ ९, १, १५; ११, २३;
आपश्रौ १२, ४, ६; ११; २५, ६;
१९, २५, १; ४; बौश्रौ; हिश्रौ
२२, ५, १६^d; -स्यायाः काश्रौ
१५, ९, ५; १६, १, २८; १९, ७,
१७^e; आपश्रौ ११, ५, १२;
१९, २५, ७; हिश्रौ २२, ५, १६;
-स्यायाम् काश्रौ १५, ६, ३३;
आपश्रौ १९, २५, २; बौश्रौ १३,
३४ : १; हिश्रौ २२, ५, १६;
द्राश्रौ २, २, ५१; लाश्रौ १, ६,
४८; -स्यायै माश्रौ २, २, ५,
२८; वैश्रौ १४, ५ : ३; -स्ये
काश्रौ ५, ४, २१.
पयस्या-प्रचरण-काल- -ले

काश्रौ ५, ५, १६.
पयस्या(स्या-ञ्च)र्थ- -र्थम्
आपश्रौ ११, २१, ७.
पयस्या-वर्जम् काश्रौ ९, १४, ३;
आपश्रौ १३, १, १२; १०, ७.
पयस्या-स्विष्टकृद्-इ (डा >)
ड^e- -डम् काश्रौ १५, ७, २२.
पयस्-वत्- -वत् बौश्रौ १, १२ :
२४; २१ : २××; माश्रौ; -वते
बौश्रौ १८, ९ : १७; -वन्तः हिश्रौ
६, ७, ८; हिगृ १, २९, १; कौस् ८९,
१२; ऋप्रा २, ४८; -पयन्तम्
शाश्रौ ६, ७, १०^f; आपश्रौ १०,
२५, ४^g; बौश्रौ ६, १५ : १^h;
७, ५ : ८ⁱ; १८, ९ : १७; भाश्रौ
१०, १६, १६^h; -वान् आश्रौ १,
१३, ४; शाश्रौ; या २, १३.
पयस्वती- -ती आश्रौ १, ९,
१; ४, १२, २ⁱ; शाश्रौ; निघ
१, ७^h; या ५, २^h; -तीः
आपश्रौ ४, २, ३; ९××; बौश्रौ;
-तीम् आपश्रौ ११, ४, १४;
भाश्रौ; -त्यः निघ १, १३^k.
पयस्-वि(न् >)नी- -नी अप १,
४८, २; -नीम् अप १, ४८,
२; ५०, ८××; अशां; -न्यः अप
२१, १, ४; १; वृदे ५, ९२; ८,
७२; -न्याः पागृ ३, ९, ६; कागृ
५२, ५; विघ ८६, ४.
पयः-सुरा-ग्रह- -हाणाम् वैताश्रौ
३०, ११.
पयो-मुढ- -डान् वाश्रौ ३, ४, २, ४.
पयो-गोधूम-शालि- -लीनाम् अप
७०, ४, ९.

पयो-ग्रह- -हाः आपश्रौ १९, २,
१३; शुभ्र २, ३७४; -हान् काश्रौ
१९, २, १४; २४; २८; आपश्रौ;
-हेभ्यः माश्रौ ५, २, ४, ८.
पयोग्रह-संमर्शन- -नम् काश्रौ
१९, २, ३१.
पयो-ग्रहण- -णम् काश्रौसं २५ : ६.
पयो-र्द^l- -देषु अप ५९, १, १६.
पयो-दधि पृषदाज्य- -ज्यानाम्
आमिगृ २, ७, ९ : ४; भागृ ३,
१८ : ६.
पयोदन^m- -नम् बौगृ १, ८, २; जैगृ
२, ९ : २६.
पयो-देवता- > श्य, त्या- -न्यम्
शुभ्र ४, ९९; -त्याम् शुभ्र १,
१८५ⁿ; -त्यानि शुभ्र २, ३६९.
पयो-दोष- -षान् मीस् ६, ५, ६.
पयो-धर्म^o- -राः अप ५९, १, १७;
-रान् अप ५८^o, ४, ८.
पयो-धर्म- -र्माः भाश्रौ ७, ६, ९.
पयो-धस- -पाठ ४, २३०.
?पयोधा निसृ ९, ६ : २८.
पयो-निघन्त^p- -नम् द्राश्रौ २, २,
५१; लाश्रौ १, ६, ४८; ७, १, ११.
पयो-भक्ष- -क्षः आमिगृ २, ४, ४ :
६; -क्षम् शाश्रौ ४, १३, १.
पयो-भार्य^q- -र्यः वाधुश्रौ २, १६ : ६-
पयो(यस्-ञ्च)भाव- -वे वाश्रौ १,
५, ३, ४.
पयो-मन्थ- -न्यम् आपश्रौ २२,
२६, १; हिश्रौ २३, ४, १७.
पयो-मिश्र- -श्रम् आमिगृ २, ४, ३ :
१५; -श्रस्य बौश्रौ २, १२ :
२९; ६, १ : २४; १५, २ : २१.

a) = प्रोक्षणप्रयोजनक-पयस्-। b) पाठः ? पयसा इति क्रोडः (तु. भाष्यम्)। c) विघ, नाप.।

d) स्यान्तम् इति पाठः ? यनि. शोचः (तु. आपश्रौ १९, २५, १)। e) इडा = इडामार्जानान्तकर्मन्-। f) पाभे.
वैप २, ३३३. बहुरमध्यम् टि. द्र.। g) पाभे. वैप १, ११०९ g द्र.। h) = रात्रि-। i) = नदी-। j) = मेघ-।
वस.। k) तुस.। शकन्वादिर्त्वं द्र.। l) = ऋच्-। m) = साम-विशेष-। वस.। n) तुस. उप. < ✓भृ.।

पयो-मूल-फल-लैः अप ७०, २, १; शंघ १८७.
 पयोमूलफला(ल-अ)शन-नैः अप ७०, १, ११.
 पयो-यवाग्वा(गू-आ)मिक्षा(क्षा-आ) हार^३-राः शंघ २८.
 पयो-विकार-रः मीसू ८, १, ४०; -रे बौध १, ६, ४७.
 १पयो-व्रत-तम् वैश्रौ १४, १७ : ३; गौपि १, ७, ११.
 २पयो-व्रत, ता^४-तः बौधौ २६, ५ : २; विध ५०, ५०; गौध २४, ६; -ता माश्रौ १०, ९, ९.
 पयोव्रत-ता-ता वाध २२, ११; बौध ३, १०, १२; गौध १९, १४.
 पयो-होत्र^५-त्रम् बौधौ २४, ३० : १६.
 पर, रा^६-पाग १, १, २७; २, १, ५९; -०र विध ९८, ६१; -रः आश्रौ १, २, ९×४; १०, ९, ३१^०; शाश्रौ; वाश्रौ ३, ४, ४, ११^०; लाश्रौ ९, १०, १४^०; या १, १७^०; ६, ३२; U, १४; २९; ३०^०; १०, १०^०; २६^०; १४, १९^०; पा १, १, ४७; ४, १०९; ३, १, २; ८, ३, ४; पावा १, ४, ५६^०; -रम् आश्रौ ५, १, ३; १०, ९, २; शाश्रौ; वैध ३, ७, १३^०; या २, ३^०; २४; ११, ७^०; १४, ३; ६; २९; पा १, ४, २; ८, १, ३; -रम्-रम् आश्रौ १, ३, २; -स्या वैताश्रौ २२, १४; २५,

११; ऋध; -रयोः माश्रौ १, १, २, २; जैश्रौका; शैशि २२१^०; -रस्मात् आपध २, २०, ४; हिध २, ५, ९१; गौध १८, १२; पा ७, १, १६; पावा ५, ३, २२; -रस्मिन् आपश्रौ १३, २२, ५^०; बौश्रौ; पा १, १, ५७; ३, ३, १३८; ७, १, १६; -रस्मै शाश्रौ १८, २४, ९; काश्रौ; या ३, ६; -रस्य शाश्रौ १३, २०, १२; १६, ९, १३^०; आपश्रौ; पा १, १, ५४; ६, १, ११२; ३, ८; ७, ३, २२; २७; ४, ८८; ८, २, ९२; पावा ४, २, १३८^०; -रस्यऽ-रस्य पावा ८, २, १; -रस्य्या. काश्रौ १६, ४, ३६; आपश्रौ १६, ९, ११; बौश्रौ; -स्याम् सु १४, ४; -रा निस् २, १३ : २७; बौधि २, ९, १२; जैध; अश्र ४, ३७^०; -राः शाश्रौ १०, ६, ४; द्राश्रौ; -राणि आपश्रौ २१, १६, २; १२; माश्रौ; निस् ३, १३ : ३; ९; या ६, २६; -रात् काण्ड ४६ : १७; -रान् आपश्रौ ८, १६, ७; २२, ११; बौश्रौप्र; -रान्-रान् बौश्रौ ९, ६ : ८; -रामिः द्राण्ड ३, ४, २४; ऋध; -राभ्याम् काठश्रौ १५; काण्ड ४० : १३; ऋध; -राम् आपश्रौ २२, ४, २७^०; बौश्रौ; अश्र १, २८^०; -राम्-राम् कौसू ४, १५; -रारासः आश्रौ २, १९, २२; ५, २०, ६; बौश्रौ २, ८ : २८; १७, ३६ : १२; या

११, १८; -रासु लाश्रौ ७, ११, ४; ५; निस् ६, ३ : १८; ऋप्रा ४, ७; शैशि २८६; २८७; -रे शाश्रौ १२, २, २; काश्रौ; या ११, १८; -रेऽ-रे आमिण्ड २, ४, ६ : २१^०; -रेण काश्रौ २, १, ११; १७, २, ३; हिश्रौ; -रेभ्यः आश्रौ २, ६, २०; काश्रौ २०, ८, ५; आपध; -रेषाम् वैताश्रौ १७, ७; निस् ६, १३ : १५; ७, १२ : ७; आपण्ड; -रेषु ऋश्रौ^६ ३, ५, ८×४; द्राश्रौ; -रैः ऋश्रौ ४, १ : १७; ७, ६ : २३; आमिण्ड; -रौ आपश्रौ ८, २२, १०; माश्रौ ६, १, ४, २८; लाश्रौ.

पर-क-> पारक्य^१-क्यम् अप ६८, २, २६; -क्ये अप ४२, १, ३^०.

पारक्या (क्या-अ) शुचि-भूमि-मिपु शंघ १९२.

परकीय- पाग ४, २, १३८; ३, ६०.

पर-काय-प्रवेशिन्-शो वैध ५, ८ : ४.

पर-कारण^७-गानि इप्रा १, १, १६.

पर-कार्य-दक्ष-क्षे विध ९९, २०.

१पर-काल-क्षे अप ७१, ४, ५.

२पर-काल^८-रुः शुप्रा ३, ४.

पर-कुल-पाग ४, ४, ९९; -रामि या ४, ५.

पारकुलीन-पा ४, ४, ९९.

पर-कृत-तस्य हिश्रौ ९, ४, ५७^०; जैश्रौ २० : ७; -ताण्ड अप २०, ७, ४; -वान् बौध २, ३, ६.

a) विप. । द्रस. > बस. । b) विप. । बस. । c) = होम-विशेष- । d) वैप १ द. । e) पाभे. वैप १, १९१० d. द. । f) तु. पाक्र. । g) पृ १३११ j द. । h) परे इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. संस्कर्ता) । i) क्यम् इति पाठः ? यनि. शोषः । j) पाठः ? प्रकरणतः पराभ्याम् इति शोषः । k) पाभे. वैप १, १९११ d. द. । l) विप. । जल्येदमौघः क्यः अ. (या ४, १, ८५) । m) नस्य. (परलो कसं बन्धिन्. । पूर्ण-)

पर-कृति^१ - त्तिः आपश्रौ २४, १,
३३१; हिश्रौ १, १, ११.
परकृति-पुराकल्प- -ल्पम् मीसू
६, ७, २६.
पर-क्रम^२ - मम् क्रप्रा १४, ५५;
-मे क्रप्रा १, २६; १८, ३६.
परक्रम-स्वररेफोपध^३ - -धे क्रप्रा
६, ४४.
परक्रमो(म-उ)पधा- -धा क्रप्रा
६, ११.
पर-क्षेत्र- -त्रात् पावा ५, २, ९२;
-त्रे विध ७१, ६१; वैध ३, २,
१५; पा ५, २, ९२.
परक्षेत्रो(त्र-उ)त्पन्न- -न्नाः शंघ
२८८.
पर-खातक- -के अप ४२, १, ४.
पर-नाहं- -हाम् आपध १, ७, २४;
हिध १, २, ८१.
पर-गामिनी- -नी वाध १३, ५२;
१७, ८०.
पर-गुण- -गम् ऋत ४, ४, २.
पर-गृह- -हाणि या ४, ५; -हेषु
विध २५, १०.
पर-घातक- -कम् आज्यो ४, ९.
पर-चक्र- -क्रस्य अप ७१, १०, २.
परचक्र-भय- -यम् अप ५७,
१, ८; -ये अप ३१, ४, ५.
परचक्र-समुत्थ- -त्थम् अप ७१,
६, ६.
परचक्रा(क्र-आ)गम- -मः अप
७०^३, ४, ५; १२, ३, ४; ५; ७१,
८, ४; -मम् अप ७१, ५, ४; ६,
३; -मे अप ३१, ८, १; अशां
१७, २.
परचक्रा(क्र-अ)भिमर्शन- -नम्

अप ७०^३, २३, ३.
परचक्रो (क्र-उ) पवात्- -तान्
विध ३, ६९.
परचक्रो (क्र-उ)पसृष्ट- -ष्टस्य
अप ३३, २, ३.
पर-जनपद- -दात् माश्रौ ५, १, ५,
६७; -दे माश्रौ ५, १, १, ३४^४.
पर-जला(ल-अ)पहारिन्- -रो शंघ
३७८.
पर-जाया- > पारजायिक^५- -कः
शंघ ३२८.
पारजायिन्^६- -यी विध ५, ४०.
पर-तन्त्र->^७न्त्र-व्यवेत- -तानाम्
आपश्रौ २४, १२, ४.
परतन्त्रा (न्त्र-आ) पत्ति- -त्तेः
मीसू १२, १, ७.
परतन्त्रो (न्त्र-उ)त्पत्ति^८- -त्तयः
काश्रौ ६, १०, २५; -त्तिः वागृ
१, ६.
पर-तर- -रम् शंघ १०६.
पर-तल्प- -ल्पान् आपध १, २१, ९;
हिध १, ६, ३९.
परतल्प-गामिन्- -मी आपध
२, १७, २१; हिध २, ५, ४९.
पर-तसः (ः) जैश्रौका १४१; अप;
पा ५, ३, २९^६.
पर-त्र अप २२, १०, २; वैध २, १२,
४; गौध २१, ५; भाशि ६५;
पावाग ४, ३, ६०.
पारत्रिक- पावा ४, ३, ६०.
पर-स्व- -स्वम् आपध २, २७, ५;
हिध २, ५, २२४; -त्वात् पावा
४, २, ९२; ७, ३, ११६; ४, ९.
पर-द्(त्त>)त्ता- -त्ताम् विध ३,
८३.

पर-दार^९- (> १ पारदारिक- पा.)
पाग ७, ३, २०.
पर-दान- -नानि आज्यो २, ६.
पर-दार- पावाग ४, १; -रम्
आपध २, २६, १८; हिध २, ५,
२१३; -रान् वैध ३, १, ७; -रे
विध ५३, ८; गौध २२, ३१.
२ पारदारिक- पावा ४, ४, १;
-काः अप ५०, ५, २.
परदार-गमन- -नात् वैध ३,
१, ७; -ने विध ५३, २.
परदार-गामिन्- -मी शंघ ३७८.
परदारा(र-अ)भिगमन- -नम्
विध ३७, ९.
पर-दुर्बल- > पारदौर्बल्य^१- -ल्यम्
मीसू ३, १४; ८, ४, १७.
पर-देश-गत- -तस्य वैगृ ५, ८;
१५; -ते वैगृ ६, १४; १.
पर-देश-पथ- -पथात् विध ३, ३०.
पर-देशा(श-अ)वाप्ति- -सौ विध
३, ४२.
पर-द्रव्य- -व्यम् विध ५, १६४;
४४, ४४.
परद्रव्या(व्य-अ)पहारिन्- -री
शंघ ३७७; २२.
पर-द्वय- -यम् भाशि १०९.
पर-निपान- -नेषु विध ६४, १;
८४, ३.
पर-निर्हास-कुत्व- -त्वेषु पावा १,
१, ५८.
पर-निहित- -तम् विध ३, ६४.
पर-तप- पा ३, २, ३९; -पः अप
४३, ५, १४.
पर-पक्व- -क्वम् वैध २, १५, १०.
पर-पक्ष- -क्षे शंघ २४६; वैध ३, ९, १

a) = (परकृति-प्रतिपादक-) अर्थवाद-विशेष-। b) उप. = द्विरक्ति-। c) द्वस.उप. द्वस.>बस.।
d) उक् प्र. उसं. (पावा ४, ४, १)। e) भिनिः प्र. उसं. इति d टि. विशेषः। f) विप.। बस.। g) पाप्र.
कृतसुप्र.। h) द्व. BPG.। अर्थाः। i) प्वाणि प्र. उभयपदवृद्धिः उसं. (पा ७, ३, २०)।

पर-पञ्चम- -मम् शुभ्रा ४, १२.
 पर-पत्नी- -त्नी विध ३२, ७.
 पर-परत्तर- -राणाम् पावा ५, २, १०.
 पर-परिग्रह- -हम् आपध १, २८,
 १; २, २८, १०; हिध १, ७,
 ३७; २, ६, १०.
 पर-पाक-निवृत्त- -त्तः, -त्तस्य शंघ
 ४६१.
 पर-पाक-रत- -तः, -तस्य शंघ
 ४६१.
 पर-पाप- -पम् बौध १, ७, ३०.
 पर-पीडा-कर- -रः विध ४५, ३१.
 पर-पुरा(र-ञ्च)वासि- -सौ विध
 ३, ४७.
 पर-पुरुष- -षम् शंघ ७७; ७८.
 १?परपूर्व- -र्वम् अप्रा २, २, ५;
 -र्वथोः अप्रा ३, ३, २१.
 पर-पूर्वत्व- -त्वे पावा ६, १, १०६.
 २पर-पूर्(र्व>)र्वा^b- -र्वा विध १५,
 ९; -र्वासु शंघ ३६८; विध २२,
 ४३.
 पर-प्रकृति-शील- -लाः अप ६८, १,
 ४२.
 पर-प्रधात^b- -नानाम् आपधौ २४,
 १२, ४.
 पर-प्रयोग-निवृत्त्य (त्ति-ञ्च)र्थ-
 -र्थम् पावा २, २, ३०.
 पर-प्रहाण-> ^cणा^c वा, पाग
 ४, १, ४.
 पर-प्रि(य>)या^b- -या आमिष्ट
 २, ७, ६: ७.
 पर-प्रेत्य- -व्यः शंघ ३७७: २२.
 पर-बलीयस- -यांसि गौध ६, २१.
 पर-बीज- -जानि वाध १७, ९;
 आपध २, १३, ६; बौध २, २, ३६;
 हिध २, ३, ६.

पर-ब्रह्मन्- -ह्मणे वैध ३, १०, ४५.
 परब्रह्म-रूप- -पेण शुभ्र १,
 ५२४.
 परब्रह्म-स्वरूप-> ^dपिन्-
 -पिणम् आमिष्ट २, ४, १२: १.
 पर-ब्राह्मण- -णम् लाश्रौ १०, ४, ८.
 पर-भाग- -गः बौशि १४८.
 पर-भाव- -वः पात्रा ५, ३, २२;
 -वस्य पावा २, २, ३६.
 पर-भूत- -तयोः माशि ३३.
 परभूत-लोपा(प-ञ्च)र्थ- -र्थम्
 पावा ३, १, २.
 पर-भूमि- -मिसु अप ७०^e, ११,
 १; ३.
 पर-भृत-> ^eता^e वा, पाग ४,
 १, ४.
 पर-म,मा^e- पाग ८, १, ६७; -मः
 बौश्रौ २६, २२: १६; २९, ८:
 १२; वाधूश्रौ; -मम् आपधौ
 ७, ११, ४; १६, २६, ४; बौश्रौ;
 या २, ७^f५^f××; -मया ऋप्रा ९,
 ४५^f; -मस्य वाधूश्रौ ४, १०: ७;
 काग २४, १३^f; अप ५: २३;
 -मस्याः काश्रौ १६, ४, ३७;
 आपधौ १३, १, ११; १६, ९, १२;
 बौश्रौ; -मस्याम् शाश्रौ ८, १६,
 १; बौश्रौ १, ११: १०; १५; २०:
 भाश्रौ २, १, ९; या १२, ३१;
 -मा आश्रौ ३, ७, ९^f; अप ३१,
 ४, ३; आपध १, २२, ७; विध १,
 ४९; हिध १, ६, ७; अञ्च १४, २;
 या १०, २६^f; -माः अप ६२,
 ४, ४; -मामिणि आश्रौ २, १८,
 १९; ३, ८, १; शाश्रौ ३, १५,
 १९; -माम् आश्रौ ११, ३,
 ११; आपधौ; -मायाम् आश्रौ

११, ४, ८; आपधौ २३, ६, ११;
 हिश्रौ १८, २, १७; -मम् आश्रौ
 ३, ९, ४; शाश्रौ १५, १७, १;
 आपधौ; आमिष्ट ३, ६, ३: २५^g;
 बौपि १, १२: १^g; -मिणम् बौश्रौ
 १, ३: १२; १८, ३३: १०; आपध;
 -मिण्यः शौच २, ९४^h.
 परम-ऋषि- -षीन् आमिष्ट २,
 ६, ३: ३५.
 परम-कण्ठ^h- -ण्ठेन लाश्रौ ९,
 ८, १५.
 परम-कर्म-कारिन्- -रिणे अप
 १, ३९, २; अशां ९, २.
 परम-गुरु- -रुषु आमिष्ट ३, ६,
 २: ६; बौपि १, ९: १५.
 परमगुरु-संस्थाⁱ- -स्थायाम्
 आपध २, १५, ५; हिध २, ३,
 ३५.
 परम-च्छद्^c- -च्छदः तैप्रा १४,
 ८^f.
 परम-ता- -ताम् बौश्रौ १८,
 १९: १५^g; १६; १७; वाधूश्रौ ४,
 ५५: १२.
 परम-दाहण- -णः अप ७२,
 ३, १५.
 परम-पुरुष- -षाय वैष्ट ५, ३:
 २१; वैध ३, १०, ४.
 परम-प्रकृति- -तेः पावा ४, १,
 ९३; १६३.
 परम-मैत्र- -त्रे आज्यो १०,
 १०; ११; ११, ५.
 परम(म-ञ्च)धि- -धयः बौध १,
 ३, १३; वैध १, ९, १४; -धीन्
 बौध २, ५, २७^f.
 परम-स्थ-> ⁱपरमस्थ- पा.)
 पाग ५, १, १२४.

(a) समासः?। b) विप.। बस.। c) दु. पापम.। d) = क्रोडिल.। e) वैप १४.। f) वैप
 १, १९१२ ई.। g) पापे. वैप १ सखिणे शौ १८, ३, ८ टि.। h) अप. = स्त्र.। i) अप. = कृत्तु.।

परम-स्वामिन्-> ०मि-नामन्-

-ञः आग्निष्ट २,३,४:३.

परमस्वामि-शर्मन्- -र्मणः

आग्निष्ट २,३,५:१.

परम-हंस^a-सा: वैध १,९,१;५.

परमा(म-अ)क्षर- -रस्य शुभ्र
४,१२६.

परमा(म-अ)णु- -णु शुप्रा १,
६१; ऋत २,४,४.

परमा(म-आ)त्मन्- -त्मनः वैध

१,९,१५; -त्मना वैध १,११,

१३; -त्मनि वैध १,११,१३;

२,६,१; -^१त्मने वैध २,६,

३; ३,१०,४; -त्मा वैश्रौ २,

६:१०; वैध १,११,१०;

शुभ्र ४,१२७; -त्मानस् वैध २,

८,७; या १४,२९.

परमात्म-दैवत^b- -तस् अत्र
१९,७२.

परमा(म-आ)नन्द- -न्दस् अप
१५,१,९.

परमा(म-अ)ञ- -ञम् विध ९०,
२६.

परमा(म-आ)युस्- -युः अशां
१८,११.

परमा(म-आ)वटिक^c- -का:
चव्यू २:३७.

परमा(म-आ)हुति- -ति: अप
२६,५,८; -तिम् अप ३०,३,१.

परमे(म-ई)धर- -रस् आग्निष्ट
३,१०,४:१; अप १९^२,२,५.

-रे अप १९^३,५,७.

परमेश्वरां(र-अं)श- -शा: सु
१,३.

परमे-ष्ठ- पा ८,३,९७.

परमे-ष्ठा^d- -ष्ठा निस् १,५:१८.

परमे-ष्ठिन्^e-पाउष्ठ,१०; -^१ष्ठि^f

आपश्रौ ८,४,२; बौश्रौ ५,४:

२५; भाश्रौ ८,३,२४; माश्रौ

१,७,२,२३; वैश्रौ; -ष्ठिनः

†आपश्रौ २०,२०,३××; बौश्रौ;

वृदे ८,४५^g; शुभ्र^h २,८;२४५;

चाश्रुभू १; -ष्ठिनस् वाधूश्रौ ४,

५५:१; आग्निष्ट; -ष्ठिने माश्रौ

५,१,९,३१; आग्निष्ट २,६,८:

३५^१; बौष्ट २,८,१५^१; भाष्ट;

-ष्ठी शाश्रौ १४,७४,१; काश्रौ

१७,१२,२२^१; आपश्रौ ८,

२१,१; १६,२८,१; १७,३,८^१;

१३,२; बौश्रौ; माश्रौ ६,२,५,

३२^१; वाश्रौ २,२,४,१४^१;

हिश्रौ १२,१,४३^१; ऋश्र २,

१०,१२९^g; शुभ्र १,१४^g××;

३,२३६^g; साश्र^h १,४४१××;

ऋप्रा १७,५^d.

परमेष्ठयⁱ- -ष्ठयः ऋश्र
१,२,११.

परमेष्ठि-करण- -णस् गोष्ट
१,१,१२.

परमेष्ठि-काम- -मः माश्रौ
५,१,९,३१.

परमेष्ठि-ता- -तास् आपश्रौ
२२,२४,१०; हिश्रौ १७,८,

३६; १८,४,५४.

परमेष्ठि-मरण- -णे काष्ट
४५,२.

परमेष्ठ्या(ष्ठि-आ)दि- -दयः
शुश्र १,३; -दीन् काश्रौ २५,

६,१.

पर-मध्य(म>)मा- -मयोः लाश्रौ
६,८,१२.

पर-मांस- -लेन विध ५१,७५.

पर-मोदा(द-अक्त>)का^k- -काः
अप ६८,१,३६^१.

परं-पर- पाग ५,१,१२४^m; -रस्
शुप्रा १,१२५.

पारंपर्यⁿ- पा ५,१,१२४.

पारंपर्य-गत- -तः वाध
६,४३.

पारंपर्या(र्य-आ)गत-
-तस् वैष्ट ३,२१:४.

परंपरीण- पा,पावा ५,२,१०.

पर-युग-(>पारयुगीन- पा.) पाग
४,४,९९.

पर-योग-> ०गिन्- -गिनि अत्रा
१,१,१७.

पर-रथ- -थेन निस् ५,१३:१८.

पर-रन्ध्र-ज्ञ- -ज्ञः शंघ २४४.

पर-राष्ट्र- -ष्ट्रस् अप ७०^३,३,२;
आज्यो ३,२.

पर-रूप- -रूप अत्रा २,१,५; शौच
३,५२; पा ६,१,९४; पावा ६,

१,९४^{५०};१००; -पात् पावा १,
४,२.

पररूप-प्रकरण- -णे पावा ६,१,
९३.

पररूप-प्रसङ्ग- -ङ्गः पावा ६,१,
१००.

पररूप-वचन- -तस् पावा ६,१,
१०६.

पररूपा(प-अ)भाव- -वस्य पावा
६,१,१००.

a) = मिश्र-भेद-। b) विप.। बस.। c) = आवटिक-। d) = छन्दो-विशेष-। e) वैप १ द.।

f) पाशे. वैप २, ३ सं. परमेष्ठि तैत्रा १,५,५,१ टि. द.। g) = ऋषि-। h) पाशे. वैप १,१९१३ ७ द.।

i) पाशे. वैप १, १९१३ १ द.। j) साडस्यदेवतीयः ष्यः प्र. उ सं. (पा ४,१, ८५)। k) कस. > तुस.।

l) परमोदककाः इति संस्कर्तुः टि.। m) तु. पागम.। n) वैप ३ < परं-परा-। o) तु. पाका.।

पर-रेतस- -तसः आपध २, १३,
६; बौध २, २, ३५; हिध २,
३, ६.

पर-लोक- पाग ७, ३, २०; पावाग
४, ३, ६०^३; -कम् वैगृ ७, १:
२; विध २०, २८; -के विध
३०, ३९; ९१, ४.

पारलौकिक- पा ७, ३, २०;
पावा ४, ३, ६०; -कम् वैगृ ५,
१ : ५; विध ९३, १.

परलोक-सं(स्था>)स्थ^३-स्थान्
अप ७२, २, १.

पर-लोप- -पः पावा ५, २, ९२.

पर-वचन- -नम् पावा २, २, ३५; ३,
१, २; -नात् पावा १, १, ४६;
६, ४, ४९; -ने पावा १, ४, १.

पर-वत् पा, पावा २, ४, २६.

पर-वर्जम् शौच २, ७०; ३, २५.

पर-वाक्य-श्रवण- -गात् आप्रश्नौ
८, १३, ७; २१, ३, ५१.

पर-वारि- -रिणा शंघ १००.

पर-विज्ञान- -नात् पावा ३, १, १.

पर-विषय^८- -यम् अप ६८, ३, १३;
शंघ २५३.

परविषय-भेद- -दः शंघ २५१.

पर-वृत्ति-झ- -झः विध ४५, ३०.

पर-वेश्मन्- -श्म वैध ३, ७, ४.

पर-व्यवहित-वचन- -नम् पावा १,
४, ८०.

पर-शव- -ने वाध ४, ३२.

परशवो(व-उ)पस्पर्शन- -ने बौध
१, ५, ११८.

पर-श्वाक्व(र>)रा^३- -रा अत्र ११,
११^३; १३, १^३; १९, ५७.

पर-शाखा(खा-आ)श्रय- -यम् कप्र
१, ३, २.

पर-शास्त्र- -खेण बौधौ २९, ८ : २३.

परशास्त्र-कुतूहल^३- -लः काशु
७, ६.

पर-संस्थान, ना- -नः शौच २,
१३; ३१; ४०; -नाम् शुप्रा ४,
१०.

पर-संस्थित- -ते माशि १०, ७;
१३, १०.

पर-संदीक्षित-त्व- -त्वात् कौसू
१३२, १९.

पर-सवर्ण- -र्णः पा ८, ४, ५८;
-र्णम् माशि ९, ७; नाशि २,
४, ४.

परसवर्ण-त्व- -त्वम् पावा ८,
२, ६.

पर-सामर्थ्य- -थ्यात् मीसू १०, ८, ७.

पर-सूत्र-प्रकार- -रेण जैश्रीका ३१.

पर-स्त्री- पाग ४, १, १०४; १२६;
७, ३, २०; -स्त्रियम् शंघ ४३८;
वैध २, ११, ४; ३, २, ९; -स्त्रीम्
अप ६८, २, २८.

पारस्त्र- पा ४, १, १०४.

पारस्त्रैण्य- पा ४, १, १२६;
७, ३, २०.

परस्त्री-गमन- -ने शंघ ३९४.

परस्त्री-संभाषण- -णम् शंघ १२.

परस्मै-पद- -दम् पा १, ३, ७८;
४, ९९; ३, १, ९०; पावा १, ४,
१; ३, १, १५; -दस्य पावा १, ३,
१२; -दानाम् पा ३, ४, ८२; पावा
१, ३, १०; -देषु पा २, ४, ७७;
३, १, ५५; ४, १०३; ७, २, १;
४०; ५८; ७२; ३, ७६.

परस्मैपद-ग्रहण- -णम् पावा १,
४, ९९^३.

परस्मैपद-प्रतिषेध- -धात् पावा

१, ३, ७९.

परस्मैपद-प्रतिषेधा(ध-अ)र्थ-
-र्थम् पावा १, ३, १२.

परस्मैपद-वचन- -नम् पावा १,
३, ८८.

परस्मैपद-संज्ञा- -ज्ञाम् पावा
१, ४, १.

परस्मैपदा(द-आ)त्मनेपद-
ग्रहण- -णम् पावा ३, ४, २.

परस्मैपदा(द-आ)श्रय-त्व-
-त्वात् पावा १, ३, ६०.

परस्य-कुल- (>पारस्यकुलीन-
पा.) पाग ४, ४, ९९.

पर-स्व-त्व- -त्वेन मीसू ४, २, २९.

पर-स्वर- -नम् तैप्रा २१, २.

पर-स्वा(स्व-अ)पहरण- -णम् विध
३७, ८.

पर-होम- -मः अप १८, ७, १.

परा(र-आ)काङ्क्षा- -ङ्क्षाम् मीसू
२, १, ३.

परा(र-आ)कृति- -तिः अप ३३,
६, ६.

परा(र-आ)गमन- -ने आप्रमृ २,
७, ४ : ३.

परा(र-अ)गिन- -गिनघु निस् ५,
१३ : १७; १९.

परा(र-अ)ङ्ग- -ङ्गम् नाशि २, २,
१३; -ङ्गस्य बौधि ३, ७, ३^३;

शैशि १९०; याशि २, २४.

पराङ्ग-कर्म-क^३- -काल् पावा १,
३, २०^६.

पराङ्ग-भूत- -तेषु माश्रौ २, २,
५, १.

पराङ्ग-वत् पा २, १, २.

पराङ्गवद्-भाव- -ने पावा
२, १, २^३.

a) तु. पाका. पासि. । b) विप. । वस. । c) उप. = देश. । d) परा-मा^३ इति पाठः । अनि.

बौधि । e) सङ्घत् 'क्वरपरा इति पाठः । अनि. शोघः । f) क्षप^३ इति B. । g) तु. पासि. ।

पराङ्गा (ङ-आ)दि- -दौ नाशि
२,२,१२.
परा(र-अ)तिजाग(त>)ता^१- -ता
अत्र ११,१;२; १३,१.
परा(र-आ)दि- -दि ऋत २,३,६;
-दि: पा ६,२,१९९; पावा १,
२,३७; -दिना काश्रौ १,३,९;
-दौ पावा १, १, ४७; ५१; ६,
१, ७०×४.
परादि-स्व- -स्वात् पावा ६, १,
९; ८,३,७९.
परा(रा-२आ)घ- -घ: अत्र २,१७.
परा(र-अ)धिकार- -रात् काश्रौ २,
६,२७; मीसू ३,८,२२.
परा(र-अ)धीना (न-आ)हार->
०रिन्- -री वैध ३,१५,११^b.
परा(र-अ)ननुव्यक्त-व(त्र>)
क्त्रा^c- -क्त्रा शंघ ७८.
परा(र-अ)ञ- -ञात् शंघ ४६१.
परा(र-अ)ञ-पान- -नम् विध ४३,
३७.
परा(र-अ)पर-पर- -रम् अप २३,
१४,५.
परा(र-अ)भिमृष्ट- -ष्ट: शांठ ६,
१,१०.
परा(र-अ)र्थ- -र्थानि शाश्रौ १३,
१४, ४; आपश्रौ २१, २, ३;
हिश्रौ १,१, ४२; १६, १, २३;
मीसू १२, ४, ३२; -र्थे मीसू
९,२,४४^d; -र्थेषु काश्रौ १२,
१,१४.

परार्थ-स्व- -स्वात् काश्रौ १,
६,६; १०; १५; मीसू.
परार्थो(र्थ-उ)त्पत्ति^e- -त्ते: काश्रौ
४,३,२२.
१परा(र-अ)र्ध^१- -र्ध: शुभ्रा ६,
२६^f; -र्धम् अत्र ७, १०६;
-र्ध्याय वाश्रौ ३, ४, २, ११;
वाधुश्रौ ३, ८३: १८; -र्धे
आपश्रौ १६, ३१, १^g; बौश्रौ
१८, ४२: २०; ४३: ७; २६,
३३: १२; वैश्रौ १८, २०:
५२^h; हिश्रौ ११,८,४^h.
२परा(र-अ)र्ध->०र्ध्याⁱ- पा
४, ३, ५; -र्ध्यम् आपश्रौ ५,
२७,४; द्राश्रौ ९,३,२३; लाश्रौ
३,७,८^h; निसू ९,८: ३४; गोष्ट
१, ९, १०; -र्ध्या भाश्रौ १,२,
१३; निसू १, ५: ३^h; १६;
-र्ध्या: द्राश्रौ ११,३,१८; लाश्रौ
४,३,१८.
परार्ध-स्थ- -स्थम् या २,७.
३परा(र-अ)र्ध>०र्धाⁱ- -र्धा: वाश्रौ
१,५,४,३९; ४०.
परा(र-अ)वर-योग- -नो पा ३,
४,२०
परा(र-अ)वर-रूप- -पेग शुभ्र १,
१७१.
परा(र-अ)वरा(र-अ)र्ध->०र्ध्याⁱ-
-र्ध्या: ऋप्रा १५,२७; १८,५८.
परा(र-अ)शिष- -शिष: कौसू
६०,१२.

परा(र-अ)शुचि- -चौ विध ६०
१३.
परा(र-अ)श्रित- -तौ पाशि ५.
परे-वो¹- -वचि पा, पावा ५, ३,
२२.
परो(र-उ)क्त, का- -क्तम् कप्र १,
३,३; -क्ता कप्र १,३,१.
परो(र-उ)दात्^१- -त्त: कौशि २७.
परो(र-उ)पदेश- -नो पाप्रवा ५,
१;४.
परो(र-उ)पवास^k- -स: आपध १,
२,१७; हिघ १,१,५०.
?पर¹ काश्रौ २५,११,२१.
परक- > परकीय- प्रभृ. पर- द्र.
?परंगतिविलीके अप ४८,१२४.
पर-चक्र-परम- प्रभृ. पर- द्र.
?परमधनम्^m माश्रौ २, ५, ४,
२४.
परम-पुरुष- प्रभृ. पर- द्र.
?परशुⁿ- पाग ४,१,१००;१०४.
१परशव^o- पा ४, १, १०४; -व:
वाध १८, ९; १०; बौध
१, ९, ३; २, २, ३०; वैध ३,
१३,१.
पारशव-यवन-करण-शूद्र- -द्रान्
गौध ४,२१.
पारशवायन- पा ४,१,१००.
?पारशव्यय^p- -ये शाश्रौ १६,
११,२०.
२परशु^q- पाठ १, ३३; पाग ५, २,
९७^r; -शु: बौश्रौ ७, १०: १;

a) विप.। बस.। b) ०हार: इति C.। c) अननुव्यक्त- = अत्रकाशित-। d) ०थेन इति प्रयासे.।
e) वैप १ द्र.। f) = ३परार्धा-। तत्रमनीय: यत् प्र.। g) = अति-विप्रकृष्ट-। h) सप्र. ऋप्रा १६,८०
उत्तमा इति पाभे.। i) विप. ([अधिकारिका-] रात्रि-)। बस.। <परार्ध- इति MW.। j) पाप्र. पर- + एवचि
प्र. इति। k) परसमीपे वास:, परलोकार्थे उपवासो वेति भाष्यम्। l) पाठ: ? परा (कृत्वे) इति शोध: (तु. सपा. शौ
७,१०५,१)। m) पाठ: ? तैशा ४,२०,२ अनु परम्,अधरम् इति शोध: (तु. मै ४,९,१२ पुरम्, अवरम् इति पाभे.)।
n) व्यप.। व्यु. ?। o) जाति-विशेष-। p) पाठ: (तु. C.)? पारशव्य- > -व्ये इति शोध: (तु. MW.,
ऋप्रा २,८,६ पार्षव्य- इति)। q) वैप १,१९१४। द्र.। r) पशु- टि. द्र.।

आपमं; याशि १, ४५^३; -शुना
 काश्रौ ६, १, १२; आपश्रौ;
 -शुम् हिश्रौ ४, १, १०; आमिष्ट;
 -शोः पावा १, ४, २३.
 परशव्य-> रपारशव- पा ४, ३,
 १६८.
 परशु-च्छेद^३- -दः माशि २, १२.
 परशु-पर्ण^०- -र्गान् कौसू ३०, १४.
 परशु-पलाश^०- -शेन कौसू ४७,
 २५.
 परशु-फाण्ट^१- -ण्टम् कौसू ३६,
 २७.
 परशु-ल-, परशु-वत्- पा ५, २,
 १७.
 परश्वध^०-> पारश्वधिक- पा ४, ४,
 ५८.
 †परसै^१- -रः आश्रौ ३, ८, १; शाश्रौ
 १२, २६, १९; आपश्रौ; -रःऽ-रः
 अप्रा ३, ३, ५.
 पर-उष्णिह^६- -ष्णिक् उनिस् १ :
 १८; ४ : १३; १५.
 पर-पुह(ष>)षा^३- -षे शाश्रौ १७,
 १, १६.
 पर-शत, ता^१- पाग २, २, ३१^१;
 पावा २, १, ३९^६; -तम् बौश्रौ
 १२, १६ : ३; १५, १५ : ८; ३८ : ६;
 वाश्रौ २, २, ५, ५५; -ताः आपश्रौ
 १८, १९, १०; हिश्रौ १३, ६, ३५;
 -तान् आपश्रौ १८, १९, १;
 -तानि आपश्रौ ८, ६, १३;
 भाश्रौ ८, ७, ९; माश्रौ १, ७, ४,
 ५; वाश्रौ १, ७, २, २०.
 परःशत(त-श्र)र्ग-गाथ^१- -थम्

शाश्रौ १५, २७, १.
 परस्-तर-> परस्तरम्^१ माश्रौ ३,
 ४, २.
 परस्तराम^१ आपश्रौ ९, १, १८;
 बौश्रौ २९, १० : ९; भाश्रौ ९,
 २, १; वैश्रौ २०, २ : १०; हिश्रौ
 १५, १, १९.
 परस्-तात्^१ आश्रौ ३, १०, ३१^१म्;
 काश्रौ ३, २, ८५; २५, ९,
 १५^१म्; आपश्रौ; माश्रौ ३, ५,
 १४^१म्; पा ५, ३, २९.
 परस्-पर- पावा ८, १, १२; -रः अप
 ५१, ५, २; शैशि ७८; -रम्
 वैश्रौ ८, ७ : १२; अप; -रेण अप
 ६१, १, १९.
 परस्पर-जिर्घासु- -स्वः अप
 ६१, १, २३.
 परस्पर-बलो (ल-उ)त्तर- -राः
 अप ५८^२, १, ८.
 परस्पर-व्यपेक्षा- -क्षाम् पावा २,
 १, १.
 परस्परो(र-उ)पपद- -द्वात् पावा
 १, ३, १६.
 परः-सहस्र, स्रा^१- पाग २, २, ३१^१;
 पावा २, १, ३९^६; -स्रम् आपश्रौ
 १४, ४, ४; बौश्रौ १७, १० : ९;
 वैश्रौ १७, ५ : १; सु २८, ३;
 -स्राः आश्रौ ९, ११, २२;
 आपश्रौ १८, १९, १०; हिश्रौ
 १३, ६, ३५; -स्राणि आपश्रौ ८,
 ६, १३; भाश्रौ ८, ७, ९; माश्रौ
 १, ७, ४, ५; हिश्रौ ५, २,
 ४३; -स्रान् आपश्रौ १८,

१९, १.
 परः-सामन्- -मसु आपश्रौ २१,
 २१, ३; हिश्रौ १६, ७, ३; -मानः
 बौश्रौ १४, १३ : ५; १६, १४ :
 १२××; -न्नः आपश्रौ २१,
 १५, १४; बौश्रौ १६, १७ : ९;
 २६, १६ : ११; -न्नम् बौश्रौ
 १४, १३ : ४; १६, १७ : ४; २६,
 ८ : ७.
 परो(रस् अ)क्ष, क्षा^१न्- -क्षः वृदे ७,
 ९; ८, ५२; -क्षम् आपश्रौ १०,
 २०, ८; ९; बौश्रौ; -क्षस्य छुस् २,
 १३ : ३; ४××; -क्षाः आश्रौ १,
 ३, १५; -क्षाणि छुस् २, १२ :
 ३; १०××; लाश्रौ १०, २, ३;
 -क्षाय निस् ८, ७ : २७;
 -क्षायाम^० शौच ४, ८४; पावा
 १, २, १८^६; -क्षे छुस् २, ६ :
 ३२; पा ३, २, ११५; पावा
 ३, २, १११; ११५; -क्षेण
 वाधुश्रौ ४, १५ : ८; १९^३;
 १७; २२ : १०; या ९, २०^१;
 -क्षेपु छुस् २, १२ : २४; -क्षैः
 वृदे ५, २.
 परोक्ष-कृत, ता- -ताः या ७, १^१;
 ३; -तानि या ७, २.
 परोक्ष-कृति- -तिः छुस् ३,
 १ : ८.
 परोक्ष-गत-प्रेत- -स्य आमिष्ट
 ३, ९, २ : १०.
 परोक्ष-देव^०- -वाः विघ १९,
 २० : २३.
 परोक्ष-पृष्ठ^०- -ष्ठः आश्रौ ८, ४,

a) = हस्त-दोष- । b) = परशु-मलाश- (तु. संस्कृतः टि.) । c) उप. = कुठारमुख- (तु. संस्कृतः टि.) ।

d) तत्परशुकथितफारटमिति कृत्वा कक्ष. । e) व्यप. । व्यु. ? । f) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र. ।

g) = छन्दो-विशेष- । h) विप. । बस. । i) वैप १ द्र. । j) तु. पागम. । k) तु. पाका. । l) विप. ।

बस. > द्रस. (तु. भाष्यम्) । m) पांमे. वैप २, ३ सं. पराचैः तैना ३, ७, ३, ६ टि. द्र. । n) परोक्षमात्रे

कृति च कृतिः । o) = लिट्-लकार- । p) कस. । q) = एकाह-विशेष- । बस. ।

२३; आपश्रौ २२, १, १३^३; क्षुस्
२, १०: ९; -ष्ठस्य शांश्रौ १०,
८, २१; -ष्ठानि निस् ६, ५: २१^३;
-ष्ठे शांश्रौ १२, ७, ४; ८; हिश्रौ
१७, १, १५^३; निस् ७, ४: २७;
-ष्ठौ हिश्रौ १७, २, ४.

परोक्षपृष्ठो (ष्ठ-उ)पाङ्ग्यपृष्ठ-
-ष्ठयोः निस् ४, ४: १२^०.

परोक्ष-प्राङ्ग्य-पृष्ठ^३- -ष्ठः क्षुस्
२, १३: ७; १०.

परोक्ष-प्रिय^०- -या: वाधुश्रौ ४,
१५: ८; १९^०: १७; २२:
१०.

परोक्ष-प्रेत^३- -त्स्य बौपि २, ६,
१; १०; ११.

परोक्ष-वत् ऋञ्च २, १०, २८;
वृदे ७, ३१.

परोक्ष-वार्ष^३- -श्रौ आश्रौ २,
१८, १५.

परोक्ष-वैश्वदेव^३- -वम् वृदे ५,
४४.

परोक्षा(क्ष-आ)पक्य-पृष्ठ^३- -ष्ठः
क्षुस् २, १३: १; ४.

परोक्षा-व्रत- -तम् बौश्रौ १८,
२६: १६^६.

परोक्षी/कृ > परोक्षी-कृत्य
निस् ३, ११: ७.

परोक्षी-चिकीर्षत्- -र्षन् निस्
३, ४: ३०, ३४.

परोक्षी-चिकीर्षा- -र्षा निस्
२, ७: ६,

परोक्षी/मू > परोक्षी-भाव-
-व: निस् ३, ११: १०; १४.

परोक्षो(क्ष-उ)क्त- -क्ता: वृदे ४,
३२.

परोक्षो(क्ष-उ)पस्थान- -नम्
बौश्रौ २४, ३०: १९.

परोक्षो(क्ष-उ)पहत- -तानाम्
बौध १, ६, २२.

परोक्षो(क्ष-उ)पाङ्ग्य-पृष्ठ^३- -ष्ठः
क्षुस् २, १३: १३; १६.

परो-गव्यूति^३- -ति आपमं २, १७,
१३; -तिम् हिश्रौ २, ३, ५०;
५, ५, २०; हिगु २, ९, ५; -तौ

आपश्रौ ३, ४, ८.

परो-गोष्ठ^३- -ष्ठम् वाश्रौ १, ६, ७,
३५; २, १, ४, २७; माश्रौ; -ष्ठे

आपश्रौ ३, ४, ८; माश्रौ ८, २२, ५;
हिश्रौ ५, ५, २३; ९, ५, ४८; भागु
२, १०: ३.

परो-द्वि-व्याया(म>)मा^३- -मे
शांश्रौ १७, २, ४.

परो-नजस^३- -नजा: आपश्रौ १०,
२८, ५; माश्रौ १२, १, १४;

हिश्रौ १७, ६, ४४; जैश्रौ ३:
२४.

परो(रम्-ञ्)वर^३- -र: बौश्रौ २७,
४: २३; -रम् शांश्रौ १६,
१, ७^३.

परोवर्य- > ^०र्व-विद्-
-वित्सु या १, १६; १३, १२.

परोवरीण- पा ५, २, १०.

परो-वरीयस^३- -यान् वैगु १, १:
१८.

परोवरीयसी- -सी वैश्रौ १, १:
१९.

† १परस्-पा^३- -पा: † आपश्रौ ६, १६,
१२; भाश्रौ ६, २, ३.

२परस्पा^३- -पाया: † आपश्रौ १५,
१४, १^३; बौश्रौ ९, १४: १;

३××; भाश्रौ; -पाये^३ आपश्रौ
१५, १४, १; बौश्रौ ९, १४: ६;

भाश्रौ ११, १३, १६; माश्रौ ४,
४, १३; वैश्रौ १३, १६: ५.

पर-संस्थान- प्रच्. पर-द्र.

† १परस्पी- -स्पी^३ आपमं २, २, १०;
बौगु २, ५, १४; जैगु १, १२: ४७.

† १परस्वत्^३- -स्वति बौश्रौ २, ५: ५.

परा^३ या १, ३; ऋपा १५, १७; सुपा
६, २४; पाग १, ४, ५८.

१पराक^३- -पाडभो २, २, १४; -क:
शांश्रौ १६, २२, ७; ९; काश्रौ

२३, २, १०^३; वाध २४, २^३; शंघ
४३२^३; बौध^३ २, १, ६३-६५; ४,
५, १५; विध^३ ४६, १८; ५१, ५८;

सुध ६४^३; -कम्^३ वाधुश्रौ ३,
१९: २१; बौगु ३, ३: २८; वाध
२३, ४३; विध ३७, ३५; -केण^३

आपश्रौ २२, १८, १०; हिश्रौ
१७, ७, ५.

पराक-च्छन्दोम^३- > ^०म-पराक-
-कौ आश्रौ १०, २, १३.

२पराक- परा(रा/ञ्)च्, च्च् द्र.

a) सप्र. °ष्ठ: <> °ष्ठे इति पाभे. । b) विप. । c) °पाङ्ग्य° इति पाठः? यनि. शोधः (उ. संस्कृतः टि.) । d) = षडह- । कस. > बस. । e) विप. । बस. । f) विप. । सस. । g) °क्षाद् ऋ इत्यपि संस्कृतः टि. । h) वैप १ द्र. । i) विप. । बस. > समाहारे द्विस. । j) वैप २, ३ खं. द्र. । k) विप. । सुसुपीयः समासः । l) विप. । वैप १ द्र. । m) भाप. (परिपालन-) । व्यु.? (तु. वैप १ परस्प- इत्यत्र टि., तस्यैवेतत् स्त्री. रूपान्तरं द्र.) । n) पाभे. वैप १, १९१६ ज द्र. । o) पाभे. वैप २, ३ खं. परस्वी मंत्रा १, ६, २८ टि. द्र. । p) अक्य. । व्यु.? । q) = त्रिरात्र-विशेष- । r) = कृच्छ्र-विशेष- । s) वरा° इति पाठः? यनि. शोधः (उ. सप्र. बौध ४, ५, १५) । t) मलो. कस. ।

पराकदास^० -सः वृदे ७, ११८.
 पराकाङ्क्षा- प्रभृ. पर- द्र.
 परा√क्रम^०, ऋपराक्रमध्वम् शांश्रौ
 ४, १०, १, २; आपश्रौ.
 परा-क्रम- -मे बौध ३, ३, २२.
 परा-क्रम्य शांश्रौ ५, १६, ४^१; निसू
 ७, ८ : २४.
 परा-क्रान्त- -न्ते या ५, ९.
 परा√ख्या> परा-ख्याय बौश्रौ ३,
 १३ : ७x५; वाधूश्रौ.
 परा√गम्, पराजग्मुः हिश्रौ १, ३,
 १८^१.
 परा-गत- -तम् आपश्रौ १३, १४,
 ४; १९, ३, ७; बौश्रौ; -तः
 कौसू ८६, २; ८८, १७; -तात्
 या ७, २६; ११, ४८.
 परागमन- पर- द्र.
 परा√गा, परागात् आश्रिष्ट १, ५, १ :
 ७^१; परागाः आश्रौ ६, ११, ११^१
 पराग्नि- प्रभृ. पर- द्र.
 परा(रा√अ)च्, ज्च् > २परा
 (रा-आ)क्^० -तके आपमं २,
 २०, २८; आश्र २, ४, १३;
 आश्रिष्ट; या ५, ९^१.
 परा(रा-अ)च्, ज्च् -राक्, र् काश्रौ
 ७, २, ३३; ८, ३, २८; १२, २,
 २२; निसू; -राक्षु काश्रौ २५,
 १३, ३१; -राग्निः काश्रौ
 १७, ६, ७; -राह आश्रौ ५,
 ९, १; शांश्रौ १०, १३, २६;
 आपश्रौ; -राहऽराह माश्रौ ६, १,
 ५, १६; -तः बौश्रौ १६, ९; ७;
 वाधूश्रौ २, ९ : २; कौसू ४९,
 ६; -राचा आपश्रौ २०, २४, १०;

जैश्रौ ११; द्राश्रौ २, १, ३;
 आश्रिष्ट; -राचि कौसू ८९, १०^१;
 -राच्चः शांश्रौ १०, १५, २;
 बौश्रौ; -राच्चम् बौश्रौ ४, ४ :
 १२; वैश्रौ ७, १ : १०; वाधूश्रौ;
 -राच्चा वैश्र ३, १० : ८; -राच्चि
 शांश्रौ १४, १०, १९; बौश्रौ
 १७, ३८ : ३.
 पराची- -ची आपश्रौ २४,
 १४, १८; बौश्रौ १४, २४ : २०;
 वाधूश्रौ; या ९, ३०; -चीः आश्रौ
 ८, १३, ६; शांश्रौ १४, ४०,
 १९; १८, १, २०; काश्रौ; भाष्ट
 २, ३० : १५^१; हिपि १५ : ७;
 -चीभिः शांश्रौ १३, ११, २;
 बौश्रौ १४, ५ : ४६; -चीम्
 आपश्रौ १, ७, १३; २४, १४, १६;
 हिश्रौ २१, २, ५६; बौध १, ७,
 २५; आपमं २, १५, १; -चीषु
 माश्रौ ३, ८, ४; निसू ६, १० : १२;
 -च्यः बौश्रौ ६, ८ : ८; वाधूश्रौ
 ३, ५८ : ५; ८.
 पराक्-त्व- -त्वम् लाश्रौ ९, ७,
 ९; -त्वात् निसू १, ११ : २९.
 पराक्-शब्द- -दस्य मीसू १०,
 ५, ४५; ४७.
 पराग्-वसु^० -तसुः^१ आपश्रौ
 ३, १८, ४; २४, १३, १; कौसू
 ३, ६; १३७, ३८.
 पराङ्-मनस्^० -नाः अप्रा २,
 ४, १४.
 पराङ्-सुख^० -स्वः गोपि १, ३,
 १०; विष २८, १८; -स्वम् वेदे
 ६, १५२; -स्वस्य विष २८, २०.

पराचीन- -नम् आपश्रौ ३, २०,
 ४; ६, १२, २x५; बौश्रौ; -ना
 अप्रा ३, ४, १^१; -नेन आपश्रौ
 १२, ८, ६; वाश्रौ ३, २, ५, ११^१.
 पराचीन-पाणि^० -णिः
 आश्रौ २, ६, १५.
 पराचीन-पाश^० -शम् बौश्रौ
 १०, २२ : १२; वैश्रौ १८, १३ : ९.
 पराचीन-मूल^० -लान् कौसू
 ५०, २२.
 पराचीन-रात्र^० -त्रे आपश्रौ
 ८, ११ : १७; भाश्रौ ८, १३, २;
 हिश्रौ ५, ३, ३४.
 परा(रा-अ)च्चन- -नैः या ११, २५.
 ऋपराच्^० -चैः आपश्रौ^१ ९, ४, १;
 १८, १२; बौश्रौ ८, १९ : १५^१;
 भाश्रौ ९, ५, २२^१; हिश्रौ^१ १५,
 १, ७५; ८, १२; आपमं; या
 ११, २५^१.
 परा√चर्, ऋपरा (चरति) आपश्रौ
 १६, ७, ४; वैश्रौ १८, ५ : ३;
 हिश्रौ ११, २, २.
 परा(चरत्)- -रन्तम् या १४, ३^१.
 परा√जि^०, पराजयते बौश्रौ १२,
 १५ : २३; पराजयेथे बौश्रौ १६,
 २६ : ८^१; पराजयाते बौश्रौ
 १३, २८ : १६; १७; पराजयेत
 अप ५१, २, ५.
 पराजयेथे बौश्रौ १६, २६ : ९^१.
 परा-जय- -यः विष ८, ३८; -यम्
 अप ५१, १, २; ६३, ५, १;
 आज्यो १०, २.
 परा-जित, ता- -तः अप ३३, १, ३;
 ७०^१, ११, ३; -ताः वाधूश्रौ ४,

a) = ऋषि-विशेष-। व्यु. १। = सपा. ऋषि ३, २१, ४; २२, २। खि. अनुक्रमणिका [३] तु 'रागदा' इति
 पामे.। b) पा १, ३, ३९ परामृष्टः द्र.। c) वैप १ द्र.। d) सपा. शौ ६, १२४, २ पराचैः इति पामे.।
 e) विष.। बस.। f) पामे. वैप २, ३खं. परावसुः मात्र १, ५, १, २३ टि. द्र.। g) = अपर-रात्र-। h) पामे.
 वैप २, ३खं. पराचैः तैत्रा ३, ७, ३, ६ टि. द्र.। i) पा १, ३, १९ परामृष्टः द्र.।

६३ : ३; अत्र ८, ८^१; -ताम्
सु ५, १.
परा-ज्ञेयमाण- -गान् कौसू १५,
१६.
परा√णी(<नी) > परा-णीय माश्रौ
५, १, ६, २१.
परा√णु(<नु)द्, पराणुदस्व ऋप्रा
५, ६०^१; पराणुदत् वृदे ४,
१३४; अत्र ३, १८; १९.
परा(रा-अ)तिजगती^१- -ती अत्र
५, २७; १२, १.
परातिजागता- पर-द्र.
परा(रा-अ)तिशकरी^१- -री अत्र ५,
२६; १२, १.
परा√त्रस्, (परा) अतित्रसत् अत्रा
३, ४, १^१.
परा-त्रिष्टुभ^१- -ष्टुप् अत्र ११, ९;
१८, ३.
परा√दा, परादेहि आपमं १, १७,
७; कौसू ७९, २०.
पराददुः शाश्रौ १२, २०, २;
परादात् माश्रौ २, ५, ४, २४;
परादाः माश्रु २, १६, ३; या ५,
१६.
परादि- पर-द्र.
परा√दृश् > परा-दृश्य माश्रौ १, ७,
४, ३६.
पराद्य- पर-द्र.
परा√धम्, ध्मा, पराधम आपमं १,
१५, २^१.
परा-ध्मात्- -न्ताः आपश्रौ १,
२०, ८; वैश्रौ ४, ७ : ७; हिश्रौ
१, ५, ६३.

परा√धाव् (गतौ), परा (धावसि)
वैताश्रौ ३२, १७^१.
पराधिकार- प्रभृ. पर-द्र.
परा(रा-अ)नुष्टुभ^१- -ष्टुप् अत्र १,
३१; ३, २२; ४, १०; ६, १३४;
७, ६०; ८, ७; १९, ४०^१; -ष्टुभः
अत्र ४, २९; १४, २.
परा(रा-अ)न्त्य- -न्त्ये अर्प ४ : ३.
परात्न- पर-द्र.
परा√पत्, परापतति बौश्रौ ४, १ :
२१; १८, ३६ : ४; हिश्रौ ४,
१, २१; पंपरापतात् शाश्रौ १, ६,
२; कौश्रु १, १२, ६, पंपरापत्
आश्रौ २, १८, १३; आपश्रौ;
परापतत् आपश्रौ २४, १२, ६^१;
वाधूश्रौ ४, ६४^१ : २; पंपाश्रु २,
२, १२; ११, १२^१; हिश्रु १,
११, ११^१; परापतेत् माश्रौ ७,
१, १४; माश्रौ २, ३, ३, १०;
वैश्रौ १०, २ : १.
परापपात् वैताश्रौ १२, ९.
परा-पतित- -त्तम् भाश्रु २, २२ : ८^१.
परा-पातु(क >)का^१- -का माशि
३६^१.
परा(रा-अ)पर-पर- पर-द्र.
परा√पश, परापश्येत् काश्रौ २५,
४, १; आपश्रौ ९, ६, १२; हिश्रौ
१५, २, १८; अत्राय ५, २.
परापश्वा अत्र २, ३४.
परापहण- > णा^१- पा, पाग ४,
१, ४.
परा-पुर्- -पुरः आश्रौ २, ६, २;
शाश्रौ ४, ४, २; आपश्रौ.

परा√पू, परापुनाति आपश्रौ १,
२०, ७; बौश्रौ १, ६ : २३; २०,
७ : ८; ९; भाश्रौ १, २१, ३;
परापुनीहि कौसू ६१, २५^१.
परा-पावम् आपश्रौ १, ७, १०;
भाश्रौ १, ७, ५; माश्रौ.
पंपरा-पूत्, ता- -त्तम्^१ काश्रौ २, ४,
१८; आपश्रौ; -ताः^१ आपश्रौ
१, २०, ७; बौश्रौ १, ६ : २३;
भाश्रौ १, २२, ३.
परा√बाध्, परा...बाधस्व जैश्रु १,
१ : १७^१.
परा-बृहती^१- -ती अत्र २, २९; ५,
३; २९; ७, १११; १२, २; ३.
पराभिमुष्ट- पर-द्र.
परा√भू, पराभवति कौसू ९४, १;
परा...भवति बौश्रौ १४, ८ :
१२; परा (भवति) शाश्रौ १४,
३२, १; पराभवन्ति बौश्रौ २४,
२५ : १९; पंपराभवन्तु^१ आपश्रौ
४, १५, ४; भाश्रौ ४, २१, २;
हिश्रौ ६, ४, २१; पंपराभवन् वैश्रौ
८, १ : २; आमिश्रु ३, ८, ३ : ५;
बौपि १, १५ : ७६; परा(अभवन्)
शाश्रौ १४, ३२, १; बौश्रौ
१४, ८ : १०; १७, ४७ : ८;
पराभवेत् भाश्रु २, ६ : १६.
पराभावयति आपश्रौ ५, १५, ३-
परा-भाव्य बौश्रौ २, ७ : १.
परा-भूत्, ता- -न्ताः वाधूश्रौ ३,
४६ : १५; अत्र ३३, २, १.
पराभूत-वेणु- -णोः कौसू ४७,
२४.

a) = छन्दो-विशेष-। कप्त.। b) विप.। बस.। c) पामे. वैप १, १९१९ b द्र.। d) अनुष्टुप् इति पाठः? यनि. शोचः (तु. ष. सात. च)। e) उभा (? महा < महान्ता [अश्विनौ]) कवी युवा (ना) यो (< यद् यद् यद् *यस [अन्वय.]) नो धर्मः परापतत् (= श्रुतत्) इति शोधितः पूर्वोऽर्धर्चः द्र.। उत्तरस्याऽर्धर्चस्य कृते तु. टि. ? महा। f) वैप १ द्र.। g) तु. पागम.। h) पामे. वैप १, १९२० c द्र.। i) पामे. वैप १, १९२० f द्र.। j) पामे. वैप १, १०८३ e द्र.।

परा-भूति- -त्याः अत्र १६, ८१.
 परा/मृश > परा-मर्श- -शैः वृदे ५, २४.
 परा-मृशत्- -शन् शंश्रौ १८, २१, ८.
 परा-मृश्य कौसू १७, १४.
 परा-मृष्ट- -ष्टः वृदे ५, २३.
 परायण-, परा-यत्-
 परे(रा/इ) द्र.
 परा/या, परायाहि आश्रौ ६, ११, १२; शंश्रौ १०, १, ११;
 परायात् आश्रिणु ३, १, ३;
 ३४; भाग्य २, १४ : १३; हिय २, १३ : २; कौसू ८८, २८;
 अप ४३, ६, ४.
 परायण्यति कौसू ८८, २८.
 परारि- पा, पावा ५, ३, २२.
 परारि-त्न- पावा ४, ३, २३.
 परार्थ- प्रभृ. पर- द्र.
 परावत्- -वत् आश्रौ ३, ७, ९;
 -वतः आश्रौ २, १४, १२; ६, ४,
 १०xx; शंश्रौ; या ७, २६; ११, ४८६;
 -वतम् आपश्रौ ३, १४, २; २२, ४, २७; बौश्रौ; -वति
 शंश्रौ ६, ६, ४; ८, १६, १; बौश्रौ
 १, ११ : १०; १५; २०; भाश्रौ
 २, १, ९; -वते अप ४८, १०९.
 परा/वद्, परावद् आश्रौ १०, ३, ४;
 लाश्रौ ३, ११, ३३; हिय १, १६, १९.
 परावद् अप ३३, ६, ९.
 परा/वध्, परावधीत् आपश्रौ ७, ९, ९;
 बौश्रौ ४, ४ : ९; १५, २९ : ३८; भाश्रौ.
 परा/वप्, परावपति बौश्रौ ६, २८;

१७; १३, २१ : ७; वैश्रौ १४, ८ : ४;
 परा (वपति) भाशि १२३१.
 परो(रा-उ)वप^० आपश्रौ ५, २७, १२;
 भाश्रौ ५, १९, ९; भाश्रौ १, ६, ५, ७;
 वैश्रौ १, १९ : १७; हिश्रौ ३, ६, १२;
 परो(रा-उ)वाप वाश्रौ १, ५, १, ९१.
 परो (रा-उ) प्येत वाधुश्रौ ४, ११२ : ४; ६.
 परा-वाप- -पम् वैश्र ४, ५ : ११.
 परावर-योग- प्रभृ. पर- द्र.
 परावसु^d -सुः^० आश्रौ १, ३, ३१;
 शंश्रौ १, ६, ६; बौश्रौ ३, २८ : ४;
 भाश्रौ.
 परा-विराज्^f -राज् अत्र १०, १०.
 परा/वृज्, परावर्क उस् ७, १७१.
 परा/वृत्, परावर्तते बौश्रौ २२, १३ : १;
 वैश्रौ १२, १२ : १०.
 परा-वृत्त- -त्तः बौध ४, ५, ७.
 परावृत्त-मुख- -खः वैश्र ५, ५ : २६.
 परा-शकरी^f -री अत्र ७, २१; १२, १.
 परा/श(द् >)त् > पराशातयित्-
 -त्ता या ६, ३०.
 पराशर (>)पाराशरीय- पा.) पाग ४, २, ८०.
 पराशिष्- प्रभृ. पर- द्र.
 परा/श्रु, श्रु (हिंसायाम्), परा-
 (श्रुणन्तु) अत्र ८, ३१; परा-
 (श्रुणीहि) ऋप्रा १२, २०१.
 परा (रा-अ) शरीत् आपश्रौ ३, १४, २; भाश्रौ ३, १३, १; हिश्रौ २, ६, ३४.
 परा-शर^h - पाग ४, १, १०५; २,

१११; -रः अप ३, १, ७; ४८, ११५१; ऋअ; या ६, ३०६;
 -रम् शंघ ११६ : ४०; -राः^h बौश्रौ ४८ : १; २; ४; ६; ८; १०;
 १२; १३; -रागाम्^h आश्रौ १२, १५, २; आपश्रौ २४, १०, ६;
 हिश्रौ २१, ३, १४; चाश्र ४० : ३; -राय आश्रिणु १, २, २ : २३;
 बौग्य ३, ९, ५; भाग्य ३, १० : ८; हिय २, १९, ६; -रेभ्यः^h आपश्रौ २४, १०, ४.
 पाराशर्य- पा ४, १, १०५;
 -पर्यं आश्रौ १२, १५, २; आपश्रौ २४, १०, ६;
 बौश्रौ ४८ : १४; हिश्रौ २१, ३, १४; वैध ४, ६, १;
 -र्यम् अत्र ६, ६७.
 पाराशरी- -र्यौ^h अप १, ३, १.
 पाराशर- पा ४, २, १११;
 -राः वन्यू २ : ३७.
 पाराशरिन्- पा ४, ३, ११०.
 पाराशर-वत् आपश्रौ २४, १०, ६;
 बौश्रौ ४८ : १५; हिश्रौ २१, ३, १४;
 वैध ४, ६, १.
 परा-शीर्ण- -र्णस्य या ६, ३०.
 पराश्रित- पर- द्र.
 परा(रा/अ)स् (क्षेपणे), परास्यति हिश्रौ १८, ४, २६;
 लाश्रौ १०, १५, ८०; परास्यन्ति या ३, ४; परा^h अस्यन्ति बौश्रौ ८, १९ : ८१;
 परास्यामि सु २८, ५; परास्यः शंश्रौ १२, १८, ६१.
 परा(रा-अ)स्त- -स्ताः आपश्रौ १, ८, ७.

a) वैप १ द्र. । b) पाठः ? परावदन् इति संस्कृतः टि. । c) परस्परं पाठे. । d) वैप २, ३खं. द्र. । e) पाठे. वैप २, ३खं. परावसुः माश्र १, ५, १, २३ टि. द्र. । f) विप. । वस. । g) = ऋषि-विशेष । वैप १ द्र. । h) बहु. <पाराशर्य- । i) विप (सूक्त-). । j) विप. ([पराशरदेवताक-] नक्षत्र-).

परा(रा-अ)स् शांश्रौ १३, २९, २;
 आपश्रौ १२, १९, ६; बौश्रौ.
 परा/सिच्, परासिचम् ऋआश्रौ
 १, ११, ८; ६, १२, ११.
 परा...सिच्यते बौश्रौ १७, ५०:
 ३; परासिच्यते वाधूश्रौ ३, ३९:
 १२; ४, ११२: ६; परा...सिच्येत
 वाधूश्रौ ४, ११२: ४; परासि-
 च्येरन् बौश्रौ २९, ६: १७;
 २४; वैश्रौ २१, १८: ३; बौश्रौ
 ४, १, ७; ८.
 ऋपरासेचि शांश्रौ ४, ११, ६;
 काश्रौ २५, ५, २८; आपश्रौ.
 परा(रा-अ)सु^१-सु: लाश्रौ ३, ३, ७.
 ऋपरा/सु (प्ररस्ये), परा...सुवाशि^२
 आश्रौ २, १०, ४; कौश्रौ १, १७,
 ६; परासुव आपश्रौ ६, २३, १;
 परा...सुव^३ आपश्रौ ६, २३, १;
 कौसू ५८, १; अप १, २६, ४.
 परा...साविषत् शांश्रौ ८,
 १८, १.
 परा/हन्, पराहन्ति आपश्रौ २, ३,
 १५; पराहण्यात् भाश्रौ २, ३,
 १८; वाधूश्रौ ३, १०६: २; ३;
 हिश्रौ १, ६, ११५.
 परा/ह् > परा-हृत- -तम् आपश्रौ
 ९, ६, ४; भाश्रौ ९, ७, ८; हिश्रौ
 १५, २, १२.
 ऋपरि^४ आश्रौ ४, ७, ४^६; १३, ७; ५,
 १०, २८; ६, ५, २; १२, १२^६,

१३, १५^६; ७, २, १०; शांश्रौ १,
 १४, १८; ७, १५, ८^६; १२, १८,
 ८^६; काश्रौ १६, ५, २१; २५,
 ११, २२^६; आपश्रौ १, २४, ५,
 ३, ११, २^६; ५, १२, २××; ८,
 ८, १८^६; ९, ८, ७^६; १२, ३^६;
 १३, २२, ५^६; १५, १६, १०^६;
 १७, १२^६; १६, ६, ७^६; १९, १०,
 ५^६; बौश्रौ १, ९: ९××; ८, २०:
 २१^६; ९, १६: २४^६; १७: २३^६;
 १०, ४: ११^६; १५, २४: २^६;
 २७, १: १६^६; २९, ३: १८^६; भाश्रौ
 १, २५, ६; ३, १०, २^६; ५, ८, १;
 ११, १६, १४^६; १८, ३^६; माश्रौ
 १, २, ३, १४; २, ४, ३, २९^६;
 ५, ४, १३^६; ४, ३, ४१^६;
 ६, ५^६; ६, १, ४, १८; वाधूश्रौ;
 वाश्रौ ३, २, ७, ४२^६; वैश्रौ
 १६, २६: १०^६; १८, ४: ९^६;
 २०, १५: ३^६; २४: २^६; २१,
 ३: १^६; हिश्रौ २, ६, १०^६; ३, ३,
 १७^६; ११, २, ५^६; २३, १,
 ५५^६; द्राश्रौ ६, ४, ९^६; लाश्रौ २,
 १२, १०^६; वैताश्रौ १६, १७^६;
 २३, १५^६; आपमं १, ६, २^६;
 २, १९, २^६; कौश्रौ १, ५, २९^६;
 पाश्रु २, ११, १२^६; आश्रिण १,
 २, ३: १५^६; २, ४, ६: २६^६;
 ६, २: २६^६; ८: ४७^६; ३, ४,
 ४: १४^६; ६, १: ३७^६; ३: ३७^६;

८, ३: ४३^६; बौश्रु २, ५, ४४^६;
 बौशि १, ९: १०^६; १२: ११^६;
 १६: २७^६; ३, ४, १८^६; हिशि
 ८: ३^६; जैश्रु १, ४: १२; १३:
 ८; अप्राय ३, १०^६, अप ४१,
 १, ७^६; बौव^६ २, ५, १३; १०,
 ५१; ऋश्रु २, ९, १४^६; १०९^६;
 साश्रु १, ४२७^६; २, ११७^६;
 अश्रु ५, ६^६; तिष ४, २^६; या
 १, ३^६; ५, २८^६; ६, १^६; १०,
 ७, ११, १७; १२, ३१; ऋश्रा
 ४, ४४^६; ६४^६; ५, १६^६; १५,
 १७^६; पा १, ४, ९०; २, १, १३;
 ३, १०××; पाग १, ४, ५८^६.
 परि-रिणा पा २, १, १०;
 -रे: पा ६, १, ४४; २, १८२;
 ८, १, ५^६; २, २२; पावा ८, १,
 ५^६; २, १९; -रौ शुप्रा ३, ३१;
 शौच २, ६६.
 परि-प्रल्यु(ति-उ) पा (प-अ)प-पा:
 पा ६, २, ३३; -पेभ्य: पावा ६,
 २, ३३.
 पर्या(रि-आ)दि-द्वय: पावा २, २,
 १८; -दिभ्य: पावा ६, २, १२१.
 पर्यादि-वर्जम् शौच २, ६७.
 परिश^५-शम् हिश्रौ १२, ६, ६^६.
 परि/कथ्, परिकथ्यते अप २३,
 १०, ३.
 परि-कथित- (> ऽतिन्-पा.)
 पाग ५, २, ८८.

a) विप. । बस. । b) पाभे. वैप १, १९२४ f द्र. । c) पाभे. वैप १, १९२४ h द्र. । d) वैप १ द्र. । प्रयेण पञ्चम्यादि-युक्तः कप्र. । e) वैप १, १९२५ n द्र. । f) तु. सत्य. टि. श्महा, ?युवा । धर्मणः (परि = सत्यस्य धर्म परिरचय) इति पं. युक्तः कप्र. । g) वैप १, १९२५ c द्र. । h) पाभे. वैप १, १९२६ r द्र. । i) स्वाश्र. । j) दोषात् इति युक्तः कप्र. (तु. चौसं., C [आपश्रौ १०, १३, १०] च) । पदि इति कासं पाठः ? यनि-शोचः । k) वैप १, ९२३ z द्र. । l) वैप १, १९२६ d द्र. । m) वैप १, १९२४ n द्र. । n) वैप १, १९२६ e द्र. । o) पाठः ? पती (संर) इति शोचः (तु. टि. पती आश्रौ ६, १२, १२) । p) वैप १, १९२६ n द्र. । q) वैप १, १९१६ c द्र. । r) वैप १, १९२७ h द्र. । s) वैप १, १९२६ g द्र. । t) वैप १, १९२६ f द्र. । u) वैप १ द्र. ।

१परि-कर्मन्^a -मिणे भाग २,
१९:१०.
२परि-कर्मन्- परि√कृ द्र.
परि-कर्ष^b- पागवा ६,२,१८४.
परि√कल् > परि-कलित-
(> ०तिन्- पा.) पाग ५, २,
८८.
परि√कास् > परि-कासन- ने
आपग ९, २; बौध ४, २, ११.
?परिकासायतै^c बौधौ १४, २१:
३२.
परि-किरण- प्रभृ. परि√कृ(विक्षेपे)द्र.
परि√कीर्ति (< कीर्ति-), परि-
कीर्त्यते कप्र २,८,१; ३, ६, ६;
बृदे ४,४६.
परि-कीर्तन- नम् बृदे ३, ४७.
परि-कीर्यत्- यन् पाग ३, १२,
८; शंघ ३८७; विध २८,४९.
परि-कीर्तित,ता- -तः अप २२,
१,५; शंघ; -त्तम् कप्र १,७,४;
८, १९; अप; -त्ता कप्र २, ५,
१; अप ३०, १, ४; ३४, १,५;
बौध; -ता: कप्र १,७,१०;१०,
६; अप; -ते शंघ ५३; -तौ
बृदे ४,१०९.
परि-कीर्य परि√कृ(विक्षेपे) द्र.
परि√कुप् > परि-कुपित- -तेन
आपमं २,२२,६; भाग २,२७:
१५; हिग १,१४,२^d.
परि√कृ^e, परिकुर्वीत आमिग ३,
६,२:१४.
२परि-कर्मन्^f > ०मिन्^g -मिणः
शांश्रौ १६, १८, १७; बौधौ ६,
१२:१××; -मिणम् बौधौ

१, ९:४; २, १९:१;
-मिणे आश्रौ २, ४, १६; बौधौ
४, २:३७; ६, १५:११; १५,
४:६; वैश्रौ १२, १९:१२;
-मिभ्यः बौधौ ६, ३०:९;२५,
१२:१;१५:१८; -मी बौधौ
९,११:३०; १३:८; ११,८:
११; १४,२४:५; १७.
परि√कृत् (छेदने) > परि-कृत्-
-त्तम् काश्रौ ८,५,२३; आपश्रौ
१२,२,१४.
परि-कृत्यमान- -नः वाश्रौ १,६,५,
१०^h.
परि√कृप्, परिकर्षति बौधौ १०,
९:१९;१०:२××; वाश्रौ.
परिकृषेन् बौधु १६:१६;१८.
परि-कर्षण- -णम् बौधु २१:५;
-णयोः बौधु १६:२०.
परि-कृष्ट- -ष्टम् काश्रौ २१,४,१८.
परि-कृत्य काश्रौ २१, ४, १०;
आपग २, ३; हिग १, ४२.
परि-कृत्य- -व्यः बौधौ १७, २९:
७;९;१३;१७;३०:७;१०.
परि√कृ(विक्षेपे), परिकिरति काश्रौ
८,६, ३०; आपग ९,५; हिगि;
परिकिरामि बौधि १,१५:७१^h.
परि-किरण- -णम् अप ४४, ४, ५.
परि-किरत्- -रन् गोश्र ४, ९, २०;
कौसू ३६,२२.
परि-कीर्ण- -णाः कौसू ८२, ९.
परि-कीर्य काश्रौ २६,३,९; आपश्रौ
१२,५,११ⁱ; बौधौ.
परि√कलृप्, परिकल्पयेत् वैश्र ६.
परि-कल्प्य कप्र २,१०,१.

परि-केश- पागवा ६, २, १८४.
?परिकेश्य^j- -व्यः बौधौ १८,१:५ⁱ.
परि√कम्, परिक्रामति बौधौ १,
२०:३;७,१३:२१;२३; माश्रौ;
परिक्रामतः आपश्रौ १२,२२,७;
माश्रौ २,४,१,१२; पाग १, ७,
३; आमिग १, ६, २:१४;
परिक्रामन्ति काश्रौ २१, ३,
७; २६, ४, ४; ऋपरिक्रामतु^k
आपमं २,१८,३२; भाग २,९:
८; परिक्रामन्तु हिग २,८,११^l;
परिक्रामेत् दाश्रौ ४,४,२; लाश्रौ
२, ३, १७; निस्; परिक्रमेया-
ताम् जैश्र १, २१:१६; परि-
क्रामेयुः बौधौ २०, १४:२८;
२४,२९:१२; २५,१९:१०.
ऋपरि (अक्रीत) काश्रौ १६,२,
२३; आपश्रौ ७, १५, २××;
बौधौ.
परिक्रमयति माश्रौ १,५,४,११;
६,१,६,१७; परिक्रमयेत् आपश्रौ
९, ३, २३; हिश्रौ १५,१, ७३;
१७,१,३६.
परि-क्रम^m- -सम् द्राश्रौ ६,४, १८;
लाश्रौ २, १२, १८; -सा: अप
५२,७,४; -मे बौधौ २०,१६:
२०.
परि-क्रमण- -णम् आपग ५,९;१०;
हिगि १४:१४; -णयोः हिश्रौ
५,५,१८; -णे बौधौ २०,१४:
२७;२६:४४.
परि-क्रम्य काश्रौ ४, ९, १५××;
आपश्रौ; परिक्रम्यऽपरिक्रम्य
काश्रौ १७,१,११.

a) = मृत्य-। प्राप्त. वा बस. (तु. शक.) वा। b) वैतु. MW. < परि√कृष्। c) मूयान् मूक्तो.
पाभे। d) ०पिले^o इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. भाग.)। e) ऋप्रा ४, ८५ उस् ६, ३ परामृष्टः द्र.।
f) = कर्मन्-। गस.। g) = १परि-कर्मन्-। h) स्वार्थे यत् प्र.। i) ०श्रयोऽय इत्यस्य स्थाने ०द्वय (शी-अ) थ
इति मूक्तेः। j) परस्परं पाभे। k) भावे कर्तारि वा कृत्।

परि-क्रान्त-न्ता- -न्ताय बौश्रौ ९,
८ : ६; २५, २० : १५; -न्तासु
कौयु ३, ५, ५; शांयु ३, ९, २;
-न्तेभ्यः हिश्रौ ६, ३, ८.
परि-क्रामत्- -मत्सु आयु ४, ६, १४;
-मन् भाश्रौ ७, ४, २; -मन्तम्
आमिण्यु १, १, ३ : २; हिण्यु १,
५, १.
परि-क्रामत् काश्रौ ३, १, १३; १७,
५, २०.
परि/क्री°, परिक्रीणति हिश्रौ १३,
८, २८; परिक्रीणति बौध १,
२, ५७^१; परिक्रीणामि गोगु
२, ६, ७^१; परिक्रीणीयात् शाश्रौ
१५, १५, १४; आपश्रौ १२,
३, ३; वैश्रौ ११, ५ : १.
परि-क्य- -यः मीसू ३, ८, १; १०,
२, ३३; १२, १, ३२; -यात्
मीसू १०, २, २५^१; ३, ५१; ५५;
-ये मीसू ३, ४, ४८; १०, ३, ५५.
परिक्रया(य-अ)म्नान- -नात्
मीसू ३, ७, २०.
परिक्रया(य-अ)र्थ- -र्थम् मीसू
१०, २, २३.
परिक्रया(य-अ)विभाग- -गात्
मीसू १०, ६, ६७.
परि-क्रयण- -णे पा १, ४, ४४.
परि-क्री°- -क्रिया आश्रौ ९, ५,
१२; शाश्रौ १४, ४२, ६३; बौश्रौ
१८, २३ : ११; हिश्रौ १७, २;
१८; -क्रियाम् बौश्रौ २३,
१८ : २७; २६, ३२ : २०; २३;
-क्रीः हिश्रौ १७, २, ४.
परि-क्रीत- -तः काश्रौ १९, ३,

१९; आपश्रौ ६, १५, १६^३; १,
अप्राय ६, ४; -ताः बौश्रौ २,
३ : १४^१; -तैः बौध ४, ८, ९;
-तौ वाश्रौ ३, २, ७, ७५.
परिक्रीत-वचन- -नात् मीसू
१०, २, २५.
परि-क्रीय भाश्रौ १०, १८, १२;
लाश्रौ ८, ४, ४; ७; आमिण्यु.
परि/क्रीड् पा १, ३, २१.
परि/कृश, ऋपरिक्रोशत् आपमं २,
२२, ९; माणु २, २७ : ३; हिण्यु
१, १४, ४; परिक्रोशेत् हिण्यु १,
१४, ४^१.
परि-कृष्ट- -ष्टम् आपध १, १८,
१७; हिण्यु १, ५, ८६.
ऋपरि-करोष्- -शः आपमं २, २२,
९; माणु २, २७ : ३; हिण्यु १,
१४, ४.
परि/किल्श > परि-किल्शमान-
-ने पा ३, ४, ५५.
परि/क्वण् > परि-क्वणन्- -नम् या
६, १.
?परि/क्षपम् आपमं १, १३, ५; बौगु
४, २, ११.
परि/क्षर, ऋपरि(अक्षरत्) साश्रु १,
४७५; २, ४४३.
ऋपरि(अक्षाः) ऋश्रु २, ९, १८;
उसू ३, १.
परि/क्षल, परिक्षालयति आपश्रौ
१, १६, ३.
परि-क्षालन- -नम् काश्रौ ४, २,
३२.
परिचालना(न-अ)न्त- -न्तम्
काश्रौ ४, २, ३८.

परि/क्षि(निवासे) > ऋपरि-क्षित-
-क्षित् शाश्रौ १२, १७, २;
-क्षितः शाश्रौ १२, १७, १; ३;
वाश्रौ ३, २, ५, ४३; वैताश्रौ
३४, ९.
१परि-क्षित- -तः वाधुश्रौ ३,
७७ : १; ८८ : ४; -तम् शाश्रौ
१६, ८, २७; -ताः शाश्रौ १६,
९, ७^१.
२परि-क्षित- > ण्ती- -त्यः
शाश्रौ १२, १६, २.
परि-क्षितीय- -याः शाश्रौ
१६, ९, ५.
परि/क्षि(लये) > परि-क्षीण- >
ण्ण(स-अ)थै-वाहन- -नः अप
२, ४, ५.
परि/क्षिप, परिक्षिपेत् अप ६८, ३,
१२.
परि-क्षिण्य कप्र २, १, ४.
परि-क्षेपक- पा ३, २, १४६.
परि-क्षेपिन्- पा ३, २, १४२.
परि/क्षु > ऋपरि-क्ष्व- -वः भागु
२, ३१ : १४; -वम् भागु २,
३१ : ११; अप १, २६, ४; ५; -वे
आपणु ९, २; बौगु ४, २, ११.
परि/क्षुद् > परि-क्षुच्च बौश्रौ ५,
११ : १५; १३, २५ : १५.
परि/खन् > परि- (ख- >) खान्-
पाग ४, २, ११०; -खाम् अप
१, १०, ५; ६२, २, ३.
परिख- पा ४, २, ११०.
परिखेय- पा ५, १, १७.
परिखा (खा-अ) तिक्रान्त-
-न्तम् बौश्रौ २४, १३ : ६;

a) पा १, ३, १८ परामृष्टः द्र. । b) तु. प्रयासं. प्रसू. । c) पृ १६८ । द्र. । d) गस. उप. भाप. ।
e) उप. कर्तारि कृत. । f) शोधः वैप १, १९३० ० द्र. (भाणु. च) । g) = उदक- । उप. करणौ प्र. ।
h) विप. । बस. । i) वैप १ द्र. । j) वैप २, ३३६. द्र. । k) विप. । बस. > द्रस. । l) नाप. । गस. उप.
कर्मणि डः प्र. (पा ३, २, १०१) । m) पूष. = मर्यादा- इति भवत्सामी, = समुद्र- इति वेङ्कटः ।

-न्ता: बौश्रौ २, ३:२.
 परि-खाय आपश्रौ १७, २६, १५;
 बौश्रौ १७, २८: ५; हिश्रौ.
 परि√ख्या, परिख्यन् या ९, ३^{१०}.
 परि-ख्यात,ता- पाग ५, १, १२४^०;
 -त: अप्राय ३, १; -ता भाग १,
 ११:१३.
 परिख्यात्य- पा ५, १, १२४.
 परि√गच्छ,गम्, परि(गच्छति)साञ्च
 १, ५५२^१;
 ऋषि^०(अगमम्) कौस् २९, २८;
 अञ्च ६, १२.
 परि-ग(त>)ता- -ता काथ २८०:
 ४; -तायाम् आमिगृ ३, ४, ३:
 ५; ६; बौषि ३, ४, ५; ६; गौषि
 १, ३, ५; ६.
 परि-जिगांसत्- -सन् बौश्रौ १६,
 २९: २.
 परि√गण > परि-गणन- -नात्
 पावा ४, ३, १२०.
 परि-गणित-> >तिन्- पा.) पाग
 ५, २, ८८.
 ?परि-गण्य आमिगृ २, ४, ९: ९.
 परि√गद् > परि-गदित-
 (>तिन्- पा.) पाग ५, २,
 ८८.
 परि√गध् > परि-गधि(त>)ता-
 -ता^० या ५, १५^१.
 परि√गह् > परि-गहन- पाग ८, ४,
 ३९.
 परि√गा, पर्यगात् या ६, ४;
 परि...गात् या ६, ४^{१०}; परि
 (अगात्) शुञ्च ४, १२४^१.
 परि-गाण,न- प्रसृ. परि√गै द्र.
 परिगृढ-> >ढक्- पा.) पाग ४,

२, ८०.
 परि√गृ, गृ (शब्दे), परिगृणाति
 बौश्रौ २१, २३: ३; हिश्रौ १४,
 २, १५.
 परि√गृह्,ग्रह्, परिगृह्णाति काश्रौ
 २, ६, १८; २३; ९, १३, ११^१××;
 आपश्रौ; वैश्रौ १३, १२: ४^६;
 परिगृह्णीत: बौश्रौ ५, ५: २३;
 भाश्रौ ८, ६, १४; माश्रौ १, ७,
 ३, ४९; परिगृह्णन्ति बौश्रौ ३,
 १७: २४; भाश्रौ ७, १२, ६^१;
 द्राश्रौ; ऋषिगृह्णामि काश्रौ २६,
 ५, १४; आपश्रौ ४, १, ८^२××;
 बौश्रौ ८, १५: ७××. भाश्रौ;
 परिगृह्णीमहे आमिगृ १, ५, १:
 ६^१; ऋषिगृह्णन्तु आपश्रौ २,
 २, ३; बौश्रौ १, ११: २३-२५;
 भाश्रौ २, २, २; माश्रौ १, २,
 ४, १५; हिश्रौ १, ६, ८७; ऋषि-
 गृहाण काश्रौ २, २, १०; आपश्रौ
 ३, १९, ३; बौश्रौ; परिगृह्णीहि
 बौश्रौ ३, २४; १०^१; पर्यगृहात्
 या १०, १०; परिगृह्णीयात्
 आपश्रौ १, १४, १७; ९, ३, १३;
 बौश्रौ २०, ९: ५××; भाश्रौ.
 ऋषिग्रहीष्यामि आपश्रौ २,
 ३, ७; बौश्रौ; परिग्रहीष्यामहे
 वाधुश्रौ २, १०: ५; ८.
 परिगृह्णते बौध २, २, २०; २३;
 २६.
 परि-गृहीत्,ता- पाग ६, २, १४६;
 -त: वैश्रौ १०, ७: ७; -तम्
 भाश्रौ १२, ६, ५; वाधुश्रौ ४,
 २३: ७; -ता अञ्च ११, ३^१;
 -ताम् बौश्रौ १८, ४०: १७;

२२; वाधुश्रौ ४, १५: ६; हिश्रौ
 ७, ४, ५७; -ते वैश्रौ ९, ५: ५.
 परि-गृहीति- -त्यै बौश्रौ २४, २४:
 ६; ७.
 परि-गृह्णत्- -ह्णन्तम् काश्रौ २,
 २, १०.
 परि-गृह्णान- -नौ वाधुश्रौ ४, ७९: १.
 परि-गृह्ण आश्रौ १, ७, ६××; शांश्रौ.
 ऋषिगृह्ण-व(त >)ती^० -तो
 बौश्रौ १०, ५१: २५; वैश्रौ १९,
 ६: ८१.
 परि-गृह्ण,ह्या- -ह्याणि उस् ४,
 १; -ह्याया: कौस् १७, २.
 परि-गृह्णमाण,णा- -णाम् आपश्रौ
 ४, ५, ४; वैश्रौ ४, १२: ६;
 वैताश्रौ २, ५; १५, ८; -णायाम्
 माश्रौ १, ४, १, १४; -णासु
 हिश्रौ १०, ८, ३८; -णे जैश्रौ
 २३: १३.
 परि-ग्रह- -हः काश्रु ७, ८; उस्
 ४, १२; मीस् १२, ४, २५; -हम्
 काश्रौ २, ६, १८; २३; अप १,
 १०, १; -हा: शंथ २५५; -हात्
 काठश्रौ ४९; माश्रौ १, १, ३, ३;
 ७, ३, २५; वाश्रौ १, ६, १, १९;
 हिश्रौ २३, २, ६; -हे ऋश्रा ३,
 २३; १०, २०××; उस्; -हेण
 शांश्रौ १५, ५, १०; -हेषु आपव
 १, २८, २; हिध १, ७, ३८.
 परिग्रह-प्रसङ्ग- -ङ्गात् विध ३३,
 २.
 परिग्रहा(ह-अ)र्थ-> श्रौथ-
 -य: या १, ७; -यम् या ५,
 २२.
 परि-ग्रहण- -णे बौश्रौ २०, ९: ४.

a) पामे. वैप १, १९३०० द्र.। b) तु. पागम.। c) वैप १, १३५४ b द्र.। d) वैप १ द्र.।

e) पामे. वैप १, १९३१ d द्र.। f) परिग्रह्णाति इति चौरस.। g) ष्ठी इति पाठः? यनि. सोधः। h) =वेदि-
 (तु. B। मू. LXI। i) भाप. (स्वीकार-), नाप. (वेदयाः। सीमा- निर्देश-), पारिभाषिकसंज्ञा- [श्रुता. प्रसृ.]। ऋषु प्र.।

परिग्रहण-मात्र-त्रम् कप्र २,
८, १७.
परिग्रहणीय- -यौ बौधृ १,
२, ६.
परि-ग्रहीष्यत्- -ष्यन् बौध्रौ ११,
२: १०; २५, ३३: १३;
-ष्यन्तम् माश्रौ ५, २, १५,
१२.
परि-ग्राह^१- पा ३, ३, ४७; -हम्
आपश्रौ २, ३, ७; ७, ८, ५;
११, ३, १; ५, ११; बौध्रौ;
-हयोः माश्रौ ४, ३, ३३; हिश्रौ
६, २, ५; -हात् आपश्रौ १, १४,
१७×४; बौध्रौ; -हान् वाश्रौ १,
१, ५, ११; -हाम्याम् माश्रौ ४,
३, ३८; -हे आपश्रौ ३, १९, ३;
वैश्रौ २, ४: ७; ५: ५; १०, ३:
३; ७: ७; हिश्रौ २, ८, १५;
-हेण हिश्रौ १, ६, १०४; -हैः
वाश्रौ १, ७, २, २१; -हौ आपश्रौ
२, ३, ८; बौध्रौ ५, ५: २३; २९;
भाश्रौ ८, ६, १४; माश्रौ १,
७, ३, ४९; ४, २, २; ६; ३, १७;
वैश्रौ ५, २: १.
परि√गौ, परिगायति आपश्रौ १६, ६,
४; वैश्रौ १८, ३: ११; हिश्रौ ११,
१, ६९; परिगायन्ति हिपि १८:
१२; परिगायेत् बौश्रौ २२, २:
२६; लाश्रौ ८, ८, ३५.
परिगीयते निसू ७, ९: २०.
परि-गाण[न^b] -णम् निसू २, ६:
३४०; -णानि जैश्रौ २४: १;
जैश्रौका ३८; -नम् गौपि २, ७,
३४०.
परि-गायत्- -यन् काश्रौ २२, ६,

१५.
परि-गीत- -तम् माश्रौ १, ५, ३,
१६; ४, ६; १५; ६, २, ४, १०;
-तम् ऽ-तम् माश्रौ १, ६, ५, ७.
परि√ग्रह् प्रसृ. परि√गृह् द्र.
परि-ग्राम-> पारिग्रामिक- पा ४,
३, ६१.
परि√गृह्ये, परिग्रायेत् वाधूश्रौ ४,
३०: २२.
परि-घ- परि√हनृ द्र.
परि-घर्म^१- -र्मम् हिश्रौ २४, २, ८;
लाश्रौ १, ६, ३६०.
परिघर्म्य^१- -र्म्यम् काश्रौ २६, २,
६; २८; ७, २; आपश्रौ १५, ५, ६;
६, ४; ११, १६; १३, २; १४, ९;
बौश्रौ २, ५: १३; १२: ४; १३:
५; भाश्रौ ११, ५, ६; ६, ४; वैश्रौ
१३, १५: ८; १६: १०, हिश्रौ २४,
२, ४; ५, ३; द्राश्रौ २, २, ४००;
-र्म्ययोः बौश्रौ १८, २४: ७;
-र्म्ये वाधूश्रौ ३, १००: २६.
?परिघर्म्य- -र्म्याणि माश्रौ
४, १, ३०; ३, ३९; ४, ५;
१५.
परिघर्म्य-योजन- -नम् काश्रौ
२६, २, ३७.
परिघर्म्य-शङ्कु- -ङ्कु वाधूश्रौ
३, १००, ६.
परि√चक्ष्, परिचष्टे निसू २, २:
१९; ४, १: ४१; भाश्रु १,
१२: १५; परिचक्षते निसू २,
९: १२; आपश्रु; परिचक्षमहे
जैश्रौ १: ११; परिचक्षीत
आपश्रौ २, ३, १२; भाश्रौ २,
५, २; हिश्रौ १५, १, ६०; अत्राय

५, २.

परि-चक्षा^१- -क्षा वाधूश्रौ ४, २८:
८; २९: २.

परि-चक्षाण- -णः जैश्रौ १: १०.

परि-चक्ष्य- -क्ष्यम्^१ बौश्रौ १७,
५०: ११; २८, २: ३४; या ५,
८६.

परि√चक्ष्, परिचरति बौश्रौ ६, १७:
१९; भाश्रौ १०, २२, ४; वैश्रौ
१२, २२: ५; हिश्रौ ७, ३, ५६;
भाश्रु १, १८: १२; ३, ३: ९;
कौसू ८७, १०; परिचरतः या
११, ९; परिचरन्ति वैश्रौ १२,
२०: १०; परिचरसि या ११,
२३; परिचराणि आश्रौ २, ५,
१६; परिचरेत् बौश्रौ २१,
१३: ७; आश्रु १, ९, १; आश्रिगु;
परिचरेयाताम् कौश्रु १, १०, २०;
शांश्रु १, १७, ८; परिचरेयुः कौसू
१४०, १७; आपश्रु २, ८; ९;
गौध १०, ६५; परिचरेम या
२, २४.

परि-चरण- -णम् पाश्रु १, ९, १;
द्राश्रु १, ५, ६; बौध ३, १, १४;
-णेन अपश्रु १, ११; कौसू
५३, ४; ६७, २१×४.

परिचरण-कर्मन्^१- -र्मणः या
३, १३.

परिचरण-तन्त्र- -न्त्रेण गौपि
१, १, २८.

परिचरणी(य>)या- -याः
गोश्रु १, १, २४.

परि-चरत्- -न्त् कप्र १, २, ५; विध
४९, ८; -न्तः या ११, ९.

परि-च(र>)रा^१- -रा लाश्रौ ६,

a) वैप १ द्र. । b) गौपि. पाठः । c) सपा. षाणम् <> षानम् इति पाठे. । d) = पात्र-
विशेष- (१धर्म-). । बस. । e) सपा. षर्मम् <> षर्म्यम् इति पाठे. । f) स्वार्थे यत् प्र. । g) षर्म्यौ इति पाठः? यति.
शोषः । h) गस. उप. आप. । i) पाठे. वैप १, १९३२ f द्र. । j) विप. । बस. । k) विष्णुति-विशेष- ।

५,३-५; निसू १,८ : १९; २०;
२१; -रायाम् द्राश्रौ ११, ४,
१; लाश्रौ ४,४,१.
परि-चर्य पाग २, १४, २२; आग्निष्ट.
परि-चर्या- पावा ३,३, १०१; -र्या
लाश्रौ १०, १८, १३; भाग्य ३,
१ : २; वाघ २, २०; शंघ १३८;
बौध १, १०, ५; गौध १०,
५६; -र्यायाम् बौध ३, ७, १३;
या ११, २३; -र्याथै बौश्रौ २१,
१३ : ६.
परि-चार- नान् अत्र १, ९, ९.
परि-चारक- पाग २, २, ९.
परिचारक-मुख्य- -ख्यान् अत्र
७०, १०, ५.
परि-चारिन्- -रिणः वृदे ४, २१.
परि-चि (चयने), परिचिनोति
आपश्रौ १७, १६, १७; १९,
१५, ३; बौश्रौ; परिचिनुतः बौश्रौ
९, ७ : १८; परिचिनुयात् बौश्रौ
२०, ८ : ७; आग्निष्ट ३, ६, ३ :
२३; ४ : १२; बौपि.
परि-चाय्य- पा ३, १, १३१^३; -च्यः
बौश्रौ १७, २९; १६; आपष्ठ १४,
५; हिश्रु ४, ४६; -च्यम् बौश्रौ
१७, २९ : १३; हिश्रौ १२, ८,
१३; आपष्ठ १४, ४; हिश्रु ४,
४५; -च्ये बौश्रु १८ : १०;
-च्येन हिश्रौ १२, ८, १४;
आपष्ठ १४, ७; हिश्रु ४, ४८.
परि-चित्- -चित् आपश्रौ १,
२२, ३; १६, १४, ७; बौश्रौ १०,
२१ : ४; भाश्रौ १, २४, ५;
माश्रौ; -चितः आपश्रौ १५,

७, ९×४; बौश्रौ.
परि-चित्य माश्रौ ४, १, २२; २,
२३.
परि-चिन्त् > परि-चिन्तक- -काः
अत्र ४०, ५, ३.
परि-चृत्, परिचृतति कौस् २१, १९.
परि-चर्तन^३ - नानि बौश्रौ ३, १९ :
१२^३.
परि-चृत्य कौस् ७२, १२.
परि-चष्ट > परि-चेष्टा- -ष्टा भाग्य
३, १ : २९; -ष्टाम् भाग्य ३,
१ : २९; बौध २, १, ३३; ४,
२, १०.
परि-चैल^३ - लम् कौस् ८५, २२.
परि-छद् > परि-च्छद^३ - दान्
वैश्र ३, १६ : ३; ४, ४ : १९.
परि-च्छिद् > परि-च्छिद्य द्राश्रौ ४,
१, ७; लाश्रौ २, १, ६.
परि-च्छिन्न- -न्नः विध २०, १६;
-न्नम् कौस् ४७, १; ११६, ५;
-न्नाः बौध २, ६, २८.
परि-जन् > परि-जात- -तः अत्र
३, ६^३; अत्रा ३, ३, ६^३; पा ५,
२, ६८^३; -ते अत्र १९, १,
१३.
परि-जायमान- -नम् अत्र १^२, १, ६.
परि-जन^३ - -नः आज्यो ७, १८.
परि-जप् > परि-जपित- -तम्
गोष्ट २, ३, १८.
परि-जस- -सम् अत्र ३६, १६, १.
परि-जप्य गोष्ट ४, ५, १८; द्राष्ट १,
४, १०; ४, १, ११; कप्र १, १०,
३; अत्र ३६, १४, १.
परिजाकृत^३ - तान् हिष्ट २, ३, ७^३.

परि-जि > परि-जय- > च्य-
लभ्य-कार्य-सुकर^३ - रम् पा ५,
१, ९३.
परि-जिगांसत्- परि-जिगच्छ द्र.
परि-जिहीर्षत्- प्रष्ट. परि-जिहृ द्र.
परि-जिज्ञा, परिजानन्ति हिश्रौ १४,
४, ३८^३; परिजानात् बौश्रौ ९,
१६ : १७^३.
परि-ज्ञात्- -तारः शंघ २५५.
परि-ज्ञान- -नात् वृदे १, २१.
परि-ज्मन्^३ - -ज्मनः आपश्रौ १२,
७, १०; हिश्रौ ८, २, ९^३;
-ज्मा आश्रौ ४, १५, २; ५, १८,
२; शाश्रौ ८, ३, ४; आपश्रौ ५,
२३, १; परि(ज्मा) वृदे ७, ४६^३.
परि-ज्वन्- पाठ १, १५९.
परि-ज्ण (< न)म् > परि-ज्णत- >
-ज्णत- -ज्णतः शंघ १६१.
परि-ज्णति- -ज्णतिम् हिश्रौ १३, ५,
१४^३.
परि(ज्ण)णाम- -मः वृदे २, १२१.
परिणाम-तसः (ः) दंति २, ९.
परि-णय- -णयत्, -णयन् परि-ज्णो द्र.
परि-ज्ण (< न)ह्, परिणयन्ति निसू
४, ३ : १५; परिणयन् गोष्ट ३,
२, ३३; जैश्र १, १७ : ११.
परिणयते माश्रौ ५, १, ६, २१.
परि-णह- -हः माश्रौ ४, ७, १;
गोष्ट २, २, ३२; -हम् आपश्रौ
१९, ६, ४; हिश्रौ २३, १, १३;
हिपि १४ : ८.
परिणह्य (ह-श्र) -श्रः
निसू ४, ३ : ११; -श्राय द्राष्ट
२, ५, २९.

a) वैप १ द्र. । b) विप. (दूरी-) । बस. उप. < रचेल- । c) नाप. । उप. करणे घः प्र. घा. ह्रस्वश्च (पा ३, ३, ११८; ६, ४, ९६) । d) = संवद्ध- । e) = परिवार- । प्राप्त. (तु. शक.) । f) अर्थः व्यु-चः ? । g) पामे. पृ २५६ b द्र. । h) समाहारे. द्वस. । i) ज्मन् इति पाठः ? यनि. शोचः (तु. सपा. ऋ ३, २, ९ प्रष्ट.) । j) विप. । बस. । k) वृदे. पाठः ।

परि,री^१णह^२ - णट् वाधुश्रौ ४,
११२:२; -णहः हिश्रौ १, ५,
१३:२८; -णहम् हिश्रौ^० १, ५,
१२; १४; ऋप्रा ९, १०^१;
-णहि शाश्रौ १३, २९, २९;
काश्रौ २४, ६, ३२; आपश्रौ २३,
१३, १३; वाधुश्रौ ४, ११२:३;
५.
‡पारीणह^३ - ह्यस्य तैप्रा ३, ७;
७, ४.
परि-णहन^० - नम् माश्रौ ४, ७, ५.
परिणहना (न-अ)न्त- न्ते
गोय ३, २, ३१.
परि-णह्य हिश्रौ १८, ४, ४९;
कौसू १८, १७.
‡परि-णाह^१ - (>^०ह-वत्, ^१हित-
पा.) पाग ५, २, १३६.
२परि,री^१णह^२ - हम्^० आपश्रौ
१, १७, ९; भाश्रौ १, १९, ९.
पारीणाहा(ह-आ)दिक- -कम्^०
वैश्रौ ४, ४: ६^१.
परि-णि (<नि)√हन्, परिणिहन्ति
बौश्रौ ६, २८: ३९; १०, ३३:
५; हिश्रौ ११, ७, ४२.
परिणि-ह्य आपश्रौ १६, २५, २;
२१, १८, ३; काठश्रौ ९६; हिश्रौ
१६, ६, २७; बौपि ३, ३, ८.
परि√णी (<नी), परिणयति काश्रौ
१७, ३, २५; भाग; परिणयन्ति
आय १, ७, १५; काय ५६, २;
परि...नयध्वम् माय २, १७,
१^१; पर्यणयम् वाय १४, २०^१;

परिणयेत् बौश्रौ २२, १६: १७;
२४, ३३: १५; २५, ६: १४;
१७; वाय.
परिणेष्ये अग्निग १, ५, १:
२८; ‡परि...अनेषत् काश्रौ २१,
४, २६; आय ४, ६, १४;
काय ४५, ११^२; ५६, २; ‡परि-
(अनेषत्) शुभ्र ४, ५४; वृदे ८,
६१.
परिणीयते कप्र २, १०, १५;
शुप्रा ३, ८६; परि (णीयते)
ऋप्रा ५, ५७^१.
परि-णय- -येन आपश्रौ १०, १२, ९.
परि-णयत् -यन् आय १, ७, ६.
परि-णयन- -नम् काश्रौ १७, ७, ५.
परि-णाय- पा ३, ३, ३७.
परि-णिनीषु- -युः अप ६९, ४, ५.
परि-णी (त >)ता- -ता गोय २,
२, ९; सुध ८८, ६; -ताम् पाय
१, ७, ६.
परि-णीय काश्रौ १७, ३, २६; ७, ४;
आपश्रौ १६, ३५, ११; वैश्रौ.
परि-णीयमत्, ना- -नम् कौसू ६४,
७; -नाम् कौसू ८१, २०.
परि-णय- -यः आय ४, ६, १५.
पारिणय^१ - -यम् वाध १७, ४६.
परि√तंसु > परि,री|तंस्य
आपश्रौ १६, २५, २; १९, ५, ८;
हिश्रौ ११, ७, ४२; २३, १, ७.
परि√तक् > परि-तकन- -नम् या
११, २५.
‡परि-त(कम् >)कम्या^३ - -कम्या

निघ ४, १; या ४, १६६; ११,
२५^१.

परि√तन्, परितनोति बौश्रौ ६, १५:
२३; २२: १२××.
परि-न्त्य काश्रौ ७, ९, ८; १६, ८,
१७; २१, ३, ७; ३१; हिपि १३:
१०; कौसू १६, २०.
प(रि >)री-तान- -ने हिपि १३:
८.

परि√तपु, परितपति आपश्रौ १, २५,
८; हिश्रौ ११, ३, ४.
‡परीताप्सीत्^१ आपश्रौ १६,
२५, २; वैश्रौ १८, १७: ५३;
हिश्रौ ११, ७, ४२.
परितापयेत् काश्रौसं ३२: २०.
परि-तपन- > ना(न-अ)न्त^३-
-न्तम् आपश्रौ १९, २२, १;
हिश्रौ २२, ४, १६.

परि-तसु(ः) वैश्रौ १, २: ५; १०××;
हिश्रौ; या ११, २५; पा, पावा
५, ३, ९.
परितः-ह्य-अङ्कित^३ - तम् वैश्रौ
१५, २: ५^०.
परितो-भित्ति^३ - -त्तिः वैश्रौ ११,
८: १४.

परि-तस्थिवस्- परि√ष् (<स्था)
द्र.

परि√तुष्, परितुष्येत अप २, ३, २;
३, १, १८.
परितोषयति आग्निग ३, ११,
४: १७; परितोषयेत् अप १९,
३, ७.

a) शाश्रौ. वाधुश्रौ. ऋप्रा. पाठः। b) प्रदेश-विशेष-, आच्छादन- प्रयु.। वैप १ द्र.। c) सपा.

णहम् <> णाहम् <> हादिकम् इति पाठे.। d) वैप १ द्र.। e) = वृत्त-। f) पणा इति पंजा.।

g) आपश्रौ. पाठः। h) = कट-। i) = शकटादिक- इति संस्कृतैः टि.। j) पाठे. वैप १, १९३३ i द्र.।

k) नाप. (दाय-). परि-णया- (वधू-) + तस्येदमीयः अण् प्र.। l) पाठे. वैप १, १९३४ f द्र.।

m) विप.। बस.। n) विप.। सुपुपीयः समासः > तुत्त.।

o) सपा. आपश्रौ १२, १, १३

परिच्छक् इति पाठे.।

परि-तुष्टि- -ष्ट्ये अप ७२, ४, ७.
 परि/√त्द् > परि-तृ(ण्)णा-
 -ण्णा बौश्रौ ६, ५ : १६; -ण्णाम्
 वैश्रौ १२, ९ : ५.
 परि/√त्प्, परितातृपीः बौश्रौ १६,
 २३ : १००.
 ?परि [,री^३] तोषात्^३ आपश्रौ १०,
 १३, १०; बौश्रौ २८, ९ : १२;
 वैश्रौ २१, १ : ७.
 परि/√त्यज्, परित्यजेत् जैश्रौका १४४.
 परि-त्यक्त- -क्तः विध १५, २५;
 -क्ताः विध ५४, २७; -क्ते अप
 १९^३, १, ४.
 परि-त्यक्त(व्य>)व्या- -व्या सुधप
 ८८:७.
 परि-त्यजत्- -जन् विध ५, १६२.
 परि-त्यज्य वैश्रौ १, १ : २४; वैश्रु
 ५, ८ : १; अर.
 परि-त्याग- -गः वाध २०, ४५.
 परि-त्याज्य, ज्या- -ज्यः वाध १३,
 ४७; -ज्याः वाध १३, ४९; २१,
 १०.
 परि/√त्रै, परित्रायते वाधूश्रौ ४,
 १५ : १०.
 परित्रास्यति वाधूश्रौ ४, १५ : ८.
 परितित्रासते वाधूश्रौ ३, ७९ :
 २०; १७ : ४.
 परि-त्राण- -णम् आपमं २, १७,
 ३०; -णात् शंघ ३७९.
 परि-त्रायमाण- -णः या ९, १५.
 परि/√त्वर > परि-त्वरमाण- -णः
 कौसू ५५, १८०.

?परित्वाहलनोहलनिवृत्तेन्द्रवी-
 रुधः^६ पाठ ३, ७, ३.
 परि/√त्सर, परि-त्सरत् वाधूश्रौ
 ३, १७ : ३०.
 ?परि/√दद्, परिददेम अप्राय ३, १०;
 ४, १.
 परि/√दह् > परि-दहन- -नम् बौध
 १, ४, ३.
 परि-दाहिन्- -पा ३, २, १४२.
 परि/√दा (दाने), परिददाति आपश्रौ
 १६, ५, ३; ११××; बौश्रौ;
 ?परिददामि आश्रौ १, १२,
 ३६; आपश्रौ; आपमं २, ३,
 १३-२०; २१^६; २२; २३;
 पाठ २, २, २१^६; आमिष्ट १,
 १, ३ : ४५^६; हिष्ट १, ६, ५^{१०६};
 ?परि-ददामि आपश्रौ १४,
 २०, ७; बौश्रौ १४, १४:१; माश्रौ;
 परिददत् या ७, ९^०; ?परि-
 ददात् आमिष्ट ३, ५, ४ : २^०;
 बौषि १, ३ : १२^०; ८ : ४^१?;
 ?परिददात् आपश्रौ १४, २०,
 ७; कौष्ट ३, ४, १; २; शांष्ट ३, ५,
 १; २; जैष्ट १, ७ : ९; ८ : ६;
 परिदत्ताम् जैष्ट १, ८ : ७;
 परिददतु जैष्ट १, ८ : ८^३; ९;
 ?परिदेहि जैश्रौ १३ : ४;
 आपमं; परि(देहि) भाशि ४३^३;
 ?परिदत्तात् आमिष्ट ३, ६, १ :
 ४; भाशि ११९; १२०; ?परिदत्^६
 माश्रौ १, ६, ४, २१; वाश्रौ १,
 ५, ५, ७; बौध २, ६, १३;

परिददानि वाष्ट ७, १२^०;
 परिददीत बौश्रौ २०, ६ : ९;
 वाष्ट ७, १२; परिदद्यात् द्राष्ट
 २, ४, १६.
 परिददे वृदे ४, ११७.
 परि-दत्त- -त्तः कौष्ट २, ७, १९^६;
 -त्तै वैश्रौ १, १४ : १८^६.
 परि-ददान- -नस्य चाश्र ८ : ४.
 परि-दा^६- -दाम् काश्रौ २१, ४,
 २६; वैताश्रौ १४, १; माष्ट १,
 २३ : १; २५ : ११; २, २८ : १.
 परि-दातवै हिष्ट १, ४, २^०;
 परि-दान- -नम् बौश्रौ २५, ३१ :
 ४; हिश्रौ १४, १, २९; ३, ३६;
 आष्ट १, २२, २७; -नात् बौश्रौ
 १५, ८ : १७; आष्ट २, १, १३;
 -ने बौश्रौ २०, ६ : ९.
 परिदाना(न-अ)न्त^६- -न्तम्
 बौश्रौ २६, ६ : ३; आष्ट १, २२,
 २२.
 परि,री^३]दाय बौश्रौ २२, ३:१९;
 २०; २९, ६ : ६; हिश्रौ; आपष्ट
 १०, १२; माष्ट १, ८ : ५; हिष्ट
 १, ७, १०; हिपि २३ : ३.
 परि(>)री-न्त- -न्तः शांष्ट २, १२,
 २^६; श्रुपा ५, ४५; अप्रा ३, ४, १.
 परि/√दिव् (=√देव्), परिदेवयां
 √कृ, परिदेवयाञ्छे या १, ५.
 परि-देवन- -ने पावा ३, ३, १५.
 परि-देवना- -ना कप्र ३, ३, ७; विध^६
 २०, २८; ४६; ४८; वृदे १, ३, ५;
 ५०; या ७, ३.

a) वैश्रौ. पाठः। b) पाठः? परि (कप्र.), दोषात् इति द्वि-पदः शोषः (तु. काश्रौ २५, ११, २२ [बौसं.],
 ०. व)। c) पाठः? परि स्वो (त्वा-उ) द्ध्वलनो (न[अमे]उ) द्ध्वलन्ति वृत्तानो (नि-इ) ण्द्वानि वीरुधः इति
 शोषः संभाव्यते। d) पाठे. वैप १, १२३८ b द्र.। e) पाठे. वैप १, १९३४ w द्र.। f) पाठः? परिदत्तात् इति
 शोषः (तु. सपा. ऋ १०, १६, २ गौ १८, २, ५ तैशा ६, १, ४ आग्निष्ट ३, ६, १:४ प्रष्ट.)। g) पाठे. वैप १, १९३५ ०
 द्र.। h) सप्र. परिदत्तः <> परीत्तः इति पाठे.। i) पाठः? अपरि- इति संस्कर्ता टि. संभावयति। j) भावे
 अह् प्र.। k) पाठे. वैप १, १९३६ t द्र.। l) विप.। बस.। m) आपष्ट. पाठः। n) परिदेवना इति Jolly!।

परि√दी (=√डी) गतौ),
 †परिदी(य>)या भाश्रौ ५, ८,
 ५; वैश्रौ १, १२: १८; हिश्रौ
 ३, ४, ३२; छुप्रा ३, १२९, तैप्रा
 ३, १२.
 परि√दीप्, परिदीपयेत् अप ३६,
 २९, १.
 परि√दंह्, परिदंहति भाश्रौ ७, ८,
 १५; हिश्रौ ४, २, ५९.
 परिदंहयति वाश्रौ १, ६, ३, १७.
 परिदंहण- -णम् हिश्रौ ७, ७, ९.
 परि√दृश्, परिदृशं वाधूश्रौ ३,
 २९: ३; ४, २: ४.
 परिदृश्यते वाश्रौ ३, ३, २, १९;
 परिदृश्यन्ते आपश्रौ १८, १३,
 ११; हिश्रौ १३, ५, १४.
 परि...दिदक्षेत जैश्रौ १९: १०.
 परि√दृ, †परि...दृषीष्ट आपश्रौ २१,
 १२, ९; वाश्रौ ३, २, ३६.
 परि√देव् (=√दिव्)^a > परि-
 देविन्- पा ३, २, १४२.
 परिदेवन-, °ना- परि√दिव् द्र.
 परि√द्रा, परिद्रे शाश्रौ १४, २७, १.
 परि√द्रु, परिद्रवति हिश्रौ ४, ३, ४१.
 परिद्रेष्य^b -षल: या ५, २३†^c.
 परि√घा, परिघत्ते आपश्रौ १३, २२,
 ३; १८, ५, ७××; बौश्रौ; परि-
 दधाति आश्रौ ५, ९, २४; शाश्रौ;
 परिदघाते काश्रौ ५, ५, ३२;
 २२, १, २०; बौश्रौ; परिघत्तः
 आपश्रौ १, १४, १२†; १५, ८,
 १; बौश्रौ; परिदघति शाश्रौ १२,

२, २, ७; ६, १८; परिदधामि
 पाठ २, २७; माण्ड १, २, १२;
 परिदध्मः अत्र ६, ९९†^d; †परि
 ...दध्मसि^d आमिण्ड १, १, २:
 ४५; ४७; ४८; काण्ड ४१,
 ७; हिण्ड १, ४, ८^e; जैण्ड १,
 १२: ५; ८; १०; परि(दध्मसि)
 †जैण्ड १, १२: ५; १९: १७;
 †परि...दधत् कौसू ४६, ५५;
 अप १, ३६, ७; परि(दघातु)
 कौण्ड ३, ५, ५; काण्ड ३, ९, २;
 अप १८^f, १, ६; अत्र ७, ८;
 परिधत्ताम् बौश्रौ १, १३: २३;
 †परिधत्स्व आपमं २, २, ५;
 ७; पाण्ड; आमिण्ड १, १, २:
 ४१^g; हिण्ड १, ४, ६; †परिधेहि^h
 आपश्रौ ३, १३, ५; भाश्रौ ३,
 १२, ३; हिश्रौ २, ६, ३०; †परि-
 धत्तम् भाश्रौ ५, २, ६, १९;
 आमिण्ड २, ५, १०: ९; †परिधत्त
 आपश्रौ १, १४, १२†; भाश्रौ १,
 ११, १६; २, ८, ८^h; भाश्रौ १, ३,
 ५, २६; हिश्रौ १, ४, १०^h; आपमं
 २, २, ६; पाण्ड ३, १, २^h; आमिण्ड;
 परिदघानि वाण्ड ९, १†; पर्यद-
 घात् पाण्ड २, २, ७†; †पर्यदघत्थाः
 आपश्रौ ३, ७, १२; बौश्रौ १, १९:
 ३३; भाश्रौ; परिदघीत आपश्रौ
 १०, १५, १५; द्राश्रौ; परिदघ्यात्
 आश्रौ २, १६, ७××; शाश्रौ;
 परिदधीयाताम् भाश्रौ ५, २,
 २४; परिदधीरन् बौध १, ६, ५.

परिदघे सु २९, ५; †परि...दघे
 आपमं २, २, ११; शाण्ड २, १,
 ३०; पाण्ड; परिधास्येⁱ पाण्ड २,
 ६, २०^k; माण्ड १, ९, २७; काण्ड
 १२, ३; †परिधिषीय आपश्रौ
 १०, ६, ६; हिश्रौ १०, १, ३८;
 पा ७, ४, ४५; †परि...अघा-
 ताम् कौसू ८१, ४६; ८७, ३;
 †परि...अधिधाः आपमं २, २,
 ८^l; आमिण्ड १, १, २: ३३^l;
 ५, १: २४^l; काण्ड ४१, ७^l;
 बौण्ड २, ५, १२^l; माण्ड १, ६०
 १^l; १३: ९^l; हिण्ड १, ४:
 ३^l; †परि(अधिधाः) आमिण्ड
 १, ६, १: २०; वैण्ड २, ५: १३.
 परिधीयते आपश्रौ १४, ४, ५.
 परिधापयति काश्रौ १४, ५, ३;
 १५, ५, ७; बौश्रौ; परिधापयेत्
 बौश्रौ २२, १५: २; अशां २५,
 १; अप ३३, ७, १.
 परिदघत्- -धत् आश्रौ ५, १४,
 २५.
 परि-धातवै^m आपमं २, २, ६;
 आमिण्ड १, १, २: ३०; ५, १:
 २२; बौण्ड २, ५, १२; माण्ड १,
 ५: १६; १३: ६.
 परि-धानⁿ -नम् बौश्रौ १४, ४: ८;
 बौण्ड १, ७, १०; अप ३३, ७, १;
 -नस्य शाश्रौ ६, ६, २०; -नात्
 आपश्रौ १०, ६, १०; बौश्रौ १५,
 १७: १६; भाश्रौ ५, २, १, १२;
 ६, २, ६, ८; आपमं १, ४, १०;

a) पा ३, २, १४७ परामृष्टः द्र. । b) वैप १ द्र. । c) वैप १, १९३४ Q, ४ द्र. । d) पामे. वैप १,
 १९३६ m द्र. । e) °दध्मसि इति Old. (Böht l ZDMG ५२, ८१ J) । f) परि...दधत्स्व
 इति पाठः? यनि. शोधः (तु. हिण्ड.) । g) पामे. वैप १, १९३६ j द्र. । h) पामे. वैप १, १९३५ c द्र. । i) लुटि
 उणु१ रूपम् (तु. St.) । j) पामे. वैप १, १९३६ p द्र. । k) °धास्यै इति (जयराम-नादाधरी B.W.
 Old. च१ इति) पाठः? यनि. शोधः (तु. भाण्ड. वाण्ड.) । एतदनु वैप १ टि. निर्देशः शोध्यः । l) पामे. शोधश्च वैध
 १, १९३६ p, q द्र. । m) पामे. वैप १, १९३६ t द्र. । n) भाप., नाप. । वैप १ द्र. ।

आमिण १, ५, ३: ११†; काण्
२८, ४†; बौण् २, १, ११†;
भाण् १, १४: १०†; हिण् १,
१९, ७†; जैण् १, २०: २७†;
कौसू ५५, ५; -नानि जैण् १, १२:
५०; -ने बौश्रौ २०, ११: १७;
२३: ३६; २१, ५: १; १६: ४;
२२, १०: १; पावा ३, १, १९;
-नेन बौश्रौ ७, १: ८.
परिधान-प्रभृति- -ति आमिण्
१, ७, ३: १८; बौण्.
परिधाना(न-आ)दि^१- -दि काश्रौ
२५, ११, १७.
परिधाना(न-अ)न्त^२- -न्तम्
हिण् १, १९, ४; -न्तानि कौसू
५४, १७.
परिधानीय, या^३- -यम् वैश्रौ
२०, २३: ७†; -या आश्रौ २,
१६, ८××; शाश्रौ; -या: शाश्रौ
१३, १०, ६; १५, ८, १८; -याम्
शाश्रौ १, १, २५; ७, २०, १०;
वाश्रौ ३, १, २, २७; २, २, २०;
५, ५६; ३, ३, ३४; ४, १, ३७;
काण्ड ३९: ५; -याया: आश्रौ
५, १, १; ६, ३, १८; ५, २०; ७,
१, १२; ९, ६, २; आपश्रौ १४,
९, ३; हिश्रौ १०, ८, ४०; २१, १,
७; द्राश्रौ १५, २, १३; लाश्रौ ५,
१०, १३; -यायाम् आपश्रौ २,
१२, ६; १३, १६, ४; हिश्रौ
९, ४, ४०; -यायै शाश्रौ ७, १०,
५; १४, ६; २१, ८; ८, ७, ९;
९, ६, १७; २०, २८; १८, २१,
३; वैताश्रौ २०, १६.

परि-धापन- -नम् आमिण् २, ७,
१: ९.
परिधापना(न-अ)रममण्डल-
वर्जम् कौसू ५४, १६.
परिधापनीय^४- -याभ्याम् कौसू
७९, १३.
परि-धापयत्- -यन् बौण् २, ५, ११.
परि-धाप्य कौण् १, ७, १; पाण्.
परि-धाप्यमान- -नम् वैताश्रौ १०,
६.
परि-धाप्य आश्रौ २, १७, १०××;
शाश्रौ; माश्रौ १, ५, १, १२^९.
१परि-धि^५- -धय: आश्रौ ३, १४,
१०; ९, ७, ६; शाश्रौ; -धये
बौश्रौ ८, १२: २६; -†धि: बौश्रौ
१, १३: २१; २२; २४; आपमं
२, १७, ३; शौच २, ७७; मीस्
१२, २, २६५; -धिभि: काश्रौ
४, २, ४३; आपश्रौ ७, ५, ६;
१५, ८, १; बौश्रौ ६, १८: ३;
९, ७: १७; माश्रौ; -धिभ्य:
वाश्रौ १, ३, ३, २; -धिम्
काश्रौ २, ८, २; ३, ६, २××;
आपश्रौ; वाश्रौ १, ३, ६, १९†^६;
या २, २६†; -धिषु आपश्रौ
४, १२, ९; १३, १७, १; बौश्रौ;
-धी आपश्रौ ८, १४, ९××;
बौश्रौ; आपमं २, २, ४†^७;
-धीन् शाश्रौ ४, १६, ३; काश्रौ;
-धीनाम् बौश्रौ १५, १७: १६;
२०, ३: ९××; माश्रौ; -धे:
आपश्रौ १२, ११, ३; ४; माश्रौ
२, ३, ३, १९^८; ४, २, ११; वाश्रौ
१, ६, ४, ७; -धौ आश्रौ २, २, ४;

काश्रौ; -धो: द्राश्रौ १२, २,
२४; लाश्रौ ४, १०, २७.
परिधि-कर्मन्^८- -र्मं शाश्रौ ४,
१६, १; ११; कौण् ५, ८, १; १०;
-र्मणि वृदे ७, ११.
परिधि-दाह- -हे आमिण् २, ७,
९: २३; बौण् ४, २, ४; भाण्
३, १९: ९.
परिधि-देश- -शे आश्रौ ३, १०,
२४; ६, १२, ५; आपश्रौ १, ५,
२; वाश्रौ.
परिधि-परिधान- -नम् काश्रौ
५, ६, १३.
परिधि-विमोह- -कम् आश्रौ
६, २, ६; १९; वाश्रौ २, २, ५, ६;
वाण् १, ३१.
परिधि-वृत्त- -क्षाणाम् काश्रौ १,
३, १८; काण् ४, १८.
परिधि-सेधि- -धिना आपश्रौ
७, ५, ६; वाश्रौ १, ३, ४, ३; ६,
४, १३; -धिम् आपश्रौ २, १२,
७; १३, ११××; बौश्रौ; -धी
माश्रौ १, ३, १, ३, १; -धे: माश्रौ
१, ३, ३, १; ७, १, ३९; -धौ
बौण् १, ३, २७; २८; -धो:
काश्रौ १८, ६, १६.
परिधि(धि-इ)ध्मो(ध्म-उ)क्ति^९-
-क्तौ वैश्रौ ११, १०: ११.
परिध्य(धि-अ)र्थ- -र्थे आपण् २,
२.
परि-धित^{१०}- -तम् हिश्रौ ६, २, १५;
-ता: आपश्रौ ११, २, १२; -न्ते
आपश्रौ १४, ४, ६.
परि-धीयमान- -नम् हिश्रौ ६, २,

a) विप.। बस.। b) =ऋण-विशेष-। c) विप. (कर्मन्-। d) =मन्त्र-विशेष- (शौ १४, १, ४५; ५३)।

e) पामे. घृ ४९७ a द्र.। f) वैप १ द्र.। g) पा० इति पाठः? यनि. शोचः। h) पाठः (तु. पै १५, ५, ६
वैतु. BKA. °धी इति शोचः।) परि-दाय (परि√दा ह्यप प्र.) इति शोचः। एतदतु वैप १, १९३७ निर्देशो
ऋ.। i) =शान्ति-कर्मन्- इति साप्यम्। j) पस. > पस.। k) तु. पा ७, ४, ४५।

१४; -नाम् आपश्चौ ४, ६, ३;
 बौश्रौ ३, १६ : २०; भाश्रौ ४, ९,
 १; हिश्रौ ६, २, १२; -नेषु माश्रौ
 १, ४, १, १६; वाश्रौ १, १, २, २३.
 ?परिधे^१ काण्ड ४१, ६१.
 परि-हित, ता- ण्तः आपश्चौ १,
 १४, १२; भाश्रौ १, ११, १;
 हिश्रौ १, ४, १०; -तम् वैश्रौ ५,
 ७ : २; आपण्ड १०, १०; बौण्ड
 २, ५, १२; भाण्ड १, ६ : १; बौध
 १, ६, १४; -तस्य कौसू ६३, १३;
 -ता अश्र १२, ५१; -ताः वैश्रौ
 १४, १३; कौसू २१, १३; -ताम्
 भाण्ड १, १३ : ८; -तासु बौश्रौ ४,
 ७ : ७; १८, २२ : २; -ते आश्रौ ४,
 ६, ३, ५, १, १; ६, ९, १; बौश्रौ १०,
 ५७ : ४; ११, ३ : २ x x; वैश्रौ.
 परिहित-वासस^२ -ससम् काण्ड
 ४१, ७.
 परि/घाव् (गतीं), परिघावति शाश्रौ
 १२, २४, ५१; अप २०, ७, ८; ३५,
 १, १५; परिघाव ऋषा ८, ४४१;
 परिघावेत् शंघ ७८.
 शपरि-धि- परि/घा द्र.
 रपरिधि- (>पारिधिय- पा.) पाग
 ४, १, १२३.
 परि-धित- परि/घा द्र.
 णपरि/घी, [=घा] परि...धीमहि
 बौश्रौ ३, ९ : ९; परि(धीमहि)आश्रौ
 ५, १३, ६; ८, १२, ७; आपश्चौ.
 परि-धीयमान- प्रमु. परि/घा द्र.
 ?परिध्यापकवर्जित- ताः काण्ड
 ४० : १६.
 परि/घ्वंस > परि-ध्वंस^३ -साः

आपश्च २, २, ७.
 परि-नक्षत्र- -त्रम् बौश्रौ २०, १ : १५.
 परिनट^४ - पा, पाग ८, ४, ३९.
 परि/नद् > परि-न(द) दी^५-
 -दीनाम् आपश्चौ १८, १३, ९.
 परि/नन्द > परि-नन्दन- पा, पाग
 ८, ४, ३९.
 परि-नि/घा > परिनि-धाय काश्रौ
 १८, ६, १३.
 परि-नि/नी, परिनिनयेत् काश्रौसं
 ३२ : १३.
 परि-निर्/मा > परिनिर्-मित- -०त
 विघ ९८, ११.
 परि-निर्/हन्, णपरिनिर्जहि अत्राय
 २, ५; अप ३७, ५, ३.
 परि-नि/ष (<स)द् > परिनि-षद्य
 वाधुश्रौ ४, २६ : २८; २९; ३१;
 ३३; ३५.
 परि-नि/ष्टा (<स्था) > परिनि-
 ष्टाप्य बौश्रौ २०, ८ : ३७; १६ :
 ५९; २४, १५ : १२; १७ : १५.
 परिनि-ष्टाय निसू ४, २ : २५.
 परिनि-ष्ठित- -ते बौश्रौप्र ५४ : ६.
 परिनिष्ठित-कर्मन्^६ -र्माणः वृदे
 ३, ८४.
 परि-निस/स्था, परिनिस्तिष्ठेत् बौश्रौ
 २०, ४ : १९; २०; १० : १३ x x.
 परि-नि/हन्, परिनिहन्ति वैश्रौ १८,
 १७ : ५२.
 णपरि/नृत्, परिनृत्यति अयं ३ : ३०;
 परि(नृत्यति) अश्र ४, ३८;
 परिनृत्यन्ति^७ आपश्चौ २१, १९,
 १८; बौश्रौ १६, २२ : ८;
 (परि)नृत्यन्ति तैषा ७, १६.

परि-नर्तन- पाग ८, ४, ३९.
 परि-नृत्य (>)न्ती- -न्ती^८
 हिश्रौ १६, ६, ३९.
 परि-न्य(नि/अ)स्(क्षिपरो) > परिन्य-
 स्य बौश्रौ ४, ४ : ३५; ६, २७ : १०.
 परि/पच् > परि-पाक- -कः अप २३,
 १२, २.
 परि/पट् > परि-पाटि^९ -टिम् मैश्र
 ५.
 परि/पठ् परिपठ्ये अप २३, ३, १;
 ५, ५; बौध १, ४, २.
 परि/पत्, णपरिपातय आपमं १, ९,
 १०; हिण्ड १, १८, ५.
 णपरि-पति^{१०} -तये बौश्रौ ६, १९ : १;
 माश्रौ २, २, १, २; वाधुश्रौ ४, ५४ :
 ३; वैताश्रौ १३, १६; -तिः वाधुश्रौ
 ४, ५४ : ४६; चाश्र २ : ११; -तिम्
 आश्रौ ३, ७, ८; बौण्ड ४, ११;
 शुश्र ४, २६; वा १२, १८.
 परि/पद्, परिपादयन्ति ऋषा १४,
 ३७; परिपादयै निसू ३, २ : २.
 परि-पञ^{११} -ञम् ऋषा ४, १५;
 १५, १२.
 परिपन्ना(ञ-अ)पवाद- -दः
 ऋषा ४, २३.
 परिपन्नो(ञ-उ)पधा- -धा ऋषा
 ५, २५.
 परि/पन्थ (*बाधायाम्) > परि-
 पन्थिन्^{१२} -पा ५, २, ८९; -न्थि
 अप १, ४८, ५१; -णन्थिनः बौश्रौ
 ६, १६ : ६; आपमं १, ६, १०^{१३};
 आण्ड; कौण्ड १, ९, १०^{१४}; काण्ड
 २५-२६, ५^{१५}; -न्थिनम् आश्रौ
 ५, ३, २२^{१६}.

a) शोधः वृ ५११६ h द्र. । b) विप. । बस. । c) व्यप. । व्यु. ? । d) विप. > नाप. । उप.
 कर्तारि कृत. । e) सपा. हिध २, १, २९ वर्णपरिध्वंसाः इति पाभे. । f) तु. पागम. । g) = २ अप्- । h) सपा.
 हिश्रौ १३, ५, १४ स्रवन्वीनाम् इति पाभे. । i) सपा. णन्ति <> ण्तीः इति पाभे. । j) = परम्परा- । उप. भाप. ।
 k) वैप १ द्र. । l) = संज्ञा-विशेष- । m) पाभे. वैप १, १९३८ ० द्र. ।

परिपन्थि-नाश(न >)नी^a - नी
अत्र १४, २.
परि-पन्थु^b > परिपन्थिक- पा ४,
४, ३६.
परि√पञ्, परिपश्यते बौश्रौ १७,
४२: ६; परिपश्यति आमिष्ट १,
३, ५: ७; परिपश्यन्ति बौश्रौ
१५, २९: १६; हिश्रौ ९, ४, १०;
परिपश्यत् आपश्रौ ५, २, ४;
बौश्रौ १३, ३२: ९; \$वाधूश्रौ ४,
३०: ५; १०९: ४; वाश्रौ १,
४, २, २; वैश्रौ १, ७: ९; या
१०, १२; परिपश्यन् वाधूश्रौ ४,
१९: १३; १६; २०×४; परि-
पश्येत् आपश्रौ १३, १४, ३;
बौश्रौ ८, १४: १०; भाश्रौ.
परि-पश्यत् - श्यतः बौश्रौ १७,
४२: ६; भाश्रु २, २२: ८.
परि-पश(व्य >)व्या^c - व्ये काश्रौ
२०, ६, ११; पाश्रु ३, ११, ३.
परि√पा(रक्षणे), परिपासति^d
आमिष्ट ३, ५, ४: १७; बौपि १,
३: २६; परिपातु बौश्रौ १३,
४२: ११; अप १, ३७, ४;
३२, १, ११; अशां ७, ४; १८,
२; या ९, १५; परिपातु^e
अप्राय २, ५; अप ३७, ५, ६;
परिपातु अत्र १९, ३५;
परिपातु आमिष्ट २, ४, १४;
पाश्रु ३, ३, ६; माश्रु २, ८, ६;
परिपाहि पाश्रु २, ६, ३१; कौसू
११४, २; १२८, २; अप ३७,
१, ५; परिपाहि अत्र २,
७; परिपातम् अप्राय ६, ११.

परि-पाण^f - णम् अप ४६, ५, १;
अत्र ४, ९.
परि-पाद् - पागवा ६, २, १८४.
परि-पार्श्व^g - श्वेषु काश्रौ २४, ६,
२२.
परि√पालि (<पाल-), परिपालय
भाश्रु २, ३१: ८; परिपालयेत्
विध ३, ६५.
परि-पालय आमिष्ट ३, ९, ३: १६;
बौपि २, ७, १५; बौध १, १०,
१६.
परि√पू, परि (पुनन्ति) क्षुस् २,
४: १४; ५: १३; साश्रु १,
५५२; २, ६७९.
परि-पवन^h - नम् या ४, ८; -नेन
या ४, ९.
परि-पू(त >)ता- -ताभिः शंघ
५६.
परि-पूर्वⁱ - र्वः अप्रा ३, १, ७; -र्वम्
दंवि २, १०; -र्वे उस् ६, ३.
परि√पृच्छ, परिपृच्छति कौश्रु २, ७,
१९; अप २५, १, १; २९, १, १;
३०, १, १; ७०³, २२, १; आज्यो
१, १; परिपृच्छत् अप ३१, ४, १;
७०³, १, १; परिपृच्छेत् आश्रु १,
२३, २१; भाश्रु १, ११: ८.
परि-पृच्छक- -कः काश्रु ७, ३.
परि-पृष्ट- -ष्टः अप १९³, १, २; ६६,
१, ३.
परि√पृ, परिपूरयेत् अप १०, १, १२.
परि-पूरित- -ते अप १८, १, ६.
परि-पूर्ण^j - र्णाः वैश्रु १, ७:
१२; -र्णाय कौसू १२२,
२.^k

परिपूर्ण-मरीचि-जाल^k - लः
अप २४, ६, ३.
परि√पृ (l < √सृ^l *हिंसायाम्) >
परि-परिपृ^m - पा ५, २, ८९; -री
बौश्रौ ६, १६: ६।
परि-प्र-ऋषी(पि-इ)न्द्रा(न्द्र-आ)दि-
-दिषु ऋषा ५, ४३.
परि-प्र√गा, परिप्रमाणात् आपश्रौ
१६, ६, ७; वैश्रौ १८, ४: ९;
हिश्रौ ११, १, ७३; अप ३९, १,
३.
परि-प्र√गृह्, परिप्रगृह्णाति आपश्रौ
१२, २६, १६; माश्रौ १, ३, ३, ९.
परि-प्र√घन्व्, परिप्रघन्व लुस् १,
५: २; १०; ६: १; ८; ९: १४;
१०: ११; परिप्रघन्व >
न्वा आपश्रौ १६, १८, ७; वैश्रौ
१८, १६: १; हिश्रौ ११, ६, २९;
ऋषा ८, १४; परिप्रघन्व
ऋष २, ९, ११०; साश्रु १,
४२८; २, ७१४; उनिस् ५: ७.
परि-प्र√स्यन्द, परिप्रस्यन्दते
बौश्रौ २८, १: २०; २: २६;
वैश्रौ २०, ३३: ११.
परि-प्रो(प्र < उ)क्ष्, परिप्रोक्षेत् भाश्रु
२, ५: ३.
परि√प्लु, परिप्लवते शाश्रौ १६, २,
३६; परिप्लवेत् काश्रु १, २३.
परिप्लवयति माश्रौ २, ३, ४, ४;
१०; वैश्रौ; परिप्लवयन्ति बौश्रौ
७, ६: ८.
परि-प्लवⁿ - पाग ५, ४, ३८^o; -वे
बौश्रौ ६, ६: २४; -वेभ्यः बौश्रु
२, ८, ३३^p.

a) पथना^o इति पाठः? यनि. क्रोधः । b) अस. वा तस. वेति नागेशः । c) वैप २, ३खं. द्र. ।

d) पामे. वैप १, १९३९ b द्र. । e) पामे. वैप १, १९३९ B द्र. । f) पामे. वैप १, १९९० F द्र. । g) वैप १
द्र. । h) विप. । प्रास. । i) = चालनी- । उप. करणे प्र. । j) विप. । बस. । k) विप. । बस. > षस. ।

l) पामे. वैप १, १९३९ n द्र. । m) विप., नाप. । वैप १ द्र. । n) = चञ्चल- इति पागम. ।

परिप्लवा^a- -वया आपश्चौ
१२, १८, ५; ११; २०, २०^३;
माश्रौ; -वा हिश्रौ ८, १, ३४;
-वाम् काश्रौ ९, २, १५; आपश्चौ
१२, २, ७; माश्रौ २, ३, १, १८;
४, २, ३; वैश्रौ १५, २: १४;
हिश्रौ ८, १, ३१; -वायाम् काश्रौ
९, २, १७.

पारिप्लव^b- पा ५, ४, ३८^c; -वम्
आश्रौ १०, ६, १०; शाश्रौ १६,
१, २२; २, ३६; काश्रौ २०, २,
२२; आपश्चौ २०, ६, ७; काठश्रौ
११७; वाश्रौ ३, ४, १, ३५^d;
हिश्रौ १४, २, १५; १८; लाश्रौ
९, ९, १०; -वे हिश्रौ १४, २,
१६; -वेन काठश्रौ १२८.

पारिप्लवा(व-आ)ख्यान-
-नाय वैताश्रौ ३६, २२.

पारिप्लवा(व-अर्थ>)थ^e-
-थी: हिश्रौ १, १, २०.

पारिप्लवीय- -यै: शाश्रौ १६,
१०, १३.

परि-प्लावयत्- -यन् आपश्चौ १२,
९, ८.

परि-प्लावित- -तानाम् शोध १७६.

परि-प्लाव्य वाश्रौ १, ६, ७, ५; आपश्चौ.

परि-प्लु^f- -प्लु बौश्रौ ७, ७: २३;
८, २: ४; -प्लुना बौश्रौ ७, ८:
१९; १२: १८x४; वैश्रौ.

परि-प्लुत्य वैश्रौ २१, १६: ८.

परि√बन्ध् > बध्, परिबेधिरे दंवि
२, ४^१.

परिवभ्रव^g- -व: अपं १: १.

परि√वाध्, परिवाधते आमिष्ट १, ५,
२: ४; बौष्ट १, ३, ३७;
परिवाधन्ते हिश्रौ ८, ४, ५१;
पपरि (बाधस्व) काश्रौ ७, ९, १;
शुअ १, २८२; परिवाध आमिष्ट
१, ५, २: ५; परिवाधते आपश्चौ
१२, १७, १०^१; माश्रौ २, ३, ६,
११.

पपरि-वाधमान, ना- -न: या ९,
१५^१; -ना आपमं २, २, ९;
कौष्ट.

परि√बृह्, बृह् > परि-बर्हण- -णात्
या ७, १२; ८, ८.

परि-बर्हणा- -णा या ६, १८.

परि-बृहित- -त: -तम् बृदे ३, ५.

परि-बृढ- -ढम् वाधूश्रौ ४, ७०: १६

परि√ब्रू, परिब्रूयात् वैश्रौ २१, ६:
९; हिश्रौ १५, ५, २४; अप्राय
६, ६.

परि-भक्ष^h- -क्षम् आपश्चौ १४, ३१,
९; द्राश्रौ ७, २, १; लाश्रौ ३,
२, १^१.

परिभवⁱ- -व: बौश्रौ २३: २.

परि-भारड^j- -ण्डम् आपध २, १४,
८; दिध २, ३, १९.

परि√भाष्, परिभाष्यते अत्र १, ३;
३२.

परि-भाषा- -षा पावा १, ३, ११;
-षाया: पावा १, १, ६९.

पारिभाषिक^k- -क: कप्र ३, ७,
७; -कम् अत्र १, ३२; ५, ७;

११, २.

परि-भाषित- -तम् शुअ ४, १६०.

परि-भाष्य वाध १३, ४९.

परि√भी > परि-भय- -ये या १,
१०.

परिभया(य-अ)र्थ- -र्थे या ९,
३०.

परि√भुज्, परिभुज तैप्रा १४, ८^१.
परि-भुक्त- -क्तानि बौष्ट १, ८, ९.

परि-भोजन- > णीय- -यम् वैश्रौ
३, ४: १७; -यान् वैश्रौ ५, ९:
७; -यानि बौश्रौ १, २: २४;

परि√भू^l, परिभवन्ति या १४, २१^१;
पपरि...भवन्तु बौश्रौ ६, २७:
२१; आपमं १, २, ६; आमिष्ट
१, २, ३: ९; पपरि(भवन्तु)
आश्रौ ४, ६, ३; ९, ६; शाश्रौ ५,
९, १२; १३, १०; काश्रौ;

पर्यभवत् या १०, १०; परि...
भवन्तु बौश्रौ १४, १२: ३१^१;

परिभवेत् भाष्ट २, ६: १४.

परिबभूव या १०, ४३; पपरि
...बभूव बौश्रौ १, २१: २५^m;

१८, ४१: ३; आमिष्टⁿ १,
५, ४: १३; ३, २, २: १०;
जैष्ट १, ४: १४^m; या १०, ४३^m.

२परि-भव- पा ३, ३, ५५; -वम्
भाष्ट २, ३१: १०^१.

परि-भविन्- पा ३, २, १५७; पाग
३, १, १३४.

परि-भाव- पा ३, ३, ५५.

परि-भावन्- पाग ३, १, १३४.

a) = (द्रोणकृतशात सोमग्रहणार्था-) दर्वी- (तु. विद्याधर: [काश्रौ.] । b) = ?शब्द-, आख्यान- प्रम्.

वैप २, ३३ⁿ. द्र. । c) स्वार्थे अण प्र. । d) परि^o इति पाठः? यनि. शोधः । e) विप. । बस. । f) = परिप्लवा- ।
उप. डु: प्र. उस्स. (पाठ १, ३६) । g) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । h) = स्वामिं वर्जयित्वाऽन्यदीययोगे सोममक्षण-
उपचारात् तन्निमित्त-प्रायश्चित्त- । सुप्सुपीयः समासः । i) अपरि^o इति अग्निस्वामी? (तु. ० [आपश्चौ.] ।
j) = गृहोपकरण- । भारडेन परिग्रहीत- इति प्राप्त. । k) तात्रभविकष् उक् प्र. । l) वैप १ द्र. । m) पाप्मे.
वैप १, १३४^३ गृ द्र. ।

परि-भू^० - भुवः या १४, २१;
 -भूः आश्रौ १, ३, ६; शाश्रौ १,
 ४, २१; आपश्रौ.
 परिभूतम- -मस्^b आपश्रौ १६,
 ३५, ५; वाश्रौ २, १, ८, १६;
 हिश्रौ ११, ८, २३.
 परिभूत- -तः अप ७, १, २; -तम्
 मागृ २, ३१; १२१; -तानि
 शंभ २३०.
 परि√भूष्, परि...भूषयः कौसू
 ५, २; तैप्रा ८, ३४; पर्यभूषत् या
 १०, १००; परि (अभूषत्) बौश्रौ
 १८ १७ : २४.
 परि-भूषित- -तम् अप १८, १, ६.
 परि√भृ, परि(भरत्) ऋअ २, ९,
 ५२; साअ १, ४९६.
 परि√भ्रंशु > परि-भ्रष्ट- -ष्टः अप
 ४२, २, १३.
 परि√भ्रम्, परिभ्रामयेत् अप ७,
 १, ८; १८, ५, १.
 परि-मण्डल, ला^० - पा ६, २, १८२;
 पाग ५, १, १२४; -लः हिश्रौ
 १२, ८, ८; १५; वागृ ५, २८;
 बौश्रु १८ : ८; हिश्रु ४, ३१;
 -लम् काश्रौ १६, ५, १; आपश्रौ
 १५, १४, ९; १६, १४, १^d × ×;
 बौश्रौ; -ला आपश्रु ७, ३; बौश्रु
 ७ : ६; हिश्रु २, ५१; -लाः
 आपश्रौ १७, २१, ५; १९, ११,
 ६; बौश्रौ; -लान् वैश्रौ १४,
 १२ : ४; हिश्रौ ७, ७, २७;
 -लानि हिश्रौ १२, ८, ९; कौसू;
 -लाम्याम् काश्रौ १६, ५, ३;
 -लाम् आपश्रौ १६, ४, ७;
 काश्रौ २८; बौश्रौ; -नलायाम्

बौश्रु ७ : ११; -ले काश्रौ १३,
 ३, ९; २६, १, २१; आपश्रौ.
 परिमाणडह्य- पा ५, १, १२४.
 परि√मद् > परि-माद्^० -मादः
 द्राश्रौ १०, १, १; लाश्रौ ३, ९,
 १; निस् १, १३ : ३.
 परि-माद्^० -दान् शाश्रौ १७,
 १२, ४.
 परि-मर्शन- परि√मृश द.
 परि√मा (माने), परिमिमीते आपश्रौ
 ७, ३, १२; बौश्रौ ४, २ : ६; २६;
 भाश्रौ; परिमिमीत बौश्रौ २०,
 २६ : ८.
 परि...ममे आपश्रौ १६, ११,
 १२; वैश्रौ १८, १० : ६; हिश्रौ
 ११, ४, १२; निस् ३, ९ : ४०^f.
 परिमापयेत् मागृ २, ४ : १३.
 परि, री^१]-माण- -णम् काश्रौ १,
 ३, १३; आपश्रु १, १९; अप्राय;
 पा ५, १, ५७; -णस्य वृदे ५,
 १५४; पा ७, ३, २६; -णात्
 तैप्रा २३, २; पा ४, ३, १५६;
 पावा ४, ३, १५४; -णे काश्रौ
 २२, १, १६; बौश्रौ २०, २६ : ७;
 शुप्रा २, २८; पा ३, २, ३३;
 ३, ६६; ४, ३, १५३; ५, २, ३९;
 -णेन आपध १, ३०, २; -णेषु
 हिश्रौ २१, २, ६.
 परिमाण-ग्रहण- -णम् पावा १,
 ३, १.
 परिमाण-श- -शः काश्रु ७, ३.
 परिमाण-तस्रः(ः) मीसू १, २, १७.
 परिमाण-विरोध- -धात् मीसू
 ११, १, ६२.
 परिमाण-विहार- -रान् बौश्रु १ : १.

परिमाण-शब्द- -ब्दानाम् पावा
 ५, २, ४५.
 परिमाण-शास्त्र- -स्त्रम् मीसू
 १०, ५, २१.
 परिमाणा (ए-आ) ख्या-
 -ख्यायाम् पा ३, ३, २०; पावा
 ३, ३, ३६.
 परिमाणा(ए-अ)-न्त- -न्तस्य पा
 ७, ३, १७; पावा ७, ३, १५
 परिमाणा(ए-अ)भाव- -वात्
 बौश्रु ६ : १७.
 परिमाणा(ए-अ)र्थ- -र्थम् अप
 ३ : ३; पावा १, ४, १३ × ×.
 परिमाणा(ए-आ) ह्वान- -नम्
 द्राश्रौ १, ४, २८; लाश्रौ १, ४, २३.
 परिमाणिन्- -गिना पा २, २,
 ५; पावा २, १, ५१; -गिनि
 पावा ५, १, ५८; ५९.
 परि-माय माश्रौ ५, २, १२, ५.
 परि-माय्य- -य्यम् सु १५, १.
 परि-मित, ता- -तम् कागृ ४, ९;
 -ता या १३, ९^१; -तः आश्रौ
 १०, ५, १६; आपश्रौ १, ५, ५;
 भाश्रौ; -तानाम् आश्रौ १०, ५,
 १६; -तानि बौध २, १०, ६६^३ १;
 या १३, ९; -ते शाश्रौ ४, १५,
 ८^d; हिश्रौ १०, ३, ३.
 परिमित-काल^१- -लम् अप ७२,
 ४, ७.
 परिमित-अस्य^१ -स्यः आश्रौ
 ५, १५, १५; शाश्रौ ७, २, १, ७.
 परि-मार्जन- प्रष्ट. परि√मृश द.
 परि√मि (प्रक्षेपणे), परिमिनोति
 आपश्रौ ११, ७, ७; परिमिनुयात्
 हिश्रौ ११, ६, ५९.

a) वैप १ द. b) पासे. वैप १, १९४१ k द. c) प्रास. वा बस. वा । d) वा. क्वि. ।
 e) वैप २, ३ खं. द. f) वैप १, १९४२ g द. । g) आपगृ. आपध. तैप्रा. पाठः । h) नाप. । इर्थः = स्वशान-
 इति भाष्यम् । i) विप. । बस. । j) उप. <√क्षेप् ।

परि-मित्य आश्रौ ७,४,२.
 परि-मित- प्रसृ. परि√मा द.
 परि√मिश्रि (< मिश्र-) > परि-
 मिश्रि(त >)ता- -ता काद्यु
 ७,१४.
 परि√मिह् > ऋपरि-मीढ- -ढः पायु
 ३,७, २३; भागु २, २७: १६३;
 हिगु १,१४,२.
 परि-मुख- पावाग ४,३,५८.
 पारिमुखिक- वा ४,४,२९.
 पारिमुख्य- पावा ४,३,५८.
 परि√मुच, परिमुच्यन्ते कौसू १३९,
 २८; परिमुच्ये सु १०,४.
 परि-मु(क्त >)क्ता- -कायाम् भागु
 १,२५: १५.
 परि-मोक्ष- -क्षः माशि १५, ६;
 नाशि २, ८, १०; -क्षम् कौसू
 १३९, २८; आपध २, २१, १२;
 हिध २, ५, १२१.
 परि√मुष् > परि-मोष- -षः बौश्रौ
 १७, ५०: २.
 परि-मोषण- -णम् आपध २, २८,
 ११; हिध, २, ६, ११.
 परि√मुह्^१, परिमोहयन्ति कौसू १३५,
 ९.
 परि-मोहिन्- पा ३, २, १४२.
 परि√मृ > परि-मूर्(र्ण >)णी^०- -णी
 काश्रौ १५, ३, २०.
 परि√मृज्, परिमाष्टि माश्रौ १, २,
 ३, २३; ६, १, ९; ४, १, २८; २,
 १४; वाश्रौ; परिमृजीत वागु ५,
 ३३; ३५; गोगु; परिमृज्यात्
 माश्रौ ३, १, २; वाध १२, १५;
 विध ७१, ३८; गौध १, ३९;
 परि-मृज्युः वाधूश्रौ ३, ९:

१०: ११; १३.
 परिमृजति आग्निगु २, ६, १:
 १३; १४; परि-मृजन्ति वाधूश्रौ
 ३, ९: १२; परिमृजामि वैगु
 १, ९: ११; १३-१५; परि-
 परिमृजामि आपमं २, ६, १;
 परि(परिमृजामि)आपगु ११, २२;
 परिमृजेत् बौगु १, २, ३२; ४२;
 वागु.
 परि-मार्जन- -नम् वाश्रौ ३, २, ७,
 ६४; हिश्रौ ८, ४, १३; शंघ;
 -नात् शंघ ४५७: ९.
 परिमार्जन-द्रव्य- -व्याणि बौध
 १, ६, ३६.
 परिमार्जन-प्रदाह-तक्षण-निर्णे-
 जन- -नानि गौध १, ३१.
 परिमार्जन-प्रभृति- -ति काश्रौ
 १२, ६, २५.
 परि-मार्ज्यं जैगु २, ६: ३.
 परि-मृजान- -नः हिध २, १, १०१^६;
 परि-मृज्य आश्रौ ८, १४, १४; काश्रौ
 ९, ४, २७; आपश्रौ; या ७, २३;
 परिमृज्यऽपरिमृज्य काश्रौ ९, ५,
 २३.
 परि-मृष्ट- -ष्टम् आपध १, १७, ११;
 हिध १, ५, ४३; -ष्टानाम् बौध
 १, ६, ३५; -ष्टे कौसू ७३, ९.
 परि√मृश, परिमृशति बौश्रौ ४, ४:
 २६^१; माश्रौ ७, ८, ६; वैश्रौ;
 परिमृशेत् बौश्रौ २१, १४: २४;
 २६.
 परिमामृशुः ऋग्रा ९, २६^१.
 परि-मर्शन- -नेन वाधूश्रौ ३, १०६:
 ४.
 परि-मृशत्- -शन् भाश्रौ ७, ८, ५.

परि-मृश्य काश्रौ ६, ३, ५; वैगु २,
 १६: २.
 परि√मृष् पा १, ३, ८२.
 परि-मोक्ष- परि√सुच द.
 परि-मोष- -षण- परि√सुष् द.
 परि√यज्, परियजति काश्रौ १०, ६,
 ८; आपश्रौ १३, १३, २०; बौश्रौ
 ८, १४: ८; वाधूश्रौ ३, १३: १७;
 परियजन्ति आश्रौ ५, १९, २;
 परियजेत लाश्रौ ८, ११, १२;
 ९, ४, १; २.
 परियक्ष्यसि बौश्रौ ८, १४: १^१;
 परियक्षसी ३ बौश्रौ ८, १४: २^१.
 परि-यष्ट- -ष्टुः बौश्रौ २७, ५: ९.
 परि(रि-इ)ष्ट- -ष्टः बौश्रौ १८, ५१:
 १७; २६; वैश्रौ २०, २६:
 ९; -ष्टस्य बौश्रौ २७, ५: ९^१,
 १२; १५; -ष्टम् वैताश्रौ २७,
 १७; -ज्ञाः काश्रौ १४, १, ९.
 परि√यत् > परि-यत् - -त्तः बौश्रौ
 १३, १२: ६.
 परि-यत्- -परी(रि√इ) द.
 परि√या, परियाति आपश्रौ १४,
 १२, १^१; हिश्रौ १०, ६, ९^१;
 कौसू १६, ४; ऋपरि-याति
 आपश्रौ १६, ६, ७; वाश्रौ २, १,
 ५, २०; हिश्रौ ११, १, ७३;
 परि(याति) वैश्रौ १८, ४:
 ८^१; ऋपरियाहि द्राश्रौ १०, २, ८;
 लाश्रौ ३, १०, ७; परि-यातम्
 या ३, २०^१; परियायुः द्राश्रौ
 १०, २, ४; लाश्रौ ३, १०, ४.
 परि-या(त >)न्ती- -न्तीः वैताश्रौ
 ३४, ९.

a) सपा. आपमं २, २२, ६^२ परिषीतः इति पाभे. । b) पा १, ३, ८९ परामृष्टः द. । c) वैप २, ३ खं. द. ।

d) सपा. आपध २, ५, १९ परीवृजानः इति पाभे. । e) = (सति ज्येष्ठे सोम-याजिन्-) कनिष्ठ-आत् । f) = परि-
 यष्टुर्ज्येष्ठ-आत् । g) = प्रधानयज्ञायन्तभाविन् । यज्ञ-विशेष- । प्रासं. । h) पाभे. वैप १, १९५३ d द. ।

परि-याय बौश्रौ १८, १० : २२; १७ : २७.
 परि√यु > परि-युत् -त्तः या २, ८.
 परि√युञ्ज् > परिं, लिङ्-योग-
 पावाग ८, २, १८^१.
 परि√रञ्ज्, पर्येक्षत् या १०, १०.
 परि-रक्षित- (> ०तिन्- पा.) पाग
 ५, २, ८८.
 परि√रट् > परि-राट्क- पा ३, २,
 १४६.
 परि-राटिन्- पा ३, २, १४२.
 परि-रथ^१- (> पारिस्थ- पावा.)
 पावाग ४, ३, ५८.
 परि√रम् पा १, ३, ८३.
 परि√राप्^१ > परि-राप्^१- रापः
 ऋप्रा ९, ४८^१.
 परि√रिह् (= √लिह्), परिरेरिहस्व
 कागृ ४१, ११^१.
 परि√रुञ्ज् > परि-रुजत्-जन् अञ्च
 १६, १^१.
 परि^१- (> पारिल- पा.) पाग ४,
 १, ११२.
 परि√लिख्, परिलिखति काश्रौ ६,
 २, ८; ७, ६, १७; १६, २, २३;
 आपश्रौ; परिलिखेत् काठश्रौ
 ९२; बौश्रौ.
 परि-लिखत् -खतः बौश्रौ २६,
 २४ : ४; -खन् बौश्रौ २०,
 २६ : २.
 परि-लिखित, ता- -तम् आपश्रौ
 ७, ४, २; १०, २३, २; ११, ११,
 २; बौश्रौ; -ताः आपश्रौ ७,
 ४, २; १०, २३, २; ११, ११, २;
 बौश्रौ; -ते वाध १३, १२.
 परि-लिख्य काश्रौ ८, ८, ११; आपश्रौ.

परि-लिख्यमान- -नम् वैताश्रौ २८,
 ८.
 परि-लेखन- -नः आपश्रौ ७, ९, ७;
 १४, ५, १६; हिश्रौ ९, ८, १०;
 -नम् बौश्रौ २०, २६ : १०××;
 हिश्रौ ७, ६, २; ७, ४; -नात्
 काश्रौ ८, ५, १; -ने बौश्रौ २०,
 २ : २४; २६ : १××.
 परि√लिप्, म्प्, परिलिम्पेत् बौश्रौ
 २०, १६ : ५६.
 परिलेपयति बौश्रौ २, १६ : ६;
 १०, १९ : १५.
 परि-लिप्त- -से कौस् ७३, १^१.
 परि-लिप्त्र बौश्रौ २३, ८ : १२;
 १३××; वैश्रौ.
 परि-लेपन- -ने बौश्रौ २०, १६ :
 ५५.
 परि√लुप्, परिलुप्यते हिश्रौ २, ७,
 ६८; ऋप्रा २, ११; परिलुप्येरन्
 मीस् १२, ४, २९.
 परि-लुप्त- > ०स-कृत्^१- -त्याय
 वाध २, ४३; बौध १, ५,
 ८१.
 परिवंश- (> ०शक- पा.) पाग ४, २,
 ८०.
 परि√वच् > परि-वाचन- > ०ना-
 (न-अर्थ)- -थानि निसू ६, ९ :
 ४.
 पर्यु(रि-उक्त >) क्ता- -क्ता अञ्च ४,
 ११^१.
 परि-वत् (> ती^१- -स्यः निसू २, ११;
 १५; -स्या निसू ८, ६ : ३०.
 परि-वत्सर^१- पाठश्रौ २, ३, ७०; -रः
 आपश्रौ १७, १३, २^१; १९, १२,
 २३; बौश्रौ; -रम् वैश्र ५, ७ : ५६;

-राः आपश्रौ ८, २१, १, बौश्रौ
 ५, १८ : २०; माश्रौ १, ७, ८, ८;
 वाश्रौ १, ७, ५, ४; हिश्रौ ५, ६,
 ४; -राय माश्रौ १, ६, ४, २१;
 वाश्रौ १, ५, ५, ७; वैताश्रौ; -रे
 आपश्रौ १६, ३१, १; वैश्रौ १८,
 २० : ४९; हिश्रौ ११, ८, ४;
 निसू ५, १२ : १९; -रेभ्यः वैश्र
 २, १२ : ११.
 परिवत्सरा(र-अ)न्त- -न्ते वैश्र ५,
 १५ : ११.
 परिवत्सरीण, णा^१- पा ५, १, ९२;
 -णाम्^१ आपमं २, २०, ३४;
 आप्तिनृ ३, २, २ : ५^१; मागृ २,
 १५ : ७; हिश्र २, १४, ४^१;
 -णाम्^१ आपश्रौ ८, ७, ८; बौश्रौ
 ५, ९ : ३३; १४, ३० : ३; माश्रौ.
 परिवत्सरीय, या- पा ५, १, ९२;
 -यस् मागृ २, ८, ४^१; -यथा
 माश्रौ १, ६, ४, २१; वाश्रौ १,
 ५, ५, ७; -याम् माश्रौ १, ७,
 ४, ४९^१.
 परि√वद्, परिवदन्ति आपश्रौ
 २१, ११, १३; हिश्रौ १६, ४, ३३;
 दाश्रौ ९, ४, १६; परिवदयुः
 हिश्रौ १६, ४, ३५.
 परि, री^१-वाद् -द् बौश्रौ १८, ३४;
 २१; -वद्^१ आपमं १, १३,
 ५; बौश्र ४, २, ११; मागृ
 २, ३१ : १० अप १, २६, ४;
 बौध; -दान् आपध १, ३१, ८;
 हिध १, ८, २६.
 परि-वादक- पा ३, २, १४६.
 परि-वादित- (> ०तिन्- पा.) पाग
 ५, २, ८८.

१) तु. पागम. १) वैप १ द्र. १) व्यप. १ व्यु. ? १) विप. १ बस. १) ऋच्- १) पामे. वैप १, १९४४ d द्र. १) पामे. वैप १, १९४४ g द्र. १) शोचः वैप १, १९४४ g द्र. १) पामे. वैप २, ३४. तैत्रा १, ४, १०, २ टि. द्र. १) आपमं. आपम. हिधः पाठः १) पामे. वैप १, १९४४ j द्र. १)

परिवंद्यतायाः^a वाश्रौ ३, ३, १, ३६.
 परि✓वप, परि...वपते बौश्रौ ५, ४:
 २५, ९; २६××; परिवपति माश्रौ
 २, ३, ४, १८; वाश्रौ १, ६, ३, १६;
 वैश्रौ १८, १२: ११; परिवप
 पागृ २, १, २०; कौसू ५४, १.
 परि L, शी^b]-वाप- पागृ ४, २,
 ८०^c; -प: आश्रौ १२, ८,
 ३३^f; आपश्रौ १२, ४, १३^f;
 काठश्रौ ११३; वैताश्रौ १६,
 १७; शुप्रा ३, १२९^f; -पम्
 आपश्रौ १२, ४, ६; बौश्रौ ७,
 १२: ४; २५, २०: ४; -पस्य
 बौश्रौ ७, १२: ९; वैश्रौ १५,
 २५: २; -पात् माश्रौ २, ४, ६,
 २६^f; -पाय माश्रौ २, ३, २,
 २; ७, ८.
 परिववाप-मिश्र^d- -अस्य शाश्रौ
 ८, २, १३.
 परिववाप-लाज- -जान् वैश्रौ १५,
 ४: ६; हिश्रौ ८, १, ५०.
 परिववापिक- -पिन्- पा ४, २,
 ८०.
 परिवा(प्य>)प्या^e- -प्यायै
 काश्रौ ८, ९, २५.
 परि-वापण[L, न]- -नम् माश्रौ १, ५,
 १, ११; जैगृ १, १९: ७; आपध
 १, १०, ६; हिध १, ३, ३५; -ने
 पा ५, ४, ६७.
 परि-वाप्य कौगृ २, १, २६; शांगृ २,
 १, २६.
 परि-वाप्यमान- -नाभ्याम् वाश्रौ

३, ४, ४, २४.
 पर्यु(रि-उ)स, सा- -स: लाश्रौ १०,
 १५, १६; -सा: वैश्रौ १८, १२:
 १५^f.
 पर्युस-शिरस^f- -रसम् पागृ २,
 २, ५.
 पर्युसिन्- -सिन्म् वागृ ५, ६.
 परि-वपस्वेदं वृञ्जन्तु^a कौगृ ३, ५,
 ४.
 परि-वपा^d->^वप्य^l- -प्य: हिश्रौ ९,
 ८, ३७^g; १३, १, २४^g; -प्यम्
 आश्रौ ७, २०, ९; २१, २;
 भाश्रौ; -प्यौ शाश्रौ १५, १,
 २६^h; आपश्रौ १४, ७, ५; वाश्रौ
 ३, ४, ४, २४; वैश्रौ १७, १०: ९;
 मागृ २, ४, ६.
 परिवप्य-महिम्- -मानौ
 आपश्रौ २०, १९, २; ६.
 परि-वर्जित-^वर्ज्यं परि✓वृज् द.
 परि-वर्त- प्रभृ. परि✓वृत् द.
 परि-वर्त्मन्^l- -र्त्मा^m कौसू ४४, २९.
 परि-वर्मन्^l- -र्मा द्राश्रौ १०, २, ७;
 लाश्रौ ३, १०, ६.
 परि✓वस(निवासे), परिवसति काश्रौ
 १२, १, २१; परिवसन्ति वाध
 २६, १२; परिवसेत् भाश्रौ ७,
 ४, ५; ६, १.
 परिवसयेत् आगृ २, ८, ४.
 परि-वासⁿ- -सम् हिश्रौ १२, ८,
 २४^g; -सा: निसू ६, ६: १.
 पर्यु(रि-उ)षित- -तम् गोगृ ३, ५,
 ९; जैगृ १, १९: २७; वाध;

-ता: बौध २, १, २१; -तै:
 आपध १, ११, ४; हिध १, ३, ६१.
 पर्युषित-भोजन- -नम् बौध १,
 १, १९.
 पर्युषित-भोजिन्- -जि शंघ
 ३७७: १६.
 परि✓वस् (छन्दे), परिवासयति
 आपश्रौ ७, २, १०; बौश्रौ ४, १:
 २९××; भाश्रौ.
 परि-वासन->^नशकल- -लम्
 आपश्रौ १, ६, ८; १३, १५;
 वैश्रौ ३, ५: १०.
 परि-वासित- -त: आपश्रौ १५, ५,
 १९; भाश्रौ ११, ५, २१; हिश्रौ
 २४, २, ६; -तानि वैश्रौ ३, ५:
 ५; -तेन भाश्रौ ११, १०, २.
 परि-वास्य काश्रौ ६, १, २३; ६, १२;
 आपश्रौ.
 परि✓वह, परिवहति आपश्रौ १८,
 १२, २; २०, १६; हिश्रौ १३,
 ४, १६; ७, ५; परिवहन्ति
 आपश्रौ १८, ११, ४; बौश्रौ ६,
 १६: ९; परि...वहामि सु ७,
 ५; परि...वहन् आपसं १, ५, ३;
 ८; १३; पागृ; परिवहेत् बौश्रौ
 २१, १२: २४; २२, १७: १८;
 परिवहेयु: माश्रौ ५, २, १०, २८;
 वाश्रौ ३, ४, १, ५.
 परि...वक्षि^o आपश्रौ १५, १४,
 ४; बौश्रौ ९, १४: ११; भाश्रौ
 ११, १४, ५.
 परि-वहण- -णे बौश्रौ २१, १२: २४.

a) पाठः? परिवतायाः इति शोधः (तु. संस्कृते: टि., सप्र. आपश्रौ १८, १०, १४ वावातायै इति च) ।

b) काठश्रौ. वैताश्रौ. शुप्रा. पाठः । c) अर्थः? । d) पू. = दधि- इति भाष्यम् । e) अर्थायै यत् प्र. ।
 f) माश्रौ. पाठः । g) विप. । बस. । h) पाठः? सपा. शांगृ ३, ९, १ परि वः सैन्याद् वधाद् व्यावृजन्तु इति ।
 i) प्रास. । j) = (वपाहोमाद्यन्तभावित्-) होम- । तस्येदधीयः यत् प्र. । k) 'वा' इति पाठः? यनि. शोधः (तु.
 C., आपश्रौ ७, २०, ९ च) । l) वैप १ द्र. । m) वा. किवि. । n) भाप. [तु. काश्रौ २२, १, २१] । o) पामे.
 वैप १, १९४५ a द्र. ।

ऋपरि-वाहि(न>)णी- णीः
 आपश्रौ १८, १३, ९; वाश्रौ ३,
 ३, २, १४; हिश्रौ १३, ५, १४.
 पर्थु(रि-उ)ह्य काश्रौ १५, ४, ३;
 आपश्रौ ११, १३, ७; काठश्रौ १६.
 पर्थु(रि-उ)ह्यमाण- णाय शाश्रौ ५,
 ६, १; काश्रौ ७, ९, १३; णे
 काश्रौ १४, १, १६.
 पर्थु(रि-उ)ह्यमा(न>)ना- ना या
 १२, १११.
 परि-वाचन- परि√वच् द्र.
 परि-वाद- प्रभृ. परि√वद् द्र.
 परि-वाप- षन- प्रभृ. परि√वप् द्र.
 परि-वार- प्रभृ. परि√वृ(आच्छादने)
 द्र.
 परि-वास- परि√वस् (निवासे) द्र.
 परि-वासन- प्रभृ. परि√वस्(छेदने)द्र
 परि√विद् (ज्ञाने), परिवेद ऋश्रौ
 १९, ७ : ५; २४.
 परिवेदयन्ते या १४, २२.
 परि√विद् (लाभे), परिविन्दति बौध
 २, १, ३९.
 परिविद्यते शंघ ३९८; विध ५४,
 १६.
 परि-वित्त^a- -त्तः वैश्रौ २०, २६ :
 ९; बौध २, १, ३९^२; अश्रौ २, ३,
 १६^१; -त्तस्य बौश्रौ २७, ५ :
 ७; -त्ते बौध ४, ६, ७.
 परि-वित्त^c- -न्तिः कप्र १, ६, २;
 वाध १, १८; २०, ७; शंघ; -त्तिम्
 वैश्रु ६, १३ : ७.
 परिवित्ति-ता- -त्ता विध ३७,
 १५; सुयप ८६ : १.
 परिवित्ति-परिविविदान- ऋ

कौसू ४६, २६.
 परिवित्ति-परिवित्- -त्तारौ कप्र
 १, ६, ३.
 परि-विन्दत्- -न्दन् कप्र १, ६, ६.
 परि-विन्न^d- -न्नः वैश्रौ २०, २६ : ९;
 -न्नस्य बौश्रौ २७, ५ : ७.
 परि-विविदान^e- -न्तः वैश्रौ २०, २६ :
 ९; वाध २०, ८; -न्तस्य बौश्रौ
 २७, ५ : ८.
 परिवेत्^f- -त्ता वैश्रु ६, १३ : ७;
 कप्र १, ६, २; वाध.
 परिवेदन- -न्तम् विध ३७, १६;
 -न्ते अश्रु २३, १२, ३; ४.
 परि√विश्व, परिविशति आग्निश्रु ३,
 २, ३ : ११; ६ : १३××; परि^g
 विशन्ति वाधुश्रौ ४, २६^३ : ३;
 परिविशन्तु वाश्रौ १, ३, १, ५^१;
 पर्यविशन् वाधुश्रौ ४, २६^३ : १.
 ऋपरिविशय^h माश्रौ १, २, ३, ४;
 वाश्रौ १, ३, १, ५.
 परि-विश्व आग्निश्रु ३, २, ३ : ११;
 ६-७ : १३.
 परि√विष्, परिवेष्टि वैश्रौ १८,
 १२ : ७^१; हिश्रौ १०, १, २;
 हिश्रु १, २३, ५; २, १४, ८; परि^g
 वेष्टि वाधुश्रौ ४, २५ : ९; परि-
 वेष्टिन्ति आपश्रौ १०, ३, ७.
 परिविष्येयाताम् अश्रु ७२, २, १.
 परिवेषयेत् भाश्रु २, ४ : १६; ६ :
 १३; ३२ : ८.
 परि-विष्, षा- -ष्टः अश्रु ६३, ३, ४-६;
 ४, ४; -ष्टम् वाश्रौ १, ३, ७, ७^१;
 -ष्टश्रोः अश्रु ६३, ३, ६; -ष्टा
 वाधुश्रौ ४, २६^३ : ३; -ष्टा^१

बौश्रौ ४, ६ : ४५; माश्रौ ७,
 १४, १; -ष्टे अश्रु ६३, ४, २;
 ३; -ष्टेषु अश्रु ६३, ३, ८.
 परि-विष्ण वाधुश्रौ ३, १८ : ८;
 आग्निश्रु १, १, १ : ६××; बौश्रु;
 जैश्रु २, ६ : ८^१.
 परि-विष्यत्- -ष्यतोः कप्र १, ५, ८^१.
 परि-विष्यमाण- णे गोश्रु ४, ५,
 २९; द्राश्रु ४, १, १४.
 परि-वेष^h- -षः माश्रौ ८, १७, ६;
 अश्रु ६१, १, २७××; -ऋषम्
 आपश्रौ १, ६, ७; माश्रौ १, ६, १०;
 हिश्रौ १, ३, २; -षाः अश्रु ६८,
 ५, १५; -षाणाम् अश्रु ६१, १, १;
 ६३, १, ४; -षान् अश्रु ६३, १, ३;
 ३; ४, १०; -षे अश्रु ६३, १, १०;
 २, ४; आपध १, ११, ३, १; हिध
 १, ३, ८२; -षेषु अश्रु ५२, ७, ३;
 ६१, १, ४; -षैः अश्रु ६५, २, ३.
 परिवेष-ग(त>)ता- -ता अश्रु
 ६३, २, ९.
 परिवेष-रजो-भूम- -माः अश्रु
 ६४, ९, १.
 परि-वेषक- पाश्रु २, २, ९^m.
 परि-वेषण- -णाय जैश्रौ १ : २१.
 परि-वेष्ट- -ष्टा बौश्रु २, ११, ६६;
 -ऋषारः शाश्रौ १६, ९, १६;
 माश्रौ ७, १४, १; बौश्रौ ४, ६ :
 ४५; अश्रु ९, ६(६); -ष्टारम्
 वाधुश्रौ ४, २६^३ : ४.
 परि-वेष्ण वैश्रु २, १ : ५.
 परि-वी- ष्वीत- प्रभृ. परि√व्ये द्र.
 परि√वृ (आच्छादने), परिवारयन्ति
 गोश्रु ४, २, ३; परिवारय शौच

a)) वैप १ निर्दिष्टानां समावेशः द्र. । b) पासे. वैप १, १५४२ k द्र. । c) = परि-वित्त- । उप. प्र.
 भेदः । d) = परि-वित्त- । e) वैप १ द्र. । f) = परि-विविदान- । g) पासे. वैप १, १९४४ n द्र. ।
 h) वेष्टि इति पाठः ? यनि. शोचः । i) पासे. वैप १, १९४५० द्र. । j) ष्यत् इति पाठः ? यनि. शोचः । k) ष्यतोः
 इति B. ? , ष्यतोः इति जीसं. ? । l) भाष. > नाप. । m) तु. [पक्षे] पाका. पासि. च । परिवेषक- इति पासे. ।

३,६५[†].परि-वार- -रः^a आपश्रौ २२, १२, ७^b; -रस्^c वाध १६, २६^d; -रात् वाध १६, २४^e; शंघ २४३.

परि-वार्य काश्रौ ८, ३, २४; ६, ९; काण्

परि-वार्यमाण- -णयोः द्राश्रौ १४, ४, १६; लाश्रौ ५, ८, १५.

परि-वृत्- -तः बौश्रौ १८, ४५:

२५; वैश्रौ १८, १५: १७[†];

कौसू; पा ४, २, १०; -तम्

काश्रौ ५, ८, २१; २६, १, १३;

गोय ३, ४, ७; ऋप्रा ९, १८[†];

-तस्य गोय ४, २, ८; १६; -ता

अप ५८[†], ३, ३; -ताः अप५८[†], ४, १०; -ताम् जैय २, ९;

३८; -ते काश्रौ ७, १, २०××;

पाण् ३, ३, १०; द्राण् ३, १, १.

प(रि >)री-वृत्, ता- -[†]तः

आपश्रौ १६, १८, ६; हिश्रौ ११,

६, ३०; अत्र १७, १[†]; -[†]तम्

आपश्रौ १७, २१, ७; बौश्रौ १९,

७: ३३; हिश्रौ १२, ६, २६; ऋप्रा

९, ६; -तात् अप्रा ३, ४, १.

परि-वृत्त[†]- -क्षाणि कौसू ८०, २.

परि√वृत्, परिवृणक्ति वाधुश्रौ ३,

३३: ४; [†]परि...वृणक्ति बौश्रौ

६, १६: ११; बौय ४, ४, १०;

परि (वृणक्ति)शुप्रा ४, २७[†];[†]परि...वृणक्तु आपश्रौ १, २, ८;

बौश्रौ १, १: १४; माश्रौ; या

१०, ७; [†]परि (वृञ्जन्तु) आपश्रौ

२२, २८, २३; बौश्रौ १८, १७:

२५; हिश्रौ २३, ४, ६२; परि-

वृङ्गिग्ध आपश्रौ २०, १६,

१२[†]; परिवृङ्गि हिश्रौ १४,३, ३६[†]; शुप्रा ६, ३०.परिववर्ज काण् ३१, २[†].

परिवर्जयेत् आपण् ३, १०; १३;

अप.

परि-वर्जित- -तः शंघ ४६१.

परि-वर्ज्य- -र्ज्यम् वाध १४, १४.

परि-वृक्त, क्ता- -क्तः अप ५३, २,

५; -क्तम् बौश्रौ १५, ३०:

२५; अप ७२, ३, ८; -[†]क्ता[†]

शाश्रौ १२, २१, २; काश्रौ २०,

१, १२; ५, १५; अप्रा ३, २,

१८[†]; -क्ताः[†] शाश्रौ १६, १३,१०[†]; -क्ताम्[†] शाश्रौ १६, ४, ३.परि-वृक्ति, क्ती[†]- -क्तिः हिश्रौ १४,

३, २२; २३; -क्ती आपश्रौ २०,

१५, ७; १०××; बौश्रौ; -क्तीम्

आपश्रौ २०, १०, २[†]; लाश्रौ

९, १०, ५; -क्त्यै बौश्रौ १२,

५: २२; २६, १: १३.

प(रि >)री-वृञ्जान- -नः आपण्

२, ५, १९[†].

परि-वृढ- परि√वृह् द्र.

परि√वृत्, परिवर्तते आपश्रौ ५, १४,

६; २१, १४, ४××; माश्रौ;

परिवर्तते या १४, ४; परिवर्तन्ते

हिश्रौ १६, २, १२; ७, २२;

परिवर्तते वैश्रौ २०, २९: ७.

परिवर्तयति वैश्रौ १, १२: १९[†];

परिवर्तयन्ति अप ७२, ४, ४;

माशि १६, ४; [†]परिवर्तये[†]

आपश्रौ ८, ४, २; बौश्रौ; परि-

वर्तये[†] माश्रौ १, ७, २, २३; [†]पर्य-वर्तयत्[†] आपश्रौ ८, ८, २१;

बौश्रौ ५, ९: २६; १७: १४;

हिश्रौ ५, २, ७०; [†]परिवर्तयेत्

माश्रौ ५, ८, ८; माश्रौ १, ५, ४,

१६; ५, २, १५, २७; द्राश्रौ.

परि-वर्त[†]-> [†]क्त[†]- -केन वाध

२, ३९.

परि-वर्तन- -नम् वाध १६, ११.

परि-वर्तमान- -नः शाश्रौ १७,

१५, ४; -नम् या १४, ५; -ने

वैश्रौ १७, १३: ९; हिश्रौ १३, १,

५३; या ४, २७[†].

परि-वर्तयत्- -यन् द्राश्रौ १५, ४,

१२; लाश्रौ ५, १२, १८.

परि-वर्ति(त >)ता- -ता माशि

१६, १.

परिवर्तित-वासस[†]- -ससः विध

१९, ८; १८; -साः विध ६४,

२५.

परि-वर्तिन्- -र्तिनः वृदे ४, ३४.

परिवर्तिनी[†]- -नी[†] विध ९८, २;

-नीम् निसू १, १०: १३; -न्या

लाश्रौ ६, २, १६; -न्याः लाश्रौ

६, ६, १०.

परिवर्तिनी-पर्याय- -यी

लाश्रौ ६, ७, १; १४.

परिवर्तिनी-विधान- -नम्

लाश्रौ ६, १, १८.

परि-वर्त्य काश्रौ ६, ९, १७; द्राश्रौ;

a) = उत्तरीय-वस्त्र-। b) सप्र. वैयाघ्रः परिवारः <> वैयाघ्रपरिच्छद् इति पाभे.। c) = परि-जन-।

d) सप्र. शंघ २४३ तपरिवारम् इति पाभे.। e) पाभे. वैप १, १९४६ b द्र.। f) णिवृ इति पाठः? यनि.

शोधः (तु. शौ १७, १, २८)। पाभे. वैप १, ७१३ d द्र.। g) विप.। बस.। h) पाभे. वैप १, १९३३ b द्र.।

i) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र.। j) वैप १ द्र.। k) पाभे. वृ १५२१ d द्र.। l) पाभे. वैप २, ३खं.।

परिवर्तये तैत्रा १, ५, ५, १ टि. द्र.। m) सपा. माश्रौ १, ७, ५, ५१ पर्याय इति पाभे.। n) = परि-वर्तन-।

o) स्वार्थे प्र.। p) = विष्टुति-। q) विप. (वसुमती-।

परिवर्ध्ऽपरिवर्ध् काश्रौ २५,
८,१.
परि-वृत्ति,ची- -त्तिः मीस् १०,५,
८६; -चीम् काश्रौ १५,३,२१^६;
-त्तौ आपध २,२, ३; हिध २,
१, ५; मीस् १०, ५, ८५;
-च्यै काश्रौ १५,३,१४^६.
परि-वृत्य कौट २,१,२९.
परि√वृश्च् (< व्रश्च्), परिवृश्चति
वैश्रौ १०,२ : ५.
परि√वृह् > परि-वृह L. ६^७ पा ७,
२,२१; पाग ५,१,१२३; -ढः या
१,८; ६,१७; -ढम् या १,७; ८.
परिवृह्य- पा ५,१,१२३.
परिवृह-निपातन- -नम् पावा
७,२,२१.
परिवृत्त- (> ंत्त-क- पा.) पाग ४,
२,८०.
परि-वेत्- , वेदन- परि√विद्
(लाभे) द्र.
परि-वेष- परि√विष् द्र.
?परिवेषः^६ अप ६८,२,४.
परि-वेषक-, षण- परि√विष् द्र.
परि√वेष्ट्, परिवेष्टयति हिश्रौ १३,
१, ९; जैश्रौ ६ : १४; आश्रिण्ट
१,७,१:८; २,४,९ : १५; बौपि
३,३,२; या ९,१५; परिवेष्टयतः
हिश्रौ ७, ५, १९; परिवेष्टयन्ति
आपश्रौ ११, ७, ५; परिवेष्टयेत्
भाग २,२७ : ६.
परि-वेष्टयित्वा आश्रिण्ट २,४,६ : ८.
परि-वेष्टित- -तः अप ६३, २, ६;
वाध २१, १८; काशु ७, २३;
-तम् अप २१, ५, ४.

परिवेष्टित-शिरस्^६- -राः वाध
१२, १३.
परि-वेष्ट्य शंश्रौ ४,१५, २२; ७,
१५,२; काश्रौ.
परि-वेष्टृ- परि√विष् द्र.
परि-व्याघ^६- -घः आश्रु २,७,६.
परि-व्या(वि-श्चा)√वृज्, परि-व्या
वृजन्तु शांश्रु ३,९,११.
परि-व्या (वि-श्चा)√हृ > परि-व्या-
हरत्- -रन् वैश्रौ १८,३ : ११.
परि√व्ये, परिव्ययति शंश्रौ १७,
१०,१०; काश्रौ; ऋपरिव्ययामसि
वैश्रौ १९, ६ : ५४; हिश्रौ १२,
४,१; ऋपरि-व्ययन्ताम् बौश्रौ
४, ४ : ३८; माश्रौ ७, ९, २;
परि(व्ययन्ताम्) बौश्रौ ४, ४ :
३८^१; ऋपरि-व्ययस्व आश्रु
४,३, १९; आश्रिण्ट ३, ५, ७ :
२४; ७, ३ : १५; बौपि १, ७ :
१; २, १, ७; परिव्ययेत् बौश्रौ ७,
११ : ७; २४, ३५ : ४.
परिव्ययत ऋप्रः १४, ५८^१.
ऋपरि-वी^६- -वीः काश्रौ ६, ३,
१३; आश्रौ ७, ११, ५; बौश्रौ.
परि-वीत्,ता- -तः आश्रौ ३, १, ९;
आश्रु १, २०, ९; पाग; या २, ८;
-ताम् बौश्रु २, ५, १४; वाश्रु ५,
७; -तायाम् माश्रु १, २२,
१०.
परि-वीय काश्रौ ८, ८, १५; आपश्रौ;
पा ६, १, ४४.
परि-वीयमाण- -णाय शंश्रौ ५,
१५, ४; काश्रौ ६, ३, १३; आपश्रौ.
परि-व्ययण- -णात् काश्रौ ६, ३, ५;

आपश्रौ ७, १०, ५; बौश्रौ; -णे
बौश्रौ २०, २६ : ५०.
परिव्ययणी^६- -णीम् आश्रिण्ट
३, ८, १ : ५^१.
परिव्ययण-काल- -ले काश्रौ १४,
१, २०.
परिव्ययण-देश- -शम् काश्रौ ६,
३, ५.
परिव्ययणा (ण-श्चा)दि- -दि
आश्रौ ५, ३, ५; काश्रौ ९, ८, १;
१०, ९, १३.
परिव्ययणा (ण-श्चा)न्त^६- -न्तम्
वाश्रौ ३, २, ६, १६.
परिव्ययणी(य >)या- -या
शंश्रौ ६, ९, ४; -याम् आश्रौ ५,
३, ६; शंश्रौ ६, ९, ६; ७.
परिव्ययणीया (य-श्चा)दि-
-दि शंश्रौ ६, ११, १७.
परिव्ययणो(स-ञ्) पाकरण-
नियोजन-प्रोक्षण- -णानि पाश्रु
३, ११, २.
परि-व्ययत्- -यन् बौश्रौ ४, ४;
३७; ७, ९ : २; वैश्रौ १०, ९ : ९;
बौश्रु २, ५, १३.
परि-व्याण- > णा(स-श्चा)न्त^६-
-न्तम् मीस् ५, २, ७.
परि√व्रज्, परिव्रजेत् आश्रिण्ट २, ७,
१० : १७; बौध २, ६, १८.
परि-व्रजत्- -जन् आश्रौ ६, १०,
१७; आश्रु २, ८, ११×४.
परि-व्रजन- -नम् शंश्रु १६१.
परि-व्रज्य आश्रौ ४, ६, १; ५, ३, १८;
७, १; गोश्रु २, २, ८.
परि-व्राज्^६- -पाठ २, ५९; पावा ८,

a) = पतिपुत्ररहिता-स्त्री- इति विवाधरः । b) या १, ७; ८^२ पाठः । c) पाठः? (परि√विष्
> व्वापि) परि-विश्य इति शोधः । d) विप. । बस. । e) नाप. । अर्थः व्यु. च? < परि√व्यध् इति
अस्मा. ३४. १ । f) वैप १ द्र. । g) = व्रज्- । h) सपा. बौपि १, १४; ४ परिव्रज्यमीम् इति पाठे. । i) पूष-
= परिव्ययण- । j) कर्तरि कृत् ।

२, ३६^६; -व्राजः आपध २, २१,
७; हिध २, ५, ११६.

परिव्राट्-कौशिक- पा, पाग २,
४, १४.

परि-व्राज^७- जेन आमिष्ट २, ४, ९;
१३.

परि-व्राजक- पाग ५, १, १३०; -कः
बौध २, ९, १७; वाध १०, १;
बौध २, ६, १४; १८; या १,
१४; -कस्य बौपि ३, ११, १;
-काः या २, ८.

परिव्राजक^८- पा ५, १,
१३०^१; -कः कौसू ९२, १०.

परिव्राजक-कौशिक- पा, पाग २,
४, १४.

परिव्राजक-चारण-वानप्रस्थ-ब्रह्म-
चारिन्- रिणाम् अप ७२, ४, १.
परिव्राजक-वानप्रस्थ- रथौ शंघ
२५८.

परि√शस् (हिंसायाम्) > परि >
री-शस्^९- सौ काश्रौ २६, २,
१०; ५, १२; ७, १७.

परि-शाल^{१०}- (> परिशाल्य-पावा.)
पावाग ४, ३, ५८.

परि√शिष्, परिशिनष्टि काश्रौ ४,
१४, ११; बौश्रौ ५, १०: १६××;
वैश्रौ; परि...शिनष्टि बौश्रौ १,
१५: ५; ४, ६: २; १६××;
बौश्रौ; परि...शिनष्टः बौश्रौ ५,
७: २; परिशिष्यात् बौश्रौ २५,
३२: १३; २४: ३०.

परिशिष्यते आश्रौ ९, ३, १३;
शांश्रौ १५, २७, १; १६, २२, १८;
बौध १, २, ५७^१; परि (शिष्यते)
अश्र १५, १२^१; परिशिष्यन्ते

वाधुश्रौ ३, ८६: ३; ४, ४६:
११; ९१: ३; आपद्य १८, ३;
५; ७; हिद्य ६, ८; ९; १२.

परि-शिष्ट, ष्टा- -ष्टः शांश्रौ १८, २०,
५; -ष्टम् आश्रौ ३, ११, ८;

भाश्रौ २, १६, १०; ७, १, ३;
अश्र १९^२, ५, ९; -ष्टाः शांश्रौ
१८, १०, २; ६; वाश्र १, १; -ष्टान्
आश्रौ ७, २, १०; ५, ८; १०,
२, ३०; हिश्रौ ७, २, ४३; -ष्टानि
चव्य २: २९; ३२; -ष्टायाम्
शांश्रौ १७, १७, ५; -ष्टासु शांश्रौ
१७, १४, ४; १५, ९; -ष्टे शांश्रौ
१०, ८, १४; -ष्टेन बौश्रौ ३,
१६: ३; -ष्टौ शांश्रौ ९, ५, ८.

परिशिष्ट-संख्या- -ख्यानाम्
वाग्य १, १.

परि-शिष्य शांश्रौ ५, ९, २५××;
हिश्रौ ५, ४, ७२.

परि-शेष- (> परिशेष्य-पा.) पाग
५, १, १२४^६; -षम् शांश्रौ १८,
२४, २४; -षात् शांश्रौ १२, ७,
१.

परि√शी, परिशेते बौश्रौ ९, ४:
२५; १७: १३××; वैश्रौ;
परिशेते आपश्रौ १, १४, ३;
८, १३, २०; बौश्रौ; परिशेते^६
आपश्रौ १२, २५, ७^१; बौश्रौ
७, १५: ६××; वैश्रौ; परिशयीत
बौश्रौ ६, २४: १३; परिशयी-
न् बौश्रौ २०, ६: १९; २१:
२५××.

परिश्राययन्ति बौश्रौ ९, २: ३२;
१२, ८: २६; वाश्रौ ३, १, १,
२१; २, ३३; परि...श्राययन्ति

बौश्रौ १८, २२: ३; परिश्राय-
यीत बौश्रौ २५, १६: १०;
परिश्राययेत् आपश्रौ २१, १०,
३; बौश्रौ २०, ४: ३६; २३, २:
१९; हिश्रौ १६, ४, १५.

परि-श्रायन- -नम् बौध १, ६, ३८;
-ने बौश्रौ २०, ६: १९; २१,
१३: ३३.

परि-शील^{११}- (> परिशील्य-पावा.)
पावाग ४, ३, ५८.

परि√शुध् > परि-शु(द्ध) > द्वा- द्वा
शंघ २३४.

परि-शुद्धि- -द्धयै वैग्य ३, २: २.

परि√शुष्, परिशोषयेत् आमिष्ट २, ७,
१०: ८.

परि√श्रि, परिश्रयति काश्रौ १७, १,
७; २१, ३, ३२; २६, ३, ९;
आपश्रौ; परिश्रयेते हिश्रौ १६,
६, २४; परिश्रयतः^१ हिश्रौ ७,
५, २९; ७, २१; परिश्रयन्ति
आपश्रौ १५, ५, २; २१, १७,
१९; बौश्रौ ५, १३: १५××;
भाश्रौ; परिश्रयस्व बौश्रौ ९,
७: १७; १९: २९; बौग्य ३, ४,
१९; परिश्रयेत् माश्रौ १, १, २,
१३.

परि-श्रयण^१- -णम् आपश्रौ ८, १४,
२५; ११, १०, १४^१; बौश्रौ;
-णानि आपश्रौ ८, १५, १; १६,
१६; बौश्रौ ८, २०: २७; १५,
२२: ११.

परिश्रयणी- -णीम् बौपि १,
१४: ४^६.

परिश्रयणा (ण-आ)वृत्- -वृता
माश्रौ ४, २, ४.

a) तु. आर्षव्याकरणम् । b) उप. भावे प्र. । c) विप. । तस्येदमीयः अण् प्र. । d) भाप. ।

e) = पात्र-विशेष- । करणो घञ् प्र. । f) अस. । g) तु. पागम. । h) प्रपुत्र त-लोपे रूपम् । i) सप्र.

अयतः <> श्रित्य इति पाभे. । j) भावायर्थे क्त. । k) पाभे. पृ १५२६ h द्र. ।

परि-श्रयत्- -यन्तः माश्रौ २, १, १,
९; हिश्रौ ७, १, २५.
परि-श्रित^१- -श्रितः काश्रौ १६, ८,
१७; २३; १८, ६, १३; वैताश्रौ
२२, ११; शुश्र २, १०९; -श्रित्सु
काश्रौ १८, १, १; -श्रिद्धिः
काश्रौ १७, १, ७; २१, ३, ३२.
परिश्रित्-स्पृश्- -स्पृक् काश्रौ
१८, ५, ६.
परि-श्रित- -तः बौश्रौ १५, १७ :
२६; -तम् आपश्रौ ८, १६, १०;
१०, ५, १; ११, ९, ४; बौश्रौ;
-तस्य आश्र २, ५, २; पाश्र २,
६, ९; -ताः आपश्रौ १७, २१,
६; वैश्रौ १९, ६ : १४१; -तात्
माश्रौ १, ७, ६, ४८; -ताम् वैश्रौ
१२, ४ : ९; -ते शाश्रौ ३, १६,
१६; आपश्रौ ३, ९, ३; ८, १५,
१८××; बौश्रौ; -तेन आपश्रौ
१०, २४, २; हिश्रौ ७, २, ३६.
परि-श्रित्य शाश्रौ १८, २४, १९;
काश्रौ २५, २, २; आपश्रौ ८,
१३, १५××; ११, ८, ४^b; बौश्रौ.
परि-श्रीघमाण- -णयोः शाश्रौ ५,
१३, ७.
परि√श्रु> परि-श्रुत- -न्तम् माशि
१५, १.
परिषा, षि^०क^०- (> परिषा, षि)
क-पा.) पाग ४, १, ११२^f.
परिषथोयः वाधूश्रौ ४, ७५ : २.
परि√ष (<सि)द्, षिपरिषीदन्ति
कौसु ५, ४; अयं २ : ५६.

परि-षद्^६- पाग ४, २, ६०; ११०^b;
३, ११८^c; ५, १, ९७^e; पावाग
३, ३, १०८; -षत् बौध १, १, ७;
गोध २८, ५०; -षत्सु आपध १,
११, ३८; हिध १, ३, ८९; -षदः
आपश्रौ ५, १९, ३; माश्रौ ५,
१२, १२; वाश्रौ; -षदम् हिद्य
१, १५, ८; द्राद्य ३, १, २५; कौसु
३८, १७; ३०; -षदि कौसु ३८,
२२; बौध २, १, ३५; -षद्भ्यः
बौद्य २, ८, ९^१.
परिषद- पा ४, २, ११०;
३, १२३; ५, १, ९७.
परिषदक- पा ४, ३, ११८.
परिषदिक- पा ४, २, ६०.
परिषद्य- पा ४, ४, ४४;
१०१.
परिषत्-त्व- -त्वम् वाध ३, ५;
बौध १, १, १०.
परिषद्-गामिन्- -मि शंथ ३००.
परिषद्-वल- पा ५, २, ११२.
परिषद्-घ^१- -०घ आपश्रौ ५, १२,
२; ६, ३, ४××; माश्रौ; -घः
शाश्रौ ६, १२, ७; आपश्रौ ११,
१४, १०; बौश्रौ; -घम् या
३, २^१.
परि-पवण- परि√षू द.
परि-पस्वजाना- परि√ष्वज् द.
परि√ष (<सि)ह पा ८, ३, ७०.
परिषाद्क^१- (> परिषादक- पा.)
पाग ५, २, ६१.
परि√षि (<सि)> परि-षय- पा

८, ३, ७०.

परि-षि, षी^१त^१- पा ८, ३, ७०;
-षीतः आपमं २, २२, ५; ६^२म्;
भाद्य २, २७ : १५; हिद्य १, १४,
२^१।

परि√षि (<सि)च्, ञच्, परिषिञ्चति
काश्रौ ५, ९, १२; १८, २, १××;
आपश्रौ; परिषिञ्चन्ति काश्रौ
१९, २, ८^१; बौषि १, ८ : ११;
शुश्रा ३, ६४^१; परि(षिञ्चति)
शुश्र २, ४२५^१; षिपरिषिञ्चामि^०
शाश्रौ २, ६, १०; ११; आपश्रौ;
षिपरि...सिञ्चत, > ता काश्रौ
१९, १, २२; आश्रौ १९, ५,
११; माश्रौ; परि (षिञ्चत) ऋश्रा
७, ३२; ११, ५; उनिस् ७ : १४;
परिषिञ्चेत् आपश्रौ १५, १४, ३;
१६, ३; बौश्रौ.
षिपरिषिच्यते आश्रौ ५, १२,
१५; शाश्रौ.
परि-षिञ्चत- -क्ते माश्रौ ४, ४, २५;
२६; द्राश्रौ.
परि-षिच्य काश्रौ २६, ७, १२;
आपश्रौ; परिषिच्यऽपरिषिच्य
काश्रौ ५, ९, १३; बौश्रौ २२,
९ : १२.
परि-षिच्यमान- -ने बौश्रौ ९, १४ :
१०; १६ : १५××; माश्रौ.
परि-षिञ्चत्- -ञ्चन् शाश्रौ १, १५,
११; आपश्रौ; -ञ्चन्तम् आश्र
१, २२, २१.
परि-षेक- -कः कश्र २, ४, १-५;

a) = (स्तम्भनार्थ-) पाषाण-खण्ड-। b) पामे. पृ १५२७ i द.। c) पाका. पाठः। d) व्यप.।
व्यु. ?। e) तु. पागम.। f) पार्षिका- इति [पक्षे] पागम., पार्षिका- इति भाण्डा. पासि.। g) = समिति-।
अधिकरणे क्त.। h) = ग्राम-विशेष-। i) पर्वद्- इति [पक्षे]. भाण्डा. प्रमृ.। j) वैप १ द.।
k) अर्थः व्यु. च ?। तु. पाका.। परि-सारक- इति भाण्डा. प्रमृ.। l) षि^० इति पा. पाठः।
m) पामे. पृ १५२१ a द.। n) षदः इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. भाद्य.)। o) पामे. वैप २, ३^१
तैत्र २, १, ११, १ टि. द.।

-कम् माश्रौ ३,५,५; बौघ्.
 परि-ष्वेचक- पाग २,२,९.
 परि-ष्वेचन- नम् काश्रौ २६, ७,
 ३५; आपश्रौ १५, १६, ८;
 बौश्रौ; -नात् बौपि २, ११, २;
 भागृ २, २: २; हिगृ १, ८, ३;
 -नाय वाश्रौ १, ७, ४, २४.
 परिष्वेचना(न-अ)दि^१- -दि
 माश्रौ ६, १४, १७.
 परिष्वेचना(न-अ)न्त^२- -न्तम्
 आपगृ ५, १३; ६, ४×४; भागृ.
 परि/षि, षीच्^b, परिष्विष्यति काश्रौ
 ८, ४, १४; माश्रौ १०, ५,
 १३; हिश्रौ ७, १, ४४; ५, ३१;
 ७, २१; परिष्विष्येत् बौश्रौ २१,
 १४: ३०; ३१.
 परि-ष्विवण- -णे बौश्रौ २१, १४:
 ३०.
 परिष्विवण-ग्रन्थयभिमर्शन-
 -नानि काश्रौ ८, ६, ९.
 परि/षू (<स्>^c), परिष्वीति आपश्रौ
 १, ३, ६; माश्रौ १, ३, ९; वैश्रौ
 ३, ४: ३; हिश्रौ १, २, २६.
 परिष्वुवति माश्रौ १, १, १, २९.
 परि-ष्ववण- -गात् आपश्रौ १, ४, ६;
 माश्रौ १, ३, २०; हिश्रौ १, २,
 ३९; -णे बौश्रौ २०, २: २३.
 परिष्ववणो(श-उ)स्सर्जन-वर्जम्
 वैश्रौ ३, ४: ८.
 परि-ष्वत्- -त्तम् आपश्रौ १, ३, ६;
 बौश्रौ; -तस्य वैश्रौ ३, ४: ४;
 हिश्रौ १, २, २८; -तान् आपश्रौ

१, ३, १०.
 परि-ष्वय आपश्रौ १, ३, ८; वाश्रौ १,
 २, १, १५.
 परि/षो (<से)च् पा ८, ३, ७०.
 परि/ष्वक, स्कन्द्^d > परि-ष्वकन्द-
 -न्दम् बौश्रौ १८, २४: १८.
 परि-स्कन्द- पा ८, ३, ७५.
 परि-षू (<स्>)/कृ^e, परिष्कृष्वन्ति
 ऋप्रा ४, ८७१.
 ऋपरिष्-कृष्वत्- -ष्वन् ऋप्रा ४,
 ८५; उसू ६, ३.
 ऋपरिष्-कृत, ता- -तः अप ३७, १४,
 २; -तम् ऋत ४, ५, ८; -ता
 अप्रा ३, ४, १; -ताः शुप्रा ३,
 ५३.
 परि/षि^f- -षिः आश्रौ २, १०, ४१.
 परि/षु (<स्तु>^g), परिषुष्वन्ति बौश्रौ
 १८, १५: ५; ७×४; वाश्रौ २,
 २, ३, १४.
 परि-ष्ववन-> °नीय^h- -याः शाश्रौ
 १७, ७, ६१^h.
 ऋपरि-ष्वुत्त- -तम् हिगृ १, १६, १७;
 -ते शाश्रौ १, २५, १.
 ऋपरि-ष्वुति- -तिः बौश्रौ ६, २४:
 २२; १, २: ३.
 परि/षु (<स्तु>)/भू, परिषुभत ऋप्रा
 ५, १२१.
 परि-ष्व (<स्य)ल- पा ८, ३, ९६.
 परि/ष्टा (<स्था), परिष्टात्, परिष्टु;
 परिष्टाः ऋप्रा ५, १६१.
 परि-तस्थिवस-> °तस्थुषी- -षीः
 कौगृ ३, १५, ५१ⁱ.

परि-ष्टा^j- -ष्टाः शुप्रा ४, २७१.
 परि/ष्व (<स्य)न्द्^k > परि-
 ष्वन्द्^l- -न्दे काश्रौ १८, ३, ९.
 परि-ष्वन्दम् बौश्रौ १४, २६: २२.
 परि/ष्वज्, ङ्ज^m, परिष्वजते हिगृ
 १, २४, ५; परिष्वजति बौगृ १,
 ७, ४२; परिष्वजन्ते ऋप्रा ५,
 १३१ⁿ; ऋपरिष्वजाते^o कृया ६,
 २८; ११, ३४; परिष्वजस्व
 आपमं १, ११, ७१; परिष्व-
 जध्वम् ऋप्रा ५, १३१; परिष्वजेत्
 बाध २०, १४.
 ऋपरिष्वजे आश्रौ ७, २, १७;
 ऋप्रा ५, १५; ऋपरिष्वजाते या
 १४, ३०; ऋप्रा ५, १५;
 परिष्वङ्क्ष्यते या ६, २८; ११,
 ३४; पर्थष्वजत् ऋप्रा ५, ३०१.
 ऋपरि-ष्वज्जा(न>)ना- ना या
 ९, १८१; -नाः आपश्रौ १८,
 १५, ३; बौश्रौ १८, १८: १२;
 हिश्रौ १३, ६, २९.
 परि-ष्वङ्ग^p-> ङ्ग-परम^q- -मम्
 बौश्रौ ४, १: २८.
 परि-ष्वजत्- -जन्तः हिश्रौ १६,
 ५, ३१.
 परि-ष्वजन- -नाय या २, २७.
 परि-ष्वजमा(न)ना- -ना या ९,
 १८.
 ऋपरि-ष्वजे^r आपमं १, १, ६; बौगृ
 १, ६, २६; ४, १, ११.
 परि-ष्वज्य आपश्रौ २१, १२; ७५;
 आपध १, २५, २; हिघ.

a) विप. । बस. । b) पा ८, ३, ७०; ७१; ११६ परामृष्टः द्र. । c) वैप १ द्र. । d) पा ८, ३, ७४
 परामृष्टः द्र. । e) पा ६, १, १३७; १३८ परामृष्टः द्र. । f) पा ८, ३, ७०; ७१ परामृष्टः द्र. । g) तस्येदमीयश्च
 छः प्र. उस्. (पा ४, २, २८) । h) °षी इति पाठः ? यनि. शोधः । i) सपा. परिस्थुषीः <> परिस्थुषीः
 इति पाठे. । j) वैप १, १९५० f द्र. । k) पा ८, ३, ७२ परामृष्टः द्र. । l) वैप २, ३६. द्र. । m) पा ८, ३,
 ६५; ७० परामृष्टः द्र. । n) पाठे. वैप १, १९५० h द्र. । o) पाठे. वैप १, १९५० i द्र. । p) अर्थः ? = एक-
 इत्- इति आश्रयम् । q) परस्परं पाठे. ।

परिष्वति वाश्रौ३, २, ६, २०.
 परि-सं√यु (मिश्रयो) > परि-सं-युत-
 -तः अप ७०, ८, ५.
 परि-संवत्सर^a - -रात् आपृथ १३,
 १९; मागृ १, ९, २^b; वागृ ११,
 २^b; आपृथ २, ८, ७; १५, २०;
 हिध २, १, १०९; ३, ५४; -रात्
 गोयृ ४, १०, २५^b.
 परि-सं√वद् > परि-सं-वद् शाश्रौ
 २, ६, ९; ४, ३, ७; काश्रौ; हिध १,
 १, १३५^c.
 परि-सं-ऊढ - -ढस्य वागृ २, ४;
 -ढेषु बौगृ ३, १२, ५.
 परि-सं√स्था > परि-सं-स्थि (त >)
 ता- -ता निस् ३, २ : २३.
 परि-सं√ख्या > परि-सं-ख्या^d-
 -ख्या शाश्रौ १, १, ६; वृदे २, ७१;
 मीस् १, २, ४२; १०, ७, ४; ७.
 परि-संख्या(ख्या-अ)र्थ- -र्थम्
 मीस् ७, ३, २२; १०, ५, ३९.
 परि-संख्या-होम- -मान् अप
 ३७, १०, १.
 परि-सं-ख्यात- -तः चव्यू २ : १०;
 -तम् चव्यू १ : १३; -ताः मैअ
 २१.
 परि-सं-ख्यातुम् शाश्रौ १, १७, ८.
 परि-सं-ख्यान- -नम् कप्र १, ४, १२;
 -नात् मीस् ३, ७, ३३.
 परि-सं-ख्याय कप्र २, ९, १०; वाच
 ३, ४७.
 परि-सं-ख्येय- -यम् अप ७१, १८, २.
 परि-सं√गृह् > परि-सं-गृह् अप २२,
 १, ३.
 परि-सं√चक्ष्, परि-सं-चक्षते गोयृ ३,
 ५, ३.

परि√सद् > परि-सन्न- -नात् आश्रौ
 २, ६, ६^e.
 परि-सम्√आप्, परि-समापयेत्
 अशां १२, ५.
 परि-सम्-आपन- -नात् आपृथ २,
 १७, २४.
 परि-सम्-आसि- > ष्य(सि-अ)र्थ-
 -र्थः भास् ३, ७.
 परि-सम्-आप्य आश्रौ १४, २१, १२
 परि-सम्√इ, परि-समीयात् वाश्रौ
 ३, २, १, १७; ६, ५.
 परि-सम्√ऊह् (प्रापणे), परि-समूहति
 भाश्रौ ६, ८, ११; १२; वाश्रौ १, ५,
 २, १४; पागृ २, ४, २; बौगृ २,
 ५, ५८; ६४; परि-समूहन्ति बौश्रौ
 १, १ : ६; भाश्रौ १, ६, १४;
 परि-समूहेत् वागृ ५, ३१; गोयृ ४,
 ५, ५; जेयृ १, १ : १९; आपृथ
 १, ४, १८.
 परि-समूहयति कौस् ५७, २३.
 परि-सम्-ऊहन- -नम् भाश्रौ ६, १४,
 ९; गोयृ १, ८, १६; कप्र १, ९,
 ५; २, ५, १८; ३, ८, २; -ने
 आश्रौ २, ४, २१; -नेच आपृथ
 ६, ३, १; हिश्रौ ३, ७, ११.
 परि-समूहन-पर्युक्षण- -ये पागृ
 २, ४, ६.
 परि-समूहना(न-आ)दि- -दीनि
 हागृ १, ५, १६.
 परि-सम्-ऊह्य आश्रौ २, ५, १३;
 वाश्रौ १, २, २, ७; कौगृ; आपृथ
 १, ४, १६^e.
 परि-सं√मृज्, परि-सं-मार्दि आमृयृ २,
 ५, ९ : ३.
 परि-सर्पक-, -र्षम् परि√सृप् द.

परि-सहस्र^a - -सम् शाश्रौ १७, ७, २.
 परि-सामन^a - -मभिः द्राश्रौ २, ४, ७;
 -मानि द्राश्रौ २, १, १; लाश्रौ
 १, ५, १.
 परि-सिन्धु^a - (> पारिसिन्धव- पा.)
 पागृ ४, २, १३३.
 परि-सीर^a - (> पारिसीर्य- पावा.)
 पावागृ ४, ३, ५८.
 परि√स्तु, परि-सर ऋषा ५, ५८^f;
 ऋपर्यसरत् आपृथ २, १३, १२;
 आमृयृ २, १, ३ : २०; भागृ १,
 २३ : ११; हिगृ २, ३, ७.
 ऋपरि (ससतुः) कौस् १४, ७; १६,
 ४; अपृथ ३, १, १३; अश्रु ६, ६७.
 परिसारयति भाश्रौ १, २, ३, १४.
 परि-सर्षा- -पावा ३, ३, १०१.
 परि-ससृष- > ससृषी- -षीः
 शागृ ३, १३, ५^h.
 परि-सारक^a - -कम् या १४, २९.
 पारिसारक^a-
 परि-सारिन्- -पा ३, २, १४२.
 परि-सृत्- -सृतः मागृ २, ११, १२^g.
 परि-सृव(र >)श्री- -रीम् भाश्रौ
 ५, २, १०, २३.
 परि√सृज्, परि(सार्जि) ऋष २, ९,
 १२^f.
 परि√सृप्, परि-सर्षति कौस् २, १८.
 परि-सर्षक- -काः अपृथ ५२, ५, ३.
 परि-सर्षम् काश्रौ १७, ४, ७.
 परि-स्कन्द- परि√स्कन्द द.
 परि√स्तु,स्तु, परि-स्तुरेत् कप्र २, ८, ४
 परि-स्तुषुभात् गोयृ १, ७, ९.
 परि-स्तुषाति आपृथ १, १४,
 १४; १५, ३; ६, ३, ५; बौश्रौ;
 परि-स्तुषाम्ति बौश्रौ २, १३ :

a) प्रास. । b) सप्र. षात् <> षात् <> पागृ १, ३, २ प्रतिसेकसरान् इति पामे. । c) सप्र-
 षात् <> षात् इति पामे. । d) आपृथ, नापृथ. (विधि-विशेष) । e) अश्रु इति ड. । f) तु. धाम्. । g) प्रत्येक-
 विधि. । h) कस. । i) पामे. पृ १५२९ i ड. । j) परिपाठ- वि. ड. । j) पामे. पृ १५५१ ड. ।

१७; ६, १ : १९××; परि...
स्तृणन्ति वाधुश्रौ ३, ९ : १३;
ऋपरिस्तृणामि आपश्रौ ११,
१३, ७; बौश्रौ ६, २८ : ४२; वैश्रौ
१४, ९ : ६; हिश्रौ ७, ६, ३१;
कौश्रु २, २१; परिस्तृणीहि वैताश्रौ
२, ७; कौश्रु २, २०^१; अश्रु
७, ९९^१; बौच; ऋपरिस्तृणीत
आपश्रौ १, १४, १२; भाश्रौ १,
११, १; वैश्रौ; परिस्तृणीयात्
बौश्रौ २०, ४ : ३९; ५ : ४; ६;
२४, ३४ : ६××; परि...स्तृणीयुः
वाधुश्रौ ३, ९ : १०; ११; १३.
परि-स्तर^१ - ऋम् आपश्रौ १, ५, ५;
भाश्रौ १, ५, १; हिश्रौ १, २,
३३; -रात् बौश्रु १, ४, ३६.
परि-स्तरण- -णम् काश्रौ ४, १३,
१५; आपश्रौ १, १४, १७; वाश्रौ;
-णानाम् आपश्रौ १, ५, ५;
भाश्रौ १, ५, १; -णानि वैश्रौ
२०, २२ : ४; काश्रु ४७, १५;
-णाय बौश्रु २, ११, ६३; -णे
बौश्रौ २०, ४ : ३८; ५ : ३; वाश्रौ
१, १, १, ७४; -णेभ्यः आमिष्ट
१, ६, ३ : ९; -णैः आश्रौ १, ८,
२; वाश्रौ १, २, ४, १२; ५, २, ४६.
परिस्तरणी- -णीम् आपश्रौ
१, १४, १३.
परिस्तरण-कूर्च- -र्चम् वैध १,
६, ४^१; -र्चान् वैध २, १, ६.
परिस्तरणकूर्च-पवित्रा(त्र-आ)-
दि- -दीनाम् वैश्रौ ११, १० : ७.
परिस्तरण-दाह- -हे आमिष्ट २,
७, ९ : १९; बौश्रु ४, २, २; माश्रु

३, १९ : ५.
परिस्तरण-न्याय- -यः गोश्रु १,
७, १४.
परिस्तरण-पात्रसंसादन-प्रोक्षणा-
(ण-आ) ज्यनिर्वपण- -णानि
काश्रौ ८, ६, २३.
परिस्तरण-पात्रसंसादन-प्रोक्षणा-
(ण-आ)ज्यनिर्वपण(ण-आ)धि-
श्रयण- -णानि काश्रौ ६, २, ५;
८, २, २०; ८, ३८.
परिस्तरण-पात्रसंसादन-प्रोक्षणा-
(ण-आ)ज्यनिर्वपणा(ण-आ)धि-
श्रयण- -णानि काश्रौ १, १, २.
परिस्तरण-बर्हिस्- -र्हिषः वैश्रु
१, ८ : ४; २१ : ५.
परिस्तरण-योग- -गात् अप
२४, ४, १.
परिस्तरणा(ण-आ)दि- -दिः
वैश्रौ २, १ : ८.
परिस्तरणादि-संभार-
-राणाम् वैश्रु ६, १ : १७; -रे
वैश्रु ६, १ : ७.
परिस्तरणा(ण-आ)न्त^१- -न्तम्
वैश्रौ ११, १ : ५.
परिस्तरणीय- -यान् बौश्रौ ३,
१० : २; आमिष्ट ३, ५, २ :
१४; ६, ३ : ४; बौपि.
परि-स्तोर्ण- -र्णस्य वाश्रु २, ४;
-र्णाः बौश्रौ १, ४; २; -र्णे वाश्रौ
१, १, ५, ६.
परि-स्तीर्थ- आश्रौ २, ६, ४; शाश्रौ
४, ३, ७; काश्रौ,

परि-स्तीर्थ^१- -र्थम् वैश्रु १, ११ : ४.
परि-स्तीर्थमाण- -णान् भाश्रौ ४,
५, ४; -णेषु आपश्रौ ४, ३, ६;
वैश्रौ ३, ९ : ९; हिश्रौ ६, १, ३९.
परि-स्तृणत्- -णत् बौश्रौ ५, १२ :
११; २१, ४ : २६; -णन्तम्
वैताश्रौ २, ७.
परि-स्तृ(त >)ता- -ता वैश्रौ ११,
२ : ५.
परि √ स्पन्द > परि-स्पन्द- -न्दः
बौश्रु ३, २, १६; ३, २३.
ऋपरि √ स्त्रंस् > परि-स्त्र^१- -स्त्रसा
आपश्रौ ५, १, ७; बौश्रौ २, ६ :
१५; भाश्रौ ५, १, ६.
ऋपरि-स्त्रज्- > स्त्रजिन्- -जि
आपश्रौ २२, ७, ७; बौश्रौ १८,
१ : ३; ४; हिश्रौ १७, ३, ६.
२परि-स्त्रज्- -स्त्रक आपश्रौ १२, १,
११; भाश्रौ २, ३, १, १५; हिश्रौ
८, १, २२.
परि √ सु, ऋपरिस्त्रव जुश्रु ३, ११ :
२०; अप ४८, ११^२; निध ३,
२१; या ६, ६; ९, २.
परिसुसुतुः वाधुश्रौ ४, ७५ : ३९.
परि-(स्त्र >)स्त्रा^१- > स्त्रा-व(त >)
ती^१- -ती वाधुश्रौ ४, ७५ : ४०.
परि-सुत्^१- -सुत् आपश्रौ १८, १,
१०; १९, १, ८; ६, ५; वैश्रौ
११, १ : १०; हिश्रौ २३, १,
१४; -ऋसुतः काश्रौ १४,
१, १४^३; आपमं २, १५,
४^१; आश्रु २, ८; १६^३;
शाश्रु; काश्रु ११, २^१; भाश्रु
३, ३ : ९^१; माश्रु १, २०,

a) पामे. वैप १, १९५१ j द्र. । b) वैप २, ३ खं. द्र. । c) स्तरकू^० इति पाठः? यनि. शोधः (तु. उत्तरं स्थलम्) । d) विप. । बस. । e) विप. । गस. उप. क्यव प्र. उत्सं. (पा ३, १, १२३) । f) वैप १ द्र. । g) = पात्र-विशेष- । बस. उप. = रास्ना (तु. भाष्यम्) । h) = २अप- । यस. उप. कर्तरि डः प्र. उत्सं. (पा ३, २, १०१) । i) = अन्न्याहुतिविशेष- । j) पामे. वैप १, १९५१ s द्र. । k) शोधः वैप १, १९५१ t द्र. ।

२; -सुत्वम् शांश्रौ ४, ५, ३; १२, १७, १, आपश्रौ; -सुता वैश्रौ ११, १: ११; भाशि २०.
परिसुच्-छे (<शे) ष- षम् काश्रौ १५, १०, १६.
परिसुत्-क्षीर-लिस- -सानि काश्रौ १९, ५, ११.
परिसुद्-धो (<हो)म- -मः काश्रौ १५, १०, १५.
परि√स्वन्> परिस्वान^a- -नम् निस् ८, ४: १७.
परिस्वाना^b- -ना निस् ६, २: ९; -नाम् निस् ६, २: ८.
परि√सु> परिस्वार^c- -रः लाश्रौ ७, ८, ८; नाशि १, ७, ५.
परिस्वृतेषु^d ऋषा ५, २४.
परि√हन्, परिहन्ति शांश्रौ १६, १८, १४.
परिघातयति बौश्रौ १८, २०: ६;
परिगि, लि]-घ^e- पा ३, ३, ८४; ८, २, २२; पावाग ८, २, १८४; -घः अप ४८, १०१; ६१, १, २६; -घम् भाग्य २, २८: ३; अप ६१, १, १४; ७०^२, २३, १३; -घे अप ६१, १, १५.
परिहनु^b (> परिहनव्य- पावा.) पावाग ४, ३, ५८.
परिहरण- प्रभृ. परि√हृ द्र.
परिहव- परि√हे द्र.
परिहस्, परिहस्यते अप ६८, ४, ४.
परिहास- -सम् वाश्रौ ३, २, ४, १०.
परिहस्त- पागवा ६, २, १८४.

परि√हा, (व्यागे) परिजहति बौश्रौ २५, ५: ७; परिजहात् बौश्रौ २०, १: ६३.
परिहीयते अप ५२, ११, ४.
परिहाणि- पाउवृ ४, ५१.
परिहाप्य शांश्रौ १, १७, १०: ३, १६, १३××; काश्रौ; आपध २, १५, २^१.
परिहाय माश्रौ ६, १, ३, ३.
परिहीण- -णस्य बौश्रौ १४, २६: ११; -णे बौश्रौ २३, ८: १९.
परिहार- प्रभृ. परि√हृ द्र.
परिहि, परिहिणोमि^f अप १, ३८, २; अशां ८, २; परिहिणोमि^f ऋषा ५, ५०; अषा ३, १, ७; शौच ३, ८८.
परिहि, परिजुहुयात् बौश्रौ २०, १९: १६; २१, १५: ३९××.
परिहृत- परि√हृ द्र.
परिहृ, परिहृते काश्रौ १५, ५, १३; परिहृति काश्रौ २, ७, १; ३, ४, २५××; आपश्रौ; परिहृन्ते बौश्रौ १८, ३८: १८; परिहृन्ति आश्रौ ४, १२, ८; आपश्रौ २१, ६, ६; बौश्रौ ३, २४: १४; हिश्रौ १६, ३, ६; बैग्य ६५: ६; परिहृन्ति बौश्रौ १, १८: १७; ५, ४: ३; ९: २; परिहृत् सु १५, ४; परिहृन्ते बौश्रौ १८, ३८: १७; परिहृत् बौश्रौ १, १८: १७; ४, ९: ३६; ५, ४: २; ९: २; परिहृत् आश्रौ २, ३, ७; वैश्रौ; परिहृतेयुः

आपश्रौ ९, २०, ९; वाश्रौ १, ४, ४, ३४; वाधुश्रौ ३, ८ ३: ९; लाश्रौ ८, ८, १६.
परिहृत्...अहृषत् काग्य ४५, ११;
परिहारम् वैश्रौ १४, १९: २; परिहारयेत् बौश्रौ २३, ३: १४.
परिजिहीषत्- -षन् निस् ८, ६: ३०.
परिजिहीषित- -त्म् निस् २, ६: १; गौषि २, ७, १.
परिहरण- -णात् शांश्रौ ८, १५, ६; वाश्रौ ३, २, १, ४०; द्राश्रौ; -णाय वाश्रौ १, ६, ३, २०; -णे बौश्रौ २१, १५: ४३.
परिहरण-काल- -ले बौश्रौ १५, २१: ३; माश्रौ ५, २, १०, ११.
परिहरण-प्राशन- -नम् आपश्रौ ३, १, ५.
परिहृत्- -न्म् बौश्रौ २१, १५: ४४; वैश्रौ १४, १९: १; वैग्य ७, ४: ३; गोय २, १०, ३३; वैष ३, ६, १०; -रन्तः कौय ३, १, ५८.
परिहरमाण- -णः बौश्रौ २६, १८: १९; १९: ९; आपध; -णाः बौश्रौ १७, २७: ५; २६, २५: ९; २७: २२.
परिहरिष्यत्- -ष्यन्म् बौश्रौ ६, ३३: १; २०, १३: ३२.
परिहृष्य- -ष्यम् या ३, २.
परिहीण-हृत्- -रः शौच ४, ११७; -रम् विष ३, ११; -रे जैश्रौ ८९; -रेण निस् ८, ४: ३४
परिहार-स्य^m -स्यः आपश्रौ १९

a) = परिस्वार-१। b) = ऋग्-विशेष-। <परि स्वानासः [कौ १, ४८५]। c) = गानप्रकार-विशेष-।

d) पाठः? सपा. वात्रा ८, ८ परिश्रुतेषु इति पाठे। e) भाग्य. अप. पाठः। f) = आयुष-विशेष-।

g) उ. पाठः। h) अस.। i) सप्र. हिष २, ३, ३२ कर्त्तव्यत्वा इति पाठे। j) परस्परं पाठे।

k) विष. पाठः। l) भाप., परिभाषिक-संज्ञा-(परि-मह- [कौच.])। m) विप. > नाप. (परि-वि- [वैप १ द.])।

नयः उच्यते।

१६, ११; बौश्रौ २४, ३८: १२^a;
हिश्रौ २२, १, ८^b.
परि-हारम् आपश्रौ १२, २५, १;
बौश्रौ ७, १४: ४३; माश्रौ.
परि-हार्य- -र्यः गौघ ८, १२; शौच
४, ११६; १२६; -र्यम् बौश्रौ
१८, २०: ५; -र्याः मासि ११,
४.
परि-हृत, ता- -तम् आपश्रौ ६, २८,
७; हिश्रौ २, ८, ३६; ३, ८, ६;
-तासु आपश्रौ २२, ८, १६;
काश्रौसं २९: ६; बौश्रौ; -ते
शाश्रौ १, १२, ९; वाश्रौ १, १,
५, १४.
परि-हृत्य आश्रौ ५, ५, १२; ६, ११;
आपश्रौ.
परि-हियमाण, गा- -णम् आपश्रौ
३, १९, ६; वैश्रौ ७, १: १; -णा:
वैताश्रौ १६, १; -णाय भाश्रौ
७, १०, ४^c; -णासु आपश्रौ १४,
९, ३; द्राश्रौ १५, २, ४; लाश्रौ ५,
१०, ३; -णे निसू ३, १२: ४५.
परि-होम^d- -मे बौश्रौ २०, १९: १६;
२१, १५: ३९××.
परि√ह्ल> परि-ह्लाम् काश्रौ ७,
५, ६; भाश्रौ १०, ७, १४.
परि√ह्वे> ङपरि-ह्व^e- -वम् आपमं
१, १३, ५; बौश्रौ ४, २, ११; अप
१, २६, ४.
ङपरि-हृत- -तम् आपमं १, १३, ६;
बौश्रौ ४, २, ११; हिश्रौ १, १६,

१७^f.
परी(रि√इ), पर्येति शाश्रौ ४, १६,
१०; १५, ११, १××; काश्रौ;
आपश्रौ १६, २०, १४^g; हिश्रौ
११, ६, ६१^h; या ९, १५^h;
परीतः काश्रौ ५, ८, ३३; वाधूश्रौ
४, २७: १८; परियन्ति शाश्रौ
१३, ११, ४; १७, १४, १३; १७,
८; काश्रौ; बौपि ३, २, ३; ४^h;
ङपर्येषि आपश्रौ १२, १२, १३;
हिश्रौ ८, ३, ४२ वैताश्रौ १४, १;
ङपर्येति आश्रौ १०, ९, २;
शाश्रौ १६, ६, १; लाश्रौ ९, १०,
१०; ङपरियन्तुⁱ आपमं १, १, ८;
बौश्रौ १, ६, २१; ङपरीहि आपश्रौ
१२, २२, ८^j; बौश्रौ ५, १३:
१७; १५: १९; ७, १३:
२२^k××; हिश्रौ ८, ७, १४^l;
आपमं २, २, १०^j; बौश्रौ
२, ५, १४^j; ङपरीत^k आपश्रौ
३, ४, ४; भाश्रौ ३, ४, ४; माश्रौ
१, ३, ३, १४^l; वाश्रौ; ङपर्याणि^m
बौश्रौ २७, ६: १६; १८;
वैश्रौ २०, ३०: ११; १३;
पर्येत शाश्रौ १५, ११-१२,
१; १६, १५, १; बौश्रौ; पर्येताम्
वाधूश्रौ ४, ३०: ११; पर्याचन्
वाधूश्रौ ४, १९: ३५; परीयात्
आपश्रौ ८, १८, ३; बौश्रौ;
परीयाताम् बौश्रौ २०, १८:
२६; परीयुः वैश्रौ २१, ८:

६; द्राश्रौ; लाश्रौ ४, ३, १८^m;
ङपरीयाः द्राश्रौ १०, २, १३;
लाश्रौ ३, १०, १२; परीयाम्
शाश्रौ १५, ११, १; १२, १;
बौश्रौ १८, १९: ११; १३××;
परि-यत्- -यन् वैश्रौ १०, ५: २;
द्राश्रौ १३, ३, १; लाश्रौ ५, ३, ७.
परी(रि-इ)त्, ता- -तम् निसू ९, २:
९; -ताः निसू ६, ३: १५;
-तानाम् बौश्रौ १४, २७: १३;
१५××; -तायाम् शंघ ३४८;
-ते जैश्रौका ४३.
परी(रि-इ)व्य आश्रौ १, १२, ८; २,
४, १७; ६, १०, १३; शाश्रौ;
अप १, ६, ६^h; या १२, १३;
परीत्यऽपरीत्य आपश्रौ ८, १८,
६; भाश्रौ.
ङपर्येत- -र्यन् आश्रौ २, ५, ३^o.
पर्य(रि-अ)यण- -णम् काश्रौ ७१,
१०; -णाय वाधूश्रौ ३, ११: ५;
-णे काश्रौ २५, ३४^r.
पर्या(रि-आ)य^p- पा ३, ३, ३८;
-यः काश्रौ १०, १, ६; १२,
६, ६; आपश्रौ; अप्राय ३, ३^h;
-यम् आपश्रौ १७, २०, १;
हिश्रौ १२, ६, १६; २२, १, ३१;
द्राश्रौ; -यस्य माश्रौ २, ४, ४,
७; वैश्रौ; -याः आश्रौ ६, ४,
७; ११; काश्रौ १२, ६, ५;
माश्रौ; अत्र ८, १०; या १,
९^r; ङ; -याणाम् आश्रौ ६,

a) अर्धसंवत्सरं सूत्वाऽपरस्मिन् प्रसूयते इति वा, एकस्मिन् पुमान् एकस्मिन् स्त्रीवत्सो वा यस्यां इति वा भाष्यम्। b) ष्हासूः इति पाठः? यनि. शोघः (तु. आपश्रौ.)। c) परि-यञ्- टि. द्र.। d) वैप १ द्र.। e) हुतं इति Bōht (ZDMG [५२, ८४])?। f) पामे. वैप १, १९५३ e द्र.। g) प्रतिपरि^o इति B.। h) पामे. वैप १, १९५३ g द्र.। i) पामे. वैप १, १९५३ j द्र.। j) पामे. वैप २, ३खं. पर्येहि मंत्रा १, ६, २८ टि. द्र.। k) पामे. पृ ७८४ g द्र.। l) पाठः? परियाणि इति संस्कृतुः टि. [बौश्रौ.] शोघः। m) परि^o इति पाठः? यनि. शोघः [तु. भाष्यम्]। n) रि^o इति पाठः? यनि. शोघः। o) पाठः? परि-यन् इति मूके.। p) भाप.> नाप.। q) उत्तरेण संघिरार्षः।

४, १; शाश्रौ; -यान् आश्रौ ६, ६, १; आपश्रौ; -याभ्याम् वाश्रौ १, ६, १, २४; ३, २, ५, ४; हिश्रौ १५, ६, ३२; कौस् ५८, २३; -ये आश्रौ ६, ४, २; आपश्रौ १२, १०, ११×४; बौश्रौ; पा ३, ३, ३९; -येऽये माश्रु १, १०, १९; -येण बौश्रौ १७, ९; १८; माश्रौ १, ४, १, २७; ४, १, २८^५×४; वाश्रौ; विध ४३, २३; ४४, २; पा ७, ३, ३१; -येभ्यः द्राश्रौ ५, ३, ६; लाश्रौ २, ७, ५; -चषु आश्रौ ५, १०, ११; वैताश्रौ १२, १७; अर्ष १ : २९; -चैः वाश्रौ १३, १०, ४; ७; आपश्रौ; -चौ आपश्रौ १२, २९, २; २१, १३, १७, लाश्रौ।
पर्याय-कृति- -तिः निस् १, ८ : १४; २५; ३६; ९ : ५; -तौ लाश्रौ ६, ६, ९.
पर्याय-कृति-प्रयोग^b- नौ लाश्रौ ६, ७, १९.
पर्याय-तस् (ः) वैश्रु १, २० : १०; जैश्रौका १५१.
पर्याय-प्रत्यवरोह- -हम् लाश्रौ ६, ६, ६.
पर्याय-प्रभृति- -तीनाम् आश्रौ ५, ९, २.
पर्याय-भा(ग>)गा- -गा निस् १, ८ : १७.
पर्याय-मन्त्र- -मन्त्रात् अम्र ८, १०
पर्याय-रोह- -हम् लाश्रौ ६, ६, ५
पर्याय-वचन- -नस्य पावा १, १, ६८^३.
पर्याय-विदोष- -षम् निस् १,

१० : २७.
पर्याय-विष्टाव^c- -वान् द्राश्रौ ५, २, १६; लाश्रौ २, ६, ९.
पर्याय-शस् (ः) आश्रौ १०, ७, ९.
पर्याय-समाधि- -धयः निस् ४, २ : १७.
पर्याय-सूक्त-मन्त्र- -मन्त्रः अम्र ११, ३ (२).
पर्याय-स्थान- -नेषु लाश्रौ ६, ६, १६.
पर्याया(य-आ)दि- -दिषु काश्रौ ९, ५, ४; १३, ३, २५; द्राश्रौ ५, २, १७; लाश्रौ २, ६, १०; ६, १, १५; -दौ जैश्रौका १२०.
पर्यायादि-पर्यायान्त- -न्तयोः लाश्रौ ७, ६, १८.
पर्याया(य-अ)न्त- -न्ते लाश्रौ १०, २, १३; -न्तेषु निस् ४, २ : १७.
पर्याया(य-अ)र्थ- -र्थम् पावा १, ३, ७.
पर्याया(य-अ)र्हणो(ए-उ)त्पति- -न्तिषु पा ३, ३, १११.
पर्यायिक^d- -कम् अर्ष २ : १; -कैभ्यः अर्ष ४६, ९, ७; अम्र १९, २२.
पर्यायिक-वर्जम् अर्ष २ : ५.
पर्यै(रि-ए)भ्य(त >)न्ती- -न्त्यः शाश्रौ १७, ४, ८.
परी(रि/इ)क्ष्, पर्यैक्षत् वाधूश्रौ ४, २९; १३; परीक्षत् आश्रु १, ५, ११; २, ८, १; वैश्रु ३, १४ : ८; कौस्; या २, १.
परीक्षयेत् काश्रु १४, ३, ४.
परी(रि-ई)क्षा- -क्षा बृदे ५, १४;

-क्षायाम् कप्र ३, १०, १०.
परीक्षा(आ-अ)र्थ- -र्थः आपध १, २९, ६; हिध १, ७, ६२.
परी(रि-ई)क्षि(त>)ता- -ताभिः शोध ४५९.
परी(रि-ई)क्ष्य वैश्रु ५, १ : ३.
परी(रि-ई)क्ष्य, क्ष्या- -क्ष्यः अर्ष ७०^३, १२, २; -क्ष्याः विध ८, ६; बृदे ३, ८०; ५, १३.
परीक्षन्त^e वाधूश्रौ ४, ५९^३ : ३.
परी(रि/इ)च्छ्, परीच्छेत् शाश्रौ १, १७, ९.
परी(रि-इ)ज्या^f- -ज्या बौश्रौ २५, २२ : ६; -ज्याम् हिश्रौ ९, ४, ७; -ज्यायाः काश्रौसं २९ : ८; -ज्यायाम् शाश्रौ ८, ४, ४; -ज्यायै बौश्रौ २१, २३ : १०.
परीण^g- -णम् लाश्रौ १०, १९, १.
परीणट-सहित^h- -तम् वैश्रौ ४, ४ : २.
परीणस्ⁱ- -णसः आश्रौ ८, १, २; वैताश्रौ ३१, २७; -णसम् तैषा ३, ७; ७, ४; -णसा निध ३, १; -णसि छुस् ३, ११ : ८^१.
परी-गह्- परि/णह् द.
परी-गाम- परि/णाम् द.
परी-णाह- परि/णह् द.
परीत- परी(रि/इ) द.
परी-तान- परि/तत् द.
परीतोषात् परितोषात् द.
परी-त्त- परि/दा द.
परीत्य परी(रि/इ) द.
परी-दाय परि/दा द.
परी(रि/इ) ध्, न्ध, परीन्धे आपश्रौ १६, ९, ५; हिश्रौ १, ३, २४;

a) क्वचित् वा. क्विदि. । b) षत्.>दत्. । c) समाहारे दत्. । d) कै १ द. । e) पाठः ?
कौश्रु इति संस्कृतः शोधः । f) परिणट दि. द. । g) अर्थः व्यु. न? । = कुल्लेत्रभूषणतप्येस- इति
भाष्यम् । h) पाठः ? (तु. णत्-सं इति संस्कृतः दि.) । पूष. = परीणह्- । i) कै १ ११५४ m(p) द. ।

पर्वेन्द्र वाधुश्रौ ४, २९: १४;
परि... ऐन्द्र वाधुश्रौ ४, २९:
१५-१७; १८^२; १९; परीन्धीत
माश्रौ १, ५, १, १८.

परी(रि-इ)ध्य- -ध्यः आपश्रौ
१४, ३४, १; बौश्रौ २९, ६: ३;
वैश्रौ २१, १७: ३; हिश्रौ १५,
८, ४४.

परी(रि-इ)न्ध^२- -न्धेन बौश्रौ २,
१४: १; ५, १: २९.

परीप्सत्- प्रसृ. पर्या(रि/आ)प् द्र.

परी-माण- परि/मा द्र.

परीर- पाठ ४, ३०.

परी-वाद- परि/वद् द्र.

परी-वाप- परि/वप् द्र.

परी-वृत्- परि/वृ(आच्छादने) द्र.

परी-शास- परि/शास् द्र.

परी(रि/इ)ष् (गतौ) > परीष्टि- पर्ये
(रि-ए)षणा- पावा ३, ३, १०७.

परी(रि-इ)ष्ट- परि/यज् द्र.

परीसान^२- -नम् अप ४८, ८०.

परी-हार- परि/हृ द्र.

परुक्कणाः^० भाश्रौ ५, १९, ८.

परुच्छेप^१- -पः ऋञ् २, १, १२७;
वृदे ३, ५६ शुञ्च; या १०, ४२र्कुं;
-पस्य चाञ्च ४१: २०; या १०,
४२; -पात् ऋञ्च ३, २१; वृदे
३, १२५; -पे वृदे २, १२९;
ऋप्रा २, ६५.

पारुच्छेप^०- -पम् ऋञ्च २, १,
१२७.

पारुच्छेपी- -पीः शाश्रौ १०,

७, २; बौश्रौ १६, ५: १८;
२६, १४: ४; वैताश्रौ ३१,
२७; -पीनाम् आश्रौ ७, १२,
१; -प्यः आश्रौ ८, १, ११; १५.

पारुच्छेपि- -पिः ऋञ्च २, ९,
१११; साञ्च १, ४६३.

परुच्छेप-क्त्- -क्त्चः उस् ३, ६.

परुत्^१ पा ५, ३, २२; पाग १, ४, ५७^६;
पावा ५, ३, २२.

परुत्-त्- पावा ४, ३, २३.

परुत्^२ > ँस्-क^१- -कैः आपश्रौ
५, २७, ११.

परुष^१- पाठ ४, ७५; -षः सु २३, ५;
-षम् सु ९, २; आपध १, ३१,
५; -षाः अप ६३, ४, ९; बौध
२, ३, ४०; -षे या २, ६१^६.

परुषां(ष-ञ्च)सक- (> पारुषांस-
किन्-) पुरुषांसक- टि. द्र.

परुष्णी^१- -ः षिण या ९, २६^१कुं;
-ष्णीम् वृदे ६, ९६^३; -ष्णयाम्
ऋप्रा ८, २५^१.

परुस्^१- पाठ २, ११७; -रुः बौश्रौ
६, १४: १०; माश्रौ १, १, १,
३३; वाश्रौ १, २, १, १६; हिश्रौ
१, २, ३२; -रुःऽरुः तैप्रा ८,
३२^१; -रुषः आपश्रौ २३, १३,
३^१; -रुषःऽरुषः शुप्रा ३,
३७^१; -रुषा बौश्रौ ६, १४:
१०^१; -रुषि शुप्रा ३, ३७^१;
-रुषिऽरुषि भाश्रौ ३, १५,
३; या १०, ४२; परुषु कौसू
१२४, ५^१; -रुषि आपश्रौ ५,

१९, ४^१; बौश्रौ १८, ३२: १३;
भाश्रौ.

परुषि-दित^६- > ^०त्-पूर्ण-वृत्-
विदग्ध^१- -ग्धम् मीसू ३, ४, १९

परुष^३- पाठभो २, ३, १६६.

परुष-क^२- -कम् शाश्रौ १५, १९, १.

परे(रा√इ), परैति वाश्रौ १, ६, ६, २४;
परायन्ति भाश्रौ ८, २०, ३;
परैतु^० शाश्रौ ४, १६, ५; कौगु ५,
८, ५; कूपरेहि आपश्रौ २१, ४;
१; वैताश्रौ १०, १७; निस्; या
६, १२; ९, ३३; ११, ७;
कूपरेत आपश्रौ १, १०,
७^१; ५, १८, १; बौश्रौ ३, ११:
२२^१; ५, १५: १७^१; भाश्रौ^१ १,
९, १२; ८, २०, ४; हिश्रौ २, ७,
५१^१; ३, ४, ५४; वैगु ४, ४:
२४^१; आप्रा ३, २, ६; कूपरेत^१
आश्रौ २, ७, ९; माश्रौ १, १, २,
१४; ३७; ७, ६, ५२; वाश्रौ १, २,
३, १४; ३२; ७, ४, ५३; कूपरा...
एतन् ऋप्रा २, ७२; १०, ३; ११,
१०; उस् २, १८; परैयात् हिश्रौ
७, ८, ५४.

कूपरा(रा-अ)यण^१- -ः षिण विध ९८,
९९; -णः अप्राय १, ४^१; -णात्
विध १, ६४; -णे आपश्रौ १३,
२०, १; बौश्रौ १०, २४: १८;
वैश्रौ १८, १५; ५; बौगु ३, ५, १८.
कूपरा-यत्- -यते आश्रौ १, १२,
३४; आपश्रौ; -यत् आपमं २,
११, २६.

a) नाप. (अभि-). b) = उदर- । व्यु. ? । c) पाठः ? परुकाः (परुभन्तः) इति शोधः (तु. सप्र. आपश्रौ ५, २७, ११ परुकैः इति पाठे.) । d) वैप १ द्र. । e) = सूक्त- । f) = पूर्वसंस्तर- । व्यु. ? पाप्र. <पर- <पूर्व- इति । g) तु. पागम. । h) = पस्- (तु. वैप १ परुच्छेप- टि.) । व्यु. ? । i) विप. । मत्वर्थीयम् ठन् > कः प्र. (तु. भाष्यम्) । परुष्-क- इति C. । j) पाठे. वैप १, १९, ५५ । द्र. । k) उप. <√दा (अस्त्रखण्डने) । l) समाहारे द्रस. । m) = वृत्त-, तत्फल- । व्यु. ? । n) स्वार्थे कः प्र. । o) पाठे. वैप १, १९, ५६ h द्र. । p) पाठे. वैप १, १९, ५६ m द्र. ।

†परे(रा-इ)त- -ताः आपश्रौ १६,
२५, २; वैश्रौ १८, १८: ३;
हिश्रौ ११, ७, ४२; कौश्र ३, २,
१; शांश्र ३, २, २; आमिश्र ३, २,
५: ४.

परे(रा-इ)न्य आपश्रौ ७, २७, १५;
९, २, ४××; काठश्रौ.

परे(रा-ई)यिवस्^१- -वांसम्^२ आश्रौ
२, १९, २२; शांश्रौ १५, ९,
५××; कौश्र; या १०, २००.

‡परेयुवस्^३- -वांसम्^२ वैश्रौ २०,
२२: १; आमिश्र ३, ५, २: १;
वौषि १, १: १९; २: १; हिषि
१: १८.

‡परेकौति अप ४८, ११६.

परे(रा-ई)क्ष, परेक्षते आपश्रौ १२,
२०, १०; वौश्रौ ७, १०: १६;
१८; वैश्रौ; परेक्षते वौश्रौ ७,
११: ६; परेक्षन्ते वौश्रौ ७, ११:
१३; २०; परेक्षते हिश्रौ ८, ५,
३८.

परेक्षयति वौश्रौ ४, ४: ३१.

परोक्ष-, ण्वन्वृति- प्रम्. परस्- द्र.

परो(रा-उ)ष्णिह^४- -ष्णिकं शुभ्र २,
१९९; ४, ८४; १०७; अश्र ६,
२३१; ७, ५५××; पि ३, २१;
-ष्णिहः अश्र २, ११; ६, २;
-ष्णिहम् शुभ्र ४, २०; -ष्णिहौ
अश्र १८, १.

परोष्णिह-महापक्षि- -क्ष्ती शुभ्र
२, ३३९.

पर्णी- पर्णी- टि. द्र.

पर्चयत्- √पृच् द्र.

पर्जन्य^५- पाठ ३, १०३; -न्यः काश्रौ
२५, १२, ८१; †आपश्रौ ४,

६, १; १०, १, १४××; वौश्रौ;
या २, २२; ४, २१; २७; ७,
८; १०; १०, १००; १११;
-न्यम् आपश्रौ ८, १, ४१;
वाधूश्रौ ३, ५०: ११; पाग
२, १३, २; आमिश्र; शंश्र ११६:
५५^६; वृदे २, ३७; या ९, ६;
-†न्यस्य आश्रौ १, ३, २३;
वौश्रौ ६, १५: १७; २७, १४:
४; आपमं; -†न्याः वौश्रौ १८,
१८: १६; आमिश्र २, ५, १०:
२८; ११: २७; या ६, २२; ७,
२३; -न्यात् अप्राय ६, २^७;
-न्यान् आमिश्र २, ५, ११: २८;
-न्याय आश्रौ २, १५, २१;
शांश्रौ ३, १३, ४, आपश्रौ; -न्ये
वौश्रौ १०, ४८: २८१; -न्येन
आमिश्र २, ५, १०: २७१; वृदे
१, ११७; या ७, ५.

पार्जन्य^६- -न्यः अप ४८, ४४१;
-न्यम् आपश्रौ ८, १, ३; वौश्रौ
५, १: ८; माश्रौ; -न्यस्य
आपश्रौ ८, १, ४; वैश्रौ ८, ३:
८; -न्याः शांश्रौ १६, ९, २९;
आपश्रौ २०, २३, ११; -न्यान्
काश्रौ २०, ८, ३०; -न्याय
कौश्र ३, १०, १११; -न्ये
आपश्रौ ८, १, ४; वौश्रौ.

†पर्जन्य-जिन्वि(त>)ता^७- -ताम्
या ९, ६०.
पर्जन्य-पक्षी^८- -०लि कौश्र १०६,
७१.
पर्जन्य-प्री(त>)ता- -ताम् या
९, ६.

पर्जन्य-मित्रा(त्र-आ)दि- बहु-

देवता- > ण्य- -न्यम् अश्र
१, १.

†पर्जन्य-सृ(ष्ट>)ष्टा- -ष्टाः अप
१, २०, ३; अशां १०, ३.

पर्जन्य-स्तुति-संहृष्ट- -ष्टान् ऋअ
२, ७, १०३.

पर्जन्या(न्य-अ)गिन- -ग्नौ वृदे ५,
३९.

पर्जन्यागिन-देव(त>)ता^९- -ता
ऋअ २, १, १६४.

पर्जन्या(न्य-अ)गिन-विवस्वत्-
-स्वताम् वृदे ४, ३८.

†पर्जन्या(न्य-आ)मन्^{१०}- -त्मभ्यः
वौश्रौ ७, ४: १५.

पर्जन्या(न्य-अ)निल-मास्कर- -राः
वृदे ७, २८.

√पर्ण पाधा. सुरा. उभ. हरितभावे.

१ पर्ण^{११}- पाठ ३, ६; पाग ४, २, ९०;
३, ७६; ५, २, ९७; १००^{१२}; -र्णः
आपश्रौ ५, २, ४१; वौश्रौ २, ७:
१७; १२: ४; १४, २९: २०;
वाधूश्रौ; -र्णम् शांश्रौ ४, १६,
५१; †आपश्रौ १, १४, ६××;
वौश्रौ; -र्णस्य वौश्रौ १४, २९:
२०; वाधूश्रौ ३, ४१: २९; ४,
६४^{१३}: ५; -र्णानि वौश्रौ १, ३:
१; वैश्रौ ३, ५: ७; आपश्र २०,
५; कप्र ३, ४, ३; अप २०, ३,
३; -र्णं वौश्रौ ५, १६: १०;
जैश्र १, २: १४१; अप ७०^{१४},
७, १५; ७१, ११, २; वैश्र ३, ५,
१३; आज्यो १२, ४; -र्णं
वौश्रौ २४, ८: १२; १३; २८,
८: १४; माश्रौ ९, ३, ५; वौश्र
१, ७, ३४; अप्राय ४, १; ३;

a वैप १ द्र. । b) पामे. वैप १, १९५७ द्र. । c) ण्वि> ण्वु इति. वावि. द्र. । d) = ऋन्दो-
विशेष- । कंस. । e) पाठः ? । अपु २१९, २४ स्वन्न्यम् इति पामे. । f) विप. । सायदेवतीयाय्ये
द्र. । g) विप. । वस. । h) तु. पागम्. ।

-गेषु आपगृ २०, १४; -गैः
 आपघ २, २२, २; २३, २.
 १पर्ण- पा ४, ३, ७६; -र्णः
 कौगृ २, ६, ९१; कप्र १, ८, १२;
 -र्णान् गोगृ १, ७, १५.
 पर्ण-बैलवा (ल-आ) इत्यथ-
 -स्थाः गोगृ २, १०, १०.
 पर्ण-कषाय- -यः वाधूश्रौ ४, १०४ :
 १५.
 पर्णकषाय-पक्क- -क्वम् काश्रौ
 १६, ३, १५.
 पर्ण-कुटी- -टीम् शंघ ३८७; विघ
 ५०, १.
 पर्ण-कूर्च- -र्चः शंघ ४१७.
 पर्ण-कृच्छ्र- -च्छ्रः शंघ ४१७;
 विघ ४६, २३.
 पर्ण-त्व- -त्वम् बौश्रौ १४, २९ :
 २०; वाधूश्रौ ३, ४१ : २९; ४,
 ६४ : ५.
 पर्ण-स्सरु- -रुषु आमिगृ ३, ७, ३ :
 १५; बौपि २, १, ७; -रूणाम्
 बौश्रौ १४, २९ : २१; २०, ३ :
 २४; आमिगृ.
 पर्ण-पुट- -टम् भागृ २, १० : २;
 हिगृ २, ९, ५; -टे आपगृ २०, ७.
 पर्ण-मणि- -णिम् अग्र ३, ४.
 पर्ण-मय- -यम् बौश्रौ १२, ४ : २;
 १०xx; आमिगृ; -यान् बौश्रौ
 १४, १६ : १७; -यानि काठश्रौ
 ७; १२०; कागृ ४६ : ७; -ये
 बौश्रौ १७, ३६ : ५; १८, १ :
 १३xx; -येन आपश्रौ १८, ९,
 १७; बौश्रौ १२, ४ : १३; ८ :

८xx; वाश्रौ; -यैः हिश्रौ १४,
 ४, ४१.
 पर्णमयी- -यी आपश्रौ १,
 १५, १०; भाश्रौ १, १६, ५;
 -यीभ्याम् बौश्रौ १८, ९ : २;
 -य्याम् बौश्रौ १४, १६ : २३;
 १९ : २४; -य्यौ बौश्रौ १८,
 ८ : ६.
 पर्णमय-वारण- -गौ बौपि १,
 १५ : ८२.
 पर्णमय-वारण- वैतस-शमीमय-
 -यान् आमिगृ ३, ८, १ : १००;
 बौपि १, १४ : १०.
 पर्णमय-सुव- -वम् बौपि ३,
 ६, ६.
 पर्ण-मुच्- पालवृ २, २२.
 पर्ण-मूल-फला(ल-अ)शन- -नः
 शंघ ३८७.
 पर्ण-रूह- पालवृ २, २२.
 पर्ण-ल- पा ५, २, ९७.
 पर्ण-लोष्टा(ष्ट-अ)रमन्- -श्मभिः
 गौघ ९, १५.
 १पर्ण-वलक- -लकः आपश्रौ १,
 १३, १५; -लकम् आपश्रौ १,
 ११, १०; वैश्रौ ३, ८ : ७; हिश्रौ
 १, ३, १७; -लकाः आपश्रौ १,
 १४, १; -लकैः हिश्रौ १, ३, ५३.
 पर्ण-वलकल- > ल-फा (रट >)
 ष्टा- -ष्टाभिः माश्रौ ६, १,
 २, २.
 पर्ण-विहार- -रः भागृ २, ९ : ८६.
 १पर्ण-शद- -दः^h आश्रौ ८, ३,
 २३; वैताश्रौ ३२, २५.

पर्ण-शाखा- -खया आपश्रौ ८, ९,
 १२; बौश्रौ १०, ९ : १८; २२,
 २ : २५; आमिगृ; -खा बौपि
 १, १४ : १२; -खाः आमिगृ
 ३, ५, २ : १५; ६, ३ : ६; बौपि
 १, २ : १८; -खाम् काश्रौ ४,
 २, १; बौश्रौ १, १ : ७; १०,
 ९ : १५; २४, २३ : ३; माश्रौ
 १, १, १, १२; -खायाम् बौपि
 ३, ४, १६; -खासु बौश्रौ ११,
 ११ : ५; -खे आमिगृ ३, ६,
 १ : २६; ३ : ३३; ८, ३ : ३९; बौपि.
 पर्ण-शुष्- पालवृ २, २२.
 पर्ण-सद- -दः^h शाश्रौ १२, २३, ३.
 पर्ण-सेव- -वान् बौश्रौ ५, ११ :
 ३; -वाभ्याम् बौश्रौ १४, १३ :
 २६; २९; -वेषु बौश्रौ ५, १५ :
 ४; -वैः बौश्रौ ५, १५ : २४.
 पर्ण-होम- -मः अगृ ७०^२, ९, २.
 पर्णा(र्ण-आ)शान्- -शी विघ ९५,
 १०.
 पर्णिल- पा ५, २, १००.
 पर्णाय- पा ४, २, ९०.
 २पर्ण- > पर्णाय- पा ४, २, १४५.
 ३पर्ण- (> २पर्ण- पा.) पाग ४,
 १, ११२.
 ४पर्ण- (> पर्ण-स- पा.) पाग ४, २,
 ८०.
 पर्णक- पाग २, ४, ६९.
 पर्णकायन- -नाः बौश्रौ ४५ : ६.
 २पर्णवलक- पाग ४, १, १०५.
 पर्णवलक- -लकाः बौश्रौ ४५ : ६.
 पर्णवलक्य- पा ४, १, १०५.

a) = व्रत-विशेष-। b) वैप १ द्र.। c) वारणवे इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. बौपि.)।
 d) द्रस.। e) विप. (२अप-).। तुस. उप. = फणित- [कषायित-]। f) = कर्म-विशेष-। षस.
 पूष = पलाशपत्र-। g) सप्र. हिगृ २, ९, १ बौद्धविहारः इति पाठे.। h) पाठे. वैप १, १९५९। द्र.।
 i) = पर्ण-शद-। j) षस. उप. = वृन्त- (तु. संस्कृता)। k) भारद्वाजदेशवाचिनश् च > ईयः प्र.।
 l) व्यप.। व्यु. ?।
 वैप-प्र-११

पर्णासि- पाठ ४, १०७.

पर्णाटि^{ab}- पाग २, ४, ६३.

पर्णाढक^c- पाग २, ४, ६३.

पर्णी- पाग ४, २, ८२; ४, ५३^d.

पर्णुसि- पाउभो २, १, २४०.

पर्त- √पृ, पृ द्र.

√पर्त पाधा. भ्वा. आत्म. कुत्सिते शब्दे.

√पर्प पाधा. भ्वा. पर. गतौ.

पर्प^d- पाठ ३, २८; पाग ४, ४, १०^e.

पर्पिक- पा ४, ४, १०.

पर्पट- पाउभो २, २, ९८.

पर्परीक- √पृ, पृ द्र.

पर्फरीक^f- पाउभो २, २, २०; -का
या १३, ५^g.

पर्य(रि-अ)स्त्रि^h- अये आश्रौ ३, २,

९; शांश्रौ ५, १६, ८^g; काश्रौ

६, ५, १; आपश्रौ; -स्त्रि^h आश्रौ

६, १४, ११; काश्रौ २, ५,

२२; आपश्रौ; माश्रौ १, २, ३,

२६ⁱ; -गिनम् माश्रौ १, ६, १,

२; ७, ६, ८xx; वाश्रौ; -न्तो

आपश्रौ ७, १५, ४; १९, १७, ९;

२०, १७, ४; बौश्रौ.

पर्यगिन^jकृ>पर्यगिन-करण- गम

शांश्रौ ४, २०, ४; बौश्रौ २४, ९ :

९; १० : १७; माश्रौ; -णात्

आपश्रौ १९, ८, २; बौश्रौ ५, ५ :

१७xx; माश्रौ; -णे बौश्रौ १५,

२८ : १५; २०, २८ : ६.

पर्यगिनकरण-पर्याय- -ये

आपश्रौ १९, ८, ३; हिश्रौ २३,

१, ३.

पर्यगिनकरण(ए-अ)न्त^k-

-न्तम् शांश्रौ १५, १, २३; वाश्रौ
३, २, ६, ६२; ७, ८.

पर्यगिन-कृत, ता- -न्तः अप्राय
३, २; -न्तम् शांश्रौ ४, १७,

१०; ९, २७, ५; काश्रौ; -तस्य

वाधूश्रौ ३, ४४ : १७; वैताश्रौ

२४, १२; -तान् काश्रौ २०, ६,

९; २३, ४, ७; आपश्रौ; -तानाम्

आपश्रौ १८, २, १४; बौश्रौ;

-तान् भाग्य २, १६ : ७; -ताय

शांश्रौ १५, २१, १; -तेषु शांश्रौ

१५, १५, ५; -तैः बौश्रौ ११,

४ : १२; १५, २८ : १९; १७,

१४ : १५.

पर्यगिन-कृत्य वैश्रौ १७, १० : ७.

पर्यगिन-स्नोक-मनोतो(ता-उ)ञी

यमान-सूक्त^k- -न्तानि आश्रौ

३, १, २२.

पर्यग्या(भि-आ)वावसुति^l- -ती

वैश्र ३, १६ : १४.

पर्यङ्क^m- पा ८, २, २२; पावाग ८, २,

१८^m; -ङ्कम् अय ४, १, १४.

पर्य(रि/अ)ङ्खस्, पर्यङ्खयातैⁿ

आश्रिगृ ३, ५, ७ : २५; बौपि

१, ७ : २.

पर्य(रि-अ)ङ्क- > ङ्ख्य^o- -ङ्गयाः

वाश्रौ ३, ४, ३, १३; शुश्र ३,

४१; -ङ्ग्याणाम् काश्रौ २०,

७, ४; बौश्रौ १५, ३० : २६; ३१ :

१५xx; -ङ्गयान् शांश्रौ १६, ३,

२८; काश्रौ २०, ६, ४; आपश्रौ;

-ङ्गेषु बौश्रौ २६, ११ : ६.

पर्य(रि/अ)ञ्ज, ङ्ज, पर्यणक्ति आपश्रौ

७, २, ३; भाश्रौ ७, १, ११; हिश्रौ

४, १, २०; पर्यनक्ति माश्रौ १,

८, १, ५; वाश्रौ १, ६, १, ८.

पर्य(रि-अ)ञ्य वैश्रौ १०, १ : १६.

पर्य(रि-अ)ञ्जन- -नेव वाश्रौ ३,

२, १, १७; २, ६, ५.

पर्य(रि/अ)ट, पर्यटेत् गौध ९, ३६;

पर्यट्युः जैश्र २, ७ : ४.

पर्यन्- परी(रि/इ) द्र.

पर्य(रि-अ)न्त- -न्तान् वैश्रौ १०, ४ :

१३^p.

पर्यन्ती(य>)या^q- -याः आपश्रौ

११, १०, ६^r.

पर्य(न्य>)न्त्या^s- -न्त्याः हिश्रौ

७, ५, २०; ७, १३^r.

पर्य(रि-अ)पे(प/इ)> पर्यपे(प-इ)त-

-न्ते आश्रिगृ १, १, ३ : ५०; ४ :

४३; ६, ३ : ५८.

पर्ययण- परी(रि/इ) द्र.

पर्य(रि/अ)र्ष, ऋपरि(अर्ष)श्रय २, ९,

५२; माश्रौ १, ४१६; ऋपरि(अर्षत)^t

कौसू ४६, ८; अश्र ६, २८.

पर्य(रि-अ)व/ञ्चि > पर्यव-चयन-

-ने वाधूश्रौ ३, १०० : ८.

पर्य(रि-अ)व/दा (< दौ)अव-

खण्डने^u, पर्यवचति आपश्रौ १९,

२२, ११; बौश्रौ १३, २९ : १०.

- a) व्यप. । व्यु. ? । b) < १पर्ण- + √अट इति पागम. । c) पर्णी- इति [पणे] भाण्डा. पापि. च ।
d) नाप. । व्यु. ? । e) = दारुमयशकटप्रायोपकरण- इति पागम. । f) वैप १ द्र. । g) प्राप्त. (वैतु. विद्याधरः
[काश्रौ ६, ५, १] बस. इति) । h) द्विगु सत् वा. क्वि. । i) ऽभिम् इति पाठः ? यनि. शोषः । j) विप. । बस. ।
k) द्वस. > कस. । l) द्वस. । m) तु. पागम. । n) = सपा. तैश्चा ६, १, ४ । श्रु १०, १६, ७ तु पर्यङ्खयाते इति,
शौ १८, ३, ५८ परीङ्खयाते इति च पामे. । o) वैप २, ३खं द्र. । p) सप्र. आपश्रौ ७, ४, ५ अन्तान् इति पामे. ।
q) विप. । तत्रभवीयशं च्छु प्र. उंसं. (पा ४, ४, ११७) । r) सप्र. न्तोयाः <> न्त्याः इति पामे. । s) विप. ।
माश्रौ वा अर्धे वा यत् प्र. । t) वैप १, १९६० इ द्र. ।

पर्य(रि-अ)व ✓घा, पर्यवदध्यात्
आपध १,३,४०; १०,३०; हिद्य
१,१,११६;३,५७.

पर्य(रि-अ)व ✓लुप् > पर्यव-लोपम्
बौश्रौ ६,२० : ४.

पर्य(रि-अ)व ✓शिष्, पर्यवशिष्येत्
वैताश्रौ ११,५.

पर्य(रि-अ)व ✓सो, पर्यवस्यति वाधूश्रौ
३,६९ : १९; पर्यवस्यन्ति बौश्रौ
१२,५ : १; १५,१३ : १३.

पर्यव-सान- -नात् गोष्ठ १,६,१६.

पर्यव-सित- -त्सु आग्निष्ठ २, ४,
६ : १.

पर्य(रि-अ)व ✓स्था > पर्यव-स्था^०-
-तरि पा ५,२,८९.

पर्यव-स्थित- -न्तः अप ७१, १, १;
-ताः वाध २५, १०.

पर्य(रि-अ)वे (व ✓ई), पर्यवेयात्
आपश्रौ ८,२१,४.

पर्यवेव्यत् निसू ४,८ : २८;३०;
३२.

पर्यवे(व-इ)त,ता- -तायाम् बौश्रौ
२६, २७ : २४; -ते आपश्रौ
१५, २१, २; बौश्रौ ९, २०, ३;
१८, ११ : ५××; बौग; -तेषु

बौश्रौ १२,३ : ४; ९××.

पर्यवेत-रात्रि^०- -त्रयः बौश्रौ १८,
४४ : १९.

पर्यवेत-व्रत^०- -न्तः कौसू ४२,
१३.

पर्यवेतव्रत-दीक्षिष्यमाण-
-णानाम् कौसू ५५,६.

पर्य(रि-अ)वे (व ✓ई) झ्, पर्यवेक्षेत्
जैश्रौ १९ : ६.

पर्य(रि ✓अ) झ् (व्याप्तौ), ङपरि...

अरनोतु आपश्रौ ६, १७, १२;
हिश्रौ ६,६,१६; ङपरि (अश्रौतु)
शाश्रौ २,१२, ७; काश्रौ ४,१२,
३; शुश्र १,१९८; चाश्र ७ : ४.

पर्य(रि ✓अ) झ् (भोजने) > पर्य(रि-
अ)श्नत्- -श्नतः शंघ १३३.

पर्य(रि ✓अ)स् (भुवि), परिष्टः ऋप्रा५,
१२ः; परिषन्ति ऋप्रा ५, १६ः

पर्य(रि ✓अ)स् (क्षेपणे), परि...अस्यते
अप्रा १, १, १५ः; पर्यस्यति

बौश्रौ ६,५ : ७; ७, ४ : ८×४;
माश्रौ; पर्यस्यन्ति शाश्रौ १८,
२४, २३; काश्रौसं २६ : ५;

वौश्रौ ४, ६ : ५५; पर्यस्यत्
बौश्रौ २५, १७ : ७.

पर्य(रि-अ)सन- -ने पावा ३,१,२०.

पर्य(रि-अ)स्त, स्ता- -स्तः वाधूश्रौ
२,१३ : ३; ४,१०६ : २; -स्तम्

शाश्रौ १,३, ५; वाश्रौ ३,१, २,
१४; -स्ताः माश्रौ ४, ७, ३;
-स्ताम् वाश्रौ ३,४,१,१४; -स्ते

बौश्रौ १४,१२ : ३.

पर्यस्ता(स्त-अ)क्ष^०- -क्षाः अश्र
८,६ः.

पर्य(रि-अ)स्य शाश्रौ २, ९, १४;
काश्रौ २५, ८, १२; काठश्रौ.

पर्या (रि-अ)स^०- -सः आश्रौ
६, ४, १०; शाश्रौ १२, ४-५,
३; १०, ५××; द्राश्रौ; -सम्

शाश्रौ १२, २, ९; ११, १७;
माश्रौ; -सस्य शाश्रौ १२, ३,
२१; ४, २१; ५, २२; -साः आश्रौ

६, ४, ९; ७, २, १२; ५, १४; शाश्रौ
१२, २, ३; ३, २, -सात् शाश्रौ

१२, १२, ४; २६, ४; मीसू ५, ३,

७; -सान् आश्रौ ७, १, १५;
शाश्रौ १२, ६, १९, -सानाम्

शाश्रौ ११, ३, २; १२, ८, ४; १४,
३, ११; -सैः शाश्रौ १२, २, २७.

पर्यास-वर्जम् आश्रौ ६, ४, १२.

पर्यास-स्थान- -नेषु आश्रौ ७,
५, १४.

पर्यासा(स-आ)घ-तृच- -वर्जम्
वैताश्रौ ३२, ३.

?पर्याकारम्^० आश्रौ ८, ३, १७ः.

?पर्याकाजनीनाम् वाश्रौ ३, १, २,
४४.

पर्या(रि-अ) ✓ख्या > पर्याख्या-
-ने पावा २, ४, ५४.

पर्या(रि-अ) ✓गम् > पर्यागत- -ते
आपश्रौ ५, २२, १२; २४, ८;
बौश्रौ.

पर्यागतवत्^० -वन्तम् या १०, २०.

?पर्यागारम्^० शाश्रौ १२, १८, १८ः.

पर्या(रि-अ) ✓चि (चयने) > पर्या-
चि- -पाग ६, २, १४६.

?पर्याज्य^० - -ज्यम् बौश्रौ २१, १३;
२६.

पर्याण-यजुस्^० - -जुः बौश्रौ २१, १० :
१०.

पर्या (रि-अ) ✓ण, नह, पर्या-
णह्यति माश्रौ २, १, ४, २३; पर्या-
नह्यति आपश्रौ १०, ३१, ५;
माश्रौ १०, १९, ५; वैश्रौ १२,
२२ : ४; हिश्रौ ७, ३, ४; तैप्रा
७, १६ः.

†पर्या-णह- -द्धम् आपमं १, ७,
१०; काण २६, ६.

पर्या-णहन- -नम् माश्रौ २, ५, ४,
३६.

a) = परि-पन्थिन्-। b) विप.। बस.। c) वैप १ द्र.। d) नाप. (अन्तिम-भाग- इति C.

। शाश्रौ.। e) वैप १, १९६१ e द्र.। f) = प्रधान-। नैप्र. < परि-आज्य- इति संभाव्येतेति भाष्यम्।

व्यु. ?। g) मलो. कस. पू.प. = परियाण- इति ?।

पर्या-नह्य आप्थौ १०, २७, १०.
 पर्या(रि-आ)✓णी, पर्याणयति हिश्रौ
 ११, ७, १७; आग्निग् ३, ५, ८;
 ३; बौग्; पर्याणयन्ति काश्रौसं
 २८: १.
 पर्या-णीय बौश्रौ ६, २: २७; ७, ३: १२;
 १६, २६: १; २१, ८: २७; हिश्रौ.
 पर्या(रि-आ)✓तन्, पर्यातनोति
 आप्थौ ११, ४, १५; भाश्रौ १२,
 ४, १८; हिश्रौ ७, ४, ४१.
 पर्यादि- प्रस्. परि द्र.
 पर्या(रि-आ)✓घा, पर्यादधाति कौस्
 ६१, ३२; ऋपर्याधत्त कौस् ६४,
 १४; पर्यादध्यात् अग्राम् २, १२.
 पर्या-दधत्- -धत्तम् कौस् ६४, १४.
 पर्या(रि-आ)धात- > ष्ते(न-इ)
 ज्या- -ज्ययोः बौध ४, ६, ७.
 पर्या-हित- -तः वैश्रौ २०, २६: ९.
 पर्या✓नह पर्या✓साह द्र.
 पर्या(रि-आ)प्, पर्याप्नोति बौश्रौ ७,
 १७: ३; ८, ७: १३; १३: १३.
 परी(रि-ई)प्सत्- -प्सन् वाधूश्रौ ३,
 २८: १.
 परी(रि-ई)प्सा- -प्सायाम् पा ३,
 ४, ५२; ८, १, ४२.
 परी(रि-ई)प्सु- -प्सोः वाधूश्रौ ३,
 ३१: ४.
 पर्या(रि-आ)स्र, सा- > पर्यासिक-
 पावा. पावाग ४, ४, १; -सायै
 वाधूश्रौ ४, ७९: २.
 पर्या(रि-आ)सि- -सीः आप्थौ २०,
 ११, ८; बौश्रौ १५, १८: १५;
 ३२: ५; ३६: १२.
 पर्यासि-वचन- -नेधु पा ३, ३, ६६
 पर्याप्य(सि-आ)र्थ-ग्रहण- -गम्
 पावा २, ३, १६.

पर्या(रि-आ)✓प्लु, पर्याप्लवते बौश्रौ
 ६, १०: १; १०, १९: १.
 पर्याप्लवयति भाश्रौ १, २५,
 ६; भाग् २, २१: ३.
 पर्या(रि-आ)✓भू, पर्याभवेत् वाधूश्रौ
 ३, ३१: ४; ३९: १९.
 पर्याय- परी(रि-इ) द्र.
 पर्या(रि-आ)✓यत्, पर्यायातयति
 बौश्रौ १४, २२: १५.
 पर्या-यातित- -ताः बौश्रौ १४,
 २२: २२.
 पर्या(रि-आ)✓यु > पर्या-युवत्-
 -वन् माश्रौ १, १, २, ५; भाग्
 २, २, ३.
 पर्यारिणी- पर्यु(रि-इ) द्र.
 पर्याली^० > ष्ली ✓कृ पा. पाग १,
 ४, ६१.
 पर्या(रि-आ)✓वह, पर्यावहन्ति जैश्रौ
 ३: ७;
 पर्या(रि-आ)✓वृत्, पर्यावर्तते बौश्रौ
 ३, २१: १२; १८, ३२: १४;
 ३३: ६; कौस् २४, ३०; ४६,
 ११; या ७, १४; पर्यावर्तते
 बौश्रौ १४, ७: १३; २६, ७: १६;
 वाधूश्रौ ४, १०२: ३; पर्यावर्तन्ते
 या ७, २४; ऋपर्यावर्ते काश्रौ
 २५, ११, २१; कौस् ४६, ११;
 अप ३२, १, ८; अग्र ७, १००; ऋ
 अर्ष ३: ५४ पर्यावर्तते आप्थौ
 परि (आ...वृत्त्यात्) शाश्रौ
 १४, २४, ५१.
 पर्यावर्तयति भाश्रौ २, १०, ८;
 हिश्रौ २, ४, २४; ऋपर्यावर्तयत्^०
 भाश्रौ १, ७, ४, ५१; वाश्रौ १,
 ७, २, ४३.

पर्यावरीवर्तते वाधूश्रौ ४, १०२:
 ४.
 पर्या-वर्तन- -नम् वाधूश्रौ ४, १०२:
 ५.
 पर्या-वर्तमान- -नः वैश्रौ १५, ३५:
 १४; हिश्रौ ८, ८, २४.
 पर्या-वर्तयत्- -यन् आप्थौ ३,
 ७, १; वैश्रौ ७, ६: ८.
 पर्या-वर्त्य आप्थौ १, ११, १; १९,
 ३; वाश्रौ.
 पर्या-वृत्त- -त्तस्य बौश्रौ ८, १०:
 १०; -त्ते आप्थौ १५, २१, ८;
 बौश्रौ ९, २०: १७; भाश्रौ.
 पर्या-वृत्त्य शाश्रौ २, ९, १४; ४, ४,
 १२; ६, ७, १०; आप्थौ.
 पर्या(रि-आ)✓अप्रिप्, पर्याश्रेषयते
 काग् ४०, १६.
 पर्या(रि-आ)स्, पर्यास्ते वाधूश्रौ ४,
 १५: ६; ७; पर्यास्ते, परि...
 आसते या १२, ३२; पर्याध्वम्[॥]
 आप्थम् २, १३, ७; पर्यासीरन्
 आप्थौ १५, १६, ७; भाश्रौ ११,
 १६, १०; वैश्रौ १३, १८: ३.
 पर्या(रि-आ)स- पर्ये(रि-इ)स्
 (क्षपरो) द्र.
 पर्या(रि-आ)✓सिच् > पर्या-सिच्य
 भाश्रौ १२, ३, १५; वाश्रौ ३, २,
 ५, ५७.
 पर्या(रि-आ)ह्, पर्याहुः आप्थौ १२,
 २४, ६; बौश्रौ १३, ३२: १०;
 भाश्रौ ५, २, २, ११; हिश्रौ २२,
 ५, ६.
 पर्या(रि-आ)✓ह् > पर्या-हृत्य शाश्रौ
 ७, ५, ४; १७, ७, ११; काश्रौ.
 पर्या-हियमाण- -गम् हिश्रौ २, ८,
 २०.

a) श्ताय इति संस्कृतुः टि. । b) तु. पासि., [पक्षे] भाख्वा. च । c) पाभे. पृ १५२५ m द्र. ।

d) तु. संस्कृतुः टि.; वैतु. हरदत्ता: < परि✓भस (क्षेपणे [तु. मू. XXV]) >

पर्युक्त- परि/वच् द्र.

पर्यु(रि/उ)ञ्, पर्युक्षति शाश्रौ ४, १८, ७; माश्रौ १, ६, १, १; वाश्रौ; पर्युक्षन्ते आश्रौ ६, १२, ७; ङपर्युक्षामि^३ आश्रौ २, २, ११; माश्रौ १, ६, १, १०; वाश्रौ १, ५, २, १५^३; पर्युक्षत वाग् १, ३७; पर्युक्षत आश्रौ २, २, ११; १३; वाश्रौ. •

पर्यु(रि-उ)क्षण- -णम् आश्रौ २, ४, २०; २५; शाश्रौ; कौग् १, ५, २९^१; शाग् १, ९, १७; -णात् आश्रौ २, ४, २२; -णे वाग् ४, ३.

पर्युक्षणी- -णीम् कौस् ८७, २४; ८९, ११.

पर्युक्षण-परिसमूहनो(न-उ) परि-

गुष्पकरण- -णैः वैश्रौ २, १, १४.

पर्युक्षण-वर्जम् द्राग् १, ५, १६.

पर्युक्षणा(ण-अ)न्त- -न्तान् गोग् १, ३, ५.

पर्यु(रि-उ)क्षत्- -क्षन् बौग् ३, ५, १९^०.

पर्यु(रि-उ)क्ष्य शाश्रौ २, ६, १०; ४, ३, ७××; काश्रौ.

पर्यु(रि-उ)द्वय^४- -यम् काश्रौ ४, ७, २२; १५, ११.

पर्यु(रि-उ)द्/अस्(क्षेपणे) > पर्युद्-
आस- -सः पावा १, १, २७.

पर्युदास-सामर्थ्य- -थ्यात् पावा ६, ४, १७१; ७, ३, ८५.

पर्यु(रि-उ)प/घा, पर्युपदध्यात् आपशु २०, २; ७; हिशु ४, १४; ६, ३९; ४७.

पर्यु(रि-उ)प/लिम्प, पर्युपलिम्पति गोग् १, ५, १४.

पर्यु(रि-उ)प/विञ्, पर्युपविशेते

आपश्रौ २०, १९, ६; पर्युप-
विशन्ते वैश्रौ १५, १३ : १;
२४ : ७; हिश्रौ ८, ३, ३२; १३,
६, २५; पर्युपविशन्ति आश्रौ
६, १०, १३; काश्रौ ७, ६, १५;
९, ४, १; आपश्रौ ९, ११,
२३^०××; बौश्रौ; हिपि २३ :
२७^०; पर्युपविशेयुः बौश्रौ २०,
१६ : ३५.

पर्युपविश्य काश्रौ १२, २, ४;
आपश्रौ २१, १०, १३^१; बौश्रौ;
आमिग् ३, १०, ५ : १०^०.

पर्युप-वेशन- -नम् काश्रौ ९, ५, १०.
पर्युपवेशन-सामर्थ्य- -थ्यात्
काश्रौ ९, ५, १.

पर्यु(रि-उ)प/स्तृ, स्तृ > पर्युप-
स्तारम् बौश्रौ १०, ५३ : १.

पर्युप-स्तीर्थ बौश्रौ २०, २४ : ३८;
२४, ३३ : २२.

पर्यु(रि-उ)प/स्था > पर्युप-स्थित,
ता- -ता नाशि २, ८, २; -ते
अप ७०^२, १६, ४.

पर्यु(रि-उ)पा(प/अ)स्(क्षेपणे), पर्यु-
पास्यति बौश्रौ १२, १० : १३.

पर्युपा(प-अ)स्य बौश्रौ १०, ५७ : २१;
११, ७, १०××; नाशि २, ८, ७.

पर्यु(रि-उ)पा(प/आ)स्, पर्युपासते
शंघ ४४०; बृदे २, ४९.

पर्युपासयेत् आमिग् २, ४, ७ : १७.

पर्युपा(प-अ)सित- -स्य बौध ३,
१, २२.

पर्यु(रि-उ)पो(प/उ)ष्(दाहे), पर्युपो-
षेत् बौश्रौ २०, ३१ : २२.

पर्युपो(प-अ)षण- -णम् बौश्रौ १४,

१३ : १४; -णे बौश्रौ २०, ३१ :
२२.

पर्युत्- परि/वप् द्र.

पर्यु(रि-उ)लूखल^५- (> पार्थुलूख-
ल्य- पावा.) पावाग् ४, ३, ५८.

पर्यु(रि/उ)ष्, पर्योषति माश्रौ १,
७, ६, ५४; ८, ६, २३.

पर्यु(रि-उ)षित- परि/वस् (निवासे)
द्र.

पर्युह्य, पर्युह्यमाण- , णमाना परि
वद् द्र.

पर्यु(रि/ऊ)ह् (प्रापणे), पर्युहते

माश्रौ २, ५, ५; १०, ६, ११,
पर्युहति काश्रौ ६, ३, ९; ८, ५,
२२; आपश्रौ १५, ४, ९; बौश्रौ;
पर्युहतः माश्रौ ११, ८, २;
ङपर्युहे द्राश्रौ ३, ३, २४; लाश्रौ

१, ११, १५; ङपर्युहामि आपश्रौ

११, १३, ७; १५, ४, ९; बौश्रौ;
ङपर्युह बौश्रौ १, ८ : ७; १०××;

हिश्रौ १, ६, १२.

पर्यु(रि-ऊ)हण- -णम् हिश्रौ ७,
७, ९.

पर्युहण-परिदंहण-परिषेचन-

-नानि आपश्रौ ११, १०, ३.

पर्युहणा(ण-अ)दि- -दि काश्रौ
८, ५, ३१; -दीनि वैश्रौ १४,
११ : २.

पर्यु(रि-ऊ)ह्य आपश्रौ १, १२, ३; २,
५, ६××; वैश्रौ.

पर्यु(रि/ऊ) > पर्या(रि-आ)रि(न् >)

णी^६- -णी आपश्रौ १९, १६, ११;
बौश्रौ २४, ३८ : १२; हिश्रौ २२,
१, ८; -णीः बौश्रौ १५, ७ : ३६;

-णीस् माश्रौ ५, २, १, २३.

a) पामे. वैप २, ३खं. परिषिञ्जामि तैत्रा २, १, ११, १^१ टि. द्र. ।

b) णनम् इति पाठः ? यनि.

शोधः (तु. शांठ.) । c) वैतृ. मैसु [१९०४ ई.] क्ष्यन् इति । d) अस. ।

e) पामे. पृ ३०३ ङ द्र. ।

f) वैप १, १९६२ j द्र. । g) = आहुति- ।

पर्यु(रि√कृ)प् (गतौ), पर्युषति शांश्रौ
१७, १०, ९; १५; काश्रौ ६, ३,
१०.

पर्ये(रि-आ√इ), पर्यायन्ति वाश्रौ ३,
२, ५, ४७; ऋष्येहि आपश्रौ ३,
१९, ६; भाश्रौ ३, १७, ४; माश्रौ.
पर्ये(श-ई)व्य शांश्रौ १५, १८, १;
१९, १; १७, ११, ४.

पर्येषणा- परी(रि√इ)ष्ट्र.

पर्येहि^१- (>ही- पा.) पाग ४, १,
७३.

पर्यो(रि-ओ)ष्ठ- (>पायौष्ठय-पावा.)
पावाग ४, ३, ५९.

√पर्व् पाधा. भ्वा. पर. पूरणे.

पर्व^१- ऋ: नाशि १, ६, ८; -वै भाश्रौ
६, १५, १४; माशि २, १०.

१पर्वत^१- (> १पर्वत- पा.) पाग ४,
३, ९३.

२पर्वत^१- पाठ ३, ११०; पावा ५, २,
१२२; -त: आश्रौ २, १३, ७१;
शांश्रौ ३, १५, १५; आपश्रौ;
अप ४८, १००^०; वृदे २, ३^१;
निघ १, १०१^०; या १, २०१^०;
६, ५; ७, १०; ९, ८; -तस् कौस्
५१, ७; अप; शंघ ११६: ५१; या
१०, ९१^०; -तस्य काश्रौ १५,
६, ८^१; बौश्रौ; -ता: आपश्रौ
१४, २७, ७^१; भाश्रौ १०, १८,
१०^१; हिश्रौ; या ९, ९^१;
-ऋतात आश्रौ ८, ११, १; शांश्रौ
६, १०, २; कौस्; -तान् आश्रौ
६, २, ११^१; शांश्रौ ८, २५, १^१;
हिश्रौ; -ऋतानाम् आश्रौ ६,

१४, १८; ९, ५, २; २८, १३;
आपश्रौ; पाग १, ५, १०^१; या
९, ३९; ११, ३७^१; -तानि अप
६८, १, ४९^१; -ते बौश्रौ १०, ४:
२८^१; माश्रौ ६, २, ४, ८; गोष्ठ;
पा ४, ३, ९१; ५, ४, १४७; -तेन
आश्रौ ६, ६, ११; अपश्रौ ९, १२,
४; १४, २२, ३^१; भाश्रौ; -तेषु
कौस् ११५, २^१; अप ६२, ३, ४;
शंघ ९९; विघ ८५, ५८; ९९,
१६; -ऋतै: बौश्रौ २, १०:
३; आपमं २, १९, ४; आग्रिष्ट.
ऋतपर्व(त>)ती^१- ती^१ माश्रौ
१, २, २, २६^१; वाश्रौ १, २, ४,
६१; ६२^१; -ऋत्यै: अप ४८,
७६; निघ १, १३.
ऋतपर्वते(य>)यी^१- यी^१
आश्रौ १, २१, ३; बौश्रौ १, ७:
७; भाश्रौ १, २३, ३; वैश्रौ ४, ८:
५; हिश्रौ १, ५, ८१.
पर्वत-ना^१- गा: बौश्रौ १८, ४७: ७.
पर्वत-नामन्- मभि: या २, २१.
ऋतपर्वत-रु^१- षम् आपमं २, ९,
१; हिष्ट १, ११, ५.
पर्वत-मेषज- जम् आपमं २, ९, १^१
पर्वत-मस्तक- के विघ ७०, १७.
ऋतपर्वत-वर्चस- सम् बौश्रौ १७,
४२: ५; आपमं २, ९, १; माष्ट
२, २२: ७.
पर्वत-वर्च वृदे ४, ५.
पर्वता(त-अ)ग्र- ग्रम् अप ६८, २,
४; -ग्राम् अप ६८, ५, २.
पर्वता(त-अ)न्तरय^१- ये आपश्रौ

१४, २०, ४^१.
पर्वता(त-अ)युष- षम् आपमं २,
९, १^१.
ऋतपर्व(त>)ता-वृष्ट^१- वृष्ट: ऋष्या
९, १७.
पर्वति^१- ति: बौश्रौ १, ७: ७^१.
पर्वतीय- पा ४, २, १४३.
पर्वते-छा^१- छा^१म् या ६, ३^१.
ऋतपर्व(त्य>)त्या^१- त्या^१म् आपश्रौ
१, २१, ३; बौश्रौ १, ७: ६;
भाश्रौ १, २३, ३; वैश्रौ ४, ८: ४;
हिश्रौ ७, ५, ९.
३पर्वत^१- त: ऋष्य २, ८, १२; साञ
१, ३८४; ३९४; अग्र २०,
१११^१.
पर्वतायन-, पर्वति- पा ४, १,
१०३.
३पर्व(त>)ती- तीम् शंघ
११६: २५.
पर्वत-नारद- द्यो: चाञ ३९: ९;
-वै शांश्रौ १५, १७, १; ऋष्य २,
९, १०४; साञ १, ५७४; ५७५.
पर्वताष्टीरा: सु २५, ५.
पर्वन्^१- पाठ ४, ११३; -वै आपश्रौ
१, २, १३^१; ऋश्रौ १, २:
११×४; भाश्रौ; या १, २०^१;
६, २०^१; ११, ३१; -वर्ण: शांश्रौ
३, ११, ९; १३; हिश्रौ ३, ५, २०;
२८; ५, १, २; -वर्ण ऽ-वर्ण: काश्रौ
५, ११, ३०; -वर्णा निस् ८, ९:
१२; शौच ४, ७७; शुषा ५, ७;
-वर्णाम् आश्रौ ९, २, २; आपश्रौ
८, २२, ४; कौस्; -वर्णि आश्रौ

a) अर्थ: व्यु. च। b) = पर्वन्-। c) = देश-विशेष-। व्यु. ?। d) वैप १ द.।

e) = मेष-। f) = वज्र-। g) लोकालोकपालाऽन्यतम-। h) पासे. वैप १, १९६३ ० द.। i) अर्थचर्चित्व-
द.। j) पासे. पृ १८७ i द.। k) पासे. वैप १, १९६४ ० द.। l) नदी-नामन्-। m) उस. उप. <√गम्।
n) उप. = पौष-। o) षस. उप. भाप. (<बन्ध्+√ह्)। p) वैप १, १९६४ III द.। q) = ऋषि-विशेष-।
व्यु. ?। r) पा इति पाठ: ? यनि. शोच:।

२,१,१२; ४,२; शांश्रौ; -र्वणि-
 ऽ-र्वणि शांश्रौ १५, १०, १७;
 बौश्रौ १९, १० : ६०; बौश्रौप्र;
 -र्वणी आश्रौ १, ७, १; आश्रिण
 ३, ५, १ : १०; बौपि १, १ : ९;
 शुप्रा १, १३८; -र्वणे काठश्रौ
 १७; आश्रिण २, ६, ७ :
 ३७; -र्वणोः वैश्रौ ६, ११ :
 ११; लाश्रौ १०, १८, ४; -र्वन्
 कौस् १, २५; ६१, ३९; -र्वमिः
 आपश्रौ ८, २२, ८; बौश्रौ १८,
 ३२ : १२; भाश्रौ; -र्वसु आश्रौ
 २, १६, २६; आपश्रौ ८, ४,
 ४; बौश्रौ; -र्वसुऽ-र्वसु चव्यु
 २ : ३३; -र्वा अश्र १२, ५,
 (५)र्; -र्वाणि आश्रौ ९, ३, ४;
 आपश्रौ; या ६, २०.
 पार्वण- -णः आश्र १, १०, १;
 शांश्र ५, ४, १; बौश्र; -णम् शंघ
 २४०; -णे बौश्रौ २०, १ : १०;
 २९, ८ : ६; ९; आश्र ४, ७, १;
 काश्र ४२ : २३; शंघ २१०;
 -णेन बौश्रौ २०, १ : १०; २६, १ :
 ७; आश्रिण; -णो आपश्रौ २, २०,
 ५; बौश्रौ १, १७ : ११; भाश्रौ.
 पार्वण-वत् आश्रिण २, ७,
 ९ : ४१; आपश्र १८, ६; २२, १;
 भाश्र ३, २१ : ५.
 पार्वण-होम- -मयोः मीस्
 ९, २, ५१; -मौ आश्रिण १, ७,
 ३ : २४.
 पर्व-कार- -रान् विध ८२, १८.
 पर्व-तन्त्र-> -न्त्र-क- -के काश्र ४२ : १५.
 पर्वतन्त्र-देवता- -ताः काश्र ४२ : १४.
 पर्वतन्त्र-प्रधान-निर्णय- -यः
 काश्र ४२ : ५.
 पर्व-तिथि- -थ्या बौश्रौ १३, १ : ३.
 पर्व-दक्षिणा- -णा जैश्र १, १४ :
 १२; -णाः गोश्र ३, २, ४४.
 पर्व-देवता- -ताभ्यः शांश्रौ १५,
 ५, ६.
 पर्व-भां(भ-अं)श-समन्वि(त>)
 ता- -ताम् वेज्यो २०.
 पर्व-भा(भ-अ)दान-कला-
 -लाः वेज्यो २१.
 पर्व-मा(त्र>)त्री- -त्रीम् कौस्
 ८७, १५.
 पर्व-मैथुन-°निन्- -नी शंघ ३७८.
 पर्व-वत्- -वति या २, ६; -वाद् या
 १, २०.
 पर्ववती- -ती या ९, २६.
 पर्ववच्-छेप- -पः या १०, ४२.
 पर्व-वर्जस् वाध १२, २१.
 पर्व-घ(१)ल्ल(ल्लव)-वत्->
 °द-ओषधि- -धीः काश्र ४० :
 १५.
 पर्व-संस्था- -स्थासु काश्रौ ५, २,
 १३.
 पर्व-संमत- -ताः वेज्यो १५.
 पर्व-स्थ- -स्थः अप ५३, ६, १.
 पर्व-स्थान- -नेषु काश्रौ २२, ७, १.
 पर्व(र्व-आ)दि- -दीन् द्राश्र ३, २,
 १८.
 पर्व(र्व-अ) नारोग्य-वर्जस् विध

५४, ८.
 पर्व(र्व-अ)न्तर- -रेषु आश्रौ ९, ३,
 ५; काश्रौ २२, ७, १७; २४,
 ६, ४ × ×.
 १पर्वयेत् त्रि-पर्वी- टि. द.
 पर्वर- पाउना २, १२२.
 पर्वि- पाउभो २, १, २३४.
 १पशु,शू- -पाउ ५, २७; पाग ५, २,
 ९७; -र्षीवः अश्र ११, ३; या
 ४, ६०; -शुंः बौश्रौ ७, १० : ११;
 या ४, ३०; भाश्र ४१; -शुम्
 आपश्रौ १, ३, ४; ऋकौस् १, २४;
 ८, ११; ६१, ३८; -श्वं आपश्रौ
 ११, ५, २; भाश्रौ १२, ४, १९;
 हिश्रौ ७, ४, ४४.
 पार्श्व- -पाउ ५, २७; पाग २,
 ४, ३१; ५, २, ९७; पावा ४, २,
 ४२; पावाग ५, ४, ४४; -श्वैः
 काश्रौसं २५ : २०; -श्वम् आश्रौ
 १२, ९, ५; जैश्र २, ३ : ८; वप्र;
 याश्र, ३०; -श्वयोः शांश्रौ ४, १४,
 २८; काश्रौ २५, ७, ३०; आपश्रौ;
 -श्वस्य बौश्रौ ४, ६ : ५५; ९ :
 ३; कप्र ३, १०, ५; -श्वीत् कौस्
 ५८, १; -श्वानि जैश्र २, ३ : १३;
 अप ४२, १, ५; -श्वीभ्याम् हिपि
 ९ : ९; अप ५८, ४, १४; -श्वै
 शांश्रौ ४, १४, २९; काश्रौ ६, ७,
 ६; १६, ८, १२; आपश्रौ; -श्वेन
 काश्रौ ६, ८, ११; आपश्रौ; -श्वैः
 कौश्र ४, १०; शांश्र ४, १८, ६;
 आपश्र; -श्वौ अप ४८, ६०; ऋ
 निघ ३, ३०; शैशि १४२.

a) = शब्द- । b) पाठः ? णि इति शोधः संभाव्यत । c) विप. > नाप. (याग- आद्ध- प्रभृ.) ।
 ताद्वितः प्र. । d) नाप. । उस. । e) उप. = २दक्षिणा- । f) विप. (तिथि-) । षस. > षस. > तुस. ।
 g) षस. > षस. > मलो. कस. । h) विप. । वस. । i) पाठः ? यनि. शोधः । j) षस. उप. = समाप्ति- ।
 k) वैप १६. । l) भारुडा. पाठः । m) तु. पाप्ति., परशु- इति पाका. । n) बप्रा. । o) < √ स्पृश इति ।
 p) = पार्श्वमानी- (रज्जु-) । q) = यावापृथिवी- । r) पार्श्वे इत्यपि दे. ।

१ पार्श्व-क^० - पा ५, २, ७५.
 २ पार्श्व-क (>) का^० - काः
 विध ९६, ७६.
 पार्श्व-चारिन्^० - ररिणः अत्र
 ५२, १४, २.
 पार्श्व-तस् (ः) शाश्रौ १४,
 ५०, १; काश्रौ; या ४, ३; पार्श्वतः
 ३ पार्श्वतः माश्रौ ५, २, ९, ५.
 पार्श्वतीय- पागवा ४, २,
 १३८; पावा ४, ३, ६०.
 पार्श्व-देश- -शे कौसू ४४,
 २८.
 पार्श्व-भेद- -दः अत्र २२,
 ६, १.
 पार्श्व-मा(न>)नी^० - नी
 बौश्रौ ६, २७; ३१; १२, १: ५;
 काश्रु; -नीम् काश्रु ३, १; आपश्रु
 २, ९; ३, १; बौश्रु २: ४; हिश्रु
 १, ३०; ३९; -न्याः काश्रु ७,
 ५; -न्यौ आपश्रु ४, ७; ६, १५;
 हिश्रु २, ६; ४१.
 पार्श्वमानी-संमि (त>)
 ता- -ताम् काश्रु ३, १.
 पार्श्व-ल- पा ५, २, ९७.
 पार्श्व-शय- पावा ३, २, १५.
 पार्श्व-शाधिन्- -थी अत्र ५०,
 ४, ६.
 पार्श्व-संस्थित- -ताः काश्रु
 ७, ७५.

पार्श्व-संहित- -ते लाश्रौ ८,
 ६, १५.
 पार्श्व-सक्थि-सव्य^० - -न्या-
 भ्याम् पाश्रु ३, ३, १०.
 पार्श्व-संधान- -नम् बौश्रु ५:
 १८.
 पार्श्व-सहित- -ते काश्रौ २२,
 ४, १९.
 पार्श्व-स्थ- -स्थम् वृदे ७,
 १४९; -स्थेन आश्रौ १, ३, २५.
 पार्श्विक^० -> ँक-छूत-चौ-
 र्या (य-आ) स-प्रतिरूपक-साह-
 स^० -सैः विध ५८, ११.
 पशु-मय- -यम् या ४, ३.
 पशु-ल- पा ५, २, ९७.
 पश्चा(श्रु-आ)दि^० पावा ४, १, १७५.
 २ पशु^० - (> पार्श्व- पा.) पाग ५, ३,
 ११७.
 ३ पशु^० -> पार्श्व^० - -व्यस्य ऋअ
 २, ८, ६.
 पशु- १ पशु- द्र.
 √पर्ष √वर्ष टि. द्र.
 पर्ष^० - -र्षान् या ३, १०.
 पर्षद^० - पाश्रु १, १३०^०; पाग ४, २,
 ६०^०; ३, ११८^०; -र्षत् वाद्य
 ३, २०; बौध १, १, ८; -र्षदः
 पाश्रु ३, १३, ४; -र्षदम् पाश्रु
 ३, १३, ४; शंघ २५३.
 पार्षद^० - -दम् चव्यु २: ३१;

अत्रा १, १, १; -दानि या १, १७;
 -दे अत्र २: ४४.
 पार्षदक- पा ४, ३, ११८.
 पार्षदिक- पा ४, २, ६०^०.
 पार्श्व-सुक्त-जल-छटा^० - -टाः कप्र
 १, १०, ११.
 ?पार्श्व अत्राय २, ९.
 पार्षिक- (> पार्षिक्य- पा.) पाग ५,
 १, १२८.
 पार्षिका- (> पार्षिक-) परिषक- टि.
 द्र.
 √पल् पाधा. भ्वा. पर. गतौ.
 १ पल- १ पाल- पा ३, १, १४०.
 २ पल^० - -लम् अपर ३, ३, २; -लानाम्
 अत्र ३, ३, ४; ५; -लानि
 वेज्यो २४.
 पलै(ल-ए)कशत- -तम् अत्र ३, ३,
 २, ५.
 ३ पल^० -> १ पल्य^० -> ल्य-वर्चस-
 -सम् पावा ५, ४, ७८.
 पल-द^० - -दम् वाश्रु ४, २१; -दानाम्
 अत्रा ३, ४, ११.
 पलदी^० - (> पालद- पा.) पाग ४,
 २, ११०.
 पलल^० - पाश्रु १, १०६; पाग ५, २,
 १००; -लम् अशा १५, ३.
 पलल-न- पा ५, २, १००.
 पलल-सूप-शाक- -कम् पा ६, २,
 १२८.

a) = मायाविन्- इति पाका. । b) = बहिक- । तत्रभवीयः कः प्र. । c) विप. । उस. । d) = रज्जु-
 विशेष- । उस. उप. करणे <√मा (माने) । e) सपा. °संहिते <> सहिते इति पाभे. । f) द्वस. > कस. ।
 g) = दास्य- । तत्रभवीयष उक् प्र. । h) द्वस. । आप्त- = भैक्ष- , प्रतिरूपक- = छयन्- । i) °सं प्रतिरूपकसाहसौ
 इति जीस. । उक्कोचछूतदौष्यार्तप्रति° इति नारदस्मृतिः (३^२, ४७) । j) = आयुषजीविसंघविशेष- । k) व्यप. ।
 व्यु. ? । l) यन् प्र. उसं. (पा ४, १, १०५) । m) वैष १, १९६५ ७ द्र. । n) परि-षद-> नैष. यनि. (तु.
 अमा.) । o) <√पृष् । p) तु. पागम. । q) = ग्रन्थ-विशेष- । r) परि-षद- टि. द्र. । s) तात्रमविक-
 अष प्र. । t) तुस. > कस. > पस. । पर्षद- = सगृह- । u) = परिमाणविशेष- । व्यु. ? । v) = मांस- । व्यु. ? ।
 w) = मांस-भोजिन्- । तदहर्तीयर्थे यन् प्र. इति पासित. । x) वैष १ द्र. । y) अर्षः व्यु. च ३ = देह-
 विशेष- इति पागम., = ग्राम-विशेष- इति अत्र. ।

पल्लो(ल-ओ)दन- नः अण १,
३४, २.
पलाण्डु^६- पाठवृ १, ३७; -ण्डुम् वैध
२, १५, ५.
पलाण्डु-लघुन-प्रस्थ- -स्थम् अण
३६, ७, २.
पलाण्डुवा(ण्डु-आ)दि- -दीन् वैध
३, ५, ८.
प(रा>)ल्ला(ला/अ)य्, पलायते
आमिष्ट २, ५, १० : ३३; या ४, २;
१०, ११; पलायन्त वाधूश्रौ ४,
४५ : ९; ५३^२ : २; ५९^२ : २;
६० : ३; पलायते काश्रौ २५,
९, १; माश्रौ ३, ५, २; वाधूश्रौ;
पलायेरन् आपृ २३, ७.
पलायिषत् वाधूश्रौ ४, ६० : ४;
फंपलायिष्ठाः शाश्रौ १३, २, ४;
आश्रौ ९, १८, ४; बौश्रौ;
हिश्रौ १५, ८, ६^१; पलायिष्महि
वाधूश्रौ ४, ४५ : १३; १४; ५३^२ :
५; ७
पला(ला-अ)यन- -ने वुदे २, १०९;
आज्यो ४, ७.
पला (ला-अ) यमान- -ने शाश्रौ
१३, २, ४.
पला(ला-अ)यित- -ते शाश्रौ १३,
२, ७; काश्रौ २३, ४, १५;
आपश्रौ ९, १८, ४; हिश्रौ १५,
८, ६; ११.
१पलाल^८- पाठ १, ११८; पाण २, ४,
३१^६; फि ६७; -लः अण ७०^३,
१८, ४^६; -लानि वैश्रौ ११, १० :
९; कौसू ८०, २७.
पलाली^९- (> ळि-न- पा.)
पागवा ५, २, १००.

पलाल-क- -कम् अण २, ५, ३.
पलाल-भार- -रः गौघ २२, २५;
-रम् शंघ ४०१; सुघ ३८.
पलालभार-क- -कम् विध ५०,
३५.
२पलाल^८-> ळा(ल-अ)नुपलाल^८-
-श्रौ अण ८, ६१.
पलाल^८- -वान् कौसू ६१, २५१.
१पलाश^८- पाठभो २, ३, १४४^६;
पाण ४, २, ७५; ९०; ३, १४१; ६,
३, १०८^६; -शः वैश्रौ १०, १ :
११; हिश्रौ ३, ३, ३७; बौष्ट २,
५, ६३; भाष्ट १, १० : ४; अण
२३, ६, ५; २६, ५, ६; -शम्
माश्रौ ५, ५, १४; माश्रौ १, ५, २,
१८; वाश्रौ; या १२, २९^६;
-शस्य माष्ट १, १७, ६; वाष्ट २,
४; ५, ४२; कौसू; -शान् कौष्ट
१, ८, १९^६; -शानाम् भाश्रौ १,
६, ९; -शानि शाश्रौ ४, १८, ५;
१९, ७; आपश्रौ; -शे आपश्रौ
१, ६, १०; बौश्रौ १, ३ : ४;
भाश्रौ; -शेन आष्ट ४, ८, १८^१;
कौसू ४२, २०; विध ९४, १३;
-शेषु पाष्ट २, १५, ४; भाष्ट २,
१० : १५; हिष्ट २, ९, ९.
पलाशा^९- पा ४, २, ७५; ३,
१४१; -शः शाश्रौ १७, ३, ४;
आपश्रौ ७, २, १७; बौश्रौ; -शम्
शाश्रौ ४, १६, ३; काश्रौ ६, १,
८; २१, ३, ३०; आपश्रौ; -शाः
आपश्रौ २०, ९, ७; ८; भाश्रौ १,
५, ६; वाधूश्रौ; -शात् वाधूश्रौ ३,
४१ : ३४; -शान् काठश्रौ ६;
बौश्रौ १५, १४ : ४; २३ : २; वाश्रौ;

-शानि आपश्रौ १५, ५, ११;
वैश्रौ १३, ७ : १६; हिश्रौ २४,
२, ५; -शे काश्रौ १५, २, २; ६,
१०; आपश्रौ; -शेन काश्रौ १५,
५, ३१; ६, १२; आपश्रौ; -शेषु
पाष्ट ३, ८, ११; -शैः काश्रौ
१९, ३, १२.
पलाशी- -शी शाश्रौ
१७, ३, २; काश्रौ १, ३, ३५;
काठश्रौ; -शीः काश्रौ १६, ४,
४०; निसू १, ११ : ४; शांष्ट;
-शीम् शाश्रौ २, ८, २२; आपश्रौ
६, ८, ५; ९, ३; १६, १, ७; बौश्रौ;
-श्यः आमिष्ट ३, ८, १ : ४;
१५; काष्ट ४, १८; बौपि १,
१४ : ४; १३; अण २३, ९, ४;
-श्या वैश्रौ १, ५ : १; वैष्ट ५,
२ : १७; कौसू ४३, २०; ८२, २५.
पलाशा-खादिशौ (र-ओ)
दुम्बर- -राः विध २७, २१.
पलाशा-त्सर- -रूणि अप्राय
३, ८.
पलाशा-दण्ड- -ण्डाः वैष्ट ५,
१२ : ६.
पलाशा-पर्ण- -णैः वैष्ट ७,
३ : ९; १२; ४ : १५.
पलाशा-पात्र- -त्रेषु वाश्रौ
३, ४, ५, ७.
पलाशा-वैकङ्कत-कार्मर्य-
बैल्व- -स्वान् आश्रौ २, ८, १.
पलाशा-शङ्कु- -ङ्कुना
आमिष्ट ३, ४, ५; ३; -ङ्कुन् बौपि
३, १० : १.
पलाशा-शाखा- -खाभिः
आमिष्ट २, ७, २ : १५.

a) नाप. (प्याज इति नमा.)। व्यु. ?। b) अप^० इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. आपश्रौ.)। c) वैष १
द्र.। d) तु. पागम.। e) अर्थः ?। f) = महत्-गलाल- इति पागम.। g) < √पल् (अर्थः ?)।
h) सपा. शांष्ट १, १३, ६ ? सपल्लशान् इति पागे.। i) स्वार्थे विकारार्थे च अण् प्र.।
वैष४-प्र-१२

पलाश-समिध्- -मिधः
 आम्रिण् २,५,४:५.
 पालाशा(श-अ)मि- -मौ
 अष ३५,१,८.
 पालाशा(श-अ)ङ्कुर- -राणि
 वैगु २,७:५.
 पलाश-कषाय- -येण^१ आपश्रौ १६,
 ४,१; वैश्रौ १८,१:६०; -यैः
 हिश्रौ ११,१,४४^२.
 पलाश-कार्मर्य-खदिरो(र-उ)
 दुम्बर-बिल्व-रोहीतक- विकङ्कत-
 -तानाम् आपश्रौ १,५,८.
 पलाश-खदिर-बिल्व-रौहीतक- -का:
 आपश्रौ ७,१, १५.
 पलाश-खदिर-बिल्व(त्व-अ)श्वत्थ-
 शमी- -मीनाम् वैश्रौ ११,१०:
 ११.
 पलाश-जात- -तानि बौश्रौ २४,
 २३:४.
 पलाश-त्सरु- -रुणाम् जैगु २, ४:
 १; कौसु ८३,२४; -रुन् कौसु
 ३५,७.
 पलाश-दण्ड- -ण्डम् आपश्रौ १४,
 २५,५^३.
 पलाश-दूत^४- -तेन आगु १,१२,२.
 पलाश-पत्र-पुट- -टे गौपि १, २,
 १६; ५,२५.
 पलाश-पत्र-मध्यम- -मेन काश्रौ
 ५,१०,७.
 पलाश-पर्ण- -र्णेन आश्रौ ३, १०,
 २३; आश्रौ ८,१७,१२; ९,२,
 ५; वाश्रौ; -र्णेषु बौगु २,५,
 ३३.

पलाश-पर्ण-वृन्त^५- -न्तस्य सु २,
 ३.
 पलाश-पलाश^६- -शम् भागु १,२४:
 २; -शानि शाश्रौ ४, १८, ५;
 -शे भाश्रौ ८,२१,७.
 पलाश-पुट- -टे काश्रौ २५, ८, १;
 -टेन काश्रौ १६,६,२६.
 पलाश-फाण्ट^७- -ण्टेन वैताश्रौ २८,
 ११.
 पलाश-बिल्व-पत्र- -त्राणि वाध
 २७,१२.
 पलाश-मूल- -ले हिपि ९:१२.
 पलाश-यष्टि- -ष्टीनाम् कौसु १८,
 ३२.
 पलाश-व(त्)ती- -तीम् माश्रौ
 १,८,३,२; वाश्रौ १,६,४,३.
 पलाश-वल्क- -ल्कैः आपश्रौ ९,११,
 २३; आम्रिण् ३, १०, ५:४;
 हिपि २३:२१.
 पलाश-विदारी- -र्यौ कौसु ३५,४^८.
 पलाश-वृक्ष- -क्षस्य शंघ ४११;
 पलाश-वृन्त- -न्तानाम् काश्रौ २५,
 ८, १४; आपश्रौ ९, ११, २३;
 कौगु ५,६,५; आम्रिण् ३,१०,५:
 २; बौपि ३,७, ३; हिपि २३:
 २० -न्तानि शाश्रौ ४,१५, ९;
 -न्तेन काश्रौ २५, ८, १; -न्तैः
 बौपि ३,८,१; गौपि २,१,७.
 पलाश-शकल- -लम् आम्रिण् ३,
 १२,२:१.
 पलाश-शाखा- -खया शाश्रौ ४,
 १४,७; काश्रौ; -खा शाश्रौ ४,
 २०,५; -खा: आम्रिण् ३,८,१:

१२; -खानाम् वैगु ५, १२:
 ३; -खामि: शाश्रौ १०, २१,७;
 -खाम् शाश्रौ ४,१७,५; आपश्रौ
 १,१,८; बौश्रौ; -खायाम् शाश्रौ
 ४, १७, ९; बौश्रौ २५, ९:३;
 -खे आपश्रौ १०,२८,३; भाश्रौ;
 कौगु ५,३,२९^९.
 पलाश-समिध्- -मिधः वैगु ६,
 १०:२.
 पलाश-संदंश- -शेन गौपि १,५,
 २३.
 पलाशा(श-अ)पचार^{१०}- -रे आगु
 १,२२,२१.
 पलाशा(श-अ)यो-लोह-हिरण्य-
 -ण्यानाम् कौसु ४६,३.
 पलाशावाणपर्ण- -र्णेन अप्राय ४,
 ३^{११}.
 पलाशीय- पा ४,२,९०.
 पलाशो(श-उ)दुम्बर-जम्बु-कामपील-
 स्रग्-वङ्ग-शिरीष-स्रकृत्-वरण-
 बिल्व-जङ्घिड-कुटक-गार्ही-गाला-
 वल-वेतस-शिम्वल-सिपुर्. रं-
 दना(न-अ) रणिका(क-अ)रम-
 योक्त-तुन्यु-पूतदारु- -वः कौसु
 ८,१५.
 पलाशो(श-उ)प(मा>)म- -मा:
 वैश्रौ ११,११:१.
 रपलाश- (>^{१२}शिक-^{१३}शिल- पा.)
 पाग ४,२,८०^{१४}.
 पला(ल-अ)शन^{१५}- -नात् या १२,२९.
 पलिक्नी^{१६}- पावा ४,१,३९; -क्नी:
 ऋषा ४,९६; शंसि ६५; २५४.
 पलि-घ- परि✓हन द्र.

a) परस्परं पाठे. b) मलो. कस. (तु. Old.) c) षस.>षस. d) षस. उप.=पत्र-।
 e) षस. १ पाण्डेन इति पाठः? यनि. शोघः (तु. C. [पक्षे], माश्रौ ६, १, २, २ पर्णवल्कलफाण्टमिः इति, ?शाकष्टेन
 इत्यपि सोमादित्यः)। f) श्यौ इति पाठः? यनि. शोघः (तु. सा [शौ ३, २३, १])। १तीपला इति पाठः चिन्त्यः
 (तु. सस्य. टि. बृहती)। g) खे इति पाठः? श्वयोः इति शोघः (तु. तत्रैव तयोः इति)। h) षस. उप.
 =अभाव-। i) वैप १,१९६६ p.द्र.। j) वैप १.द्र.।

पलिङ्ग^{ab}-(>पालिङ्गिन्- पा.) पाग
४,३,१०६.

पलिङ्गु^a-ङ्गवे हिय २,२०,१.

३पलित^a- पाउ ३,९२^d; ५,३४; पा,
पाग ५, २, १२,७; पाग २,४,
३१^e; -०त शांश्रौ १६,२९,७^f;
-फ्तः बौश्रौ १४, ७:३; कौस्
१०२,२; वृदे ४,३३^g; या १४,
१८^h; -तम् कौस् १३, १२;
-फ्तस्य शांश्रौ १८, २२,७; या
४,२६ⁱ.

पलित-वत्-वान् शंघ २२०.

२पलित-(>पालित्य-पा.) पाग ४,
२, ८०.

पलि-योग- परि√युज् द्र.

पली (लि<रि√इ [पतौ]), पल्ययते
वाश्रौ ३,१७:१.

पलीजक^a-कम् अप्रा ३,४,१^f.

पल्ल- पाउना ४,९६.

√पल्लू^f पाधा. चुरा. पर. लवन-
पवनयोः.

पल्लू^a-ल्ला: बौश्रौ १९:३.

√पल्लुलि (<पल्लू.०), पल्लूयति
बौश्रौ ११, ६:१९; १२, ७:
३२; पल्लूयन्ति बौश्रौ २,२०:
३; १७, ५१:१०; २८, ८:३;
पल्लूयतः बौश्रौ ११, ६:३;
पल्लूयेयुः वाश्रौ १,४,१,१२;
हिश्रौ २,६,५९.

पल्लून^b-नम् बौध २,५,८; -ने
कौस् ११, १६; -नेन बौश्रौ २,

२०:२; १७, ५१:१०; २८,
८:३; वाश्रौ १, ४, १, १२;

हिश्रौ २,६,५९.

पल्लूयित-तः बौश्रौ २, १७:
१६; -तम् बौश्रौ ४, ५:१;
-तौ बौश्रौ १०,१:१७.

पल्लूयित-विहित-तम् कौस्
६७,२३.

१पल्य-३पल-द्र.

१?२पल्य^h- पाउना ४,१२१; -ल्ये
कौस् २१,७ⁱ.

पल्यङ्ग^j- पा ८,२, २२; पावाग ८,२,
१८^e.

पल्य (लि<रि√अ)ङ्गा>पल्य
(लि-अ)ङ्ग्य काश्रौ ८,२,१.

√पल्यूल √पलूल टि. द्र.

पल्लव^k- पाउमो २, ३, १३^l; पाग
२, ४, ३१; ५, २, ३६; ४, ३^m;
-वैः अप ५,२,२.

पल्ल(वक>)विका- पा ५,४, ३ⁿ.

पल्लवित-पा ५,२, ३६.

पल्लि^o, ल्ली^p]-(> पाल्लक- पा.)
पाग ४, २, १२७.

पल्ल^q-ल्ले बौश्रौ १८,४३:७; २०,
६:४^r; २६,३३:१२; बौपि १,
१४:१९^s.

पल्ल^t- पाउ ४,१०,७; पाग ६, २,
८५^u; -लानि बौश्रौ १५, १:
५; -ले पाग २,१,२२; आश्रिय
३,८,१:२१; बौय २, ८, २१;
-लेषु विध १,१४.

पाल्व (ल >)ली^v-ल्यः विध
१,१४.

पल्वल-कूप-नदाग-नदी-तीर- -रे
अप ६५,२,८.

पल्व (ल्य >)ल्या^w-ल्ला: बौश्रौ
१२,८:११; २९, १०:३.

√पव् √प्लव् टि. द्र.

पवमान-, ष्वित्-प्रम् √पू द्र.

पवण्डुरिक^x-(>पावण्डुरिकेय- पा.)
पाग ४,१,१२३.

पवस्त^y-स्तैः अप्रा ३,३, ८^f.

पवि^z- पाउ ४, १३९; -विः फ्रअप
४८, १०२; १०४; फ्रनिघ १,
११; २, २०; ४, २; या ५,
५^g; १२, ३०^h; -विना बौश्रौ
७, ५:७ⁱ; -ग्या या ५,५^j.

१पवी-२^k-रम् या १२, ३०.

फ्रपवीर-व^l-वत्^m आपश्रौ १६,
१९, २; बौश्रौ १०, २५:४;
माश्रौ ६,१,५,३९; वाश्रौ २,१,
५, ३; वैश्रौ १८, १६:१२;
हिश्रौ ११, ६, ३२; -वान् काय
७१,६, या १२, ३०ⁿ.

फ्रपवीर (व >)वी^o-वी
आश्रौ २,८,३; ३,७,६; ५,२०,
६; शांश्रौ ६,१०,२; हिश्रौ २२,
३,४; या १२, ३०.

फ्रपवीर-वत्^p-वत्^q वैताश्रौ
२८, ३१; वाघ २, ३४; ३५;
अश्र ३,१७; शुभा ५,३७.

पवित-, पवित्र- √पू द्र.

a) व्यप.। व्यु. ?। b) तु. पागम.। पुल्लिङ्ग- इति वामनः। c) वैप १ द्र.। d) <√पल् इति। e) तु. पागम.। f) तु. पासि.। अन्यत्र √पल्लू इति। g) भावे करणे च ल्युट् प्र.। h) अर्थः व्यु. च ?। i) = धान्य- (तु. संस्कृतः टि.)। j) = पर्यङ्क-। k) = किसलय-। व्यु. ?। <√पल् + √ल्ल वक् पद्- + √ल्ल वेति अभा.। l) <√पल्ल। m) = देश-विशेष- ?। व्यु. ?। वल्ली- इति पाका.। n) = संख्या- विशेष-। व्यु. ?। o) = शर्ष- (तु. सूची)। p) पाठः ? तु. संस्कृतः टि.। q) तु. पाका.। चल्लभ- इति भारद्वा. प्रम्.। r) विप. (२अप-).। s) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र.। t) पागे. वैप १,१९६८ d द्र.। u) वैप १,१९६८ h. द्र.।

पविन्द [१, ००१^{३७}] (> पाविन्दायन-
पा.) पाग ४, १, ११०.

१पवीर- पवि- द्र.

२पवीर- पाठभो २, ३, ४८.

पवीर-व-, ष्वत्- पवि- द्र.

√पश्^० (=√स्पर्श), पश्यते अप
३५, २, ४; ६८, २, २७; पश्यति
बौश्रौ ९, ४: २८; १४, १:
९; १८, ४४: १५; वाधूश्रौ; माण्ड
१, २१, ६^१; या १, १६; १९;
१४, २३; पा ४, ४, ४६; पश्यन्ति
शाश्रौ १५, १७, १^१; आपश्रौ; या
६, २६; पश्यसि बौश्रौ १८, ४४:
६; वाधूश्रौ ३; १९: १६; ४,
६४: ६; काण्ड; ऋया १२, २३;
२३; २४; २५; पश्ये सु ६, ३;
पश्यामि ऋयाश्रौ ६, १७,
९; १४, १८, १; काश्रौसं;
पश्यामः क्षुस् ३, १६: ६; ११;
निस्; या १, १४^३; ऋपश्यत्
शाश्रौ १५ ३, ८^०; वृदे ८, ६६^०;
या ५, १; १४, २०; पश्यम्
आपमं २, १३, ३; ऋपश्याति^१
आपमं २, १, ५; आण्ड १, १७,
१३; पाण्ड २, १, १६^३; काण्ड ४०,
११९^६; जैण्ड १, ११: १७;
पश्यन्तु आपमं १, २, ५^१; सु
२९, १; ऋपश्य शाश्रौ १५, १९,
१; आपश्रौ १०, ३, २^३; बौश्रौ;
या ९, २४; १४, १८; ऋपश्याहि
जैण्ड १, ८: ३; ५××; ऋपश्यत
शाश्रौ ९, १७, ३; १३, ७, ६;

आपश्रौ: पश्यानि जैण्ड १, २१:
३३^१; अपश्यत् शाश्रौ १०,
१४, २; १५, २××; आपश्रौ;
अपश्यताम् शाश्रौ १४, ३०,
१; ७१, २; बौश्रौ १८, ३५:
२; ५०: ३०; अत्र ६,
१०४; अपश्यन् शाश्रौ १०,
१८, २; १४, १४, १××;
बौश्रौ; ऋपश्यम् आश्रौ ४,
६, ३^३; १३, ७; आपश्रौ; या ४,
२६; १०, ४६; १४, ३; ऋप-
श्याम^१ आमिण्ड ३, ५, ८: ३;
बौपि १, ७: ५; हिपि ४: ८;
पश्येत् शाश्रौ ५, २, ३; १५,
१७, १^१; आपश्रौ; पश्येयुः
जैश्रौका १३८; दाश्रौ २, ४,
३; ताश्रौ; पश्ये: वाधूश्रौ ४,
६४: ३; पश्येयम् बौश्रौ १८,
४४: १३; वाधूश्रौ ४, ६४: ४;
ऋपश्येम् आपश्रौ १४, १६, १;
हिश्रौ १५, ५, १ आपमं.

पश्य- पा ३, १, १३७.
पश्यत्- श्यतः आपघ १, ७, १३;
द्विध १, २, ७०; -श्यते अप
३०^३, २, ५; -श्यन् काश्रौ ५, ४,
१२; आपश्रौ १६, ३, १३; १६,
४^१; वैश्रौ; ऋया १, १९^३; ५, ४;
१२, २३; १४, २०^६; -श्यन्तः
बौश्रौ १४, ७: १३^१; २६, ७,
१७; वाधूश्रौ; या ३, २०^१.
ऋपश्यन्ती- न्ती आपमं १,
४, ९; आमिण्ड १, ५, २: ५५; काण्ड.

पश्यतो-हर^१- पावा ६, ३, २०.
पश्यत^१- -०त अप ३०, ६, ५^१.
पश्यति-> ०ति-कर्मन्^१- -र्मा
या ४, १९; -र्मागः निघ ३, ११;
या ३, १३.

ऋपश्यमान- -नः शाश्रौ १८, २१,
११; काश्रौ १३, २, २४;
-नासः शाश्रौ १२, ११, १७.

√पश्^३ पाधा. जुरा. पर. बन्धने.
१पाश^३- पाग ४, २, ४९; -शः
आश्रौ ६, १३, ८^१; ऋशाश्रौ ८,
१०, ४; १५, २२, १^१; ऋआपश्रौ
८, ७, २६; ८, १८××; ऋबौश्रौ;
या ४, २^६; -शस् काश्रौ २, ७,
२; ६, ३, २४××; आपश्रौ ७,
१७, ५^३; ऋ^३; ऋ^३; १६, १५, ८;
बौश्रौ १, २०: २८^१; ४, ६:
३८^१; ४०; १०, १६: ७; भाश्रौ
३, १२, ५^१; ७, १३, ७^१; ७^१;
माश्रौ १, ३, ५, १७^१; ३, १,
२९^१; ६, १, ४, १३; वैश्रौ
१०, १४: १^३; ऋ^३; १८, ८:
८^१; २०, ११: ३^१; हिश्रौ ४, ४,
३^३; ऋ^३; ११, ६, ६; आपमं १, ४,
११^१; ५, १७^१; आमिण्ड १,
३: २^१; ५, ३: ४^१; बौण्ड १, ४,
३, २३^१; भाण्ड १, १४: १२^१,
माण्ड १, ११, २०^१; जैण्ड १,
२०: २९^१; कौस् ३३, ६;
६६; ३०^१; अप्राय; -शयो:
काश्रौ १६, ८, ४; आपण्ड १, १२^१;
हिण्ड १, २२^१; -ऋशा: आश्रौ १,

a) पाका. पाठः। b) व्यप.। व्यु. ?। c) या ३, १६ परामृष्टः द्र.। d) सपा. पश्यति <>
पश्याति इति पामे.। e) पामे. वैप १, १९६९ e द्र.। f) तु. राजा.। गुसं. पश्यात् इति, लाघासं. पश्याति
इति। g) पश्या इति पाठः? यनि. शोचः। h) सपा. बौ १, ३३, ४ पश्यत् इति पामे.। i) सपा. शौ १८,
३, ३ अपश्यम् इति पामे.। j) =चौर- (तु. शंक.)। k) वैप १ द्र.। l) विप.। वस.। m) या ४, २ पा
४, ४, ८६ परामृष्टः द्र.। √पश् इति [पक्षे] BPO.। n) पामे. वैप १, १९७१ g द्र.। o) पामे. वैप १, १९७१ f
द्र.। p) पामे. वैप २, ३ खं. पाशास् मंत्रा १, १, १४ टि. द्र.। q) पामे. वैप १, १९७१ इ. द्र.।

३, २४; शांश्रौ १, ६, ३; काश्रौ;
या ९, २६\$; -फंशात् आश्रौ
१, ११, ३^a; काश्रौ ३, ८, २^a;
आपश्रौ; आपमं १, ५, १६^a;
आश्रु १, ७, १७^a; -शान् आपश्रौ
१६, १६, १[†]; फंश्रौ ११, ४;
२३^b; २५; १५, २९: १८^b × ×;
माश्रौ १, ८, ३, ३६^b; वाश्रौ;
-शाभ्याम् माश्रौ ५, २, १३, १[†];
-शाय फंमाश्रौ १, ७, ४, ४२, २,
१, ४, ४१; -शे बौश्रौ ६, ८: ५;
भाश्रौ ७, १३, ७; कौस्
४७, ४९[†]; -शेन काश्रौ २६,
५, ३; आपश्रौ २, ५, ४; ७,
१३, ८[†]; बौश्रौ; -शेभ्यः बौश्रौ
११, ४: २२; १५, २९: १८;
माश्रौ ५, २, १३, १[†]; कौस् ४७,
१६[†]; अप ३७, १, १०[†]; -शेषु
वाश्रौ १, ६, ५, ७; -फंशैः बौश्रौ
१, ११: १०; १५; २०; माश्रौ;
या ४, ३\$; -शौ काश्रौ १६, ५,
१७; ८, ५; ६; बौश्रौ.
पाश-क्षेदक- -का: शोध ४४०.
पाश-तस्(ः)आश्रौ ६, १०, ६.
पाश-धर- पाठवृ २, २२.
पाश-पाणि^०- -णि: अप ६७, २,
४.
पाश-प्रतिमोक- -क: काश्रौसं
३५: १३.

पाश-वत्- -वन्तम् वाश्रौ २, १,
२, ३४.
पाश-विमोच (न >) नी- नी
ऋञ्च २, ७, ८८.
पाश-समूह- -ह: या ४, २.
पाश-हस्त^{०d}- पाग २, २, ३७^०;
-स्तेन अप १, २९, ४; -स्तैः
अप ६८, २, ४५.
पाशा(श-अ)ङ्कुश-संनिभ-
-भा: अप ६१, १, १०.
√पाशि पा ३, १, २५.
पाशिन्- -फंशिन: आपश्रौ १६,
१८, ७; वैश्रौ १८, १६: ५;
हिश्रौ.
पाशो (श-ऊ)र्मि-नगरा (र-आ)
कार^f- -रै: अप ६४, १, ८.
पा(स्य >)श्या- पा ४, २, ४९;
-श्या या ४, २[†]६.

?पशाग^०- -ग: बौगृ ३, १०, ६^b.

पशाव्य- पशु- द्र.

पशु[†]- पाठ १, २७; -फंशव: आश्रौ
१, ११, ७; २, २, १७ × ×;
शांश्रौ; आपश्रौ ४, १, १०[†]; ७,
१७, १[†]; भाश्रौ ४, २, २[†];
हिश्रौ १, २, ५[†]; ४, ३, ५४[†];
कौस् ८२, १३^k; या ७, ५\$;
१९; ८, २२^३; ११, २९[†];
-०शव: गोगृ ३, १०, १७[†];
-फंशवे शांश्रौ ४, २०, १; बौश्रौ

४, ६: ३२; ६, २४: १३; ७^a
१२: २५[†]; ११, ४: १६;
१४, ५: २१[†] × ×; अप ३६,
९, २१; -शु^m या ४, १४[†];
पाग १, ४, ५७; ६१ⁿ; -शु: आश्रौ
२, १७, १८; ९, २, ६ × ×; शांश्रौ;
निसू २, ५: १८^०; २१^०; या
३, १६[†]; १२, ४१[†]; -शुना
आश्रौ २, २०, ५; ५, ३, १ × ×;
शांश्रौ; काश्रौ ९, ७, ४[†] १०,
१, १८[†] १२, १७,
२०[†] १५, २०: १०[†] १०;
हिश्रौ ८, ५, १[†] १२; -शुभि: आश्रौ
१, ३, २८; ३, १४, १२ × ×; शांश्रौ
८, ८, ११[†] १७, १[†];
आपश्रौ ४, १०, १[†] ११; -फंशुभ्यः
आश्रौ २, ३, २०; आपश्रौ ५,
१३, ४ × ×; १०, २२, १२[†];
१४, २७, ७[†]; बौश्रौ १, १२:
१४^m; २, १७: २१ⁿ; वैश्रौ
२१, १४: १५[†]; हिश्रौ ३,
४, १६^v; १५, ७, ८[†]; आपमं १,
३, ११[†]; शांश्रु १, १४, ६^w; पागृ
१, ४, १६^x; ८, १[†]; आश्रिण १,
५, ३: १०^x; ४: ४३[†]; बौगृ १,
१, २८[†]; मागृ १, १७: ३[†];
वागृ १४, ३[†]; वैगृ ३, ४:
८[†]; हिगृ १, २०, २^x; २१, १[†];
-शुभ्याम् बौश्रौ १२, १६: १८;

a) पाभे. वैप १, १९७१ f द्र. । b) पाभे. वैप १, १९७१ g द्र. । c) विप. । बस. । d) पृ ११११
जाल हस्त- इत्यत्र टि. अपि 'विप. बस.' इति द्र. । e) तु. पागम. । f) विप. । द्रस. > बस. । g) = सर्प-
विशेष- । व्यु. ? । h) सपा. बौश्रौ १७, १८: ६ प्रशुक्र: इति पाभे. । i) वैप १ निर्दिष्टानां समावेश: द्र. ।
j) पाभे. वैप १, २१२५ h द्र. । k) पाभे. वैप १, २००६ k द्र. । l) पाभे. वैप १, १९७३ f द्र. । m) सम्पग-
अर्थे क्वि. । वैप १, १९७२ d द्र. । n) हिंसायाम् इति पागम. । o) पशुसोम: इति पाठ: ? यनि. च सोम:
इति च शोध: (तु. संस्कृत: टि.) । p) पाभे. वैप २, ३खं. पशुना माश ४, २, ५, ११ टि. द्र. । q) पाभे. वैप १,
१६९७ b द्र. । r) पाभे. वैप १, १९७४ b द्र. । s) पाभे. वैप १, १९७९ a द्र. । t) पाभे. वैप २, ३खं.
पशुभ्य: तैत्रा ३, ७, ७, ११ टि. द्र. । u) सपा. पशुभ्य: <> पशुनाम् इति पाभे. । v) पाभे. वैप १, १९७५ c
द्र. । w) सपा. आश्रु १, ७, १९ प्रजाभ्य: इति पाभे. । x) पाभे. वैप १, १९७४ f द्र. ।

१८: २२; -शुम् आश्रौ ३,
२, ११; ९, २, ४; १२, ९, १७;
शाश्रौ; आपश्रौ ७, १४, ११^क;
माश्रौ ^क१२, ३, ६, १२^ब; ५, १,
२३^ब; वैश्रौ १०, ११: १०^क,
हिश्रौ ४, ३, ३७^क; माष्ट
२, ३१: ८^क; या ४, १४;
-शुम्-ऽशुम् बौश्रौ २२, १२:
५; माश्रौ ५, २, १२, २६; -शुषु
काश्रौ २, ८, १४^क; ६, १०,
२९^क×; आपश्रौ; या १२, ९^३;
पा ३, ३, ६९; -शु आश्रौ
९, २, १०; शाश्रौ १४, ३,
१८; १३, १; आपश्रौ; -शुम्
आश्रौ १, २, १; ^क१२, ३,
१७; ५, २^द××; ^कशाश्रौ २,
१३, ४; १४, ४^द; १५, २^द;
काश्रौ; आपश्रौ ५, १८, २^क××;
^क६^द, २४, ३; ६, २५, १०;
२६, ५; ^कबौश्रौ २, १८: १८^द; ३,
१४: १२^द; भाश्रौ ५, ११, ७^क;
^कमाश्रौ १, ४, २, १^द; ६, ३, ७^द;
१४^द; ८, ३, १८^द; ६, १, २, २६^द;
^कवाश्रौ १, १, ४, ९^द; ४, ४, १^द;
५, ४, २७^द; ३६^द; ६, ४, २२^द;
वैश्रौ १, १४: १६^क; ^कहिश्रौ ६,
७; २^द; ७^द; आश्रिष्ट १, ५, ३:
१३^क; माष्ट २, १३, ६^क; हिष्ट
१, २०, २^क; आपघ २, २८, ६^ब;
या ७, १९^क; -शुनाम् आश्रौ
१०, ९, ६; शाश्रौ; आपश्रौ

२, ४, ८^क; ^कबौश्रौ ३, २०:
२^क; १०, ३४: २^क; ६^क;
५६: २^क; माश्रौ १, ४, ३,
१^क; वाश्रौ १, १, ४, ९^क; हिश्रौ
६, ४, १^क; हिघ २, ६, ६^क;
-शो: आश्रौ ३, ४, ४; ६, ११,
६××; शाश्रौ; या ६, १६; -शौ
आश्रौ १, ४, ४; १२, १७××;
शाश्रौ; आपश्रौ १२, ११, १^क;
बौश्रौ ८, ११: १२^क; वैश्रौ १६,
१३: २^क; हिश्रौ ९, ३, ३^क;
पा ३, २, २५; पावा ५, ४, २९^क;
-शौ-शौ बौश्रौ २०, २५: ४;
-^कश्व: आश्रौ ४, १०, १; शाश्रौ
५, १४, ८; -^कश्व आश्रौ ८, १२,
२४; ऋश्र २, १, ६५; ३, १७;
वृदे ३, ११८.

पाशुक^० -क: शाश्रौ १४, १०,
५; -कम् शाश्रौ १४, १०, २;
काश्रौ; आपश्रौ १३, १६, १२^क;
-का: आपश्रौ ८, २, १५; ३, १;
-कात् आपश्रौ १४, १९, ४;
हिश्रौ १५, ५, १८^क; -कान्
आपश्रौ १७, १५, ४; वैश्रौ १९,
६: ८९; -कानि शाश्रौ १४,
१०, २३; आपश्रौ; -के आपश्रौ
११, १६, ५; -केन वैश्रौ १६,
२०: ९^क; -कै: वैश्रौ १४, १५:
१२.

पाशुकी-की माश्रौ २, २,
५, १; -कीम् वैश्रौ ८, ९:

३; ४.

पशव्य,व्या-व्य: काष्ट ४, ८, ३५;
पाष्ट ३, ८, २; भाष्ट २, ३२:
९; -भ्यम् आश्रौ २१, २५,
१२: बौश्रौ १७, १८: ११;
वाधूश्रौ; -व्या: अत्र ७०^क, ६,
३; -व्याम् काष्ट २५, २०^क.

पशु-कर्मन्-र्म आश्रौ ५, १७, ४;
शाश्रौ; -र्मसु हिश्रौ १, १, ५०;
-र्मणि गो १, १.

पशु-कल्प-ल्प: आष्ट १, ११, १;
काष्ट ५१, १; -ल्पेन आष्ट २, ४,
१३; -ल्पेषु बौश्रौ २३, ११:
१५; २६.

पशु-कांस्य-यान-दास-शयना(न-आ)
सना(न-आ)दि-दीनि वैष्ट
४ ४: १८.

पशु-काम-म: आश्रौ ९, ८, ८;
१२××; शाश्रौ; -म ऽम: माश्रौ
१, ३, ५, ३; -मम् आपश्रौ
१४, १३, १०; १४, ७××;
माश्रौ; -मस्य आश्रौ १०, १, ७;
३, १५, १९; शाश्रौ; -मा: आश्रौ
११, २, १५; ३, ५; ६; शाश्रौ;
-मानाम् आश्रौ ११, ४, ६;
काश्रौ २४, २, १३××; बौश्रौ;
-माय छुस् १, ७: ५.

पशुकाम-यज्ञ-ज्ञ: निस् २,
३: १७; ७, ८: १; १२; ८,
२: १६; ९, १: ४२; -ज्ञ लाश्रौ
९, ४, ३४; निस् ७, ८: ६; ११:

- a) पामे. वैप १, १९७५ g द्र.। b) पामे. वैप २, ३३^क पशुना मास ४, २, ५, ११ टि. द्र.। c) पामे.
वैप १, १९७५ k द्र.। d) पामे. वैप १, १६९५ m द्र.। e) सपा. पशुन् विन्देयम् <> पशुन् विदेयम् <>
पशुमान् भूयासम् <> पशुमती भूयासम् इति पामे.। f) पामे. वैप १ रथिम् ऋ १०, ८५, ४१ टि. द्र.।
g) पामे. वैप १, २०२७ ० द्र.। h) सपा. पशुन् <> पशुनाम् इति पामे.। i) पामे. पृ १५४९ u द्र.। j) पामे.
वैप १, १९७६ j द्र.। k) पामे. वैप १, १९७५ e द्र.। l) पामे. वैप १, १९७५ f द्र.। m) पामे. वैप १,
१९७४ g द्र.। n) तु. पाका.। o) विप. (कर्मन्, संभार-प्रष्टु.)। तत्रमवीयष् ङक् प्र. (पा ४, ३, ७२)। p) पामे.
पृ ९०३ d द्र.। q) पाशुकात् खिष्टकृतः इत्यस्य स्थाने सपा. वैश्रौ २१, ५: ९ पाशुखिष्टकृत इति पामे.।

१५; -ज्ञौ काश्रौ २२, १०, १८;
निस् ७, ८: १८.

पशुकामयज्ञ-त्व- -त्वात्

निस् ७, ८: १७.

पशुकाम-श्री- -श्रिया हिश्रौ १३,
८, ४४.

पशुकामा(म-अ)न्नकाम- -मयो:
माश्रौ ५, २, ७, ९.

पशुकाम्य^१- -म्यम् गो १, २८.

पशु-काल- -ले आपश्रौ १७, २३,
४; १८, २, १२××; वाश्रौ.

पशु-कुणप- -पेन वाधूश्रौ ३, ४४:
१३; १५.

पशु-क्लृप्ति- -सिः आपश्रौ २१,
१४, ६; २२, १२; हिश्रौ १६,
२, १७; ८, १; -सिः बौश्रौ १६,
११; १; १९: १.

पशु-गण- -गानाम् आपश्रौ २४, ३,
३६; -णे शाश्रौ ६, ११, १६;
मीसू ५, २, १०; ९, ४, १; ११,
४, ३१; -णेषु काश्रौ १२, ४, ६.

पशु-नामन- -ने विध ५, ४४.

१पशुगवा अप्राय ५, ५.

१पशु-(हन् >)श्री- -श्री आपमं १,
१०, ३; ६; पाण्ड.

१पशु-चित्त^१- -चित्त बौश्रु ६: १२.

पशु-चोदना- -नायाम् मीसू ६, ८,
३२.

पशु-जात- -तानाम् बौश्रौ १५,
३१: १८; ३४: ५; -तानि माण्ड
२, १०, २.

पशु-जानु^१- -नुः विध १, ५^d.

पशु-तन्त्र- -न्त्रम् आश्रौ ३, ६, २८;
काश्रौ ५, ११, १९; -न्त्रे शाश्रौ
५, १९, ५; ९, २७, ३××;

-न्त्रेषु वैश्रौ १६, १३: ५; हिश्रौ
७, ८, ५६; ९, ३, ४२.

पशु-त्व- त्वम् मीसू ९, १, ४५.

पशु-दावन्^१- -वा कौसू ७२, १८^१.

१पशु-देवता- -ता आश्रौ ३, ४, ९;
१२; ६, ११, ७; काश्रौ १६, १,
२६; -ताभ्यः आश्रौ ३, १, १२;

-ताम् आश्रौ ६, ११, ५^१; शाश्रौ
५, १५, ६; ६, ९, १३; -तायै
काश्रौ ६, ७, १६.

पशुदेवता-वनस्पति- -तिभ्याम्
काश्रौ ६, ९, १३; १०, ७, १४.

२पशु-देव(ता >)त, ता^१- -ता:
या ८, २२; -ताम् आण्ड २, ४,
१२.

३पशु-देवता^१- -ताः शुश्रु ३, १३१.

पशु-दैवत^१- -तम् शुश्रु १, ५३८.

पशु-द्वन्द्व-नपुंसक- -कम् पावा २,
४, १२.

पशु-धर्म^१- -र्मः बौश्रु ६: १^b.

पशु-धर्मन्^१- -र्म आपश्रौ १४, ७,
१५; -र्मणा शाश्रौ ९, २७, ६.

पशु-नानात्व- -त्वम् आश्रौ ३, ७,
४.

पशु-नामन्- -म या २, ५, ५, ५.

पशुनामा(म-आ)दि- -दिभ्यः
पावा ५, २, २९.

पशु-निगम- -माः शाश्रौ ९, २३,
१३.

पशु नियोजन- -नम् काश्रौ २२,
७, ५.

पशु-प^१- -पस्य आपध २, २८, ३;
हिध २, ६, ३.

पशु-पक्षि-मृगा(ग-२आ)घ- -घान्
विध १, १७.

पशु-पति^१- पाग ४, १, ८४; -तये
शाश्रौ ४, १८, ५; ९, २६, २;
काश्रौ; -पतिः आश्रौ ४, ११, ५;

बौश्रौ ४, ६: २३; माश्रौ; -पतिम्
आमिण्ड २, ६, ३: १५; माण्ड
२, ३, ५; अप; अत्र २,
३४४; -पतिं आपश्रौ ६, ११,
३; बौश्रौ; -पतिः आपश्रौ ७,
१५, ५; हिश्रौ ४, ३, ६; आपमं.

पाशुपत- पा ४, १, ८४;
-तम् अप २०, ६, ४; ४०, ५, ३.

पाशुपत-त्रता(त-आ)
देश- -शः अ ४०, १, १.

पाशुपत्य^१- -त्यम् अत्र २,
३४.

पशुपति-सायुज्य- -ज्यम् अप
४०, ६, १४^१.

पशु-पर्यभिकरण- -णात् काश्रौ ८,
९, ३.

१पशु-पा^१- -पाः आश्रौ ४, ११, ६;
आपश्रौ ६, १८, ३; ७, २३, ६;
बौश्रौ २०, २९: १६; हिश्रौ ६,
६, १७; -पाम् आपश्रौ १, २, १;
भाश्रौ १, २, ११; वाश्रौ १, २, १,
४; हिश्रौ १, २, १२.

पशु-पाद-प्रकृति^१- -तिः या २, ७.

पशु-पाल- > पाशुपाल्य- -ल्यम्
वाध २, १९.

पाशुपाल्य-कुसीद-वाणिज्य-
-ज्यानि वैध १, १, ८.

पशुपाल-क्षेत्रकर्षक-कुलसङ्गत-
कारयित्-परिचारक- -काः गौध
१७, ६.

पशु-पालक- > लिका^१- पा, पाग
४, १, ४.

a) तस्येदमीयः यत् प्र. उस्. (पा ४, ३, १२१)। b) वैप इ. द.। c) विप.। बस.। d) प्राशु-
जानुः इति जीसं.। e) उप. <√दा [दाने]। f) तु. आन.। g) द्वस.। h) र्मा इति संस्कृतुः टि.।
i) उप. <√पा [रक्षणे]। j) सास्यदेवतीयः प्यः प्र. (पा ४, १, ८५)। k) षस.>बस.। l) तु. पागम.।

पशु-पालन- -नम् विध २,७; सुध
८.

पशु-पीडित- -न्ते गौध १२,१६.

पशु-पुरोडाश^०- -शाः काश्रौ ८,७,
२५; १६,१, २५; ३९; आपश्रौ;
-शम् आश्रौ ३,४,१२; ६,११,६;
१४,१५; शाश्रौ; -शस्य आपश्रौ
७,२२,१; ११,२०,१३; वौश्रौ;
-शाः आश्रौ ३, ९, २; काश्रौ
६३; वौश्रौ; -शान् काश्रौ १९,
४, १; आपश्रौ २०, २३, २;
वौश्रौ; -शानाम् माश्रौ ५, २,
४, ३३; ४३; वाश्रौ ३,१,२,३१;
२,७,८३; ८,११; हिश्रौ १४,५,
१४; -शाय शाश्रौ ५, १९,१;
काश्रौ ६३; माश्रौ ५,२,८,१४;
-शे आश्रौ ९,२,६; १९; माश्रौ
१०, १४, ६; -शेन आश्रौ ५,
१३, ८; ६, ११,७; शाश्रौ;
-शेभ्यः वौश्रौ २४, १० : १२;
१३; -शैः माश्रौ ५,२,४, ३३;
वाश्रौ ३, १, २, ३०××; -शौ
वौश्रौ १५, ११ : १४; ३७ :
१०××.

पशुपुरोडाश-तन्त्र- -न्त्रम् काश्रौ
१५,४,१८.

पशुपुरोडाश-प्रथम^०- -मान्
काश्रौ ९,१४,३.

पशुपुरोडाश-प्रभृति- -ति माश्रौ
२, २, ५, १९; -तीनि हिश्रौ
१३,८,२५.

पशुपुरोडाश-वत् काश्रौ ९,९,८.

पशुपुरोडाश-श्रवण- -गम् काश्रौ
१,१,१५; पाय ३,१२,५.

पशुपुरोडाश-स्विष्टकृत्- -कृतः
वौश्रौ १५, ३७ : १०; ३८ : १;

-कृति हिश्रौ ४,३,३०.

पशुपुरोडाश-हविः-स्विष्टकृत्-

-कृताम् माश्रौ ५,२,११,४०.

पशुपुरोडाशा(श-अ)दि-दि
आपश्रौ १४,७,१८.

पशुपुरोडाशा(श-अ)र्थ^०- -थै
काश्रौ १५,१०,१७.

पशुपुरोडाशा(श-अ)र्थ^०- -थैः
काश्रौ १५,१०,२०.

पशुपुरोडाशी(य>)या->थ-
प्रोक्षणी- -णीः वौश्रौ २४,३६:
६.

पशुपुरोडाशे(श इ)डा- -डाधाम्
वाधूथौ ४,४ : ५.

पशु-पोषण- -णाय अश्र ३,२८.

पशु-प्रमोचन->न्नी(य>)या^०-
-याः वाश्रौ १,६,४,२६.

पशु-प्रवा(द>)दा^०- -दा निम् ७,
८ : ३२.

पशु-प्रायश्चित्त- -त्तानि वौश्रौ २८,
६ : १.

पशु-प्रोक्षणी- -णीः वौश्रौ २४,
३६ : ५.

पशु-बन्ध^०- -न्धः शाश्रौ ९,२३,१;
१४, ११, ३; काश्रौ; -न्धम्
शाश्रौ १०,१७, २; काश्रौ २२,
७,२३; वौश्रौ; -न्धस्य आपश्रौ
७,७, ३; वौश्रौ ३, २६ : १४;
३० : २४; वाधूथौ; -न्धाः
माश्रौ ५,२,१०,४; आश्रिण १,
२, १ : १४; -न्धाः वाधूथौ
३,४१ : १८; -न्धान् माश्रौ १,
८, ६, २५; माय १, १८, ७;
-न्धानाम् वैश्रौ १०,२२ : २८;
-न्धाय माश्रौ ५,२,४, ६; ११,
५; वाधूथौ ४, १०३^२ : ८;

-न्धे आपश्रौ १९,११,३; १४,
४; ६; काश्रौ २; वौश्रौ; -न्धेन
काश्रौ १२, २, ८^१; आपश्रौ;
-न्धेषु जैश्रौ २६ : १; -न्धैः
वाश्रौ ३, ४, ३, २१; लाश्रौ ९,
१२, १०; शंघ १३८; -न्धौ
काश्रौ १५,९,१२.

पशुबन्धिक, का^१- -कम्
वौश्रौ १०, ९ : १४; १७,३३ :
१०××; माश्रौ २, २, ५, २७;
-काः वौश्रौ २४, ३५ : ५;
-कानाम् माय २, ४, १०;
-कानि वौश्रौ ५, ४ : २१; ९ :
१३; १७, ३७ : ९; -कायाः
आश्रौ ३,१,८; वौश्रु ३ : २४.

पशुबन्धिकी- -की वौश्रौ
४,१ : ३२; ५,५ : ९; १०, ९ :
४; २१,६ : १४; -क्यः शाश्रौ
४,२०,४.

पशुबन्ध याजिन्- -जी आपश्रौ
७,१,१; वौश्रौ २४,११ : १८^१;
बंध १,५,३.

पशुबन्ध-यूप- -यूप वाधूथौ ३,
४१ : ३४; ३७.

पशुबन्ध-वत् आपश्रौ ८, १, ६;
३,१२××; वैश्रौ.

पशुबन्ध-वर्जम् आपश्रौ २२,२५,
१७, हिश्रौ २३,४,११.

पशुबन्ध-स्थान- -न्ते काश्रौ १२,
२,१०.

पशु-ब्रह्मवर्चसा(स-अ)बाद्य-काम-
-माः काश्रौ १,३,२४.

पशु-भाग-करण^०- -णम् अश्र २,
३४.

पशु-भूमि-स्त्री- -स्त्रीणाम् गौध
१२, ३६.

a) वैप २,३सं. द्र.। b) विप.। षस.। c) षस.। d) = ब्राह्मि-विशेष-। e) वैप १ द्र.।

f) विप. (यूप, वेदि- प्रयु.)। g) विप. (सूक्त-)। षस.>उस.।

पशु-भेद- -दे शांश्रौ ६, १, १६.
 पशु-मत्- -मत् बौग ४, ३, ४;
 या ४, २४; -मत्तः बौश्रौ ५,
 १६: १५; द्राश्रौ १३, २, १३;
 लाश्रौ ५, ३, ५; -मत्ते शांश्रौ
 २, १०, १; -मत्सु शांश्रौ १४,
 १०, १; -मन्तः शांश्रौ १५,
 २७, ११; -मन्तम् आपश्रौ
 १, १, ९; ६, २१, १; कागृ
 २५, ३८; -मन्ति बौश्रौ १६,
 १२: २; ५; वाश्रौ १, ७, ५, १०;
 -मान् आश्रौ ४, ११, ५१;
 म्आपश्रौ १, १, ९××; ४, १३,
 २^{१३}; बौश्रौ ३, १९: २^{१३}; १४,
 ६: ११××; २७, १४: ७^{१६};
 ९^{१६}; म्माश्रौ ३, २, १; ४, १५,
 ६; १९, ४^{१५}; ७, १, ८; ८, ३,
 १^{१६}; माश्रौ १, ४, १, २७^{१६};
 २, ६^{१६}; बाधूश्रौ; वाश्रौ १, १, ३,
 ६^{१६}; हिश्रौ ६, ४, १^{१६}; ४२^{१६};
 -मान्ति ऋषा ९, ५२^{१६}.
 म्पशु-मती- -ती आपश्रौ ३,
 १०, ९; ४, १३, ३^{१६}; भाश्रौ;
 -ती: आपश्रौ ४, ८, २^{१६}; भाश्रौ
 ४, ११, ४^{१६}; हिश्रौ ६, २, १०^{१६}.
 पशु-मान- -नेन बौश्रौ १९, १: ६.
 पशु-योनि- -नय: विध ४४, ९.
 पशु-रशना- -ना आपश्रौ ७, ११, २;
 -नाया: बौश्रौ २०, २७: १३;
 २८: १७.
 पशु-रोमन्- -माणि वाध ११, ३४;
 विध ५१, ६०.
 पशु-वचन- -नम् काश्रौ २५, ९,

१२.
 पशु-वत् आश्रौ ६, १४, १४; काश्रौ.
 पशु-वप(पा-अ)न्त- -न्ते काश्रौ
 २२, ९, ४.
 पशु-वर्जम् वाश्रौ १, ७, ५, ३३.
 पशु-वाचिन्- -चि माश्रौ ५, २, ९,
 ३.
 पशु-विधि- -धि: मीस् ३, ६, १८.
 पशुविरावाभ्रदण्डाभस्वल्पात् अप
 ६५, २, १०.
 पशु-वेला- -लायाम् बौश्रौ १४,
 ३: १५; २६, ७: ३.
 पशु-वेश्या-गमन- -ने विध ५३,
 ७.
 पशु-वेश्या (श्या-अ)भिगमन- -ने
 शंघ ४०७.
 पशु-व्रत^{१६}- -त: आपश्रौ २२, १३, १,
 पशु-शक्ति- -द्वन्द्व- -द्वे पावा २,
 ४, १२.
 पशु-शक्ति^{१६}- -क्तौ भाश्रौ ८, २४,
 १४.
 पशु-शिरस- -रसाम् आपश्रौ १४,
 २३, ५; १६, २७, ५; वैश्रौ २१,
 १०: ७; हिश्रौ १५, ६, ४; -रांसि
 आपश्रौ १६, १३, १०; माश्रौ
 ६, १, ७, ३२; वैश्रौ १८, ११:
 २७; हिश्रौ ११, ५, २१; -रोभि:
 हिश्रौ ११, ७, ६३.
 पशु-शीर्ष- -र्षाणाम् बौश्रौ २२, २:
 २१; ७: ५; -र्षाणि आपश्रौ
 १६, २७, ७; वैश्रौ १०, ९: १३;
 १६××; वैश्रौ; -र्षै: आपश्रौ १६,
 २७, २२.

पशुशीर्ष-विधा- -द्याम् बाधूश्रौ
 ४, १०८: १४; १८××.
 पशु-अपण^{१६}- > णा(ण-अ)र्थ-
 -र्थम् आपश्रौ १९, ८, ४; हिश्रौ
 २३, १, ३१.
 पशु-अपण^{१६}- -ण: अप्रया ६, १;
 -णम् बौश्रौ ६, २९: १८; १४,
 ३: ९; १०; १२; वाश्रौ ३, २,
 ७, ९; हिश्रौ १०, ३, ४१; -णस्व
 हिश्रौ १५, ८, २७; -णात्
 काश्रौ ६९; -णे माश्रौ ३, ५,
 १८; ६, २, ६, २; वैश्रौ २०, ३७:
 १०; ३८: ७; हिश्रौ १५, ८, १८;
 २५.
 पशुअपणी^{१६}- -णीम् भाश्रौ ७,
 ६, ६; -ण्याम् भाश्रौ ७, ६, ७.
 पशु-आह^{१६}- -हस्य कागृ ६८, १;
 -हेषु विध ७३, ६.
 पशु-षट्^{१६}- -षट् हिगृ १, १६, ९^{१६};
 पशु-षष्टि- -ष्टि: बौश्रौ १५, २३:
 ११.
 पशु-(स्था >)ष्टा^{१६}- -ष्टा: अप्रया ३,
 १^{१६}.
 पशु-संयोजन- -नानि बौश्रौ २०,
 २६: ४२.
 पशु-संयोजन^{१६}- -न: बौश्रौ २६,
 २९: १०.
 पशु-संस्ताव- -वम् निस् ७, ८:
 १०; ८, २: ५४; -वौ निस् ७,
 ८: २१.
 पशु-संज्ञपन- -नात् माश्रौ १, ८;
 ३, ३३.
 म्पशु-सनि- -नि शांश्रौ ४, १३, १,

a) सकृत् पाभे. पृ १५५० e द्र. । अन्यत्र सपा. पुष्टिमान् पशुमान् <> पुष्टिमती पशुमती <>
 प्रतिष्ठाम् इति पाभे. । b) सकृत् पाभे. वैप १, १९७८ i द्र. । c) स्वस्तिमान् पशुमान् इत्यस्य स्थाने
 सपा. माश्रौ १, ४, २, ६ संवित्प्रसूतः इति पाभे. । d) पाभे. वैप १, १९७९ a द्र. । e) पाभे. पृ १५५०
 e द्र. । f) वैप १, १९७९ b, c द्र. । g) वैप १ द्र. । h) षस. पू. = पशु-याग- । i) = [पशुअर्थाथ- ।
 पात्री- । j) मल्लो. कस. । k) उप. < √ष (< स) द् । l) विप. । बस. ।

आपश्रौ ६, ११, ५; बौश्रौ ३,
७: २; भाश्रौ ४, २२, ४;
वाधूश्रौ २, १६: ३; हिश्रौ ३,
७, ९२; -नि: शुप्रा ३, ८१.
पशु-सामान्याय- -ये या १२, १३.
पशु-संमर्शन- -नम् हिश्रौ ४, ५,
२९.
पशु-सवनीय- -येषु मीसू १२, २,
३०.
पशु-सस्यो(स्य-उ)पघात- -तै: श्रप
५२, १५, १.
पशु-साध(न>)नी^०- -नी ऋप्रा
५, २७.
पशु-सोम- -मयो: वाश्रौ १, १, १,
३०; मीसू २, २, १७.
पशु-स्थान- -ने कप्र २, ७, २५.
पशु-स्वस्त्ययन-काम- -म: गोपृ
४, ५, १७; द्रापृ ४, १, १०.
पशु-स्वामिन्- -मिने विध ५, ५१.
पशु-स्विष्टकृत्- -कृत: काश्रौ १९,
६, २१; बौश्रौ १५, ३७: १२;
३८: ३; वैश्रौ २१, ५: १०^०;
-कृति हिश्रौ ४, ३, ३०; ५, २८.
पशु-हिरण्य- -ण्ययो: गौध १०,
२४; -ण्येभ्य: विध ३, २४.
पशु-दौत्र^०- -त्रम् आश्रित १, २, १:
१६; बौपृ ३, १, २४.
पशु-कृ पा १, ४, ६१.
पशु(शु-उकृ)>का^०- -क्ता: निस्
४, ३: १०; जैपृ १, १७: ६.
पशु(शु-उ)खा- -खा काश्रौ २५,
१, १५; माश्रौ ३, ५, १४; -खाम्
आपश्रौ ९, १८, १२; वाश्रौ १,
६, २, ११; वैश्रौ २०, ३७: १;
हिश्रौ १५, ८, १२.

पशु(शु-उ)पज^०-> ञज-लोम-
क्षेत्रशद-वाह्य^१- -ह्येषु गौध १२,
३३.
पशु(शु-उ)पवाद- -दात् काश्रौ
२२, ८, २४.
पशु(शु-उ)पाकरण- -णम् कौसू
५९, २३; -णात् आपश्रौ १९,
१, १८; हिश्रौ १३, ८, १७; -णे
वैश्रौ १७, १०: ४.
पशुपाकरण-काल- -ले वैश्रौ ११,
२: १३.
पशुपाकरण-प्रभृति- -तीनि
हिश्रौ १३, ८, १९.
पश्व(शु-अ)ङ्ग- -ङ्गम् पापृ ३, ११,
९; मापृ १, ९, २२; वापृ ११,
२२; मीसू ४, ४, २२; २७;
-ङ्गानि वाश्रौ ३, २, ६, ४१; कप्र
३, १०, ४.
पश्वङ्ग-प्राण-दान^०- -नम् शुअ
१, ४०७.
पश्व(शु-अ)तिरेक- -क: मीसू ११,
४, २७; -के मीसू १०, ६, ४२.
पश्व(शु-अ)नङ्गत्व- -त्वात् मीसू ११,
३, ५२.
पश्व(शु-अ)नृत^०- -ते बौध १, १०,
३५.
पश्व(शु-अ)न्त^१- -न्तम् निस् १०,
११: २२; -न्तानि बौश्रौ २१,
६: २४.
पश्व(शु-अ)भाव- -वे हिश्रौ ५, ६,
८; कप्र ३, १०, ७; ८.
पश्व(शु-अ)भिधान^१- -नात् काश्रौ
२०, ७, १९; मीसू ९, १, ४५;
-ने आश्रौ ३, ४, १४.
पश्व(शु-अ)भिधायिन्- -यिन: वाश्रौ

३, २, ६, ४१.
पश्व(शु-अ)भिधारण- -णम् काठश्रौ
५३.
पश्व(शु-अ)यन^०- -नेन आश्रौ १२,
७, १०. *
पश्व(शु-अ)र्थ- -र्थम् आश्रौ १२, ४,
१३; वैपृ २, १७: ५; -र्थानि
आश्रौ १२, ४, १५; शाश्रौ ५,
१९, २.
पश्व(शु-अ)लाभ- -भे आश्रौ ६,
१४, १९; बौपि २, ७: १७.
पश्व(शु-अ)विभव- -वे हिपि २१:
२.
पश्व(शु-अ)सि- -सी काश्रौ ६,
८, ७.
पश्व(शु-अ)ज्य- -ज्यम् बौश्रौ २५,
४: ४.
पश्वज्य-ग्रहण- -णम् काश्रौ
८, ६, ३२; ९, १, २.
पश्व(शु-अ)ज्य-शामित्रदेश-यूप-
चात्वाला(ल-आ)हवनीय-
-यान् काश्रौ ६, ५, २.
पश्व(शु-आ)ति(थ्य>)थ्या-
-थ्ययो: काश्रौ २, ७, १४.
पश्वात्थ्या-दर्शन- -नात् काश्रौ
२, ७, १२.
पश्वा(शु-आ)दि- -दिभ्य: बौपि २,
८, ५; -दौ काश्रौ २०, ३, १०.
पश्वा(शु-आ)नन्तर्य- -र्यात् मीसू
८, २, १७.
पश्वा(शु-आ)नयन- -नात् हिश्रौ ९,
१, २२.
पश्वा(शु-आ)पद्- -पदि काश्रौ २३,
४, १३.
पश्वा(शु-आ)लम्भ- -म्भ: हिश्रौ

a) वै १ द्र.। b) पासे. पृ १५५० पृ द्र.। c) = प्रश्न-द्वय-। d) विप. (पशुनाम्नोक्ता-।
सकचरी-। e) = घृतादि-। उस. उप. <उप/जन्। f) द्वस.। क्षेत्रशद- = क्षेत्र-जन्य-अशादि-। g) विप.
(थ्यसु-। सस.> उस.। h) मलो. कस.। i) विप.। बस.। j) उप. भावे कर्तारि वा कृत्। k) = अयन-विशेष-।

१७, २, १५; -म्भम् वैश्रौ १८,
४ : १२.
पश्चा(शु-आ)लम्भना(न-आ)दि-
काश्रौ २०, ४, १.
पश्चा(शु-आ)सादन- न्नात् काश्रौ
२०, ७, २८.
पश्चा(शु-आ)हुति- -तीः आपश्रौ
१२, ३, १२; माश्रौ २, ३, ७, १४;
-त्या या १०, २१.
पश्चि(शु-इ)ज्या- -ज्या काश्रौ ६,
१, १.
पश्चि(शु-इ)डा- -डाम् काश्रौ ८, ८,
२; माश्रौ २, २, ५, २; -डायाः
आश्रौ ४, २, ११; माश्रौ २, २,
५, १९.
पश्चिडा(डा-अ)न्त- -न्तम् आश्रौ
५, १७, ४.
पश्चि(शु-इ)ष्टि- -ष्टिः आपश्रौ ११,
१६, ३; हिश्रौ ७, ८, ३; -ष्ट्याम्
भाश्रौ ७, २, १६.
पश्चे(शु-ए)कत्व- -त्वात् मीसू ५, २,
१०.
पश्चे(शु-ए)कादशिनी^a- -नी
आपश्रौ १४, ७, १९; हिश्रौ ९,
८, ४४; -न्या हिश्रौ १६, ८,
१५; -न्याम् काश्रौ ८, ८, २६;
वैताश्रौ २२, २०.
पशु-कर्मन्- प्रम्. पशु-द्र.
पशुक^b- -कः बौश्रौ १७, १८ : ६९.
पशु-गाण- प्रम्. पशु-द्र.
पश्च, चा^d पा ५, ३, ३३.
पश्च-भाव- -वः पावा ५, ३, ३२.

पश्चा-तात्^d आश्रौ ३, ८, १; बाण्ट
६, ६, १.
पश्चा(श्च-अ)नुपूर्वी^e- पाग ६, ३,
१०९.
पश्चा-पापीयस्- -यान् माश्रौ १,
५, १, ७.
पश्चा(श्च-अ)भिसुख^e- पाग ६, ३,
१०९.
पश्चा(श्च-अ)र्ध^g- पाग ६, ३, १०९^e;
-र्धम् माश्रौ २, ३, १, १९;
आप्ति २, ७, ९ : २५; भाग ३,
१९; १११; जैगृ १, २० : १३; कौसू
६४, २१; -र्धस्य वाश्रौ ३, २,
५, ५७; -र्धात् शाश्रौ ४, २१,
१०; आपश्रौ २, १८, ९; बौश्रौ;
-र्धे शाश्रौ ४, २१, १०; काश्रौ
१६, ८, ९; आपश्रौ २, ३, ११ x x;
माश्रौ; -र्धेन शाश्रौ ६, १३, ९;
माश्रौ २, ५, ५, १७; वाश्रौ.
पश्चार्ध-सेवि-पुरीष- -षम्
निस् ४, २ : ९; २६.
पश्चार्ध, धर्वा^h- -र्धः भाश्रौ
१२, ४, ११; -र्धम् वाश्रौ १, ३, ३,
१४; -र्ध्यात् भाश्रौ १२, ४, १४;
हिश्रौ ७, ४, ४०; -र्ध्यायाम् भाश्रौ
८, १९, ११; हिश्रौ ५, ४, ७५.
पश्चात्^d आश्रौ १, ७, ३; १०, ४ x x;
शाश्रौ; काश्रौ १७, ६, ४^h;
आपश्रौ १०, २२, ८^h; हिश्रौ
१२, १, ६^h; द्राश्रौ १०, ३, ६^h;
लाश्रौ ३, ११, ३^h; आपमं
१, ४, १०^h; बौगृ २, १, ११^h;

भाग १, १४ : १०^h; मागृ २,
१५, १^h; हिगृ १, १९, ७^h; जैगृ
१, २०; २७^h; या १९, ५, १६;
पा ५, ३, ३२; पश्चात्पश्चात्
हिश्रौ १, ६, ५; २, ४, ३.
पाश्चात्य(त्च [पा.])- पा ४,
२, ९८; -त्यः वैश्रौ १४, ४ : १;
८; -त्यात् वैश्रौ १४, ४ : २;
-त्ये वैश्रौ ७, १० : ५.
पश्चाच्-चमस^m- -सः वाश्रौ २, २,
४, २.
पश्चाच्-छिद्र^m- -द्रेषु द्राश्रौ ११,
१, २; लाश्रौ ४, १, २.
पश्चात्-कर्णⁿ- -र्णम् काश्रौ २५, ७,
३७.
पश्चात्-तर- -रान् आश्रौ ८, १३, ३५.
पश्चात्-तिर्यञ्च्- -र्यञ्चौ बौश्रौ १७,
३० : २^p.
पश्चात्-वाद-द्विगुणⁿ- -णम् काश्रौ
७, ३, १८.
पश्चात्-प्रजन(न>)ना^m- -नाम्
माश्रौ १, ५, ३, १; ७, १, ४०.
पश्चात्-प्रेङ्ग^o- -ङ्गम् शाश्रौ १७,
१३, १२.
पश्चात्-प्रेङ्ग-फलकⁿ- -कम् शाश्रौ
१७, १६, ७.
पश्चात्-सद्^d- -सदः बौश्रौ १२,
४ : ६; भागृ २, ६ : ७.
पश्चात्-सुच्^m- -सुचाम् वाश्रौ १,
३, ३, ३०.
पश्चाद्-अक्ष^o- -क्षम् काश्रौ ९, १२,
७; आपश्रौ १२, २, १० x x; बौश्रौ.

a) वैप २, ३ खं. द्र. । b) = सर्प-विशेष-। व्यु. ? । c) पामे. पृ १५४९ h द्र. । d) वैप १
द्र. । e) वैतु. पागम. पूष. < परचात् । f) विप. । भवार्ये यत् प्र. । g) पामे. वैप ३, १९८०
a द्र. । h) घृतात् इति पामे. [तु. C.] । i) सपा. आपश्रौ १७, १, ८ उत्तरस्याम् इति पामे. । j) पामे.
वैप २, ३ खं. प्रतिष्ठा ऐशा ५, १, २ टि. द्र. । k) पामे. वैप १, ७९८ h द्र. । l) पामे. वैप १, १९८० n द्र. ।
m) विप. । बस. । n) तु. अग्निस्वामी; वैतु. धन्वी द्वे पदे इति । o) अष. । p) अर्थतः सङ्गवेदपि Thibaut
(JASB 188, 264) पाठाभावः ? । q) विप. । तस. > बस. । r) अष. > पस. ।

पश्चाद्-अपवर्ग^a- -र्गम् काश्रौ २,७, २२.

पश्चाद्-आसेचन-व(त>)ती-
-तीम् आपश्रौ १७,१७,८.

पश्चाद्-उदक^b- -कम् आमिण्य ३,५, ५:१; बौपि १,४:१^b;५:१.

पश्चाद्-उदीचीनकुम्बाम्^c- -म्बाम् वाश्रौ १,२,४,६३.

पश्चाद्-(हो>)घोम^d- -मेयु बौग्य २,११,४८.

पश्चाद्-वर्ष->र्षीय- -यः आमिण्य ३,२,२:१.

पश्चाद्-वात^e- -तः आमिण्य २, ५, १०:६;११:९; -र्षीय आपश्रौ १९,२५, १८; बौश्रौ १३,३८: २; हिश्रौ २२,६,३.

पश्चिम,मा^f- -मा पावा ४,३,२३; -मस्याम्^g वैग्य १, १०:६; १३; १४:५; ४, ५:१०; ६, १:११; -मा काश्रौ १७, ११, ४; १२, ३; कप्र २, ४, १-५;

-माम् आमिण्य ३,११, ४:१०; द्राण्य ४,१,२५; कौस; -मायाम् द्राण्य ३, ५, २६; अय ६०,१,३; -मे काश्रौ १२,६,२; शाश्रौ ४, १८, ८; १९,४; काश्रौ; -मेन^h काश्रौ १४, ४, १६; जैश्रौका १५६; द्राश्रौ २, १, ८; ९×४; लाश्रौ.

पश्चिम-तस्रःⁱ वैश्रौ ८,७:१०; वैग्य १,९:१२^k; १०:९×४.

पश्चिम-दक्षिणो(ण-उ)त्तर- -रेषु

वैश्रौ १, ३:९.
पश्चिम-द्वार^l- -राणि अप १, २९,३.

पश्चिम-पूर्वा(र्व-आ)य (त>) ता- -ताम् वैश्रौ १, २:१.

पश्चिम-वेदि- -दिम् वैग्य १,९: १३.

पश्चिमा(म-आ)दि- -दि वैग्य १, १५:४; वैध ३,१०,४^l.

पश्चिमा-मुख- -खः अप २२, ७,५.

पश्चिमा(म-अर्क>)र्का^m- -र्काम् वैग्य १,३:२२.

पश्चिमो(म-उ)त्तरⁿ-तस्रःⁱ जैग्य २,९:११.

पश्य-, पश्यत- प्रस. √पश्य द्र.

पश्यञ्ज- प्रस. पशु- द्र.

√पप्^k पाधा. चुरा. उभ. गतौ.

पथिक¹- (>पाथिक- पा.) पाग ४, १,११२^m.

पथⁿ->पथ-वाहⁿ- -वाद् आपश्रौ १७,१,८^o; -र्षीय आपश्रौ १०, ३८:१८; हिश्रौ १२, १, ६; -वाहः वाश्रौ ३,४,३,२०^o।

पथोहीⁿ- -ही आपश्रौ ५, ११, ४; १८, १०, १५; २२, २५, ४; बौश्रौ १८, ३:४; वाश्रौ; -हीः आपश्रौ १२, ८, ११; १९, १३, ११; बौश्रौ ७,४: २४; १२, १८:१५; वैश्रौ १५, ११:१, हिश्रौ १०, ४, १४; २३, २, ४४; -हीभ्याम् शाश्रौ

१५, १४, १३; -हीम् आपश्रौ १५, १३, १; १८, १९, २×४; -ह्यः आश्रौ ९,४,१४.

पथोही-कंस-नूपुरा(र-आ)दि- -दिभिः काश्रौसं ४: १७; -दीनि काश्रौसं ५: १.

पथोही-व (र>)रा- -राम् काश्रौसं ४: १३.

पथोह्या(ही-आ)दि- -दि काश्रौसं ६: ६.

पाथोह^p- -हम् लाश्रौ ६, १२, १४.

√पस् पाधा. चुरा. पर. बन्धने.

पसस्र^q- -सः शाश्रौ १२, २४, ६; -ससा शाश्रौ १२, २४, २.

पसस्त्य,स्त्या^r- -स्त्यम् अप ४८,८९; निष ३,४; -स्त्यासु बौश्रौ १२, ९:९; १४:२१.

पस्त्या-वत्^s- -वान् ऋप्रा ९,११^q.

√पा^r पाधा. भ्रा. पर. पाने, पिबति माश्रौ ५,२,२,९; हिश्रौ; या ४, १८; १२, २९; पिबतः आपश्रौ १७,२६,१६; हिश्रौ १७,१,१३; पिबन्ति शाश्रौ ५,८,४^q; बौश्रौ २२,२०:२१; भाश्रौ; ऋया १, ११; ५, ११^q; १०, १३; पिबसि आण्य १,१३,३^q; पिबत् आश्रौ ५,१८,२; शाश्रौ ८,३,४; आपश्रौ १४, ३०,३; बौश्रौ २९, ५:७; हिश्रौ १५, ७, २०; पिबतु आश्रौ ८, ६, ८; ९,९, १४; १०,९,५; शाश्रौ; माश्रौ^r २,

a) विप. । बस. । b) सप्र. बौश्रौ २५,५:२ पुरस्तादुदकम् इति पाभे. । c) पाठः इ सप्र. आपश्रौ १,२१,३ प्रस. उदीचीनकुम्बाम् इति । d) =कर्म-विशेष- । बस. । e) वैप १,८८७ ० द्र. । f) विप., नाप. (दिश-). । g) सर्वनाम-संज्ञा-उसं. (पावाण १,१,२७) । h) क्वचित् एनबन्तं द्र. । i) दक्षिणादि इति BI. । j) =वायव्य-कोण- । k) √पस् इति [पक्षे] BPG. । l) व्यप. । व्यु. ? । m) पथिक- इति [पक्षे] भाण्डा. पासि. । n) वैप १ द्र. । o) पाभे. वैप १,१९८२ d द्र. । p) वैप १,१९८२ g द्र. । q) =साम-विशेष- । r) पा १,३,८९; २,४,७७; ६,४,६६; ७,३,३७; ७,४,४ पावा १,१,५६; २,४,७७; ७,३,७८ परामृष्टः द्र. । s) पाभे. वैप १,१४९५ ० द्र. ।

४, १, ३६; ३७; या ८, ३^१†;
 ङपिबताम् काश्रौ १९, ७, ८^१;
 काठश्रौ १४१; बौश्रौ १६, ५:
 ४; ७; माश्रौ २, ४, २, ११^७;
 पिबन्तु आश्रौ ३, ९, ३^१†;
 ङपिब, > वा आश्रौ ५, ५, ४;
 १९×४; शाश्रौ; काश्रौ २५, १२,
 ४^{१०}; या ४, ८; ७, ६; ८, २; ३;
 १०, २; ११, ४४; ङपिबतम्
 आश्रौ ४, ७, ४^१; ५, ५, १९^१;
 ६, ५, २४; शाश्रौ; आपश्रौ
 २१, ७, १६^{२a, ७}; १७^{३a, ७};
 वाश्रौ ३, २, २; १^{२a, ७}; हिश्रौ
 १६, ३, ३५^{२a, ७}; ३६^{२a, ७};
 अत्राय ६, ६^{१०}; या ४, १७;
 १९^१; १२, ३१; ङपिबत, > ता
 आपश्रौ ७, २५, १०; बौश्रौ ४,
 ९: २४^१; ७, ५: १७; २५, १७:
 ११; भाश्रौ; ङअपिबत् आश्रौ
 ३, ९, ५; आपश्रौ १९, ३, ४;
 हिश्रौ १३, ८, २८; वृदे ३, ९०^६;
 सात्र १, १३१; या ५, ११;
 ङअपिबन् आपश्रौ २१, २०,
 ३; हिश्रौ १६, ६, ४१^{१०};
 अपिब: आश्रौ ९, ५, १६^१†;
 पिबेत् काश्रौ ४, १४, ११;
 आपश्रौ; पिबेताम् वैश्रौ ११,
 ५: १३; या ९, ४२; ४३;
 पिबेयु: शोध ३९०; विध ५४,
 ६; पिबेयस् वृदे ८, ३०.
 ङपाथ > या ऋप्रा ७, ५३; शुप्रा
 ३, १२९; तैप्रा ३, १०; पातु
 कौस् ९१, २०^१†; ङपाहि आश्रौ
 ५, १४, २; शाश्रौ १४, ३, ६; २१,
 २; बौश्रौ; या १०, २^१†; शुप्रा

२, ६२; ङपातम् आश्रौ ४, ७, ४;
 शाश्रौ २, ४, ३^१; ५, १०, १८; ८,
 १५, १२^१; आपश्रौ १५, १०,
 ११^१; बौश्रौ ९, १०: १७^१;
 भाश्रौ ११, १०, १०^१; वैश्रौ १३,
 १२: १७^१; द्राश्रौ १४, ३, २६^१;
 लाश्रौ ५, ७, ४^१; शुप्रा २, ६२;
 या ४, १९.
 पपौ वाधूश्रौ २, १३: २; वृदे ६,
 १०२; पपिरे या १०, १३^१†;
 ङपपु: काश्रौ १३, ३, २६^१;
 आपश्रौ २१, २०, ३; बौश्रौ;
 पास्वन्ति सु २८, ४; पास्वसि
 वाश्रौ ३, ४, ४, ५^१†; ङअपात्
 आश्रौ ६, ४, १०; शाश्रौ;
 ङपात्^१ द्राश्रौ ६, ४, १७;
 लाश्रौ २, १२, १७; ङअपाताम्^१
 शाश्रौ ८, १५, १३; काश्रौ २६,
 ६, ७; द्राश्रौ १४, ३, ६; लाश्रौ
 ५, ७, ५; शुप्रा ४, ९६; ङअपा:
 आश्रौ ६, २, १२; ३, १६; ११,
 ९; शाश्रौ ९, ६, १८; वैताश्रौ
 २६, १३; ङपा: आश्रौ ९, ६, २;
 शाश्रौ ११, २, १३; ङअपातम्
 आपश्रौ १५, १०, १२; बौश्रौ
 ९, १०: २०; भाश्रौ; ङअपाम
 आश्रौ ५, ६, २६; काश्रौ १०,
 ९, ८; आपश्रौ.
 ङअपाथि आश्रौ ६, ४, १०; ८,
 ५, १२; शाश्रौ.
 पाथयति आपश्रौ ७, १३, ११;
 बौश्रौ ४, ५: २०; भाश्रौ पाथयन्ति
 आपश्रौ १६, १८, ३; २०, २,
 ११^१†; बौश्रौ १८, ५०: २८;
 हिश्रौ ११, ६, २५; १४, १, २३^१†;

ङपाथय > या बौश्रौ १६, ५:
 १३; ऋप्रा ८, ३३; पाथयेत्
 आश्रौ ३, ११, ३; आपश्रौ १९,
 १३, १२; हिश्रौ २३, २, ४५;
 शांष्ट.
 ङपाथयिष्यति आश्रौ ५, ५, २७;
 शाश्रौ ७, ४, १२; आपश्रौ.
 पिपासति हिश्रौ १०, २, ५८^१†;
 पिपासेते वैश्रौ १५, ३१: २;
 पिपासन्ति सु ११, २; पिपासेत्
 हिश्रौ ८, ७, ४३.
 ङपिपिब- वांस: या १२, ४२^१†;
 तैप्रा १६, १३; -वान् या ११, ४.
 ङपातवे आपश्रौ १६, २६, ३; वैश्रौ
 १८, १८: ८; हिश्रौ; या ११, ३.
 ङपातवै आपश्रौ १२, २४, १४;
 वैश्रौ १५, ३१: ११.
 ङपातव्य, व्या- -व्यस्य मीस् १०,
 ४, ४९; -व्या विध २२, ८२.
 ङपात- -ता आश्रौ ६, ४, १०;
 शाश्रौ ९, ८, ३; वाधूश्रौ २,
 १३: ४; या ५, २६; -तारम्
 आपश्रौ १९, ३, ३; बौश्रौ १७,
 ३१: ७; ३५: ६; वैश्रौ ११,
 ५: २; हिश्रौ १३, ८, २८.
 ङपान- -नम् शाश्रौ १४, २, ११;
 १५, १, ४^१†; ५; काश्रौ; पा ८,
 ४, ९; -नात् या ५, १; ६,
 ७^१; मीस् ३, २, ३४; -नानि
 बौश्रौ २, ९: १६; -नाथ माश्रौ
 ५, २, ३, ६; गोष्ट ३, १०, २१;
 या ५, १८; १२, ४; -ने अत्र
 ४८, २९; बौध २, १, १८; गौध
 २३, २; -नेन आमिष्ट २, ६, ७;
 ३२; विध ४६, २३; -नै: अत्र

a) पामे. वैप १, १९८३ p द्र. । b) पामे. वैप १, १९८३ ० द्र. । c) पाठ: ? वैप १, १९८३ j द्र. । d) पिबत इति पाठ: ? यनि. शोध: । e) अपिपन् इति पाठ: ? यनि. शोध: (तु. आपश्रौ.) । f) सपा. पातु <> पात् इति पामे. । g) पामे. वैप १, १९८५ f द्र. । h) पामे. वैप १, १९८४ j द्र. ।

४४, ३, १०; या ५, ३.
 पान-क^०- पाग २, ४, ३१; -केभ्यः
 शंघ २१९.
 पान-कर्मन्- -र्म अप ७०^३, १०,
 ७.
 पान-भोजनो(न-उ)पनिवेश^०-
 स्थान^०-शङ्काप्रतिविधान-
 कुशल- -लः शंघ २५३.
 पान-व्यापद्^०- -पत् मीसू ३,
 ४, ३२.
 पान-हस्त^०- -स्तेन अप १, ३०,
 ४.
 पानीय^०- -यम् वैगृ ४, ४ : २६;
 १२ : ९; ५, ६ : २६; शंघ २५४,
 ३४७; ४२६; या १, १६; ७,
 १३; २५; -ये अप ७०^३, ७;
 ११; विध ९१, १;
 पानीया(ग्र-अ)र्थ- -र्थम् वैगृ
 ५, ७ : १.
 पान्त^०- -न्तम् आश्रौ ८, ८, ६;
 शाश्रौ ९, ४, ५; १०, ६, १९;
 ११, १२, १३; १२, २६, १५;
 या ७, २५७.
 पान्त-पश्यन्ति-शब्द- -ब्दौ
 ऋषा ४, ४८.
 पायन^०- -नानि कौसू ३१, ५;
 ३२, ७.
 पायना(न-अ)र्थ- -र्थम् निसू ४,
 ३ : १०.
 पाययमा(न>)ना- -ना या २,
 २७; -नाः गोय ३, २, ६.
 पाययितवै काश्रौ ४, १३, १११.
 पाययित्वा वैश्रौ १०, १० : १३;

आय १, ११, २; ४.
 पिपान^०- -नः अग्र ९, ४१.
 पिपासत्- -सते या ७, १३.
 पिपासा- पाग ५, २, ३६; ६४^१;
 -सा बौश्रौ २, ५ : २१; अप
 २३, १४, ६.
 पिपास-क^१- पा ३, २, ६४.
 पिपासित- पा ५, २, ३६.
 पिपासु- -सुः कप्र २, २, ९.
 पिपीषत्^०- -षते शाश्रौ ७, ७, १;
 १०, ६, १४××; आपश्रौ.
 पिब- पा ३, १, १३७.
 पिब- > व-वत्^०- -वान् आश्रौ
 ८, ५, ३.
 पिबन्- -पिबन् आश्रौ ५, १९, ३;
 आपश्रौ; आपमं २, २, ११^१;
 -बन्तः बौश्रौ ११, ११ : ३;
 -बन्तम् शंघ २५४; विध ७१,
 ६२.
 पिबन्ती- -पिन्तीः आपश्रौ १,
 २, ८; भाश्रौ; -न्तीम् अप ३९,
 १, ७.
 पिबन्त्यै आश्रौ ६, ५, २४१.
 पिपीत, ता- -तः आश्रौ ५, ६, २६;
 ६, १२, २; माश्रौ २, ४, ४५;
 वाधूश्रौ ३, ५३:३; वैताश्रौ १९,
 १८; -तस्य आपश्रौ १४, १८,
 ८; बौश्रौ ५, ४ : १८××; -ताः
 काश्रौ ७, ४, ३०^m; आपश्रौ १०,
 १७, ११; बौश्रौ; या १४, ६.
 पीत-घृत-, -त-तैल-, -त-
 दधि^०-, -त-मद्य- पाग २, २,
 ३७.

पीत-वत् लाश्रौ ८, ९, १३.
 पीत-वत्- -वती निसू ३, १२ :
 ४०; -बन्तः या १२, ४२;
 -बन्ति निसू २, ११ : १३.
 पीतवती- -त्याम् निसू ३,
 १२ : ४०.
 पीत-विपीत- पावाग २, १, ६९.
 पीत-विष^०- पाग २, २, ३७.
 पीत-शेष- -षम् गोय ३, १०,
 २२.
 पीता(त-अ) पीत^०- -पितस्य
 काश्रौ २५, १२, १; माश्रौ ३, ६,
 १३; -तौ काश्रौसं ३२ : २४;
 माश्रौ ३, ६, १३; अप्राय ६, ६.
 पीता(त-अ)वशिष्ट- -ष्टम् शंघ
 २२६.
 पीता(त-अ)वशेषित- -तम् शंघ
 ४२६.
 पीति- पा ३, ३, ९५; -पितये
 आश्रौ ६, ५, २४; आपश्रौ ५, ४,
 १; बौश्रौ; या १२, ४७; -पितिम्
 आश्रौ ६, ४, १०; शाश्रौ ९, १८,
 ५; द्राश्रौ ४, ३, ९; लाश्रौ २, ३,
 ८; वैताश्रौ २६, १०.
 पीपित्वा आश्रौ २, १०, ४^१××;
 शाश्रौ; कौय १, १७, ६^१; विध
 ८४, ३^{१०}.
 पीपया-स्थिरक- पाग २, १, ७२;
 पीप्यी पाग ७, १, ४९.
 पीयमान- -नः वाधूश्रौ ४, ५२ : ८;
 -नाः वाधूश्रौ ४, ५२ : ७.
 पेय, या- -यम् द्राय ४, १, ६; -या
 काघ २७५ : २; -याः शाश्रौ

a) नाप. । स्वार्थे प्र. । b) =नूतन-राज्य- । c) =सेना-निवेश- । d) षस. उप. =वसन- ।

e) मलो. कस. । f) तस्मै द्वितीयः छ>ह्यः प्र. (पा ५, १, ५) । g) वैप १ द. । h) गिजन्तात्
 कर्मणि प्र. । i) तु. पाका. । पिशाच- इति भाण्डा. प्रम्. । j) कनि प्र. हस्त्वम् । k) =घातु-निर्देश- ।
 l) पामे. वैप १, १९८० m द. । m) पामे. वैप १, १९८८ a द. । n) तु. पागम. ।
 o) प्रीत्वा इति जीसं. ।

१५, १, ४; बौश्रौ १८, ५१ : १७;
-याम् गोयु ४, ५, २४; -यैः
शांश्रौ १५, १, ३; बौश्रौ १८,
५१ : २; ३; ४.

√पा^a पाधा. अदा. पर. रक्षणे, पाति
अप ४८, १४^क; ७०, १, १०;
वाध ३०, ६; वैध; या ४, १८^३;
१२, २९; पासि आश्रौ ४, ११,
६^क; पाथः बौयु ३, ११, ३^क;
†पातु आश्रौ १, ४, ९; ४, १२,
२; ६, ९, ३^१; शांश्रौ ४, ६, ९^{२b};
काश्रौ; आपश्रौ ७, ५, १^०; २^a;
माश्रौ ६, २, ४, १^०; हिश्रौ ६, २,
४^१; १२, ४, ४^१; कौश्रु १, ५,
२९^१; या ११, ४^६; ऋपा ४,
५१^१; शुपा २, ३०^०; पातुःपातु
हिश्रौ ८, ५, ३^५; †पाताम्
आश्रौ १, ३, २३; ९, ५; ६,
९, ३; शांश्रौ; †पान्तु आश्रौ १,
२, १; शांश्रौ १, ६, ४; आपश्रौ;
माश्रौ १, ७, ३, २९^०; ६, २,
४, १^१; वाश्रौ २, २, ३, १^०;
२^१; वैश्रौ; †पाहि आश्रौ १,
१३, ५; ६^{३b}; २, २, ३^६; ५,
२^१ × ×; ५, ६, ७^m; ११^m; शांश्रौ
२, ६, ६^६; १४, २^१ - ४^१; ८, २४,
१^m; काश्रौ; आपश्रौ २, १४, १०^०;
३, २०, ८^{३b}; १२, १४, १३^१;

माश्रौ १, ३, १, १८^०; ४, २,
११^०; ६, ३, ७^५; वैताश्रौ
४, १६^{१b}; पायु ३, ४, ७^६; मायु
२, ११, १९^०; कौसू ११९,
२^६; †पातम् शांश्रौ १, ६, ११;
काश्रौ; आपश्रौ १२, २०, ९^m;
माश्रौ २, ३, ७, २^v; हिश्रौ ७, ३,
५६^m; २१, १, ९^m; पायु २, ६,
३०^v; कौसू ५८, १^m; १३७, ४१^m;
†पात आश्रौ ५, ३, १५; शांश्रौ
६, १३, १; काश्रौ; पाथन > ना
ऋपा ७, ३३^क; पाथात् जैश्रौका
१५४; बौध ४, ५, ४.

पा- > २पा-ल- > √पालि^x,
पालयते गौध ११, ३३; पाल-
यति बौध ३, २, १०; वृदे ३,
२६; या ६, १७; पालयन्ति
अप ५२, १६, ७; ७१, १९, ९^३;
पालयन्तु मायु १, १३, ४^१;
पालयेत् ऋपा ३, १, ३; ४, ४;
शंघ १५९ : १३; २७०; विध
९४, ७.

३पाल- ल् विध ५,
१३७.

१पाली^z - लीम्

आपयु ३, ११.

पाल-क्षेत्रिक- कयोः

गौध १२, १८.

पाल-दोष- -षः विध
५, १३७.

पाल-संयुक्त- -क्ते गौध
१२, १७.

पालक- पाग २, ४,
३१; -कः जैश्रौका १५४.

पालन- -नम् वाध १९,
१; शंघ १३८; वृदे ६, ३२;
-नात् वाध १९, ५; या ६, १२.

पालनी^{bl} - न्नी बौध
३, १, ५^{bl}; २, १०.

पालयित्- -ता या ४,
२१; ८, ३; २, २ × ×; -तारः कौसू
९४, ४; या १०, १६; -तारम्
या ४, २६; -तारौ या ५, २८;
-तुः या ४, २६.

२पातव्य- -व्यः सुधप ८५ : ७.

पातु- पाउभो २, १, ५८.

२पातु- -ता वृदे ३, २६; या ४,
२१; ८, ३; ९, २; १०, ११;
१२ × ×; -तारः या १०, १६;
-तारम् वृदे २, ४०; या ४, २६;
-तारौ- या ५, २८.

†१पायु^x - युः ऋपा ४, ६१; ७८;
शुपा ३, १०९; -युभिः आश्रौ
२, १०, ४; ३, ७, ५; बौश्रौ २६,
१५ : ७; ऋपा ५, ३७; शुपा ३,
७८; तैपा ६, ५; -योः शुपा

- a) या ९, २४ शुपा ३, २८ परामृष्टः द्र. । b) पामे. वैप १, १९९१ d द्र. । c) पामे. वैप १, १९८९ h द्र. । d) पामे. वैप १, १९८९ k द्र. । e) पामे. वैप १, १९८९ i द्र. । f) पाव इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. आपश्रौ ४, ५, ५) । g) पान्तु इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. मै २, १३, २२) । h) पान्तु इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. ऋ १०, १५८, १ शांश्रु ४, ६, ४ च) । i) वैप १, १९८९ f द्र. । j) सकृत् पामे. वैप १, १९९० b द्र. । k) संपा. आपश्रौ ६, १, ७ माश्रौ १, ६, १, ३ आपमं २, १५, १२ सुञ्च इति पामे. । l) पामे. वैप १, १९९० p द्र. । m) पामे. वैप १, १९८९ j द्र. । n) पामे. वैप १, १९७२ k द्र. । o) पामे. वैप १, १९४० g द्र. । p) पामे. वैप १, १९९० q द्र. । q) पामे. वैप १, १९९० m द्र. । r) पामे. वैप १, १९९१ l द्र. । s) पामे. वैप १, १९९० g द्र. । t) पामे. वैप २, ३खं. कल्पय तैपा ३, ७, ११, ५ टि. द्र. । u) पामे. वैप १, १९९१ n द्र. । v) पामे. वैप १, १९९१ o द्र. । w) पामे. वैप १, १९९० o द्र. । x) वैप १ द्र. । y) पामे. वैप १, २०८४ j द्र. । z) = पालिका- । a¹) = वृत्ति- । b¹) °लिनी इति पाठः ? यनि. शोघः ।

२,५९९; -घौ पा ८,३, ११६।
 पा- √पा (रक्षणे) द्र.
 पांशु^a- शुभिः काश्रौ १०,१५,१६;
 गोय ४,९,२०; नाशि २,८,२१;
 -शून् काश्रौ ५,१,४; १०,१५,
 १२.
 पांस^b- -सम्, -से माशि ४, १४.
 पांसु^c- पाउ १,२७; पाग ५,२,१७;
 -सवः वायुश्रौ ४,४८: ५; अप
 ७०^३, २०, ३; या १२, १९६;
 -सुना अप ५८,१,४; ६४,६,९;
 -सुभिः काश्रौ ६,३, ९; आपश्रौ
 ७,१०,१२; माश्रौ; -सुषु कौस्
 ८७,२२१; -सून् आपश्रौ ४, ४,
 २१; काश्रौ; -सूताम् वौश्रौ
 २३, १२: २०; माश्रौ २, २,
 ३, ४.
 पांसु-कर्म- -मे वैय ६७: १०.
 पांसु-खल^d- -लः काश्रौ २२, ३,
 ४६.
 पांसु-विष्णिय- -वेषु आपश्रौ १२,
 १८,३.
 पांसु-मांसा(स-आदि- -दीनाम्
 शौच १,८५.
 पांसु-र- पावा ५,२,१०७; -^eरै
 वौश्रौ ६, २४: २८; अप्राय ५,
 २; १२; या १२, १९६; ऋप्रा
 १३,२४; तैप्रा १६,२.
 पांसु-ल- पा ५, २, १७; -ले या
 १२,१९.
 पांसु-वर्ष- -वर्षम् अप ५७, २, ४;
 -वैः अप ७०^३, ११, २९.

पांसु-वृष्टि- -ष्टिः अप ६७, ७, २;
 -ष्टौ काथ २७५: १०.
 पांसु-संचय- -यम् याशि २, १०७.
 पांसु सिकता- -ताभिः कौस् २६,
 १०.
 पांसु-हर^f- -रे गौध १६, ५.
 पांसु(सु-अ)श्मा(रम-आ)दि-
 -दिषु अप ६४, ४, ५.
 रपाक- प्रष्ट. √पच् द्र.
 रपाक^g- पाउ ३, ४३; ५, ५३; पाग
 ४, १, ४; -कः आपय २०, १५;
 भाग २, १०: १६; वाग १, ३;
 हिग २, ९, १०; अप ४८, ६२;
 निघ ३, ८; या ३, १२६;
 -^hकम् आपश्रौ १, ३, २४^६;
 शाश्रौ १, ६, ३^६; आपश्रौ २४,
 १२, ७^६; हिश्रौ २१, १, १^६; या
 ३, १२६; -ⁱकेन अप ८, ४;
 या १०, ४६६;
 पाका- पा ४, १, ४.
^jपाक-तर^k- -रः आपश्रौ १, ३, ३०;
 काश्रौ २, १, २१; वौश्रौ.
^lपाक-त्रा^m आपश्रौ ३, १२, १;
 २४, १३, ३; वौश्रौ.
 पाकत्रा-कर्मन्ⁿ- -र्मसु वौश्रौ
 २७, २: ११.
 पाक-व(त्स>)स्ता^o- -स्ता कौय^p
 ३, २, २^३; ३; शाग ३, २, ६.
 पाक-शासन^q- -नः अप ७०^३, १८,
 १; वृदे ६, ७६; ७, १४८; ८, २५;
 -ने अप ७१, १७, १, ४.
^rपाक-स्थासन्^s- -मा अप ४८,

११५; या ५, १५; -स्नः ऋय
 २, ८, ३; वृदे ६, ४२.
 रेपाक^t- पाग ४, २, ८०; -^uकम्^v
 आपश्रौ १, ३, २४; शाश्रौ.
 पाकायन- पा ४, २, ८०.
 पाक-दूर्वा^w- -वां कौय ५, ५, ५^१.
 ?पाकनग्निम् अप्राय ६, ८.
 पाक-व(त्>)ती^x- -ती वैशि १८३;
 माशि ९, २; ३^६; याशि २,
 १०; ११६; नाशि २, ४, २.
 ?पाक-शंस^y- -सम् वृदे ६, २९^१.
 पाकिमन्-^zकुक्-^{aa}क्य- √पच् द्र.
 पाक्षायण-^{ab}क्षिक- प्रष्ट., पक्ष- द्र.
 पाङ्क्त- पाङ्क्तेय- पाङ्क्त- द्र.
^{ac}पाङ्क्त्र^{ad}- -त्रान्^{ae} शुप्रा ५, ३४; ६,
 ३०.
 पाचक-^{af}चन-^{ag}च्य- √पच् द्र.
 पाजक^{ah}- -के आपश्रौ ५, ५, १; वौश्रौ
 १७, ३१: १६; भाश्रौ ५, ३, २;
 हिश्रौ ३, २, ३७.
 पाजस्^{ai}- पाउ ४, २०३; -^{aj}जः
 आपश्रौ ४, ६, ३; शाश्रौ ५, ९, ११;
 काश्रौ; या ६, १२६; १३;
 -^{ak}जसा काश्रौ १६, ३, १४;
 आपश्रौ १६, ४, १; वौश्रौ.
 पाजय- १७३ द्र.
 पाञ्चजनीन-^{al}पाञ्चजन्य- १५७ चन्-
 द्र.
 रपाञ्चजन्य- (>^{am}न्यायनि- पा.)
 पाग ४, २, ८०.
 पाञ्चदश-^{an}ञ्चदश्य-^{ao}ञ्चपत्य-
 ञ्चमाहिक- प्रष्ट. १५७ चन्- द्र.

a) = पांसु- । b) ऋथैः व्यु. च ? । c) वैप १ द्र. । d) मलो. कस. । e) पाभे. वैप १, १९९२ i द्र. ।
 f) विप. (वायु-). उस. । g) पाभे. वैप १ परि. अनुत्तम् शौ ४, १६, ६ टि. द्र. । h) वैप १, १९९३ e, g द्र. ।
 i) ञ्त्र इति सूत्रे. । j) विप. । वस. । k) पावक-वथसा इति पाठः ? यनि. शोचः (तु. शाश्रु). । l) सपा.
 शाश्रु ३, २, ५ नित्यवत्सा इति पाभे. । m) = इन्द्र- उस. । n) पाभे. वैप १, १९७१ k द्र. । o) पाभे.
 वैप १, १९९३ q द्र. । p) = विवृति- विशेष- । व्यु. ? । M.W. यनि. < १ पाक- इति । q) = पाञ्क्त्र- ।
 r) पाभे. वैप १, १९९४ d द्र. । s) = [महानसोपकरण-] पात्र- विशेष- । व्यु. ? ।

१पाञ्चाल- १पाञ्चाल- द्र.
 २पाञ्चाल- , श्लायन- २पाञ्चाल- द्र.
 पाञ्चि- २पञ्चन्- द्र.
 पाञ्चर्य- पञ्चर- द्र.
 पाद् पाग १, ४, ५७.
 पाद्- पाउमो २, १, ३३७.
 पाटन- √पट् (बधा.) द्र.
 १पाटल, लका^१ - (> ल्य-,
 लक्य- पा.) पाग ४, २, ४९.
 पाटला^० - लले अप ३६, ९, ३३.
 पाटलि- पाउमो २, १, २३२.
 पाटलिपुत्र^d - त्रम् अप ५६, १, २.
 पाटली^० - (> २पाटल- पा.) पाग
 ४, ३, १३६.
 पाटव- पटु- द्र.
 १पाटवः कौसू १४१, ३७.
 पाटा^f - > पाटामूल- लम् कौसू
 ३८, १८; अशां १९, ६.
 पाटित- √पट् (बधा.) द्र.
 पाट्टपट^६ - पावा ६, १, १२.
 पाट्टारक- पट्टार- द्र.
 पाट्ट्यमान- √पट् (बधा.) द्र.
 पाठ-, पाठक- √पठ् द्र.
 पाठन^h - (> ०नी- पा.) पाग ४, १,
 ४१.
 पाठयत्- √पठ् द्र.
 १पाठा- (> १पाठय- पा.) पाग ४,
 २, ९७.
 २पाठा^f - ङाम् आपग ९, ५; वृदे ८,
 ५६.
 पाठा-शुद्धिनपर्णी-कर्मिकार-राजवृक्ष-
 कण्टक-तिल्वक-विभीतका (क-

त्र) क-शर-श्वदंष्ट्रा (प्ल-अ)
 ध्यण्ड- णडा: हिपि १३: ६.
 पाठीन^f - पाउमो २, २, १९८.
 पाठीन-रोहित- तौ शंघ २२४.
 पाठीन-रोहित-राजीव-सिंहतुण्ड-
 शकुल-वर्जम् विध ५१, २१.
 २पाठेय^f - (> षक- पा.) पाग ४,
 २, १२७.
 पाणि^f - पाउ ४, १, ३३; -णयः आपश्रौ
 ५, ५, १०; -णिः बौश्रौ २, २:
 २०; कप्र १, ८, ११; विध २४,
 ५; या २, २६४; माशि: -णिना
 आश्रौ १, ३, २५; ५, ६, ९;
 काश्रौ: -णिभिः आश्रौ ६,
 १२, ७; आपश्रौ: -णिभ्याम्
 आश्रौ ३, १, १६; काश्रौ: -णिम्
 आश्रौ १, ७, ३; शाश्रौ २, ९,
 १३; काश्रौ: -णिषु आश्रौ ४, ७,
 २१; २३; कौट; -णो आश्रौ
 १, १, २३; ३, १०, ६३; १३,
 १४; शाश्रौ: या २, २६; -णीन्
 आश्रौ ४, ५, ७; ६, १२, ११;
 ८, १३, २२; शाश्रौ: -णे: शाश्रौ
 १, १०, १; आपश्रौ: -णौ आश्रौ
 १, ७, ३; २, ९, ९; ३, १४, १८;
 शाश्रौ: -ण्यो: आश्रौ ३, १०, ८;
 ४, ८, ११; शाश्रौ.
 पाणि-कोष्ठ- ष्टम् माश्रौ १, २, ४,
 ८; -ष्ठे माश्रौ १, २, ४, १३;
 वाश्रौ १, ३, १, ३७.
 पाणि-गृही (त>) वा^m - ताया:
 वाध १२, २३.

पाणिगृहीती- पाग २, २, ३७;
 पावा ४, १, ५२.
 पाणिगृहीति-का^m - का काष
 २८०:३.
 पाणिग्रहण^० - गम् बौगृ २, ६, १७;
 वैगृ ३, १: १××; -णस्य द्रागृ १,
 ३, ४; -णात् आमिगृ १, ७, १:
 ४; बौगृ २, ६, २०; भागृ: -णे
 वैगृ ६, ११: १०; गोयृ.
 पाणिग्रहण-प्रभृति- ति बौगृ
 २, ६, २१; वैगृ ६, १५: १;
 १८: ७.
 पाणिग्रहणा(रा-आ)दि- दि
 आगृ १, ९, १; -दि: हिगृ १, २६,
 १०^१.
 पाणिग्रहणी(य>)या^f - या:
 गोयृ २, २, १५.
 पाणिग्रहा(ह-आ)दि- दि:
 आमिगृ २, ७, २: १०^१.
 पाणिग्रह^० - ह: गोयृ २, २, ४;
 द्रागृ १, ३, ६; -हम् गोयृ २, २,
 १४; द्रागृ १, ३, २८; -हस्य गेयृ
 २, १, २२; द्रागृ १, ३, ७; विध १५,
 १२; १७; -हे वाध १७, ७४.
 पाणिग्रह-वत् वाध १७, ६१.
 १पाणि-घ- पा ३, २, ५५.
 पाणि-तल- ले आश्रौ १, १०, ८;
 -लेन शंघ ४५७: ५; ४५८.
 पाणितल-मात्र-पुष्क(र>)
 रा^f - रा: माश्रौ १, २, १, ६.
 पाणि-दण्ड- पाग २, २, ३७.
 पाणि-निमार्जन- नम् बौश्रौ २८,

a) पाका. पाठः। b) अर्थः व्यु. च?। c) = देवी-विशेष-। व्यु. ?। d) = नगर-विशेष-। [पटना
 इति नमा.]। व्यु. ? बस. इति शक.। e) = वृक्ष-विशेष-। व्यु. ?। f) वैप १ द्र.। g) <पाटि<√पट्।
 h) पानठ- इति [पक्षे] भाखडा. प्रम्.। i) पावा- इति पाका.। j) = औषधि-विशेष-। व्यु. ?। k) = मत्स्य-
 विशेष-। व्यु. ?। l) तु. पागम.। m) त्रिप.। बस.। n) स्वार्थे प्र.। o) = संस्कार-विशेष-। p) = औषध-
 नाधि-। q) सपा. 'हण्' <> 'ह्' इति पात्रे.। r) = ऋच्-। s) = परि-भ्येत्-। उक्त. उप. कर्त्तरि कृत्-।
 t) विष्. (सुच्-).। बस. > बस.।

१२:२३; हिप्ति २१.८.
 पाणि-नेय- -याय अप ३१,१०,५.
 पाणि-धम- पा ३,२,३७.
 पाणि-पञ्च^३-, पाणि-पल्लव^३- पाण
 २,१,५६.
 पाणि-पाद- -दम् आपध २, १९,
 १; विध ९७,४; हिध २,५,७३;
 -दान् कौसू ७१, १७; ८६,२०;
 -दौ वैश्रौ १०,१५: १; आाम्रण
 २, ६, ८: ९; ७, ६: २९; वैण
 १,२: ४; शंघ ५५.
 पाणिपाद्-चपल- -लः वाध ६,
 ४२.
 पाणिपाद्-प्रक्षालन- -नम् गौध
 १०,५२.
 पाणिपाद्-शलाका- -का: विध
 ९६,५९.
 पाणि-प्रक्षालन- -नम् हिश्रौ १०,३,
 ३५.
 पाणिप्रक्षालन-प्रभृति- -ति
 वाश्रौ १,६,२,९.
 पाणिप्रक्षालन-प्रस्तराहरणा(ण-
 आ)दि- -दि वैश्रौ १५, १: ४.
 पाणिप्रक्षालना(न-आ)दि- -दि
 आपश्रौ ७,८,१; ८, ९, १३××;
 वैश्रौ.
 पाणि-सघ्य- -घ्ये वाध ३,६७.
 पाणि-मात्र->^०त्र-पुष्क(र>)रा^३-
 -ना: काश्रौ १, ३, ३८; -राम्
 १७, ४, १२.
 पाणि-मार्ग^०- -र्गम् काण्ड ४,१९.

पाणि-मुख^३- -खः बौध १, ११,
 २८; -कँखा: आण्ड ४, ७, २२;
 गौपि २,३,३४.
 पाणि-वज्र^३- पाण २,२,३७.
 पाणि-वन् मीसू ६,६,१२९.
 पाणि-श्रुपां(र्ष-आ)स्य-दवि- -विभि:
 कप्र १,९,१४.^१
 पाणि-संक्षुब्ध- -ब्धेन आपध १,
 ४,२१; हिध १,१,१४०.
 पाणि-समूह- -हम् आपध २, १२,
 ५; हिध २,४,४१?^६
 पाणि-संसर्शन- -नात् बौश्रौ २५,
 ६: ३; -ने यौश्रौ २०, ५: १;
 -नेन यौश्रौ २१,३: १०.
 पाणि-सगर्थ- पावा ३, १,१२४.
 पाणि-हृदय- -यान् कौसू ११,
 १४.
 पाणो-कृत्य- पा १,४,७७.
 पाण्या(णि-आ)धार^३- -रे अप ३०^३,
 २,७.
 पाण्या(णि-आ)स्य^३- -स्य: शाण्ड
 ४,७, ५५^१; -स्या: कौसू ३,९,
 ५०^१; वाध १३,१६.
 पाण्या(णि-आ)हुति- -ति: कप्र १,
 ९,११.
 पाणिक- ✓पण् द्र.
 पाणि-कोष्ठ- प्रभृ., १पाणि-घ-
 पाण-द्र.
 २पाणिघ^१- -घ: अप ४८,१०१^१.
 पाणि-तल-, ^०दण्ड- पाणि-द्र.
 पाणिन-, ^०नि- पणिन्- द्र.

पाण्ट- (> ^०ण्टी- पा.) पाउभो २,
 २,९५; पाण ४,१,४१^६.
 पाण्ड->(^०ण्टी-) पाण्ट- टि. द्र.
 पाण्डर^१- -रम् आपश्रौ १८, १४,
 १^३; २^१; -राय भाण्ड २, १:
 ५^१.
 पाण्डर-ताप्यो(र्ष-उ)ग्गीष- -षाणि
 आपश्रौ १८, १४,३.
 पाण्डित्य- पण्डा-द्र.
 १पाण्डु^०- पाउभो २,१,५२; पाण ५,
 १, १२२^३; -ण्डु: अप ५३,
 १,३; -ण्डुना अप ५८^३, २, ५;
 -ण्डुम् कौसू ४८, २३; -ण्डुन्
 अप ६३,१,२.
 १पाण्डव-, पाण्डमन्- पा ५, १,
 १२२.
 पाण्डु-कम्बल^३-> ^०लिन्^३- पा ४,
 २,११.
 पाण्डु-ता-, पाण्डु-त्व- पा ५, १,
 १२२.
 पाण्डु-पत्रा(त्र-आ)शिन्^३- -शिन:
 वैध १,८,१.
 पाण्डु-भूम- पावा ५,४,७५.
 १पाण्डुर- पावा ५,२,१०७.
 पाण्डु-रोग-> ^०णिन्- -गी शंघ
 ३७६; ३७७: ४.
 २पाण्डु^३-> (२पाण्डव-, पाण्डवेय-
 पा.) पाण ४, १, ११२^३;
 १२३.
 पाण्डु-श्वतराष्ट्र^३- पाण २,२,३१.
 पाण्डु-नन्दन- -०न शंघ १२२.

a) तु. पागम. । b) विप. (लुच्-). बस. । c) उप. = मार्जन- । d) विप. । बस. ।
 e) पाणित्वम् इति जीसं. । f) पाणिसूपैस्स्यदासुभिः इति जीसं. । g) णिसू इति पाठः ? यान्. शोधः (तु.
 माण्यम्) । h) मलो. कस. । i) परसरं पाभे. । j) = पर्वत- व्यु. ? । k) तु. पाका. ।
 पाण्ड- इति भाण्डा. प्रभृ. । l) विप., नाप. । वर्णे तद्वति च वृत्तिः । वैप १ द्र. । m) सपा. पाण्डरम् <>
 पाण्डुरम् इति पाभे. । n) श्वेतं पाण्डरम् इत्यस्य स्थाने सपा. हिश्रौ १३, ५, २३ श्वेतपाण्डुरम् इति, सा (मास ५,
 ३१ ५, २१) श्वेतं पाण्डरम् इति पाभे. । o) = वर्ण-विशेष-, तद्वत्- । व्यु. ? < ✓पण्ड इति पाउण्ड १, ३७;
 < ✓पण्ड इति पाउभो. । p) = कम्बल-विशेष- (तु. वापाभा.) । q) = वानप्रस्थ-विशेष- । r) व्यप. । व्यु. ? ३१

३पाण्डु^a - > पाण्ड्य- पावा ४, १, १६६.

२पाण्डुर, रा^b - रम् हिश्रौ १३, ५, २३^c; विध १, ३७; अप ५०, ७, ३; ६८, २, ६; -रा अप २१, ६, २; -राणि अप ६८, २, २०; ३५; -राभिः अप ५२, ५, ४; -रासु विध ९९, १०.

पाण्डुहृद्^d - द्राः बौश्रौ प्र ४९ : ४.

पाण्ड्व^e - ण्ड्वम् काश्रौ १५, ५, १२.

पाण्य(णि-आ)धार- प्रभृ. पाणि- द्र. १-२पात-पातक- प्रभृ., पातन्तक-√पत् (गतौ) द्र.

पातवे, पातवै, १पातव्य-√पा (पाने) द्र.

२पातव्य-√पा (रक्षणे) द्र.

पाताण्डनीय^f - न्याः क्व्यूर २ : ४.

पाताल^g - पाठ १, ११७.

पाताल-ससक- कम् शंघ ११६ : ४; विध १, १५.

पाति- पाठ ५, ५.

पातित-√पत् (गतौ) द्र.

? पातीत^h वैताश्रौ १६, १७^h.

पातु-√पा (रक्षणे) द्र.

पातुक-√पत् (गतौ) द्र.

१पातु-√पा (पाने) द्र.

२पातु-√पा (रक्षणे) द्र.

पात्तिगणक-√पद् द्र.

पात्नीवत-ⁱ लीशाल- पाति- द्र.

पात्र^j - पाउभो २, ३, ७६; पाग २, ४, ३१; -त्रः बौश्रौ ६, १ : ८; -त्रम् आश्रौ ५, १४, ३; ६, ४, १०; शाश्रौ; आमिगृ ३, १, २ : ११;

१५; १८××; या ५, १^k कृ; ऋप्रा ४, ७८^l; -त्रयोः आपश्रौ ८, २, ९; १२, २६, १८; भाश्रौ; -त्रस्य आपश्रौ १२, ११, ३; ४; माश्रौ २, ३, ३, १९^m; कागृ २४, १२; जैगृ १, २ : ४; या ८, २ⁿ; -त्राया ३, २०^o; -त्राणाम् आश्रौ २, ७, २०; काश्रौ; -त्राणि आश्रौ २, ६, ४; शाश्रौ; -त्रात् वैगृ १, १० : १; शंघ १८१; बौघ १, ६, ४७; -त्रान् शाश्रौ १६, १, २; बौश्रौ २, १३ : २०; -त्राम्याम् आपश्रौ १२, १, ९; १३, ९; हिश्रौ १४, ३, ८; -त्रे काश्रौ १०, ३, ८; १२, ५, १६××; आपश्रौ; -त्रेण शाश्रौ १६, १७, ९; काश्रौ; -त्रेभ्यः काश्रौ २, ४, २; काठश्रौ; -त्रेषु काश्रौ २५, १०, २०; आपश्रौ; -त्रैः आपश्रौ १८, १६, ८; १९, ४, ६; बौश्रौ.

पात्री- पागम ५६; -त्री वैश्रौ ११, ९ : ८; विध ९२, १५; -त्रीः वाधूश्रौ ३, ७६ : १२; वैश्रौ ९, १ : ९; हिश्रौ ५, ३, ६; -त्रीम् शाश्रौ ४, ३, २; काश्रौ; -त्रीषु वैश्रौ ९, २ : ५; हिश्रौ ५, ३, २१; -त्र्या आपश्रौ १, १८, ७; बौश्रौ ११, ५ : ११; १५, ३१ : ११; भाश्रौ; -त्र्याः आपश्रौ ३, ८, ५; बौश्रौ १, ५ : ८; -त्र्याम् शाश्रौ ४, ३, ४; काश्रौ २, ३, २८; ४, २१; ५, १०××; आपश्रौ; -त्र्योः

काश्रौ ५, ६, १०; माश्रौ १, ७, ४, ६; ६, १, ४, २८; -त्र्यौ शाश्रौ ४, १४, २८; कौगृ ५, ३, १८.

? पात्रीडाचमसम् काठश्रौ ७; कागृ ४६ : ८.

पात्री-निर्णेजन^p - नम्^q आपश्रौ १, २५, १४; भाश्रौ १, २६, १०; हिश्रौ १, ६, ५६.

पात्री-बिल-ले काश्रौ २, ३, २९.

पात्री-संखालन^r - नम् बौश्रौ १, १० : १३.

पात्री-स्थ-स्थम् शाश्रौ ५, ८, २.

पात्री-स्थान-ने वाश्रौ ३, ३, ४, ४.

पात्र्य(त्री-अ)ङ्गुलि-प्रक्षालन^s - नम् काश्रौ २, ५, २६.

पात्र-चमस^t - सम् जैगृ १, १९ : ३६.

पात्र-चय-यः आमिगृ ३, ७, ३ : २१; बौपि २, २, २; ३, १३.

पात्रचये(य-इ)ष्टका-वर्जम् हिपि १२ : ७.

पात्र-चयन-नम् हिपि १९ : ८.

पात्रचयन-प्रभृति- नति आमिगृ ३, ७, ३ : १३; बौपि २, १, ६.

पात्र-तस(ः) कप्र १, ३, ११.

पात्र-दर्शन-नात् मीसू ८, २, १४.

पात्र-देय-यम् जैगृ २, १ : २४^u.

पात्र-दौर्बल्य-ख्यात् वाध ६, ३१.

पात्र-धर्म-मैः वाश्रौ १, ६, २, १२.

a) = जनपदशब्द-अत्रियविशेष-। व्यु. ? । b) पाण्डर- इत्यनेन स-न्यायता द्र. । c) पाभे. पृ १५६२ m द्र. । d) व्यप. । व्यु. । e) वैप २, ३३^v. द्र. । f) = शाखा-विशेष-, तद्व्येतृ-। व्यु. ? । g) = लोक-विशेष-। व्यु. ? । h) पाठः ? पतितः इति शोधः (तु. C., सपा. ऋ १०, १७, १३ स्कन्तुः इति पाभे. च) । i) पुं. न. च नाप. (भारुड-) । शिष्टं वैप १ द्र. । j) वैप १, १९९५ g द्र. । k) सपा. पात्रीनि° <> पात्रनि° इति पाभे. । l) = पात्री-निर्णेजन- । m) नाप. । द्रस. > कास. उप. करणे कृत् । n) मल्ले. कस. (तु. भाष्यम्) ।

पात्र-निनयन^१- -नम् वाघ १५, ११.
 पात्र-निर्णेजन^२- -नम् माश्रौ ९, १५, ४; वैश्रौ ४, १० : १४९.
 पात्र-न्यासा (स-आ) दि- -दि कप्र ३, ४, २.
 पात्रन्यासादि-क- -कम् कप्र ३, ४, १.
 पात्र-पाणि^३- -णिः पाय १, १६, २३; आग्निगृ २, १, ३ : १५^{३०}; भाय १, २३ : ७; हिगृ २, ३, ७; जैगृ १, ८ : १७.
 पात्र-प्रक्षालन- -नम् काश्रौ ९, १४, ७; -नात् काश्रौ १०, ३, २१; ६, ७; १२, ६, ३.
 पात्र-प्रक्षालना (न-आ)न्त- -न्ते काश्रौ १०, ७, ९.
 पात्र-प्रयोग- -गः आपश्रौ ८, १३, १४; १०, ३०, ४; १३, २५, ४; -नात् वाश्रौ १, ६, २, ९.
 पात्र-प्रयोजन- -नम् वाश्रौ ३, २, १, २७; -नात् माश्रौ १, ७, १, १३.
 पात्र-प्रोक्ष- -क्षः आपश्रौ १, १९.
 पात्र-प्रोक्षणा (स-आ) दि- -दि काश्रौ १०, ९, १३.
 पात्र-प्रोक्ष (स) णी- -णीः बौश्रौ २४, ३६ : ६.
 पात्र-भूत- -तात् आमिगृ ३, ११, १ : ११.
 पात्र-भेद- -दः मीसू ४, १, ३३; ५, २, १६; -दे बौश्रौ ४, ९, ४.
 पात्र-भेदन- -ने बौश्रौ २८, ११ : ४.
 पात्र-मन्त्र-हविर्-द्विज- -जाः अप २३, १०, ७.

पात्र-मुख- -खे काश्रौ ९, १३, १४.
 पात्र-योग- -गः आपश्रौ ७, २२, २; १३, १९, २; १७, १६, ३.
 पात्र-योजन- -नम् काश्रौ ९, २, १.
 पात्र-लाभ- -भः मीसू १०, १, ४७.
 पात्र-विनियोग- -गः अप्राय ३, ६; -गम् अप्राय ३, ७^३; ८.
 पात्र-वृद्धि- -द्धिः मीसू ५, २, ८; ९.
 पात्र-शेष- -षम् काठश्रौ ६३.
 पात्र-संसादन- -नात् आपश्रौ १, १५, १०; -ने वैश्रौ १, ४ : १०.
 पात्रसंसादन-काल- -ले आपश्रौ ३, १६, १५; ८, २, १××; वैश्रौ.
 पात्रसंसादन-प्रभृति- -तीति द्विश्रौ ४, ४, ४५; ८, १, ४८; ९, ४, १; ७, ४५.
 पात्रसंसादना (न-आ) दि- -दि आपश्रौ ७, २२, १; ११, २०, १३.
 पात्र-संक्षालन^४- -नम् भाय ३, १४ : २३.
 पात्र-सद्- -सदे माय १, ९, १३^२; वाय ११, १६; १५, ८.
 पात्र-संपात- -न्ते विध ९६, ६.
 पात्र-संमार्जन-काल- -ले वैश्रौ १०, ७ : ८.
 पात्र-सादन- -नम् काश्रौ ९, ४, ३७; ९, ६, ५०; -ने वैश्रौ १०, ६ : १०.
 पात्रसादन-काल- -ले आमिगृ ३, ३, १ : २२.
 पात्र-स्थ- -स्थम् काश्रौसं ३६ : १३.
 पात्र-सुवा (व-आ) दि- -दयः वैगृ १, ८ : ८.

पात्र-हरण-सामर्थ्य- -थ्यात् काश्रौ १०, ६, २४.
 पात्रा (त्र-आ) दि-संभार- -रात् वैगृ १, ८ : ९.
 पात्रादिसंभार-युक्त- -क्तः वैध २, ३, ६.
 पात्रा (त्र-आ)न्तर- -रम् शंघ १८१.
 पात्रान्तरा (र-आ) नयन- -ने बौध १, ६, ४७.
 पात्रा (त्र-आ) साद- -दम् अप २३, ११, ५.
 पात्रा (त्र-आ) सादन- -नम् काश्रौ ४, १, ३; २६, २, ९.
 पात्रिक^५- -पा ५, १, ४६; ५४.
 पात्रिय^६- -पा ५, १, ६८.
 पात्रीण^७- -पा ५, १, ५३.
 पात्रे-बहुल-, पात्रे-स L, सं^८मित- -पा, पाग २, १, ४८; ६, २, ८१.
 पात्रौ (त्र-ओ) दन- -नात् वाध्रौ ४, ७४ : ३२.
 पात्र्य^९- -पा ५, १, ६८.
 पात्रीव^१- -पाग २, ४, ३१.
 पाथ- -रपथ- द.
 पाथस्य^१- -पाठ ४, २०४; २०५; -थः आश्रौ १, ११, ८; ४, ५, ३; शाश्रौ १६, ३, ३२; आपश्रौ; या ६, ७४^३; ८, १७४^३.
 पाथ्य- -पा ४, १, १११.
 पाथिक- -रपथिक द.
 पाथिक्य- -पथ्य द.
 पाथिस- -पाठ २, ११४.
 रपाथेय- -पथ्य द.
 रपाथेय- (>यक-पा.) पाग ४, २, १२७.

a) आप. > नाप. (कर्म-विशेष-). b) विप., नाप. c) पाभे. पृ १५६३ k द. d) = बालग्रह-विशेष-। e) णिम् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. पाय. प्रभृ.)। f) = पात्री-निर्णेजन-। g) विप.। पात्र-परिमाण-विशेष-। h) पाक. पाठः। i) अर्थः व्यु. च?। = यज्ञोपकरण- इति पागम.। j) वैप १ द.।

†रपाथ्य^a- -थ्यः माश्रौ ६, १, १, २६; वैताश्रौ ५, १४.
 पाद्-, १पाद्- √पद् द्र.
 २पाद्^b- (>पादायन- पा.) पाग ४, १, ११०.
 पादक्रमिक-, पादविक-, पादिक-, १पादु- √पद् द्र.
 †रपादु^c- -दुः निघ ४, २; या ५, १९६.
 १-२पादुक- √पद् द्र.
 †पादुकहेम^d- -मम् वैशि ९८१०, १०४
 पाद्-, पाद्धत-, पाघ- √पद् द्र.
 १पान- √पा (पाने) द्र.
 २पान^e- (>पानी- पा.) पाग ४, १, ४१.
 ३पान^f- (>पान-र- पा.) पाग ४, २, ८०.
 पानक- प्रमृ. √पा(पाने) द्र.
 पानठ- (>ठी-) पाठन- टि. द्र.
 पान-भो^g-^१न-न्यापद्- √पा (पाने) द्र.
 पानस्य^h- -स्याः बौश्रौ प्र ४१: ११.
 पान-हस्त-, ^१नीय-, पान्त √पा (पाने) द्र.
 पान्थ- √पथ द्र.
 पाप, पाⁱ- पाठ ३, २३; -पः शांश्रौ १५, १९, ११; बौश्रौ २, ५: ८१; या ५, २६; -पम् शांश्रौ १५, २४, ११; काश्रौ १२, २, ८१; आपश्रौ; आग्र २, ४, १४^१; पाग्र ३, ३, ६^१; हिग्र १, १९, ७^१; या १३, ६; १४, २९; ३४^१; पा ६, २, ६८; -पयथा^१ आपसं १, १७, ८; बौध २, ६, ३४; -पस्य आपश्रौ ६, ६, ८; शंघ १३३;

बौध ४, ८, १०; -पा आश्रौ १३, ८; -पाः अप ६४, ९, ८; बौध १, ११, २१; विध ४३, ३२; या ६, २५; -पात् आश्रौ ९, ३, १२; वाश्रौ; -पानाम् वाध २५, १; १२; २७, २०; शंघ १६२; विध ५४, ३४; -पानि जैग्र १, २०: २९^१; वाध; -पाम् अत्र ७, ११५; -पाथ अत्र १३, ४, (४)^१; -पासः या ६, २५^१; -पे शौच २, ७९; -पेन आपश्रौ १०, १२, १३^१; आसिग्र २, ६, १: २६^१; विध ९३, १०; वृदे ४, २३; या १२, ३; -पेभ्यः आसिग्र २, ६, २: ६; बौध; -पैः द्राश्रौ ९, ४, १७; विध ८, ३७.
 पापी^j- पा ४, १, ३०; -पी शांश्रौ १४, ५१, १; कप्र ३, ६, ३; -पपीः आपश्रौ ४, १५, ४; भाश्रौ ४, २१, २; हिश्रौ ६, ४, २१; -पीनाम् पाग्र १, १२, ४^१; -पीम् वांश्रौ १४, ५१, १^१; -प्या आश्रौ ९, ७, २२; शांश्रौ १४, ५१, १.
 पापं-विलोम-पूर्व^k- -र्वे भाशि ५.
 †पाप-क^l- -कम् शांश्रौ १५, २४, १; १६, ९, ७; आग्र ३, ६, ७; आपघ २, १२, १६; हिघ २, ४, ५३; या ३, ८; १४; १९; ४, २४; ६, १; ३; २३; ९, ४; -केन बौध २, ६, ३२; १०, ८.
 १पाप-कर्मन्- -र्मभिः वाध १३, ४९; -र्मभ्यः बौध ४, ७, १.
 पापकर्म-रति^m- -तिः वाध २७, ४.

पापकर्मा(र्म-अ)पनुत्ति- -त्त्ये जैश्रौका १९९.
 पापकर्मिन्- -र्मिणः शंघ ३७४.
 २पाप-कर्मन्ⁿ- -र्मणाम् बौपि २, ८, १; -र्मभिः जैश्रौ १: १५; -र्मिणम् जैश्रौ १: १४; वाध २६, १९.
 पाप-कृच्छ्र- -च्छ्रयोः वृदे ७, ९५.
 पाप-कृत- -कृत बौश्रौ १८, १२: १५; १३: २; वाध; -कृतः आश्रौ १०, ७, ६; १२, ९, १७; शांश्रौ; या १०, ११; -कृता कप्र २, ७, ८; -कृताम् शंघ १०४.
 †पाप-कृत्या^o- -स्या काश्रौ १२, २, ८; द्राश्रौ ७, ३, ६; लाश्रौ ३, ३, ९.
 पाप-घ्न- -घ्नः बौध ४, ५, २२; -घ्नम् बौध ४, ८, ५.
 पाप-चारिन्- -रिणः वाध १८, १३.
 पाप-चेतस्^p- -तसः वृदे ८, २८.
 पाप-चैल- -लम् कौस् ६३, २.
 पाप-धी^q- -धियः या ५, २३; १०, ५^१; -धियम् या ५, २.
 पाप-नक्षत्र- -त्रे कौस् ४६, २५.
 १पाप-नामन्- -मनी या ४, २१.
 २पाप-नामन्^r- -मा या ६, १२.
 †पाप-नारुन- -रुन अशां ३, १; -नः अप २४, ३, १.
 पाप-नाशि(त्>)नी- -न्यः बौध ४, ६, २.
 पाप-प्रणाशि(त्>)नी- -नी बौश्रौ २९, ८: १५.
 पाप-प्रशमन- -नम् शंघ १०४.
 पाप-बहुल- -लः शंघ २६२.
 पाप-बुद्धि^s- -द्धिः वैग्र ५, ९: ५;

a) वैप १, १९९७ d द्र.। b) व्यप.। व्यु. ?। c) वैप १, १९९७ e द्र.। d) अर्थः व्यु. च ?।
 e) अदुक^० इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. उत्तरं स्थलम्)। f) तु. पाका.। यान- इति भारुडा. प्रमृ.।
 g) रपीन- इति BPG., पासि.। h) वैप १ द्र.। i) पासे. पृ २८५ i द्र.। j) पासे. वैप २, ३खं. पाश्रम मंत्रा १, १, १४ टि. द्र.। k) लाघासं. ^१पिनाम् इति। l) दस.>वस.। m) स्वार्थे प्र.। n) विप.। वस.।

-द्विम वैष्ट ५, ९ : १४.

पाप-भद्र- -द्रम् बाधूश्री ३, १ : १; -द्वयोः बौश्री १८, २९ : ४१.

पाप-भीरु- -रुम् बाध ६, ३०.

पाप-मरण- -णे वैष्ट ७, ४ : ११.

पाप-सूत- -तस्य वैष्ट ७, ४ : १४.

पाप-यक्ष्म-गृहीत- -तः बौश्री १३, २८ : १; २३, ३ : २१; २८, १ : १; -तस्य हिश्री २२, ४, १५.

पाप-शोनि^१- -निवु कौशि ४०.

पाप-रोग^२- -रात् गोष्ट ४, ६, ३; -रोग वृदे ७, ४२.

पापरोगा(ग-अ)न्वित- -तः वैष्ट ५, ११ : २.

पापरोगिन्- -गिणाम् वैष्ट ३, ७ : २२.

पाप-लक्ष(रा-^३)णा^b- -णायाः कौम् ४२, १९.

पाप-ब्रसीय(न्->)सी- सी गोष्ट १, ६, २.

पाप-ब्रस्यस^c- -सम् आपश्री १६, २, ४१.

पाप-वाद- -दः बौश्री २, ५ : २३१.

पाप-विनाशन- -नाः बौध ४, ६, १.

पाप-विवर्जित- -तः शोध ४४१.

पाप-शकुनि^d- -निः भाष्ट २, ३१ : १३१.

पाप-शान्त्य(न्ति-अ)र्थे- -र्थम् जैश्रीका ११८.

पाप-संयुक्त- -क्ताः शोध ४४०.

पाप-संकर^e- -रुपाः या १०, ५.

पाप-संचय- -यः आमिष्ट २, ४, ५ : २३; बौध ४, ७, ८.

?पाप-सम^f- पाग २, १, १७; -सम् बौश्री १४, १३ : ३१; वैतार्थः ३१, ५.

१पाप-स्पर्श^d- -शै^० गोष्ट ३, ३, ३२.

२पाप-स्पर्श^b- -शै^० द्राष्ट २, ५, ३५.

१पाप-स्वप्न- -प्नत् बौश्री २८, ९ : २०; -प्ने बौष्ट ३, ५, १४.

पाप-इर- -रम् ऋप ८, १, ६.

पाप-हारि(न्->)णी- -णीम् ऋप ७ १, ६.

पापां(प-अं)श-भाज्- -भाक् शोध २६२.

पापा(प-अ)णक- -के पा २, १, ५४.

पापा(प-अ)सन्^b- -त्मनाम विध ४४, १; -त्मा शोध ४४१; विध ५४, १.

पापा(प-अ)पनुत्ति- -त्तथे ऋप ३१, ६, ४.

पापा(प-अ)भिशङ्का- -ङ्कया वृदे ६, ३७.

✓पापाय>पापायित- -ताः बौश्री १८, २६ : २०.

पापा(प-अ)ह^c- -हम् भाष्ट १, १२ : १५; -हे भाष्ट १, १२ : १४.

पापा(प-अ)हि^d- -हेः माशि १५, ६; पाशि २५; नाशि २, ८ १०.

पा(प-क->)पिका- -काः ऋप १, ३२, ११.

पापिन्- -पितः बाध १४, १९.

पापिष्ट- -ष्टः गौध ४, २८; -ष्टम् कप्र २, ७, ८; १०, १०.

पापीयस्- -यः बाधूश्री ३, ४६ : ४; निम् ८, ७ : २८; -यसः

शोध २२९; गौध १३, २५;

-१यसा आपश्री ६, १८, २; वैश्री १५, २६ : ७; हिश्री ६, ६, १७;

१०, ४, २३; -यसे बौश्री १६, ११ : ५; बाध २, ४३; बौध १, ५, ८१;

-यान् आपश्री २, १७, ५३; ५, ३, ७××; बौश्री.

पापीयसी- -सी बौश्री १८, २६ : १८.

पापीयो भव्या- -व्यायै बाधूश्री ४, १०१ : १०.

पापी(य->)या- -याम् बौश्री १८, ४८ : ११.

पापति- प्रष्ट. ✓पत् (गती) द्र.

?पापनयत् ऋप ३७, १, ५.

?पापस्वप्नोपमुक्तैः^१ वैश्री २१, २ : ६.

?पापःस्वप्नात्^१ काश्री २५, ११, २१.

?पापीन्^१- आमिष्ट ३, ११, १ : १०.

पाप्मन्^c- पाठ ४, १५१; -१ंप्मन् बौश्री २, ५ : २३; २४^१; २५;

आ मष्ट; -१ंप्मनः आपश्री २, २, ३; ९, ७, ३५; शाश्री; बौश्री २४, ३० : १४^१;

माश्री १, ६, १, ३; -प्मना आपश्री ११, ५, १; आपश्री; -प्मने बौध ३,

४, ४१; -१ंप्मा काश्री २, १, २२; बौश्री २, ५ : ४; १३; २९, ८ :

१२^१; बाधूश्री ३, २६ : ५; ४, ५९ : ६; ९; ६० : १०; आष्ट १, २४, ३१^१;

पाष्ट; -१ंप्मानः शाश्री १५, १९, १; आमिष्ट २, ४, ५ : १५; -१ंप्मानम्

a) कस. । b) विप. । वस. । c) वैप १ द्र. । d) वस. । e) परस्परं पामे. । f) उप.

=अहन्- । g) पाठः? पापस्वप्नाद् अयमुक्त्यात् इति द्विपदः शोधः (तु. वैप १, १९९९ p; ?अभ्रुग्याः [वैप १ परि.] टि. च) । h) पाठः? पाप-स्वप्न- > -प्रात् इति शोधः (तु. वैप १, १९९९ p) । i) पाठः? पापिनः इति वा पापान् इति वा शोधः संभाव्यते । j) पाप्मानः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सपा. माश्री.) ।

k) सकृत् पाप्मा<>पाप्मानम् इति पामे. ।

आश्रौ २,३,१६; २३; ८, १३,
१४^३; शाश्रौ १,५, ९××; काश्रौ
४, १५, ४; ५; १५, ७, ६^३;
आपश्रौ; आपमं १,४,११^३; हिष्ट
१,१९,७^३; कौस् ९२,१९^३.
पाप्म-गृहीत- -तः वाध ५, ८^३;
-तस्य हिश्रौ २२,५,१५.
पाप्म-देवताक^०- -कम् अश्रद्धे, २६^३.
पाप्मन्व^०- -न्यम् अश्रद्धे, ३३.
पाप्म-हृत्^३- -ज्ञः अश्रद्धे, ३१; -हा
अप ३२,१,६^३; अशां २३, १;
अश्रभू २.
पाप्महा-गण- -गणस्य अश्रभू २.
पाप्महा-देवता-> श्य- -त्यम्
अश्रद्धे, ३१.
?पाप्मा...स्य चाश्रद्धे ८:१.
?पाप्म^३- (> पाप्म-र- पा.) पाग ४,
३,८०.
पाप्म^३- (> न- पा.) पाग ५, २,
१००.
पाप्माली^३ (> श्ली/कृ पा.)
पाप्मी^३ (> म्पी/कृ पा.) पाग १,
४,६१.
पायन- प्रभृ. √पा (पाने) द्र.
पायस्- पयस्- द्र.
१पायु- √पा (रक्षणे) द्र.
२पायु^३- पाउ १, १; -क्युः बौश्रौ
४, ६; ५१; भाश्रौ ७,१४, ७;
वैश्रौ; -युम् काश्रौ ६, ६, ३;
बौश्रौ ४, ६; ५२; भाश्रौ; -योः
बौध १,५, ७२; -यौ शुश्रद्धे ४,

२०९.
पायु (यु-उ)पस्थ- -स्थम् विध ९६,
९५.
३पायु^३- -युः ऋश्रद्धे २, ६, ७५; १०, ८७;
शुश्रद्धे; -युम् बुद्धे ५, १२७.
पाय्य- पा, पावा ३, १, १२९.
√पा^३ पाधा. चुरा. उभ. कर्मसमाप्तौ.
पा^३- पाग २, ४, ३१^३; -रम् आश्रौ
५, ३, १४^३; शाश्रौ २, ११, ४^३;
आपश्रौ; या २, २४^३; ६, २०^३;
९, १८; १३, १३; -रात् आपश्रौ
१०, १९, १०; माश्रौ २, १, ३,
१६; १७; हिश्रौ १०, ३, १६;
-राय^३ कागृ ४, २०; गौध २६,
१२; -रे आपश्रौ ९, १७, ६;
१०, १९, ११××; बौश्रौ; पा २,
१, १९.
पा^३-ग- पा ३, २, ४८; -गः कप्र
१, १, ८; शंध २००; विध ८३,
६; ८; -गाः अप १३, ५, १;
गौध २८, ५०.
?पा^३-दाय गौध २६, १२^३.
पा^३-शब्द- -ब्दे ऋप्रा ४, ४५.
पा^३(र-अ)वार-> श्रद्धाति(न->
नी- नीम् या २, २४.
पारावारीण-, पारीण- पावा ४,
२, ९३.
पा^३-वडवा- पा ६, २, ४२.
पा^३-यं -यं ऋप्रा ७, ५१^३.
पा^३-क- (> की- पा.) पाग ४, १,
४१.

पा^३-कि- (> कीय- पा.) पाग ४,
२, १३८.
पा^३-कुलीन-, पा^३-क्य- पर- द्र.
पा^३-ज- पाउ १, १३६.
पा^३-जायिक-, यिन्- पर- द्र.
पा^३-ण- √पृ, पू द्र.
पा^३-णि^३- (> णायन- पा.) पाग
२, ४, ६१.
पा^३-त्रिक-, १-२ पारदारिक- प्रभृ.
पर- द्र.
पा^३-थ-, श्यत्- प्रभृ. √पृ, पू द्र.
पा^३-युगीन-, पारलौकिक- पर- द्र.
१पा^३-शव- १परशु- द्र.
२पा^३-शव- २परशु- द्र.
पा^३-शवायन-, शव्यय- १परशु- द्र.
पा^३-श्वधिक- परश्वध- द्र.
पा^३-स्कर- ऋत् ४, ५, १०; पा ६, १,
१५७; -रान् हिश्रौ १७, २,
६२^३; -राय या १४, ३७^०.
पा^३-ख-, श्लेणय-, श्यकुलीन-
पर- द्र.
पा^३-यण^३- -गम् बौध ४, ५, २९;
चव्यू १: १५; ऋप्रा १५, १;
-गणस्य आपध १, ११, ७; हिध
१, ३, ६४; -णे ऋप्रा १५, ३३;
-णैः हिध १, ७, ३४^३.
पारायण-व्रत- -तानि वैगृ २, ९: १.
पारायणव्रत-बन्ध-विस्तर^३-
नीं वैगृ ६, ११: १.
पारायण-समाप्ति- -सौ आमिष्ट १,
२, २: ४७; बौगृ ३, ९: १६;

a) पाप्मे. पृ १५६६ k द्र. । b) पाप्मे. वैप १ रोदम् शौ ८, ६, २६ टि. द्र. । c) विप. । वस. ।
d) पाप्मदे^० इति पाठः? यनि. शोधः (तु. W.) । e) विप. । यत् प्र. उलं. (पा ४, ३, १२१) । पाप्मत्य^०
इति पाठः? यनि. शोधः । f) ?आस्त्वौ > श्रद्धोस्त्वौ इति द्र. । g) पांम- इति पाका. । h) वैप १
द्र. । i) तु. पागम. । j) विस्ना-विध्वंसमाधुर्गेषु कल्याणविलापे च वृत्तिः इति पागम. । k) = ऋषि-विशेष-
व्यु. ? । l) = देवता- । m) व्यप. । व्यु. ? । n) = देश-विशेष- । o) तु. राज. प्रभृ. ।
= आचार्य-विशेष- । p) भाप. > नाप. ([अविच्छेदेन] वेदाध्ययन-) । व्यु. ? < पार- इति शक. प्रभृ. ।
g) पाप्मे. पृ १४७ k द्र. । r) षस. > द्रस. ।

भाण्ड ३, ११ : १४; हिण्ड २, २०, १३.
 पारायणिक- पा ५, १, ७२.
 पारावत^१- कि ७१; -तम् आमिण्ड २, ३, ५ : २०; -तान्^२ शुभ्रा ५, २२; ३७; -तेभ्यः^३ शाश्रौ १२, १६, ४.
 पारावत-(हन् >)ञी^४- ङीम् या २, २४^५६.
 पाराशर-, शरिन्- परा^६ शृ द्र.
 पाराशरीय- १पाराशर- द्र.
 पाराशर्य- परा^७ शृ द्र.
 १, २पारिक्षित-, शीय- परि^८ चि (निवासे) द्र.
 पारिख-, खेय परि^९ खन् द्र.
 पारिणह्य- परि^{१०} णह् द्र.
 पारिणये- परि^{११} णी द्र.
 पारिघापयन्त^{१२}- न्ताः हिश्रौ २१, ३, १२^{१३}.
 पारिघेय- २परिधि- द्र.
 पारिपन्थिक- परि-पन्थ- द्र.
 पारिप्लव- परि^{१४} प्लु द्र.
 पारिभद्रक^{१५}- > -का(क-अ)म्लिका- मोचक-शालमली-शण-ज-जम्, विध ६१, ५.
 पारिभाषिक- परि^{१६} भाष् द्र.
 पारिमाण्डल्य- परि-माण्डल- द्र.
 पारिमुखिक-, मुख्य- परि-मुख- द्र.
 पारियात्र^{१७}- अत्र बौध १, १, २५; -त्रात् वाध १, ८; शंघ ७.
 पारियात्रक- कम् शंघ ११६; १०^{१८}.
 पारिल- परिल- द्र.
 पारिवृढ्य- परि^{१९} वृह् द्र.
 पारिवाजक- परि^{२०} वज् द्र.
 पारिशाल्य- परि-शाल- द्र.
 पारिशील्य- परि-शील- द्र.
 पारिषथोयेन वाधुश्रौ ४, ७५ : १.
 पारिषद्-, ंदक- प्रभृ. परि^{२१} षद् द्र.
 पारिसारक- परि^{२२} स्र द्र.
 पारिसीर्य- परि-सीर- द्र.
 पारिसैन्धव- परि-सिन्धु- द्र.
 पारु- पाउवृ ४, १०१.
 पारुच्छेप-, ंपि-, ंपी- परुच्छेप- द्र.
 पारेवत- कि ५७.
 पारोवर्य- परस्- द्र.
 पार्जन्य- पर्जन्य- द्र.
 १पार्ण- १पर्ण- द्र.
 २पार्ण- ३पर्ण- द्र.
 पार्णकायन- पर्णक- द्र.
 पार्णजङ्घ^{२३}- ङ्घ्याः बौधौप्र ३१ : १.
 पार्णदारुणी^{२४} कप्र ३, १०, १.
 पार्णवलक-, ंल्य- २पर्णवलक- द्र.
 पार्णागारि^{२५}- रिः बौधौप्र ४७ : २.
 १पार्थ^{२६}- > पर्थन्- र्थी बौधौ १८, ४१ : ११.
 २पार्थ- पृथा- द्र.
 ३-४ पार्थ- २पृथि- द्र.
 ५ पार्थ- २पृथु- द्र.
 पार्थव- ^{२७}पृथ् द्र.
 पार्थिका- का निस् २, १ : ३१.
 १पार्थिव^{२८}- वाः बौधौप्र १०४.
 २पार्थिव- पृथिवी- द्र.

पार्थुरक्ष्म- ^{२९}पृथ् > १पृथु- द्र.
 पार्थक^{३०}- (> ंद-वत्- पा.) पाग ४, २, ८६.
 पार्थक^{३१}- काः बौधौप्र ४३ : १.
 पार्थसिक- पर्या (रि/आ)प् द्र.
 पार्थुल्लख्य- पर्यु(रि-उ)ल्लखल- द्र.
 पार्थोष्ठय- पर्यो(रि-ओ)ष्ठ- द्र.
 पार्थ^{३२}- र्वम् अण ४८, ७५^{३३}.
 १पार्थव- १पर्वत- द्र.
 २पार्थव(त>)ती- २पर्वत- द्र.
 पार्थवतायन-, पार्थति-, ३पार्थव(त>) ती- ३पर्वत- द्र.
 पार्थन्य- २पृथिन- द्र.
 पार्थर्व- १पृथु- द्र.
 पार्थत- ^{३४}पृथ् द्र.
 पार्थद-, ंदक-, ंदिक- पर्षद्- द्र.
 पार्थदंश- पृषदंश- द्र.
 पार्थदंश्व- ^{३५}पृथ् द्र.
 १पार्थिक^{३६}- काः बौधौप्र ३ : ३.
 पार्थिका- (> २पार्थिक-) पृ १५२८ f द्र.
 पार्थिक्य- पार्थिक- द्र.
 १पार्थिण, पार्थि^{३७}- पाउ ४, ५२; पागवा ५, २, ९७; -णिः शाश्रौ १, ४, २; -धिम् भाण्ड १, २५ : १७; -धिंयै बौधौ २४, २४ : १२; हिश्रौ १, ६, ९४; -र्णी वैश्रौ १३, १७ : ९; वैताश्रौ ३७, १९; अत्र १०, २^{३८}; -र्णीः द्राश्रौ ३, १, १०; लाश्रौ १, ९, ११; -र्णीम् आश्रौ १, १, २३; ४, ४, २; -र्णां आश्रौ ४, १५,

a) वैप १ द्र.। b) वैप १, २००२ i द्र.। c) वैप १, २००२ j द्र.। d) = ऋषि-विशेष-। व्यु. ?। e) अन्वयः इति पाठः ? यनि. शोषः (उ. पा <> वा इति वावि. विषया सपा. आपश्रौ २४, ९, १ वारिघापयन्ताः इति, आश्रौ १२, १४, ५ वारिघापयन्तानाम् इति च पासे.)। f) = वृक्ष-विशेष-। व्यु. ?। आश्रौ इति Jolly। g) = पर्वत-विशेष-। विन्ध्यपर्वत- इति MW.। व्यु. ? < सरियात्रा- इति सक.। h) परि इति पाठः ? यनि. शोषः १६, अणु २१९, ५७, ५८। i) पाठः ? अण्कारण्य इति अस्तु. पाठः। j) = एकह-विशेष-। व्यु. ?। k) उ-पायम्। l) = उदक-। व्यु. ?। m) वैप १, २००३ a द्र.।

३; ६, १८, २१; भाश्रौ; -ष्यर्थाः
 आपश्रौ २, २, ७; भाश्रौ २, २, ८;
 -ष्यर्थाः आपश्रौ १५, १५, १;
 भाश्रौ ११, १५, २१; हिश्रौ २४,
 ६, १२; विध ९६, ६१.
 पाणि-ह(त >)ता- -ता माशि ४,
 ९; नाशि २, ८, १७.
 पाणी-ल- पा ५, २, ९७.
 पाणी-सूक्त- -कम् अत्र १०, २.
 रपाणि^a- -र्षिणः पाठ २, १७, १५.
 √पाल^b पाधा. चुरा. पर. रक्षणे.
 शपाल- √पल् द्र.
 र-रपाल- √पा (रक्षणे) द्र.
 धपाल^c- (>पालेय- पा.) पाग ४,
 २, ८०.
 पालक- √पा (रक्षणे) द्र.
 पालद- पलदी- द्र.
 पालन-, लनी-, पालयित्- √पा
 (रक्षणे) द्र.
 पालाकल^d- लस्य आपश्रौ १८, १०,
 २५; हिश्रौ १३, ४, ११०.
 पालाकली- -लीम् आपश्रौ २०,
 १०, २१^e.
 पालाग(ल >)ली^f- -ली काश्रौ २०,
 १, १२; -लीम् शाश्रौ १६, ४,
 ४; काश्रौ २०, ८, २५^e.
 पालाश- प्रसृ. पलाश- द्र.
 √पालि √पा(रक्षणे) द्र.
 पालि- पाउभो २, १, १६८.
 पालिङ्गायनिक^g- -काः आपश्रौ
 २१, २३, ५; हिश्रौ १६, ८, ८^h.

पालित्य- रपलित- द्र.
 पाली- √पा (रक्षणे) द्र.
 पाल्लक- पल्लि- द्र.
 पाल्वल- पल्वल- द्र.
 शपावकⁱ- -काः बौश्रौप्र ४३:१.
 रपावक- प्रसृ. √पू द्र.
 पावा- (>पावेय-) १पाठा- टि. द्र.
 पावित्रायण- √पू द्र.
 पाविन्द्रायन- पविन्द्र- द्र.
 पावीरव- पवि- द्र.
 शपाश- √पशू (बन्धने) द्र.
 रपाश^j- (>पाशिल- पा.) पाग ४,
 २, ८०.
 पाशि शी^k- -शीम् कौसू ८३, ३.
 पाशि-मिकतो(ता-ऊ)षो(ष-उ)दुम्बर-
 शङ्ख-शालक-सर्वसुरभि-शमी-
 चूर्ण- -र्गानि कौसू ८५, १९.
 पाशुक-, श्युपत- प्रसृ. पशु- द्र.
 पाश्रात्य- पश्वात् द्र.
 पाश्य- √पशू (बन्धने) द्र.
 पाषण्ड- ण्डाः अप ६४, ४, ९.
 पाषण्ड-मूक-बधि(र >)रा^l- -रा
 वैशू ५, ९:४; -राम् वैशू ५, ९:
 १३.
 पाषाण^m- पाउभो २, २, १२८; -णाः
 अप ७१, ४, ४; -णेन विध ५,
 ६३.
 पाषाण-शाचिन्- -यिनः वैध १,
 ८, १.
 पाषिक- पषिक- द्र.
 √पास, पासति अप ४८, १४ⁿ.

√वि पाधा. तुदा. पर. गलौ.
 √वि, पी(=√प्याय, √प्यै)पयते या
 ११, ४२^o.
 कृपीपिहि आपश्रौ १५, १०, १३^o;
 बौश्रौ ९, १० : २६^o; २७^o;
 २८^o××; भाश्रौ ११, १०,
 १४^o; वैश्रौ १३, १३ : १^o;
 हिश्रौ २४, ४, १०^o; पिपीहि
 काश्रौसं ३६ : १६^o.
 पीषाय ऋषा ४, ६३.
 पीपयति बौश्रौ ९, १० : ३०.
 विपिवस-> कृपियुषी- -षीम्
 आश्रौ ४, ७, ४; ५, १२, १५.
 पीन- पा ६, १, २८; -नौ विध
 १, २४.
 पीनी^p- पागम ५८.
 पीनो(न-ऊ)रुजवनस्थ(ल >)
 ला^q- -लाम विध १, २३.
 कृपीपिवस- -वांसम् आश्रौ २, ८, ३;
 बौश्रौ २, २१ : १२; १३, ३६ :
 ९; वैश्रौ १, १७ : १२; तैष्य
 १६, १३.
 कृपीप्या(न >)ना^r- -ना या २,
 २७^o.
 पीव^s- पाउ ४, ११५; -^tवा
 आपश्रौ १०, १४, १०; २९, ६^t;
 २१, १, ९; वैश्रौ १२, २० :
 १६^t; हिश्रौ ७, ३, २१^t; १६,
 १, ७; -^uवान्^u बौश्रौ २१, १२ :
 ३०^u; -^vवानम् भाश्रौ ७, ९,
 ७; माश्रौ १, ८, ३, ३०; २, १, ४,

a) व्यप. । व्यु. ? । b) पावा ७, ३, ३७ परामृष्टः द्र. । c) मल्लपाल- इति [पक्षे] भारुडा. प्रसृ. ।

d) = पालागल- । e) सपा. पालाक <> पालाग^o इति पाभे. । f) वैप २, ३३^o. द्र. । g) = आचार्य-
 विशेष- । व्यु. ? । h) 'कान्' इति पाठः ? यानि. शोषः (तु सपा. आपश्रौ.) । i) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? ।

j) वास- इति पाका. । k) अर्थः व्यु. ? । = पाषाण- इति MW. । l) द्रस. > मलो. कस. पूष. असादान्वा-
 धिकरण्येऽपि पुंवद्भावाः उलं. (पा. ६, ३, ३४) । m) = अइमन्- । व्यु. ? । n) पाभे. वैप १, २००३ P. द्र. ।

o) = मातङ्गानां स्नेहपान-प्रकार- । p) विप. । बस. > द्रस. । q) वैप १, द्र. । r) सपा. पीवा <> शृगीवन्
 इति पाभे. । s) पीनवान् इति संस्कृतः टि., पीवस- > यनि. इति PW. ।

३३; वृदे ७, २५.

पीवर^१- पाठ ३, १; -रः बौध १, ५, ८६.

पीवरी-री आग्नि २, ३, ५: २५; पावा ६, ४, ६६; -रीम् पाण्ड १, १६, २१^१; वाघ २, ३४; ३५.

✓पिंश् ✓पिंश् द्र.

✓पिंस पाधा. चुगा. उभ. भाषायाम्.

पिक^१- पाठभो २, २, १५.

पिङ्गलाणी^०- ण्याम् भाण्ड ३, १३: १५; -ण्यै भाण्ड ३, १३: १४^२.

पिङ्गल्य^१-ङ्ख्यान् बौधौ २४, २१: ६.

शपिङ्ग^१- पाठभो २, २, ५७; पाग २, २, ३८, ५, २, ९७; -ङ्गः अत्रा ३, ४, ११^१.

शपिङ्गल, ला^१- पाठवृ १, १०९; पा ५, २, ९७; पाग २, २, ३८^१; ४, १, ४१; ६, २, ८५; -लः आपश्रौ ६, ३१, ५; आण्ड ४, ६, १५; अण्ड; -लम् आपश्रौ ९, १९, १५; १४, ७, १३; माश्रौ; शंघ ११६: १९६; -लया बौधौ १६, २४: १४; १७, १: ३; -ला काश्रौ ७, ६, १२; आपश्रौ २२, १५, ३; बौधौ ६, १०: ३; -लाम् बौध २, १, ५७; -लालय कौण्ड ४, ३, २; शाण्ड ४, १६, २; अण्ड ६६, ३, २; गौघ २६, १२.

पिङ्गली- पा ४, १, ४१.

पिङ्गल-खलति-विक्रिध-शुक्ल-
-ङ्गस्य काश्रौ २०, ८, १६.

पिङ्गल-नेत्र^१- -त्राय अण्ड ३६, ९, १६^१.

पिङ्गल(ल-अ)भाव- -वे काश्रौ ७६, १२.

पिङ्गा(ङ्ग-अ)क्ष^१- -क्षः शाश्रौ १६, १८, १८; बौधौ १५, ३७: १; १८, १: ६; माण्ड २, ३२: १३^१; चण्डू ४: १५; -क्षम् आपश्रौ २०, २२, ६; हिश्रौ १४, ५, ४; -क्षेण बौधौ १७, ४५: १.

पिङ्गाक्षी- -क्षी माश्रौ १०, १४, १९; १७, १२; हिश्रौ ७, २, १६; १७, ६, २३; -क्षीम् वैश्रौ १२, १६: ९.

पिङ्गाक्षी-पुत्र- > पैङ्ग-
क्षीपुत्र- (> णुत्रोय- पावा.)
पावाग ४, २, २८.

पिङ्गाक्ष-जटिल-गांभन^१- -वस्य
वाश्रौ ३, ४, ५, १७.

रपिङ्ग^१- > शपैङ्ग^१- > क^१-
-कम् जंश्रौ २२: २२.

पैङ्ग-शाम्बव्यै(व्य-रे)तरेय- -या:
कौण्ड २, ५, ३.

पैङ्गायनि- > णनि-ब्राह्मण- -णम्
आपश्रौ ५, १४, १८; २९, ४.

पैङ्गिन्^१- -ङ्गिनः निस् ४, ७:
१, ९.

पैङ्ग्य^१- -ङ्गयः वाधूश्रौ ३, ४१:

२६; अण्ड ४३, ४, ४७^१; -ङ्गयम्
कौण्ड २, ५, ३; शाश्रौ ४, २, १२;

११, १४, १९×४; आण्ड; -ङ्गयस्य
शाश्रौ ११, ११, ५.

पैङ्ग्य-ब्राह्मण- -णम् हिश्रौ ६,
५, ३९.

रपिङ्ग^१- > रपैङ्ग- -ङ्गे कौण्ड १४२,
३९.

पिङ्गर^१- (> पैङ्गरायण- पा.) पाग
४, १, ९९.

शपिङ्गल- १पिङ्ग- द्र.

रपिङ्गल^१- पाग ४, १, ९९; २, १११;
-लात् अनिस् ८: ३०.

पैङ्गलायन- पा ४, १, ९९; -नाः
बौधौ प्र ३: ४.

पैङ्गलायनि^१- पा, पाग २, ४, ५९.
पैङ्गलायनि-ब्राह्मण- -णम् बौधौ
२, ७: २५; २६.

पैङ्गल्य- पा ४, १, १०५.

पैङ्गल- पा ४, २, १११.

पिङ्गलक^१- पा, पाग २, ४, ६९.
पिङ्गलक-कृष्णपिङ्गल- पा, पाग २,
८, ६९^१.

रपिङ्ग(ल >) ला^१- -लया वैध १,
११, २-४.

शपिङ्ग(ल >) ला^१- -लाम् हिण्ड
१, १७, ३.

पिङ्गाक्षि- -क्षयः बौधौ प्र ४१: ७.
पिचण्ड^१- पाठना १, १२०; पाग
५, २, ६४; ११७.

पिचण्ड-क- पा ५, २, ६४.

a) वैप १ द्र.। b) पाभे. वैप १, २०२१ k द्र.। c) अर्थः व्यु. च?। d) =स्यूल-भाष्- इति मवस्वामी। व्यु. ?। e) वैप १, २००४ n द्र.। f) पिङ्गुल- इति [पक्षे] भारवा., पासि.। g) नाप.। अर्थः ?। h) विप.। बस.। i) गांभन- इत्यस्यार्थः ?। j) व्यप.। व्यु. ?। k) अण्डये तस्येदमित्यर्थे च बण् प्र.। l) स्तार्थे कः प्र.। m) नाप.। णिनिः प्र. (पा ४, ३, १०५)। < पैङ्ग्य- इति MW.। n) विप., व्यप.। अपत्यार्थे यञ् प्र., तस्येदमित्यर्थे च व्यः प्र. उर्स. (४, ३, १२९)। o) =मृषि- इति MW.। p) तु. पागम.। q) =रपिङ्गल-। r) तु. पाका.। पैङ्गालौदायनि- इति भारवा. प्रण्ड.। s) पिङ्गलक- इति आकटायनः। t) =नाडी-विशेष-। व्यु. ?। u) =उल्लूक- इति माण्ड्यम्। v) वैप ३ द्र.।

पिचण्ड-वत्-, पिचण्डिक-, पिचण्डिन-, पिचण्डिल- पा ५, २, ११७.
 पिचु- पाउभो २,१,२२.
 पिचुक^{ab}- (>कीय- पा.) पाग ४,२,९०.
 पिचुमन्द^{abc}- > ंन्द-पत्र-त्राणि पाग २,१०,२४.
 पिचच्^d, च्छ पाधा. चुरा. पर. कुदने.
 पिच्छ^e- पाउभो २, २, ८४; पाग ५, २, १००.
 पिच्छिल- पा ५, २, १००; -लम् विध ६१,११.
 पिच्छोरा[L,ला]^f- -रा: शांश्रौ १७, ३,१२^g; -राम् शांश्रौ १७, ३, १३; द्राश्रौ ११, २, ६; ७; लाश्रौ ४, २, ५; ६; -ला^h आपश्रौ २१,१७, १६; १९, ३; हिश्रौ १६, ६,२१.
 पिजवनⁱ- -न: या २, २४^g; -नस्य या २, २४.
 पैजवन^j- -न: गोण १,९,११; ऋञ्च २,१०,१३३; साञ्च २,११५१; या २, २४^g; -नस्य शांश्रौ १६, ११, १४; ऋञ्च २,७,१८; वृदे ५,१६२; या २, २४.
 पिजूर[L,ला]^k- (>पैजूर[L,ला]यन- पा.) पाग ४,१,११०^k.
 पिञ्ज- पाउना ४,११६.
 पिञ्जोला^l- -ला^h बौश्रौ १६, २०:

५; २६, १७: १२; -लामि: बौश्रौ १६, २१: ५; १३; २६, १७: ११.
 पिञ्ज पाधा. अदा. आत्म. वरो, संपचने, अवयवे, अव्यक्ते शब्दे; चुरा. पर. हिंसाबलादाननिकेतनेषु, उभ. भाषार्थे च, पिञ्जयति या ३,१८.
 पिञ्जर- पाउभो २,३,३८.
 पिञ्जल^m- पा, पाग २, ४,६९^l.
 पिञ्जुल- पाउना ४,९६.
 पिञ्जूरⁿ- (>पैञ्जूरायण-).
 पिञ्जूल- पाउ ४,९०.
 पिञ्जूलक- पिञ्जल- टि. द्र.
 पिञ्जू(ल>)ली^o- -ली: कौस् ७२,११; ८२, ९; ८८, १४^l; -लीनाम् कप्र २,८,५; -लीभि: कौस् २७,७; ३२,३४४; -लीम् कप्र १,२,१२; -ल्य: द्राण २, ३,१७; -ल्या: कप्र १,२,११.
 पिञ्जूल्या(ली-आ)दि- -दि कप्र २, ८,१८.
 पिट पाधा. भ्वा. पर. शब्दसंघातयोः.
 पिट^p- (>पिट-क-पा.) पाग ५, ४,२९.
 रपिटक- पाउभो २, २, १०; पाग २,४,३१^p; ४,२,४९^q; ४,१५^r.
 पैटकिक- पा ४,४,१५.
 पिटक्या- पा ४,२,४९.
 रपिटक^s- (>पैटक- पा.) पाग ४, १,११२.

१पिटाक- पाग ४,२,४९^q; ४,१५^r.
 पैटाकिक- पा ४,४,१५.
 पिटाक्या- पा ४,२,४९.
 रपिटाक^t- (>पैटाक- पा.) पाग ४, १,११२.
 पिट पाधा. भ्वा. पर. हिंसासंज्ञे-शनयोः.
 पिटर^u- (>शी- पा.) पाउभो २, ३,३९; पाग ४,१,४१^u.
 पिठीनस्^v- >पैठीनस- -सा: बौश्रौ ४१: ११.
 पैठीनसि- -सि: अप ४,४,१२; १८, १९, १; -सिम् अप ४३,४,३७; ४,५४.
 पिण्ड पाधा. भ्वा. आत्म., चुरा. पर. संघाते, पिण्डयेत् शैशि २०७.
 पिण्ड^w- पाग ४,१,३५; ४१; -ण्ड: वाश्रौ १,२,३,२२; पाग ३,१०, ५३; गोण ४, ३, ८^l; गौपि २, ६, ५^l; कौस्; -ण्डम् काश्रौ १६,२,३; ११; १४; १७; २३; २४; २८; ३, ६; १३; आपश्रौ; -ण्डस-ण्डम् बौश्रौ १०,४: २; -ण्डस्य काश्रौ १६,२, २०; वैण्ड ५,१३: २५; १४: ५; -ण्डा: आपश्रौ ५, ५, १०; बौश्रौ; -ण्डान् आपश्रौ २,६,१५; शांश्रौ; -ण्डानाम् आपश्रौ २, ७, १२; बौश्रौ; -ण्डानि अप १८,२, ४; -ण्डे काश्रौ १६,३,१५; आपश्रौ;

a) अर्थ: व्यु. च ? । b) = वृक्ष-विशेष- इति शक. MW. । c) = निम्ब-वृक्ष- इति भाष्यम्, अत्रा. प्रसू. च । d) तु. BPG. । e) तु. पाका. । पिच्छा- इति भाण्डा. प्रसू. । f) = वीणा-विशेष- । व्यु. ? । g) सप्र. पिच्छोरा: <> पिच्छोला: <> पिच्छोला: इति पाभे. । h) वैप १ द्र. । i) तु. पासि. । j) व्यप. । व्यु. ? । k) पिञ्जूर- इति पाका. । l) तु. पाका. । पिञ्जूलक- इति भाण्डा. पासि. । m) = दर्म-पिञ्जूल- । n) तु. पागम. । o) = [वंशदलादिमय-] भाण्ड- । व्यु. ? । p) = विस्फोट- इति पागम. । q) = पिट- । r) = नौ-विशेष- इति वापाभा. । s) = पात्र- । व्यु. ? । f) पाभे. पृ ७८५ d द्र. ।

-ण्डेऽण्डे शाश्रौ ८, २, १३;
 वैगृ ५, १५:१०; बौध २, २,
 १९; -ण्डेन वैगृ ५, १३: २३;
 -ण्डेभ्यः वायुश्रौ ४, ७४:१८;
 -ण्डेषु आश्रौ २, ७, ५; आपश्रौ;
 -ण्डैः आगृ ४, ७, ६; शांगृ;
 -ण्डौ आपश्रौ १, २४, ५; बौश्रौ
 २६, ५: ११; वायुश्रौ.
 १पिण्डी- पा ४, १, ४१; -ण्डी:
 आपश्रौ १९, २६, १, ६; ९; १२;
 १७; २७, १४; बौश्रौ; -ण्डीम्
 माश्रौ ५, २, ६, १७; -ण्ड्यः
 आश्रौ २ १३, ६; ५, १७, ५.
 पिण्डी-जड्ध^१- पा, पाग २,
 ४, ६३.
 पिण्डी-श्रूर- पा, पाग २,
 १, ४८; ६, २, ८१.
 पिण्ड-करण- णो पागृ २, १०, ५०.
 पिण्ड-कारिन्- री बौश्रौ २७, ९:
 २; बौगृ ४, १, २.
 पिण्ड-कृत- ता: शैशि ३२४.
 पिण्ड-मोत्र(त्र-क्व)र्धि-संबन्ध^२-
 -न्धा: गौध २८, २१; -न्धेभ्यः
 गौध १८, ६.
 पिण्ड-चतुष्टय- यम् विध २१, १५.
 पिण्ड-तोय-प्रदायिन्- यिनः विध
 २०, ३२.
 पिण्ड-त्रय- यम् कप्र २, ७, ३;
 -थे विध २१, १७.
 पिण्ड-द- दः शंघ २९०; -देन
 शंघ २८२.
 पिण्ड-दान- नम् बौश्रौ २४, ३०:
 ५; ३२: १××; बौगृ; -नस्य
 कप्र ३, १०, ९; -नाय या ३, ४;
 ५; -ने कप्र १, ४, ८; ३, ५, १५.

पिण्डदान-प्रभृति- न्ति हिश्रौ
 २, ७, ३५.
 पिण्डदान-मन्त्र- -न्त्रैः वैश्रौ
 १६, १५: १.
 पिण्डदान-वत् कप्र ३, २, ७.
 पिण्डदानो(न-उ)दकक्रिया- -या
 शंघ १८८.
 पिण्ड-दायिन्- -यी विध १५, ४०.
 पिण्ड-नायक- -कम् याशि २, ९२.
 पिण्ड-निधान^३- -नम् माश्रौ १,
 १, २, २१; वाश्रौ; -नात् आपगृ
 २२, ८.
 पिण्ड-निर्वपण- -णम् विध २१, ९;
 ६७, २३; ७४, ३.
 पिण्ड-निर्वाप- -पः वैगृ ५, १४: १;
 १५: ८; -पम् वैगृ ७, ४: १०.
 पिण्ड-निवृत्ति- -न्ति: गौध १४, १२.
 पिण्ड-प(ति>)त्नी^४- पा ४, १, ३५.
 पिण्ड-पात- -तः अप ३६, ८, ४.
 पिण्ड-पितृ-यज्ञ^५- -ज्ञः आश्रौ २,
 ६, १; शाश्रौ ४, ३, १; ५, १३;
 काश्रौ; -ज्ञम् शाश्रौ ३, १०, ६;
 आपश्रौ; -ज्ञस्य शाश्रौ ३, २, ९;
 ३, ९; बौश्रौ; -ज्ञात् बौश्रौ २५,
 ३२: ३५; -ज्ञाय वाश्रौ १, २,
 ३, १; -ज्ञे माश्रौ ८, १९, १३;
 २०, ६; माश्रौ; -ज्ञेन आपश्रौ
 १, ७, २; बौश्रौ.
 पिण्डपितृयज्ञ-कल्प- -ल्पः द्रागृ
 ३, ५, ३३; -ल्पेन आगृ २, ५, ३.
 पिण्डपितृयज्ञ-पात्र- -त्राणि
 आपश्रौ १, ७, ५; माश्रौ १, ७,
 २; १०, ४; हिश्रौ २, ७, ८.
 पिण्डपितृयज्ञ-मन्त्र- -न्त्रान्
 वैश्रौ १६, २१: १०; हिश्रौ ९,

३, ५४; १०, ५, ९.
 पिण्डपितृयज्ञ-वत् काश्रौ १०,
 ५, ११; आपश्रौ ८, १६, १३१;
 वैश्रौ.
 पिण्डपितृयज्ञ-वर्जम् वाश्रौ १,
 १, १, ६६.
 पिण्डपितृयज्ञा(ज्ञ-आ)वृत्^६-
 -वृत्ता कौगृ ३, १५, ७; शांगृ ३,
 १३, ६; कागृ ६५, ६.
 पिण्ड-प्रभृति- न्ति द्रागृ ३, ५, २२.
 पिण्ड-फ(ल>)ला- पा, पावा ४,
 १, ६४.
 पिण्ड-मात्र- -त्रस्य कप्र ३, १०, ९.
 पिण्डमात्रो(त्र-उ)पजीवि(न्>)-
 नी- -नीम् शंघ ३३४.
 पिण्ड-मूल- -ले गौधि १, ६, ८.
 पिण्ड-यज्ञ- -ज्ञम् कागृउ ४४: १७.
 पिण्ड-वत् काश्रौ १६, ५, ७; १४××;
 कप्र २, ४, १-५.
 पिण्ड-व(र्ज>)र्जा- -र्जा अप २६,
 २, १.
 पिण्ड-वर्धन^७- -नम् वैगृ ३, २२:
 १४; शंघ २०१.
 पिण्ड-शब्द-प्रयोग- -गः कागृउ
 ४५: ७.
 पिण्ड-शेष- -षम् बौध २, ३, २२;
 कागृउ ४०: १.
 पिण्डशेषा(ष-आ)दि- -दि वैगृ
 ५, १३: २१.
 पिण्ड-शौच- -चयोः शंघ ३६६.
 पिण्डा(ण्ड-अ)न्वाहार्यक^८- -कम्
 कप्र २, ६, १.
 पिण्डा(ण्ड-अ)र्थ- -र्थम् आगृ ४,
 ७, २७; वैगृ ४, ७: २; कप्र १,
 २, ४.

a) व्यप. । बस. । b) विप. । द्वस. > बस. । c) उप. भावाऽधिकरणे प्र. । d) पूष.
 = पिण्डदायिन्. । e) मलो. कस. > षस. । f) उप. भाप. = इतिकर्तव्यता- (तु. कागृ. भाष्यम्) । g) = कर्म-
 विशेष- (तु. मदनपारिजातः [३५६]) । उप. करणे कृत. । h) मलो. कस. उप. = श्राद्ध- ।

पिण्डार्थ-त्व- -त्वात् मीसू १०,
१,५१.
पिण्डा(रुड-आ)वृत्^a -वृत्ता
आमिगु ३, २, २: १५; ६:
११×४.
पिण्डी^b/कृ>, पिण्डीकरोति आमिगु
२, ६, १: ३१; ३, ६, ३: २०.
पिण्डो(रुड-उ)दक- -कम्^c शंघ
३५०; -का: बौध २, ८, २३०.
पिण्डोदक-क्रिया- -या आमिगु
३, १०, ४: २८; ३४; बौध १,
५, ९३.
पिण्डित-> पिण्डिता(त-अ)र्चि^d-
-र्चि: अप ७०^e, ३, १.
पिण्ड्य- -ण्ड्यौ आगु ४, ३, २३.
२पिण्ड^f- (> पैण्डायन- पा.) पाग
४, १, ९९.
३पिण्ड^g- (> पिण्डीय- पा.) पाग
५, ३, ११६.
पिण्डग्रीव^h- -वा: बौधौ ३५: २.
पिण्डक, काⁱ- पाग ५, १, १२८;
-का अप २३, ३, २; -के विघ
९६, ९२.
पैण्डक्य- पा ५, १, १२८.
पिण्डिल- पाठ १, ५४.
१पिण्डी- १पिण्ड- द्र.
२पिण्डी^j- (> पैण्ड्य- पा.) पाग ४,
१, १११.
पिण्डीतक^k- पाठभो २, २, ४०; -केन

वैगु ३, १४: ५.
पिण्ण- पाठना ३, ७.
पिण्याक^l- पाठभो २, २, १४; पाग
२, ४, ३१; -कम् आपध २, १८,
१; हिघ २, ५, ५३; -कस्य अप
६८, २, ४६.
पिण्याका(क-आ)च(=त्वा^k) म-तक्रो-
दक-सक्तु- -क्तूनाम् विघ ४६,
२२.
पितम्^m शंघ ११६: ५१.
पितुम्ⁿ- -तु: माश्रौ १, ६, ४, २५^o;
वाश्रौ १, ५, ५, ८^o; आमिगु
३, १, ३: २२××; अप ४८,
८८; निघ २, ७, ५, ३; या ९,
२४^o; -तुम् आश्रौ २, ५, २;
शाश्रौ; चाअ ४०: १२^o; या
९, २५; ऋप्रा १६, ३६; -तूनाम्
ऋप्रा ८, २९; -०तो आश्रौ २,
९, १०^o; बौधौ; हिश्रौ १२, ६,
६^o; कौगु ३, ५, १^o; शांगु ३, ८,
४^o; पागु; जैगु १, २४: ५^o;
-त्वे वागु १५, १०^o।
पितु-भृत्- -भृत्: ऋप्रा १६, ६३^o।
पितु-मत्- -मत् या ४, २४;
-मत: आश्रौ ४, ७, ४; शाश्रौ
५, १०, ३१; बौधौ ९, ११: २८;
-मान् आश्रौ २, ५, ६.
पितुमती- -तीम् या ६,
३६^o।

पितु-स्तोम- -मे ऋप्रा १६, ५०.
✓पितृय>पितृयत्- -यत: ऋप्रा
९, १४^o।
पितृ^m- पाठभो २, १, १३५; -पं०त:
आश्रौ ३, ८, १; शाश्रौ; -तर:
आश्रौ १, ११, ७^o; २, ६, १४××;
शाश्रौ; आमिगु ३, १, २: ४^o;
३, १: २३^o; या ३, ८;
११, १७: १८^o; १९^o; १९^o; १४,
६^o; -पं०तर: आश्रौ २, ७, १, ७,
६^o××; शाश्रौ; हिगु २, ११, ११;
-तरम् पंआश्रौ २, ७, ११; ८,
१३, २६; शाश्रौ; या २, ४^o; ७,
३१; -पंतरा आश्रौ २, ९, १४;
८, १०, २; शाश्रौ १०, १०, ७;
-तरि बौधौ ३, १२: २०^o;
आमिगु; -पंतरौ आश्रौ ३, ९, ३;
आपश्रौ; -ता पंआश्रौ १, १०,
५^o; २, २, १३^o××; ४, ६,
३^o; ११, ६^o; शाश्रौ; आपमं २,
१४, १^o; पंया ३, ४; ५^o; ४,
२१^o; २३; ५, २१; २४; ६,
१५^o; ९, १४; १२, २९^o; ३२;
३४; १४, २०; पा १, २, ७०; -तु:
शाश्रौ ४, ४, २; १५, १७, १^o;
आपश्रौ; कौगु ३, १५, ५^o; शांगु
३, १३, ५^o; या ३, ५; ६, ६;
९, २९^o; १४, २०^o; -पंतृणाम्
बौधौ ४, ४: १५; ६, २७:

a) उप. भाप. = इति कर्तव्यता-। b) समाहारे द्वस.। c) तद्वति वृत्तिः। पिण्डतर्ककाः इति
Hultzsch। d) विप.। वस.। e) व्यप.। व्यु. ?। f) = आयुधजीविसंघविशेष-। व्यु. ?। g) अर्थः
व्यु. च ?। = जङ्घोर्वीर्मासलौ भागौ इति विघ. भाष्यम्। h) पृ ५९८ b द्र.। i) = वृत्त-विशेष-। व्यु. ?।
j) = तिल-कल्क-। व्यु. ?। k) पाठः ? यनि. शोधः (तु. यासु १३, ३२२)। आचाम = ओदन-निःसाव-।
l) पाठः ? मितम् इति शोधः (तु. अपु २१९, २९)। m) वैप १ द्र.। n) पाभे. वैप १, २००५ m द्र.।
o) पितुः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. ऋ १, १८७, १)। p) पाठः ? पित्रे इति शोधः (तु. तै ४, ६, २, ६)।
q) सपा. पितरः <> पितरः [सं३] इति पाभे.। r) सपा. बौपि २, ९, ५; ११, २ प्रेतः इति पाभे.। s) पिता नः
इयस्य स्थाने सपा. ऋ ३, २, २ चुनोहितः इति पाभे.। t) पाभे. वैप १, १६८७ a द्र.। u) तैति <> ता एति
(तु. भू [XXVIII])। v) सपा. पितुः <> पितृभ्यः <> प्रपितामहात् इति पाभे.।

४××; वैश्रौ; -ऋतुभिः आश्रौ^१
 २, १९, २२; ५, १९, १; शाश्रौ
 ३, १६, ४^१; ७, ५, २२; ८, ४, २^१;
 आपश्रौ; -तुभ्यः आश्रौ २, ३,
 २१^१; १९, २२^१××; शाश्रौ;
 आपश्रौ २०, १४, १३^१×^१; माश्रौ
 २, ३, ७, ३^१; हिश्रौ १४, ३;
 १८^१×^१; आपमं १, ४, ४^१; कौश्र
 ३, १५, ५^१; आमिश्र ३, ६, १; ३^१;
 या १, ४^१; ७, ९^१; -तृषु वाधुश्रौ
 ३. ६ : ५; १७ : १२; १८;
 -ऋतुणाम् आश्रौ १, १०, ८; ३,
 ६, २७; शाश्रौ; आपश्रौ १५,
 १०, ७^१; द्राश्रौ १३, २, ८^१;
 लाश्रौ ५, २, ११^१; आपमं १,
 ११, ९^१; कौसू ८९, १^१; या
 १०, ५^१; ११, ३३; -तृन्
 आश्रौ २, १९, ७; २२^१; ५, २०,
 ६; शाश्रौ; आमिश्र २, ६, १ :
 १६^१; या ३, ५; ११, १८; -त्रा
 आश्रौ १, ३, २३^१; शाश्रौ १, ६,
 २; आपश्रौ; या ७, ३१^१; -त्रे
 आश्रौ २, ६, १५; ३, ७, ९^१; ४,
 ६, ३^१××; ऋशाश्रौ ५, ९, ६^१;
 १८, १, २^१; काश्रौ; आपश्रौ ५,
 १६, १^१; बौश्रौ २, १६, ५४^१;
 हिश्रौ ६, ५, ११^१; -त्रोः पाग
 ३, ७, २; शंघ ३५९.
 पैतृक, का^१ - पा ४, ३, ७९;
 -कम् वैश्रौ १. ४ : १०;

आमिश्र २, ६, १ : ७^१; ३,
 ११, ३ : २६; वैश्र २, २ : १२;
 ५ : ८^१; ५, १५ : १२^१; १९^१;
 अप; -काः वैश्र ४, ४ : १७^१;
 -के वैश्र १, ८ : १०; १३ : ३××;
 -केण वैश्र १, ५ : ९^१; २० : ६;
 वैश्र २, १३, ५; -केषु आपश्र
 २, ४.

पैतृकी- -क्याः आपश्र
 ६, ११; बौश्र ३ : २७; हिश्र २,
 ४४; -क्याम् काश्र २, ६.

पैतृक-वत् वैश्र ६, २ : ११.

पैतृक-होम- -मम् वैश्र ६,
 १९ : १४.

पैतृका(क-आ-दि-क- -कम्
 वैश्र २, १८ : १६.

पैत्र- -त्रम् शंघ २५७; -त्रे
 शंघ ७३.

पैत्री- -त्रीणाम् शाश्रौ ८,
 ७, १६; १४, ५७, ११; -त्र्यः
 शाश्रौ ८, ६, १२.

पैत्र्य- -त्र्ये विध ७८, १५^१.

पितरा-मातृ^१ -तरा पा ६, ३, ३३.

पितरि-श्रु- पा, पाग २, १, ४८; ६,
 २, ८१.

पिता-पुत्र- -त्राः बौश्रौ २, ९ : १९;
 -त्राणाम् बौश्रौ १८, ४५ :
 ३१; -त्रौ काठश्रौ १५; कागु
 ४० : ११; आपश्र; या १, १६;
 पा, पाग २, ४, १४^१.

पितापुत्र-विरोध- -धे विध ५,
 १२०.

पितापुत्रीय, या- -यः बौश्रौ १८,
 ३५ : ११; -या आपश्रौ ११,
 २० : ४; बौश्रौ; -याम् आपश्रौ
 ११, २०, ३^१; माश्रौ २, २, ५;
 ९; ३५; वैश्रौ १४, १७ : १३^१,
 जैश्रौ ७ : २.

पैतापुत्री(य >)या^१ - -याम्
 काश्रौ ८, ९, ११; काठश्रौ
 ११२^१.

पितामह^१ - पा ४, २, ३६; पाग ४,
 १, ४१; -ऋं ह आश्रौ २,
 ६, २४; आपश्रौ १, ९, १५;
 बौश्रौ; -हः काठश्रौ १५; बौश्रौ;
 -हम् आपश्रौ २, २१, ७^१;
 बौश्रौ; -हस्य शाश्रौ ४, ४, ३;
 बौश्रौ; -ऋं हाः आश्रौ २, ६, १४;
 काश्रौ; -ऋं हाः बौश्रौ २, ९ : १७;
 ३, ११ : ९××; हिश्रौ; -ऋं हात्
 काठश्रौ १५; बौश्रौ; -हान्
 बौश्रौ २८, १० : १२; आमिश्र;
 -हानाम् ऋआमिश्र ३, १, २ :
 १६; २, ३ : ५; बौश्र; -हाय
 आश्रौ २, ६, १५; ६, १२, ९^१×^१;
 बौश्रौ; माश्रौ २, ५, ४, ११^१×^१; -हे
 कप्र २, ७, २; अप ७१, १६, ५;
 विध ७५, २; ३; -हेन कप्र २,
 ७, ८; -हेभिः भाग ३, १७ : ९;
 हेभ्यः आपश्रौ १, ९, ९^१×^१; बौश्रौ

- a) पाभे. वैप १, २०१० f द्र. । b) पाभे. वैप १, २०११ c द्र. । c) पाभे. वैप १ सुखिभ्यः
 कौ २, ११७८ टि. द्र. । d) पाभे. वैप १, २०१३ h द्र. । e) पाभे. पृ १५७३ w द्र. । f) पाभे.
 वैप १, २०१० m द्र. । g) पाभे. वैप २. ३३३. पितृणाम् तैत्रा ४, ८, ५ टि. द्र. । h) पाभे. वैप १, २०१० e द्र. ।
 i) पाभे. वैप १, २०२० c द्र. । j) अप्रकरणकत्वात् पाठः ? । k) पाभे. वैप १, २०११ m द्र. । l) पाभे.
 वैप २, ३३३. पित्रे तैत्रा १, २, १, २० टि. द्र. । m) विप., नाप. । तत आगताद्यर्थे ङ् प्र. । n) = पितृ-तीर्थ- ।
 o) = पितृ-आद्ध- । p) विप. (ऋच्-) । q) तत आगतीयाद्यर्थे ञ् प्र. । r) = (पितृदेवत्य-) मघा-नक्षत्र- ।
 साऽस्यदेवतीयः यञ् प्र. उस्. (पावा ४, १, ८५) । s) ष्रे इति जीसं. । t) वैप १ द्र. । u) तु. पागम. । v) सप्र.
 पित्वा <> पैता इति पाभे. । w) तस्येदमीयश् ङ् प्र. उस्. (पा ४, २, १३८) । x) पाभे. वैप १, २०१२ f द्र. ।

२, ९ : २७; २९; १७, ३७ : ११^१;
 वाश्रौ ३, २, ७, ४९^१; आमिष्ट;
 कौसू ७३, ६१^१; -^१हैः बौश्रौ ६,
 ३१ : २१; बौपि २, १२, ४.
 पितामही- पा ४, १.
 ४१; पावा ४, २, ३६; -०हि
 आपमं २, २०, १२^१; -^१ही
 आपमं २, १९, ३; आमिष्ट ३,
 १, १ : २२; हिग २, १०, ७;
 -हीः आमिष्ट २, ६, ३ : ४७;
 ५०; बौध २, ५, २८^१; -हीभ्यः
 आमिष्ट १, २, २ : ३२; ३३×४;
 बौग २, ११, ३४^१; -ह्यः
 आपमं २, २०, ६^१; -ह्या
 कप्र २, ७, १०; -ह्यै शंघ ११६;
 ७३; विध ६७, २३^१; ७७, १.
 पितामह्या(ही-आ)दि-
 -दिभिः शंघ २३८.
 पैतामह- -हम् वृदे ७, १४८;
 -हाः अप ५२, १३, १; -हात्
 शाश्रौ १५, २४, १^१; -हे विध
 १५, ३८; १७, २.
 पितामह-दश-गण- -गम् काश्रौ
 १५, ८, १६.
 पितामह-नियोग- -गेन अप ६३,
 १, ५.
^१पितामह-पत्नी- -त्नीभ्यः वैगृ
 १, ४ : २०; ४, ४ : १०.
 पितामह-पितामह- -हाय विध
 ७५, ५.
 पितामह-प्रपितामह- -हाभ्याम्
 वैगृ ४, ७ : ५.
 पितृ-कर्मन्- -र्म अप २३, १३, १;
 शंघ ३५१; -र्मणा कौगृ १, ६,
 ७; शांगृ १, १०, ८; -र्मणि
 बौश्रौ २१, ५ : २; कागृउ ४४ :

१२; वाध ११, ४१.
 पितृ-कार्य- -यम् वाधुश्रौ ४, ४२;
 ४^२; -यै बौध २, ८, २१.
^१पितृ-कृत- -त्स्य आश्रौ ६, १२,
 ३; शाश्रौ ८, ९, १; आपश्रौ.
 पितृ-कृय- -स्ये वाध ११, २७;
 -स्येषु कप्र २, ७, १.
 पितृ-गामिन्- -मि विध १७, ६.
 पितृ-गी(त>)ता- -ता विध ८०,
 १३; ८३, २०; -ताः विध ८५,
 ६४; -ते विध ७८, ५१.
 पितृ-गृह- -हे वाध १७, २२; विध
 १५, ११; २२, ३४.
 पितृ-घात- -तेन आमिष्ट २, ४, ८ :
 १९.
^१पितृ-जीर्ण- -र्णम् वैगृ ४, ४ :
 २४; ५, १५ : १५.
 पितृ-ज्येष्ठ- -ष्ठयोः वैगृ ६, ९ : ८.
 पितृ-तर्पण- -णम् अप ४२, २, ६;
 शंघ ४६३; बौध २, ३, २; विध
 ५९, २३; ३०.
 पितृ-तस (:) आश्रौ ९, ३, २०; २१;
 वाधुश्रौ; या १४, ५^२.
 पितृ-तीर्थ^०- -र्थम् शंघ ११६ : ७२;
 ११७; -र्थेन कप्र १, २, ३.
 पितृतीर्थो(र्थ-उ)दक- -कम्
 याशि १, ५३.
 पितृ-त्रैयम्बक-पुनरुक्त-वर्जम् काश्रौ
 २०, ७, २२.
 पितृ-स्व- -स्वम् बौगृ ३, १२ : १४;
 वैगृ ५, १५ : ११; -स्वे वृदे ६,
 ३८.
 पितृ-दिङ्^०-मुख- -खः कप्र ३, २,
 १२.
 पितृ-देव- -वाः विध २६, ७.
 पितृ-देव-गुरु-भृत्य-भरण- -णे गौघ

१७, ४.
 १पितृ-देवता- पाग ५, १, ६६^१;
 -ताम् शंघ १५९ : ५.
 पितृदेवत्य,त्या- पा ५, १, ६६;
 -स्यः वाधुश्रौ २, १७ : २,
 अप्राय ३, २; -त्यम् अत्र १८,
 ४; या ७, ४; -त्या वैश्रौ ५, १ :
 ४; कौसू ४, १२; -त्याः बौश्रौ
 २४, ३८ : ३; कौगृ ३, १४, ४;
 शांगृ ४, १, ८; कागृ ६१, १;
 कप्र १, २, २; -त्याभिः शाश्रौ
 १५, १५, ७; -स्येषु गोगृ ४, ४,
 २१.
 २पितृ-देवत,ता^०- -तानाम् बौश्रौ
 १५, ३१ : १९; -ताम् आगृ २,
 ४, १२.
 ३पितृ-देवता^१- -ताः विध ५७, १३;
 -ताभ्यः बौध २, ३, १८.
 पितृ-देवत (ता-अ)तिथि-पूजा-
 -जायाम् वाध ४, ५.
 पितृ-देवता(ता-अ)िथि-भृत्य-
 -त्यानाम् कौगृ ३, ११, ४३; शांगृ
 ४, ११, १२.
 ४पितृ-देव(व-ऋ)र्षि-श्राद्ध- -द्धेभ्यः
 ऋग्र ३, ३^६.
 पितृ-देवा(व-अ)धि-कार्य- -यैषु
 बौध १, ४, २१.
 पितृ-देवा(व-अ)सुर- -राणाम् वृदे
 ६, १६०.
 पितृ-देवत-कर्मन्- -र्मणि कौगृ ३,
 १०, ३५; शांगृ २, १६, १; वाध
 ४, ६; विध ५१, ६४.
 पितृ-देवत-कार्य- -यैषु कौगृ ३,
 ११, ४७; शांगृ ४, ११, १६.
 पितृ-देवत-भृत्य- -स्यानाम् बौध
 २, ७, २१.

a) पामे. वैप १, २०१२ f द्र.। b) = तीर्थ-विशेष-। c) पूष. = दक्षिणा-दिश्-। d) तु. पागम.।
 e) विप.। बस.। f) दस.। g) ष्षिंसाध्ये, ष्षिंसिद्धे इति च संस्कृतः टि.।

पितृ-दैवत्व, त्या^१- -स्यम् जैष्ठ २,
१ : २४†; -त्याः वैश्व २, २ :
१०; ५, १४ : १३; -त्ये गोष्ठ
३, १०, २५; पावा ७, ३, ४५.
पितृ-द्रव्य- -स्यम् विध १८, ४२.
पितृ-धर्म- -मैण माण्ड १, ५, ६.
पितृ-नामन्- -मानि काण्ड ३९ :
१४.
पितृ-पक्ष- -ज्ञाणाम् शंघ ११६ :
७५; ११८; -क्षे शंघ ११६ : ७४;
११८; विध २२, ३३.
पितृ-पति- -तये आग्निष्ठ ३, ४, १ :
२०†.
†पितृ-पत्नी- -क्षीभ्यः वैश्व १, ४ :
१९; ४, ४ : ९; -न्त्यः वैश्व १,
७ : १; सुधप ८५ : २.
पितृ-पात्र- -त्रम् बौपि २, १२, ४;
-त्रेषु शांठ ४, ३, ६; आग्निष्ठ.
पितृपात्रो(त्र-उ)दक- -कैः वैश्व
७, ८ : ७.
पितृ-पाद्यपात्र-त्रय- -ये विध २१,
१४.
पितृ-पिण्ड- -ण्डेषु आग्निष्ठ ३, ११,
३ : २४; बौपि २, ११, ८; २, २;
गौपि २, ६, २१; अप २३, १, ३;
-ण्डैः वैश्व ७, ८ : ७.
पितृ-पितामह- -हानाम् शंघ २९१.
पितृपितामहा(ह-आ)दि- -दिषु
पावा ६, ३, २५.
पितृ-पितामह-प्रपितामह- -हाः
आग्निष्ठ २, ४, ७ : २१; -हान्
वैश्व १ ९ : १०; -हेभ्यः आपश्रौ
१९, ८, १४; हिश्रौ २३, १, ४१.
†पितृ-पीत- -तस्य बौश्रौ ७, १७ :
१३; ३४; ८, ७ : २१××; माश्रौ

२, ४, २, ३२; ५, १, ५०; -ताय^२
आपश्रौ १, ८, ३; बौश्रौ.
पितृ-पुत्र^३- -त्रयोः विध १७, २.
पितृ-पुत्रा(त्र-आ) चार्थ-याज्य (ज्य-
ऋ, त्विज्- -त्विजाम् विध ५,
११३.
पितृ-पूजा- -जा वैश्व ४, ७ : ९.
पितृ-प्रभृति- -त्ति काश्रौ ४, १, १०.
पितृ-बन्धु- -न्धुभ्यः वाण्ड १०, २;
वाध ८, २; गौध ४, ३.
पितृ-भक्ति- -क्त्या विध ३१, १०.
पितृ-भर्तृ-पुत्रा(त्र-आ)धीनता- -ता
विध २५, १३.
पितृ-भुक्त- -क्तम् वैश्व ४, ४ : १४;
५, १५ : १५†.
पितृ-भेद- -दे शाश्रौ ४, ४, ६.
पितृ-भ्रातृ- -ज्ञाति-सगोत्र-मातुला
(ल-आ)दि- -दिषु वैश्व ६, ७ :
१०.
पितृ-भ्रातृ-सपत्न- -ज्ञैः अप २३,
१२, ४.
पितृ-मत्- -पाण्ड ४, १, १५१; -मतः
शाश्रौ ३, १६, ४; वंताश्रौ १४,
७; चात्र ४१ : २२^४; -†मते
आश्रौ २, ६, १२; शाश्रौ ३, १६,
२; ४, ४, १^५; काश्रौ; -मन्तः
जैश्रौका १८८; शंघ २७०;
-†मन्तम् शाश्रौ ३, १६, १३;
आपश्रौ; -†मान् आश्रौ २, १९,
२१; आपश्रौ.
†पितृमती- -तोमिः आपश्रौ
१९, ३, ८; वैश्रौ ११, ५ : ९;
हिश्रौ १३, ८, ३४.
पैतृमत्य^६- -पा ४, १, १५१;
पावा ४, १, ८५; -†त्यम् बौश्रौ

८, ६ : २; माश्रौ २, ४, ५, १४.
पितृ-मन्त्र-वर्जम् शांठ ४, ४, ७.
पितृ-म(य>)थी- -थी काण्ड १८,
२†.
पितृ-मातृ-गुर्वे(ह-अ)ग्नि-स्वाध्याय-
त्याग्नि- -ग्निः विध ८२, २९.
पितृ-मातृ-प्रदर्शित- -ताः विध
१६, १७.
पितृ-मातृ-बन्धु^७- -न्धुभ्यः शंघ
६९.
पितृ-मातृ-सुत-भ्रातृ-दत्त- -त्तम्
विध १७, १८.
पितृ-मात्र^८- -त्राः वाधुश्रौ ४, ३७ :
११.
१पितृ-मेघ^९- -घः काश्रौ २१, ३,
१; आग्निष्ठ ३, ७, २ : १९××;
बौपि; -घम् आग्निष्ठ १, २, १ :
९; हिपि १९ : १; ५; कौसू
८०, १; विध २२, ८५; -घात्
शुश्र ३, २१६; -घे आपश्रौ ९,
११, २०; आग्निष्ठ ३, ७, ४ : ९;
बौपि २, ३, १८; अप्राय २, ९;
-घेन वैश्व ७, १ : १०; अप्राय
२, ८; वैध ३, ८, ४.
पैतृमेघ- -घः बौश्रौ ३, १, २१.
पैतृमेघिक- -कम् बौश्रौ
२९, ५ : १९; वैश्रौ २०, २२ : ५;
आग्निष्ठ ३, ९, १ : ८; १०, २ :
१४^{१४}; ३ : २; बौपि; -केन
वैश्रौ २१, ७ : ६.
पैतृमेघिक-भाण्ड- -ण्डम्
हिपि २३ : १.
पितृमेघ-वत् वैश्व ७, २ : ५.
पितृमेघ-विधि- -धिना वैश्व
५, २ : १०; ११.

a) विप. । षस. ।

b) पाभे. वैप १, २०१२ k द्र. ।

c) भानङ्कादेशस्याऽभावः उरसं.

(पा ६, ३, २५) ।

d) = ऋषि-विशेष- ।

e) वैप १ द्र. ।

f) द्रस. > षस. ।

g) नाप. (याग-) ।

h) *कर्म इति पाठः ? यत्नि. च कर्मन् > -र्म् इति च शोधः (द्र. पूर्वोचरे स्थले) ।

२पितृमे(ध>)घा^०-घा: ऋञ्च
२,१०,१८.

पितृ-यजन-नम् बौश्रौ २,२:२१२.

पितृ-यज्ञ^०-ज्ञ: आपश्रौ ८, १३,
५; १६,२२××; -ज्ञम् आपश्रौ
३, १६, ७; बौश्रौ; -ज्ञस्य
आपश्रौ ८, १३, १; भाश्रौ
८,१५, १; -ज्ञान् लाश्रौ १०,
११,१०; -ज्ञाय वैष्ट ३, ७: ८;
-ज्ञे काश्रौ ५, ८, १; आपश्रौ;
-ज्ञेन आपश्रौ ८, १५, १८;
२२, ८, १९; काश्रौसं.

पैतृयज्ञिक,का-कम् बौपि
३,३,१२;-कात् बौश्रौ २, ८:
३; २३;-कायाम् द्राश्रौ १३,
१,१७; लाश्रौ ५,१, १५; १०,
११,११;-केन बौश्रौ २८, ४:
६.

पितृयज्ञ-बर्हिस्-र्हिषि बौश्रौ
२,३:१७.

पितृयज्ञ-लोप-ये बौश्रौ २९,
१२:३.

पितृयज्ञ-वत् शाष्ट ५, १०, ६;
मीस् ६,८, ८.

पितृयज्ञ-सामान्य-न्यात् बौश्रौ
२०,३:१८.

पितृयज्ञा(ज्ञ-अ)मिनचित्य-
त्ययो: काश्रौ २,६,२१.

पितृयज्ञा(ज्ञ-अ)त्यय-ये कप्र
२,९,२०.

पितृयज्ञा(ज्ञ-अ)र्थ-सिद्धि-
द्वये कप्र २,३,६.

पितृ-याण^०-णम् आपश्रौ २४,
१३,३; अश्र १५,१२२;-णा:^०
आपश्रौ १३, २२, ५; बौश्रौ ४,

११:१८^०; माश्रौ २,५,५,२२;
बौष्ट ४,४,९.

पितृ-रूप^०-पा: आपश्रौ १,८,७;
माश्रौ १,१, २, ८; वाश्रौ १,२,
३,१.

पितृ-लिङ्ग^०-ङ्गेन आपध २,४,५;
हिध २, १, ५८;-ङ्गे: आमिष्ट
३,३,२:२१; ११,३:२०.

पितृ-लोक-पंकम् बौश्रौ २९,१३:
६; वाधूश्रौ ४,१६:४; ६३:४;
लाश्रौ; या १४, ८\$;-कात्
वाधूश्रौ ४,६३:४; या १४,८;
-पंके आपश्रौ १०,५,५; बौश्रौ.

पितृलोक-काम-मस्य आपश्रौ
१४,५,२२; ६,९; बौश्रौ.

पितृलोक-गत-त;-तस्य विध
२०,३४.

पितृ-वंश-श: शांष्ट ४, १०,५;
अप ४३,४,५९^०.

पितृवंश-मातृवंश-शौ कप्र २,
२,३-८.

पितृ-वत् काश्रौ ५, १०, १३; २०,
६,१३××; आष्ट.

पितृ-वल-पागम ४३०.

पितृ-वित्ता(त्त-अ)लाभ-भे विध
१५,४३.

पितृ-विभ(क्त>)क्ता-क्ता विध
१७,३.

पितृ-वेदमन्-श्मनि विध २४,
४१.

पितृव्य-पा,पावा ४, २, ३६;-व्य:
बौष्ट १,२,६५; कप्र २, ३, ७;
८; वैध २,११,२;-व्यम् बौपि
३, १, ५;-व्यस्य बौश्रौ २४,
३३:४.

पितृव्य-मातामह-मातुल-श्वशुर-
नृप-पत्न्य(त्नी-अ)भिगमन-
नम् विध ३६,४.

पितृव्य-मातुल-लान् वाध १९,
३१.

पितृव्य-मातुल-श्वश्रू-श्वशुर-
वृद्ध-द्धा: शंध ४३.

पितृव्य-स्नातक मातुल-ला:
वाध ११,२.

पितृव्या(व्य-आ)चार्य(र्थ-ऋ)
विद्-मातुल-श्वशुरा(र-आ)दि-
दीन् वैध १,४,२.

पितृ-शब्द-ब्द: माशि ४०;
-ब्दम् काश्रौ १५,६, ११; वैश्रौ
९,४:४.

पितृ-शासन-नम् बौध ४,१,१५.

पितृ-ष(<स)द^०-षद: वाश्रौ १,
२,३, २; जैष्ट २, २: २; कौस्
८७,१६^०;-षदम् आपमं १,१०,
२; बौष्ट १, ६, २३;-षदे पाष्ट
३,१५,१३.

पितृ-ष(<स)दन^०-ना^० आपश्रौ
७,९,१०; बौश्रौ;-नम् काश्रौ ६,
२,१८^०; माश्रौ;-ना^० माश्रौ
१,८,२,७; अर्षं ३:२३.

पितृ-श्व(<स्व)स्-पा ८, ३, ८४;
-सा वैध २,११,२; विध ३२,३.

पैतृश्वसेय-पा ४,१,१३३.
पैतृश्वसेयी-यी या
१४,३०^०.

पैतृश्वस्त्रीय-पा ४,१,१३२.

पितृश्वस्-मातृश्वस्-स्वस्-
गमन-नम् विध ३६,५.

पितृ-संयुक्त-कम् भाष्ट १, १२:
२; ४; १०;-क्तादि आमिष्ट २,

a) विप. (ऋञ्च-). तद्वति वृत्तिः। b) नाप. (याग-). c) वैप १ द्र.। d) पाभे. वैप १,
२०१३ ० द्र.। e) विप.। बस.। f) पाभे. वैप १ वेदिषुद: मा २,२९ टि. द्र.। g) पाभे. वैप १,
२०१३ ० द्र.। h) पाभे. वैप १, २०१० २ द्र.।

६,३:५९; आपृ १,१८; बौघ
१,३,७; बौघ २,५,३१^१.
पितृ-संहिता- -ताम् कप्र १,३,८.
पितृ-संवर- -रः कौसू ८३,२६.
पितृ-स्थान-गत- -ताम् वैघृ ५,
१४:४; १५:९.
पितृ-हन्- -घ्नः शंघ ३७७:१०.
पितृ-हस्त- -स्ते आधिगृ ३,३,२:
२२.
पिलं(तृ-अ)श- -शः शंघ २७९.
पित्र(तृ-अ)र्थ- -र्थम् वैघृ ७,८:१;
-र्थे वैघृ ४,३:४.
पित्र(तृ-अ)वनेजन- -नम् काश्रौ
५,९,१३.
पित्रा(तृ-अ)दि- -दयः वैघृ ७,१:
८; -दिभ्यः वैघृ ४,४:११;
-दीन् वैघृ ६,६:६; वैघ २,१३,
५.
पित्रादि-त्रय-पत्नी- -त्नीषु शंघ
१९०.
पित्रादि-बान्धवा(व-अ)लाम्-
-मे वैघृ ६,७:१२
पित्रिभ^१- -यम् वाधुश्रौ २,८:१;
२.
पितृ(तृ-उ)च्छिष्ट-समीप- -ये गौपि
२,४,१९.
पित्र्य, व्या^१- पा ४,२,३१; ३,७९;
-भ्यः कप्र २,३,४; विघ ५९,
२३; शुभ; -भ्यम् काश्रौ १,१०,
१४; आपृ ४,१,१९; कौघृ;
या ११,३३; -भ्यस्य गोघृ १,
४,२०; या ३,३; ४,५^१; -भ्या
आश्रौ २,१९,१; ४,८,३; ९,२,

१७; शाश्रौ; -भ्याः ऋअ २,१०,
१४; शुभ २, ३९५; -भ्याणाम्
आश्रौ १२,८,२; -भ्याणि शाश्रौ
१, १, ७; १४; आपृश्रौ; मीस्
६, ८, २७^६; -भ्यात् शाश्रौ
२,१४,३; १५,४; -भ्यान् गौघ
१८,२१; -भ्याम् शांघृ ४, १०,
२; अप ४३, ४, १; -भ्यायाम्
आश्रौ २,१८,७; शाश्रौ ४,६,२;
वैताश्रौ ९,८; १२^१; -भ्ये काश्रौ
३,६, ११^१; कौघृ १, ३, २^६;
४x४; शांघृ; १, ७, ३; -भ्येण
अप ४४, १, १४; शंघ ११६:
७; विघ ६४, ३१; -भ्येषु काश्रौ
१, ७, २६; भाश्रौ.
पित्र्य-प्रतिग्रह-भोजन- -नयोः
बौघ १,११,२६.
पित्र्य-मन्त्रा(न्त्र-अ)नुद्ववण^१-
-णे कप्र १,२,१३.
पित्र्या-व(त्>)ती^६- -ती ऋप्रा
९,११^१.
पित्र्युपवीत^६- -तम् वैताश्रौ
७,१५; अप ४५,१,२७.
पित्र्युपवीतिन्- -ती वैताश्रौ
२८,३६; कौसू ८७,२६x४.
पित्र्यो(भ्य-उ)पसद्- -सदः
आश्रौ २,१५,९.
पित्त^६- पाठभो २, २, १३४; पाग ५,
२,९७; -त्तम् बौश्रौ २, ५:
२०^१; वृदे ७, ८०; -त्तेन वैघृ
५,१:२१.
पैत्तिक- पावा ५,१,३८; -कस्य
अप ७०,१२,१; -काः अप ६८,

१,३; १९.
पित्त-ज्वर- -रः अप ५७,१,५.
पित्त-प्रकृति^१- -तयः अप ६८, १,
१२.
पित्त-रु- पा ५,२,९७.
पित्र्य- प्रसृ. पितृ- द्र.
पि^१✓घा,पि^१धामि पागृ ३, १५,२३^३;
पि^१दध्यात् वैघृ ५,७:११; ८:६.
पि-धान- पाग २, ४, ३१; -नम्
भाशि १२०^१; -नात् बौपि ३,
१०,३; -ने कौघृ ३,२,१३^६.
पिधान(न-अ)र्थ- -र्थम् हिश्रौ
१,३,८.
पि-धाय आशिगृ २, ४, १०:३७;
कागृ २४, ५; वैघृ ५, ७:७;
१०:५.
पि-हित- -तः आश्रौ ९, ७, २२;
वाश्रौ ३,२,५,२८; द्राश्रौ.
पिहिता(त-अ)नन^१- -नम्
आशिगृ २,३,३:१०.
पिनद्ध- (>पैनद्धक- पा.) पाग ४,
२,८०.
पि^१✓नह्>पि-नह्य कौसू ३९,१५.
पिनाक^६- पाठ ४,१५; पाग २,४,३१;
-कम् अप ४८,१२२^१; निघ ३,
२९^१; या ३,२१^१; ५,२२^१.
पिनाक-सेन^१- -नाय अप २०, ४,
२^१.
पिनाकसेन-यजमान- -नात् अप
२०,७,११.
पिनाक-हस्त^६- -स्तः^३ आपृश्रौ ८,
१८, ९; बौश्रौ ५, ११:७;
भाश्रौ; या ३,२१; ५,२२.

a) तस्येदमित्यर्थे घ > ह्यः प्र. उंसं. (पा ४, ३, १२१)। b) वैपश् निर्दिष्टयोः समावेशः द्र.।
c) पित्राणि इति जीसं. ?। d) पामे. वैप २, ३खं. पित्रे तैत्रा १, २, १, २० टि. द्र.। e) मित्र्ये इति पाठः ? यनि.
शोधः (तु. शांघृ.)। f) कस. > षस. उप. = समुच्चारण-। g) वैप १ द्र.। h) वैप २, ३खं. द्र.। i) विप.।
बस.। j) यनि. नैत्र. < अवि प। k) सपा. शांघृ ३, ३, ९ अपिधानम् इति पामे.। l) विप. > नाप.। बस.।
m) पामे. वैप १, २०१४ m द्र.।

पिनाकिन्-किने वैगु ५,२:२९;

-की आसिगु २,५, ३:१५;

अप ४३,५,१४; बौगु ३,७,१४.

पिन् पाधा. भ्वा. पर. सेचने;

पिन्वते आश्रौ ५, १८, ५;

आसिगु ३,८,२:१६; बौगु १, १५:२६; पिन्वति माश्रौ ४,

३, १३; पिन्वन्ति आश्रौ ५,

१४, १७; शाश्रौ ७,१९, १४;

बौश्रौ १३,३९:१२; पिन्वताम्

वाश्रौ १,१,३,१२; पिन्वताम्

माश्रौ १,१,३,२३; पिन्वस्व

शाश्रौ ४, ९, २०; काश्रौ ३, ४,

१०××^०; आपश्रौ ४,६,२^६:१०,

९^०; ११, ३^०××; काश्रौसं ३६:

१७; बौश्रौ ३,१८:२९××;

माश्रौ ४, ८, ३^०; १६, १^०××;

माश्रौ; वैश्रौ ७,२:३^०; ३:५××^०;

हिश्रौ ६,३,३××^०; पिन्व आश्रौ

१,७,८^०; काश्रौ १७, ८, २१;

आपश्रौ; पिन्वतम् या ६, २९;

अपिन्वत् शाश्रौ ८, २५, १.

पिन्वयति बौश्रौ ९, ९:१५;

१८; वैश्रौ १३, ११:१४;

पिन्वयेत् आपश्रौ १५, १८, २;

भाश्रौ ११,१८,५.

पिन्वन^०-नम् बौश्रौ ९, ३:१७;

-ने काश्रौ २६, १, २१; २,

१२××; काश्रौसं; -नेन बौश्रौ

९,१०:२४.

पिन्वना(न-आ)दि-दीनाम्

काश्रौ २६,१,२९.

पिन्वन्त्यपी(य>)या^०-यया

शाश्रौ १०,१३,१०.

पिन्वमान,ना-नः आपश्रौ २,

२१,७; १७,१८,१; हिश्रौ; आगु

२,४,१४^६; -नम् काश्रौ २६,६,

८; बौश्रौ १, १७:२२^५; माश्रौ

१,२,३, २५; आसिगु १,७,३:३

३^४; -नस्य माश्रौ १,२,३,

२५; वाश्रौ १, ३,१, २४; -ना

आपश्रौ १६,३,१,१; वैश्रौ; -ना:

आपश्रौ १, १२, १४; भाश्रौ;

-नाय आपश्रौ १६, ३, १, १;

वैश्रौ १८,२०:५३; हिश्रौ ११,

८,४; -ने आपश्रौ १६,३०-३१,

१; वैश्रौ; -नेभ्यः आपश्रौ १६,

३,१, १; वैश्रौ १८, २०:५३;

हिश्रौ ११,८,४.

पिपान-, पिपासव-प्रष्ट. √पा(पाने)

द्र.

पिपील^१->पी(ल-क^१>)लिका-

पाउभो २, २, १८^१; -का जैगु

१,३:३; या ७, १३^६; शैशि;

-का: आपश्रौ ६, १२, ४^१;

माश्रौ; -काभिः याशि २,१०७;

-काभ्यः वाश्रौ १,५, २, ४६^१;

मागु २,१२,१७.

पिपीलिक-म(थ्य>)ध्या^६-ध्या

ऋञ्ज १, ५, ६; ६, ४××; शुञ्ज;

या ७,१३; माशि ९,३^१; -ध्या:

ऋञ्ज २,९,११०; अञ्ज ९,६(३);

-ध्याम् द्राश्रौ ८,३,९; शुञ्ज ३,

१०; -ध्ये ऋञ्ज २,१०, १०५;

अञ्ज ६,२; उनिस् ५:७.

पिपीलिक-मध्य(म>)मा^६-

-मा ऋद्रा १६,३९; ५२.

पिपीलिका-किरि^३-रिम् वाश्रौ

१,४,२,८.

पिपीलिका(का-अ)ण्ड-संका-

न्ति-न्ति: अण्ड ६५,२,७.

पिपीलिका(का-अ)नाचार-रै

कौसू ९३, २३.

पिपीलिका-मध्य,ध्या^१-ध्य^०

विध ४७, ४; ५; -ध्यम्^० बौध

३,८, ३२; -ध्या निस् १,२:

१३; -ध्या: लाश्रौ ४, ७, ३^६;

-ध्याम् द्राश्रौ ८,३,२१^६; लाश्रौ

४,७, १; निस् ६, ६:१८; ८,

६:२०.

पिपीलिकावट^१ आश्रौ ८, ३,

२१; शाश्रौ १२,२३,३; वैताश्रौ

३२,२५.

पिपीलिको(का-उ)द्वाप^३-पान्

कौसू ११,५; -पे कौसू ११,४.

पिपीलिक^१-कान् भाश्रौ ६, १३,

१०; हिश्रौ ३,७,९८; -कै: बौगु

४,९,५.

पिपीषत्-√पा(पाने)द्र.

पिप्प(क>)का-पागम ६१.

पिप्पल^१-पाउभो २,३,९९; पाग ४,

२,९०; ३,७६^६; -लम् अण्ड ४८,

७५^१; वाध; निच १, १२^१;

- a) प्रपु १ रूपम् । b) पाभे. वैप २, ३खं. जिन्वतम् तैत्रा ३, ७, ४, १६ टि. द्र. । c) पाभे. वैप १, १९९० m द्र. । d) पाभे. वैप २, ३खं. जिन्व तैत्रा ३, ७, ५, ७ टि. द्र. । e) = [मृत्तिकानिमित्त-] पात्र-विशेष- (तु. विद्याधरः [काश्रौ.]) । f) < पिन्वन्ति अपुः (ऋ १, ६४, ६) । g) पाभे. पृ ५४१ b द्र. । h) पाभे. वैप १, २०१५ g द्र. । i) वैप १ द्र. । j) < √पिल् इति । k) = गायत्री-भेद- । वस. पूष. हस्तविकल्पत्वं (पा ६, ३, ६३) । l) = विवृत्ति-विशेष- । m) = पिपीलिकोत्कीर्ण-मुञ्चय- । n) = अतुष्टुन्-भेद- । o) = चान्द्रायण- । p) परस्परं पाभे. । q) वैप १, २०१६ c, d द्र. । r) पिपील इत्यनेन सन्यायता द्र. । s) तु. पागम. । t) = जल- ।

या १४,२९†; -लानि आपश्रौ
 १०,१६,११; माश्रौ १०,१०,९.
 पैप्पल- पा ४,३,७६.
 पिप्पल-मान- -त्रम् काश्रौ ३,४,१;
 आपश्रौ.
 पिप्पला(ल-अ)द^a- -दम् अप ३९,
 १,१; -देन अप २२, १०,४;
 २३,१४,३.
 पैप्पलाद- -दम् अप २,३,५;
 -दा: अप १^३, १, ७; -देन
 अप २,६,१.
 पैप्पलादि- -दयः बौश्रौ ४६ :
 ३.
 पिप्पला(ल-आ)दि-> ^bदि-शान्ति-
 गण- -णः अप ३२,१,२०.
 पिप्पलीय- पा ४,२,९०.
 २पिप्पल^b- -ला: चव्यू ४ : २.
 ३पिप्प(ल>)ली^c- पा, पाग ४, १,
 ४१; पाग ४, ३, १६७; -ली
 कौसू २६, ३३; अप; -†लीम्
 अशां २१, १; अत्र ६, १०९;
 -ल्यः अप्रा २,३,१४†.
 पिप्पली L, लि^d।-मरीच- -चे आपघ
 १,२०,१२; हिध १,६,२६.
 पिप्पली-सुकुन्दक-मूर्स्तृण-शियु-
 सर्वप-सुरसा-सर्जक-सुवचैल-
 कृष्माण्डा(ण्ड-अ)लावु-वार्ताकु-
 पालक्यो(क्या-उ)पोडकी-तण्डु-
 लीयक-कुसुम्भ-पिण्डालुक-महि-
 षीक्षीर- -राणि विध ७२,१७.
 पिप्पली-मूल- (>)लीय- पा.)
 पाग ४,२,९०.
 पिप्पलू^e- (>पैप्पलव्य-पा L>पैप्प-
 लव- पा.) पाग ४,१,१०५; २,

१११.
 †पिप्पलु अप ४८,१७.
 पिप्रत्- √पृ, पृ द्र.
 पिप्रु^f- -युम् सु २९, ५; -प्रोः ऋअ
 २,६,२०†.
 १-२पिव- प्रथ. √पा (पाने) द्र.
 पिपाल- पाउ ३,७६.
 ?पिलकावत् बौश्रौ ७,६ : ४२.
 पिलपिच्छ- पाउमो २,२,८५.
 †पिलिप्प(ल>)ला^g- -ला बौश्रौ
 १५,२९ : २; ४.
 पिल- पावा ५,२,३३.
 †पिल्व^h- -ल्वयोःⁱ आपश्रौ १६,
 १८,६; वैश्रौ १८,१५ : १६.
 ?पिवा वाश्रौ ३,३,४,१८.
 †√पिश् > पिश् (बधा.)^j पाधा.
 तुदा. पर. अत्रयवे, पिंशति शैशि
 २७७; पिंशतु आपसं १, १२,१;
 बौय १,७, ३७; माय; अपिंशत्
 या ८,१४†.
 पिशित^k- पाउ ३,९५; -तम् बौश्रौ
 ४,९ : ८; १५,३० : २३; -तस्य
 वाधुश्रौ ३, ९७ : १; -तानि
 आश्रित ३, ५, ६ : ९; बौवि १,
 ४ : २५; हिपि ५ : ५; कौसू १२,
 ८.
 पिशित-भक्षण- -णे अप ६८,
 २,१७.
 पिशित-होम- -मः आश्रित ३,
 ७,३ : २३.
 पिशिता(त-आ)म^l- -मम् कौय
 २,७,२३; शांय २,१२,१३.
 पिशुन^m- पाउ ३, ५५; पाग ५,१,
 १२४; १३०; -नः विध ४५, ७;

या ६, ११†; -नम् विध ५,
 १९१; -नाय या ६,११.
 पैशुन- पा ५,१,१३०; -नम्
 गौध २१,१०.
 पैशुन्य- पा ५, १, १२४;
 -न्यम् वाध ६, २४; विध ३७,२.
 पैशुन्य-मत्सरा(र-अ)-
 भिमाना(न-अ)हंकारा(र-अ)
 श्रद्धा(दा-अ)नार्जवा(व-आ)
 ध्मस्तव-परगर्हा-दम्भ-लोभ-मोह-
 क्रोधा(ध-अ)सूया-विवर्जन-
 -नम् वाध १०, ३०.
 पिशुना(न-अ)नृतवादि-क्षतध-
 मात्म-रसविक्रियिन्- -यिणाम्
 विध ५१,१२.
 †पिष्टⁿ- -ष्टम् अप ४८, ७९;
 निघ ३,७.
 २पिष्ट-> †पिष्ट-त(म>)मा^o-
 -मया या ८, २०†; ऋप्रा ७,९.
 पेपिशा(न>)ना- -ने आपसं २,
 २०,३१†.
 पेश^p- पाग ४,१,४१; ५,२,९७.
 पेशी- पा ४,१, ४१^q; -शी
 या १४, ६; -शाम् काय ६२,
 ५; -शयः काय ६२,३; ६६,३.
 पेशी-शत- -तानि विध
 ९६,८३.
 पेशल^r- पाउट्ट १, १०६; पा ५,
 २,९७; -लम् अशां २५, ३†.
 †पेशस^s- -शः अप ४८,७९; ११;
 निघ १,२; ३,७; या ८,११†;
 -शसा आपश्रौ २०,३,९; हिश्रौ
 १४,१,३०.
 पेशि^t- पाउत्ता ४,१३०.

a) = ऋषि-विशेष-। उस.। b) वेदशाखा-। व्यु. ?। c) वैप १,२०१६ m द्र.। d) आपघ.
 पाठः। e) व्यप.। व्यु. ?। f) वैप १ द्र.। g) अर्थः व्यु. च ?। h) पाभे. वैप १,२०२१ d द्र.। i) या
 ६,११; ८,११ पा ७,१,५९ परामृष्टः द्र.। j) वैप १,२०१७ ० द्र.। k) कस. परनिपातः (पा २,२,३१)।
 l) रूप-नामन्-। m) = पिशित-। n) वैतु. अभा. < पेति- इति।

पिशङ्करोहितः^a हिण् २, ७, २^b.

पिशङ्क^{०d}— पाठभो २, २, ६१; पाग ६, २, ८५; —ङ्गः आपश्चौ २०, २, ९; वाश्चौ १, ५, ५, २; ३, २, ६, २४; हिश्चौ १४, १, २१; बौष् ३, १०, ६०; —ङ्गम् कौसू ३९, २; ऋप्रा १७, १४; अप्रा ३, ४, ११; —ङ्गाः आपश्चौ २०, २३, १०; बौश्चौ १५, ३८: ११; हिश्चौ १४, ५, १७.

पिशङ्गी— पावा ४, १, ३९; —ङ्गीः आपश्चौ २२, २०, १४; हिश्चौ १७, ७, २६; —ङ्गयः काश्चौ २२, ९, १३.

पिशङ्ग-भृष्टि^c— -ष्टिम् आमिण् २, ६, ८: ३९१.

पिशङ्ग-रूप- > ङ्ग-रूपि(न् >)- णी- -ण्यः उनिस् ८: ४.

पिशङ्ग-रूप^c— -पः आश्चौ ३, ८, १; शाश्चौ १३, ४, २; आपश्चौ.

पिशङ्ग-लोहित^c— -तः भाग २, ७: २१^b.

पिशङ्ग-सदृश^c— -दृशम् शाश्चौ १८, ३, २१.

पिशङ्ग-सूत्र- -त्रम् कौसू ४३, १.

पिशङ्गिला^c— -ला बौश्चौ १५, २९: २, ४.

पिशङ्ग^c— पाग ५, १, १२४; २, ६४; ३, ११७^d; ४, ३८; ६, ३, १०८;

-चः अप २३, ५, १; -चम् आमिण् २, ६, ८: ४०१; -चाः ऋआपश्चौ १, ७, १३; ४, ६, ४;

बौश्चौ; -चान् वाधूश्चौ ४, ८८:

१०; आमिण् १, ५, ३: ४^eh; हिण्; -चानाम् वैश्चौ १, १: २३;

-चेभ्यः आपश्चौ १८, ९, १४; हिश्चौ १३, ३, ३७; माण् २, १२, १७; अप २०, ७, ३; -चैः अप ७०^३, १५, ४.

पिशाची- -चीम् वृदे ५, १९; २२.

पैशाच^c— पा ५, ३, ११७; ४, ३८; -चः आण् १, ६, ७; वैण्;

-चे वैण् ६, १२: ११.

पैशाच्य- पा ५, १, १२४.

पिशाच-क- पा ५, २, ६४.

पिशाचकिन्- पावा ५, २, १२९.

पिशाच-तस (:) कौसू २५, ३२.

पिशाच-भिक्षा- -ङ्क्षा आपध २, १७, ८; हिध २, ५, ३७.

पिशाच-वत् विध ५१, ७३.

पिशाच-विद्या^c— -द्या आश्चौ १०, ७, ६.

पिशाच-संयुक्त- -क्तम् आश्चौ १०, ७, ६.

पिशङ्ग-हन्- -हन्म् आपश्चौ १६, ३०, १; वैश्चौ १८, २: ४३;

हिश्चौ ११, ८, ४.

पिशाचा(च-अ)सुर-राक्षस- -साः नाशि १, ७, ७^f.

पिशाचो(च-उ)रग-गन्धर्व-यत्- राक्षस-मानुष- -वान् विध १, १७.

पिशङ्करोहित^b > ऋ-मात्र- -त्राः

आण् ७, १२; हिण् २, ६२.

पिशङ्करोहित^b > पिशीली^m— द्राश्चौ ११, २, ५; लाश्चौ ४, २, ४^g.

पिशङ्क-वीणा-तन्त्री- -न्त्रीम् कौसू ३२, ११.

√पिष्, पिष्^o पाधा. र्धा. पर. सं- चूर्णने, पिषति बौश्चौ १, ७: १२;

पिषिष आपश्चौ १, २१, ७, बौश्चौ १, ७: १६; भाश्चौ.

पिनष्टि काश्चौ २, ५, ६; आपश्चौ १, २१, ६×४; भाश्चौ; पिषन्ति काश्चौ ५, ८, १९; बौश्चौ १, ७: १६; भाश्चौ ८, १६, ३; पिण्डिह बौश्चौ १२, १: ८.

पेषयति कौष् १, १२, १; पेष- येत् गोण् २, ७, १७; द्राण् २, २, २२; ३३.

पिषत्- -वन् आपश्चौ १८, ८, ११.

इपिष्ट, ष्टा- -ष्टम् बौश्चौ ६, २: १५;

काण्ड ४१: ५; हिण् १, १०, ४; -ष्टस्य कौष् ४, ४, १९;

शाण् ४, १९, २; -ष्टान् माण् २, १४, २८; -ष्टानाम् आपश्चौ ८, २, ४×४; भाश्चौ; -ष्टानि काश्चौ २, ५, १०; आपश्चौ; -ष्टामिः आपश्चौ १६, ४, १; वैश्चौ १८, १: ५९; हिश्चौ ११, १, ४४;

-ष्टे भाश्चौ ८, ५, २१; -ष्टेन वैश्चौ २, ९: ३; वैण् ३, २१: १३; -ष्टेषु आपश्चौ १, २४, ५; भाश्चौ; -ष्टैः आपश्चौ १६, ४, १.

पिषिक्^p— -कम् वैण् ५, ७:

a) पाठः? पिशाङ्करोहित इति संस्कृतः टि. ?। b) सप्र. भाग २, ७: २१ ङ्गलोहितः इति पाठे.।

c) वैप १ द्र.। d) विप., नाप.। e) = सर्प-विशेष-। f) तस. (पा २, १, ६९)। g) = आयुधजीवि-संघविशेष- इति वापाभा.। h) चात् इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सपा. खि २, ११, २ हिण् १, १९, ७)।

i) = पिशाच-, विवाहभेद-। j) पाठे. वैप २, ३३. देवजनविद्या टि. द्र.। k) = प्रमाण-विशेष- (बाहवोरन्तराल-प्रमू. [तु. भाष्यम्.]। व्यु. ?। l) वैप २, ३३. द्र.। m) = पिशीलीवीणा- इति MW.। n) क्षिपि^o इति पाठः? यनि. शोधः (तु. द्राश्चौ.)। o) तुदा. उस्.। p) विप.। विकारार्थे ठक् प्र. उस्. (पा ४, ३, १४६)।

७; वैध ३, ५, ६; -कान् बौघ
३, ८, २.

पै(ष्ट>)ष्टी^० -ष्टी विध
२२, ८२.

पिष्ट-क- पा ४, ३, १४७.

पिष्टिका-(>रपैष्टिक-पा.)

कनिष्ठिका- टि. द्र.

पिष्ट-कुलमाष-मांस- -सानि

अशां १५, ४.

पिष्ट-चरु- -रुम् माश्रौ ५, १,
१०, ५६.

पिष्ट-भाज- -भाक् माश्रौ १, ७,
१, २२.

पिष्ट-मय- पा ४, ३, १४६;
-यम् अप ७, १, ४.

पिष्टमयी- -यीम् अप ४, ३,
१; ५, ४××; -व्याः अप ३६,
६, २.

पिष्ट-मिश्रो(श्र-उ)दक- -कम्
वैश्रौ ११, ११ : १२.

पिष्ट-मोदक^० -पाग २, २, ९; ६,
२, १५१.

पिष्ट-रात्रि^० -त्रिम् अप ६, २,
१; -व्याः अप ६, १, १.

पिष्ट-लेप- -पम् भाश्रौ ३, ९, ६;
७, १७, ९; माश्रौ; -पान् काश्रौ

३, ८, १; आपश्रौ ३, १०, १;
वैश्रौ ७, १० : ८; -पेन माश्रौ

१, २, ३, २३; -पौ माश्रौ १, ७,
३, ४९.

पिष्टलेप-फलीकरण-होम-
-माभ्याम् आपश्रौ ३, ९, ११;

हिश्रौ २१, २, ७०; -मौ आपश्रौ
३, ९, १२; १२, २५, १३; भाश्रौ
३, ९, ४; ७, १७, १५; हिश्रौ २,
५, २६; ४, ४, ७१.

पिष्ट-संयवन्^० > नी^० -नी

वैश्रौ ११, ९ : ८; -नीम् आम्रिग
३, ४, २ : ८; वैग ५, ४ : ३ ११^० ४;

हिपि ६ : ४^०.

पिष्टसंयवनी(य>)या^०-

-याः बौश्रौ १, ८ : २१.

पिष्टा (ष्ट-अ)न्न- -न्नम् आपग
२२, ६; बौग १, २, ५४.

√पिष्टि, पिष्टयेत् अप ३५, १,
९.

पिष्टो(ष्ट-उ)पवन-स्थान- -ने
वैश्रौ २, १ : १२.

पिष्टो(ष्ट-उ)द्वप(न>)नी^०-

-नीम् बौश्रौ १, ४ : ९; आम्रिग
३, ५, ७ : ९; बौपि १, ६ : ४;
३, ३, १२^० १.

पिष्ट्वा काश्रौ ५, ८, १८××; बौश्रौ.

पिष्ट्यमाण- -णेषु काश्रौ २, ५, ९.

पेष- -षम् माश्रौ ३, ८, २.

पेषण- -णम् माश्रौ २, ५, ४, ३३;
हिश्रौ १०, ५, ३९; मीसू ३, ३,
३४; १०, १, ४९; -णे बौश्रौ

२०, ७ : १५.

पेषणी^० -णी शंघ १३१;
विध ५९, १९; -ण्योः वैग ३,
७ : २०; -ण्यौ वैश्रौ ११, ९ :
६.

पेषण-वेला- -लायाम् वाश्रौ १,

७, ४, १७.

पेषण(ण-अ)र्थ- -थान् काश्रौसं
४ : ५.

पेषणो(ण-उ)पघान- -ने काश्रौ
२, ४, २४.

पेषयित्वा कौग १, १२, ८××; शांग.
पेषि- पाउवृ ४, ११९.

१-२पिष्ट- ✓पिष्ट द्र.

३पिष्ट- ✓पिष्ट द्र.

४पिष्ट^०- (पैष्ट-पा.) पा, पाग २, ४,
६९; पाग ४, १, ११२.

पिष्टप^०- -पम् विध १५, ४६^०.

पिष्टत-(>त्त-क-पा.) पाग ५,
४, २९.

✓पिस् पाधा. भ्ना., जुरा. पर. गतौ,
पिस्थति निघ २, १४^० १.

पेस्वर- पा ३, २, १७५.

पिहित- पि^०धा द्र.

✓पी ✓पि द्र.

पीठ^०- पाउभो २, २, ११३; -ठम्
अप ५, २, ५; ४८, ९८^० १;

-ठानि वैग ४, १३ : १०; ११.

पीठ-चक्र^०- -क्रेण श्राय ४, २, ३.

पीठ-कुत्र-ध्वज-निभ- -भाः अप
७०^०, ४, ४.

पीठ-सर्पिन्-> पैठसर्प- पावा ६
४, १४४.

पी(ठ-क>)ठिका- -काम् अप ५,
४, ४.

पीठिका-व्यञ्जन-उन्न-शस्त्र-
कीलक-मण्डल- -लौ अप ६४,
६, ५.

a) =सुरा-। b) तु. पागम.। c) = [पिष्टमयी-] रात्रि-प्रतिकृति-। d) उप. भावाऽधिकरणे प्र.।

e) =पात्री-। f) 'यमनीम् इति पाठः? यनि. शोधः (तु. संस्कृता, हिपि. च)। g) सप्र. आम्रिग ३, ५, ७ : ९

बौपि १, ६ : ४ दास्यात्रीम् इति पाभे.। h) विप. (२अप्-).। i) 'ष्टोर्ध्वप' इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सप्र.

बौश्रौ.)। पिष्टसंयवनीम् इति R.। j) नाप. (चक्री इति नभा.)। k) व्यप.। व्यु. ?। l) वावि. =विष्टप- [तु.

पाभे.]। व्यु. पागम. द्र.। m) सपा. वाध १७, ५ शंघ २८३ हिघ २, ४, ४० विष्टपम् इति पाभे.। n) =पीठिका-

o) वैप १ द्र.। p) अन्तरिक्ष-नामन्-। q) मलो. कस.।

पीठो(ठ-उ)पहित-पाद- -दः विध
३०,१७; -दाः विध ८१,१४.
✓पीठ्, लृ^१ पाधा. चुरा. उभ. अव-
गाहने, पीठयते अप ५३, ४, ४;
५७, १, ५; ६३, ३, ४; पीठयति
आशि १, ३; पीठयेत् अप २२,
८, १××; शंघ.
पीठ्यते अप ४, ६, २××; विध;
पीठ्यन्ते अप ५१, ४, १××.
पीठक^२- -कः अप २२, १०, १; -के
अप २२, ७, ३; -केन अप २२,
८, १.
पीठ्, लृ^१न- -नम् अप २२, ७, ५;
७०^३, ११, २८; ऋप्रा^४ १४, ११;
१७; २९.
पीठयत् -यन् वैगृ ५, १३ : १७.
पीठयित्वा आग्निगृ २, ६, २ : २३;
३, ४, ४ : १९; ८, १ : २८;
वैगृ.
पीठा- पाग ३, ३, १०४; ४, २, ८६^०;
-डा अप ५४, २, १; ६४, २, १०;
३, १; -डाम् वैश्रौ १८, १ : ४;
अप ७१, १३, १; १६, ४; -डासु
दंवि २, १.
पीठा-कर- -रम् अप ७१, १५,
९; विध ५, ११०.
पीठा-कृत- -ते गौघ १३, १०.
पीठा-वत्- पा ४, २, ८६.
पीडित- -तः अप ७१, ६, २; शौच
१, ४३; -तम् याशि २, ८०;
-ताः पाशि २९; माशि ४, ८;
नाशि २, ८, ३१.
पीडिता(त-अ)प्र^१- -अे अप २४,
५, २.

पीड्यमान- -नः अप ४, १, २१;
या १४, ६१; -नाः अप ३१,
१, १; विध ४३, ३५; ४३; -ने
अप १, ६, ४.
१पीत- ✓पा (पाने) द्र.
२पीत, ता^२- पाग ३, १, १३; ५, ४,
२९^३; -तः अप ५०, ६, १; २;
याशि २, १^३; -तम् अप ७०,
१०, १; २; अशां ६, २; -ता
अप २१, ६, २; ५८^३, ४, १५;
-ताः अप ५८, १, ८; ९; ६२,
१, ४; -तान् अप ६३, १, २;
-ते अप ५०, ५, ५; ६३, ४, ५;
-तेन अप ५८^३, २, ५.
पीत-क, का- पा ५, ४, २९; पावा
४, २, २; -कः अप ५३, ४, ३;
५४, १, ३; ५; -कम् अप ७१,
१६, २; नाशि १, ४, २; -का
अप ५८^३, ४, १४; -काः कप्र
१, २, २; -कौ आग्निगृ २, ५,
१ : १०; जैगृ २, ९ : ५.
पीत-भौम^१- -मम् शंघ ११६ : ३.
पीत-मण्डल^१- -ले अप ६३, १, ९.
पीत-मृत्ति(का>)क^१- -कम् वैश्रौ
१२, ४ : ३;
१पीत-रक्त^१- -क्तः अप ५२, ९, १;
-क्ताः अप ५२, ८, ५; -क्तौ
अप ५२, ९, १.
२पीत-रक्त^२- -क्ते अशां ६, ५.
३पीत-रक्त-सि (त >)ता- -ताः
अप २१, ६, ४.
पीत-वर्ण^१- -णैः माशि १, १४.
पीत-वस्त्र- -स्त्रैः अप ७०^३, ७,
१७; ७१, ११, ४.

पीत-वासस्^१- -ससम् विध १, ४२.
पीत-स्तम्ब^१- (>°म्ब-क)
पीता(त-अ)घ^१- -घाः अप ५२,
१६, १.
पीता(त-अ)त्र^१- -त्रम् आग्निगृ २,
५, ६ : ९.
पीता(त-अ)म्बर-धर- -रम् वैगृ ४,
११ : ४.
✓पीताय पा ३, १, १३.
पीता (त-अ)रुण-प्र(भा>)भ-
-भाः अप ६४, ७, ८; -भान्
अप ६८, १, १३.
पीत-दारु^२- (> पौतदारव- पा.)
पाग ४, ३, १५४^३.
पीत-द्रु^३- -फि ३७.
पीतस्तम्ब- (>°म्ब-क-) २पीत-
टि. द्र.
पीति- ✓पा (पाने) द्र.
पीतु- पाउ १, ७, १.
पीतु-दारु^०- > पौतदारव- -वान्
काठश्रौ ३०; -वेष हिश्रौ १८,
३, ३; -वैः काश्रौ ५, ४, १४;
-वौ काश्रौ २०, ४, १८.
पौतदारवा(व-अ)दि- -दि
काश्रौ १८, ४, ३.
पीतु-द्रु->पौतद्रव- -वौ शाश्रौ १६,
३, ३; १६, १२, ४.
पीत्वा, पीवी ✓पा (पाने) द्र.
पीथ- पाउ २, ७.
१पीन- ✓पि, पी द्र.
२पीन- (>°त-र-) ३पान- टि. द्र.
पीप- (>पीप्य-) दीप- टि. द्र.
पीपिवस्-, प्याना- ✓पि पी द्र.
पीबस्- पीवस्- द्र.

a) पा ७, ४, ३ परामृष्टः द्र. । b) =मन्थनोपकरण- । c) ऋप्रा. पाठः । d) =स्वरदोष-विशेष- ।
e) तु. पागम. । अर्थः ? । f) विप. । बस. । g) =वर्ण-विशेष-, तद्वत्- । व्यु. ? । h) पीत-, स्तम्ब- इति
भाखडा. प्रभृ., पीतस्तम्ब- इति पाका. । i) =पाताल-विशेष- । बस. । j) विप. । तस. (पा २, १, ६९) ।
k) दस. । l) कस. । m) =पीतु-दारु- । n) कपीत-, दारु- इति पाका. । o) वैप १ द्र. ।

† √पीय्^a, पीयति अप ४८, २८;
या ३, २०^b; भाशि १४.

पीयु^c- पाठ १, ३६.

पीयमान- √पा (पाने) द्र.

पीयूक्षा^d- पाग ४, २, ८०^e; ३, १५२.

पैयूक्ष- पा ४, ३, १५२.

पीयूक्षा-वण- पा ८, ४, ५.

पीयूक्षिल- पा ४, २, ८०.

पीयूष^f- पाठ ४, ७६; पाग ४, २,
८०^g; -†षः आपश्रौ १६, ३२,
४^h; वैश्रौ; -षम् निसू १, २;
२७ⁱ; कौय ३, ५, ८; शांय ३,
१०, ३; कौसू १९, १५; उनिसू
७: २५^j.

पीयूषिल- पा ४, २, ८०.

पीरिठ^k- ठम् अप ४८, ९८^l.

√पील^m पाधा. भ्वा. पर. प्रतिष्टम्भे.

पीलाⁿ- पाग ४, १, १५१^o.

पैल- पा ४, १, ११८; पाग २, ४,

५९; -लः कौय २, ५, ६; अपश्र ३,

४, १७^p; -लाः बौश्रौप्र ३: ४.

पैल-पूयापणैय- पाग ६, २, ३७.

पैला(ल-आ)दि- दिषु पावा १,

२, ४१.

पैलय- पा ४, १, ११८.

पैलय- पा ४, १, १५१.

पीलु^q- पाठमो २, १, १०५; पाग ४,
१, ८६^r; ५, २, २४; पा.पावाग
६, ३, १२०; -लु शांश्रौ १२,
१६, ११^s.

पैलव- पा ४, १, ८६; पाग ५,
१, ९७.

पीलु-कुण- पा ५, २, २४; पाग ४,
१, ८६^t.

पैलुकुण- पा ४, १, ८६.

पीलु-मूल-> पैलुमूल- पा, पावा.)
पाग, पावाग^u ५, १, ९७.

पीलु-वह- पा, पावा ६, ३, १२०.
† पील्व^v- -ल्वयोः माश्रौद, १, ५, ३८^w.

√पीव्^x पाधा. भ्वा. पर. स्थौल्ये.

† पीव्, वस्^y- -बः अत्र ९, ७;

-बसि दंवि २, ४; -वः शांश्रौ

१२, १८, १९; हिश्रौ १२, ६, ६४^z.

† पीवस^{aa}- -सा आश्रौ ३, ८, १;

आय ३, ८, ९; आश्रिण ३, ५, ७;

२४; बौपि १, ७: १; हिपि ६: १३.

† पीवो-अन्न^{ab}- -न्नान् आश्रौ ३,

८, १; ८, १०, १; शांश्रौ ९, २३,

११; आपश्रौ.

† पीवो(वस्-उ)पवसन^{ac}-

-नानाम् ऋप्रा २, ७३; श्रुप्रा

३, १४.

पीवन्-, वर-, शी- √पि, पी द्र.

पुंरुच(ल>)ली^{ad}- -०लि वाश्रौ ३, २,

५, ३२; -ली आपश्रौ २१, १७,

१८; १९, ५०; ६०; वाश्रौ; -लीम्

वैय ५, ९: १३; -लयाम् बौश्रौ

२, ५: २०^{ae}; -ल्यै आपश्रौ

२१, १७, १९.

पौश्रलेय^{af}- -यः आपश्रौ २०,

३, ९; १२; बौश्रौ.

पुंश्रली-ग्राम- -मस्य द्राश्रौ ११,
३, १०; लाश्रौ ४, ३, ११.

पुंश्रली-दशन-क्षत- -तः शंघ ४१२.

पुंश्रली-द्रामिभक-चिकित्सक-लुब्धक-

कूरो(र-उ)प्रो(ग्र-उ)च्छिद्यभो-

जिन्- -जिनाम् विध ५१, १०.

१पुंश्रल^{ag}- -ल्लः हिश्रौ^{ah} १६, ६, २३;

२४; -ल्लस्य श्रुप्रा ५, ४३^{ai}.

पुंश्रल-ब्रह्मचारिन्- -रिणौ काश्रौ

१३, ३, ८^{aj}.

पुंश्रल-वा(क्य>)क्या^{ak}- -क्या

बौश्रौ १८, २५: ६; ८.

२पुंश्रल^{al}- -ल्लस्य काश्रौ २०, १, ३७.

√पुंस^{am} पाधा. चुरा. पर. अभिवर्धने.

पुंस^{an}- पाठ ४, १७८; पाग ५, ४,

१५१; पुंसः आपश्रौ ८, ६, २;

बौश्रौ २०, १: ६२^{ao}; भाश्रौ;

शांय १, ११, ६^{ap}; या ३, ४^{aq};

५^{ar}क^{as}: २१; १४, २०^{at}क^{au}; पुंसा

आय १, १४, २; पाय १, १४, ३;

वैय; पुंसाम् शांश्रौ १४, ३९, ४;

आपमं १, ११, ४^{av}; आय; पुंसि

माश्रौ ५, २, ९, २; वाधूश्रौ ४,

३०: ३; ५; कौय; पा २, ४, २९;

३१×४; †पुंसे आपश्रौ ९, २, ३;

भाश्रौ ९, ३, १; हिश्रौ; पुंभ्यः

कौय १, ७, ३^{aw}; कौसू ७२, १२;

पा ६, २, १३२.

पुंसी^{ax}- -स्याः कौसू ३५, ८.

- a) या ४, २५ परामृष्टः द्र. । b) पाभे. वैप १, १८०२ m द्र. । c) वैप १ द्र. । d) = वृक्ष-
भेद-। व्यु. ? । e) अर्थः ? । f) पीयूष- इति पाका. । g) = अन्तरिक्ष-। व्यु. ? । h) व्यप. ।
व्यु. ? । i) तु. पागम. । j) वैप १, २०२० r द्र. । k) पीलु-, कुल- इति पाका. । पीलुकुण-
इति भारुडा. प्रथ. । l) पीलु, मूल इति [पक्षे] भारुडा. । m) पाभे. वैप १, २०२१ d द्र. ।
n) वैप १, २०२१ h द्र. । o) पाभे. q टि. द्र. । p) अपत्यार्थे ढक् प्र. । q) लुः इति पाठः ? यनि. शोषः
(तु. सप्र. आपश्रौ २१, १९, ५; ६ पुंश्रली इति पाभे.) । r) तु. चौसं. । पूं इति अच्यु. । s) विप. । नस. ।
t) नाप. पुं. । = स्त्रीलोलुप- इति भाष्यम् । व्यु. ? । u) या ९, १५ परामृष्टः द्र. । v) सपा. पुंसः <> पुंसः
इति पाभे. । w) = पुंससा-नो- ।

पौंस-पा ४, १, ८७; -सन्म्
अथ ६, ११३; ७, ८.
पौंस्य^a-स्यम् ऋप्रा १३,
२४; -स्या आश्रौ ८, १, २;
-स्यानि^b अप ४८, १०३; निघ
२, ९; -स्ये^c अप ४८,
१०५; निघ २, १७; या ६,
१४; -स्येन काण ३१, २;
-स्येभिः या ६, ७.
पुं-युक्त- -क्तम् मीस् ६, १, ६.
पुं-योग- -गात् पा ४, १, ४८; पावा
४, २, १३.
पुंयोग-प्रकरण- -णे पावा ४, १,
३६.
पुं-लिङ्ग^d- -ङ्गः आग्नि २, ४, १२ः
६; -ङ्गैः कौस् ६०, १५.
पुंलिङ्ग-पात्र-> -त्र-चयने(न-इ)
ष्टका-केशवपन-वर्जम् आग्नि
३, ७, २१:७^e; बौपि १, १७:३६.
पुंलिङ्ग-वपन-वर्जम् हिपि १२ः
१२.
पुं-लिङ्ग^f- -ङ्गानि माश्रौ १, ७, ४,
३.
२पुं-लिङ्ग- -ङ्गम् जैग १, ५:३.
पुंलिङ्ग-क- -काः याशि २, ६.
पुंलिङ्ग-निर्देश- -शः पावा ४,
१, १२८.
पुं-वचन^g- -नानि अप्रा २, १, १५.
पुं-वत् आश्रौ ३, २, १२; शांश्रौ ६,
१, १३; काश्रौ; पा १, २, ६६;
६, ३, ३४; ४२; ७, १, ७४.
पुं-वद्-भाव- -वस्य पावा ४, २,
३८; -वात् पावा ४, १, १४७;

६, ३, ४१; -वे पावा ६, ३, ३३.
पुं-वद्-भाव-प्रतिषेध- -धः
पावा २, २, २९.
पुं-वद्-भाव-प्रतिषेधा(ध-अ)
र्थ- -र्थम् पावा ४, १, १४७;
१५०.
पुं-वद्-भाव-रभाव-दिलोप-
यणादिपरा(र-अ)र्थ- -र्थम्
पावा ६, ४, १५५.
पुं-वद्-वचन- -नम् पावा १, २,
४८; ५, २, ५२××; -नात् पावा
४, ४, १५६.
पुं-व(त्त>)त्सा^h- -त्साम् काश्रौ
४, १४, १; वैश्रौ १३, २:६.
पुं-विषय- -यम् मीस् ९, १, ४५.
पुं-न्यञ्जनⁱ- -नानि आपश्रौ ८, ६,
२; भाश्रौ ८, ६, ५; हिश्रौ ५, २,
३०.
२पुं-न्यञ्जन^j- -नः वैश्रौ ८, १०:६.
पुं-शब्द- -ब्देन या १४, २०^k;
पावा ४, १, ४८.
पुं-शब्दा(ब्द-अ)तिदेश- -शः
पावा ६, ३, ३३.
पुं-श-छगला^l- -लाम् आपश्रौ १५,
१, ६; भाश्रौ ११, १, ९^m.
पुं-सवन्ⁿ- -नम् आप १, १३, १^k;
३; शांश्रौ १, २०, १^k; पाण १,
१४, १; आग्नि; -नस्य गौ २,
६, १; -नानि कौस् ३५, १.
पुं-सवन्-वत् पाण १, १५, २.
पुं-सवन्-सीमन्त- -न्तयोः वैग
६, ३:६.
पुं-सवना(न-आ)दि- -दिषु अप

४४, १, ५.
पुं-सवना(न-अ)नवल्लोभन- -ने
वैग ६३:७.
पुं-सा(सा-अ)सुज- -जः पावा ६, ३,
३.
पुं-सुव(त्त>)ती- -ती कौग १, १०,
१०^l.
पुं-सुवन^m- -नम् आपमं २, ११,
१४^k; कौग १, १२, ७.
पुं-सू- -स्योः आपण ६, ११.
पुं-सू-कृति- -त्या वाघ २०, २४^k.
पुं-सू-ता- पा ५, १, ११९.
पुं-स्त्री- -स्त्रियः आण्यो १३, ४.
पुं-स्त्व- पावा ५, १, ११९; -त्वम्
कप्र ३, १, १३; ऋअ २, ८, १.
पुं-स्त्वो(त्व-उ)पघात-कारिन्-
-री विघ ५, ११९.
पुं-सू-प्रजननⁿ- -नस्य अप ४८,
१२३; या ३, २, १.
पुं-सू-प्रवाद- -वे ऋपा ४, ४२.
पुं-ख्यान- -ने पावा २, ४, ५४.
पुं-गव- -वैः लाश्रौ १०, १७, ५.
पुं-छगला^l- -लया हिश्रौ २४, १,
१०.
पुं-नचत्र- -त्रे कौस् ३५, २.
पुं-नद- -दः आपश्रौ १८, १३, ३.
पुं-नपुंसक-तसू(ः) पावा १, २, ७२.
पुं-नामधेय^o- -याः निस् ८, ९;
२१; -ये आग्नि १, १, १:५;
भाण १, १:१२; हिण १, १, ५;
कौस् ३३, २०.
पुं-नामन्^p- -नानि वैग २, ५:२;
-मनः बौश्रौ १२, ८:१०^q;

a) वैप १ द्र.। b) बल-नामन्-। c) =संग्राम-। d) विप.। बस.। e) पुल्लिङ्गः

पात्रचयेष्टकाः केशः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. बौपि.)। f) षस.। g) कास. उप. करणे कृत्।

h) ष्दे इति ल.। i) पुच्छगः इति पाठः? यनि. शोधः। j) =संस्कार-भेद-। वैप १ द्र.। k) सपा.

पुंस्<>पुंस् इति पाठे.। l) सपा. पुंसवती <>पुंसवती इति पाठे.। m) =पुंसवन्-

n) =पुंसवन्-

कौष्ट १,८, १९^६; शांठ १, १३,
६; -मिन् वैष्ट २, ९: २; ३, १०:
३×५.
पुंसुहृस्- हृसो: पावा ८, ३, ४१.
पुंस^१->पुंस-वत् माश्रौ ५, २, ९,
२.
पुंस-व(त्)>ती- ली शांठ १,
१६, ११^०.
पुंससृष्टा^२ वाश्रौ ३, ४, ३, १७.
पुक्^३- (>पुक्किन्- पा.) पाग ४,
२, ८०.
पुक्कार^४- राणाम् चाश्र ४१: २३.
पुक्क^५- पाउभो २, २, ५०; पाग २,
४, ३१.
पुक्क^६- पाउभो २, २, ८४; पाग २,
४, ३१; -च्छ: हिश्रौ १४, ३,
१४; बौशु ८: १४; -च्छम्
शाश्रौ ४, १६, ८; १७, १३,
५^३फं; काश्रौ; -च्छस्य बौश्रौ
१०, २४: ५; बौशु ९: ४×५;
-च्छात् काश्रौ १७, ३, २२; १८,
४, २२; ५, ६; आश्रौ; -च्छानि
अप ६७, ४, ३; -च्छे काश्रौ
१८, ३, २; आश्रौ; -च्छेन
वाश्रौ ३, २, ५, २९; वैताश्रौ ३४,
११; निस्; -च्छेषु हिश्रौ ११,
८, ३^३फं.
पुक्क-काण्ड-ण्डम् आश्रौ २१,
१८, ३; -ण्डात् काश्रौ २५, ६,
२; -ण्डेन आश्रौ २१, १९, ८;
हिश्रौ १६, ६, २७.
पुक्क-तस्(ः) वाश्रौ २, १, ५, ४.
पुक्क-देश-शे आश्रौ १७, ७.
पुक्क-धि^७-घौ अप ४८, १, १६^३फं.

पुक्क-पार्श्व-श्वयो: आपशु १०,
३; १६, १३×५; बौशु.
पुक्क-योग->गि(त्)>नी-
नी अप ५८^३, ४, १४.
पुक्क-संधि-घौ काश्रौ १७, १२,
१९; २०; बौश्रौ १०, २८: ६;
४६: १९.
पुक्का(च्छ-अ)अ-अे आपशु १९,
१३; हिशु ६, ३६.
पुक्का(च्छ-अ)न्त-न्ते वैश्रौ १८,
१४: ४३.
पुक्का(च्छ-अ)प्यय-यस् आपश्रौ
१६, २१, १२; माश्रौ ६, १, ६,
१२; २, ४, २; वाश्रौ; -ययो:
बौशु ९: ५; -ये वैश्रौ १८,
१६: ८२; आपशु.
पुक्का(च्छ-अ)वकाश-शेन अप
५८^३, ३, ८.
√पुक्कि पा ३, १, २०.
पुक्कौ(च्छ-उ)पप्लव-वे बौश्रौ
१०, २४: ५.
पुक्क^८->पुक्की/क्क>कृत्वा बौश्रौ
१४, २२: ८.
पुक्किष्ट^९- पा ८, ३, ९७; -ष्टा: आश्रौ
१०, ७, ८; -ष्टेभ्य: शुप्रा ५,
३७^३फं
√पुट् पाधा. तुदा. पर. संश्लेषरो;
चुरा. पर. अरपीभावे^१, उभ.
भाषायां संसर्गे च.
शुट^{१०}- पाग ४, १, ४१; -टम् बौश्रौ
१०, ४८: २; १९, ४: २५;
-टेन विध ९४, १३.
शुटो- पा ४, १, ४१.
शुटा(ट-अ)पुट->पु(ट-क >)

टिका- पावा, पावाग २, १,
६९.
२पुट- पाग ४, १, ११०^०; २, ८०^१.
पौटाघन- पा ४, १, ११०.
शुटिन्- पा ४, २, ८०.
पुटक- (>पुटकिन् >)नी- पा.)
पाग ५, २, १३५.
√पुट् पाधा. चुरा. पर. अरपीभावे.
√पुड् पाधा. तुदा. पर. उत्सर्गे.
√पुण् पाधा. तुदा. पर. कर्मणि शुभे.
√पुण्ड्र पाधा. चुरा. उभ. भाषायाम्.
√पुण्ड्र √सुण्ड्र द.
पुण्डरि-सजा^{११}- जान् बौश्रौ १२,
१७: १२^३फं.
पुण्डरिसजिन्-जिनम् बौश्रौ १२,
१७: १३; २२, २०: ५.
पुण्डरीक^{१२}- पाउ ४, २०; पाग २,
१, ५६; ५, ३, १०७; -कम्
अप ७०^३, १०, २; अश्र १०,
११^३फं; -काणि काश्रौ १५,
८, ५; बौश्रौ २२, २०: ६;
-कान् वाश्रौ ३, ३, ४, ११.
१पौण्डरीक- पा ५, ३, १०७.
पौण्डरीक-वन-नानि अप
६८, १, ३०.
पौण्डरीका(क-अ)क्ष^{१३}-
-क्षम् अप ४०, २, ३.
१पुण्डरीक-वत्-वान्^{१४} बौश्रौ १०,
२४: १९; वैश्रौ १८, १५: ६.
पुण्डरीका(क-अ)क्ष-०क्ष विध
९८, ९७; -क्षम् विध १, ४४;
६०.
१पुण्ड्र- पाउवृ २, १३.
२पुण्ड्र^{१५}-ण्डम् वैश्रौ २, ६: १२.

a) णामस्य इति पाठः? यनि. शोधः (तु. शांठ.)। b) =पुंस्-। c) पाभे. पृ १५८५। द्र.।

d) पाठः? पुंससृष्टा(ष्ट)>ष्टा->ष्टाः इति शोधः। e) अर्थः व्यु. च?। =दान- इति पागम.। f) व्यप.।
शु. ?। g) =बाणाश्रम-ग-। व्यु. ?। h) वैप १ द्र.। i) =समह-। व्यु. ?। j) तु. BPG. ४
k) नाप.। व्यु. ?। l) अर्थः ?। m) पाभे. वैप १, २०२३ k द्र.। n) विप.। बस.। o) वैप ३, ५१० n द्र.।

३पुण्ड्र^३- ण्ड्राः शाश्रौ १५, २६, १.
 ४पुण्ड्र^४- ण्ड्रान् बौध १, १, ३०.
 ५पुण्ड्र^५-> ण्ड्रक- पाग ५, ४, ३.
 पुण्य^६, ण्या^६- पाज ५, १५; पाग ५,
 ४, २९^६; -ण्यः आश्रौ १०,
 २, २; आपश्रौ ५, २५, १०;
 २२, १४, १८; २०, १; हिश्रौ;
 -ण्यस् बौश्रौ ३, ३० : ३३×४;
 सु; या ९, २; पा ६, २, १५२;
 -ण्यस्य बौश्रौ २६, १० : २४;
 आपध; -ण्या बौश्रौ २, १५:६;
 २०, १६:५०; गो; -ण्याः शाश्रौ
 १६, ९, ७; आपश्रौ ४, १५, ४; १;
 बौश्रौ; -ण्यान् बौश्रौ १६, २७:
 ३; हिश्रौ १७, ६, ३६; गो २, ९;
 -ण्यानाम् अत्र १५, १३; १;
 -ण्यानि माण्ड १, १२ : ८; हिण्ड
 १, २३, १; अत्र ४, १, २४; ४२,
 २, ४; -ण्याभिः अत्र १, ४२, ६;
 -ण्याम् माण्ड २, १३, ६; गो
 २, ७; अत्र ७, ११५; -ण्ययाय
 आपश्रौ ४, ११, २; ५, ११, ५;
 बौश्रौ; -ण्ये शाश्रौ २, १, ८; ४,
 १७, ३; ५, २, ४; आपश्रौ; -ण्येन
 शाश्रौ १६, ९, ७; -ण्येषु अत्र
 ३१, ५, २; -ण्यैः आश्रौ ९, ३,
 २०; भाश्रौ ५, ३, २.
 पौण्य^७- ण्यः काश्रौ २३, २, ५.
 पुण्य-क- पा ५, ४, २९.
 १पुण्य-कर्मन्- र्मसु बौध ४, ७, १.
 २पुण्य-कर्मन्^८- र्मिणाम् अत्र ५८^८,
 ३, ११; -र्मा बौध ४, ८, १२;
 उस् ८, ३६.
 पुण्य-कृत्- पा ३, २, ८९; -कृत्
 बौश्रौ १८, ४८ : ११; बौध ४,

८, १२; -कृतः आपश्रौ २०, २२,
 ९; हिश्रौ; या २, १४; -कृतौ
 या १२ १; -कृद्भिः शाश्रौ १६,
 १, २५; या २, १४^९.
 पुण्यकृत्-तम- -मस् वैण्ड ३,
 २१ : ८.
 पुण्य-क्रिया- -यासु आपध १, २९,
 ५; हिध १, ७, ६१.
 ऋण्य-गन्ध^{१०}- -गन्ध जैण्ड १, १८ :
 ९; ११; -गन्धः अत्र १, ४६, २;
 -गन्धाः आमिण्ड ३, ४, २ : १६;
 बौपि ३, २, ३; गौपि १, २, ४१.
 ऋण्य-जन^{११}- -नाः काण्ड २६, ८;
 -नेभ्यः कौसू ७३, ५.
 पुण्य-तम- -मस् शंघ १००; -मात्
 गौध २०, १०; -मे आमिण्ड २,
 ५, ४ : ३.
 पुण्य-नदी- -द्याम् वैण्ड ७, ६ : १०.
 पुण्य-नामधेय^{१२}- -यस् वाश्रौ ३, ४,
 १, २; हिश्रौ १४, १, ३.
 पुण्य-नामन्^{१३}- -म आपश्रौ २०, १,
 २; बौध ४, ८, ४; -मानौ बौश्रौ
 १५, १ : ६; ९; वाधूश्रौ ३, ६९ :
 २२; २३; २६; -मः बौश्रौ १२,
 १५ : ९.
 पुण्य-फल- -लम् अत्र १२, १, ८;
 वाध २८, २०; विध ५१, ७६;
 -लेपु आपध २, १४, १८; हिध
 २, ३, २८.
 पुण्य-रात्र- पा ५, ४, ८७.
 पुण्य(ण्य-ऋ)क्ष^{१४}- -क्षे वैध २, १, ३.
 पुण्य-लक्ष्मी(क>)का^{१५}- -काम्
 भाण्ड १, ११ : १६; १.
 १पुण्य-लोक- -के बौपि २, १०, ५.
 २पुण्य-लोक^{१६}- -काः आपश्रौ २०,

२१, ८; २२, ९; हिश्रौ १४, ४,
 ५४.
 पुण्य-वत्- -वान् वाध १६, २८.
 पुण्य-शरीर- -राणि वैण्ड ५, ८ : १४.
 पुण्य-सम्^{१७}- पाग २, १, १७; -मस्
 बौश्रौ १४, १३ : ३१; वैताश्रौ
 ३१, ५.
 पुण्य-हृद्- -दात् वाध १५, २०.
 पुण्य(स्य-अ)हृ^{१८}- -हस् वैश्रौ १, ४:
 ११; कौण्ड १, १०, ९; शाण्ड १,
 १६, १०; आमिण्ड १, १, १ : ६;
 ४ : २८; ४३×४; बौण्ड; -हयोः
 आपश्रौ २२, २८, १; हिश्रौ २३,
 ४, ४१; -हानि बौश्रौ १३, १ :
 ५; -हे काश्रौ ७, १, २५; काठश्रौ
 ७२; बौश्रौ; -हेन वैण्ड ७, ७ : १२.
 पुण्याह-काल- -लः भाण्ड ३,
 १७ : २.
 पुण्याह-वाचन- पावा, पावास्
 ५, १, १११.
 पुण्याह-समृद्धि- -द्धिः आमिण्ड
 २, ३, ४ : ५.
 पुण्याहा(ह-अ)दि- -दीनि
 आमिण्ड ३, ११, २ : २०; अत्र
 १८^{१९}, १, २.
 पुण्याहादि-विवाचन- -नस्
 आमिण्ड २, ३, ३ : १.
 १पुण्याहा(ह-अ)न्त- -न्ते वैण्ड
 ३, ३ : १.
 २पुण्याहा(ह-अ)न्त^{२०}- -न्तस्
 वैण्ड ३, १२ : ६.
 पुण्याहिन्- -ही अत्र १, २३, १;
 ४; २४, १; ४; २५, १; ५.
 पुण्य(स्य-अ)हन्- -हनी लाश्रौ
 ९, ३, ११.

a) वैप ३, ५१० q द्र. । b) = देश-विशेष- । व्यु. ? । c) = इक्षु-विशेष- इति पागम. । d) वैप १
 द्र. । e) तु. पागम. । f) वैप २, ३४. द्र. । g) विप. । वस. । h) वैप १, १९९९ k द्र. । समास-
 विशेषः पागम. द्र. ।

पुण्यो(ण्य-उ)क्त- -क्तम् वायु १५,
१७; कायु १४,११; २८,४; मायु
१,७,५; १४,६; -क्तानि आपयु
२,१३; बौगु १,१,२२.

†पुण्यगश्च^३ अप १,२६,५.

पुत- पाठमो २,२,१३४.

पुत्तलिका^३- -काम् अप ३६,११,१.

पुत्तिका^३- पाठमो २,२,३७.

पौत्तिक^३- -कम् बौश्रौ २६,६; १७.

पुत्र^३- पाठ ४,१६५; पाग ४,१, ३५;
४१^०; १००; १०४; ५,४, २९;
-०त्र शाश्रौ १६,२९,८; बौश्रौ;
या ५,२५; -त्रः आश्रौ २,२,१३;
३,१४; ८,१४,४; शाश्रौ; आपश्रौ
१८,१६,१५^२†; १७,११; हिश्रौ
१३, ६, १०^१†; आपमं १, १३,
२†; २, १३, १२†; आगु ४, ३,
१८; शंघ ३८६^३†; या २, ११^३†;
१३; २४××; पा ६, २, १३२;
-त्रम् †आश्रौ २, १०, ४^१; ३,
९, ३; शाश्रौ ९, २८, ३××; काश्रौ;
†कौगु १, १२, ६^२†; १७, ६^१;
†शागु १, १९, ६^२†; २५, ८^१;
आमिगु २, १, ४: १५†; मागु २,
१८, ४†; हिगु २, ४, २†; कौसू
८८, २४†; या २, १३; २७; ३,
६××; -त्रयोः काठश्रौ १९;
माश्रौ ५, १, ६, ४१; कौसू
१११, ६; -त्रस्य शाश्रौ २,
१२, १०; १५, १७, १†; काश्रौ;

हिघ १,७,४५^०; या ६, ६; पा,
पावा ८,४,४८; -त्रा कौसू ८१,
१९^१†; -त्राः आश्रौ ६, १०,
७; शाश्रौ; आमिगु १, ५, ३;
५^१†; या ३, ४; ११, १६; १७;
-०त्राः शाश्रौ १५, २७, १†;
-त्राणाम् आश्रौ २, ३, १३;
शाश्रौ १५, २५, १†; आपश्रौ; या
३, ४†; -त्रात् अप्रा ३, १, ७†;
-त्रान् शाश्रौ १५, २५, १; २६,
१; २७, १; बौश्रौ; †आपमं १,
१३, ३^६; २, २०, २४^१; मागु २,
१३, ६†; †हिगु १, १९, ७^०; २,
१२, १०^१; या १२, ६; -त्राभ्याम्
शाश्रौ ४, २०, १†; -त्राय काश्रौ
१०, ९, ५; १५, ६, १०; आपश्रौ;
-†त्रासः आपश्रौ ६, १७, १०;
१४, १६, १; माश्रौ; -०त्रासः
कौसू ६०, ३५†; -त्रे शाश्रौ
१५, १७, १†; काश्रौ १५, ६,
११^२; बौश्रौ; पा ६, ३, २२;
-त्रेण शाश्रौ १५, १७, १†;
वैगु ६, २: ६; कौसू; -त्रेभ्यः
†आपश्रौ ४, १५, १; ६, २५, ४;
बौश्रौ; -त्रेषु शंघ ३६८; विघ
२२, ४३; २४, ३; या १०, ७;
-त्रैः आश्रौ ३, १४, १२; काश्रौ
२५, ५, २९†; आपश्रौ; या १,
१६†; -त्रौ बौश्रौ १८, ४५;
१७; वैश्रौ २०, ३०: १; हिश्रौ.

पुत्री- पा ४, १, ४१; -त्री
वाश्रौ २, १, ६, ३०†; वाघ १७,
२३; विघ ३२, ७.

पुत्रका- पावा ७, ३, ४५.

पुत्रिका- पावा ७, ३, ४५;

-का वाघ १७, १५; शंघ २९, ०;
विघ; -काम् गौघ २८, १८;
वृदे ४, ११०; -कायाः कप्र २,
७, १०; शंघ २९५; या ३, ५.

पुत्रिका-पुत्र- -त्रः

शंघ २९१; विघ १५, ४; -त्रम्.
बौघ २, २, १५; ३१; -त्रस्य
बौश्रौ २४, ३२: १०.

पुत्रिका-विधि- -धिना

विघ १५, ६.

पुत्रिका-सुत- -तः

कप्र २, ७, १२; शंघ २९०; बौघ.
२, २, १६.

पौत्र^३- पा ४, १, १०४; -त्रः
आश्रौ २, २, १३; आपश्रौ १०,
११, ५^२†; बौश्रौ; -त्रम् आपमं
१, ४, ७†; ××; आगु १, १३,
७†; पागु ५, ११^३†; आमिगु
१, ५, २: ५१†××; ३, ११, २:
२२; कौसू ८८, २४†; या ३,
४; -त्राः निगु १०, ९: २३; हिगु;
-त्रान् जैश्रौका ८६; आपमं २,
२०, २४†; आमिगु; हिगु २,
१२, १०†; या १२, ६; -†त्राय
बौश्रौ १२, ८: ९; २०; -त्रेण.

a) वैप १ द्र.। b) नाप.। व्यु. ?। c) = मधुमक्षिका-। व्यु. ?। d) अङ् प्र. उस्. (पा ४, ३, ११९)। e) तु. पागम.। f) पामे. वैप १, २००८ j द्र.। g) श्रौ इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. मै ४, ४, ५ आपश्रौ १८, १७, ११)। पृ ४६७ b अपि द्र.। h) पामे. वैप १, २०२६ a द्र.। i) पामे. पृ १२९८ d द्र.। j) पामे. वैप १, २०२५ f द्र.। k) पामे. वैप १, २०२६ b द्र.। l) पामे. पृ ८८३ d द्र.। m) पामे. वैप १, २०२५ ० द्र.। n) पामे. वैप १, २०२६ d द्र.। o) सपा. पुत्रस्य <> पुत्रत्वस्य इति पामे.। p) पाठः ? तु संस्कृत्युः टि., आगु ४, ३, १८ पुत्रः इति च। q) पुत्रान् इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. खि २, ११, ५ हिगु १, १९, ७)। r) पामे. वैप १, २०२७ ० द्र.। s) पामे. वैप २, ३ खं. पुत्रान् मंत्रा १, १, १२ टि. द्र.। t) वैप १, २०२७ ४ द्र.। u) विप. (अघ, आनन्द-)। v) पामे. वैप १, २०२७ f द्र.।

कप्र २, ७, ५, ६; वाध; -त्रेषु या
१०, ७; -त्रैः बौश्रौ ६, ३१:
२२१.

पौत्र-दौहित्र- -त्रयोः विध
१५, ४७.

पौत्र-प्रपौत्रक- -कैः कप्र २,
७, ७.

पौत्र-प्रभृति- -ति पा ४,
१, १६२; -तेः पावा ४, १, १६२.

पौत्रप्रभृति-संज्ञा-करण-
-णम् पावा ४, १, १६२.

पौत्रप्रभृत्य (ति-अ)

पे(क्षा >) च- -क्षम् पावा ४,
१, १६३.

पौत्र-मृत्यु- -मृत्युम्^a आपमं
१, ४, ११; आमिष्ट १, ५, ३: २;
बौध.

पौत्र-वत् विध १५, ४७.

पौत्रीय- -यम् आपश्रौ २१,
२५, १२; बौश्रौ १७, १८: ११.

पौत्र्य- -त्र्यः भाग २, ३२:
९; -त्र्यम् बौध ३, ८, ३८.

पुत्र-क- पा ५, ४, २९; -०क वृदे
४, ६०; -०काः बौश्रौ १८, २६:
८; वाधूश्रौ ४, १०३^३: १०; गोष्ट
३, २, ६; -०कौ बौश्रौ १८, ४५:
१९.

पुत्र-काम, मा- -काम आपमं १,
११, १; काग ३०, ३; माग १,
१४, १६; वाग १६, १; -मः
आपश्रौ ३, ९, ४; भाश्रौ; -मम्
काग ४०: ३; गौपि २, ३, ३१;
-मस्य आमिष्ट २, ४, ११: २;
वृदे ८, ८१; -मा शाश्रौ ४, ५, ८;
काश्रौ ४, १, २२; माश्रौ १, ३,
५, १६; -माः शाश्रौ १५, २७,

१; बौश्रौ १८, ४४: १७; गोष्ट
४, ३, २७; -माम् द्राग ३, ५,
३०; -मायाः वैग ३, ९: ११;
वृदे ८, ८२; -कामयै आपमं १,
१२, ७; बौग; -कामे आपमं
१, ११, २; काग ३०, ३; माग १,
१४, १६; वाग १६, १; -मेण
हिश्रौ १०, ७, ५.

पुत्रकामा (मा-अ) वतोका-
-कयोः कौसू ३२, २८.

पुत्रकामे(म-इ)ष्टि- -ष्ट्याम्
आश्रौ २, १०, ८.

पुत्र-कामिन्- -मी आमिष्ट २, ४,
११: २५.

√पुत्रकाम्य > पुत्रकाम्या- -म्यया
वृदे ४, २४.

पुत्र-कृत- -तम् विध ६, ३३.

पुत्र(हृत् >)घी- -घी क आमिष्ट
१, ५, ५: ४; ८; वैग ५, ९: ३.

पुत्रकाम्य(घी-अ)न्त^b- -न्तम् वैग
३, ४: ४.

पुत्र-ज(ग्ध >)घी- पावा ८, ४,
४८.

पुत्र-जन्मन्- -न्मना वाध १५, २१.

पुत्र-जात^c- पाग २, २, ३७.

पुत्र-ज्यानि- -निम् वैश्रौ १, १९: २.

पुत्र-ता- -ताम् शाश्रौ १५, २५,
१^३क; ऋअ २, ८, १; वृदे ३,
११५.

पुत्र-त्रय- -यम् विध १८, ६.

पुत्र-त्व- -त्वम् वाध १७, १६; ३५^३क;
आज्यो १४, ३; -त्वस्य आपध
१, २८, ९^d.

पुत्र-दर्शन- -नम् मीसू १, २, १३.

पुत्र-दायाध- -धे या ३, ३.

पुत्र-दार^e- -रम् अप ६७, १, १.

पुत्र-दौहित्र- -त्रयोः शंघ २९०.

पुत्र-नामन्- -मानि शाश्रौ ४,
१२, १०.

पुत्रनाम-ग्रहण- -णम् काश्रौ ४,
१२, ११.

पुत्रनामन्^f- -मा आपमं २.
११, ३३; १४, ३; आग; या ३, ४.

पुत्र-पति- पाग २, २, ३१; -त्योः
पा, पावा ६, १, १३.

पुत्र-प(ति >)ली^g- पा ४, १, ३५.

पुत्र-पशु- पाग २, २, ३१; -शवः
वाग १०, १५.

पुत्रपशु-काम- -मः गोष्ट ४, ५,
१५; ७, १५.

पुत्र-पुत्रा(त्र-आ)दि(न् >)नी-
पावा ८, ४, ४८.

पुत्र-पौत्र- पाग २, ४, ११; -त्रम्
बौध १, ५, ९५^०; -त्राः काठश्रौ

२५; ४३; भाश्रौ ८, ६, १; चाअ
३९: १९; -त्रेभ्यः हिष्ट १, २२,
१४; -त्रैः आमिष्ट २, ४, ६८

४३.

पुत्रपौत्र-धन- -धनस्य बौध १, ५,
१०२.

पुत्रपौत्र-प्रति(घा >)ष्ट^h- -ष्टस्य
शंघ ७४; २८४.

पुत्रपौत्र-व(त् >)ती- -ती
आमिष्ट २, ७, ६: ५.

पुत्रपौत्रा(त्र-आ)दि- -दीन्
जैश्रौका ८७.

पुत्र-पौत्रक- -कम् वाध १७, ८६.

पुत्र-भागा(ग-अ)नुसार- -रेण विध
१८, ३४.

पुत्र-भार्या- -र्यायै हिपि १८: २३.
पुत्र-भाव- -वः या ३, ५; -वम्
या ३, ४.

a) पाभे. वैग १, २०२७ h द्र. । b) =मन्त्र-विशेष- । बस. । c) विप. । बस. । d) पाभे.

e) समाहारे द्र. ।

पुत्र-भ्रातृ-तरः आपश्रौ ११, १६,
१४.
पुत्र-भ्रातृ-सपिण्ड-पढाः आमिग
२,४,४ : १५.
पुत्र-मर्त्या^a-मर्त्याम्^b हिश्रौ ३, ६,
२; -मर्त्याम्^b आपश्रौ ५,
२६,३; भाश्रौ ५, १७, ५.
पुत्र-मात्र-त्रः वैगृ १, १ : १२.
पुत्र-मित्र-सखि-शब्द-शब्दाः
नाशि २, ३, १०.
पुत्र-मुख-खम् शंघ २८५.
पुत्र-यजमान-नयोः काश्रौ १५,
५, ११.
पुत्र-लाम-भात् वाघ १७, ४१.
पुत्रलाभा(म-आ)दि-काङ्क्षण-
-गम् वैध १, १, १००.
पुत्र-वत् शंघ २९०.
पुत्र-वत्-वते बौश्रौ १३, ७ : १;
हिश्रौ २२, २, १७०; -वन्तः
वाघ १७, १०; -वान् पागृ ३,
१०, ५०; हिपि.
पुत्रवती-०ति मागृ २, १४,
३०; -ती बौश्रौ ९, ७ : ६;
मागृ १, १०, १७०; वैगृ.
पुत्रवन्ती-न्त्याः वाघ १७,
११.
पुत्र-वल^d-पावा ५, २, ११२.
पुत्र-वासस्^e-ससा गोगृ ४, १०,
१०१.
पुत्र-वत् >^fतिन्-ती वागृ ३,
१२.
पुत्र-शत-ते वृदे ६, २८; ३४.
पुत्र-शब्द-शब्दः ऋप्रा ४, ५९१.
पुत्र-शिव्य-हित-ताय अप २, ३,

१४, ३.
पुत्रशिव्यहितै(त-ए)षिन्-
-षिभिः नाशि १, ८, ५.
पुत्र-शोक-परिप्लुत-तः वृदे ६,
२८.
पुत्र-समन्वि(त>)ता-ताः अप
५७, ४, ४.
पुत्र-स्थान->नीय-याः वाघ
१७, ८१.
पुत्र-ह(त>)ती-पावा ८, ४, ४८.
पुत्र-ही(न>)ना-नायाम् वैगृ ६,
२ : ७.
पुत्रा(त्र-आ)गम-मम् अप ६८,
२, ३०.
पुत्रा(त्र-अ)द^g->पौत्राद^g-
-द्यम् अप्रा ३, १, १७०.
पुत्रा(त्र-आ)दि-दिः कप्र ३, २, ८;
४, ४.
पुत्रादि-सृत^h-तम् वैश्रौ २१,
९ : १.
पुत्रादि-हीन-नस्य वैश्रौ २१,
९ : १.
पुत्रा(त्र-अ)न्त^h-न्तात् पा ४, १,
१५९.
पुत्रा(त्र-अ)भाव-वे शंघ १८८;
आपघ २, १४, २; हिघ २, ३,
१३; गौघ १५, १३.
पुत्रा(त्र-अ)मात्य-परिवृत-ताय
आश्रौ ९, ३, ९; १०, ६, १०.
पुत्रा(त्र-अ)र्थⁱ-र्थः मौसू ६, ८,
१९१.
पुत्रार्थिन्-र्थी अप २२, १, ३;
१०, ३; आज्यो १३, ३.
पुत्रा(त्र-अ)र्थ-र्थम् वैगृ ६, २ :

८; १२ : ५.
पुत्रा-वल-पुत्रवल-टि. द्र.
पुत्रिन्-त्रिणः शांश्रौ १५, १७,
११; माश्रौ ६, १, ७, १७; वाघ;
-त्रिणम् आपमं २, ११, ६;
-त्रिणा आपमं १, ११, १०;
-त्रिणाम् वाघ १७, २; -त्रिणे
बौश्रौ १३, ७ : १; -त्री आश्रौ
२, १०, ८; वाधुश्रौ २, ३ : २;
वाघ ११, ४८०.
पुत्रिणी-णी आज्यो १३, ६.
पुत्रिय, पुत्रियन्ति^k अप्रा ३, १,
१४०.
पुत्रिय, या^l-यम् वाधुश्रौ २, ३ :
६; -याम् कागृ २५, २००.
पुत्रीय, पुत्रीयते अप ६९, ५, २.
पुत्रीयत्-यन्तः^k ऋप्रा ९,
१६०.
पुत्रीय-पा ५, १, ४०.
पुत्रे(त्र-इ)ष्टि-ष्टिः कागृउ ४३:
१५.
पुत्रो(त्र-उ)क्त-क्तम् ऋअ २, ७,
३२; अअ २, ७९.
पुत्रो(त्र-उ)पचार-रेण शंघ २८६.
पुत्र्य-पा ५, १, ४०; -त्र्यः आगृ ४,
८, ३५; पागृ ३, ८, २; -त्र्यम्
वागृ २, ६१; द्रागृ ४, २, १३;
बौघ ३, ८, ३८.
पुत्रक-पुत्र-द्र.
पुत्रक^m-(>पौत्रक्य-पा.) पाग
५, १, १२८.
पुत्रकाम-प्रमृ. पुत्र-द्र.
पुत्रिकⁿ-(>पौत्रिक्य-)
पुत्रिका-प्रमृ. पुत्र-द्र.

a) उप. = मृत्यु-। b) परस्परं पाभे.। c) °भाष्यमिका° इति C.। d) तु. पाम.। पुत्रावल- इति पागम.। e) वैप २, ३खं. द्र.। f) पाभे. वैप १, १४५१ h द्र.। g) वैप १ द्र.। h) विप.। वस.। i) कस.। j) अपुत्रा° इति पाठः ? यति. शोधः (तु. जीसं. प्रयासं. प्रमृ.)। k) पाभे. वैप १, २०२८ g द्र.। l) तस्मैहितमित्यर्थे ब>इयः प्र. उत्सं. (पा ४, ४, ११७)। m) तु. पाका.। पुत्रिक- इति भाष्य. प्रमृ.

√पुथ् पाधा. दिवा. पर. हिंसायाम्;
चुरा. पर. भाषायाम्.

पुद्^२- पुव या २, ११.

२पुन्-नामन्^१- -म्नः शंघ २८६;
विघ १५, ४४.

पुनत्- √पू द.

पुनर्(,;श्)^० आश्रौ २, ३, ७; ५,
२१××; शाश्रौ १, ६, २××;
८, १०, १३^१; काश्रौ; माश्रौ
१, ३, ४, २३^१; आपमं १, ५,
३^१; २, २२, ७^१; आण ३,
६, ८^१; पाण १, ७, ३^१; काण;
भाण २, २७: ५^१; माण २, १८,
४^१; कौसू ७२, १४^१; या १,
२०; २, ९; २४××; १०, १८^१;
१४, ३५^१; पुनःऽपुनः आश्रौ २,
२, ११; १६, ४××; शाश्रौ; साण
१, २१, ३^१; या ६, २७; पाण
५, १, १२४.

पौनःपुन्य- पा ५, १, १२४.

पुनः-करण- -णे वैताश्रौ २८, १२.

पुनः-कल्पना(न-आ)दि- -दि
आमिण् २, ३, २: १४.

पुनः-काम- -मस्य आपश्रौ ५, २९,
३.

पुनः-पचन- -नम् शंघ १७६.

१पुनः-पद- -दम्, -दस्य शाश्रौ ७,
२६, ६.

२पुनः-प(द >)दा^१- -दानाम्
शाश्रौ ७, २६, ८.

पुनः-परिधान- -नम् काश्रौ १५,
५, १६.

पुनः-पाक- -कः वाध ११, १२;

-क्रेन वाध ३, ५८; ५९; विध
२३, ३३.

पुनः-प्रमाद- -दे आपध २, २८, ८;
हिध २, ६, ८.

पुनः-प्रयोग- -गः आपश्रौ ९, १, ७;
हिश्रौ ५, ६, ८; मीसू ११, ४,
४४; -गात् मीसू १०, ६, २९;
११, ३, ३१××; -गे वैताश्रौ
९, २५.

पुनः-प्रवृत्ति- -त्तिः मीसू ८, ४, १४.

पुनः-प्रसङ्ग- -ङ्गः पावा ६, १, १३२;
७, १, ७२.

पुनः-प्रसङ्ग-विज्ञान- -नात् पावा
७, १, ८२; २, १; ४, १०.

पुनः-प्राध्वेषण- -णम् शाण् ६, २, ८.

पुनर्-अग्न्याधान- -नम् वैश्रौ १,
२०: १२.

पुनर्-अग्न्याधेय- -यस्य वैश्रौ १,
१९: १.

पुनर्-अन्वाधाय बौश्रौ २४, २२:
३; ५.

पुनर्-अभिद्योत्य बौगृ २, ३, ११^१;
बौधि २, ९, ४^१.

पुनर्-अभिहित- -तः आपश्रौ ५,
२९, ३.

पुनर्-अभ्यास- -सेन बौश्रौ २६,
१२: २०.

पुनर्-अभ्युद्धृत- -तेषु निसू ९, ८:
३१.

पुनर्-अभ्युकीय बौश्रौ १४, २३:
२४.

पुनर्-अवज्योत्य काश्रौ ४, १४, ५.

पुनर्-आगत- -ते वैगृ ६, १४: २.

पुनर्-आदधान- -नस्य बौश्रौ २४,
१९, ३.

पुनर्-आदाय आश्रौ ३, १, १४^१;
काश्रौ २, २, १६; ६, ५, ५.

पुनर्-आदायम् शाश्रौ ९, २०, ६;
१८, ४-५, ३; वैताश्रौ २२, ८;
२६, ३; कौगृ ३, ३, १^०; शाण्
३, ४, ५; ६, ३, १२.

पुनर्-आधान- -नम् बौश्रौ २९, १२:
१५; हिश्रौ १५, ३, ५; आमिण्.

पुनराधान-कर्मन्- -मणि कप्र
३, १, १४.

पुनराधान-नक्षत्र- -त्राणि वैश्रौ
१, १९: १२.

पुनर्-आधास्यमान- -नः बौश्रौ ३,
१: १.

पुनर्-आधेय^२- -यः बौश्रौ १४,
१९: ३४; वैश्रौ २०, ९:
४; १४: २; हिश्रौ; -यम्

आश्रौ ३, १२, २९; शाश्रौ
२, ५, १; काश्रौ; -यस्य बौश्रौ

३, १: ३; हिश्रौ ६, ५, ३९;
-यात् बौश्रौ ३, ३: १४; भाश्रौ

५, २१, ११; हिश्रौ ३, ६, २७;
-ये आश्रौ २, ८, ४; शाश्रौ ८,

१३, ४; वाश्रौ १, ५, १, ६; हिश्रौ
६, ५, ३९; -येन शाश्रौ १४, ४, १.

पौनराधेयिक- -कात् बौश्रौ
२४, १०: २; -कानि बौश्रौ

२०, १९: ८; -क्रेन बौश्रौ २४,
१९: २.

पौनराधेयिकी- -की
आश्रौ २, १५, १०; ६, १४, २४;

a) वैप १, २०२४ II द.। b) विप. I बस.। c) वैप १ द.। d) पाभे. वैप १, २०२९ ० द.।

e) पाभे. वैप १, २०२९ II द.। f) पाभे. वैप १, १४४९ ० द.। g) पाभे. वैप १, १०५९ d द.। h) सपा.

आपमं २, २२, १० पाण् ३, ७, ३ विशिष्टः पाभे.। i) पाभे. वैप १, १२१८ d द.। j) पाभे. वैप १, २०२८ ० द.।

k) पाभे. वैप १, ९३३ i द.। l) पाभे. वैप १, ७४४ I द.। m) पाभे. वैप १, १६३९ I द.। n) पृ २९४ सङ्कत्

सस्थ. अभिद्योत्य इति नेष्टम्। o) थ्य इति पाठः? यनि. श्लोघः। (तु. शाण्.)। p) विप., नाप. (अभि-विशेष.)। गसः।

शांश्रौ ८, १३, ५; -कीः आपश्रौ
५, २९, १; भाश्रौ ५, २०, १३;
हिश्रौ ६, ५, ३९^२.
पुनराधेय-काल- -लः शांश्रौ २,
५, ४; भाश्रौ ५, १७, ७.
पुनराधेय-दक्षिणा^०- -णाः बौश्रौ
३, ३ : १; २०, १९ : ११;
भाश्रौ ५, २०, १४.
?पुनराधेय-धर्मन्^०- -र्म बौश्रौ
२५, २६ : १५.
पुनराधेय-नक्षत्र- -त्राणि भाश्रौ
५, १९, १; हिश्रौ ३, ६, ६.
पुनराधेय-वत् मीसू १०, ५, ४७.
पुनर्-आम्नान- -नम् लाश्रौ ९, ६,
२३; -नात् लाश्रौ ९, ६, २०.
पुनर्-आयण- -णः अप्राय १, ४^१.
पुनर्-आरम्भ- -म्भः मीसू ९, १,
३५.
पुनर्-आलम्भ^०- -म्भः बौश्रौ २४,
३६ : २; -म्भम् आपश्रौ ४,
१६, १२; बौश्रौ; -म्भात् बौश्रौ
२१, ८ : ३६; -म्भेन बौश्रौ २६,
१२ : २०.
पुनर्-आवृत्त- -त्तम् बौश्रौ २६,
२६ : १.
पुनर्-आवृत्ति- -त्तिः आश्रौ ३,
१४, ३; कौश्रु ३, १२, २२; काश्रु
४१ : २३.
पुनरावृत्ति-दुर्लभ- -भम् अप
४०, ५, ३.
पुनर्-आस्तरण- -णे बौश्रौ २०, ७ :
१३.
पुनर्-आहार- -रः काश्रौ २५, ११,
८; १४, ३४.
पुनर्-आहारम्^० आपश्रौ २, ६, ७;

बौश्रौ १, १२ : ४६; भाश्रौ.
पुनर्-इज्या- -ज्या आश्रौ ३, १०,
१९; वैश्रौ २०, ५ : ६.
पुनर्-इष्टि- -ष्टिः अप्राय ४, २.
पुनर्-उक्त-पाग ४, २, ६०^०;
३, ७३^०; -क्तम् तैप्रा १, ६१;
-क्तस्य लाश्रौ ६, १२, ८; -क्ते
माश्रौ २, ५, २, २६.
पौनरुक्त- पा ४, ३, ७३.
पौनरुक्तिक- पा ४, २, ६०.
पुनर्-उत्सृष्ट- -ष्टः काश्रौ १५, १,
१२; आपश्रौ १९, १६, १६;
बौश्रौ; -ष्टम् काश्रौ ७, १, ६;
बौश्रौ ३, १ : ५; ३ : २; माश्रौ
५, २, १०, १६.
पुनर्-उत्स्यूत- -तः शांश्रौ २, ५,
२७; -त्तम् आपश्रौ ५, २९, ३;
बौश्रौ.
पुनर्-उपक्रम- -मे निसू ३, ५ : ११.
पुनर्-उपनयन^०- -नम् आमिष्ट २,
७, १ : १; वैश्रु ६, ९ : ९; १० :
१; वाघ २०, १७.
पुनर्-उपाकरण- -णात् गोश्रु ३,
३, १६.
पुनर्-उपादान- -नम् वैश्रौ २१,
११ : १.
पुनर्-ऊह- -हः निसू २, १ : ८.
पुनर्-गमन- -नम् अप ४०, ६, १४.
पुनर्-ग्रह- -हः वृदे २, ९७.
पुनर्-ग्रहण- -णम् काश्रौ १, ४, ७;
२५, ५, २०; बौश्रौ १४, २६ :
१०; -णात् काश्रौ १, ४, ६;
१०, ६, १२.
पुनर्-ण^०, नव, वा^०- -०व ऋप्रा १,
१०३; ५, ५३; -वः शांश्रौ १५,

१७, १^१; माश्रौ १, ६, ५,
११; वाश्रौ १, ५, १, १७; -वम्
बौश्रौ ३, ८ : १७; -वाः बौश्रौ
१८, १२ : १३.
पुनर्-दर्शन- -नात् अप ५३, ६, ४.
पुनर्-दहन-प्रभृति- -ति वैश्रु ७, ६ :
३.
पुनर्-दहन-मन्त्र- -न्त्रेण बौपि २,
३, १२; हिपि १२ : ११.
पुनर्-दहना(न-अ)न्त^०- -न्तम्
आमिष्ट ३, ७, ३ : २९; बौपि २,
३, २; हिपि १२ : ९.
पुनर्-दातृ- -त्रे आश्रौ २, १०, १५.
पुनर्-दाय^०- पाग २, १, ७२.
पुनर्-दाह- -हः काश्रौ २५, १३,
४४; आमिष्ट ३, ७, ४ : ७; बौपि
२, ३, १.
पुनर्-दीक्षा- -क्षायै हिश्रौ १०, ५,
४१.
पुनर्-दोह- -हाय आपश्रौ १, १३,
१०; बौश्रौ १, ३ : २७; भाश्रौ
१, १३, १४; हिश्रौ १, ३, ४४.
पुनर्-धेनु- -नुः लाश्रौ ९, ४, ७.
पुनर्-निष्कृत^०- -तः आपश्रौ ५,
२९, १; बौश्रौ २४, १८ : ९;
भाश्रौ ५, २१, १; वैश्रौ १, २० :
८; हिश्रौ ६, ५, ३९; -त्तम् बौश्रौ
३, १ : ४; ३ : १.
पुनर्-भक्ष- -क्षः आश्रौ ५, ६, ५.
पुनर्-भू^०- पाग ४, १, १००; १०४;
पावा ६, ४, ८४; -भुवम् सुघप
८६ : ४; -भूः कृवाघ १७, १९;
२०; विध १५, ८४; -भ्वः शंघ
८४; -भ्वाम् बौध २, २, २७.
पौनर्भव, वा^०- पा ४, १,

a) उप. = २दक्षिणा । b) पाठः ? तु. संस्कृतः टि. । c) वैप १ द्र. । d) वैप २, ३ खं द्र. ।
e) = ग्रन्थ-विशेष- । f) विप. । वस. । g) बौश्रौ (१८, १२ : १३), भाश्रौ. पाठः । h) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः
द्र. । i) नाघ., व्यप. । वैप १ द्र. । j) नाघ. । अपत्येः अम्. प्र. ।

१०४; -वः वाध १७, १८; शंघ २९१; बौध २, २, २७४; विध १५, ७४; -वम् बौध २, २, ३२; -वाः काध २८०:१; -वेन बौध ४, १, १८.

पौनर्भवा-दग्ध- -ग्धम् काध २८०:७.

पौनर्भावायण- पा ४, १, १००.

पुनर्भू-प्रस(व >)वा^a- -वा काध २८१: ४.

पुनर्-मघ^b- -वः भाशि ३९१.

पुनर्-मृत्यु^c- -न्युस् बौध २, ११: २२१; २८, ४: ३२; वाध १, ३, ९: २२; हिश्रौ १८, ४, ६१; बौध ३, ८, ६; बौध २, ६, ८.

पुनर्-यज्ञ^d- -ज्ञः काश्रौ २५, १२, २१; १४, २९; -ज्ञे काश्रौसं ३४: २; बौधौ १८, २२: ९; वैश्रौ २१, १३: ४; ६; हिश्रौ १५, ६, ४०; ४३.

पुनर्यज्ञ-पथ- -थम् शाश्रौ १६, १०, ८.

पुनर्-युवन्^e- -वानम् माश्रौ ६, १, ८, १०; वाश्रौ २, १, ८, ७.

पुनर्-वचन- -नम् पावा १, १, ३३; ३, ३, १२x; मीसू; -ने ऋषा १०, १६.

पुनर्-वत्^f- -वताम् काश्रौ २२, १०, १७.

पुनर्वती- -तीभिः माश्रौ ६, १, ४, १२; ३८; -तीभ्याम् माश्रौ ६, १, ४, ३५.

पुनर्-वत्स^g- -त्सः लाश्रौ ९, ४, ७; ऋष २, ८, ७^f.

पुनर्-वरण- -णम् काश्रौ २५, ११, ९.

पुनर्-वसु^b- -सवे गौध २६, १२^१; -सुः वाश्रौ १, ५, १, ५; अप १, ३७, ५^१; अशां ७, ५^१; -सुभ्याम् बौधौ ३, १: ७; २४, १८: ५; शाण्ड १, २६, ५^१; अप १, ४३, ५; ४८, ३; अशां १२, १; -सुम् अशां १, ६; -सू शाश्रौ २, ५, ५; आपश्रौ; -सुभ्याम् वैश्र ३, २०: ४^१; -०सो अशां १, ६; -सोः अश्र १, २७, २; -सौ विध ७८, १२; -स्वा अप १, ९, ८; -स्वोः काश्रौ ४, ११, ५; आपश्रौ ५, ३, ७; बौधौ; पा १, २, ६१.

२पुनर्वसु- पा ४, ३, ३४.

पुनर्वसु-विशाखा- -खयोः पावा १, २, ६२.

पुनर्-विधान- -नम् पावा ३, ३, १०; -नात् पावा ७, २, ४४; -ने पावा ७, २, ३७.

पुनर्-विवाह- -हम् वैश्र ६, ११: १२; १२: ९; १३: २; ८; -हे वैश्र ६, ११: १२.

पुनर्-हविस^b- -^१विः बौधौ ७, १८: ६; १९: ७x; माश्रौ; -विषम् माश्रौ २, ४, ३, १४; २४.

पुनर्-हुति- -तिम् काण्ड ४१: १६.

पुनर्-होम^c- -मम् आश्रौ ३, ११, १८; वैश्रौ २०, ५: ६; ११: ७;

वैश्र ६, १८: १०; -मान् काण्ड ४१: १५.

पुनर्-चिति^b- -तिः आपश्रौ १७, २४, ११; बौधौ २५, ३०: १०; माश्रौ ६, २, ६, २८; हिश्रौ ११, १, २; -तिम् काश्रौ १७, १२, १८; १८, ६, ३३; बौधौ; -तौ बौधौ २३, १४: १९; वैताश्रौ २९, ९.

पुनर्-शिला^१- > पौनर्-शिला^१- -लम् कौसू ६६, १५.

पुनर्-श्रुति- -तिः मीसू २, ४, २९; ४, २, २४x; -तौ मीसू १०, ८, ४२.

पुनर्-संभव- -वे आपध १, ५, ५; हिध १, २, ५.

पुनर्-सर्ग- -र्गो आपध २, २४, ६; हिध २, ५, १७१.

पुनर्-सिद्ध- -द्धम् वाध १४, २८; गौध १७, १३; सुधप ८८: ३.

पुनर्-स्तोम^c- -मः काश्रौ २२, १०, १६^१; -मे वैताश्रौ २९, १७; -मेन आपश्रौ २२, ११, १^१; काश्रौसं; हिश्रौ १७, ५, १^१; बौध १, १, २०; ३, १०, ७; -मौ बौधौ १८, ४७: २३.

पुनर्-संस्करण- -णम् काश्रौसं ३३: १०; ११; १५; माश्रौ ३, १, १९.

पुनर्-संस्कार- -रः वाध २०, १९; २३, ३०; -रम् आमिष्ट २, ७, १: १६; ३, १०, ५: १; ३; वाध; -रे वैश्र ६, १०: ५.

पुनर्-संस्कार-कर्मन्- -र्मणि वाध २०, १८.

a) विप. । बस. । भूः प्र^० इति पाठः? यनि. शोधः (तु. पमा १, २, ५७) । b) वैष १ द. । c) वैष २, ३खं. द. । d) = पुनर्-शब्दवत्- । e) नाप. । तस. । f) = ऋषि-विशेष- । g) = देवता-विशेष- । h) सप्र. °सुभ्याम् <> °सुभ्याम् इति पाठे. । i) = ओषधि-विशेष- (तु. पुनर्-सरा- [शौ ४, १७, २] इति P.W.) । j) विप. (मधुमन्थ-). तस्येदसीयः अण् प्र. । k) हिध. पाठः । l) वाध. पाठः । m) काश्रौ. आपश्रौ. काश्रौसं. बौधौ. पाठः, बौध. स-ल्लोपः । n) सप्र. °मः <> °मेन इति पाठे. ।

पुनःसंस्कार-विधि - धिम् बौपि
३,८,१.

पुनःसंस्कृत - तः शाश्रौ २,५,२७;
काश्रौ ४, ६, १९; बौश्रौ २४,
१८ : १०; लाश्रौ ९, ४, ७;
-तम् बौश्रौ २४, १८ : १७.

पुनःसंनहन - ने वैश्रौ ८, ३ : १४;
हिश्रौ ५, १, ११.

पुनःसवन - नम् बौध ३, १०, ७;
गौध १९, ८१.

पुनान - √पू द्र.

√पुन्थ पाधा. भ्वा. पर. हिंसासंक्ले-
शनयोः.

पुंनक्षत्र - प्रम्. पुंस्-द्र.

पुन्नाग - > षा-चम्पक - कौ अप
२६, ५, ५.

शुं-नामन् - पुंस्-द्र.

२पुन्-नामन् - पुद्-द्र.

पुपुष्वस् - √पुष् द्र.

पुम् - ऋत ४, २, २; पुमः शौच २,
२५; पा ८, ३, ६.

पुमां, मांस् - पाठ ४, १७८; पा ७,
१, ८९; -मांसः माश्रौ २, २, ४,
२३; आश्रु १, ७, ३१; वाध;
-मांसम् आपश्रौ १, १०, १११;
५, ११, ६१; १९, १६, १३; बौश्रौ;
कौश्रु १, १२, ६१; शाश्रु १,
१९, ७१; या ३, ४; ९, १५१;
-मांसौ कौश्रु १, १०, २४३;
शाश्रु १, १७, ९; पाश्रु; -मान्
शाश्रौ १६, ११, १७; आपश्रौ
७, ११, ९; बौश्रौ; आपमं
१, १३, २१; कौश्रु १, १०,

२४३; शाश्रु १, १७, ९३;
आश्रु १, ५, ५ : १६१; बौश्रु
४, १, १०३; या ३, ४; ६; २,
१५१; १४, ६; पा १, २, ६७.

पुं-सुहुस् - पुंस्-द्र.

√पुर पाधा. तुदा. पर. अग्रगमने.

पुर - पा ३, २, १७७; ५, ४, ७४;
पुरः आपश्रौ ११, ४, ८; १६,
१४, ५१; २१, १२, ३; बौश्रौ;
पुरम् आश्रौ ५, १३, ६; ८, १२,
७; आपश्रौ; पुरा आश्रौ १०,
३, २५^h; पुंपुराम् आश्रौ ७, ८,
३; शाश्रौ ८, १७, १२; १२,
२६, २१; बौश्रु; या ६, १३६;
पुरि आपध २, २५, ३; हिध २,
५, १८१; पूः काश्रौ २३, ५,
२७^h; आपश्रौ १४, २६, ११;
वाधुश्रौ ४, १९^३ : १५^४; हिश्रौ;
पृथिः बौश्रौ ९, ८ : १९१.

पुरं-दर - पा ३, २, ४१; ६, ३, ६९;
-रः अप १, ४०, ११; ७, १,
२; अशां; या ७, १३; -रम्
वैताश्रौ ५, १४; अप ७, १, ७;
बौध २, ९, ५.

पुरि-शय - न्यः या १, १३; २, ३.

पुरि-वाद - दः या २, ३.

पु-पति - तिम उस् ६, १¹.

पुं-मिद् - -मित् आश्रौ ५, १६,
२; ७, ५, २०; ९, ८, १८; शाश्रौ
७, २३, ६; वैताश्रौ.

पु-याण - णः शौच ३, ८३.

शुपुर् - > पुर-तस्¹ : वैश्रु ५, ५ : २;
कप्र २, ८, १; पि ३, ४१.

२पुर - पाग २, ४, ३१; ६, २, १९३;

-रम् आपध १, २२, ७; २, २५,
२; ५; विधः -रस्य अप ६९,
३, ५; -राणाम् अप ७०^३, २०,
५; -राणि अप ५७, १, ४; -रे
अप ५७, २, ७; ६४, ८, २^३ x x;
पा ६, २, ९९; -रेषु अप ३, ३,
७; ७०^३, ७, २.

पुरी - रीः वृदे ७, ५२.

१पौर - रः गौध ६, १०; १५;

-राः अप ५१, ४, २; -रेषु अप
७२, ३, १२.

पौर-सख्य - ख्यम् आपध
१, १४, १३; हिध १, ४, ४५.

पुर-ओम - भः अप ५८^३, ४, २.

पुर-नोपुर - रेषु अप ७०^३, ११, २०

पुर-ग्राम-निवेशन - नस् अप ६४,
४, ७.

पुर-दुम - माणाम् अप ७०^३, ११, १९.

पुर-द्वार - द्वारि बौध २, ३, ३४.

पुर-द्वार - रे अप ५८^३, ४, २; ६४,
५, ३; ७०^३, ६, १.

पुर-मध्य - तस्¹ : अप ७०^३, ७, ४.

पुर-मध्य-स्थ - स्थाः अप ७०^३,
५, ५.

पुर-मुख्य - ख्ये अप ७०^३, १०, २.

पुर-राष्ट्र-हानि - निः अप ३, २, ५.

पुर-रेणु-कुण्ठित - शरीर - रः बौध
२, ३, ५३.

पुर-रोध - धः अप ६३, ३, १;
-धम् अप ६३, ४, २.

३पुर - पाग ४, १, १२३; १५१.

२पौर - रः ऋध २, ५, ७३.

a) = पुष्प-भेद । व्यु. ? । b) = पुंस्- । c) वैप १ द्र. । d) पुमांस्त्वम् इति पाठः ? यत्नि. शोधः (तु. सप्र. शौ ३, २३, ३ शाश्रु १, १९, ७) । e) पाभे. वैप १, २०३२ g द्र. । f) एकतरत्र पुमांसं व° इति पाठः ? यत्नि. च संव° इति च शोधः (तु. BC.) । g) वैप १, २०३२ k द्र. । h) = दशरात्र-याग- । i) उस्- उप्. < √ष (<स)द् । शा° इति स्तः । j) वैप १, २०३३ h द्र. । k) = पुरस् । l) वैप ३, ५२५ t द्र. + m) पुद्- इत्यनेन सन्यायता द्र. । n). विप., न्याप. । तत्रभविकः अण् प्र. । o) व्यप. । व्यु. ? ।

१पौरिय- पा ४,१,१२३.
 पौर्य- पा ४,१,१५१.
 पुरक^१-(>पुरका-वन्<)>[ण- पा.)
 पाग ६,३,११६.
 पुरग- पाग ४,२,८०; ६,३,११६.
 पौरगीय- पा ४,२,८०.
 पुरगा-व(न<)>ण- पा ६,३,११६;
 ८,४,४.
 १पुरण- पाठ २,८१.
 २पुरण- (>√पुरण्य पा.) पाग ३,
 १,२७.
 पुरंदर- पुर- द्र.
 †पुर(स्<)>न्-धि^१- -धिः आपमं
 १,३,३; पाग १,६, ३; आमिष्ट;
 या ६,१३६; ११,२; -धिम् आश्रौ
 ३, ७, १४; शाश्रौ ८, १८, १९;
 १४, ७१, ४; आपश्रौ; या ६, १३;
 १७; -धी^१ अप ४८, ६०; निघ
 ३, ३०; -ध्या या १२, ३०;
 ऋप्रा ८, २८.
 पुरन्धिया^१ वृदे ३, ७९.
 पुरन्धि^१->°न्धि-मात्र- -त्रे विघ
 ९९, १४.
 पुरस्^१(;:;श्) पा १, ४, ६७; ५, ३,
 ३९; पाग १,४, ५७; ५, १, १२४;
 †आश्रौ ४, १३, ७; ८, १४, ४;
 शाश्रौ; आपश्रौ १३, २४, १९†^१;
 बौश्रौ ४, ११: २२†^१; वैश्रौ १६,
 २८: ७†^१; हिश्रौ १०, ५, ४८^१;
 वाघ १, १५†^१; बौध १, १,
 २८†^१; या २, १२; ९, १६†^१;
 पुरःऽपुरः हिश्रौ ४, १, ३१.

पौरस्य- पा ४,२, ९८; -स्यः
 वैश्रौ १४, ४: २; -स्यत् वैश्रौ
 १४, ४: ३; ७^१; -स्ये वेज्यो १६.
 पौरस्य- पा ५, १, १२४.
 पुर-उपरिष्टाज्-ज्योतिष्मती^१- -ती
 अग्र ४, ३८.
 पुर-उष्णिह^१- -ष्णिक् शाश्रौ ७, २७,
 ३; निसू १, २: ८; २, ११: २७;
 २८; ऋग्र; -ष्णिहः शाश्रौ ७,
 २७, २१; अग्र ५, २७; -ष्णिहौ
 ऋग्र २, ८, ९८; अग्र २, २४†^१;
 ६, २; १५, १४.
 पुरउष्णिक्-बृहत्त्य(ती-अ)
 लुष्टुब्-अन्त^१- -न्तम् ऋग्र
 २, ८, ३०.
 पुरउष्णिग्-अन्त^१- -न्तः ऋ २,
 ८, ४.
 †पुर-युत्^१- -ता आश्रौ ४, ४, २;
 १२, २; शाश्रौ ५, ६, २; काश्रौ;
 -तारः शुप्रा २, ६१; -त्रा शाश्रौ
 १५, २७, १.
 पुरः-ककुम्मती^१- -ती अग्र ७, ७०;
 १९, ४०.
 पुरः-पर-शाकर (र<)>रा^१- -राः
 अग्र १३, १.
 पुरः-परोष्णिह^१- -ष्णिक् अग्र
 ७, ६७.
 पुरः-प्रसवण^१- -णाः ऋप्रा ४, ५०†^१.
 पुरः-शाकरी^१- -री अग्र ४, २९.
 पुरः-शाकव(र<)>रा^१- -रा अग्र
 १३, २.
 पुर(स्<)>श्-चक्र^१- -कम् आपश्रौ

१२, ७, २; वैश्रौ १५, ८, ८.
 †पुरश्चर^१ आपश्रौ १, ६, २; १५,
 ४, १२; ५, ४××; बौश्रौ.
 पुरश्चरण^१- -णः कृअप ७०, २, १;
 ९, २; -णम् बौश्रौ २, ६: २;
 अग्र २२, १०, ४; ४१, ३, ९; -णे
 निसू १०, ११: २.
 पौरश्चरणिक- पा ४, ३, ७२.
 पुरश्चरण-शोधित- -ताः अग्र
 ६८, ५, २४.
 पुरस्√कृ, पुरोऽकुरुत वाधूश्रौ ४,
 ३०: १३; पुरस्कुर्वीरन् काश्रौ
 २२, ५, २९; ११, ८; लाश्रौ ८, ७,
 ४××.
 पुरः...अकृत वाधूश्रौ ४,
 ३०: १५.
 पुरस्-कृत- -तः वृदे ७, ७६.
 पुरस्, -कृति^१- -तिः अग्र ८,
 ५; ९, १०; ११, २.
 पुरस्कृति-त्रिष्टुब्-बृहती-
 गर्भा^१- -र्भा अग्र ५, १०.
 पुरस्-कृत्य आपश्रौ १३, २२, ५;
 बौश्रौ १८, १०: २२; १७: २७;
 माश्रौ.
 पुरस्-तात्^१ आश्रौ १, ६, ४; ११,
 ५××; शाश्रौ १, २, २××;
 १५, २६, १†^१; काश्रौ;
 आपमं २, ५, १२†; माग १,
 २२, ११†; हिग १, ७, १०†;
 गोग ३, ८, ५†; या १, ४; ३,
 १५; १६××.
 पुरस्तात्-चुबुक^१- -कम् आपश्रौ

- a) तु. पाका. 1 पुरग- इति भारखा. प्रसृ. 1 b) वैप १ द्र. 1 c) पामे. वैप १, २०३४ g द्र. 1
 d) = यावा-मृथिवी- 1 e) पुरन्धिद् योषा (मा २२, २२) > छन्दोदिशा यनि. 1 f) = स्त्री- 1 व्य. ? < २पुर-+
 √घ इति अभा. 1 g) पामे. वैप १, १८९१ k द्र. 1 h) पामे. वैप २, ३३६. प्रति तैआ १, ६, १ टि. द्र. 1
 i) विप. 1 द्रस. > बस. 1 j) = छन्दो-विशेष- 1 बस. 1 k) षे इति पाठः ? यनि. शोधः 1 l) द्रस. > मज्जे.
 कस. > बस. 1 m) विप. 1 बस. 1 n) विप. 1 उस. 1 o) अस. वा. क्वि. 1 p) वैप २, ३३६. द्र. 1
 q) पामे. वैप २, ३३६. पुरः एषा ७, १८ टि. द्र. 1 r) = पूर्वादिश-

१६, २७, ७; वैश्रौ १८, १९; १०.
पुरस्ताज्-जप- -पः शांश्रौ १,
१, ३८^a; ७, २, १५; द्राश्रौ ५,
३, १४; लाश्रौ २, ७, १३; -पम्
द्राश्रौ ५, ३, २३; लाश्रौ २, ७,
२०; जैगृ १, १४; २; -पात्
द्राश्रौ ५, ४, १८; २३; लाश्रौ २,
८, १८; २२; -षेषु निसू २, ९;
१४.

पुरस्ताज्जपो (प-उ)परिष्ठा-
जप- -पौ द्राश्रौ ५, ४, १५;
लाश्रौ २, ८, १५.

पुरस्ताज्-ज्योतिषमती^b- -ती
अत्र ४, २९; ८, ३; १९, ५५.

पुरस्ताज्-ज्योतिस्^c- -तिः
छसू^d २, १२; १५; १८; निसू १,
२; १६^d; अत्र; -तिषम् शुत्र
२, ३१०.

पुरस्तात्-ककुम्मती^b- -ती अत्र
१२, २.

पुरस्तात्-तिर्यञ्च- -र्यञ्चौ
बौश्रौ १७, ३०; २^b.

पुरस्तात्-पृथ्व्य^b- -पृथ्व्याः
आपश्रौ २३, ९, १३; हिश्रौ १८,
३, १६.

पुरस्तात्-अस्तारपङ्क्ति^b-

-ङ्क्तिः अत्र ८, ८.

पुरस्तात्-स्तोम^b- -अः लाश्रौ

७, १, १०; २, १५; -अम् लाश्रौ

७, ७, २७; निसू ५, १; १९;

-भाः लाश्रौ ७, ३, १२; निसू

६, ७; ११; -भानि निसू २,

३; ३; ६; १०; -भेन लाश्रौ

७, ६, २२.

पुरस्तात्-स्वाहाकृति^b- -तिम्

बौश्रौ ४, ७; १३; ११, ५; ७;

१५, ३१; ७.

पुरस्ताद्-अग्निष्टोम^b- -मः

वैताश्रौ ४२, १७; -माः शांश्रौ

१६, ३०, १२.

पुरस्ताद्-अलङ्कार^b- -राः

आपश्रौ ६, ३, २; हिश्रौ ३,

७, १२.

पुरस्ताद्-आपन्न- -न्नानि निसू

६, ९; २३.

पुरस्ताद्-उदक^b- -कम् बौश्रौ

२५, ५; २^f.

पुरस्ताद्-उपयाम^b- -माः

आपश्रौ १२, १६, १३; हिश्रौ ८,

४, १२; -भेन आपश्रौ १२, १५,

३; वैश्रौ.

पुरस्ताद्-ग्रन्थि^b- -न्थि काश्रौ

२, ७, १६; माश्रौ १, ३, ५, २५.

पुरस्ताद्-धो (<हो)म^b- -मः

कौसू ३, १९; -माः कौसू ४७,

८; ६८, ३०; अप्राय १, २^g; २,

१^h; २-४; ७ⁱ; ८; -मान् वैताश्रौ

२, १०^j; ९, ९×४; कौसू.

पुरस्ताद्-धोम-वत्- -वसु

कौसू ८, १.

पुरस्ताद्-धोम-संस्थितहोम-

-मान् कौसू ८०, २९; ४०;

-मेषु वैताश्रौ १, ४; ८, ५.

पुरस्ताद्-धोम-संह (त >)

ता- -ताम् कौसू ४, ९.

पुरस्ताद्-बृहती^b- -ती निसू

१, २; २०; ऋश्र १, ७, २ शुश्र;

अश्र ९, ६(२); -त्यौ अश्र ८,

२; १४, २.

पुरस्ताद्-बार्हत^l- -न्तम् ऋश्र

२, १०, २२.

पुरस्ताद्-बृहत्य (ती-अ)न्त^b-

-न्तम् ऋश्र २, १०, ९३.

पुरस्ताद्-भाग, गा^b- -गानि अत्र

१, ५, १; ६; -गाभिः बौश्रौ ६,

१४; ४.

पुरस्ताद्-वर्जम् काश्रौ ७, १, १२.

पुरस्ताद्-विराज^b- -राद् अत्र

१२, २.

पुरस्ताच्-वास^l- -सम् बौश्रौ

१७, २६; १.

पुरस्ताल्-लक्ष (ण >)णा^b- -णा

आश्रौ २, १४, १९; शांश्रौ १,

१७, १६.

पुरस्ताल्-लक्षमन्^b- -क्ष्मा

आपश्रौ १९, १८, ९; २४, १३, ८;

बौश्रौ २६, ४; १३; हिश्रौ २२,

२, ५.

†पुरः, सू^l-सद्^l- -सदः आपश्रौ

१८, ९, ११; बौश्रौ १२, ४; ४;

वाश्रौ; बौध ३, ६, १३; -सदे

वाश्रौ ३, १, २३; चाश्र १५; ४.

पुरः-सर- पा ३, २, १८.

पुरो(रस्-अ)क्ष^m- -क्षम् आपश्रौ

११, ११, १; १२, ७, २^g; १८, २,

९; बौश्रौ.

†पुरो-ग^l- -गाणाम् आपश्रौ १२,

२०, ८; बौश्रौ ७, १०; १२;

वैश्रौ.

पुरो-गम^b- -मान् वैताश्रौ ९, १२.

†पुरो-नाव^l- -वः कौसू १०४, २.

†पुरो-गा^l- -गाः बौश्रौ १४, १२.

a) विप. > नाप. । बस. । b) विप. । बस. । c) = छन्दो-भेद- । बस. । d) = षडह-विशेष- ।

e) तु. Thibaut, JASB (४४, ३६५) । f) पामे. पृ १५५६ b द. । g) वैप २, ३६६. द. । h) त्रिप. नाप. (छन्दस्-) । i) पृ ५०२ k द. । j) = कर्म-विशेष- । बस. । k) बौध. चाश्र. पाठः । l) वैप १ द. अ.

अस. वा. क्रि. वि. । m) उस. उप. कर्त्तरि. प्र. ।

१४; १५; १९, ७; ५२; वैश्रौ
१५, १० : ८; हिश्रौ ८, २, ४३;
या ८, २१६; -गाम् आपश्रौ
५, ८, ६; बौश्रौ २, १५ : ९;
वाश्रौ १, ४, १, २०; हिश्रौ ६, ५,
१०.

पुरो-गामिन्- -मी या ८, २१.

पुरो-अन्थि^a- -न्थि आपश्रौ २, ८, १;

बौश्रौ १, १३ : ८; भाश्रौ.

पुँपुरो-जिति^b- -ती^c क्षुस् १, ३ :

५; १२××; निस्; -त्याम्

लाश्रौ ८, ५, २१.

पुरो(रस्-अ)तिजगती^d- -ती अअ

५, २९; ११, १.

पुरो(रस्-अ)तिजाग(त>)ता^d- -ता

अअ ११, ५^e.

पुरो(रस्-अ)ति-शक्करी^d- -री अअ

४, ४०; ९, ५.

पुरो-देवता->व(त्य>)त्या-

-त्वे अअ २, २४.

पुरो-द्वयतिजाग(त>)ता^d- -ता

अअ १३, २.

पुरो>धा>पुरो-धस्- पाठ ४,

२३१; -धसः क्षुअ २, २१;

-धसम् अप ५८^३, ४, ७; -धसा

अप ७, १, १; ३१, २, २; -धसि

अप ६४, १०, ६; -धसु अप ७०,

२, ४; -धाः अप २, ५, २; ३, १,

१०; वृदे ६, १४९.

पुरोधस्-त्व- -त्वे अप ४, १,

२१.

पुरो-धा^b- -धाम् शाश्रौ १६, २९,

६; ११; क्षुस् २, ४ : १; निस्

७, १ : ६; -पुँधायाम् आपश्रौ

१६, १, ३; पाण्ड १, ५, १०;

आमिण्ड १, ५, २ : ३५.

पुरोधाकाम- -नः आपश्रौ

२, १९, ५; २२, ७, ६; भाश्रौ;

-मस्य शाश्रौ १६, २९, १०;

काश्रौ २२, ११, १४; हिश्रौ २,

२, १८.

पुरोधाकाम-यज्ञ- -ज्ञः

निस् ७, १ : ३.

पुरो-धातृ- -तुः वृदे ५, ६.

पुरो-धास्यमान- -नः शाश्रौ १४,

२९, २.

पुरो-हित^b- -पाग ४, ४, ४८; ५,

१, १२४^d; १२८; -तः आश्रौ

२, १, २१६; शाश्रौ; या २,

१०; १२६^f; २४; ७, १५;

-तम् पुँआश्रौ १, ३, २७;

२, १, २६; शाश्रौ; या ७,

१५६; -तस्य आपश्रौ २, १६,

१०; १८, १२, ३; काश्रौ; -ता

आश्रौ ९, ११, १९६; -ताः अप

५१, ४, ३; -तान् अअ २, १०,

५६; वृदे ७, ८५; -ताय आपश्रौ

१८, १८, १४; हिश्रौ; -ते बौश्रौ

१८, २ : १५; अप ५, ५, ५××.

पौरोहित- पा ४, ४, ४८.

पौरोहित्य- पा ५, १,

१२४; १२८; -त्ये कौस् १७,

३०; अप ३, ३, ३; ४.

पौरोहित्य^f- -स्यान्

आश्रौ १, ३, ३.

पुरोहित-कर्मन्- -मणि अप

४, १, १.

पुरोहित-कुल- > लीन^g-

-नस्य क्षुस् २, ४ : १.

पुरोहित-गोत्र-प्रवर^h- -रः

वैध ४, ८, १३.

पुरोहित-प्रवर- -रः आश्रौ

१२, १५, ४; बौश्रौ २४, २८ : ४;

बौश्रौप्र ५४ : ३; -रेण शाश्रौ

१, ४, १७; वाश्रौ १, ३, ४, २०;

हिश्रौ २, १, ५७; २१, ३, १७.

पुरोहिता(त-अ)मात्य-नृप-

-पाः अप ६४, ४, १.

पुरोहिता(त-अ)र्षेय- -येण

काश्रौ ३, २, १०.

पुरो-हिति^b- -तिः ऋप्रा ४, ९,

३६.

पुरोहिति(क >)का- (>

पौरोहितिक- पा.) पाग ४, १,

११२.

पुरो-धत्य(ति-अ)नुष्टुब्-ग-

(र्भ>)र्भाⁱ- -र्भा अअ ५, १०^j.

पुरो(रस्-स्)नुवाक्या^b- -क्यया

भाशि ४८; -क्या आश्रौ ३, ९,

३; शाश्रौ; -क्याः शाश्रौ ५, १६,

२; ६, ११, १२××; आपश्रौ;

-क्याभिः क्षुप्रा ३, ९२; -क्याम्

शाश्रौ ९, २५, २; आपश्रौ;

-क्यायाः आश्रौ २, १५, १४;

शाश्रौ; -क्यायाम् बौश्रौ ३, १७ :

१७; २४ : १३; -क्यासु हिश्रौ

२१, २, ३१; -क्ये शाश्रौ ३, १६,

८; ७, २, २××; आपश्रौ.

पुरोनुवाक्या(क्या-अ)धिकार-

-रः मौस् ३, ७, ४५.

पुरोनुवाक्या-लक्षण- -णानि

शाश्रौ १, १७, १४.

a) = पुरस्ताद्-अन्थि- । b) वैप १ द. । c) वैप १, २०३७ W द. । d) विप. । बस. । e) तु) वागम. । f) विप. (आर्षेय-) । तस्येदमीयः व्यः प्र. उंस. (पा ४, ३, १२९) । g) ख > ईनः प्र. (पा ४, १, १२९) । h) विप. । बस. > दस. । i) विप. (अतिजगती) । बस. > कस. > बस. । j) ष्टितिद्वयनु इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सत. W. च) ।

पुरोनुवाक्या-वत् शांश्रौ ३, ७, ७.
 पुरोनुवाक्या-व(त्)ती- -तीषु
 हिश्रौ ८, ६, ८.
 पुरोनुवाक्या-संप्रैष- -वः हिश्रौ
 ८, ६, ८^३; २१, २, ३५; -षात्
 हिश्रौ २१, १, ७.
 पुरो(रस्-अ)नुष्टुम्^b- -ष्टुप् अत्र
 १, २५; ३, ५×५.
 पुरो-बृहती^b- -ती अत्र ८, २; १०,
 ११×५; -त्यौ अत्र १२, १.
 पुरोबार्हत्(त>)ता- -ता अत्र
 १२, १^१.
 पुरोबार्हत्ता(त-अ) तिजागत-
 ग(भि>)र्भा^d- -र्भा अत्र ११,
 ५.
 पुरो(रस्-अ)भिकृति^b- -तयः अत्र
 १०, ५.
 पुरो-भू^d- -भूः वाश्रौ २, १, ७, १८^१.
 पुरो-मुख^b- -खम् कौसू ९१, ३.
 पुरो-यावन्^d- -वानम् ऋषा ५,
 ५३^१.
 ऋपुरो-युष्^d- -युषा आश्रौ ८, १३,
 २३; आपश्रौ २१, १२, ९; वाश्रौ.
 ऋपुरो-नथ^d- -यम् आश्रौ ६, २, ६;
 शांश्रौ ९, ६, १२; बौश्रौ.
 पुरो-रुच्^d- -रुक् आपश्रौ १९, २,
 ८; ६, १५; ७, ३; वैश्रौ; -रुभ्यः
 आश्रौ ५, १०, ७; -रुचः शांश्रौ
 ७, १०, ३; आपश्रौ; -रुचम्
 शांश्रौ ७, ९, २; बौश्रौ; -रुचा
 बौश्रौ १४, ७; ३१; ३४; -रुचाम्

आश्रौ ५, १०, ४.
 पुरोरुग-गण- -गः शुभ्र ३, २१७;
 २३३; २४४.
 ऋपुरो-वसु^d- -सुः बौश्रौ ७, १४;
 ३४; वैश्रौ १५, २६; १०;
 ३२; २; हिश्रौ ८, ६, २६; आपमं
 १, ७, १०; -०सो माश्रौ २, ४,
 १, ३३.
 ऋपुरो-वात^d- माश्रौ^f ५, २, ६, ४;
 ६, २, २, ९; -तः आपश्रौ १९,
 २६, १^१; बौश्रौ; -ऋतम् काश्रौ
 ४, ५, १७; आपश्रौ.
 ऋपुरोवात-सनि^d- -निः आपश्रौ
 १७, ५, ५; बौश्रौ १०, ४५; २४;
 वाश्रौ.
 पुरो-विराजू^b- -राट् अत्र २, ५; ६,
 ६८; ११, १; १८, ४^२.
 पुरो(रस्-अ)ष्टि^bग- -ष्टिः अत्र ४,
 २९,
 पुरो(रस्-उ)ष्णिह^b- -ष्णिकु अत्र ४,
 ४^१; ११, ७; १३, १^२!; १४, २^१!
 पुरो-हविस्^d- -विः वाधूश्रौ ४,
 ९० : ३; -ऋविषि आपश्रौ १०,
 २०, ५; बौश्रौ.
 पुरा^d ऋआश्रौ ३, ३, १; ४; ५, ५,
 १८×५; शांश्रौ; या ३, १५^१;
 १९; ४, १७^१×५; पा ८, १,
 ४२; पुरा-पुरा माश्रौ ५, २, ९, ५.
 पुरा-कल्प^b- -ल्पः आपश्रौ २४, १,
 ३३; हिश्रौ १, १, ११.
 पुरा(रा-अ)प्रसिद्ध¹- >द्वा (द्व-

आ)श्रय-पूर्व-सिद्धि^m- -द्विसिः
 ऋषा ११, ६६^१.
 पुरा(रा-अ)प्रसिद्धि^k- -द्वेः ऋषा
 ११, ६९.
 पुरा-रञ्जन^o- -नयोः अप ६८, २,
 ३०.
 पुरा-वृत्त- -त्तः वृदे ४, ४६.
 पुरो(रा-उ)दक^b- -कम् बौश्रौ २,
 २ : २३.
 पुरो(रा-उ)दय^b- -यम् वैश्रौ २, २ :
 १०; हिश्रौ ३, ४, २×५; -ये
 वैश्रौ १८, १२ : ५.
 पुराग- (>पौरागीय- पा.) पाग ४,
 २, ८०.
 पुराण^d- पाग २, ४, ३१; ४, १, ४५;
 -०ण विष १, ५१; ५६; ९८, ६२;
 -णः या ८, १९; १२, ३२;
 -णम् आश्रौ ९, ११, २०^१; १०,
 ७, ८^१; शांश्रौ १५, ८, २१^१;
 १६, २, २७^१; १७, ६, २^१; काश्रौ;
 शंघ ११६ : ३८^१; गौघ ११,
 २१^१; या ३, १९^१; ४, १९; १०,
 ३; -णस्य अप ४८, ७०; निघ
 ३, २७; -ऋणाः आपश्रौ ४, ७, २;
 भाश्रौ; आश्रिण ३, ४, १ : १४^१;
 बौषि^f १, ४ : १०; १५ : ३; -णान्
 आपश्रौ ५, २७, ९; हिश्रौ; या
 १२, २९^१; -णानाम् काश्रौ ४
 ६, ८; आपश्रौ ६, २९, ७; भाश्रौ;
 वैघ ४, १, १२^१; -णानि वैघ ३,
 १६ : २; कप्र २, ४, १५; -णे

- a) संप्रे^o इति पाठः? यनि. शोघः । b) विप. । बस. । c) विप. । कस. > बस. । d) वैप १ द. ।
 e) पाभे. वैप १, २० ३९ इ. द. । f) पुरोवातसनि- इत्यस्य पूर्ववियवः द. । g) प^o इति पाठः? यनि. शोघः
 (तु. अष्टि- इति सात. w. [शौ ४, २६]) । h) संधिरार्थः । i) अधिकः पाठ इति कृत्वा परिहाराम्बकः शोघः
 (दु. सात. w. एतदभावः) । j) प^o इति पाठः? यनि. शोघः । k) सुखुपीयः समासः । l) उप. = अ-प्रसिद्धि-
 इति कृत्वा भावे क्तः प्र. । m) दस. > बस. > कस. । n) मूको. अनु 'सिद्धयाश्रय' इति संभाव्येतेति मङ्गलदेवः ।
 o) अर्थः व्यु. च ? । p) अस. वा. क्वि. । q) = वाङ्मयीयविभागविशेष- । r) पाभे. वैप १, २० ४० II द. ।
 s) पाभे. वैप १, २० ४० O द. । t) = ऋषि-विशेष- । पौराणाम्-इति पाठः? यनि. शोघः ।

शांश्रौ ४, १५, ८; वैश्रौ; आपघ
१, १९, १३^२; २९, ७^३; २, २३,
३^३; हिध १, ७, ६३^३; २, ५,
१५८^३; -णेन आमिगृ ३, ६, ४:
४; हिपि १५ : २०; जैगृ १,
२४ : १; या ९, ४३^३; -णैः
शांश्रौ १६, १, २५; वैश्रौ.

पुराणी- पा ४, १, ४५.

पौराण- -०ण वैध ४, १, १२^३;
-णम् बौध १, २, १^०.

पौराणिक- पावा ४, २, ६०.

पुराण-गार्हपत्य- त्यः बौश्रौ १८,
२४ : १६; -त्यम् बौश्रौ २१,
१५ : ३३; २५, ११ : १९; २६,
७ : ३.

पुराण-वृत्-दिग्घा(ग्घ-अ)ङ्ग-
ङ्गः अप ६८, ५, १४.

पुराण-दृष्ट- -ष्टाः वाध १७, १२.

पुराण-नव- -वयोः या ४, १७.

पुराण-नामन्- -मानि निध ३, २७;
या ३, १९.

पुराण-प्रोक्त- -क्तेषु पा, पावा ४, ३,
१०५.

पुराण-भस्मन्- -स्मनः बौश्रौ १७,
३५ : ५; ३६ : १६.

पुराण-वत् निसू १, ७ : २०; वैध
४, १, १२.

पुराण-विद्या- -द्या आश्रौ १०, ७,
८^१.

पुराण-वेद- -दः शांश्रौ १६, २,
२७^१.

पुराण-सर्पिस्- -र्षिषा बौपि १, १३ :
५.

पुराणा(ण-अ)चार्य- -र्यान् पागृ २,
१२, २.

पुराणा(ण-अ)र्थ- -र्थम् अप ४६,
२, ९.

पुराणे(ण-इ)तिहास-वेदाङ्ग-धर्म-
शास्त्र- -स्त्राणि विध ३०, ३८.

पुराणे(ण-इ)तिहास-व्याकरण-
पार-ग- -गः विध ८३, ७.

?पुरारब्धादीनि निसू ३, १२ : ३४.

पुरि- पाउ ४, १४३.

पुरी(<रि.)-तत्^०- पाउभो २, १,
२६०; -कृतम् आश्रौ ७, २२,
६; २४, १२; भाश्रौ; -तता शुप्रा
३, १२९^३.

पुरीष, षा^०- पाउ ४, २७; पाग ५, २,
३६; -षम् शांश्रौ १०, ६, १३^६;
काश्रौ; बौश्रौ ४, २ : २०^३; हिश्रौ
११, १, ३१^१; ४^२; ४^२; या२, २२^३कृ^३;
-षम् ऽ-षम् बौश्रौ २५, २७ :
२९; २८ : १८; -षस्य बौश्रौ
१०, ३९ : २; ४१ : २××; वैश्रौ:
-षाः निसू ४, २ : १३; -षात्
वैताश्रौ ६, १^३; -षान् वैश्रौ
२१, १० : ८; -षे आपश्रौ १६,
१३, ३; वाश्रौ; पा ४, ३, १४५;
-षेण काश्रौ १७, १२, २४;
काठश्रौ; -षेषु लाश्रौ ७, ५, ७; ८,
७; -षैः वाध ३, ५९; आपशु
१०, ९; हिशु ३, ४८^३.

पुरीष-चिति^१- -तिः बौश्रौ १७, २४:
३; ५-८××; -तिम् बौश्रौ २२,
८ : २; -तेः बौश्रौ २२, ८ : १.

१पुरीष-पद^६- -दम् वृदे ८, १०२;

-दानि आश्रौ ७, १२, ११; निसू
४, १ : २५; उनिसू ६ : ३१;

-दैः निसू ४, २ : १.
२पुरीष-प(द>)दा^१- -दाः साअ
१, ६४२.

पुरीष-प्रवृत्ति- -ति वाश्रौ २, २,
२, २०.

पुरीष-भक्षण- -णम् अप ६४, ५,
२; -णे सुध ४४.

पुरीष-वत्- -वन्तम् हिश्रौ ६, १, ६.
पुरीषवती- -ती बौश्रौ २६,
२९ : १७-१९; -तीम् काश्रौ
१७, ७, १; आपश्रौ २, २, ७; १७,
३, ३, बौश्रौ; -त्याः काश्रौ १७,
१२, १५.

पुरीष-वाहन^०- पा ३, २, ६५; -नः
बौश्रौ १०, ४ : १३.

पुरीष-न्यूहन- -नम् बौश्रौ १९,
१० : ५७.

पुरीष-सहि(त>)ता- -ते काश्रौ
१७, १२, १५.

पुरीषा(ष-अ)च्छ(ञ>)ञा- -ञाम्
वैताश्रौ २९, ५.

पुरीषा(ष-अ)घान^३- -नम् विध
९६, ९१.

पुरीषा(ष-अन्त>)न्ता^१- -न्ता
आपशु १०, ९; हिशु ३, ४८;
-न्ताः बौश्रौ १९, ८ : ४.

पुरीषा(ष-अ)हरण- -णम्
काश्रौ १६, ५, १०.

पुरीषा(ष-अ)हुति-सहस्र- -स्रम्
गोश्रु ४, ९, १२.

पुरीषित- पा ५, २, ३६.

a) वाङ्मयीयविभागविशेष- । b) व्यप. । c) तस्येदमीयः अण् प्र. । d) सपा. णविद्या

<> णवेदः <> माश १३, ४, ३, १३ पुराणम् इति पाभे. । e) वैप १ द्र. । f) पाभे. वैप १, २०४१ द्र. १।

g) ऋक्पादविशेषसंज्ञा- । h) पू^० इति पाठः? यनि. शोधः । i) पाठः? (तु. टि. सामपुरीषम् [आपश्रौ १७, २५, ४]। j) वैप २, ३खं. द्र. । k) = (महानाम्नीषु पुरीषस्थानीय-).संघायक-पद- (तु. आश्रौ. भाष्यम्) ।

l) विप. । बस. । m) = शरीरस्थानविशेष- । उस. उप. अधिकरणे कृत. ।

†पुरीषिन्- -षिणः आश्रौ ६, २,
६, २६; वाश्रौ २, २, ५, १४;
चात्र ३० : ७; -०षिणः आमिण
२, ५, १० : ३०.

†पुरीष्य^१- -०ष्य आश्रौ २, ५,
१२; शाश्रौ २, १५, ४; आमिण
२, ७, ३ : १३; ३, १०, ३ : २१;
-ष्यः आश्रौ २, ५, १२; शाश्रौ;
-ष्यम् काश्रौ १६, २, ११; १३;
३, १२; आपश्रौ; -ष्याः आपश्रौ
१७, २३, १२; बौश्रौ; -ष्यासः
माश्रौ ४, ८, २०; वाश्रौ; वैश्रौ
१८, १६ : ३०^१; -ष्येभ्यः ऋअ
२, ३, २२.

पुरीष्य-चित्ति- -तये आश्रौ ४,
८, १८.

पुरीष्य-वाहन- पा ३, २, ६५.

१पुरु^२- पाज १, २३; -रु †आश्रौ
४, १३, ७; ६, ४, १०; †शाश्रौ
६, ४, ९; १, १२, ४; १८, ३, २०;
निसू; या २, ११; ५, ७^१कृ; ६,
२१^१कृ; -रुः बौश्रौ १८,
१४ : ६^१; -†रुणि आश्रौ ३,
१०, ६; ४, १, २३; आपश्रौ;
वैताश्रौ २४, १०.

पुरु-काम- -मः या ६, ४.

पुरु-कुत्स^३- पाग ४, १, १८; १०५.

पौरुकुत्स^३- -०त्स^३ आपश्रौ
२४, ८, ९; बौश्रौप्र २० : ४.

पौरुकुत्स्य- पा ४, १, १०५;
-०त्स्य^३ आश्रौ १२, १२, २; वैष
४, ३, ४; -त्स्यः ऋअ २, ४, ४२;
ऋप्रा १८, १^१.

पौरुकुत्स्याय(न>)नी-
पा ४, १, १८.

पुरुकुत्स-वत् आपश्रौ २४, ८, ९;
बौश्रौप्र २० : ५; वैष ४, ३, ४.

†पुरु-त्तम^४- -मम् काश्रौ २, ४३^१कृ;
-मस्य शाश्रौ १०, १०, ५; १४,
२४, ४×४; -मानि आश्रौ ८, ७,
२३; शाश्रौ १२, ५, ५; -मासः^४
आश्रौ ४, ७, ४; शाश्रौ ५, १०, ८.

‡पुरुता- -ता अप्रा ३, ४, १^१.

†पुरु-त्रा शाश्रौ १३, १२, १३;
आपश्रौ ३, १३, १; २४, १२, ६;
बौश्रौ; या ९, १३^१कृ; पा ५, ४,
५६.

†पुरु-दंस^५- -सम् आश्रौ ३, ५, ९;
आपमं १, ७, २; तैप्रा १६, १९.

पुरु-दंसस^५- पाजमो २, १, ३४५.

†‡पुरुदस्मो^६ काश्रौ २५, १०, १५;
शुअ १, ५१८.

†पुरु-धा^७ आश्रौ ४, १, २३; आपश्रौ
७, ६, ७; बौश्रौ; वाश्रौ १, ६,
२, ४^१; या १०, ३४^१कृ.

पुरु-नृष्ण^८- -ष्णाय ऋप्रा ५,
५१^१.

पुरु-पञ्च-विट्-कुल^१- > ०ला(ल-अ)
म्बरीष-बहुयाजिन्- -जिनाम्
शांश्र १, १, ८.

पुरु-प्रजात^९- -तस्य ऋप्रा ८, ४२.

†पुरु-प्रिय^९- -यः या ५, २; शुप्रा
४, ७, ३; -या शाश्रौ ११, ९, ३;
ऋप्रा ५, ५८.

पुरु-भुज^{१०}- -०भुजा ऋप्रा ७, २३.

†पुरु-भोजस^{१०}- -जाः अप ४८,

१०१; निघ १, १०.

पुरु-मनस्^{११}- -नाः या ९, १५.

पुरु-मीढ, ल्ह^१- -ढः साअ १, ६, ४९;
२, १०४; -ल्हम् वृदे ५, ६१;
८०.

पौरुमीढ, ल्ह^१- -ढम् निसू
५, ९ : २३; -ढे लाश्रौ ७, ८,
१४; -ल्हम् शाश्रौ १२, ९, १७.

पुरुमीढ^{१२}, ल्हा (ल्ह-अ) जमीढ,
ल्ह- -ल्हौ ऋअ २, ४, ४३; शुअ
३, ८९; १८०; अत्र २०, १४३.

पुरु-रथ^{१३}- -थः या ११, २३^१कृ.

†पुरु-रावन्^{१४}- -रावन्ः^{१४} द्राश्रौ ६,
४, ८; लाश्रौ २, १२, ९.

†पुरु-रूप, पा^{१५}- -रूपम् आमिण २,
५, ३ : २०; बौगृ ३, ७, १६;
-पाः हिश्रौ १०, २, ८.

†पुरु-वर्षस^{१६}- -र्षसम् या ११,
२१^१कृ^०.

†पुरु-वार^{१७}- -०र ऋप्रा १४, ४०.

पुरु(>)श्-चन्द्र^{१८}- -न्द्रम् उसू
६, ५^१.

†पुरु-वन्ति^{१९}- -न्तिम् ऋप्रा ५,
३०; १४, ४०; -न्तो निसू ९,
९ : १०^१; -न्त्योः उसू ५, ३.

†पुरु-ष्टु(< स्तु)त^{२०}- -०त आश्रौ
५, ४, ३; विघ ९८, ३५^१; -तः
अप १, ४०, ५; अशां १०, ५;
-तस्य वैताश्रौ ३२, ३.

पुरु-संभृत^{२१}- -तम् आमिण २, ३,
५ : २०^१.

†पुरु-स्पृह^{२२}- -स्पृक् शाश्रौ १८,
१, ८.

a) वैष १ द्र.। b) ष्यसः इति पाठः? यनि. शोषः (तु. ऋ ३, २२, ४)। c) पाभे. वैष १, ९६८ a द्र.। d) वप १, २०४२ i, २०४३ k द्र.। e) पाभे. वैष २, ३खं. पुरुषि तैत्रा ३, ७, १३, १ टि. द्र.। f) व्यप.। व्यु. ?। g) परस्परं पाभे.। h) वैष १, २०४४ l द्र.। i) श्रोषा इति पाठः? यनि. शोषः (द्र. पूर्वापरे स्थले)। j) बस. > कस. > षस.। k) विप.। बस.। l) = साम-निशेष-। m) शुअ. पाठः। n) वैष १, २०४६ u द्र.। o) पाभे. वैष १, २०४७ g द्र.।

पुरु-हन्मन्^a - न्मा ऋञ् २, ८, ७०;
साञ् १, २४३××; अञ्.

पौरुहन्मन्^b - नम् लाश्रौ ७, ३,
१५; निस् २, २: १८.

†पुरु-हूत्^c - ०त् आश्रौ १, ६, १;
३, ७, ११××; शाश्रौ; या १,
४; ५, २४; -त्: ऋप्रा ७, २३;
-त्म् बौश्रौ २७, ६: ८; या ६,
२७.

पुरु-> †पुरु-तम^d - मम् ऋञ्
२, ६, ४५; ऋप्रा ९, ७; १७, ४८.

पुरु-रव^e - > वा (व-आ)र्द्धव-
वौ शंघ २१०^d.

पुरु-रवस्^f - पाठ ४, २३२; फि
६४; -०व: या १०, ४७^g;

-वसम् शंघ ११६: ६२^g; वृदे
२, ५९; -वसि वृदे ७, १४७;

-†वा: काश्रौ ५, १, २५; आपश्रौ
७, १२, १३; बौश्रौ; या १०,
४६७^h.

पौरुवस्ⁱ - ०स आश्रौ

१२, १५, ५; आपश्रौ २४, १०,
१२; बौश्रौप्र ५२: १; हिश्रौ
२१, ३, १६; वैघ ४, ८, १०^h;

-सौ बौश्रौ १८, ४५: ३६.

पुरु-रवो-वत् आपश्रौ २४,
१०, १२; बौश्रौप्र ५२: २; हिश्रौ
२१, ३, १६; वैघ ४, ८, १०^h.

पुरु-रुच^j - रुचम्^k निस् ८, ६:
२८^l.

†पुरु-वसु^m - सु: आश्रौ ५, ५,
८; ६, १ⁿ; शाश्रौ; काश्रौ ९, ११,
१६^o; २५, ५, ३०^o; -०सो

आश्रौ ७, ४, ४; शाश्रौ ९, ५, ३;
११, ११, ११^o××; वैताश्रौ^o ३९,
९; ४१, १३; ऋप्रा २, ४६; शुप्रा
३, ९७^k.

†पुरु(रु-उ)रु^p - †रुणा आश्रौ ७,
२, २; शाश्रौ १२, १, ३; ऋञ्.

पूर्व(रु-अ)च्, ञ्च->पुरुची^q -
चौ: आपश्रौ ५, १, ७; ९, १२,
४; १४, २२, ३; भाश्रौ.

†पूर्व(रु-अ)णीक^r - ०क शाश्रौ ३,
५, १०; तैप्रा ७, १२.

†२पुरु^s - रु: साध १, ८८.

पुरु-काम- प्रमृ. १पुरु-द्र.

†पुरुध्यवान: वाश्रौ १, ५, ४, २४^l.

पुरुमद्ग^m - > पौरुमद्गⁿ - द्गम्
लाश्रौ ८, ५, ११; निस् ६, १०:
२४; -द्गे लाश्रौ ७, २, १०; १२.

पुरुमीढ- प्रमृ. १पुरु-द्र.

पुरुष^o - पाठ ४, ७४; पाग ५,
१, १३०; पावाग ८, २, १८^o;

-०ष विघ ९८, ८३; -ष:
आश्रौ ३, १०, १०; १०, ९,
२^o; शाश्रौ ४, ५, ८^o; ९, २३,
४; १५, १९, १^o××; काश्रौ;

लाश्रौ ७, ५, ९; निस् ३, १३:
९; ५, ७: ४; कौष्ट १, १२, ६^o;

विघ ९७, १५^o; काश्रु ५, ५^o;

९^o; आपश्रु ९, २; १५, ७; १८,
६; १९, १; ९; बौश्रु १: ८; ८:
६; १०; १३; १५; १७; ६; हिश्रु

३, २१; ५, १०; ६, १०; १६; शुञ्
३, १३३^o; १३७^o; ४, १४५^o;

अध ३, ६^o; या १, १; १२; २,
२××; पा ६, २, १९०; -षऽ-ष:

बौश्रौ ८, १९: १०^o; २, १३:
३०; -षम् शाश्रौ १५, २०, १;

१६, १२, १७; १५, ५; काश्रौ;
शंघ ३७२^o; विघ ९७, १६^o; या

१, १३; ८, २२^o; १४, ६; -षम्
-षम् आज्यो ९, १; -†षस्य

शाश्रौ १२, २०, २; काश्रौ २४,
७, ३३; आपश्रौ १६, २७, १४;

२९, २^o; बौश्रौ; हिश्रौ ११, ८,
४^o; चाञ् १४: ४^o; ३९:

४^o; ४२: १३^o; या ९, २८; १४,
७; -षस्यऽ-षस्य द्राश्रौ ११,

३, १०^o; लाश्रौ ४, ३, ११; -षा:
काश्रौ १७, २, १८; २०, ६, २१;

बौश्रौ; कौष्ट १, १२, ६^o; शाश्रु १,
१९, १०^o; भाग १, १८: ८^o;

जैगृ १, २२: ७^o; -†०षा:
बौश्रौ १०, २: १२; ४: २२;

द्राश्रौ ७, ३, २; लाश्रौ ३, ३, २;
-षाणाम् काश्रौ १, ७, १८; २२,

३, २०; वाधुश्रौ; -षात् शाश्रौ
१२, २२, २^o; काश्रौ १५, ४, २६;

आपश्रौ; पा ४, १, २^o; -षान्

a) वैप १ द्र. । b) = साम-विशेष- । तेनदृष्टीयः अण् प्र. । c) विश्वेदेव-विशेष- । d) सप्र. पुरुवरार्द्धवौ
<>माद्र्घं पुरुवरवसम् इति पाठे. । e) अपत्याद्यर्थे अण् प्र. । f) पौरवस इति पाठः? यनि. शोघः ।
g) ष्वसवत् इति पाठः? यनि. शोघः । h) पाठे. वैप १, २०३९ f द्र. । i) तु. चौसं. । पुरु इति अच्यु. ।
j) पाठे. वैप १, २०३९ k द्र. । k) पाठे. वैप १, २०३९ n द्र. । l) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । पाठः? षू इति
शोघः (तु. ऋञ् २, ५, १६) । m) व्यप. (अङ्गिरस्-) । व्यु. ? । n) = प्रमाण-विशेष- (काश्रु ५, ५ प्रमृ.) । o) तु.
पागम. । p) सपा. वैप २, ३ खं. भवति ऐवा ७, १५ टि. द्र. । q) सपा. षः <> षे इति पाठे. । r) = ऋषि-
विशेष- । s) = देवता- । t) = विष्णु- । u) पाठे. वैप १, २०५१ b द्र. । v) पाठे. वैप १, १०१९ n द्र. ।
w) पाठे. वैप १, २०५२ i द्र. । x) वैप १, १६६४ m द्र. ।

आपश्रौ २०, २४, ७; २५, ११;
माश्रौ; या २, ६; -षाय शाश्रौ
१६, १२, २०; बौश्रौ; -षे आश्रौ
१०, ९, २^१; शाश्रौ १६, ६, १^१;
काश्रौ; शांश्रु १, १९, ६^१; पा
६, ३, १०६; -षेण शाश्रौ १६,
१३, १; आपश्रौ; या २, ३^१;
-षेभ्यः शाश्रौ १६, ९, २२;
आपश्रौ; -षेषु अप ७१, १७,
१०; विघ; -षैः अप ११, २, ४;
१६, २, १; ६८, २, ४५; विघ ५,
१८७; ४३, ३३; -षौ आपश्रौ
९, १४, ७; भाश्रौ ९, १६, १३;
कौसू २०, ३४.

पुरुषी^१ - षी आपश्रौ २०,
१७, ६; बौश्रौ १५, २८ : १८^१;
हिश्रौ १४, ३, ५५; -षीणाम्
ऋषा ९, ४४^१; -षीम् आश्रौ
१२, ६, ३०; आपश्रौ.
पौरुष^१ - पा ५, १, १३०; २, ३८^१;
-षः वाधुश्रौ २, २:५; विघ २०,
१६; -षम् सु ११, ५^१; अप २, १,
२^१; वाध; -षस्य वृदे ७, १४३;
-षाणाम् विघ २०, १९.

पौरुषी - षी अप ५८^३, २,
३; -षीः बौश्रौ २९, १३ : २१;
-षीम् शाश्रौ १३, २९, २१^१;
-ष्यः वृदे ८, १०९.

पौरुषेय - पा, पावा ५, १, १०;
-षीयम् अप ३२, १, १५; अत्र
१९, २०; -षीयात् हिश्रु १, ११,
८; कौसू ५५, १६; -षेण कौसू
११२, १^१.

पौरुषेयी - श्याः शुप्रा ४,

१५३^१.

पौरुष्य^१ - ल्यम् अप ३१, २, ५;

शुप्रा ८, ३०.

पुरुष-ऋषूत्रय - यम् विघ ७४, ५.

पुरुष-कल्प - ल्येन मीसू ६, ६, ३६.

पुरुष-काम - मः हिश्रौ १७, ८, २३;

-मस्य लुसू १, ६ : ७.

पुरुष-कार^१ - नात् अप २, १, ३.

पुरुष-क्षय^१ - ये अप ५२, ७, १.

पुरुष-गति^१ - तिः बौध ३, १०, ११;

गौध १९, १३.

पुरुष-गर्हा^१ - र्हा या १, १४.

पुरुष-गात्र - त्रम् कौसू ११, २०.

पुरुष-चतुर्थ^१ - र्थम् आपश्रु १९,

९; हिश्रु ६, २९; -र्थेन आपश्रु

१८, ७; हिश्रु ६, ११.

पुरुष-चिति^१ - तिम माश्रौ ६, १,

८, १; वाश्रौ २, १, ७, ७.

पुरुष-च्छन्दस्^१ - न्दसः निसू ६,

८ : ३१^१; ७, १२ : ६.

पुरुष-तृतीयवेला - लायाम् बौश्रु

८ : १६.

पुरुष-त्रा पा ५, ४, ५६.

१ पुरुष-देवता^१ - ताभ्यः काश्रौ २१,

१, १३.

२ पुरुष-देवता - > ष्व(त्य >) श्या-

-श्याः अत्र १९, ६; साम्ना १,

६१८-२२.

३ पुरुष-देव(ति >)ता^१ - ताः

उनिसू ८ : २६.

पुरुष-द्वेषि(न् >)णी - णीम् शंघ

८२.

पुरुष-धर्म - र्मः काश्रौ ७, २, २१;

मीसू ३, ४, १४^१.

पुरुषधर्म-त्व - त्वात् मीसू ९,
४, ३८.

पुरुष-ध्यान - नम् विघ ९७, ८.

पुरुष-निःश्रेयसा(स-अ)र्थ^१ - र्थम्

वाध १, १.

पुरुष-पञ्चम - मे काश्रौ १६, ८, २.

पुरुष-पीडा-कर - राः विघ ५, ७५.

पुरुष-प्रघा(न >)ना^१ - ना वाध

५, १.

पुरुष-प्रमाण^१ - णम् काश्रु ५, ४;

-णे काश्रु ५, ७; १०.

पुरुष-बाधित-त्व - त्वात् पावा १,

४, ९९.

पुरुष-भेद - दात् काश्रौ १०, २,

२२.

पुरुष-मर्म-ज्ञ - ज्ञाः अप ३३, ७,

५.

पुरुष-मात्र - त्रम् काश्रौ २१, ३,

२७; आपिश्रु ३, ८, १ : ३१;

बौपि १, १५ : १०^१; -त्रस्य

आपश्रु ९, ६; हिश्रु ३, २५.

-त्राणि, आपश्रौ १६, १७, १०;

माश्रौ ६, १, ५, ३१; वाश्रौ;

-त्रेण बौश्रौ १०, १९:७; वैश्रौ.

पुरुषमात्री - त्री आपश्रौ ७, २,

१६.

पुरुष-मित्र - त्रम् शंघ ११६:

५२^१.

पुरुष-मुख^१ - खाः कौसू १०४,

२^१.

पुरुष-मेघ^१ - घः काश्रौ २१, १, १;

आपश्रौ २०, २४, १; २२, २१,

१५; बौश्रौ; -घम् शाश्रौ १६,

१०, १; -घस्य वैताश्रौ ३८, १०;

a) पाप्मे. पृ १६०११ द्र. 1 b) वैप १ द्र. 1 c) विप. (दिवस- सूक्त- प्रश्न.) । तस्येदमाद्यर्थे अण् प्र. । d) = पुरुषप्रमाण-वत्- । e) = पुरुषार्थ- । f) अण् प्र. वसं. (पा ५, १, १२४) । g) = पुरुषार्थ- । उप. भाप. < √ कृ । h) उप. < √ क्षि (क्षये) । i) नाप. (सामन्-) । j) वैप २, ३ खं. द्र. 1 k) षत्. । l) विप. । वसं. । m) पुरुषः इति जीसं. । n) = वायु-भेद- । पुरुमित्रः इति शक. [वायुशब्दे] ।

-धे हिश्रौ १४, ६, १०; २८;
वैताश्रौ ३७, ९; -धेन शाश्रौ १६,
१०, १३; वाधूश्रौ ४, १९; ३१;
हिश्रौ १४, ६, १५.

पौरुषमेधिक^३ - कम् शाश्रौ
१६, १५, २; ४; काश्रौ; -कान्
हिश्रौ १४, ६, ३.

पुरुषमेघ-वत् काश्रौ २१, २, १३;
वैताश्रौ ३८, १०.

पुरुष-योग- > ँगि-मन्त्र-संस्का-
र- रयोः काश्रौ १, ७, २०.

पुरुष-रत्नस^४ - सम् कौसू ९५, ३१.

पुरुष-रूप^५ - पः बौश्रौ ९, १६; ५१;
-पम् कौश्र ९५, ११^६; -पेण
शाश्रौ १५, १८, १; १९, १५; बौश्रौ
१७, १८ : ८; वाधूश्रौ ४, १०९ :
१.

पुरुष-रेषि(रु>)णी^७ - णीम् कौसू
५८, ११.

पुरुष-लक्षण^८ - णः अप ५०, २, ६.

पुरुष-वत् आपश्रौ १६, २२, ८;
हिश्रौ १४, ६, २८.

पुरुष-वत् - वत् आपश्रौ ६, २९,
१; हिश्रौ ३, ८, १४.

पुरुष-वध- -धः आपध १, २१, ८;
हिध १, ६, ३८; -धे आपध २,
२७, १६; हिध २, ५, २३५.

पुरुष-वशा-कुमारी-वेहत् - हतः
गौध ७, १४.

पुरुष-वाच^९ - वाचः वाधूश्रौ ३,
१८ : १५.

पुरुष-वाजिन् - जिनः अप ७०^{१०},
१६, ३.

पुरुष-वाहम् पा ३, ४, ४३.

पुरुष-विकल्प- -ल्पम् बौपि ३, ८,
१६.

पुरुष-विग्रह^{११} - हान् वृदे ५, ६८.

पुरुष-विज्ञेय- -यम् आज्यो ९, २.

पुरुष-विद्या (या-अ)नित्यत्व-
-त्वात् या १, २^{१२}.

पुरुष-विध^{१३} - धम् शाश्रौ १६, १४,
८; १४; -धाः या ७, ६; -धानाम्
या ७, ७.

पौरुषविधिक^{१४} - कैः या ७,
६३; ७३.

पुरुषविधाताम्^{१५} चाथ १६ : ३०;
३९ : ७.

पुरुष-विधि- -धिम् काश्रौ २५, ८,
१३; अप्राय ६, ७.

पुरुष-विशेष- -षः या १, १६.

पुरुष-व्याधि-पीडित- -तः शंघ
३७८.

पुरुष-व्रत^{१६} - तः जैश्रौप ४^१; -तम्
जैश्रौप ३; द्राश्रौ २, १, १२;
लाश्रौ; -ते विध ५६, १५.

पुरुष-शक्त्य(क्ति-अ)पराधा(ध-अ)
नुबन्ध-विज्ञान- -नात् गौध
१२, ४८.

पुरुष-शत- -तानि वाधूश्रौ ३, ६९ :
४२; ७५ : २××.

पुरुष-शिरसू - रः काश्रौ १७, ५,
१४; आपश्रौ १६, ६, २१××;
बौश्रौ; -रसः माश्रौ ६, १, ७, ३०;
वाश्रौ २, १, ७, ७; हिश्रौ ११, ७,
५४; -रसा वाश्रौ २, १, २, १२;
-रसि आपश्रौ १६, २६, १३;

कौसू १५, १.

पुरुषशिरः-प्राण^{१७} - णेषु वैश्रौ
१८, १९ : ४.

पुरुष-शीर्ष- -र्षम् माश्रौ ६, १, ७, २७.

पुरुष-शोणित-कर्दम-वाहि (न-
>)नी- नी अप ५३, ३, ५.

पुरुष-श्रुति- -तिः मीसू ४, १, ३; ६,
१, ३५; -तेः मीसू २, २, २८;
६, २, ३.

पुरुष-संस्कार- -रः आपध २, २३,
११; हिध २, ५, १६४.

पुरुष-संज्ञपन- -नम् काश्रौ १६, १,
१४.

पुरुष-संज्ञा- -ज्ञा पावा १, ४, १.

पुरुष-संमित- -तः आपश्रौ ३, १२,
११; बौश्रौ २७, २ : १०; भाश्रौ;
-तम् आमिष्ट ३, ४, ५ : १०;
बौपि ३, १०, ३.

पुरुष-सामन्^{१८} - म आपश्रौ १५,
१९, ११; १६, २२, ३१; भाश्रौ
११, २०, ७; वैश्रौ १८, १७ :
९१; -म्ना हिश्रौ ११, ७, २१.

पुरुष-सामर्थ्य- -र्थ्यं मीसू ३, ८, ३.

पुरुष-सूक्त- -क्तम् आमिष्ट २, ४, ३ :
१६; वैश्र ४, १० : ११; अप;
-क्तेन आमिष्ट २, ५, ६ : १७;
३२××; बौपि.

पुरुषसूक्त-जपहोम- -म्नाभ्याम्
विध ५५, ६.

पुरुषसूक्त-पूर्व- -र्वम् वैश्र ६,
८ : ९.

पुरुषसूक्त-विष्णुसूक्त- -क्ता-
भ्याम् वैश्र ६, २० : ८.

a) विप. । तस्येदमीयष् ठक् प्र. । b) मलो. कस. समासान्तष् टक् प्र. (पा ५, ४, १०३ L वैतु. °क्षस्-
इति Pw. प्र. ?) । c) वैप १ द्र. । d) = पुरुष-रत्नस- । e) विप. । बस. । f) विप. । बस. वा उस.
(तु. वैप १) वा । g) षाकृतिम् इति B. । h) पृ १५९ सत्य. अनित्यत्वात् इति नेष्टम् । i) वैष
२, ३ खं. द्र. । j) पाठः ? षविधताम् इति संभाव्येत । k) = साम-विशेष- । l) तद्वति वृत्तिः ः
m) षस. उप. = ज्ञानेन्द्रिय- [तु. सप्र. माश्रौ ६, १, ७, २६] । n) मलो. कस. पूष. = पुरुषवत्- ।

पुरुष-स्थानी (य >) या- -याम्
 आपशु ९, १०; हिशु ३, २९.
 पुरुषस्यनारायणस्या (स्य-ञ्च) यन-
 -ने निस् १०, ८ : २८.
 पुरुष-हित- -तम् वाश्रौ १, १, १, १.
 १ पुरुषा (ष-आ) कृति- -तिम् शाश्रौ
 ४, १५, २२; आपश्रौ ९, ११,
 २३^२ × x; भाश्रौ.
 २ पुरुषा (ष-आ) कृति^३ - -तीनि
 अप्राय ३, ८.
 पुरुषा (ष-आख्या >) ख्य- -ख्याः
 मीसू १, १, २७.
 पुरुषा (ष-आ) धिपत्य-काम- -मः
 गोगृ ४, ९, १.
 पुरुषा (ष-ञ्च) नृत्- -ते वाध १६,
 ३४; बौध १, १०, ३५.
 पुरुषा (ष-ञ्च) न्त- -न्ते आपशु १८,
 ९^२; हिशु ६, १४^२.
 पुरुषा (ष-ञ्च) न्न- -न्नम् बौध १, ६,
 ४६^b.
 पुरुषा (ष-ञ्च) पनय- -यः मीसू १०,
 २, १९; ३, ६५; -यात् मीसू
 १०, २, २०; ३, ७३.
 पुरुषा (ष-ञ्च) पराध- -धः या १, १६.
 पुरुषा (ष-ञ्च) बाधकत्व- -त्वस्य
 पावा १, ४, ९९.
 पुरुषा (ष-ञ्च) मिहोम-वत् काश्रौ
 १७, १२, २६.
 पुरुषा (ष-ञ्च) भ्यास- -सः काशु ५,
 ३; आपशु २१, १४; बौशु २१ :
 १२; हिशु ६, ७१; -से काशु
 ५, ४.

पुरुषा (ष-ञ्च) युष- पा ५, ४, ७७.
 १ पुरुषा (ष-ञ्च) र्थ- -र्थाय मीसू ४,
 १, ३.
 पुरुषार्थ-त्व- -त्वात् मीसू ३, १,
 ५; ६, २, २२.
 पुरुषार्थै (र्थ-ए) कसिदित्व^० -
 -त्वात् मीसू ६, २, १.
 २ पुरुषा (ष-ञ्च) र्थ^३ - -र्थः मीसू ६,
 २, २२; २५.
 पुरुषा (ष-ञ्च) र्ध- -र्धात् बौशु १६ :
 ७.
 पुरुषा (ष-ञ्च) शन-मात्र- -त्रम् वैध
 २, १५, ४^b.
 पुरुषा (ष-ञ्च) श्न-गो (गो-ञ्च) व्य
 (वि-ञ्च) ज- -जान् काश्रौ १६,
 १, ८.
 पुरुषा (ष-ञ्च) स्थि > स्थ^d - -स्थस्य
 बौश्रौ १८, ३६ : ३; २३, १८ :
 ३०; -स्थे अप्रा ३, १, १७^१.
 *पुरुषा (ष-ञ्च) ह^e - > षाह-व
 (त >) ती^f - -तीः काश्रौ २५,
 ७, १६.
 पुरुषा (ष-ञ्च) हुति- -तिः बौश्रौ
 १३, ४ : ८; आमिगृ ३, ६, २ :
 २०^१; बौपि १, १० : १६^१; हिपि १ : १.
 पुरुषा हुति-वत् काश्रौ १८, ५,
 १९.
 पुरुषो (ष-उ) च्य- -येन काश्रौ १६,
 ८, २०; काशु ५, १.
 पुरुषो (ष-उ) त्तम- -०म विध १,
 ५१; ५६; ५८; -मः वैगृ ३, ४ :

१२; आज्यो १३, ७; -मम् हिपि
 १९ : ४; -मेन विध १९, २३.
 पुरु-धन्ति- १ पुरु-द्र.
 पुरुषां, षा^g सक्त^h - (> पौरुषां, षा।
 सक्तिन्- पा.) पाग ४, ३, १०६.
 पुरु- , पुरु-तम- प्रमृ. १ पुरु-द्र.
 पुरो-डस्^d - पा ३, २, ७१, -ः^१डाः
 आश्रौ ६, ५, २५; या ६, १६;
 -०डाः पा ८, २, ६७.
 ?पुरोडा पाग ४, ४, ६२^१.
 पुरो-डाश^l - पा ३, २, ७१.
 पुरोडा (ला^k) श^l - -शः आश्रौ ३,
 ४, ४; १४, १३; १२, ८, ३३;
 शाश्रौ; -शम् आश्रौ ३, १०, २६;
 १२, ६, ९; शाश्रौ; या ४, १९^१; -
 शोयोः काठश्रौ ६३; भाश्रौ
 १, २, ६, १७; मीसू १०, ८, ३४;
 -ः^१शस्य आश्रौ ३, ५, ९; ५,
 १७, ५; ६, ५, २५; शाश्रौ; -शाः
 शाश्रौ १४, २, २०; ३, १; १३,
 ८; काश्रौ; -शात् आपश्रौ २,
 १०, ४; बौश्रौ १३, ३४ : ३ × x;
 भाश्रौ; -शान् शाश्रौ १४, २,
 १७-१९; १३, ४; ५; काश्रौ;
 -शानाम् आश्रौ ५, ४, ७; शाश्रौ
 ७, १, ७; काश्रौ; -शाभ्याम् द्राश्रौ
 २, २, ३९; लाश्रौ १, ६, ३५;
 मीसू १०, ८, ३४; -शाय भाश्रौ
 २, ३, २, २; ५, २, ८, ३३; -शे
 काश्रौ २५, ८, १७; आपश्रौ १,
 २५, १२; बौश्रौ; पा ४, ३, १४८;
 -शेन आपश्रौ ३, १६, १७; ७,

a) विप. । बस. । b) सप्र. पुरुषाञ्चम् <> पुरुषाशनमात्रम् इति पाभे. । c) पस. > बस. ।
 d) वैष १ द. । e) नाप. (पुरुष-नामन्-). । पस. उप. करणे किम् < √*आह् (< नेत्र. √भाष्
 ।आख्यायाम्.) । f) विप. [पुलिङ्गाभिधाना- (ओषधि- । वैतु. कर्कविद्याधरौ आ/ह् > *आ-ह्वति- इति, WSR.
 आ-ह्वत्-> इति च उप. इति ?)] । g) पाका. पाठः । h) व्यप. । व्यु. ? । i) पुरो-डाश- इति PW.
 (पौरोडाश-द्र.) । j) वैष १, २०५४ a द. । k) शाश्रौ. पाठः । l) [=पुरोडाशसहचरित-] ग्रन्थ- इति विशेष-
 (पा ४, ३, ७०) ।

२२, ११; ९, १, ३२, काश्रौसं;
-शेभ्यः हिश्रौ ५, ५, १२; -शेषु
आश्रौ ९, २, ६; ९××; हिश्रौ;
-शैः आश्रौ ५, ४, १; ६, ११,
६^३; शाश्रौ; -शौ काश्रौ २, ५,
१९; ८, १४; ३, ३, २३; आपश्रौ.
पौरुडाश^० -> १पौरुडाशिक-
पा ४, ३, ७०.
२पौरुडाशिक^० -कम् बौश्रौ
४, २: १; ५, २: १××; -का:
बौश्रौ २०, १०: ३३^०××; -केन
बौश्रौ २१, ८: ३९; २५, ११:
१०××; -कैः बौश्रौ २०, १०:
३०^०; ३२××.
पौरुडाशीय^० -यानाम् भाग १,
९: ७.
पुरोडाश-कपाल- -लम् आपश्रौ १,
२२, २; हिश्रौ १, ५, ६४; -लानि
आपश्रौ १२, ४, १; बौश्रौ; -ले
आपश्रौ १, २०, ९; भाश्रौ; -लेन
काश्रौ ३, ८, ७.
पुरोडाश-गण- -गे आपश्रौ २४, ३,
१७; हिश्रौ ३, ८, ६.
पुरोडाश-तत्प्रधानत्व- -त्वात् आश्रौ
३, ४, १२.
पुरोडाश-न्व- -न्वम् वाधूश्रौ ४,
१९^२: १६.
?पुरोडाश-दगल्^१ -लम् आश्रौ ५,
७, २^६; ७.
पुरोडाश-देवता- -ताम् आश्रौ ६,
११, ५.
पुरोडाश-धर्म- -र्माः काश्रौ १५, ९,
२७.

पुरोडाश-निगम- -मेपु आश्रौ ३, ४,
१३.
पुरोडाश-निधान- -नाय वैश्रौ ११,
९: १०.
पुरोडाश-पयस्या-धाना- -नासु काश्रौ
२, ८, ९.
पुरोडाश-पिण्ड- -ण्डान् माश्रौ २,
५, १, ३५.
पुरोडाश-प्रमन्दा(न्दा-अ)लंकार^१-
-रान् कौसू ३२, २९.
पुरोडाश-प्रमाण- -णम् अत्र २३,
९, ५.
पुरोडाश-मात्रा- -त्राः काश्रौ १०,
५, ११; -त्राम् काश्रौ ९, ११,
२३.
पुरोडाश-वत् आश्रौ ३, ४, १३.
पुरोडाश-वत्- -वतः कौसू २, २३.
पुरोडाश-विकार- -रः मीसू ८, २,
१०.
पुरोडाश-वृगल^६ -लम् माश्रौ २, ४,
१, ४०; ४९^१.
पुरोडाश-शकल- -लम् काश्रौ ९,
१२, ९; आपश्रौ १२, २५, ६××;
बौश्रौ; -लान् आपश्रौ १३, १२,
९; बौश्रौ.
पुरोडाश-शब्द- -ब्दम् आश्रौ ५,
४, ७.
पुरोडाश-श्रपण- -णात् आश्रौ ३,
५, ४.
पुरोडाश-संवर्त^१- -तान् वैताश्रौ २२,
२२; कौसू ३०, १८.
पुरोडाश-सांनय- -न्ययोः वैश्रौ
२१, ४: २; हिश्रौ २, २, २०.

पुरोडाश-स्थान- -ने वाश्रौ ३, २, ७,
८६; वैश्रौ १७, १६: ६.
पुरोडाश-स्विष्टकृत्- -कृतः आश्रौ
३, ५, ९; काश्रौ १८, ६, १४.
पुरोडाश-द्वर^६ - -०र विध ९८, ६७.
पुरोडाशा(श-अ)दि- -दि आश्रौ ५,
१३, ११; १७, ४; काश्रौ १०,
१, २५; ५, ७; -दीनाम् काठश्रौ
१३४.
पुरोडाशा(श-अ)र्थ- -र्थानि हिश्रौ
८, १, ४९.
पुरोडाशा(श-अ)वदान- -नम्
काठश्रौ १४; वैश्रौ ६, ८: ९.
पुरोडाशा(श-अ)दुत्ति- -त्तिम् हिश्रौ
२, २, २४; -तीः आपश्रौ १२,
३, १२; माश्रौ २, ३, ७, १४.
पुरोडाशिक- पा ४, ३, ७०.
पुरोडाशिन- -शिनः हिश्रौ १६,
८, २१; निसू ५, १३: २०.
पुरोडाशिनी- -न्यः आश्रौ १०,
२, २४; काश्रौ २३, २, १३;
आपश्रौ.
पुरोडाशीय, या^१- -याः वाधूश्रौ ४,
८७: २; ९६: १; -यान् आपश्रौ
१, १७, ९; बौश्रौ; -यानाम् बौश्रौ
२०, ६: १५; २७××; -यानि
बौश्रौ ६, ३४: ४; १६, ४: ९;
२४, ३६: १५; -येभ्यः आपश्रौ
१, १७, १०.
पुरोडाशे(श-इ)डा- -डयाः शाश्रौ
५, ३, ७.
पुरोडाशेडा(डा-अ)न्त^१- -न्तम्
काश्रौ ४, ११, १५.

a) पाभे. वैप १, २०५४ g द्र. १। b) = पुरोडाशसंस्कारक्रमन्त्र-। तस्येदमीयः अण् प्र. (तु. पाका;
वैतु. पासि. स्वार्थे प्र. इति)। c) विप., नाप. (कर्म-विशेष-। d) विप. (मन्त्र-। e) विप. > नाप. (मन्त्र-
। तु. पौरुडाश-।)। तस्येदमीयश् छण् प्र. उंसं. (पा ४, २, १३८)। f) उप. वावि. = वृगल- (शकल- [तु. पाभे.])।
g) सप्र. श्वाहाण <> श्वावृण इति पाभे.। h) द्रस.। प्रमन्द- = सुगन्धित-वनस्पति- इति MW.। i) वैप २,
३खं. द्र.। j) उप. = १पिण्ड-। k) विप. (विष्णु-। l) वैप १ द्र.। m) विप.। बस.।

पुरोडाशै(श-ए)कदेश-तसः(ः) जैश्रौ-
का १८७.
पुरोडाशय^१ - श्याः चाश्र १:४;
-श्यान् वैश्रौ ४, ४:७; ५:
२x४; हिश्रौ; -श्यैः हिश्रौ ३,
८,६५; ५,१,१५.
पुरो-दाश^२ - शान् बौश्रौ ७,८: १५;
-शेन वाधूश्रौ ४,१९^३: १६.
?पुरोह- > पौरोह- प्र√ह >
प्र-रोह- टि. द्र.
√पुर्व^४ पाधा. भ्वा. पर. पूरणो; चुरा.^५
उभ. निकतने.
पुर्वच्, इच्- प्रश्. १पुर्- द्र.
√पुल् पाधा. भ्वा. पर. महस्त्वे;
चुरा. पर. महस्त्वे संधाने च.
पुल्- (>पुल्-स-, पुल्य- पा.) पाग
४,२,८०^२.
पुल्क^६- पाउमो २,२,११०; पाग ५,
२,३६; -कःमृ २,२१:८;९.
पुल्कित- पा ५,२,३६.
पुल्स्ति^७ - पाउवृ ४,१८०; पाग ४,
१,१०५; -स्तयः बौश्रौ प्र ४:
२^१; -स्तये शुप्रा ५,३७^{१६}.
पौलस्य- पा ४,१,१०५.
पुल्स्य^८ - पाउमो २, ३, ४; -स्त्यः
अप ५२, १०, ४; -स्त्यम् अप
४३,३,१५.
पुल्ह^९ - हः अप ५२,४, १०; -हम्
अप ४३,३,१६.

पुलाक- पाउमो २,२,१४.
पुलिक- पाउमो २,२,१५.
पुलिन^१- पाउ २,५३; पाग २, ४,
३१; ४, २, ८०; ,६३, ११८;
-नेषु विध ८५,५६.
पौलिन्य- पा ४,२, ८०.
पुलिन-व (त >)वी- पा ६,
३,११८.
पुलिन^२- पाउ ४, ८५; -न्दः वैध
३,१४,२; -
पुलिन^३-क^३- -कैः अप ५०,२,५.
पुलीक्य^४- -याः अप्रा ३,४,१^१.
पुलु (= १पुर्) - > ^१पुल्-काम^५-
-मः निघ ४,३; या ६,४४^६.
पुल्ल(ल-अ)घ^६- -घः या १३,३^१.
पुल्ल^७- पावाग ८,२,१८.
पुलोम^८- > पौलोम^९- -मान् बृदे
७,५३.
पौलोमी^{१०}- -मो ऋअ २, १०,
१५९; बृदे ८,६३.
पुल्कस^{११}- पाउमो २, ३, १७४; -सः
वाध १८,५; बौध; -सात् वैध
३, १५, १०; -सानाम् विध
१६,९.
पौल्कस^{१२}- -सः आपध २,२,६;
हिध २,१,२८.
पुल्कस-मागध- -धौ विध १६, ५.
√पुष्^{१३} पाधा. भ्वा. दिवा. क्र्या. पर.
पुष्टौ; चुरा. उभ. धारणो, पोषति

या ५,१४; १०,३४.
पुष्यति हिश्रौ १७,५, २७; कौष्ट
३,१०,३०^१; आग्निष्ट; या १२,
१६; पुष्यन्ति हिश्रौ १७, ७,९;
नाशि २, १, ११; ^१पुष्यसि
बौश्रौ ९,९: १०; बौष्ट २, १,
१०; पुष्यामि आपमं २, ११,
३२^१; पुष्यताम् माष्ट २, ११,
१२^१; पुष्यतम् आपमं १,
११, ७^१; पुष्येम् शांश्रौ १८,
१५,५^१.
पुष^२ आपश्रौ ६,१७,६; ^१पुषे-
यम् आपश्रौ ४, १०, १; बौश्रौ;
पेषम काश्रौ २,१,३^१.
^१पुषोष आपश्रौ ४,५,५; भाश्रौ
४,७,२; हिश्रौ ६,३,६; या १०,
३४^६; ^१पुष्यासम्^{१३} बौश्रौ ३,
८:२५; ९:३; हिष्ट १, १८,४;
पुष्यास्म कौस् ८२, १३^१.
पोषयति बृदे २, ६३; पोषयेत्
वैध १, ७, ६.
पुष्यते विध ९०,५.
^१पुष्वस- -ष्वान् या १, ८; शैशि
५५.
^१पुष्ट- -ष्टम् शांश्रौ १६, ४, ४;
आपश्रौ; या १०,१५^१; -ष्टस्य
कौस् ७२, १४^१; -ष्टे हिष्ट
२,१७,४^१; अप ६,१, ८^१; अश्र
३, १०^१; अप ३: २६^१, -ष्टेषु

a) वैप १ द्र.। b) वैप २, ३खं. द्र.। c) तु. BPG.। d) = रोमान्, मणि-विशेष- [भाट्ट.]।
e) विप., व्यप. (ऋषि-)। f) बहु. <पौलस्य-। g) पामे. वैप १,२०५५ g द्र.। h) = ऋषि-विशेष-।
व्यु. ?। i) नाप.। व्यु. ? <√पुल् इति प्रायोवादः। j) नाप. (म्लेच्छ-)। व्यु. ? <√पुल् इति प्रायिकम्।
k) = पुलिन्दनिवासजनपद-। कः प्र. उंसं. (पा ४,२,८०)। l) वैप १,२०४१ i द्र.। m) = पुष्-। तु. पागम.।
n) = दैत्य-विशेष-। व्यु. ?। o) अपत्यार्थे अण् प्र.। प्रकृतिभावाऽभावः (पा ६,४, १००)। p) = इन्द्राणी-।
q) = पुल्कस-। स्वार्थे प्र.। r) पा ३,१,५५ परागृष्टः द्र.। s) पामे. वैप २,३खं. पुष्यासम् माश १४,९,४,२३
टि. द्र.। t) पामे. पृ ११८७ e द्र.। u) पामे. वैप १,२०५६ g द्र.। v) पामे. वैप १ सहस्रपोषम् मा ४,
२६ टि. द्र.। w) पामे. वैप १,२०५६ h द्र.। x) पामे. वैप १,२०५५ x द्र.। y) पामे. वैप १,२०५७ c
द्र.। z) पामे. वैप १,२०५७ f द्र.।

शांश्रौ १२, १३, २; वैताश्रौ
३२, १७; या १३, ४; -ष्टैः
आपश्रौ ९, १४, १.
पुष्टि(ष्ट)ष्टा-वत्- -वन्तः ऋषा
९, १७; उस् ४, १९.

पुष्टि^१- -ष्टये कौस् ३, १२; -ष्टिः
आश्रौ २, २, १७^१; ६, ९, १;
आपश्रौ; माश्रौ १, ६, १, १५^१;
वाश्रौ १, ५, २, १७^१; हिश्रौ
३, ७, २८^१; हिश्रु २, १७, २^१;
या १४, २२^०; -ष्टिना अप्राय
६, ६^१; -ष्टिम् आश्रौ ३, १०,
८; शांश्रौ; काश्रौ ५, १३, १^२;
आपश्रौ ४, ६, २^१; १४, २८,
४^१; भांश्रौ ४, ८, ३^१; वैश्रौ
२१, १५ : १५^१; हिश्रौ ३,
७, १०५^१; ६, २, ११^१; १५,
७, १२^१; आमिष्ट १, ४, १ :
२०^१; ऋश्रौ २, ८, ३८; ३९;
भाश्रु ३, १४ : १७^१; -ष्टैः
या ११, ४९^१; -ऋश्रौ^१ कौष्
४, ४, १५; शांश्रु ४, १८, १०;
-ष्टया आपश्रौ ५, १०, ९^१;
हिश्रौ; -ष्टयै शांश्रौ ७, ५, १४^१;
काश्रौ.

पौष्टिक^१- -कम् अप २६, २,
२; आज्यो ५, ४; -के अप २१,
३, ३; २५, १, १०××.

पौष्टिक-होम- -मः अप
१८^२, ८, १.

१पुष्टि-कर्मन्- -मणि कप्र १,

५, ६.
२पुष्टि-कर्मन्- -मं बौध २, ८,
१; -र्मणाम् कौस् २४, ४५^१;
-र्मसु कौस् ७, २; -र्मा गोश्रु
३, १०, १.

पुष्टि-काङ्क्षा- -क्षया आमिष्ट
३, १२, १ : १८.

पुष्टि-काम, मा- -मः आश्रौ १०,
२, २३; काश्रौ ४, १४, २२;
आपश्रौ; -मम् आपश्रौ १७,
१९, ७; बौश्रु २, ५, ५; -मस्य
काश्रौ २३, २, १२; आपश्रौ ५,
१४, १; बौश्रौ; -मा वैश्रु ३, ७ :
२६; -माय अशां १९, ४^१.

पुष्टि-कारक- -कम् या १४, ३२.

पुष्टि-शु^१- -शुः ऋश्रु २, ८, ५०;
अश्रु २०, ५१.

पुष्टि-दावन्- -वा कौस् ७२,
१८^१.

पुष्टि-पति- -ऋतये शांश्रौ २, १०,
१; काश्रौ ४, १४, २२; आपश्रौ
६, १३, २; १४, २१, ७^१; वाश्रौ;
-ऋतिः आश्रौ ३, ८, १; शांश्रौ;
काश्रौ ५, १३, १^१; आपश्रौ १४,
२८, ४^०; वैश्रौ २१, १५ : १५^०;
हिश्रौ^० ३, ७, १०५; १५, ७, १२;
आमिष्ट १, ४, १ : २०^०; बौश्रु^० २,
८, ३८; ३९; भाश्रु ३, १४ : १८^०;
-तिम् काश्रु २२, २; ३; -०त्ते
आश्रौ ६, ९, १^१; -तौ हिश्रौ
१५, ५, २७.

पुष्टि-प्रवाद- -दम् निस् ६, ७ :
३९.

पुष्टि-मत्- -मत् काश्रु ५, १३,
३^१; -मते वाश्रौ ४, १०८ :
९^१; -मन्तम् माश्रौ १, २, ६, ४^१;
-मन्तौ आश्रौ २, १, २७; १८,
५××; काश्रौ; -ऋणम् आपश्रौ
४, १३, २^१; बौश्रौ २७, १४ :
९^१; माश्रौ ४, १५, ६; १९, ४^१;
८, ३, १^१; माश्रौ १, ४, १, २७;
२, ६^१; वाश्रौ १, १, ३, १; ६^१;
हिश्रौ ६, ३, २; ४, १^१; ४२^१;
भाश्रु.

ऋपुष्टिमती- -ती आपश्रौ ३,
१०, ९; ४, १३, ३^१; भाश्रौ
३, १२, ८; वैश्रौ ७, ११ : ४;
-तैः आपश्रौ २०, ४, ३; बौश्रौ
१५, ५ : २२; हिश्रौ १४, १,
३८.

ऋपुष्टि-वर्द्ध^१, धेन^१- -०न कौस्
७०, १; -नः आश्रौ २, ५, १२;
शांश्रौ; -नम् बौश्रौ ५, १६ :
२०^०; द्राश्रौ १३, ३, ३^१; लाश्रौ
५, ३, ७^१; वैताश्रौ ९, १९^१; अफ
१८, १, ५^१; या १४, ३२^१.

पुष्टि(ष्टि-इ)च्छु- -च्छुः काश्रौ
१८, ५, १२.

पुष्ट्य(ष्टि-अ)र्थ- -र्थेन आपध २,
२०, २.

पुष्ट्य^१- पा ३, १, ११६; -०ष्य
अशां २, १; -ष्यः अप १, १,

- a) वैप १ निर्दिष्टानां समावेशः द्र. । b) पामे. वैप १ रुन्तिः शौ ३, १०, ६ टि. द्र. । c) तु. राज. ।
d) एकतरत्र पामे. वैप २, ३ खं. पुष्टिः तैत्रा २, ५, ७, ४ टि. द्र. । e) पामे. वैप १ वृष्टिम् काठ ५, २ टि. द्र. ।
f) पामे. वैप १, २०५६ m द्र. । g) पामे. वैप १, २०५७ e द्र. । h) विप. । ठक् प्र. (पा ५, १, १०९) ।
i) विप. । बस. । j) = मन्त्र- । k) वैप १ द्र. । l) उप. < √दा (दाने) । m) पामे. वैप १, २०५७ m
द्र. । n) पामे. वैप २, ३ खं. पुष्टिपतिः माश्रु ११, ४, ३, १६ टि. द्र. । o) पामे. वैप १, २०५७ i द्र. ।
p) पामे. वृ १५५३ a द्र. । q) पामे. वैप १, १९७९ a द्र. । r) लाश्रौ. या. पाठः । s) पामे. वैप १,
१८९६ j द्र. । t) = नक्षत्र-विशेष- ।

२^०; २, १; ३, १××; काशु ७, ३५;
-व्यम् अशां २, १; -व्यस्य
अशां ६, २; -व्यान् अप १, ४३,
६; -व्याय शां १, २६, ६^१;
अशां १२, १; -व्ये अप १, ४, २;
२७, २××; विध ७८, १३; -व्येण
शां १, २०, २; पाठ.

१पौष- पावा ६, ४, १४९.

पौषी^b- वी कौसू
१४१, ४२; विध ९०, ३; -षीम्
द्राग ३, २, २४; -व्याम् वैताश्रौ
२८, ३; कौसू १४१, ५; अप
१८^३, ११, १; विध ९०, १९.

२पौष^c- षस्य पाठ
२, १२, १; कौसू १३९, २४^१;
-षे अप ५५, ३, १; वैध २, १२,
७.

पौष-कृष्ण-समा-
पिन्-पिनः वेज्यो ५.

पौष-भाद्रपद-
ज्येष्ठ-ष्टाः बौध ४, ५, २४.
पुष्य-यु(क्त)क्ता-क्ता विध
९०, ३.

पुष्य-स्नाना(न^e-आ)दिक-
कम् शंघ^f१००.

पुष्या(व्य-अ)मिषेक-कः अप
१८^३, ११, १; ३३, ७, ६; -कस्य
अप ५, १, १.

पुष्या(व्य-अ)मिषेचन-ने अप
५, ५, ७.

पुष्यत्-व्यन् वृदे २, ६३.
पुष्यन्ती-न्त्याः बौश्रौ ६, १५;
५^१.

पुष्यमाण-णः माग २, ११, १७^१.
पुष्यसे^१ बौश्रौ ६, ४ : ७; १०,
१३ : ६.

पौष^h- ०ष जैग १, १२ : ९;
-षः शांश्रौ २, ११, ६; ४, १२,
९^१; आपश्रौ; बौश्रौ^१ ३, २१ :
१३; ११, ११ : १७; हिश्रौ
१३, २, ९^१; -षम् आश्रौ १,
९, ५; १०, ८××; शांश्रौ; आपश्रौ
२०, २०, ९^१; पाठ २, ६, २०^१;
या १, ८; -षस्य आश्रौ १, ७,
८; बौश्रौ १४, ८ : १५; आग
२, ८, १६^१; कौग ३, २, ६^१;
शां ३, ३, १; माग २, ११,
१२; -षाः भाश्रौ २, २, ६;
माश्रौ १, ८, ३, ३; वाश्रौ; -षान्
हिश्रौ १७, ७, ९; तैप्रा ९, २१;
-षाय शांश्रौ ४, ८, १; १६, ४, ४;
आपश्रौ; माश्रौ १, ५, ३, ६^१;
आग १, ७, १९^१; कौग १, ८,
२८^१; शां १, १४, ६^१; पाठ
१, ८^१, १; आम्रिग १, १, २ :
४८^०; ५, ४ : ४४; काग २५,
२७; ४२^१; ४१, ७^{३०}; बौग १, १,
२८; भाग १, १७ : ४; वैग ३,
४ : ९; हिग १, ४, ८^०; २१,
१; जैग १, १२ : १०^०, या

६, २१; -षे शांश्रौ १, १२, ५;
बौश्रौ; आम्रिग १, १, २ : ४९^१;
काग ४१, ७^१; हिग १, ४, ८^१;
जैग १, १२ : १०^१; अप ६, १,
८^१; अपं ३ : २६^१; -षेण शांश्रौ
२, ११, ५; १२, १०; ४, १२, ९^१;
आपश्रौ १, १२, ११××; ५, २, ४^१;
११, ५^१; १८, २^१; बौश्रौ २, १६ :
३८^१××; ३, २१; १३^१; ११, ११ :
१७^१; भाश्रौ; माश्रौ २, १, १, ६^१;
वाश्रौ^१; १, ४, २, १४^१; हिश्रौ
६, ५, ११; १३, २, ९^१; शां ३,
११, १४^१; पाठ ३, ९, ६^१;
-षेषु या १३, ४; -षैः आश्रौ
२, ३, २७; शांश्रौ.

पौष-पुत्र-त्रयोः शुप्रा ३, २५.
पो(ष्य)व्या^१-व्या आश्रौ ६,
१४, १८; आपमं १, ८, ९; कौग
१, १०, १३^१; शां १, १७, ३^१;
-०व्ये पाठ १, ८, १९^१.

१पौषण-णम् सुध ८; आज्यो
५, ८; -णात् बौश्रौ २५, १३ :
२५.

पौषणा(ण-आ)दि-परिचर्या-
जीविन्-वी वैध ३, १३, १०.

२पौषण^१->णी-णी शंघ ४२.

पौषयित्-नृ या १०, १५.

पौषयित्नु-पाठ ३, २९; -पँत्नु
आश्रौ १, १०, ५; ३, ८, १;
शांश्रौ १३, ४, २; आपमं २, १८,

a) उत्तरेण संधिरार्षः। b) = पौर्णमासी-। c) = मास-। अण् प्र. (पा ४, २, २०)। d) ०व्यस्य इति पाठः? यनि. शोघः (तु. पाठ).। e) = स्नान-विशेष- (तु. उत्तरे प्राति).। सस. > बस.। f) सषा. काश्रौ २५, ५, २८ आग २, ९, ५ मोदमानः इति पामे.। g) वैप १ द्र.। h) भाप., नाप.। i) पामे. वैप १, १९७३ d द्र.। j) पामे. वैप १, २०५९ e द्र.। k) सप्र. वाग १२, ३ हिग १, ४, ३ विभे.। l) पौषस्व इति पाठः? यनि. शोघः (तु. शां. माग. गसं. Old. च)। m) पामे. वैप २, ३खं. पौषेण तैत्रा १, २, १, १९ टि. द्र.। n) पामे. वैप २, ३खं. वलाय टि. द्र.। o) पामे. वैप १, ११८६ f द्र.। p) पामे. वैप १, ११८६ h द्र.। q) पामे. वैप १, २०६० b द्र.। r) पामे. वैप १, १९७४ b द्र.। s) पामे. वैप १, २०६० d द्र.। t) परस्परं पामे. ४) कर्तारि कृत।

४७; या १०, १५^क.
 पोषयित्वा वैध १, ७, ५.
 पोषित-तम् आमिष्ट १, ७, ४:४.
 √पुष् √व्युष् टि. द्र.
 १पुष्क^१- (> १पुष्क-ल-, पुष्क-वत्-
 पा.) पाउभो २, २, ५; पाग ५,
 २, ९७.
 २पुष्क- > पौष्क^२- (> पौष्कायण-
 पा.) पाग २, ४, ६१.
 ३पुष्कर^३- पाउ ४, ४; पा, पाग ४, २,
 ८२; पाग ४, १, ४१; २, ९५;
 ५, २, १३५; -रम् अप २३, ३,
 १; शंघ^४ ११६: १२^३; १३;
 वृदे ५, १५५; अत्र १२, ११;
 निघ १, ३१^६; या ५, १४^६ ०१;
 १४, ११^६; -रस्य आपश्रौ ५,
 २, ४; वाश्रौ १, ४, २, २;
 -राणि अप ४२, २, ४; -रारात्
 आश्रौ २, १६, २; शाश्रौ; -रे
 शंघ १२४^१; विघ ८५, ३^१; वृदे
 ५, १५४, या ५, १४^१; -रेषु
 विघ ८५, १.
 पुष्करी- पा ४, १, ४१.
 पौष्करेयक- पा ४, २, ९५.
 पुष्कर-तन्तु- > °न्तु-गोवाल-नुटि-
 सर्षप-यव- -वस्य अप २१,
 २, ४.
 पुष्कर-द्वीप- -पम् शंघ ११६: ५.
 पुष्कर-नाल- -लस्य काशु ७, २३.
 पुष्कर-पर्ण- -र्णः हिश्रौ ३, ३, ३७;
 -र्णम् काश्रौ १६, २, २५; १७,
 ४, १; आपश्रौ; -र्णात् हिश्रौ ३,

३, ३८; -र्णानि आमिष्ट २, ५,
 १०: ४; ११: ३; -र्णे काश्रौ
 १६, २, २९; आपश्रौ १६, ३, ४;
 २२, ३; माश्रौ; -र्णेन बौश्रौ २२,
 १: १४; -र्णेषु आमिष्ट २, ५,
 १०: १९; ११: १७.
 पुष्करपर्णा(र्य-आ)दि- -दयः
 बौश्रौ १९, १०: ५६; -दिभिः
 बौश्रौ १९, १०: ५४.
 पुष्कर-पलाश- -शम् माश्रौ १, ५,
 २, १८; -शे जैश्रौप १; द्राश्रौ
 २, १, ११; लाश्रौ १, ५, ८; -शेषु
 हिश्रौ २२, ६, ६; -शैः आपश्रौ
 १९, २६, १.
 पुष्कर-संवर्त-मूल- -लैः आपगृ
 ९, १०.
 पुष्कर-सद^५- पा, पाग २, ४, ६३^५;
 पाग ४, १, ९६; ७, ३, २०.
 पौष्करसादि- पा ४, १,
 ९६; ७, ३, २०; पाग २, ४, ६१;
 -दिः बौश्रौप्र ४८: १०; -देः
 तैप्रा ५, ३७; १३, १६^३ x x; पावा
 ८, ४, ४८.
 पौष्करसादायन- पा २,
 ४, ६१.
 पुष्करसद्-ग्रहण- -णात् पावा
 ७, २, ११७.
 पुष्करसादि^६- -दिः आमिष्ट १,
 १, ३: ५०; हिष्ट १, ६, ८^१;
 आपथ १, १९, ७.
 पुष्कर-स्रज^७- -स्रजम् आश्रौ २,
 ७, १३; शाश्रौ; -स्रजा आपमं

१, १२, २; २, १२, २; बौष्ट;
 -स्रजौ आयु १, १५, २; पागृ २,
 ४, ८^६; आमिष्ट.
 पुष्करि(त् >)णी^८- पा ५, २,
 १३५; -णीं कौसू १०६, ७^३;
 या ७, ३; -ण्यः बौश्रौ १८,
 ४५: २४; -ण्याम् अप १८^२,
 १५, १; ३९, १, २.
 पुष्करिणी-स्रूप-तडाग- -नानाम्
 शांष्ट ५, २, १.
 पुष्करिणी-गत- -तान् अप ६८,
 २, २७.
 पुष्करिणी-पर्ण- -र्णे अप ६८, २,
 ७.
 पुष्करद^९-
 १पुष्कल- १पुष्क- द्र.
 २पुष्कल^१- पाउ ४, ५; पाग ४, १,
 ४१; २, ७५; ९५; -लम् काश्रौ
 २५, ५, १८; आपश्रौ ९, १३, ४;
 १६, ९; बौश्रौ; वैध १, ७, ६^३;
 -लेन याशि २, ११३; -लेभिः
 भाशि ११७^१; -लेषु^१ आपश्रौ
 १९, २५, १६; हिश्रौ २२, ५, २६.
 पुष्कली^२- पा ४, १, ४१.
 पौष्कल- पा ४, २, ७५; -लम्^३
 लाश्रौ ६, ११, ४; १०, १, १६;
 निस्; -लस्य लाश्रौ ७, ९, ७^३;
 -लेन जैश्रौका २७^३.
 पौष्कल-श्रुध्वौ(ध्व-श्रौ)णिह-
 -हाः निस् ९, १२: १७.
 पौष्कलेयक- पा ४, २, ९५.
 पुष्टि-, पुष्टि- प्रष्ट. √पुष् द्र.

a) शुष्क- इति पाका. b) तु. पाका. पौष्पि- इति भाष्य. प्रष्ट. c) वैप १ द्र. d) = तीर्थ-विशेष. e) अन्तरिक्ष-नामन्. f) = उदक. g) = आचार्य-विशेष. h) पुष्करट्- इत्यपि पासि. i) = पौष्करसादि-। पूष. वृद्धयभावः. j) पौ^१ इति भाष्यम्, Böht [ZDMG ४३, ५९९] च। k) पाप्ने. वैप १, २०: ६१ e द्र. l) बप्रा. विप., नाप. (सुवर्णपरिमाणविशेष- [काश्रौ २५, ५, १८]), व्यप. (ऋषि-). m) तु. C.; वैतु. रत्ना. °ल-मुक्तम् इति। n) विप. [(पुस्य-) नक्षत्र- (आद्रपदा- [तु. C. टि.])] # o) = वनस्पति- इति पागम. p) = साम-विशेष-।
 वैषं-२०

√पुष्प^a पाधा. दिवा. षर. विकसने.
 १पुष्प^b - पा ४, १, ६४; पा, पाग ५,
 ३, १००; पाग ३, १, २७^c; ५, २,
 २४^d; ३६; -ष्पम् आपश्रौ १४,
 ३२, १^e; वैश्रौ २०, २८ : ५^f;
 जैश्रौ; या ५, १४^g; आज्यो
 १२, १^d, ३^d; -ष्पाणाम् अप
 ७०, ५, ५; -ष्पाणि आग्नि २,
 ५, १ : १२; वै ४, १२ : १०;
 गौपि; -ष्पात् पावा ४, १, ६४;
 -ष्पान् आज्यो १२, ४; -ष्पे
 अप ६४, ८, ७; ७०^३, ७, १४××;
 आपध; -ष्पेभ्यः बौध २, ६, ४;
 -ष्पेषु अप ७०^३, २३, १३; विध
 ९९, १६; -ष्पैः आग्नि २, ४,
 ६ : ५; ९; वै २.
 १पुष्प-क^c (>) यक. २पुष्पक^e -
 पौष्पक-पा.) पाग ५, ३, १००^f;
 ४, ३८.
 पुष्प-काल- -लम् वाध २८, ३.
 पुष्प-कुण-, पुष्प-जाह- पा ५, २,
 २४.
 पुष्प-तिल-चूर्ण-लाज-धूप-दीपा (प-
 अ)क्षत- -तैः वै ४, ७ : ७; ८.
 पुष्पतिला(ल-अ)क्षत- -तैः वै ५,
 ६ : १५.
 पुष्प-तिला(ल-अ)क्षत-दर्भ- -भान्
 वै ४, ४ : १३.
 पुष्प-दान- -नम् कप्र १, ४, ६.
 पुष्प-धूपा(प-अ)लुलेपन-दीप-नैवेद्य-
 -शैः विध ४९, २.
 पुष्प-पूर्ण- -र्णम् अप २०, ३, ४.
 पुष्प-प्रचायिका^h - पाउ २, ३२.
 पुष्प-प्रदान- -नेन विध ९१, १३.

पुष्प-फल- -लम् या १, २०;
 -लानाम् सुधप ८७ : १३; -ले
 अप ७०^३, ६, ४; या १, २०.
 पुष्पफलो(ल-उ)पग- -माः बौध
 १, ५, ५१; -गान् वाध १९,
 ११.
 पुष्प-फल-भक्ष- -क्षान् गौपि १, ६,
 ६.
 पुष्प-फल-मूल- -लानि वाध २,
 २६.
 पुष्प-फल-यव- -वान् कौ १, २, २;
 शां १, ६, २.
 पुष्प-फला(ल-अ)क्षत-मिश्र- -श्रैः
 बौ १, १, २४.
 पुष्प-म(य>)यी- -यीम् गौपि १,
 ६, ५.
 पुष्प-मूल- -लेषु पावा ४, ३, १६४.
 पुष्पमूल-प्रचयन- -नम् शंघ
 २५५.
 पुष्प-मूल-फल- -लानि वाध २,
 ४६.
 पुष्प-वत्- -वन्तः अप ७१, १५, १;
 आज्यो २, १०; -वन्तम् बौ ४
 १, ६, २२.
 पुष्पवती- -ती आज्यो १८, ४;
 -तीषु आपश्रौ १६, ४, १४;
 वैश्रौ १८, १ : ५५; हिश्रौ ११,
 १, ४१.
 पुष्प-वाटी- -टीम् वृदे ६, ५६.
 पुष्प-विधि- -धिः आज्यो १२, २.
 पुष्प-साधारण- -णे माशि १, १०;
 नाशि १, ५, ४.
 पुष्प-हरित-गुल्म-वल्ली-लता-पर्ण-
 -र्णानाम् विध ५, ८५.

पुष्पा(प-अ)क्षत-फल-यव-हिरण्य-
 मि(श्र>)श्रा- -श्राम् कौ १,
 २, ३^h; शां १, ६, ५.
 पुष्पा(ष्प-अ)ज्या(ज्य-आ)दि-
 हस्त- -स्तः शंघ ४०.
 पुष्पा(ष्प-अ)ञ्जलि- -लिम् शंघ
 ११६ : ६९.
 पुष्पा(ष्प-आ)दि- -दि वै २, २ :
 ४; ५, ६ : १७; -दिना वै ३,
 २२ : ७; -दिभिः वै २, १ :
 ११; ५, ६ : २३.
 पुष्पाद्य(दि-अ)लङ्कार- -रम् अप
 १८ⁱ, १, २.
 पुष्पा(ष्प-२आ)द्य- -द्यैः वै १, ६ :
 ३; २, १ : ७××; वै ३, १०, ५.
 पुष्पा(ष्प-अ)पहारिन्- -री शंघ
 ३७८.
 पुष्पा(ष्प-अ)पूप-दक्षिणा(णा-आ)
 दि-संभार- -रान् वै ३,
 २२ : ५.
 पुष्प(ष्प>)ष्पा-व(त>)ती- -तीः
 विध ६५, ९^j; तैपा ३, ५^k.
 पुष्पा(ष्प-आ)शिन्- -शी विध ९५,
 ७.
 पुष्पि(न>)णी- -णीः बौश्रौ १०,
 २४ : १८; वैश्रौ १८, १५ : ५^f;
 -णीम् याशि २, ५०^l; -ण्यौ
 शांश्रौ १५, १९, १^f.
 पुष्पित,ता- पा ५, २, ३६; -ताः
 अप ६८, २, २२; -तानाम् विध
 ५०, ४८; -ते अप ७१, १६, १.
 पुष्पो(ष्प-उ)पगम-द्रुम-च्छे-
 दिन्- -दी विध ५, ५६.
 √पुष्प्य पा ३, १, २७.

a) या ५, १४ परामृष्टः द्र. । b) बप्रा. । अर्धर्चादित्वं द्र. । c) तु. पागम. ।

d) = स्त्री-रजसु- । e) <पुष्पक-क- । f) = विमान- इति पागम. । g) = क्रीडा-विशेष- (डु. पा ६, २, ७४) ।
 h) 'श्रान् इति पाठः ? यनि. श्लोघः [तु. शांश्रु.] । i) पामे. वै १, २०६२ C द्र. । j) 'ष्प' इति जीसं. ।
 k) पामे. वै १, २०६२ d द्र. ।

२पुष्प^a->पौष्प^b- -ष्ययः बौश्रौप्र
२६ : ३.

पौष्पाद्यण- पा २, ४, ६१.

१-२पुष्पक- प्रभृ. १पुष्प- द्र.

पुष्पि^a- -ष्ययः बौश्रौप्र २७ : ९.

पुष्पिणी- प्रभृ. १पुष्प- द्र.

पुष्प्य- प्रभृ. √पुष् द्र.

√पुस् पाधा. चुरा. पर. संघाते^c.

√पुस्त पाधा. चुरा. पर. आदरा-
नादरयोः

पुस्त- पाउभो २, २, १३४; पाग
२, ४, ३१.

पुस्तक^d- पाग २, ४, ३१; -कम्
विध १८, ४४; २३, ५६.

पुस्तक-प्रत्यया(य-अ)घीत- -न्त्
नाशि २, ८, १९.

!पुस्तक-वाच^e- -द्यम् नाशि २, ८,
२९.

√पू (बधा.)^f पाधा. भ्वा. आत्म.,

क्र्वा. उभ. पवने, ऋपवते काश्रौ

९, ६, १५; ३४; आपश्रौ; अअ

१८, २^h; या ७, २; १४, १२;

पवन्ते आपश्रौ १७, १८, १^gक^h;

ऋपवसे आपश्रौ २, १, २०; ३,

२९; ८, १२; काश्रौ; ऋपवताम्

बौश्रौ ९, ४ : ३०; १२ : ८xx;

वैश्रौ; ऋपवस्व, > स्वा आपश्रौ

२, १, २०; शाश्रौ २, २, ५;

काश्रौ; ऋपवेथाम् आपश्रौ

१२, १८, २०; माश्रौ २, ३,

७, १ⁱ; वैश्रौ १५, २२ : ९;

ऋपवध्वम् आपश्रौ १२, १८,

२०; वैश्रौ १५, २२ : ९; ऋप-

वधाः आपश्रौ १२, १५, ८;

जैश्रौ ९ : १९; २०.

पुनीते वाधूश्रौ २, १४ : ४;

बौध; पुनाति आपश्रौ २, १२,

६क^j; काश्रौ १४, १, २७; १५,

१०, ९; १९, २, ९क^k; आपश्रौ;

ऋपुनते आपश्रौ ४, १३, ४;

बौश्रौ २८, १ : ७; २ : ६;

भाश्रौ; पुनन्ति वाध ६, ३;

२६, ४; २८, १५; शंघ;

ऋपुनीषि आपश्रौ ७, ९, २;

शाश्रौ १२, १०, ६; ऋअ २, ७,

८५; ऋपुने बौश्रौ ६, २ : २२;

भाश्रौ १०, ५, ५; ऋपुनामि वाश्रौ

३, ३, २, २८; कौश्र ५, ३, ३०;

आमिश्र; ऋपुनीमहे आपश्रौ १०,

७, १३; बौश्रौ २८, १ : २०xx;

वेय; ऋपुनातु काश्रौ २१, ४, १;

आपश्रौ १, ११, ७; १९, १, १८^l;

बौश्रौ; वैश्रौ २०, ३३ : ६क^m; या

५, ६; ऋपुनन्तु काश्रौ १९, ३, २३;

आपश्रौ; या ५, ६; ऋपुनीहि शाश्रौ

१५, १५, ६ⁿ; द्राश्रौ १३, ४, ७^o;

लाश्रौ; वैताश्रौ ३०, ९^p; कौसू

२, १; पुनथ बौध ३, ६, ५^q; ६^r;

७^s; ८; ९^t; १०^u; पुनीध्वम्^v विध

४८, २०-२२; ऋपुनीत आपश्रौ

४, ५, ६; भाश्रौ; विध ४८, १८^w;

पुना(त>)ता^x ऋपा ७, ३३;

ऋपुनात् वाधूश्रौ ४, ८३ : ३क^y;

कौश्र ५, ३, ३०^z; आमिश्र ३,

६, १ : २८; बौपि १, ९ : ४^{aa};

पुनीयात् वाधूश्रौ २, १४ : ३.

पुपुतुः शाश्रौ १४, ६२, २.

पूयते अप २, ६, ३; वाध ३, ६१;

२३, २२; या १४, १५क^{ab};

पूयन्ते वाध २८, १७; शंघ.

पवयते वैश्रौ १५, २० : ५; पव-

यति आपश्रौ ६, ३, १४; १०, ७,

५xx; बौश्रौ; ऋपवयन्ते बौश्रौ

८, १४ : १०; पवयन्ति बौश्रौ १६,

१ : १७; २६, ३३ : २०; वाधूश्रौ

३, १६ : ४; पवयसि भाश्रौ १०,

५, १; पवयतु बौश्रौ १६, १ :

१७; पवयेत् बौश्रौ २१, ८ : १७;

२१; जैश्रौका ९५; १८४.

पवयिष्यामहे बौश्रौ १८, २६ :

१२.

पावयति काश्रौ ७, ३, १; आपश्रौ;

पावयतः काश्रौ १९, २, २८;

पावयन्ति आमिश्र २, ६, २ : २९क^{ac};

पावयेत् काश्रौ १२, २, १९;

आपश्रौ १०, ७, ९; बौश्रौ.

पावयर् √कृ, पावयार्क्रियात् पा

३, १, ४२.

पवन्^{ad}- पाग ३, १, १३४^{ad}; -नः

विध ८, २९; आज्यो ७, १८;

-नम् आमिश्र ३, ४, ४ : २७;

-नस्य बौश्रौ १६, १ : ११; -ने

बौश्रौ १, ४ : २०क^{ae}; २१, ८;

a) = ऋषि-विशेष-। व्यु. ?। b) पृ १६०९ b द्र. c) तु. BPG.। d) नाप.। व्यु. ? <पुस्त- इति

शक.। e) पू. ?। f) वैप १ द्र.। g) या ५, ६ पा १, ३, २२; ७, २, ७४; ३, ८०; ८, ४, ३२ परासृष्टः द्र.। h) पामे.

वैप १, १८८६ I द्र.। i) पामे. वैप १, २०६३ b द्र.। j) पामे. वैप १, २०६४ g द्र.। k) 'न्' इति

पाठः ? यनि. शोधः (तु. तैत्रा १, ४, ८, ६)। l) पामे. वैप १, २०६५ f द्र.। m) पामे. वैप १, २०६४ n द्र.।

n) पामे. वैप १, २०६५ d द्र.। o) सप्र. पुनथ <> पुनीत इति पामे.। p) सप्र. विध ४८, १९ नाश्वध्वम्

इति पामे.। q) परस्परं पामे.। r) 'पुनत इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. तैत्रा ६, ३, २ आमिश्र.)। s) पामे.

वैप १, १००३ d द्र.। t) = वायु-। u) तु. पाका.। यवन- इति भाष्य. प्रभृ.।

१६××; वाच; -नेन बौश्रौ
 १२, ९ : १७; आगु.
 पवन-क्षोभ-संजात-वीची-
 शत-समाकुल- -लम् विध १,
 ३४.
 ?पवन-जल-मरण-रोग-रक्ष-
 क्षय- -याय अप ७०^२, २३, १४.
 पवमान^१ > -मान्-वत्- -वान्
 भाश्रौ ५, २०, ७.
 पवमान, ना^२ - पा ३, २, १२८; -०न
 ऋपा ६, १२; ८, ४७^१; -नः
 आश्रौ २, १, १९; १२, ५; शाश्रौ ६,
 १२, ७^१; १०, १३, ५××;
 आपश्रौ ११, १४, १०^१; १४,
 या १४, १७^१; -नम् शाश्रौ २,
 ३, १०; आपश्रौ १३, २, ७;
 बौश्रौ; -नयोः आश्रौ ८, ६,
 ८; हिश्रौ १, १, २१; जैश्रौ;
 -नस्य शाश्रौ ६, ८, १४^१; १६,
 बौश्रौ; -नान् आपश्रौ ५, १३, ७;
 १६, ४; २६, ५; भाश्रौ; -नाः
 आश्रौ ६, १०, २२; शाश्रौ;
 -नात् आपश्रौ १३, ३, १, ११, १;
 बौश्रौ; -नान् शाश्रौ ६, ८, ९;
 बौश्रौ; -नानाम् शाश्रौ ८, १५,
 ७; बौश्रौ १४, ६ : १××;
 -नाभ्याम् माश्रौ २, ४, २, ३९;
 लुस् १, ११ : २५^१; -नाय
 आश्रौ ५, २, ४; शाश्रौ; -ने
 आश्रौ ५, १२, २६; १५, १६; १७,
 ४; शाश्रौ; -नेन शाश्रौ ७, १६,
 १; ८, १, ९; आपश्रौ; -नेभ्यः
 आपश्रौ १२, १७, ९; १४, २५,
 ९; १७, २३, ३; बौश्रौ १४, ६ :

२; ९^१; -नेषु आश्रौ १, १२,
 २२; शाश्रौ ११, ११, ४; काश्रौ;
 -नौ शाश्रौ १४, २५, २; २६, ३;
 ३३, २; आपश्रौ.
 पावमान^१ -नः भाशि
 १२१; -नम् ऋअ २, ९, १; वृदे;
 -नस्य माश्रौ ५, २, २, ६^१;
 लाश्रौ ६, ११, २; -नाः शागृ ४,
 १०, ३^१; -नानि लुस् २, ९ :
 २^१; -नानाय लाश्रौ ७, १०,
 २१; १२, ३; -ने गोगृ २, ३, ४४;
 जैगृ १, १४ : १२; -नेन आपश्रौ
 १२, २४, ६^१; बौश्रौ.
 पावमानो^१ -नी बौश्रौ
 २७^१, ६ : २३; २६; बौघ ४, ६,
 २; ऋअ; -नीः आश्रौ ५, १२,
 ११; आपश्रौ १७, ९, ८; वैश्रौ; मागृ
 २, १४, २६^१; -नीनाम् शाश्रौ
 ७, १५, १५; लाश्रौ ८, ५, १५;
 -नीभिः बौश्रौ २३, १६ : १६^१;
 १८; आम्रिय; -नीम् निसू ७,
 ५ : ११; लुअ ३, १०^१; -नीषु
 निसू ८, ८ : २; या ११, २;
 -न्यः ऋश्रौ २८, १ : ७; २ :
 ७; आगृ ३, ४, २^१; कौगृ २, ५,
 १^१; आम्रिय २, ४, ५ : ८^१;
 अप; -न्याम् या १२, ३१.
 पावमान्य(नी-अ)ध्ये-
 तृ-स्तुति^१ -ती ऋअ २, ९, ६७.
 पावमान्या(नी-अ)
 दि-दिभिः आपघ १, २, ६.
 पवमान-गत- -तयोः निसू २,
 ९ : २२.
 पवमान-ग्रह- -हाः आपश्रौ १२,

१६, १२; -हाणाम् बौश्रौ २१,
 १८ : १; -हान् वैश्रौ १६, २ :
 ११; १२ : १५; हिश्रौ; -हेभ्यः
 वैश्रौ १६, १२ : १०; हिश्रौ ९,
 ३, ३३; -हौ वैश्रौ १६, १२ : १५.
 पवमान-जप- -पः जैश्रौका
 ११२; १६१; -पम् जैश्रौ ११ :
 २.
 पवमान-भाव- -वे आश्रौ ८, ४,
 २६.
 पवमान-मुख^१ -खयोः निसू ७,
 ५ : ३०.
 पवमान-वत् वृदे ६, १३०; मीस्
 १०, ४, २८; १२, ३, ७.
 पवमान-सर्पणा (ण-अ)न्त-
 -न्तम् वैताश्रौ २२, १५.
 पवमान-सामन्- -मनी निसू २,
 ९ : २७^१.
 पवमान-स्तोत्र- -त्राणि वैश्रौ १५,
 १९ : ६.
 पवमान-स्थान- -नेषु निसू ४,
 ११ : ८.
 पवमान-हविस्- -विभिः वैश्रौ
 २, ७ : ६; हिश्रौ ३, ५, ११;
 -विषाम् हिश्रौ ३, ५, १२; मीस्
 ५, ४, ८; -विषोः हिश्रौ ६, ५,
 १८; -विषु बौश्रौ २०, १८ :
 १५; मीस् ११, ४, १२; -वीषि
 आपश्रौ ५, २१, १; ६, १६, ९;
 वैश्रौ १, १६ : ५; २०, ४ : १०.
 पवमाना(न-अ)च्छावाक-साम-
 न्- -स्नाम् निसू ६, ११ : २९.
 ?पवमाना दानलोकम् वाश्रौ ३,
 २, ५, ३४.

a) = √पू इत्येवं धातुपरो निर्देशः [तु. सा (बुधन्वली- [तैत्ति १, ३, १, ३])] ।
 c) पाभे. वैप १, ७३५। द्र. । d) सपा. णाः <> न्यः इति पाभे. । e) = इष्टि-विशेष- । f) पाभे. वैप १,
 २०६७ h द्र. । g) पव इति पाठः? यनि. शोधः । h) न्यम् इति पाठः? यनि. शोधः [तु. बौघ ४, ७, ५।
 ङ) पत. > बस. । j) वैप २, ३३६. द्र. । k) ण्वी इति संस्कृतः दि. ।

पवमाना(न-अ)नुमन्त्रण- -णेन
वाश्रौ ३, ४, ३, १.

पवमाना(न-अ)न्त्य- -न्त्यम्
निसू ६, १० : १९; २५.

पवमाना(न-अ)न्वारम्भण- -णम्
वाश्रौ १, १, ६, ४.

पवमाना(न-अ)भिमन्त्रण- -णम्
वाश्रौ ३, २, २, ४३^६; -णानि
हिश्रौ १६, २, १४^६.

पवमाना(न-अ)हुति- -तीः
हिश्रौ ३, ४, ४२.

पवमाने(न-इ)ष्टि- -ष्टिम् बौध
१, ६, ४९.

पवमानो(न-उ)पाकरण- -णम्
काश्रौ २, ६, ३४; १०, १, १६.

पवयित्- -ता बौश्रौ १६, १ : १६.

पवयित्वा बौश्रौ २, ८ : १३; १२,
१७ : १३×४; जैश्रौ ८ : २५.

पवयिष्यत्- -व्यन् आपश्रौ १९,
१२, ९; बौश्रौ १९, ३ : २४;
हिश्रौ २३, २, २०.

पवित- पा १, २, २२.

पविता (त-अ) भिष्याहा (र>)
रा^१- -रा निसू ९, ३ : १८; २१;
१०, ७ : ३५; -रा; निसू ६, ११ :
९.

पवितवत्- पा १, २, २२.

पवित्र, त्रा^०- पा ३, २, १८५; १८६;
पाग २, ४, ३१; ४, १, ११०;
-त्रः शाश्रौ १५, १२, ५; काश्रौ
१५, १, ३^६; बौश्रौ; ऋञ्ज^० २,
९, ६७; ७३; ८३; साञ्ज १,
५६५^०; -त्रम् ऋञ्ज^० २, १२, ४;

४, ६, ३^३; शाश्रौ; आपश्रौ १,
१२, ६^३; १०, २६, १२^३; १२,
१२, १२^३; १४, ११^३; १६, १०^३;
११^३; १९, ६, ८^३; २१, २०, ७^३;
भाश्रौ १, ६, ११^३; १०, १७,
१८^३; माश्रौ १, १, २, २^३; २,
३, १, १८^३; वाश्रौ १, २, २, ६^३;
वैश्रौ ३, ५ : ११^३; ११, ५ : ६^३;
हिश्रौ १, ३, ३^३; जैश्रौ ८ : २१^३;
लाश्रौ १, १०, २०^३; कौश्रु ३, १४,
१२^३; वैश्रु १, ३ : ६^३; कौसू ६६,
१६^३; कप्र १, २, १०^३; २, १, ३^३;
अप ४८, ७५^३; बौध २, ६,
२६^३; निघश्रु १, २^३; या^३, ६^३;
श्रु^३; ऋ^३; १४, ११; १३^३; -त्रयोः
काश्रौ ३, ४, २१; बौश्रौ २०,
५ : १८; आपश्रु १, १९; -त्रस्य
आपश्रौ १२, १३, १; बौश्रौ; -त्राः
आपश्रौ १०, ६, १^३; हिश्रौ;
-त्राणाम् विध ६४, ४०; -त्राणि
शाश्रौ ८, ९, २; वाश्रौ ३, ३, २,
७; सु; -त्रात् माश्रौ २, ४, ३,
२९^३; वैताश्रौ १६, १७;
-त्राभ्याम् काश्रौ २, ५, १३;
आपश्रौ; भाश्रौ २, ६, १३; -त्राय
शाश्रौ १५, १२, ३; -त्रे आश्रौ
२, १२, ४; ५, १२, १५; शाश्रौ ७,
१५, १३^३; काश्रौ; या १४,
१६^३; -त्रेण आश्रौ ९, ३, २;
शाश्रौ १५, १५, ६^३; आपश्रौ
१९^३, ७, १^३; ४-६; बौश्रौ; या ५,
६^३; -त्रैः आपश्रौ ४, ५, ६;
भाश्रौ ४, ७, ५; हिश्रौ.

पावित्रायण- पा ४, १, ११०.

पवित्र-क- -कम् जैश्रौका ९९.

पवित्र-काम- -मः बौध ३, ७, ५.

पवित्र-काषायवासो-वर्जम् बौध
३, २, १४.

पवित्र-क्रिया- -यया बौध ४,
८, ४.

पवित्र-चमस-स्फ्य-कपाला(ल-
अ) मिनहोत्रहवणी-शूर्प-कृष्णा-
जिन-शम्यो(म्या-उ) लखल-मूस-
ल-दषद्-उपल-वेद-कुटर-सुव-जु-
हू(हू-उ)पभृद्-अवा-प्राशिन्नहरणे
(ए-इ)डापात्र्या(त्री-आ)ज्यघान-
पात्री-संवपनपात्री- -त्रीः माश्रौ
१, २, १, ४.

पवित्र-दशा- -शाभिः आपश्रौ
१२, १४, ९; १०.

पवित्र-दीक्षा-स्थान- -ने काश्रौ
१५, १, १७.

पवित्र-नाश- -ने बौश्रु ४, ९, ४.
पवित्र-पति^०- -०ते आपश्रौ
१०, ७, १३; बौश्रौ ६, २ : २२;
भाश्रौ.

पवित्र-पाणि^०- -णिः वाश्रौ १,
२, ४, १२; आश्रिण २, ३, ३ :
४×४; वैश्रु; -णी आश्रिण १, ७,
१ : ६.

पवित्र-पूत- -तस्य शुपा २,
१९^३.

पवित्र-वत्- -वता बौश्रौ २०,
१६ : २६; २१, ३ : १६; -वति
शाश्रौ १, १२, ८; आपश्रौ;
-वन्तः बौश्रौ १९, १० : ३०;

a) परस्परं पाभे. । b) विप. । वस. । c) वैप १ द्र. । d) = सोमयाग-विशेष. । e) = ऋषि-
विशेष. । f) = दशापवित्र. । g) पाभे. वैप १, १५१४ g द्र. । h) = [प्रादेशमात्र-] दर्भमय-उपकरण. ।
i) पाभे. पृ ७८५ e द्र. । j) = (दर्भमय) अनामिकावेष्टन. । k) = सव-विशेष. । l) = दर्भ. । m) = उदक. ।
n) = कुशमुष्टि. । o) पत्रेण इति. C. शोधः । लु. सप्र. बौश्रौ १७, ३४ : ७ इयेनपत्रेण इति पाभे. । । p) पाभे.
वैप १, २०६८ d द्र. ।

या १२, ३२४; -वन्तौ आश्र ३,
२, २; आश्रिण २, ६, ४: ४.

पवित्रवती- तीभिः गौघ

२६, १०^४; -त्यः बौश्रौ १२, १०:
३१^४; -त्या आपश्रौ १, १७,
१०; बौश्रौ १, ५: ६; १५;
५, ११: ७; -त्याः माश्रौ ४,
२, ३१; -त्याम् आपश्रौ १, २४,
१; वौश्रौ.

पवित्र-समूह- हेन बौघ २, ४,
४.

पवित्रा(त्र-आ)ख्यान- नम्
बुदे १, २६.

पवित्रा(त्र-आ)तिपवित्र- त्रस्य
बौघ ३, ५, १.

पवित्रा(त्र-आ)स्मन्^b- न्मा
अप ३८, १, ३.

पवित्रा(त्र-आ)न्त- न्तेन वैश्रौ
१५, १५: ८.

पवित्रा(त्र-आ)न्त(र>)रा^b-
-रा वाश्रौ १, ३, १, २४^{१०}; -रा:

वाश्रौ १, २, ४, ८^d.

पवित्रा(त्र-आ)न्तहित, ता- तम्
आपश्रौ १, १६, ३०; -तान्

कागृ ३९: ८; गोश्र १, ७, ६;
कप्र १, ४, ९; -तायाम् आपश्रौ

१, ११, ९; २, ६, १^०; भाश्रौ; -ते
भाश्रौ १, १८, १; माश्रौ; -तेषु

गौपि २, ३, १४; शंघ २१४.
पवित्रा(त्र-आ)र्थ^e- थान् आपघ

१, २७, २; द्विघ १, ७, २७.
पवित्रे(त्र-इ)ष्टि- ष्टिः बौघ ४,
६, २; -ष्टिम् आश्रौ २, १२, ६^१;

बौश्रौ २८, २: ५७; वाघ; -ष्ट्या

बौश्रौ २८, २: २^१; -ष्वाम्
आश्रौ २, १२, १.

ऋप(वि>)वीतु^f- ०तारः ऋप्रा
९, ५१; -तारम् ऋप्रा ९, ५२^६.

२पावक, कर्^f- पावा, पावाग ७, ३,
४५; -ऋक आश्रौ २, १, २५^१;

३, १२, २७××; शाश्रौ; या १२,
२२-२५; -ऋकः आश्रौ २, १,
२५; १२, २^३; ५; ३, १२, २७;

शाश्रौ; -कम् शाश्रौ २, ३, १०;
कौसू ७३, १^१; कप्र; या १४, ५;

-ऋकया आश्रौ २, १२, ३;
बौश्रौ; -कस्य बौश्रौ २८, २:

३०; ३९^१; वैश्रौ; -ऋका
आश्रौ २, ८, ३; शाश्रौ २,

४, ४; ७, १०, १५; काश्रौ;
या ११, २६; -ऋकाः आपश्रौ

१०, ६, १^३; बौश्रौ; -काय शाश्रौ
२, २, ७; १४, २, १४; १८; काश्रौ;

-के आश्रिण २, ४, १०: ३;
११; कौसू.

पावक-दीप्ति^b- सिम् या ४,
१४.

पावक-वत्- वते शाश्रौ ३, १९,
१५; आपश्रौ ९, ९, १; १४^१;

भाश्रौ; -वन्तौ आश्रौ २, १२, ३;
बौश्रौ २८, १: १७; २: २२;

-वान् आश्रौ ३, १२, २६.
पावकवती- न्यौ आश्रौ २,

१२, २; बौश्रौ २८, १: १६; २:
२१; वैश्रौ २०, ३३: ९.

पावक-वर्ण^b- णाय गौघ २६,
१२^१.

पावक-शुचि^b- च्चिभ्याम्

आपश्रौ ५, २१, ७.

ऋपावक-शोचि^f- ०चे आश्रौ
४, ७, ४.

ऋपावक-शोचिस्^f- चिभ्यम्
आश्रौ ७, ११, १४; १७; या
४, १४^४.

पावका(क-अ)भिभ्याहा(र>)
रा^b- राः निसू ६, १३: १.

पावन्^f- पाग ४, १, ४१; -०न
विघ १, ५७; -नम् काश्रौ १०,
३, १७; माश्रु; अप ४८, ७५^१;

-नानाम् अप ३८, १, १; -नानि
वाघ २२, ९; बौघ ३, १०, ११;

गौघ १९, १३; -नाय अप ७०,
१, १०; बुदे ८, १२; -ने वाघ
१, १६.

पावनी- पा ४, १, ४१; -नी
विघ ९९, ४.

पावना(न-अ)र्थ^e- र्थम् वैश्रौ १,
४: ४.

पावयत्- न्यन्तम् वैताश्रौ ३०, ९.
पावयित्वा माश्रौ २, १, १, ४५; बौघ
३, १, ८; वैघ ३, १५, १३.

पावित- -तः माश्रौ ५, २, ११, २१;
अप ४१, ३, १०.

पाव्यमान, ना- नः आपश्रौ १०,
७, १२; भाश्रौ १०, ५, ४; द्विश्रौ
१०, १, ५०; वैताश्रौ ११, १०;

-नाम् वैताश्रौ ३०, ७.
ऋपुनत्- नन् आश्रौ^f १०, ८, १२^६;

१३^६; शाश्रौ १६, ४, २; लाश्रौ^f
९, १०, ३^६; ४^६; वैताश्रौ ३६, ३१;

-नन्तः या ४, ९.
पुनती- ऋती आपसं २, २, ९;

१३^६; शाश्रौ १६, ४, २; लाश्रौ^f
९, १०, ३^६; ४^६; वैताश्रौ ३६, ३१;

-नन्तः या ४, ९.
पुनती- ऋती आपसं २, २, ९;

१३^६; शाश्रौ १६, ४, २; लाश्रौ^f
९, १०, ३^६; ४^६; वैताश्रौ ३६, ३१;

-नन्तः या ४, ९.
पुनती- ऋती आपसं २, २, ९;

१३^६; शाश्रौ १६, ४, २; लाश्रौ^f
९, १०, ३^६; ४^६; वैताश्रौ ३६, ३१;

-नन्तः या ४, ९.
पुनती- ऋती आपसं २, २, ९;

a) = ऋत्- । b) विप. । वस. । c) पाठः ? ऋम् इति शोघः [तु. सप्र. आपश्रौ २, ६, १ पवित्रान्त-
हितायाम् इति पाभे.] । d) उत्तरेण संधिरार्थः । e) = मृगारादये(या-इ)ष्टि- इति भाष्यम् । f) वैप १ द. ।
g) पाभे. वैप १, २-६७ m द. । h) = [उपचारात्] ऋष्टि-द्वय- । i) विप., नाप. । j) = उदक- ।
k) पुनर्निक- इति पाठः ? पुनत् इव इति शोघः (तु. मा २३, ११, १७) ।

कौट २, १, २९; बाण्ट.
 ऋपुनान, ना- -नः आपश्रौ १६, २०,
 १४; हिश्रौ ११, ६, ६१; क्षुसू;
 या ६, २८; -नाम् निसू ९, ४:
 २१; -नाय ऋञ्च २, ९, १०३.
 सुपूषमाण- -णः बौश्रौ १४, १३:
 १६.
 पूत, ता- पाग २, ४, ३१; -तः कांश्रौ
 १५, १२, ५; काश्रौ; -ऋतम्
 आपश्रौ १०, ७, १३; १९, २१,
 १७; बौश्रौ; कौसू २, ३२^०;
 -ता आम्रिण २, ६, २: १८^३फं;
 वाध २१, १-३; ६-८; बौध
 २, ५, ११फं; -ऋताः आपश्रौ
 १, १४, ३; बौश्रौ १, ३: २६;
 भाश्रौ; -तान् अप २, ६, ५;
 -ताम् काश्रौ १९, २, ८; आपश्रौ;
 -ऋते^० आपश्रौ १, ११, ९; बौश्रौ
 १, ४: १९; भाश्रौ; -तेन जैण २,
 १: ३९फं; गो २, २६.
 पूत-काम^०- -मः आम्रिण २, ४,
 ५: १.
 पूत-किल्बिष^०- -षः अप ४१,
 ३, १०.
 पूत-ऋतु^०- > पूतऋतायी- पा,
 पावा ४, १, ३६.
 ऋपूत-दक्ष^०- -क्षम् आश्रौ ७,
 २, २; ५, ९.
 २पूत-दक्ष^०- -क्षः ऋञ्च २, ८,
 १४; साञ्च १, १४९; १७४.
 पूत-भृत्^०- -भृत् जैश्रौ १८:
 ९; द्राश्रौ ३, ४, ३८; लाश्रौ १,
 १२, २२^३; -भृतः काश्रौ ९, ५,

२०; १०, ४, ३××; आपश्रौ;
 -भृत्तम् काश्रौ ९, २, २०;
 आपश्रौ; बौश्रौ ७, ७: ३०^०;
 -भृत्ति काश्रौ ९, ७, ३; १४,
 २××; आपश्रौ.
 पूतभृद्-आधवनीय- -ययो:
 बौश्रौ २३, ५: २०; -यौ काश्रौ
 ९, ७, १२; आपश्रौ.
 पूत-यव- पाग २, १, १७^०.
 पुता(त-आ)त्मन्^०- -त्मा बौध
 ४, ७, १०.
 पूत्रिम^०- -मम् अप्रा ३, ४, ५फं.
 पूत्वा काण २५, ९फं.
 पूत्वी ऋप्रा ४, ६३फं.
 पून- पावा ८, २, ४४.
 पूयमान- -नः ऋप्रा ८, ७फं; -नस्य
 या ५, १२; -नाः आपश्रौ १७,
 १८, १फं.
 पूयमान-यव- पाग २, १, १७.
 पूः^० आपश्रौ ४, ४, ४^६; भाश्रौ ४, ५,
 ५; वाश्रौ १, १, २, १६; हिश्रौ
 ६, १, ५१^६.
 पूर-दश(म>)मा^०- -मा आपश्रौ
 ४, ४, ४; भाश्रौ ४, ५, ५; वाश्रौ
 १, १, २, १६; हिश्रौ ६, १, ५१.
 पूकर^०- (>पौकरीय- पा.) पाग ४,
 २, ८०.
 पूर^०- पाठ १, १२४^०; पाग २, १,
 ५९; ४, ३, ५४; -गात् पा ५, ३,
 ११२; -गेषु पा ६, २, २८.
 पूग-तिथ- पा ५, २, ५२.
 पूग-शस्(ः) बौश्रौ ११, ६: २८;
 १२, ७: ३८.

पूय- पा ४, ३, ५४.
 पूगर^०- (>पौगरीय- पा.) पाग ४,
 २, ८०.
 ✓पूज पाधा. चुरा. पर. पूजायाम्,
 पूजयति वैण्ट ४, ३: १०; १३:
 २; अप; या १४, २७^०; पूज-
 यन्ति आम्रिण २, ५, १: ५५;
 जैण २, ९: ४०; कप्र १, १, १३;
 या २, २६; ८, २; १०, ३९;
 पूजयामि या ९, १६; पूजयेत्
 आम्रिण २, ४, १०: ४; ९; ११;
 वैण्ट; पूजयेयुः आपध २, ४, २०.
 पूजयाम् ✓अस्, पूजयामास
 विध १, ३०.
 पूज्यते अप १४, १, १०; पूज्यन्ते
 कौट ३, १२, ९; अप ७०^३, १६,
 १^३; २;
 पूजक- पाग २, २, ९; ६, २, १५१.
 पूजन- -नम् वैण्ट ३, २३: १५; ४,
 ७: १०; ५, ३: १; कप्र; -नात्
 अप ७०, १०, ४; पा ५, ४, ६९;
 ८, १, ६७.
 पूजना(न-अर्थे)- -र्थे या १२, ७.
 पूजनिक^०- (>पौजनिक्य-
 पा.) पाग ५, १, १२८.
 पूजनीय, या- -यम् या ७, २६;
 -याः कप्र १, १, १३; १७.
 पूजयत्- -यन् विध ५, ९३; या ३,
 ४.
 पूजयितव्य- -व्यम् या ५, १४;
 -व्याः वैध २, ११, २.
 पूजयित्वा वैण्ट २, १५: ११; ५, ७:
 ८; अप.

a) पाभे. वैप १, २०७१ h द्र.। b) पूप. भावे क्तः प्र.। c) विप.। बस.। d) =इन्द्र-(तु. शक.)। बस.। e) वैप १ द्र.। f) =ऋषि-विशेष-। g) भृत्तम् इति पाठः? यनि. शोधः (तु. उत्तरं स्थलम्)। h) ?पूनयव- इति भोजः इति पागम.। i) पाभे. वैप १, २०७२ l द्र.। j) अर्थः व्यु. च?। k) पूर इति पाठः? यनि. शोधः (तु. भाश्रौ. वाश्रौ.)। l) तु. पागम.। m) =संघ-। व्यु.?!। n) < ✓पू इति। o) तु. राज.; वैतु. ल. पूरयति इति। p) =पूजा-वत्- (तु. पूजनीक इति पंजा.)। मत्वर्थीयषु उन्.प्र.।

पूजयिष्यन्- -व्यन्तः आगृ ३, १, ३.
 पूजा- पा ३, ३, १०५; -जा अप
 ६८, ५, १९; आपध; -जाभिः
 अप ६८, १, २४; -जाम् वांण
 ४, ५, १४; आमिण; -जायाम्
 आपध १, ३०, ५; २, ६, ६; विध;
 या १, ४; ३, १८; पा १, ४, ९४;
 २, २, १२××.
 पूजा-कर^१- -रम् या ५, १४.
 पूजा-कर्मन्^२- -र्मणः या २, २६;
 -र्मा या ७, १५; १०, १६.
 पूजा-न्तसुः(ः) गौध १७, १८.
 पूजा(जा-अ)र्ह- -र्हम् विध ५, ९३
 पूजित, ता- पाग ५, २, ८८; -तः
 बौश्रौ १२, ६ : ५; -तम् अप
 २१, ६, १; पा, पावा ८, १, ६७;
 -तस्य पावा ८, १, ६७; -ताः
 आमिण २, ५, १ : ५५; जैय २,
 ९ : ४०; कप्र; -तान् विध २१,
 १; -तानाम् अप ७०^३, ९, १.
 पूजितिन्- पा ५, २, ८८.
 पूजिल- पाठ १, ५६.
 पूज्य बौध २, ३, १८; ९, ५.
 पूज्य, ज्या- -ज्यः वाच १, ३८;
 -ज्यस्य अप ७०, १०, ४; -ज्याः
 कप्र १, १, १२; -ज्यान् बौध २,
 ३, ५५; -ज्येषु अप ७०^३, १६,
 १; -ज्यौ बौध २, ३, ५७.
 पूज्यमान- -नः अप २१, ६, ७;
 -नम् पा २, १, ६२; -नैः पा
 २, १, ६१.
 ✓पूण ✓पूल् टि. द्र.
 पूत- प्रसृ. ✓पू द्र.

पूत-दारु^१- -रम् असां १९, १.
 पौतदारव- -वैः माश्रौ १, ७, ३,
 ३४.
 पूतदारु-गुगुल-केरु-सुगन्धिजेन-
 -नम् माश्रौ १, ७, ३, ३५.
 पूत(न>)ना- पाठभो २, २, २०६.
 पूतर- (>पौतरीथ- पा.) पाठभो २,
 ३, ६७; पाग ४, २, ८०^६.
 पूति->पूति-रज्जु^१- -रज्जुः कौस्
 १६, १०; अश्र ८, ८; -रज्जुम्
 कौस् १६, १०.
 रपूति- प्रसृ. ✓पू द्र.
 पूतिक, का- पाग ४, २, ७५^६; ५, १,
 १२८; -काः^६ आपश्रौ १, १, १४;
 -कान्^६ वैश्रौ १३, २ : १; हिश्रौ
 २४, १, १०; -कैः^६ वैश्रौ ३, ८ : ७.
 पौतिक- पा ४, २, ७५.
 पौतिक्य- पा ५, १, १२८.
 पूति-त्तण^१- -णानि बौश्रौ १०, १३ :
 ८; १४, १३ : २६; २९; वैश्रौ
 १८, ७ : १.
 पूतिमाष^१- पाग ४, १, १०५; २, १११;
 -पाः^१ बौश्रौ २३ : ३; ४५ : ७.
 पौतिमाष्य- पा ४, १, १०५.
 पौतिमाष- पा ४, २, १११.
 पूतीक^१- पाठभो २, २, २०; -कम्
 माश्रौ ४, १, ९; ११; -काः
 आपश्रौ १४, २४, १५^३; -कान्
 आश्रौ ६, ८, ५; शांश्रौ १३, ६, ३;
 काश्रौ; -कैः आश्रौ ६, ८, ६;
 हिश्रौ १, ३, ५३.
 पूतीका(क-अ)भाव- -वे आपश्रौ
 १४, २४, १२.

पूतीकी^१- (>पौतीक-)
 पूतु-दारु^१- -रु अप ३७, ९, २; -रुम्
 कौस् ५८, १५.
 पौतुदारव^१- -वे वाधूश्रौ ३,
 ८६ : ६; -वेभ्यः हिश्रौ ४, ५,
 ६५; -वौ वाधूश्रौ ३, ७६ : ७.
 पूतुदारु-मणि- -णिः अप ३७, ९, २.
 पूतु-द्रु^१- -द्रुः अप्रा ३, ४, ११^६.
 पौतुद्वन्^१- -वम् बौश्रौ १५, २२ :
 १७; -वान् बौश्रौ ४, १ : १; ३ :
 ११; माश्रौ; -वेण आपश्रौ २३,
 ७, ९; बौश्रौ १५, २४ : २०;
 -वैः आपश्रौ ७, ५, ६; हिश्रौ ४,
 २, १३; -वौ आपश्रौ २०, ९, ७;
 बौश्रौ.
 पूचिम- प्रसृ. ✓पू द्र.
 पूप^१- पाग ५, १, ४; -पम् अप १२,
 १, ८.
 पूय- पा ५, १, ४.
 ✓पूय पाधा. भ्वा. आत्म. विशरणे
 दुर्गन्धे च, पूयति आश्रौ ५, ४, ८.
 रपूति^१- > पूति-गन्ध^१- -न्धः
 वौश्रौ २९, ४ : १५; १७; वैश्रौ
 २१, ४ : २; आपध १, १०,
 २४^६; -न्धे आपध १, ११, ३१^१;
 बौध १, ११, २३.
 पूतिगन्ध-प्रसृति- -तौ वाध
 १३, १७.
 पूतिगन्धा(न्ध-अ)न्तश्शव-
 दिवाकीर्त्य-शूद्रसंनिधान^१-
 -ने गौध १६, १९.
 पूति-गन्धि- पा ५, ४, १३५;
 -न्धि विध ६१, १०

a) उस. उप. करणे प्र. । b) विप. । बस. । c) वैप १, २०, २० b द्र. । d) तु. पागम. ।
 e) वैप १ द्र. । f) का- इति [पक्षे] भारुडा. पासि. पाठः, पूतीकी- इति पाका. । g) = पूतीक. ।
 h) = पूतीक-त्तण- इति विवरणकारः (तु. बौश्रौ. सूची) । i) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । j) बहु. <पौतिमाष्य- ।
 k) = पीतु-दारु- । l) विचाराऽर्थे प्र. । m) = अमपू- । व्यु. ? । n) वैप १, २०, ७३ h, i द्र. ।
 o) सप्त. पति^१ <> पी^१ इति पासे. । p) दस. (वैदु. [पक्षे] माष्यकारोऽन्यथाव्याख्यानः) ।

पूति-ना(सा>)स^०- सः विध
४५, ७.

पूति-मृत्ति (का>)क^०- कम्
विध ४३, १५.

पूति-वक्त्र^०- वक्त्रः विध ४५, ८.

पूति-शाफरी^०- शीभिः कौसू
२७, ३२.

पू(ति>)ती-गन्ध- गन्धः हिध
१, ३, ५१^d; -गन्धाय तैप्रा ३,
७^१; -गन्धे हिध १, ३, ८२^d.

पूय^०- पाग ४, १, ४१^f; -यम् अप
७२, १४, ३; विध ४३, ३९.

पूयी- पा ४, १, ४१.

पूय-गन्धि^०- गन्धि विध ४३,
३९.

पूय-शोणित-कर्दम- मः शंघ
३७४.

पूय-शोणित-गन्ध- गन्धेन विध
४३, ३६.

पूय-शोणित-संपूर्ण- -र्णे शंघ
४४०.

पूय-शोणित-संभव^०- -वे बौध
१, ५, १२३.

पूयमान- √पू द्र.

पूर- (> २पौरैय-पा.) पाग ४,
२, ८०.

१पूरण^०- णः ऋञ्च २, १०, १६०;
अञ्च २०, ९६; -णाः^१ आपश्रौ
२४, ९, ९; बौश्रौप्र १ : ५; ४० :
१; हिश्रौ २१, ३, १२.

पौरण- -०ण आश्रौ १२, १४, ५;
आपश्रौ २४, ९, १०^१; हिश्रौ २१,

३, १२; -णः बौश्रौप्र ४० : २.

पूरण-वत् आपश्रौ २४, ९, १०; बौश्रौप्र
४० : २; हिश्रौ २१, ३, १२.

पूरण-वारिधापयन्त- -न्तानाम्
आश्रौ १२, १४, ५.

२पूरण-, पूरयत्- प्रम्. √पू, पू द्र.

पूर^१क- -कः अप ४८, ७८; निघ २,
३; या ७, २३^१; -रुः ऋञ्च २,
५, १६^१; -कृषु आपमं २,
८, ३; भाट्ट २, २१ : १८^१;
हिट्ट १, १०, ६२; ११, ३.

पौरव- पावा ४, १, १६८.

पूरुष^०- -कः शाश्रौ १२, २०, २;
२२, १; ऋप्रा ९, ४०; छुप्रा
३, ११९; -षम् वाट्ट १, २३^१;
विध २०, ५; -कषाः^३ पाट्ट १,
८, १०; आमिष्ट १, ५, ४ : ५०;
हिट्ट १, २२, ९; -०कषाः^३
शाश्रौ १२, १५, १; आपश्रौ;
हिश्रौ १५, ७, २३ बौगू १, ५, ७;
-षान् गौध २३, ३२.

पूरुष-क- -कम् ऋप्रा ९, ५०^१.

पूरुष-ख- > ख-ता- -ता ऋप्रा
९, ५१^१.

कषूरुषा(ष-अ)ङ्- -षाङ्: वुदे २,
१११; या २, ६१^१; ऋप्रा ९, ५०.

पूर्णा-, पूर्व-, पूर्ति- √पू, पू द्र.

कषीपूर्ती^० माट्ट १, ८, ११; वाट्ट १४, १.

पूर्त्वी- √पू, पू द्र.

पूर-दशम- ?पू: द्र.

पूर्यमाण- √पू, पू द्र.

√पूर्व^० पाधा. चुरा. उभ. निकेतने

पूर्व, वार्त्- पाग १, १, २७; २, ४,

३१; पावाग ४, २, ५१^१; -र्वः

आश्रौ ८, १, २; ५, १०××;

शाश्रौ; या ३, १६××; पा १,

१, ६५××; -र्वःऽ-र्वः काश्रौ

९, १३, ३; १५, ७, १२××;

आपश्रौ; या १२, ५^१; -र्वम्

आश्रौ १, १, ३; २, ६××;

शाश्रौ; शाश्रौ ६, १, १३^१; या २,

२^१; ४, १७^१; ५, ७; २८××;

नासि २, १, १०^०; पा २, ३, ३०;

६, १, १९२; २१९××; पावा २,

२, ३५^१; -र्वम्ऽ-र्वम् काश्रौ १,

८, ३१; ३, २, २०××; आपश्रौ;

-र्वैया आश्रौ २, १०, ७; ४,

१०, १××; शाश्रौ; या २, २८;

-र्वयोः आश्रौ ५, ६, २७; शाश्रौ

१०, ५, १९; काश्रौ; -र्वस्मात्

आश्रौ ८, ७, १५; काश्रौ १७, ६, ५;

माश्रौ; -र्वस्मिन् आश्रौ ६, १६;

११, ३, ८; शाश्रौ; आपश्रौ १४,

२३, १३^१; पा ३, ४, ४; ७, १, १६;

-र्वस्मिन्ऽ-र्वस्मिन् आपध १,

१, ८; हिध १, १, ८; -र्वस्य आश्रौ

१, ५, २९^१; ४, १३, ७××;

शाश्रौ; या १, १३; १४; पा १, १,

६६; ४, ४०; ६, ३, ११०××;

मीसू ५, ३, १६^१; -र्वस्यऽ-र्वस्य

वैश्रौ १५, ३४ : ३; हिश्रौ ८,

८, ३; -र्वस्याः शाश्रौ २, ९,

४; ५, ११, ३; काश्रौ; -र्वस्याम्

आश्रौ ६, ३, ११; शाश्रौ; वैट्ट

a) विप. । बस. । b) = नरक-विशेष- । बस. । c) मलो. कस. उप. = मत्स्यभेद- । d) पामे. पृ १६१६ ०
द्र. । e) वैप २, ३३^१. द्र. । f) तु. पागम. । g) = पूति-गन्धि- । h) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । i) बहु.
< पौरण- । j) बप्रा. । k) वैप १ द्र. । l) पुं इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. आपमं. प्रम्.) । m) पामे.
वैप १, २०५२ i द्र. । n) पामे. वैप १, २०७२ l द्र. । o) तु. BPG. । p) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र. ।
q) तु. पाका. । r) सपा. पूर्वम् <> पूर्वम् इति पामे. । s) पूर्वात् इति लाघं. । t) तु. पारि. ।
u) पाठः ? मध्यमे इति शोघः । तु. रुद्रदाताः C. च । । v) णा तु पूर्वस्य इत्यस्य स्थाने ण्यनुपुं इति जीघं. ।

१,१४: ७^०; अप २५, १, ५^०;
 या ५, २८××; -र्वस्यै शांश्रौ
 १७,४, २; आपश्रौ १५, ६, १४;
 -र्वा आश्रौ ७, ७, ८; शांश्रौ;
 ऋया ३, २२; ११, २९; ३१;
 -र्वाऽर्वा बौश्रौ २२, २०: ३;
 शंघ ८५; -र्वा: शांश्रौ ६, ११,
 १२; ९, २८, ७××^१; बौश्रौ; या
 ९, २८^१; -र्वाऽर्वा: वैश्रौ २०,
 ९: ३; -र्वाणि आश्रौ ६, ३, ४;
 ७, १२, १२; शांश्रौ ३, १०, ३××;
 आपश्रौ; -र्वात् काश्रौ २५, १३,
 १६; गौपि २, ३, ३८; अप;
 -र्वात्ऽर्वात् वैश्र १, १: १८;
 -र्वात् आश्रौ ९, ९, १६; आपश्रौ
 १८, २, १४; ६, ५; बौश्रौ; -र्वाभिः
 शांश्रौ १५, २३, १; आपश्रौ १४,
 ३३, ७; बौश्रौ; -र्वाभ्यः अशां
 १२, ३; -र्वाभ्याम् शांश्रौ २, ५,
 २४; काश्रौ; -र्वाभ आश्रौ २, ३,
 १७; २६××; शांश्रौ; -र्वाभऽर्वाभ
 काश्रौ १६, ७, ७; १७, ४,
 १९; आपश्रौ; -र्वासाम् आश्रौ
 ६, ३, ४; बौश्रौ; -र्वासु शांश्रौ
 ८, २२, १^१; लाश्रौ; -र्वे आश्रौ
 २, ४, २२××; शांश्रौ; आमिष्ट
 १, ३, २: १९^{२०}; या ७, ७^१; २३;
 १२, ७^१; ४१^१; पा ६, २, २२;
 -र्वेण^१ आश्रौ १, १, ४; २, १९,
 ३७; ३, ६, २०; ५, ३, २४; ७,
 १; १०, २५; ६, १०, ३०;
 १२, ५, १३; १४; शांश्रौ;
 या १, ५; ५, १६; -र्वेणऽर्वेण
 आपश्रौ ११, ११, ११; १३, १२,

७; १५, ८, ३; भाश्रौ; -र्वाभिः
 काष्ट ६६, ७; या ७, १६; वैशि
 ३३५; -र्वेभ्यः काश्रौ १४, २,
 १८; आपश्रौ; -र्वेषाम् आश्रौ
 ६, २, १२; ३, १६; शांश्रौ; मीस्
 ३, ६, ४५^०; -र्वेषु आश्रौ ५, १,
 ७; शांश्रौ २, ५, २०; १३, ५, १८;
 आपश्रौ; या ४, ७; -र्वैः आश्रौ
 ५, ९, ११; काश्रौ १५, ९, ४; २०,
 ७, १२; आपश्रौ ऋश्रौ २६, ६;
 १२; १७, १७, ३; ५; २०, ६,
 १३^१××; बौश्रौ; वैश्रौ १८,
 १९; १^१; हिश्रौ ११, ७, ५१^१;
 या ७, १६; -र्वैऽर्वैः काश्रौ
 १५, ४, ३७; -र्वौ आश्रौ ७, ३, १;
 ९, ८, ९; १२, २, ६; शांश्रौ; पा
 ७, ३, ३; -र्वौऽर्वौ बौश्रौ २१,
 १४: ३१.
 ऋपूर्वा^१ -र्वीः आश्रौ ७, २, १७;
 ८, ६, १३; ९, ७, ३६; शांश्रौ;
 या ६, १६; १०, ४१.
 ऋपूर्व-कर्तृ -र्ता अप १, ८, ३.
 पूर्व-कर्मन् -र्म वाश्रौ १, ७, २, ४.
 पूर्व-कल्प -ल्पः शंघ ६४; -ल्पेन
 पाठ २, १०, १४.
 पूर्व-काण्ड^१ - पावा ४, २, ५१;
 -ण्डस्य अत्र २, १.
 पूर्व-काय^१ -> ष्य-कृष्ण- -ण्यम्
 काश्रौ २०, १, ३३.
 पूर्वकाय-मध्यापरकाय- -यान्
 काश्रौ २०, ५, १५.
 पूर्व-कारिन् -रिणः शांश्रौ १३, १, १.
 पूर्व-काल- -ल्म् आमिष्ट २, ४, ५:
 २, ७, ११: २; -ले शुप्रा ३, ४; पा

३, ४, २१; -लेन बौश्रौ २४, ६:
 ७.
 पूर्वकाल-त्व- -त्वात् मीस् ३,
 ४, ४७.
 पूर्वकालै(ल-ए)क-सर्व-जरत्-
 पुराण-नव-केवल- -लाः पा २,
 १, ४९.
 पूर्व-कृत- -त्म् विध २०, ४७; उस्
 ३, ४; -त्वेभ्यः कौस् ८४, १४.
 पूर्व-ग्रहण- पावा ७, ४, ६१; -णम्
 पावा ८, २, ४२.
 ऋपूर्वग्रहणा(रा-आ)नर्थक्य-
 -क्यम् पावा ६, १, १७४.
 पूर्व-चतुर्थ- -र्थः शौच २, ७; -र्थम्
 शुप्रा ४, १२४.
 ऋपूर्व-चित्^१ - -त्तये बौष्ट ३, ११,
 ३; -त्तिः आपश्रौ २०, १९, ७;
 बौश्रौ १५, २९: १; १८, ४५:
 १^१६; वाश्रौ ३, ४, ४, २^१; हिश्रौ
 १४, ४, ३२.
 पूर्व-चोदन- -नात् मीस् १२, २, २४.
 पूर्व-चोदना- -नया वाश्रौ १, १, १,
 ७०.
 पूर्व-चोदित- -ताः अप ६८, ५,
 १४; -तान् अशां २३, ५^१.
 पूर्वचोदित-त्व- -त्वात् पाठ २,
 १७, ४.
 पूर्व-ज- -जः कप्र १, ६, २; -जम्
 चात्र १७: १२^१; -जस्य
 गौघ २८, ३; २९, ९; -र्जाः
 आमिष्ट ३, ४, १: १८; बौपि
 ३, २, ९; गौपि १, २, ११;
 वाघ ११, ४१६; -जान् बौश्रौ
 १४, २०: १६^१; -जानाम् गौघ

- a) = पूर्वा-निदिश- । b) पाभे. वैप १, २०७५ C द्र. । c) पूर्वा इति पाठः ? यनि. शोषः । तु. बौद्यप.
 १, १३, २५ । d) कचित् वा. क्वि. । e) पूर्वलिङ्गानाम् इति जीसं. प्रयासं. प्रसृ. । f) पाभे. वैप १, २०७६ b
 द्र. । g) पाभे. वैप २, ३३३. पुराणैः मावा १३, ४, ३, ३ टि. द्र. । h) वैप १ द्र. । i) कस. । पाप्र. काण्डः प्र. ।
 j) एकदेशिसमासः (पा २, २, १) । k) वैप १, २०७९ C द्र. । l) = अप्सरो-विशेष- ।

६,३; बृदे ७, ७३; -ङ्जे आश्रौ
१, ७, ७; २, ९, १४; शाश्रौ;
-जेभ्यः हिपि १८: ६ङ्; -जौ
अप १,४१,४ङ्; अशा ११,४.
पूर्वजे > जे-प्रभृति- नति तैप्रा
४,२३.
पूर्व-जन्मन्- न्मसु आमिष्ट २, ४,
५: २४; बौध ४,७,८.
पूर्व-तर, रा- राम् बौष्ट २, ११, ३३;
-रेभ्यः वाधूश्रौ ४,४७: ४.
पूर्व-तस् (:) वैश्रौ १२, १३: ५; जैष्ट
५, २: १०; ५: १४; गोष्ट.
पूर्व-त्र पा ८, २, १; पावा १, १,
५८××; पूर्वत्रऽपूर्वत्र पावा ८,
२, १.
पूर्व-त्रिक- कम् कप्र २, १, १४.
पूर्व-व्यह- हः आश्रौ ८, ७, १८.
पूर्व-त्व- त्वम् निसू ६, १२:
२४; -त्वात् निसू ६, ४: ८;
९; मीसू १, २, २१××; -त्वे
पावा १, ३, १०; ६, ४, १३०;
८, ४, ६१.
पूर्व-था या ३, १६ङ्; १२, ३४;
शुप्रा ५, १२; पा ५, ३१११.
पूर्व-दक्षिण, णा^०- णः अप ६०, १,
४; -णस्मिन् वैश्रौ १४, ८: ४;
-णस्याम् काश्रौ १७, १, १५;
-णे काश्रौ ८, ५, १३; १७, १०,
४; -णेन काश्रौ ३, ७, २.
पूर्व-दक्षिण-तस् (:) जैष्ट २, ९: ९;
अप ५२, ८, ५.
पूर्व-दक्षिण- णयोः वैश्रौ १, २: १.
पूर्व-दक्षिणा (ण-अ) प (>) रा^०-
रासु वैश्रौ ९, ९: १०.
पूर्व-द् (त >) त्ता- त्ताम् विध ५,
१६०.

पूर्व-दिग्- > ऽदिग्- -इयस्य
बौश्रौ १२, १०: ४३.
पूर्व-दीक्षा- -क्षा बौश्रौ २५, २९:
९; -क्षाः आपश्रौ २०, ११, ४.
पूर्व-दीर्घा (र्घि-अ) र्थे- र्थम् पावा २,
२, २८.
पूर्व-देश- > ऽशिक- -कः जैष्ट २,
९: २१.
पूर्व-दौर्बल्य- -ल्यम् काश्रौ २५, ११,
१२, मीसू ६, ५, ५४.
पूर्व-द्वार- -द्वारा वैश्रौ १३, ११: ४.
पूर्व-द्वार- -रस्य वैश्रौ १५, २४: ३;
-रे जैश्रौका १३४.
पूर्व-द्वार-बाहु- -हू वैश्रौ १५,
२३: १५.
पूर्व-धृत- -तम् विध २०, ५०; ६४,
१३.
पूर्व-नगरी- (> पौर्वनगोरय- पा.)
पाग ४, २, ९७.
पूर्व-न (ह >) ह्य- ह्याम् शंघ
२७३.
पूर्व-निधात- -तस्य पावा १, १, ३९.
पूर्व-निचित- -तम् विध ९४, १२.
पूर्व-निपात- -ते पावा २, २, ३५;
३६.
पूर्वनिपात-प्रसङ्ग- -ङ्गः पावा २,
२, ३६.
पूर्व-निमित्त-मानिन्^०- -निनः ऋप्रा
११, ११.
पूर्व-पक्ष- पाग ४, २, १३८; -क्षः
लाश्रौ ९, ३, ३; १२; १०, १५, ६;
भाष्ट १, १२: ३ङ्; द्राष्ट २, २,
८; -क्षम् आश्रौ ३, १०, १८;
१२, ६, १७; काश्रौ; -क्षस्य
आपश्रौ १९, १२, १; ३; बौश्रौ;
या ५, ११; -क्षात् वाधूश्रौ ४,

१९: ७; -क्षान् आपश्रौ १९,
१२, ९; हिश्रौ २३, २, २०; -क्षे
आश्रौ ८, १४, ३; काश्रौ २४, ४,
१४; आपश्रौ; या ५, ११; -क्षेषु
लाश्रौ ८, ११, ६; -क्षौ या ११,
५.
पूर्व-पक्षिक- -कः निसू ५,
८: २१; -कम् निसू ५, ८: २६.
पूर्व-पक्षा (क्ष-अ) दि^०- -दिम् या
११, ६.
पूर्व-पक्षा (क्ष-अ) परपक्ष- -हौ अप
१, १३, १; या ११, ५.
पूर्व-पक्षापरपक्षा (क्ष-अ) भी-
ज्या- -ज्या निसू २, ५: ९.
पूर्व-पक्षीय- पा ४, २, १३८.
पूर्व-पक्षे (क्ष-ह) ष्टका- -काः बौश्रौ
१९, ३: २३.
पूर्व-पत्र- -त्रे आमिष्ट २, ४, ११: ८.
पूर्व-पद- पाग ४, २, ६०^०; -दम्
तैप्रा १, ४९; अप्रा ३, १, ५;
भासू ३, १; पा ६, २, १; -दस्य
बौश्रौ २१, ११: २०; माश्रौ २,
१, ३, ३९; पा ७, ३, १९; पावा
१, १, १९××; -दात् अप्रा ३, ३,
१०; शौच ३, ७६; पा ८, ३,
१०६; ४, ३; पावा ८, ३, १०३;
-दान् अप १, ६, ६; -देषु
काठश्रौ ८४.
पूर्व-पद-त्व- -त्वात् पावा ६, २,
३६.
पूर्व-पद-निमित्त^०- -त्तानाम् शौच
४, ७५.
पूर्व-पद-प्रकृति-स्वर- -रः अप्रा
१, ३, १; -रात् पावा १, ४, २.
पूर्व-पद-प्रकृति-स्वर-त्व- -त्वम्
पावा २, १, ४; ३, २, १.

a) = आमेय-कोण-। बस.। b) द्वस. अपि पू. पुंवद्भावः उरसं. (पा ६, ३, ४२)। c) कस. > उरस.।

पूर्व- = पूर्व-पद-। d) षस.। e) तु. पागम.। f) विप.। बस.।

पूर्वपदप्रकृतिस्वर-भाव- >
 ०विन्- -विनि पावा ६, २, ५२.
 ०पूर्वपद-विकार- -राः पावा ६,
 १, ९०.
 पूर्वपदा(द-अ)तिशय- -ये पावा
 २, १, ६९.
 पूर्वपदा(द-अ)न्त- -न्ताः ऋप्रा
 ९, १.
 पूर्वपदान्त-गा- -गम् ऋप्रा
 ५, ४५.
 पूर्वपदा(द-अ)न्तोदात्तत्व- -त्वम्
 पावा ६, १, ८४.
 पूर्वपदा(द-अ)र्थ-हित-त्व-
 -त्वात् पावा ५, १, ९.
 पूर्वपदो(द-उ)त्तरपद- -द्वयोः
 पावा १, ४, २.
 पूर्वपदो(द-उ)प(धा >)ध^०-
 -धः ऋप्रा ९, २७.
 पूर्वपद्य^०- -द्यः ऋप्रा १, ८०;
 -द्यान् ऋप्रा ४, ५०; -द्यौ
 ऋप्रा १३, ३०; उस् ८, १९.
 पूर्वपद्या(द्य-अ)न्त- -न्तः
 ऋप्रा ५, ३१; -न्ते ऋप्रा ४,
 ८४; उस् ६, ५.
 पूर्वपर- -रयोः शौच ३, ४१; पा ६,
 १, ८४; पावा १, ३, ९; -रौ अप्रा
 ३, १, १७.
 पूर्वपर-ग्रहण- -णम् पावा ६, १,
 ८३.
 पूर्वपर-प्राप्ति- -प्तेः पावा १, ४, २,
 पूर्वपर-व्यवस्था(स्था-अ)र्थ-
 -र्थम् पावा १, ४, ८०.
 पूर्वपरा(र-अ)धिकार- -रात्
 पावा ६, १, ८४.
 पूर्वपरा(र-अ)वर-दक्षिणो(ण-उ)

त्तरा(र-अ)परा(र-अ)वर- -राणि
 पा १, १, ३४.
 पूर्व-परिच्छेद- -दात् वाध १६, ३५.
 पूर्व-पश्चाद्(द्-उ)त्तर- -रे अप
 ७०^२, १८, ५.
 पूर्व-पाद- -इम् शांश्रौ १५, १३,
 १५; आपश्रौ ९, १९, १२××;
 काठश्रौ; -दे वैश्रौ १०, १० :
 ११; १२, १६:१४; हिश्रौ ४, ३,
 १८; ७, २, २२; उस् ३, ३; -देन
 हिश्रौ ७, २, २४; अत्र २, १^२.
 पूर्व-पान- -नाय या १०, ३७.
 पूर्व-पाप-कर्मन्- > ०मिन्-
 -र्मिणाम् काध २७८ : ६.
 पूर्व-पीति- -तये आश्रौ ५, १५, २;
 शांश्रौ ७, २०, ३; वैताश्रौ ३९,
 ६; क्षुस् २, ११ : ३; निस् ७,
 ४ : २२; या १०, ३६^{कृ}.
 पूर्व-पुरुष- -षाः कौसु ६७, ३;
 -षाणाम् बौगु २, १, २९;
 -षाभ्याम् शंघ २५७; -षैः
 बौश्रौ २४, १२ : ४.
 पूर्व-पुरुष-कृत- -तम् बौध ३, ६,
 १९; विधु ४८, १४.
 १पूर्व-पूर्व^०- , ०प्राधान्य- -न्यम्
 बौध १, ६, ५०^२.
 २पूर्व-पूर्व^०- -र्वाणि हिश्रौ २, २,
 १८^द.
 पूर्व-पूर्वतर- -रयोः पावा ५, ३, २२.
 पूर्व-पूर्वक>)र्विका^०- -०के अशां
 ४, ३.
 पूर्व-प्रकरण- -णम् वाश्रौ १, १, १,
 १८.
 पूर्व-प्रक्रान्त- -न्तम् शांश्रौ १४,
 ४०, २४.

पूर्व-प्रज्ञा- -ज्ञा या १४, ७.
 १पूर्व-प्रथम- -मयोः पावा ८, १,
 १२.
 २पूर्व-प्रथम^०- -मानि आपश्रौ २,
 १९, ३^द.
 पूर्व-प्रयुक्त- -क्तम् लाश्रौ १०, ५, ६.
 पूर्व-प्रोष्ठपदो(द-उ)त्तर-प्रोष्ठपद-
 -दौ अप १, १, २.
 पूर्व-फल- -लम् अप ३५, १, १७.
 पूर्व-भाग- -गाः शैशि १४९; -गम्
 आसिगु २, ३, १ : १४; -गे अप
 १, ७, १.
 पूर्व-भागो(ग-उ)त्तर- -रे वैश्रौ
 १, ३ : ४.
 पूर्व-भाज्- -भाक् ऋप्रा १, ३२; १८,
 ३३.
 पूर्व-भाव- -वम्, -वस्य या १, २.
 पूर्व-भर्यादा-स्थापन- -नम् शंघ
 ३१०.
 पूर्व-भात्र- -त्रस्य पावा १, १, ५७.
 पूर्व-मारि(न् >)णी^०- -णीम् शांश्रौ
 ४, १५, २३; कौगु ५, ६, ६; कप्र
 ३, १, ६; -ण्याः शांश्रौ ५, ९, ६.
 पूर्व-मार्ग- -र्गेण जैश्रौका १३१.
 पूर्व-मुख^०- -खः अप ७०^३, ६, ७.
 पूर्व-मृत- -ताः वैगु ५, १५ : ७.
 पूर्व-यज्ञ- -ज्ञम् वापश्रौ ३, २८ : १.
 पूर्व-युग-> ०गीय- -यस्य वृदे ४,
 ३६.
 पूर्व-रात्र- -त्रे आपश्रौ ६, ४, १०;
 भाश्रौ ६, ९, ८; कौसु.
 पूर्व-रात्र- -मध्या(ध्य-अ)पर-
 रात्र- -त्रेषु काश्रौ २१, ३, ९.
 पूर्व-रूप- -पस्य शौच १, ५०;
 -पाणि ऋप्रा २, ३३.

a) विप. । बस. । b) विप., नाप. । स्वार्थे वा तत्रभवाथे वा यत् प्र. । c) द्विभवि कस. अतिदेशः -
 (यक्र. पान्ना ८, १, १२; पा ८, १, ११) । d) सप्र. पूर्वपूर्वाणि <> पूर्वप्रथमनि इति मभे. । e) = पूर्वाषाढा-
 नक्षत्र- । f) = पतिव्रता-स्त्री- । उस. उप. <√स् ।

पूर्व-लक्षण-लक्षित- -तः काशु ७,
१०.
पूर्व-लिङ्ग-त्व- -त्वात् पावा २, ४,
१२.
पूर्व-लुप्त-कारण^१- -णानि अप्रा १,
१, १५;
पूर्व-वचन- -नम् उस् ४, ११;
पावा २, २, २०××.
पूर्व-वत् काश्रौ २, ५, २; ६, २३××;
आपश्रौ; पा १, ३, ६२; मीस् ४,
४, १४^०; १२, ४, १४^०.
पूर्ववत्-प्रमा(ण>)णा^१- -णस्
आपश्रौ १७, २६, १४; हिश्रौ
२४, १, ३.
पूर्व-वत्- -वति मीस् ८, ३, २८;
-वन्तः मीस् १, ४, १७; -वान्
शुप्रा २, ७; मीस् १०, ३, ४.
पूर्ववती- -स्याम् आपध २,
१३, ३; हिष ११, ३.
पूर्ववत्-त्व- -त्वम् मीस् ७, ४,
१; -त्वात् मीस् २, ३, १९^०; ४,
२३; ३, २, ३२^०××.
पूर्व-वर्ण- -र्णः शैशि २७१; -र्णयोः
नाशि २, २, ८.
पूर्व-वर्ध- -र्षेषु अप ५९, १, १३; १९.
पूर्व-वसन्त-ज्योतिष्टोम- -मस्य
बौश्रौ २८, १२: १८.
पूर्व-वह- -वहः वाधूश्रौ ४, ४७:
२; आपसं १, ३, ४.
पूर्व-वाङ्- -दः विध ८, १०.
पूर्व-वाह- -वाद् आपश्रौ ५, १४,
१७; १८; बौश्रौ २, १७: १६;
हिश्रौ ३, ४, ३५; -वाहम् बौश्रौ

२, २२: ७; २४, १४: ६; वैश्रौ
१, १२: २०.
पूर्व-विज्ञान- -नात् पावा १, १, ५७.
पूर्व-विधान^१- -नम् ऋप्रा ११, २२;
४४.
पूर्व-विधि- -धौ पा १, १, ५७;
पावा ६, १, ८४.
पूर्व-विप्रतिषिद्ध- -द्धम् पावा २, ४,
१२; ८५××.
पूर्व-विप्रतिषेध- -धेन पावा ६, २,
१३०; ४, ४××.
पूर्व-वृत्- -तस्य शंघ ३०३.
पूर्व-वृष्टि- -ष्टयाम् अप ५९, १, १७.
पूर्व-वेदि- -दिम् वैष्ट १, ९: १५.
पूर्व-व्रत- -तम् वैश्रौ १२, २४: ३.
पूर्व-शस्(ः) अप्रा २, ४, ३.
पूर्व-शान्ति- -न्तिम् वैश्रौ १३, १५:
७.
पूर्व-शास्त्र- -स्त्रे तैप्रा १९, ५^२.
पूर्व-शेष- -षात् काश्रौ १, ६, २;
-बौ काश्रौ ८, १, १७.
पूर्व-शेष-दर्शन- -नात् पावा १,
२, ७२.
पूर्व-शेष- -षे पावा ७, ४, ६१.
पूर्व-संस्था- -स्थाः बौश्रौ २४, १०:
१६; १७.
पूर्व-संस्थि(त>)ता- -ताम् ऋप्रा ३,
१, ५.
पूर्व-सकथ- -पा ५, ४, ९८.
पूर्व-सक्थि- -क्थिना वैश्रौ २०, ३८:
३.
पूर्व-संक्षिप्त- -संक्षिप्तः^१ बौपि ३, ३, १.
पूर्व-संचिता(त-अ)शन- -नम् वैध

३, ५, ११.
पूर्व-संजात- -तम् वैश्रौ २, १०: १९.
पूर्व-संज्ञा-प्रसङ्ग- -ङ्गः पावा १,
२, २७.
पूर्व-सद्- -सद्भयः माश्रौ २, ३,
७, ३; जैश्रौ ८: १५; द्राश्रौ ४,
४, १३.
पूर्व-सदश-समो(म-ऊ)नार्थ-कलह-
निपुण-मिश्र-श्लक्ष्ण- -क्ष्णैः पा
२, १, ३१.
पूर्व-संधे^१ शैशि २३९.
पूर्व-संध्या- -ध्याम् वाध २६, ३.
पूर्व-समय^२- -येषु जैष्ट २, ५: २०.
पूर्व-समुद्र- -द्राः अप ५६, १, ३.
पूर्व-संभूत- -तः वृधे ४, १३.
पूर्व-संभृत- -तयोः विध २२, ५३.
पूर्व-सर- -पा ३, २, १९.
पूर्व-सवर्ण- -र्णः पा ६, १, १०२.
पूर्व-सवर्ण^० पा ७, १, ३९; पावा
१, २, ६२.
पूर्व-सवर्ण-गुण^० पावा ६, ३, ६७.
पूर्व-सवर्ण-पूर्वत्व^० पावा ६, १,
१०६.
पूर्व-सवर्ण-प्रतिषेध- -धः पावा ७,
१, २५.
पूर्व-सवर्णा(र्ण-अ)प्रसिद्धि- -द्धिः
पावा ६, ३, ६७.
पूर्व-स-स्थान^१- -नः शौच २, १५;
-नम् ऋप्रा १४, ३०.
पूर्व-सुरचित- -तात् वैश्रौ १६, २८:
४.
पूर्व-सू^३- -सूभ्याम् शाश्रौ १, ६,
११^२.

a) विप.। कस. > बस.। b) पूर्ववत्वात् इति जीसं.। c) पूर्ववत्त्वात् इति आन.। d) विप.।
बस.। e) पूर्ववात् इति जीसं. प्रसु.। f) पूर्ववत् इति जीसं.। g) नाप.। उस. उप. विच् प्र.। h) कस.।
i) ऋम् इति संस्कृतेः टि.। j) ञ्बौ इति संस्कृतेः टि.। k) विप. > नाप. (पूर्वप्रोष्ठमदादिनक्षत्र-).। बस. उप.
= आख्या-। l) बस. उप. = समान-स्थान-। पर-संस्थान- इत्यत्र उप. यनि. शोधः। m) विप.। उस. उप.
किप् प्र.। n) पूर्ववसूभ्याम् इति BC.।

पूर्व-सूक्त- -क्तम् बृदे ३, १२७;
-कानि अथ १८, १.
पूर्व-सूक्त-द्वय- -येन अथ ५, ३.
पूर्व-सूत्र- -त्रे पाप्रवा ८, १.
पूर्वसूत्र-निर्देश- -शः पावा ४,
१, १४.
पूर्व-सेवा- -वा अप ३६, २४, २;
बोध ४, ८, १८.
पूर्वसेवा(वा-अ)र्थ- -र्थः अप ३६,
२४, १.
पूर्व-स्थ- -स्थः याशि २, ५८.
पूर्व-स्वर- -रः तैप्रा १५, १; -रस्
शौच १, १०४; माशि ६, ४;
-रस्य शैशि ११२.
पूर्व-स्वरूप- -पम् ऋप्रा ६, ४२.
पूर्व-हृति^a- -तौ आश्रौ ५, २०, ६^b;
शाश्रौ ३, २०, ४^b या ५, २८^b.
पूर्व-होम- -मान् आपश्रौ २०, ५,
९; ११, ३; हिश्रौ १४, १, ४४.
पूर्वा(र्व-अ)क्षर- -रस्य याशि २,
९५.
पूर्वा(र्व-अ)ग्नि^c- -ग्निना आमिष्ट ३,
५, २; १६; बौपि १, २; १९;
-ग्निम् बौश्रौ ४, ११; २५;
१८, ८; १०××; आमिष्ट ३,
१०, ३; ९; -ग्नेः जैश्रौका १९८;
-श्रौ आमिष्ट २, ७, ३; ६.
पूर्वाग्नि-वहन^d- -नम् काश्रौ १५,
६, १४.
पूर्वाग्नि-वाह^e- -हः काश्रौ १५,
७, २१; -हौ काश्रौ १५, ९, ११.
पूर्वाग्नि-सहि(त>)ता- -ताम्
काश्रौ १५, ७, १३.
पूर्वा(र्व-अ)ग्र^f- -ग्रान् शंघ २०९;
-ग्रौ वैध २, २, १.

पूर्वा(र्व-अ)धार-समिध्- -मिधम्
वैश्रौ १४, २; ३.
पूर्वा(र्व-अ)ङ्ग- -ङ्गम् नाशि २, २,
१२; १३; १५; -ङ्गस्य शैशि
१९०; याशि २, २४; -ङ्गे शैशि
१८८; माशि ११, ७.
पूर्वा(र्व-अ)ङ्गार- -रान् माश्रौ ५, २,
१२, २६.
पूर्वा(र्व-अ)चार्य- -र्याः अप १, ७,
३; -र्यान् शाण्ड ६, १, १.
पूर्वा(र्व-अ)तिथि^g- -थीनाम्^h वैध
४, ५, ५.
पूर्वातिथि- -थ आश्रौ १२,
१४, १; बौश्रौप्र ३० : ४; वैध
४, ५, ५.
पूर्वातिथि-वत् बौश्रौप्र ३० : ४;
वैध ४, ५, ५.
पूर्वा-त्रिष्टुप्ⁱ- -ष्टुप् अथ १५,
११.
पूर्वा(र्व-अ)दि- -दिषु पावा २, १,
३१; -दीनाम् पावा १, १, २९;
६, ४, १३५.
पूर्वादि-दिश्- -दिक्षु अप २५,
१, ४.
पूर्वा(र्व-अ)धर (>पूर्वाधर्य- पा)
पाग ५, १, १२४.
पूर्वा(र्व-अ)ध्याय- -यम् निसू
७, १२; ९; ८, १; १४.
पूर्वा(र्व-अ)नुष्ठित-त्व- -त्वात् बोध
२, १, १९.
पूर्वा(र्व-अ)न्त- -न्तः पावा ६, १,
१३२; -न्ताः काश्रौ १, ३, ९;
-न्ते पावा १, १, ४७; ५१××.
पूर्वान्त-लक्षण- -णम् द्राश्रौ १,
१, ३; लाश्रौ १, १, ३.

पूर्वान्त-सस्थान^l- -नः तैप्रा २,
४८.
पूर्वा(र्व-अ)न्त^m- -न्तम् वैगु ३
७; १८.
पूर्वा(र्व-अ)पर, राⁿ- पा २, ४, १२;
-परम् बौश्रौ १८, १२; ४;
भाश्रौ ६, १६, २६; माश्रौ;
-रयोः आपश्रु १२, ८; बौशु; -राः
काश्रौ १६, २, ४; आपश्रौ; -रान्
काण्ड ४, २३; भाण्ड; -राम्याम्
काश्रौ २२, १, ३३; लाश्रौ
८, १, १९; -रासु अप ६१, १,
९; -रे काश्रौ १६, ७, २५; १७,
५, १५; बौश्रौ; -रौ काश्रौ १५,
४, २६; आपश्रौ १५, १४, ८;
भाश्रौ.
पूर्वापर्य- -र्यम् वैश्रौ १५,
११; २; पावा १, ४, १०९;
मीसू १०, ३, २७; -र्ये मीसू ६,
५, ५४.
पूर्वापर्य-चोदन- -न्वात्
लाश्रौ १०, ९, ३.
पूर्वापर्य-भाव- -वात्
पावा २, ४, ३५.
पूर्वापर-रात्र- -त्रेषु कौण्ड ३,
११, ५^o.
पूर्वापर-रात्रि- -त्रौ शाण्ड ४, ११,
१९^o.
पूर्वापरा(र-अ)तिजागत^p- -तौ
अथ ५, ३.
पूर्वापरा(र-अ)पच्छेद- -दे
आपश्रौ १४, २६, ८; हिश्रौ १५,
६, ४२.
पूर्वापरा(र-अ)भाव- -वात् पावा
१, ४, १०९.

a) वैप १ द्र.। b) पाप्मे. वैप १, २०७९। द्र.। c) =आवसथ्यामि-। d) =अनस्-। e) वैप
२, ३खं. द्र.। f) विप.। बस.। g) व्यप.। h) बहु. <पूर्वातिथि-। i) उप. =समान-स्थान-। j) सपा.
श्रेषु <> श्रौ इति पाप्मे.।

पूर्वापरी✓भू>पूर्वापरी-भूत-
-तः वृदे १,४४; -तम् या १,१.
पूर्वा(र्व-अ)पर-प्रथम-चरम-जघन्य-
समान-मध्य-मध्यम-वीर- राः
पा २,१,५८.
पूर्वा(र्व-अ)परा(र-अ)धरो(र-उ)त्तर-
-रम् पा २,२,१.
पूर्वा(र्व-अ)पहरण^१, [हाण]->णा-
पा, पाग ४,१,४^b.
पूर्वापिहाण->णा^b-
पूर्वा(र्व-अ)पूर्व-समुच्छ्रि(त>)ता-
-ता अप २५,१,१२; ३०,५,९.
पूर्वा-काल्युनि-संज्ञक^c-कम् अशां
२,४.
पूर्वा-भाद्रप(द>)दा^d-दाम् अशां
५,४.
पूर्वा(र्व-अ)भाव-वे विध २४,३९.
!पूर्वाभ्यर्थ-र्थेन निस् ६, ६: २६.
पूर्वा(र्व-अ)म्नान-नात् वाश्रौ १,
१,१,१८.
पूर्वा(र्व-अ)रम्भिन्-रिभणम्
आश्रौ १२,८,१५.
पूर्वा(र्व-अ)र्थ-र्थम् पावा ६, १,
१३२.
पूर्वा(र्व-अ)र्थ-र्थम् पावा ७,१,
८६.
पूर्वा(र्व-अ)र्ध^e-र्धः बौश्रौ १०,
५४: ३; १५, ३५: २; -र्धम्
शाश्रौ १७,१३,१; काश्रौ ८, ८,
७; १७,१२,२०^f; बौश्रौ १, ५:
६; माश्रौ; -र्धस्य वाश्रौ ३,२,५,
५७; -धात्वात् शाश्रौ ४, २१, ८;
काश्रौ; -र्धं शाश्रौ ४, २१, ८;
काश्रौ ४,४,१४××; आपश्रौ ६,
१०, ११^g; बौश्रौ; -र्धेन माश्रौ

२, ५, ५, १७.
पूर्वा(र्व-अ)मध्य-मध्ये बौश्रौ १७,
३९: २२.
पूर्वा(र्व-अ)र्ध-र्धः श्रुश्र १,
५१४.
पूर्वा(र्व-अ)र्ध्या-र्ध्याम् काश्रौ ७,
१, ३०; बौश्रौ १, ८: ९; -र्ध्याः
बौश्रौ १२, ८: ४; -र्ध्यात् काश्रौ
८, ३, ७; ११; १६, ८, ९; हिश्रौ
७, ४, ४०; -र्ध्यायाम् माश्रौ ८,
१९, ११; हिश्रौ ५, ४, ७५.
पूर्वा(र्व-अ)लाम-भे आश्रौ ३,
१४, १५; वैगृ ६, १२: ६;
भेऽभे काश्रौ २, ८, १; २५,
१२, २०.
पूर्वा(र्व-अ)वृत्-वृता जैश्रौका
२००.
पूर्वा(र्व-अ)शौच-चेन वैगृ ७, ५: ७.
पूर्वाशौच-व्यपगम-भे विध
२२, ३५.
पूर्वा(र्व-अ)षा(ढ>)ढा^d-ढा
अप १, ३, १; १३, १; अशां १०,
३; -ढा: अप १, १, २; ७, १०;
५७, ३, १.
पूर्वाषाढे(ढा-इ)ति-संज्ञक-
-कम् अशां ४, ३.
पूर्वा(र्व-अ)हुति-ति: आपगृ ७,
२१; -तौ काश्रौ २५, ३, १;
-स्या: जैश्रौका ३२.
पूर्वाहुति-स्थान->नीय-यम्
वैश्रौ २०, १७: ११.
पूर्वा(र्व-अ)ल्ल^h-ल्ल: वाधुश्रौ ४,
२८: १; भागृ १, १२: ५^h;
गोश्रु १, ५, १४; -ल्लम् पागृ ३,
४, ८; -ल्लस्य कौसू २२, २^h;

-ल्ले आश्रौ ४, ७, ४; ८, १७;
शाश्रौ; या ८, ९.
पूर्वाल्लिक-पा ४, ३, २४.
पूर्वाल्लिकी-कीभ्याम्
आपश्रौ ११, ४, १; ५, ८; १६,
२१, २××; भाश्रौ; -क्या काश्रौ
८, ३, ६; १६; -क्यौ हिश्रौ १२,
१, १.
पूर्वाल्लिन्या(की-आ)
पराल्लिन्य(की-अ)न्तर-रे
काश्रौ १७, ७, ३.
पूर्वाल्लिक-पा ४, ३, २८.
पूर्वाल्लिकर्मन्-र्मणा कप्र ३, ४,
१३.
पूर्वाल्ल, ल्ले-तन-पा ४, ३, २४.
पूर्वाल्ल-मध्यन्दिना(न-अ)पराल्ल-
-ल्लान् गौध ९, ४८; -ल्लेषु गोश्रु
४, ६, १०; द्रागृ ४, १, २२.
पूर्वाल्ल(ल्ल-अ)पराल्ल-ल्लयो:
लाश्रौ ९, १२, ४.
पूर्वाल्लिक, काⁱ-का: बौश्रौ २६,
३२: १५; -के बौश्रौ ९, ६:
२१ⁱ; १२: १७ⁱ; २६, २७: ५; ७.
पूर्वाल्लिकी-की: वैताश्रौ
२९, ४; -कीभ्याम् माश्रौ ६, २,
१, २; ९××; -कीम् माश्रौ २, २,
१, ५१; ५५; ६, १, ५, २८; वाश्रौ
२, १, ४, ३२; -क्यो: वाश्रौ २,
२, ५, १७; -क्यौ वैश्रौ १४, ४:
१८.
पूर्विण-पा ४, ४, १३३; -णेभिः
आश्रौ २, ७, १^k.
पूर्विन्-पा ५, २, ८६.
पूर्वे-द्युस् (ः) आश्रौ २, १५, १; १८,
२; ९, २, १४; शाश्रौ.

a) तु. पाका. b) पूर्वापिहाणा- इति पासि. c) विप.। बस. पूप. = नक्षत्र-। d) = नक्षत्र-।
e) वैप १ द्र.। f) ष्ठे इति चोसं.। g) पुं इति पाठः? यनि. शोधः (तु. भाष्यम्)। h) तस. (पा २,
२, १)। i) विप.। उठ् प्र. वसं. (पा ४, ३, ११)। j) पौर्वा इति सूको.। k) पाभे. वैप १, २०३४ d द्र.।

पूर्वेद्युः-काल^२- लम् बौश्रौ २०,
१ : ४२.
पूर्वेद्युः-कृत- ते हिश्रौ १, ४,
४२.
पूर्वो(र्व-उ)क्त, क्ता- -क्तः बौध २,
२,६८; -क्तम् बौश्रौ २९, २ :
७; १३×४, वैगृ; -क्तस्य पावा
२, १, १०; -क्ताः साश्र २,
१-९; -क्तानाम् बौध १, ५,
४२; काथ २७८ : २; -क्तम्
वैगृ १, ७ : ७; ५, ६ : ६; -क्तेन
आमिगृ २, ६, ४ : २६; ३, १२,
१ : ६; वैगृ.
पूर्वोक्त-चरु- -रुभिः वैगृ ४,
१४ : ११.
पूर्वोक्त-त्व- -त्वात् आपश्रौ
२४, ४, १५; मौसू ५, २, १७.
पूर्वोक्त-देवता- > ^२त्य- -त्यम्
अश्र ६, ४६.
पूर्वोक्त-यन्त्र-शुद्ध- -हेभ्यः
बौध ४, ५, ३२.
पूर्वोक्त-विधि- धिना वैध २,
१, ७.
१ पूर्वो(र्व-उ)त्तर, रा^०- -रस्मिन् वैश्रौ
१४, ८ : ८; -राम् अप ५९,
१, १३; -रे काश्रौ ८, ५, १७;
अप ६०, १, २.
पूर्वोत्तर-तस्(ः) जैगृ २, ९ : ९;
कौसू १३७, ३६.
२ पूर्वो(र्व-उ)त्तर, रा^०- -रयोः अप
१, ४८, ७; शुभ्रा १, १४५; पावा
१, १, ६७; -रे शाश्रौ ७, २५,

७; -रेषु कौगृ १, २०, ४^१.
पूर्वोत्तर-कृत- -तम् ऋषा १०,
५; उसू ३, ६.
पूर्वोत्तर-पद^०- -दयोः पावा ५,
३, ८३.
!पूर्वोत्तर-पुनर्वसु^१- -सू वैगृ २,
५ : १.
पूर्वोत्तर-प्ल(व>)वा^१- -वा
अप ३०, १, ३.
पूर्वोत्तर-विरोध- -धात् बौश्रु
५, ११.
पूर्वोत्तर-स्वर-सरूपता- -ताम्
ऋषा ६, ५३.
पूर्वो(र्व-उ)स्थान- -नम् विध २८,
१३.
पूर्वो(र्व-उ)त्यायिन्- -यी कागृ १,
११; आपध १, ४, २८; बौध.
पूर्वो(र्व-उ)थित- -तान् नाशि १,
५, १८.
पूर्वो(र्व-उ)त्पति(त>)ता- -ताः
वाश्रौ ४, ६९ : ५.
पूर्वो(र्व-उ)त्पन्न- -ज्ञानाम् या १,
१४.
पूर्वो(र्व-उ)त्सष्ट- -ष्टः माश्रौ ५, २,
१०, ४०.
पूर्वो(र्व-उ)त्पक्रम, मा^१- -मम् द्रागृ
१, २, ११; -माः गोगृ ४, २,
१६; २२.
पूर्वो(र्व-उ)पदेश- -शे पाप्रवा ५,
३; ५.
पूर्वो(र्व-उ)पलिस- -से द्रागृ ३, २, २.
पूर्वो(र्व-उ)षि(त>)ता^१- -ताम्

ऋष २, १०, ९५.
पूर्व्य, व्यार्^१- पा ४, ४, १३३; -व्यः
आश्रौ ८, १, १४; शाश्रौ १०,
८, ५; बौश्रौ; -र्ष्यम् आश्रौ
४, ९, ४; आपश्रौ १२, १५, ६;
माश्रौ; लाश्रौ २, ९, ९^१; -र्ष्यार्
मागृ १, १०, १७; अप्राय ६, ९;
-र्ष्यार्^१ आश्रौ ४, ७, ४; शाश्रौ
५, १०, ३२; -व्यार्थि शाश्रौ ५,
११, ७^१; -र्ष्यार्थिः बौश्रौ १५,
२ : ६; हिश्रौ १४, ३, ४०;
शुभ्रा ४, ७८; -व्येण आश्रौ ९,
११, १४; ऋषा ६, २; -र्ष्येभिः^१
आश्रौ ६, १०, १९; आगृ ४,
४, ६; -र्ष्यैः^१ बौश्रौ ३, ११ :
२२; आमिगृ ३, १, १ : ८; ३५;
बौधि.
!पूर्वधीयते^३ आश्रौ ८, १३, ३१.
!पूर्वा आयुषे, पूर्वयुषे आमिगृ १,
३, २ : १९.
पूर्वा- पूर्व- द्र.
✓पूर्व पाधा. भ्वा. चुरा.^२ पर. संघाते.
पूर्व^०- पाग २, ४, ३१^२; ४, १,
४१^२; ५, ४, २९^२; -लन् मागृ
१, २३, १६.
पूर्(ल>)ली- पा ४, १, ४१.
पूर्व-क- पाग ५, ४, २९.
पूर्वाक- (>पौलाक- पा.) पाग ४,
३, १३९.
पूर्वास- (>पौलास- पा.) पाग ४,
२, ७५.
पूर्वास-कुरण्ड- पाग २, २, ३१^२७.

a) विप. । बस. । b) = ईशान-कोण- । बस. । c) द्वस. । d) पूर्वोत्तराभिधेषु षट्सु नक्षत्रेष्विति भावः । e) तु. पाका. पासि. । f) पूष. ? इति कृत्वा समासः ? । उत्तरेणान्वितं पूष. इति C. । g) उप. < ✓वस (निवासे) । h) वैष १ निर्दिष्टानां समावेशः द्र. । i) पाभे. पृ १६.१७ C द्र. । j) पाभे. वैष १, २०७ C द्र. । k) पाभे. वैष १, २०३४ C द्र. । l) पाभे. वैष १, २०३४ d द्र. । m) पाठः ? पूर्वम् अधीयते इति शोधः । n) ✓उ. पूष इति [पक्षे] BPG. । o) = घास-भार- । p) तु. पागम. । q) कुरण्डस्थल-पुलास- इति तत्रैव शाकटायनः, 'सक-कुरण्ड- इति भारुडा., 'सक-कुरण्ड- इति पाका., 'स-कारण्ड इति पासि. ।

पूर्य^a - ल्यान् कौस् १०१, २^b;
-ल्यानि कौस् २६, २×४.

√पूष् पाधा. भ्वा. पर. वृद्धौ.

पूष्न्^c - पाउ १, १५९; पा ६, ४,
१२; -फणम् आश्रौ २, ११,
४; शाश्रौ १४, ७१, ४; वाश्रौ;
या ४, २५; ६, ४; -फणा
शाश्रौ ६, ११, १; माश्रौ ५, २,
७, १७; -फणन् आश्रौ २,
१६, ११; ३, ७, ८; शाश्रौ;
आपमं १, ११, ६०; आग्निगृ^d १,
५, ३: १०; ३, ९, ३: ७;
कागृ २५, २२०; बौगृ १, ७, ४४^e;
बौपि २, ७, ६०; भागृ १, १५:
१३०; जैगृ १, २१: १२०; अश्र
१४, २^f; या १२, १७^g; -फषा
आश्रौ २, ५, २; १२×४;
शाश्रौ; आपमं १, २, ८^h;
पागृ १, ४, १६०; या ५, २८;
६, ६×४; वेज्यो ३४; -ष्णः
शाश्रौ ४, ७, ५ⁱ; १६, ३, २९;
३०^j; काश्रौ; -ष्णा बौश्रौ १०,
२: १०^k; या ७, १०; -ष्णे
शाश्रौ ३, ४, ९; १५, १४, ४;
१६, १, १३; काश्रौ.

२पौष- > षी^l- षी
निस् ७, ४: ६.

पौष्ण^m - ष्णः काश्रौ ५, १,
४; १२, ३×४; आपश्रौ; -ष्णम्
काश्रौ २०, १, २४; २५, २, ८;
आपश्रौ; -ष्णस्य शाश्रौ ६, १०,
४; कौगृ ३, ६, २; शांगृ; -ष्णा:

आपश्रौ २०, १४, ७; बौश्रौ २४,
३८: ३; हिश्रौ १४, ३, १६;
-ष्णान् भाश्रौ ८, ३, २; -ष्णानाम्
बौश्रौ १५, ३१: १९; -ष्णानि
वृदे ५, ११८; या ७, २३; -ष्णे
अप ३१, ५, २; विष ७८, ३३;
-ष्णौ वृदे ६, ४३; ७, ८.
पौष्णी - ष्णी आश्रौ
१०, ६, ५; वैताश्रौ ३६, १७;
वृदे ६, ७१; साश्र २, १४४ⁿ;
-ष्णी: वृदे ५, ११४; -ष्ण्यः
ऋश्र २, ६, ४८; ८, ४×४;
-ष्ण्याम् आश्रौ २, ४, ६; लाश्रौ
९, ९, ९; -ष्ण्यौ वृदे ६, ७४;
शुश्र ४, २७.

पौष्ण-सावित्र-सौम्य-

-म्या: वृदे ४, १२५.

पौष्णा(ष्ण-अ)न्त^o-

-न्तान् वैताश्रौ ८, २१; ९, २६;
-न्तानि शाश्रौ ३, १४, ३; १८,
२; आपश्रौ ८, २, ३.

पूष(न् >)ण-वत्- -वते आपश्रौ
१२, ४, ६; माश्रौ २, ३, २, २;
वैश्रौ १५, ४: ५; हिश्रौ ८, १,
५०.

पूषण्वती- -ती: हिश्रौ १५,
५, १९.

पूष-दैवत्य, त्या^p- -त्या अप १,
४, ७; -स्ये अप ३३, ४, १.

पूषा(ष-अ)ग्नि-वायु- -युषु
शुप्रा २, ५५^q.

पूष- (>पूषी- पा.) पाग ४, १, ४१.

√पृ,पृ^{rst} पाधा. जु. क्र्या. पर. पालन-
पूरणयो:; सुरा. पर. पूरो,
फृषिं आपश्रौ ६, २२, १;
अप ४८, १२; निघ ३, १९; या
४, ३^t; ऋप्रा ४, ५५.

फृषिपतिं आपश्रौ ७, ४, ५^u;
भाश्रौ ७, ३, १२^v; हिश्रौ ४, १,
६१^w; अप ४८, १४; या ५,
२४; फृषिपतु आश्रौ ४, १२,
२^x; आपश्रौ ४, ९, ३; भाश्रौ;

फृषिपृताम् बौश्रौ १४, १४:
३५; दाश्रौ ११, ४, ९; लाश्रौ
४, ४, ८; अश्राप ४, १; फृषिपृहि
शाश्रौ ६, १२, ३^y; बौश्रौ ६,
२९: ७^z; २५, १९: ४^{aa}; वैश्रौ
१४, १२: ५^{ab}; जैश्रौ १३: ६^{ac};

कौगृ १, १२, ६^{ad}; शांगृ १, १९,
६; पिपृतात् आश्रौ ४, १२, २;
फृषिपृताम् शाश्रौ ५, १९, ८;
पिपृत्, >ता आश्रौ ५, ३, १५^{ae};
शाश्रौ; वाश्रौ १, ३, ३, १^{af}; जैश्रौ
१३: २६^{ag}.

फृषण्वति अप ४८, १३; १४;
निघ ३, २०; पृणन्ति या १, १७;
अप्रा १, १, १४; पृणात् शाश्रौ
१२, १५, २^{ah}.

अपूरि, अपूरिष्ट पा ३, १, ६१;
पषन् या ६, २०^{ai}; पषिं ऋप्रा
५, ५८^{aj}.

पूर्यते आश्रौ ११, २, १७; ३,
७×४; आपश्रौ; या ५, १८;
पूर्यन्ते अप ७१, १४, ५;

a) वैप १ द्र. । b) अर्थः? । c) पामे. वैप १, २०८० । द्र. । d) पूषम् इति पाठः? यनि. शोचः
(तु. वैप १, २०८० n) । e) पामे. वैप १, २०८० k द्र. । f) पामे. वैप १, २०८१ a द्र. । g) = [पूषदेवत्या-]।
अञ्च्- । अणि टि-लोपः उसं. (पा ६, ४, १७३ [तु. तां १८, १, १५]) । h) विप. । बस. । i) या १, २०;
२, ३; २२ शौच २, ७८ पा ६, ४, १०२; ७, ३, ८०; ४, १२; ७७; ८, २, ४४ परामृष्टः द्र. । j) वैप १, २०८३ f द्र. ।
k) पामे. वैप १, २०५६ i द्र. । l) पामे. वैप १, २०८३ n द्र. । m) सपा. आपमं १, १२, ८ हिष्ट १, २५, ३
विभर्तु इति पामे. । n) सप. हिश्रौ १, ७, ४०; पिप्रीत इति पामे. ।

ऋपूर्वताम् आगृ २, २, ३;
 पागृ २, १६, ३; ३, ४, ४^०; भागृ
 २, १४: १६; वैगृ ४, ८: ४;
 अपूर्वत वाधृश्रौ ४, ८६: १, १७;
 पूर्वत शांश्रौ १३, १, ७; माश्रौ
 ६, १, ४, ३१; हिश्रौ २१, २, ६;
 पूर्वैरन् लाश्रौ ९, २, ४.
 पूरिता अपश्रौ २४, २, २२;
 भाश्रौ १, १, ६; अपूरि वाधृश्रौ ४,
 ८६: १०; १७.
 पारयते वाधृश्रौ ३, ४३: ७;
 पारयति अप ४८, १४; पार-
 यन्ति हिपि १: १०; ऋपार-
 यन्तु^० बौश्रौ १८, १७: २१; वाश्रौ
 ३, १, २, १; आपमं २, २१,
 १७; कागृ २६, २; वागृ १५, १;
 पारय, >या आश्रौ २, १०,
 ४; शांश्रौ ५, ५, २; आपश्रौ.
 पारयिष्यति माशि १५, ३; १०.
 पूरयति काश्रौ २६, ७, ३२;
 आपश्रौ १५, १४, ११x४;
 काश्रौसं; या २, ३; ३, २०;
 पूरयन्ति आश्रौ ६, १०, ५;
 शांश्रौ १३, १५, ११; काश्रौ;
 ऋपूर्वाद्यै बौश्रौ १८, २९: ७;
 पूरय या ४, ३; पूरयत शांश्रौ ८,
 ८, ११; पूरयेत् वैश्रौ १८, १६:
 ८२; ८४; क्षुस्; या १४, ३०^०;
 पूरयेयुः आश्रौ १२, ७, १४.
 पीपरत् अप्राय ६, ९^०; अप
 ३७, ४, २^०; ४८, १२; अत्र
 १९, ४०; निघ ३, १९; ऋअपी-
 परः आपश्रौ १५, १२, ७^३;

काश्रौसं ३५: ८; ९; बौश्रौ.
 ऋपि^०- प्रयः बौश्रौ १८, १७:
 २१; वाश्रौ ३, १, २, १; आपमं;
 -प्रिम् आश्रौ ३, ७, ७; आपश्रौ
 २२, २५, १२; बौश्रौ १८, ५:
 ११; हिश्रौ २३, ४, ७.
 ऋपि-तम- -मस् बौश्रौ १, ४:
 ३०; ५: १०.
 पर्व^०- -र्वभिः ऋप्रा ५, ३७.
 पर्वरीक- पाठ ४, १९.
 पारण^०- -गम् ऋत्र ३, ४३; -णे
 ऋत्र ३, ३६.
 पारण-कर्मन्- -र्म ऋप्रा ११,
 ७०.
 पारय- पा ३, १, १३८.
 पारयि(ष्ठ>)ष्ठा- -ष्ठे वाधृश्रौ
 ३, ४३: ७.
 पारय(त्>)न्ती- -न्ती या ९,
 १८^०; भाशि ७८; -न्तीम्
 आश्रौ ४, १३, २.
 पारयद्-व(त्>)ती- -त्वी
 माश्रौ ५, १, ५, ४८.
 पारयन्त^०- -न्ताय कागृ ४, २०.
 पारयिष्णु- -ष्णवः गोगृ ३, २, ६;
 या ६, ३^०; -ष्णवे गौध २६,
 १२^०; -ष्णुम् बौश्रौ ९, ६:
 ५.
 पिप्रत्- -ऋप्रतः^० आपश्रौ १४, ३२,
 २; दाश्रौ ७, २, १०; लाश्रौ ३, २,
 १०; भाशि ११९, १२०.
 रपूरण^०- -णः काश्रौ २४, ७, १८;
 उनिस् २: १३; -णम् आपश्रौ
 १६, २६, ९; २७, ६; हिश्रौ;

या ७, २८; -णात् उनिस् ४:
 २८; पा ५, २, १३०; ३, ४८;
 -णे शौच ४, ३८; पा ५, २, ४८;
 पावा ६, ३, ५.
 पूरणी- -ण्याम् पावा ६, ३,
 ३३.
 पूरणी-प्रमाणी- -ण्योः पा
 ५, ४, ११६.
 पूरण-गुण-सुहिता(त-अ)^० पा
 २, २, ११.
 पूरण-प्रत्यया(य-अ)न्त-
 -न्तः पावा १, १, २३.
 पूरणा(ण-अ)दि- -दीनि कप्र
 १, २, ८.
 पूरणा(ण-अ)थे- -थ्याः वृदे २,
 ९०; -थे अप्रा ३, ४, १.
 पूरयत्- -यन् या १४, ३०.
 पूरयन्ती- -न्ती भागृ २, २:
 ८; हिगृ २, १७, २.
 पूरयितव्य- -व्याः या ७, २३;
 -व्ये पा ६, ३, ५९.
 पूरयितृ- -त्ता निस् १०, ५:
 १०; -तारः निस् ९, १: ४०;
 ४७.
 पूरयित्वा शांश्रौ ४, १४, ३५ आपश्रौ.
 पूरित- पा ७, २, २७.
 पूर्ण, पूर्ण^०- पा ७, २, २७; -र्णः शांश्रौ
 १, ३, ५; आपश्रौ २२, ८,
 १८; २४, २, २१; बौश्रौ;
 -णेऽर्णः आश्रौ ११, १, १५;
 -र्णम् आश्रौ १, ११, ६^०; २, ३,
 १४; शांश्रौ ४, ११, ३^०; काश्रौ;
 आगृ २, ८, ४^०; या २, ३^०;

a) पामे. वैप २, ३खं. शीयताम् तैत्रा ३, ७, १४, ५ टि. द्र. 1 b) पामे. वैप १, २०८४ ज द्र. 1
 c) पूरयन् इति लसं. 1 d) पिपरित् इति पाठः? यनि. शोषः [तु. शौ १९, ४०, ४] 1 e) वैप १ द्र. 1
 f) =पारायण- 1 g) =देवता-विशेष- 1 कर्तरि ऋच् प्र. उसं. (पाठ ३, १२८) 1 h) पामे. वैप १, २०८५ i द्र. 1
 i) पामे. वैप २, ३खं. पारविन्दाय सात्रा १, २, ५ टि. द्र. 1 j) पामे. वैप १ विप्रतः ऋ १०, ५७, ६ टि. द्र. 1
 k) भावाद्यर्थे कृत्. पा. =पूरणप्रत्ययान्त- 1 l) सुपूर्णम् इति आन-, पांशुपूर्णम् इति जीसं. 1

१४,११; नाशि १^५,२,१; २^५७;
 -र्णया हिश्रौ १०,७, २; -र्णस्य
 माश्रौ २,३,४, १२; -र्णा आश्रौ
 २, १८, १३१; काश्रौ; -र्णाः
 आश्रौ २, ४, १३; ६, १२, ६;
 शाश्रौ; -र्णात् अश्र १०,
 १११; -र्णान् काश्रौ ९, ६,
 २४; १३,४, १; बोश्रौ; -र्णाम्
 आश्रौ २,६,५; काश्रौ ७,३,१६;
 आपश्रौ; -र्णायाम् अप ३०^३, २,
 १; आश्रयो ७, ५; -र्णे काठश्रौ
 ९; माश्रौ १, ४, १, १; हिश्रौ;
 -र्णेन आपमं २,११, ११; आश्र
 १,२०,४; कप्र; -र्णेषु विध ९९,
 १७; सुध ५३; -र्णैः अप २३,
 १,५.
 पूर्ण-कंस- सेन कौसू ७७,२१.
 पूर्ण-कमण्डलु- लुम् वाध २९,
 १७.
 पूर्ण-काकुद्द- पा ५,४,१४९.
 पूर्ण-काल^० (> पौर्णकालिक-
 > का,की- पा.) पाग ४,
 २,११६.
 १ पूर्ण-कुम्भ- म्भस्य अप ६८,
 २,३१.
 २ पूर्ण-कु(म्भ)>म्भा^०- म्भाः
 शाश्रौ १७,१४,१३; १७,८.
 पूर्ण-चात्र^०- त्रेण पाग १,१५,
 ४; गोश्र २,७,७.
 पूर्ण-तम- मम् आश्रौ २, ३,
 १३.
 पूर्ण-त(र>)रा- राम् वैताश्रौ
 ७,१२.
 पूर्ण-दर्व^०- र्वम् माश्रौ १,७,५,

२९; वैताश्रौ ९, ४; -र्वे बौश्रौ
 २४, १७ : ३; माश्रौ ५, २, १५,
 ३१.
 पौर्णदर्व- -र्वम् आश्रौ
 २,१८, १^१, २, २, १५.
 पूर्णदर्व्य^०- र्व्यम् शाश्रौ ३,
 १५, १४; -र्व्यस्य बौश्रौ २१, ३:
 ३१; -र्व्याय बौश्रौ ५, १० :
 १६; वैश्रौ ९, ३ : ४; -र्व्ये
 बौश्रौ २१, ६ : १८; -र्व्येण
 आपश्रौ ८, ११, १८; २२, ८, १७;
 बौश्रौ.
 पूर्ण-दोहि(त्.>)नी^०- नीम्
 अप १, ५०, ३.
 पूर्ण-पात्र- त्रः काश्रौ ६, १०,
 ३४; आपश्रौ ९, १६, १; बौश्रौ;
 -त्रम् आश्रौ १, ११, ५; ८; ३,
 १३, १७; शाश्रौ; -त्रस्य आपश्रौ
 ८, ७, १२; वाश्रौ १, ३, ७, १९;
 -त्राणि जैश्र १, ११ : ३; २६;
 अप १, ३१, ५; -त्रात् आश्रौ १,
 ११, ७; भाश्रौ ४, २०, १;
 -त्रान् काश्रौ १०, ८, ८; -त्रे
 बौश्रौ ३, २० : १०××; वाश्रौ;
 -त्रेण वैश्रौ १०, १४ : ४.
 पूर्णपात्र-वर्जम् आपश्रौ ८, ७,
 ११; वैश्रौ ८, १३ : १३.
 पूर्णपात्र-विष्णुक्रम- मैः
 बौश्रौ ५, ४ : २२; ९ : १४××.
 पूर्णपात्र-स्थान- ने वाश्रौ १,
 ६, ७, १३; वैश्रौ ८, १४ : १.
 पूर्णपात्रा(त्र-आ)दि-(क>)
 का- का कप्र २, ५, १.
 पूर्ण-पात्री- त्रीम् कौश्र १, २,

३; शाश्र १, ६, ५.
 पूर्ण-प्रस्थ-द्वि-भाषा^०- गम्
 आश्रिग २, ३, १ : १२.
 पूर्ण-मास^०- र्त्सः बौश्रौ १४,
 १६-९; १७, ४७ : ३५; आपमं १,
 १०, ९; आश्रिग २, ५, ५ : ५;
 वैश्र १, १७ : ५; -र्त्सम् आपश्रौ
 २, २०, ५; ५, ८, ८; बौश्रौ; -साः
 निसू ५, ११ : ३१; -र्त्साय
 आपश्रौ २, २०, ५; बौश्रौ १, १७ :
 १३; भाश्रौ; -से आपश्रौ ४, २,
 ६; बौश्रौ; -सेन वैश्रौ १, १९ :
 ३.
 १ पौर्णमास^०- पावा ४,
 २, ३५^६; -सः वैताश्रौ १२,
 १; कप्र २, ९, २; अश्रया ६,
 ३; -सम् शाश्रौ ३, १३, २९;
 १७-१८, १३; काश्रौ; अप
 ३७, ८, १^१; -सस्य बौश्रौ २८,
 १२ : ११; शाश्र १, ३, ७; द्राश्र
 २, २, ७^३; -सात् आश्रौ २,
 १४, १३; ४, १, २४; बौश्रौ;
 -सानि शाश्रौ ३, ८, ७; १०,
 ३; -साय आपश्रौ ४, २, ४; -से
 शाश्रौ १, ३, १४; बौश्रौ २७, ६ :
 २७; भाश्रौ; -सेन आश्रौ २, १,
 १××; शाश्रौ.
 पौर्णमासी^०- पाग
 ४, ३, १६; -सी काश्रौसं ३१ : १०;
 बौश्रौ १७, ५१ : १७××; भाश्रौ;
 या ११, २९; -सीभिः शाश्रौ
 १३, २०, २; -सीम् आश्रौ ३,
 १०, १०; शाश्रौ ३, ११, ३; काश्रौ;
 -सीम्-सीम् बौश्रौ १७, ४८ :

a) = गानगुणवृत्तिविशेष- । b) तु. पागम. । c) विप. । बस. । d) = सूत्रपूर्ण-तर्क- । e) वैप २,
 ३ खं. द्र. । f) सपा. हिश्रौ ६, ८, ८ पौर्णदर्व्ये इति पाभे. । g) स्वार्थे यत् प्र. । h) विप. (घनु-) ।
 i) कस.>बस.>कस. । j) वैप १ द्र. । k) = पौर्णमासी-तिथि- । l) विप. (तन्त्र-) । m) पूर्ण^० इति
 आन. १ । n) = तिथि-न्वा इष्टि- वा ।

२; -सीषु गोपु ३, ३, २१;
-सीषुऽ-सीषु बौश्रौ २३, १५;
४; -स्यः बौश्रौ १६, १२ : ७;
-स्या आपश्रौ ८, ४, १; ८,
१९××; माश्रौ; -स्याः आश्रौ
९, ३, २; शाश्रौ १३, १९, ५;
काश्रौ; -स्याम् आश्रौ १,३,८;
१३××; शाश्रौ; -स्यै आपश्रौ
२१, १५, ५; बौश्रौ; -स्यौ
२, १४, ७; शाश्रौ १,३,३; ५;
आपश्रौ; या ११, २९.

२पौर्णमास-
पा ४,३,१६.

१पौर्णमासि-
क^३ - -कम् अप १८^३, ४, १.

पौर्णमासी-
काल- -लाः गोपु १,५, ११.

पौर्णमासी-दी
(ला>)क्ष^३ - -क्षम् काश्रौ २४,
४, २१.

पौर्णमासी-दी-
क्षा-मासा(स-अ)पवर्ग^६ - -र्गाः
लाश्रौ ९, ५, १.

पौर्णमासी-
प्रक्रम^३ - -माणि काश्रौ २४,
३, ३२.

पौर्णमासी-
प्रभृति- -तयः लाश्रौ १०,
११, १.

पौर्णमासी-
प्रसव^३ - -वः द्राश्रौ ८, ४, ७;
लाश्रौ ४, ८, ७; -वम् लाश्रौ
१०, २०, १३.

पौर्णमासी-

वत् मीपु २, २, ९; ९, १, २६;
११, २, ३५.

पौर्णमासी-
विकार- -रः शाश्रौ १, १६, १२;
२, २, ४××.

पौर्णमासी-सु
(त्या>)त्य^३ - -त्यः काश्रौ १५,
९, १५.

पौर्णमास्य-
(सी-अ)तिपत्ति- -त्तौ काश्रौसं
३१ : ११.

पौर्णमास्य-
(सी-अ)तिरात्र- -त्रः लाश्रौ
१०, १, ८.

पौर्णमास्य-
(सी-अन्त>)न्ता^३ - -न्ता वैश्रौ
२०, ४ : ३.

पौर्णमास्य-
(सी-अ)मावास्या- -स्ये कौस्
९४, ७; अप १, १४, १.

पौर्णमा-
स्यमावास्या-सं(स्था>)स्थ^३ -
-स्थौ आमिगु ३, ५, १ : ८.

पौर्णमास्य
(सी-अ)ष्टका(का-अ)मावास्या-
(स्या-अ)भन्युत्पात-भूमिकम्प-
श्मशान-देशपतिश्रोत्रियैकती-
र्थ्यप्रायण- -णेषु बौध १, ११,
२२.

पौर्णमास्या-
(सी-अ)रम्भण^३ - -णौ वाश्रौ
१, ४, ४, ३९.

पौर्णमास्यु-
(सी-उ)पक्रम^३ - -मौ बौश्रौ २४,

२० : १; बौपि १, १ : ७.
पौर्णमास-तन्त्र-

-न्त्रम् माश्रौ ५, १, १, २३; ३१;
४, २४; अप १८^३, १, २; -न्त्रेण
माश्रौ ५, १, १, २०.

१पौर्णमास-धर्म-
-र्माः काश्रौ ५, ११, ३.
२पौर्णमास-धर्म^३ -
-र्माः काश्रौ ६, १०, १७.

पौर्णमास-वत् काश्रौ
४, २, ४४; ७, ११; १२, ११;
काश्रौसं ४ : १.

पौर्णमास-वैमृध-
-धाम्याम् बौश्रौ २, २१ : १५;
५, ४ : २३××.

पौर्णमास-हविस्-
-विभिः बौश्रौ १७, २० : ६;
-वीषि बौश्रौ १८, ५३ : ८.

पौर्णमासा(स-अ)
त्यय- -ये कप्र २, ९, ८.

पौर्णमासा(स-अ)
दि- -दि^३ कप्र २, ९, १.

पौर्णमासा(स-अ)
न्त- -न्ते काश्रौ २५, ७, ४.
२पौर्णमासिक^३ - >

की- -की वाश्रौ ३, २, ६, ५६^६;
काशु ७, २.

पौर्णमासो(स-उ)प-
क्रम^३ - -मौ द्रागु २, १, १.

पौर्णमास्य^३ - -स्यम्
बौश्रौ १, २१ : ३४; वाश्रौ १, ४,
४, ४१^३; अप्राय ३, १०; -स्वेन
शाश्रौ १३, २९, ९; हिश्रौ ५,
६, ४; आमिगु ३, ४, १ : ८.

a) विप. । तेननिर्वृत्तीयस्तत्रकार्ययो वा ठञ् प्र. (यक्र. पा ५, १, ७९; ९६) । b) विप. । बस. ।

c) विप. (अहीन-) । बस. पूष. उप. च सप्त. । d) उप. = समाप्ति- । e) षम् इति जीसं. । f) तस्येदमीमं.
प्र. । g) सप्र. माश्रौ ५, २, १२, ३५ दार्शिकी इति पाठे. । h) विप. । तेननिर्वृत्तीयस्तत्रमवीयो वा षञ् प्र. ।

३) पाठे. वैप १, २०८६ p द. ।

पूर्णिमास्य^a- -स्यम् वाश्रौ
३,२,४,२.
१पूर्ण-मुख- -खेन माश्रौ १, ५,
३,७.
२पूर्ण-मुख^b- -ःखः^c आपमं २,
१८, ३२१; भाग्य २, ९ : ८१;
-खम् हिय २,८,११^d.
पूर्ण-मुष्टि- -ष्टिम् शांय ४,
१७,३^e.
१पूर्ण-बन्धुर^f- -रः बौश्रौ ५,
१५४ ११; द्राश्रौ १३, २, ७;
लाश्रौ ५,२,१०.
पूर्ण-वि-वन^g- -नम् शांय १,
३,३.
पूर्ण-शराव- -वाणि आग्य १,
१७,२.
पूर्ण-स्रुव- -वम् माश्रौ १, २,
६,२७; ३, १, ५××; वाश्रौ १,
३,३,२२; ४,३.
पूर्ण-होम^h- -मः गोग्य ४,८,२३;
-मम् वैताश्रौ ६, ९; १०, १;
द्राय; -मे कौसू १३८, १५१;
-मौ कौसू ७३,४१.
पूर्णा(शी-अ)ञ्जलि- -लिम् कौसू
७८,१६; १३३,१.
पूर्णादर्विⁱ > पौर्णादर्व्य^j- -र्व्यं
हिश्रौ ६,८,८^k.
पूर्णा(शी-अ)वसान^b- -नाः निसू
५,११ : ३३.

पूर्णा(शी-अ)हुति- -तयः वैश्रौ
२०,९ : ३; -तिः काश्रौ १५,
१,५; बौश्रौ २७,११ : १८;२०;
वाधूश्रौ ३,१२ : ११^l××; वाश्रौ;
-तिभिः जैग्य १, २० : ३०^m;
-तिम् आश्रौ ३,१३,१४; वांश्रौ
८, १३, १; काश्रौ; -ती माश्रौ
१,७,३,४५; वैश्रौ; -तीः वांश्रौ
१८,२४,२७; आपश्रौ; -तीनाम्
वाश्रौ ३,४,१,४९; -तेः काश्रौ
४,७, २२ⁿ; माश्रौ; -तौ बौश्रौ
२,१८ : २६;४,११ : २८; २०,
१८ : १; भाश्रौ; -त्या बौश्रौ
२१,२६ : ८; वैश्रौ २०, २२ :
३; ६; -त्याम् वैश्रौ १६,८ : ४;
-त्यै बौश्रौ २०,१७ : ३१;१९ :
५××; वाधूश्रौ ४,३२ : २६.
पूर्णाहुति-वर्जम् वाश्रौ २, १,
२,१७; ३,४,१,४८.
१पूर्णाहुत्य(ति-अ)न्त- -न्ते
काश्रौ ४,१०,४; २०,१,१९.
२पूर्णाहुत्य(ति-अ)न्त^b-
-न्तम् आश्रौ २, १, १७; बौश्रौ
२४,१५;१४;१७ : १०; वैताश्रौ
४३,२.
पूर्णाहुत्या(ति-अ)दि-क^p-
-कम् कप्र ३,१,१७.
√पूर्णि>पूर्ण-क^m- -क कौसू
२०,३.

पूर्णिमाⁿ- -माम् अप ९,४,६^o.
पूर्णा(र्ण-उ)दकुम्भ- -म्भेषु विध
९२,१३.
पूर्णा(र्ण-ञ्ज)न- -नाम् द्राश्रौ ८,
४,२४; लाश्रौ ४,८,२०.
पूर्णा(र्ण-उ)पकम^b- -माः निसू
५,११ : ३२.
पूर्त^f- -पाग ५, २, ८८; -ःतम्
आपश्रौ ४,९,६^p; भाश्रौ ४,१३,
१^q; हिश्रौ ६, ३, २^r; जैग्य २,
२ : २२-२४; शंघ १३८; -र्तस्य
कौसू ३,७^s; १३७,३९.
पूर्तिन्- -पा ५, २, ८८.
पूर्ति- -ःर्त्या बौश्रौ ६, ७ : २४;
भाश्रौ १०,१२,२.
पूर्वी आपमं १,१,९^t.
पूर्वमाण- -णे आश्रौ ५,१,१३.
१पृणत्- -गन् बौश्रौ ६, ७ : २४;
भाश्रौ १०,१२,२.
पृणाति-> ०ति-निगम- -मौ या
५,२४.
√पृक्ष् (बधा.) > पृक्ष^f- -ःपृक्षः अप
४८,८८; निघ २,७.
१पृक्ष^f- -क्षस्य^r आश्रौ ७,४, १३;
७,८; ८, ६, २२; वांश्रौ १०, ३,
१५; ऋश्र २, ६, ८; -क्षे निघ
२,१७.
√पृच्, ञच् (बधा.) पाधा. अदा.
आत्म. संपर्चने; रुधा. उम-

a) = पौर्णमास्य- । b) विप. । बस. । c) खः परिक्राम्तु इति पाठः ? खं परिक्रामन्तु इति शोधः (तु. सपा. हिय. [d टि.] । d) विप. (।आहुतिभिर्ह्ययान- = भरितमुख-। अग्नि-) । बस. । 'तस्याग्ने-र्गन्धं जिघ्रन्त्यः गावस्तं' पूर्णमुखं (सन्तं) परिक्रामन्तु' इति वा. (वैतु. Old. कस. इति ?) । e) सप्र. कौग्य ४, ३ तेषां मुष्टिम् इति पाठे. । f) वैप १ द्र. । g) विप. । (विशद-। चरु-) । बस. । पू. क्वि.उ. उप. = विगतघनी-भाव- (तु. कप्र २,५,१३ अकठिनम्) । h) = पूर्णाहुति- । i) < पूर्णादर्वि (मा ३,४९) । j) = होमविशेष- । प्राग्दीव्यतीयः ष्यः प्र. । k) पाठे. पृ १६२७ f द्र. । l) पाठः ? ०ते इति शोधः । तु. C.] । m) विप. (वृषभ-) । कर्तारि ष्वुल प्र. । n) = पौर्णमासी- । २पूर्ण- (आप.) + तेन निर्वृतीयः इमप्र प्र. (पावा ४,४,२०) । o) -सप्तम्यर्थे छान्दसं दि १ । p) पाठे. वैप २, ३खं. पूर्वम् ऐवा ७,२४ टि. द्र. q) पाठे. वैप १, २०७२ । द्र. r) पाठे. वैप १, २०८८ c द्र. ।

संपर्के; चुरा. उभ. संयमने,
पृञ्चन्ति शांश्रौ १४, २२, १९;
पृणक्षि निघ ३, २०^फ; पृणचिम्
माश्रौ २, ४, ३, ९^फ; ^फपृण-
जिम्^{१०} आपश्रौ १२, २८, १६;
वैश्रौ १५, ३७: ८; पृणक्तु बौश्रौ
१८, १०: २१^फ; ^फपृङ्क्तम् काश्रौ
१२, ३, १४; आपश्रौ २१, ७, १७;
बौश्रौ.
^फपृच्यताम् आपश्रौ १०, २४, ५;
बौश्रौ ६, १, ४: १०; भाश्रौ.
^फपृपृथा: ^d अप ४८, ९; निघ ३,
१४^१.

पर्वयत्- -यता वाग् ९, ३^फ.
पृक्, क्ता- -क्तम् बौश्रौ २४, २६:
११^फ; कौस् ३०, ३; गौघ ११,
१९^फ; -क्ता या ३, ८; -क्तानि
कौस् १३, ६.
पृक्-स्वर- -रात् तैप्रा १३, १६.
पृच्छ- पृक्षु उनिसू ४: २३^फ.
पृञ्च(त् >)ती- -ती: काश्रौ ४, ३,
३२; माश्रौ १, १, ३, ३२; वाश्रौ
१, २, २, २८; कौग् १, २१, ७;
शांग् १, २८, ८.

√पृच्छ्, प्रच्छ^१ पाधा. तुदा. पर.
ज्ञीप्सायाम्, पृच्छते आश्रौ ४,
११, ६^फ; अप ६४, १, ६; ७१, २,
४; पृच्छति आश्रौ ५, १, १४; ५,
२५; १०, ९, २; शांश्रौ; पृच्छत:
बौश्रौ १२, १८: ७; बौग् १, ८,
६; पृच्छन्ति आश्रौ १०, ९, २;
आपश्रौ २१, ११, ७; बौश्रौ;

पृच्छसि या ९, ३०^फ; ^फपृच्छामि
आश्रौ १०, ९, २^३; शांश्रौ १६,
६, १; २^१; काश्रौ; बौश्रौ १५,
२९: ८^१; वाश्रौ ३, ४, ४, १^५;
पृच्छाम: लाश्रौ ९, १०,
१३^१^१; शुप्रा १, २८; पृच्छात्
काश्रौ ६, ८, १^१; पृच्छ, >च्छा
बौश्रौ १८, ४६: ८; ऋप्रा ८,
२८; ^फपृच्छत् > ता ऋत्र २, १,
१४५; ऋप्रा ८, १५; अपृच्छत् वृदे
५, ६९; अपृच्छन् अप ६९-७०,
१, १; पृच्छेत् आश्रौ २, १,
१५; काश्रौ १२, ३, १८; बौश्रौ;
पृच्छेयु: आपश्रौ २०, ५, १५;
२१, १०, १३^१; बौश्रौ.
पप्रच्छ शांश्रौ १५, १७, १; बौश्रौ;
या २, ९; ६, ५; पप्रच्छु: वृदे ८,
२६.

पृच्छत्- -च्छत: अप ६८, १, ३;
शंघ २२७; वृदे ८, २७; आज्यो
१, २.

पृच्छमान, ना- -नस्य आज्यो १४,
११^१; -ना: या ^फ११४, १४;
१५; -नानि या १४, १५.

१पृष्ट, ष्टा- -ष्ट: शांश्रौ १५, १७, १;
काश्रौ ९, ३, १२; बौग्; -ष्टम्
आपग् ११, २^६; वाघ २, १२;
बौघ १, २, ५०; -ष्टा: विध ८१,
१९; -ष्टानि आपश्रौ २०, १९,
७; -ष्टाम् वैताश्रौ ८, २०.
पृष्ट-प्रतिवचन- -ने पा ३, २,
१२०; ८, २, ९३; पावा ३, २,

१२०.

पृष्टवत्- -वान् वृदे ५, ७१.
पृष्ट्वा आश्रौ ८, १४, ४; १६;
शांश्रौ; पा १, २, ८.

प्रश्न- पा ३, ३, ९०; -श्न:
काश्रौ ४, २, २४; आपश्रौ ११,
१२, ४; वाधुश्रौ; -श्नम् बौश्रौ
१४, ११: ३२; ३३; आपघ;
-श्नान् जैश्रौका ६; -श्ने भाशि
११; पा ३, २, ११७; ८, १, ३२;
-श्नेषु गौपि २, २, २६.

प्रश्न-प्रतिप्रश्न-भूत्, ता- -त्सम्
शुअ ३, ३७; -ता: शुअ ३, २४.

प्रश्न-शस् (:) ऋप्रा १५, २२.
प्रश्न-स्थान- -न्ने कप्र १, ३, १०.
प्रश्ना(श्न-आ)ख्यान- -नयो:
पा ८, २, १०५; पावा २, ३, २८.

प्रश्ना(श्न-अ)न्त- -न्तेऽन्ते
काश्रौ ७, ८, १२.
प्रश्नान्ता(न्त-अ)भिपूजित-
-तयो: पा ८, २, १००.

प्रश्नान्ता(न्त-अ)भिपूजित-
विचार्यमाण-प्रत्यभिवाद-
याज्यान्त- -न्तेषु पावा ८, २,
१०७.

प्रश्नो(श्न-उ)त्तर-मुख- -खेत्न
अश्र ५, ११.

प्रष्ट्य- -व्या: विध ८, १०.
प्राश्- पाठ २, ५७; पावा ३,
२, १७८; प्राशम् कौस् ३८,
२४^१.

प्राद्-विवाक^० -क: गौघ १३,

a) धा. दाने वृत्तिः । b) पामे. वैप १, २०८८ Q द्र. । c) वावि. <पृणचिम् । d) सन्नन्ताल् लेटि मपु १ । धा. स्तुतौ वृत्तिरिति स्कन्दस्वामी इति दे. । e) पिण्ड इत्यपि मूको. । f) सपा. पाग् २, १, १८ मज्जयता इति, आग् १, १७, १६ मर्वयता इति, काग् ४०, १२ भाग् १, २१: ७ वर्तयता इति च पामे. । g) वैप १ द्र. । h) पा ७, २, ७५ पावा १, ४, ५१; ४, १ परासृष्ट: द्र. । i) पामे. वैप १, २०८९ i द्र. । j) णस्य इति पाठ: ई यनि. गौघ: । k) प्र इति चौस. ? । l) विप. । द्रस. > बस. । m) भावे कर्तारि वा किय प्र. । n) = प्रस्न- क कस. । उभयत्र कर्तारि-प्र. (तु-मिताक्षरा [यास्य २, ३]; नैतु- अभा. वाक. भावे प्र.) ।

२६; -कम् गौघ १३, २७; -के गौघ १३, ३१.

√पृञ्च, पृञ्चती- √पृच् द्र.

√पृञ्ज पाधा. अदा. आत्म. वर्ये, संपर्चने, अत्रयवे, अव्यक्ते शब्दे.

√पृह पाधा. तुदा. पर. सुखने.

√पृण पाधा. तुदा. पर. प्रीणने, ङ्पृणस्व आश्रौ ६, ३, १^३; शाश्रौ ९, ५, २; १४, २१, २; आपश्रौ; ङ्पृण काश्रौ १६, ७, १९; आपश्रौ ७, १०, ७x; बौश्रौ; पृणत > ता या ३, २०; ऋप्रा ८, १५.

पृणत्- पृणाति- √पृ, पृ द्र.

पृत्^a- पावा ६, १, ६३; ङ्पृत्सु आपश्रौ १२, ६, ५; बौश्रौ ५, ८ : १; ७, ४ : ३; वैश्रौ.

१पृत्सु ऋप्रा ७, ५०.

पृत्(न >) ना^a- पाउभो २, २, २०६; -ना अप ४८, १०५^१; -ङ्नाः आश्रौ ७, ४, ३; शाश्रौ; या ९, १४; -नानाम् या ९, २४; -ङ्नाम् बौश्रौ १४, १६ : १४; आश्रिण २, ५, ५ : १०; -नायाः शुप्रा ३, ७४^१; -ङ्नासु आश्रौ ३, ७, ७; आपश्रौ; या ५, २.

पृत्तनाज^a- जम् शाश्रौ १४, ४४, १^३; या १०, २८^१०^०.

पृत्तनाज्य^d- ज्यम् निघ २, १७^१; या ९, २४^०; -ज्ये आश्रौ ६, २, ५^१; -ङ्ज्येषु बौश्रौ १४, १६ : १०; आश्रिण १, ५, २ : २१; २, ५, ५ : ६; या ९, २४.

पृत्तनाजय- ज्येषु पाठ १, ५, १^०.

पृत्तनाजि^a- जि आपमं २, ८, २^१.

पृत्तनाजित्- ङ्जित् आपश्रौ १६, ३०, १; वैश्रौ १८, २० : ३९; हिश्रौ ११, ८, ४; भाग २, २१ : १५; -जितम् शाश्रौ १४, ४४, १; कौसू ६९, २२^१; अप्राय २, १^१; अत्र ७, ६३^१; या १०, २८.

√पृत्तनाय > पृत्तनायत्- ङ्पृत्तः वैताश्रौ ६, १^१; आपमं; कौग १, ८, २०^१.

पृत्तनावा(<सा)ह- पा ८, ३, १०९; -ङ्पाट् वैताश्रौ २५, १^६; अप्रा ३, ४, १; -०वाट् अत्र ५, १४^१.

ङ्पृत्तनाषाह^a- ह्याय ऋप्रा ९, ३०; शुप्रा ३, ७४; १२२.

ङ्पृत्तनासह- सहम् बौश्रौ १३, ५ : १६; १७, ४१ : १८.

ङ्पृत्तनासाह- साहम् आश्रिण १, ३, ४ : १२; हिग १, १०, ६.

पृत्तनाह्व^a- वेषु आश्रौ ३, ७, १३^१.

√पृत्तन्य पा ७, ४, ३९; पृत्तन्यति आपश्रौ ३, १४, २; भाश्रौ ३, १३, १; हिश्रौ २, ६, ३४; ङ्पृत्तन्यात् आपश्रौ २१, १२, ९; वाश्रौ ३, २, २, ३६; हिश्रौ १६, ५, ३; वैताश्रौ ३४, १.

पृत्तन्यत्- ङ्पृत्तः आपश्रौ १६, २, १०^१; २०, २०, ७; बौश्रौ ३, १६ : ७; ७, १३ : २५; १०, २ : १९^१x; हिश्रौ ११, १, २२^१; १५, ७, ८^१; वैताश्रौ; कौग १, ८, २०^१; बौग १, ४, २४^१; २, ५, १०^१; शौच २,

१०७^१; -न्यता आपश्रौ १२, २२, ५^१.

√पृथ् √पृथ् टि. द्र.

√*पृथ्, प्रथ्^a पाधा. भ्वा. आत्म. सुरा. पर. प्रख्याने, ङ्पृथताम् काश्रौ २, २, १०; आपश्रौ; ङ्पृथस्व आपश्रौ १, २५, ३; ७, ४, ५; बौश्रौ; कौसू २, १७^१; या १, १५; प्रथत आपश्रौ ३, ७, १४; वैश्रौ ७, ७ : ११; हिश्रौ २, ४, ४१; अप्रथत् भाशि ७३^१; अप्रथेताम् तैप्रा ४, २.

ङ्पृथये शाश्रौ ६, १०, ४; आपश्रौ २, १, ३; ५, १३, ४; बौश्रौ; या ६, ७.

प्रथयति काश्रौ २, ५, २०; १६, ३, २५; बौश्रौ; या १, १५; प्रथयन्ति भाग २, ३० : ११^१; अप्रथयत् ङ्पृथश्रौ ८, २५, १; १२, २०, २; ङ्पृथयि आपश्रौ ४, ७, २; बौश्रौ १, १४ : २४; भाश्रौ ४, ११, १; हिश्रौ ६, २, १७.

अप्रथयन्त या ७, २५^१; अप्रथयिष्यत् या १, १३; १४.

पृथ^k- थः काश्रौ ५, ३, १०; -थेन बौश्रौ २१, ९ : ६.

पृथ-मात्र- ङ्पृथ काश्रौ ६, १, २७; आपश्रौ ७, ३, ४; ८, ५, १०; भाश्रौ; -त्रात् बौश्रौ ५, ५ : ११; -त्रेण भाश्रौ ८, ४, ८; वैश्रौ ८, ९ : ४; हिश्रौ ५, २, १०.

पृथमात्री- ङ्पृथ आपश्रौ २, २, ७.

a) वैप १ द्र. । b) =शूर- । c) पामे. वैप १, २०९१ h द्र. । d) वैप १, २०९१ i द्र. ।

e) पामे. वैप १, २०९१ o द्र. । f) पामे. वैप १, २०९२ g द्र. । g) पामे. वैप १, २०९२ l द्र. । h) पामे. वैप १, २०९२ s द्र. । i) या ५, २५ पा ७, ४, १५ परामृष्टः द्र. । j) पामे. वैप १, २०९३ i द्र. । k) =प्रमाण- विक्षेपः (=आ सशिवन्धात्) प्रसृताङ्गुलि-पाणि- इति विद्याधरः) ।

१पृथोत्तरयुगे^१ बौशु १:४.

*पृथस्- > पृथस्नु- स्नुः वाश्रौ
१,३,३,२४^१०.

१पृथु- पाठ १, २८; पाग ५, १,
१२२; २,९७; -थु शाश्रौ १२,
१९, ३१; काश्रौ २१, ३, २८;
पाथ २, ६, २४; या ९, ३२;
१२, २३^१०; ऋपा ४, ६१; ८४;
-थुः आश्रौ ४, १४, २; काश्रौ;
या १, १४; २, २; ६, ७; -थुना
बौश्रौ १०, ५: ११; -थुम् काश्रौ
१८, ४, २३; आपश्रौ १, २५, ६;
-थूनि आपश्रौ १६, १४, ५;
वाश्रौ २, १, ५, २०; वैश्रौ १८,
१२: १३.

१पृथ्वी- -थ्वी आपश्रौ
१०, ९, १३; बौश्रौ ६, १: २;
-थ्वीम् माग १, २२, ७.

पार्थिव- पा ५, १, १२२;
-वम् कप्र १, ७, ४^१.

१पार्थिव- -व्नेन जैग २, ३:
११.

पृथु-केश-स्तु(क>)का^१- -०के
या ११, ३२.

१पृथु-भावन्- -वा माश्रौ १,
३, २, १०; वाश्रौ १, २, ४, ४३.

पृथु-जव(न>)ना^१- -०ने या
११, ३२.

पृथु-जव^१- -वः या ५, ९.

पृथु-जाघ(न>)ना^१- -०ने
ऋपा ९, ४९.

१पृथु-जयस्- -याः अप ४८,
११५; निघ ४, २; या ५, ९०^१.

पृथु-ज(य>)यी^१- -यी ऋपा

२, ५९.

पृथु-ता- पा ५, १, १२२.

पृथु-त्व- पा ५, १, १२२; -त्वे
अप २२, ४, २; -त्वेन अप २३,
३, ३.

पृथुपाज^१- > पृथुपाज-व(त>)

ती^१- -त्यौ आपश्रौ १९, १८,
३; बौश्रौ १०, ११: ३; माश्रौ.

१पृथु-पाजस्- -जसा आश्रौ ७,
१२, ७; शाश्रौ ११, ९, ३; -जसे

आश्रौ ५, २०, ६; शाश्रौ ८, ६, २;
१८, २३, २; -जाः आश्रौ २,
१, २६; ८, ६, ३; माश्रौ ५, १, १,
६; २, १, २५.

पृथु-बुध^१- -ध्नः बौश्रौ ३,
२२: १५^१; लाश्रौ १०, १५,
१४; -ध्नम् बौश्रौ ९, ३: १६,
-ध्नान् बौश्रौ ११, १: ७.

पृथु-मात्र- -त्रम् माश्रौ १, ८, १,
१६; हिश्रौ ४, १, ३३.

पृथु-मुख^१- पा ६, २, १६८;
-खः काश्रौ ७, ४, ८.

पृथु-रश्मि^१- -श्मेः चात्र ५: ३.
पार्थुरश्मि^१- -श्मम् लाश्रौ

७, ५, १३; १०, २, १५; निस्;
-श्मस्य लाश्रौ ७, ५, १४.

पृथु-र- पाठभो २, ३, ११०;
पा ५, २, ९७; -ले अप २४,
५, २.

पृथुल-मध्यम^१- -मः अप
२४, ३, ४.

पृथु-शब्द- -ब्दे ऋपा ४, ५४.

पृथु-श्रवस्- -वसः ऋपा २, ८,
४६; -वसि शाश्रौ १६, ११,

२३; -वाः बौश्रौ १७, १८: २;
बौग ३, १०, ६; वृदे ६, ७९.

पृथु-श्लक्ष्ण- -क्षणे मीसू १०,
१, ५५.

१पृथु-श्लुका^१- -०के वैताश्रौ १,
१४; आमिग २, १, ५: १७;

शुअ ४, ६; अअ ७, ४६; या
११, ३२^१.

पृथु-श्लु(त>)ता- -०ते या
११, ३२.

पृथु-संश्लिष्ट- -ष्टाः बौशु १: २.

पृथ्व(थु-अ)ग्न^१- -न्नम् वैश्रौ
१२, ९: ८.

पृथ्व(थु-अ)न्त^१- -न्ताः या ४,
१३.

*पृथुस्- > पृथुस्नु- स्नुः माश्रौ
१, २, ६, २०^१०.

प्रथ्- > प्रथिमन्- पा ५, १, १२२;
-मनः आपश्रौ १४, ६, ११;

हिश्रौ ९, ८, २८.

प्रथिष्ठ- -ष्ठम् आपश्रौ १२, २,
१५; वैश्रौ १४, ९: ११; हिश्रौ

७, ६, ३६; आमिग २, ३, ५:
१७^१; -ष्ठे काश्रौ १७, ५, २३.

प्रथीय(स्>)सी- -सी आपश्रौ
२, ३, २; बौश्रौ २४, २४: ८;

आपशु ४, ६; -सीम् माश्रौ २,
२, १२; -स्यौ कौसू १३७, ३.

प्रथन- -नम् आपश्रौ ५, २, ४^१;
वाश्रौ १, ४, २, २^१; -नात् या

१, १३; १४.

प्रथन-कर्मन्^१- -र्मणाम् या
१४, १२.

१प्रथमान, ना- -नम् आपश्रौ ४,

a) अर्थः व्यु. च ? । b) सपा. पृथस्नुः <> पृथुस्नुः <> प्रथस्नुः (तैत्रा ३, ७, ५, ३च) इति पाठे ।
शेषं वैप २, ३खं. द्र. । c) वैप १, २०९४ C द्र. । d) पार्थिवम् इति जीसं. । e) = पृथुत्व- । पाठः ? पार्थिव-
इति शेषः । f) वैप १, २०९५ i द्र. । g) वैप १ द्र. । h) निघ. । वस. । i) < पृथुपाजः (ऋ ३,
२७, ५) । j) = [वाय्या-] ऋन्- । k) = ऋषि-विशेष- । l) पाप. पृथु- > यनि. इति । m) खप. पाठः

५, ५; आश्रौ छ, ८, २; वैश्रौ ५,
६ : ३; हिश्रौ छ, २, ९; -ना
आपश्रौ ५, ९, ११; माश्रौ १, ५,
२, १२; वाश्रौ १, ४, २, २; हिश्रौ
३, ३, ३२.
प्रथयत्-यन् आपश्रौ १, २५, ३;
-कथन्तः आश्रौ छ, ६, ३;
आपश्रौ.
प्रथयित्वा आपश्रौ ३, ६, ११; ५,
१९, २; ७, ४, ५; माश्रौ.
पृथक्- -थः आश्रौ छ, ६, ३;
आपश्रौ १६, २३, ७^b; वैश्रौ १८,
१७ : २४^b; जैश्रौका ५९; ऋअ
२, १०, १८१; वृदे ८, ७७;
अथ १३, ४(६).
पृथक्-स्तु^c- -नुः^d आपश्रौ २,
१०, ६; बौश्रौ १, १४ : १२;
माश्रौ २, १०, ७; वैश्रौ ५, ८ : ८;
हिश्रौ १, ८, २.
प्रथित- -ताः अप ६४, ८, १.
प्रथित-पराक्रम^e- -मः अप ५१,
४, ४.
प्रथित-यशस्^f- -शसः सु ५, २.
प्रथिति- पाठ छ, १८३.
पृथ- √*पृथ् द.
पृथक्^g- पाठ १, १३७; आश्रौ २, १४,
५; ३, ४, ५××; शाश्रौ; आपश्रौ
५, ९, ११^h; माश्रौ; वाश्रौ १,
४, २, २^h; हिश्रौ ३, ३, ३२^h;
पा २, ३, ३२; पृथक्ऽपृथक् बौश्रौ
२४, २ : १; माश्रौ.
पृथक्-करण- -गम् पावा ५, २, ५१.
पृथक्-कर्म-स्तुतिⁱ- -तिः वृदे ६,
७०.
पृथक्-कल्पन-त्व^j- -त्वात् मीस्

१०, ७, २.
पृथक्-काम- -मः वैश्रौ ३, १ : २;
१२, २ : ८; -मेषु काश्रौ १२,
४, २६; -मैः आश्रौ १०, १, ७.
पृथक्-क्षेत्र^k- -त्राः शंघ २०८.
पृथक्-चर- -राः अप ५२, १, ४.
पृथक्-त(त्र >)न्त्रा^l- -न्त्रा माश्रौ
५, १, ६, ३२.
पृथक्-त्व- -त्वम् आश्रौ १०, ५,
१३; -त्वात् या १, ४; मीस् छ,
३, ८; १०, ३, ५०; ११, १, ३४;
-त्वे मीस् छ, ४, ३४; १०, ५,
१७; -त्वेन वृदे १, ९५; २,
२८××; मअ; या १३, १२;
-त्वेषु वृदे ३, ४९; -त्वेः ऋप्रा
११, ६४.
पृथक्त्व-तस्(ः) शाश्रौ १, १७,
८.
पृथक्त्व-निर्देश- -शः पावा १,
३, ९.
पृथक्त्वनिर्देशा(श-अ)नर्थ-
कथ- -कथम् पावा ८, १, ८.
पृथक्त्व-निवेश- -शात् मीस् २,
२, २१.
पृथक्त्वा(त्व-अ)भिधान- -नात्
पावा १, २, ५८.
पृथक्-इक्षि(या >)ण^m- -णानि
हिश्रौ १३, ३, ११.
पृथक्-पात्र- -त्राभ्याम् आपश्रौ ३,
३, १०; -त्रेषु काश्रौ १५, ४,
२४; हिश्रौ २३, १, ४४; -त्रैः
आपश्रौ १२, २१, २२.
पृथक्-पाद- -देषु कौस् १७, १४;
६४, ३; १९.
पृथक्-पृथक्-स्तुतिⁿ- -ति वृदे ३,

४०.
पृथक्-प्रण(व >)वा^o- -वे आश्रौ
५, ५, २.
पृथक्-शतमान^p- -नौ हिश्रौ २४
२, ६.
पृथक्-शाथिन्- -थिनः विध १९,
१७.
पृथक्-शौच^q- -चाः शंघ २०८.
पृथक्-संस्था- -स्थाभिः आश्रौ १०,
५, ९.
पृथक्-संज्ञा-करण- -णात् पावा १,
१, ६२.
पृथक्-संमार्थ- -र्थे कौस् ३४, ८.
पृथक्-सहज- -त्वाभ्याम् अअ १९,
२२^r.
पृथक्-सूक्त- -क्तेषु वृदे ३, ६०.
पृथक्-स्तुति- -तिः वृदे छ, ४२.
पृथक्-स्तुति^s- -ति वृदे ३, ४२;
४३.
पृथक्-स्तोत्र- -त्रेभ्यः द्राश्रौ ५, ३,
५; लाश्रौ २, ७, ४.
पृथक्-स्तोत्रीया- -यासु निस् ८,
१ : २४.
पृथग्-अनुबन्धत्व- -त्वे पावा १,
२, १.
पृथग्-अर्थ- -र्थानाम् पावा २, १, १.
पृथगर्थ-त्व- -त्वात् मीस् छ, १,
८; ९, २, ८.
पृथग्-अवसानी(य >)या- -याभिः
वाश्रौ ३, २, २, ४८.
पृथग्-असमासा(स-अ)र्थ- -र्थम्
पावा २, १, ४.
पृथग्-आदि- -दिषु पावा २, ३,
३२.
पृथग्-आदेश-प्रतिषेधा(ध-अ)र्थ-

a) वैप १ द. । b) पाभे. वैप १, २०९३ ग द. । c) वैप २, ३ खं. द. । d) पाभे.
पृ १६३२ b द. । e) विप. । वस. । f) पाभे. वैप १, २०३६ h द. । g) तु. या ७, ५ । h) 'कृपक' इति
जीवं. । i) उप. = ३ दक्षिणा- ।
वैप-प्र-२३

-थैम् पावा ६, १, ८३.
 पृथग्-आहुति^a - ती गोय ४, ८, ८.
 पृथग्-इष्टि- ष्टिषु द्राश्रौ १२, ४, ७;
 लाश्रौ ४, १२, ७.
 पृथग्-ओदन^a - नेषु कौसू ६५, ४.
 पृथग्-ग्रहण- -णम् पावा ३, ३, ४३.
 पृथग्-घो (<हो)म^a - मान् लाश्रौ
 ९, १२, ३.
 पृथग्-जन^a - ना: शंघ २०८.
 पृथग्-जनपद- -दे द्राश्रौ ३, ३, २२;
 लाश्रौ १, ११, १३.
 पृथग्-दधि- -धिनी वैश्रौ ८, ९, १२.
 ?पृथग्-दशशृकटवि: शैशि २४८.
 पृथग्-देव(ता>)त^a - ता: वृदे
 ४, १२४.
 पृथग्-धर्म-विद्^b - विद: गौघ
 २८, ५०.
 पृथग्-भाव- -वम् शैशि ३१४;
 -वस्य या ४, २५; -वात् मीसू
 ७, २, २; -वे अप ४८, २८.
 पृथग्-भू(त>)ता- -ते अप २३,
 २, ४; काश्रु २, ११; आपश्रु.
 पृथग्-लक्ष(रा>)णा^a - णा:
 काश्रौ १६, ४, ६.
 पृथग्-वर्ण- -र्णानाम् द्राघ २, ५, ३.
 पृथग्-वषट्का(>)रा^a - रे
 आश्रौ ५, ५, ४.
 पृथग्-वाता(त-अ)दर्शन- -नात्
 पावा ४, २, ४९.
 पृथग्-वि(धा >)घ^a - घा: अप

४७, १, ९; -घै: कप्र १, १, १४;
 अप १९, १, ५.
 पृथग्-विना-नाना- -नाभि: पा २,
 ३, ३२.
 पृथग्-विभक्ति-प्रतिषेधा(घ-अ)
 र्थ- -थैम् पावा १, २, ६४.
 पृथक्-विभक्ति-संख्य(ज्ञि-अ)नुचा-
 रणा(रा-अ)र्थ- -र्थै: पावा १,
 ३, १०.
 पृथग्-विभक्त्यु(क्ति-उ)पलब्धि-
 -विघ: पावा १, २, ६४.
 पृथग्-विभाषित- -तस् अप २ : ६.
 पृथ-मात्र- प्रभृ. √पृथ् द्र.
 पृथवी- पाठ १, १५०.
 *पृथस्- √*पृथ् द्र.
 पृथा^c - (>२पार्थ- पा.) पाग ४, १.
 ११२.
 १पृथि- पाठभो २, १, २६८.
 २पृथि^d - >३पार्थ^e - र्थै: f ऋअ २,
 १०, ९३^g; वृदे ३, ५७; -र्थानाम्
 काश्रौ १५, ५, ३; ३४; -र्थानि
 काश्रौ १८, ५, ३; आपश्रौ १८,
 १५, ८; १६, १; बौश्रौ.
 ४पार्थ^h - र्थैम् द्राश्रौ ८, ३, ५;
 १७; लाश्रौ ४, ७, १; छुसू १,
 ८ : १०; ३, ७ : १२; निसू;
 -र्थस्य लाश्रौ ९, ५, १९; निसू
 ८, १३ : ३७; ४२.
 पार्थ-यामⁱ - मे द्राश्रौ ८,
 १, २३; लाश्रौ ४, ५, २०.

पार्थ-लौश-शार्गि- -र्गणि
 निसू २, १ : ३३.
 पृथि-सव^j - -व: बौश्रौ १८, ६ :
 २२; २४, ११ : २; -वेन आपश्रौ
 २२, २५, १४; बौश्रौ १८, ६ :
 १; १५; हिश्रौ २३, ४, ९.
 पृथिवी^d - पाठ १, १५०; पा, पाग ४,
 १, ४१; पाग ४, १, ८६; -फंवि
 आश्रौ ८, १४, १८; शांश्रौ १,
 ५, ९; ९, २८, १३; काश्रौ; हिश्रौ
 ११, ७, ५१^k; या ९, ३२^l;
 ११, ३७; -फंवि आश्रौ १, २, १;
 २, ९, १४××; दाश्रौ १०, १७,
 ४^m; काश्रौ; आपश्रौ १६, ५, ११ⁿ;
 बौश्रौ १०, ७ : १२^o; वैश्रौ १८,
 २:४^p; हिश्रौ ११, १, ६५^q; कौश्रु
 ३, १५, ५^r; शांश्रु ३, १३, ५^s;
 हिश्रु २, ११, ४^t; गोय २, १,
 ६^u; या १, १३; १४; ३, २१××;
 ७, २४^v; -वी: अप २ : १२^w;
 -फंविम् आश्रौ १, ६, १२, ७,
 ११; १०, २१; ३, ३, १^x; शांश्रौ ५,
 १७, ३^y; काश्रौ ६, १, ३३^z;
 आपश्रौ १६, ७, ३^{aa}; १८, ६^{ab};
 माश्रौ ३, ५, १४; वाश्रौ २, १,
 २, ९^{ac}; वैश्रौ १८, ४ : २०^{ad};
 हिश्रौ ११, २, ५^{ae}; या १, ४, २,
 ९^{af}××; १०, २७^{ag}; -फंव्या
 आश्रौ १, ७, ७^{ah}; शांश्रौ; काश्रौ
 ७, ४, ३३^{ai}; बौश्रौ २, १० : ३^{aj}.

a) विप. । बस. । b) उप. <√विद् (ज्ञाने) । c) व्यप. । व्यु. ? । d) वैप १ द्र. । e) = (अमये स्वाहेत्यादि-) मन्त्र-, (उपचारतः) हविस्- । शेषं वैप १, २०९६ k द्र. । f) = ऋषि-विशेष- । g) पाठः? (द्र. ऋ १०, ९३, १५; मूको. च पार्थ्यः इति; वैतु. सा. षड्गुरुशिष्यश्च यनि. < पृथु-इति) । h) = साम-विशेष- । तेनदृष्टीयः अण प्र. । i) द्रस. । j) = याग-विशेष- । k) 'वी इति पाठः? यनि. शोषः (द्र. सप्र. तै ४, २, ९, ४) । l) पामे. वैप १, २०९७ i द्र. । m) वैप १, २०९७ f द्र. । n) सपा. पृथिवी <> पृथिव्या इति पामे. । o) सकृत् सपा. पृथिवी, समा <> पृथिवीसमम् इति पामे. । p) पामे. वैप २, ३खं. भूमिः तैत्रा १, ५, ५, १ टि. द्र. । q) पामे. वैप १, १५८५ a द्र. । r) पामे. वैप १, २०९७ d द्र. । s) पाठः? । पामे. वैप १, २१०४ k द्र. । पामे. वैप १, २०९९ g द्र. । u) पामे. वैप १, २०९८ e द्र. । v) पामे. वैप १, २१०० a द्र. ।

४, १ : २३^a; १०, २९, १३^a; २८,
९ : १६^a; भाश्रौ १०, १२, १९^a;
वैश्रौ १२, ११ : १४^a; १४ :
१३^a; २१, २ : २^a; हिश्रौ १०,
३, १७^a; आपमं २, १९, ४^b;
आमिष्ट ३, १, १ : १६^b; बौष्ट
२, ११, २६^b; भाष्ट २, ११ :
१४^b; हिष्ट २, १०, ७^b; या २,
७; -†व्याः आश्रौ १, १३, १;
२, १०, ७××; शाश्रौ; आपश्रौ
१२, २२, ८^o; माश्रौ १, २, ४,
९^d; ६, २३^e; २, १, २, ७^f;
वाश्रौ १, ३, १, ३२^d; ३, २७^e;
माष्ट १, ११, ६^f; १४, १६^g; चाश्र
१ : ११^h; ८ : ७^h; १६ : २३^h;
२६^h; २८^h; या २, ५; १४××;
६, १७ⁱ; -†व्याम् आश्रौ २,
२, ४; ४, १४^j××; शाश्रौ २, ६,
७; ४, १२, ४^k××; काश्रौ; आपश्रौ
६, १२, ४^l; ९, ४, १^l; १४,
३१, ४^m; १५, ४, ७ⁿ; कौस्
५, ८^o; ५९, १६^o; अश्र ४,
३९^o; या ६, ३६; ७, ५××;
-†व्यै आश्रौ २, ३, ८; ३, ८, १;
४, ५, ७^p××; शाश्रौ; काश्रौ २,
६, ८^q; ४, १४, २८^q; आपश्रौ २,
१, ५^d; १६, २९, २^q; २०, १२,
८^o; द्राश्रौ १४, २, ६^p; लाश्रौ;
वैताश्रौ १३, २४^p; २०, १३^q.
२पार्थिव†- पा ४, १, ८६; ५, १,

४१-४३; पावा ४, १, ८५; -वः
आपश्रौ १७, ८, ४^r; वैश्रौ १९,
५ : ४६^r; द्राश्रौ; -वम् आश्रौ
३, ३, १; ४, ६, ३; शाश्रौ; या ९,
२९^r; -वस्य आपश्रौ १६, ६,
४; २२, ७, ११; माश्रौ; या ६,
२२; -वा हिश्रौ ३, २, ५६^r;
-वाः आपश्रौ ५, २, २; ६, ३;
बौश्रौ; -वान् आपश्रौ ५, १, ४;
५××; बौश्रौ; या १४, ५;
-वानाम् वैश्रौ १, ९ : १०; हिश्रौ
३, ३, ३३; कौष्ट; -†वानि
आपश्रौ २, १, ३^s; बौश्रौ १,
१० : १९^s; भाश्रौ २, १, ४^s;
वाश्रौ १, १, २, २०; हिश्रौ
१, ६, ६१^s; ६, २, २^s;
शुश्र; -वाय माश्रौ १, २, ४,
५^t; हिष्ट २, १६, ४; -†वासः
बौपि २, १२, २; भाष्ट ३, १७ :
४; जैष्ट २, १ : २५; या १२,
४५; -वेन या २, १०; -वेभ्यः
†बौश्रौ ७, ५ : ४१; ६ : २७;
जैश्रौ १० : ७; -वेषु आपश्रौ
१६, ३०, १^u; वैश्रौ १८, २ :
३४^u; हिश्रौ ११, ८, ४^u; अप
७२, १७, २; -वैः आपश्रौ १४,
१७, १^u; हिश्रौ १५, ५, १^u;
अप ५, १, २; ३७, १, ६^u.
पार्थिवी- -वी अप ६५,
२, १२; अशां १६, १; ऋय २,

१, २२; वृदे २, ७२××; शुश्र
१, ५५९; -वीः आपश्रौ^v ५,
१२, २; १३, ८; १५, ६; बौश्रौ;
-वीम् अशां १७, ५; शुश्र ४,
५७; -व्याम् अशां १८, ८; १२,
८.
पार्थिव-चन्द्र- पाग २, १,
५६.
पार्थिव-मण्डल- -लानाम्
अप ७०^v, ११, ११; १२.
पार्थिव-मध्यम^w- -मौ वृदे
१, १०१; ३, ११; ५, ४८.
पृथिवि†- > †पृथिवि-क्षित्†-
-क्षिते^v आपश्रौ २०, २, १; बौश्रौ
१५, २ : ९; हिश्रौ १४, १, १३.
†पृथिवि-दा†- -दाः आपश्रौ
१७, ५, १६; वैश्रौ १८, २१; १७;
हिश्रौ ११, ८, १०.
†पृथिवि-षद्- -षद्भ्यः^w
आपश्रौ १, ९, ६; हिश्रौ २, ७, ३०;
हिष्ट २, १२, ४; कौस् ८७, ८.
†पृथिवि-सद्- -सदम् शुश्र
३, ८३^w.
†पृथिवि-स्पृश- -स्पृक् बौश्रौ
९, १० : ६.
†पृथिवी† आश्रौ ३, ८, १^x; शाश्रौ
८, ३, ११; बौश्रौ ८, १३ : १७;
ऋय २, १, १५९; ७, ५३; या ९,
३८; तैप्रा ४, १९.
†पृथिवी-क्षित्- -क्षितः वाष्पश्रौ

a) पामे. वैप १, २१०० a द्र. । b) पामे. पृ १६३४ m द्र. । c) पामे. वैप १, २१०० b द्र. ।
d) पामे. वैप १, २१०३ c द्र. । e) पामे. वैप २, ३खं. पृथिव्यै तैत्रा ३, ७, ५, ३टि. द्र. । f) पामे. वैप १, १२७६ f द्र. ।
g) पामे. वैप १, २१०२ c द्र. । h) = ऋषिका- । i) पामे. वैप १, २१०० g द्र. । j) सपा. ष्याम्
<> ष्यै इति पामे. । k) पामे. वैप १, २०९८ h द्र. । l) पामे. वैप २, ३खं. पृथिव्याम् तैत्रा ३, ७, ३, ६ टि.
द्र. । m) पामे. वैप २, ३खं. पृथिव्याम् तैत्रा ३, ७, १०, १ टि. द्र. । n) पामे. वैप १, २०९७ f द्र. । o) पामे.
वैप १, २१०२ l द्र. । p) पामे. वैप १, १५७६ a द्र. । q) पामे. वैप १, २१०१ f द्र. । r) वैप १ द्र. ।
s) पामे. वैप १, २१०३ m द्र. । t) पामे. वैप १, २१०२ j द्र. । u) = अग्नि-द्वय- । v) पामे. वैप १,
२१०४ c द्र. । w) पामे. वैप १, २१०४ i द्र. । x) पामे. वैप १, २१०४ h द्र. ।

३,५१ : २; -चित्ते काश्रौ ४,
१४,२८.
पृथिवी-गत- -तान् वैगृ ५, १४ :
७; -तेभ्यः वैगृ २,२ : १०; ५,
१४ : १४.
पृथिवी-जात- -ताः वृदे ७,७२.
पृथिवी-दान-फल- -लम् विध
८८,२.
पृथिवी-नामधेय- -यानि निघ १,
१; या २,७.
पृथिवी-पति- -तिः अप ४,२,१२;
६८,५,१९; -०ते विध ९८,२३.
पृथिवी-प्र- -प्रः अत्र १३,२; २.
पृथिवी-मध्य^१ - -ध्यस्य पावा ४,
२,१३८.
पृथिवी-लोक- -कः हिपि ७ : ६;
-केन कौगृ १, १०, १; शां १,
१६,३.
पृथिवी-शरीर- -रम् बौपि ३,७,३.
पृथिवी-शायिन्- -थी वैध १,७,८.
पृथिवी-षट्- -षडे भाग २,२९ :
१२; १३; ३० : २; -षट्भ्यः^२
बौश्रौ २४,३२ : १३; भाश्रौ १,
९, १; माश्रौ १, १, २, २२; वाश्रौ
१, २, ३, १९; आग्निगृ ३, १, ३ :
९; गोगृ; जैगृ २, २ : १०.
पृथिवीघटा अप ३६, ९, ३; ३.
पृथिवी-सम^३ - -सम् आग्निगृ^४ ३,
१, २ : १४; २, ३; ३; बौध २, ८,
१२.
पृथिवी-स्थान^५ - -नः या ७, ५, १४;
-नम् वृदे १, १०५; -नाः या

१२, ४१.
पृथिव्य(वी-अ)ग्नि- -नी अत्र ४,
३९.
पृथिव्य(वी-अ)ग्न्या(ग्नि-आ)श्रय^६-
-यः वृदे १, १२०.
पृथिव्य(वी-अ)न्तरिक्ष-दैवत^७ - -तः
ऋत्र २, ७, १०४.
पृथिव्य(वी-अ)प्-तेजो-वाद्या (यु-
आ)काशा-मनो-बुद्ध्या (द्वि-आ)
त्मा (त्म-अ)व्यक्त-पुरुष-
-षाणाम् विध ९७, ७.
पृथिव्य(वी-अ)प्-तेजो-वाद्या(यु-
आ)काशा(श-आ)त्मक^८ - -कम्
विध ९६, ५१.
पृथिव्या(वी-आ)त्मन्- -त्मानौ
काश्रौ २, ६, ७.
पृथिव्या(व्य-आ) दि-व्यवस्थित-
-तान् वृदे ७, ५२.
पृथिव्यां-देवयजन^९ - -नाः वाधूश्रौ
४, १८ : २६; २८.
पृथिव्या(वी-आ)यतन^{१०} - -नानि या
७, ११; ९, १.
पृथ्वी^{११} - पाठ १, १५०; -थ्वी
शाश्रौ ३, १२, ९; वाध २९,
१९; निघ; -थ्वीम् आश्रौ ४,
६, ३; बौश्रौ; या ६, १२; ३;
-थ्व्या भाश्रौ १०, ६, १०.
पृथ्वी^{१२} - -थी अत्र ८, १०, (४);
ऋप्रा १४, ३९.
पृथु- ✓*पृथ् द.
पृथु^{१३} - -थुः ऋअ २, १०, १४८;
सात्र १, ३१६.

पथार्थ^{१४} - -०र्थ आश्रौ १२, १०,
११; आपश्रौ २४, ६, ८; बौश्रौ
८:२; हिश्रौ २१, ३, ७; वैध ४,
२, ६; -थाः आपश्रौ २४, ६, ७;
बौश्रौ ८ : १; हिश्रौ २१, ३, ७.
पृथु-वत् आपश्रौ २४, ६, ८; बौश्रौ
८:२; हिश्रौ २१, ३, ७; वैध ४,
२, ६.
पृथुक^{१५} - पाठ ५, ५३^m; पाम ५, १, ४;
-कान् आपश्रौ २०, १०, ५; हिश्रौ
१४, ३, ३; -कानि वाश्रौ ३, ४, २, ४
पृथुक-चर्मन्- -र्माणि बौश्रौ १५,
१६ : ३.
पृथुकीय- , पृथुक्य पा ५, १, ४.
पृथुकेशस्तुका- -प्रथ्. १पृथ्वी-
✓*पृथ् द.
पृदाकु^{१६} - पाठ ३, ८०; -कवः शाश्रौ
१२, १८, ८; -कुः आपश्रौ १३,
१८, ७; हिश्रौ १०, ५, १; १;
आपसं २, १७, १५ⁿ; -कुम्
अत्र ३, २६; -कोः आश्रौ ३, ३,
६; -कौ बौश्रौ १८, ८ :
१८; २६, ३० : १९; आग्निगृ
२, ४, ४ : ११; बौध ३, ७, ११.
पृदाक्वाः^{१७} अप्रा १, ३, १४ⁿ.
पृदाकु-सालु^{१८} - -नुः ऋप्रा ५, २७ⁿ.
पृदाकुनि बौश्रौ २, ५ : ११.
पृशान^{१९} - > पृशाना(न-आ)दि- -दयः
ऋप्रा ९, १३.
✓पृशानाय^{२०} > पृशानायु^{२१} - -युवः
ऋप्रा ९, १६.
पृश्नि^{२२} - पाठ ४, ५२; फि ३३;

a) वैप १ द. । b) तु. पाम. । c) पामे. वैप १, २१०४i द. । d) विप. (अत्र-) ।
e) ०थीं स० इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. बौध.) । पामे. पृ १६३४० द. । f) विप. । बस. ।
g) विप. । बस. > बस. । h) विप. । दस. > बस. । i) दस. > बस. । j) = ऋषि-विशेष- ।
व्यु. ? । k) अपत्यार्थे ङण प्र. उत्सं. (पावा ४, १, १७१) । l) = विपिटक- । व्यु. ? < ✓ प्रथ्
इति प्रायोवाद्. । m) = अर्भक- । n) पामे. वैप १, २१०५ g द. । *कृ इति पाठः ? यनि. शोधः ।
o) वैप १, २१०५ k द. ।

-कक्षयः काश्रौ २२, ९, १३;
 आपश्रौ २०, १४, ७, ९; बौश्रौ;
 ऋश्र २, ९, ८६; साश्र २, १७३;
 उनिसू ८ : १२; -क्षये वृदे ५,
 ११४; -क्षि निसू ३, १० : ६^१;
 आपमं २, ११, २०; पाश्र १,
 १६, २; -क्षिः आश्रौ ४, ६, ३;
 ६, १०, १६; ८, १३, ६; वाश्रौ;
 या २, १४^२; -क्षिना काश्र २९,
 १^३; -क्षिनमिः बौश्रौ २५, १७:
 १८; -क्षिनभ्याम् आपश्रौ २१,
 १३, १५; -क्षिनम् काश्रौ १४,
 २, ११; आपश्रौ १८, २१, १३;
 २१, २३, १२; बौश्रौ; -कक्षिनयै
 बौश्रौ ८, ३ : २; १३, २० : ७;
 वैश्रौ १६, ३ : ९; -क्षिनी आपश्रौ
 २१, १३, १४; १६; -क्षिनीः
 आपश्रौ २२, २०, ११; बौश्रौ;
 -क्षिन् आपश्रौ २२, २०, ११;
 -क्षिनाम् बौश्रौ १४, १३ : १;
 -कक्षिः शाश्रौ ८, १७, १; बौश्रौ;
 -क्षौ वैश्र १, १४ : १२; -क्ष्याः
 चाश्र १ : १०; १५.
 पृथि-गर्भ, भा^१ - -र्भम् विध १,
 ५९^२; -कर्भाः आश्रौ ४, ६, ३;
 ५, १८, ५; या १०, ३९^३.
 पृथि-ग्रह- -हाणाम् आपश्रौ २१,
 १३, ८^४; बौश्रौ २३, ६ : ६;
 -हैः बौश्रौ २३, १९ : ३५.
 पृथि-ज^५ - -जाः अप ४३, ५, ५९^६.
 पृथि-प(री >)णी^७ - -णीं अप
 १८, १, १७; ३२, १, ३^८; -णीम्
 आमिग ३, ५, ५ : ६; बौपि;

-ण्यां कौसू ८, २५.
 पृथि-प्राण-ग्रह^८ - -हान् आपश्रौ
 २१, १३, ७; हिश्रौ १६, २, ९.
 पृथि-मन्थ- -न्थः कौसू ११, १५.
 पृथि-मातृ^९ - -तरः वाश्रौ ८, २३,
 १^०; आपश्रौ १४, १६, १^१;
 हिश्रौ १५, ५, १^२; अप्राय ६,
 १; वृदे ५, ७१.
 पृथि-मान- -नाचि हिश्रौ १६, २,
 ९^३.
 पृथि-वर्ण^{१०} - -र्णम् ऋप्रा १७, १५.
 पृथि-वा(ल >)ला^{११} - -ला आपश्रौ
 १०, २२, ४; हिश्रौ ७, २, १६.
 पृथि-शा(फ >)फा^{१२} - -फा आपश्रौ
 १०, २२, ४; हिश्रौ ७, २, १६.
 कृपृथि-सक्थ^{१३} - -क्थम् तैप्रा ६, १२;
 -क्थाः बौश्रौ १५, ३८ : १२.
 पृथि-सूक्त- -क्तम् ऋश्र २, ६, ४८;
 -क्ते वृदे ५, ११३.
 पृथि-शिन(अ)श्मन्- -श्मा काश्रौ
 १८, ६, ८; -श्मानम् काश्रौ १८,
 ३, २०.
 २पृथिन^{१४} - -क्षिनाम् चाश्र १७ : ९.
 पार्थ^{१५} - -थ्यस्य चाश्र १६ :
 ४, ५.
 √पृष् (बधा.) पाधा. भ्वा. पर. सेचने
 हिंसासंक्लेशनयोश्च > पृष्त्^{१६} -
 पाठ २, ८४; पाग २, १, ५६^१;
 -षत् माश्रौ १, ७, १, ३०; ऋप्रा
 १७, १७; -षता काश्रौ ७, ८,
 २५; आपश्रौ; -षन् काश्रौ १५,
 ३, १६; ९, ५; -कृषन्तः आपश्रौ
 २०, १४, १४; बौश्रौ १५, ३८ :

१२; हिश्रौ १४, ३, १८.
 पृषती^{१७} - कृतयः^{१८} आपश्रौ
 ३, ६, ६; बौश्रौ १, १९ : २६;
 भाश्रौ ३, ६, १; -ती काश्रौ १५,
 ९, १४; माश्रौ ५, २, १, १८;
 कौसू २४, ४२^२; -तीः बोश्रौ
 १८, ११ : ६; -तीनाम् बौश्रौ
 ४, ३ : ३८^३; वाश्रौ १, ६, २,
 १४^४; -तीभिः वैताश्रौ ३१,
 २७; -तीम् कौसू २४, ४३; -त्यः
 अप ४८, १४; वृदे ४, १४१; निघ
 १, १५; -त्या कौसू २४, ४४;
 -त्याः हिश्रौ २२, ४, २०.
 कृषद्-अश्व^{१९} - -श्वः आपश्रौ
 १४, १६, १; हिश्रौ १५, ५, १;
 काश्र ५८, २; अप्राय ६, १;
 -श्वानाम् आश्रौ १२, ११, १.
 पार्षदश्व- -श्वः आश्रौ
 १२, ११, १^२; आपश्रौ २४, ८, ५;
 ६; बौश्रौ २४ : ४.
 पृषदश्व-वत् आपश्रौ २४, ८,
 ५; ६; बौश्रौ २४ : ५.
 पृषद्-आज्य^{२०} - -ज्यम् आश्रौ ६,
 १०, ५; काश्रौ ५, ४, २४; ६, ६,
 २०; आपश्रौ; -ज्यस्य काश्रौ ६,
 ८, ४; १७; आपश्रौ; -ज्यात् बौश्रौ
 ४, ९ : २८; २०, ३० : १३; वैश्रौ
 १०, १९ : १७; -ज्याय बौश्रौ
 ४, १ : ६; ५, १ : ५××; माश्रौ;
 -ज्ये आपश्रौ ८, २, ८; ६, ९;
 ९, १७, २^२; बौश्रौ; -ज्येन शाश्रौ
 ४, १४, ३५; आपश्रौ ७, २३, ७;
 काठश्रौ; गौपि २, ७, ३२^{२३}.

a) = साम-विशेष-। b) वैप १ द्र.। c) विप. >नाप. (विष्णु-)। विशेषः ममा १२, ३४१, ४४ द्र.। d) सपा. पृथिमहाणां <>पृथिमानानि इति पाभे.। e) = पितृ-विशेष-। उस.। f) द्रस. >षस.। g) विप. (वैराज- [=सामविशेष-])। बस.। h) विप.। बस.। i) व्यप.। व्यु. ?। j) °त्- इति पाका.। k) वैप १, २१०७ m द्र.। l) पाभे. वैप १, २१०७ n द्र.। m) बप्रा.। विप., व्यप.। n) बहु. <पार्षदश्व-। o) घृज° इति पाठः ? यचि. शौधः।

पृषदाज्य-ग्रह (ण) गी-
-गीम् बौश्रौ ४, ३:२१; ३४; ५,
२: ५; ८××; वैश्रौ १८, ३: २;
बौपि ३, ३, १२; -णयाम् बौश्रौ
४, ३: ३५; -ण्यै बौश्रौ २०,
२६: २८.

पृषदाज्य-घा(न >) नी- नी
वाश्रौ १, ६, २, ११; वैश्रौ ८, ४:
२; -नीम् आपश्रौ ७, ८, ३;
७××; भाश्रौ; -न्या: माश्रौ १,
७, १, २८; ३३; -न्याम् आपश्रौ
७, ९, २; ८, २, ८; ६, ९; भाश्रौ;
-न्यो: भाश्रौ ८, ७, २.

पृषदाज्य-धर्म- -मै: वाश्रौ
१, ६, २, १२^१।

पृषदाज्य-प्रणुत्त-
-त्तानाम् शौच ३, ६५.

पृषदाज्य-वत् मीस् ५, ३, १;
१०, ६; ६४; ७, ६४.

पृषदाज्य-वत् -वन्ति बौश्रौ
५, २: ९; ५: ३६××; भाश्रौ.

पृषदाज्यवती- -तीम्
काश्रौ २५, ७, ३१.

पृषदाज्य-स्कन्दन- -ने काश्रौ
२५, ६, ३; ७.

पृषदाज्य-सुव- -वम् हिश्रौ
४, ४, ७३; ५, २७.

पृषदाज्या(ज्य-अ)र्थ- -र्थम्
हिश्रौ ४, २, ३१.

पृषदाज्या(ज्य-अ)वकाश-
-त्रो बौश्रौ ४, ६: ३४; ११, ४:
१८; १५, २८: २८.

पृषदाज्या(ज्य-अ)वेक्षण-
-णम् शाश्रौ ५, १७, १२.

पृषद्-बस्त-वय^b- -यम् वाध
२१, २३.

पृषद्-व(त्स >)त्सा- -त्सायै
हिश्रौ २२, ४, २०.

पृषोत्था, द्वा^१ज- पा, पाग ६, ३,
१०९.

पृषोदर^d- पा, पाग ६, ३, १०९;
-र: हिश्रौ १४, ३, १४; -रम्
आपश्रौ २०, १३, १२; बौश्रौ

१५, २३: ७; २६: ८.

पृषोदरा(रि-आ)दि- -दीनाम्
ऋत ४, ३, ६.

पृषत्^e- पाउ ३, १११; पाग २, १,
५६^f; बौश्रौ २६, ११: २२; या

२, २; -तम् माश्रौ ६, १, ७, २२;
-ता: अण ७१, ३, ३.

पार्षत्^g- -तम् शंघ २२२;
-तेन विध ८०, ८.

पृषता(त-अ)न्त^h- -न्तान् काश्रौ
२०, ६, ६.

पृषित- पाउभो २, २, १४३.
पृषित-मात्र- -त्रे बौश्रौ २०,
२६: ३७.

पृष- (> पार्ष-) पृषदंश- टि. द्र.
पृषत्- √पृष द्र.

पृषदंशⁱ- (> पार्षदंश- पा.) पाग
४, १, ८६.

पृषदश्च- प्रसृ. √पृष् द्र.
पृषध्न^d- -ध्न: ऋअ २, ८, ५६; साअ १,
४४, ७; -ध्नस्य वृदे ६, ८५; -ध्ने

शाश्रौ १६, ११, २६.

पृषातक^d- -क: माय २, ३, ६; -कम्
आय २, २, ३; माय २, ३, ५^१;

गोय; -कस्य कौष्ट ४, ३, २; शाय
४, १६, ३; काय ५८, २; ५;

-का: पाय २, १६, १^१; -कानि
भाश्रौ ८, ३, २१; शाश्रौ १२,

२३, ३; वैताश्रौ ३२, २५; -काय
आय २, २, २; ३; -के गोय ३,
८, १; -केन कौसृ ४९, १५.

पृषातक-प्रेषण- -णयो: कप्र ३, ९, ८.
पृष्ट^d ऋपा ४, ६३^१.

पृष्ट- √पृच्छ द्र.
पृष्ट^d- -ष्ट: आश्रौ २, १५, २^३; ८,
१०, ३; शाश्रौ; या ७, २३.

पृष्टम^१- -म: शंघ ११६: १७.
पृष्टि, ष्टि^m- -ष्टय: वैश्रौ १३, १७:
६^१; -ष्टीनाम् आपश्रौ १५,
१५, १; भाश्रौ ११, १५, १३;

हिश्रौ २४, ६, १२^०; -ष्टीभ्य:
तैप्रा ३, ७^१.

पृष्टया(ष्टि-आ)मय^d- >० यिन्-
-यी या ५, २१^१.

पृष्ट^d- पाउ २, १२; पाग ५, २, २४;
पावाग ३, २, १५; ५, ४, ४४;

कि १५; -ष्ट: निस् ५, ६: ६;
-ष्टम् आश्रौ ५, १५, २; ७, ३,
९××; शाश्रौ; आपश्रौ १४,
११, ४^१; २२, २, २^१; द्राश्रौ ९,
३, ८^१; या ४, ३; -ष्टयो:
आमिष्ट ३, ४, २: १२; बौपि
३, ३, १२^१; वैय ५, ४: ३४;

a) धूमै: इति पाठ: ? यनि. शोघ: । b) समाहारे द्वस. । वय- = पक्षिन्- । c) पाका. पाठ: । d) वैपृ
द्र. । e) विप. (कूर्म- [माश्रौ.]) । शिष्टं वैपृ १ द्र. । f) पृ १६३७ j द्र. । g) विप. । तस्येदमीय: अण प्र. ।
h) विप. । बस. । i) अर्थ: व्यु. च ? । पृष, दंशे इति पाका. । j) रुद्र-नामन्- । k) = कर्म-विशेष- । l) व्यप. ।
व्यु. ? । m) वैपृ २, १०८ m द्र. । n) सपा. पृष्टय: <> पृष्टीनाम् इति पाभे. । o) ष्टी इति पाठ: ? यनि. शोघ: ।
p) पाभे. वैपृ १, २१०८ q द्र. । q) पाभे. वैपृ १, २१०९ m द्र. । r) ष्टयम् इति पाठ: ? यनि. शोघ: [द्र. मूक्ये,
तां १६, ७, ३; C. च] । s) सप्र. पृष्टम् <> पृष्टयम् इति पाभे. । t) प्रतिष्ठयो: इति B. ।

-घृष्य काश्री १६, २, १८;
 द्राश्री ९, २, १३; लाश्री ३, ६,
 ३३; ५, १२, ८^०; वैताश्री; -घात्
 वैताश्री २७, ६; छुसू; -घानाम्
 आश्री ८, ७, १०; आपश्री २,
 ७, ९^१; वैश्री; लाश्री १, १०,
 १६^{१०}; -घानि आश्री ८, ४, १८;
 ५, ११; ७, ५; शाश्री; -घानिऽ-
 घानि छुसू २, १४ : १६; -घा-
 भ्याम् निसू ४, ६ : ११; -घे
 शाश्री ७, २५, ९; ११, ४, ३××;
 काश्री; वैताश्री ३५, १६^९; या
 ९, १४; -घेऽ-घे लुसू २, ९ :
 २४; -घेन आश्री ८, १४, १५;
 द्राश्री ९, २, ११; लाश्री; -घेभ्यः
 बौश्री १४, २९ : ३०; ३५; निसू
 ६, ६ : २२; ७, ५ : १२; -घेषु
 आश्री ५, १५, ११; द्राश्री ९, ३,
 २; लाश्री; -घैः आपश्री १७,
 १२, १०; वैश्री.
 पृष्ठ-काल-ले काश्री १२, ३, ७.
 पृष्ठ-च्छन्दस्-न्दसः निसू ३, १२ :
 ४.
 पृष्ठ-जाह-पा ५, २, २४.
 पृष्ठ-तप्-तप् आपध १, २७, १०;
 हिघ १, ७, ३५.
 पृष्ठ-तस्(ः) शाश्री ४, १४, १४;
 बौश्री १८, ३३ : ७^१; वाश्री.
 पृष्ठ-त्व-त्वम् निसू ४, ४ : १४;
 -त्वे निसू ४, ७ : ३, ५, ७ : १२;
 ८ : २.
 पृष्ठ-देश-शम् वाश्री १, ६, ५, १७;
 या ४, ३.
 पृष्ठ-धर्म-मैः निसू ६, ६ : ४.

पृष्ठ-न्यङ्ग-ङ्गाः निसू ६, ९ : ३.
 पृष्ठ-भक्ति-क्तिः निसू ४, ७ : २^१.
 पृष्ठ-भस्मन्-स्म वैश्री १, १२ : ६.
 पृष्ठ-रोग-गिन्-गी या ५,
 २१.
 पृष्ठ-वंश-शः बौश्री ६ : ७; -शम्
 आम्रिप २, ४, १ : १९; भाग्य २,
 ३ : १३; हिय १, २७, ७; -शे
 क्रप १, १, ३.
 पृष्ठ-वत् मीसू १०, ५, ७९.
 पृष्ठ-वाद-दः निसू ८, १० : १४.
 पृष्ठ-विलोप-वः निसू ८, ७ : १४.
 पृष्ठ-व्यसन-ने वाश्री ३, २, २,
 ४८.
 पृष्ठ-शब्द-ब्दः मीसू ७, ३, ६; ३४;
 ३५; -ब्दात् मीसू १०, ६, १३.
 पृष्ठ-शमन-न्त-रूप-पम् निसू
 १०, ११ : २३.
 पृष्ठशमना(न-अ)र्थ, र्था-र्था
 निसू ६, १ : ९; -र्थेन निसू
 १०, १० : ३.
 पृष्ठशमनीय^०-यः शाश्री १२,
 १४, ७; काश्री १३, ४, ८; आपश्री
 २१, १३, ५; २१, ११^१; निसू ६,
 १ : ५; १४; -यम् शाश्री १३, १४,
 ८; निसू ६, १ : ८; -येन शाश्री
 १८, २४, २९; आपश्री २१, १३,
 ५; बौश्री; -यैः वाश्री ३, २, २,
 ४७; निसू ५, १३ : ४^१.
 पृष्ठ-शय-पावा ३, २, १५.
 पृष्ठ-संयोग-नो हिश्री ८, ४, ४.
 पृष्ठ-संहित-तौ कौसू २७, ९.
 पृष्ठ-स्तोत्र-त्रम् वैश्री १६, ९ : ९.
 पृष्ठ-स्तोत्रिय-या(य-अ)नुरू-

प-पाः वैताश्री ३२, ६; -पौ
 वैताश्री ३१, १८; २३; ३२, १;
 ३३, ६; ९; १६^{११}; २४.
 पृष्ठ-स्तोत्रीय-षेषु द्राश्री ८, २,
 २०; लाश्री ४, ६, १६; १०, २,
 ३; छुसू २, १२; १६; २४.
 पृष्ठ-स्थ-स्थानि लाश्री २, ९, ६^१.
 पृष्ठ-स्थान-नम् निसू २, ९ : १३.
 पृष्ठ-स्थान^१-नानि द्राश्री ६,
 १, ९^१.
 पृष्ठ-होम-मम् द्राश्री ६, १, १;
 लाश्री २, ९, १; निसू २, ४ :
 ७; १६; -माय द्राश्री ४, २, ६;
 लाश्री २, २, १५.
 पृष्ठा(घ-अ)गिनष्टोम-सामन्-मनी
 छुसू ३, ३ : २; -न्नोः निसू
 ५, ९ : ३.
 पृष्ठा(घ-अ)देश-शम् द्राश्री ६, १,
 ६; लाश्री २, ५, ५.
 पृष्ठा(घ-अ)न्वित-तम् निसू ४,
 १३ : ३; ७, ९ : ३०; -तानि
 निसू ४, १२ : १४; १९; -ते
 निसू ९, २ : २९.
 पृष्ठा(घ-अ)पदान-नात् निसू
 ७, २ : ६.
 पृष्ठा(घ-अ)पन्न-न्नानाम् निसू
 ७, १३ : ११.
 पृष्ठा(घ-अ)पाय-यात् निसू ९,
 १ : २७.
 पृष्ठा(घ-अ)रूढ-ढः आपध १,
 ९, २७; हिघ १, ३, २८.
 पृष्ठा(घ-अ)र्थ-र्थे मीसू १०, ४,
 ४२; ६, १६; २५.
 पृष्ठा(घ-अ)स्थि-स्थि विघ २६,

a) सप्र. पृष्ठस्य <>पृष्ठस्य इति पाभे. । b) ष्टा इति पाठः? यनि. शोधः । c) ष्ट्रे इति C. ।
 d) विभ^० इति संस्कर्तुः टि. । e) =कतु-विशेष- । तदस्यप्रयोजनमित्यर्थे छ > ईयः प्र. (पा ५, १, १११) ।
 f) ष्टय^० इति पाठः? यनि. शोधः (तु. पूर्व स्थलम्) । g) ष्टय^० इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सूको,
 निसू ६, १ : ५ प्रथ.) । h) पाठः? पाः इति शोधः [तु. C.] । i) परस्परं पाभे. । j) विप. । वस. ।

६९.
 पृष्ठा(घ-अ)हन्- -हानि हिश्रौ १७,
 ८, १६.
 पृष्ठा(घ-आ)हुति- -वी जैश्रौ १७ :
 ३.
 पृष्ठी-रूप^१- -पम् जैश्रौका १७५.
 पृष्ठा(घ-उ)पाय- -या: निसू १०,
 ६ : १८.
 पृष्ठय, पृष्ठा^२- -पावा ४, २, ४२; -घ्यः
 आश्रौ ८, ४, २१; ७, १८××;
 शाश्रौ; काश्रौ १२, ३, १; द्राश्रौ
 ९, २, १५; लाश्रौ ३, ६, १६;
 १०, ३, १३; वैताश्रौ ३१, ७;
 ९, १२; निसू ९, १:२०; १० :
 ३६; ३८; १२:२६; १०, ३:२६;
 -घ्यम् आश्रौ ११, २, २; ७; ७, ४;
 शाश्रौ; द्राश्रौ ५, ४, १७; ८, १,
 २६; २, १२; लाश्रौ २, ८, १७;
 ३, ६, २८; ४, ५, २१; ६, १२;
 निसू ४, ११ : १; ५, ५ : २५;
 १० : २; ८, १३ : १; ९, १० :
 २९; ३१; १२ : २१; -घ्यया
 माश्रौ ५, २, १६, ७^३; -घ्ययो:
 काश्रौ २४, १, २८; निसू ९,
 १३ : ४३; -घ्यस्य आश्रौ ७,
 ५, ४; १०, १××; शाश्रौ; द्राश्रौ
 १५, ४, १^४; वैताश्रौ ४२, १;
 लूसू ३, ११:११; १२:१३; निसू
 ६, ४:६; -घ्या^५ काठश्रौ ९२;
 आपश्रु ५, १२; हिश्रु २, २३;
 -घ्या: आपश्रौ २३, ९, १६^६;
 वौश्रौ १६, १६ : ३; २६, १७ :

८; -घ्यात् शाश्रौ १२, ६, ३;
 १४, ७०, २; काश्रौ; -घ्याम्
 वौश्रौ २६, १७ : ९; -घ्यानाम्
 आपश्रौ २१, १६, २०; बौश्रौ;
 -घ्यानि आश्रौ १२, १५, ११;
 निसू ९, १ : २२; १०, ८ : ३५;
 -घ्याम्^७ काश्रौ ८, ३, १२; १९;
 ४, २५; ६, ५; ९, ७, ६; आपश्रौ
 ११, ४, १६; ६, ३; काठश्रौ;
 भाश्रौ १२, ४, १८; माश्रौ २,
 २, २, ६; १३; वाश्रौ १, २,
 ४, १; हिश्रौ ७, ४, ४२^८; ५,
 १२; ७, ३; वैताश्रौ १८, ३;
 बौध २, १०, २३^९; -घ्याया:^{१०}
 आपश्रौ ११, ९, ९; काठश्रौ
 ९८; वौश्रौ २०, ५ : १८; माश्रौ
 २, २, ३, १३; ५, २, १५, २८;
 वाश्रौ १, २, ४, २; -घ्यायाम्^{११}
 आपश्रौ ११, १४, ४; वैश्रौ १४,
 १२ : ८; हिश्रौ ७, ७, ३०; आपश्रु
 १, १२; हिश्रु १, २२; -घ्यायै
 बौश्रौ २०, ५ : १६^{१२}; -घ्ये आश्रौ
 ७, ३, २०; ८, ४, १९^{१३}; काश्रौ;
 द्राश्रौ ८, २, ९; ९, १, १; २,
 १७; लाश्रौ ३, ५, १, ६, १८; ९, १;
 ४, ६, ८; १०, ४, १६; वैताश्रौ
 ३१, २५; निसू ४, ५ : ११;
 ५, ६ : १७; २३; ९ : ११;
 २२; -घ्येन बौश्रौ १६, २९ :
 १२; १७, २२ : २; लाश्रौ;
 -घ्यौ आश्रौ ११, २, ५; ३, २;
 ६, १३; शाश्रौ.

पार्थिक^१- -कान् लाश्रौ ८,
 ११, ६; -कानि काश्रौ १४,
 १, ५; ६; २२, ७, १; २४, २,
 १७.
 पृष्ठय-ग्रह- -हाणाम् वौश्रौ २३,
 ५ : २६; ३०; -हान् बौश्रौ
 २३, ५ : २७.
 पृष्ठय-चतुर्थ^२- -थम् वैताश्रौ ३८,
 ७; -थाम् शाश्रौ १३, १९, ९.
 पृष्ठयचतुर्थ-वत् वैताश्रौ ३३,
 २२; ३६, २६.
 पृष्ठय-च्छ^३, छन्दोम- -मान् निसू
 ४, ११ : ३^४; -मानाम् निसू
 ४, ६ : ४; -मेपु वैताश्रौ ३३,
 १४.
 पृष्ठय-तस्^५(ः) लाश्रौ १०, ४, ४.
 पृष्ठय-व्यह- -हः आश्रौ ९, १,
 ५; १०, ३, ५; -हस्य वैताश्रौ
 ४१, ७.
 पृष्ठय-दशरात्र- -त्रयो: निसू ६,
 ४ : ६.
 पृष्ठय-पञ्चम^६- -मान् आश्रौ
 ११, ७, २; शाश्रौ १३, १९, ७.
 पृष्ठय-पञ्चाह- -हः आश्रौ १०,
 २, ३२; ३, ४; निसू ९, १३ :
 २०; -हस्य वैताश्रौ ४१, १६.
 पृष्ठयपञ्चाह-वर्जम् निसू ५,
 ५ : २१.
 पृष्ठय-पृष्ठयस्तोम- -मयो: निसू
 ६, ४ : ५.
 १ पृष्ठय-मध्य- -ध्ये आश्रौ ११,
 २, ९.

a) पूष. = पृष्ठ- (तु. जैश्रौ १७ : ६) । व्यु. ? । b) वैपृ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र. । स्वार्थे यत् प्र. इत्यत्र विशेषः । c) पामे. पृ १६३८ S द्र. । d) = (वेदिपृष्ठमवा-) रेखा- (तु. काश्रौ ८, ३, १२ आपश्रौ. प्रम्. । e) पामे. पृ १६३९ a द्र. । f) = रज्जु- इति गोपीनाथः । g) = वेदि- । h) ष्ठे इति पाठः ? यनि. शोचः (तु. आन., काश्रौ १२, ३, १ च) । i) विप. । तस्येदमीये ठकि प्र. य-कोपः उःसं. (पा ६, ४, १५० [तु. विद्याधरः PW. प्रथं. च; वैतु. कर्कः < पृष्ठ- इति]) । j) विप. । बस. । k) निसू. पाठः । l) ष्ठ्याच्छ इति पाठः ? यनि. शोचः स्यात् ? (तु. उत्तरं स्थलम्) ।

रृष्य-मध्य^a - ध्याः काश्रौ
 २४, ४, ४.
 पृष्य-मध्यम^b - माः आश्रौ १२,
 १, ३; ६.
 पृष्य-मात्र - श्रौ निसू ९, ११ :
 ३८.
 पृष्य-मुख^c - खान् आश्रौ ११,
 ७, १०.
 पृष्य-विकार - रः शाश्रौ ११,
 ४, १.
 पृष्य-शमन - > नीय^d - यः
 आश्रौ १२, १५, ८.
 पृष्य-षडह - हे वाश्रौ ३, २,
 २, ९.
 पृष्य-षष्ठ - ष्टे वैताश्रौ ३१, २७.
 पृष्यषष्ठ-वत् वैताश्रौ २७,
 २६.
 पृष्य-सदृश - शौ निसू १०,
 ३ : ३२.
 पृष्य-सांनिपातिक - के निसू
 १०, ३ : २५.
 पृष्य-स्तोत्रिया - याः आश्रौ
 ७, ३, १३.
 पृष्य-स्तोम^e - मः आश्रौ ८,
 ४, २५; १०, ३, १५ × ×; शाश्रौ;
 -मस् निसू ९, १२ : २७;
 -मस्य क्षुस् २, १० : ३; निसू
 ६, ४ : ६; ९, ६ : २७; -माः
 आश्रौ ११, ३, ८; शाश्रौ १४,
 ३८, २; ५; काश्रौ २२, ६, २६;
 -मात् निसू ४, ४ : १०;
 -मानाम् शाश्रौ १३, २३, २; ४;
 २४, ५; २८, ५; -मेन काश्रौ
 २४, ४, १६; लाश्रौ १०, १०,

१६; -मैः शाश्रौ १६, २२, ८;
 -मौ काश्रौ २४, २, १९; बौश्रौ
 २६, ३३ : ४; निसू ९, १३ :
 २३.
 पृष्यस्तोम-न्याय - येन
 निसू ६, ४ : ७.
 पृष्यस्तोम-पञ्चाह - हः
 निसू ९, १३ : २०; ३०; -हान्
 लाश्रौ १०, ४, ४.
 पृष्यस्तोमपञ्चाह-स्व -
 स्वात् निसू ९, १३ : ९.
 पृष्यस्तोमा(म-आख्या >)
 ख्य^f - ख्यः काश्रौ २३, ५, १३.
 पृष्य-स्वरसामन् - स्नाम् दाश्रौ
 ७, ४, २१; लाश्रौ ३, ४, २०.
 पृष्या-काल^g - लम् बौश्रौ २१,
 ११ : १९; १४ : १६; १५ :
 २४.
 पृष्या-तस् (ः) आपशु ९, ६;
 हिशु ३, २५.
 पृष्या(ष्य-अ)तिग्राह्य - ह्याः
 बौश्रौ २६, ८ : १.
 पृष्या(ष्य-अ)दि - दयः आश्रौ
 १२, २, ३; काश्रौ २४, ४, १३.
 पृष्या-देश - शस्य माश्रौ २,
 १, १, २१; ४, ३, ४; ६, २, ५, ६;
 -शे माश्रौ २, २, ४, ४.
 पृष्या(ष्य-आ)नन्तर्य^h - र्ये
 दाश्रौ ७, ४, १७; लाश्रौ ३, ४,
 १६.
 १पृष्या(ष्या-अ)न्त - न्तयोः
 आपशु १, ४; २, २; ५, १;
 बौशु.
 २पृष्या(ष्य-अ)न्तⁱ - न्ताः

आश्रौ १२, २, ४; ५.
 पृष्या-बर्हि-प्रभृति - ति
 वाश्रौ २, २, ४, २१९.
 पृष्या(ष्य-अ)मिषुव - वयोः
 आश्रौ ७, ३, ४; १२, ४, १७;
 शाश्रौ १२, २७, ५; निसू ५, २ :
 २९ × ×; -वान् वाश्रौ ३, २, ३,
 २७; दाश्रौ; -वानाम् बौश्रौ २६,
 १७ : १०; -वेभ्यः आपश्रौ
 २३, ९, १६; बौश्रौ २३, ११ :
 २२; -वौ शाश्रौ १३, १९, १२;
 आपश्रौ २३, ९, ६; हिश्रौ १८,
 ३, ११; लाश्रौ ४, ५, ४.
 पृष्या(ष्य-अ)यन^j - नः निसू
 ५, ४ : २.
 पृष्या(ष्य-अ)रम्भण^k - गान्
 शाश्रौ ३३, १९, ११; २२, ३.
 पृष्या(ष्य-अ)र्थ - र्थेन निसू
 ९, १३ : ४०.
 पृष्या(ष्य-अ)वलम्ब^l - म्बः
 आश्रौ १०, ३, १९; काश्रौ २३,
 ५, १७; हिश्रौ १७, ८, २१^m;
 निसू ८, १२ : १८; ९, १३ :
 ३१; -म्बम् आश्रौ १०, ३, ३;
 -म्बस्य आश्रौ १०, ३, २४;
 निसू ९, ५ : ५; ६ : २७; -म्बात्
 काश्रौ २३, ५, ३२; -म्बेन
 आपश्रौ २२, २२, १९; हिश्रौ
 १७, ८, २१.
 पृष्यावलम्बा (म्ब-आख्या
 >) ख्य - ख्यः काश्रौ २३,
 ५, ३.
 पृष्या(ष्य-अ)विलोप - पान्
 निसू ९, १३ : १४.

a) विप.। बस.। b) = पृष्यशमनीय-। c) = पृष्यषडह-। बस. (तु. शाश्रौ १३, १६, ५ भाष्यम्)।
 d) = पृष्या-देश। e) सपा. माश्रौ ६, २, ६, १ पदलोभनप्रभृति इति, आपश्रौ १७, २०, १८ वेद्यास्तरणादि इति च
 पाभे.। f) पृष्या इति पाठः? यनि. शोधः। g) = षडह-विशेष-। बस. वा उस. वा। h) ष्भ्यः इति पाठः?
 यनि. शोधः (तु. सस्य. ष्भेन इति)।

पृष्ठा(ध्व-आ)वृत्ति- -त्तौ मीस्
१०, ५, ८५.
पृष्ठा-शङ्कु- -ङ्कुम् माश्रौ १,
७, ३, १३; २, २, १, ५२×४;
-ङ्कोः माश्रौ २, २, २, १२;
३, ६, १३.
पृष्ठा-सहित- -तम् काश्रौ १८,
३, २०.
पृष्ठा(ध्व-अ)ह- -हेषु हिश्रौ
१६, २, १५^१.
पृष्ठा(ध्व-अ)हृ- -हः आश्रौ
९, २, ५; १०, १०, ८; १२, ६,
२४; -हःसु आपश्रौ २१, १३,
२०^२; -हनि आश्रौ ५, ८, ६^३;
८, ४, १३^४; -हानि आश्रौ ९,
८, २, ५; १०, १, ७; शाश्रौ १४,
६८, २; -ह्ना आश्रौ ८, ७, ११;
१०, ९, ८; लाश्रौ १०, १०, १८;
-ह्नाम् आश्रौ १०, ३, २३; ११,
५, ६.
पृष्थो(ध्व-उ)त्तम- -मे वैताश्रौ
३८, १३.
पृष्थो (ध्व-उ)द्वय^d- -यान्
शाश्रौ १३, २२, ४.
पृष्थो(ध्व-उ)पधान- -नात्
निसू ९, १२ : १५.
पृष्थो(ध्व-उ)पाकरण- -णम्
काश्रौ १३, २, २५.
पृष्ठा^e- -त्वाः बौश्रौ १२, ८ : १३.
पृष्ठा^f- (>पृसी- पा.) पाग ४, १,
४१.
√पृ √पृ द.
पृचक- पाउ ५, ३७.

पेट^g- पाग २, ४, ३१.
पेटाविटकन्ते, ?पेटिलालकन्ते
निसू १, २ : ४.
पेट्व^h- पाउ ४, १०५; -त्वः वाश्रौ
३, २, ६, ३४; -त्वम् बौश्रौ १०,
५७ : १०; १५, २३ : ७; २६ :
९; हिश्रौ ९, ८, ३१; १६, ८,
१५^२; -त्वस्य आपश्रौ ७, ६,
१; बौश्रौ ४, १ : २; भाश्रौ;
-त्वौ या १२, २^३.
पेपा- पाउमो २, २, २०९.
पेपिशान- √पिश् द.
पेय- √पा (पनि) द.
पेयूष- पाउ ४, ७६.
पेरु- पाउ ४, १०१; -रुः आपश्रौ
१५, ९, ८; बौश्रौ ९, ९ : १४;
भाश्रौ ११, ९, १०; वैश्रौ १३,
११ : १२; हिश्रौ २४, ४, ३;
-रुः काश्रौ ६, ३, २८^४; २०, ६,
८; आपश्रौ.
√पेल्ⁱ पाधा. भ्वा. पर. गतौ,
पेलयति निघ २, १४^५.
पेलव^j- पाउमो २, ३, १३४; -वेन
अप ५८^६, ३, ९.
पेलि^k- (> पेलि-शाल-, °ला- पा.)
पाग ६, २, ८६.
√पेव् पाधा. भ्वा. आत्म. सेवने.
पेदा-, पेदाल- प्रसृ. √पिश् द.
√पेष् पाधा. भ्वा. आत्म. प्रयत्ने.
पेष-, पेषण- प्रसृ. √पिष् द.
पेषुण^l->°षु(ण)>णा-गिरि- ऋत
४, ७, १०.
पेष्ठा- फि ५७.

√पैस् पाधा. भ्वा. पर. गतौ.
पैस्वर- √पिस् द.
√पै पाधा. भ्वा. पर. शोषणे.
शैङ्ग- रपिङ्ग- द्र.
रपैङ्ग- रपिङ्ग- द्र.
पैङ्गक- रपिङ्ग- द्र.
पैङ्गरायण- पिङ्गर- द्र.
पैङ्गल-, °लायन- प्रसृ. रपिङ्गल- द्र.
पैङ्गाक्षीपुत्र- १पिङ्ग- द्र.
पैङ्गायनि-, पैङ्गिन्- प्रसृ. रपिङ्ग- द्र.
पैजवन- पिजवन- द्र.
पैजुरायण-, °लायन- पिजुर, लु- द्र.
पैजुरायण- पिजूर- द्र.
पैटक- रपिटक- द्र.
पैटकि- रपिटक- द्र.
पैटाक- रपिटाक- द्र.
पैटाकिक- १पिटाक- द्र.
पैटक^m- -काः बौश्रौ ४६ : ३.
पैतसर्प- पीठ- द्र.
पैठीनस-, °नसि- पिठीनस्- द्र.
√पैणⁿ पाधा. भ्वा. पर. गतिप्रेरण-
श्लेषणेषु.
पैण्डायन- रपिण्ड- द्र.
पैण्डक्य- पिण्डक, का- द्र.
पैण्ड्य- रपिण्डी- द्र.
पैतदारव- पीतदार- द्र.
पैतामह- पितृ- द्र.
पैतुदारव- पीतुदार- द्र.
पैतुद्रव- पीतुद्रु- द्र.
पैतृक-, पैतृमत्य- प्रसृ. पितृ- द्र.
पैत्तिक- पित्त- द्र.
पैत्र-, पैत्र्य- पितृ- द्र.
पैद्र^o- -रुद्रः अप ४८, ९३; निघ १,

a) सप्र. °हेषु<> °हःसु इति पाभे. । b) पृष्णा^o इति पाठः? यनि. शोघः [तु. आन.] । c) °हानि इति पाठः? यनि. शोघः [तु. आन.] । d) विप. । बस. । e) वैप १ द्र. । f) तु. पाका. । ब्रुस-इति भारुडा., वृक्ष-, वृस- इति पासि. । g) तु. पागम. । h) या ७, १३ परामृष्टः द्र. । i) विप. । व्यु. ? <पेल- इति श्रमा., √पेल् इति पाउमो. । j) = आचार्य-विशेष- । व्यु. ? । ऐलि- इति पाका. । k) = गिरि-विशेष- ? । l) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । m) √प्रेण् इति [पत्ते] पासि. ।

१४; -द्वम् कौस् ३२, १२;
३५, ४; ८.
पैनद्धक- पिनद्ध- द्र.
पैप्पल- १पिप्पल द्र.
पैप्पलव, व्य- पिप्पलू- द्र.
पैप्पलाद-, °लादि- १पिप्पल- द्र.
पैयूक्ष- पीयूक्षा- द्र.
पैल- पीला- द्र.
पैलव-, °लुकण-, °लुमूल- पीलु- द्र.
पैलेय-, पैव्य- पीला- द्र.
पैशाच-, °च्य- पिशाच- द्र.
पैशुन-, °न्य- √पिश् द्र.
पैष्ट- ४पिष्ट- द्र.
१, २ पैष्टिक-, पैष्टी- √पिष् द्र.
पैगण्ड- पाडभो २, २, ११७.
पोटा^१- पा २, १, ६५; पावा ३, १, १७.
√पोटाय पा ३, १, १७.
पोत^२- पाड ३, ८६; पाग ४, २, ४९;
५, १, १३०.
पोत- पा ५, १, १३०.
पो(व्य>)व्या- पा ४, २, ४९.
पोतन-(>नी-पा.) पाग ४, १, ४१.
पोतु- पाडभो २, १, ६१.
पोतु^३- पाड २, ९५; पा ६, ४, ११;
पाग ५, १, १२९; -फंतः आश्रौ
५, ७, ३; शाश्रौ ७, ६, ३; आपश्रौ;
-ता आश्रौ ४, १, ६; ५, ३, २१;
५, १७; शाश्रौ; -तारः माश्रौ
२, ३, ६, १७फं; -तारम् आपश्रौ
१०, १ : ९फं; ११, १९, ८;
बौश्रौ; -फतारौ आपश्रौ २, ८,
६; भाश्रौ २, ८, ७; -तुः आश्रौ
९, ४, १७; १२, ९, ६; शाश्रौ;
-त्रा काटश्रौ १४२; बौश्रौ ७,
१६ : ५१; ५३; -त्रे लाश्रौ ९,
६, ६.

२पौत्र- पा ५, १, १२९.
फपोतु-तम- नम् आपश्रौ १, ६,
१०; बौश्रौ १, ३ : ५; भाश्रौ
१, ६, १३; हिश्रौ १, ३, ४.
फपौत्र^४- नम् आपश्रौ २४, १३,
३; -त्रात् आपश्रौ ११, १९, ८;
काश्रौ ९, ८, ११; काटश्रौ.
पोत्रा(तु-आ)मीध्र- भ्रौ वैताश्रौ
१९, ६.
पोत्रीय, या- न्यम् माश्रौ २, २, ४,
४; -याम् भाशि १३.
२पोत्र^५- पा ३, २, १८३.
पोष-, १-२पोषण- प्रभृ. √पुष् द्र.
पौश्रलेय- पुंश्रली- द्र.
पौस्न-, पौस्य- पुंस- द्र.
पौकरीय- पूकर- द्र.
पौजनिकय- √पूज द्र.
पौञ्जिष्टि^६- ष्यः बौश्रौ १५ : १.
पौटायन- २पुट- द्र.
पौण्डरवत्स^७- न्साः चव्यु २ : ३७.
१पौण्डरीक- प्रभृ. पुरण्डरीक- द्र.
२पौण्डरीक^८- कः शाश्रौ १६, ३०,
८; काश्रौ २३, ५, ३३; आपश्रौ;
-कम् आश्रौ १०, ४, १; -के
काश्रौ २३, १, ९.
पौण्डल^९- लः बौश्रौ २२ : ३.
पौण्य- पुरण्य- द्र.
पौतदारव- पूतदार- द्र.
पौतरीय- पूतर- द्र.
पौतिक-, °व्य- पूतिक- द्र.
पौतिमाष-, °माव्य- पूतिमाष- द्र.
पौतीक- पूतीकी- द्र.
पौतुदारव- पूतुदार- द्र.
पौतुद्रव- पूतुद्रु- द्र.
पौत्य^{१०}- न्यः बौश्रौ २३ : १.
१पौत्र- प्रभृ. पुत्र- द्र.

२पोत्र- पोतु- द्र.
पौत्रक्य- २पुत्रक- द्र.
पौत्रिक्य- पुत्रिक- द्र.
पौत्राद्य-, पौत्रीय-, पौत्र्य- पुत्र-
द्र.
पौनःपुन्य-, पौनःशिल-, पौनराधे-
यिक- प्रभृ. पुनर् द्र.
१पौर- प्रभृ. २पुर- द्र.
२पौर- ३पुर- द्र.
पौरगीय- पुरग- द्र.
पौरण- १पुरण- द्र.
पौरव- पूर- द्र.
पौरश्चरणिक- पुरस् द्र.
पौरागीय- पुराग- द्र.
पौराण-, °णिक- पुराण- द्र.
पौरकुत्स-, °स्स्य- प्रभृ. १पुर- द्र.
पौरुमद्र- पुरुमद्र- द्र.
पौरुमीढ, ल्ह- १पुर- द्र.
पौरुष-, °वमेधिक- प्रभृ. पुरुष- द्र.
पौरुषां, पाकिन्- पुरुषां, पासक-
द्र.
पौरुहन्मन-, पौरुवस- १पुर- द्र.
पौरुषेय-, °थी-, °व्य- पुरुष- द्र.
१पौरैय- ३पुर- द्र.
२पौरैय- पू- द्र.
पौरुडाश- प्रभृ. पुरोडाश- द्र.
पौरुह- ?पुरोह- द्र.
पौरुहित-, °हितिक- प्रभृ. पुरस् द्र.
पौरुर्दर्व- प्रभृ. √पृ, पृ द्र.
पौर्य- ३पुर- द्र.
पौरुवनगरेय- प्रभृ. पूर्व- द्र.
पौलस्त्य- पुलस्त- द्र.
पौलाक- पूलाक- द्र.
पौलास- पूलास- द्र.
पौलि^{११}- ल्यः बौश्रौ १९ : ५;
२२ : ३.

a) = स्त्रीपुंसलक्षणा-। व्यु. ?। b) = समुद्र-यान-। व्यु. ?। c) वैप १ निर्दिष्टानां समावेशः द्र.।
d) वैप १, १८४८० द्र.। e) वैप १ द्र.। f) व्यप.। व्यु. ?। g) = सोमयाग-विशेष-। व्यु. ?।

पौलिन्य- पुलिन-द्र.
 पौलोम-, भौ- पुलोमन्-द्र.
 पौल्कस- पुल्कस-द्र.
 १-२पौष- प्रभृ. √पूष् द्र.
 ३पौष- √पूष् द्र.
 पौष्करसादायन-, ंदि-, पौष्क-
 रेयक- पुष्कर-द्र.
 पौष्कल-, ल्येयक- २पुष्कल-द्र.
 पौष्कायण-, ंषिक- २पुष्क-द्र.
 १पौष्टिक- प्रभृ. √पूष् द्र.
 २पौष्टिक- -काः बौश्रीप्र २७ : २.
 पौष्ण- ंष्णी- √पूष् द्र.
 पौष्पक- १पुष्प-द्र.
 पौष्पायण-, ंषिक- २पुष्प-द्र.
 प्याद् पाग १,४,५७.
 प्यात्व- पाउना ४,११६.
 √प्याय्^b पाधा. भ्वा. आत्म. वृद्धौ >
 प्यायन^c -ने या १२,१९.
 प्युक्ष्ण^d > प्युक्ष्ण-वेष्टित- -तम्
 काश्रौ १५,३,१९^e.
 √प्युष् √व्युष् टि. द्र.
 √प्यै पाधा. भ्वा. आत्म. वृद्धौ.
 प्र^f काश्रौ ५७^g; या १, ३; ऋप्रा
 १२, २०; १५, १७; शुप्रा ६,
 २४; तैप्रा १, १७; पाग १,४,
 ५८; प्रऽप्र पा ८, १, ६; प्रः
 जैश्रौका ८८; प्रात् पा ६, २,
 १८३; पावा ५, ४, ३०; ६, १,
 ८८; प्रे शौच २,७६.
 प्रा(प्र-आ)दि- -दयः पा १,४,५९;
 पावा २, २,१८; -दिभिः पावा
 १, ४, १; -दिभ्यः पावा २, २,
 २४; -दीनाम् पावा १, ४, १.

प्रादि-प्रसङ्ग- -ङ्गे पावा २, २,
 १८.
 प्रो(प्र-उ)दात्^h- -त्ते शुप्रा ६,९.
 †?प्र...अनजाⁱ ऋप्रा ८, १५; प्र
 (अनजा) आश्रौ २, १३,७;१९,
 १४; शाश्रौ १०, २, ९; ऋअ
 २,५,५४.
 प्र-उम^j- -गाः शाश्रौ १०, २, ३; ३,
 ४,४××; बौश्रौ २५, २१ : ५;
 -गम् आश्रौ ५,१०,९; ७, ६,
 ३××; शाश्रौ; -गाः शाश्रौ ११,
 ११, ८; आपशु १२, ५; हिशु
 ४,२७; -गात् काश्रौ ७,९,४;
 -गे आश्रौ ५, १०, ६; ७, १,
 १०; शाश्रौ; -गेण ऋअ २, २,
 ४१; -गौ शाश्रौ ११, १०, ३;
 १६,७,१५; १४,४.
 प्राउग^k- -गाः वृदे ४,९२.
 प्रउग-चित्^l- -चित् काश्रौ १६,
 ५, ९; काशु ४, १; -चिचितम्
 बौश्रौ १७, २८ : १४; हिश्रौ
 १२, ८, ६; बौशु १४ : १; हिशु
 ४, २२; -चित्ता आपशु १२,
 ९; बौशु १५ : २; हिशु ४,३०.
 प्रउग-नुच- -चानि शाश्रौ १०, ३-
 ४, ५; ५, ४××; -चेषु आश्रौ
 १०,१०,३.
 प्रउग-देवता- -ताः ऋअ २, १, ३;
 वृदे २,१३५.
 प्रउग-मध्य- -म्ये बौशु १२ : ५.
 प्रउग-शस्त्र- -स्त्रात् वैताश्रौ २०,
 १४.
 प्रउग-स्तोत्र- -त्राय वैताश्रौ २०,

१३.
 प्रउगा(ग-आ)दि- -दीन् बौशु
 २१ : १०.
 प्र-कट- पा ५, २, २९; पाग ५, १,
 १२४^m.
 प्राकटय- पा ५, १,१२४.
 प्र√कथ्, प्रकथ्यते अप २३,१,१.
 प्र-कथन- पाग ८, १,२७.
 प्र√कम्प्, प्रकम्पते अप ६७, ६, ३;
 ७०ⁿ, १५, २; प्रकम्पन्ते ऋप्रा
 ३, ३४; प्रकम्पन्ति अप ६४,
 ७,४; ७२, ४,४.
 प्रकम्पयन्ति^o आपश्रौ १२, २८,
 १; १८,७,४; हिश्रौ ८, ८, ३३;
 १३, २, ३१^p; प्रकम्पयेत् शैशि
 १४२; माशि ८,५.
 प्र-कम्पन- -नम् अप ६४, ६, ३.
 प्र-कम्पित,ता- -ता, -ताः सु ४,
 १; -तायाम् अप ६२, १, ३;
 २-४, १.
 प्र-कम्प्य काश्रौ ४,१४,१९.
 प्र-कर- प्र√कृ (विक्षेपे) द्र.
 प्र-करण-, ंष्य- प्र√कृ द्र.
 प्र-कर्ष- प्र √कृष् द्र.
 प्र√कल्, प्रकालयति वाश्रौ १,२,१,
 ६; प्रकालयेत् द्रागृ ३,१,४२.
 प्र-कालयित्वा कागृ ५९,६.
 प्र-कालयमा(न >)ना- -नाः गोरु
 ३,६,१.
 †प्रकल्^q- > प्रकल्-विद्^r- -वित्
 अप ४८, १२८; निष ४, ३;
 या ६,६६.
 प्र-कला^s- -लाः या ६, ६.

a) = ऋषि-विशेष-। व्यु. ?। b) या २,५; ९,२४ पा ३,१,६१; ६,१,२८ परामृष्टः द्र.। c) विप. (अन्तरिक्ष-). d) अर्थः व्यु. च ? = स्लायु-वा अजगर-चर्मन्-वेति भाष्यम्। e) तु. सपा. मास ५,३,१,११ P.W. प्रभृ. च; वैतु. चौसं. अप्युक्षण-> उक्षणवे इति?, उक्षण->उक्षणवे इति सा [मास.]?। f) वैप १ द्र.। g) प्रेधा [काठ ३,६] इत्यस्याऽऽद्यमक्षरम्। h) कस.। i) विप.(तुच-)| j) = (प्रउगाकृति-) अग्नि-स्थण्डिल-। उप. कर्मणि क्विप्। k) तु. पागम.। l) तु. सस्थ. टि. अनु। m) घृ १८३ अनुम^o इति.निर्देशो नेष्टः। n) प्राज्ञ. (तु. वैप १,२,११३ U)।

प्र-कल्पक- प्रमृ. प्र√क्लृप् द्र.
प्र-काम^a- पाग १, १, ३७^b; ५, १, १२४; -मा: जैगृ २, १ : ३२^c; -¹मात् कागृ ६३, १३^d; विघ ७३, १५^e.
प्रकास्य- पा ५, १, १२४.
प्र-कार- प्रमृ. प्र√कृ द्र.
प्र-कालयित्वा, ^१ख्यमान-प्र√कल द्र.
प्र√काश, प्रकाशते अप ५८^२, ४, १६; ६८, १, ८; प्रकाशन्ते अप ५२, ५, ३; ७, २×४.
प्रकाशयति वैश्रौ १०, २ : ११; या ९, १९; प्रकाशयन्ति या ३, ९; प्रकाशयेत् आज्यो १, ६.
प्र-काश(वप्रा.)^f -शः आप्रश्रौ २३, १४, ८; हिश्रौ १८, ४, ६२; कागृ ३८, ५^g; -शम् आप्रश्रौ १०, २०, १०; कौगृ १, १७, ६; शांगृ १, २५, ९; वैगृ ३, १९ : ९; शंघ २७४; विघ ५, १६४^b; १९०^b; गौघ २३, १४^h; बृदे २, ६५; ५, २२.
प्रकाश-कर्मन्¹ -¹र्मणाम् या १४, १२.
प्रकाश-काम- मा: आश्रौ १२, ५, ५.
प्रकाश-लिङ्ग¹ -ङ्गः या १४, ३.
प्रकाश-वृष्टि- वृष्ट्या अप ७०³, ११, ३२.
प्रकाशी√भू > प्रकाशी-
भाव- वस्य या १२, १.
प्र-काश,शा¹ -शा: विघ १६, १७; माशि १, ५².
प्र-काशन- नम् या १, १९; -नात्

या ६, १; १२, २५; -ने अप ४८, ५८.
प्रकाशन-वत्- वन्तम् या ६, १०
प्रकाशन-स्थेयाख्या- ख्ययोः पा १, ३, २३.
प्र-काशयत्- यन् बृदे ५, २२; ६, ५९.
प्र-काशयति-> प्रकाशयति-कर्मन्-
 -र्मणः या २, २५; १२, ८.
प्र-काशिन्- नशिवि अप ६३, १, १०.
प्र-काश¹ -¹शौ काश्रौ १५, ८, २३; बौश्रौ १२, १८ : १४; लाश्रौ ९, २, १३; मीसू १०, ३, ६३.
प्र√कित्¹, ¹प्रचिकितः आश्रौ २, १९, २२; ३, ७, ७; ४, ३, २; शाश्रौ.
प्र(चिकेत) बौश्रौ १३, २५ : ५¹.
प्र-क्रेत- तः वैताश्रौ २२, ४²; या २, १९७.
प्र-क्रेतन- नम् या २, १९.
प्र-कीर्ण- प्रमृ. प्र√कृ (विचिपे) द्र.
प्र√कीर्ति (<कीर्ति-), प्रकीर्त्यते बृदे १, ७३; शैशि ३५; ११२.
प्र-कीर्तन- नम् बृदे ४, ३०.
प्र-कीर्तना- ना या ७, ९.
प्र-कीर्तित, ता- तः कप्र ३, ९, १७; अप २१, ५, ३; ३६, ३०, ३; विघ; -तम् कप्र २, १०, १६; अप; -ता अप २२, ७, ४; २३, ३, ४; ३०, ३, १; शंघ ६५¹; विघ २६, ५; बृदे ६, ७२; -ता: बौश्रौ २८, ११; १२; बौश्रौप्र ५४:२; शांगृ.
प्र-कीर्य, ^१र्ममाण- प्र√कृ(विक्षेपे) द्र.
प्र√कुप्, प्रकुप्यते अप ६४, २, २.

प्र-कुपित- तान् शाश्रौ ८, २५, १¹.
प्र√कृ, ¹प्र(कृष्व) शाश्रौ १४, ६०, ३; ७१, ४; वृदे ५, १०६.
प्र¹कृणुध्वम् आश्रौ ३, ८, १¹.
प्र¹(कृणुध्वम्) आश्रौ २, ९, १४; बौश्रौ ३, १२ : २०; माश्रौ ५, २, ७, ६; वैश्रौ ८, १ : १०.
प्रकुर्वते शांगृ २, १७, ४; प्र¹ करोतु अप्राय ६, २¹; प्रकुर्वति आश्रिगृ २, ६, ५ : २३; बौगृ २, ९, २०; कप्र; प्रकुर्वीन् पागृ ३, १०, २५.
प्रक्रियेताम् गोगृ १, ४, २२.
प्रकारयेत् अप ६८, ५, २०; गौघ ५, ३३.
प्र-करण¹ -णम् बृदे २, ९६; मीसू १, ४, १४; २, २, ३; ४, ४, ४; -णस्य बृदे २, ९३; अप १ : ५; -णात् काश्रौ ३३, १, १४; ४, १०; २३, ४, २६; बृदे; -णे काश्रौ १, ३, ३०; लाश्रौ १०, ६, १; मीसू; -णेन आप्रश्रौ २४, २, २७; मीसू ३, ३, ८; -णेषु कौगृ २, ७, २६; ३०; शांगृ २, १२, १४; १७.
प्राकरणिक- का: मागृ १, ९, ३.
प्रकरण- ग्णात् पावा १, १, ३-५×४; -णे पावा १, १, ३६; ३, २, ५×४.
प्रकरण-काल-लिङ्गा(ङ्ग-अ) नुप्रह-वचना(न-अ)नाहितामिश्रुति-
 -तिभ्यः काश्रौ ४, १, २९.

a) प्रास. उप. भावकर्मणोर् घञ् प्र. । b) वा. किवि. । c) षा इति पाठः? यनि. शोधः ।
 d) सपा. जैगृ २, १ : ३२ अप्रकामाः इति पाठे. । e) षाः इति जीसं. । f) भाप., नाप. । g) = दर्पण- ।
 गस. उप. अधिकरणे कृत् । h) = जनसमक्षम् (तु. मनु ८, ३७२ संस्थाने बहुसंस्थिते इति पाठे.) । i) विप. ।
 बस. । j) उप. कर्तरि अच् प्र. । k) षाः इति पाठः? यनि. शोधः । l). वैप १ द्र. । m) = कर्णनेष्टन-
 इत्यपरे (तु. भाष्यम् [काश्रौ. काश्रौ.]) । n) पाठे. वैप १, २११४ i द्र. ।

प्रकरण-निबन्धन- -नात् मीस्
७,१,१२.

प्रकरण-भूत-त्व- -त्वात् लाश्रौ
१०,१७,७.

प्रकरण-वत् लाश्रौ ९,६, २१.

प्रकरण-विशेष- -भात् मीस् ३,
६,९; ७,१; ९,३, १८.

प्रकरण-शब्द-सामान्य^१- -न्यात्
मीस् ४,४,१.

प्रकरण-शस्(ः) या १३, १२.

प्रकरणा(ण-ञ)न्तर- -रे मीस्
२,३,२४; १०,१, १.

प्रकरणा (ण-ञ)विभाग- -गात्
मीस् ३, २, १८; ६, २९; ४१^२;
-गे मीस् ४,४,५; ११,१, ६४.

प्रकरणा(ण-ञ) विशेष- -भात्
मीस् ३,१,७; ४, १५; ६, १८; ८,
३०.

प्रकरणो(ण-उ)पपत्ति-
-त्तिभ्याम् मीस् ३, २, २१.

प्रकर्तै(व्य >)व्या- -व्या अप
७^३, ११, १.

प्रकार- -रः कागृउ ४५: १५ -रे
पा, पावा ८, १, १२.

प्रकार-द्वय- -यम् काठश्रौ २०.

प्रकार-वचन- -ने पा ५, ३, ६९.

प्रकारा(र-ञ)न्तर- -रम् कागृउ
४५: १५.

प्र-कृत/ता- -तम् कप्र १,५, ११;

शंघ २२५; -तस्य वाघ ११,

३०; -ता अप २२, ९, ४; -तात्

पागृ २, १७, १७; तैप्रा २, २५;

-तात् अप ६८, २, ३७; -तानि

अत्रभू १; -ताभ्यः वृदे ३,

१२७; -ते अप ३६, ५, ३; पावा

३, ३, ४३; १६१; -तेन हिश्रौ

१४, ३, २३; -तेषु वाघ १४,

२५.

प्रकृत-वचन^४- -ने पा ५, ४, २१.

प्रकृता(त-ञ)ञ- -ञम् विध

६७, ३८.

प्रकृताञ-विकिर^५- -रम् शंघ

२१७.

प्रकृता(त-अ)र्थ-विशेषण- -त्व-

-त्वात् पावा ७, १, २३.

प्र-कृति(वप्रा.)^६- -तयः अप ६८, १,

४९^४; आपघ २, २४, १३६; विध

३, ३३^५; हिघ २, ५, ७७^६; अअ

९, ५^७; या २, २^८; ऋप्रा १३, ३^९;

-तिः आश्रौ ८, १३, ३१^{१०}; ११,

१, ७; शांश्रौ; कौगृ २, ४, २१^{११};

शुअ १, ३०४^{१२}; ४, १८५^{१३};

अअ १, ३^{१४}; या १४, ७;

तैप्रा २४, ५; पा १, ४, ३०^{१५};

उनिस् २: १८^{१६}; पिं ४, ३^{१७};

-तिभिः वैताश्रौ ४३, ४४^{१८}; -तिम्

शांश्रौ ९, १, ३; बौगृ १, ४, ४७^{१९};

या १४, ४; ऋप्रा ११, ३६; -ती

अअ १३, ३; -तीनाम् वाश्रौ

३, १, १, २९; -तेः शांश्रौ १४, १,

१; काश्रौ ५, ४, ५; आपश्रौ; -तौ

आश्रौ ३, २, १७; शांश्रौ ६, १,

२; काश्रौ; पा ५, १, १२^{२०}; -त्या

आश्रौ १, २, २४; ६, ६×४;

शांश्रौ; या २, २८; ऋप्रा २,

३३^{२१}; ५१^{२२}; उस् ५, ५; शुप्रा ३,

११; तैप्रा ९, १६; अप्रा २, ३,

९; शौच ३, ३३; नाशि १, ८,

९; भास् ३, ८; पा ६, १, ११५;

२, १×४; पावा ६, ४, १६३^{२३};

पिं ४, ४; मीस् ५, १, २५^{२४};

-त्याम् बौश्रौ २५, १०: २०.

प्राकृत, ता^{२५}- -तः शांश्रौ ७,

२१, ७; १४, २२, ६×४; आपश्रौ;

-तम् शांश्रौ ९, १, ३; काश्रौ;

शंघ ४३९^{२६}; गौघ २२, १३^{२७};

-तस्य काश्रौ २२, २, १४; ३,

२१; भाश्रौ; -ताः आश्रौ ३,

२, १८; काश्रौ १९, ६, १०; २५,

४, ४७; बौश्रौ; -तात् हिश्रौ

५, ४, ११; मीस् ५, २, २२;

-तात् आपश्रौ २०, १५, ४;

हिश्रौ १६, ७, ८; -तानाम् आश्रौ

१२, ८, २; मीस् ५, २, १८×४;

-तानि काश्रौ १६, ४, ३०; बौश्रौ

२२, १८: १०; -ते आश्रौ ८,

४, १७; बौश्रौ २४, १: १३;

लाश्रौ ८, १२, ६; अअ १३, १९^{२८};

शैशि ११; पाशि ३^{२९}; -तेन

शांश्रौ १५, १, ८; बौश्रौ; -तेषु

हिश्रौ १, १, २२; -तैः आपश्रौ

७, १४, ९; २६, १३; हिश्रौ;

-तौ आपश्रौ १९, १८, ४; हिश्रौ

a) सस. > षस. (तु. शाबरभाष्यम्)। b) विशेष्पात् इति प्रयासं.। c) षस. वा उस. वा। पूष.

= प्राचुर्येण प्रस्तुत- (तु. पाका.)। d) उप. भाप.। e) भाप., नाप.। गस. उप. क्तिन् प्र.। उस. इति न्यासः

(अथ शब्दानुशासनम् इत्यत्र)। f) = स्वभाव-। g) = शरिर-। h) = राज्य-तन्त्र- (तु. मनु ९, २९४)।

i) = छन्दो-विशेष-। j) = आख्यात- (तु. दु.) वा घातु- वेति रू.। k) = मूलाधिष्ठान-। l) सपा. शांश्रु २,

७, २६ प्रभृतिः इति पाभे.। m) = उपादान-कारण- इति पाका.। n) = प्रकृति-भाव-। o) प्रवृत्त्या इति

जीसं. प्रभृ.। p) तस्येदमीयाद्यर्थे अण् प्र.। q) = व्रत-विशेष- (तु. मेधातिथिः [मनु ११, १५८] = प्राजापत्य-

इति)। r) = खट्वादिरहित-व्रत- इति भाष्यम्.। s) प्रकृ^० इति पाठः? यनि. शोघः। t) = भाषा-विशेष-।

२२,२, ४; वैताश्रौ.
 प्राकृती^० - ती लाश्रौ
 ९,७,२; निसू ८,१२: ७; -ती:
 शाश्रौ १, १७. २०^२; आपश्रौ;
 -तीनाम् मीसू ८, ३, १३;
 -तीभ्यः आपश्रौ ९, ४, ७;
 १०; भाश्रौ ९, ६, ३; मीसू
 ६, ५, १६; -तीषु माश्रौ ६,
 १, १, २; वाश्रौ २, १, १, १;
 -त्याः भाश्रौ ६, १५, ११; -त्यै
 भाश्रौ ६, १५, १२.
 प्राकृत-कर्म-त्व- -त्वात्
 पावा ३, १, ८७.
 प्राकृत-गुण-लोप- -पः
 मीसू १०, २, ६८.
 प्राकृत-त्व- -त्वात् काश्रौ
 ५, ४, ३.
 प्राकृत-निवृत्ति- -त्तिः
 काश्रौ २२, ३, ४९.
 प्राकृत-प्रतिषेधा(ध-अ)
 र्थ- -र्थम् मीसू १०, ८, १७^१.
 प्राकृत-वैकृत- -तैः ऋप्रा
 २, ३४.
 प्राकृत-व्रत^० -तः काश्रौ
 २०, ४, ६
 प्राकृतो(त-उ)द्वय^० -याः
 ऋप्रा २, २३.
 प्राकृतो(त-उ)प(षा>)
 घ^० -घः ऋप्रा ४, ३५.
 १ प्राकृति-काल^० -लः मीसू ११,
 ३, ४५.
 प्राकृतिकाल-मध्य-त्व^० -
 -त्वात् आपश्रौ २४, ४, १९;
 मीसू १२, २, १९.
 प्राकृतिकाल(ल-आ)सत्ति-

-त्तेः मीसू ११, ३, ४८.
 २ प्राकृति-काल^० - > ल-त्व-
 -त्वात् मीसू ५, ४, २२.
 प्राकृति-ग्रहण- -णम् पावा १,
 १, २०.
 प्राकृति-ज्ञान-कोविद्- -दाः
 अप ६८, १, ८.
 प्राकृति-तस्(ः) मीसू ३, ६, १६.
 प्राकृति-तुल्य- -ल्यानाम् अप
 ६८, १, ६.
 प्राकृति-दक्षि(णा>)ण^० -णः
 वैश्रौ १७, ११ : १२.
 प्राकृति-दर्शन- -नम् शौच ४,
 ७३; -नात् काश्रौ ५, ११, ९;
 मीसू १०, ५, ३८.
 प्राकृति-दीर्घ- -र्षौ शुप्रा ३,
 १२९.
 प्राकृति-देवता- -ताभ्यः आपश्रौ
 २४, ३, ४५; भाश्रौ ६, १५, १०;
 हिश्रौ ३, ८, ३०.
 प्राकृति-द्रव्य^० - -व्याणि अप ३,
 १, १.
 प्राकृति-धर्म-त्व- -त्वात् मीसू
 ५, १, १९.
 प्राकृति-धर्म-लोप- -पः मीसू
 ५, १, २०.
 प्राकृति-निपातन- -नम् पावा
 २, ४, ७०.
 प्राकृति-नियम- -मे पावा ३,
 १, २.
 प्राकृतिनियमा(म-अ)भात्र-
 -वः पावा ३, १, २.
 प्राकृति-निहासा(स-अ)र्था- -र्थम्
 पावा ४, ३, १००.
 १ प्राकृति-प्रत्यय- -यात् लाश्रौ

१०, ४, ४.
 २ प्राकृति-प्रत्यय^० -ययोः पावा
 ६, १, १५४.
 प्राकृति-प्रत्यापत्ति- -त्तिः पावा
 ३, १, २६.
 प्राकृतिप्रत्यापत्ति-वचन-
 -नम् पावा ४, १, ३६.
 प्राकृति-भाव^० -वः शुप्रा ४,
 ८२; अप्रा २, ३, २५; याशि
 २, ८^१; पावा ६, ४, १६३; -वस्य
 अप्रा ३, १, २; -वे आश्रौ ५,
 १, ७, १६६; ६, ४, १३५; ८, १,
 ५१; २, १६; -वेऽवे आश्रौ
 १२, १५, १२^१.
 प्राकृतिभाव-प्रसङ्ग- -ङ्गः
 पावा ८, १, ५१.
 प्राकृतिभाव-मात्र- -त्रम्
 पावा ६, १, १२५.
 प्राकृतिभावा(व-अ)र्था- -र्थम्
 पावा ६, १, १२३.
 प्राकृति-भूत- -तानाम् निसू ६,
 १२ : २६; -तानि अप ७१,
 १९, ३.
 प्राकृति-भूमन्- -मभिः या ७, ४.
 ? प्राकृतिमुख^० - -स्वेभ्यः अप ३,
 १, १०.
 १ प्राकृति-लिङ्ग- -ङ्गानि हिश्रौ
 ३, १, १०.
 प्राकृति-संयोग- -गात्
 मीसू १०, ४, ८; ६, १६.
 प्राकृति-संयोग-
 -गात् मीसू १०, ४, १.
 २ प्राकृति-लिङ्ग^० -त्व- -त्वात्
 मीसू ३, ८, ४४.
 प्राकृति-वत् काश्रौ १, ७, ६; २५,

a) विप. (रात्रि-, सामिधेनी- प्रसृ.) । b) प्र^० इति पाठः? यति. शोधः (तु. जीसं. प्रसृ.) । c) विप. ।
 बस. । d) षस. । e) मथ्य- = मथ्यभाव- । f) उप. = २दक्षिणा- । g) मलो. कस. । h) द्वस. ।
 i) = संधि-विशेष- । j) = (प्रकृतेः [ज्योतिष्टोमस्य]) पृष्ठयशमनीय-भाव- । k) पाठस्तुटितः? ।

११,११; आपश्चौ २, १२, ५;
 वैश्रौ; पावा ३,१,२६.
 प्रकृति-विकारा (र-ञ्)व्यव-
 स्था- -स्था पावा १,१,६७.
 प्रकृति-विकृति- -त्योः मीसू १,
 १,१०.
 प्रकृति-विवक्षा-ग्रहण- -णम्
 पावा ५,४,५०.
 प्रकृति-विशिष्ट- -ष्टम् वाध
 ४,१.
 प्रकृति-विहित- -तम् काश्रौ
 २४,१,१५; २४;३,२५; -तानि
 काश्रौ २४,२,१; १०; ३१; -ते
 काश्रौ २४,१,२६; -तेषु काश्रौ
 २४,१,५.
 प्रकृति-शब्द- -ब्दः पावा ४,
 ३,१५३.
 प्रकृति-संहिता^a- -ता नाशि २,
 ५,६.
 प्रकृति-संनिधान- -नात् मीसू
 १०,४,२
 प्रकृति-सविध- -धम् निसू २,
 १० : २६.
 प्रकृतिसविध-तर- -रम् निसू
 ४,५ : १०.
 प्रकृति-सर्वनाम्य- -म्यात् या
 ७,४.
 प्रकृति-स्तोम- -मः निसू ८,३:
 १६; १३ : १३; १७; २३.
 प्रकृति-स्थ- -स्थः विध २४,
 ३९; -स्थान् बौध ३,८,१०.
 प्रकृति-स्वप्न-भाव- -वेषु अप
 ६८,१,३७; -वैः अप ६८, १,
 २०.
 प्रकृति-स्वप्न-लक्षण- -णे अप
 ६८,१,१९.

प्रकृति-स्वर- -रस्य पावा ३, १,
 ३; -रे पावा ६,१,१५४.
 प्रकृतिस्वर-त्व- -त्वे पावा
 ६,२,१३९.
 प्रकृतिस्वर-बलीयस्व-
 -स्वात् पावा ६,१,१५४.
 प्रकृतिस्वर-भाव-प्रसङ्ग-
 -ङ्गः पावा ६,२,५२.
 प्रकृतिस्वर-वचन- -नम्,
 -नात् पावा ६,२,४९.
 प्रकृत्य(ति-अ)धिकार- -रात्
 मीसू ८,३,१३.
 प्रकृत्य(ति-अ)नुग्रह- -हात्
 काश्रौ १, ६, २७; २२, १,१७;
 ४६.
 प्रकृत्यनुग्रहा(ह-अ)नुयाज-
 प्रतिषेध- -धाभ्याम् काश्रौ ७,
 ५,२३.
 प्रकृत्य(ति-अ)नुपरोध- -धात्
 मीसू १०,३,१४; १९.
 प्रकृत्य(ति-अ)न्तर- -रम् पावा
 ६,१,६०; -रेषु पावा १,३, १.
 प्रकृत्यन्तर-त्व- -त्वात् पावा
 ३,१,१९; ३४; ४,३, २२; १६१.
 प्रकृत्य(ति-अ)न्वय- -यात् मीसू
 ५,१,१८; ११,४,२८.
 प्रकृत्य(ति-अ)पश्रय^b- -याः निसू
 ८,८ : १२.
 प्रकृत्य(ति-अ)भाव- -चात् पावा
 ५,१,२.
 प्रकृत्य(ति-अ)भिहितत्व- -त्वात्
 पावा ३,३,१६१; ५,४,५.
 १ प्रकृत्य(ति-अ)र्थ- -र्थस्य पावा
 ५,२,२९; -र्थे पावा ५,३, ६७.
 प्रकृत्यर्थ-नियम- -मे पावा
 १,३, १२.

प्रकृत्यर्थ-विशेषण-त्व-
 -त्वात् पावा ५,३, ६७; ८, १
 १२.
 प्रकृत्यर्थ-वैस्पृश्य-वचन-
 -नात् पावा ५,३, ६६.
 २ प्रकृत्य(ति-अ)र्थ^c- -र्थः मीसू
 ३, ६, ८; -र्थम् मीसू ३, ६,
 १४.
 प्रकृत्यर्थ-त्व- -त्वात् मीसू
 ७,४,२०; ११, ३, ४२.
 प्रकृत्या(ति-अ)कान्त-मण्डल^c-
 -ले अप ६३, ३, १.
 प्रकृत्या(ति-अ)दि- -दिभ्यः
 पावा २,३,१८.
 प्रकृत्या(ति-अ)देश- -शाः अप्रा
 २,४,५.
 प्रकृत्यापश्रयम्^d निसू ३, ३ :
 २३.
 प्रकृत्यु(ति-उ)पपदो (द-उ)
 पाधि- -धीनाम् पावा ३,१,१.
 प्रकृत्यु(ति-उ)पबन्ध- -न्धात्
 आपश्चौ २४,४,१८.
 प्रकृत्यु(ति-उ)पबन्धन- -नात्
 मीसू ८,३,३२^e.
 प्रकृत्य बौश्रौ १८, २१:५; कौसू
 ४४,३५.
 प्र-क्रिया- -याम् आपश्चौ २, ६, ५:
 २३; बौश्रु २, ९, २०; -यासु
 वृदे १,९५.
 प्रा(< प्र)कार^f- -रम् अप ६२, २,
 ३; ७०^g, २०, १; -राणाम् अप
 ७१, २, २; -रान् वाधुश्रौ ३,
 ८१ : २; -रैः शांश्रौ १६, १८,
 १४.
 प्राकार-द्वार-तोरण- -णैः अप
 ७०^g, ६, ६.

a) = प्रकृतिभाव-संधि-। b) विप.। बस.। c) विप.। तृस. > बस.। d) पाठः? (तु. संस्कृतः टि.)। e) ण्धात् इति जीसं. प्र.। f) नाप.। गस. उप. घञन्ते उपसर्गस्य दीर्घः (पावा ६,३,१२१)।

प्राकार-मदिन्^०— (> मदि-
पा.) पाग ४, १, ९६.
प्राकार-वेशम-भि(ति>)त्ती-
त्तीषु अप ७०^३, २३, ९१^०.
१ प्र-कृत- प्र√कृ द.
२ प्र-कृत^०— (> प्राकृतायन-पा.) पाग
४, १, ११०.
प्र-कृति- प्रसृ. प्र√कृ द.
प्र√कृष्, प्रकर्षति वाश्रौ १, २, ४, ६५;
३, ६, २; २३ १^०; गोश्रु १, ७, १३;
कौसू ९०, ९; १०; प्रकर्षेत् द्रागृ
१, २, ९; गौध १५, ६.
प्रकर्षयेत् आगृ २, १०, ३.
प्र-कर्ष- (> प्राकर्षिक-पा.) पाग
५, १, ६४.
प्र-कर्षण- -णे ऋपा १४, ७.
प्र-कर्ष्य कौसू २९, ६; ३२, २१.
प्र-कृष्ट- -ष्टे पा ५, १, १०८; -ष्टौ
तैप्रा २, १५.
प्रकृष्ट-वर्मा(र्त्स-अ)पहारिन्-
न्ती विध ४४, १३.
प्र-कृष्य माश्रौ १, ३, १, २४; माश्रु.
प्र-कृष्य- -ष्यः काश्रौ २४, ५, २७;
आपश्रौ २३, १२, १५; हिश्रौ
१८, ४, २९; लाश्रौ १०, १५,
१५१.
प्रकृष्य-कुत्सित-ग्रहण- -णम्
पावा २, ३, १७.
प्र√कृ (विक्षेपे), प्रकिरति काश्रौ ५, ३,
३२; १७, १२, २७; माश्रौ ७,
३, ११; माश्रौ २, ५, ४, ३०;
बौपि ३, २, १२; कौसू ४७, ३०;
प्रकिरन्ति शाश्रौ १६, १५, ११;

बौश्रौ ९, २ : ३३.
प्रकीर्यते शंघ २८७; २८९.
प्र-कर^०— -रः कप्र १, ३, ९.
प्र-कीर्ण, णा- -र्णाः अप ७०^३, ११,
२९; विध ४४, १०^१; -र्णानाम्
बौश्रौ १९, ६ : ४^६; -र्णानि या
९, २३; -र्णे अप ५३, ४, २;
-र्णेन अप ५८^३, २, ८; -र्णेषु
विध ४४, १०^१.
प्रकीर्ण-क^१- -कम् विध ४२,
१; -केषु विध ३३, ५.
प्रकीर्णक-पातक- > किन्-
-किनः विध ४३, ३१.
प्रकीर्ण-केश^१- -शः आशिगृ ३,
११, १ : ४; अप ६८, २, ४४;
शंघ ३८४; आपघ १, २५, ४;
हिध १, ६, ७९; गौध १२, ४०;
-शाः आशिगृ ३, ५, ३ : ३;
४ : ७××; बौपि.
प्रकीर्णकेशी- -श्यः आशिगृ
३, ५, ३ : ५; बौपि १, ३ : ४;
कौसू ८४, १०.
प्रकीर्ण-पातक- -के विध ४२, २.
प्रकीर्ण-भाण्ड-भोजनीयो (य-
उ) पस्कर-इ(व्य>)व्या^१-
-व्या शंघ ७९.
प्रकीर्णा(र्ण-अ)वशीर्ण- -र्णानाम्
कौसू ८८, १३.
प्र-कीर्य वैश्रौ १३, ६ : ८; आगृ.
प्र-कीर्यमाण- -णान् आपश्रौ २२,
२८, ७; हिश्रौ २३, ४, ४७.
प्र√कलृप्, प्र...कल्पताम् गोश्रु २,
१, १९; जैश्रु १, २० : १७; ऋष

(कल्पताम्) गोश्रु २, १, २०; जैश्रु
१, २० : १७.
प्रकल्पयते आपश्रौ ९, ११, २३;
बौपि ३, ८, १; हिपि २३ : २२;
प्रकल्पयति आपश्रौ १, १५, ५;
१२, ९, ७; हिपि ११ : ३;
प्रकल्पयन्ते निस् ३, ५ : २२;
प्रकल्पयेत् निस् ५, ५ : ३; अप
५, ४, ५; ६, १, ७; १९^३, २, ४;
बौध.
प्र-कल्पक- -कम् पावा १, १, ६७;
मीसू ६, २, १९.
प्र-कल्पयत्- -यन् अप १, २६, १.
प्र-कल्पित- -तः वृदे ३, ८९; -तैः
अप ६८, ५, २१; २२.
प्र-कल्प्य वैश्रौ १, २ : १०; आगृ.
प्र-कलृप्त- -साः निस् १, १२ : २१;
-से ऋपा ११, ५८.
प्रकलृप्त-त्व- -त्वात् काश्रौ २५,
७, १०.
प्र-कलृप्ति- -सौ मीसू १०, ८, ७.
प्रकलृप्स्यु(सि-उ)पबन्ध-
-न्धाम्याम् काश्रौ १८, २२.
प्र-कृत- , तन- प्र√कित् द.
प्र√कर्म^१, प्रकामति आपश्रौ ११,
९, १; १६, २, ८; २३, १२, ११;
बौश्रौ; प्रकामतः बौश्रौ ६, २५ :
६; प्रकामन्ति शाश्रौ ४, १५, १^१;
भाश्रौ १०, ९, ७; प्रकामेत् बौश्रौ
२०, १ : १०; २ : ८××; हिश्रौ
१६, १, ३९; लाश्रौ १०, १९, ६;
प्र...कामेत् आपश्रौ १६, ११,
९; वैश्रौ १८, ९ : ११; हिश्रौ

a) व्यप. । उस. । b) भंमिष्टो इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. मूको.) । c) व्यप. । व्यु. ? ।
d) उपकर्षति इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. आपश्रौ ३, ८, ४ प्रोहति इति पाभे. , संस्कर्तुः टि. च) । e) गस.
उप. भाप. । f) विप. > नाप. (प्रकीर्णपापवत्-) । g) विप. (इष्टका-) । h) नाप. ([अनुक्तानिष्कृतिक-] पाप-) ।
स्वार्थे कन् प्र. । i) विप. । बस. । j) विप. । बस. > दस. > कस. । k) पा १, ३, ४२ परामृष्टः द. ।
l) सपा. प्रकामन्ति <> प्रकान्तान् इति पाभे. ।

११,४,१०; प्रक्रामेयुः आपश्रौ
१४,२५,२; २१,२,२.
प्रचक्रमुः आपश्रौ १०, ६, १;
हिश्रौ १०, १, ३४; आपसं १,
२, १; प्र...अक्रन् शाश्रौ ११,
८,७; प्र (अक्रन्) ऋअ २,५,
५९; प्र (अक्रमुः) ऋअ २,९,
३१; ३२; ४१; साअ १, ४७७;
४९१; २,२४२.
प्रक्रमयति आपश्रौ १, १५, १;
५,१९,१××; भाश्रौ; शाश्रु १,
१४, ५^a; आपश्रु ४, १६^b; भाश्रु
१,१७ : १^a; माश्रु १,११,१८^a;
वाश्रु १४, २३^a; प्रक्रामयति पाश्रु
१, ८, १^a; काश्रु २५, ४२^a;
प्रक्रमयेत् बौश्रौ २४, ७ : २;
कौश्रु १,८,२८^a.
प्राचिक्रमिषीत् निस् ७,३ : ७;
८,१२ : ९; १०,६ : १०^{१०}.
प्रक्रम^d -मः काश्रौ १६, ८, १६;
बौश्रौ; काश्रु ६, २; ९; आपश्रु
६,२; बौश्रु १ : ६; ४ : १८ : २१;
हिश्रु २, २७; -मम् भाश्रौ ७,
३,२; १२, ५, ४; निस् ८, ६ : ३०;
काश्रु ६, ३; ७, ३४; -मस्य काश्रौसं
२५ : ३; बौश्रौ २६, १० : ३;
आपश्रु ५, ११; ६, १; हिश्रु २,
२०; २६; अपं १ : १५; -माः
आपश्रु ५, १; बौश्रु ४ : ३; २० :
४; हिश्रु २, ७; -माणाम् बौश्रौ
२६, २५ : २०; -मात् आपश्रौ

३, १५, ३; बौश्रौ; -मान् काश्रौ
८, ५, २६; २०, ३, ३; आपश्रौ;
काश्रु ६, २; बौश्रु ४ : ५;
-माभ्याम् बौश्रु २० : ५; -मे
आपश्रौ ३, १५, ३; १७, ९; ११,
९, ९; भाश्रौ; आपश्रु ६, २;
बौश्रु १ : ७; हिश्रु २, २८; ४३;
-मेण बौश्रौ २३, १९ : ७; ९;
काश्रु ६, ४; बौश्रु २० : १५;
मीस् २, ४, ३; -मेणऽ-मेण
बौश्रु १० : ९; २० : ९; -मेषु
काश्रौ ४, ८, १७; ७, २, ३; ८, ३,
७; ४, ५; आपश्रौ; काश्रु ६, ३;
आपश्रु ४, ३; बौश्रु ३ : २^१; हिश्रु
२, २; -मैः बौश्रु १० : ११.
प्रक्रम-तृतीय^e -येन काश्रौ
१९, २, २.
प्रक्रम-प्रमाण^f -णानि बौश्रु
१० : १५; २० : ६.
प्रक्रम-मात्र -त्रे माश्रौ १, २,
४, ८; ७, ३, १५; २, २, ३, १३;
वाश्रौ १, ६, १, १९.
प्रक्रम-त्रेला^g -लायाम् बौश्रौ
१०, ३० : ८, ३१; १३; ३३ : ९××.
प्रक्रम-व्या(स)सा^h -स्ताः
बौश्रु १८ : ६; २१ : ६.
प्रक्रम-ससम-भाग -गान्
काश्रु ६, २.
प्रक्रम-स्थान-> णो(य>))
याⁱ -या आपश्रौ १४, ५, ११;
काश्रौसं २५ : २; हिश्रौ ९, ८, ६;

आपश्रु ५, ११; ६, १; हिश्रु २,
२०; २६.
१प्रक्रमा(म-अ)र्थ^k -र्थः बौश्रौ
१९, १ : ७; काश्रु ६, ३; ४.
२प्रक्रमा(म-अर्थ>)र्थ^k -र्थ^k
काश्रु २, १९.
प्रक्रमो(म-उ)स्थान^l -ने काश्रौ
७, १, २६.
प्र-क्रमण- -णम् काश्रौ १६, ७, ३०;
वाश्रु १४, २७; -णात् माश्रौ ५,
२, १२, २०; -णे बौश्रौ २०, ६ : १.
प्र-क्रममाण- -णम् माश्रु २, ४, ३.
प्र-क्रमय्य वाश्रौ २, १, ६, १०.
प्र-क्रम्य आपश्रौ १, १५, ४, ३,
१०, ५××; बौश्रौ; या १४, ७.
प्र-क्रान्त- न्तम् बौश्रौ २०, ४ : २;
५; वाश्रुश्रौ ३, ३७ : ४; -न्तात्
कौश्रु ५, ३, २८^m; -न्ते वैश्रौ
१३, ३ : ६.
१प्र-क्रान्ति- -न्तौ काश्रौसं ३१ :
१२ⁿ.
प्र√क्रीड्, प्रक्रीडन्तु वाश्रु १३, ४^१.
प्रक्रीडयति काश्रु १७, ३;
प्रक्रीडयन्तु काश्रु १७, २^१.
प्र√कुञ् > प्र-क्रोश- -शाः द्राश्रौ
११, २, १०; लाश्रौ ४, २, ९^{१०}.
प्रप्ल^१ -प्लः भाशि ९१; -क्षस्य^१
जैश्रौका ६५; साअ १, ६१०;
उनिस् ६ : १५; -क्षे^१ शाश्रौ १८,
१५, ५; गौपि २, ४, ७; साअ १,
४४४; उनिस् ५ : २०.

- a) सपा. प्रक्रमयति <> प्रक्रामयति <> प्रक्रमयेत् इति पाठे. । b) पाठे. पृ ९३९ III द्र. ।
c) *क्रमयि^१ इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. पूर्वे स्थले) । d) = प्रमाण-विशेष- (त्रिपद-), भाप. । वैप १ द्र. ।
e) षस. । पूष. = (उपचारतः) प्रक्रममापिका-रज्जु- (तु. विद्याधरः) । f) विप. । बस. । g) = प्रक्रमप्रमाण-देश- ।
h) विप. (इष्टका-) । बस. । i) = (चतुर्विंशभागसंमिता-) रज्जु- । इह प्रक्रमपदमप्यस्मिन्नेवायं रूढमिति गोपीनाथः
(तु. हिश्रौ) । j) कस. । k) चस. । l) दस. (प्रारम्भ-समाप्ति-) । m) पाठे. पृ १६४९ I द्र. ।
n) पाठः ? पूर्वेषु समस्तं द्र. । o) प्र-क्रोशाः इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. द्राश्रौ) । p) वैप १,
२११६ C द्र. । q) = पृक्ष- (अन्न-) । पाठे. वैप १, २०८८ ० द्र. । r) वैप १, २११६ I द्र. ।

प्र✓क्षर, प्र(अक्षरत्) आश्रौ ८, ९, ७;
शाश्रौ; प्र (अक्षरत्) शाश्रौ ७,
१५, १४^३; छुसू १, ३: ८; ऋअ.
प्र(अक्षाः) साअ २, ५१०.

प्र-क्षर(त् >)न्ती- न्तीषु शाश्रौ
७, १५, १४.

प्र✓क्षल, प्रक्षालयते बौश्रौ २, २०:
३; २८, ८: ४; माश्रौ; प्रक्षा-
लयति काश्रौ ७, ५, १६; आपश्रौ;
प्रक्षालयतः माश्रौ २, ५, ४, ३५;
५, २, ११, ३७; हिश्रौ १०, ५,
२७; प्रक्षालयन्ते हिश्रौ ७, ३,
७८; ४, २३; प्रक्षालयस्व भागृ
२, २८: ५; प्रक्षालय कौसू ८७,
६; १२; प्रक्षालयत बौश्रौ ६,
१०: २१; प्रक्षालयति आपश्रौ
९, ३, १४; माश्रौ ९, ५, ३; हिश्रौ;
प्रक्षालयेत् बौश्रौ ९, १७: २०;
१८: २०; २०, २६: ३८; गोगृ;
प्रक्षालयेरन् माश्रौ २, २, १, १०;
प्रक्षालयेयुः लाश्रौ ८, ८, ११.

प्रक्षालयतीत् आगृ १, २४, १०.

प्र-क्षालन- नन्म् काश्रौ २२, ६,
११; आपश्रौ १२, २७, १०;
वाश्रौ १, ५, २, ५०; वैश्रौ; -ने
बौश्रौ २०, २६: ३८; -नेन
काश्रौ १२, ३, २१^३; विध २३,
१७.

प्र-क्षालयत्- -यन्तम् कौसू ६४, ९.

प्र-क्षालयमान- -नः माश्रौ १, ६,
२, १.

प्र-क्षालयितृ- -तारम् आपगृ १३, ६.

प्र-क्षालित, ता- -तः बौश्रौ ४, ४:

११; -तम् काठश्रौ ५२; बौश्रौ;
-ता बौश्रौ ६, २६: २९; -ताः
बौश्रौ १७, १२: २; -तानि
बौश्रौ १, ८: १; २, १८: २७;
३, ४: १५; -ताम् वैश्रौ १४,
१०: ८; -तायाम् आपश्रौ १,
२४, १; -ते काश्रौ ८, ३, १९;
५, २२; बौश्रौ; -तेषु काश्रौ २०,
६, १४; -तौ कौसू ९०, ११.

प्रक्षालित-पाणि^८- -णिः मागृ
१, १८, ४; २, १६, ६.

प्रक्षालित-पाणिपाद, दा^८- -दः
आम्रिगृ २, ४, ६: २३; वैध ३,
७, ६; -दा भागृ ३, १२: ९;
-दौ बौगृ १, ८, १२.

प्रक्षालित-पाद^८- -दः आगृ १,
२४, ११; -दाः काठश्रौ १३३.

प्रक्षालित-पाद-पाणि^८- -णिः
बौश्रौ २९, ५: २४; बौध २, ४, २.

प्रक्षालित-शिरस्^८- -रस्म् वाश्रौ
२, २, ४, १६.

प्रक्षालिता (त-अ)भ्यक्त-पाणि-
पाद^८- -दानाम् कौसू ५२, १२.

प्रक्षालितो(त-उ)पवात्^८- -तानि
आम्रिगृ २, ६, २: २४; कौसू २,
२९; बौध १, ६, ५; २, ५, १२^६.

प्र-क्षाल्य आश्रौ १, १३, १××;
शाश्रौ; आपश्रौ १५, २१, ७^६.

प्र-क्षाल्यमान- -नम् वैताश्रौ १०,
३; -नौ कौसू ७६, २७^३कं.

प्र-क्षाम-, -क्षायत्- प्र✓क्षे द्र.

प्रक्षाय^८- -वेभ्यः जैश्रौ २६: १५^३.

प्र✓क्षि^८, प्रक्षिणोति हिश्रौ १२, ३;

१२कं; प्रक्षिणोमि आपश्रौ १७,
१२, ६; हिश्रौ १२, ३, १२;
प्रक्षिणुयात् आपश्रौ १७, १२, ६;
हिपि ३: ४.

प्रक्षिणाति कौसू ४८, १०; या
६, ५.

प्रक्षीयते अप ५३, १, ५.

प्र✓क्षिप्, प्रक्षिपति वैश्रौ १२, ६: २;
वैगृ ७, ६: १०; गोपि १, २,
३४; कौसू ३१, १२; वैध २,
७, २; ३; प्रक्षिपेत् जैश्रौका
२०५; आम्रिगृ.

प्र-क्षिपत्- -पन् विध ५, ११०.

प्र-क्षिस- -स्म् विध २३, २; -साः
माश्रौ १, २, ६, ६.

प्र-क्षिप्य बौश्रौ २७, ७: ३; माश्रौ;
वैश्रौ ६, १: ६^६.

प्र-क्षिप्यमाण- -णः ऋअ २, ७, ३२;
अअ २०, ७९^१.

प्र-क्षेप- -पः विध १९, ११; -पम्
अप ७०, ४, १०.

प्र-क्षेपण- -णम् भागृ ३, १८: १७;
बौध ३, २, ८.

प्रक्षेपणी^८- > ण्या (शी-
आ)दि- -ङीनि वैगृ ५, ४: ३७.

प्रक्षेपणीय^८- -न्यानि वैश्रौ ११,
१०: १.

प्र✓क्षुगु, प्रक्षुणोति बौपि १, ३: १४;
२१; २८.

प्र-क्षुणत्- -तः या २, २५; -तान्
माश्रौ ५, १, ८, ५.

प्रक्षुणुता(त-अ)प्र^८- -अः आपश्रौ
२२, ४, ७; हिश्रौ १७, २, ९.

a) यन्ताद् आपुगागमः उंसं. (पात्र ३, १, २५)। b) =उदक-। c) विप.। बस.। d) विप.।
बस. > द्रस.। e) विप.। कस. > बस.। f) विप.। कस. उप. = शुष्क-। g) तु. चौसं.। वाताकिल^८.
इति मैसं.। h) प्रा^८ इति पाठः? यनि. शोधः। i) अर्थः व्यु. च १। j) वैप १, ११९०. a. द्र.। k) पासे.
पृ. ३२६ m. द्र.। l) णम् इति पाठः? यनि. शोधः. (तु. ऋअ.)। m) = पात्र-विशेष-। n) अर्हाथियश्
छः प्र. उंसं. (पा ५, १, ६९)।

प्र√क्षै > प्र-क्षाम- -मः आपश्चौ ९,
१५, २०; भाश्चौ ९, १८, ९;
हिश्चौ १५, ४, ४०.
†प्र-क्षायत्- -यतः^a आपश्चौ ४,
११, ५; १६, १; भाश्चौ ४, १७,
२; हिश्चौ ६, ३, ८; ४, १८.
प्र√खिद् > प्र-क्खिदत्- -दत्ते तैप्रा
१४, ८१.
†प्रखुदसि^b शाश्चौ १२, २३, ४.
प्र√ख्या > प्र-ख्या- > ष्या (ख्या-
अ)भाव- -वात् मीस् १, १, २२.
प्रख्या (ख्या-अ)विशेष- -वात्
पावा १, २, ६४.
प्र-ख्यात- -तम् या ३, १९; ५, ८.
प्रख्यात-तम- -मेन या ३, १३.
प्र-ख्यापन- > नीय- -यम् या
५, ८.
प्र-ख्याय अप्राय २, ४.
‡प्रख्यायत्- -यतः शाश्चौ ४, १२,
१०१^०.
‡प्रग अप ४८, १५.
प्रगदिन्- (> प्रागद्य- पा.) पाग
४, २, ८०.
प्र√गम्, प्रो (प्र-उ) ... अगम् आपश्चौ
६, ४, १०१; प्रो (प्र-उ) अगम्))
शाश्चौ ९, १७, ३१.
प्र-जिगासत्- -सत् शाश्चौ १६, २२,
१४.
प्र√गल्भ > प्र-गल्भ^d -ल्भः बौश्चौ
१७, ५० : १६; शैशि १६३;
याशि १, २९.
प्र√गा, प्र... जिगति वृदे ६, ३०१;

†प्र (जिगति) आश्चौ १, २, ७;
४, १३, ७; ७, ८, १; शाश्चौ.
†प्रागात् आश्चौ १०, ८, ७;
आपश्चौ; या ६, २२^०; †प्र...
अगात् आपश्चौ १, ३, ५; ५, १;
बौश्चौ; प्र (गुः) कौस् ३४,
२०१; †प्रागाः आश्चौ ४, १०,
५; शाश्चौ ५, १४, १८; प्र...
गाः बौश्चौ १०, ४ : १११; †
†प्रगाम आश्चौ २, ५, ४^१; १९,
३६^०; ६, ६, १८; आपश्चौ.
प्र-गाथ- प्रमृ. प्र√गै द्र.
प्र√गाह > प्र-गाहण- -णम् आश्चौ
१२, ८, ८.
प्र-गाह आपश्चौ ८, ७, २७×; हिश्चौ
प्र-गीत- प्र√गै द्र.
‡प्रगुण^b -णौ क्षुस् २, ६ : ११; २६.
प्र√गृ (अवबोधने) > प्र-जागर-
-रः शैश १५६.
प्र√गृभ्, ह, प्र... गृभायत शाश्चौ १२,
१९, ३१.
प्रगृह्णाति काश्चौ ३, ६, १७×; ;
प्रगृह्णति वृदे २, १४२; प्रगृ-
ह्णीयात् काशु ७, १८.
प्र-गृही(त>)ता- -तायाम् वाधूश्चौ
४, ५ : १३^२.
प्रगृहीत-य(द >) दा^१ -दाः
ऋप्रा २, ५४.
प्र-गृह्णत्- -ह्णन्तः बौश्चौ १८, २१ : ६.
प्र-गृह्ण शाश्चौ १, ६, १०×; ; बौश्चौ;
या २, २६.
प्र-गृह्ण^१ -ह्णः ऋप्रा १, ६८; शौच

१, ७३; -ह्णम् ऋप्रा ११, ३९;
शुप्रा १, ९२; ४, १८; ८८; ७,
७; पा १, १, ११; -ह्णस्य ऋप्रा
१०, २०; -ह्णाः ऋप्रा १, ७३;
२, ५१; शौच ३, ३३; पावा
१, १, ११; -ह्णाणाम् अप्रा ३,
१, २; -ह्णे शुप्रा ४, १९४; -ह्णौ
शाश्चौ १, २, ७.
प्रगृह्ण-प्लुत-प्रतिषेध- -प्रसङ्ग-
-ऋः पावा ६, १, १२७.
प्रगृह्ण-मध्य- -ध्ये अप्रा २, ३,
१०.
प्रगृह्ण-संज्ञा- -ज्ञायाम् पावा १,
१, १२; ६, १, ८४; ८, २, ६.
प्रगृह्णा(ह्य-अ)वगृह्ण-चर्चा-
-र्चायाम् शौच ४, १२३.
प्रगृह्णा(ह्य-अ)वगृह्ण-समापाद्या-
(द्य-अ)न्तगत- -तानाम् शौच
४, ११७.
प्र-ग्रह(वप्रा.)^k - पा ३, ३, ५२^१;
५३^m; -हⁿ कौशि ६८; -हः
ऋप्रा १, ८, १२^०; -हस्य कौशि
४८^p; -हाः तैप्रा ४, १^०; -हस्यः
हिश्चौ २१, २, ३३^०; -हैः आपश्चौ
१४, २६, ११^०.
प्रग्रह-स्नादि- -दिसु तैप्रा १, ६०.
प्र-ग्रहण- > ण-मन्त्र- -न्त्रेण
शाश्चौ ७, ५, १.
प्र-ग्राह- पा ३, ३, ४६; ५२; ५३.
प्र√गृ (निगरणे), प्रगिरन्ति आश्चौ
६, १३, १०; प्रागिरत्, प्रागि-
रताम् वाधूश्चौ ४, १९ : २९;

a) पाभे. वैप २, ३ खं. प्रक्षायतः तैत्रा २, ४, १, २ टि. द्र.। b) पाठः ? शोधार्थं वैप १, १२०३
२, ० द्र.। c) पाठः ? प्रक्षायतः इति शोधः (तु. सपा. तैत्रा २, ४, १, २; O. च)। d) वैप १ द्र.।
e) पृ ६८३ f द्र.। f) प्रणम इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आन., BC. च)। g) प्रमाम इति पाठः ? यनि.
शोधः (तु. आन.)। h) अर्थः व्यु. च ?। i) =संहिता-विशेष-। बस.। j) =पारिभाषिक-संज्ञा-।
k) कर्मादिषु अणु प्र.। l) =उत्ता-सूत्र-। m) =अश्व-रथि-। n) वृत्तितः पाठः। o) =(सुक-सुबयोः)
दण्ड- (तु. संस्कृतः टि. [गोप १, ३, ९])। p) =प्र-गृह्ण-। q) अर्थः ?।

प्रगिरित् द्रागृ ३, ३, १३.
 प्रगे^a लाश्रौ ८, ३, २; गोपृ २, १०, ६.
 प्रगे-न्तन- पा, पावा ४, ३, २३.
 प्र√गै, †प्रगायामसि वाधूश्रौ ४,
 ४७ : ८; आपमं १, ३, ५;
 पागृ १, ७, २^{१०}; आमिगृ १,
 ५, ३ : १६; बौगृ १, ४, ९;
 भागृ १, १६ : ५; मागृ १, १०,
 १५^{१०}; हिगृ १, २०, १^{१०};
 †प्रगायत् आश्रौ २, १५, २; ७,
 ८, २; शांश्रौ; या ७, २; प्र...
 गायत् आश्रौ ७, ८, १; शांश्रौ
 १२, १०, ७; †प्र(गायत्) आश्रौ
 ६, ४, १०; ७, ५, ९; ८, ४, १;
 शांश्रौ; प्रगायेत् माशि ६, ६;
 नाशि १, ६, १५.
 प्र-नाथ^b- -थः आश्रौ ५, १४, ५;
 १८; शांश्रौ ७, १४, ७××;
 लाश्रौ; ऋञ्च ८, १^१; १०^१; ४८^१;
 ६२^१; वृदे ६, ३५^१; ३८^१; ५०^१;
 शुञ्च ३, २१०^१; अञ्च २०, ९^१;
 १०^१; १४^१; ९३^१; -थम् शांश्रौ
 ६, ९, ७; ७, १९, १०××; ऋञ्च;
 -थाः आश्रौ ५, १०, १९; १४,
 ७××; लाश्रौ; ऋञ्च १, ११,
 १^१; -थान् आश्रौ ७, ३, ४;
 १२, ८; ८, ४, १६; शांश्रौ;
 -थानाम् आश्रौ ५, १५, २०;
 निसू ५, ५ : २; -थाय शांश्रौ

७, २१, ८; वैताश्रौ २०, १६;
 -थे आश्रौ ५, १५, ६; ८, ६,
 १८; मीस् ९, २, २७; साञ्च १,
 ४०; -थेन शांश्रौ १०, १३,
 १५; ११, १२, ८; वृदे ३, १११;
 -थेभ्यः आश्रौ ५, १०, १३; ९,
 ५, ६××; -थेषु आश्रौ ६, ५,
 २१; शांश्रौ १२, ९, ८; लाश्रौ;
 पा ४, २, ५५; -थौ आश्रौ ५,
 १५, २; १६, २^{११}; २०, ६××;
 शांश्रौ.
 प्रागाथ^c- -थः^१ ऋञ्च २,
 ८, ६०; ६६; ७२××; -थम्^k
 ऋञ्च २, १, ३६; ३९××; ऋप्रा
 १, ८७.
 प्रागाथी^l- -थीस् आश्रौ
 ४, ७, ४.
 †प्रागाथि (क >)
 का^m- -काम् शांश्रौ ५, १०, २६.
 †प्रागाथिकⁿ- -कम् छुस्
 ३, ३ : ११; ४ : १०; ५ : ५;
 मीस् ९, २, २५; -कानि लाश्रौ
 ६, २, १६^१; निसू ५, ५ : १९^{१०};
 १०, ६ : ८.
 प्रागाथ-कारम् द्राश्रौ २, ४, १५;
 लाश्रौ १, ८, ११.
 प्रागाथ-नृच-सूक्ता (ऋ-आ) गम^p-
 -मेषु आश्रौ ७, १, २२.
 प्रागाथ-बृहती- -तीषु निसू ६,

११ : २४.
 प्रागाथ-शब्द- -ब्दात् जनिस् ५ :
 ३७.
 प्रागाथ-स्थ- -स्थे शांश्रौ ७, २५,
 ९.
 †प्रागाथा (थ-ञ्च) न्त- -न्तेषु
 आश्रौ ८, २, २०.
 †प्रागाथा (थ-ञ्च) न्त^q- -न्तम्
 ऋञ्च २, ८, १७; ७७.
 †प्रागाथा (थ-ञ्च) प्रभव- -वात्
 लाश्रौ १०, ६, ८.
 प्रागाथा (थ-ञ्च) यन्- -नानि निसू
 ५, ३ : ७.
 प्रागाथी √ कृ > प्रागाथी-कार-
 -राय निसू ७, २ : १३.
 प्र-गीत- -ते नाशि १, ५, १६.
 प्र√गमन् > †प्र-गमन्- -†गमन्ता
 आपमं १, १, १; बौगृ १, १, १४;
 वैगृ ३, २, ४; ऋञ्च २, १०, ३२.
 प्र√ग्रथ्, न्थ्, प्रग्रथ्नाति बौश्रौ ६,
 १७ : १७; १०, ११ : १८××;
 वैश्रौ १९, ६ : ५४; प्रग्रथन्ति
 बौश्रौ ६, १ : १८; १०, १७ : ७××.
 प्र-ग्रथन- -न्म् वैताश्रौ २२, ९;
 २५, ५.
 प्र-ग्रथित, ता- -न्तः बौश्रौ ८, ५ :
 २; -ता बौश्रौ ११, ६ : १२;
 १२, ७ : २६.
 प्र-ग्रथ्य बौश्रौ ६, १२ : ६××; वैश्रौ.

a) = प्रातर। सप्त१ < प्रग-। अन्व.। व्यु. ? < प्र√गाम् इति PW. प्रथ्., < प्र√गै इति अभा.।
 b) प्रजायामस्य इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. [अंशतः] लाधा. Old. च)। c) प्रगायामि, अस्य इति पाठः ? यनि.
 शोधः [तु. b, d टि. च]। d) प्रजायामसि इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सपा. पूर्वाणि स्थलानि, Old. च)।
 e) = द्वयूच- (तु. आश्रौ ५, १४, ७ ऋप्रा १८, १) वा (छन्दोऽन्तरेण प्रग्रथनात्) तूच- (तु. सा [ऐवा ३, १७],
 पाका [४, २, ५५] च) वा। शेषं वैप १ द्र.। f) = ऋषि-विशेष-। g) = छन्दो-भेद-। h) एकतरत्र
 तु. आन.। i) अपत्यार्थे तस्येदमित्यर्थे च अण् प्र.। j) = प्रागाथापत्य-। k) = सूक्त-। l) ऋच-।
 प्रागाथर्षिदृष्टा- इति संस्कृतः टि.। प्रागाथसंबन्धिनी इति C. [शांश्रौ ५, १०, २६]। m) = प्रागाथी-। स्वार्थे के ह्रस्वः ।
 ण् विप.। तस्येदमीयष् ठक् प्र.। o) = सामन्-। p) प्रागा^० इति पाठः ? यनि. शोधः। q) द्रस. > षस. ।
 ण् विप.। बस.।

प्र√ग्रन्थ प्र√ग्रन्थ द्र.
 प्र-ग्रह- प्रघ्न. प्र√गृम्, ह् द्र.
 प्रग्रीव- पाग २,४,३१.
 प्र-घण- प्र√ह्व द्र.
 प्र√घस् > प्र-घास्^१ - > ँसिन्^२ -
 -#सिन्ः^३ काश्रौ ५,५,९; शुभ्र
 १,२१२; -#सी आपश्रौ १७,
 १६,१८; वैश्रौ १९, ६ : १०८;
 हिश्रौ १२,५,३०.
 #प्रघास्^४ - -स्थान्^५ आपश्रौ
 ८, ६, १९; काठश्रौ ३४^६;
 बौश्रौ ५, ७ : १२; भाश्रौ ८,
 ८,६; माश्रौ १, ७, ४, १२;
 वाश्रौ १, ७, २, ३०; वैश्रौ ८,
 ११ : १०; हिश्रौ ५,२,४७.
 प्र-घाण-^७घात-, प्रघान् प्र√ह्व द्र.
 प्र√घृष् > प्र-घृष्य कौस् २६,२२.
 प्र√चक्ष्, प्रचक्षते कप्र २, ५, ११;
 ८,२१××; अप.
 प्रचक्ष्यते अप ६३,१,६.
 प्र-चक्षण- पाग ८,१,२७.
 प्र-चण्ड- ण्डः चव्यू ४ : १९.
 प्रचण्ड-तर- -रः चव्यू ३ : १२.
 प्र-चय- प्रघ्न. प्र√चि (चयने) द्र.
 प्र√चर्, प्रचरति काश्रौ १४, ५, १९;
 १५,६,३५; आपश्रौ; वैश्रौ १६,
 २० : ९^८; #प्र^९ चरति^{१०} आश्रौ
 ४, ७, ४; शाश्रौ ५, १०, १८;
 प्रचरतः आपश्रौ ८, ७, ९; १२,
 २१, ७××; भाश्रौ; प्रचरन्ति
 आश्रौ १०, ९, ६; शाश्रौ
 १४, ४०, १२; काश्रौ; #प्र
 (चरन्ति) काश्रौ १५, ६,

८^१; शुभ्र १,६१३; #प्रचरन्तु
 आपश्रौ १६,२५,२; बौश्रौ १०,
 ३३ : ५; वैश्रौ १८, १७ : ५१;
 २०, ३५ : ७; बौश्र १, ३, ३४;
 #प्रचर्, > रा शाश्रौ १२, २३,
 ४; काश्रौ ६, ६, १८; बौश्रौ;
 #प्रचरत, > ता आपश्रौ १५,
 ६, २६; ३; बौश्रौ ३, २६ : ९;
 ९, ६ : ६^{११}; १४, ९ : २६; भाश्रौ
 ११, ६, २६; ३; वैश्रौ १३, ८ :
 १^{१२}; हिश्रौ २४, २, ८^{१३}; वैताश्रौ;
 काश्रौ २६, १२; ४५, १२; प्रचरेत्
 आपश्रौ ९, १, २८; ३०××;
 काश्रौसं ३०, ७; ३२:९^१; ११^१××;
 बौश्रौ; प्रचरेयुः आश्रौ ३, १०,
 २५; शाश्रौ.
 #प्रचरिष्यामः काश्रौ २६, २,
 २५; आपश्रौ १५, ६, १; बौश्रौ.
 प्र-चरण^{१४} - -णः^{१५} वाघूश्रौ ३, १०० :
 ८; -णम् काश्रौ ९, १३, ८;
 भाश्रौ ८, १९, १; माश्रौ १, ३,
 २, २०; वैश्रौ १७, ५ : ६; -णात्
 काश्रौ २, ६, ३१; माश्रौ; -णाय
 कप्र २, १, २^१; -णे अप ६५,
 २, ५.
 प्रचरणी^{१६} - -णी वाघूश्रौ ३,
 १०० : ७; -णीम् काश्रौ ९,
 २, १९; आपश्रौ; -ण्या काश्रौ
 ८, ७, १; ९, ३, १; १०, ६, १४;
 आपश्रौ; -ण्याम् काश्रौ २५,
 १०, १०; १४; आपश्रौ.
 प्रचरणी-इण्ड- -ण्डे वैश्रौ
 १४, १४ : १२.

प्रचरणी-शेष- -घात्
 आपश्रौ १२, ६, ५; -षेण काश्रौ
 १०, ६, १७.
 प्रचरणी-संज्ञव- -वम्
 काश्रौ ९, ३, १३.
 प्रचरण-कल्प- -ल्पः आपश्रौ
 १४, ४, १५; बौश्रौ २८, ४ : ७;
 ६ : १७; हिश्रौ ४, ५, ६५^१××.
 प्रचरण-काल- -ले आपश्रौ ६,
 २९, २२; ८, २, १७××; वाश्रौ.
 प्रचरण-योग- -गात् काश्रौ १६,
 १, १५.
 प्रचरण-वेला- -लायाम् माश्रौ
 १, ६, ४, १८.
 प्रचरण(ण-आ)दि- -दि आपश्रौ
 १८, २०, १.
 प्रचरणीय- -यम् आपश्रौ १५,
 ७, २; १४, ७; बौश्रौ ९, ५ :
 २१××; -ये भाश्रौ ११, १४,
 ९; वैश्रौ १३, १६ : १९; हिश्रौ
 २४, ६, ८.
 प्रचरणीयो (य-उ) पाव-
 हरण- -णात् वैश्रौ १३, १७ : २.
 प्र-चरत्- -रन्तः बौश्रौ २६, १२ :
 २१; -#रन्तौ आपश्रौ १४,
 २८, ४; हिश्रौ १५, ७, १२.
 प्र-चरित- -तम् आपश्रौ २१, ७,
 १७; १७, ५; हिश्रौ १६, ३, ३६;
 -ते आपश्रौ १४, २, ६; वैश्रौ.
 प्र-चरितुम् वैश्रौ १५, २५ : ११.
 प्र-चरितोस्(ः) वैताश्रौ ६६, ५.
 प्र-चरिष्यत्- -ष्यन् बौश्रौ ११, २ :
 ८; २५, १६ : ९; ३३ : ११;

a) वैप १ द्र. । b) पामे. वैप १, २११८ h द्र. । c) घा^{१०} इति पाठः? यनि. शोघः (द्र. तै १, ८, ३, १; आपश्रौ. च) । d) सप्र. आपश्रौ १३, १६, १२ प्रतिपद्यते इति पामे. । e) पामे. वैप १, २११८ ० द्र. । f) पामे. वैप १, १३११ n द्र. । g) पामे. वैप १, २११९ b द्र. । h) पामे. वैप १, २१६३ i द्र. । i) यक. प्रवेत्, प्रवेर इति पाठौ? यनि. शोघः (द्र. आपश्रौ ९, १, २८; ३०) । j) सप्र. भावकरपयोर् ल्युट् प्र. । k) = सुव- । l) प्रचरणीयाः इति जीसं. ।

वाधुश्रौ ३, १०० : १; ४, ४४ :
 ४; -व्यन्तः आपश्रौ १५, ५, १;
 बौश्रौ १४, ९ : २३; भाश्रौ ११,
 ५, १; हिश्रौ २४, २, १.
 प्र-चर्च काश्रौ ८, ३, ६×५; आपश्रौ.
 प्र-चर्या- -र्या आश्रौ ३, १०, २८;
 -र्याः हिश्रौ २२, ३, २०.
 प्र-चार- पाग ५, २, ३६; -रः वैश्रौ
 १७, ८ : १२; विघ १८, ४४.
 प्रचार-रथ्या- -थयानाम् शंघ
 २७८.
 प्रचारित- पा ५, २, ३६.
 प्र-चार्य काश्रौसं २२ : १५.
 प्र-चरतिम् वाश्रौ १, ७, २, १५.
 प्र-चरित- प्रमृ. प्र✓चर् द्र.
 प्र✓चल्, प्रचलति अप ३७, ३, १;
 प्रचलेत् मागृ २, १५, ६.
 प्र-चल- -लः अप ७१, ५, ५.
 प्र-चलित- -तैः विघ १, ३५.
 प्र✓चि (चयने), प्रचिन्वीत गोश्रु ३, ५,
 १४; जैश्रु १, १९ : २४.
 प्र-चय- -यः ऋप्रा ३, १९; तैप्रा
 १८, ३; २१, १०; शैशि; -यम्
 उस् ८, १३; माशि ५, ७; याशि
 १, ५५; भाशि २; -यान् याशि
 १, ५९; -ये पावा २, १, १.
 प्रचय-पूर्व- -र्वः तैप्रा १२, २.
 प्रचयपूर्व-क- -कः कौशि २७.
 प्रचय-स्थ- -स्थम् माशि ५, ३;
 नाशि २, ३, १; -स्थानि नाशि
 २, ७, ८.
 प्रचय-स्वर- -रः ऋप्रा ३, २२;
 -रम् उस् ८, ११; १८; -रे ऋप्रा
 ३, २७.

प्रचयस्वर-धर्म-वत् ऋप्रा ३,
 २२.
 प्र-चित, ता- -तः^० माशि २, ४; ५;
 -तम् माशि ५, ६; -ता^० याशि
 १, ७१; -तात्^० माशि ५, ६;
 -ताम्^० याशि १, ७१; -ते माशि
 ४, १२^०.
 प्र-चिन्वत्- -न्वद्भ्यः भागृ २, ९ :
 १३; -न्वन्तः भागृ २, ९ : १३.
 प्रचिक^० (> प्राचिक्य- पा.) पाग
 ५, १, १२८.
 प्र✓चित्, प्र...चेति कौस् ५, २.
 प्रचेतयति या ११, २७^०;
 प्रचेतय आश्रौ ६, २, ९; ३, ११;
 क्षुसू १, ७ : ५.
 प्र-चेतन^०- -०न् आश्रौ ६, २, ९;
 ३, ११.
 प्र✓चुद्, प्रचोदयति भाश्रौ ८, ११,
 १९; प्रचोदयात् शाश्रौ २, १०,
 २; बौश्रौ ३, ९ : ५; आप्रिगृ;
 प्रचोदयेत् शागृ ४, ८, १२; बौघ
 २, १०, ४३.
 प्र-चोदयत्- -यब् या ६, ७;
 -यन्तौ या ८, १२^०.
 प्र-चोदयमान- -नौ या ८, १२.
 प्र-चोदित- -तः वृदे ५, ७५; ऋप्रा
 १५, ८; शैशि २४०.
 प्रचुर^० > प्राचुर्य- > ^०र्थ-दंश-
 मशक- -कैः अप ६५, २, ६.
 प्रचुल^०- (> प्राचुल्य- पा. L > प्रा-
 चुल-] पा.) पाग ४, १, १०५;
 २, १११.
 प्र✓चृत्, प्रचृतति कौस् ५, १८; ६६,
 २९.

प्र-चृतत्- -तन्तः कौस् ३४, १७.
 प्र-चेतस्^०- -०तः ऋप्रा ४, ४०;
 -तसः आपश्रौ २०, २३, ४^०;
 बौश्रौ^० १५, ३८; १; २८, १; २३;
 वैश्रौ २०, ३३; १३^०; हिश्रौ १४,
 ५, १३^०; आप्रिगृ २, ३, ५; १२^०;
 कागृ ४०, ९; या ९, २०^०;
 क्षुप्रा ४८, ७८; पावा ८, २, ७०^०;
 -तसम् अग्र ४, ५३; -तसा
 माश्रौ ५, २, ८, २०^०; -तसौ
 ऋग्र २, १, १३; -तः शाश्रौ
 ६, १२, १६; आपश्रौ १७, ७, ७;
 २४, ९; बौश्रौ; वैश्रौ १९, ५;
 ४२^०; या ८, ५^०.
 प्र-चेतस्^०- -ताः ऋग्र २, १०, १६४;
 अग्र ६, ४५; २०, ९६.
 प्राचेतस- -सः शंघ २९०.
 प्र✓च्छद्, प्रच्छादयति काश्रौ २०,
 ६, १५; आपश्रौ १५, १५, १^०×५;
 काठश्रौ; प्रच्छादयन्ति कौस्
 ८१, २५^०; प्रच्छादयीत् पागृ
 २, ६, २२; प्रच्छादयेत् बौश्रौ
 २६, २७ : ३; वैश्रौ १८, १६ :
 ८१; ८४; आप्रिगृ.
 प्र-च्छन्न, ज्ञा- -ज्ञः बौश्रौ २२, १९ :
 ४; -ज्ञा आपश्रौ ११, ५, ६^०;
 -ज्ञाः विघ १६, १७; -ज्ञाम्
 वैश्रौ १४, ४ : १७^०.
 प्रच्छन्न-पाप- -पाः विघ २२,
 ९०; -पानाम् वाघ २०, ३.
 प्र-च्छाद^०- -दम् बौश्रौ २५, ३० :
 १२; २६, २७ : २.
 प्र-च्छादन- -नम् बौश्रौ १९, १० :
 ५५; माश्रौ २, ४, ५, ३; बौघ १,

a) = एकश्रुति- (तु. पा १, २, ३९) । b) = प्र-चय- । c) = ऊष्म-भेद- । d) अर्थः व्यु. च ? ।

e) वैप १ द्र. । f) = बहुल- । व्यु. ? । g) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । h) पाभे. वैप १, २१२० b द्र. ।

i) 'तः' इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपश्रौ १७, ७, ७) । j) 'यति' इति मूको. । k) सपा. 'ज्ञा <>

'ज्ञाम्' इति पाभे. । l) नाप. । उप. घञ् प्र. ।

६, १८.
 प्रच्छादना(न-अ)र्थ- -र्थस्य हिश्रौ
 ७, ८ : १७.
 प्रच्छादित- -ताय विध ८७, ६.
 प्रच्छाद्य शाश्रौ ४, १४, १७; काश्रौ.
 प्र✓च्छिद्, प्रच्छिनन्ति बौश्रौ २,
 ९ : २१; आश्रु १, १७, १०;
 द्राश्रु १, २, १२.
 प्रच्छिद्यते अप ६७, ६, ३; प्रच्छि-
 द्यन्ते अप २३, ४, ४.
 प्रच्छेदयति बौश्रौ ४, १ : ३०.
 प्रच्छिद्य आपश्रौ ९, ११, १२; १४,
 ३३, २××; बौश्रौ; प्रच्छिद्यप्र-
 च्छिद्य आश्रु १, १७, ११.
 प्रच्छिन्न- > प्रच्छिन्ना (ल-अ)प्र^१-
 -ग्रम् आपश्रौ २४, १३, ११;
 -ग्रेण आपश्रौ १५, १०, ६.
 प्रच्छेद- -दम् काश्रौ ६, ९, १०;
 ८, २, २१; बौश्रौ ४, १० : ७.
 प्र✓च्यु, प्रच्यवते क्षुस् ३, १ : १४;
 १० : २०××; निस् ५; ङप्रच्य-
 वस्व आपश्रौ १०, २९, १; बौश्रौ
 ६, १६ : ५; माश्रौ; हिश्रौ ७, ३,
 १८^७; ङप्रच्यवेथाम् कौस् ८२,
 ४०; अश्र १८, ४; प्रच्यवेत् क्षुस्
 ३, ३ : १६; ४ : ५; ङप्र...
 च्यवेत् आपश्रौ १७, १७, ७;
 वाधूश्रौ २, ९ : ४; हिश्रौ १२,
 ५, ३७.
 प्रच्योष्ट निस् ६, ६ : १७; ११ :
 ३६××; प्र...अच्योष्ट वाधूश्रौ
 ४, १६ : १४; प्रच्योषाताम्
 निस् ८, ७ : ४०.
 प्रचयावयति बौश्रौ ८, १५ : ७;
 वाधूश्रौ ४, ८८ : ९; हिश्रौ ९,

४, ३८; निस् ७, ६ : १४^{१०};
 प्रचयावयतः वैश्रौ १२, २० : ९;
 प्रचयावयन्ति आपश्रौ ७, २८, ४;
 बौश्रौ ६, १६ : ५; निस् ९,
 ५ : ४; प्रचयावयतु या ७, ९^१;
 ङप्र...चयावयतु आश्रौ ६, १०,
 १९; आश्रिण् ३, ५, ४ : १; बौपि
 १, ३ : १२; या ७, ९; ङप्रच्या-
 वयन्तु आपश्रौ १३, १६, १;
 बौश्रौ ८, १५ : ८; वैश्रौ १६,
 १९ : ८; हिश्रौ ९, ४, ३८;
 ङप्रचयावयतात् काश्रौ ६, ८, १;
 बौश्रौ ४, ८ : ८; प्रचयावयेत्
 बौश्रौ २०, २९ : ५; २८, ११ : १६.
 प्रचयावन- -ने बौश्रौ २०, २९ :
 ५; २१, २३ : २३.
 प्रचयावनी^१- -नीम् आश्रिण् ३,
 ५, २ : १५; बौपि १, २ : १८.
 प्रचयावयत्- -यन् वृदे २, ६०;
 -यन्तः बौपि १, ४ : २५.
 प्रच्युत्, ता- -तः हिश्रौ ९, ५, ३६^१;
 वैताश्रौ २४, १; -तम् निस् ५,
 १ : ११; २०××; -तस्य काश्रौ
 ६, ८, १; बौश्रौ ४, ८ : ८;
 -तानि अप ५८^१, १, ५; -ताम्
 निस् ३, ९ : ३७; ४२; ८, ७ :
 ३३; अश्र ८, ९^१; -ते काश्रौ ६,
 ८, २; माश्रौ ७, १८, ३; निस्
 ८, ७ : ३९; -तौ निस् ७, ९ : ६.
 प्रच्युति- -तिम् आश्रौ २, १०,
 १४^१.
 प्र✓च्युत्, प्रच्योतयति बौश्रौ १, ९, ६.
 प्रच्युति(त >)ता- -तायाम् गोश्रु
 ३, १०, ३०.
 प्र✓जन्, प्रजायते शाश्रौ ३, ८, २७^१;

आपश्रौ २३, १४, १५^१; बौश्रौ;
 या १४, ६; प्र...जायते शाश्रौ
 १०, १४, ८^१; आपश्रौ २१, १, १;
 २२, २२, ८; वाधूश्रौ; प्रजायन्ते
 बौश्रौ २०, १० : १७; वाधूश्रौ;
 प्र...जायन्ते शाश्रौ १०, १४,
 ८^१; आपश्रौ २३, २, ९; १७;
 ङप्रजायसे आपश्रौ ८, २१, १;
 बौश्रौ ५, १८ : १९; हिश्रौ;
 ङप्रजायताम् आपमं १, ८, १;
 माश्रु २, १८, २; ङप्र...जायताम्
 काश्रौ २५, १२, ८; आपश्रौ ९,
 १७, १; हिश्रौ १५, ७, २३;
 प्र(जायताम्) वृदे ७, १०३^१;
 ङप्र...जायन्ताम् कौस् ११४,
 २; १२८, २; ङप्रजायस्व आपश्रौ
 ७, १३, २; बौश्रौ ४, ५ : ११^३;
 माश्रौ; ङप्रजायध्वम् आश्रौ २,
 ५, १७; शाश्रौ १२, १५, १^३;
 आपश्रौ; हिश्रौ १५, ७, २३^३;
 द्राश्रौ ७, ३, २^३; बौश्रु १, ५, ८^३;
 वैश्रु ३, ५ : ६^३; अश्राय ५, ५^३;
 प्रजायवहै वाधूश्रौ ४, १९ :
 ४२; ३३ : ५; प्राजायत शाश्रौ
 १४, ६, १; ६५, १; ६८, १;
 बौश्रौ १६, २८ : १८; प्राजाये-
 ताम् वाधूश्रौ ४, १९ : ४५;
 प्राजायन्त शाश्रौ १४, ६०, १;
 बौश्रौ १४, २० : ५; प्रजायेत्
 आपश्रौ १४, १३, ३; माश्रौ ५,
 २, १४, १४; हिश्रौ; प्रजायेरन्
 वाधूश्रौ ४, ३१ : ७; ङप्रजायेय
 शाश्रौ १०, १४, २; आपश्रौ १४,
 १३ : ६; वाधूश्रौ ४, ५ : १;
 ९४ : १.

a) विप. । बस. । b) प्रच्यवस्य इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपश्रौ.) । c) प्रा^१ इति पाठः ? यनि. शोधः । d) = कुम्भी-विशेषः । e) पाठे. वैप १ हस्तच्युतिम् मै २, ७, १२ टि. द्र. । f) पाठे. वैप १, २१२२^१ द्र. ।

ऋजन्ते शांश्रौ ४, १२, १०;
 बौश्रौ; ऋजन्ते हिश्रौ २२,
 ४, १४; नाश्र ४१: ९; प्रज-
 निष्यन्ते बौश्रौ १४, २०: ३;
 ऋजनिष्येथे^a आपश्रौ ५, ८, ८;
 बौश्रौ २, १५: १३; ऋजनिषीय
 आपश्रौ ४, १०, १^b; माश्रौ १,
 ४, २, ६^c; वाश्रौ १, १, ३, ६^c;
 हिश्रौ ६, ४, १^b; ४२; ऋजनि-
 षीय आपश्रौ ४, १०, १; बौश्रौ
 २७, १४: ५; वाश्रौ १, १, ३, ६;
 ऋजनिषीमहि आपश्रौ ९, ६, ७;
 बौश्रौ ९, १६: १२; हिश्रौ १५,
 २, १४; ऋजनि शांश्रौ ३, २०,
 ४; काश्रौ २५, २, २४; आपश्रौ;
 प्रजनिष्वहि वाधूश्रौ ४,
 १९: ४६.
 प्रजनयति ऋबौश्रौ १३, ७: १९;
 १४, २४: ३६××; भाश्रौ ६,
 १०, ७; हिश्रौ १५, १, ७६;
 प्रजनयन्ति वाधूश्रौ ४, ८२: २;
 ऋजनयतु आपश्रौ ९, ६, ७;
 बौश्रौ ९, १६: ११××; हिश्रौ
 १५, २, १४; प्रजनय, प्र
 (जनय) आपमं १, १४, ३;
 ऋजनयवहे^d आग १, ७, ६;
 कौश्र १, ८, १८; शांश्र १, १३, ४;
 पाग; प्रजनयेत् अप ६३, ३, ५.
 ऋजनयिष्येते^e माश्रौ १, ५, २,
 ४; वाश्रौ १, ४, १, १९; ऋजन-
 यिष्यतः^f माश्रौ १, ५, २, ४;
 वाश्रौ १, ४, १, १९; प्रजनयिष्येथे

हिश्रौ ६, ५, १०^g; प्रजन-
 यिष्यथः^h आपश्रौ ५, ८, ८;
 बौश्रौ २, १५: १४; हिश्रौ ६, ५,
 १०.
 प्रजनयां✓कृ, प्रजनयामकः पा
 ३, १, ४२^h.
 प्रजन-न- नः वैश्रौ २०, १: ३;
 -नस्य पावा ४, १, ९२; -ने पा
 ३, १ १०४; ३, ७१; ६, १, ५५;
 -नेन निसू ८, २: २८.
 प्रजन-संबन्धा(न्य-ञ्)पेक्षा-
 क्षा हिश्रौ ३, १, ५.
 प्रजनन, नाⁱ - ऋजन् शांश्रौ ४, १३,
 १; आपश्रौ ६, ११, ५; १८, ६, २;
 २०, १८, ४; बौश्रौ; लाश्रौ ३, ५,
 ५^j; -नस्य वाधूश्रौ ४, ३१:
 ६; ९७^k: ७; ११६: ५; -नाम्
 कौसू ६९, २०; -ऋनाय बौश्रौ २,
 १३: ५; १८, १०: ६; १४; जैश्रौ;
 -ने वैश्रौ १, १०: ९; १०, १०:
 ६; हिश्रौ १४, ४, १०; वाध ८,
 ११; -नेन आपश्रौ २०, १८, ४;
 माश्रौ ५, २, २, १५.
 प्रजनन-कर्मन् - र्थं या ११, ३१.
 प्रजनन-काम- -मः आपश्रौ २२,
 ६, १; हिश्रौ १७, २, ४६; -मा:
 कौसू १९, २.
 प्रजनन-निमित्त(त>)त्ता^l - त्ता
 बौध २, ९, २.
 प्रजनन-यज्ञ- -ज्ञस्य या ३, ४.
 प्रजनना(न-अर्थी)- र्थः भाग १,
 ११: ५.

ऋजनयत् - -यन् आपश्रौ १२, २२,
 ८^m; बौश्रौ ७, १३: २०; २२;
 हिश्रौ ८, ७, १४ⁿ; -यन्तः शांश्रौ
 १६, २३, १३; -यन्तौ वाधूश्रौ
 ४, २७: १७.
 प्रजनयन्ती- न्ती: वाधूश्रौ ४,
 ९७: ११.
 ऋजनयित्वे आपश्रौ ५, १, ४;
 बौश्रौ २, ६: ३४; हिश्रौ ३, २, ३.
 प्रजनयिष्यमाण- णः शांश्र १, १९,
 २^o; -णा: आश्रौ १०, ५, १२.
 प्रजनयिष्यु- पा ३, २, १३६.
 प्रजनयिष्यमाण- णः कौश्र १, १२,
 २^p.
 प्र(ज >)जा^q - जया आश्रौ १,
 ३, २८^q; ६, १२, ४^q; १०, ५, १२;
 शांश्रौ १, ४, ५××; २, ११, ५^q;
 ९, ५, १^q; काश्रौ; ऋजनिषीय
 १२, ११; १४; १७; ५, १४, ५^q;
 ६, १९, ७^q; ९, १४, १^q; ऋबौश्रौ
 ३, ८: १४^q; २१: १२^q; ८, १७:
 ३^q; १४, ८: २८^q; १७, ३: २^q;
 ऋभाश्रौ १, १२, ६^q; ३, १२,
 ७××^q; ४, २१, ५^q; ऋवाश्रौ
 १, २, २, १७^q; ३, २, २९^q;
 ऋवैश्रौ २, ८: ११^q; ३, ७: ८^q; ७,
 १३: ७^q; १७, १५: ३^q; ऋहिश्रौ १,
 ३, ३४^q; ३, ४, २८^q; ६, ४, २३^q;
 ६, १९^q; ८, १, ७६^q; ९, ७, २१^q;
 १३, २, ९^q; १६, ५, १^q; ऋजैश्रौ
 १५: ८^q; २०: ३^q; वैताश्रौ १३,
 २३^q; आपमं १, ९, ४^q;

a) परस्परं पाभे. b) पाभे. वैप १, २१२२ p द्र.। c) पाभे. वैप १, २१२२ q द्र.। d) पाभे.
 वैप १, ६३३ g द्र.। e) परस्परं पाभे.। f) =प्रजनन-। g) वैप १ द्र.। h) अभ्यात् संस्प इति पाठः।
 यनि. च अभ्यातमम् इति च शोधः। i) विप.। वस.। j) परस्परं पाभे.। k) पाभे. वैप १, २१२४ d द्र.।
 l) पाभे. वैप १, २१२४ e द्र.। m) पाभे. वैप १, २१२४ j द्र.। n) पाभे. वैप १, २१२४ f द्र.। o) पाभे.
 वैप १, २१२४ g द्र.। p) पाभे. वैप १, १६८८ i द्र.। q) पाभे. वैप १ रुख्या मा १२, ७ टि. द्र.। r) पाभे.
 वैप १, २१२४ o द्र.।

कौट १,९,१७^{१३}; आमिष्ट १,
१, ३:२७^{१३}; जैष्ट १,२२:४^{१३};
-जा आश्रौ २, ५, १४; शांश्रौ
१४,७, १××; आपश्रौ; या ३,
१; -जा: आश्रौ १०, ३, १२;
११, ६, ८; शांश्रौ; ऋआपश्रौ ४,
१,१०^६; १२,२२,८^{२६}; ऋबौश्रौ
४,६:३५^६; ७, १३:२२^६; ११,
४:१९^६; ऋभाश्रौ ४, २, २^६;
७, १३, ४^६; वाश्रौ १, ६, ५,
१^६; ऋवैश्रौ १०, १३:११^६; १५,
२८:७^६; ऋहिश्रौ १,२, ५^६;
८, ७, १४^{२६}; कौट १,२, ३^६;
गो २, १८^६; ऋया १०, ३४;
१४, १६; -जानाम् आश्रौ ६,
१४, १६^६; शांश्रौ ४,१०, १^६;
आपश्रौ ५, १, ७××; २२, १७, १०;
बौश्रौ; हिश्रौ १७, ६, ४४^६; या
१०, ४२; -ऋजामि: आश्रौ २,
३, २७^६; शांश्रौ; वैताश्रौ २५, १२^६;
कौस्त १२४, ४^६; -ऋजाम्य: शांश्रौ
३, २०, २; काश्रौ ७, ७, १७;
आपश्रौ; आष्ट १, ७, ११^६; कौट
१, ८, २८^६; काट २५, ४२^६;
माष्ट १, ११, १८^६; वाष्ट १४,
२३^६; जैष्ट १, २१:२९^६;
-ऋजाम् आश्रौ १, ११, १;
८××; शांश्रौ; आपश्रौ १७, १३,
२^६; २१, १५, १६^६; माश्रौ ६, २,

३, ८^६; वैताश्रौ २५, ११^६; आष्ट
१, ७, ६^६; कौट १, ८, १८^६;
शांष्ट १, ६, ६^६; १३, ४^६; पाष्ट; या
९, २२^६; ११, ७; ३२; -ऋजाया:
आश्रौ २, ५, १२^६; शांश्रौ २, १५,
५^६; ९, २८, ३^६××; आपमं;
कौट १, १४, ६^६; बौष्ट १, १०,
४^६; या ८, ५; -जायाम् शांश्रौ
१६, २३, ६; १४; काश्रौ; या
४, १७; -ऋजायै शांश्रौ ७,
५, १४; १३, १२, १३^६; १७,
१२, १; आपश्रौ; -जासु काश्रौ
४, १५, १५; आपश्रौ ५, २, १^६;
बौश्रौ.
प्रजा-काम, मा- -म: आश्रौ १,
१०, ६^६; ९, ७, २८××; काश्रौ;
हिश्रौ १७, २, ४५^६; -मम्
आपश्रौ १४, १३, १०; २२, ४,
२××; हिश्रौ; -मस्य शांश्रौ १,
१५, ३; १४, २२, २५; काश्रौ;
-मा आश्रौ १, ११, २; माश्रौ
४, १, ३३^६; -मा: आश्रौ १२,
५, ६; आपश्रौ; -मानाम् शांश्रौ
१, ७, ३; काश्रौ २४, २, १३; २२;
३५; बौश्रौ १६, ४:२; माश्रौ
४, १, ३; -माय आपमं २, ११,
४^६; -माया: कौस्त ३५, १७;
-मौ काट ३०, ४.
प्रजाकाम-पशुकाम- -मयो:

काश्रौ २२, ११, १२; -मस्य
आपश्रौ ५, २८, १२; १०, ४,
४^६.
प्रजाक्षय^६- -ये अशां १७, २.
प्रजाक्षय-कर- -रम् अप
३०^६, १, ७.
प्रजा-गुप्ति- -स्ये आपध २, २६,
४; हिध २, ५, १९९.
ऋप्रजा- (हृ >) णी- -ञी
आपमं १, १०, ३; ६; पाट १,
११, २; ४; बौष्ट १, ६, १२;
भाष्ट १, १९: १४ जैष्ट १, २२:
१५.
प्रजा-तन्तु- -न्तुम् आमिष्ट १,
६, १: १^६.
प्रजा-दान- -नम् आपध २, २३,
८; हिध २, ५, १६१.
प्रजा(जा-आ) दि- -दीन् अश्र
७, ३३.
प्रजा-धर- -०२ विध ९८, ६४.
प्रजा-निश्रेयस^६- -सम् बौष्ट १,
७, ४६^६.
प्रजा-नि^६, ऋ^६ श्रेयस- -सम्
आपध ९, १^६; आपध १, ९, १३;
हिध १, ३, १३; -साय आपध
२, १६, २; हिध २, ५, २^६.
प्रजा-पत्ति- पाग ४, ४, ४८;
-तये आश्रौ २, ९, ९^६; ऋशांश्रौ
७, १८, ५; १३, १२, ८; काश्रौ;

- a) पाभे. वैप १, २१२४ ० द्र.। b) पाभे. वैप १, २१२४ f द्र.। c) पाभे. वैप १, २१२५ h द्र.।
d) पाभे. वैप १, २१२५ e द्र.। e) सपा. प्रजा: < > प्रजाम् इति पाभे.। f) पाभे. वैप १, २१२६ h द्र.।
g) °ताम् इति पाठ: ? यनि. शोध: (तु. आपश्रौ २२, १७, १०)। h) पाभे. वैप १, २१२४ g द्र.। i) पाभे.
वैप १, २१२४ e द्र.। j) पाभे. पृ १५४९ w द्र.। k) पाभे. वैप २, ३खं. व्रताय तैत्रा ३, ७, ७, ११ टि. द्र.।
l) पाभे. वैप १, २१२६ d द्र.। m) सपा. प्रजां भूतिम् < > प्रजातिम् < > प्रजापतिम् इति पाभे.। n) पाभे.
वैप १ यज्ञम् तै ३, ५, १, १ टि. द्र.। o) पाठ: ? °जा: इति शोध: (तु. C., सपा. तै ३, ५, २, ३ तां १, १०, १ च)।
p) पाभे. वैप १, २१२८ e द्र.। q) पाभे. वैप १, २१२८ i द्र.। r) पाभे. वैप १, २१२८ k द्र.। s) सपा.
आपश्रौ २२, ५, १८ स्वर्गकाम: इति पाभे.। t) उप. < √क्षि [क्षये]। u) उप. = नि:श्रेयस-। v) परस्परं
भाभे.। w) आपध. पाठ:। x) °सा च इति पाठ: ? यनि. शोध: (तु. आपध.)।

या १२, ८; -तिः ऋश्रौ १, ११, ७; २, २, ४××; शाश्रौ २, ६, ७××; ९, ५, १××; काश्रौ; बौश्रौ १७, ३ : २×; माश्रौ १, ४, २, १२×; हिश्रौ ९, ७, २१×; जैश्रौ १५ : ९×; वैताश्रौ २७, १६; पाश्रु १, ८, ८×; माश्रु १, १०, १३×; १४, १६×; कौसू १२४, ४; अपश्रु १, ४, १; २, १, ७; ऋश्रु १, २, १०; २, ३, ३८; ५४; ९, ८४; १०१; शुश्रु २, १; ३८१; ३, २; अश्रु २, ३०; ४. ३५; ६, ११; निघ ३, १७; या १०, ४२; वेज्यो ३२; -तिना काश्रौ २०, ३, १०; आपश्रौ; आपमं २, ५, २२×; बौश्रु २, ५, २६×; -तिम् आश्रौ २, ३, १९; ८, १३, २६×; १०, ९, ५×; शाश्रौ; हिश्रौ १६, ५, १४; १८, ४, ६५; वैताश्रौ ३, २०; शंघ ११६ : ३६; अश्रु १, ५; -तीन् शंघ ११६ : ३०; ऋश्रौ २, १४, १२; ३, १०, २३; शाश्रौ १, ४, ५××; १६, ७, ३; काश्रौ २, २, ११; १५, ६, ११; आपश्रौ १, १०, ८; २, ११, २××; ९, २, ४; १२, ४; १३, ६, ११; १२, १२; १८, १६, १४; बौश्रौ १, २१ : २४××;

२, १३ : ८; ३, ११ : २७; ५, १५ : ३२; १२, ११ : ११; माश्रौ; माश्रौ १, १, २, ३८; वाश्रौ १, २, ३, ३१; वैश्रौ १६, ८ : ७; २०, ५ : ३; २५ : ६; हिश्रौ २, ६, २; ९, २, १७; १३, ६, ३३; १५, ७, २१; वैताश्रौ १, ३; २, १२; ७, १२; आपमं १, ११, ४; २, २२, १९; आश्रु १, ४, ४; १४, ३; २, ४, १४; कौश्रु १, ८, २६; ११, ४; १४, ६; शाश्रु १, १८, ४; २२, ७; आश्रु १, १, ४ : ५१; ५, ४ : १३; २, १, १ : ४; २ : ४; ५ : २४; २, ४ : ३; ५ : ३; ४, १ : ५; २ : ८; ५ : १०; ५, १ : २९; ७, २ : २६; ९ : २९; ३, २, २ : ९; ६ : १०; काश्रु २२, २; ३४, ४; ३६, १; बौश्रु १, ४, ३३; ४, २, १; भाश्रु १, ६ : १६; १४ : १५; २८ : ८; २, २ : १२; ६ : १३; ३२ : ८; ३, १९ : १४; वैश्रु १, १७ : २; २, ९ : ८; ४, ३ : १४; ६ : ९; हिश्रु १, ३, ६; ८, १६; ९, ७; १७, ६; १८, ६; १९, ८; २६, १४; २७, १; २८, १; २, १, ३; २, २; ४, १०; ५, २; ६, २; १५, १३; गोश्रु ४, ६, ९; जैश्रु १,

४ : १३, २० : ३१; कौसू ५, ९; अपश्रु १, २४; अशा १८, ७; शुश्रु १, ६१; ३, ४०; अश्रु ७, ८०; या १०, ४३; उसू ८, ३५; -तेः ऋश्रौ १, १३, ४; ३, ११, ११; शाश्रौ; आपश्रौ २१, १२, ३×; हिश्रौ १६, ४, ३५; शुश्रु १, १५; १६; १७; २१; २३०; २, ४; ३६; ३, ७; चाश्रु १ : ६; १६; ऋश्रौ आपश्रौ ६, ९, १; ११, १, ६; बौश्रौ.

प्राजापत- पा ४, ४, ४८.

प्राजापत्य, त्या- ल्यः

आश्रौ २, १४, ११; ३, ८, ६; शाश्रौ; विघ २४, १८; ऋश्रु २, ५, ३३; १०, १९; १२१; १३०; १६१; १७७; १८३; १८४; शुश्रु १, १४; ६१८; ३, ४९; साश्रु १, १७; -त्यम् आश्रौ ३, ४, १२; १०, ३, ६; शाश्रौ; बौश्रौ १३, ३६ : १; जुसू १, २ : ८; ३ : ३; १०; १९; ४ : ६; ११ : ३०; २, ३ : ६; ४ : ११; अप ५७, ४, १; ७०, १६, ५; शंघ ५४; १५२; ३९५; ४०१; ४०६; ४०८; ४५०; ४६०; विघ

- a) पाभे. वैप १, २१२९० द्र. । b) पाठः ? ऋश्रु इति शोधः (तु. गोब्रा २, १, ७) । c) एकतरत्र पाठः ? त्वये ? इति C. शोधः । d) पाभे. वैप २, ३ खं. बृहस्पतिः संब्रा १, २, २१ टि. द्र. । e) सपा. ऋश्रु <> ऋश्रु इति पाभे. । f) = नक्षत्र-देवता- । g) = देवता- । h) = ऋषि-विशेष- । i) यज्ञ-नामन्- । j) सपा. हिश्रु १, १३, १९ ब्रह्मणा इति पाभे. । k) पाभे. पृ १६५८ m द्र. । l) पाभे. वैप २, ३ खं. प्राजापतिम् गोब्रा २, १, ७ टि. द्र. । m) ऋश्रु इति पाठः ? यनि. शोधः । n) पाभे. वैप १, २१३१ द्र. । o) त्वये इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. पूर्व स्थलम्) । p) ऋश्रु इति C. । q) विप. (सूक्त-; स्थाली-पाक- लडुम्बर- प्रसृ.) व्यप. । वैप १ द्र. । r) = विवाह-विशेष- । s) प्राजा इति पाठः ? यनि. शोधः । t) = साम-विशेष- । u) = नक्षत्र- (रोहिणी-) । v) = कर्म-विशेष- । w) = तीर्थ-विशेष- । x) = व्रत-विशेष- ।

२२, १६^{१०}; ३८, ७^{१०}; ५१, ४५^{१०};
 ५३, १०^{१०}; ६२, १०^{१०}; वैध २०,
 १, ३; ६, २; काध २७१ : ६^{१०};
 -त्यया^१ आपश्रौ ९, २, ४; २०, १;
 १२, ८, ९^{१०}; १३, १२, १२; बौश्रौ;
 वैश्रौ १५, ९ : ११; -त्यस्य शांश्रौ
 ९, २३, ९; १६, ७, ४; काश्रौ;
 आपश्रौ १६, ७, ११; वैश्रौ १८,
 ५; १४^{१०}; वृदे ८, ८०^{१०}; चाअ २;
 १४^{१०}; ३० : ६^{१०}; -त्या शांश्रौ १४,
 ३, १९; आपश्रौ ६, ३१, ११^१;
 १९, १६, १०; बौश्रौ; अशां १६,
 १^१; ऋअ २, १०, १०^{१०}; वृदे ७,
 ४९^१; ऋअ १७, ९; माशि १, ४;
 याशि १, ५०; पिं २, ५;
 उनिस् ३ : १९; -त्याः आश्रौ
 ३, ८, १; १०, ९, ५; शांश्रौ;
 या ७, ४; -त्यात् आपश्रौ १६,
 १३, ५; बौश्रौ २५, १८ : १०;
 वैश्रौ; गौध ४, ३२^{१०}; -त्यान्
 काश्रौ १४, २, १३; आपश्रौ १८,
 २, ३; १३; २०, २२, ४; बौश्रौ;
 वाध १४, १६; २४; ३०;
 -त्यानाम् काश्रौ १४, २, २०;
 २०, ८, २; बौश्रौ; -त्यानि
 आपश्रौ २, १०, ४^१; १८, १,
 १५; बौश्रौ; निस् १, १२ : ६;
 आम्रिष्ट १, २, १ : ९^{१०}; बौष्ट ३,
 १, २१^{१०}; शुअ १, ५७२; उनिस्
 ८ : २४; -त्याभिः शांश्रौ १३,
 ५, ७; १२, ९; आपश्रौ; -त्त्या-
 भ्याम् अप ४६, १०, २६; अश्र

१९, २३; -त्याम् आपश्रौ १७,
 ९, ३^{१०}; १९, २१, १; बौश्रौ २,
 १३ : ७; १०, ३६ : ८^{१०}xx;
 १३, २३ : १^१; भाश्रौ; वैश्रौ
 १९, ६ : ७^{१०}; हिश्रौ २२, ४, १^१;
 अप ७०^२, १३, २^१; अशां १७,
 २^१; विध ९६, १^१; -त्याय
 आपश्रौ २१, १०, १; हिश्रौ १६,
 ४, १४; -त्यायाः पिं २, ११;
 -त्यायाम्^१ अशां १८, ३; १९,
 २; -त्यायै बौश्रौ २०, २१ : ६;
 ८; -त्यासु बौश्रौ १६, ३१ :
 १७; १९; -त्ये आश्रौ ३, २, ८;
 ४, १२; शांश्रौ; वैष्ट २, १० :
 १०^{१०}; अप ३३, ४, १^{१०}; वाध
 १२, ४७^{१०}; १७, ६१^{१०}; गौध ४,
 ७^{१०}; -त्येन शांश्रौ १३, २०, ८;
 आपश्रौ ६, १७, १०^१; १६, ८,
 २^१; २२, २२, १५^{१०}; भाश्रौ;
 आम्रिष्ट ३, १२, १ : ५^{१०}; वैष्ट ३, १ :
 १४^{१०}; वाध १८, १६^{१०}; २७, १७^{१०};
 शंघ ९६^{१०}; बौध ४, ५, ३०^{१०}; विध
 २४, ३६^{१०}; -त्त्येभ्यः आश्रौ २, ३,
 ५; माष्ट २, ७, १; -त्येषु वैश्रौ
 १७, १६ : ५; मीसू १०, ४, ६;
 -त्यैः मीसू ११, ३, ४५; -त्यौ
 काश्रौ २०, ८, १५; बौश्रौ १८,
 ४५ : ४१.

प्राजापती- स्या
 भाष्ट ३, २ : १२; -त्याः निस्
 ४, ९ : ५.

प्राजापत्य-द्वय- येन

शंघ ४४^{१०}.

प्राजापत्य-प्रथम^१-

-मान् वैश्रौ १८, ४ : १४.

प्राजापत्य-भाजन-

-नम् आम्रिष्ट २, ३, १ :
 ११.

प्राजापत्य(त्य-ऋ)र्च-

-त्यर्चा काश्रौ २५, १४, १८;
 माश्रौ ३, २, ७.

प्राजापत्य-वपा-

-पानाम् काश्रौ २०, ७, ९.

प्राजापत्य-वर्जम् वाश्रौ

२, १, २, १२.

प्राजापत्य-व्रत-

बन्ध- बन्धम् वैष्ट २, ९ : १०;
 १२ : १६.

प्राजापत्य-व्रत-बन्ध-

ना(न-आ)दि- दि वैध २,
 ३, २.

प्राजापत्य-सूक्त-

-क्तम् वैध २, ३, २.

प्राजापत्या-गायत्री-

-ज्यः अश्र १९, २३; -ज्यौ अश्र
 १९, २२.

प्राजापत्या-जगती-

-स्यौ अश्र १५, ४.

प्राजापत्या-त्रिष्टुम्-

-ष्टुभः अश्र १९, १८; -ष्टुभौ
 अश्र १५, १२.

प्राजापत्या(त्य-आ)

दि-> स्यादि-मूलहोम- मः
 वैष्ट १, १८ : १४.

a) श्यव्रतम् इति जीसं. b) = व्रत-विशेष-। c) = तीर्थ-विशेष-। d) = ऋच-। < प्राजापते ऋ
 १०, १२१, १०। e) अप्रा (तु. भाष्यम्) इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सप्र. वैश्रौ १५, ९ : ११; C. च)। f) श्यस्य
 इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपश्रौ)। g) = प्रजापति-पुत्र-। h) = ऋषि-विशेष-। i) = इष्टि-विशेष-।
 j) = महाशान्ति-विशेष-। k) = प्रजापति-दुहितृ- (दक्षिणा-)। l) = प्रजापति-दुहितृ- (विकृष्ठा-)। m) = विवाह-
 विशेष-। n) = काण्ड-विशेष-। o) = इशका-विशेष-। p) = नक्षत्र- (रोहिणी-)। q) = मुहूर्त-विशेष-।
 r) = तुच-। s) = षडह-विशेष-। t) विप.। बस.।

प्राजापत्यादि-वेद-
 व्रत- -तानि वैश्व ६, ११ : ६.
 †प्राजापत्याद्यपात्र-
 -त्रम् वाश्रौ ३, ४, २, १४.
 प्राजापत्या(त्या-अ)
 लुष्टुम्- -ष्टुभः अत्र ११, ३;
 १२, ५(३; ५) × ×; -ष्टुभौ अत्र
 १३, ४(२-४; ६); १५, १२; १३.
 प्राजापत्या-बृहती-
 -स्यौ अत्र ९, ३; १५, ११.
 प्राजापत्या(त्य-आ)
 इवमेधिक- -के वृदे २, १५३.
 प्राजापत्यो (त्या-उ)
 षिंह- -षिंहः अत्र १५, १६;
 -षिंहौ अत्र १२, ५ (६); १५,
 १७.
 प्राजापति-काम- -मः निसू
 ६, ६ : २१; ८ : ३५.
 प्राजापतिकाम-यज्ञ- -ज्ञः
 निसू २, ३ : १७.
 प्राजापतिकाम-सत्र-
 -त्रम् निसू १०, ४ : १; १३ : ७.
 प्राजापतिकामसत्र-
 स्व- -स्वात् निसू १०, १३; १२.
 प्राजापति-गीत- -तौ बौध
 २, ४, १५.
 प्राजापति-गृहपति- -तयः
 आश्रौ ८, १३, ७; १०ः.
 †प्राजापति-गृहीत, ता-
 -तया^a बौश्रौ १०, ३५ : ६;
 १४, २२ : ११; -तेन^a वाश्रौ
 ३, २, १, ३२.
 प्राजापति-च्छन्दस- -सानि
 वाधूश्रौ ४, १००ⁱ : १.

प्राजापति-तस्(ः) वृदे ७, ५०.
 प्राजापति-स्व- -स्वेन शुभ्र ३,
 ८१.
 प्राजापति-देव(त >) ता^b-
 -ताः वृदे ८, १०८.
 †प्राजापति-परिवाद- -दः
 आपश्रौ २१, १२, १.
 †प्राजापति-परिवाद^b- -दान्
 आपश्रौ २१, १२, २०; -दानाम्
 हिश्रौ १६, ४, ३५^c.
 प्राजापति-पीत- -तम् वाश्रौ
 ३, २, २, ३१.
 प्राजापति-पुरोग^b- -गान् वैश्व
 १, १३ : १.
 प्राजापति-प्रवाद- -दः निसू
 ६, ३ : ५.
 प्राजापति-मुख- -खात् चात्र
 ४२ : १९.
 प्राजापति-युक्त- -क्तः बौश्रौ
 ३, २३ : ७ः.
 प्राजापति-राजन्^b- -जानः
 शाश्रौ ४, २१, १२ः.
 प्राजापति-रूप- -पेण शुभ्र
 १, ४९९.
 प्राजापति-संस्ताव- -वेषु निसू
 ४, ६ : ७^d; -दौ निसू ७, १२ :
 ४^e.
 †प्राजापति-सु(ह >) ष्टा-
 -ष्टानाम् आपश्रौ ५, १, ७; वैश्रौ
 १, ७ : ३.
 प्राजापति-हृदय^f- -यम्^g
 काश्रौ १८, ३, २; लाश्रौ १, ५,
 १६.
 प्राजापतिहृदय-स्थान-

-ने लाश्रौ १, ५, १८^d.
 प्राजापती(ति-ई)प्सा- -प्सया
 निसू ६, १० : ३६; -प्साम्
 निसू ६, १० : ३२; १०, ३ : १;
 १३ : १६.
 प्राजापतेर-अयन- -नम्
 बौश्रौ १६, १६ : ४-६; २६, १७ : ९.
 प्राजापतेर्(अयन)- -नम्
 काश्रौ २४, ५, १९; लाश्रौ १०,
 १३, १३.
 प्राजापतेर्-गूर्द^h- -र्देन जैश्रौ
 ४ : ७.
 प्राजापतेर्-द्वादशसंवत्सरⁱ-
 -रम् आश्रौ १२, ५, १५; वाश्रौ
 १३, २८, ५; काश्रौ २४, ५, १९;
 हिश्रौ १८, ४, १२ⁱ; -रेण
 आपश्रौ २३, ११, ८ⁱ.
 प्राजापतेर्-हृदय- -यम् द्राश्रौ
 २, १, २०^h; २८; गोपि १, १, ९;
 -येन बौश्रौ १०, ४९ : १५;
 माश्रौ ६, २, ४, ९; वाश्रौ २,
 ३, १३; वैश्रौ १९, ६ : ६१.
 प्राजापतेर्हृदय-स्थान-
 -ने द्राश्रौ २, १, २४^h.
 प्राजापतेस्-तन्^h- -नूः
 आश्रौ ८, १३, १२ⁱ; -न्वम्
 वाश्रौ १०, १९, २ⁱ.
 प्राजापतेः-सहस्रसंवत्सर-
 -रम् शाश्रौ १३, २९, ३२; निसू
 १०, १३ : १५; -रयोः आपश्रौ
 १९, १५, ७; -रेण आपश्रौ २३,
 १४, १२; हिश्रौ १८, ४, ६६.
 (प्राजापतेः)सहस्रसंवत्सर-
 -रम् वाश्रौ १३, २९, ३२.

a) परस्परं पाभे. b) विप. । बस. । c) परस्परं पाभे. d) प्रजातिं इति संस्कृतुः टि. । e) प्रजातिसं
 इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. संस्कृतुः टि.) । f) = साम-विशेष- । g) सपा. ष्टिहं <> ष्टेहं <>
 ष्टेः साम इति पाभे. । h) सपा. ष्टिहं <> ष्टेहं इति पाभे. । i) पृ १३१८ रद्वादशसंवत्सर- इति नेष्टम् ।
 j) सपा. ष्रम् <> ष्रेण इति पाभे. । k) = मन्त्र-विशेष- (तु. भाष्यम्) । l) पृ ११५६ सस्थ. तन्ः इति नेष्टम् ।

प्रजापतेः-सामन्- -म^a
 आप्रश्रौ १७, १२, ११; हिश्रौ
 १२, ३, १३.

प्रजा-परिपालन- -नम् विध
 ३, २.

प्रजा-पशु-काम- > ^{म-वैश्य-}
 रथकृत- -ताम् काश्रौ ४, ७, ७.

प्रजा-पश्व(शु-अ)न्न-काम-
 -मस्य अशां १७, २.

प्रजा-पश्व(शु-अ)न्न-यशस्-
 काम- -मस्य काश्रौ ४, ४, १.

प्रजा-पालन- -नम् वाध २,
 १७; सुध ७.

प्रजापालन-दुष्टनिग्रह-युद्ध-
 -द्वानि वैध १, १, ७.

प्रजा-भाग्यो(ग्य-उ)द्भव^b- -वम्
 अप ५२, १४, ४.

?प्रजाभाङ्गितः^c कौस् २२, ९.
 प्रजा(जा-अ)भिराम^d- -मः

शंघ २४४.

प्रजा-मेघा- -धयोः पा ५, ४,
 १२२.

प्रजा(जा-अ)र्थ- > ^{र्थिन्-}
 -र्थिनाम् वृदे ३, ३२; -र्थी अप
 ७०^e, १३, २.

प्रजार्थि-होम- -मम् आमिष्ट
 २, ५, ६ : १.

प्रजा-वत्- -^{वत्} शाश्रौ २, २२,
 ४; आप्रश्रौ ६, २३, १; बौगृ ४,
 ३, ४; -वतः वृदे ८, ८०; -वता

या ११, २४^f; -^{वन्तः} शाश्रौ
 १५, २७, १; आप्रश्रौ; -वन्तम्

आमिष्ट २, १, ५ : ९^f; -वान्
 काश्रौ २३, ३, १^f; आप्रश्रौ; ऋअ
 २, १०, १८^g.

प्रजावती-(>प्रजावत-
 पा.)पाग ४, ४, ४८; -^{न्ति}
^{कौस्} २४, १३; ३९, ९××;
 -^{न्ती} आप्रश्रौ ३, १०, ९; ४,
 १३, ३; भाश्रौ; कौस् ५, २^h;
 -^{न्ती}: आप्रश्रौ १, ११, १०^h;
 बौश्रौ १, १ : १२; ३ : १६^h;
 भाश्रौ १, १२, ३^h; हिश्रौ १,
 ३, १९^h; कौस्; या ५, २;
 -^{न्ती}म् आप्रमं १, ७, ९; बौगृ
 १, ५, ५; ४, २, १२.

प्रजावज्-जीवपुत्र^h-
 -त्रायाम् आगृ १, १३, ६; -त्रौ
 वृदे ५, ९२.

प्रजा-वृद्धि- -द्धिः आप्रध २,
 ७, ४; हिध २, २, २५.

प्रजा-व्यूद्ध-पशु-व्यूद्ध- -द्धस्य
 आप्रश्रौ ५, २८, १२.

प्रजा-संस्कार- -राः बौगृ २, ६,
 १८.

^{न्}प्रजा-सनिⁱ- -नि शाश्रौ ४,
 १३, १; आप्रश्रौ ६, ११, ५;

बौश्रौ; -निः वैताश्रौ १९, १६.
 प्रजा-संतान- -नम् बौध २, ९,
 १०.

?प्रजासहत्वकर्मन्- -र्मभ्यः
 आमिष्ट १, ६, १ : १५; वैगृ ३,
 २ : ८.

प्रजा-सुख- -खे विध ३, ९८.

प्रजा-स्थान- -नम् निस् ४, ६, ७.
 प्रजा-स्थापनⁱ- -नम् अप १,
 ४३, १०.

प्रजा-हित- -तम् अप ५२, ११,
 २; -तेषु बौश्रौ १८, २० : ८.

प्रजे(जा-ई)श- -शाय वैगृ २,
 १ : ९^f.

प्रजो(जा-उ)त्पत्स्या(ति-आ)
 नुपूर्व^k- -व्येण हिगृ २, १७, ७.

प्र-जात, ता- -^{न्तम्} अप ११, १, ६;
 १३, १, ७; अशां १९, १; अअ
 १९, २६; -ता वाधूश्रौ ४, २६ :

३; वाध १७, ७८^l; बौध २, १,
 ३८; -^{न्ता}: आप्रश्रौ १, २४, ५;

बौश्रौ १, ९ : ९; भाश्रौ; -^{न्ता}:
 माश्रौ २, ३, ३, ७^l; -तान् बौश्रौ

१७, २८ : १७; हिश्रौ १२, ८, ७;
 आप्रश्रु १२, ६; -तानाम् अप

६८, २, ४१; -तायाः काश्रौ २५,
 ११, १८; -तायाम् शाश्रौ ३, ४,
 १४; -ते काश्रौ २०, ३, २०;

आप्रश्रौ; -^{न्तौ} वाधूश्रौ ४, १९, ४३
 प्र-जाति- -तिः चाज ६ : २^m;

-^{तिभिः} वैश्रौ ८, ५ : १६^m;
 -^{तिम्} आप्रश्रौ १०, २, ११×ⁿ;
 २३, १४, ११ⁿ; माश्रौ १, ४, २,
 ६; आप्रध; -^{ती}: बौश्रौ ४, ५ :

१०^m; -तेः क्षुस् ३, १४ : १५;
 -^{न्त्यै} शाश्रौ १६, २२, २६;
 आप्रश्रौ ५, ६, १; बौश्रौ.

प्रजाति-काम- -मः आश्रौ ९,
 ७, २९; शाश्रौ ४, १३, १××;

a) पामे. पृ १६६१ f द्र. ।

b) विप. । प्रस. > वस. ।

c) आः अ^o > संधिन्यायेन

यनि. इति संस्कर्तुः टि. ।

d) विप. । उस. ।

e) = ऋषि-विशेष- ।

f) लृ. वैप १, २१३३ g L

g) पामे. वैप २, ३खं. प्रजावतीः तैत्रा ३, ७, ४, १४ टि. द्र. ।

h) द्रस. ।

i) वैप १ द्र. ।

j) उप. करणे कृत. ।

k) जनन-क्रम- इति भाष्यम्, old. च । प्रज्ञो^o इति Bōht

(ZDMG ५२, ८७) शोधः ? ।

l) पामे. वैप १, ९९८ p द्र. ।

m) = मन्त्र-विशेष- ।

n) पामे.

पृ १६५८ m द्र. ।

बौश्रौ; -मस्य आश्रौ १०, १, २;
काश्रौ २२, १०, १३; २३, १, १४;
-मा: आश्रौ ११, ३, ६; शाश्रौ
१४, ६०, १; -मानाम् शाश्रौ
१३, २८, ४; काश्रौ २४, ३, २४.

प्रजातिकाम-यज्ञ- -ज्ञ:

निस्र ७, ७: २३; ८, ३: १; -ज्ञे
निस्र ७, ७: २५.

प्रजातिकामयज्ञ-त्व-

-त्वात् निस्र ७, ७: २७, ८, ३: २.

†प्र-जाव(र>)री-री: माश्रौ १,
१, ३, ७; माश्रु १, १२, ३.

प्र-जनन- प्रमृ. प्र√जन् द्र.

प्र√जम् > प्र-जमित-> ता(त-अ)
प्रि^१-प्रय: या ७, २४.

प्र√जम्, प्रजम्भयेत् आपशु १९, ९.

प्र-जा- प्रमृ. प्र√जन् द्र.

प्र-जागर- प्र√गृ(अवबोधने) द्र.

प्र-जाति- प्रमृ. प्र√जन् द्र.

प्रजानक^१-क: काश्रु २०, २.

प्र√जि, प्र(जय) अश्रु ६, १२६†^१.

प्रजैषम् शाश्रौ १८, २१, ८†.

प्र-जय- न्यम् शाश्रौ १८, २१, ८†.

प्र√जि. जिन्व्, प्र...जिनोषि^१ आपमं

२, १८, ९; या ११, ३७†.

प्रजिन्वसि या ११, ३७;

प्रजिन्वन् आश्रौ ४, १३, ७†;

प्र(जिन्वन्) ऋअ २, १, ७१†.

प्र-जिगांसत्- प्र√गम् द्र.

‡प्रजिघाति सु २९, २.

प्र√जीव, प्रजीवतात् भाश्रौ १, १०,

१०!†.

प्र-जीवसे हिपि १८: ५†.

प्र√जु, प्रजवेते, †प्र...जवेते या ९,

३९; †प्र(जवेते) ऋअ २, ३,
३३; वृदे ४, १०५.

प्रजावयति या ९, १७.

प्र-जव^१-व: या ११, २०†; -वेषु
या १, ९; १३, १३.

प्र-जविन्- पा ३, २, १५६.

प्र√जृम्, प्रजृम्भयेत् हिण्यु ६, २९.

प्र√ज्ञा^१, प्र(जानाति)अश्रु १५, १२†;

प्रजानन्ति बौश्रौ १४, ५: ३१;

वाधुश्रौ ४, ६४^१: ७; ९; प्रजानीम

जैगृ २, १: २४; प्रजानीयात्

बौश्रौ १६, २७: १७; प्रजानीयु:

आपथ २, १५, २१; हिण्यु २, ३, ५५

प्रज्ञायते आमिगृ ३, ९, २: १०;

आपगृ ८, १; बौपि १, १०:

१०××; प्रज्ञायन्ते वाधुश्रौ ४,

४५: ३; प्रज्ञायेत आपश्रौ ९,

११, २२; हिपि २३: १८.

प्रज्ञापयति या ११, २७.

प्रजिज्ञासीत बौश्रौ २४, ६: ५.

†प्र-जानत्- नन् आश्रौ ३, १०, ८;

१२, २२; शाश्रौ; आपश्रौ ६, २६;

७××; ९, २, ६; भाश्रौ ९, ३,

८; हिश्रौ १५, १, ४५; या ७,

२७; ८, २०; ९, १५; -नन्त:

आपश्रौ ७, १२, १०; १५, ४; १६,

२९, १; बौश्रौ.

†प्रजानती- ती आपश्रौ १६,

२९, १; बौश्रौ १६, २७: १८;

वैश्रौ; -ती: आपश्रौ ४, ४, ४;

भाश्रौ ४, ५, ५; वाश्रौ.

प्र-ज्ञ- पाग ५, ४, ३८; -ज्ञा:

कौशि ५९; अग ५५, ५, ३.

१प्रज्ञ- पा ५, ४, ३८; -ज्ञ:

कागृज ४६: १०; आमिगृ २,
५, १: १२; जैगृ २, ९: ६; अग
१२, १, ८; शंथ १९१; २३५;
मैश्र १; चव्यु ४: २०; या १२,
३७!; -ज्ञम् अग ७०, १, १;
-ज्ञा: अग ३०^३, २, ९; कौशि
३; नाशि १, ४, १२.

प्रज्ञ-ता- -ताम् माशि १६,

१०.

प्रज्ञ-सेवन- नात् माशि

१६, १४.

प्र-ज्ञा- पाग ५, २, ९७; १००;

-ज्ञया आमिगृ १, १, ४: ३†;

हिगृ १, ७, २†; जैगृ १, १२:

४०†; या २, २५; ६, १३××;

-ज्ञा आगृ ३, ९, १†; भागृ १,

११: १†; मागृ; या ५, १४;

१०, ४१; -ज्ञाम् कौगृ २, ५, १;

कप्र १, १०, ४; शंथ; या २,

२८; ७, २७; -ज्ञाया: निघ

३, ९; -ज्ञायाम् भागृ १, ११:

३!†; मागृ १, ७, ७; वागृ १०,

६; -ज्ञायै आगृ ३, ५, ४; जैगृ

२, ८: ७; बौध ३, ९, ५.

२प्रज्ञ- पा ५, २, १०१.

प्रज्ञा-नामन्- म या १०, ३४;

-मानि या ३, १३.

प्रज्ञा-ल्- पा ५, २, ९७.

प्रज्ञा-वत्- पा ५, २, १००;

-वान् वैश्रौ १२, १: १.

प्रज्ञावत्-त्व- स्वम् या १०,

३४.

प्रज्ञि-ल्- पा ५, २, १००.

प्र-ज्ञात, ता- -त: शाश्रौ १८, २४

a) पामे. पृ १६६२ g द्र.। b) विप.। बस.। c) =देवता-विशेष-। व्यु.?!। d) पामे. वैप १,
६३१ k द्र.। e) वैप १, २१३४ b द्र.। f) 'जीवि' इति पाठः? यनि. शोघः। g) वैप १, २१३४ f द्र.।
h) पा ३, २, ६ परामृष्टः द्र.। i) पामे. वैप १, २१३४ m द्र.। j) =(सुषुप्तस्थान-) आत्मन्- (तु. मां ११)।
k) प्रा^० इति पाठः? यनि. शोघः (तु. मागृ.)।

१६; बौश्रौ ३, १२ : १; १२××;
-तम् आपश्रौ १, ६, ८; १४,
६××; बौश्रौ; -तया काश्रौ ६,
६, ८; -ता शाश्रौ १८, २४, १७;
१८; काश्रौ; -ता: काश्रौ २२,
११, २२; बौश्रौ ३, १ : ६; १०,
१२ : ९; ११, १ : १२; -तान्
आपश्रौ ११, ६, ३; १२, ८, ४;
२०, १२, १०; भाश्रौ; -तानि
बौश्रौ २, ९ : ३२; भाश्रौ; -ताम्
बौश्रौ १२, १४ : ७; हिश्रौ ५,
१, १६; आम्रिय; -ते आपश्रौ
१, ११, १०; बौश्रौ; -तौ बौश्रौ
२, ९ : ३३; हिश्रौ.
प्रज्ञात-तम- -मम् या २, १९.
प्रज्ञात-दक्षि(णा>)ण^६ -णः
आश्रौ १२, १५, १०.
प्रज्ञात-पृष्ठ^६ -ष्ठः लुस् २,
१० : १३.
प्रज्ञात-स्तोम^६ -मस् बौश्रौ
२६, १६ : १७.
प्रज्ञाता(त-अ)ग्निका (छ-अ)
श्रि^६ -श्रिः आपश्रौ ७, ३, २.
प्रज्ञाता(त-अ)प्र, प्रा^६ -प्रम्
शाश्रौ १७, १, १३; -प्राः द्राश्रौ
५, २, ३; लाश्रौ २, ६, १; निस्
१, ११ : ६.
प्रज्ञाते(त-इ)ष्टय(छि-अ)ति-
पत्ति- -तौ काश्रौ २५, ४, २१.
प्रज्ञातो(त-उ)पन्न- -न्नः हिध
२, ५, ४९^६.
प्र-ज्ञाति- -त्यै हिश्रौ ६, १, ६.
प्र-ज्ञातृ- -ता क्षुस् ३, १४ : १२;
या १०, २७.
प्र-ज्ञान- -नम् बौश्रौ १, ४, ३१;
भाश्रौ १, १७ : १२१; अप १,

४६, १; या ४, १०; १२, ७;
बौशि १०; -नानि या ८, २०;
९, १५; ३३××; -नाय अश्रौ ११,
३१.
प्रज्ञान-वत् या ५, १५.
प्रज्ञान-वत्- -वन्तः या ४, १०.
प्रज्ञानाम्^६ अश्रौ १३, २१.
प्र-ज्ञायमान- -ने गोश्रु ४, ४, २५.
प्र-ज्ञु- पा ५, ४, १२९.
प्र-ज्य^६ -ज्यम् बौश्रौ २४, १२ : १;
२५, ४ : १.
प्र-ज्योति^६ -तिषु बौश्रौ १८, ४० :
२०.
प्र√ज्वल्, प्रज्वलति अप २१, ७, ४;
प्रज्वलन्ति अप ७०^३, ८, ३; ७१,
१४, ५; १५, ३; ७२, ४, ४;
प्रज्वलेत् अप ७०^३, १९, ७.
प्रज्वलयन्ति आपश्रौ १०, २९,
८; भाश्रौ १०, २०, ५; वैश्रौ
१२, २१ : ३; हिश्रौ ७, ३, २०;
प्रज्वालयत आश्रु ४, ४ : १;
प्रज्वालयेत् काश्रु ४५, ४; अप
१८, ३, ८; प्रज्वलयेयुः लाश्रौ ९,
७, १५.
प्र-ज्वलत्- -लन् अप २१, ७, २.
प्रज्वलन्ती- -न्ती अप ६२, १, ४.
प्र-ज्वलन- -ने अप ७१, २, १.
प्र-ज्वलयत्- -न्यन्तः माश्रु २, १,
२^६.
प्र-ज्वलयित्वा हिश्रौ ९, ४, २७;
आम्रिय १, ६, ३ : ५०××; हिश्रु.
प्र-ज्वलित- -तः भाश्रु २, ५ : ४;
-तम् आम्रिय ३, ६, १ : ३; बौपि
१, ८ : ३; जैश्रु १, २० : ७; -ते
आपश्रौ १५, ८, १११; बौश्रौ ९,
७ : २४; भाश्रौ; -तैः अप ४,

५, ६.
प्रज्वलित(त-अ)श्रि^६ -श्रयः या
७, २४.
प्र-ज्वल्य आश्रौ २, २, १३; ५, १.
प्र-ज्वालय बौश्रौ २७, ७ : ३; माश्रौ.
प्र-ज्वालयमान- > न-वपुस्-
-पुः अप २४, ६, ४.
प्रश्रि सुध ८.
प्र√ण (<न)क्ष्, प्र'नक्षन्त
आश्रौ ८, ११, १; प्र(नक्षन्त)
शाश्रौ १०, १०, ४; ऋश्रु २, ७,
४२.
प्र√ण (<न)म्, प्रणमामि सु १, २;
प्रणमेत् वैश्रौ १, १ : ११; वैश्रु ३,
१३ : ११××.
प्रणामयेत् आश्रौ ५, ६, १; ११.
प्र-णत- -तः आम्रिय २, ६, १ : ४;
वाध ३, ३०; शंघ ३७; ९५;
१०३; बौध १, ५, १५; -ताय
अप १९^३, ५, ८.
प्र-णति- -तौ विध २३, ६१.
प्र-णम्य वैश्रौ २, १० : १७; आम्रिय.
प्र-णाम- -मः वैश्रु ३, २२ : ६;
-मम् बौश्रु ३, १२, १४; वैश्रु;
प्रणाम-वत्- -वान् सु ३१, ६.
प्र-णय- प्रश्रु. प्र√णी द्र.
प्र-णव- प्रश्रु. प्र√णु द्र.
प्र-णवत्- -वन्तम् वैश्रु ३, १७ :
१२; ४, १४ : ८.
प्र√ण (<न)श् (व्याप्तौ), प्रणक्
आपश्रौ ६, १७, १२; हिश्रौ ६, ६,
१६; प्र'आनद् या ११, २५१.
प्र√ण (<न)श्रु (अदर्शने), प्रणश्यति
विध ५७, ७; प्रणश्यन्ति अप
६८, २, ५२; प्र'नश्यसि या
९, ३०१; प्रणश्यत् अप ४०, ५;

a) बस. उप. = २दक्षिणा-। b) बस.। c) बस. > कस.। d) सपा. आपध २, १७, २१ श्रुदोषः

इति प्रामे.। e) वैप १ द्र.। f) बस. उप. = ज्या। g) °लन्तः इति पाठः? यनि. शोषः [Dr. Knauer]।

४; प्रणश्येत् अप ३७, ४, १;
 प्र...नश्येत् वाधूश्रौ २, २० : १.
 प्रणाशयेत् बौश्रौ २८, ११ : १६;
 बौध १, १, १५.
 प्र-णाश- -शम् अप ८, १, ७; -शे
 बौश्रौ २८, ११ : ६.
 प्र-नष्ट, ष्ट- -ष्टम् गौध १०, ३५;
 -ष्टा वाय १, ३८.
 प्रनष्ट-स्वामिक- -कम् बौध १,
 १०, १६.
 प्रनष्टे(ष्ट-इ) न्दु-दिवाकर- -रौ
 अप ६४, ७, २.
 प्र✓णि(<नि)ञ्, प्राणिजन् आपश्रौ
 ६, २०, २^६.
 प्र-णि(<नि) ✓घा> प्रणि-घि^६-
 -घिस् वैश्र १, २० : ११; ४, १ :
 १७; -घी वैश्र १, ११ : ७; १३;
 २० : १६.
 प्रणि-हित-> °त्ता (त-आ)स्मन्^७-
 -त्ता आपध १, ४, २९; हिध १,
 १, १४८.
 प्र-णि(<नि)✓पत्>प्रणि-पत्य
 गौपि २, ६, १४; अप.
 प्र-णि(<नि)✓हन्, प्रणिहन्थते शुप्र
 १, १२४; ४, १४०.
 प्र✓णी (<नि), प्रणयते काठश्रौ
 २९; बौश्रौ १७, ३३ : ५; प्रणयति
 काश्रौ ५, ४, २; ६, २, ३; ८, ३,
 १९; १८, ३, १५; आपश्रौ;
 प्रणयतः आपश्रौ ८, ५, २२; ६,
 ७; बौश्रौ; प्र(नयन्ते)साञ्च १,
 ४७८^१; प्रणयन्ति आश्रौ ३, १२,
 २४; शाश्रौ ३, १४, ८; ५, १४, १;
 जैश्रौ; प्रणयामि बौश्रौ २४, २५;
 ९^१; भाश्रौ; शाश्र १, ७, ९^१; प्र...

नयन्त ऋप्रा ८, ४^१; ऋप्रणयतु
 आपश्रौ १, १६, ८; भाश्रौ १, १८,
 ६; माश्रौ; ऋप्रणयन्तु आपश्रौ १२,
 २२, १^२; बौश्रौ ७, १३ : २०; २२;
 माश्रौ; ऋप्रणय आश्रौ १, १२,
 १२; काश्रौ २, २, ८^२; आपश्रौ;
 प्र...नय आपमं २, ११, २८^१;
 प्रणयत आश्रौ ४, ८, २३^१;
 ऋप्र(नयत) आश्रौ ३, ७, ५;
 शाश्रौ; प्रणयानि आपश्रौ १,
 १६, ८^१; प्रणयेत् आश्रौ २,
 २, ३; ६; ६, २××; आपश्रौ;
 प्रणयेयुः हिश्रौ १५, ६, ८; लुस्
 १, १० : १८.
 प्रणिनाय बौश्रौ ४, १ : २७^१;
 ऋप्रणेष्यामि^६ आश्रौ १, १२, १२;
 काश्रौ २, ३, २; आपश्रौ; प्रणेषि
 बौश्रौ ३, ३० : २०^१; प्रणीयात्
 वाधूश्रौ २, १० : १२.
 प्रणीयते आश्रौ १, १२, २६;
 शाश्रौ ३, १५, २१; वैश्रौ १०,
 ६ : ७; हिश्रौ ४, २, २२; या
 ७, १४.
 प्र(निनीषति)साञ्च १, ५८^१.
 प्र-णय- पाग ५, २, १३१; -यः
 या २, १४.
 प्रणयिन्- पा ५, २, १३१.
 प्र-णयत्- -यन् आपश्रौ ८, १, ६;
 ऋबौश्रौ २, १० : ८; २४, २५ :
 ९; भाश्रौ; -यन्तः साञ्च १,
 ७४८^१; ऋप्र(णयन्तः)साञ्च १,
 ७४; उनिस् ४ : ११.
 प्र-णयन- -नम् काश्रौ ५, ४, ४;
 आपश्रौ ८, १, ८; ९, ७, २; मीस्
 ७, ३, १९; २३; -नात् आश्रौ

४, २, १२; आपश्रौ १५, १६, ७;
 बौश्रौ; -नाय वैताश्रौ १५, १४;
 -ने आश्रौ १, १२, २९.
 प्रणयनी- -नी वाश्रौ १, ६,
 २, ६.
 प्रणयन-वर्जम् आपश्रौ ९, १, १४;
 भाश्रौ ९, १, १४; हिश्रौ १५,
 १, १४.
 प्रणयन्ता(न-आ)दि- -दि काठश्रौ
 ६३.
 प्रणयनीय- -यः बौश्रौ ३, १ :
 १४; -यम् काश्रौ १, ३, २१;
 आपश्रौ.
 प्रणयनीया (य-आ)घान-
 -नम् काश्रौ ८, ६, २८.
 प्रणयनीयाधाना(न-आ)
 दि- -दि काश्रौ १९, २, ४.
 प्र-णयितुम् आपश्रौ १९, ४, १;
 हिश्रौ १३, ८, ३५.
 प्र-णयित्वा जैश्र १, ११ : २; २,
 १ : ११.
 प्र-णाच्य- पा ३, १, १२८; -च्यः
 वाधूश्रौ ३, १८ : १६; ९२ : ७^१;
 -च्यम् वाधूश्रौ ३, ९२ : ९;
 -च्यान् वाधूश्रौ ३, ९२ : ४.
 ऋप्र-णी^६- -णीः आश्रौ १, ३, ६;
 शाश्रौ १, ४, २०; ७, ९, ३; -ण्यः
 ऋप्रा ५, ५४.
 प्र-णीत, ता- -तः भाश्रौ ४, ३, १;
 कौस् ८९, १५; अप्राय; -तम्
 माश्र २, १३, ६^१; -तस्य बौश्रौ
 २, ७ : २०; वाश्रौ १, २,
 ३, २; -ता भाश्रौ १, ८, ६,
 २६; वैश्रौ ११, ८ : ४; -ताः
 आश्रौ १, १, ४; शाश्रौ १, ४, १३

a) पाभे. वैप १, २१३५ j द्र. । b) = प्रणीता-पात्र- । गस. । c) बस. । d) सपा. कौश्र १,
 ३, २ द्धामि इति पाभे. । e) पाभे. वैप २, ३३६. प्रणेभ्यामः शात्रा ६, १२ टि. द्र. । f) उप. भावे कर्त्तरि च
 वृत् । g) प्रां इति पाठः ? यनि. शोषः । h) वैप १ द्र. । i) नाप. स्त्री. = २अपू- [उपचारात्] पात्र- ।
 वैप४-प्र २७

१८, २४, २७; काश्रौ; -तानाम्
बौश्रौ २७, १ : १२^२; माश्रौ १,
२, ३, १३; वाश्रौ; -ताभिः
आपश्रौ १, २४, ३; बौश्रौ २६,
३२ : ९; भाश्रौ १, २५, २;
-ताभ्यः आपश्रौ १, २४, ५;
बौश्रौ; -ताम् बौश्रौ २४, ३७ :
४; वाण १, १२; वैण ४, १ : ५;
-तायाम् वैण १, १३ : १०;
२० : ४; ६; -तासु शाश्रौ ४,
७, १८; काश्रौ १, ७, १८;
आपश्रौ; -ते आश्रौ ३, १२,
२७; आपश्रौ.
प्रणीता-काल- ले शाश्रौ ४,
७, १.
प्रणीता-चरु- -रुः शाण ५, ८, ३.
प्रणीता(त-आ)दि- दि काश्रौ
५, ४, १९; ८, २, १६; मीसू ९,
१, २३.
प्रणीता(ता-अ)उहरण- णम्
काश्रौ ५, ८, २३.
प्रणीता(ता-अ)प्- ताद्भ्यः
बौण १, ४, ३८.
प्रणीता-पत्नीसंनहना (न-अ)मि-
मन्थना(न-आ)श्रुत-प्रत्याश्रुत-
प्रैष-यजमानवाचन-होतृषदन-
वरण-प्राशिन्ना(त्र-अ)ङ्गुलिपर्वा-
जना(ग-अ)वान्तरेडाभागा-
(ग-अ)परान्य(मि-अ) वमृथ-
थान् काश्रौ ५, ४, ३१.
प्रणीता-पात्र- -त्रम् वाश्रौ १,
२, ४, ४; बौण ४, १, ५.
प्रणीता-प्रणयन^a- -नम् शाश्रौ
४, १४, २४; काश्रौ २५, ७, २८;
आपश्रौ; -ने आमिण १, ६, १ :
२७.

प्रणीता-प्रोक्षण-वत् आमिण २,
३, ४ : ८.
प्रणीता(ता-अ)र्थ- -र्थे मीसू ९,
४, ३३.
प्रणीता-लोक- -केन बौश्रौ २४,
१५ : १०.
प्रणीता-वत् भाण १, ३ : ४; ३,
१६ : ४.
प्रणीतावद्-उपचार^b- -रम्
भाण ३, १६ : ४.
प्रणीता-वर्जम् वैश्रौ १६, २३ : ४.
प्रणीता-शेष- -षम् वाश्रौ १, १,
४, २१.
प्रणीतो(ता-उ)त्कर- -रौ काश्रौ
१, ३, ४२.
प्रणीतो(ता-उ)दकुम्भ- -म्भम्
वाण १४, ६.
प्रणीति- -तीः कौसू ५६, १६;
-तौ वाश्रौ ३, २, ४, १०^१.
प्रणीतात् बौश्रौ २३, २ : १८.
प्रणीय आश्रौ १, १, २××; शाश्रौ.
प्रणीय- पा ३, १, १२३.
प्रणीयमान, ना- -नम् द्राश्रौ १४, ४,
१२; लाश्रौ ४, ९, १७; ५, ८, १२;
-नयोः वैताश्रौ ८, १७; -नस्य
माश्रौ १, ५, ४, ८; ६, २, ५, ७;
-नाः आपश्रौ ४, ४, ४; माश्रौ
४, ५, ५; वाश्रौ; -नानाम् आपश्रौ
१४, ८, ६; बौश्रौ २७, १ : १२;
हिश्रौ १०, ८, २३; -नाभ्यः
शाश्रौ ९, २४, ९^८; -तानाभ्याम्
शाश्रौ ५, १४, ७; आपश्रौ ११,
१७, २^३; बौश्रौ; -तानाय काश्रौ
८, ७, ४; आपश्रौ ७, ६, ४^२;
बौश्रौ; -नासु आपश्रौ १, १६,
७; ४, २, ७; बौश्रौ; -ने शाश्रौ

४, ६, १३; ८, १५, १०;
काश्रौ; -तानेभ्यः आपश्रौ १६,
२१, ३^{२०}; बौश्रौ १०, २७ : ११;
माश्रौ ६, १, ६, १४^८; वाश्रौ २,
१, ६, ५^८; वैश्रौ १८, १६ : २८^८;
हिश्रौ ११, ७, ४^{२०}; -नौ माश्रौ
५, २, १६, ८; द्राश्रौ.
प्रणेत(व्य>)व्या- -व्या या५, २३.
प्रणेतृ- -तः आश्रौ ३, ७, ११;
आपमं १, १४, ३; सुपा १, १६८;
-तारः शंघ ३; -तारम् वैताश्रौ
४२, ८; अत्र २०, ४६; -तारौ
या ६, १३; -तृभिः बौश्रौ १८,
४० : २२; -तृन् बौश्रौ १८,
४० : १७.
प्रणेष्यत्- -ष्यत्सु आश्रौ ४, १०,
१; बौश्रौ २०, १ : ४१; द्राश्रौ
१५, १, १; लाश्रौ ५, ९, १;
-ष्यन् बौश्रौ ११, २ : ११;
१२××; माश्रौ; -ष्यन्तम् वाश्रौ
१, १, ५, १०; -ष्यन्तौ हिश्रौ ५,
२, १०.
प्र√णी(<नी)क्ष्(व्यधने)>प्रणीक्ष्य
आपश्रौ ७, २२, ९; ९, १९, ४.
प्र√णु,णु (<तु,रु), त्रप्र(नवन्त)
ऋअ २, १०, १७६; वृदे ८, ७४.
प्रणौति शाश्रौ ७, १०, ७; २५,
६××; आपश्रौ; प्रणुन्ति आश्रौ
६, ४, ३; ४; प्रणुयात् आश्रौ २,
१४, २९; ६, ३, ६××; शाश्रौ
६, ३, १०; १८, १४, ५; प्रणौयात्
बौश्रौ १४, १० : २३.
त्रप्रणोनुमः आश्रौ ७, ८, १; शाश्रौ
१२, ११, २०; ऋप्रा ५, ५७.
प्रणोनुवुः ऋप्रा ५, ५७.
प्रणव^d- -वः आश्रौ २, १५, १४.

a) = चमस-विशेष- । उस. । b) विप. । बस. । c) सप्र. णाभ्यः <> नेभ्यः इति पाठे. ।

d) वैप १ द. ।

५, ९, १०××; शांश्रौ; शुप्रा ३,
५१; पा ८, २, ८९; -वम् आपश्रौ
२४, १३, १२; बौश्रौ; शंघ ११६:
५६^a; -वयोः लाश्रौ १, ३, ६^b;
-वस्य शैशि ३४९; ३५१; -वात्
आश्रौ १, १२, १५; शांश्रौ; -वे
आश्रौ ५, ९, ६; ७, ११, ३२;
शांश्रौ; -वेऽ-वे आश्रौ ५, ९, ७;
आपश्रौ २, १२, ४; बौश्रौ; -वेन
आश्रौ १, २, १३; २७××;
शांश्रौ; -वेषु आश्रौ ४, ६, ३^c;
८, ३, २१; शांश्रौ ५, ९, १६^c;
-वैः आपश्रौ १५, ८, १०; भाश्रौ
११, ८, १४.
प्रणव-नामन्- -मानि द्राश्रौ १,
३, २९.
प्रणवा(व-आख्या >) ख्य^e-
-ख्यस्य शुभ ४, १२६.
प्रणवा(व-आ)ख्या- -ख्या शंघ
१०७.
प्रणवा(व-आ)त्मक^e- -कः बौघ
२, १०, ६९.
प्रणवा(व-आ)दि- -दि आश्रौ १,
१२, १४; जैश्रौका ११५; वैश्रु
१, ७ : ९; कप्र २, ९, २४;
-दिभिः^d वैघ २, ८, ४.
प्रणवादि-(क >)का- -काः
बौश्रौ २८, ११ : ९.
प्रणवा(व-रआ)घ^e- -घम् वैघ
२, ११, ७; -घाः अप ४२, १, ९;
वाघ २५, १०; कौशि ७२.
१प्रणवा(व-अ)न्त- -न्तम् काश्रौ
१२, ७, ७; -न्तयोः द्राश्रौ १,

३, ६^b.
२प्रणवा(व-अ)न्त,न्ता^e- -न्तः
आश्रौ ५, ९, ९; १०; ७, ११,
३२; -न्तया वैश्रौ २, ९ : १३;
वैताश्रौ ३०, २७; -न्तेन वैश्रौ
२, ११ : १४.
प्रणवा(व-अ)न्वि(त >)ता-
-ता बौघ ४, ६, १.
प्रणवा(व-अ)वसान- -नयोः
काश्रौ २, १३, २९.
प्रणवो(व-उ)च्चारण- -णेन
आश्रिण २, ४, १२ : ९.
प्रणवो(व-उ)परि कौशि ७२.
प्रणवन- > णीय- -यः शांश्रौ
७, २६, १०.
प्रणुत- -तेषु माश्रौ २, ४, २, २५^f.
प्रणुत्य आश्रौ ४, ६, २××; शांश्रौ.
प्र०णु (<तु)द्, णप्रणुनोत्तु^g बौश्रौ
२, ९ : ३; माश्रौ; हिश्रौ २, ७,
१७^h; जैश्रु २, २ : ४.
प्रणुदते बौश्रौ २५, ६ : ४;
वाधुश्रौ ४, ६३ : १२; प्रणुदति
कौसू ४८, ५; णप्रणुदाति शांश्रौ
४, ४, २^e; आपश्रौ; णप्रणुदातु
आश्रौ २, ६, २^e; भाश्रौ; वाश्रौ
१, ३, ७, २०^e; णप्रणुदतु^g
बौश्रु ३, ५, १२-१४; प्रणुदस्व
आपश्रौ १, ८, ७^f; प्र...
नुदस्व कौसू ४८, ५^f; णप्रणु-
(द >)दा आपश्रौ १७, ३, २;
बौश्रौ १०, ४५ : १; माश्रौ;
प्र...नुदावहै भाश्रु १, ७ : १४^f;
प्रणुदत् अश्र २, ३४; ४, २२;

णप्रणुदन्त आपश्रौ २१, ११, ५;
६; वाधुश्रौ.
प्रणुदन्- -दन् वृदे २, ६३.
प्रणुदान- -नः शुप्रा ३, ८८.
प्रणुद्य सु १२, १.
प्रणोद- -दः बौश्रौ १८, ४६ : १.
प्रणोदम् भाश्रु २, १७, १^h.
प्रणेत- -प्रष्ट. प्र०णी द.
प्रणय(णि <नि > ञ)स् (क्षेणो) >
प्रणय(णि-अस्त >)स्ता- -स्ता
तैप्रा २, २०.
प्रणयस्त-गीति^e- -ति छसू ३,
३ : १२; -तीनि निसू २, ३ :
१४.
१प्र-तⁱ- > प्रत-त (त >)ती- -ती
निसू २, ९ : २१.
२प्र-त- प्र०तन् द.
णप्रतक्वन्^j- -क्वा शांश्रौ ६, १२, ८;
आपश्रौ ११, १४, १०; बौश्रौ.
प्र०तक्ष, प्र...तक्षणुः बौश्रौ १४,
२८ : ५; ६.
प्रतत्- > णप्रतद्वन्सु^k- -सू अप
४८, ११५; निघ ४, ३; या ६,
२१^l.
प्रततामह^m- -णह वैताश्रौ २२,
२२; कौसू ८८, ११; अप ४४,
४, ५; अश्र १८, ४; -हस्य कौसू
८८, ८; -०हाः णकौसू ८८,
२४; २५.
प्र०तन्, प्रतनुते बौश्रौ २, ७ : ६^f;
प्रतनोति आपश्रौ २१, १७, ११;
कौसू २०, १; णप्रतनोषि बौश्रौ
१०, ३२ : ५; वैश्रौ १८, १७ :

a) = मृग-भेद- । सप्र. अपु २१२, २५ प्रसवम् इति । b) सपा. षवयोः <> षान्तयोः इति पाभे. ।
c) विप. । बस. । d) षाद्यादि इति पाठः ? यनि. शोधः [तु. C., संस्कृतः टि. च] । e) पाभे. वैप १,
२१३८ C द. । f) षक्तु इति पाठः ? यनि. शोधः [तु. बौश्रौ. प्रसू.] । g) परस्परं पाभे. । h) प्रमो इति
पाठः ? यनि. शोधः (तु. सपा. ऋ १०, १६५, ५; BC., Knauer) । i) प्र तुव्यसीम् (ऋ १, १४३, १)
इत्यस्याद्यावयवानुकरणम् । j) वैप १ द. ।

३२; बौध ३, ९, ११.
 प्रतायते आपश्रौ २०, ९, १२;
 १३, १०५; बौश्रौ.
 २प्र-त^१ - तानि कौशि ३०.
 प्र-तत - तः हिघ १, १, १२३; २,
 २, २२; -तम् बौश्रौ ९, ६; ५;
 -ते आपश्रौ ९, ४, ४; बौश्रौ
 २३, १: १५; भाश्रौ.
 प्र-तत्य पावा ६, ४, ३७.
 प्र-तन्वान- नस्य लुसू १, ४: ३०.
 प्र/तप्, प्रतपति काश्रौ ६, ६, १२;
 माश्रौ १, २, ५, २; वैश्रौ; प्रत-
 पतः वाधूश्रौ ४, २८^१: २; प्रत-
 पेत् वैताश्रौ १२, ३.
 प्रतप्येर्न् आमिष् २, ५, ९:
 १३; जैय २, ६: ११.
 प्रतापयेत् विध ७१, ३७.
 प्र-तप- > °पो(प-ञ)हलेखन-
 -नम् काध २७८: ३.
 प्र-तपन- पाग ३, ४, ७४; -नम्
 काश्रौ २, ३, ११.
 प्रतपने (> °भे/कृ पा.) पाग
 १, ४, ७४.
 प्र-तस- > °स-कनक-प्र(भा >)
 भ- -भा: अप ५२, ६, २.
 प्र-तप्य काश्रौ २, ६, ३९××; माश्रौ;
 प्रतप्यप्रतप्य काश्रौ २, ६, ४०.
 प्र-ताप- > °प-वत्- चान् अप
 ५२, १०, १.
 प्र-तापन- नम् कप्र १, ८, १४.
 प्र-ताप्य आपश्रौ ६, ८, ४××; भाश्रौ.
 प्र-तम^१ - मः या २, २२.
 १प्र-तर^१ - > °प्रतरम् आश्रौ ७,

९, ३; शाश्रौ ९, ३, ४; १२, १२,
 ५; आपश्रौ; माश्रौ १, ५, २,
 ११^१; वाश्रौ १, ४, २, १^१;
 आग २, ९, २^१; माग २, ७,
 ५^१; प्र(तरम्) वृदे ७, ४०.
 ङप्रतरम् आश्रौ १, ४, ८; आपश्रौ
 ५, ९, १०^१; बौश्रौ; हिश्रौ ३, ३,
 ३०^१; आपमं २, ११, २८^१;
 आमिष् ३^१, ७, १: २०; २१.
 २प्रतर^१ - (> प्रातरीय- पा.) पाग ४,
 २, ८०.
 प्र-तर्दन- प्र/तृद् द्र.
 ङप्र-तवस्^१ - -वसः आश्रौ ५, २०, ६;
 -वसे वैताश्रौ ३१, १९.
 प्र-तान^१ - पाग २, ४, ६९.
 प्रताम् पाग १, १, ३७.
 प्रति^१ आश्रौ २, ३, १४; ८, ३^१××;
 शाश्रौ; बौश्रौ ८, १९: १९^१;
 द्राश्रौ १२, २, २३^१; १५, २,
 २०^१; लाश्रौ ४, १०, २६^१;
 ५, १०, २०^१ विध ६०, २२^१;
 या १, ३; २, ६××; ऋप्रा १२,
 २०^१; १५, १७^१; शुप्रा ६, १०^१;
 ३४^१; तैप्रा १, १७^१; पा १, ४,
 ३७; १०××; पाग १, ४, ५८^१;
 प्रतिऽप्रति या १३, १०.
 प्रति- -ति: पा १, ४, ९२; -तिना
 पा २, १, ९; -ते: पा ५, ४, ८२;
 ६, १, २५; १४१; २, १९३.
 १प्रतिक^१ - पावा ५, १, २५.
 २प्रतिक- (> प्रातिक्य- पा.) पाग ५,
 १, १२८.
 प्रति-कण्ठ^१ - ण्ठम् ऋप्रा १, ५४^१.

प्रातिकण्ठक- पा ४, ४, ४०.
 प्रति/कम्, प्रतिकामयते या ११,
 १५.
 प्रति-कामिन्- -मिनम् शाश्रौ ७,
 ६, ९.
 प्रति-कर्मन्^१ - -र्म काश्रौ १, ३, २७;
 मीसू ३, ५, १६; १८; ११, १, २.
 प्रतिकर्म-इशिन्- -शिन्- शुञ्च २, ९.
 प्रतिकर्म-विभाग- -गेत् शुञ्च १,
 १३.
 प्रतिकर्म-सोम^१ - -मा: काश्रौ २२,
 ७, २१.
 प्रति-कथ- प्रति/कृप् द्र.
 प्रति-कारण^१ - -ण्डम् बौध १, २, ३.
 प्रति-काम^१ - -मम् आश्रौ ९, १०, ७;
 काश्रौ ४, ५, १५; द्राग १, २, २३.
 प्रति-कार- प्रति/कृ द्र.
 प्रति-कारक^१ - -कम् पावा १, ४, २३.
 प्रति/काश > प्र(ति >) वी-काश-
 -शः वैताश्रौ ११, १३^१; कौसू
 ८२, ११.
 प्रति/कीर्ति (< कीर्ति-), प्रतिकी-
 र्यन्ते वृदे ७, १३९.
 प्रति-कुम्भ^१ - -म्भम् कप्र ३, ९, १५.
 प्रति-कूल^१ - पाग ५, १, १२४^१; -लम्
 वाधूश्रौ ३, ५५: १; ४, ८५: १५;
 शंघ ७९.
 प्रातिकूलक- पा ४, ४, २८.
 प्रातिकूल्य- पा ५, १, १२४.
 प्रातिकूल-वृत्ति^१ - -त्ति: शंघ ४१४.
 प्रति/कृ, प्रतिकरोति भाश्रौ ८, ६,
 २; प्रतिकुर्वन्ति वाधूश्रौ ४, १०:
 ६; प्रतिकुर्यात् शंघ २७०;

a) कर्तरि डः प्र. उत्सं. (पा ३, २, १०१)। b) = मुख्य-। अतिशयने तमप् प्र.। c) वैप १ द्र.।
 d) पाभे. वैप १, २१३९। द्र.। e) पाभे. वैप १, २१३९ ज्र.। f) पाभे. वैप १, २१३९० द्र.। g) प्रातर-
 इति [पक्षे] आण्डा.। h) व्यप.। व्यु. ?। i) पाभे. वैप १, २१४१। द्र.। j) आभिमुख्ये कप्र.।
 k) तु. मनुः [४, ४८]। l) अय्य.। m) = कार्षापणिक-। n) अस.। o) = निपातन-। p) विप.। बस.।
 q) विप.। प्रस.। r) तु. पागम.।

प्रतिकुर्वीरन् बौश्री २३, ११ : ४;
 प्रतिकुर्युः गौध १२, ३७.
 प्रतिकार्षीः जैय १, २ : २११.
 प्रति-कार- -रम् शंघ १४५.
 प्रतिकारौ(र-औ)षव- -घात् शंघ
 ३३५.
 प्रति-क्रिया- -याः आउयो ५, ७.
 ?प्रतिकृतः वाश्री ३, २, ३, ३६.
 प्रति-कृति^१- -तिम् आपश्री १, २५,
 ४; भाश्री १, २६, २; वैश्री ४,
 १० : ७; हिश्री; -तौ पा ५, ३,
 ९६.
 प्रति-कृत्तिका- पा ६, २, १९३.
 प्रति✓कृष्, प्रतिकृष्येत मीसू ५, १,
 २७.
 प्रति-कर्ष- -र्षः मीसू १०, ५, ६२;
 ६५; ६८; ११, २, ५५; -र्षम्
 मीसू १०, ५, ६९.
 प्रति-कृष्ट- > ष्ट-तर, रा- -रम्
 वैश्री १४, १० : ५; हिश्री ७, ७,
 २; ३३; -राम् आपश्री २, १०,
 २३; भाश्री.
 प्रति-कृष्य बौश्री ६, ५ : १३××;
 वैश्री.
 प्रति-कृष्णाजिन^२- -नम् काश्री २,
 ५, २.
 प्रति✓कल्प, प्रतिकल्पयेत् निसू
 ५, ९ : ११; २०.
 प्रत्यकल्पयिष्यत् निसू १०, ७ :
 १५.
 ऋप्रतिचाकल्पत्^३ आश्री ८, ९,
 ७; शाश्री १०, ११, ९.
 प्रति-कल्प- -सम् आपश्री ९, १४,
 ६; हिश्री १५, ४, १३.
 प्रति✓क्रम, प्रतिक्रामति निसू १,

१ : ५; १०; १५.
 प्रति-क्रान्त- -न्तम् वाधूश्री ३,
 ३९ : २३.
 प्रति-क्रामत्- -मस्सु वाधूश्री ४,
 १०८ : ३.
 प्रति-क्रामम् आपश्री २, १७, ५.
 प्रति-क्रिया- प्रति✓कृ द्र.
 प्रति-क्षत्र^४- -त्रः ऋअ २, ५, ४६;
 छुअ ३, २०८.
 प्रति✓क्षिप् पा १, ३, ८०.
 प्रति-खेटक- पा ६, २, १९३.
 प्रति✓ख्या > प्रति-ख्यात, ता- -तः
 बौश्री २५, ६ : १६; अप्राय ३,
 ३१; -ताः बौश्री २५, ६ : १२.
 प्रति-ख्याय बौश्री १४, २३ : ७;
 १८, ४८ : १२.
 प्रति✓गच्छ, गम्, प्रतिगच्छन्ति
 वैश्री १४, १६ : १; हिश्री ७,
 ८, २९.
 प्रतिजगाम वृदे ७, ३.
 प्रति-गर- प्रष्ट. प्रति✓गृ (शब्दे) द्र.
 प्रति✓गर्ज, प्रतिगर्जति अप ६१,
 १, २१; प्रतिगर्जेत् अप १,
 ३६, १.
 प्रति-गर्जन- -नम् अप ६१, १, १९;
 -ने अप ६१, १, २४.
 प्रति✓गा, प्रतिगाम् आपश्री २, १,
 ११.
 प्रति-गौर्य प्रति✓गृ (शब्दे) द्र.
 प्रति✓गृ (अवबोधने) > जागृ,
 ऋप्रतिजागृहि आपश्री ६, १, ३;
 भाश्री ६, ७, ४.
 प्रति✓गृ, गृ(शब्दे), प्रतिगृणाति आश्री
 ८, १३, ८××; शाश्री; प्रतिगृणन्ति
 काश्री २२, १०, ६; आपश्री २२,

१०, १५; हिश्री १७, ४, ३३;
 प्रति...गृणीहि या ४, १६१;
 प्रतिगृणीयात् बौश्री २१, २३ :
 ४; २२; भाश्री ६, ११, ३.
 प्रति-गर^५- -रः आश्री ५, ९, ४;
 १०××; शाश्री; -रम् शाश्री १२,
 २३, ३; बौश्री; -रस्य वाश्री १०,
 ५, १४; -राः आश्री ८, ३, १९;
 २१; २३; वैताश्री ३२, २४;
 -राय माश्री २, ४, २, २३; ४०;
 ६, १३; -रे बौश्री १४, १० : ७;
 १३; वाधूश्री; -रेण वाधूश्री ४,
 ८९ : २७; -रौ आश्री ५, २०,
 ६; ८, ३, २४; २५; वैताश्री ३२,
 २७; २९.
 प्रति-गारितृ- -रित्ने आश्री ९, ३, १५;
 शाश्री १५, २७, १.
 प्रति-गारिष्यत्- -ष्यति काश्री १९,
 ६, २६; -ष्यन् काश्री १९, ५,
 ७; आपश्री.
 प्रति-गौर्य आपश्री १२, २७, १८××;
 बौश्री.
 प्रति-गृणत्- -णते बौध २, १०, ६६.
 प्रति✓गृभ्, ह, ग्रम्, ह, प्रति-
 ग्रहेत् आश्री ३, १२, १ : १६.
 प्रतिगृष्णामि आश्री ६, १२,
 २१; प्रतिगृष्णीहि. शाश्री १२,
 १९, २१; प्रति...गृभय कौसू
 ६०, २८; ऋप्रतिगृष्णीत माश्री
 ६, १, १, ४०^६; ४, ३३^६; वाश्री
 २, १, १, ३०^६; हिश्री ११, ५,
 ८^६; प्रत्यगृष्णन् शाश्री १२, १९,
 १^६; ऋप्रति...अग्रभीत् आश्री
 ५, ७, ५; शाश्री ७, ६, ६; प्रति...
 अग्रभीष्टान् या ६, १६^६;

a) नाप. । प्रास. । b) अस. । c) पामे. वैप १, २१४३ h द्र. । d) व्यप. । e) वैप १ द्र. ।
 f) पामे. वैप १, २१४४ b द्र. । g) पामे. वैप १, २१४४ f द्र. । h) पामे. वैप १, २१४४ g द्र. ।
 i) पामे. वैप १, २१४४ i द्र. ।

प्रति...अगृभीषत् शुभ्रा ६, ७[†].
 प्रतिगृह्णीते बौघ १, १०, ९;
 प्रतिगृह्णाति शांश्रौ ४, २१, ७;
 ७, १८, १; १६, १८, ९; काश्रौ;
 प्रतिगृह्णीतः काश्रौ १०, २, २७;
 प्रतिगृह्णन्ति ऋापश्रौ^३ ७, १२,
 १०; १५, ४; बौश्रौ ४, ६ :
 २३[†]; वैश्रौ १०, १० : १[†];
 कौगृ; प्रतिगृह्णामि ऋाश्रौ १,
 १३, १; ३, १, १७; ५, १३,
 १५^०; शांश्रौ; हिश्रौ १०, ६,
 ९^०; मागृ १, ८, ६[†]१^०; हिगृ १,
 १३, १९[†]१^०; कौसू ५६, ३^०;
 प्रतिगृह्णतु आश्रौ ५, १३,
 १५; ऋापश्रौ १, २०, ११[†];
 बौश्रौ १, ६:२६[†]××; ऋभाश्रौ
 १, २२, ७[†]; २३, ८[†]; हिश्रौ १०,
 ६, ९; वेताश्रौ ४, ३[†]६^०; पागृ;
 प्रतिगृह्णतु माश्रौ १, ८, ३,
 ३[†]३^०; भागृ २, १५ : १०[†];
 वैगृ; प्रतिगृहाण वृदे ५, ७९;
 ऋप्रति...गृहाण^५ आपमं १, १२,
 ७; आमिगृ १, ५, ५ : १४;
 हिगृ १, २५, १; अत्राय २, ५;
 अप ३७, ५, ८; प्रतिगृह्णीत आपश्रौ
 १६, ३, १४; १२, ११[†]; बौश्रौ;
 प्रतिगृह्णानि वागृ १०, १६[†];
 ऋप्रतिगृह्णाम आपश्रौ १४, १२,
 ६; हिश्रौ १०, ६, ६; ऋप्रत्यगृह्ण
 आपश्रौ १४, १२, ६; हिश्रौ १०,
 ६, ६; प्रतिगृह्णीयात् आपश्रौ १४,
 ११, १; ४; १२, २; बौश्रौ; प्रति...

गृह्णीयात् आपश्रौ १३, ७, १२;
 प्रतिगृह्णीयुः आमिगृ २, ३, ३ :
 २१; वैगृ ५, ६ : १९; प्रति...
 गृह्णीयुः आपश्रौ १३, ७, १५.
 प्रतिजग्राह वृदे ६, २३; प्रति-
 जगृहुः वाध ५, ८.
 प्रतिगृह्यते बौघ २, ८, १७.
 प्रतिग्राहयति वैताश्रौ ३४, १४;
 बौगृ २, ११, २१.
 प्रति-गृहीत, ता- -तः वाध १५, ९;
 -तम् बौश्रौ १६, २७ : ८; २१,
 १० : १६; बौघ १, ११, २९;
 -ता पागृ ३, १५, २१; -तायाम्
 वैश्रौ ७, ३ : ९; -त्ते आपश्रौ
 ३, ४, ४.
 प्रति-गृह्णत्- -हृतः बौघ २, २,
 ८०; -ऋहृते शांश्रौ^७ ७, १८,
 १-५; कौगृ १, ८, १३.
 प्रति-गृह्णान- -नः अप ४१, ३, ११;
 वाध ६, ३२.
 प्रति-गृह्य आश्रौ १, ७, ३; १३, १××;
 शांश्रौ.
 प्रति-गृह्य- पा, पावा ३, १, ११८;
 -ह्यम् आपश्रौ १३, ७, १४;
 बौगृ १, ७, २२; -ह्याणि आपव
 १, १८, १; हिघ १, ५, ७१.
 प्रति-ग्रह^६- -हः आश्रौ ५, ५, ११;
 आमिगृ २, ६, २ : ६; वाध; बौघ
 २, ५, ३[†]१^०; -हम् बौश्रौ १८,
 २४ : २; लाश्रौ १०, १७, १७;
 आमिगृ; -हे बौश्रौ २१, १० :
 १३; कौगृ ३, ९, १२; शांगृ;

-हेण विघ ५७, ७.
 प्रतिग्रह-प्रसङ्ग- -ङ्गम् विघ ५७,
 ६.
 प्रतिग्रह-मार्जन-वासःपरिधान-
 वर्जम् आमिगृ १, ६, ३ : ५९.
 प्रतिग्रह-विधि- -धिम् विघ
 ५७, ८.
 प्रतिग्रह-समर्थ- -र्थः विघ ५७,
 ९.
 प्रतिग्रह(ह-इ)ष्टका^८- -काः बौश्रौ
 १२, ७ : ५४.
 १ प्रति-ग्रहण- -णम् काठश्रौ १२१;
 हिश्रौ १०, ६, ७; बौगृ; -णाः
 आपश्रौ १४, १२, ५^०.
 प्रति-ग्रहीतृ- -ता आश्रौ ५, १३,
 १५; शांश्रौ ४, ७, १५; आपश्रौ
 १४, ११, २; हिश्रौ; -तारम्
 आपश्रौ १६, ३५, १; बौश्रौ ६,
 ८ : ९; वैश्रौ १९, १ : ९; हिश्रौ
 ११, ८, २१; -त्रे आपश्रौ १४,
 ११ : २; हिश्रौ १०, ६, ९;
 कौसू ६८, २३.
 प्रति-ग्रहीष्यत्- -ष्यन् आपश्रौ १४,
 ११, १; माश्रौ ५, २, १, २१;
 हिश्रौ १०, ६, १; द्रागृ ४, ४,
 ५^०; वाध १५, ६^०.
 प्रति-ग्रहीष्यमाण- -णः बौघ ४,
 २, ४.
 प्रति-ग्राहक- -कान् निसू ८, ६ :
 ५९.
 प्रति-ग्राहयिष्यत्- -ष्यन् आगृ ४,
 ७, १४.

a) पाभे. वैप १, २१४४ n द्र. । b) पाभे. वैप १, १२३७ o द्र. । c) प्रती^९ इति पाठः १ यनि. शोचः (तु. Knauer) । d) पाभे. पृ १००० i द्र. । e) सप्र. कौसू ५६, २; ५७, ४ प्रयच्छामि इति पाभे. । f) पाभे. वैप १, ९२५ r द्र. । g) पाभे. वैप १, १४५३ j द्र. । h) पाभे. पृ ९९९ q द्र. । i) पाभे. वैप १, २१४४ g द्र. । j) पाभे. वैप १, २१४५ m द्र. । k) उप. भावाद्यर्थे अर्प प्र. (पा ३, ३, ५८) । l) पाभे. वैप १, २१४५ k द्र. । m) = इष्टका-विशेष- । मलो. कस. । पूष. ? । n) = मन्त्र- । उप. करणे कृत । o) ष्यु^९ इति पाठः १ यनि. शोचः ।

प्रति-ग्राहिन्- नही बौश्रौ १३, ३३ :
३; हिश्रौ २२, ५, १२.
प्रति-ग्राह्य बौध २, ८, ७.
प्रति-ग्राह्य- -ह्यम् वैश्रौ १६, ८ : ३;
वाध ५, ९; -ह्यस्य बौध २, ३, ८.
प्रति-जिघृक्षन्- -क्षन् गौध २४, २.
प्रति√गृह् प्रति√गृम् द्र.
प्रति-गृह्^१- -ह्यम् काश्रौ १५, ३, २.
प्रति-गृहीत- प्रभृ. प्रति√गृम् द्र.
प्रति√गृ प्रति√गृ (शब्दे) द्र.
प्रति√गृ (निगरणे), प्रतिजागर्मि या
१०, ३३.
प्रतिजागर या १०, ३३^क^१.
प्रति√गौ, प्रतिजगुः वृदे ८, ३८.
प्रति√ग्रभ्, ह्, प्रति-ग्रह- , १प्रति-
ग्रहण- प्रति√गृम् द्र.
२प्रति-ग्रहण^१- -णम् हिश्रौ ८, ७, ४०.
प्रति-ग्रहीतृ- प्रभृ. प्रति√गृम् द्र.
१प्रतिग्रामन्ति आश्रौ ८, १३, ३१.
प्रति-ग्राहक- प्रभृ. प्रति√गृम् द्र.
प्रति-घ- प्रति√हृन् द्र.
प्रति√घस्, प्रतिजञ्जुः बौश्रौ १८,
२९ : १९.
प्रति-घात- प्रति√हृन् द्र.
प्रति√घृष् > प्रति-घोषि(न्) > णी-
-०ण्यः शाश्रौ ४, १९, ८.
प्रति√घृष् > प्रति-घृष्ट- > ष्ट-
दर्श(न्) > ना^१- -०ने सु ६, २.
प्रति-घ्नान- प्रति√हृन् द्र.
प्रति√चक्ष्, प्रति...चष्टे भाश्रौ १०,
२, २; ऋप्रतिचक्ष्व आश्रौ ३, ५,
७; कौश्रु ३, ७, १०; शांश्रु ४,
५, ८; अप ४६, ६, ३; अश्रु ८, ४.
प्रति-चमस^१- -सम् माश्रौ २, ५, १,
३५.

प्रति-चमस-गणो(ण-उ)जयन^१-
-नम् वैश्रौ १७, ४ : ५.
प्रति√चर्, प्रतिचरति बौश्रौ १७,
१५ : १२; १६ : २; ५; ८; प्रति...
चरन्ति माश्रौ ५, १, ६, ३१.
प्रति-चार- -रः वाश्रौ ३, २, २, ३०.
प्रति-चिती^१- -ति काश्रौ १२, २, १;
१६, ७, २१.
प्रति√चेष्ट् > प्रति-चेष्टित- -तानि
अप ५३, १, १.
प्रति-चोदन- -नम् आश्रौ १, ३, १७.
प्रति√च्छद्, छद्, प्रतिच्छादयति
कौसू ७९, २४.
प्रति-च्छन्न, ज्ञा- -न्नम् आपध २,
१८, १५; हिध २, ५, ६८; -ज्ञानि
आपश्रु ३, १४; -ज्ञाम् आपश्रु
९, ६.
प्रति-च्छाद्य बौश्रौ ४, २ : २७x५;
आमिष्ट.
प्रति-च्छन्दस्^१- -न्दः उनिसू ३ : ७.
प्रति-च्छन्दस्^१- -सम् उनिसू १ : ४.
प्रति-च्छा, छाया^१, या- -याम् आमिष्ट
२, ४, ६ : ३३; -ये अप ७२,
३, ८.
प्रति√च्छिद् > प्रतिच्छिद्य शाश्रौ
१, ६, ६; काठश्रौ १०.
प्रति-च्छिन्न- > ञ्ना(ञ-अ)प्र^१-
-यम् बौश्रौ ३, २८ : ३ जैश्रौ २ :
४; ८ : १३.
प्रति√जन्, प्रतिजायते शैशि ३०९.
प्रति-जनिष्यमाण- -णान् बौश्रौ
१७, २८ : १७; हिश्रौ १२, ८, ७;
आपश्रु १२, ६१; हिश्रु ४, २८^क.
१प्रति-जन^१- (> प्रातिजनीन- पा.)
पाग ४, ४, ९९.

२प्रति-जन^१- पा ६, २, १९३.
प्रति√जप्, प्रतिजपति हिश्रौ १५, ५,
२७; गोश्रु १, ३, १९; कौसू ४२,
२२; ७७, १०; प्रतिजपेत् अप
१८, ३, २.
प्रतिजाप्सीः जैश्रु १, २ : २०.
प्रति-जपित- -ते हिश्रौ १५, ५, २७.
प्रति-जाप- -पः कौसू ३६, २५.
प्रति-जिघृक्षन्- प्रति√गृम् द्र.
†प्रति√जुष्, प्रति...जुषताम् शाश्रौ
३, १८, १५; आपश्रौ ८, २०, ५;
प्रति...जुषस्व आपमं २, १५,
१८; २०; पाश्रु ३, ४, ७^१; आमिष्ट;
प्रति(जुषेत) उस् ३, १.
प्रतिजोषयेते या ८, १५^१.
प्रति-जुहन्- प्रति√हु द्र.
प्रति√ज्ञा^१, प्रतिजानीते आश्रु १, २३,
१६; आपध २, ६, २^१; हिध २,
२, २^१; प्रति...जानीते भाश्रौ
१०, २, २; भाश्रु २, २५ : १५;
प्रतिजानते निसू १, ३ : २३;
गौध ११, १८; ऋषा १६, ४६;
नाशि २, ५, २; प्रतिजानन्ति
नाशि १, ८, ७; †प्रतिजानीहि
शाश्रौ २, १६, २; बौश्रौ १४,
१९ : २५; भाश्रौ; प्रतिजानीयात्
आश्रु १, १३, ३; माशि ९, ९;
१२, ९; नाशि २, ५, १०.
प्रति-जानन्- -नन् कौसू ४९, १६.
प्रति-जाना(न्)ना- -नाम् जैश्रु
१, २१ : ३३.
प्रति-ज्ञा- -ज्ञा चव्यू २ : ३०^१;
नाशि २, ७, १०; ११; -ज्ञाम्
विध ८, ३८.
प्रातिज्ञ^१- -ज्ञम् शौच १, १.

a) अस. । b) वैप १ द्र. । c) विप. । बस. । d) अस. > षस. > षस. । e) अस.

समासान्तषु ट्च् प्र. उंसं. (पा ५, ४, १०३) । f) प्रास. नपुंसकत्वम् (पा २, ४, २५) । g) प्रास. । h) पाभे.
वैप १, २१४६ f द्र. । i) पा १, ३, ४६ परामृष्टः द्र. । j) = प्रातिज्ञासूत्र- (परिशिष्ट-भेद-) । k) तस्येदमीयः प्र. ।

प्रति-ज्ञात- -तानि आपश्चौ २०,
१९,७; -तेषु अप ६६,१,१.
प्रति-ज्ञान- -नम् शौच १, ८; -ने
पा १,३,५२; पावा १, ३, २२.
प्रति-ज्ञाय भाश्चौ १७, २,३.
प्रति-तन्त्र^३- -न्त्रम् आपश्चौ २४, १,
२९; बौश्चौ २८, ४: १; हिश्चौ
१,१, ६५; मीस् १२, १, ३५;
४२.
प्रति✓तप्, प्रतितपति शाश्चौ २, १७,
३; आपश्चौ १,३,३; २, ५, १;
बौश्चौ; प्रतितप आपश्चौ ६, २१,
११; प्रतितपेत् आश्चौ २,३,९;
३, १०,५; बौश्चौ २०, २: १६-
१८; वैश्चौ २०, २: ४.
प्रति-तपन- -ने बौश्चौ २०, २: १५.
प्रति-तप्य शाश्चौ २, ८, ११××;
आपश्चौ.
प्रति-तप्यमा(न>)ना- -नायै
बौश्चौ ४,७: २; ११,५: ४××.
प्रति-तर- > -तराम् वाधुश्चौ ४,
१०८: ५.
प्रति-तारक^३- -कम् बौश्चौ २२, ८:
३३.
प्रति✓तिज्ञ, प्रतितितिगिध आपश्चौ
६, २१, ११^०.
प्रति-तिष्ठत्, °ष्ठमान- प्रति✓ष्ठा द्र.
प्रति✓तृप् > प्रति-तर्पण- -णम्
वाश्चौ १, १, १, २१.
प्रति-उयह^३- -हम् बौध २, १, ६३;
गौध २३, २.

प्रति, तीर्थि^०- > प्राति, तीर्थि^०धि
(य>) ची^०- -ची आद्य ३,
४, ४; कौद्य २, ५, ३; शाद्य ४,
१०, ३; अप ४३, ४, २५.
प्रति-दक्षिण^{अ०}- -णम् मीस् ११,
४, २.
प्रति✓दघ्, प्रतिदघ्नयात् वाध १,
२३.
प्रति✓दघ्, प्रति...दघति हिश्चौ
१६, ७, १७^६.
प्रति-दधान- प्रति✓धा द्र.
प्रति-दर्श- °र्शन- प्रति✓दृश् द्र.
प्रति✓दह्, प्रति...दह क्रपा ८,
२४; प्रति(दह) जैद्य २, ७: ६; १.
प्रतिधाक्षीत् बौश्चौ २, ५: ५; १.
प्रति-दह्यमान- -नान् सु ८, ५.
प्रति✓दा(दाने), प्रति...ददाति
आपश्चौ २१, २२, ५^६; प्रति...
ददामि माश्चौ २, ५, ५, १८^६.
प्रति-दान- -नात् पावा ५, २, १४.
प्रति-दाप्य- -प्यम् आपध २, २६,
८; हिध २, ५, २०३.
प्रति-दिन^३- -नम् अप १८^३, १९, ३^३.
प्रति✓दिव् > प्रति-दिवन्- पाठ १,
१५६.
प्रति-दिवस^३- -सम् आग्रिद्य २, १,
४: २४; विध ४७, ७.
प्रति✓दिश्, प्रतिदिशति निस् ४,
९: १६; प्रतिदिशन्ति निस् २,
३: १.
प्रति-दिश^३- -दिक् वैद्य १, ८: ४;

-दिश: भाश्चौ ७, २०, ७^१.
प्रतिदिग्-द्वार, रा^१- -रम् काश्चौ ७,
१, १७; -राम् वैश्चौ १२, ४: ९.
प्रति-दिश^३- -शम् आश्चौ १, ११, ७;
१२, ३५××; शाश्चौ ३, २१, ७^१;
काश्चौ ५, ४, १०; ९, ९, ५^३××;
आपश्चौ; वैताश्चौ २९, १३^३.
प्रति✓दुह्, *धुष्, प्रतिदुग्गाम् या
१, ७.
प्रति...दुहोयत् या १, ७^१क^०.
प्रति-दुह^०- -दुह: माश्चौ ५, २, ११,
२४; -दुहा शाश्चौ १३, ६, ३^३;
काश्चौ २२, ९, ९^३; ११, ९;
काश्रौसं २९: २४; माश्चौ ३, ६,
५^३; ५, २, ११, ४; -दुहि आपश्चौ
२०, २५, २; -धुक् आश्चौ ६, ८,
९; काश्चौ ७, ८, ८^१; आपश्चौ.
प्रतिधुक्-श्रुति- -ते: काश्चौ ५,
११, ७.
प्रति-धुष्- -धुषा आपश्चौ १४, २४,
१४^३; २२, १०, ५^३; १२, २०^३;
हिश्चौ १५, ६, १७^३; १७, ४, २१^३;
२५^३; ५, २३.
प्रति✓दृश्, प्रतिददर्श बौश्चौ १८,
४५: १७.
प्रतिदृश्येते आपमं २, १६, १२^३.
प्रति...ददर्शि शाश्चौ ६, ५,
८^१; ऋप्रति(ददर्शि) आश्चौ ४;
१४, २; शाश्चौ ६, ५, २××;
प्रति(अदध्रन्) अदध्र २, ७, ७८^३;
प्रति...अदध्रम् आश्चौ ५, १,

a) अस. । b) पांमे. वैप १, ११४१ j द्र. । c) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । बस. इति वंवा २ ।
d) आद्य. पाठः । e) = ऋषिका- (वडवा-) । अपत्ये ढक् प्र. (पा ४, १, १२३) । f) उप. = २दक्षिणा- ।
g) सप्र. प्रति... दघति <> प्रति... ददाति [°धाति इत्यपि मूको.] इति पांमे. । h) सप्रा. तैश्चा २, ३, १ प्रति...
दघामि इति पांमे. । i) पाठः ? । सपा. तै १, ३, १०, २ प्रष्ट. प्रदिशः इति पांमे. । j) विप. । बस. । k) अस.
समासान्तर्ष टच् प्र. (पा ५, ४, १०७) । l) तु. आश्चौ २, ५, ७ भाष्यम्; वैतु. शाश्चौ. भाष्यम् C. च द्वि. युक्तः कप्र.
प्रतिः इति । m) तु. चौसं. । n) शोधः पृ १२२६ m द्र. । o) वैप १ द्र. । p) सप्र. प्रतिदुहा <>
प्रतिधुषा इति पांमे. ।

१० ङ; प्रति (अष्टश्रम्) शांश्रौ
६, ७, ४ ङ.
प्रति-दर्श- -शाय शांश्रौ ४, १८, ७.
प्रति-दर्शन- -नम् या ७, ३१.
प्रति-दृश्य काण् २७, ३.
प्रति-दृश्यमा (न >) ना- -नासु
आश्रौ ५, १, १०.
प्रति-दृ(श्) > दृश्या- -शयथै बौश्रौ
२८, ४: १६; आग्निष्ठ २, २, १:
७१^६.
प्रति-देवत्व^७- -तम् काश्रौ १५, १०,
१२: २०, ८, ४; २१, १, १६;
वाश्रौ ३, २, ६, ५०.
प्रति-देह^७- -हम् अप ३६, १५, १.
प्रति-दोष^७- -षम् निसू २, १३:
२९ ङ.
प्रति-द्रव्य^७- -व्यम् काण् ५२, ७,
प्रति-द्वार^७- -रम् भाश्रौ ८, १५, ४;
वैण् ३, ७: १८.
प्रति ✓धा, प्रतिदधाति आपश्रौ १, ४,
११; भाश्रौ १, ४, ६ माश्रौ;
प्रति(दधाति) बौध ४, २, ११^१ ङ;
प्रति...दधति बौध ४, २, ११^१ ङ;
प्रतिदधामि वाण् १५, ११^१ ङ;
ङप्रति...दधामि बौश्रौ ३, १५:
१८; २५; प्रतिदधमः आश्रौ ३,
१४, १० ङ^६; प्रति...दधातु कौण्
१, १२, ६ ङ^६; ङप्रतिधस्त्व द्राश्रौ
१०, २, ९, १०; लाश्रौ ३, १०, ८;
९; प्रतिधत्त गोण् २, ७, २० ङ;
प्रत्यधत्ताम् वाधूश्रौ ४, ९९:
४-६; १२; भाशि ११३;
प्रति...दधीमहि ऋप्रा ८, ४४ ङ;

प्रतिदध्यात् शाण् १, १५, १०.
प्रत्यधास्यताम् वाधूश्रौ ४, ९९:
९.
प्रतिधीयते बौश्रौ १०, १२: १;
प्रति...धीयते वाधूश्रौ ४, ९९:
१२; ङप्रतिधीयताम् आपश्रौ
१४, ३३, ८^३; हिश्रौ १५, ८,
१४^३; शाण् ४, १८, ४^३; पाण् ३,
२, १२^३; अप्राय ६, ११^३ ङ.
ङप्रति...जघायि आपश्रौ १८,
१२, ९; बौश्रौ १०, ५६: ९; वाश्रौ.
प्रति-दधान- -नम् द्राश्रौ १, २, १०;
लाश्रौ ३, १०, ९.
प्रति-धातवे^७ बौश्रौ ८, १९: १२ ङ.
प्रति-धान- -नेन या ५, ११^६.
प्रति-धाय वाश्रौ १, २, १, २१.
प्रति-धि^७- -धि: वैताश्रौ २०,
१३ ङ^६.
प्रति-धीयमान- -नम् या ११, ८^१.
प्रति-हित, ता- -त्: आपश्रौ १८,
१७, ३; १८, १४; बौश्रौ १२,
११: ११×४; वाश्रौ; -तम्
आपश्रौ १८, १६, १४; हिश्रौ
१३, ६, ३३; -तस्य बौश्रौ १२,
११: १०; १२: ८; १३: २३;
वाश्रौ ३, ३, ३, ३७; -ता:
बौश्रौ २६, १०: १४; या १२,
३७ ङ; -तानाम् बौश्रौ १५, २४:
२०; २५: ५×४; -ताभ्याम्
आपश्रौ २२, १२, ८; -ताम्
बौश्रौ १८, ४८: १२; -ताय
आपश्रौ १८, १८, १४; बौश्रौ;
-तासु माश्रौ ३, ८, ४; -ते बौश्रौ

१२, ११: १०; -तेषु कौण्
७५, १३.
प्रति ✓धात् (गतौ), प्रतिधावतात् अप
१४, १, १३ ङ^६.
प्रति ✓धी > दीधि, प्रति...दीधिम
या ६, ८ ङ^६.
प्रति ✓धुष् प्रति ✓हुह् द्र.
प्रति ✓धृष् > प्रति-घृष्य- -व्य: हिश्रौ
१४, १, २८ ङ.
प्रति ✓धे, प्रतिधयीत भाण् ३, ६:
२१; प्रतिधयेत् बौण् ३, ६, १.
प्रतिधापयति भाण् १, २५: ९.
ङप्रति-धा^७- -या या ५, ११^६.
प्रति-धाप्य आपण् १५, ५.
प्रति-नक्षत्र^७- -त्रम् अप १, ४२, ५;
१८^३, १९, १.
ङप्रति ✓नद्, प्रतिनदति अप १,
३२, १०.
प्रति ✓नन्द, प्रतिनन्दन्ति आपण्
२, २०, २७; २९; पाण् ३, २, २;
आग्निष्ठ; ङप्रतिनन्दन्तु हिण् २,
१४, ४.
प्रति-नन्दित- -ता: आपण् २, १६.
प्रति-नन्द्य वैश्रौ १२, १८: १३.
प्रति ✓नम्, प्रतिनानाम ऋप्रा ९,
४६ ङ^६.
प्रति-नमस् > प्रतिनमस् ✓कृ,
प्रतिनमस्कुर्वात् अप्राय २, ९^३.
प्रति-नमस्कार^१- -रेभ्य: शांश्रौ ६,
२, २.
प्रति-नयत्- प्रति ✓नी द्र.
प्रति ✓नह् > प्रति^३ [ती]नाह^७-
-हम्^६ आपश्रौ १६, १८, ४;

a) प्रती^७ इति पाठः? यनि. शोधः। b) अस.। c) वैप १ द्र.। d) पामे. वैप १, २१४८ d द्र.।
e) पामे. पृ १९९ व द्र.। f) सपा. प्रतिधीयताम् <> प्रतिभूषन्ताम् इति पामे.। g) सकृत् प्रतिही^७
इति पाठः? यनि. शोधः (तु. आपश्रौ १४, ३३, ८^३)। h) वैप १, २१४९ d द्र.। i) पामे. वैप १, २१४८ j द्र.।
j) पामे. वैप १, २१४८ o द्र.। k) पामे. वैप १, २१४८ p द्र.। l) विप.। वस.। m) वैश्रौ. पाठः।
n) पामे. वैप १, २१४९ j द्र.।

वैश्रौ १८, १५ : १२; हिश्रौ ११,
६, २६.
प्रति-नामन्^a - म काट् ५२, ७.
प्रति-नामधेय^b - यस् मीस् ३, ७,
२२.
प्रति-नि/गद् > प्रतिनि-गद्य काश्रौ
६, १०, २३; आपश्रौ.
प्रति-नि/ग्रह् > प्रतिनि-ग्राह्य^b -
ह्यस् आपश्रौ १२, २०, १९^{c,d};
हिश्रौ ८, ६, १९; -ह्याः आपश्रौ
१२, २१, २२; -ह्याणाम् आपश्रौ
१२, २१, १०; -ह्यान् माश्रौ २,
३, ८, २.
प्रति-नि/घा, प्रतिनिद्घाति आपश्रौ
१०, १३, ९; १६, ६, ३; बौश्रौ
२८, ९ : १६; वाश्रौ; प्रतिनिद्-
घ्यात् शाश्रौ ३, २०, ९××;
माश्रौ.
प्रतिनि-घान- नस् वैश्रौ १८, ४ :
४; -नेम् काट् ४१ : ४.
प्रतिनि-घाय काश्रौ २५, १४, २८;
माश्रौ १, १, ३, १; या १२, १०.
प्रतिनि-धि^e - धयः बौश्रौ २८,
६ : १५; वैश्रौ २०, ३५ : ६;
हिश्रौ १५, ८, ७; -धिः आश्रौ
३, १०, २; शाश्रौ ३, १९, २;
काश्रौ; -धिम् वैश्रौ ११, ११ :
२; २०, ३५ : ७; -धिषु आश्रौ
३, २, १९; हिश्रौ ३, ७, ५३;
निसू ३, १० : ३८; -धी वेष्ट २,
१७ : ४; ३, ११ : ४; -धीन्
बौष्ट ४, ९, १५; -धीनाम् शाश्रौ
३, २०, १०; -धौ काश्रौ १,
४, १५; मीस् ६, ३, ३३; ९, ३,
२६.

प्रतिनिधिक^f - नः काश्रौ
२५, १३, ४१.
प्रतिनिधि-प्रतिदान- नयोः पा
१, ४, ९२; -ने पा २, ३, ११.
प्रति-नि/नी, प्रतिनिनयति अप ४५,
१, १३.
प्रतिनि-नीय वैश्रौ ६, २ : ८.
प्रति/निन्द् > प्रति-निन्दित-
-ताः भाग १, १२ : १६.
प्रति-नि/यस् > प्रतिनि-यत् -तः
आमिष्ट २, ६, ४ : १९; -तानाम्
आमिष्ट २, ६, ४ : १६; शंघ
१३२.
प्रति-निर्/अस् (क्षेपणे), प्रतिनिर्-
स्यति आपश्रौ ३, १०, ४; भाश्रौ
१, २४, २; ३, ९, ८; भाग ३, १८ :
२०.
प्रतिनिर्-अस्य आमिष्ट २, ७, ९ :
१५.
प्रति-निर्/ग्रह् > प्रतिनिर्-ग्राह्य^b -
ह्यस् बौश्रौ ७, १२ : १८^d; २२;
३५××; वैश्रौ १५, २५ : १४^d;
हिश्रौ ८, ६, १७; -ह्याणाम् बौश्रौ
१४, १० : ३५; २१, १९ :
१९; -ह्यान् बौश्रौ २१, १९ :
२०.
प्रतिनिर्ग्राह्य-पात्र- न्रस्य वैश्रौ
१५, २६ : ७.
प्रति-निर्/वप्, प्रतिनिर्वपति आपश्रौ
१८, १०, २८; बौश्रौ १२, ५ :
१०; १८; हिश्रौ १३, ४, १४†;
कौस् ४८, २७; प्रतिनिर्वपेत्
बौश्रौ १३, १६ : २.
प्रति-निर्/वेष्ट्, प्रतिनिर्वेष्टयते
बौश्रौ २५, २ : ३.

प्रति-नि/विश् > प्रतिनि-वेश^e -
-शेन बौघ ४, १, २२.
प्रति-नि/वृत्, प्रतिनिर्वर्ते विघ
६७, ३३.
प्रतिनिर्वर्तयत बौश्रौ १४, १४ :
१७.
प्रति-निश- -शस् अप ७, १, १३.
प्रति-निष्/क्व > प्रतिनिष्-कार- -रस्
निसू ४, ७ : २७.
प्रति-निष्/कम्, प्रतिनिष्कामति
आपश्रौ ३, २०, १०; १४, १०;
९; हिश्रौ २, ८, ४३××; प्रति-
निष्कामेत् आश्रौ ५, १, १४.
प्रति-निष्/पू, प्रतिनिष्पुनाति कौस्
१४, २०.
प्रति/नी, प्रतिनयति भाश्रौ ११, ३,
१; माश्रौ १, ६, १, १८; वाश्रौ १,
२, २, ३३××; प्रतिनयेत् भाश्रौ
१२, १, ५.
प्रति-नयत् - नय् काश्रौ ५, ५, १२.
प्रति-नीय कौस् १९, १९; २०,
२५××.
प्रति/नुद्, प्रतिनुदति हिश्रौ ७, ५,
११; †प्रति...नुदे आपश्रौ १३,
१८, ९; बौश्रौ १४, २० : १७;
२०; २४; प्रतिनुदत वाश्रौ १, ३,
६, ३†; हिश्रौ २, ४, ८; प्रति-
नुदेत् माश्रौ ३, १, १४.
प्रति-नु(त्)ना- -नाम् आपश्रौ
१३, ७, १२.
प्रति-नोद- -दः^h बौश्रौ १८, ४८ :
५; -दाः निसू ३, १३ : ८.
प्रति-न्यूङ्ङिⁱ - ङ्ङः शाश्रौ १०, ५, १४.
√प्रतिन्यूङ्ङि, प्रतिन्यूङ्ङयति शाश्रौ
१२, १३, ३.

a) अस. । b) विप. > नाप. (पात्र-) । c) णिर्ग्रा^o इति सा [तै. पृ २२७९] । d) सप्र.
परस्परं पाभे. । e) नाप. । गस. उप. क्रि. प्र. । f) = प्रति-निधि- । स्वार्थे षक् प्र. । g) = प्रतिकूलता- ।
h) = एकाह-विशेष- । i) प्रास. ।

प्रति-पक्ष^a- -क्षम् काण्ड ४५ : १४.
 प्रति-पञ्चाह^b- -हम् लाश्री १०,४,९.
 प्रति-पथ^c- पावा ५,४,१०७.
 प्रतिपथिक- , प्रातिपथिक- पा ४,
 ४,४२.
 प्रति ✓ पद् , ऋप्रति (अपद्यहि) काश्री
 ७,९,४; छुञ्ज १,२८३.
 प्रतिपद्यते आश्री २, १७, २,४;
 ६,५,१७; शाश्री ५, १५, ९××;
 काश्री; आपश्री १३, १६, १२^d;
 शाण्ड ४, ८, १२^e; या ७, २३;
 १४, ७; ८; प्रतिपद्यन्ते बौश्री
 ४, २ : ४०; ६ : २६××;
 वाधुश्री; ऋप्रतिपद्यताम् आण्ड
 १,५,४; पाण्ड २,६,२१^d; प्रत्य-
 पद्यत वृदे ३, १५०; प्रतिपद्येत
 शाश्री १५,२,५; आपश्री २१,३,
 ८; बौश्री; प्रतिपद्येरन् वाधुश्री
 ४,१०७:७; वैश्री २१,१० : ५;
 हिश्री १५,६,२२.
 प्रतिपेदे या २,१०; प्रतिपत्स्या-
 महे निस् ४,२ : २.
 प्रतिपादयति आपश्री २,१९,८;
 ८,१२,६^e××; वैश्री; प्रतिपाद-
 यामि आमिण्ड १, ६, १ : १६;
 प्रतिपादयेत् आपश्री १२, १०,
 १४; १३,७××; हिश्री.
 प्रतिपाद्येत शंघ ३३२.
 प्रत्यपित्सीत् निस् ५,८ : १५.
 प्रति-पत्तच्य- -च्यम् आपध २,१०,
 १०; हिघ २,४,१०.
 प्रति-पत्ति- पावाग ३, ३, १०८;
 -त्ति- आश्री २,१९,७; आपश्री

१९,८,१३; काठश्री; -त्ति मीस्
 ८,४,२७; -त्ति- गौघ १८,२४;
 -त्ति- बौण्ड ३,२,५५.
 प्रतिपत्ति-त्व- -त्वात् मीस् ११,
 ४,३५.
 प्रतिपत्ति-दर्शन- -नात् मीस्
 ११,३,९.
 प्रतिपत्ति-भेद- -दात् ऋत्रा
 १४,६८.
 प्रतिपत्ति-यथोक्त- -क्तम् अप
 ६९,६,४.
 प्रतिपत्ति-विधान- -नात् मीस्
 ११,३,३३.
 प्रतिपत्त्य(त्ति-अर्थ)- -र्थम् पावा
 १,४,२.
 प्रति-पत्तुम् ऋत्रा १४,६४.
 प्रति-पत्त्यत्- -स्यन् आमिण्ड ३,
 ७,४ : ३२; बौपि २,४,१८.
 प्रति-पद्^f- पाग ४,३,१६; पावाग ३,
 ३,१०८; -पत् आश्री ६,५,६^g;
 १०, १०,४^h; ६; शाश्री ३, २०,
 ६^h,२,२०,७^h; १०,३,११^h; ५,
 ६^h××; काश्री २५, १३, ३४^h;
 १४, ११^h; बौश्री; लाश्री ४,
 ६, १४^h; ७, १^h; -पत्सु बौश्री
 १६, ३ : २७; २३, १० : ५;
 -पद- शाश्री ११, १२, ९;
 आपश्री; -पदम् आपश्री १४,
 २२, ८; २३, १५; बौश्री; माण्ड
 १, ४, १०ⁱ; आज्यो ६, ९ⁱ;
 -पदा निस् ७, १० : १४; ८,
 २ : ११; -पदाम् आश्री ५,
 ९,२२^j; शाश्री ९, २०, ६; निस्

९,१३ : ४५; -पदि आपश्री ४,
 ९,२^g; बौश्री २८,१२ : २१ⁱ;
 २९, ८ : ५ⁱ; काण्ड ४८, १ⁱ;
 माण्ड २, १८, १ⁱ; हिपि २१ :
 ७ⁱ; अप १८ⁱ, ६, १; विघ ७८,
 ३६ⁱ; -पदे आश्री ६, ५, २०;
 शाश्री ९, २०, २८; -पदोः वैघ
 २, ११, ७ⁱ; -पदौ द्राश्री ८, १,
 २०^h; लाश्री ४, ५, १९^h; छुस्;
 -पद्भिः निस् ४, ४ : ८^h.
 प्रतिपद्^m- पा ४, ३, १६;
 -द्- अप ५०, ३, २; -दम् शाश्री
 ७, १९, ८; -दाः छुस् १, ३ :
 १७.
 प्रतिपद्-ता- -ताम् निस् ५,
 ६ : २.
 प्रतिपद्-प्रभृति- -ति अप १८ⁱ,
 २, १.
 प्रतिपद्-समारोहणीयⁿ-
 -यानाम् शाश्री ६, ६, १७.
 प्रतिपद्-सोम- -मः अप ७२,
 ३, १३.
 प्रतिपद्-अनुचर- -रयोः शाश्री
 ८, ७, १०; -राः आश्री ५, १४,
 ७; ८; ७, ६, ७; शाश्री १०, ९, ५;
 १५; -रेभ्यः आश्री ५, १०, १३;
 -रौ आश्री ५, १४, ४××; शाश्री.
 प्रतिपद्-आदि- -दिषु अप ६३,
 ३, ८.
 प्रति-पद्य आश्री १, ३, ६; शाश्री;
 कौण्ड ३, ९, ५५^e.
 प्रति-पञ्च- पाग ६, २, १४६; -ञ्च-
 हिश्री १०, ३, ३२; -ञ्चन आपध

a) अस. । b) पामे. पृ १६५४ d द्र. । c) सपा. कौण्ड ३,९,५५ प्रतिपद्य इति पामे. । d) सपा.
 माण्ड १,९,२७ प्रतिमुच्यताम् इति पामे. । e) पामे. पृ ३२३ g द्र. । f) वैप १ द्र. । g) = आद्या-ऋच्- ।
 h) = प्रतिपत्ति- (तु. आश्री ३,१०,२२ भाष्यम्) । i) = तिथि-विशेष- । j) = तुच्- इति भाष्यम् । k) = प्रारम्भ-
 इति (पक्षे) भाष्यम् । l) प्रतिपदि ऽप्रतिपदि इति Knauer. । m) विप. (चन्द्र-, तुच्-) । n) = आद्यन्त-
 (तु. भाष्यम्, C. च) ।

२, १६, २५; हिध २, ५, २४.
प्रतिपन्न-रश्मि^६ -रश्मिः या ५,

८.

प्रति-पादयितुम् शंघ २५३.
प्रति-पादयितु- -ता आपध २, २०,
१९; हिध २, ५, १०५.

प्रति-पादि (त >) ता- -ता विध
१५, ६.

प्रति-पाद्य बौश्रौ २४, २१ : ९; हिश्रौ.

प्रति-पद्^७ -दम् गौषि १, ४, १५;

चव्यु २ : २८^०; पावा १, ४, २.

प्रतिपदिक- -कम् पा १, २.

४५; पावा १, ४, १; -कस्य पा

१, २, ४७; पावा ४, १, १४७××;

-कात् अप्रा २, २, ५; पा ४, १, १;

पावा ४, १, १७; -कानाम् पावा

१, २, ६४; -केन पावा ४, १, १४.

प्रतिपदिक-ग्रहण- -णम्

पावा १, २, ४७; ४, १, १; -णे

पावा ४, १, १.

प्रतिपदिक-त्व- -त्वम् पावा

१, २, ४५; २, ४, ८१; ३, २,

१२४; -त्वात् पावा ५, ३, ६८.

प्रतिपदिक-निर्देश- -शः

पावा ५, ३, २०.

प्रतिपदिक-प्रतिषेध- -धः

पावा १, ३, ३; ३, १, ९१××.

प्रतिपदिक-मात्र- -त्रात्

पावा ४, २, ३४.

प्रतिपदिक-विज्ञान- -नात्

पावा ५, १, ५९; २, ५९; ७, १, २.

प्रतिपदिक-विशेषण- -त्व-

-त्वात् पावा ४, १, ३; ३४.

प्रतिपदिक-सामानाधिक-

करण्य- -ण्ये पावा २, ३, १.

प्रतिपदिका(क-आ)णवय-

त्यादि-निवृत्त्य(ति-अ)र्थ-
-र्थः पावा १, ३, १^६.

प्रातिपदिका(क-अ)न्त-

-न्तस्य पा ८, २, ७; पावा ८, ४;

११.

प्रातिपदिकान्त-नुम्-

विभक्ति- -क्तिषु पा ८, ४, ११.

प्रातिपदिका(क-अ)र्थ- पा

२, ३, ४६.

प्रातिपदिकार्थ-त्व- -त्वात्

पावा ४, १, ३.

प्रातिपदिकै(क-ए)का(क-अ)

न्त- -न्तः पावा २, १, २.

१ प्रतिपद्-विधान- -नात् पावा २,

४, १२; ८, २, ७२.

२ प्रतिपद्-विधा (न >) ना^८ - ना

पावा २, २, १०.

प्रतिपद्-विध्य(धि-अ)र्थ- -र्थम्

पावा ३, ३, ११; १३.

प्रतिपदो(द-उ)क्त- -क्तस्य पावा ६,

२, २.

प्रति-पन्न- प्रति✓पद् द्र.

प्रति-परा✓ह, प्रतिपराहरन्ति वाधुश्रौ

३, ६१ : २.

प्रति-परि✓कृष् > प्रतिपरि-कृष्य

माश्रौ ५, २, ३, १.

प्रति-परि✓क्रम्, प्रतिपरिक्रामन्ति

माश्रौ १, ७, ६, ३९.

प्रतिपरि-क्रम्य माश्रौ १, १, २,

११××.

प्रति-परि✓व्ये, प्रतिपरिव्ययति

आपश्रौ १०, ९, १४.

प्रति-परि✓ह, प्रतिपरिहरति माश्रौ

१, १, २, ४१; ७, ६, ३९; वाश्रौ १,

२, ३, १४; प्रतिपरिहरन्ति बौश्रौ

४, ९ : २०; प्रतिपरिहरेत् बौश्रौ

२०, ३० : ६; ७.

प्रतिपरि-हरण- -णे बौश्रौ २०, ३० :

६.

प्रति-परी(रि✓इ), प्रतिपर्येति काश्रौ

५, ८, २९; ६, ५, ४××; आपश्रौ;

प्रतिपरियन्ति आपश्रौ १४, २२,

२; १५, ८, १४××; बौश्रौ;

प्रतिपरियुः आपश्रौ १५, १७,

९^३; भाश्रौ ११, १७, १२; १३^३;

वैश्रौ.

प्रतिपरी(रि-इ)त्य वाधुश्रौ ३, ९० :

४; ८; वाश्रौ १, ४, ४, १०××;

क्षुसू.

प्रतिपर्या(रि-आ)यस्^९ वैश्रौ १०,

१२ : ६.

प्रति-परे(रा✓इ) > प्रतिपरे (रा-इ)

त्य माश्रौ ३, १, १२; हिश्रौ ४,

५, ४७.

प्रति-पर्याय^७ -यस् वाश्रौ १, १, १,

७१; माश्रु १, १७, ३.

प्रति-पर्या(रि-आ)✓वृत्, प्रति-

पर्यावर्तते माश्रौ १, १, २,

२६××.

प्रतिपर्या-वृत्त्य शाश्रौ ४, ४, १४;

माश्रौ १, २, २, ५; कौसू ८८,

२१.

प्रति-पर्या(रि-आ)✓ह > प्रतिपर्या-

हृत्य शाश्रौ ७, ५, ४; बौश्रौ १,

१२ : ४४××; माश्रौ.

प्रति-पर्वन्^{१०} -र्वं सु ३१, ७.

प्रतिपर्वा(र्व-अ)वभृथ^{११} -थाः काश्रौ

२२, ७, १६.

प्रति✓पद्, प्रतिपद्यति बौश्रौ ३,

२४ : १५; प्रति (पद्यति) अञ

९, ६ (५)†; † प्रतिपद्यामि^{१२}

आश्रौ ८, १४, १८; आपश्रौ ३,

a) विप. । बस. । b) अस. । c) =उपाङ्ग-विशेषः । d) °काणपय° इति Kielhorn, भाण्डा. च ।

e) =पर्याग्नि-कारम् । f) पाभे. वैप १, २१५० h, २१६२ f द्र. ।

१९,६; बौश्रौ.
 प्रति-पश्यत्- -श्यन् गौघ ९,१३.
 प्रति-पशु^१- -शु आपश्रौ १४, ७, ४;
 १८, २, १६; बौश्रौ २६, ११;
 १२; माश्रौ ५, २, १२, ३०^{१b};
 वाश्रौ ३, २, ६, १; ४४; ४५; ४७;
 वैश्रौ.
 प्रति√पा(पाने) > प्रति_[ती^१]-पान^१-
 > प्रातिपान^१- -नम् माश्रु
 २,११,१७^१.
 प्रतीपाना(न-अ)थे- -थम् आपघ
 १,२८,२१; हिघ १,७,५७.
 प्रति√पा^१ > प्रति-पाव(न् >)री^१-
 -थे; वाधूश्रौ ३,१००:३.
 प्रति-पाद^१- -दम् साअ २,११८२.
 प्रतिपादो (द-उ) क्त-देवताक^१-
 -कम् अअ ७,३०.
 प्रति-पादयितुम्, ०दयितृ-, ०दिता-,
 ०घ प्रति√पद् द्र.
 प्रति√पालि (< पाल-), प्रति-
 पालयन्ते जैश्रौका ३४.
 प्रति-पिण्ड^१- -ण्डम् काश्रौ ४, १,
 १६; माश्रौ १, १, २, २९; ३०;
 वाश्रौ १, २, ३, २६; कौश्रु.
 प्रति√पिप्, प्रतिपिनष्टि या ३,२१.
 प्रति-पुर- पा ६,२,१९३.
 प्रति-पुरुष^१- -षम् शांश्रौ १७, ४, ७;
 काश्रौ ८, १, १८; आपश्रौ.
 प्रति√पूज्, प्रतिपूज्यन्ते आज्यो १४,
 १०.
 प्रयपूजयत् वृदे ४,११५.
 प्रति-पूज्य अप १,३१,५.
 प्रति-पूरुष^१- -षम् बौश्रौ ५, ५:६;

१६:१; २६,२५:१५; भाश्रौ.
 प्रति-पूर्वक^१- -कम् वृदे ५,९०.
 प्रति√पृ, प्रतिपूर्येत् वाश्रौ २, १, ३,
 ३१; माश्रु २,११,५.
 प्रति-पूरयन्ति बौश्रौ १५,
 १:४; प्रति-पूरयत् बौश्रौ
 ६, २३:६^१; प्रतिपूरयेत् आश्रु
 २,८,२.
 प्रति√प्रच्छ > प्रति-प्रश्न- -श्नात्
 वैताश्रौ ३७, १; -श्ने वैताश्रौ
 ३८,५^१.
 प्रति-प्रणव^१- -वम् काश्रौ ३, १,
 १०××.
 प्रति-प्रतीक^१- -कम् आश्रौ ५, २०,
 ६; कप्र २,१,७.
 प्रति-प्र√दा(दाने) > प्रतिप्र-दाय
 आश्रौ ६,१२,२.
 प्रति-प्रधान^१- -नम् मीसू ११, १,
 ६१; २,२; ४,४१.
 प्रतिप्रधान-भाव- -वः मीसू ११,
 १,४.
 प्रति-प्रस^१- -सः ऋअ २,५,४९.
 प्रति-प्र√यच्छ्, प्रतिप्रयच्छेत् आश्रौ
 ५, १२, १३; द्राश्रौ १३, २, ४;
 लाश्रौ ५, २, ८; आश्रु १,८,९.
 प्रति-प्रयोग^१- -नम् कप्र १,५,१^१;७.
 प्रति-प्र√वच् > प्रति-प्रोक्त^१- -क्ते
 कप्र १,४,९.
 प्रति-प्र√वृत्, प्रतिप्रवर्तयति कौसू
 १४, २; प्रतिप्रवर्तयेत् अप ३७,
 १,११.
 प्रति-प्र√सू (प्रसवे) > प्रतिप्र-सव-
 -वः मीसू २, ४, २८; -वात्

मीसू ६, ६, २५; ७, १९××.
 प्रतिप्र-सूत- -तः पावा ४, ३, ३६^१.
 प्रति-प्र√सृप्, प्रतिप्रसर्पन्ति आश्रौ
 ५, ११, ४.
 प्रतिप्र-सृष्य आश्रौ ५, ७, ११; १३,
 १९; ६, ५, ४.
 प्रति-प्र√स्था > प्रतिप्र-स्थान^१-
 पाउभो २, १, १४६; -^१०तः
 काश्रौ ६, ५, २६; ९, ७, ४;
 आपश्रौ; -ता आश्रौ २, १७,
 १५; ४, १, ६; शांश्रौ; -तारः
 बौश्रौ १५, १६:६; १९:
 १२××; वाधूश्रौ ३, ८२:२;
 -तारम् काश्रौ ९, १३, १९;
 आपश्रौ १०, १, ९^१; बौश्रौ; -तुः
 आश्रौ ९, ४, १३; १२, ९, ६;
 काश्रौ; -त्रे काश्रौ ५, ५, २१××;
 आपश्रौ.
 प्रतिप्रस्थात्-प्रमुख^१- -खाः वैश्रौ
 १७, १७:५.
 प्रतिप्रस्थात्-मुख्य^१- -ल्व्यान्
 वाश्रौ ३, २, १, १४.
 प्रतिप्रस्थात्रा (तृ-आ)दि- -दीन
 काश्रौ १२, २, १७.
 प्रतिप्र-स्थान- -नम् आपश्रौ १२,
 २१, २१; भाश्रौ ११, ३ ६;
 हिश्रौ ८, ६, ३८; २४, १, १८;
 -नात् आपश्रौ १५, ३, ११; वैश्रौ
 १३, ४:५; -ने माश्रौ २, ३,
 ८, ९; ४, २, १६; ६, ६; -नेन
 आपश्रौ १२, २१, १८; माश्रौ.
 प्रतिप्रस्थान-ग्रह- -हः वैश्रौ १५,
 २७:१; ५^१.

a) ऋस. । b) शुच्य^१ इति समस्तः पाठः? यनि. व्य^१ इति च शोधः (तु. सपा. वाश्रौ ३, २, ६, ४७) ।
 c) आपघ. हिघ. पाठः । d) माप. । e) विप. । तस्येदमीयः अण् प्र. । f) प्रति^१ इति बसं. । g) धा.
 शोधने वृत्तिः । h) विप. (सिकता-) । i) विप. । बस. । j) वैप १ द्र. । k) बस. पूष. = प्रतिनिधि- (तु.
 संस्कृतः टि.) । l) ०श्नात् इति C. । m) = ऋषि-विशेष- । n) ०तियो^१ इति BI. । o) = प्रत्यभिवादन- ।
 p) तु. पासि. । q) प्रतिस्था^१ इति पाठः? यनि. शोधः ।

प्रति-प्रा(प्र/अ)श् (भोजने) > प्रति-
प्रा(प्र-अ)शित- -तम् कौसू ३८,
१८.
प्रति-प्रा (प्र/अ)स् (क्षेपणे) > प्रति-
प्रा(प्र-अ)स्य काश्रौ ६,५,४.
प्रति/प्री > प्रति-प्री^३- -प्रियम्^४
आपश्रौ १०, ६, ८; माश्रौ १०,
४,५; वैश्रौ १२,७ : १.
प्रति/वधून्ध्, प्रतिबध्नीयात् वैश्रौ
२०,५ : १.
प्रत्यबध्यत वृदे ६,१४.
प्रति-ब (द >) ङा- -ङाम् आम्रिण
३,५,३ : २.
प्रति-बध्यमान- -नम् बौश्रौ २६,
५ : २३.
प्रति-बन्ध- > ^०न्ध-कर- -राणि
अप ६५,३,१.
प्रति-बन्धिन्- -न्धि पा ६,२,६.
प्रति-बिम्ब- (> ^०म्बित- पा.) पाग
५,२,३६.
प्रति-बीज^५- -जम् आपश्रौ ६, २९,
१५.
प्रति/बुध्, प्रति (अबुधन्) ऋप्रा २,
७,८०^६.
प्रतिबुध्येत शंघ १३३; १३४.
प्रति-बुध्य माश्रौ १०, ११, १२;
हिश्रौ.
प्रति-बोध^६- -धः सागृ २, १५,
१^६.
प्रति-बोधन- -नम् अप ६८,२,१६.
प्रतिबोधना (न-अ)र्थ- -र्थम्
अप ७२,५,३.
प्रति-बोधिन्- पाउभो २,१,१११;

पाग ३,३,३.
प्रतिबोध^७- (> प्रतिबोध- L >
^०धायन-] पा. यक.) पाग ४,१,
१०४; १००.
प्रति/ब्रू, प्रतिब्रूयात् आपश्रौ १४,
२०, ८; बौश्रौ १८, २६ : २२;
२२, १ : १०; माश्रौ; प्रतिब्रूयुः
आम्रिण २,३,२ : १२; वैश्र.
प्रति/भक्ष्, प्रतिभक्षयति आपश्रौ १२,
२५, २२x५; वैश्रौ १६,२०:६;
प्रतिभक्षयतः आपश्रौ १२, २७,
९; १३,८,२; वैश्रौ १५, ३५ :
८; प्रतिभक्षयेत् आश्रौ ५,८,९;
बौश्रौ २१,२० : २२; २३.
प्रति-भक्षण- -णे बौश्रौ २१, २० :
२२.
प्रति-भक्षित- -तम् आश्रौ ५,६,३;
शाश्रौ ७,४,१५.
प्रति-भय^८- -यम् आश्रौ १, १२,५; ३;
७,१०; -ये गोश्रु ४,९,८.
प्रतिभय-जन(न >) ना^९- -नाः अप
७०^३, ११, २९.
प्रतिभय-ता- -ता अप ७०^३, ११,
१४.
प्रति/भा, कप्रति^{१०} भाहि द्राश्रौ ३,
४,२०; लाश्रौ १,१२,५.
प्रतिबभौ या ४,६.
प्रति-भा- -भा, -भाम् या १४,४.
प्रति-भाति- > ^०ति-लिङ्ग^{११}- -ङ्गः
या १४,३.
प्रतिभानु^{१२}- -नुः ऋअ २,५,४८.
प्रति/भाष्, प्रत्यभाषत वृदे ४,१२;
५,१०१; ७,१५७^३.

प्रति/भिद् > प्रति-भिन्- -न्म
गो २,१७^१.
प्रति/भू, प्रति...भवति वायूश्रौ ३,
४ : १३; प्रतिभवन्ति वायूश्रौ
३,४ : १४.
प्रति-भू^१- पाग ५,१,१२४; -सुवः
विध ६,४२; -सुवे, -भूः विध
६,४३.
प्रतिभाव्य- पा ५, १, १२४;
-व्यम् वाध १६,३१; विध ६,
४१.
प्रतिभाव्य-वणिक-सुल्क-
मद्य-शूत-दण्ड- -ण्डाः गौघ
१२,३८.
प्रति-भूत- -तम् सुध १३.
प्रति/भूष्, कप्रति(भूषति) आश्रौ ४,
१५, २; १०; साअ १, ४१८;
प्रतिभूषन्ति आम्रिण २, १,
५ : ११^१; प्रतिभूषन्ताम् कौश्रु
४,४,१०^१.
प्रति/भृ(=√हृ),प्रति...भ्र आपश्रौ
१४,२९,२^१; कप्रति(भ्र) आश्रौ
५,७,६; ८,१२,६; वाश्रौ.
प्रतिभ्याम्^{१२} चाअ १५ : ९.
प्रति/मन् > कप्रति-मन्वान- -नः
आश्रौ १०, ९, २^१; शाश्रौ १६,
६,१; लाश्रौ ९,१०,१२; वैताश्रौ.
प्रति-मन्त्र^{१३}- -न्त्रम् काश्रौ २, ५, ६;
२६x५; आपश्रौ; -न्त्रेण वैश्रु
५,६ : ७.
प्रतिमन्त्र-त्व- -त्वात् मीसू १०,
३,२६.
प्रतिमन्त्र-लिङ्ग- -ङ्गैः हिपि १६ : ५.

a) विप. (अन्न-)। गस. (तु. वैप १ अभिप्री-)। b) सप्र. हिश्रौ १०, १, ३९ प्रियम् इति पाभे.।
c) अस.। d) नाप.। कर्तरि अच् प्र.। e) = ऋषि-विशेष-। f) प्रास. वा बस. वा (तु. अभा.)। g) उप.
कर्तरि प्र.। h) विप.। बस.। i) = लग्नक-। उप. कर्तरि प्र.। j) पाभे. पृ १६७३ f द्र.।
k) पाठः? प्रति त्यन्नाम इति शोधः (तु. सप्र. मै २,६,१२ प्रष्टु., संस्कृतुः टि. च)। l) 'वन्वा' इति पाठः? यनि.
शोधः (तु. सपा. मा २३,५२)।

प्रतिमन्त्रो (न्त्र-उ)क्त-देवता- >
 व (त्य >) त्या- स्याः अथ
 १०, ६; ७.
प्रति ✓मन्त्र (<मन्त्र-), प्रतिमन्त्र-
 यते बौश्रौ १, ९ : ७; ६, १५ :
 २७; १६ : १२; जैश्रौ; प्रतिमन्त्र-
 येत बौश्रौ २०, ८ : ३१; द्राश्रौ
 १, १, १०; ११, २, ३××; लाश्रौ;
 प्रतिमन्त्रयेत् गोश्रु २, २, १३;
 प्रतिमन्त्रयेरन् द्राश्रौ ६, २, ५;
 लाश्रौ २, १०, ५.
 प्रति-मन्त्रण- -णम् कौसू ९०, २६.
 प्रतिमन्त्रणा(ण-अ)न्त^१- -न्तम्
 कौसू ६८, ३३.
 प्रति-मन्त्रित- -न्ते कौसू ६६, ३××.
 प्रति-मन्त्र्य भाग २, २४ : १; २५ :
 ३; कौसू ९०, ९.
प्रति-महाव्याहृति^१- -ति काश्रौ २०,
 ५, १६; २५, १, १२; -तिभिः
 पाश्रु १, १५, ५०.
प्रति ✓मा (माने), प्रतिमिमीते कौसू
 २०, ६; प्रति (मिमीते) अथ ९,
 १०^१; प्रतिमिमते या ५, १२.
 प्रति-मा^१- -मया आपश्रौ ४,
 ५, ४; ९, १३, ६; माश्रौ ४, ६,
 ७; वैश्रौ; -मा आपश्रौ १६,
 २८, १; बौश्रौ; पाश्रु ३, २, २^०;
 -माम् आपश्रौ १७, ९, ३^१;
 वाश्रौ; आमिश्रु २, ४, १० : १२;
 -मायाः हिश्रौ ७, १, ३१;
 -मायाम् आमिश्रु २, ४, १० :
 ४; -मासु कप्र १, १, १४.
 प्रतिमा-भूत- -न्ताः शुश्रु १, ८.

प्रतिमा(मा-आ)राम-कूप-संक्रम-
 ध्वज-सेतु-तिपान-भङ्ग- -ङ्गेषु
 शंघ ३२७.
 प्रतिमो(मा-उ)परि वेताश्रौ ३३, ८
 प्रति-माण- -णम् बौश्रु २, ११,
 ३३^१.
 प्रति-मान^१- -नम् आश्रौ ९, ५,
 १६^१; विध १०, ५; -नाति
 या ५, १२^१; ११, २१^१××.
 प्रतिमान-पुरुष- -बौ विध १०,
 ६.
प्रति-मातृ^१- -तृ गौघ २८, १७.
प्रति-मास^१- -सम् वाध १९, २८;
 शंघ २५२; विध ६, २××.
 प्रतिमासिक- -कम् कप्र २, ५, १३.
 प्रतिमास्य- -स्यानि कप्र २, ५, ८.
प्रति ✓मि (क्षेपणे), प्रतिमिन्वन्ति
 वाधूश्रौ ३, ६९ : २९.
प्रति ✓मीव्, प्रतिमीवति आपश्रौ १९,
 २५, १८; बौश्रौ १३, ३८ : २;
 हिश्रौ २२, ६, ३.
प्रति-मुख^१- -खम् बौश्रौ १, १६ :
 ८; १०××; आपध २, १२, ११;
 हिध २, ४, ४८.
प्रति ✓मुच्, ज्च्, प्रतिमुञ्चते आश्रौ
 ४, ९, ५; शाश्रौ ३, ११, १४;
 काश्रौ; या १२, १३^२; प्रति
 (मुञ्चते) शाश्रौ ५, १३, ७^१;
 प्रतिमुञ्चति शाश्रौ १६, १, ६;
 काश्रौ ६, १, २८^१; ३, ४; आपश्रौ;
 प्रतिमुञ्चन्ति आश्रौ ६, १०, ४;
 बौश्रौ १७, ४१ : ११; वाश्रौ ३,
 २, १, २४; हिश्रौ १४, ३, २२;

आमिश्रु १, ३, ४; ५^१; प्रतिमुञ्चे
 बौश्रौ १७, ४२ : ३; आमिश्रु
 १, ३, ५ : ६^१; भाग २, २२ :
 ५^१; हिश्रु १, ११, ४^१; प्रति-
मुञ्चामि आपश्रौ ७, १७, ७;
 बौश्रौ ४, ६ : ४०××; आपमं
 १, ४, ११^१; आमिश्रु; प्रति^१...
 मुञ्चते वेताश्रौ ३८, ६^१; प्रति-
 मुञ्च पाश्रु २, २, ११; बौश्रु २,
 ५, ७; प्रतिमुञ्चतम् कौसू ५८,
 १^१; प्रत्यमुञ्चत शाश्रौ १४,
 ७, १; अपं १ : २१^१; प्रति-
 मुञ्चति वाधूश्रौ ३, १०१ : ७;
 हिश्रु १, १६, १६; प्रतिमुञ्चेत
 आपश्रौ १०, ८, १४; प्रतिमुञ्चेत्
 लाश्रौ ९, २, ९; द्राश्रु ३, १, २२.
 प्रतिमुञ्चते अप २०, ७, ४; प्रति-
 मुञ्चताम् माश्रु १, ९, २७^०;
 प्रतिमुञ्चते शंघ ४२.
 प्रति-मुक्त, क्ता- -क्तम् आश्रौ ९, ९,
 ८; काश्रौ २०, १, २०; द्राश्रौ;
 -क्तया लाश्रौ ९, २, १२.
 प्रति-मुच्य, > च्या काश्रौ २, ७,
 २××; आपश्रौ; माश्रौ १, १, २,
 ८^१.
 प्रति-मुञ्चत- -ञ्चन् काश्रौ २०, १,
 ९; बौश्रु २, ५, ७; १६.
 प्रति-मुञ्चमान- -नाः आश्रौ २,
 ६, ३; शाश्रौ ४, ४, २; आपश्रौ.
 प्रति-मोचन- > न-प्रभृति-
 -ति माश्रौ ६, १, ४, २४.
प्रति ✓मुद्, प्रतिमोद्ध्वम् बौश्रौ
 १०, ४ : २४; वैश्रौ १८, १ : ५५.

a) बस. । b) अस. । c) ण्ति इति लाघासं. । d) वैप १ द्र. । e) पाभे. वैप १, २१५२ h द्र. ।
 f) = सोपान- (तु. सप्र. मनु ९, २८५) । g) प्रथमानम् इति पाठः ? (तु. १९२० संस्करणम्, तैत्रा २, ५, ६, १२ च) ।
 h) पाभे. वैप १, २३९७ i द्र. । j) पाभे. वैप १, २१०१ n द्र. । j) अस. उप. = जननी- । k) तु. चौसं. ।
 l) सपा. आपमं २, ८, १० अपिनद्ये इति पाभे. । m) पाभे. वैप १, २१५३ ० द्र. । n) पाभे. वैप १,
 २१५३ g द्र. । o) पाभे. पृ १६७५ d द्र. ।

प्रति√मृञ्, प्रतिमाष्टि आपश्चौ २, ८,
५; ३, ६, ८; १८, ३, २; भाश्चौ।

प्रति√यञ्, प्रतियजति आपश्चौ १४,
७, ९; बौश्चौ १५, ३४; ६; भाश्चौ
७, २०, ७; ८, ३, १५; माश्चौ;
प्रतियजेत् आपश्चौ ७, २५, १४;
बौश्चौ २०, ३०; ११×५.

प्रती(ति-इ)ञ्य आपश्चौ ८, ३, १२.

१ प्रतियज्ञांश- शो वाश्चौ ३, ४, ३,
१७.

प्रति√यत्, ऋप्रति...यातयामः^a
आपश्चौ १३, २२, ५; बौश्चौ ४,
११; १५.

प्रति-यत्^b- त्ने पा २, ३, ५३.

प्रतियत्-वैकृत-वाक्याध्याहार-
-रेषु पा ६, १, १३९.

प्रति√या> प्रति-याधिन्- पाउभो
२, १, २९०; पाग ३, ३, ३.

प्रति√यु(बन्धने), प्रतियौति आपश्चौ
२, ८, ५; बौश्चौ ८, २०; २१;
वैश्चौ; बौष्ट १, ८, १००.

ऋप्रति-युत्- -त्. ^d आपश्चौ ८, ८,
१८×५; बौश्चौ.

प्रति√युञ्, प्रतियुज्यते वाध २६,
१९^e.

१ प्रति-योग- -गात् वृदे ३, ५२.

प्रति-योगिन्- पा ३, ३, ३.

प्रति√युञ्> प्रति-योधिन्- पाग ३,
३, ३.

प्रति-यूप^f- -पम् काश्चौ २०, ४, २१;
आपश्चौ १४, ५, २०; हिश्चौ.

२ प्रति-योग^g- -गम् पावा १, ३, ११.

प्रति-योजन^h- -नम् द्राश्चौ ६, ३, ६.
प्र-तिर- प्र√तृ द्र.

प्रति√रञ् > ऋप्रति-रञ्च- -क्षन्
बौश्चौ ८, १९; १८.

१ प्रति-रथⁱ- -थः ऋञ्च २, ५, ४७.

२ प्रति-रथ^j- -थम् वाश्चौ ३, १, २,
९.

प्रति-राज^k- -जेन अप १, ९, १.

प्रति-राजन्- पाग ६, २, १९३;
-जभ्यः आपश्चौ १८, २२, ३;
बौश्चौ १२, १९; १३; हिश्चौ
१३, ७, २५; -जा वाष्चौ ३,
६९; ४.

प्रति√राध्, प्रतिराध्नुवन्ति बौश्चौ
१६, ३०; ७.

प्रति-राद्ध- -द्धः^l आपध १, २४,
२१; हिश्च १, ६, ६९; गौध २२,
७.

प्रति, ती^mराधⁿ- -धः वृदे १, ३७;
५५; -घाः शाश्चौ १२, २१, २^k;
-घान् वैताश्चौ ३२, २२^k.

प्रति-राष्ट^o- -ष्टस्य हिश्चौ १४, २,
४३; ६, १०; २८.

प्रति√रिह्, ऋप्रति...रिहन्ति आश्चौ
४, ७, ४; शाश्चौ ५, १०, २३.

प्रति√रुध् > प्रति-रुद्ध- -द्धस्य अप
३३, २, ३.

प्रति, > ती^pरोध- -पावाग ६, ३,
१२२.

प्रति-रोधिन्- पाग ३, ३, ३.

प्रति-रूप^q- -पम् शाश्चौ ८, १६, ३;
कौस् ४६, ३; विध ६६, ४; -पाः

आपश्चौ १, ८, ७^r; -पान् माष्ट
२, १०, २.

प्रतिरूप-क^s- > १ प्रतिरूपक-
वृत्ति- -त्तिः सुधप ८६; २.

२ प्रतिरूपक-वृत्ति^t- -त्तिः शंघ
३९०.

प्रतिरूप-विक्रय- > ^uथिक- -कस्य
विध ५, १२४.

प्रति-रोटक- पाग ६, २, १९३.

ऋप्र/तिल्, प्रतिलामि शाश्चौ १६,
४, १^p; प्रतिलानि आश्चौ १०,
८, १०^p.

प्रति√लभ्, प्रतिलभन्ते भाश्चौ ८,
२१, ११; माश्चौ १, ७, ७, ८.

प्रति-लभ्य आपश्चौ ८, १८, ४; माश्चौ.

प्रति√लिप्, म्प्, प्रतिलिम्पति बौश्चौ
१४, ७; ९; १९; २९.

प्रति-लेपम् बौश्चौ ९, ३; २३;
१०, ६; १; वैश्चौ १८, १; ७७.

प्रति√ली > प्रति-लीन- -नः कौष्ट
३, १, ५; शाष्ट ३, १, १२.

प्रति√लु, प्रतिलुनाति माश्चौ १, १,
१, ३४; वाश्चौ १, २, १, १६.

प्रति√लुप्, म्प्, प्रतिलुम्पन्ति बौध
२, ८, १५.

प्रति√लुभ् > प्रति-लोभय(त् >)
न्ती- -न्ती या ९, ३३^q।

प्रति-लोभयमा(न् >)ना- -ना या
९, ३३.

प्रति-लोम, मा(ब्राम्.)^r- पा ४, ४, २८;
५, ४, ७५; पाग २, ४, ६९^r; -मः

आश्चौ ११, ३, ८; काश्चौ; बौध

a) पाभे. वैप १, १८१६ a द्र.। b) = गुणान्तराधान-। c) सप्र. आपश्चौ १९, १०, ५ प्रत्यस्यति इति, आपश्चौ १३, २२, ५ प्रत्यसित्वा इति च पाभे.। d) पाभे. वैप १, २१५४ a द्र.। e) अस्.। f) = ऋषि-विशेष-। g) प्रास. समासान्तप् टन् प्र.। h) पाभे. पृ २२५ j द्र.। i) शाश्चौ. पाठः। j) वैप २, ३३३. द्र.। k) = [कौन्तापीय-] मन्त्र-। l) प्रास.। m) विप., नाप.। वैप १ द्र.। n) स्वाधे प्र.। o) विप.। बस.। p) पाभे. वैप १, २१५४ k द्र.। q) पाभे. वैप १, २१५३ n द्र.। r) विप., नाप.। व्यु. वैष १, २१२m, २१५४ n च द्र.।

१, ९, १०^३; वैध ३, ११, २^३;
-मम्^३ आश्रौ २, ११, ४; काश्रौ
१३, २, १५; १४, १, ६××;
आपश्रौ; या १, २; -मया
अप ३१, ८, ५; -मा: आश्रौ
११, ३, ८; काश्रौ १५, ४,
२८××; द्राश्रौ; गौध ४, १७^३;
पा २, ४, ६९^३; -मात्^३ वैध ३,
११, २; गौध ४, २५; -मान्
द्राश्रौ ८, ३, २४; लाश्रौ ४, ७,
५; -मानि निसू ६, ५: २१;
-माम् अप ३१, ९, ४; -मासु
बौध १, ८, ८; विध १५, ३७;
१६, ३; गौध २८, ४६; -मे
आश्रौ १२, ५, ३; काश्रौ २४,
४, १५; -मेषु अप ५९, १, ८;
वैध ३, १३, ८^३; ऋप्रा २, १०;
-मै: आश्रौ १२, ३, ५; द्राश्रौ;
-मौ बौश्रौ २६, ३३: ५.
प्रतिलोमी^३- म्याम् वैध
३, ११, २.
प्रातिलोमिक- पा ४, ४, २८.
प्रातिलोम्य- न्यम् या १, ३^३;
-म्ये पा ५, ४, ६४.
प्रातिलोम्य-गुणा(ए-आ)
श्रित-त: वाध १८, ७.
?प्रतिलोम-क-धर्म- मर्णाम् वाध
१, ११^३.
प्रतिलोम-कृत(त>)ता- तया हिपि
११: ४.
प्रतिलोम-(ग>)गा^३- ग: अप
५८^३, ४, १३; ६४, ६, ६.
प्रतिलोम-प्रतिकृति- त्या अप १,
३२, १०.

प्रतिलोमा(म-अ)नुलोम-मानि
काश्रौ २४, २, १७.
प्रतिलोमा(म-अ)न्तराल-वात्य-
-स्थानाम् वैध २, १५, ९.
√प्रतिलोमि, प्रतिलोमयेत् अप ३४,
१, १.
प्रतिलोमै(म-ए)कान्तरा(रा-अ)
वस्कन्दन^३-ने शंघ ३३०.
प्रति-लोम(न>)नी^३-नी अप
५८^३, ४, ६.
प्रति√वच्, †प्रतिवोचासि आश्रौ १०,
९, २; शाश्रौ १६, ६, १; लाश्रौ
९, १०, ११.
प्रत्युवाच शाश्रौ १५, १७, १;
बौश्रौ १६, २७: २४××; अप;
प्रत्युवु: बौश्रौ १८, ४८: १३;
वृदे ६, २१; या २, २५.
प्रति-वक्तृ-क्ता बौध १, १, ९.
प्रति-वचन^३-न: आपश्रौ ८, ३,
१४; १२, २४, १५××; भाश्रौ;
-नम् आपश्रौ ११, १२, ४; बौश्रौ;
या ६, १५; -नाथ बौश्रौ १८,
२६: २२; -ने वैश्रौ ८, ७: १३.
प्रति-वाक्य^३-क्यम् वृदे १, ३७, ५०.
प्रति-वाचक-कान् वैद्य १, ६: ३.
प्रत्यु(ति-उ)क्त-क्त: आश्रौ ५, १,
१४; शाश्रौ ६, ७, १०; या १,
१४; -क्ते हिश्रौ १४, १, २८.
प्रत्यु(ति-उ)क्त्वा आपश्रौ १२, ६,
५××; वैश्रौ.
प्रत्यु(ति-उ)च्य हिश्रौ १, ३, ४०.
प्रति-वत्-वन्ति माश्रौ ३, ७, ४.
प्रति-वत्सर^३-रम् विध २१, २२.
प्रति√वद्, प्रतिवदेत् अप १, ३६, ६.

प्रति-वद्-वत्: वैद्य २, २: २१.
प्रति-वाद्यत्-यन् आपश्रौ २१,
१८, १२; हिश्रौ १६, ६, २०.
प्रति-वादिन्-दिन: विध ८, ११.
प्रति√वप, प्रतिवपति भाग २, २८:
३; प्रतिवपेत् आश्रौ ३, १०,
१४.
प्रति-वर^३-रम् वाश्रौ ४, १४:
७××; हिश्रौ १७, ६, २८.
प्रति-वर्ग^३-र्गम् काश्रौ ९, ४, १८.
प्रति-वर्ण^३-र्णम् गौध १२, १३;
पावा १, ४, १०९; पापवा ५,
१४.
प्रति-वषट्कार^३-रम् आश्रौ ५, ५,
२२; काश्रौ ४, ४, १३××; माश्रौ.
प्रति√वस्(आच्छादने)>प्रतिवसन-
>नीय-यम् बौश्रौ १२, ४:
१०; -ये बौश्रौ ५, ९: १६××.
प्रति√वह>प्रति(त>)ती-वाह-
-ह: कौसू ७९, २९.
प्रत्यु(ति-उ)ह्य शाश्रौ २, ८, १५,
काश्रौ; लाश्रौ ३, ३, ३^३.
†प्रत्यु(ति-उ)ह्य, डा-हम् आपश्रौ
६, ६, १०; भाश्रौ ६, १०, ११;
माश्रौ; -ढा: आपश्रौ ६, ६, १०;
माश्रौ १, ६, १, २२; वाश्रौ.
प्रत्युह-युरी(ष>)षाम्-यथा
बौश्रौ १०, ४८: २.
प्रति-वात^३-तम् काश्रौ २५, १०,
२३; वाश्रौ ३, ४, ५, १९;
आपध १, ३०, २०; हिध १, ८,
१७.
प्रति-वाद्यत्, †दिन्-प्रति√वद् द.
प्रति√वाश, प्रतिवाश्येत् लाश्रौ ९,

a) = जाति-विशेष-। b) कचित् वा. क्वि.। c) बहु. <प्रातिलोमि-। d) = प्रतिलोम-जातिका-।
स्त्री. डीष प्र.(पा ४, १, ६३)। e) कृष्णपण्डितमनुसरतः Būh. यनि. पाठः ? (वृ. केचन मूको. 'धर्माणः इति)।
f) उप. <√गम्। g) षस.>सस.। h) प्रास. समासान्ताऽभावः डसं. (पा ५, ४, ७५)।
i) भाप., नाप. (मन्त्र-। j) = प्रति-वचन-। k) अस्.। l) सपा. द्राश्रौ ७, ३, ३, प्रत्युह्य इति पाठे.। m) बस.।
वैष-प्र-२९

८, १६.
प्रति-वि/कृ, प्रतिविक्रुर्वीरन् बौश्रौ
 २३, १८ : १७.
प्रति-वि/कम् > प्रतिवि-कम् हिश्रौ
 ७, ५, १२.
प्रति/विद् (ज्ञाने), कप्रति...वेत्तु
 आपश्रौ १, २०, ६; बौश्रौ १, ६ :
 १४xx; माश्रौ; कप्रति (वेत्तु)
 काश्रौ २, ४, ५; १७; शुभ्र १, ५९.
 प्रतिवेदयते भाग्य ३, १२ : ११;
 प्रतिवेदयन्ति अप ७०^३, ११, ८;
 १३; १८-२०; कप्रतिवेदयामः^a
 आम्रिग २, ४, ४ : १४; बौध ३,
 ७, ११; कप्रतिवेदय^b माश्रौ १, ८,
 ३, १; वाश्रौ १, ६, ४, १;
 प्रतिवेदयाम कौसू ४२, १७^३.
 प्रति-वेदन- -ने अप ४८, ५२.
प्रति/विद् (लाभे) > प्रति-वित्त-
 -त्ता: माश्रौ २, ३, ७, ३^३.
प्रति-विद्य^c - -व्यम् गौध १६, ५०.
प्रति/विद्य^c (= √व्यध्), प्रति-
 विद्यामि माग्य १, ११, ९^३.
प्रति-वि/धा > प्रतिवि-धान- >
 ण-कुशल- -लः शंघ २४४.
प्रति-वि-परी (रि/इ), प्रति-
 विपर्यन्ति^d काश्रौ ५, ९, २.
प्रति-वि/भञ्ज > प्रतिवि-भञ्ज काश्रौ
 ४, १०, १२; १३, ४, १४; आपश्रौ.
 प्रतिवि-भाग- -गः काश्रौ १०, २,
 २३; -गात् काश्रौ २, ७, ११.
 प्रतिवि-भाग-शसः() दंवि २, १.
प्रति-वि/भू, प्रतिविभवन्ति निसू

२, ३ : ३३; प्रतिव्यभविष्यत् निसू
 २, ३ : ३०.
प्रति-वि/वद्, प्रतिविवदेत् आपश्रौ
 १०, २७, ६.
प्रति-वि/शिष् > प्रतिवि-शेष- -षः
 शुभ्रा ८, ५०.
प्रति-वि/श्वस्, प्रतिविश्वसन्तु काग्य
 ९, १०^३.
प्रति/विष् > प्रति-वेषण- -णम्
 आम्रिग २, ७, ९, ५.
प्रति/वी, प्रति...च्यन्तु अप्राय ६,
 १^३.
प्रति-वी (वि/ई) क्ष्, प्रतिवीक्षत
 द्राश्रौ ६, १, १७; लाश्रौ २, ९, १४.
प्रति-वृत्ति^e - -त्ति ऋप्रा १३, ४८.
प्रति-वेद^f - -दम् पाग्य २, ५, १४; शंघ
 ३९; बौध १, १, १; २, २.
प्रति L, वी^h]-वेश, शा^l- पावाग ६,
 ३, १२१; -शः माश्रौ १, ७, ५,
 २७; लाश्रौ ८, २, १२; बौग २,
 ६, १४^३; -शस् आपश्रौ ८,
 १०, १०^३; बौश्रौ ५, १० : १६^३;
 २४, ३२ : ७^३; माश्रौ ८, ११,
 १६^३; वाश्रौ १, ७, ३, १५^३;
 वैश्रौ ९, २ : ९^३; हिश्रौ ५, ३,
 १०^३; बौपि १, १२ : २^३; -शस्य
 बौश्रौ २१, ३ : २९^३; -कशाः
 आश्रौ २, ५, ९; आपश्रौ; -शात्
 माश्रौ ८, १२, १७^३; -शानि
 वाधूश्रौ ३, ७५ : १२; -शाम्
 वाधूश्रौ ३, २० : ७; द्राश्रौ ३, २,
 १८; लाश्रौ १, १०, १३.

प्रतिवेश¹ - > °श्य-ब्राह्मण-
 -गे विध ५, ९४.
 प्रतिवेश-पक्व^m - -क्वस्य हिश्रौ ५,
 ३, २८; -कान् वैश्रौ ९, ३ : १.
प्रति/वेष्ट, प्रतिवेष्टयन्ति बौश्रौ १४,
 १८ : ५^३.
 प्रति-वेष्टमान- -नाः बौश्रौ १४, १८ :
 ५^३.
 प्रति-वेष्टित- -तम् गौध १, २२.
 प्रति-वेष्टय शुभ्रा १, ७८; तैप्रा २,
 ३७.
प्रति-वैष्टम्ⁿ - -मम् निसू ६, ९, ५.
प्रति-व्यू (वि/ऊ) ह्, प्रतिव्यूहामः
 बौश्रौ २६, १५ : १.
 प्रतिव्यू (वि-ऊ) ह- -हम् बौश्रौ २६,
 १५ : २.
प्रति/व्ये > प्रति-वीत- > °तन्त
 (म >) मा- -मया वैताश्रौ २२,
 १२.
प्रति-शब्द^o - -ब्दम् मौसू ९, २, १७.
प्रति-शाक- (> प्रातिशाक्य-पावा.)
 पावाग ४, ३, ५८^०.
प्रति-शाख^p - (> प्रातिशाख्य-
 पावा.) पावाग ४, ३, ५८^०.
 प्रातिशाख्या (ख्य-आ) दि-
 शास्त्र- -ज्ञ- -ज्ञः कौशि ५७.
प्रति-शिरस्^q - -रः काश्रौ १७, ५, ७.
प्रति-शिल्प^r - -ल्पानि शाश्रौ १२,
 ७, ४.
प्रति/शी > प्रति-शोव (>) री¹-
 -०रि हिपि १ : १६^३.
प्रतिशुक्ल माशि १३, ७.

a) पाभे. वैप १, २१५५ b द्र. 1 b) पाभे. वैप १, २१४१८ द्र. 1 c) अस. उप. = विद्या-1
 d) नैप्र. < परिच्यन्ति । पाप्र. पूर्वं धातोह्यसर्गेण योग इति । e) सपा. प्रतिविश्वसन्तु <> प्रतिश्वसन्तु इति
 पाभे. । f) पाभे. वैप १, २१५५ j द्र. 1 g) अस. 1 h) द्राश्रौ. लाश्रौ. पाठः । i) वैप १ द्र. 1 j) = (उप-
 चारात्) ओदन- (तु. रुद्रदत्तः) । k) वा. क्रिवि. 1 = समीप- । l) तात्रमविक्रः न्यः प्र. उरसं. (पावा ४, ३, ५८) ।
 m) पूष. = (ब्राह्मणीयगार्हपत्य-प्रातिवेश्यात्) दक्षिणाग्नि- (तु. रुद्रदत्तः [आपश्रौ ८, १०, १०]) । n) उप-
 = साम-विशेष- 1 . o) परस्परं. प्रभे. । p) तु. पासि. 1 q) प्रास.

प्रति√शुच् (दीर्घ), प्रतिशोच
 आपश्रौ ६, २१, ११†.
 प्रति√शुष् > प्रति-शुष्क- > °ष्का
 (ष्क-अ)प्र^३ - अम् जश्रौ २ :
 ४×४.
 प्रति√श्रु, श्रु(श्रवणे)^b, प्रतिश्रुणोति
 शांश्रौ ५, १, १०; १०, १३,
 २७×४; अश्र ९, ६(६)†; प्रति-
 श्रुणुयात् पाठ २, ५, २९.
 प्रतिश्रावयति वाश्रौ ३, ३, ३,
 २५.
 १प्रति-श्रवण- -गम् गौध २, ३१;
 -णे पा ८, २, ९९.
 प्रति-श्रुत्^२ - पावाग ३, ३, १०८^d.
 प्रातिश्रुत्क^० - कानि तैप्रा
 २, ३.
 प्रातिश्रुत्- (क >) का^० - कायै
 भाशि १९.
 प्रति-श्रुत् - तस्य विध ५, १७८;
 -ते कौट १, ३, १; ६, १; शांठ
 १, ७, १; ९, १९.
 प्रातिश्रुता (त-आ) दि- -दिषु
 शांठ ५, १०, ३.
 प्रति-श्रुति- -ति: वैताश्रौ ४३, ४७;
 अप १, ५०, १०^२.
 प्रति-श्रुत्य गौध ५, २४.
 प्रति√श्रु, श्रु (हिंसायाम्), प्रति-
 श्रुणाति आपश्रौ ३, ६, १०; बौश्रौ
 १, १९; २५; माश्रौ ३, ६, २;
 †प्रति...श्रुणाहि या ४, १९^१; ६,
 ३; प्रति (श्रुणाहि) साश्र १,
 ९५†.
 प्रतिशीघ्रते आपश्रौ १८, १५, ४.
 प्रति-शोष^० - षम् हिश्रौ ८, ७, ४०;

प्रति-शौच^० - चम् बौध १, ४, १५^h.
 प्रति√श्रुयै > प्रति-शीन- , °नवत्-
 पा ६, १, २५.
 प्रति√श्रम्, प्रतिश्रमेत् आश्रिष्ट २, ७,
 ६; १३.
 २प्रति-श्रवण- पा ६, २, १९३.
 प्रति√श्रि > प्रति-श्रय^१ - यम् विध
 ६७, ४६; -ये अप ४०, १, ७.
 प्रति√श्वस्, †प्रतिश्वसन्तु^१ माष्ट १,
 ४, ९; वाष्ट ८, ७.
 प्रति√ष (<सि)ञ्ज, प्रतिषजेत् लाश्रौ
 १०, २०, २.
 प्रति-षज्य बौश्रौ १२, १४ : ८.
 प्रति√ष (<सि)द् > प्रति-षादन- ने
 बौश्रौ १७, ४६ : ३.
 प्रति-षाण्मास^० - सम् वैश्रौ १०,
 १ : २^k.
 प्रति√षि (<सि)च्, ङच्, प्रतिषि-
 ञ्चति आपश्रौ ६, ६, ७; १५, ३; ५;
 ६; हिश्रौ ३, ७, ३१; प्रतिषिञ्चत्
 कौसू ६८, ६; ८; ९.
 प्रतिषिञ्चयात् आश्रौ २, ३, ५.
 प्रति-षिक्त, क्ता- -क्तम् आपश्रौ ६,
 १५, ६; हिश्रौ ३, ७, ३२; -†क्ता:
 आपश्रौ ६, २०, २^३; माश्रौ.
 प्रति-षिच्य आपश्रौ ६, २०, २.
 प्रति-षिच्य^१ - च्यम् आपश्रौ ६, ६,
 ३; हिश्रौ ३, ७, ३२^२.
 प्रति-षेक- > °क काल- -ले वैश्रौ
 २, ९ : ५.
 प्रति-षेकम् आपश्रौ ६, १५, २;
 हिश्रौ ३, ७, ११५.
 प्रति-षेचन- -नात् हिश्रौ ३, ७,
 ११४.

प्रति√षि (<सि)घ्, प्रतिषेधते माशि
 १२, १; प्रतिषेधति वृदे ७, १३;
 या १, २^३; ४; मीसू ३, ५, २३;
 प्रतिषेधन्ति याशि १, ७५; प्रति-
 षेधेत् आपध १, ८, २०^म.
 प्रतिषिधते वैध ४, ८, ६; वृदे
 ४, १११×४; प्रतिषिध्यते हिश्रौ
 ३, ८, ४५; या २, १४.
 प्रतिषेधयति बौश्रौ २६, ३० :
 १५; १७; प्रतिषेधयन्ति बौश्रौ
 २४, १४ : ११; आपध १, २८,
 ३; हिध १, ७, ३९; प्रतिषेधयेत्
 आष्ट ४, ८, ३३; हिध १, २,
 १०८^म.
 प्रति-षिद्ध, द्वा- -द्वः शंघ ३०३;
 मीसू ६, ५, ४२^म; -द्धम् काश्रौ
 १, ६, ८; माश्रौ; या २, १४;
 -द्धस्य पावा ७, २, ३७; मीसू
 १०, ३, ७१; -द्वा या २, ११;
 -द्वा: वाश्रौ १, ६, ३, २६; -द्वात्
 बौध ४, २, ९; -द्वानाम् आपध
 १, ३१, १४; हिध १, ६, ४४;
 मीसू ६, २, २१; -द्धानि आपश्रौ
 ५, १६, ७; माश्रौ; -द्धे आपश्रौ
 २४, २, ३८; काठश्रौ; -द्धेन
 शौच ४, ५६; -द्धेभ्यः हिश्रौ
 ३, १, २२; -द्धौ हिश्रौ ३, ४,
 ४४; निस् ५, ५ : ८.
 प्रतिषिद्ध-त्व- -खात् पावा ३, ३,
 १३; ४, १, ७×४; मीसू.
 प्रतिषिद्ध-भोजन- -ने सुध
 २३.
 प्रतिषिद्ध-मन्त्रयोग^० - ने गौध
 २२, ३५.

a) बस.। b) पा १, ३, ५९; ४, ४० परामृष्टः द्र.। c) वैप १ द्र.। d) तु. पागम.। e) तदर्हतीयष्
 षल् > कः प्र. (पा ५, १, ६३; ७, ३, ५१)। f) पाभे. वैप १, २१५६ ० द्र.। g) अस.। h) च्व जलान्तरेण इति मैसू.।
 i) उप. अधिकरणे प्र.। j) पाभे. पृ १६८२ ० द्र.। k) षण्मासम् इति संस्कृतुः टि.। l) क्यप् प्र. अस्व.
 (पा ३, १, १०९)। m) परस्परं पाभे.। n) ष्वेधात् इति जीसं. प्रमृ.। o) पूष. = अनधिकारिन्-।

प्रतिषिद्ध-वर्जम् बौध २,६,१७;
 गौध ३,३०; ५,२.
 प्रतिषिद्ध-वाङ्मनस्- -नसोः
 गौध २५,१२.
 प्रतिषिद्ध-विज्ञान- -नात् मीसू
 १०,८,४४.
 प्रतिषिद्ध-सेवन- -नम् गौध
 १९,३.
 प्रतिषिद्ध-सेवा- -वायास् गौध
 १२,२४.
 प्रतिषिद्धा(द्ध-ञ्)र्थ- -र्थम्
 पावा ६,३,४१.
 प्रति-षिध्य आपश्चौ ८,१५,१२; वैश्रौ.
 प्रति-षेध- -घः शांश्रौ ९, १, ४;
 आपश्चौ २४, १२, ४; हिश्रौ;
 -घम् पावा ८, १, ५१; -घयोः
 पा ३, ४, १८^३; -घस्य अप
 ४८, १२६; पावा ५, १, २०; ७,
 २, १०; ६३; मीसू १०, ७, ४२;
 -घात् आपश्चौ २४, ४, १; २;
 अप्श्रौ; -घेन भाश्रौ ६, १५,
 ६; -घेषु मीसू ६, २, २१.
 प्रतिषेध-प्रसङ्ग- -ङ्गः पावा ६,
 ४, ५२; ७, २, ६२.
 प्रतिषेध-वचन- -नात् पावा ८,
 १, ५५.
 प्रतिषेध-वत् मीसू १०, ७, ४०.
 प्रतिषेध-विषय- -यात् पावा १,
 १, ४४.
 प्रतिषेध-व्यवहित- -त्तः या ९,
 १०.
 प्रतिषेध-संज्ञा-करण- -णात्
 पावा १, १, ४४.

प्रतिषेध-संनियुक्त-वचन- -नम्
 पावा ७, ३, ३.
 प्रतिषेध-संप्रत्यय- -यः पावा १,
 १, ४४.
 प्रतिषेध-सामर्थ्य- -थ्यात् पावा
 ७, ३, ८५.
 प्रतिषेधा(ध-ञ्) धिकार- -रे
 पावा ८, १, ५५; ४, ३२.
 प्रतिषेधा(ध-ञ्)नर्थक्य- -क्यम्
 पावा २, २, १४; ३, ३, १५१××.
 प्रतिषेधा(ध-ञ्)र्थ- -र्थः पाप्रवा
 ५, १६; -र्थम् पावा २, ३, ८××.
 प्रतिषेधा (ध-ञ्) र्थ- >
 र्थीय- -यः या १, ४.
 प्रतिषेधो(ध-ञ्)पदेश- -शौ वुदे
 १, ३८; ५२.
 प्रति-षेधक- -कः तैप्रा २२, ८.
 प्रति-षेधन- -ने सुधप ८७ : ३.
 प्रति-षेध्य- -ध्यम् पावा २, २, १४.
प्रति√षि(<सि)ब्, प्रतिषीव्यति
 माश्रौ २, २, २, ३५; ३, ३१;
 प्रतिषीव्येत् आपश्चौ १०, ८, १३;
 १४; काठश्रौ.
 प्रति-षीव्य माश्रौ २, २, ३५; ३, ३१
 प्रति-षीव्य- पा ३, १, १२३.
प्रति-षेक-, षेकम्, षेचन- प्रति
 √षिच् द्र.
प्रति-ष्(<स्) √कञ् (गतिशा-
 सनयोः) > ष्-कश्^० -शः पा
 ६, १, १५२.
प्रति-ष्(<स्) √कृ (विक्षेपे) > ष्-
 किरत्- -रन् द्राण् ४, ४, ४.
प्रतिष्ठमा(न>)ना- प्र√स्था द्र.
प्रति√घा (<स्था), प्रतितिष्ठति

शांश्रौ १५, ४, ४; १६, २२, १३;
 आपश्चौ; कौष्ट ३, २, ६^१;
 ऋप्रति...तिष्ठति बौश्रौ १४, २ :
 ९××; वाधूश्रौ ४, १५ : १०;
 ९०:१९; ऋप्रति(तिष्ठति) भाशि
 ८५; प्रति...प्रतितिष्ठति शांश्रौ
 १०, १८, ८; प्रतितिष्ठन्ते वाधूश्रौ
 ४, ५१ : ४; प्रतितिष्ठन्ति
 आपश्चौ २१, १५, १××; बौश्रौ;
 प्रति...प्रतितिष्ठन्ति शांश्रौ १०,
 १८, ८; ऋप्रति(तिष्ठामि) आपश्चौ
 ९, १४, २^३; १९, १०, २; बौश्रौ;
 ऋप्रति(तिष्ठामि) काश्रौ १९, ४,
 २३; आपश्चौ ९, १४, २^३××;
 बौश्रौ; प्रतितिष्ठति कौसू ९८, २^१;
 प्रतितिष्ठतु आपम् २, ११, १६^१;
 प्रतितिष्ठस्व कौष्ट ३, ३, १^१;
 ऋप्रतितिष्ठ, > घा आपश्चौ २,
 ११, १^१; ७, ६, ७^६; ९, १८, १;
 बौश्रौ १, १४ : ५^१; ४, ३ :
 १६^६; ६, २८ : ४४^६; ७, १ :
 २३^६; २० : ४^६; माश्रौ २, १०,
 ४^१; ७, ५, ४^६; माश्रौ; वैश्रौ
 १०, ६ : ३^६; १४, ९ : ९^६; हिश्रौ
 १, ८, २५^१; ४, २, १७^६; शाण् ३,
 ३, १^१; प्रतितिष्ठाम वाधूश्रौ
 ३, ३९ : २२; प्रत्यतिष्ठत् शांश्रौ
 १४, ९, १; ७४, १; बौश्रौ १८,
 ३४:७××; प्रत्यतिष्ठताम् शांश्रौ
 १४, ४२, १८; प्रतितिष्ठत आपध
 १, २४, १४; हिध १, ६, ६३;
 प्रतितिष्ठत् आपश्चौ १७, २४, ८;
 २२, ४, २०^१; बौश्रौ १८, ३४ :
 ५××; हिश्रौ १२, ७, २१^१।

a) = प्रतिषेध-वाचिन्-। b) कस.। c) = पुरोयायिन्-। d) सपा. ण्तिष्ठति <> ण्तिष्ठ इति पाभे.।
 e) पाभे. वैप १, १८८७b द्र.। f) सपा. ण्तिष्ठ (तैत्रा ३, ७, ५, ३ च) <> ण्तिष्ठन् इति पाभे.। g) सपा. प्रतितिष्ठ
 (तैत्रा २, ५, ८, १२ च) <> प्रति...घात् इति पाभे.। h) प्रतिष्ठेत् इति पाठः! यनि. शोधः (तु. सपा. आपश्चौ
 १७, २४, ८)।

प्रतिवस्वौ बौश्रौ १८, ४७:११;
 प्रतिघास्यति माश्रौ ६, २, ५,
 २४; ऋष्यघात् आपश्रौ ७, ६,
 ७; भाश्रौ ७, ५, ५; वाधूश्रौ ३,
 १९:१६; वाश्रौ १, ६, २, ४;
 हिश्रौ ४, २, १७; प्रति...घात्
 माश्रौ १, ७, ३, ४२ः^३; प्रति...
 अस्थुः माश्रु १, २७:६ः.
 प्रतिघापयते आपश्रौ १८, ६, १;
 १९, १३, २४; हिश्रौ १३, २, १५;
 २३, २, ५०; प्रतिघापयति शांश्रौ
 १७, १६, ५; आपश्रौ २, ११, १;
 ६, २, १×४; बौश्रौ; या १४, ३०;
 प्रति...स्थापयति, प्रति...स्थाप-
 यति बौश्रौ १४, २:२७ः; प्रति-
 घापयतः वैश्रौ ८, ९:११; प्रतिघा-
 पयन्ति शांश्रौ १६, १०, १६; भाशि
 ७०; प्रतिघापयामि वैश्रु ४, ११:
 १३; ऋष्यघापय भाश्रौ ३, ११,
 १; हिश्रौ २, ६, ६; प्रतिघापयानि
 बौश्रौ १८, ३३:१४ः; प्रति-
 घापयेत् बौश्रौ २७, १:३; २९,
 १३:२; वैश्रौ; प्रतिघिपेत् आश्रिण्य
 २, ४, ७:५; १६.
 प्रति...अतिष्ठिपम् माश्रौ १, ४,
 १, २६ः; प्रत्यतिष्ठिपम् वाधूश्रौ
 ४, ६:४.
 प्रति-तिष्ठत्- -ष्ठन् माश्रौ १, २, ६,
 २२ः^३; द्राश्रु ४, ५; -ष्ठन्तः
 आश्रौ ११, ४, ८; १२, ९, १६;
 बौश्रौ १६, ११:४; -ः^३ष्ठन्तम्
 गोश्रु ४, ६, ११; द्राश्रु ४, १, २५.

प्रति-तिष्ठमान- -नः गोश्रु ४, १०, २.
 प्रति-ष्ठा^०- -ष्ठयोः हिपि ६:६^०;
 -ष्ठा आश्रौ ५, ७, ५ः; शांश्रौ
 ६, ३, ८ः^३×४; १७, १३, ५ः^३;
 काश्रौ; कौस् १३७, २८^३; अप
 ४८, ६७^३; ऋश्रु १, ४, ८^३; शुश्रु
 ५, २१^३; अश्रु ६, १६^३; निघ ३,
 २ः^३; या १४, १०; ऋश्रु १७,
 ५^३; पि ३, १५^३; उनिस् १:
 १२^३; -ष्ठाः कौस् २०, ७^३;
 -ष्ठांश्रौ १४, ५; आपश्रौ;
 माश्रौ १, ४, ३, १^३ः^३;
 वाश्रौ १, १, ४, ९^३ः^३; -ष्ठायाः
 बौश्रौ १४, २:१४; अप १९,
 १, २; -ष्ठायांश्रौ २, ११,
 ६ः^३; ४, १०, ३ः^३; १६, २२, १३;
 पा ६, १, १४६^३; -ष्ठायांश्रौ
 १, ५, ९×४^३; काश्रौ; -ष्ठे शांश्रौ
 १६, २०, २; आपमं; अप ४८,
 ६०^३।
 प्रतिष्ठा-काम- -मः आश्रौ १०,
 ३, १; शांश्रौ १४, ९, १×४; आपश्रौ;
 -मम् वाधूश्रौ ४, ९०:१७;
 ९०^३:८; -मस्य शांश्रौ १४, ११,
 १×४; काश्रौ; -माः आश्रौ ११,
 २, ३; ८×४; आपश्रौ; -मानाम्
 आश्रौ ११, ३, १×४; काश्रौ।
 प्रतिष्ठाकाम-यज्ञ^३- -ज्ञः
 निस् ९, १:१.
 प्रतिष्ठाकाम-सत्र- -त्रम्
 निस् १०, ४:१४; -त्रे निस्
 १०, ३:१०.

प्रतिष्ठा(घा-अ)र्थ- -र्थः निस् ४,
 ९:४; १३.
 प्रतिष्ठा-वत्- -वान् हिश्रौ ६,
 ४, १^३।
 प्रतिष्ठा-वि(घा>)घ^०->
 °ध-तरम् निस् ६, ८:२७.
 प्रतिष्ठा-शील- -लम् या १४,
 १०.
 प्रतिष्ठा-स्तोम- -मम् निस् ७,
 ६:१८.
 प्रतिष्ठा(घा-उ)क्त- -क्तः निस्
 ४, ९:२७.
 ऋष्य-ष्ठान^३- -नम्^३ आपश्रौ १६,
 ३३, ५^३; वैश्रौ १८, २१:२४^३;
 हिश्रौ ११, ८, ३^३; पाश्रु ३, १५,
 २३; -ः^३नौ अप १, ४१, ४; ५;
 अशां ११, ४; ५.
 प्रति-ष्ठापन- -नम् माश्रौ ४, १, १९;
 -नेन विध २३, ३४.
 प्रति-ष्ठापम् जैश्रौ ५:८; २१:९.
 प्रति-ष्ठापयत्- -यत् बौश्रौ २०,
 २०:४.
 प्रति-ष्ठाप्य आश्रौ ८, १४, १२;
 आपश्रौ।
 प्रति-ष्ठाप्य- -प्यम् निस् २, १०:
 ८; ३, ४:६.
 प्रति-ष्ठाप्य निस् ९, ९:२४; अप.
 प्रति-ष्ठित, ता- -तः ऋष्यौ १७,
 ३८:४, ६; ७×४; वाधूश्रौ;
 -तम् आपश्रौ ६, ३०, १;
 १५, १०, १०; बौश्रौ; -ता
 आपश्रौ ९, १५, २१; १४, ३३,

a) पामे. पृ १६८४ g द्र.। b) पामे. पृ १६८४ f द्र.। c) साप. विप. नाप. च। वैप १ द्र.।
 d) = [शरीरावयव-विशेष-] श्रोणि- [तु. पामे.]। e) सप्र. बौपि १, ६:६ श्रोण्योः इति पामे.। f) पामे. वैप २,
 ३खं. प्रतिष्ठा ऐशा ५, १, २ टि. द्र.। g) पामे. वैप १, २०४३ p द्र.। h) = हस्व-। i) = छन्दो-विशेष-।
 j) विप. (वैप १, २१५८ g द्र.)। k) सङ्घत् पामे. पृ १५५३ a द्र., अन्यत्र प्रतिष्ठां गम्यम् <> प्रतिष्ठावान्
 भूयासम् इति पामे.। l) = स्थान-। m) = द्यावापृथिवी-। n) नाप.। o) बस.। p) उप. भावाद्यर्थे
 प्र.। q) = शरीरावयव-।

२१; वायुश्रौ; -ता: अप ८, १, ६; २२, ६, ४; विध २३, ५७; शौच ४, १०५; -तानि माश्रौ ६, १, ७, २८; क्षुस् ३, २: ४; -ताम् बौश्रौ २, १८: १६१; भाश्रौ ९, १८, ८; आश्रिण्य; -तायाम् आपश्रौ २, ७, ३; भाश्रौ २, ७, ९; वैश्रौ ५, ४: १५; हिश्रौ १, ७, ४६; -ते आपश्रौ १, ७, १०; वायुश्रौ; -तेऽन्ते जैश्रौ ५:८; २१:९; -तौ विध ५२, १६; या १४, ३०.
 प्रति-ष्ठिति- -ःति: आपश्रौ ५, १८, २; हिश्रौ ६, ५, १६; -ःत्या: बौश्रौ १३, १०: ४; १४, २: १४; -त्ये शाश्रौ १५, १, ४०xx; बौश्रौ.
 प्रति-वृणा (<स्ता) > प्रति-वृण- > प्रति-वृण-क > वृणक^a- पाग ८, ३, ९८.
 प्रति-वृणत- -तम् पा ८, ३, ९०.
 प्रति-वृणु (<स्फु)इ, प्रति-वृणु क्रपा ५, १७^f.
 श्रुति-संवत्सर^b- -रम् वैश्रौ १०, १: १; अप १७, १, १; वैध १, ५, ३.
 श्रुति-संवत्सर^c- -रान्^d पाग १, ३, २; द्राग ४, ४, २५.
 प्रति-सं-वद > प्रति-सं-वादिन्- -दिनम् ह्य १, १५, ६१^e.

प्रति-सं-वस् (निवासे), प्रति-सं-व- सीत बौश्रौ २४, १२: १४.
 प्रति-सं-विश्व, प्रति-सं-विश्वति आश्रिण्य १, ६, ३: ६६; प्रति-सं-विश्वेत् वाध १२, ४६; गौध.
 श्रुति-संस्कार^b- -रम् आपश्रौ १४, ५, ४; हिश्रौ ९, ८, २.
 प्रति-सं-स्-वृ > श्रुति-संस्कार^c- -र: शंघ ३२७.
 प्रति-संस्तुत^b- -तम् काश्रौ ५, ५, ७.
 प्रति-सं-हिता- प्रति-सं-वृ धा द्र.
 प्रति-सं-वृह, प्रति-सं-हरेत् आपध १, ८, ७; हिध १, २, ९५.
 प्रति-सं-हार- -रे वैश्रौ ५, १: १७.
 प्रति-सं-हृत्य अप १३, ३, ३.
 प्रति-सं-ख्या > प्रति-सं-ख्याय काश्रौ २५, ४, १४; आपश्रौ ९, १५, १४^gxx; बौश्रौ.
 प्रति-सं-ख्यायम् बौश्रौ २७, १३: १०^g.
 प्रति-सं-चर, प्रति-सं-चरेत् काठश्रौ ९९.
 प्रति-सदृश^b- -क्षम् शंघ ११६: ५३^h; -क्षास: शुप्रा ३, ८१^f.
 प्रति-सदृश^b- -दृश् शुप्रा ३, ८१^f.
 ?प्रति-सं-घनीय^k- -यम् आश्रयो ८, ५.
 प्रति-सं-घा, प्रति-सं-ध्यात् आश्रौ १, २, १.
 प्रति-सं-हित > ता- -ताम् आपश्रु १७, ६; हिश्रु ५, ४७.

प्रति-सं-नि-विश्व > प्रति-सं-नि- विष्ट- -द्या: अप ७०³, ११, २२.
 प्रति-सम्-अस् (क्षेपणे), प्रति-समस्यति आपश्रौ ११, ५, ७; १८, ९, ५; भाश्रौ १, २१, ३; हिश्रौ १३, ३, २८.
 प्रति-सम्-अस्य बौश्रौ २६, ३३: ५.
 प्रति-सम्-आ-नी > प्रति-समा-नीय आपश्रौ ७, १४, ८¹.
 प्रति-सम्-इध् > प्रति-सम्-एधन^m- > नीय, याम्- -यम् बौश्रौ १०, २१: १५; वैश्रौ १८, १२: २५; -याम् बौश्रौ २२, ३: १४.
 प्रति-सम्-ईच्, प्रति-समीक्षते जैश्रौ १९: १९.
 प्रति-सम्-ऊह > प्रति-सम्-ऊह्य बौश्रौ २३, ४: १०.
 प्रति-सं-भक्ष्, प्रति-सं-भक्षत: वैश्रौ १५, ३५: ५.
 प्रति-सं-मृज्, प्रति-सं-मार्ष्टि हिश्रौ १३, १, २८.
 प्रति-सवन^b- -नम् काश्रौ २२, ९, ४.
 प्रति-साम- पा ५, ४, ७५.
 प्रति-सामिधेनि^b- -नि वैश्रौ ६, १: २.
 प्रति-सामिधेनीⁿ- -नी: हिश्रौ २, १, ४०.
 प्रति-साय^b- -यम् गोय ३, ५, ३२; जैय १, १९: २४; बौध २, ३, ४३.

a) विप. > नाप. [(प्रतिष्णानकर्त्री-) स्त्री- (तु. न्यास; वाच., P.W.; वैतु. पागम. I प्रति-वृणा > अधिकरणे)। प्रति-वृणा-> यनि. [द्रोणी-] इति]। b) अस.। c) विप.। प्रतिगत- (अभिगत- [अतिथिरूपेण])। संवत्सरेण ([अपवर्गे तु.] संवत्सरं समाप्यैव) इति कृत्वा प्रास. (वैतु. WAG [२, १०२ d], Old. प्रमृ. अस. [प्रतिवर्षम्] इति ?)। d) पाभे. पृ १५३० b द्र.। e) छन्दस्तः प्रतिवादिनम् इति संस्कृतुः टि. शोधः। f) भाप.। g) सपा. ख्याय <> ख्यायम् इति पाभे.। h) वैप १ द्र.। i) अपु २१९, ३२ अदृष्टः इति। j) पाभे. वैप १, २१४७ n द्र.। k) प्रति-सं-घानीय- > छन्दस्तः यनि.। l) सप्र. हिश्रौ ४, ३, ३३ समानीय इति पाभे.। m) विप. > नाप.। n) प्रास.। o) सप्र. आपश्रौ २, १२, ६ परिधानीयायाम् इति पाभे.।

प्रति-साहस्र^१- -स्नाणि आपश्रौ १८,
८, ६.

प्रति-सुत्वन्^२- > प्रातिसुत्वन्-
-नम् वांश्रौ १२, १८, २०.

प्रति-सूक्त^३- -क्तम् वाश्रौ २, २, ५,
२६; अत्र २, १९.

प्रति-सूर्य^४- > ^१र्थ-क- -कः अप
६५, २, ११; -कैः अप ६५, २, ३.

प्रतिसूर्य-मास्य^५- -स्यः^६ हिध १,
३, ८२.

प्रति√सु>प्रति-सर, रा^७- पाग २,
४, ३१^६; -^८रः कौसु १२, २२;
३२, ७; अप; -रम् वैश्रौ १, ४,
१३^६; कौसु १, ८, ८^६; शाणु १, १२,
८^६; हिपि १८ : २ १^६; अप; -रस्य

अशां २२, १^६; -राः^९ हिपि १७:
२०; शुअ २, १४४; -रान् कौसु
१, ८, ९^६; -राम्^{१०} वैगु २, २ :
३×४; -रैः अप ३३, ६, १२.

प्रतिसर-दधि-मधु-घृत- -तम्
मागु २, १४, २५.

प्रतिसर-दधि-मधु-मो^{११}ङ्क-स्व-
स्तिक-नन्दावर्त-व(त् >)ती^{१२}-
-त्याम् मागु २, ६, ४.

प्रति√सृपु > प्रति-सृप्य आश्रौ ५,
१७, ६^१.

प्रति-स्तो^{१३}- -त्रम् वैश्रौ २१, ९: ५.

प्रति-स्तोत्रीय^{१४}- -यम् जैश्रौका १७८.

प्रति-स्तोम^{१५}- -मम् बौश्रौ ७, ३: २४.

प्रति-स्थान^{१६}- -नम् अप १८^२, १९, ४.

प्रति-स्नान^{१७}- -नम् विध ४६, ४.

प्रति√स्पशु > ^१प्रति-स्पश^{१८}- -शः
आपश्रौ १७, ९, ६; बौश्रौ १०, २:

१; वैश्रौ १८, १४ : ४×४; तैप्रा
६, १२.

प्रति-स्पाशन^{१९}- -नम् अप्रा ३, १,
७^१.

प्रति√स्मु, प्रतिस्मरेथाम् शौच ८, ४,
७^१.

प्रति-स्रोत^{२०}- > ^१त-व(ह >)हा-
-हाः अप ६४, ६, ६; ७०^२, २३,
३; ७०^३, ११, १६^१.

प्रति-स्रोतस्^{२१}- -तः अप ६७, ६,
३; ७१, १४, २.

प्रतिस्रोतो-गामि(न् >)नी- -न्यः
अप ७२, ३, ७.

प्रति-स्व^{२२}- -स्वम् आश्रौ ५, १७, ५;
६, १२, ७; ऋप्रा ११, २०.

प्रति-स्वर^{२३}- -रे या ७, २३.

प्रति-स्वाहाकार^{२४}- -रम् काश्रौ १८,
५, १६; आपगु १५, ६.

प्रति√हन्, प्रतिहन्ति भाश्रौ १, २२,
४; प्रतिहन्मि या ३, १०^१;

प्रतिहन्त्यात् वाध २०, १३.

प्रतिहन्त्यते आम्रिगु २, ५, १ :
४८; जैगु २, ९ : ३६.

प्रति-व^{२५}- -वैः अप ६५, २, ३.

प्रति-वात- -तम् आपध २, ५,
११; हिध २, १, ९२.

प्रति-व्ना(न >)ना- -नाः अज
११, ९.

प्रति-हत्- -तः सु २७, ३; आशि ८,
७; -तम् सु २७, २; वैगु १, ७: ३.

प्रातिहत^{२६}- -तः तैप्रा २०,
३; कौशि ८.
प्रातिहता (त-अ) मि-
(घा >)घ^{२७}- -घः कौशि १५.

प्रतिहृत-श(म्या >)म्य^{२८}- -भ्ये
आपश्रौ ११, ६, ३.

प्रति-हृत्य कौगु २०, ७.

प्रति-हन्तु- -न्ता शोध ३७७ : २;
४१४.

प्रति-हरण-, ^१हर्तु- प्रति√ह द्र.
प्रति√हर्त्य, प्रतिहर्त्यते या ११,
१५^१०^१; ^२प्रतिहर्त्य आश्रौ २,
१४, १२; ४, १०, ३×४; हिश्रौ
१४, ४, ३८.

१-२प्रति-हार- प्रति√ह द्र.

प्रति-हित- प्रति√घा द्र.

प्रति√हु, प्रतिजुहोति बौश्रौ ३,
१४ : ८; ८, २२ : १४×४;

प्रतिजुह्यात् बौश्रौ २१, २६ :
१८; १९^३; २४, ३१ : ११; गोय.

प्रतिहौषीः जैगु १, २ : २०^१.

प्रति-जुह्वत्- -ह्वन् बौश्रौ २४,
१७ : ७.

प्रति√हृ, प्रतिहृते हिगु १, ११, १;
८; प्रतिहृति बौश्रौ १६, ७ :

१०; माश्रौ १, २, ५, १४; हिश्रौ;

प्रतिहृन्ति भाश्रौ २, ७, १०;

प्रतिहर आपश्रौ ६, २१, १^१;

प्रतिहरेत् लाश्रौ ७, ६, ८; ७, ३१;
प्रतिहरेयुः द्राश्रौ ३, ८; ५, ३,
१०; लाश्रौ १, ११, १; २, ७, ९.

प्रतिहारयति निस् ३, १३ : ११;
४, १ : २६; प्रतिहारयेत् द्राश्रौ
१२, ३, १६; लाश्रौ ४, ११, १६.

प्रति-हरण- -णाय अप्राय २, २; ३;
-णेन कौसु ७१, १३.
प्रति-हर्तु^{२९}- पाउमो २, १, १४६;
पाग ५, १, १२९; -०त्तः जैश्रौ

a) प्रास. । b) वैप १ द्र. । c) पाभे. वैप १, २१६० a द्र. । d) अस. । e) = सूर्यप्रतिबिम्बसदृश- । f) व्यु.
पाभे. च पृ ६०१ f, g द्र. । g) = करसूत्र- । घा. गतौ वृत्तिः । h) नन्दावर्त- = गोधूमविकार- इति भाष्यम् ।
i) तु. आन. । j) = स्रोतोवहाः इति संस्कृतः टि. । k) उप. = उपताप- । l) उप. करणे अप् प्र., घा.
घाऽऽदेशश्च (पा ३, ३, ८४) । m) = स्वरित-भेद- । स्वार्थे अण् प्र. । n) बस. । o) = ऋत्विग्-विशेष- ।

१४: ९; -र्त्वा आश्रौ ४, १, ६;
शांश्रौ १३, १४, १; ८; काश्रौ;
-तारिः बौश्रौ ७, ८, १०; -तारिस्
काश्रौ ११, १, १८; आपश्रौ; -र्त्तुः
आश्रौ ९, ४, १०; १२, ९, ४;
आपश्रौ; -त्रै काश्रौ १०, २,
३६; आपश्रौ १३, ६, २; माश्रौ.

प्रतिहर्त्रे- पा ५, १, १२९.

प्रतिहर्तृ-पोतृ-नेष्टृ (ष्टृ-अ)च्छा-
वाक्-कम्भ्यः लाश्रौ ९, १, १२९.

१प्रति, ती^१]-हार^२- रः आश्रौ ५,
१०, २; आपश्रौ; ऋप्रा १४,
२३^d; -रस्य लाश्रौ ६, ११, २;
निसू २, ८: ३१; -राः लाश्रौ
७, ५, १; -रात् शांश्रौ ७, १०,
२; माश्रौ; -रे जैश्रौ १७: २४;
-करेण आपश्रौ १७, १०, १;
वैश्रौ १२, ६: १५^क.

प्रतिहारिक^६- कम् लाश्रौ
७, ७, ३३.

प्रतिहार-व (त् >) ली- स्यः
लाश्रौ ६, १, १७.

प्रतिहार-वेला- लायास् द्राश्रौ
६, ३, २, ९, ४, ८; लाश्रौ.

प्रतिहार-स्थान- नम् लाश्रौ
६, १०, २२.

प्रतिहारो(र-उ)पाय- यात् निसू
४, १: ३१; -यान् निसू ४, १:
२६.

२प्रतिहार^१-> प्रतिहार-विभू-
षित- तम् अप ५, ४, ४.

प्रतिहृत- त्ते शांश्रौ १७, १७, १३.

प्रति-हृत्य हिश्रौ ५, ४, २८xx.

प्रति-हियमाण- णे जैश्रौ १७: २४.

प्रती-हारम्^६ कौसू २९, २२.

प्रति-होम^१- -मः मीसू ६, ५, ४०; ४३;
-मस् आश्रौ २, ५, १६; आश्रिण
२, ७, ९: ३४; भाग ३, २०:
३; -मे बौश्रौ २१, २६: १८.

प्रति√हस्, प्रतिहसेत्^१ वैश्रौ १८,
१६: ७५; बौश्रु ७: ४; प्रति-
हसेत् हिश्रु ३, ३६^१; प्रतिहसीत्
आपश्रु ९, १७^१.

प्रति-हसमा (त् >) ना- न्नासु
आपश्रौ २, १२, ५; भाश्रौ ६,
१६, ५.

प्रति√ह्वे, ऋप्रति(हुवे) आश्रौ ६, ४,
१०; ८, १०, १; १२, ६; शांश्रौ.

प्रती(ति√इ), प्रत्येति शांश्रौ १६, २४,
११; आपश्रौ ६, २५, ३; बौश्रौ
८, ९: १८^क; २६, २९: ९;
भाश्रौ; हिश्रौ ९, ३, ९^कxx;

प्रतियन्ति भाश्रौ ५, २१, १२;
८, १०, ८; वैश्रौ; या १२, ७;

प्रति...यन्ति या १२, ७^क;
प्रति...एमि ऋअ २, १, १७१^क;

प्रति(एमि) वृदे ४, ५५^क; प्रति-
यन्तु शांश्रौ १५, २४, १^क;

प्रति...यन्तु मागृ १, १३, ८^क;
प्रति(इहि) वृदे ८, ७^क; प्रत्यायन्

शांश्रौ १२, १९, १^क; प्रतीयात्
आश्रौ १, १, १२xx; शांश्रौ;

प्रतीयुः भाश्रौ ६, १५, ११; वैश्रौ
२१, ९: ७; प्रतीयाम् निसू २,

४: २१^क; ६, १: १२xx.

प्रतीयाय शांश्रौ १५, २२, १^क.

प्रतीयते वाश्रौ १, १, १, १९; वृदे;

प्रतीयेत शांश्रौ १, २, २१xx;

द्राश्रौ; या १, १६; मीसू ९, २,

१३^१; प्रतीयेरन् आपगृ २, १५;

मीसू १, ३, ७xx.

प्रती(ति-इ)त्- तः शांश्रौ १५,
२६, १; हिपि २: ४; अप २०,
२, ८; -ताः आपश्रौ ८, ११, १०;
भाश्रौ ८, १२, २१; हिश्रौ ५, ३,
३३.

प्रतीता(त-अ)थे- थानि या
१, १३; १४.

प्रती(ति-इ)ति- स्या शांश्रौ ८, २४,
१^क.

प्रती(ति-इ)त्य आपश्रौ ५, १, ७^क;
बौश्रौ; आपगृ ३, १०, ११^म.

प्रतीय^१ सु ३०, ३.

प्रती(ति-इ)यमान- न्ने पा १, ३, ७७

प्रत्य(ति-अ)य(बप्रा.)^०- पाग
५, २, ३६; -यः निसू ३, ९:
२४^१; ४, ९: ८^१; ९, ९: २८;

ऋप्रा २, ५६^क; ९, ३४; नाशि
२, २, ४^१; ६, ३; पा १, २, ४१^१;

३, १, १; पावा; -यम् बौश्रौ
२३, १२: २३; निसू ३, ९:
२५; ४, ९: ९; मीसू २, ४,

३०; -यस्य अप्रा २, १, १^१; पा
१, १, ६१; ३, ६; पावा ३,

२, १२xx; -याः पा ३,
४, १; -यात् काश्रौ २२, ३,

a) °ष्ट्राच्छ इति पाठः? यनि. शोचः। b) शांश्रौ. वैताश्रौ. पाठः। c) वैप १ द्र.। d) =वर्ण-दोष-
(अतिप्रयत्न-).। e) विप. (गीत-).। f) =द्वार-पाल-। g) =प्रदक्षिणम् (तु. आपश्रौ २, ६, ७ हिश्रौ
१, ७, ३८ पुनराहारम् इति)। h) =पूरक-होम-। प्रास.। i) परस्परं पाभे.। j) पाभे. वैप १, २१६१ i द्र.।
k) °मः इति पाठः? यनि. शोचः (तु. संस्कृतुः टि., उत्तरं स्थलञ्च)। l) प्रयुज्येत इति जीसं. प्रमु.। m) पाभे.
वैप १, २१६६ द्र.। n) एकादेशस्याऽसिद्धत्वाभावस्य उसं. (पा ६, १, ८६) हस्तत्वाभावे तुग्-अभावः। o) भाप,
भाप. (पारिभाषिक-संज्ञा-। अप्रा. प्रमु.)। उप. भावाद्यर्थेषु अच् प्र.। p) =पर-।

४४; २५, १, ३; तैप्रा ५, ७^४;
पा ३, ३, १०२; ६, १, १९२; ४,
१०६; मीसू ४, ३, १६; १०, ३,
४८; -ये बौश्रौ २२, २ : ५; निसू
३, ९; २५; ४, ९; विघ; पा १,
४, १३; ६, १, ७९; -येन बौश्रौ
२४, १ : १; १२; पावा १, २,
४५; ५, ३, ८३; नाशि २, ६, २;
-येषु ऋप्रा ४, ४५^५; माशि ९,
७; १३, १०; नाशि २, ४, ४;
-शौ पावा ४, २, ३६^०.
प्रात्ययिक^१ -काः गौध १३,
२.
-प्रत्यय- -यस्य पा ८, २, ६२;
-यात् पा ३, १, ३५; पावा ७, २,
४८; -ये पा ३, ४, ६१×४.
प्रत्यय^० पावा १, १, २१.
प्रत्यय-ग्रहण- -णम् पावा १,
१, ६१; ७२×४; -ण^० पावा १,
४, १३; १४; ५, २, ४६; ७, १, ९६.
प्रत्ययग्रहणो (ण-उ)पचार-
-रेषु पावा ४, १, १.
प्रत्यय-त्व- -त्वात् निसू ९,
९ : २९.
प्रत्यय-दर्शन- -नात् नाशि १,
८, ४.
प्रत्यय-नियम- -मे पावा १, ३,
१२; ४, २१; ३, १, २; ४, ६७.
प्रत्यय-पर-त्व- -त्वे पावा ८, ३,
७९.
प्रत्यय-पर-वचन- -नात् पावा
३, ४, ६७.
प्रत्यय-प्रतिषेध- -धः पावा १,
१, ४६.
प्रत्यय-प्रसङ्ग- -ङ्गः पावा ३, १,

१२.
प्रत्यय-मन्त्र^१- -न्त्रान् बौश्रौ
२३, १० : १०^२.
प्रत्यय-मात्र-प्रसङ्ग- -ङ्गः पावा
४, २, ३४; ६, ४, १४१.
प्रत्यय-लक्षण- -णम् पा १, १,
६२.
प्रत्ययलक्षण-स्व- -त्वात्
पावा १, २, ४५; ६, ४, १३२.
प्रत्ययलक्षण-प्रतिषेध- -धः
पावा १, १, ६०; ३, ४, ११०;
-धस्य पावा १, १, ११×४.
प्रत्ययलक्षण-वचन- -नम्
पावा १, १, ६२.
प्रत्यय-ल्योप- -वः पावा २, ४,
७०; -पे पा, पावा १, १, ६२.
प्रत्ययलोपिन्- -पिनः अप्रा
२, २, ३; ४.
प्रत्यय-वचन- -नात् पावा ५,
३, ६७.
प्रत्यय-वत् > ष्-अनुदेश-
-शौ पावा ६, ३, ६७^२.
प्रत्यय-विज्ञान- -नम् पावा ५,
३, ५५.
प्रत्यय-विधान- -नम् पावा २,
४, ८१×४; -नस्य पावा ४, ४,
७६; -नात् पावा ३, १, ७×४;
-ने पावा ४, २, ५५; ३, १.
प्रत्ययविधाना(न-श्चा)नर्थ-
क्य- -क्यम् पावा ४, ४, ६७; ७६.
प्रत्ययविधाना(न-श्चा)नुप-
पत्ति- -त्तिः पावा ३, १, १; ५, ३,
६७×४.
प्रत्यय-विधि- -धिः पा १, ४,
१३; पावा १, ४, २; ६, १, ४५;

-शौ पावा ४, १, १; २, २, ८×४.
प्रत्ययविध्य(धि-श्चा)र्थ- -र्थम्
पावा ६, १, ५०; ७, १, ५८.
प्रत्यय-सकार- -रस्य शौच २,
८७.
प्रत्यय-संज्ञा-संनियोग- -नात्,
-नो पावा ३, १, ३; -गेन पावा
५, ३, ८८.
प्रत्यय-संनियुक्त- -क्तम् पावा
४, ३, २३.
प्रत्यय-सवर्ण^२- -र्णम् शुप्रा ३, ९.
प्रत्यय-स्थ- -स्थात् पा ७, ३, ४४.
प्रत्यय-स्वर- -रः पावा ६, १,
१५४.
प्रत्ययस्वर-भारव- -वः पावा
६, १, १५४.
प्रत्ययस्वरा(र-श्चा)भाव- -वः
पावा ३, १, ३; ६, १, १५४.
प्रत्यया(य-श्चा)दर्शन- -नम् पावा
१, १, ६२; -नात् पावा ३, १, २.
प्रत्यया(य-श्चा)दि- -दीनाम्
पा ७, १, २; -देः ऋप्रा १४,
५९; पावा ४, १, १५८; २, ९१.
प्रत्यया(य-श्चा)बुद्धात्त्व- -त्वात्
पावा ३, १, ३.
प्रत्यया(य-श्चा)धिकार- -रात्
पावा ७, १, ३; -रे पावा ३, १, १.
प्रत्यया(य-श्चा)नियम- -मः पावा
३, १, २.
प्रत्यया(य-श्चा)नुपपत्ति- -त्तौ
पावा ५, २, १२.
प्रत्यया(य-श्चा)नुपपत्ति- -त्तिः
पावा ३, ३, १६१; ५, १, २; १३.
प्रत्यया(य-श्चा)न्त^३- -न्तात् पावा
४, १, ९३^२; ३, १५३.

a) = अकार- इति सोमयार्थः, = पर- इति गार्ग्यगोपालः। b) = पर-। c) तु. पाका.। d) = विश्वस्त-।
तेनचरतीत्यर्थे ठक् प्र. (पा ४, ४, ८)। e) = अङ्गसंज्ञा-सूत्र-। बस. इति कैयटः। f) पू. अर्थः ?। g) पू.
= पर-। h) विप.। बस.।

प्रत्ययान्त-निपातन- ने
पावा २,४,७०.
प्रत्यया(य-अ)न्तर- रम् अत्रा
१,२,१४; २,१,८; ९; -रे पावा
५,२, ४८; ४९; -रेषु पावा १,
३, १.
प्रत्यान्तर-करण- -णम् पावा
५,४,११३; ६,४,५५.
प्रत्ययान्तर-प्राप्ति- -त्तिः
पावा ४,१,९३.
प्रत्यया(य-अ)र्थ- -र्थस्य पावा
१, ३, १; -र्थे ऋप्रा ६, ३४;
पावा ३,३, १६१; -र्थेन पावा
४,१,१.
प्रत्ययार्थ-निर्देश- -शाः पावा
३,१,१९.
प्रत्ययार्थ-परिग्रहा(ह-अ)र्थ-
-र्थम् पावा ३,१,२६.
प्रत्ययार्थ-बहुत्व- -त्वे पावा
२,४,६२.
प्रत्ययार्थ-विशेषण- -णम् पावा
३,१,१२.
प्रत्ययार्था(र्थ-अ)भाव-
-वात् पावा ४,१,४५.
प्रत्यया(य-अ)वधारण- -णात्
पावा २,३,५०.
प्रत्यया(य-अ)विशेष- -वात्
काश्रौ २२,३,४६.
प्रत्यया(य-अ)व्यवस्था- -स्था
पावा १,१,५१.
प्रत्यया(य-अ)श्रय^३-त्व- -त्वात्
पावा १,१,४.
प्रत्ययित- पा ५,२,३६.
प्रत्ययित-पुरुषा(ष-अ)धि-
ष्ठित- -तम् शंघ ३२०.

प्रत्ययै(य-ए)कादेश- -शाः पावा
६,१,८४.
प्रत्ययो(य-उ)त्तरपद- -दयोः पा
७,२,९८; पावा २,१, ५१^३××.
प्रत्ययो(य-उ)व्यक्ति- -त्तिः पावा
४,१,९३.
प्रत्ययो(य-उ)दात्तत्व- -त्वे पावा
८,१,७१.
प्रत्य(ति-अ)यन- पाग ८,१, २७.
प्रत्ये(ति-ए)तव्य,व्या- -व्यम् निसू
२, १०: २६^३; -व्या अपश्रौ
१९,१८,५; हिश्रौ २२, २, ४;
-व्याः आपश्रौ २१, १२, ३;
वाघ १,१०; उनिसू ७: २.
प्रत्ये(ति-ए)तुम् निसू २,४: ३८××.
प्रतीक^b- पाउभो २, २, २०; -कः
अत्र २, १२; शुअ ३, १०५;
-कम् बौश्रौ १५, २४: ७; सु
१७,४९; आगृ ३,१२, ३; पागृ
३,१५,२३^०; या ७,३१९; -केन
बौश्रौ १३, ३५: ५^१.
प्रतीक-ग्रहण- -णम् शाश्रौ १,
१७,१.
प्रतीक-चोदित,ता- -तम् शुअ ३,
२४४; -ताः शुअ ३,१४६; -ते
शुअ ३,१५०; १७८.
प्रतीक-वत्- -वते बौश्रौ १३, ३५:
३^१; १८,४८: ६.
प्रतीको(क-उ)क्त,का- -कम् शुअ
४,४१; -काः शुअ २,१७८××;
-क्ते शुअ ३, २१७; २३३.
प्रती-काश- प्रति/काश् द्र.
प्रती(ति-इ)क्ष्,प्रतीक्षते काश्रौ २, २,
१३; आपश्रौ १, ११, १०××;
बौश्रौ; प्रतीक्षन्ते वाघ ११, २५;

कंप्रतीक्षे आश्रौ १, १३, १^०××;
शाश्रौ ४,७,४^०; ७,४,४^०; काश्रौ;
वैताश्रौ ३, ८^१; कौसू ११, २^१;
कंप्रतीक्षन्ताम्^६ आपमं १,१,८;
बौगृ; प्रतीक्षेत कप्र १,६,७; २,६,
४; अप; प्रतीक्षन्त चांगृ ६,३,४.
प्रती(ति-ई)क्षा- -क्षा आपघ २,२२,
१७; हिघ २,५,१४८.
प्रती(ति-ई)क्ष्य शाश्रौ ४, ७, ४;
७,४,४; आपश्रौ.
प्रती(ति/इ)कृच्छ्र,प्रतीच्छामि आपघ
१,२२,६; हिघ १,६,६.
प्रती(ति-इ)त- प्रभृ. प्रती(ति/इ)द्र.
प्रतीथि- प्रतिथि- द्र.
प्रतीप,पा^h- पाग ३, १, १८; ५, २,
१३१^१; ६, २, १७०; -पः
काठश्रौ १०८; १०९; माश्रौ २,
२, ५, १४; -पम्^१ शाश्रौ १२,
१८,१; १३,२९, ११; आपश्रौ;
-पा अप ६७,६,४; -पाः अप.
७०^३,१९,१.
प्रातीपिक- पा ४,४,२८.
प्रतीप-सार(रि>)णी^k- -णीम्
वाश्रौ ३,३,२,१०.
√प्रतीपाय पा ३,१,१८.
प्रतीपिन्- पा ५,२, १३१.
प्रतीय, ष्यमान- प्रती(ति/इ)द्र
प्रती-राघ- प्रति/राघ् द्र.
प्रती-रोध- प्रति/रध् द्र.
प्रती-वाह- प्रति/वह् द्र.
प्रती-वेश- प्रति-वेश- द्र.
प्रती(ति-इ)ष्टक^l- -कम् काश्रौ १७,१,
१५; मीसू ९,१, २६.
प्रती(ति-इ)ष्टि^l- -ष्टि काश्रौ १५,८,५;
काश्रौसं ३: ६.

a) विप.। वस.। b) पुं. न. च। वैप १द्र.। c) पाभे. वैप १ शरीरम् खि ४,८,५ टि. द्र.। d) पाभे. वैप १,
२१६२f द्र.। e) पाभे. वैप १ परि. अवस्थेषम् टि. द्र.। f) पाभे. वैप १, २१५० h द्र.। g) पाभे. वैप १,
२१६२ e द्र.। h) विप.। वैप १ द्र.। i) प्रमीप- इति पाका.। j) क्रिवि.। k) = २अप-। उस.। l) अस्.।

प्रती-हार-^०रम् प्रति[✓]ह्र द्र.
 प्र[✓]तुद्^०>प्र-तुद्^०- तुदाम् आपध
 १,१७,३३; हिध १,५,६४.
 प्र-तुद्^०- -दान् शंघ ४२६.
 प्रतुद्-विष्कर-जालपाद- -दाः
 गौध १७, ३३.
 प्र-तोद्^०- -दः काश्रौ २२, ४, ११;
 आपश्रौ २२, ५, ५; हिश्रौ; -दम्
 शंघ ७२; ऋञ्च २, ६, ७५.
 प्रतोद्-दण्ड- -ण्डः बौश्रौ १८,
 २४; १२.
 प्रतोद्-परिष्वग- -णम् बौश्रौ
 १८, २४; १२.
 प्रतोद्-पाणि^०- -णिः बौग्य १, १,
 २४.
 प्र[✓]तुर^०>प्र-तूर्त्^०- पा ८, २, ६१;
 पाग ५, २, ६२; -^०र्त्तम् काश्रौ
 १६, २, ९; आपश्रौ.
 प्र-तूर्त्क- पा ५, २, ६२.
 प्र-तूर्त्ति- पाग ६, २, ११८^d; -^०र्त्तिः
 काश्रौ १७, १०, १०; बौश्रौ;
 -^०र्त्तिषु आश्रौ ७, ३, १९××;
 शाश्रौ.
 प्र[✓]तू(^०तु^०र्व^०)>^०प्र-तूर्त्व- -र्वन्
 काश्रौ १६, २, १०; बौश्रौ १०,
 २; ९; ह्यञ्च २, १९.
 प्र[✓]तूद्^०>प्र-तूर्दन^०- -०न विघ ९८,
 ४९; -नः ऋञ्च २, ९, ९६; १०,
 १७९; साञ्च १, ५३२××.
 प्र-तूद्य काश्रौ ६, ७, १४.
^०प्र[✓]तू, प्र(तरति) बौश्रौ १३, ४२;
 ३; साञ्च १, १०८; २, ११७२;

प्रतर आमिग्य ३, ८, २; ४७;
 बौपि १, १५:४; प्रतरत्>त^०
 आमिग्य ३, ६, १:२४; बौपि १,
 ९:१; कौस् ७१, २४; ८६,
 २७.
 प्रतिरते बौश्रौ १९, ५:३०;
 प्र^०तिरते या ११, ६^६;
 प्र (तिरते) आश्रौ ७, ८, १;
 शाश्रौ १२, १०, ७; आपश्रौ १९,
 २७, १७; हिश्रौ २२, ६, २६;
 प्र^०तिरसि ऋप्रा ८, ४६;
 प्र^०तिरामः^० आपश्रौ १६,
 १६, ४; वैश्रौ १८, १४:१४;
 प्रतिरन्तु आपश्रौ १६, १६, ४;
 वैश्रौ १८, १४:१५; काग्य २७,
 ३; या १२, ३९; प्रतिर>रा
 या १०, ४०^०; ऋप्रा ८, ४;
 प्र^०तिर आश्रौ ५, १९, ३^३;
 शाश्रौ; प्र^०तिरत या ११,
 ३६; प्र^०तिराम काग्य २७,
 ३^३; प्र^०तिरित् या ६,
 १६; प्र^०तिरित ऋप्रा ५,
 ५८.
 प्र^०तिरिषत् आश्रौ ४, १२,
 २^३; ५, १, १७; आपश्रौ; हिश्रौ
 १५, १, ७१^१; अप्राय २,
 ७^१; अप ४६, ३, ४^१;
 भाशि १०^१; ३५^१; प्र^०तिरिषः
 कौस् ११७, ४^१; प्र^०तिरिषः
 शाश्रौ ६, ७, १०^१; ९, २७, २^१;
 आमिग्य २, १, ५:८^१; या ११,
 ३०^१; आपमं २, १५, १५^१;

आग्य १, १६, ५^१; कौग्य १, १९,
 १०^१; शाग्य १, २७, ७^१; जैग्य १,
 १०:३^१; प्र^०तिरिः वैताश्रौ
 १९, १०; या ४, ७.
 प्रतारि शाश्रौ १६, १३, ५;
 आपश्रौ ६, २२, १^१; ऋञ्च २,
 १०, ५९; वृदे ७, ९१.
^०प्र-तरण^०- -णः बौश्रौ ६, १७:
 १२; आपमं २, १५, २०; पाग्य;
 या ९, १२; -णम् अशां १९,
 ७; -णे अप ४८, १०५^१.
^०प्रतरणी- -णी कौस् ७७,
 २०; -णीम् कौग्य ३, २, ३; ३;
 शाग्य ३, २, ५; ६; पाग्य ३, ४, ४.
^०प्र-तरत्- -रताम्^० काश्रौ १३,
 ३, २६; आपश्रौ २१, २०, ३;
 वाश्रौ ३, २, ५, ४३; हिश्रौ १६,
 ६, ४१; -रन् कौस् ९९, २.
^०प्र-तर(त)>ता^०- -ताः^० वैताश्रौ
 ३४, ९.
^०प्र-तिर^०- -रेभ्यः बौश्रौ ९, ११:
 १०; वैश्रौ १३, १३:११.
^०प्र-तिरत्- -रन् आपश्रौ २, २१,
 १; ३, ११, २; बौश्रौ; -रन्तौ
 माश्रौ २, १, ४, २७.
 प्र-तिरम्^० माग्य २, १, १३^१.
 प्रत्न,त्ता(वप्रा.)^{b/c}- पावा ५, ४, २५^१;
 -त्तः कौस् ४६, २५^१; अप्राय ६,
 ९; अञ्च ६, ११०^१; या ३, १६;
 १२, ३२^१; अत्रा ३, ४, १^१;
 -त्तम् आपश्रौ ६, ८, ११^१××;
 बौश्रौ; निस् ६, २:२७^१; ५:

a) =पक्षि-विशेष-। गस.। b) वैप १द्र.। c) विप.। बस.। d) प्रतूर्त्ति- इति पाका.। e) विप.
 (विष्णु- विघ.)। शिष्टं वैप १द्र.। f) पामे. वैप १, २१६३ i द्र.। g) पामे. वैप १, २१६३ j द्र.। h) पामे.
 वैप १, २१६४ ० द्र.। i) पामे. वैप १, २१६३ l द्र.। j) पामे. वैप १, २१६४ d द्र.। k) पाठः ? रिषत्
 इति शोधः (तु. सा. [ऐश्वा २, २०], C. च)। l) वैप १, २१६४ ० द्र.। m) पामे. वैप १, २१६४ f द्र.।
 n) =संप्राम-। o) परस्परं पामे.। p) विप.। उप. कर्तरि अतच् प्र. उस्सं. (पाउ ३, ११०)। q) विप.>नाप.।
 उप. कर्तरि कः प्र. उस्सं. (पा ३, १, १३५)। r) पामे. वैप १, २१३९ j द्र.। s) विशेष उत्तरत्र टि. द्र.। t) तु. पाका.।

१९^a; ७, ३: १३^b; ऋषा
१७, ५^a; -कलस्य आश्रौ ४,
१५, २; ८, १०, १; शाश्रौ;
-कलान्^c अत्र ६, १३६; अप
३: १३; -तानि अप्राय ६,
३^d; -कलाम् शाश्रौ २, ११, २;
काश्रौ; -तासः सात्र १, ५०२^e;
-कलैः आश्रौ १, ५, ३५; शाश्रौ;
-लेषु आश्रौ ८, १०, ३^f; -त्नैः
निसू २, ३: ३३^f.

कप्रत्न-था आश्रौ २, १९, २४××;
शाश्रौ; या ३, १६^g; पा ५,
३, १११.

कप्रत्न-वत् आपश्रौ ६, ३१, १२;
बौश्रौ १३, २४: ११××; वैश्रौ.

प्रत्न-वत्- -वद्भिः बौषि २, ९, ६;
११, ३.

प्रत्नवती^h- -त्यः निसू १, १३:
१२; ७, ११: २७; -त्याम् वृदे
६, ४६.

प्रत्ना(ल-अ)नुरुप्^h- -पः लाश्रौ
१०, ३, १७; निसू ९, १०: ३१××

प्र(ल>)त्ना-वार्कजम्ⁱ- -भम्
लाश्रौ १०, ४, ९.

प्रत्यं(ति-अं)शु- पा ६, २, १९३.

प्रत्यङ्ग- प्रत्य(ति/अ)च्, ङ्च् द्र.

प्रत्य(ति-अ)क्ष, क्षा^h- पाग ५, ४, ३८;
पावा ५, ४, १०७; -क्षः शाश्रौ

५, १०, २९; बौश्रौ २१, १२:
८; या ३, ५; -क्षम् आश्रौ १, ३,

१६××; शाश्रौ; आपर्से १, १७,
९^k; या १३, १२; मीसू ११,

१, २७^l; -क्षयोः क्षुसू २, १४:

१३; -क्षस्य क्षुसू २, १३: ३;
५××; -क्षा शंघ २५१;

-क्षणांश्च क्षुसू २, १४: ८;
-क्षाणि बौश्रौ २२, २: २१;

२२; हिश्रौ ३, ८, ३९; क्षुसू २,
१२: २; १७; -क्षात् काश्रौ १,

८, १३; मीसू ७, ३, ४; -क्षाम्याम्
निसू ४, ६: ११; -क्षे निसू ८,

७: २७; -क्षेण लाश्रौ १०, १६,
३; वाघ; -क्षेषु क्षुसू २, १२:

२, १६.
प्रात्यक्ष- पा ५, ४, ३८.

प्रत्यक्ष-कारि-ग्रहण- -णम्, -णस्य
पावा ४, ३, १०४.

प्रत्यक्ष-कृ(त>)ता- -ताः या ७,
१-३.

प्रत्यक्ष-तम- -मम् वाधूश्रौ ४, १९:
६.

प्रत्यक्ष-तसः(ः) शंघ ३२५.

प्रत्यक्ष-त्व- -त्वात् मीसू ७, ४, १५.
प्रत्यक्ष-द्वय- -द्वयम् या ७, ४.

प्रत्यक्ष-देव- -वाः विध १९, २०;
-क्षेषु विध १९, २३.

प्रत्यक्ष-नामन्- -न्ना माश्रौ २, १, २,
२९.

प्रत्यक्ष-परोक्ष-क्षिप्र-चिर-न्यस्तो-
(स्त-उ)दात्त-कृष्टा(ष्ट-अ)कृष्ट-

-ष्टानाम् लाश्रौ ६, १०, १९.

प्रत्यक्ष-पृष्ठ^o- -ष्ठः आश्रौ ८, ४, २२.
प्रत्यक्ष-प्राङ्ग्य-पृष्ठ^p- -ष्ठः जुसू २,

१३: ८; १२.

प्रत्यक्ष-फल-त्व- -त्वात् आपघ २,
२३, ९; हिघ २, ५, १६२.

प्रत्यक्ष-बृहती- -तीः शाश्रौ १८, ९-
११, १; -त्यः शाश्रौ १८, ८,
२××.

प्रत्यक्ष-भक्षम् काश्रौ १९, ५, १०;
द्राश्रौ १२, ४, २१; लाश्रौ ४,

१२, १५.

प्रत्यक्ष-लवण- -णम् विध ७९, १२.

प्रत्यक्ष-वत् बौश्रौ २१, १२: ८;
आपघ २, १२, २१; हिघ २, ४,

५८.
प्रत्यक्ष-वाचि-त्व- -त्वात् पावा ४,
३, १२०.

प्रत्यक्ष-विकार- -रः लाश्रौ १०, १०,
४; -रात् लाश्रौ ९, ११, १४.

प्रत्यक्ष-विधान- -नात् गौध ३, ३६;
आपघ ८, २; हिघ ३, ३; मीसू.

प्रत्यक्ष-विभक्ति^h- -क्ति निसू ३, ९:
१३.

प्रत्यक्ष-विहित- -तम् दाश्रौ ३,
१९, ८; लाश्रौ १०, २०, ११.

प्रत्यक्ष-शिष्ट-त्व- -त्वात् मीसू ५,
४, २२; ६, ७, ९××.

प्रत्यक्ष-श्रुता(त-आ)घ्रात- -तानि
भाश्रौ ६, १६, ३.

प्रत्यक्ष-संयोग- -नात् मीसू ५, २,
२१; ११, ४, २१.

प्रत्यक्षा(क्ष-आ)पक्यं-पृष्ठ^p- -ष्ठः
जुसू २, १३: २; ६.

प्रत्यक्षा(क्ष-आ)भनात- -ताः हिश्रौ
६, ४, ४२.

प्रत्यक्षा(क्ष-अ)र्थ- -र्थाः वैश्रौ
१७, १०: ११; -र्थानि आपश्रौ

१४, ५, ४; हिश्रौ ९, ८, २.

a) = छन्दो-विशेष-। b) = साम-विशेष-। c) पामे. वैप १, २१६५ ज द्र.। d) पामे. वैप १,
२१६५ घ द्र.। e) पामे. वैप १, १९११ क द्र.। f) प्रयत्नैः इति मूको.। g) = ऋन्-। h) विप.। बस.।
i) उप. = तृच- (तु. सप्र. तां ११, १, १)। j) = साम-द्वय-। k) वैप १ द्र.। l) प्रत्यक्षभावे तद्वति च वृत्तिः।
m) पामे. वैप १, २२९६ e द्र.। n) श्वेतः इति जीसं. प्रमृ.। o) = एकाह-विशेष-। बस.। p) = षडह-।
कस. > बस.

प्रत्यक्षो(त्त-उ)क्त- -क्तम् आश्रौ
११,६,१२.
प्रत्यक्षो(क्ष-उ)पदेश- -शात् मीस्
३,५,३४.
प्रत्यक्षो(क्ष-उ)पाङ्गय-वृष्ट^१- -ष्ठः
जुस् २,१३:१४;१७.
प्रत्य(ति-अ)ग्नि^१- -ग्नि काश्रौ १२,३,
२; २५, ७, १२; वैश्रौ २०,२:
४; कौस् २१,१९.
प्रत्यग्रथ^१->प्रत्यग्रथि- पा ४, १,
१७३.
१प्रत्य(ति-अ)ङ्ग^१- -ङ्गम् वैष्ट १, २:
१२; मीस् १०,७,२; ११,४,४९;
-ज्ञानाम्^१ माश्रौ ५,२, ९,४.
२प्रत्य(ति-अ)ङ्ग^१- -ज्ञानि या ७,४.
प्रत्यङ्ग-भाव- -वात् मीस् ६, ६,
१५.
?प्रत्यङ्गिरः अप ३,१,१०.
प्रत्यङ्गिरस^१- -सः अत्र १०,१.
प्रत्य(ति/अ)च्,ञच्>प्रत्य(ति-अ)-
क्त,क्ता- -क्तः या १२, ३३;
-क्तम् या ७, ३१; १२, ३३;
-क्ते या ८,१५.
प्रत्य(ति-अ)च्,ञच्^१- -तीचः काश्रौ
३, ५, १०; आपश्रौ ३, ५, १;
११,७,३; बौश्रौ; -तीचा बौश्रौ
३,६:१८; ७, ५:४४; -तीचि
जैश्रौका २२; द्राश्रौ १, २, २८;
लाश्रौ १,२,२१; -त्यक् आश्रौ १,
११,४; शाश्रौ १८,२१,७; काश्रौ;
वाश्रौ १,२,४,४२^१; -त्यङ् शाश्रौ

२, ७, १३; काश्रौ ९, ११, १०;
आपश्रौ; या १२, २४^१†; -त्यञ्चः
शाश्रौ ६, १२, १३†; आपश्रौ;
-त्यञ्चम् शाश्रौ ४, ३, ७; ५, १३,
३; काश्रौ; आपश्रौ ६, २१, ११†;
१८, १४, १२†; या ५,
३†; -†त्यञ्चाश्च^१ अप्रा १,
१, ५; शौच १, १०५; -त्यञ्चि
काश्रौ ९, १, ४; १७, ५, १३;
आपश्रौ; -त्यञ्चौ आपश्रौ १,
२२, २××; काठश्रौ ३४, बौश्रौ.
प्रतीची^१- -ची आश्रौ १०,
१०, १०; शाश्रौ १६, ९, २०;
काश्रौ २०, ४, २७; आपश्रौ;
या ३, ५††; ८, १५†; -चीः
आपश्रौ १६, २१, १†××;
बौश्रौ; -चीम् शाश्रौ २, ९,
१०××; काश्रौ; आपश्रौ १, १९,
५^१; भाश्रौ १, २१, ३^१; भाश्रौ
१, २, २, ८^१; हिश्रौ १, ५, ४४^१;
-च्यः बौश्रौ १२, ८:३; वृदे
७, ११५; -च्या शाश्रौ ४, ११,
४†; आपश्रौ; -च्याः कौस्
४२, ८; अप्राय ६, ९; †अत्र ९,
३××; -च्याम् आश्रौ १, ११,
७†; शाश्रौ ६, ३, ३†; आपश्रौ
२२, १६, ४; बौश्रौ ३, २०,
१४†××; वाश्रौ; -च्यै बौश्रौ
३, २८:४; १८, ५२:२;
बौष्ट; -च्यौ बौष्ट १०:२८.
प्रतीची-स्थ- -स्थान्

अत्र ३, २६.
प्रतीचीन^१- -नः कौस् ६६,
२१†; -नम् आपश्रौ २, ७,
१२××; बौश्रौ; -नाः बौश्रौ
२४, ३६:११; -ने वृदे ७, १८†.
प्रतीचीन-प्रीव,वा^१- -वम्^१
आपश्रौ १, ११, ४; बौश्रौ १, ६:
१३; भाश्रौ; -वया बौश्रौ ६,
१५:४.
प्रतीचीन-पाद्^१- -दम्
बौश्रौ २०, २८:१५.
प्रतीचीन-प्रजन(न >)
ना^१०- -नाम्^१ बौश्रौ २, १६:
३१; वैश्रौ.
प्रतीचीन-प्रवण^१- -णम्
बौश्रौ २, ६:३१.
†प्रतीचीन-फल^१- -लः कौस्
४६, ४९; अप १८^१, ५, २; ३२,
१, २; अत्र ७, ६५; अपं २:७३.
प्रतीचीन-बिल,ला^१- -लम्
बौश्रौ ९, १२:२१; १५:१८;
३२; वैश्रौ १३, १४:५; १३;
१४; -लाम् बौश्रौ ९, १५:४;
-ले बौश्रौ ९, १५:६.
प्रतीचीन-शिरस^१- -रसम्
बौश्रौ^१ ४, ६:३३; २०, २८:
१४; आसिष्ट २, २, ५:६.
प्रतीचीनशिरसी- -सीम्^१
बौश्रौ २, ९:३०; आसिष्ट २,
५, ८:४; बौष्ट २, ७, ८; ११, ९.
प्रतीचीन-स्तोम^१- -मः बौश्रौ

a) = षडह-। कस. > बस. । b) अस. । c) = जनपदशब्दचतुष्टय-। व्यु. ? । d) अम्-अभानः
उसं. (पा २, ४, ८३) । e) प्रास. । f) = ऋषि-विशेष-। व्यु. ? । g) वैप १ द्र. । h) सप्र. प्रत्यक् <>
प्रतीचीम् इति पाभे. । i) पाभे. वैप १, २१६६ ह द्र. । j) पाभे. वैप १, २१६६ i द्र. । k) वैप १ निर्दिष्टयोः
समावेशः द्र. । l) पाभे. वैप १, २१६७ ० द्र. । m) विप. । बस. । n) सप्र. प्रतीचीनप्रीवम् <> प्रत्यग्-
प्रीवम् इति पाभे. । o) उप. = प्रजननस्थानीय-गर्त- । p) सप्र. प्रतीचीनप्र° <> प्रत्यङ्गप्र° इति पाभे. ।
q) सपा. प्रतीचीनशि° <> प्रत्यक्शि° इति पाभे. । r) सप्र. प्रतीचीनशिरसम् <> प्रतीचीनशिरसीम् <>
प्रत्यक्शिरसम् <> प्रत्यक्शिरसीम् <> प्रत्यक्श्रीर्षीम् इति पाभे. ।

१२,२०:१७; २६, २:९; ३,
९; १५; वाश्रौ ३, ३, ४, ४१;
निस्र ७, ६:१०; -माय बौश्रौ
१२,२०:६; २६, २:१३; -मे
वैताश्रौ ३२, ११^०.

प्रतीचीना(न-अ)प्र,प्रा^०-

-ग्रम् बौश्रौ ९, १५:८; १५;
३४; -प्रा: बौश्रौ ९, १५:१३;
२७; -प्रे बौश्रौ ९, १५:१२;
१७; २४.

प्रतीचीने(न-इडा>)ड^०-

-डम् लाश्रौ ७, २, १; निस्र
३, १०:१०; -डानि लाश्रौ
७, ८, १६.

प्रतीच्य- पा ४, २, १०१; -च्यम्
माश्रौ ५, १, १, ९; निघ ३, २५^१;
-च्येन वैश्रौ १२, १२:११;
-च्यौ वैश्रौ १३, ११:३.

प्रत्यक्-तर- -रम् आश्रु १, १०,
१७.

प्रत्यक्-प(द>)दी^०- -दीम्

गोश्रु ३, १०, २५.
प्रत्यक्-पाश^०- -शम् माश्रौ ६,
१, ७, २.

प्रत्यक्-प्रजन(न>)ना^०- -नाम्
वाश्रौ १, ६, ४, ८^१.

प्रत्यक्-शिरस्^०- -रसम् शाश्रौ
४, १७, ११; काश्रौ ६, ५, १५;
आपश्रौ ७, १६, ५^०; वाश्रौ १, ६,
५, २^०; वैश्रौ १०, १३:१०^०;
हिश्रौ ४, ३, ५२^०; आश्रु १, ११,
१०; भाश्रु २, १६:७^१; हिश्रु २,
१५, ४^१.

प्रत्यक्-शिरसी- -सीम्^१ हिपि
५:१; द्राश्रु ३, ४, ६.

प्रत्यक्-शी(र्षि>)र्षी^०- -र्षीम्
कौस्रु ४४, १३^१.

प्रत्यक्-संस्थ^०- -स्थम् द्राश्रौ ५,
२, १४; लाश्रौ २, ६, ८; निस्र
प्रत्यक्-सामन्- -म्न: बौश्रौ
२६, १६:११.

प्रत्यक्-स्थल^०- -लम् कप्र ३, १,
१९.

प्रत्यग्-अग्र,प्रा^०- -ग्रम् कप्र
३, १, १९; -ग्रामि: निस्र १, ११;
२४; -ग्राम् माश्रौ १, १, १, २२.

प्रत्यग्-अपवर्ग^०- -र्गम् आश्रौ
१, २५, १५; २, ९, २; भाश्रौ;
-र्गाणि आश्रु १, २, २:२७;
हिश्रु २, १९, ७.

प्रत्यग्-अर्थ- -र्थस्य अश्रु १, ३५,
२.

प्रत्यग्-आत्मन्^०- -त्मनि मीस्
३, ७, २०.

प्रत्यग्-आवृत्त- -त्त: बौश्रौ २४,
२८:३; जैश्रौ १३:१२; २१.

प्रत्यग्-आशिस्- -शिष: आपश्रौ
४, १, ३; वाश्रौ १, १, २, १२;
वैश्रौ ३, १:७; हिश्रौ ६, १, ८;

-शिषम् आपश्रु ११, ४; -शी:
बौश्रौ २०, २:२७.

प्रत्यग्-उत्तर^१-> ०-शिरस्^०-
-रा: वैध ३, १, ४.

प्रत्यग्-उदच्,ञच्^१- -दक् आश्रौ
१, ११, १०; २, ६, ४××.

१प्रत्यगुदीची^१- -ची:
काश्रु ११, १.

प्रत्यगुदग्-ग्रीव^०- -वम्
हिश्रौ २, ७, ११; -वे आपश्रौ १,
७, १०.

२प्रत्यग्-उदीची^१- -चीस् द्राश्रु
४, २, ७.

प्रत्यग्-ग्रीव^०- -वम् काश्रौ २,
४, ३; वाश्रौ १, २, ४, ४२^१.

प्रत्यग्-दक्षिण^१-तस् (:) काश्रौ
२, ७, १.

प्रत्यग्-दक्षिणा^१ आश्रौ १, ३,
३१; वाश्रौ १, १, ५, ७××.

प्रत्यग्दक्षिणा-प्रवण- -णम्
आश्रु ४, १, ८.

प्रत्यग्-दक्षिणा^१- -णाम् आश्रौ
८, १४, १४.

प्रत्यग्-द(ण्ड>)ण्डा^०- -ण्डाम्
शाश्रौ २, ९, १४; वाश्रौ १, ३,
३, ३०.

प्रत्यग्-द(शा>)शा^०- -शेन
आश्रौ ६, १०, ६.

प्रत्यग्-द्वार, रा^०- -रम् माश्रौ ६,
१, ७, १; हिश्रौ ७, १, २९; गोश्रु
४, ७, १७; -रा: माश्रौ ६, १, ८,
१०; -राणि आश्रु २, ६, ३:

६; बौध २, ५, १८.

१प्रत्यग्-भिषज्^३- -षक् अश्रु
१, ४१, ३; अशां ११, ३.

प्रत्यग्-वृत्त- -त्तानि कौस्रु १२४,
५.

प्रत्यङ्-मुख^०- -ख: आश्रौ ३,
१२, १८; काश्रौ ४, १३, ३; ८,
६, १७; आपश्रौ; -खम् काठश्रौ
५५; बौश्रौ; -खस्य आश्रु १,
१०, १६; भाश्रु १, ७:२; -खा:
आपश्रौ १३, ८, १०; बौश्रौ;

-खान वैश्रु ४, ३:९; -खाय
पाश्रु २, ३, ३; भाश्रु १, ९:५;

-खे वाश्रौ २, २, ४, १७; हिश्रौ

a) =एकाह-विशेष-। b) विप.। बस.। c) =साम-विशेष-। बस.। d) पाभे. पृ १६९३ p द्र.।

e) पाभे. पृ १६९३ q द्र.। f) पाभे. पृ १६९३ r द्र.। g) उप. =समाप्ति-। h) कस.। i) =वायव्य-
कोण-। बस.। j) विप. (२अप्-)। k) पाभे. पृ १६९३ n द्र.। l) =नैर्ऋती- दिश-। बस.। m) =नक्षत्र-विशेष-।

३,४,३६; -खिभ्यः पाठ २,१०,
१८; -खौ काश्रौ ९,७,२; ११,१.
प्रत्यङ्मुखी- -खी काश्रौ ५,
५,१०; वैश्रौ ८, १२ : ५; माण्ड
१, ८, २; -खीः अश्रां ५, ८;
-खीम् काश्रौ ७, ८, १९; माश्रौ;
-ख्याः शांण्ड १, १३, १; भाण्ड १,
१५ : २; हिण्ड १, २०, १.
प्रत्य(ति/अ)ञ्, ञ्, प्रत्यनक्ति
काश्रौ २, ८, १६; बौश्रौ १, १६;
१५; १७ : ६; ११××; माश्रौ;
प्रत्यङ्कतः बौश्रौ ५, ८ : ३१;
प्रत्यनक्ति आपश्रौ २, १९, ६;
बौश्रौ; प्रत्यञ्ज्यात् आपश्रौ २१,
८, १०; बौश्रौ २०, १२ : १०.
प्रत्य(ति-अ)ञ् आपश्रौ २, ११,
३; बौश्रौ.
प्रत्य(ति-अ)ञ्जन्- -नः^b बौश्रौ १,
१७ : २; -ने बौश्रौ २०, १२ :
१०.
प्रत्य(ति-अ)जिर- पा ६, २, १९३.
प्रत्य(ति-अ)ति/क्रम्, प्रत्यतिक्रामति
वाश्रौ १, ३, ४, १३.
प्रत्यति-क्रम्य आपश्रौ १४, ८, ९.
प्रत्य(ति-अ)ति/ह, प्रत्यतिहारयेत्
गोण्ड ४, ३, ३०.
प्रत्य(ति-अ)धिकरण^c - गण्ड पावा
२, ४, १.
प्रत्य(ति-अ)धिदेवता^d - ताः जैण्ड
२, ९ : १८.
प्रत्य(ति-अ)धी(धि/इ), प्रत्यधीयते
बौश्रौ २४, १५ : ९.
प्रत्यधी(धि-इ)त्य बौश्रौ २०,
१७ : २६.
प्रत्य(ति-अ)नन्तर^e - त्व- -त्वात्

बोध २, २, ६९; ७२.
प्रत्य(ति-अ)नीक^d - -केषु बौश्रौ २०,
२६ : २१.
प्रत्य(ति-अ)नुवाक^c - -कम् काण्ड
५२, ७.
१प्रत्य(ति-अ)न्त^e - -न्तात् द्राश्रौ २,
१, २२; लाश्रौ १, ५, १८××.
२प्रत्य(ति-अ)न्त- -न्तान् कौस् ३४,
१७; -न्तेषु शंघ २५१^h.
प्रत्य(ति-अ)न्न^e - -न्नम् वाश्रौ ३, ४,
२, ४.
प्रत्य(ति-अ)प/कृष् > प्रत्यप-कर्ष-
-र्षः निस् २, १३ : ३९.
प्रत्य(ति-अ)प/कम्, प्रत्यपक्रामति
वाश्रौ १, १, ४, २३.
प्रत्य(ति-अ)पा(प/अ)न्, प्रत्यपा-
निति भाण्ड १, २० : ५.
प्रत्य(ति-अ)पि/सृञ्, प्रत्यपिसृजति
आपश्रौ ७, १९, ७.
प्रत्यपि-सृज्य आपश्रौ १, १०, १४;
७, १५, ३; हिश्रौ २, ७, ५६.
प्रत्य(ति-अ)पो(प/ऊ)र्ण, प्रत्य-
पोर्णुतेⁱ बौश्रौ ६, १५ : १०;
२५, ८ : १६; वैश्रौ १२, १९ :
१२; हिश्रौ १०, ३, २५.
प्रत्य(ति-अ)ब्द^e - -ब्दम् कप्र ३, ८,
१७; विध ५९, ९.
प्रत्याब्दिक^f - -कम् कप्र ३, ५, ७;
१४.
प्रत्य(ति-अ)भि/चृ, प्रत्यभिधारयति
आपश्रौ २, २१, ५; माश्रौ २,
१४, ६××; माश्रौ; प्रत्यभिधार-
येत् वाश्रौ १, १, १, ३५; हिश्रौ.
प्रत्यभि-धारण- -गण्ड काश्रौ १, ९,
११; कौण्ड १, ८, २२.

प्रत्यभि-चार्य आपश्रौ २, १४, १३××;
माश्रौ.
प्रत्य(ति-अ)भि/चर्, प्रत्यभिचरति
वाश्रौ १४, २२, २२; बौश्रौ १३,
१५ : ३.
प्रत्यभि-चरत् - -रन्तम् बौश्रौ २३,
२ : १२.
प्रत्य(ति-अ)भि/नन्द, प्रत्यभि-
नन्दयन्ति विध १९, २३.
प्रत्य(ति-अ)भि/मिथ्, मेथ्, प्रत्य-
भिमेथति आश्रौ १०, ८, ११;
१३; शांश्रौ १६, ३, ३७; प्रत्य-
भिमेथन्ति शांश्रौ १६, ४, ५;
१३, ११; प्रत्यभिमेथेयुः लाश्रौ
९, १०, ४; ६.
प्रत्यभि-मेथन- -ने शांश्रौ १६, ४, ६.
प्रत्य(ति-अ)भि/सृश्, प्रत्यभि-
सृशते बौश्रौ २०, २५ : २४.
प्रत्यभिसृशते बौश्रौ १, २ : १३;
३, २१ : ११××; बौण्ड; प्रत्य-
भिसृशति आपश्रौ १४, २१, ५;
बौश्रौ ७, १८ : ७××; माश्रौ;
प्रत्यभिसृशन्ते बौश्रौ ७, १५ :
१२; १७ : १६××; प्रत्यभिसृ-
शन्ति वैताश्रौ १९, १८; प्रत्यभि-
सृशेत् आपण्ड १३, ६; प्रत्यभि-
सृशेरन् गोण्ड ३, ८, १८.
प्रत्यभि-सृशन^g - -नः^b बौश्रौ १५,
३६ : १७; २१, ४ : २; ३;
-नाः^b बौश्रौ १०, ५९ : ६; ११,
१३ : ७; १५, १८ : २०; ३६ :
१७; १७, २ : ३; -ने बौश्रौ
२१, २० : २४; द्राश्रौ ५, १, २०;
लाश्रौ २, ५, १६; -नौ^b बौश्रौ
१२, १६ : १९; १८ : २३.

a) उप. भावे करणे च कृत् । b) =मन्त्र-विशेष- । c) अस् । d) प्रास. । e) पूष. =अत्यन्त- ।
f) =कोण- । g) =यावदन्तम् । h) =सोमान्त-प्रदेश- । i) सप्र. आपश्रौ १०, २६, १७ अपोर्णुते इति पाठे. ।
j) तात्रभक्तिं ठञि उप. वृद्धिः उस्. (पा ७, ३, २०) ।

प्रत्यभिभर्शन-मन्त्र- न्त्रः
भाश्रौ ६, १६, १८.
प्रत्यभि-सृश्य आपश्रौ ७, २, ९××;
वैश्रौ.
प्रत्य(ति-अ)भि $\sqrt{\text{रुह}} >$ प्रत्यभि-
रूढ- -ढम् हिश्रौ १३, ८, ४४.
प्रत्य(ति-अ)भिलेख्य-विरोध^६- -धे
वाध १६, १५.
प्रत्य(ति-अ)भि $\sqrt{\text{वद्}}$, प्रत्यभिदेत्
आपध १, १४, २०; हिध १, ४,
४९.
प्रत्यभि-वाद- -दः बौध १, २, ४७;
-दम् वाध १३, ४६; -दे पा ८,
२, ८३.
प्रत्य(ति-अ)भि $\sqrt{\text{ष}} (<स)ञ्ज$, प्रत्य-
भिषजति काठश्रौ १२२.
प्रत्य(ति-अ)भि-हि $\sqrt{\text{क}}$, प्रत्यभिहि-
ङ्कुर्वन्ति आपश्रौ २०, १३, ७;
हिश्रौ १४, ३, १२.
प्रत्य(ति-अ)भ्य(भि-अ)नु $\sqrt{\text{ज्ञा}} >$
प्रत्यभ्यनु-ज्ञा- -ज्ञा आग ४, ७,
१९.
प्रत्य(ति-अ)मित्र^b- -त्रम् बौश्रौ १४,
१८ : २.
प्रत्य(ति-अ)य- , प्रत्य(ति-अ)यन-
प्रम्. प्रती(ति $\sqrt{\text{इ}}$) द्र.
प्रत्य(ति-अ)यन^b- -नम् वैश्रौ १०,
१ : १; विध ५९, ५.
प्रत्य(ति-अ)र्क^b- -कम् वैध २, १०, २.
प्रत्य(ति $\sqrt{\text{अ}} \sqrt{\text{र्च}}$, प्रत्यर्च आपश्रौ ६,
२१, ११.
प्रत्य(ति-अ)र्थ^b- -र्थम् पावा १, २,
६४^१; मीसू ६, १, ३××.
प्रत्य(ति-अ)र्थ^b- -र्थः निसू २, ३ :
२२.

प्रत्य(ति-अ)र्थ^६- , प्रत्यर्थ-पुर^{६d}- पा
६, २, १९३.
प्रत्य(ति-अ)र्थि^६-ता- -ताम् निसू ८,
११ : ७.
प्रत्य(ति-अ)लं $\sqrt{\text{क}}$, प्रत्यलं कुर्वीत
आपध १, ३२, ६; हिध १, ८,
४८.
प्रत्य(ति-अ)व $\sqrt{\text{दो}}$ (अवखण्डने),
प्रत्यवधेत् भाश्रौ ७, १६, ६.
प्रत्यवदास्यामि आपश्रौ २,
१८, ९; बौश्रौ १, १६ : १४;
भाश्रौ २, १७, ९; माश्रौ.
प्रत्य(ति-अ)व $\sqrt{\text{घा}}$, प्रत्यवदधाति
बौश्रौ १०, १८ : ६; वैश्रौ १८,
११ : १६; हिश्रौ २, ७, ५८××;
प्रत्यवदध्यात् बौश्रौ २२, ३ :
२७.
प्रत्यव-धाय शाश्रौ ४, ९, ३; आपश्रौ.
प्रत्य(ति-अ)व $\sqrt{\text{नी}} >$ प्रत्यव-नीय
बौश्रौ ६, ३ : २२; १०, १२ :
१५; भाश्रौ.
प्रत्य(ति-अ)व $\sqrt{\text{भुज}}$ (कौटिल्ये)
प्रत्यव-भुज्य कौसू २०, २४.
प्रत्य(ति-अ)व $\sqrt{\text{मृज}}$ > प्रत्यव-मृज्य
माश्रौ २, २, २, ९.
प्रत्य(ति-अ)वयव^b- -वम् पावा १,
१, १.
प्रत्य(ति-अ)व $\sqrt{\text{रुह}} >$ रोपि, प्रत्य-
धरोहते वैश्रौ १७, १५ : ७;
प्रत्यवरोहति शाश्रौ १६, १७, ७;
आपश्रौ १७, १९, १११; १८, ५,
२०; बौश्रौ; कौश्र ३, १, १०१^१;
प्रत्यवरोहन्ति शाश्रौ १६, १८,
१६; पाग ३, २, ६; ११; बौग
१, १, ११; प्रत्यवरोह आश्रौ ३,

१०, ८१^६; प्रत्यवरोहाम पाग ३,
२, १०; प्रत्यवरोहते आपश्रौ ६,
१३, ८××; बौश्रौ; प्रत्यवरोहेम
माग २, ७, ४१.
प्रत्यवरोह बौश्रौ १८, ४५ :
२८.
प्रत्यवरोपयन्ति जैग १, २२ : ४.
प्रत्यव-रुह आपश्रौ १७, १३, ६;
२३, ११; १९, १०, २; वाधूश्रौ.
प्रत्यव-रूढ- -ढः आपमं २, १८,
२; -ढम् आपश्रौ २२, १०,
६; हिश्रौ १७, ४, २४.
प्रत्यवरूढ-पर्या(य >)या^६- -या
निसू १, १० : २२.
प्रत्यव-रोक्ष्यत्- -क्ष्यन् भाग २, २ :
१४.
प्रत्यव-रोष्य जैग १, २२ : ६.
प्रत्यव-रोह^१- -हः लाश्रौ ९, १२, १६;
निसू १०, १२ : १०; या ७, २३;
२४; -हात् कौश्र ४, २, ३^१;
-हान काश्रौ १८, १, ५; आपश्रौ;
-हे निसू २, ९ : ३४; -हेण
वाश्रौ १, ३, ७, १०^२; लाश्रौ ८,
५, २५; वृदे १, १०२; -हेभ्यः
काश्रौ १८, १, ४; वाश्रौ २, २,
३, ५; -हैः वाश्रौ १, ३, ६, ७.
प्रत्यवरोह-संज्ञक^६- काः शुअ
२, २६०.
प्रत्यवरोहा(ह-अ)र्थ- -र्थे निसू
३, ९ : ४५.
प्रत्यव-रोहण- -णम् बौश्रौ २४, ४;
३; आग २, ३, १; बौग; -णात्
आग २, १, १४; शांग ४, १५,
१९^१; -णे शाश्रौ १६, १७, ८.
प्रत्यवरोहण-तसः (ः) बौश्रौ ११,

a) प्रास. > षस. । b) अस्. । c) प्रास. । d) पृ ३६७ m द्र. । e) वैप १ द्र. । f) पाभे.
पृ ३९७ b द्र. । g) पाभे. वैप २, ३खं उपावरोह तैत्रा २, ५, ८, ८ टि. द्र. । h) विप. । बस. । i) भाप., नाप.
(मन्त्र-). । j) सपा. °हात् <> °हणात् इति पाभे. । k) = पाक्यज्ञसंस्था- । अधिकरणे कृत प्र. ।

१२: ५; १८, १७: २७; २२,
१५: ७.
प्रत्यवरोहणा(ण-ञ)भिवादन-
ने लाश्रौ ८, १२, २.
प्रत्यवरोहणीय^० - य: शाश्रौ
१४, ११, १; वैताश्रौ ३६, १०;
-येन आपश्रौ १८, ७, १७; बौश्रौ.
प्रत्यव-रोहन्- -हन् आपश्रौ १६,
२१, १४.
प्रत्यव-रोहिन्- -हिण: निस् १,
१०: २१; -हीणि लाश्रौ ९,
१२: १५; निस् १, ६: १३.
प्रत्यवरोहिणी- पाग ४, १, ४१.
प्रत्यव-रोह्य आपश्रौ १, १८, ४.
प्रत्य(ति-अ)व √सिच्, प्रत्यव-
सिच्यन्ते आपश्रौ १८, १३, ८.
प्रत्य(ति-अ)व √सृज्, प्रत्यवसृजति
माश्रौ १, ३, ४, १४; ८, ४,
२१; २, ३, ३, २२.
प्रत्य (ति-अ)व √सो, प्रत्यवस्यति
आपश्रौ ९, १, २२; प्रत्यवस्येत्
बौश्रौ २१, २६: १६; २२, १७:
११; हिश्रौ १४, ६, १३××.
प्रत्यव-सान- -ने बौश्रौ २१, २६:
१६; २२, १७: ११.
प्रत्य(ति-अ)व √स्था, प्रत्यवस्था-
पयति माश्रौ ४, २, ३३.
प्रत्यव-स्थाय माश्रौ २, ३, २, ३३; ३,
१८××; वाश्रौ १, १, १, ५२.
प्रत्यव-स्थित- -ताय बौश्रौ २६,
९: १४.
प्रत्य(ति-अ)व √हृ, प्रत्यवहरति हिश्रौ
२, १, १२; प्रत्यवहरेत् गो २, ५.
प्रत्यव-हृत्य गो ११, २४; २७.

प्रत्य(ति-अ)वे (व √इ) > प्रत्यवा
(व-आ)य- -य: वैश्रौ २०, १:
२; आपथ २, १३, ८; हिध २,
३, ८; -यात् काश्रौ १, ६, ८.
प्रत्यवे(व-इ)त- -त: निस् ३, ११:
२०.
प्रत्यवेत-स्वर- -राणाम् लाश्रौ
७, ८, १; ३.
प्रत्य(ति-अ)वे(व √ई) ष्, प्रत्यवेक्षते
आपश्रौ २, १, ५, बौश्रौ १, २:
७××; भाश्रौ; प्रत्यवेक्षेत वाधुश्रौ
३, १०: ४; २३: ३; ४; वैश्रौ.
प्रत्यवे(व-ई)क्षितव्य- -व्या: शंघ
२५२.
प्रत्यवे(व-ई)क्ष्य आपश्रौ २, २, ३.
प्रत्य(ति √अ)श्र(व्याप्तौ) > प्रत्य
(ति-अष्ट >)ष्टा- -ष्टा कौस्
१०६, ७^३फं.
प्रत्य(ति √अ)स् (क्षेपणे), प्रत्यस्यति
आपश्रौ ६, १५, ५; १०, २८,
१××; बौश्रौ; माश्रौ १, २, २,
८^०; २५^०; शांश्रु १, ८, २१^०;
प्रत्यस्यन्ति माश्रौ १, ७, ४, ४२,
प्रत्यस्येत् आपश्रौ १५, १९, २;
बौश्रौ २३, २: २५××; भाश्रौ.
प्रत्य(ति-अ)सन- -नम् बौश्रौ २१,
३: ७; २३, १६: २१; माश्रौ;
-ने भाश्रु ३, १८: ७.
प्रत्यसन-काल- -ले भाश्रौ ६,
१४, १६; हिश्रौ ३, ७, ११५.
प्रत्य(ति-अ)सित्वा आश्रौ ८, १२,
१४, आपश्रौ.
प्रत्य(ति-अ)स्त- -स्तः^० आपश्रौ
१०, २८, १; बौश्रौ ६, १५: ३०;

८, २०: २२; भाश्रौ; -स्तम्
काश्रौ १५, ५, २४^०; वाश्रौ.
प्रत्य(ति-अ)स्य शाश्रौ २, ७, १२;
बौश्रौ; कौश्रु १, ४, ५^०.
प्रत्य(ति-अ)ह^० - -हम् काश्रौ १, ७, ७;
२२, ७, १४××; काश्रु; हिध
२, ५, १५६^०.
प्रत्यहा(ह-अ)भ्यस्त- -स्तै: विध
४६, २०.
प्रत्या (ति-आ) √क्रम्, प्रत्याक्रामति
आपश्रौ २, १४, १०; भाश्रौ २,
१३, १५; वैश्रौ ६, ३: ११.
प्रत्या-क्रम्य आपश्रौ २, १७, ६; १८,
९××; काठश्रौ.
प्रत्या(ति-आ) √ख्या, प्रत्याख्यास्यति
बौश्रौ ६, ७: २०^०फं; भाश्रु १०,
१०: १.
प्रत्या-ख्यात- -त: वृदे ५, ६०.
प्रत्या-ख्यान- -नम् वृदे ७, १५३.
प्रत्या-ख्याय या २, २६.
प्रत्या-ख्यायन् वौश्रौ १४, ३: १८,
२०××.
प्रत्या-ख्येय- -य: वाधुश्रौ ३, ९२:
२.
प्रत्या(ति-आ) √गम्, प्रत्याजगाम
निस् ८, ४: ३२. *
प्रत्या-गत, ता- -त: शंघ ३०३; -ता:
गोश्रु ३, ६, २; द्राश्रु ३, १, ४३;
-तान् काश्रु ४५, ११; -ताय द्राश्रु
३, १, ३०; -तासु शांश्रु ३, ९, ३;
-ते काश्रौ २१, ४, ७.
प्रत्या-गत्य वैध २, ११, १.
प्रत्या(ति-आ) √गृ, गृ (शब्दे), प्रत्यागृ-
णाति शाश्रौ १७, ४, ६;

a) = कतु-विशेष-। तदस्यप्रयोजनमित्यर्थे छ > ह्यः प्र. उस्. (पा ५, १, १११)। b) सप्र. वाश्रौ १, २, ४, ४२ अभिभुजन् इति पाठे। c) न प्रत्यस्यति इत्यस्य स्थाने सप्र. वाश्रौ १, २, ४, ६१ अनभिभुजन् इति पाठे। d) सपा. श्यति <> श्य इति पाठे। e) पाठे. वैप १, २१५४ & द्र.। f) पाठे. वैप १, १८१६ f. द्र.। g) अस्. वा. किवि.। h) पाठे. पृ २३३ ० द्र.।
वैप४-प्र-३१

बौश्रौ २६, १४:६; वाधूश्रौ ४,
२६:२४; १००:१६; प्रत्या-
गृणन्ति बौश्रौ १८, २९:२२;
प्रत्यागृणीतात् शाश्रौ १७, १४,
३२.

प्रत्यागर्तुम् बौश्रौ १८, २९:२०.

प्रत्या(ति-आ) √चक्ष्, प्रत्याचष्टे
शाश्रौ ५, १, १०; ऋञ्च; प्रति...
आचष्टे भागृ २, २५: १५[†];
प्रत्याचक्षते हिश्रौ १७, १, १४;
प्रत्याचक्षीत काश्रौ २२, १, ३२;
आपश्रौ १७, २६, १९; वैश्रौ;
प्रत्याचक्षीयाताम् आपध २, ४,
१३; हिध २, १, ६६.
प्रत्याचक्षे या ११, ३४.
प्रत्याचक्षि वृदे ५, ७७.

†प्रत्या-चक्षण- -गानाम् आपध १,
३, २६; हिध १, १, १०१.

प्रत्या(ति-आ) √च्छिद् > प्रत्या-
च्छेद्य बौश्रौ १४, १९: २४[†];
आमिष्ट २, ६, १: १२[†]; बौपि
१, ८: ११.

प्रत्या-जिहीर्षमाण- प्रत्या(ति-आ)
√हृ द्र.

प्रत्या(ति-आ) √तप् > प्रत्या-
(ति-आ)ताप- -पे काश्रौ १५,
४, ३३.

प्रत्या(ति-आ) √तृद् > प्रत्या-तृष्ण-
-णम् माश्रौ ६, १, ७, १२.

प्रत्या(ति-आ) √त्म^b - > त्म-वचन-
-नम् पावा १, १, ५०.

प्रत्यात्मिक^c - -कान् शांष्ट ६, ६, १२.

प्रत्या(ति-आ) √दा, प्रत्यादत्ते शाश्रौ
७, २५, १४; हिश्रौ ७, २, ७४;
या ५, १९; प्रत्याददीत बौश्रौ

२२, ४: ९; १०××; बौश्रु.

प्रत्या-दान- -ने उस् २, ५.

प्रत्यादाना(न-आ)दि- -दि
आश्रौ ५, १५, ९.

प्रत्यादाना(न-आ)वसान- -नयो:
ऋप्रा १०, ५; उस् ३, ६.

प्रत्या-दाय आश्रौ ६, ४, ४; शाश्रौ.

प्रत्या(ति-आ)दित्य^d - -त्यः अप ६१,
१, २६; -त्यम् अप ७०^e, २३, ११

प्रत्या(ति-आ) √धाव् (गतौ), प्रत्याधा-
वन्ति आपश्रौ ६, २५, ४[†]†.

प्रत्या-धावत्- -वतः आपश्रौ १८,
४, २१.

प्रत्या(ति-आ) √नह्, प्रत्यानहति
आपश्रौ १०, २७, १०; बौश्रौ ६,
१५: २६; भाश्रौ; प्रत्यानहोत्
बौश्रौ २१, १२: २०.

प्रत्या-नहन- -ने बौश्रौ २१, १२: २०.

प्रत्या(ति-आ) √नी, प्रत्यानयति शाश्रौ
२, ७, ११; बौश्रौ.

प्रत्या-नीय शाश्रौ २, ८, १०; आपश्रौ;
कौष्ट १, ७, १[†]†.

†प्रत्या(ति-आ)नीक^f - -काय शांष्ट १,
११, ४[†].

प्रत्या(ति-आ) √पद् > प्रत्या-पत्ति-
-सिः वाध १५, १९; आपध;
पावा ६, ३, ३३; -तौ पावा ८,
४, ६८.

प्रत्या(ति-आ) √प्याय् > प्रत्या-प्या-
ययत्- -यन्तः निसू ४, ९: २२.

प्रत्या(ति-आ) √मन्, म्ना, प्रत्यामनेत्
मीसू ६, ४, ३१.

प्रत्यान्नायुः ऋप्रा १५, १५.

प्रत्या-न्नात- > [†]त-प्रायश्चित्त^g-
-त्ताः बौश्रौ २०, २३: ११.

प्रत्या-न्नात- -नम् लाश्रौ ९, ७, ४;
-नात् आपश्रौ २४, ४, २.

प्रत्या-न्नाय- -यः शाश्रौ १४, ५१,
६; आपश्रौ; -याः निसू २, ८:
३; -येन भाश्रौ ६, १५, ६.

प्रत्यान्नाय-प्रतिषेधा (ध-अ)र्थ-
लोप- -पैः वाश्रौ १, १, १, ६७.

प्रत्या-यत्- -प्रभृ. प्रत्ये (त्या √इ) द्र.

प्रत्या(ति-आ) √या > प्रत्या-याय
आपश्रौ २१, १९, १७; हिश्रौ.

प्रत्या(ति-आ) √रभ्, रभ् > प्रत्या-
रभ्य माश्रौ ६, २, ४, २.

१प्रत्या-रभम्- -रभः कौसू १४१,
४१[†]; उस् ५, ४; ७, २०^h; -रभे
पा ८, १, ३१.

प्रत्यारभम्-निवात्- -तेषु अप
३४, १, १.

प्रत्यारभिभन्- -रभो माशि ३, ७.

२प्रत्या(ति-आ) रभम्^{bj} - -रभम् मीसू
११, १, २०.

प्रत्या(ति-आ) √रुह् > प्रत्या-रोप्य
आपश्रौ १२, ९, ८.

प्रत्या (ति-आ) धर्षण^k- पा ६, २,
१९३.

प्रत्या(ति-आ) √लभ् > प्रत्या-ल-
(ब्ध >)ब्धा- -ब्धाम् आश्रौ
१, ७, ५.

प्रत्या(ति-आ) √लिख्, प्रत्यालिखेत्
आपश्रु १२, ३; हिश्रु ४, २५.

प्रत्या-लिख्य बौश्रु १९: ४.

प्रत्या(ति-आ) √वप्, प्रत्यावपति
माश्रौ ६, १, ४, ३४; वाश्रौ २, १,
३, ३५; माष्ट; प्रत्यावपन्ति कौसू
२१, ४.

प्रत्या(ति-आ) √वृत्, †प्रत्यावर्तय-

a) यथाक्रमं प्रत्याच्छेद्याम्, प्रच्छाद्येन इति पाठौ? यनि. शोधः (तु. बौपि). । b) अस. । c) मत्वर्थोऽपि ठन् प्र. ।
d) =सूर्यप्रतिबिम्ब-सदृश- । प्रास. । e) परस्परं पाभे. । f) विप. । प्रास. उप. स्वार्थे प्र.; वैतु. Old. नाप.
इति? । g) विप. । बस. । h) तु. सस्थ. टि. यथापदम् । i) [†]रभम् इति अश्रु. । j) प्रास. । पृ ३६७ m द्र. ।

आपश्रौ २०, १६, १४; हिश्रौ.
 प्रत्या(ति-आ)√व्रज्, प्रत्याव्रजेत्
 द्राश्रौ १२, १, ७; १४, ४, ३;
 लाश्रौ ४, ९, ४; ५, ८, ३; ९, १,
 २४; प्रत्याव्रजेयुः द्राश्रौ ११,
 ४, १८; १३, ३, ११; लाश्रौ.
 प्रत्या-व्रजत्- -जन् जैश्रौ ५: १५;
 * द्राश्रौ २, २, १५; लाश्रौ १, ६, ११.
 प्रत्या-व्रजि(त>)ता- -तायाम्
 जैश्रु १, २१: १८.
 प्रत्या-व्रज्य द्राश्रौ २, १, १५××;
 लाश्रौ.
 प्रत्या(ति-आ)√श्रु, प्रत्याश्रावयति
 आपश्रौ २, १५, ४; ८, १५, ११;
 बौश्रौ ५, १४: ३××; भाश्रौ;
 प्रत्याश्रावयेत् आश्रौ १, ४,
 १३××; बौश्रौ ३, २१: २९.
 प्रत्या-श्रवण- -णात् काश्रौ ३, ३,
 १४.
 प्रत्या-श्राव- -वः शुप्रा ४, ८५†.
 प्रत्या-श्रावण- -णम् आश्रौ २, १९,
 १८; वैताश्रौ १, १०; ९, १२;
 -णात् आपश्रौ २, १६, २; ७, २७,
 ५; वाश्रौ १, १, ४७; हिश्रौ.
 प्रत्या-श्रावित- -तः वैश्रौ ७, ६: ४;
 -ते काश्रौ ३, ३, १५; आपश्रौ
 २, १६, २; १७, ४××; भाश्रौ.
 प्रत्याश्रावित-घर्भ- -र्मस्य हिश्रौ
 २४, ४, ८.
 प्रत्या-श्रुत- -तः वाश्रौ १, ३, ४, १८;
 ६, ७; -ते वाश्रौ १, १, ४७.
 प्रत्या(ति-आ)स्, प्रत्यास्व आपश्रौ
 १२, ५, २†.
 प्रत्या(ति-आ)सद्, प्रत्यासादयति
 वाश्रौ १, ३, २, १०; ६, ४; २४.
 प्रत्या-सन्न- -न्नः आपध २, १४, ३;

हिध २, ३, १३; -न्नम् अप ५०,
 ७, ५; -न्नस्य वैश्रौ २०, २३: १.
 प्रत्यासन्न-बन्धु- -न्धुः हिपि
 २: ३; २२: ३.
 प्रत्या(ति-आ)√सिच्, ञच्,
 प्रत्यासिञ्चति कौसू ९, ३; ५.
 प्रत्या-सिच्य अप ४५, २, १९.
 प्रत्या(ति-आ)√सू > प्रत्या-सारिन्-
 पावा ३, २, ७८^b.
 प्रत्या-सुत्- -तेषु आपश्रौ १८, ५,
 १; हिश्रौ १३, १, ५८.
 प्रत्या(ति-आ)√सेच्, प्रत्यासेवेते या
 ८, १५.
 प्रत्या(ति-आ)ह्, प्रत्याह आश्रौ ५,
 ५, २६××; शाश्रौ.
 प्रत्याहुः काश्रौ २०, ६, १९;
 आपश्रौ.
 प्रत्या(ति-आ)√हन्, †प्रत्याहन्ति
 अप ४६, ६, ३; अन्न ८, १०५.
 प्रत्या(ति-आ)हुति^c- -ति आपश्रौ
 १४, २९, ३; २४, ३, ६; काठश्रौ
 ७०; भाश्रौ ३, १०, १†^d; वैश्रौ.
 प्रत्या(ति-आ)√ह्, प्रत्याहरति माश्रौ
 २, ३, ३, १०; वाश्रौ १, २, ३, ३७;
 हिश्रौ; या १४, ४; प्रत्याहरन्ति
 शाश्रौ १५, १३, १५; अप ७०^e,
 ३, २××; प्रत्याहरेत् निसू ९,
 ११: ११; जैश्रु २, ८: ३;
 प्रत्याहरेयुः लाश्रौ ९, १, १७.
 प्रत्याहरिष्यत् निसू ९, ११: १०.
 प्रत्याहारयिष्यत् निसू ३, ११:
 २०.
 प्रत्या-जिहीर्षमाण- -णस्य वाअ
 १४: ३.
 प्रत्या-हरत्- -रन्तम् वैश्रौ ३, ७:
 १२.

प्रत्या-हार- -रः निसू ५, १: १०;
 ६, ३: ४; -रे पाप्रवा ५, १६.
 प्रत्याहार-ग्रहण- -ण पावा १,
 १, ६९.
 प्रत्याहारा(र-अ)नुबन्ध-
 -न्धानाम् पाप्रवा ५, १६.
 प्रत्या-हृत, ता- -तः शाश्रौ १४,
 ४१-४२, ४; -ता निसू ३, ११: ६.
 प्रत्या-हृत्य आश्रौ १, ७, ५; काश्रौ.
 प्रत्या(ति-आ)√ह्वे, प्रत्याह्वयते आपश्रौ
 १२, २७, १२; बौश्रौ ७, १७:
 ४××; वैश्रौ.
 प्रत्यु(ति-उ)क्ष्, प्रत्युक्षति आपश्रौ
 १२, ८, ८; भाश्रौ २, ८, १;
 वाश्रौ.
 प्रत्यु(ति-उ)क्ष्य आपश्रौ २, ८, ३;
 बौश्रौ.
 प्रत्यु(ति-उ)च्√चर् > प्रत्युच्-चार्ये
 ऋप्रा १५, १३.
 †प्रत्युत्कान्तानुवाक- -काः चाअ
 १७: १६.
 प्रत्युत्था(ति-उद्√स्था), प्रत्युत्तिष्ठति
 वाधूश्रौ ४, ८९: ५; १४; वैश्रौ;
 या १४, ३०; प्रत्युत्तिष्ठेत् माश्रौ
 ६, २, ६, २५; वाश्रौ ३, १,
 २, ४५; ४६; आपध.
 प्रत्युत्-थान- -नम् आशिष्ठ ३, ९,
 ३: १५; बौपि २, ७, १४; विध.
 प्रत्युत्थाना(न-आ)सन-वाक्-
 सूनुता(ता-अ)नसूया- -याभिः
 वाध ८, १२.
 प्रत्युत्-थाय अप ४१, २, २; वाध १३,
 ४१; आपध १, १४, ११†; १७;
 बौध १, २, ४६; वैध १, ४, १,
 प्रत्यु(ति-उद् >)त्√पत्, प्रत्युत्-
 तन्ति वाधूश्रौ ४, ९६: ३१.

a) पाभे. वैप २, ३खं प्रत्युपतिष्ठसि काश्र ४, ९, ३, १४ टि. द्र. । b) तु. पाका. । c) अस्त. ।
 d) °ती इति पाठः? यनि. शोषः । e) तु. पाम. । f) सप्र. हिध १, ४, ४३ अत्युत्थाय (अभ्यु^०) इति पाभे. †

प्रत्यु(ति-उद्)त्/पद्, प्रत्युत्पाद-
येत् मौसू १०, ६, ७९.
प्रत्यु(ति-उद्)त्/सुञ्ज्, प्रत्यु-
त्सजेत् लाश्रौ ९, १, २०; २, ११;
प्रत्युत्सजेयुः हिश्रौ १७, ६, २८.
प्रत्यु(ति-उ)द्-आ/व्रज्, प्रत्युदा-
व्रजन्ति कौसू ६८, ३९; १४०,
२०.
प्रत्यु(ति-उ)द्-आ/ह्, प्रत्युदाहरति
माश्रौ १, १०, ४.
प्रत्यु(ति-उ)द्/इ (गतौ), †प्रत्युदैत्
आश्रौ २, १९, ३२; शाश्रौ ३,
१७, १; काश्रौ २५, ६, ७; अत्रा
३, २, ५.
प्रत्यु(ति-उ)द्/ऊह् > प्रत्युद्-ऊह
आपश्रौ १२, ५, ७; वैश्रौ १५,
७ : ४.
प्रत्यु(ति-उ)द्/गम् > प्रत्युद्-गम्य
विध २८, १९.
प्रत्यु(ति-उ)द्/गृह्, प्रत्युद्गृहीयात्
लाश्रौ ७, ८, १.
प्रत्यु(ति-उ)द्/गै > प्रत्युद्-गीत-
न्तः लाश्रौ ७, ८, १८.
प्रत्यु(ति-उ)द्/घृ(ह्) > प्रत्युद्-
घार-रः वाध १५, १७; २१.
प्रत्यु(ति-उ)प/कृष् > प्रत्युप-कर्षम्
माश्रौ २, २, ३०.
प्रत्यु(ति-उ)प/क्रम्, प्रत्युपक्रामति
माश्रौ १, ३, ४, ३०; ३१; ८, ५, १.
प्रत्यु(ति-उ)प/घा, प्रत्युपदधाति
बौश्रौ १०, २४ : १०; निसू ७,
१० : १३.
प्रत्यु(ति-उ)प/नम् > प्रत्युप-नत-
न्तम् भाश्रौ ७, ८, १२; हिश्रौ.
प्रत्यु(ति-उ)प/नह् > प्रत्युप-नह-

-द्धे हिश्रौ ७, ३, ८०.
प्रत्युप-नह्य आपश्रौ २१, ५, ५;
हिश्रौ.
प्रत्यु(ति-उ)प/लम्ब्, †प्रत्युपल-
म्बस्व बौश्रौ ७, ३ : ९×४; वैश्रौ.
प्रत्यु(ति-उ)प/वद् > प्रत्युपो(प-उ)
दि(ति>)वा-न्ता निसू ३, ९ :
३८फं.
प्रत्यु(ति-उ)प/विश्, प्रत्युपवेशयते
आपध १, १९, १; हिध १, ५,
१०३.
प्रत्युप-विष्ट- -ष्टः आपध १, १९, १;
हिध १, ५, १०३.
प्रत्युप-वेशन- -नम् द्राश्रौ ४, ४, १०;
लाश्रौ २, ४, ५.
प्रत्यु(ति-उ)प/शी, प्रत्युपशेते
निसू ६, ४ : ३.
प्रत्यु(ति-उ)पसद्- -दम् काश्रौ २३,
२, १८.
प्रत्यु(ति-उ)प/स्था, प्रत्युपतिष्ठामै
काश्रौ ९, ३, ३फं^०; प्रत्युपतिष्ठेत
बौश्रौ २०, २३ : ३; ५×४.
प्रत्युप-स्थान- -ने बौश्रौ २१, १२ :
२६.
प्रत्युप-स्थिति- > णि-हेतुक^०-
-कम् काण्ड ४३ : २०; ४५ :
१०.
प्रत्यु(ति-उ)प/स्पृश् > प्रत्युप-स्प-
शैन्^०- -नामि गोष्ट १, २, ३१.
प्रत्युप-स्पृश्य गोष्ट १, २, २८; द्राष्ट
१, १, १२.
प्रत्यु(ति-उ)प/ह्, प्रत्युपह्वयते
आपश्रौ २४, १४, १५.
प्रत्युप-हव- -वम् वैश्रौ १५, ३३ :
१२फं.

प्रत्युप-ह्वय शाश्रौ ७, ६, ९.
प्रत्यु(ति-उ)पा(प-आ)/कृ > प्रत्युपा-
करण- -णे गोष्ट ३, ३, १६.
प्रत्यु(ति-उ)पा(प/आ)स्, †प्रत्युपा-
स्व माश्रौ २, ३, २, ९; प्रत्युपास्व
हिश्रौ ८, १, ५८.
प्रत्यु(ति-उ)पे (प/इ), प्रत्युपेयात्
कौसू ४६, १८.
प्रत्युपेयाय बौश्रौ १८, ४५ : ९.
प्रत्युपा(प-अ)य- -यः आपध २ : ६.
प्रत्युपोदिता- प्रत्यु(ति-उ)प/वद् द्र.
प्रत्यु(ति/ऊ)ञ्ज्, प्रत्युञ्जति बौश्रौ
९, ५ : ३४.
प्रत्यु(ति-उ)रस्- पा ५, ४, ८२.
प्रत्यु(ति/ऊ)ष्, प्रत्योषति वाश्रौ १,
६, ५, २९; प्रति...ओषति बौश्रौ
३, ९ : १५.
†प्रत्यु(ति-उ)ष्ट- -ष्टम् आश्रौ २,
३, ९; काश्रौ; -ष्टा माश्रौ १,
२, १, २२फं^१; -ष्टा^२ आश्रौ
२, ३, ९; आपश्रौ.
†प्रत्यो(ति-ओ)ष(त >)न्ती- -न्तीः
आपश्रौ ४, ६, ४; भाश्रौ ४, ९,
२; हिश्रौ.
प्रत्यु(ति-उ)ष्ट्- पा ६, २, १९३.
प्रत्युह्य, प्रत्यूढ- प्रति/वह् द्र.
प्रत्यूप- पाउमोह २, ३, १६७; -षः^३
अप ४३, ५, ७; शंष ११६ : ६३.
प्रत्यु(ति/ऊ)ह् (प्रापरो), प्रत्यूहते या
२, ९; प्रत्यूहति बौश्रौ १, १९ :
१७; १४, २२ : १६; माश्रौ;
प्रत्यूहत् वाधुश्रौ ४^५, २६^५ : ९;
१०; १२; प्रत्यूहन्^५ वाधुश्रौ ४,
१०^२ : १३; प्रत्यूह वाधुश्रौ
४, २६^५ : ८, १०; १२; प्रति...

a) अस्. समासान्तष् टच् प्र.। वा. क्रिवि.। b) पाभे. वैप २, ३खं. प्रत्युपतिष्ठासै काश ४, ९, ३, १४
दि. द्र.। c) विप.। वस.। d) विप. (निमित्त-).। e) पाभे. वैप १, १८२१ III द्र.। f) पाभे. वैप १,
२१७० छ द्र.। g) = वसु-विशेष-। व्यु. ?। h) = प्रत्यौ^० (तु. संस्कृतः दि.)।

औहत या २, ९^क; प्रत्युहेत्
 बौश्रौ २०, १४ : ९.
 प्रत्यु(ति-ऋ)हन- -नम् शाश्रौ ४,
 १५, ६; कौष्ट ५, ४, ९.
 प्रत्यु(ति-ऋ)हमान- -नम् निसू ९,
 २ : ४; -नाः निसू ९, ५ : ४.
 प्रत्यु(ति-ऋ)ह्य आपश्रौ ६, ६, १०;
 बौश्रौ; द्वाश्रौ ७, ३, ३^६.
 प्रत्यु(ति-ऋ) > प्रत्यु(ति-ऋ)त- -तः
 या ५, १०; १५; ७, २१; -तम्
 या २, २५; -तस्य या ३, ४;
 -ताः या ४, २७.
 ?प्रत्युच- -स्युचः या १३, ११^२.
 प्रत्यु(ति-ऋ)च^{७०}- -चम् आश्रौ २,
 १३, ९; ६, ४, २; काश्रौ.
 प्रत्यु(ति-ऋ)तु^७- -तु काश्रौ २०, ८,
 ३०; वैताश्रौ ३७, ८; आश्रिष्ट
 १, ७, ४ : ९.
 प्रत्यु(ति-ऋ)घ्, प्रत्याधि बृदे ७,
 ७५.
 प्रत्ये(ति-आ-इ), प्रत्यायन्ति शाश्रौ
 ४, ६, १२; १५, ४××; आपश्रौ;
 प्रत्ये(ति-आ-इ)तन^६ आश्रौ
 ८, ५, १२^क; प्रथेयात् आश्रौ
 २, ७, १०; ४, १०, १३; काश्रौ.
 प्रत्यायत्- -यन्तः आश्रौ ३, ६,
 २५.
 प्रत्या(त्या-अ)घन- -नम् आपश्रौ
 १९, ४, १०; हिश्रौ १३, ८, ४३;
 -नौ^९ आपश्रौ १, ५, १; हिश्रौ

१, २, ५४.
 प्रत्यायना(न-अ)न्त^६- -न्तान्
 हिश्रौ ९, ३, ५४; १०, ५, ९.
 प्रत्ये(त्या-इ)त्य आश्रौ १, ४, २; २,
 ५, ३××; शाश्रौ.
 प्रत्ये(ति-ए)क^७- -कम् शाश्रौ १५,
 ५, ६; १७, ४, ८; वैश्रौ.
 प्रत्येक-दान- -नेन विध ६७,
 ४६.
 प्रत्येतद्य- , तुम् प्रती(ति-इ) द्र.
 ?प्रत्येत्यादि जैश्रौका १७७.
 प्रत्ये(ति-ए)नस्^६- -नस्ति शाश्रौ ४,
 १६, ११; कौष्ट ५, ८, १०; पा
 ६, २, २७; ६०; -नाः शाश्रौ ४,
 १६, १०; कौष्ट ५, ८, ९.
 प्रत्ये(ति-ए)वयामस्त^६- -स्त आश्रौ
 ८, ४, ११.
 प्रत्येषन्ती- प्रत्यु(ति-उ)ष् द्र.
 ?प्र-त्वक्षस्^६- -क्षसः आश्रौ ५, २०,
 ६; शाश्रौ ८, ६, ४; ऋञ्च २, १,
 ८७.
 ?प्रत्वर^६- -रः आज्यो ९, ४; -रम्
 आज्यो ९, ७; -रे आज्यो १०,
 ७; ११, ४; -रेषु आज्यो १०, १.
 √प्रथ्, प्रथ्- √पृथ् द्र.
 प्रथ^६- -थः ऋञ्च २, १०, १८१.
 प्रथन- √पृथ् द्र.
 प्रथम, मा^६- पाठ ५, ६८; पाग ४,
 २, ६३^६; -म जैश्रौप ९^६; -मः
 आश्रौ १, ५, १३; १६; २,

२, ४^क; ११, ८^क××; शाश्रौ;
 आपश्रौ १२, २३, ८^क; आपमं
 १, ३, १^क; पाग; या २,
 २२^क; १०, १०^क; पा १, ४,
 १०८; -मःऽ-मः काश्रौ १२,
 २, ५; १५, २, १६; -मम्
 आश्रौ १, २, १; २१××; १०,
 ९, ५^क; शाश्रौ; माग १, २२,
 २^क; गोष्ट २, १, ६^क; या
 ३, ९^क; ७, १४××; -मम्ऽ-
 मम् शाश्रौ ९, २०, ६; काश्रौ,
 -मया आश्रौ १, ९, १; शाश्रौ
 ४, २, ३; १८, १, १०; आपश्रौ;
 या ९, ८; पावा २, २, १८^६;
 -मयोः शाश्रौ १०, ९, १५××;
 आपश्रौ; पा^६ ६, १, १०२; ७, १,
 २८; -मस्मिन्^६ काग ८, २;
 -मस्य आश्रौ २, १०, २२; ४, ६,
 ३^क××; शाश्रौ; आपश्रौ २०,
 २३, ४^क; बौश्रौ १५, ३८; १^क; १५;
 हिश्रौ १४, ५, १३^क; पा २, ४,
 ८५^क; ६, १, १; -मस्यऽ-मस्य निसू
 ५, ११; १२; ३५; -मस्या लज
 ५, ३; -मस्याः^६ आपश्रौ १६, २१,
 २; -मस्याम्^६ आश्रौ ४, ८, १८;
 बृदे ८, ९५; -मस्यै^६ वाधूश्रौ ४;
 ५८ : ४, -मा आश्रौ २, १०,
 २२^६; ९, ११, १९; शाश्रौ;
 काश्रौ ९, ११, १^क; आपश्रौ
 १६, १८, ७^क; १७, २,

a) पाभे. पृ १६८१। द्र.। b) अस.। c) समासान्तः ऋः प्र.। d) वैप १६.। e) = मन्त्र-
 विशेष-। f) विप.। बस.। g) प्रास. वा बस. वा (तु. पाका ६, २, २७)। h) = सूक्त-विशेष-। बस. पूष.
 = प्रत्यावृत्त-। i) पाठः ? = प्रथरि-नक्षत्र- (तु. शोधपत्रे शिवदत्तः)। j) = ऋषि-विशेष-। व्यु. ?। k) = ग्रन्थ-विशेष-
 (तु. पागम.)। l) पाठः ? 'मम् (क्रिवि.) इति शोधः संभाव्यते। m) पाभे. वैप २, ३ खं. जनयन् तैत्रा २, ४,
 ६, १२ टि. द्र.। n) पाभे. वैप १, २१७१। द्र.। o) पाभे. वैप १, २१७१। द्र.। p) पाभे. वैप १, २१७१। द्र.।
 q) पाभे. वैप २, ३ खं. प्र... युयोतन मंत्रा १, ६, १४ टि. द्र.। r) पाभे. वैप २, ३ खं परमेष्ठि तैत्रा १, ५,
 ५, १ टि. द्र.। s) = विभक्ति-। t) सर्वनामसंज्ञा उस्. (पा १, १, ३३)। u) पाभे. वैप १, २१७३। द्र.।
 v) पाभे. वैप १, ७७२। द्र.। w) पारिभाषिक-संज्ञा-। x) आन. पाठः। y) वैप १, २१७३। द्र.।

१२१^३; वैश्रौ १९, ४: ६^३; हिश्रौ
१२, १, २६^३; पागु; ३, ३, ५^३;
आमिगु ३, २, २: २^३; बौगु २,
११, ३३^३; ण्भागु २, १७:
११^३; या ६, १; ८, १२^३; पा
२, ३, ४६^३; ८, १, ५९; -मा:
शाश्रौ ४, १०, २^३; काश्रौ; या २,
२२^३; ५, २५^३; पा १, १,
३३; -मात् आश्रौ २, १६,
१२; ६, ६, ३××; शाश्रौ;
पा ४, १, ८२; -मात् आश्रौ ९,
१०, ४; शाश्रौ; -मानाम् शाश्रौ
१३, १०, ८; वाश्रौ ३, ४, ५, ५;
-मानि आश्रौ ६, ४, २; वाश्रौ;
या १२, ४१^३; -माभि: लाश्रौ
६, २, १; अश्र ३, २१××;
-माभ्याम् आश्रौ ५, ११, ६;
१४, ३, १४; बौश्रौ; -माम्
आश्रौ २, ४, १८××; शाश्रौ;
आज्यो ६, १^०; -माय आश्रौ ४,
६, ३; १०, १^३; शाश्रौ; -माया:
आश्रौ ४, १, २६; शाश्रौ; अश्र^३
२, २, ३; पा^३ ७, २, ८८; ८,
१, २६; पावा १, २, ४३^३;
-मायाम् आश्रौ २, १, १९; १८,
३; शाश्रौ; -मायै शाश्रौ १०,
६, ३; १८, २०, १; २; -मासु
लाश्रौ ६, ८, १२; -मे आश्रौ
२, १०, २२; ६, ४, २××;
शाश्रौ; या ७, ८; १४, १६^३; पा
१, १, २३; ४, १, २०; -मेन
आश्रौ ६, १३, १०; शाश्रौ;
-मेभ्य: लाश्रौ ७, ७, ३; अश्र;
-मेषु आश्रौ ५, १०, १६; शाश्रौ
७, २६, १२; ९, ७, १; -मै: शाश्रौ
१३, १०, ७; द्राश्रौ; -मौ आश्रौ

११, ३, १; काश्रौ; या ८, १२.
प्राथमिक- पा ४, २, ६३; ३,
७२.
प्राथम्य- न्यात् मीसू ९, १, ३३.
प्रथम-कल्प- ल्येन उमिसू १: २९.
प्रथम-कृत- तम् आपश्रौ १५, ३,
१७; ४, ६; भाश्रौ; -तान् माश्रौ
२, २, २, १३; ५, ५, १७; हिश्रौ
९, ६, २५.
प्रथमकृता(त-अ)सिहोत्र-
विधान- नेन वैश्रौ २१, ९: ८.
प्रथम-कृति- तौ निसू २, १३: ८.
१प्रथम-गर्भ- भे कौगु १, १४, १;
शांणु १, २२, १; पागु १, १५, ३;
गोगु २, ७, २; द्रागु २, २, १७.
प्रथमगभिणी- ण्या: भागु १,
२१: १.
२प्रथम-ग(भे >)भा^३- भा^३:
आपश्रौ १२, ८, ११; -भाया:
आमिगु २, १, २: १; बौगु १,
१०, १; हिगु २, १, २.
प्रथम-प्रथित- तान् आपश्रौ ११,
६, ३; १३, २४, १४.
प्रथम-ग्रहण- णे लुप्रा १, ६४.
प्रथम-चतुर्थ- र्थयो: शाश्रौ १२,
१६, २; -र्थाभ्याम् काश्रौ ३, ३,
७; -र्थौ अर्प २: १४.
प्रथम-चतुर्था(र्थ-अ)ष्टम-द्वादश-
-शेषु वैताश्रौ ३२, १५.
प्रथम-चिति- न्ते: काश्रौ १७, ३,
१७; -तौ वैश्रौ १८, १७: ३६.
प्रथमचिति-वत् बौश्रौ १२, १०:
५५.
प्रथम-चोदन- न्नात् काश्रौ ९, ११,
११.
प्रथम-ज, जा^३- -ज: शाश्रौ ३, १२,

१२; १३, २४; काश्रौ ४, ६, ९;
भाश्रौ; -जम् आपश्रौ ६, ३०,
७××; बौश्रौ; -जयो: कौसू
५१, ११; -जस्य कौसू २३, १४;
-जा अर्प १, ३७, ५^३; -जान्
आपश्रौ २०, १४, १०; हिश्रौ.
प्रथम-जन्मन्- न्म वैगु ६, ७: १.
१प्रथम-जा- -जा: आपश्रौ ४, ७, २;
२२, १७, १०; बौश्रौ; अशां ७,
५^३; या १४, १××; -१^०जा:
आपश्रौ १६, १, ३; वैश्रौ १८,
१: ९; हिश्रौ ११, १, ६; -जाम्
भाशि ८०.
प्रथम-जात- तस्य गोगु ३, ६, ३;
द्रागु ३, १, ४४.
प्रथम-तन्त्र- न्त्रम् निसू ९, ४: ९.
प्रथम-तस(ः) वैश्रौ ५, ९: ३; लाश्रौ
९, ८, १८; निसू.
प्रथम-तृतीय- ययो: लाश्रौ ७, २,
३; -यौ शाश्रौ ७, २७, १९;
काश्रौसं ५: ५.
प्रथमतृतीय-वर्जम् काश्रौ २४,
२, ३७.
प्रथमतृतीया(य-आ)दि-
-दीनाम् पावा ६, ४, १२०.
प्रथमतृतीय-पञ्चम-सप्तम-नवम-
-मेषु गौध १४, ३८.
प्रथम-स्व- स्वे पावा ६, १, १.
प्रथम-दशम- मे लूसू २, १६: ४.
प्रथम-दशम-पञ्चम- मा: अपं ४:
१२.
प्रथम-देवता- ताम् आपश्रौ १, ३, ७.
प्रथम-द्वितीय- ययो: लाश्रौ ८, ३,
२; निसू ९, ४: ७; -या: लूसू
१, ७; आशि ४, २; -याभ्याम्
आश्रौ ८, २, १०^३; -ये आश्रौ ८,

a) पाभे. वैप १, १४५१ h द्र. । b) = विभक्ति-विशेष- । c) = प्रतिपद्- (तिथि-) । d) पाभे. वैप १, २१७४ b द्र. । e) विप. । बस. । f) वैप १ द्र. । g) सप्र. ञा<>ञा: इति पाभे. ।

२,५; लाश्रौ ७,५,९; -घौ शाश्रौ
 ३, १३, २६; द्राश्रौ ५, १, २, ११;
 लाश्रौ २, ५, १७; आशि ४, २.
 प्रथम-द्वितीय-तृतीय-चतुर्थी (र्थ-उ)
 त्तम- -मा: तैप्रा १, ११.
 प्रथम-धार^{a, b}- -रस्य कौसू २१, ९.
 प्रथम-नवम- -माभ्याम् लाश्रौ ६,
 १२, २.
 प्रथम-निवृत्ति- -त्ति: पावा ६, १, २.
 प्रथम-निहत- -तात् आपश्रौ ११,
 ४, १३.
 प्रथम-पञ्चक- -केन विध ७३, ५.
 प्रथम-पञ्चम- -मौ ऋप्रा १, ३९.
 प्रथम-पर^a- -र: तैप्रा १४, १७; -रे
 तैप्रा २१, १६.
 प्रथम-परापातित- -तम् काठश्रौ
 ५२.
 प्रथम-परापातित- -तम् वैश्रौ १०,
 ७: ४^c; ८: ६; हिश्रौ ४, २, ४३.
 प्रथम-परापातिन्- -तिनम् आपश्रौ
 ७, २, ५^c; ९, १०.
 प्रथम-परिधि- -घौ काश्रौ २६, ६,
 १२.
 प्रथम-पर्याय- -यस्य वैश्रौ १६, १ :
 १२.
 प्रथम-पुरुष- -ष: पावा २, ३, १;
 -वै: या ७, १.
 प्रथम-पूरण- -णयो: पा ६, २, १६२.
 प्रथम-पूर्व^a- -र्व: तैप्रा ५, ३८.
 प्रथम-प्रतिषेध- -ध: पावा १, ४,
 १०८.
 प्रथम-प्रतीक-त्व- -त्वेन अत्र १,
 ३^d.
 प्रथम-प्रतीक(क<>)किका^a- -का

अश्र १, ३.
 प्रथम-प्रयोग- -नो शांगृ ४, १३, ४^e;
 -नोगु गोगृ ४, ५, ११.
 प्रथम-प्रवद^f- -दस्य कौसू १०, १७.
 प्रथम-प्लुत- -तम् आपश्रौ १२, ७,
 ११.
 प्रथम-भाजू^g- -भाजम् आश्रौ ३,
 ८, १; शाश्रौ ९, २७, ७; १३, ४, ३.
 प्रथम-भाव-ग्रहण- -णम् पावा १,
 ३, १.
 प्रथम-भाविन्- -विन: ऋप्रा ३, १६.
 प्रथम-मण्डले(ल-इ)ष्टका- -कायाम्
 जैश्रौ ८.
 प्रथम-मध्यमो(म-उ)त्तम, मा^h-
 -मा: पा १, ४, १०१; -मानाम्
 पावा १, २, ६४; -मासु वैश्रौ
 १९, ५: १७.
 प्रथममध्यमोत्तम-पञ्चक- -कै:
 विध ७३, ८.
 प्रथममध्यमोत्तम-संज्ञा-
 -ज्ञायाम् पावा १, ४, १०१.
 प्रथम-मन्थन- -ने वैश्रौ १, १: २५.
 प्रथम-मास- -सम् शाश्रौ १८, २४,
 ४.
 प्रथम-यज्ञ- -ज्ञ: शाश्रौ ५, ९, १;
 आपश्रौ १०, २, ३; -ज्ञे काश्रौ
 २६, ७, ५३; आपश्रौ ११, २, ६;
 माश्रौ; -ज्ञेन आश्रौ ४, ८, १६;
 -ज्ञौ आपश्रौ २२, ६, ३.
 प्रथम-युवती- -तीम् वाध २, ३५.
 प्रथम-योग- -नो कौगृ ३, १३, १०^e.
 प्रथम-लिङ्ग-ग्रहण- -णम् पावा १,
 ४, ३.
 प्रथम-रूत- -नम् वाश्रौ १, २, १,

१७.
 प्रथम-वचन- -नम् पावा ४, १, ८२.
 प्रथम-वर्जⁱ- -र्जानाम् काश्रौसं ५:
 ४.
 प्रथम-वास्य^k- -स्यम् आपमं २,
 ६, १५^f; आमिण १, १, ४: १८^f;
 २०; वोगृ.
 प्रथम-विज्ञान- -ने पावा ६, १, २.
 प्रथम-व्रत- -तम् वाधश्रौ ४, ३८ :
 ७; ९.
 प्रथम-शकल- -लम् काश्रौ ६, १,
 १३; २, १३; १९.
 प्रथम-शल्क- -लकम् वाश्रौ १, ६,
 १, ११; ३, ४.
 प्रथम-श्राद्ध- -द्धस्य कागृ ६६, १.
 प्रथम-षष्ठ-सप्तमो(म-उ)त्तम- -मा:
 आश्रौ १२, ५, १०; -मानि
 आश्रौ ११, ५, ७.
 प्रथम-संवि(त>)त्ता^l- -त्ता काश्रौ
 १६, ३, २०.
 प्रथम-संस्था- -स्था वाश्रौ ३, २, १,
 २८.
 प्रथम-सप्तम- -मयो: आपश्रौ २१,
 २५, ४.
 प्रथम-सप्तमो(म-उ)त्तम- -मा:
 काश्रौ २४, ३, २१.
 प्रथम-समावृत्त- -त्ते या ७, २३.
 प्रथम-समिद्ध- -द्धे काश्रौ ४, १५,
 १५.
 प्रथम-संपात->प्रथमसांपातिक^m-
 -केषु आश्रौ ९, २, ५.
 प्रथम-सामन्- -म जैश्रौका ५०.
 प्रथम-साहसⁿ- -स: शंघ २६३;
 -सम् विध ५, ३२; ६२x.

a) विप. । बस. । b) उप. = धारा- । c) परस्परं पामे. । d) षमः प्रती० इति पाठः? यनि.
 शोधः (तु. उत्तरं प्राति.) । e) सपा. षमप्रयोगे<>°मयोगे इति पामे. । f) विप. । उस. अजन्तम् ।
 g) वैप १ द्र. । h) पारिभाषिक-संज्ञा- [पा.] । i) उप. < सं/विद् [लामे] । j) विप. । तदहर्तीये
 ठकि प्र. उप. वृद्धिः उसं. (पा ७, ३, १७) । k) = दण्ड-विशेष- । बस. ।

प्रथम-सोम- -मे बौश्रौ २१, ७ :
 २५; -मेन बौश्रौ २३, १६: २५.
 प्रथम-स्कन्न- -न्नम् वैश्रौ १५, ९: ३.
 प्रथम-स्थान- -नेन काश्रौ ३, १, ३;
 ९, ६, १६.
 प्रथम-स्पर्श^१- -र्शः देवि १, १०.
 प्रथम-स्वर^२- -रैः द्राश्रौ ६, १, १६;
 लाश्रौ २, ९, १२.
 प्रथमा(म-अ)क्षर-लोप- -पम् लाश्रौ
 ६, १०, १४.
 प्रथमा(म-अ)गामिन्- -मिनः या
 ११, १३; १२, ३५; -मिनौ या
 १२, १; -मी या ८, ४; २, १×४.
 प्रथमागामिनी- -नी या ११,
 २२.
 प्रथमा(म-अ)ग्निहोत्र- -त्रम् माश्रौ
 १, ६, २, ३; -त्राय माश्रौ १, ६,
 १, ५३.
 प्रथमा-चतुर्थी- -र्थ्यौ अश्र ४, ११.
 प्रथमा-तृतीया- -थे शाश्रौ २, ५,
 १८; १०, १०, ४; ११, ५;
 अश्र ३, २९.
 प्रथमा(म-अ)दि-त्व- -त्वम् अप
 ४७, १, १४.
 प्रथमा(म-अ)देश^३- -शे या ४, २५.
 प्रथमा(म-अ)द्विवचन- -नम् पावा
 ६, १, २.
 प्रथमा-निर्दिष्ट- -ष्टम् पा, पावा १,
 २, ४३.
 प्रथमा-निर्देश- -शाः पावा १, २, ४३.
 प्रथमा(मा-अ)नुपपत्ति- -त्तिः
 पावा २, ३, ९.
 प्रथमा(म, मा-अ)न्त^४- -न्तम् उस्
 ७, १४; सुप्रा ७, १०; अप्रा २,
 ४, १४; -न्तानि शौच १, ८;
 पावा २, १, १७.

प्रथमा(म, मा-अ)न्त्य, न्त्या-
 -न्त्याभ्याम् अश्र ६, ९७; -न्त्ये
 काश्रौ १७, ४, ९; १९, ७, २;
 -न्त्यौ काश्रौ १३, २, १.
 प्रथमान्त्य-संयोग- -गात् मौस्
 १०, ४, ५५.
 प्रथमा-प्रतिषेध- -धे पावा ३, २,
 १२४.
 प्रथमा-बहुवचन- -ने या १, ८; ५,
 २३.
 प्रथमा-भाव- -वः पावा २, ३, १^३,
 ४६.
 प्रथमा(म-अ)र्थ- -र्थम् पावा १, १,
 २१.
 प्रथमा-लक्षण- -णे पावा २, ३, ४६.
 प्रथमा-वर्जम् कौस् ३५, १३; अश्र
 २, २४.
 प्रथमा-विधान- -नस्य पावा २, ३,
 १.
 प्रथमा-विधि- -धिः पावा २, ३;
 ४६^२; ५०.
 प्रथमा(म-अ)स्तमित- -ते शाश्रौ २,
 ७, १; काश्रौ ४, १५, ११; हिश्रौ
 प्रथमा(म-अ)हार- -रै काश्रौ १६,
 १, ३; -रेण आपशु ११, १६;
 हिशु ४, २०.
 प्रथमे(म-इ)ष्टका- -काः माश्रौ ६,
 १, ६, १३.
 प्रथमै(मा-ए)कवचन- -नम् पावा
 ८, १, १२.
 प्रथमो(म-उ)च्चारण-लक्षण- -णम्
 शैशि ९९.
 प्रथमो(म, मा-उ)त्तम, मा- -मयोः
 शाश्रौ १, १, १८; १२, १२, १०;
 २६, २; काश्रौ; -माः सुप्रा १,
 ८५; शौच १, ६; -मान् आश्रौ

६, ६, ५; ९, ५, ५; -माभ्याम्
 वैश्रौ १, १३ : ६; हिश्रौ ३, ४,
 ३८; वैताश्रौ; या ११, १६; -मे
 आश्रौ १, २, १९; आपश्रौ; -मौ
 आश्रौ ७, ११, १२; शाश्रौ;
 -मौऽ-मौ काश्रौ २४, ५, ९^३.
 प्रथमोत्तम-वर्ग->र्ग्यि- -थे
 ऋप्रा ४, ३३; शैशि २१५.
 प्रथमोत्तमा(म-अ)नुवाक- -कौ
 आश्रिष्ट १, २, २ : ४१.
 प्रथमो(म-उ)त्तर- -रथोः भाश्रौ
 ११, २१, ४.
 प्रथमो(म-उ)त्पतित- -तम् माश्रौ
 १, ८, १, ८; २१×४.
 प्रथमो(म-उ)द्विष्ट- -ष्टे गोशु २, ८,
 ६.
 प्रथमो(म-उ)दृष्ट- -तम् काशु
 ६४, १; जैशु २, १ : ४.
 प्रथमो(म-उ)द्वव^५- -वम् बौध ४,
 ८, ५.
 प्रथमो(म-उ)द्वपन- -नस्य काशु
 ७१, ११.
 प्रथमो(म-उ)पदि(ष्ट>)ष्टा- -ष्टे
 शाश्रौ १, १७, ७.
 प्रथमो(म-उ)पवेशन- -ने आश्रौ १,
 ३, ३२.
 प्रथमो(म-उ)पहित- -न्ते माश्रौ १, २,
 ६, २३.
 प्रथमो(म-अ)पश->श-दा^६-
 -दाः आपश्रौ १७, ५, १६; वैश्रौ
 १८, २१ : १८.
 प्रथमस्या अश्र ५, ३.
 प्रथमान- ✓पृथ् द.
 प्रथमोमौ^७ अश्र १२, ५(१).
 प्रथयत्-^८थयित्वा, ^९थस्-^{१०}थस्तु-^{११}
 थित- प्रस्. ✓पृथ् द.

a) विप. । बस. । b) =अकार- । c) उप. = उच्चारण- (तु. स्क.) । d) वैप १ द. । e) पाठः १ ।
 प्रथमा, उमौ इति W. शोधः ? ।

प्र-दक्षिण,णा^०- पाग २, १, १७;
 -गः अग २४, ३, ५; ७०^३,
 २, १^b; -णस्^० आश्रौ २, ५,
 ३; ५, १२, ७××; शाश्रौ ४,
 १६, १०; ७, ५, ४; काश्रौ १, ७,
 २५; ३, ८, १७××; आपश्रौ १,
 १२, ३; २, ५, ६××; ७, ११,
 ५^d; काठश्रौ १४३; काश्रौसं
 २८ : १; बौश्रौ १, ४ : २४;
 १४ : २××; भाश्रौ १, १, १२^३;
 ४, ७××; माश्रौ १, १, १, ४;
 ४४××; वाश्रौ १, १, १, ७७; २,
 २, २××; वैश्रौ १, १ : १०; १३;
 १××; हिश्रौ १, १, ५३; २,
 ४४××; जैश्रौ ६ : १४; जैश्रौका
 ७७; ७८; द्राश्रौ २, १, २२; ३, २,
 २××; लाश्रौ १, ५, १८; १०,
 १××; वैताश्रौ २, २०; १०, १८;
 छुसू १, ११ : १०; निस् १,
 ११ : १२; आगृ १, ७, ६; १७,
 ७××; कौगृ १, ३, २; ५, ४××;
 शागृ १, ७, ११; ८, १७××; पागृ
 १, ५, १; २, १, १७××; वैगृ ६५:
 ६; आमिगृ १, १, १ : ४१; २ :
 ३५××; आपगृ १, ४; ५, १××;
 कागृ २४, ११; १२××; कागृउ
 ४१ : २०; बौगृ १, १, २३; २,
 १७××; बौपि १, ४ : ४; भागृ
 १, ८ : १६; १० : ६××; मागृ
 १, २, २; ९, १३××; वागृ ५, २२;
 १४, १४××; वैगृ १, ३ : ९;
 १६××; हिगृ १, २, १०; ४, ४××;
 हिपि १८ : १२; गोगृ १, ३, ४;
 १३××; गौपि १, ३, २२; २, ४,

३; जैगृ १, ३ : ७; ४ : २९××;
 द्रागृ १, २, ११; १९××; कप्र २,
 ५, १८; कौसू २, ११; ७, १४××;
 अगृ १, ३१, ८; ४, ४, ५××; वाघ
 १२, ४२; शंघ १३३; बौघ १,
 ४, ३; २, ५, ६××; विघ ७३,
 २३; २६; वैघ २, २, ३; ४××;
 गौघ २, ६६; आपगृ २, ३; १४,
 ५; बौगृ १८ : ११; हिगृ ३,
 २२; ४, ४६; ऋग्रा १५, २१;
 -णस्व वैश्रौ २०, २ : ९; -णा
 माश्रौ १, १, ३, ४२; अगृ ४१,
 ३, १२; ७०^३, २, ३; -णाः
 कौगृ १, ८, १९; शागृ १,
 १३, ९; -णानि आमिगृ २, ६,
 ८ : ४१; -णाम् अगृ १, ३५, ३;
 २०, ६, ८; चाअ ३० : ३; -णे
 अगृ ५३, ६, २; -णौ कौगृ १,
 १, १०; शागृ १, ५, ९.
 प्रादक्षिण्य^०- -ण्यम् अगृ १,
 ३२, १; ७०^३, ३, ४; -ण्याः अगृ
 १, ३२, ३
 प्रदक्षिण-गति^१- -तिः अगृ ७०^३,
 ४, ५.
 प्रदक्षिण-ग्रन्थि- -न्थिम् कौगृ १,
 ४, ३.
 प्रदक्षिण-नमस्कार- -रौ वैगृ ४,
 ९ : ८.
 प्रदक्षिण-मुख^१- -खम् अगृ १, ३१, १,
 प्रदक्षिणा-गमन- -नात् या १, ७.
 प्रदक्षिणा(ण-अ)न्त^१- -न्तम् अगृ
 ४०, १, १०.
 प्रदक्षिणा(ण-अ)भिसुख- -खाः शंघ
 ३४४.

१प्रदक्षिणा(ण-अ)वर्त- -ते अशां
 १५, ६.
 प्रदक्षिणावर्त-शुभ^०- -भाः अगृ
 ५२, १, १४.
 २प्रदक्षिणा(ण-आ)व (ते >) तर्ति^१-
 -र्ताख भाश्रौ १०, ६, १३.
 प्रदक्षिणा(ण-आ)वृत्- -वृत्ता माश्रौ
 ६, १, ५, ४०^b.
 प्रदक्षिणी^१√कृ, प्रदक्षिणीकुर्वते वैश्रौ
 १८, १ : २०; ५२; प्रद-
 क्षिणी...कुर्वते बौश्रौ १०, २ :
 ११; ४ : २१; प्रदक्षिणीकुर्वत
 हिघ २, ४, ४८^१; प्रदक्षिणीकुर्यात्
 आपघ २, १२, ११^१; विघ ६३,
 २६.
 प्रदक्षिणी-कृत्य आमिगृ ३, ११,
 २ : १८; आपगृ २१, ९; बौगृ.
 प्रदक्षिणो(ण-उ)इक^१- -कम् वैश्रौ
 १२, ४ : ३.
 प्रदक्षिणित्^१ ऋअ २, २, ४३; या
 ८, १९.
 प्रदति- -त्ति, -तीन् अगृ १, १०, ३.
 प्रदत्त- प्र√दा द्र.
 प्रदर- प्र√दृ द्र.
 प्रदर्शक- प्रस्. प्र√दृ द्र.
 प्रद्वय^०- -व्यात् काश्रौ २५, ४, ३२३.
 प्र√दृश् > प्रदशन- पाग ८, १, २७.
 प्र√दह, प्रदहन्ति बौश्रौ १४, १९ : ७;
 सु ८, ३; अगृ ५८, १, २; प्रदहत्
 वैताश्रौ १४, ११; प्रदह जैगृ १,
 ४ : ४^१; प्रदहेत् निस् ४, २२९.
 प्रघक्ष्यति निस् ४, ३ : १६^१;
 द्रागृ २, ५, ३०^१; प्र...घक्ष्यति
 बौश्रौ २, १७ : ९^१.

- a) साप., विप. । उत्तरपक्षे तद्वत्ते वृत्तेः । वैप १ द्र. ।
 c) प्रायेण क्रिवि. । d) पृ १२०७ h द्र. । e) सार्थे ष्यञ् प्र. । f) वस. । g) विर. (मेघ-)
 h) पाप्मे. पृ १२२६ f द्र. । i) परस्परं पाप्मे. । j) वैप १ द्र. । k) = दावानल- (वैप २, ३खं. द्र.) ।
 l) प्रघक्ष्यति इति संस्कृतेः टि. । m) ण्ति इति आन. ? ।

प्रदहन्ते अप ५८, १, १; ५.
 प्र-दहत् - हन् वैताश्रौ ६, ७; १४,
 १; अप २४, ४, ४.
 प्र-दहन- नम् काश्रौ २६, १, २६.
 प्रदहनो(न-उ)हरण- णे काश्रौ
 १६, ४, १७.
 प्र-दहस^१ (:) बौश्रौ १४, १९ : ६.
 प्र-दक्षत् - चन्तम् निसू ४, ३ : १९.
 प्र-दा^१, प्रदाति वैश्रौ १, १५ : ३;
 हिश्रौ १०, ३, २९; काश्रु १६, ३;
 २८, ५; प्र-ददामि आश्रु १,
 १५, १०; प्र-दत्ता^१ कौसू ११५,
 २१; प्रदद्यात् जैश्रु २, १ : ७;
 अप्राय ३, ७; अप.
 प्रददौ बौश्रौ १८, ४७ : १७;
 २१; प्रददुः कौसू १३५, ११;
 प्रदास्यसि वाधूश्रौ ४, ४९ : ३;
 ४; प्रदास्यामि वाधूश्रौ ४, २६ :
 ६; गौपि २, ४, १८; वाध १७,
 १७; प्रादात् वृदे ३, १८××; या
 ३, ६; प्र-दादाः आपश्रौ १, १०,
 १४^१; बौश्रौ २, ११ : १२^१;
 भाश्रौ १, १०, १^१; वाधूश्रौ ४,
 २६ : १३^१; हिश्रौ २, ७, ५६^१.
 प्रदीयेत हिश्रौ २, ८, २७; आपघ
 २, २७, ३; हिघ २, ५, २२; या
 ३, ६; प्रदीयन्ते वैश्रौ ६, ७ : ७;
 १० : ४; हिश्रौ २, २, ३३; ४५;
 या २, १८; प्रदीयेत बौश्रौ १३,
 १४ : ४; २६, ५ : २२; प्र...
 दीयेत आपश्रौ ५, ३, १२; भाश्रौ
 ५, १, १५; हिश्रौ ३, २, १४;

प्रदीयेत् मीसू ४, १, ७.
 प्र-दद्विरे आश्रौ ८, ११, ११;
 प्र-प्र (दद्विरे) शाश्रौ १०, ९, ४;
 ऋश्रु २, ७, ९०; ३, २७; वृदे.
 प्रदापयति लाश्रौ ९, ८, २; आमिगृ
 २, ३, २ : ८; प्रदापय बौश्रौ ९,
 ९ : ८^१; प्रदापयेत् आमिगृ २,
 ४, ५ : २६; कप्र १, २, ७; अप.
 प्रदेदीयेत वाधूश्रौ ४, ३८ : ८;
 ४९ : ७.
 प्र-त्त, ता- -त्तः आश्रु ४, ७, ११^१;
 आमिगृ ३, १ : २८^१; वैश्रौ^१
 २, ९, ६; ११, ३; -त्तम् आश्रौ ५,
 ७, २; काश्रौ; या २, १; -त्तया
 हिश्रौ १०, २, १०^१; -त्तयोः
 द्राश्रौ १२, १, २१; लाश्रौ ४,
 ९, १५; -त्तस्य बौश्रौ २५,
 २४ : १६^१; -त्ता हिश्रौ २,
 ३, १५; -त्तानाम् पाश्रु ३,
 १०, ४२; ४७; वाध; -त्ताम्
 पाश्रु १, ४, १५; -त्तायाम् बौश्रौ
 ९, ९ : ११; जैश्रौ २३ : १०;
 जैश्रौका ५७; -त्तासु आश्रु ४,
 ४, २३; बौध १, ५, ९४; -त्ते
 काश्रौ ८, ६, २८; तैप्रा ४, ११^१;
 -त्तेऽन्ते काश्रौ १६, ६, ८^१;
 -त्तेन काश्रौ १५, ७, १३.
 प्र-त्त-द्वैवत् - -त्तम् आपश्रौ ९,
 १५, १३; भाश्रौ ९, १७, १४;
 हिश्रौ १५, ४, ३३.
 प्र-त्त-दोष- -षे शाश्रौ ३, २०,
 १३.

प्र-वत्त- -त्तम् अप १२, १, १०.
 प्र-दातव्य, व्या- -व्यम् बौध २,
 ३, ६१; -व्याः काश्रु ७, ३६.
 प्र-दात् - -त्तः जैश्रु १, १२ : २१^१;
 -त्ता आश्रौ ३, १३, १३;
 आपश्रौ; -प्र-तारम् शाश्रौ ७,
 १८, ९; बौश्रौ; -त्रे आश्रौ ८,
 १४, ४^१; शाश्रौ ३, २, २^१;
 काश्रौ.
 प्र-दातोसः (:) बौश्रौ १४, ४ : ३६.
 प्र-दान^१ - -ना^१ आपश्रौ २२, २६,
 ४; हिश्रौ २३, ४, २०; -नम्
 शाश्रौ १, १६, ७××; काश्रौ;
 -नस्य मीसू ११, २, २३^१; -नात्
 काश्रौ ६, ९, २; भाश्रौ; -नानाम्
 आश्रौ ३, ७, १; मीसू १०, ३,
 ५०; -नानि आश्रौ ३, ४, ४^१;
 बौश्रौ २६, ११ : १६^१; -ने
 बौश्रौ २०, १६ : ५२××; -नेन
 विध ९२, १५; या २, ११; ६, ९.
 प्रदान-काल- -ले जैश्रौ २६ : ४.
 प्रदान-तस्सः (:) बौश्रौ २०, ६ : २;
 २३, २ : २××.
 प्रदान-दर्शन- -नम् मीसू ९, ४,
 ३०^१!
 प्रदान-न्याय-त्व^३ - -त्वात् मीसू
 १०, ७, ६.
 प्रदान-प्रतिग्रह- -हौ बौश्रौ १५,
 २७ : ५, ९.
 प्रदान-मात्र- -त्रम् बौश्रु २, ११,
 ५५, ५६; बौपि ३, ६, ९^२.
 प्रदान-वत् मीसू १०, २, २; १६.

a) गस. उप. कसुन् प्र. । b) पा ३, २, ६ प्रामृष्टः द्र. । c) सपा. कौश्रु १, १६, ७
 शाश्रु १, २४, ४ प्र-यच्छामि इति पामे. । d) पाठः? प्रदत्ताम् (लोडि प्रपुर) इति शोधः (तु. पै १, ९१, ४) ।
 e) पामे. वैप १, २१७६ a द्र. । f) प्रलयेहि इति पाठः? प्रतः स्वधयेहि इति शोधः (तु. आश्रु, अंशतः
 आमिगृ.) । g) विप. । शेषं पृ २७७ g टि. द्र., बस. वेति भाष्यम् । h) उप. भावादर्थे प्र. । i) =मन्त्र- ।
 j) प्रघा^१ इति पाठः? यनि. शोधः (तु. जीसं. प्रश्रु.) । k) नाप. =याग- । l) =प्रदेय-द्रव्य- ।
 m) बस. । नत्वात् इति जीसं. प्रश्रु. ।

प्रदान-विक्रय-त्याग- गोषु वाघ
१५, २.
प्रदान-विधि- -धिम् काण्ड १५, १
प्रदान-विप्रकर्ष- -र्षः मीसू ११,
२, ६१.
प्रदाना(न-अ)न्त- -न्तानि कौसू
१४, २४; १५, ३; ७; १६, २३.
प्रदाना(न-अ)भिमर्शन- -नानि
कौसू ३६, २५.
प्रदाना(न-अ)र्थ-विघात- -नम्
मीसू ९, ४, ४२.
प्र-दाय आश्रौ १, ११, १×४; शांश्रौ.
प्र-दास्यत्- -स्यन् बौश्रौ १०, १६ :
१२×४; वैश्रौ १८, ९ : १; ४.
प्र-दीयमान, ना- -नम् आपश्रौ १०,
२३, ५; भाश्रौ १०, १५, १४;
हिश्रौ ६, ४, ४; ७, २, ३०; -नात्
आपश्रौ १८, १४, १२; -ने वैश्रौ
१, ८ : ३; हिश्रौ ६, ५, १०;
-नेषु हिश्रौ ३, ५, ८.
प्र-दे(य>)या- -या अप ४, २, ११.
प्रा(<प्र)-दाय वृदे ३, २४.
प्र-दातव्य- प्रम्. प्र√दा द्र.
प्र-दाव- -वात्^d माश्रौ ६, १, ३, २७१.
प्र-दाव्य- -व्यः बौश्रौ १४, २६ :
१९१; -व्यम् बौश्रौ १४, १३ :
१६; -ङ्वात्^d आपश्रौ १६, ९,
८; वैश्रौ १८, ७ : १०; हिश्रौ
११, ३, १०; -ङ्वाय आपश्रौ
२, ७, ९ : २३; २४; भाग ३,
१९ : ९; १०; -व्ये आपश्रौ
१३, २४ : १६; बौश्रौ; -व्येन
शांश्रौ ३, ४, ५; आपश्रौ.

प्र-दिग्ध- प्र√दिह द्र.
प्र-दिक्- -दिवि° ऋप्रा ८, ४६;
-दिवे आपश्रौ ५, ६, ३१.
प्र-दिक्-° आश्रौ ५, ५, १९; शांश्रौ ७,
१७, १०; हिश्रौ ३, २, ५६; अप
४८, ७०; निघ ३, २७; या ४,
८; ६, १७; ८, १९१.
प्र√दिश, प्रदिशति अप्राय २, ९;
प्रदिशन्ति छुसू २, १६ : १४; २,
१६ : १; या १, १; २, २.
प्र (आदिशि) वृदे ५, ४२१.
प्रदिश्यन्ते लाश्रौ १०, १०, ३;
प्रदिश्येत शांश्रौ १४, १, २.
प्र-दिश- -दिक्षु वैश्रौ १८, २० :
३८; -ङ्दिशः आश्रौ २, १४,
१३; १०, ९, ५; काश्रौ २, १, ३;
आपश्रौ; ङ्या ८, २२; ९, १७°;
११, ४११; -ङ्दिशम् आपश्रौ
५, १४, ५; १७, १५, १; बौश्रौ;
-ङ्दिशा या ८, ९; १२१;
-ङ्दिशि आपश्रौ २, १, ५ : ११;
या ८, २१°; -दिशे अप ४७,
१, ४.
प्र-दिशत्- -ङ्शन् आपश्रौ ९, ८, ८;
बौश्रौ १३, ४३ : १६; पाण्ड;
-शन्तौ या ८, १२.
प्र-दिष्ट, ष्टा- -ष्टम् शांश्रौ १२, ७, ३;
बौश्रौ १३, १ : १; भाण्ड; -ष्टाः
काश्रौसं ३ : ६; वृदे १, ७२;
-ष्टानि वृदे ३, ४९.
प्रदिष्ट-न्व- -त्वात् मीसू १०, ७,
६४.
प्र-देश- -शः बौश्रौ २१, ३ : १३;

निसू ८, ८ : ११; २३; या १,
१३; १४; मीसू ९, २, ५; -शाः
बौश्रौ २९, ८ : २५; या १, १७;
-शात् मीसू ११, ३, ११; -शान्
आश्रौ १०, ५, १५; हिश्रौ ३, ८,
२०; -शे शांश्रौ १२, ३, १६;
जैश्रौका; -शेन छुसू २, १६ :
१८; ३, १६ : १७.
प्रादेशिक- -कः कौसू ९४,
१७; १२०, १३; १२६, १३;
अशां २५, ४; -कम् या १, १४;
-केन या १, १२×४.
प्रदेश-न्व- -त्वात् मीसू ९, ४,
१०.
प्रदेश-शास्त्र- -खेषु ऋप्रा ११,
६८.
प्र-देशि(त् >)नी- -नी कौशि ३८;
-नीम् हिश्रौ २१, २, ५२°;
-न्या शांश्रौ २, ९, १४; काण्ड
२४, ११; कप्र १, १, ६; -न्याः
आश्रौ १, ७, १; वैण्ड १, २ : ७;
माशि ४, १३; -न्याम् शांश्रौ
१, १०, १; आपश्रौ २, ६, १ : ९;
माशि २, ११°; नाशि १, ७, ३.
प्रदेशिनी-मूल-निविष्ट-मूर्धन्-
-र्षां शैशि १७७.
प्रदेशिन्या(नी-अ)ङ्गुलि- -लौ
वैश्रौ ६, ११ : ११°.
प्रदेशिन्या(नी-अ)ङ्गुष्ठ- -ष्ठयोः
वैण्ड १, ५ : ७; वाघ ३, ६८; शंघ
५४; -ष्टायाम् आपश्रौ २, ६,
१ : २०.
प्रा(<प्र)-देश- -शः आश्रौ २, १९,

a) बस. । b) ०ँ वि° इति आन. । c) वैप १ द्र. । d) सपा. प्रदावात् (मै ३, १, ९ च) <>
प्रदाव्यात् इति पाभे. । e) पाभे. वैप १, २०९१ d द्र. । f) पाभे. वैप १, २१७८ b द्र. । g) भाप., नाप. ।
उप. घञ् प्र. । h) विप. [या.], नाप. (प्रान्ताधिपति- [कौसू. अशां.]) । i) =तर्जनी- [अङ्गुलि-] । j) पृ ६१ b टि.
०ष्ठप्रादेशिनीम् इति पाठः ? ०ँ, प्रदेशि° इति शोध इति द्र. । k) प्रा° इति पाठः ? यनि. शोधः । l) हुल्लै...पर्वणोः
इत्यस्य स्थाने सप्र. आश्रौ १, ७, १ प्रदेशिन्याः पर्वणी इति, काश्रौ ३, ४, ६ आपश्रौ ३, २, ३ अङ्गुलिपर्वणी इति च पाभे. ■

११; काश्रौ ५, ३, १०; आपश्रौ;
-शम् आश्रौ १, ३, २२; शाश्रौ;
-शस्य माशि २, ११; याशि १,
५३; -शात् कप्र १, ८, १८;
-शान् आपश्रौ १४, २८, ६; -शे
आपश्रौ १, ६, ६; काठश्रौ; -शेन
शाश्रौ १, ५, ८x; आपश्रौ;
-शैः माश्रौ ४, ३, ४०; अत्राय
४, १; -शौ बौशु १ : ६.
प्रादेश-द्वय- -यम् कप्र १, ८,
१९.
प्रादेश-पा(दु>)दी^१- -द्याम्
काश्रौ १३, ३, ४^०.
प्रादेश-मध्य^१- -ध्यान् वैश्रौ
१४, ७ : ४.
प्रादेश-मात्र,त्रा- -त्रः वाश्रौ ३,
३, १, ३१; हिश्रौ १३, ३, ४४;
काशु ७, १०; चच्यू ४ : १६;
-त्रम् काश्रौ २६, १, १७;
आपश्रौ; -त्राः शाश्रौ १७, २, ७;
बौश्रौ; -त्राणि काश्रौ ९, २,
१४; आपश्रौ १२, १, ४; माश्रौ;
-त्रान् काश्रौ ८, ५, ६; २६, २,
१८; आपश्रौ; -त्रे शाश्रौ १७,
१५, १२; काश्रौ; -त्रेण शाश्रौ
१७, ४, ७; १०, १३; आपश्रौ ८,
५, १०; भाश्रौ ८, ४, ८; -त्रैः
आपश्रौ १६, ११, १; वैश्रौ १८,
९ : ३; हिश्रौ ११, ४, २; -त्रौ
आपश्रौ १, ११, ६; भाश्रौ.
प्रादेशमात्री- -त्री काश्रौ
१६, २, ५; माश्रौ २, ३, १, १८;
-त्रीः काश्रौ १६, ४, ३३; बौश्रौ;
-त्रीम् शाश्रौ २, ८, २२; काश्रौ;
-त्र्यः आपश्रौ ५, ५, १०; भाश्रौ.

प्रादेशमात्रि(क>))
का- -का कप्र १, ६, १०.
प्रादेशमात्र-प(दु>)दा^१-
-दा^० वैश्रौ १८, ६ : ५.
प्रादेशमात्र-पा(दु>)दा^१-
-दा^० आपश्रौ १६, १०, १६;
वाश्रौ २, १, ३, ४; हिश्रौ ११,
३, ३८.
?प्रादेशमात्राभिचारिता-
नाम्यादिभिः^d जैगृ २, ९ : २२.
प्रादेशमात्रा(त्र-अ)रत्निमात्र-
-त्रे काठश्रौ ११८.
प्रादेश-मुख^१- -खाः हिश्रौ ७,
६, १०; आपशु ७, २; बौशु ४ :
११; हिशु २, ४८^१; -खान्
आपश्रौ ११, ११, १०; बौश्रौ ६,
२६ : १२^०x; वैश्रौ १४, ७ : ३^०.
?प्रादेशमूलविस्तृतम् वैश्रौ ११,
८ : ११.
प्रादेश-विस्तृत- -तम् वैश्रौ ११,
१० : ३.
प्रादेश-व्यास^१- -सौ बौशु १२ :
५.
प्रादेश-स(म>)मा- -मान्
काश्रौ ५, ३, ३१.
प्रादेश-संमित,ता- -तः
आपश्रौ १, ६, १०; बौश्रौ १, ३ :
४; भाश्रौ १, ६, १३; हिश्रौ १,
३, ४; -तम् वैश्रौ १०, ७ : १०;
-ताः वैश्रौ १, ८ : १४.
प्रादेश-सविशेष- -षेण बौशु
१२ : ९.
प्रादेशा(श-अ)न्त^१- -न्तम् अप
३६, २१, १.
प्रादेशा(श-अ)न्तराल^१- -लाः

हिश्रौ ७, ६, १^१; आपशु ७, २;
बौशु ४ : ११; हिशु २, ४८;
-खान् आपश्रौ ११, ११, १^१.
प्रादेशा(श-अ)न्तरपाद^१-
-दान् बौश्रौ ६, २६ : १२^१; १३^१.
प्रादेशा(श-अ)या(म>)मा^१-
-माः गोगृ ४, २, १७.
प्रादेशा(श-अ)र्ध- -र्धम् वैश्रौ
११, ८ : १२.
प्रादेशा(श-अ)वम- -मम् बौश्रौ
४, १ : २८.
प्रादेशा(श-उ)देश-गामिन्-
-मिनम् माशि २, १०; याशि १,
५२.
प्रादेशा(श-उ)पवेशन- -ने आश्रौ
४, ८, ३.
प्रदिशु^१, ऽदिशत्, ऽदिष्ट- प्र०दिशु द्र
प्र०दिह्, प्रदेग्धि कौसु २९, २३.
प्र-दि(शु>)ग्धा- -ग्धा आपश्रौ
१६, १०, १६; हिश्रौ ११, ३, ३८;
-ग्धाम् आपश्रौ १७, १७, ८.
?प्रदीक्षितारितितस्ते वाश्रौ ३, २,
४, १०.
प्र०दीपु, प्रदीप्यते अप ७०^२, ७, ९;
७१, ९, ४; बौध २, ७, १५; या
७, २३; प्रदीप्यन्ते अप ७०^२,
७, ८; २३; २१, ३; ७१, ९, ५.
प्रदीपयति आपश्रौ १५, ७, ३^१;
भाश्रौ ११, ७, ७; प्रदीपयेत् अप
७, १, ५; अशां १५, १.
प्र-दीप^१- पाग ५, १, ४; -पान् अप.
६, १, ७; १२^२, २, ३; -वैः अप.
२१, ६, ६; ६८, ५, २१.
प्रदीप-वत् कप्र १, १, १; मीसु.
११, १, ६०.

a) विप. । बस. । b) तु. चौसं. । १ पाद्याथाम् इति अच्यु. ? । c) परस्परं पाभे. । d) पाठः ?
प्रादेशमात्राम्, अभिचारिताम्, आज्यादिभिः इति त्रि-पदः शोधः (तु. सप्र. आप्रिगृ २, ५, १ : ३३) । e) परस्परं
शुभे. । f) परस्परं पाभे. । g) उप. = अन्तराल- (तु. पाभे.) । h) नाप. । उप. कर्तरि क्त. ।

प्रदीपय-^०दीप्य- पा ५, १, ४.
 प्रदीपित->^०पित-पथ^०- -थम्
 अप ६४, २, १.
 प्रदीप्त, ता- -सः अप ३८, ३, २;
 ७०^३, २, २; -सम् काश्रौ ८, ७,
 १; आगृ ३, १०, ११; -साः अप
 ६५, १, ७; -साम् आश्रौ २, ३,
 १६; काश्रौ ४, १४, १४; वैताश्रौ
 ७, १०; अप ४५, १, १९; -सै
 आश्रौ १, ४, ९; -सैः अप ६३,
 २, ३.
 प्रदीप्त-तम- -मे काश्रौ ४, १५,
 १७.
 प्रदीप्त-लक्षण^०- -णाः अप ५८,
 १, ६.
 प्रदीप्ता(स-अ)प्र^०- -प्रः अप २४,
 ३, ४.
 प्रदीप्ता(स-अ)यःपिण्ड-लोह-
 कण्टक-शयन^०- -नानि शंघ
 ३७४.
 प्रदीप्ते(स-इ)न्द्रयष्टि-पाद-
 भग्न^०- -ने अप ७२, ३, ८.
 प्रदीप्य आपश्रौ १५, ३, १७; १३,
 ३^३; भाश्रौ; प्रदीप्यऽप्रदीप्य
 काश्रौ १०, ६, १४; २६, ७, ३.
 प्रदीपमान- प्र^०दा द्र.
 प्र^०दुष् > प्रदुष्ट- -ष्टे अप ७०^३,
 ११, २६.
 प्र^०दुह्, प्र^०दुहते बौश्रौ १४, ५ :
 ४९; माश्रौ २, ३, ६, १५.
 प्र^०दृ, दृ(बधा.) > प्र-दर^०- -रः बौश्रौ
 ९, ४ : २१; १७ : ९××; वैश्रौ
 १३, ६ : ७; -रात् काश्रौ २१,
 ४, १०; वाध ३, ३५; -रे

आपश्रौ १४, १३, १४××; बौश्रौ.
 प्रदो(र-उ)दक- -के आपध १,
 १५, ५; हिध १, ४, ६४.
 प्र^०दृश्, प्रदृश्यते अप १, ५, ७; ३२,
 ३××; वृदे २, १३२; नाशि २,
 २, १७; प्रदृश्यन्ते अप ५२, ८,
 २; ६४, ५, ५××; कौशि २४.
 प्रदर्शयति वैश्रौ ५, ३ : १३;
 प्रदर्शयेत् आमिगृ २, ७, ६ : ३१;
 शंघ १०९; विध २३, ३७; ऋप्रा.
 प्रदर्शक- -कः ऋप्रा १०, १५.
 प्रदर्शन- -नस् अप ६४, ३, २; ५,
 ६; ७०^३, १६, १; ऋप्रा ११, २७;
 माशि १०, २.
 प्रदर्शनी(न >)ना^०- -नाः अप ५८,
 १, ५.
 प्रदर्शित, ता- -तम् जैश्रौका १२१;
 -ताः अप २३, १, २; वृदे ५,
 २५.
 प्रदेया- प्र^०दा द्र.
 प्रदेश- प्र^०दृ दिग् द्र.
 प्रदो(षा >)ष^०- -षः कौसू १४१,
 ३५^३; -षम् माश्रौ १, ६, १, ८;
 वाश्रौ १, ५, २, ७; पागृ ३, ४, ८;
 -षात् अप ६३, १, ९; -षे आपश्रौ
 ६, ४, ८; बौश्रौ; कौसू १४१,
 ३७^३.
 प्रादोष-^०षिक- पा ४, ३, १४.
 प्रादोषक- पा ४, ३, २८.
 प्रादोष-चारि(न् >)णी- -णी भागृ
 १, २३ : १६^३.
 प्रादोषा(ष-अ)न्त^०- -न्तः आश्रौ
 ३, १२, १; वैश्रौ २, २ : ११.
 प्रदोष^०- -षः ऋप २०, ७, ८.

प्रदोहन^०-> प्रादोहनि- (> ^०हना-
 यन- पा.) पाग २, ४, ६१.
 प्र^०द्युत्, प्रद्योतयति बौगृ २, ८, २.
 प्रद्युम्न^०- पाग ४, १, ९६; -न्म शंघ
 ११६ : ६५; -न्नाय विध ६७, २.
 प्राद्युम्नि- पा ४, १, ९६.
 प्र^०द्वु, प्र^०द्वव आश्रौ ६, ४, १०;
 शाश्रौ १८, १३, ७; आमिगृ ३,
 ६, ३ : २५; ७, ४ : १६; बौपि;
 प्र^०द्वव उनिस् ५ : ३०;
 प्र(द्वव) ऋत्र २, ९, ८७;
 सात्र १, ५२३^३; प्र^०द्ववत्
 शाश्रौ १२, २, १४; आगृ ३, १२,
 १२; प्रद्ववेत् द्राश्रौ ११, ३, १३;
 लाश्रौ ४, ३, १४.
 प्रदुद्राव या १२, १०.
 प्र-द्वव^०- -वाणाम् वाद्यश्रौ ३, ८३ :
 २.
 प्र-द्वव- पा ३, ३, २७; -वान्^३
 बौश्रौ १५, ६ : २३; ९ : १२.
 प्र-द्ववन्- पा ३, २, १४५.
 प्रदाविणी- -णी कौसू ८९, ९.
 प्र^०द्विष्, प्रद्विष अप ३६, ९, ३.
 प्रि-धक्षत्- प्र^०द्वह द्र.
 प्र^०धन् > प्र-धन्^०- -नः या ९,
 २३; -ने या ९, २३^३कृ^०.
 प्र^०धन्व्, प्रधन्वति बौश्रौ १४, ८ :
 ३६; प्रधन्व > न्वा ऋप्रा ८, ७;
 सात्र १, ५६७^३; प्र(धन्व) ऋत्र
 २, ९, १०९.
 प्र(अधन्वित्) ऋत्र २, ९, २४;
 सात्र २, ३११.
 प्र^०धम्, प्रधमन्ति बौश्रौ १५, ३७ : ४.
 प्र^०धा, प्रदध्यात् अप्राय २, ९.

a) विप. । बस. । b) कस. > द्वस. > बज. । c) कस. > षस. > षस. । d) वैप १ द्र. ।
 e) पदोषे (प्रदोषो इति सूको.) पाठः ? यनि. शोधः । f) पूष. = कालपरिमाण- इति [पक्षे] भाष्यम् ।
 g) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । प्र-दो इति MW. । h) व्यप. । व्यु. ? । i) = प्र-द्राव- । j) = मन्त्र-
 विशेष-, (उपचारात्) होम- ।

प्रधान,ना^३-नः मागृ १,११ : ५;
 अप ७०^३,७,९××; -नम् काश्रौ
 १,१६,३; काश्रौ; -नस्य हिश्रौ
 १, १, ६३; कप्र; -ना वैगृ ३,
 २० : २; अप ५९, १, ८; विध
 ९९, ४; -नाः वैगृ २, १२ : ५;
 अप; -नात् आश्रौ २, ११, १६;
 आपश्रौ २, २१, २; मीसू १०, १,
 ५; -नान् वैगृ २, १३ : १५××;
 वैध २, १, ९; -नानाम् वाश्रौ
 १, १, १, ६५; ७०; हिश्रौ; -नानि
 आपश्रौ ३, १६, १०××; वाश्रौ;
 -ने शुप्रा २, २७; पावा; -ने
 विध ९९, ३; -नेन मीसू ४, ३,
 ३८; ६, ३, ३; ११, २, ७; -नेषु
 वाश्रौ १, १, ५, १४; वृदे ५, ९६;
 मीसू ४, ४, ३२; -नैः आपध २,
 ८, १३; हिध २, १, ११५.
 प्राधान्य- -न्यम् कप्र ३, १०,
 ९; वृदे १, ७५××; मीसू;
 -न्यात् काश्रौ ५, ११, १९; १५,
 ४, १८××; -न्ये हिश्रौ १७, १,
 २६; -न्येन वृदे १, ६; या १,
 २०; २, १३; २४; ११, २.
 प्राधान्य-तस् (:) वृदे ५,
 १०७; ८, ६२.
 प्राधान्य-स्तनित- -तानि
 अप ६४, ५, २.
 प्राधान्य-स्तुति^b -ति
 या ७, १३; -तीनाम् या १, २०;
 ७, १.
 प्रधान-कर्मन्- -र्मणि पावा १,
 ४, ५१.
 प्रधानकर्मा(र्म-अ)र्थ-त्व-
 -त्वात् मीसू ११, १, ५३.

प्रधान-कारिन्- -रिणः वाश्रौ १,
 १, १, १४.
 १प्रधान-काल- -ले आग्निगृ १,
 ७, ४ : १०.
 २प्रधान-काल^b- -लेषु बौगृ ३,
 २, ५.
 प्रधानकाल-त्व- -त्वात्
 काश्रौ ४, ७, २२; २६, ६, २८;
 मीसू ११, १, ६८.
 प्रधान-गुणभू(त>)ता- -ताः
 वृदे ५, ९६.
 प्रधान-तर->^१र-च्छन्दस^b^७-
 -सः निसू ७, ५ : १३.
 प्रधान-तस् (:) बौध १, १०, ३७;
 वृदे ५, ११०××; मीसू १, ४, ३.
 प्रधान-ता- -ता अप २२, ६, ४.
 प्रधान-त्व- -त्वम् कप्र ३, १०,
 १०; -त्वात् पागृ २, ५, २०;
 मीसू ३, ७, १९××; -त्वे अप
 ७०, १, ६.
 प्रधान-देवता- -ताः मागृ २, ६,
 ४; -ताभ्यः हिपि २० : १२;
 -ताम् बौश्रौ २९, २ : ५.
 प्रधान-द्रव्य-व्यापत्ति- -त्तौ
 काश्रौ १, ७, २७.
 प्रधान-पूरणी-ग्रहण- -णम् पावा
 ५, ४, ११६; ६, ३, ३३.
 प्रधान-प्रत्ययार्थ-वचन^d -नम्
 पा १, २, ५६.
 प्रधान-भाव- -त्वात् पावा २, १,
 ५७; ३, ४, १०२.
 प्रधान-भूत- -तानाम् आश्रौ
 ३, १४, ६; -तानि मीसू २, ४, ७.
 प्रधानभूत-त्व- -त्वात् मीसू
 ६, २, ५; १०, ८, ३६.

प्रधान-याग- -गात् वैश्रौ २०,
 १९ : ५.
 प्रधान-योग- -गात् काश्रौ १,
 ४, १७.
 प्रधान-लोप- -पे अप्राय ४, २.
 प्रधान-वत् मीसू ६, ४, ४; ११,
 २, ६; ३, ३१.
 प्रधान-वैगुण्य- -ण्यात् मीसू
 १२, १, १५.
 प्रधान-शब्द-त्व- -त्वात् मीसू
 ५, २, १९; ११, २, १०; ४, २४.
 प्रधान-शब्द-संयोग- -गात्
 मीसू ४, ३, २४^०; १०, ८, ५३.
 प्रधान-संयोग- -गात् मीसू १०,
 १, ४.
 प्रधान-संनिपात- -ते हिश्रौ १,
 ६, ४१.
 प्रधान-हविस्- -वीषि आश्रौ २,
 १५, ८.
 प्रधान-होम-मन्त्र- -न्त्रान्
 वैयाश्रौ १, ४.
 प्रधाना(न-अ)ङ्ग- -ङ्गे या ९, ३१.
 प्रधाना(न-अ)दि- -दौ बौगृ ४,
 ५, ५; -दौऽ-दौ बौगृ ३, १३,
 २; ४, ६, २.
 प्रधाना(न-अ)न्त- -न्ते बौगृ ४,
 ५, ६.
 प्रधाना(न-अ)नन्तर्- -र्थम्
 हिश्रौ २२, ४, २०.
 प्रधाना(न-अ)पवर्ग- -र्गे मीसू
 ११, ३, १७.
 १प्रधाना(न-अ)र्थ- -र्थम् अप
 ६२, ४, ७^१.
 २प्रधाना(न-अ)र्थ^b -र्थः कप्र
 ३, १०, १४; -र्थम् मीसू १०, ३,

a) विप., नाप. । कर्त्रार्थे कृत (तु. अभा.) । b) बस. । c) विप. समासान्तः अच् प्र. उस्. (पा ५, ४, ७५) । d) कस. > कस. (तु. पासि.) । e) 'संप्रयो' इति जीसं. प्रश्. । f) पाठः ? विधानार्थम् इति शोधः (तु. संस्कृतः टि.) ।

११; -र्थस्य मीसू ११, ३, १८.
 प्रधानार्था(धि-अ) भिस्संयोग-
 -गाव् मीसू ११, २, ४.
 प्रधाना(न-अ)वभृथ- -थः अप
 ३३, ७, ६.
 प्रधाना(न-आ)हुति- -तीः वाश्रौ
 १, ३, ४, २९; आग्नि १, ६, २ :
 ८; ३, ११, ४ : ११; आपय.
 प्रधानाहुति-काल-तसः (ः)
 जैश्रौका ४०; ६४.
 प्रधानाहुति-वेला- -लायाम्
 जैश्रौका ३९.
 प्रधाने(न-इ)ज्या- -ज्यायाः
 काश्रौ २५, ५, १५.
 प्रधानो(न-उ)पसर्जन- -नानाम्
 पावा २, १, ६९.
 प्रधि-^a -धयः या ४, २७^क;
 -धिः या ४, २७; -धी कप्र
 २, ७२; तैत्रा ४, १२; -धीन्
 बौधु ७ : १२; -धीनाम् बौधु
 १८:५; २१:५; -धौ आपशु १३,
 २; बौधु १६:६; हिद्यु ४, ३४.
 प्रधि-क- -कम् आपशु ७, ८;
 हिद्यु २, ५८.
 प्रधि-प्रकार^b - -रे माश्रौ २, २,
 ३, ३५.
 प्रधि-मध्य(ग>)मा^c - -माः
 बौधु १८ : ५; २१ : ५; -माम्
 बौधु १८ : ७.
 प्रधि-मुख^d - -खे आपश्रौ ११,
 १३, १; हिश्रौ ७, ६, २८.
 प्रधि-युक्त- -क्तानि बौधु १६:२.

प्रध्य(धि-अ)नीक- -केषु बौधु
 ७ : १३; १६ : ७.
 १प्र-हित- -तः या ४, २७; -तम्
 आश्रौ ३, १०, १६^d.
 प्र-धान- प्र√धा द्र.
 प्र√धाव् (गतौ), प्रधावति शांश्रौ ३,
 ८, २७^क; अप ५८^३, २, ७५×;
 प्र...धावतु आपमं १, १५, ६.
 प्र√धाव् (शुद्धौ), प्रधावते आग्नि १,
 ३, ३ : ६^e; प्रधावतः आपश्रौ
 ८, ८, १६; १३, २१, २.
 प्रधावयेत् कप्र १, १०, २.
 प्र-धाव्य बौश्रौ १७, ४० : २१;
 आग्नि १, ३, ३ : ६.
 प्र√धास्^f, प्रधास्येत् माश्रौ १०,
 १२, १४^g.
 प्र-धुर^h - -रे आपश्रौ १२, २, १२;
 ६, ११; माश्रौ.
 प्र√धूमाय (<धूम-), प्रधूमायन्ति
 अप ७२, ४, ४.
 प्र√धु, प्रधारयन्तु आग् ३, १२, १४^क.
 प्र√धुष् > प्र-धृष्यमाण- -णाः आश्रौ
 २, ११, १८.
 प्र-धृष्टि- -ष्टिः शांश्रौ ८, २४, ३^क.
 प्र√धे, प्रधापयेत् माग् १, १७, ७;
 वाग् २, ९.
 प्र√ध्वै, प्रध्यायत गोग् ३, १०, १७^क.
 प्र√ध्वंस, प्रध्वंसयते बौश्रौ ४, ११ :
 १२; १६; २०; १४, १३ : १८;
 प्रध्वंसयति वैश्रौ १३, १७ : १०;
 हिश्रौ १, ५, ६३; २४, ६, १२;
 प्रध्वंसयेत् बौग् ४, २, ६; हिग्

१, १६, ४^क.
 †प्र√नम्, प्रनभताम् अप्रा ३, १, ७;
 प्रनभस्व कौसू ४१, १; १०३, ३;
 अप ६५, ३, २; ४; अथ.
 †प्रनाकाफानⁱ आश्रौ २, १०, १४.
 प्र√नुत्, प्रनुत्यन्ति अप ७०^३, ८, ३.
 प्र-नृत्त- > †त-प्रेतमाजार्जवाराहा-
 (ह-अ)नुग (त>)ता- -ताः
 अप ५८^३, ३, १.
 †प्रन्यतिशिल्पे वाश्रौ ३, २, १४.
 प्र√पच् > प्र-पाक^j - -कम् कौसू
 ८३, १४; ८४, ३.
 प्र√पञ्च् > प्र-पञ्च- पाग ८, १, २७.
 प्र√पट्, प्रपठ्यते अप २३, ११, २.
 प्र-पठित- -तम् उसू ८, ३६.
 †प्र-पण^k - -णः शौव ४, ९७; -णम्^क
 भाग् २, २६ : ७; हिग्.
 †प्र-पणत् - -णन् आपमं २, २२, ४^क.
 प्र√पत् (गतौ), प्रपतति अप ३७,
 १७, १; प्रपतन्ति अप ५१, ४,
 २; ५७, २, ४; ६८, १, ४७; या
 २, ६; प्रपतात् माग् २, १७,
 १^क; प्रपतात् या २, ६^क; †प्रपत
 भाग् २, २८ : १६; कौसू १८,
 १६; अप; प्रपतत अथ ६,
 ८३^क; अपं २ : ५६; प्रपताम्
 पु ८, ४; प्रपतेत् आपश्रौ २२,
 २१, १०; बौश्रौ ९, १७ : ६;
 १६; वाधूश्रौ; या ७, ३^क; प्र...
 पतेत् वाधूश्रौ २, २० : १;
 प्रपतेयाताम् अप्राय ६, १.
 प्र (पिपतिषति) अथ १२, २^क.

a) वैप १ द्र. 1 b) बस. 1 c) = इष्टका-1 d) पाभे. वैप २, ३खं. प्रभृत्तम् तैत्रा १, ४, ४,
 १० टि. द्र. 1 e) सपा. बौश्रौ १७, ४० : २१ विधावयते इति, बौग् १, ३, ३० विधावते इति च पाभे. 1
 f) = प्र√धा (प्र√हा [त्यागे]) 1 g) सप्र. वैश्रौ १२, १४ : ९ त्वरया स्वयं प्रयाति इति पाभे. 1 h) नाप. 1
 प्रास. समासान्तः अच् प्र. (पा ५, ४, ७४) 1 i) पाठः ? 1 पाभे. वैप २, ३खं. †कनाकाभाम् तैत्रा २, ४, ६, ५
 टि. द्र. 1 j) उप. कर्मणि घञ् प्र. 1 k) पाभे. वैप १, २१८०g, २१५० b च द्र. 1 l) पाभे. वैप १, २१८० k द्र. 1
 m) पाभे. वैप १, २१८० i द्र. 1

प्र-पतत्- -ततः काय ४०, १३;
 वायु ४, १४.
 प्र-पतन- पाय ३, ४, ७४.
 प्र-पतित, ता- -तः अत्राय २, ९;
 -तम् वाधूश्रौ ३, ७७ : २; -ता
 वाधूश्रौ २, २० : ६.
 प्र-पात- -ने पावा ३, १०४.
 प्र-पथ^a- -थात् वाधूश्रौ ३, १८ : ११;
 -^bथे आश्रौ ३, ७, ८; शांश्रौ
 १५, १९, १; बौश्रौ; या ११,
 ४६.
 प्र√पद्, प्रपद्यते आश्रौ १, १, ४; ५,
 १२, १; आपश्रौ; कौश्र ३, ६^b;
 प्रपद्यते बौश्रौ ७, ११ : ३; बौध
 १, ७, २१; वेज्यो ७; प्रपद्यन्ते
 बौश्रौ ७, ११ : १०××; माश्रौ;
 ऋप्रपद्ये आश्रौ १, २, १; ४, ८^{१३};
 २, ५, १७०; शांश्रौ; वैश्रौ १८,
 १४ : १५०; हिश्रौ ६, ७, ८०;
 आपमं १, १०, ३^d; ६^d; कौश्र ३,
 ४, ३०; काय २७, ३०; बौश्र
 १, ५, ७०; ६, १२^d; माश्र १, १९ :
 १४^d; १७^d; माश्र २, ११,
 १६०; वायु १५, १७०; प्रपद्यामि
 अप २०, ६, १; प्रपद्येताम् सु २,
 २; प्रपद्यस्व वृदे ६, २२; प्र...
 पद्यस्व बौश्र २, ६, १४; आपद्यत
 वाधूश्रौ ४, २६ : २८; २९××;
 प्रपद्येत आश्रौ २, ५, १७;
 आपश्रौ १२, २६, १४; बौश्रौ;
 शांश्र ३, ४, ९^b; प्रपद्यात्
 शंघ १०३; प्रपद्येरन् वैश्रौ १२,
 १२ : १; वैश्र ५, ६ : ८; बौध

१, ७, १७; प्रपद्येयम् माश्र २,
 १३, ६^१.
 आपस्तत बौश्रौ ७, ७ : १५.
 प्रपाद्यति आपश्रौ ११, १७, ८;
 १२, ६, ९××; बौश्रौ; प्रपाद्यन्ति
 शांश्रौ ५, ६, ४; वैश्रौ; प्रपाद्यीत
 हिश्रौ १०, ४, १३; माश्र १, १४,
 १; प्रपाद्येत् बौश्रौ २५, ९ :
 १३××; वायु २, १; १५, १४.
 प्र-पत्स्यमान- -नाः शांश्रौ ६, १२,
 १२.
 प्र-पद्^१- -पदः शांश्रौ ६, २, १.
 प्र-पद्^२- -दः गोश्र ४, ५, ७; -दम्
 गोश्र ४, ५, १४; द्राश्र १, २, २२;
 ४, १, ७; कप्र १, ९, ५.
 प्र-पदन- -नम् बौश्रौ २४, २८ : १;
 २७, १२ : १९; वाधूश्रौ ३, ८१ :
 २; जैश्रौ ८ : ३; -नस्य जैश्रौ
 १३ : १; १८ : १.
 प्रपदना(न-अ)न्त- -न्तम्
 वैताश्रौ १, १९.
 प्रपदनीय- पावा ५, १, १११;
 -यः कौश्र ३, ४, ३^६.
 प्र-पद्य आश्रौ १, १, २३××; शांश्रौ.
 प्र-पद्यमान, ना- -नः काठश्रौ १४०;
 -नम् आश्रौ ४, १०, ५; बौश्रौ
 २५, २० : १३; -नाम् वैश्र ५,
 ६ : ६; -नाम् वृदे ७, १३१;
 -ने भाश्र १, २३ : २०^h.
 प्र-पद्य, ज्ञा^१- -ज्ञः बौश्रौ ४, ४ : ११;
 २५, २० : १०; अप ४, ३, ५;
 -ज्ञम् गोश्र ३, ५, ७; जैश्र १,
 १९ : २६; वृदे ६, १५२; -ज्ञा

बौश्रौ ६, २६ : २९; विध १,
 ५८; -ज्ञाः बौश्रौ १७, १२ : २;
 -ज्ञे बौश्रौ ६, २४ : १३;
 जैश्रौ ३ : ९.
 प्रपद्य-द्विः पक्क-पर्युषित- -तानि
 द्राश्र ३, १, ३६.
 प्र-पाद्यत्- -यन् आपश्र ६, ८.
 प्र-पाद्य आश्रौ ३, १, १६; ६, १०,
 २०; काश्रौ; शांश्र १, १५, ९^१.
 प्र-पाद्यमान, ना- -नाम् वैताश्रौ १३,
 ५; -नासु आपश्रौ १४, ९, ३;
 हिश्रौ १०, ८, ४१; -ने आश्रौ ४,
 ४, ५; १०, १३; शांश्रौ ५, १४,
 १७, २२.
 प्र-पद्^३- -दात् कौश्र ७, १७××;
 -^१दाभ्याम् आपमं १, १७, ४;
 अश्र ११, ३(२); -देन आश्रौ १,
 १, २३; ४, ४, २; शांश्रौ.
 प्र-पद्^४- -दः माशि १४, ७^३.
 प्र√पश, प्रपश्यन्ति अप ६८, १, १३;
 प्रपश्यामि विध २०, २२;
 ऋप्रपश्य^१ आपश्रौ १८, ६, ४;
 वाश्रौ ३, १, २, २४; हिश्रौ १३,
 २, १८; प्रापश्यन् या ७, २९^१.
 प्र√पा (पाने), प्रपिबन्ति या ११, ५.
 प्रपाययति काय ३४, ६.
 प्र-पा^१- पावा ३, ३, ५८; -^१पा अश्र
 ३, ३०; ऋप्र २, ५९; तैत्रा १०,
 १३; अत्रा २, २, १५; -पाः वाध
 १९, १८; -पाम् कौश्र १२, ९;
 १९, ३.
 प्रपा(पा-अ)न्त^{१०}- -न्तानि कौश्र
 ३५, १९.

a) वैप १ द्र. 1 b) सपा. ष्यते <> ष्येत इति पाभे. 1 c) पाभे. वैप १, १०२४ d द्र. 1

d) पाभे. वैप २, ३खं. उपधावामि संज्ञा १, ४, १ टि. द्र. 1 e) =मन्त्र-विशेष- 1 f) वैप २, ३खं. द्र. 1

g) सपा. शांश्र ३, ५, ३ प्रवेक्षनीयः इति पाभे. 1 h) ष्या^० इति पाठः ? यनि. शोघः 1 i) उप. कर्तरि क्लृत्. 1

j) सपा. कौश्र १, ९, १३ प्रवेक्ष्य इति पाभे. 1 k) = पादाग्र- 1 प्रास. 1 l) बस. 1 m) उप. = सुबन्तमि- 1

n) प्रपरयेत् इति C. 1 o) व्र^० इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. संस्कृतुः टि.) 1

प्र√पा (रक्षणे), प्र...पाहि बौघ २, ६, १४^क।

प्र-पात- प्र√पत् द्र.

प्र-पादयत्- प्रम्. प्र√पद् द्र.

प्र-पितामह^०- -^०ह आश्रौ २, ६, २४; आपश्रौ १, ९, १५; बौश्रौ २, १० : २५^द; २६; ३, १० : २२^द; ५, १५ : ६×५^द; २४, ३२ : १८^द; वाश्रौ १, २, ३, १६^द; १८; हिश्रौ २, ७, २७^द; आपमं २, १९, १६; २०, १०^द; आग; आमिष्ट ३, १, ३ : ७^द; भाग २, १३ : १^द; हिष्ट २, १२, ३^द; -हः बौश्रौ २४, २६ : १४; जैश्रौ; -हम् आपश्रौ २, २१, ७^क; बौश्रौ; -हस्य शाश्रौ ४, ४, ४; बौश्रौ; -^०हाः आश्रौ २, ६, १४; आपश्रौ; -^०हाः जैश्रौ १८ : १७; आमिष्ट ३, १, ३ : १५; १६; भाग २, ११ : ६; -^०हात् बौश्रौ २, १० : ६^क; माश्रौ १, ७, ६, ४६; आपमं २, १९, ६^क; आमिष्ट ३, १, १ : १८^द; बौघ २, ११, २७^क; भाग २, ११ : १७^क; हिष्ट २, १०, ७^क; विघ ७५, ६६; -हान् आमिष्ट २, ६, ३ : ४६×५; वैघ ४, ६ : ३; बौघ २, ५, २८^क; -^०हानाम् आमिष्ट ३, १, २ : २०; २, ३ : ९; बौघ; -हाथ आश्रौ २, ६, १५; ६, १२, ९^क; बौश्रौ; माश्रौ २, ५, ४, ११^क;

-हे विघ ७५, ३; -हेभिः भाग ३, १७ : ९; -^०हेभ्यः आपश्रौ १, ९, ९; बौश्रौ; आमिष्ट ३, १, ३ : १०^क; कौसू ७३, ६^क; -^०हैः बौश्रौ ६, ३१ : २२; बौघि २, १२, ४.

प्रपितामही- -^०हि आपमं २, २०, १३^क; -^०ही आपमं २, १९, ५; आमिष्ट ३, १, १ : २२; हिष्ट २, १०, ७; -हीः आमिष्ट २, ६, ३ : ४७; ५१; बौघ २, ५, १८^क; -हीभ्यः आमिष्ट १, २, २ : ३२×५; बौघ २, ११, ३४^क; -ह्यः आपमं २, २०, ७^क; -ह्यै शंघ ११६ : ७३; विघ ६७, २३; ७४, १.

प्रपितामह-पत्नी- -त्नीभ्यः वैघ १, ४ : २०; ४, ४ : १०.

प्रपितामह-प्रभृति- -तीन् आपश्रौ १, ९, ४.

प्रपितामहा(ह-आ)दि- -दि आपघ १, २, ५; हिघ १, १, ३८.

प्रप्रित्व(त्-त्र)^०- -त्वम् शाश्रौ १४, ४९, ३; -त्वे^१ आपमं १, १४, ४; अप ४८, ६०; ११७; निघ ३, २९; या ३, २०.

प्र√पिष > प्र-पिष्ट- -ष्टानाम् काश्रौ ५, १, ४.

प्रपिष्ट-तम- -मैः या ६, १२^१.

प्र√पीड् > प्र-पीड्य काश्रौ २४, ३, ३६; आपश्रौ.

प्र-युट^क- -टे कौसू २५, ३०.

प्रपुनाद्- पाडभो २, ३, १००.

प्र√पुष्, प्र (पुष्यन्ति) शाश्रौ ९, २४, ९^क.

प्र√पू > प्र-पावन- -नः अप ३८, १, ३.

प्र-पुन्वत्- -न्वद्भ्यः^१, -^०न्वन्तः^१ आपमं २, १८, ३८.

प्र√पूज्, प्रपूजयेत् अप १९^२, ५, ३.

प्र-पूजित- -ते अप ३८, १, २.

प्र√पृ, प्रपूरयेत् आमिष्ट २, ४, ७ : ६.

प्र-पूर्य आमिष्ट २, ४, ७ : १७.

प्र-पौत्र^०- -त्रः बौघ १, ५, ९५; -त्राः निसू १०, ९ : २३; गोपि १, ७, ९^क.

प्र√प्याय्, प्यै, प्रप्यायते या ११, ४२; प्रप्यायस्व^३ हिष्ट २, ४, ३^क; प्रप्याय^३ आपमं २, १३, २; आमिष्ट २, १, ४ : १८; भाग १, २५ : १०.

प्र-पीन, ना- -^०नम्^० माश्रौ ६, २, ६; २०; वाश्रौ २, २, ५, ६; वाघ १, ३१; छुप्रा ३, ९०; -^०ना आपश्रौ ४, १०, ७; माश्रौ; -^०नाः आपमं १, १४, ७^क; अप्रा ३, १, ७^क -^०ने आपश्रौ २१, २०, ७^क.

प्र-प्यात- -तम्^० आपश्रौ १६, १२, ११; हिश्रौ ११, ५, ७.

प्र√प्रुथ् > प्र-प्रोथ^०- -थयोः^१ वैश्रं १७, १३ : ५; -थेषु^१ आपश्रं

a) पाभे. वैप २, ३खं. प्र...माहि तैआ ७, ४, ३ टि. द्र.। b) °भाहि इति सूको.। c) नप.।
 प्रास.। d) पाभे. वैप १, २१३९ b द्र.। e) पाभे. वैप १, २१८२ l द्र.। f) पाभे. पृ १५७३ ष द्र.।
 g) सपा. °हाय <> °हेभ्यः इति पाभे.। h) वैप १, ६६२ h द्र.। i) वैप १, २१८२ o द्र.।
 j) तु. द्र. राज.। वैतु. ल. 'पिष्ठ' इति। k) = दृढ-पुट-। प्रास.। l) सपा. हिष्ट २, ९, २ प्रयुन्वत् इति
 पाभे.। m) परस्परं पाभे.। n) पाभे. वैप १, २१८३ j द्र.। o) पाभे. वैप १, २१८३ f द्र.।
 p) पाभे. वैप १, २१८३ k द्र.। q) वैप १ द्र.। r) सप्र. आपश्रौ १८, ४, १५ °थेषु

१८, ४, १५; वाश्रौ ३, १, १, ४३;
 हिश्रौ १३, १, ५०; ६१.
 प्र√प्लु, प्रप्लावयन्ति बौश्रौ ६, २: ८;
 ३: ७; कौसू ४६, २८; ४८, ६;
 प्रप्लावयन्ति बौश्रौ ८, २०: १६;
 प्रप्लावयेत् बौश्रौ २९, १३: १३;
 प्रप्लावयेयुः बौश्रौ २१, २४: २४.
 प्र-प्लावन- -ने बौश्रौ २१, २४:
 २१; २५: १.
 प्र-प्लाव्य बौश्रौ १२, १६: २२; हिश्रौ
 १०, ५, ३०; पाय १, १२, ५.
 प्र-फर्वि, वी^१ - -फर्व्यम् बौश्रौ १, ६, २३;
 वाध २, ३४^१; ३५^१; आशि ५८^१.
 फ्रप्रफर्वि-दा- -दा: आपश्रौ १७,
 ५, १६; वैश्रौ १८, २१: १७.
 फ्रप्रफर्वी-दा- -दा: हिश्रौ ११, ८,
 १०^६.
 प्र√फुल्ल, प्रफुल्लेते याशि २, ६५.
 प्र√वध, न्ध, प्रवध्नाति आपश्रौ
 २१, १७, १३^१; कौसू २६, ३२;
 प्रवध्नन्ति आपश्रौ १८, ४, ४;
 २१, १८, १०; हिश्रौ १६, ६, १०^१.
 प्र-वद्ध, द्दा- -द्धम् अप ७०^३, १८, १;
 -द्धस्य अप १, ३२, २; -द्दाम्
 आपश्रौ १९, ३, ६; -द्धेन अप
 ७१, ३, १.
 प्रवद्ध-विल्लना(न-आ)द्य(दि-
 अ)र्थ^१ - -धैम् पावा ४, १, ५२.
 प्रवद्धा(द्ध-अ)ङ्गुष्ठ- -छाभ्याम्
 कौसू ३५, २७.
 प्र-वध्य शाश्रौ ३, १९, ९; आपश्रौ.

प्र-बन्ध^१ - -न्धान् हिश्रौ १६, ६, २५^१.
 प्र-बन्धन- -नम् बौश्रौ १०, २२:
 १०; १५.
 प्र-बल^१ - -लम् अप ५५, २, ३.
 प्र√बाध, प्रबाधते या ३, ८.
 प्र-बाधित- -ते सु २, २.
 प्र-बाधि(न >)नी- -न्यौ बौश्रौ ३,
 ११, १.
 प्र-बाहु^१ - -हुषु विध २२, ७७.
 प्रबाहुक्^१ आपश्रौ १२, १, १२; १३××;
 बौश्रौ १, १६: ८; ११; २०, १३:
 ७; ८; भाश्रौ.
 प्रबाहुकम्^१ पाग १, १, ३७.
 फ्रप्रवुध्, प्रबुध्यताम्^१ आपमं १,
 ४, ८; आग्नि १, ५, २: ५३;
 बौश्रौ; प्रबुध्यस्व कौसू ७७, १३;
 अप ४६, ४, १; ६, ५.
 (प्र)अभुत्सि अत्र २०, १४२.
 प्रबोधयन्ति काश्रौ ९, १, १;
 प्रबोधयेत् कौसू ७३, १; ७७,
 १३; विध ७१, ५६.
 प्र-बुद्ध, द्दा- -द्धः बौध ३, ८, १९;
 नाशि २, ८, १; -द्द्वयं शुप्रा
 ६, २६; -द्दायाः अप ३५, १,
 ३१; -द्धे विध १, १.
 प्रबुद्ध-यजुस्- -जुः बौश्रौ ६,
 ७: ५; १९; २१, १०: १०××.
 प्र-बुध्^१ - -बुधे बौश्रौ ६, ७: २१.
 प्र-बुध्य आपश्रौ १०, १८, २××;
 भाश्रौ १०, ११, ११; वैश्रौ १२,
 ११: ५.

प्र-बुध्यत्- -ध्यन् माश्रौ २, १, ३,
 ११.
 प्र-बोद्धव्य- -व्यम् कौशि ७०.
 प्र-बोध^१ - -धः आपमं २, १६, १४.
 प्र-बोधित- -तः अप ८, १, २; -ताः
 वैताश्रौ १६, ४.
 प्र-बोधिन्- पाउमो २, २, २९१.
 प्र√बृह, प्रबृहति बौश्रौ १४, १२: ४;
 फ्रप्रबृहन्तु^१ बौश्रौ १४, १२:
 ५-७; हिश्रौ ८, २, ३८.
 प्र-बृहम्^१ काश्रौ २, ७, २३^०.
 प्र-बृह्य काश्रौ ६, ८, २^१; हिश्रौ ८,
 ३, ७.
 प्र√ब्रू, प्र...ब्रवथ वाधूश्रौ ३, ७५: ४.
 प्रब्रूते बौश्रौ ३, २७: ३२; २४,
 १: ३; प्रब्रूथे या ५, ८; फ्रप्रब्र-
 वीमि आश्रौ ६, ११, १६^१;
 शाश्रौ १०, १, १३^१; काश्रौ २,
 १, १८; २, १; १२, ६, २८^१;
 आपश्रौ ३, १८, ४^३××; २१,
 ६, १^१; काश्रौसं; या ७, २३;
 १०, ४२; ११, ४३; फ्रप्रब्रूमः
 आपश्रौ १०, २५, १; बौश्रौ ६,
 ५: ३०; भाश्रौ; या ८, १९;
 फ्रप्रब्रूहि शाश्रौ १५, १७, १५^१;
 काश्रौ ७, ८, १३; कौसू; फ्रप्र...
 ब्रूहि आपश्रौ १, १३, ३; भाश्रौ
 १, १३, ६; हिश्रौ १, ३, ३८;
 फ्रप्रब्रूतात् शाश्रौ १७, १४, ४;
 काश्रौ; आपश्रौ २१, ५, १६^१;
 फ्रप्र...ब्रूतात् आपश्रौ १, १०,

a) वैप १ द.। b) पाभे. वैप १, २१८३ t द.। c) पाभे. वैप १, २१८३ s द.। d) सपा.
 भ्नाति <> ध्नन्ति इति पाभे.। e) सपा. प्रवध्नन्ति <> प्रबन्धान् इति पाभे.। f) प्रवृ^० इति मूको.।
 g) उप. कर्मणि घञ् प्र.। h) वल.। i) नाप.। प्रास.। j) = प्रबाहुक्.। k) सपा. वैप १ विबुध्यताम् खि
 २, ११, २ टि. द.। l) व्यप. (ऋषि-).। उप. कर्तरि अच् प्र.। m) सपा. तै ३, ३, १ प्रवृहन्तु इति पाभे.।
 वैप १, २२१० p अपि द.। n) धा. उद्यमने वृत्तिः.। o) प्रवृहन् इति चौसं.। पाभे. वैप २, ३खं माश १, ३, १०
 प्रबृहम् टि. द.। p) सप्र. प्रब्रवीमि <> प्रब्रूतात् इति पाभे.। q) पाभे. वैप २, ३खं. आचक्ष्व ऐवा ७, १३ टि. द.।
 r) पाभे. वैप १, २१८५ ० द.।

६; वीश्रौ; ऋ०... ब्रूत आपश्रौ
 २४, १३, ३; वीश्रौ ३, २८ : ११;
 हिश्रौ २१, १, २; २, २४; ऋ० ब्र-
 वाम, > मा आपश्रौ ५, १७, ४;
 हिश्रौ ३, ४, ४८; आपमं २, ५,
 १९९; आमिग्य; ऋ० प्राब्रवीत्
 वाधूश्रौ ४, १०८ : २२; २४;
 ऋ० २, १, १९१; प्राब्रवन् लाश्रौ
 ८, ४, ६०; ऋ० ब्रवीत् आगृ ३,
 १०, १; गोश्रु १, ४, २८; ऋ० ब्र-
 यात् आश्रौ ८, १४, १; काश्रौ
 १२, ३, १९; आपश्रौ; प्रब्रूयाताम्
 वीश्रौ १७, ४ : १३०; प्रब्रूवीरन्
 निस् ६, ११ : २५०; ऋ० ब्रूयुः
 वीश्रौ १६, ४ : ११; वैश्रौ १८,
 १ : ५४; लाश्रौ ८, ३, १२; १३;
 पागृ.
 प्र-ब्रुवन् - वन् निस् ४, ८ : २१.
 ऋ० ब्रुवाण- णः आगृ ३, १०, ९;
 आपध १, २९; १०; हिध १, ७,
 ५७; या९, ४; १०, २२; प्र(ब्रुवाणः)
 साञ्च १, ५२४; २, ४६६.
 प्र०/भृ > प्र-भाग- णः काश्रौ
 ६, ७, ९.
 प्रभाग-पाद^b - ङः या २, ७.
 प्रभागपाद-सामान्य-
 न्यात् या २, ७.
 प्र०/भृज्, प्रभज्येत् मागृ २, १५, ९०.
 प्रभज्यन्ते^d अप ७१, १०, १;
 प्रभज्येत् अप ३७, २०, १०.
 प्र-भग्न- णम् निस् ६, १० : २१०.
 प्र-भञ्जन- णेन कौस् १३५, ९०.

प्र-भवी^e - न्यम् आपमं १, १०, १०.
 प्र०/भस्^f, ऋ०... भस्त् वीश्रौ ३, २:
 ३; ऋ० ५, १८.
 प्र०/भा, ऋ०... भाति^h आमिग्य ३,
 ६, १ : २०; वीपि १, ८ : १७;
 ऋ० (भाति)^h हिपि ७ : १०; भाशि
 १२१; प्रभाहि आपश्रौ ५, २, ४०.
 प्र-भा- -भया विध १, २८०; -भा
 विध २९, ४; -भानाम् अप ६४,
 ३, ६; -ऋ० भाम् अप २४, २, ३;
 ६९, ८, २; वृदे ६, १२६.
 ऋ० प्रभा(भा-ञ्)न्वित- -ताः अप
 ५२, ६, ३; -तानि अप ५२,
 ११, १.
 प्रभा-युत् -ताः विध १, २७०.
 ऋ० प्र-भात् - ते वैश्रौ १, १० : ७, २;
 १२ : ५; वैश्रु ४, ११ : १०; अप
 ३१, ६, १; वाध ४, २६; शंघ.
 प्रभातिक^k - के अप ६८, २,
 ५९०.
 प्र-भा(त् >)न्ती- न्याम् शाश्रौ
 २, ६, ३०.
 प्र-भाव- , ण्यत्- प्र०/भू द.
 प्र०/भाष्, प्रभाषन्ते अप ६४, १०, २.
 प्र-भाष्य वैश्रौ २०, ५ : २.
 प्र-भास्^k - सः अप ४३, ५, ८; ५२,
 ५, २; १०, १; -सम् शंघ ११६;
 ६३; -से विध ८५, २६.
 ऋ० प्र०/भिद्, प्र... भिन्दन्ति वीश्रौ
 १५, १ : ३; ऋ०... भिन्दत्
 वीश्रौ ६, २३ : ६.
 ऋ० प्र-भिन्दत् - न्दत् आश्रौ ८, १४,

४; वीश्रौ ६, ३० : २४.
 प्र-भिन्न- ञ्चम् आपश्रौ ५, १, ७;
 -ञ्चौ सु १४, १.
 प्र-भु- प्र०/भू द.
 प्र०/भुज् (कौटिल्ये) > प्र-भुज्य
 काठश्रौ १५६; माश्रौ १, २, ५,
 ११; वाश्रौ.
 प्र०/भूम, प्रभवते अप २, १, २;
 प्रभवति काश्रौ २५, ५, २१;
 आपश्रौ ९, १६, १२; भाश्रौ; पा
 ४, ३, ८३; ५, १, १०१; प्र...
 भवति वाधूश्रौ ४, ११८ : ४०;
 प्रभवतः वाध १५, २; प्रभवन्ति
 लाश्रौ १०, ६, १३; शंघ ३७३;
 आश्रु १, २३, २; हिध १, ६, १०;
 प्रभवत् आपश्रौ ९, १५, ९;
 हिश्रौ १०, ७, ३; १५, ४, २९.
 ऋ० प्रभूयासम्^m वीश्रौ ३, २० : ४;
 भाश्रौ ४, १९, ५; वाश्रौ १, १, ४,
 ९; प्र (भूयासम्) आपश्रौ ६, ६,
 ८०; ऋ० प्र... भूत् वीश्रौ १७,
 ५० : ११; २८, २ : ३४.
 प्रभावय काश्रौ १०, ६, २१;
 वीश्रौ ७, १८-१९ : १५५; वैश्रौ.
 प्र-भव- -वः आश्रौ ८, १३, ३१;
 पा १, ४, ३१०; -वम् वृदे १,
 ६१०; -वय वीश्रौ १६, ३५ : १.
 प्रभन्य^p - न्यम् लाश्रौ १०, १९,
 ९.
 प्र-भवत् - वत्सु सु ९, २.
 प्र-भविष्णु- - ष्यु विध २७, १९.
 प्र-भाव^q - वः आश्रौ ६, २०;

a) पाप्मे. वैप १, २१८५ d द्र. b) षस. पू. = कार्षापण-। c) तु. Knauer। बसं.
 प्रभजेत् इति ?। d) कर्मकर्तार रूपम्। e) = प्रफर्वा- (वैप १ द्र.)। इह < प्र०/भर्व इति विशेषः। f) पाप्मे.
 वैप १, २१८३ द्र. g) वैप १ द्र. h) पाप्मे. वैप १, २१८५० द्र. i) = प्रातः-काल-। j) विप.।
 तात्रभविकृष् ठन् प्र. उलं.। k) = वसु-विशेष-। ल्यु. ?। l) = तीर्थ-विशेष-। m) या २, ७, ३, १३ परामृष्टः द्र. #
 n) पाप्मे. वैप १, २१२२ p द्र.। o) = उत्पत्ति-स्थान-। अपादाने कृत्। p) विप.। तात्रभविकः यत् प्र. #
 q) प्रास. इति पाका. प्रमृ. [३, ३, २४]।

ऋञ्च २, ८, ६२; †प्रभरेस^१
आमिष्ट ३, ८, २:४३; बौषि १,
१५:५०; हिपि १५:१८.
†प्र-भृत- -तम्^१ आपश्रौ ९, १०,
१७; बौश्रौ १४, २५:४; भाश्रौ
९, १४, ९; वैश्रौ २०, २०:२;
हिश्रौ १५, ३, २७; -तस्य या
११, ४९.
प्र-भृति- -तयः निसू ९, ९:४७;
-ति^० बौश्रौ १९, ६:८-१०××;
माश्रौ; -तिः शांष्ट २, ७, २६^d;
-तिभिः भाश्रौ ११, २१, ४;
-तिम् छुसू १, ६१३; -तीः^०
आपश्रौ १५, २०, ४; बौश्रौ ९,
१९:२६; भाष्ट ३, ६:१०;
७:६.
प्रभृति- -तयः पावा १, ३, १०;
५, २, ९४; -तिः अश्र ८, १०;
१५, १४; -तिभ्यः पा २, ४,
७२; -तिषु अपं १:१३; -तीन्
अश्रभू ८; -तीनाम् पावा १,
४, ५२; ७, ४, ८२; -तीनि अप्रा
३, १, १४.
प्र-भृथ^१- -फि ७; -थस्य या ११,
४९^फ.
प्रभोजनाद्यरञ्जी सुध २३.
प्र√अंश, प्रप्र...अंशेरन्^६ काश्रौ २३,
१, १९; आपश्रौ २२, १३, १९;
वैश्रौ १७, ५:४; हिश्रौ १७, ५,
३८.
प्र-अंशुक- -काः हिश्रौ २१, २,
५३^फ.
प्र-अष्ट- -ष्टैः अप ७०^३, १४, २.

प्रअष्ट-ग्रह-नक्षत्र- -त्रैः अप
७०^३, १५, १.
प्र√आञ्ज > †प्र-आञ्- -आट् आपश्रौ
१६, ३०, १; वैश्रौ १८, २०:
४१; हिश्रौ ११, ८, ४.
†प्र-आजमान, ना^१- -नाः बौश्रौ
१९, १०:२४; -नाम् अप
४६, ६, ३; -नानाम् बौश्रौ १९,
१०:४१.
†प्रआजमानी- -नीनाम् बौश्रौ
१९, १०:४२; -न्यः बौश्रौ
१९, १०:२४.
प्रमहिष्ठीय^१- -यम् वाश्रौ १२, २५,
४; लाश्रौ ६, ११, ४; छुसू २, १५:
२३; निसू ७, १२:१९; -ये
निसू ३, १२:१.
प्रमहिष्ठीय-वत्- -वन्ति निसू ६,
४:१.
प्रमगन्द्^१- -न्दः, -†न्दस्य या ६,
३२^फ.
†प्र-मति^१- -तिः बौश्रौ १७, ४०:२;
द्राश्रौ ७, २, ७; लाश्रौ; -तिम्
आश्रौ १, ६, १; ३, ७, १३.
प्र-मत्य प्र√मत् द्र.
प्र√मथ्, न्थ्, प्रमथन्तु बौष्ट २, ७,
१९^फ.
प्रमथन्तु आमिष्ट २, ५, ३:
२६^फ.
प्रममाथ बौश्रौ १८, ४५:६;
प्रमथिष्टन अप्राय १, ४.
प्र-मथ्य वाध १, ३४.
प्रमथ्य-हरण- -गानि आञ्जो ४,
१२,

प्र-मथ्य- -थ्यः कप्र १, ७, ७.
प्र-मथ्य^१- -न्यः कप्र १, ७, ५; १३;
अप २२, ७, १; -न्यम् वैश्रौ
१, १:२७; १०, १०:६.
प्रमन्था(न्थ-अ)प्र- -ग्रम् कप्र १,
८, २.
प्र-मन्थन- -नम् बौश्रौ २७, ८:७.
प्र-माथम् बौश्रौ १८, २४:१६;
४५:५.
प्र-माथिन्- पा ३, २, १४५.
प्र√मद्, न्द्, प्रमाद्यते सु २२, १^२
प्रमाद्यति वाधुश्रौ ४, ३४:५;
प्रमाद्येत् बौश्रौ २४, २३:७;
वाधुश्रौ ४, ३४:४.
प्रममाद् आपश्रौ १, ९, ९^फ;
प्रमदः जैष्ट १, २:१७^फ.
प्रमन्दयते बौश्रौ १२, २०:२;
प्रमन्दयति बौश्रौ १८, १९:५;
प्र-मत्, त्ता- -त्तः आपश्रौ ३, १८,
८; १४, ८, ४; भाश्रौ; -त्तम्
अप २, ६, २; ३०^३, २, ७; -त्तस्य
या ३, २; -त्ताः बौश्रौ ९, १७:
१४; वैश्रौ ७, ११:९^फ; हिश्रौ
२, ६, ७^फ; -त्तानाम् आष्ट १,
६, ७; अप्राय २, ५^फ; -त्ताम्
वैष्ट ३, १:१०; बौध १, ११,
९.
प्रमत्त-रज्जु^३- -ज्जुम् कौसू ३८,
२६.
प्रमत्तो(त्त-उ)क्त- -क्ते गौध १३,
११.
प्र-मद्, दा^३- पा ३, ३, ६६; -दम्
वाधुश्रौ ४, ३४:९; -दान् अप

a) पाभे. वैप १, २१८७ k द्र.। b) पाभे. वैप २, ३खं. प्रभृतम् तैत्रा १, ४, ४, १० टि. द्र.। c) वा.
क्रिवि.। d) पाभे. पृ १६४६ l द्र.। e) = आद्य-यजुस्-। f) वैप १ द्र.। g) विशेषः वैप २, ३खं.
तैत्रा २, ७, १४, ३ टि. द्र.। h) विप., नाप. (ह्रस्व, ह्रस्वाणी)। i) वैप २, ३खं. द्र.। j) परस्परं पाभे.।
k) = मन्थन-दण्ड-। उप. करणे घञ् प्र.। l) उत्तरेण संधिरार्थः। m) = चाक्रिक-रज्जु- इति केशवः-
तु. भू [LII]। पू. अर्थः?। n) उप. भावे कर्तरि च प्र.।

५३, ३, १; -दे वाधुश्रौ ४, २४ :
४.

प्र-मदक- -कः या ६, ३२१.

प्र-मदन^१- -नम् कौसु ७८, ९^b; -ने
माय १, ९, २८^१.

प्र-मन्द^१-> प्र-मन्दो(न्द-उ)शीर-
शलह्यु(ली-उ)पधान-शकधूम^१-
-माः कौसु ८, १७.

प्र-माद्- -दः वृदे १, ५६; -दम्
आमिण् २, ६, ७ : ३९; -दात्
आमिण् २, ६, ५ : ४; ७, ६ :
१६; काण्ड; -दे वैण् २, १५ :
११; आपध २, २८, ८; हिद्य २,
६, ८; -देषु बौध ४, ३, १; ४, १.
प्रमाद्-तस् (:) अप ३७, ४,
१××; शंघ ३९५; बौध २, २,
६८.

प्रमाद्(द-अ)पह्वन- -वौ वृदे १,
३८.

प्रमादिक- -कम् कप्र ३, ८, १६.

†प्र√मन्, प्रमन्महे लुञ ४, ११;

प्र(मन्महे) ऋञ् २, १, ६२.

प्र-मत्य पावा ६, ४, ३७.

प्र-मर्दन- प्र√सृद् द्र.

प्र√मा (माने)^६, प्रमिमीत हिश्रौ ३,
३, १३†.

प्र-मा^१- -नमया आपश्रौ ४, ५, ४; ९,
१३, ६; भाश्रौ; -मा आपश्रौ १५,
८, २××; बौश्रौ; ऋपा १७, १९.

प्र-माण^१- -णम् आपश्रौ २४, १,
३०; बौश्रौ २, ३ : ७; बौश्रौप्र
५४ : ८; भाश्रौ; काश्रु १, १२^१;

२, १४^१; आश्रु ३, ७^१; हिश्रु १,
४६^१; -णात् काश्रु १, २३;
बौश्रु १ : १७; २८; मैञ् ३०;
-णानि बौश्रौ २७, ४ : २८;
भाश्रौ ७, २, ६; अप २३, ६,
४; ४६, १, ८; -णे बौश्रौ २०,
१६; १२; काश्रु १, २४; पा ३,
४, ५१^६; ४, १, २४××; पावा ५,
२, ३७; -णेन बौश्रौ २७, ४ :
३०; भाश्रौ; -णेषु काश्रौ १८,
१, ५××.

प्रमाण्य- -ण्यम् या १४, ६.

प्रमाण-तस् (:) कप्र ३, ८, १२;
अप २३, २, ३××.

प्रमाण-परिमाण- -णाभ्याम्
पावा ५, २, ३७.

प्रमाण-मा(त्र >)त्री^१- -त्रीम्
आपश्रु १, ११; हिश्रु १, २१.

प्रमाण-वर्जित- -ते वैण् ६, १ : ७.

प्रमाण-विभाग- -गः काश्रु २,
१६.

प्रमाणा(ण-अ)र्थ- -र्थम् लाश्रौ
६, १, ११.

प्रमाणा(ण-अ)र्द्ध- -र्द्धम् काश्रु
१, १४; -र्द्धे काश्रु १, १६.

प्रमाणित- -तम् अप ३ : ३.

प्र-माय शांश्रौ १७, १०, ४; बौश्रौ;
कौण् १, ४, १^१.

प्र-मित- -तम् काश्रौ २२, ८, १६.

प्र-मेय- -यम् काश्रु ७, १९; वेज्यो
२४.

प्र-मातामह^१- -हाय शंघ ११६ : ७३.

प्रमातामही- -ह्यै शंघ ११६ : ७४.

प्र-माथम्, १थिन्- प्र√मथ् द्र.

प्र-मापण- , १माप्य, १मायुक्- प्र√मि,
मी द्र.

प्र-मार- प्र√सृ, मृ द्र.

प्र-मार्जन- , १मार्ज्य प्र√सृ, मृ द्र.

प्र√मि (प्रक्षेपणे) > प्र-मित- -मितः
भाण् १, २७ : ११†.

प्र√मि, मी, प्रमीयते बौश्रौ १४, ६ :
११; १८××; वाधुश्रौ; प्रमी-
यन्ते बौश्रौ ३३, ४ : ७; आमिण्

२, ५, ९ : १२; जैण् २, ६ : ९;
वृदे ४, १२०; प्रमीयाते आपमं

१, ८, ५; प्रमीयेत आश्रौ ३, १०,
१०; १८; शांश्रौ; प्र...मीयेत

भाश्रौ ११, १८, ११; प्रमीयेत्
आपश्रौ २, ३, १७; बौश्रौ.

प्रा(<प्र) ...मिनोति^{१०} आपश्रौ
१४, २९, ३; हिश्रौ १५, ७, १६.

प्रमिनाति, प्रमिनन्ति अप्रा ३,
१, ७†; प्र(मिनन्ति) काश्रौ ८,
९, २†; †प्रमिनाम आश्रौ ३,
१३, १२; आपश्रौ १४, २८,
४××; बौश्रौ.

प्रमिनीत् अप्रा ३, १, ७†.

प्र(मिमय) शैशि १८४†.

†प्रमायि बौश्रौ ३, ६; १४; काण्ड
२८, ४; प्रमेष्महि आपश्रौ ६,
२१, १†.

प्रमापयत् या ५, ९; प्रमापयेत्
वाध २०, ४१.

प्र-मापण- -णे शंघ ४०९; विध

a) उप. भावादौ प्र. ।

b) = फलमोदकादि- इति केशवः ।

c) = कर्म-विशेष- (तु. पाभे.) ।

प्रमोदस्थान- इति भाष्यम् MW. च ।

d) सप्र. प्रमदने <> प्रवदने इति पाभे. ।

e) = श्रोत्रविशेष- ।

f) द्रस. । शलकी- = श्वावित्-शलाका-, उपधान- = उपधान-; शकधूम- = ब्राह्मण- इति दारिलः ।

g) या १०, २१ परामृष्टः द्र. ।

h) भाप., नाप. (छन्दो-विशेष-). ।

i) = प्रमाण-रज्जु- ।

j) = प्रक्रमादि- ।

k) = आयाम- ।

l) पूष. = आयाम- ।

m) सपा. शाण्ड १, ८, १४ मापयित्वा इति पाभे. ।

n) प्रास. ।

o) पाभे. वैष १, २१० ० द्र. ।

५०,४६.

प्र-माप्य शंघ ३८२; ४०९.

प्र-मायुक्- -कः आपश्रौ २, १४, २;
१२, १३, १०××; बौश्रौ; या ३,
५; -काः बौश्रौ १४, ९ : २;
३; आगृ २, ७, ११; -कान् गोण
४, ७, २१.

†प्र-मिये^७ आश्रौ ४, ११, ६; शाश्रौ
९, ३६, ३; १६, १, २१.

प्र-मीत- -तः आपश्रौ ९, ११, २२;
हिश्रौ १५, ३, ३७; हिपि २३ :
१८; -तम् आपश्रौ ९, ११, १७;
वैश्रौ; -तयोः बौपि २, ४, ७;
-तस्य आश्रौ ३, १०, १७;
आपश्रौ; -ताः हिपि २० : ८;
-तानाम् आमिण्य ३, ७, ४ : ५;
बौपि; -ते भाग्य ३, १ : ४; हिपि
२३ : १०.

प्रमीता(त-अ)हन्- -हनि कप्र
३, ५, ७.

प्र√मिह् > प्र-मेह^b > प्र-मेहिन्-
-ही शंघ ३७८.

प्र-मेहण^७ -णम् कौसू २५, १०.

प्रमीप- (> प्रमीपिन्-) प्रतीप-
टि. द्र.

प्र-मुख^d -खाः अप्राय ६, ७.

प्रमुख-तस् (:) वैगृ ५, १५ : २.

प्र√मुच्, ङ्च्, †प्रमुमोक्तु आपश्रौ ७,
१७, ५; बौश्रौ ४, ६ : ३९××;
भाश्रौ; †प्रमुमुगिध बौश्रौ ८,
१९ : १६^९; आपमं १, ४, १४;
आमिण्य १, ५, ४ : ९; अप्राय ४, १.
प्रमुञ्चति आश्रौ ९, ३, १२; काश्रौ;
†प्र...मुञ्चामि^f आश्रौ १, ११,

३××; शाश्रौ; †प्र...मुञ्चति
आपमं १, ४, ५; ५, ७; बौगृ १,
४, १८; प्र...मुञ्चातु आगृ १,
७, १३^३; कौगृ १, ११, ४^३; शाण्य
१, १८, ३^३; कागृ; †प्रमुञ्चतु
आश्रौ २, ७, ११; शाश्रौ;
प्र...मुञ्चन्तु आपमं १, ७, ९^६;
बौगृ १, ५, ५^६; ४, २, १२^६; अप
४२, २, ३; प्रमुञ्च >ञ्चा अप २०,
७, ८; तैप्रा ३, ८^३; प्र...मुञ्चतम्
ऋप्रा ५, ५९^३; प्रासुञ्चत् शाश्रौ
१४, ७, १.

प्रमुमुचतुः या ५, २१; प्रमोचिरे
वृदे ६, १५.

प्रमुच्यते सु ३१, ६; कप्र २, १०,
८; अग; प्रमुच्येते बौध ४, ६, ६;
प्रमुच्यन्ते वाध २५, ३; प्रमुच्येत
याशि १, ३२; प्रमुच्येय > या सु
११, ५.

प्रमोचयेत् कप्र २, ८, २२.

प्र-मुक्त- -क्तः आपध १, ९, १३;
हिध १, ५, ११७; -क्तयोः
वैताश्रौ ९, २१.

प्रमुक्त-त्व- -त्वात् कौसू १, ८.

प्र-मुक्ति^h - -क्तीः आपश्रौ २०, १२,
४.

प्र-मुच्य काश्रौ १६, ३, १४; काठश्रौ.

प्र-मुच्यमान- -नः वैताश्रौ १०,

१७; -नम् बौश्रौ ४, ६ : ३८;

वैताश्रौ १०, १६; -नान् बौश्रौ

११, ४ : २२; १५, २९ : १८;

-ने आपश्रौ ७, १५, ६; -नेषु

वाश्रौ १, ६, ५, ७.

प्रमुच्यमान-होम- -मान् वैताश्रौ

१०, १७.

†प्र-मुञ्चमान- -नाः¹ आपश्रौ ७,
१५, ६; बौश्रौ ४, ६ : २५;
माश्रौ १, ८, ३, ३.

प्र-मोचयत्- -यन् विध ५, १९५.

प्र-मोचि(न् >)नी- -नी शंघ ४५४.

प्र√मुद्, प्रमोदते अप १, ४९, ८.

प्र-मुदित- -तः †वाश्रौ ३, २, ७, ५५;
८, ३; सु १४, १; अप २४, ३, ३.

प्र-मोद^३ - -दः आमिण्य १, ५, १ : ९^३;
अप २०, ७, ८; ६८, ५, १३;

-दाय हिपि १२ : ३^३.

प्र-मोदिन्- -दिनाम् अप ३१,
१०, ५.

प्र√मुष्, †प्रमोषीः बौश्रौ १७, ४० :
९; वाश्रौ २, २, ५, ७; आपमं.

प्र√मू (गती), प्रमुमूत् अप १, ४१, ४;
‡प्रमोत¹ अशा ११, ४.

प्र√मृ, मृ, †प्रमृणीहि आमिण्य १, १,
२ : २४; ५, ३ : १७; कागृ.

†प्र-मार- -रेण अत्र ११, ८.

प्र-मृग- पाग २, १, १७.

प्र-मृचु^k - -चुः अप ५२, ९, ५.

प्र√मृज्, प्रमार्ष्टि काश्रौ १७, ३, १३;
आपश्रौ; प्रमृजीत पागृ २, ७,

१६; प्रमृज्यात् वाध ११, २२;

विध ६२, ७.

प्रमार्क्ष्यते पागृ २, ६, १७¹.

प्र-मार्जन- -नम् सुधप ८७ : १२.

प्र-मार्ज्य वैगृ ४, ४ : ७; ५, ३ : ८;
शंघ ४३९.

प्र-मृज्य काश्रौ ९, ४, ३८; आपश्रौ
२, ११, १; १५, १०, ६; माश्रौ.

प्र-मृष्ट- -ष्टम् काश्रौ ७, ५, १५.

a) वैप १ द्र.। b) =रोग-विशेष-। c) नाप. (मेहन-साधन-] ओषधि-)। d) प्रास.। e) पामे.
वैप १, २१९१ c द्र.। f) पामे. वैप १, २१९१ h द्र.। g) पामे. वैप १, १८९४ a द्र.। h) =आहुति-
विशेष-। i) पामे. वैप १, २१९१ o द्र.। j) पाठः प्रमुमूत् इति शोघः (द्र. अप. ; संस्कृतुः टि. प्रमुमोच इति
शोघः ?)। k) व्यप.। व्यु. ?। l) सपा. आपमं २, ७, १९ प्रवेक्ष्यति इति पामे.।

प्र/सृण् > प्र-सृ(ण) > णा-
 -णाभिः बौश्रौ २८, १ : १२१^०.
 प्र/सृद् > प्र-सृदन्- -न्ते अप ४०,
 २, ८.
 प्र-सृदित- -तेषु बौश्रौ २६, ३२ : १.
 प्र/सृश् > प्र-सृशत्- -शतः आपसं
 २, १३, १२; आमिगृ २, १, ३ :
 २०; भाग १, २३ : १३; हिगृ २,
 ३, ७.
 प्र/सृष्, प्रसृष्यते या ४, १४.
 प्र-सृषे^b माश्रौ ३, ८, १; अप्राय
 ६, २; या ४, १४^०.
 प्र-सृष्ट- प्र/सृज् द्र.
 प्र-सृषेय- प्र/मा द्र.
 प्र-सृहे-^a हण-,^c हिर- प्र/मिह् द्र.
 प्र-सृचयत्- प्रसृ. प्र/सृच् द्र.
 प्र-सृद्- प्रसृ. प्र/सृद् द्र.
 प्र/सृह्ले > प्र-सृह्य वैश्रौ १२, ७ : ४;
 १६, २२ : १.
 प्र-सृत्^b > प्र-सृक्ष-तम- प्र/सृम्
 आश्रौ ४, ७, ४; शाश्रौ ५, १०, ८.
 प्र/सृच्छ्, यम्, प्रसृच्छते सु १८,
 १; प्रसृच्छति आश्रौ १, १०, २;
 ५, १२, ६; शाश्रौ; पा, पावा ४,
 ४, ३०; प्र/सृच्छति बौश्रौ
 १०, ५ : १४; तैप्रा ७, १६;
 प्रसृच्छतः काश्रौ १४, ४, १५;
 बौश्रौ ६, ७ : १४; प्रसृच्छन्ति
 काश्रौ २६, ६, २४; बौश्रौ;
 प्र/सृच्छन्ति भाश्रौ ६, ४,
 ४^०; अप्रा १, १, १४; प्रसृच्छामि
 आश्रौ ३, १, १६; शाश्रौ ५, १५,
 ८; काश्रौ; आपश्रौ २२, २६, २^०.

बौश्रौ १८^d, ९ : ४; ११, १८; २५;
 हिश्रौ २३, ४, १८^d; कौसू^e ५६,
 २; ५७, ४; प्र/सृच्छामि
 कौश्रौ १, १६, ७^f; शांश्रु १, २४,
 ४^f; प्रसृच्छत् भाग १, १३ :
 ५१; प्र/सृच्छत् शाश्रौ ४, १८,
 २; शांश्रु २, १०, ४; वागृ;
 प्र(सृच्छत्) शुभ्र १, ५८३^f; प्र/सृच्छन्तु
 हिश्रौ ६, ६, १६^f; प्रसृ-
 च्छस्व अप ४, ३, २; प्र/सृच्छ बौश्रौ
 ६, ३१ : २०; जैगृ १, १२ : २१;
 बौसू १, २४××; प्र/सृच्छ हिश्रौ
 २, ८, ४२^f; प्रसृच्छतात् बौश्रौ
 १२, १२ : १६; प्र/सृच्छत् बौश्रौ
 ६, २१ : २३; २२ : ४××; विघ
 २०, ३३; ३४; प्र/सृच्छत् बौश्रौ
 ६, ३० : १; प्रायच्छत् शाश्रौ १४,
 ५०-५१, १; बौश्रौ १४, १६ :
 १०^f××; भाश्रौ; या १२, ८^f;
 प्रायच्छताम् वाधूश्रौ ४, १९ : ४४;
 प्रायच्छन् वाधूश्रौ ३, २१ : ६; अप
 १^२, १, १; या १२, १२; प्रसृच्छेत्
 आश्रौ २, ४, १६××; शाश्रौ.
 प्र/सृच्छति आगृ १, १५, ३; पागृ
 १, १८, ४; या ६, ७.
 प्र-सृच्छन्- -च्छन् काश्रौ ६, ४, ११;
 ७, ८, २०××; आपश्रौ.
 प्र-सृत्ता- -तः आमिगृ २, ४, ११ :
 ४; कप्र १, ८, ३; अप; -प्र/सृत्
 आश्रौ २, १४, ३१; शाश्रौ १,
 १७, १९; आपश्रौ ३, ११, २^०;
 भाश्रौ; -ता भाग ३, १२ : ९;
 -ताः वैश्रौ २०, २३ : ४; हिगि;

-तान् वैगृ ६७ : १२; -ताभिः
 हिगि १७ : १६^f; -ताम् बौश्रौ
 १३, ३२ : ८^f; -तैः अप ७०^२,
 ३, ५.
 प्रायत्य^d- -त्यम् वाध ३,
 ५६; बौध १, ५, ५८.
 प्रायत्य-ब्रह्मचर्यं-काल-
 चर्या^f- -र्या आपध १, ३१,
 १९^f; हिगि १, ८, ३८.
 प्रयत-पाणि^k- -णिः सु १९, ६;
 बौगृ २, २, १०^f.
 प्रयत-वस्त्र, स्त्रा^k- -स्त्रः भागृ २,
 ३२ : ३; हिगृ १, १४, २; १७,
 ६; -स्त्राम् आमिगृ २, १, १ :
 ७; २ : ८; भागृ १, २० : १०; हिगृ.
 प्रयता(त-अ)जलि^k- -लिः बौध
 २, १, ३४; ४, २, ११.
 प्रयता(त-अ)त्मन्^k- -त्मनाम्
 वाध २६, १४; -त्सा अप ६८,
 ३, ७.
 प्र-सृयति^b- -तिः काश्रौ १९, ५,
 १०; आपश्रौ १९, १०, २; वाश्रौ;
 -ती या ६, ९^०.
 प्र-सृन्त- -न्तः ऋप्रा १, १०२^f.
 प्र-सृमण^f- -णम् आमिगृ २, ६, २ :
 १४; आपध १, १५, १०; २२;
 बौध २, ५, ८; हिगि १, ४, ६९, ८१
 प्र/सृज्, प्रयजति वैश्रौ १६, १६ :
 ६; प्र/सृज् शाश्रौ १, ६, २;
 आपश्रौ ३, २०, ८; बौश्रौ.
 प्र/सृयक्षि आपश्रौ ३, २०,
 १०^m; बौश्रौ १३, ३५ : ४;
 भाश्रौ ३, १८, ११^m; प्र(यक्षि)

a) प्रसृ इति पाठः? यनि. शोधः (तु. खि ३, १०, ५)। b) वैप १ द्र.। c) पाभे. वैप १, २१९४ a द्र.। d) पाभे. वैप १, १८१२ e द्र.। e) पाभे. पृ १६७० e द्र.। f) पाभे. पृ १७०६ e द्र.। g) पाभे. वैप १, २१९८ o द्र.। h) भावे ष्यल् प्र.। i) द्रस. > मलो. कस.। j) ल्हे इति पाठः? यनि. शोधः। k) बस.। l) भाप. [शौच- (तु. बौध. भाष्यम्; वैतु. आपध. भाष्यम् = आचमन- [कृषे कृदिति]]। m) पाभे. वैप १, २१३६ o द्र.।

ऋञ् २, १०, ४१; †प्र(इयक्षसि)
 -आश्रौ ३, ८, १; शाश्रौ २, २३,
 ११; बौश्रौ.
 प्रयजन- पाग ८, १, २७, ६९.
 प्र-याज^१- -जः शाश्रौ १५, १, २६;
 आपश्रौ २२, २, ६; २४, ११, १६;
 बोश्रौ; -जम् शाश्रौ ५, १८, ४;
 वैश्रौ; -जाः आश्रौ २, १६, ९, ५;
 शाश्रौ; या ८, २२^१; -जात्
 बोश्रौ ३, १५ : २६; वाश्रौ १,
 ७, ५, १४; वैश्रौ ५, ४ : १;
 -जात् शाश्रौ १, ६, १६, ५;
 काश्रौ; या ८, २२^१; -जानाम्
 आपश्रौ ४, ७, ११, ५; बौश्रौ;
 -जाय भाश्रौ ७, १५, ११; -जे
 आश्रौ २, १९, ९; शाश्रौ; -जेऽजे
 आपश्रौ १९, २१, १०; बौश्रौ
 १३, २४ : ५; ६; माश्रौ; -जेन
 आपश्रौ ५, २८, ८; माश्रौ;
 -जेभ्यः आश्रौ १, १२, ३४;
 काश्रौ; -जेषु शाश्रौ २, ५,
 १०, ५; काश्रौ; -जैः आश्रौ १,
 ५, १; आपश्रौ.
 प्रायाजिक^२- -कस्य वाश्रौ ३,
 १, २, २९.
 प्रयाज-प्रतिषेध- -धे मीस् ९,
 ४, ५४.
 प्रयाज-प्रभृति- -ति आपश्रौ १३,
 २४, १०; माश्रौ ५, १, ३, २२.
 प्रयाज-प्रेष- -षाः काश्रौ १९, ६,
 १४; वाश्रौ ३, २, ८, ९; शुञ् ३,
 १०२; १०६.
 प्रयाज-याज्या- -ज्याः शाश्रौ
 १, ७, ६; ५, १६, ५.

प्रयाज-वत् काश्रौ ५, ९, २२;
 आपश्रौ १०, २१, १०; मीस्.
 प्रयाज-शेष- -षेण वैश्रौ ६, ७ :
 ६; १०, १६ : ६; हिश्रौ २, २,
 ३२; ४, ४, ३५.
 प्रयाजा(ज-आ)दि- -दिः शाश्रौ
 ८, ११, १०.
 प्रयाजादि-वपान्त- -न्ते
 वैश्रौ १४, १७ : १२.
 प्रयाजाद्य (दि-अ) नुयाजा
 (न्त>)न्ता- -न्ता आश्रौ ६,
 १३, ४.
 प्रयाजा(ज-अ)नुमन्त्रण- -णम्
 काश्रौ ३, ३, २.
 प्रयाजा(ज-अ)नुयाज- -जाः
 वृदे ८, १०३; या ८, २१; -जान्
 आश्रौ २, ८, ५; शाश्रौ; -जानाम्
 चाञ् ४१ : २१; -जेषु माश्रौ
 १, ६, ५, ९; २, ५, ५, २५; वाश्रौ
 १, १, ५, १४; -जौ आश्रौ २,
 १९, १२; पा ७, ३, ६२.
 प्रयाजानुयाज-प्रेष- -षाः
 काश्रौ १९, ६, १०.
 प्रयाजानुयाज-विवृद्धि- -द्धौ
 माश्रौ १, ४, १, २८.
 प्रयाजा(ज-अ)नूयाज- -जाः
 आपश्रौ ८, ६, १८; २०, ६; बौश्रौ;
 -जानाम् बौश्रौ २७, २ : ११;
 -जेषु भाश्रौ ३, १५, ४; वैश्रौ;
 -जौ भाश्रौ ८, १२, ६.
 प्रयाजा(ज-अ)भाव- -वात् काण्
 १३, १०.
 †प्र-यज्यु^३- -ज्यवः आश्रौ ७, ७, ८;
 शाश्रौ १०, ८, १५; १८, २३, ३;

ऋञ् २, ५, ५५.
 प्र/यत्, प्रयतेत् लाश्रौ ८, ८, १;
 प्रयतेरन् आश्रौ ४, १२, ३.
 प्र-यतन्- -न्म् आशि ७, ५.
 प्र-यत्- -त्तः कौशि २९; आशि
 १, ३, ५; -त्तम् ऋषा १४, ३५;
 -त्तात् आमिण् २, ७, ६ : १;
 विध ८१, १०, ५; -त्तेन बौश्रौ
 २७, ११ : १४; वैग् ५, १५ : १९;
 कप्र.
 प्रयत्-तस् (ः) आमिण् २, ६, ७ :
 १३; ७, ६ : १५; कप्र.
 प्रयत्-निष्पत्ति- -न्तेः मीस् १,
 ३, २५.
 प्रयत्-प्रेरित- -न्तः आशि ८, १.
 प्रयत्-विशेष- -षात् तैप्रा १७, ७.
 प्रयत्-सामान्य- -न्यात् पावा १,
 १, ९.
 प्रयत्ता(ज-अ)नुप्रदान-तस् (ः)
 पाशि १०.
 प्रयत्तो(ज-अ)त्सर्ग- -र्गे वाच
 २३, ४.
 प्र-यत्- प्रे(प्र/इ) द्र.
 प्र-यत्- प्रथ्. प्र/यच्छ् द्र.
 †प्रयताभिरक्ता^४ हिपि १७ : १६^१.
 प्र/यस् > प्र-यप्स्यत्- -प्स्यन् आश्रौ
 २, १०, १४.
 प्र/यस्, प्र-यमण- प्र/यच्छ् द्र.
 प्र/यस् > प्र-यस्व(त् >)न्ती-
 -न्ती अञ् १२, ५(४)१.
 †प्र-यास- -साय^५ बौश्रौ १५, २ :
 १५; ३५ : ५, ५; आमिण्.
 †प्रयस्^६- -यः आपश्रौ १६, ६, ७;
 वाश्रौ २, १, ५, २०; हिश्रौ ११,

a) वैप १ द्र.। b) तस्येदमीयष् ठक् प्र.। c) भाप., नाप.। d) पाठः (तु. तैत्रा ६, ५, १ प्र...क्ता) ? प्रयता(त-अ)भिरकृ- > -क्ता (विप. [यम-], षस.) इति शोधः (वैतु. भा [तैत्रा.] प्रयताभिः, अकृ- [अक्तात् प्रति] गन्तु-) > -क्ता इति, सा. अक्ता- > -क्ता (विप. [यमी]) इति तत्र विश्लेषः। e) पाभे. वैप १, २१९ अ ३ द्र.। f) वैप १, २१९ उ b द्र.।
 वैप-प्र-३४

१,७३; -यांसि आश्रौ ७,८,१.
 प्रयस्-वत्- वन्तः ऋअ २, ५,
 २०; -वान् आश्रौ ३, १२, १५×;
 शाश्रौ ५, १०, १८; या २, १३.
 प्र√या, प्रयाति आपश्रौ १, १, ९;
 १०, १९, ६××; बौश्रौ; प्र(याति)
 ऋअ २, १०, ८; वृदे ६, १४०^१;
 साअ १, ७१; प्रयान्ति आपश्रौ
 ७, २८, ४; बौश्रौ १७, ४० : ११;
 वैश्रौ; ऋ^२यांसि आश्रौ २,
 २०, ४××; शाश्रौ; लाश्रौ ५,
 २, १०^२; प्र(यांसि) श्रुअ ३,
 ८४^१; प्रयात् विध ६३, ३३;
 प्रयातु आश्रौ ८, ११, ४; शाश्रौ
 २, ५, ३; प्रयाहि आश्रौ ६, ११,
 ९^१; ऋ^२याहि आपश्रौ १६,
 १२, ६; बौश्रौ; ऋ^२(याहि) काश्रौ
 १६, ६, १८; वाश्रौ; प्रयायात्
 आपश्रौ ५, ३, २३; ७, ९××;
 बौश्रौ; ऋ^२प्रयायाः द्राश्रौ १०,
 २, १३; लाश्रौ ३, १०, १४;
 प्रयायाम् बौश्रौ १८, ४८ : १३.
 प्रययौ विध १, ३३; प्रययुः
 बौश्रौ १८, २६ : १०; आमिगृ
 ३, ८, १ : २३; २३; बौपि १,
 १४ : २०; २१; १५ : १; प्रया-
 स्यति हिश्रौ १३, ६, ४; ऋ^२प्र-
 (अयासीत्) श्रुस् ३, १० : ३६;
 ऋअ २, ९, १०; साअ १, ५३६;
 ऋ^२प्रो(प्र-उ [अयासीत्]) जैश्रौका
 ४०; साअ १, ५५७.
 प्रयापयति वाश्रौ २, १, ३, २९.
 प्रयियासेत् भाग ३, ३ : १२.

प्र-याण^b- -गः आपश्रौ १०, १९, ८;
 -ऋणस् आपश्रौ २१, ३, ९^०; या
 १२, १३; श्रुप्रा ६, ८; तैप्रा ७, ६;
 १२, ४; -णस्य बौश्रौ ६, ९ : १;
 १०, १७ : १; -णे आपश्रौ २४,
 १, ४१; बौश्रौ.
 प्रयाण-काल- -ले वैगृ ५, १ : ९;
 १६.
 प्रयाण-यजुस्- -जुः बौश्रौ २१,
 १० : १०; २२, ८ : २६.
 प्रयाणो(रा-उ)पपत्ति- -त्तौ
 आश्रौ ३, १०, ३.
 प्र-यात्- -याति हिश्रौ ३, २, ५९;
 -यान्तः हिश्रौ ९, ५, १६;
 -यान्तस् बौश्रौ ४, १ : २२;
 वैश्रौ १२, १४ : १०^d.
 प्र-यात्- -तः अप १, ३१, ६; ६७,
 ६, ३; -तम् हिश्रौ ७, १, ६५^d;
 हिपि १८ : २५; -तस्य सु १,
 ४; आज्यो ३, १; -ताः अप
 ७०^३, ९, ४; -ते बौश्रौ १४,
 १९ : २०; -तेषु वृदे ५, ७२.
 प्र-याप्य वागृ १५, ४.
 प्र-याय माश्रौ १, ६, ३, ४; द्रागृ ३,
 १, २९.
 प्र-यायिन्- पाउभो २, १, २९०;
 -यो अप ५१, ४, २.
 प्र-यास्यत्- -स्यन् आपश्रौ ६, २८,
 १; ५××; बौश्रौ.
 प्र-यै पा ३, ४, १०.
 प्रयाग^e- -गम् शंघ ११६ : १३; -गे
 शंघ १९४; विध ८५, २८.
 प्र-याज- प्रयु. प्र√यज् द्र.

प्र√यु, प्रयौति आपश्रौ २, ८, ५; ७,
 २५, ४; ५; बौश्रौ ४, ९ : १७^f;
 माश्रौ ७, १४, १२; १९, १३;
 २०, १^१; वाश्रौ; या ४, १९;
 प्रयौयात्^g बौश्रौ २५, ३२ :
 १२; २२; २८.
 ऋ^२प्र^२युयोतन^h आपमं २, ३,
 १; हिगृ १, ५, १; जैगृ १, १२ :
 २६.
 ऋ^२प्र-युत्- -युतः आपश्रौ १२, ३,
 २; हिश्रौ ८, १, ४१; जैश्रौ ९०, ८.
 प्र-युत्, ता- पाग ६, २, १४७^१;
 -ऋ^२तम्^१ काश्रौ ६, ८, ११; श्रुअ १,
 ४०४; -ऋ^२ता^१ आपश्रौ ७, २०,
 ४; माश्रौ; -ताः वैताश्रौ ३८,
 ५^१; -तान् माश्रौ २, ३, ७, ८.
 प्र-युत्^k- पाग २, ४, ३१^१; -तम्
 लुस् २, ९ : १७; अप ४८, ६६^१;
 या ३, १०; -तात् वाश्रौ ३, ४,
 २, १०; -तानि वाश्रौ १४, ८२,
 २; बौश्रौप्र ५४ : १०; -ताय
 वाश्रौ ३, ४, २, ११^१; -ते शाश्रौ
 १५, ११, ४; आपश्रौ १६, ३१,
 १^१; बौश्रौ.
 ऋ^२प्र-युत्ति- -न्ती^m आश्रौ ३, १३, १८;
 माश्रौ २, ५, ४, ९; वैताश्रौ २३,
 १२.
 प्र-युत्य वाश्रौ २, २, ४, ९.
 प्र-युन्वत्- -न्वद्भ्यः, -न्वन्तः
 हिगृ २, ९, ३^१.
 प्र-युव(त् >)ती- -ती या ९, २६;
 -तीम् या १०, २९.
 प्र-यूय बौपि १, ३ : १५; २२; ३०.

a) पाभे. वैप १, २१९७ f द्र. । b) भाप., नाप. (मन्त्र-) । c) सपा. हिश्रौ १६, १, ३३
 प्रायणस् इति पाभे. । d) सपा. प्रयान्तम् <> प्रयातम् इति पाभे. । e) = तीर्थ-विशेष-। व्यु. ? । बस. इति
 शक. । f) सपा. प्रयौति <> प्रयौयात् इति पाभे. । g) = प्रयुयात् । h) पाभे. वैप २, ३खं. प्र^२युयोतन
 संब्रा १, ६, १४ टि. द्र. । i) प्र-युक्- इति पाका. । j) पाभे. वैप १, २१९८ l द्र. । k) वैप १ द्र. । l) दु-
 आपम. । m) पाभे. वैप १, २१९८ o द्र. । n) पाभे. पृ १७१३ l द्र. ।

प्रयुच्छ्, प्रयुच्छसि आश्रौ ७, ४,
४; आपश्रौ ६, १८, १××; बौश्रौ.
प्रयुञ्, प्रयुञ्क्ते आश्रौ २, ३, ३;
बौश्रौ १३, १०:३१; वाधुश्रौ; या
७, १; प्रयुनक्ति आपश्रौ १, ७, ५;
११, ४××; काठश्रौ; हिश्रौ १३,
१, १३३^१; प्रयुञ्क्तः भाश्रौ ८,
५, ५; वैश्रौ ८, १०:२; हिश्रौ ५,
२, २०; प्रयुञ्जते वाधुश्रौ ३, ८३:
१; कौश्रु; प्रयुनक्त बौश्रौ २,
९: १३१; प्रयुञ्जीत काश्रौ २२,
११, ३१; आपश्रौ १४, १४, १२;
बौश्रौ; प्रयुञ्ज्यात् जैश्रु २, ८:
१६; कप्र ३, ६, ५; अश्रु; प्रयुञ्ज्युः
अप ३०, २, २; प्रयुञ्जीमहि
बौश्रौ २, ८, १११.
प्रयुञ्ज (युञ्ज) ऋश्रु २, १०, ३३;
बुदे ७, ३४.
प्रयुञ्जते आपश्रौ ९, १७, ५;
हिश्रौ १५, ७, २५; लाश्रौ;
प्रयुञ्जते निस् २, ५: ३४;
प्रयुञ्जन्ते शाश्रौ १५, ११, ५;
आपश्रौ; प्रयुञ्जन्ते तैश्रु ७,
६६; माशि १०८; प्रयुञ्ज्यताम्
आश्रौ १, १, ४; १४, ३; बौश्रौ;
प्रयुञ्जेत निस् १, ११: ३; मैश्रु
५; प्रयुञ्जेरन् आपश्रौ १४, १५,
३; हिश्रौ १०, ७, २५××; निस्.
प्रयोजयेत् आपश्रौ ७, १२, ३;
बौश्रौ २, २: १७; अप.
प्रयुक्त, क्त- पा ६, २, १४७^०; -क्तः
बुदे २, ६९; आशि १, २; -क्तम्
हिश्रौ २१, २, ४५; निस् २, ५: २०;
अप्राय; -क्ता अप ३२, १, १२;
४१, २, १३; -क्ता अप ३७, १,

६१; -क्तानाम् आपश्रौ ९, १३,
१३; २०, १०, ८; माश्रौ; -क्तानि
निस् १०, ३: ३८; अप १, २२,
३; शंघ ४१७^१; या १२, ३०;
आज्यो ४, १३; मीस् १, ३, ७;
-क्त्याम् अप ७०, १, ९; -क्त
वाश्रौ ३, २, १, २७; वैश्रौ १४,
५: ६; -क्तैः अप ७, १, १.
प्रयुक्त-तम- -मानि निस् १०,
३: २२.
प्रयुक्त-त्व- -त्वात् मीस् ३, ७,
३९; ६, ६, ३१××.
प्रयुक्त-पूर्व- -र्वे आपश्रौ ११, ६,
३; हिश्रौ ७, ५, १.
प्रयुक्त-प्रतिषेध- -धः निस् ५,
३: ४.
प्रयुञ्^० -युक् वाधुश्रौ ४, २९:
४; -युजः वाश्रौ ३, ३, ४, ३५;
-प्रयुजम्^१ बौश्रौ १०, १३:
१-३; माश्रौ ६, १, ३, २०; माश्रु
१, ६, २; २३, ६; -प्रयुजे^१ आपश्रौ
१०, ८, ५××; बौश्रौ.
प्रयुज^२ -जेषु बौश्रौ २४,
११: ५.
प्रयुग-हविस्- -वीषि काश्रौ
१५, ९, ७.
प्रयुजां-हविस्- -विभिः आपश्रौ
१८, २२, ५; २२, २५, १३; बौश्रौ
१२, १९: १५; १९; १८, ५:
१७; १८; ६: १९; २०; हिश्रौ
१३, ७, २३; २३, ४, ८.
प्रयुजत्- -जन् वाश्रौ १, ३, ७, २०.
प्रयुज्य शाश्रौ १५, १२, ८; आपश्रौ
१, १५, ७××; काश्रौसं.
प्रयुज्यमान- -नाः हिश्रौ १, १,

१३; -ने पा ८, २, १०१.
प्रयुञ्जत्- -ञ्जन् गौषि २, ४, ७, ८.
प्रयुञ्जती- -ती ऋश्रु २, ५,
४७१,
प्रयुञ्जान- -नः आश्रौ २, १२, ६;
बौश्रौ २८, २: ५८; लाश्रौ;
-नस्य शाश्रौ ३, ८, ५.
प्रयोक्तव्य, व्या- -व्यः अप ३१,
४, ४; माशि १३, १०; याशि;
-व्यम् नाशि १, १, २; -व्या
अप ७०^२, ६, ५; कौशि ६४;
६६; -व्याः बौश्रौ २६, ५:
१; २७, ६: २४; अप; -व्ये बुदे
३, ३१.
प्रयोक्त- -क्तरि मीस् ३, ७, १८;
-क्ता अप ३१, ७, ४ -क्तुः ऋश्रु
१३, १३; पावा ३, २, १११.
प्रयोक्ष्यमाण- -णः आश्रौ २, १५,
१; -णानाम् आपश्रौ २०, १०,
८; हिश्रौ १४, ३, ५.
प्रयोग^३ -पाग ५, १, ६४; ७, ३,
२०; -गः आश्रौ २, १४, ३;
शाश्रौ; या ७, ३१; -गम् आपश्रौ
२०, १०, ८; अप ३३, ४, १;
मीस् ११, १, ६४; -गस्य
जैश्रौका २१५; अप ४७, २, ८;
गौध; -गागाम् निस् २, ८:
७; -गात् वैश्रौ १३, ६: १३;
अप ३६, २, ६; आपध; -गान्
माशि ४, ९; १५, २; पाशि २७;
नाशि २, ८, १२; १७; -गाय मीस्
६, २, ७; -गे वाश्रौ १, १, १, १;
हिश्रौ; -गेण बौश्रौ २७, ४: २७;
-गेषु माशि ६, ४, ८.
प्रायोगिक- पा ५, १, ६४;

a) पा १, ३, ६४ परासृष्टः द्र. । b) पाभे. पृ ५६९ ० द्र. । c) पृ १७२२ i द्र. । d) पशुं इति
पाठः ? यानि. शोधः (तु. मदनपारिजातः [७३४]) । e) वैप १ द्र. । f) पाभे. वैप १, २१९९ i द्र. ।
g) = (प्रयुग्हविःसंबन्धिन-) यज्ञ-विशेषः । h) भाप. ।

७,३,२०.
 प्रयोग- नो पावा २,३,१;६६.
 प्रयोग-ग्रहण- गम् पावा ८,२,
 ८५.
 प्रयोग-चोदना- ना मीस् ११,
 २,३६.
 प्रयोगचोदना(ना-अ)भाव-
 न्वात् मीस् १,३,३०.
 प्रयोग-तस् (:) वृदे १,५९; मीस्
 ११,३,२१.
 प्रयोग-दीपिका- -काम् जैश्रौका
 ५.
 प्रयोग-नियमा(म-अ)र्थ- -र्थम्
 पावा १,४,८०; ३,१,२.
 प्रयोग-निर्देश- -शात् मीस् ११,
 ३,२३.
 प्रयोग-पृथक्त्व- -क्त्वे हिश्रौ १,
 १,७०.
 प्रयोग-भूत-त्व- -त्वात् मीस् २,
 २,१६.
 प्रयोग-रूप-सामर्थ्य- -थ्यात्
 मीस् ५,१,१६.
 प्रयोग-वचना(न-अ)भाव-
 न्वात् मीस् ५,३,२७.
 प्रयोग-वचनै(न-ए)कत्व- न्वात्
 मीस् ६,३,४; ११,१,३५××.
 प्रयोग-विद्- -वित् वृदे १,
 १२; माशि ४,१४.
 प्रयोग-शास्त्र- -स्त्रम् मीस् १,३,
 ११.
 प्रयोग-संनिकर्ष- -र्षः मीस् १,
 १,२६.
 प्रयोग-समवायित्व- -त्वात् मीस्
 ६,८,३९.
 प्रयोग-साधारण्य- -ण्यात् मीस्
 ११,३,२६.

प्रयोग-सामर्थ्य- -थ्यात् मीस्
 २,१,२९.
 प्रयोग-सौष्ठव- -त्वात् माशि
 १५,४.
 प्रयोग(ग-अ)न्तर- -रे मीस् ६,
 ५,५२.
 प्रयोग(ग-अ)न्यत्व- -त्वात्
 पापावा ३.
 प्रयोग(ग-अ)र्थ- -र्थे ऋप्रा १३,
 ४९; पाशि ३०; माशि.
 प्रयोगिन्-> गि-त्व- -त्वात्
 काश्रौ १,५,७.
 प्रयोगै(ग-ए)कत्व- -त्वे मीस् ४,
 २,३१.
 प्रयोगो(ग-उ)त्पत्त्य(त्ति-अ)
 शास्त्रत्व- -त्वात् मीस् १,३,२४.
 २-योग^० -गः ऋअ २, ८,
 १०२; साअ १, १९; २१; चाअ
 १६ : ११.
 प्र-योजक- -कः पावा ३,१,२६.
 प्रयोजक-त्व- -त्वात् मीस् ११,
 ३,३८.
 प्र-योजन- -नम् हिश्रौ ८,१,४०;
 बौध ३,१,१४; अत्रा; पा ५,१,
 १०९; -नात् भाश्रौ ६, १६,
 ६××; -ने आपध २, २६, ३;
 हिध २, ५, १९८; -नेव पावा
 ५,१,१२; मीस् ४,३,२९;३४.
 प्रयोजन-योद्ध- -द्घृभ्यः पा
 ४,२,५६.
 प्रयोजन-वत्- -वत् मीस् १०,
 ४,३६.
 प्रयोजना(न-अ)न्यत्व- -त्वम्
 मीस् २,३,२४.
 प्रयोजना(न-अ)भिसंबन्ध-
 न्घात् मीस् ११,१,१.

प्रयोजना(न-अ)र्थ- -र्थम् मीस्
 २,३,२.
 प्रयोजनै(न-ए)कत्व- -त्वात्
 मीस् ३,६,३८; ११,४,७;४५.
 प्र-योजयत्- -यन् विध ६७, ३७.
 प्र-योजयित्- -ता आपध २, २९,
 १; हिध २,६,१४.
 प्र-योज्य,ज्या- पा ७,३,६८; -ज्यः
 कप्र ३, ४, ७; अत्र ३३, ३, १;
 अत्रां २३, १; गौध २, ४३;
 -ज्यम् काण्ड ४४ : १०; माशि
 ४, ६; आज्यो ५, ८; -ज्याः
 कौशि ५९.
 प्र√युञ्, प्रयोधयेत् आगृ ३,१२,१६.
 प्र-यै प्र√या द्र.
 प्र-योक्तव्य- प्रभृ. प्र√युञ् द्र.
 †प्रयोज्यामः^० दंवि १,३.
 प्र-रथ- पाग २,१,१७.
 प्र√रद्, प्र...अरदत् ऋप्रा २,४६†.
 प्र√रम्, प्ररमयति या २,१८.
 प्र√राघ् > प्र-राध्य- -ध्यम् आश्रौ
 ९,९,१२†.
 †प्र√रिच्, प्ररिखि बौश्रौ १३,२८:
 १८; १९; प्र...रिखि ऋप्रा २,
 ३८; प्र (रिखि) साअ १,३१२;
 प्र (रिखि) आश्रौ ३,७, १३;
 शाश्रौ १, ८, ११; ६, १०, ९;
 माश्रौ ५,२,८,३१; प्रारिचित् या
 ३,६६.
 प्र-रेक^० -कः आपश्रौ १८, १३,
 २२; -कम् आपश्रौ १८, १६,
 १३; बौश्रौ १०, ५४ : ११××.
 वैश्रौ १९, ६ : १२०; -काः
 बौश्रौ १२, ८ : २४; -के बौश्रौ
 १८, १८ : १०; -कैः वैश्रौ १९,
 ६ : १२४.

a) उप. <√विद् [ज्ञाने] । b) व्यप. (ऋषि-)। वैप १ द्र. । c) पाठः? प्रयोज्याः, तद् इति
 द्विभेदः शोधः निरुद्धः । सत्य. !दन्त्या:>दन्त्यात् इत्यपरः शोधः (दु. संस्कृतः दि.) । d) संपात-

प्र√रुच्, प्ररोचयति माश्रौ १,७,३,
२३××; वाश्रौ १,६,१,२९.

प्र√रुज् > प्र-रुज्य बौश्रौ १,१८:२.

प्र√रुद्, प्ररोदिति अप ७०^३, ११,
३०.

प्र-रुद(त् >)न्ती- -न्त्याम् शांठ
१,१५,२.

प्र√रुघ् > प्र-रोघन^१- -नम् माशि
४७^१.

प्र√रुह्, प्ररोहति काघ २७६: ६;
२८०: ६;७; प्ररोहन्ते अप १०,
१,२१; प्ररोहसि शांठ ६,६,९^b;
प्ररोहन्तु पाठ ३, १५, २०;
प्ररोहेत् अप ७०, १०, ३; प्ररोहेयुः
अप ६७, २, २.

प्र-रुह- > ऋ-कक्ष^० - -ञे आपश्रौ
८,५,२.

प्र-रोप्य बौश्रौ २१, २४: १९.

प्र-रोह^d- पाग ४, ४, ६२^०; -हः,
-हम्, -हाय वैताश्रौ २६, ११.

प्रारोह- पा ४, ४, ६२.

प्र-रोहण- (> णीय- पा.) पाग
५, १, ११.

†प्र-रोह(त् >)न्ती^b- -न्ती आपश्रौ
१६, २४, १; बौश्रौ: वैश्रौ १८,
१७: ३१^१; हिश्रौ.

प्र-रेक- प्र√रिच् द्र.

प्र√रेज्, प्र (रेजेत्) माश्रौ ५, १, ६,
४३^१.

प्र√रुल्, प्रलपन्ति अप ७०^३, ७, १८.

प्र-रुाप- -प: वृदे १, ३७; ५५.

प्र-रुापिन्- पा ३, २, १४५; -पिनः
अप ६८, १, ३८^२.

प्र√रुम्ब् > प्र-रुम्ब^१- -न्व: अप

५३, ३, १.

प्रलम्ब-ज(ङ्घा >)ङ्घा^१-

-ङ्घा: बौश्रौप्र २५: २.

प्र√रुम्,म् > प्र-रुम्भन- -ने पा
१, ३, ६९.

प्रलम्भन-शालीनीकरण- -णयोः
पावा ६, १, ४८.

प्रललाट^१- -रे बौश्रौ १०, ३०: ११;
वैश्रौ १८, १७: १५.

प्र√रुलिख्, प्रलिखते बौग १, ७, २८;
प्रलिखति पाठ २, १४, १५;
†प्रलिखताम्, प्रलिखन्ताम् कौग
४, २, ३; शांठ ४, १५, ७;

प्रलिखस्व पाठ २, १४, १६^१.

प्र-लिख्य कौसू ७६, ५.

प्र√रुलिप्, म्प्, प्रलिम्पते काश्रौ
१५, ६, ८; प्रलिम्पति माश्रौ ६,
१, २, २६; कौसू २६, २९××;

प्रलिम्पन्ति बौश्रौ १५, ३०:
१२; वाधूश्रौ ३, ८१: ५; हिश्रौ
१४, ४, १८; प्रलिम्पताम्,
प्रलिम्पन्ताम् शांठ ४, १५, ८^१.

प्र-लिख्य शांश्रौ ४, १५, २२; आपश्रौ.

प्र-ले(पक >)पिका- (> प्रालेपि-
का- पा.) पाग ४, ४, ४८.

प्रलेप्स्यमान- -न: भाग २, २०: ३.

प्रलिश^k- -श: सु २३, ३.

प्र√रुलिह्, प्रलेहयेत् बौश्रौ २३, १:
४४; ४५.

प्रलेहन- -नात् गोठ ३, ६, ३; द्राग
३, १, ४५.

प्र√रुली, प्रलीयते अप ६८, २, २५;
६९, ६, ४; ७०^३, ९, ३; प्रलीयन्ते
अप ६८, २, ३४.

प्र-लय- -यम् अप ७१, १९, ४; वृदे
१, ६१.

प्रालेय- पा ७, ३, २.

प्रलया(य-अ)न्त^१- -न्तम् वैघ
१, ११, ४.

प्र√रुलुप्, प्रलुप्येत् याशि १, ७९.

प्र√रुलुम्, प्रलुलुभे शांठ ३, १३, ५^१†;
†प्रलुलोभ^m बौश्रौ २, १०: ६;

आपमं २, १९, १××; कौग ३,
१५, ५; आमिठ ३, १, १: २०;
बौग २, ११, २८; हिग २, १०, ७.

प्रवक- √पु द.

प्र-वकल^m- -लानि बौश्रौ १५, १४: १.

प्र-वक्त्- प्रच्. प्र√वच् द.

प्र√वच्^०, †प्र (विवक्षिम्) शांश्रौ १०,
५, २४; ऋअ २, ७, ६; वृदे ५,
१६१.

प्रोवाच आश्रौ १२, ९, १८;

शांश्रौ १४, १२, २××; वाधूश्रौ

या १०, ३२; १४, १; प्रोचुं

शांश्रौ १४, ४०, १; बौश्रौ†

प्र...वक्षे या ५, ८^१†; प्रवक्ष्ये

हिपि १७: १; प्रवक्ष्यामि आमिठ

२, ५, १: ५; ७, ७: १;

जैग; प्रवक्ष्याम: वाधूश्रौ ४, ११:

१३; अशां २०, १; या ९, ३^१.

†प्र (वोचाति) ऋअ २, १०, ७५;

वृदे ७, ११५; †प्र...वोच > चा

वृदे ५, ११९; ऋप्रा ८, २९; प्र

(वोच > चा) ऋअ २, ६, ५९^१†;

प्र...वोचेयम् या १०, ४२^१†; †

प्र (वोचेयम्) वृदे ४, ४; †प्रा-

वोच: भाश्रौ १०, २, २^१; वैश्रौ

१२, १: ११; भाग २, २५:

a) वैप १ द्र.। b) पाभे. वैप १, २२०१ b द्र.। c) बस. उप. = गुल्म-। d) भावे कर्तृरि च कृत्। e) पुरोह- इति पाका.। f) ण्ति इति पाठः? यनि. शोधः। g) उप. कर्तृरि प्र.। h) = ऋषि-विशेष-। बस.। i) प्रास.। j) सपा. कौग ४, २, ३ अनुलि इति पाभे.। k) व्यप.। व्यु. ?। l) बस. वा. क्रिवि.। m) परस्परं पाभे.। n) बस. उप. = वल्कल-। o) पावा ७, ३, ६६ परागृष्टः द्र.।

१२३, १३; †प्रवोचः बौश्रौ ९,
१६: २८; १४, २०: ४; प्र...
वोचः या ८, २०†; प्रवोचत
ऋषा ८, ३†; †प्र (वोचत)
आश्रौ ६, ४, १०; शाश्रौ; †प्रावो-
चम्^१ माश्रौ १, ४, ३, १७; वाश्रौ
१, १, ४, ३३; ३४; †प्र...भवोचम्
अप्राय ६, ८; ९; †प्र (भवोचम्)
माश्रौ ४, ४, ३८; काय ४२, १;
७१, १४; †प्रवोचम् आश्रौ ५,
२०, ६^१; बौश्रौ; या ७, २; ३;
११, ४३; ऋषा ८, ३^०; प्रा-
(<प्र)वोचम् अषा २, ३,
१†; †प्र...वोचम् बौश्रौ १७,
४४: १४; वाधूश्रौ; †प्र (वोचम्)
आश्रौ ८, १, १७; ९, ५, १६;
शाश्रौ; प्र...भवोचाम वाधूश्रौ
३, १: १०†.
प्रोच्यते निस् ६, २: ११; विष
९७, १५; नाशि १, ८, २;
प्र (उच्यते) साश्र १, ५७३†^१;
प्रोच्यते ऋषा १७, ४१.
प्रवक्ष्यते अप ५८^२, १, ७; प्रव-
क्ष्यन्ते काष २७५: १.
प्रवाचयेत् जैश्रौ १: २०; प्रवा-
चयेत् गोश्र १, ३, १७; कप्र २,
८, २३.
प्र-वक्तु- पा २, १, ६५; -वत्रे
आश्रौ १, २, १†; आपय १३,
२०.
प्र-वक्ष्यत्- -क्ष्यासु आश्रौ ४, ४,
२; -क्ष्यन् बृदे ५, ७३.
प्र-वचन- पाग ८, १ २७; -नम्

द्राश्रौ १, २, १२; लाश्रौ १, २, ७;
पाय; या ४, २५; -नात् मीस्
१, १, ३०; -ने द्राश्रौ १, २, १५;
लाश्रौ १, २, ९; साश्र १, २६७.
प्रावचन^१- -नः शुप्रा १,
१३२; नाशि १, १, ८.
प्रवचन-कर्तृ- -र्तृभ्यः आमिष्ट १,
२, २: ३०; हिष्ट २, २०, १.
प्रवचन-कार- -राय बौष्ट ३, ९,
६.
प्रवचन-प्रतिषेध- -धः मीस् १२,
३, २१^१.
प्रवचन-याजन-प्रतिग्रह- -हाः
गौध १०, २.
प्रवचन-युक्त- -क्तः आपध १,
३२, १; हिष १, ८, ४३.
प्रवचन-लक्षण^१- -त्व- -त्वात्
मीस् १२, ३, २४.
प्रवचन-शेष- -षः हिश्रौ २१, २,
३५.
प्रवचनीय- -यः शांष्ट ३, ५, ३^१;
-याः चव्यू २: ३८.
प्र-वाच्य^१- पा ७, ३, ६६; -च्या
आमिष्ट २, ३, ५: १९†.
प्रो(प्र-उ)क्त, का- -क्तः कप्र २, ३, ४;
३, ८, ११; अप ८, २, १××; अशां;
-क्तम् बौश्रौ १७, ४३: १६××;
आपय; पा ४, ३, १०१; -क्ता
कप्र १, ३, १; ७, २; अप; -क्ता:
काय ४२: १५; वैष्ट १, ८: ९;
कप्र; -क्तात् पा ४, २, ६४^१;
-क्तानि अप ४, १, २३; ६९, ६,
१; -क्तायाम् द्राश्रौ १, २, १८;

लाश्रौ १, २, १२; -क्ते आश्रौ ५,
१०, २; शाश्रौ १७, १७, ११;
काश्रौ; -क्तेषु बौश्रौ १, ७: १;
-क्तौ अप २३, ५, १.
प्रोक्त-ग्रहण- -णम् पावा ४, ३,
१०१.
प्रोक्त-व(त् >)ती^१- -त्यः निस्
६, ९: १.
प्रोक्ता(क्त-अ)दि- -दयः पापवा
१३.
प्रोक्ता(क्त-अ)धिकार- -रे पावा
४, २, ६६.
प्रो(प्र-उ)च्य वाधूश्रौ ३, १: ९;
वैश्रौ २१, ६: ८; हिश्रौ.
प्रो(प्र-उ)च्यमान- -नम् अप ७०^३,
१, ४; -नाः शैशि २०१.
प्र-वण, णा^१- पा ८, ४, ५; -णः तैप्रा
१, ४, ७^१; -णम् बौश्रौ १८, ४८:
२३; वैष्ट; -णाम् बौश्रौ ६, २३:
७^१; २४, २४: १५; माश्रौ २,
२, १२; हिश्रौ १, ६, ९६.
प्रवण-वत् मीस् १, ३, २२.
प्रवण-व(त् >)ती- -ति या ११,
३७.
‡प्रवणजाः या ९, ८^०.
†१प्र-वत्^१- -वत्: आश्रौ २, १९, २२;
आमिष्ट ३, ५, २: १; बौपि १, २:
१; कौस् ८१, ३४; या १०,
२०†; -०वतः अप ३२, १,
१४; अज १, १४; -वता बौष्ट
२, ६, १३; -वते बौश्रौ १३,
३५: २; १८, ४८: २; हिश्रौ २२,
५, २०.

- a) पाभे. वैप १, २१८४ r द्र.। b) पाभे. वैप १, २२०२ g द्र.। c) पाभे. वैप १, २२०२ a द्र.।
d) पाभे. वैप १, २२०२ i द्र.। e) विप.। भवार्थे इदमर्थे वा अण् प्र.। f) प्रायव^० इति जीसं. प्रयासं., प्राव^०
इति केवलानन्दः। g) बस.। h) सप्र. कौष्ट ३, ४, ३ प्रपदनीयः इति पाभे.। i) वैप १ द्र.। j) = प्रोक्ता-
र्थक-प्रत्यय-। k) = ऋच्-। l) वैप १ द्र. (वैतु. गोपालयज्वा <प्रवृत् इति)। m) = स्वरित-पर्याय-।
n) प्रणवाम् इति पाठः १. नि. शोधः (तु. भाश्रौ.)। o) तु. राज.। *ते^० इति लसं.। p) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र.।

†प्रवत्-व(त्>)ती- -०ति आपमं
२, १८, ९; या ११, ३०६.
२प्र-वत्^a- -वन्ति निस् ७, १२: २१.
प्रवती- -ती निस् ७, २: ५;
८, ५: १६; -तीभिः निस् ७, २:
३०; -त्यः निस् ७, २: ५; ३१;
-त्या निस् ७, २: ११.
प्रवद्-भार्गव^b- -वम् जैश्रौ २४:
४; द्राश्रौ २, २, २२; लाश्रौ १, ६,
२०; लूसू ३, १०: २९.
प्रवद्-भार्गव-सामन्- -म जैश्रौका
४०.
प्रवद्-योनि^c- -नि निस् ७, २:
२१.
†प्रवताऽऽयन्ति^d बौगृ २, ६, १३;
कौसू ५६, १७.
प्र-वत्स्यत्- प्र-प्र. प्र√वस् द.
प्र√वद्, प्रवदति वागृ १३, ३; या
१४, १; †प्र^eवदति आपश्रौ
५, १९, ३; हिश्रौ ३, ५, ४;
†प्र(वदति) आश्रौ ५, १४, ६;
शाश्रौ; प्रवदन्ति वागृ १३, ५;
कप्र १, ८, २०; अप; प्रवदतु वागृ
१३, ३†; प्रवदन्तु द्राश्रौ ११,
२, १; लाश्रौ ४, १, ११; प्र^e
वदन्तु आश्रौ ५, १२, ९†; या ९,
९; †प्र(वदन्तु) ऋअ २, १०, ९४;
वृदे ७, १४६; †प्रवद द्राश्रौ ११,
१, ५; लाश्रौ ४, १, ५; प्र^eवद
शाश्रौ १, ६, २†; प्र^eवदाम या
९, ९†; प्रवदेत् भाश्रौ ६, १, ७;
हिश्रौ ३, ७, ९.
†प्र^eवदिष्यामि शाश्रौ १७,
१७, १; द्राश्रौ ११, २, ११; लाश्रौ

४, २, १०; प्रावादिषु: या ९, ६;
प्र^eवदामि वा ९, ६†.
प्रवाद्यते कागृ १७, २; वागृ
१३, ४; प्रवाद्यति शाश्रौ १७,
१४, ८; प्रवाद्यन्ति शाश्रौ १७,
१४, ९.
प्र-वदन- -न्वात् शाश्रौ ४, २१, २२;
१७, १७, ३; -ने वागृ १३, १०†.
प्र-वदिच्- -त्वा हिश्रौ १७, ७, १५.
प्र-वदितोस(:) काश्रौ ९, १, १०;
आपश्रौ १२, ३, १४; बौश्रौ.
प्र-वद- -दा: वृदे ३, ६५××; या
७, २३; ८, २; ऋप्रा ४, ६, ९; ९,
३५; -दात् आश्रौ ४, १३, १;
-देन निस् २, ३: २४; वृदे २,
१८; -देषु वृदे ३, ४६; ऋप्रा १३,
२४; -दौ ऋप्रा २, ७४.
प्रवाद्-बहुल-त्व- -त्वात् वृदे ४,
४३.
प्र-वादिन्- पा ३, २, १४५; -दिनः
ऋप्रा ११, ४०.
प्र√वन्, †प्र^eवन्वे बौश्रौ १७, ३:
४; हिश्रौ ९, ७, २१.
प्र√वप् (बघा.), प्रवपते भाश्रौ २, १,
१, २४; प्रवपति आपश्रौ १०, ५,
८; बौश्रौ; †प्रवपे बौश्रौ २, ८:
७; ६, २: ३; भाश्रौ; प्रवपेत्
आपश्रौ १६, १३, ४; वाश्रौ.
प्रवापयेत् आज्यो ३, ३.
प्र-वपत्- -पतः बौश्रौ १८, १९:
७; बौगृ २, ४, १४; मागृ १, २१,
८; -पन् पागृ २, १३, ७.
प्र-वपन्- -ने कौगृ १, २१, १८;
शागृ १, २८, २१; -नौ वागृ ४,

१६.
प्रो (प्र-उ) प्य वैश्रौ १२, ६: १.
प्र-वयस्^h-यसः आगृ ४, २, २; ५, ३;
आमिगृ ३, ५, ३: ९; वीपि १, ३:
८; -यसम् हिश्रौ ६, ८, ८; -या:
आपश्रौ ८, ७, ५; १२, ५; भाश्रौ
८, ९, ११; अप ४८, ७०†;
निघ ३, २७†.
प्र-वय्या- प्र√वी द.
१प्र-वर- प्र√वृ (वरणे) द.
२प्र-वर- प्र√वृ (आच्छादने) द.
प्र-वरण-, -रित्वा प्र√वृ (वरणे) द.
प्र-वर्गा-, -र्ष्य- प्र√वृज् द.
प्र√वर्णा, प्रवर्णते ऋअ ३, २.
प्र-वर्त- प्र-प्र. प्र√वृत् द.
प्र-वर्धन-, -र्धमान- प्र√वृष् द.
प्र-वर्धमाण- प्र√वृ (वरणे) द.
प्र-वर्षण-, -र्षत्- प्र√वृष् द.
प्र√वल्ह>प्र-वल्ह-> वल्ह-क->
वल्हिकाⁱ- -का वृदे १, ३५;
५७; -का: शाश्रौ १२, २१, ३;
वैताश्रौ ३२, २१.
प्रवल्हिका(का-आ)दि- -दिषु
वैताश्रौ ३२, २४.
प्र-वल्हित्, ता- -तम् अप ४८,
१४५; या ७, ११; -ता या
१३, ८.
†प्र√वशा, प्र(वष्ट) सात्र १, ५५३^k.
प्र (विवष्टु) सात्र १, ७८^l.
प्र√वस् (^mयात्रायाम्), प्रवसति शाश्रौ
२, १५, ६; ४, १३, ४; बौश्रौ;
प्रवसामि वागृश्रौ ३, ५: २;
प्रवसेत् आपश्रौ ३, १३, ४; ६;
२५, २, ९, १५; भाश्रौ.

a) पूष. = प्र-शब्द- । b) = साम-विशेष- । c) बस. । d) शोधः वैप २, ३खं. द. ।
e) = कर्म-विशेष- । f) पाभे. पृ १७१८ d द. । g) भाप., नाप. (मन्त्र-). h) विप., नाप. ।
बस. उप. = आगुसु- । i) पुराण-नामन्- । j) = प्रह्लिका- । <प्र-व(ल्हि)>वल्ही- इति (पक्षे) अभा. ।
k) पाभे. वैप १, २२०४ l द. । l) वैप १, २२०४ m द. ।

ऋप्रवत्स्यामि आपश्रौ ६, २७, २;
 वैश्रौ २, १० : १६; हिश्रौ ६, ७,
 ८; प्रावात्सम्^a वैश्रौ २, १० :
 १७; ऋप्रवात्स्यम्^b आपश्रौ ६,
 २७, २; हिश्रौ ६, ७, ८.
 प्रवासयति वैगृ ४, ४ : २४; ६ :
 ९; प्रवासयेत् अप ७१, ७, २.
 प्र-वत्स्यत्- -स्यतः वैश्रौ २, १० :
 १४; चाञ्च २ : १६; -स्यन् आपश्रौ
 २, ५, १; शाश्रौ २, १४, ११; काश्रौ
 प्रवत्स्यद्-उपस्थान- -नम्
 आपश्रौ ६, २७, १; शुञ्च १,
 २००; चाञ्च ७ : ५; -ने आपश्रौ
 ६, २६, २; -नेन काठश्रौ २०;
 २१.
 प्र-वसत्- -सतः काठश्रौ २१;
 बौश्रौ २०, २ : ५×५; माश्रौ;
 -सति आपश्रौ १, १७, ३; बौश्रौ;
 -सन् आपश्रौ २, ५, १९; शाश्रौ;
 हिपि २३ : ३.
 प्र-वसथ^c- -थम् आपश्रौ ६, २४, ५;
 भाश्रौ ६, ४, ८; वाधूश्रौ २, ६ :
 १; ३, १८ : ७; -थात् भाश्रौ
 ६, ५, ८.
 प्रवसथ-कल्प- -ल्पः भागृ ३,
 ३ : १२.
 प्रवसथा(थ-आ)हुति- -तिम्
 बौश्रौ २०, २३ : १५; -तौ
 बौश्रौ २०, २३ : ९.
 प्र-वसित- -ते विध ६, २७; २५, ९,
 प्रवसिता(त-अ)ग्निहोत्रिन्-
 -त्री विध ६८, ६.
 प्र-वास- पाग ४, ४, १०३; ५,
 १, ९७; १०१; पावाग ५, १,
 ९७; -सः हिश्रौ ६, ७, ४; १७,

२, ३१; -सम् आश्रौ २, ५, ७;
 आपश्रौ; -सात् माश्रौ ६, २,
 ६, २६; आगृ; -से आपश्रौ ९,
 ४, १७; २२, ५, ४; हिश्रौ; -सेषु
 कप्र ३, ५, ४.
 प्रावास- पा, पावा ५, १, ९७.
 प्रावासिक- पा ४, ४, १०३;
 ५, १, १०१.
 प्रावास-निमित्त- -त्तम् बौश्रौ
 २९, ९ : ४.
 प्रावासा(स-आ)गमन- -नम्
 वैगृ ३, २२ : ४.
 प्रावासागमन-पिण्डवर्धन-
 -नयोः वैगृ ६, ५ : ५.
 प्र-वासिन्- पा ३, २, १४५; -सिनः
 कागृउ ४१ : ९.
 प्रो(प्र-उ)षित,ता- -तः आपश्रौ ९,
 ११, २२; काश्रौ २५, ८, ८;
 पागृ; -तम् कप्र १, ६, ७; ८;
 -ताम् आग्निगृ २, ७, १० :
 १२; -तायाम् हिश्रौ ८, १, ४६;
 -ते काश्रौ ३, ६, ९; आग्निगृ ३,
 ९, ३ : १६; बौपि २, ७, १५;
 शंघ ३४१.
 प्रोषित-प(ति>)ली^d- -ली
 वाघ १७, ७५.
 प्रोषित-भर्तृका^e- -काणाम् शंघ
 ३४१.
 प्रो(प्र-उ)षिवस्- -वांसम् आपश्रौ
 ६, २५, ४१; -?षुषः^f भाश्रौ ६,
 ६, ३.
 प्रो(प्र-उ)ष्य आश्रौ २, ५, १४; शाश्रौ.
 प्रोष्य-पापीयस्- पाग २, १,
 ७२.
 प्रवसत्यवसति^g बौपि २, ६, ९.

प्र√वह^h, ऋप्रवहन्ति हिश्रौ ३, ८, ४;
 १३, ५, १४; या १४, ३४; ऋप्रव-
 हताम् आपमं १, २, ८; कागृ
 २५, ५; बौगृ १, ५, ३; जैगृ १,
 २२ : २; ऋप्रवहन्तु बौश्रौ २,
 ८ : १०×५; आगृ २, ४, १४;
 प्र(वहन्तु) अञ्च १६, ११;
 ऋप्रवह आश्रौ ६, ३, १; शाश्रौ
 ९, ५, २; आगृ २, ६, ५; ऋप्र...
 वह>हा बौश्रौ २, १० : १५;
 बौगृ २, ११, ३२; ऋप्रवहतात्
 आपश्रौ १, २१, २; बौश्रौ;
 ऋप्रवहत आश्रौ ३, ५, २×५;
 काश्रौ; प्रवहेत् आपथ १, ११, ८;
 हिघ १, ३, ६५; प्रवहेयुः आपश्रौ
 ६, २८, ४; भाश्रौ ६, ६, १२.
 प्रवक्ष्यति गोगृ ३, ७, १४.
 प्रवाहयते कागृ २६, ५; प्रवाह-
 यति आपश्रौ १, १०, ७; भाश्रौ
 १, ९, १२; ७, २, १; माश्रौ;
 प्रवाहयन्ति हिगृ १, २२, १;
 हिपि १८ : १९; प्रवाहयामि
 अप २०, ७, ९१; प्रवाहयेत् आश्रौ
 २, ७, ९; अप ४०, ६, १३; प्र...
 वाहयेत् आपगृ ५, १२.
 प्रवह(त>)न्ती- -न्तीनाम् वाश्रौ
 ३, ३, २, १५.
 प्र-वाहण^e- -णः शाश्रौ ६, १२,
 ११; बौश्रौ ६, २९ : ६; माश्रौ;
 -णम्^f वैगृ १, २० : ८×५;
 -णाय काठश्रौ १५३; बौश्रौ
 २५, १९ : ३१.
 प्रवाहणी- -णीम् वाश्रौ १, २,
 ३, ३२; हिश्रौ ५, ४, ८८; -ण्या
 आपश्रौ १, १०, ७.

a) परस्परं पामे. । b) वैप १ द्र. । c) बस. । d) पाठः? प्रोषितः इति शोघः (तु. रुद्रतः
 आपश्रौ ६, २६, ७) । e) पाठः? प्रवस्यत्-> -स्यन् इति शोघः (तु. B., सप्र. हिपि २३ : ३ प्रकंसन् इति
 पामे.) । f) पा १, ३, ८१ परामृष्टः द्र. । g) उप. भावे कर्तरि कर्णे च प्र. । h) = परिषेचन- ।

प्र-वाहन- नम् वाधूश्रौ ३, ७६ :
 १०.
 प्र-वाहित- न्तः अप २०, ७, ९.
 प्र-वाहिन्^०- -हिनः शाश्रौ १२,
 १४, ११.
 प्र-वाह्य बौश्रौ २, १० : ३९; ५,
 १५ : २२; आम्निष्.
 प्रो(प्र-ऊ)ढ- पाग २, १, १७.
 प्रो(प्र-ऊ)ह्यमाण- ञः तैप्रा ७, ६१;
 -णयोः हिश्रौ १०, ८, १९;
 -कृणाय^० आपश्रौ १०, २८, ४;
 बौश्रौ ६, १६ : १; माश्रौ १०,
 १४, १६; माश्रौ २, १, ४, २९;
 वैश्रौ १२, २० : ५; १३९; हिश्रौ
 ७, ३, १७; -णे वैताश्रौ १३,
 ११.
 प्रो(प्र-ऊ)ह्यमान- नः अप्राय
 ३, १.
 प्रौ(प्र-ऊ)ढ- पावा ६, १, ८९.
 प्रौढ-पाद- ङः शंघ २२६; विघ
 ६८, ४९; गौघ १६, १७; -द्वो
 कौसू १४१, ४०.
 प्रौ(प्र-ऊ)ढि- पावा ६, १, ८९.
 प्र✓वा, ऋप्र^०वान्ति आश्रौ २, १५,
 २; आम्निष् ३, ८, २ : १६;
 बौपि १, १५ : २५; हिपि १५ :
 ११.
 प्र-वा^०- -वा वैताश्रौ २२, ४१.
 प्र-वात- ते बौश्रौ ९, ३ : २३; १०,
 ६ : १; वैश्रौ १८, १ : ७७.
 ऋप्रवाते(त-ए)ज^०- जाः या ९,

८६.
 प्र-वाच्य- प्र✓वच् द्र.
 प्रवाद्^० आपश्रौ २४, १४, १२.
 प्र-वाद-, ष्विन्- प्र✓वद् द्र.
 प्रवाल^१- पाग २, ४, ३१.
 प्रवाल-वस्त्र-नाश- -शः अप ६७,
 ५, १.
 प्र-वास- प्रसू. प्र✓वस् द्र.
 प्रवास L, ह^० [> षिन्, (हि)-
 [व >] नी- पा.] पाग ५, २,
 १३५.
 प्र-वासिन्- प्र✓वस् द्र.
 प्र-वाहण- प्र✓वह् द्र.
 प्रवाहण^१- पाग ४, १, १२३.
 प्रावाहणि-(> णायन- पा.)
 पाग २, ४, ६१.
 प्रावाहण्य- पा ४, १, १२३; ७,
 ३, २८.
 प्रावाहण्य- पा ४, १, १२३; ७, ३,
 २८; -याः बौश्रौप्र १७ : ८.
 प्रवाहा^१ वाश्रौ १, ४, २, ५.
 प्रवाहिका^१ पाग १, १, २७.
 प्रविक-(> प्राविक्य- पा.) पाग ५,
 १, १२८.
 प्र-विग्रह^१- हेण ऋप्रा १५, १६.
 प्र✓विच् > प्र-वेक- -कः निच् ४, २ :
 २८.
 प्र-वि✓चर > प्र-वि-चार- > ञ्चारा
 (र-अर्थ)- र्थस् बौश्रौ २७,
 ११ : १५; २९, ८ : २६.
 प्र✓विद् (ज्ञाने), ऋप्रविद्य आपमं २,

१९, ७; आम्निष् ३, १, २ : १; हिष्
 २, ११, १.
 ऋप्र-विद्वस्- -द्वान् आपश्रौ १६,
 २६, ६; १२××; वैश्रौ; आम्निष् ३,
 ५, ४ : ११^m; बौपि १, ३ : २०^m.
 प्र✓विद्(लाभे), प्र(अविदत्) ऋष्य २,
 ३, ५७^१.
 प्रिद्विदान-कल्प- -ल्येन बौश्रौ २४,
 ३२ : १३; १६.
 प्र✓विद्, व्यध्, प्रविध्यते माश्रौ १, २,
 २, २१; प्रविध्यति आपश्रौ १३,
 २०, १२; १९, ४, १; ९, ७; माश्रौ;
 प्रविध्यन्ति आपश्रौ २१, ५, १३;
 माश्रौ २, २, २, ७; प्रविध्येत्
 बौश्रौ २२, ५ : १०; २९, १० :
 ७; माश्रौ ६, १, ३, ११; द्राश्रौ
 ४, १, ७; ताश्रौ २, १, ६.
 ऋप्र-विद्- -द्वः माश्रौ १, २, २, २१;
 वाश्रौ १, २, ४, ५६; -द्वम्
 आपश्रौ १, २०, ८; वैश्रौ ४, ७ : ७.
 प्र-विध्य आपश्रौ १३, २०, १४;
 माश्रौ.
 प्र-विध्यन्त^०- > ञ्न्त-नामन्^०-
 -नाम्नः अत्र ३, २६.
 प्र-व्याध^०- -धान् आपश्रौ १८, ३,
 १४; वैश्रौ १७, १२ : २; हिश्रौ
 १३, १, ३६.
 प्र-वि✓धा > प्र-वि-धान- > ञ्-
 शत- -तैः विघ २०, ४६.
 प्र✓विप्, वेप्, प्रवेपयन्ति हिश्रौ २२,
 ३, १९^१.

a) वैप १ द्र. । b) पाभे. वैप २, ३ खं. प्रोह्यमाणाय ऐत्रा १, १३ टि. द्र. । c) पाठः ? (तु. सस्थ. दि. [✓शी >] शयानः) । d) पाभे. वैप १, २२०५ p द्र. । e) पाठः ? प्र✓वृच् > प्रवृक् (लुङि मपु१) इति शोधः । सपा. बौश्रौ ३, २८ : १८ प्रवृद् ? इत्येतदनु शोधार्हः (तु. ऐत्रा ३, ८ प्रसृशः L < प्र✓सृज् हिसायाम्, C LZDMG ५६, ५५४) । f) = विद्रुम-, पल्लव- इति पागम. । व्यु. ? । g) माण्डा. पासि. पाठः । h) तु. पाका. । i) = ऋषि-विशेष । व्यु. ? । j) पाठः ? । सप्र. माश्रौ १, ५, २, १४ विपेशलाः इति । k) प्रबा^० इति भागडा. BFG. । l) प्रास. । m) पाभे. वैप १, २१३४ l द्र. । n) प्र-विध्यन्त- > ञ्न्तः (शौ ३, २६, ४) इत्यस्यानुकरणम् । o) वस. । p) विप. । उप. करणे घच् प्र. ।

प्रवेपिन्-पिणः या ९, ८.
 प्रवि/भक्त > प्रवि-भक्त- >
 क्तन्व-त्वात् मीस् ९, ४, १;
 १०, ४, ४२.
 प्रवि-भज्य वृदे २, १०६; या २, २.
 प्रवि-भज्यमान-नः आशि १, १.
 प्रवि-भाग->गन्त-ज्ञः चव्यू
 २: ४०.
 प्रवि/मुक्त > प्रवि-मुक्त->क्त-
 पाप^१ -पः अप ११, २, ५.
 प्रविमुक्तव(त्स)त्सा^१-
 त्सायाः गो २, २२.
 प्रवि-मुच्य अप १३, ३, ११.
 प्रवि/यु > प्रवि-युत-न्तम् या ९,
 २६.
 प्रवि/ली, प्रविलीयते अप ६९, ९, ३.
 प्रवि/वृत्, प्र(विवाकृते) साञ्च १,
 ५१^१.
 प्र/विष्, प्रविशति शांश्रौ १५, १७,
 ११; १७, १३, ११; काश्रौ;
 प्रविशतः वैश्रौ १४, १६: ४;
 प्रविशन्ति काश्रौ १०, ४, ११^१;
 ९, २६; आपश्रौ; ऋप्रविशामि
 आपश्रौ १६, १९, १^१; वैश्रौ १८,
 १६: ७; ६^१; ९; हिश्रौ; प्रविशा-
 मसि कौस् १०४, २^१; ऋप्रवि-
 शतु वौष् १, ४, ३; भाष् १,
 १७: ११××; प्रविशतात् पाष्
 १, ८, १२^१; ऋप्रविशस्व बौश्रौ
 २७, ७: ५; अप २२, ९, २;
 ऋप्रविश आपश्रौ ३, १४, ३^१;
 सु ३०, ६; वौष् २, ६, १०; गोष्
 २, ८, १४; ऋप्रविशतम् कौस्
 २२, ९; अञ्च ३, ११^१; ७, ५३;
 ऋप्रविशानि आपश्रौ ९, ६, १२;

१४, २६, १; वैश्रौ; प्राविशत्
 बौश्रौ १८, ३३: ११^१; वाधुश्रौ
 ४, ३०: १३; ६४^१: २; वृदे ७,
 ६२; प्राविशताम् वाधुश्रौ ४,
 १९: २८; ऋप्राविशः आपश्रौ
 १, ६, १; बौश्रौ; प्रविशेत् जैश्रौका
 ६३; द्राश्रौ १२, १, १५××;
 लाश्रौ; प्रविशेयुः द्राश्रौ ४, ३,
 १०××; लाश्रौ; प्रविशेयम् सु
 ३०, ५.
 प्रविशेत् कौस् २२, ९^१; प्रवेक्ष्यति
 आपं २, ७, १९^१.
 प्रवेशयति काश्रौ ६, ३, १४××;
 आपश्रौ; प्रवेशयन्ति काश्रौ ७,
 ९, २६; काष् ५२, ९; प्रावेशयन्
 बौश्रौ १४, १: ७; प्रवेशयेत्
 आपश्रौ १९, १७, १७; बौश्रौ १४,
 १५: १९; २२, ३: २६; हिश्रौ;
 प्रवेशयेयुः लाश्रौ ८, ९, १७.
 प्र-विशिविष- वांसम् तैप्रा १६,
 १३^१.
 प्र-विशत्-शन् हिश्रौ १०, २, १;
 निस् ४, ३: ९; कौष् ३, ४, २;
 शांष् ३, ५, २; -शन्तः द्राश्रौ ३,
 १, १०; लाश्रौ १, ९, १०; शंघ
 ३४^५; -शन्तम् आपश्रौ १२,
 २६, १६; वैश्रौ १५, ३४: ३;
 हिश्रौ ८, ८, १०.
 प्र-विशिवस्-वांसम् अप्रा २, ३,
 १९^१.
 प्र-विश्य काश्रौ ५, ९, १८××;
 आपश्रौ.
 प्र-विष्ट, ष्टा-ष्टः आश्रौ २, ९, १०;
 ८, १४, ४; काश्रौ; ऋष्टम्
 आपश्रौ ४, ८, ३; भाश्रौ ४, १२,

२; हिश्रौ ६, २, १९; ऋष्टम्
 बौश्रौ २, ६: २७; १०, १३:
 २०; आपं; ऋष्टम्: आपश्रौ
 १, ८, ७; ४, १, ८; भाश्रौ; ऋष्टम्
 अप ७०^३, ६, ३; ऋष्टम् आपश्रौ
 ५, १, ७^१; ऋष्टम् विव ६, ७;
 ऋष्टम् माष् २, १७, १; वैष् ७,
 ५: ११; १२; विव ६, २५;
 ऋष्टम् आपष् १५, ६^१; ऋष्टम्
 द्राश्रौ १५, १, १७; लाश्रौ ५, ९,
 १५; ऋष्टम् आम् १, ५, ४: ४९.
 प्रविष्ट-भस्मन्^१-स्म वैश्रौ १८,
 ११: १४.
 प्र-वेश-शः कौस् १४०, २; -शम्
 अप ७१, १५, ९; -शो आज्यो ५,
 २.
 प्रवेशा(श-आ)दि-दि जैश्रौका
 १५७, १८३.
 प्र-वेशक-कम् वैष् १, ९, १५.
 प्र-वेशन-पाग ५, १, ९७; १११;
 -न्म् काश्रौ ४, १५, २८; ११,
 १, २२; बौश्रौ १४, १५: १९;
 पाष्.
 प्रावेशन-पा ५, १, ९७.
 प्रवेशन-संमार्जन-ने द्राश्रौ ३,
 ४, ३५; लाश्रौ १, १२, २०.
 प्रवेशना(न-आ)दि-दि पाष्
 ३, १०, ३७.
 प्रवेशनीय-पा ५, १, १११.
 प्रवेशनो(न-उ)पवेशन-ने द्राश्रौ
 ४, ४, ७; लाश्रौ २, ४, ३.
 प्र-वेशित-तेषु द्राश्रौ १५, १, १४;
 २, १०; लाश्रौ ५, ९, १२; १०,
 १०.
 प्र-वेश्य काश्रौ १०, ७, ३××; काश्रौ;

a) बस. । b) पामे. वैप १, २२०७ e द्र. । c) श्वाति इति पाठः? यनि. शोधः (तु. चौसं.) ।
 d) पामे. वैप १, २१८१ j द्र. । e) श्वाति इति पाठः? यनि. शोधः (तु. शौ ३, ११, ५) । f) पामे. पृ १०७९ l
 द्र. । g) पामे. वैप १, २२०८ d द्र. । h) कस. ।

कीट १,९,१३^h.

प्र-वेद्यमान-ता- नम् द्राश्रौ १४,
१,१७; लाश्रौ ५, ६, १; -ना:
द्राश्रौ ३,१,८; लाश्रौ १,९,८.
प्र-वेष्टव्य-व्यम् आग्निष्ट २,६,२ :

प्र√वी > प्र-व(व्य >)व्या- पा ६,
१,८३.

प्र-वी(त >)ता- ता हिश्रौ १३,३,
४०.

प्र-वीयसा(ण >)णा- णा हिश्रौ
१३,३,४०.

प्र-वीण- पाग २,१,४०.

प्र-वीय प्र√व्ये द्र.

प्र√वृ (वरणे), प्रवृणीते आश्रौ १,
३,१; काश्रौ ३, २,७; ९, ८,
७; आपश्रौ; ऋप्र(वृणीमहे)
वृदे ६, ४३; साञ्च १,५९^b;
प्रवृणीष्व वाश्रौ १,१,५,११[†];
प्रवृणीत आश्रौ १२, १३, ३;
आपश्रौ २४, १०, १७; बौश्रौ
२४,२८ : ६; प्रवृणीयात् बौश्रौ
२०,१२ : २६; माश्रौ १,३, १,
२८; प्रवृणीरन् आश्रौ १२, १५,
५; आपश्रौ २४, १०, १२; १३;
हिश्रौ.

प्रवरयेत् बौश्रौ २४,२८ : ६.

१प्र-वर^०- पाग २, ४, ३१; -र:
आश्रौ १२, १३, ५^d; आपश्रौ;
वैध ४,८,४^e; आज्यो १३, ७^f;
-रम् आपश्रौ २४, ११, १७;
बौश्रौ १, १५ : २६××; भाश्रौ;
-रयोः भाश्रौ ४,१३,१; -रस्य

हिश्रौ २१, २, ९; मीसू ३, ५,
४७; -राः आश्रौ १२, १०, ५;
बौश्रौप्र ५४ : ११; द्राश्रौ ३,
४, ३३; लाश्रौ १, १२, १९;
-राणाम् वैध ४, १, २; -रात्
आपश्रौ ७, १४, ३; ८, १४,
२०××; बौश्रौ; -रान् आपश्रौ
२४, ५, १; २६, २५ : १५;
बौश्रौप्र; -राय आपश्रौ २, १५,
१; ३[†]; भाश्रौ; -रे आपश्रौ
३, १९, ३; काश्रौसं ३२ : ११;
बौश्रौ; वैताश्रौ २,१५^{††}; -रेण
आपश्रौ २,१६,१०; २४,५,९[†];
माश्रौ; -रेषु बौश्रौप्र २ : ४;
-रैः वाधुश्रौ ४,८५ : १२.

प्रवर-काल- ल्ले वैध ४,१,३.

प्रवर-ज्ञान- ने बौश्रौप्र ५४:१६.

प्रवर-वत् मीसू ३,५,४५.

प्रवर-शेष^h- षः वंश्रौ ६, ५ :
३; हिश्रौ २, १, ५९; -षम्
आपश्रौ २,१६,११.

प्रवर-संवादा (द-आ)श्रावण-सं-
प्रैष- षेभ्यः हिश्रौ १, १, २६.

प्रवरा (र-अ)ध्याय- > ध्यायो-
(य-उ) कथशास्त्र-ऋतुसंख्या-नि-
गम- माः चव्य २ : ३१.

प्रवरा(र-आ)नुपूर्व्य- र्व्यम्
बौश्रौ १६, २ : १०; -र्व्येण
शाश्रौ ६,९,१६.

प्रवरो(र-ऊ)ह-नामधेयग्रहण-
-णानि आपश्रौ २४,१,३५.

प्र-वरण- > ण-वेला- न्छायाम्
वाश्रौ ३,२,१,२१.

प्र-वरित्वा आश्रौ ४,१,१७.

प्र-वर्यमाण- णे वाश्रौ १,१,२,३१.

प्र-वृणान- नम् आश्रौ १,३,२३[†].

प्र-वृत्- वृत्तम् वैताश्रौ २६, ८[†];
-वृत्ते माश्रौ १, ८, ३, १४; २,
१,५,१७; २,५,७.

प्र-वृत्- न्तः शाश्रौ १,६,२; बौश्रौ
९,१८ : २९; -तःऽतः आपश्रौ
११, २०, १; बौश्रौ ७,९ : १३;
माश्रौ २, ३, ६, १८; हिश्रौ ७,
८,४४; -ताः वैताश्रौ १८,५.

प्रवृत्-होम^l- मयोः लुसू १,
८ : १४; -मान् जैश्रौ १० : ३;
-मौ काश्रौ ९,८,१५^{††}; आपश्रौ
११, २०, १; द्राश्रौ ३, ३, १७;
लाश्रौ १,११,९^{††}.

प्रवृत्ता(त-आ)दृति- नित्म्
बौश्रौ १४,२१ : २७; -तीः शाश्रौ
६,९,१६; ९, १९,४; बौश्रौ १४,
५ : ३७; -तीः आश्रौ ३,१,
१३; ५, ३, १२; बौश्रौ ७, ९ :
१४; वैताश्रौ १८,५.

१प्र-वृत्त्य काश्रौ ६,४,३; भाश्रौ.

प्र-वियमाण- णम् बौश्रौ ३, १८ :
२; -णयोः भाश्रौ ४, १३, १;
-णे वैताश्रौ २,१५^{††}.

प्र√वृ(आच्छादने) > २प्र-वर- पा ३,
३,५४.

प्रा(< प्र)-वरण^l- णम् बौश्रौ
१७, ३९ : ४[†]; अप १, ४९, ५;
अशां १३, ३; आपध.

प्रा(< प्र)-वार^l- रम् पा ३, ३,
५४; आग्निष्ट १, ३, १ : ४[†].

a) पामे. पृ १७१२ j द्र. । b) पामे. वैप १,२२०९ a द्र. । c) = प्रधान-पुरुष- । भावे कर्मणि च कृत् । प्रास. इत्यपि प्रवादः (तु. आज्यो.) । d) भाप. । e) पृ १२१६ e द्र. f) विप. (L. प्रकृष्ट- । पुत्र-) । g) पामे. वैप १, २२०९ e द्र. । h) पूप. = प्रवर-निगद- (तु. छदतः) । i) सस. वा मलो. कस. वा । j) °न्त इति पाठः ? यनि. शोचः (तु. PW.) । k) पामे. वैप १,२२०९ f द्र. । l) उप. भावे करणे वा कृत् । m) परस्परं पामे. । n) उप. करणे कृत् ।

प्रा (<प्र)वृत्, ता- -तः काश्रौ २२,
६, ४; आपश्रौ २२, ७, २४;
जैश्रौ; -तस् अप ३३, ६, ५;
-ता अप्रा ३, ४, १; -ताः या
१४, १०^१; शुप्रा ५, ३७; -तास्
गो२ २, १, १८.
प्रावृत्-कण्ठ^२- -णठः बौध १,
५, १५.

प्रा (<प्र)वृत्य आपश्रौ ७, २४, ९;
हिश्रौ १७, ३, २३; कप्र.

प्र√वृह्, वृह् (वधा.), प्रवृहते^३ अप
६३, २, ७.

प्रवृहति^३ आपश्रौ १२, ७, १९;
माश्रौ; प्र(वृहथः) वृदे ४, ८४^१;
प्रवृहामि^४ वाश्रौ ३, २, ५, ३;
चाञ्च ३० : २५; प्रवृहन्तु^४
आपश्रौ १२, ८, १; वैश्रौ १५,
१० : १; प्रवृहेत् बौश्रौ २३, ५ :
३३.

प्रवृहयति काठश्रौ ८८^०.

प्र-वृंहण- -णे बौश्रौ २३, ५ : ३३.

प्र-वृह्य आपश्रौ ७, २०, ४; २३, ७;
काठश्रौ.

प्र-वृक्त्- प्र√वृज् द्र.

प्र√वृज्, प्रवृणक्ति^५ आपश्रौ १५,
१२, १०; १२; १६, ९, ४;
बौश्रौ; प्रवृजन्ति माश्रौ २, २,
१, १४; ४, १, ४, प्रवृद्धि सु
१५, ३; प्रवृज्यात् काश्रौ १६,
७, ६; २६, ७, ५२; आपश्रौ.
प्रवृज्यते वाधुश्रौ ३, ९ : २०;
या ५, २८; ८, ९.

प्रवावृजे शुभ्र ३, २०५; या ५,
२८^६.

प्र-वर्ष^६- -र्षे शुभ्र ४, १७४.

प्रावर्षिक^६- -कस् बौश्रौ २०, २;
४; -कात् बौश्रौ २०, २ : ३.

प्र-वर्ष^६- -र्षेः शाश्रौ ५, १०, ३५;
१४, ४०, १८; बौश्रौ; वा२ ७,
१७^१; -र्ष्यस् वाश्रौ ५, १०, ३६;

काश्रौ ८, ३, १८^६; आपश्रौ;
बौश्रौ ९, १९ : १५^१; बौ२ ३,
४, ९^१; मा२ १, २३, २१^१;

-र्ष्यस्य बौश्रौ ६, २० : १××;
माश्रौ २, २, ५, २८; वैश्रौ १६,
४ : २; -र्ष्यात् वैताश्रौ ४, २३;

-र्ष्याय आपश्रौ १५, २१, १५;
बौश्रौ ९, १९ : ६^१; २० : २६;
माश्रौ; बौ२ ३, ४, ३^१; -र्ष्ये

आपश्रौ १५, २, ९; १३; १६,
२४, १५; बौश्रौ; -र्ष्येण आश्रौ

४, ६, १; काश्रौ; आपश्रौ १५, ६,
११^१; बौश्रौ ९, ६ : ११^१; १२ :

९; २३; १७ : ३; माश्रौ ११,
६, ११^१; वैश्रौ १३, ७ : २६^१;

हिश्रौ २४, २, ७^१; जैश्रौ २३ :
५^१; -र्ष्येषु हिश्रौ १७, ४, १६;

वृदे ५, ३५.
प्रवर्ष्य-कल्प- -ल्पस् माश्रौ ४,
१, १; -ल्पे मा२ १, ४, १४.

प्रवर्ष्य-चरण- -णस् काश्रौ २६,
२, २.

प्रवर्ष्य-देवता- -ताः बौश्रौ ९,
१९ : १४; २१; ३०; ४०××;

बौ२; -ताभ्यः बौश्रौ ९, १९
५××; बौ२.

प्रवर्ष्य-पशु-कर्मन्- -मंणि
जैश्रौका ३४.

प्रवर्ष्य-पात्र- -त्राणि आश्रौ १२,
४, ५; वैश्रौ १३, ६ : ११;

-त्रेभ्यः आपश्रौ १५, १, १२;
माश्रौ ११, १, १७; वैश्रौ १३, १:
१८; हिश्रौ २४, १, ८.

प्रवर्ष्य-प्रायश्चित्त- -त्तानि वैश्रौ
१३, १४ : ९.

प्रवर्ष्य-वत् बौश्रौ १९, १० : १४.
प्रवर्ष्य-वत्- -वति काठश्रौ

१०३; बौश्रौ ९, १८ : १; वैश्रौ;
-वान् आश्रौ ५, १३, १; शाश्रौ.

प्रवर्ष्य-वती- -त्यः माश्रौ ६,
१, ५, २६.

प्रवर्ष्य-संभरण- -णे वैश्रौ १८,
१ : १५.

प्रवर्ष्य-संभार- -रान् वैश्रौ १३,
८ : ३.

प्रवर्ष्य-सामन्- -न्तः द्राश्रौ ६,
४, २; लाश्रौ २, १२, २.

प्रवर्ष्य(र्ष्य-अ)नुवाक्य^६- -क्येन
वाश्रौ २, २, ३, २५.

प्रवर्ष्य(र्ष्य-अ)र्थे- -र्थस् जैश्रौका
४६; -थान् वैश्रौ १३, ७ : ८.

प्रवर्ष्य(र्ष्य-आ)वर्त-भूषण^७-
-णः विध १, ८.

प्रवर्ष्य(र्ष्य-उ)स्तादन^८- -नम्
काश्रौ १८, ३, ९; २६, ७, १.

प्रवर्ष्य(र्ष्य-उ)द्वसन- -नानि

a) बस. । b) धा. वृद्धौ वृत्तिः । c) धा. हिंसायां वृत्तिः । d) पाभे. वैप १, २२१० p द्र. ।

e) सप्र. काश्रौ ७, ९, २३ उद्बृहति इति पाभे. । f) वैप १ द्र. । g) = प्र-वर्ष्य- । उप. कर्मणि प्र. ।

h) = पयस्- । तान्त्रभविकष् ठक् प्र. । i) = कर्म-विशेष- (आश्रौ ४, ६, १ प्रघ्.) । उप. अधिकरणे प्र. । शिष्टं वैप

१ द्र. । j) सप्र. ष्यः <> ष्यस् इति पाभे. । k) = (उपचारात्) पात्र- (तु. विद्याधरः) । l) = (उपचारात्)

देवता- । m) पाभे. वैप १, २२०९ j द्र. । n) कस. । o) विप. (विष्णु-) । षस. > बस. । आवर्त- = माला-

(तु. कृष्णपरिडतः) । p) = कर्म-विशेष- । बस. पूष. = पात्र- ।

जैश्रीका ३४.

प्रवर्यो(र्य-उ)द्वासन- -ने

जैश्रीका ६८.

प्रवर्यो(र्य-उ)पसद्- पाग २,

४, १४; -सदः द्राश्री १४, ३, ९;

लाश्री ५, ७, ८; -सदोः वाश्री

२, २, ५, १७; -सदौ काश्री ८,

२, १४; आपश्री ११, ४, ११××

बौश्री; -सद्भ्याम् आपश्री ११,

४, १; १५, १२, ४; बौश्री ६, २१:

२४××

भाश्री.

प्रवर्योपसन्-चिति-होम^३-

-मः हिश्री १२, १, १.

प्र-वृक्त- -क्ते बौश्री २९, ११ : १८.

प्र-वृज्य आपश्री ९, २०, १; १५,

१२, १३××

बौश्री.

प्र-वृज्य- -ज्यः आपश्री १५, १८,

१३-१५; भाश्री ११, १९, २; ६.

प्र-वृज्यमान, ना- -नस्य आपश्री ९,

१२, ९; -नायाम् हिश्री १०, ८,

१२.

प्र-वृञ्जन- -नम् आपश्री १५, १८,

११; भाश्री ११, १९, १; -नानि

भाश्री ११, १९, ७; -ने बौश्री

१७, २८ : ४; २२, २ : १३;

-नैः आपश्री १५, १८, १६;

भाश्री ११, १९, ७.

प्रवृञ्जनीय- -यम् काश्री २६,

७, १४; बौश्री ९, ५ : १६; वैश्री

१३, ७ : २४; -ये बौश्री ९, ५ :

२२××

वैश्री १३, ९ : ७; -यौ

काश्री २६, ७, ४१.

प्रवृञ्जनीयो(य-उ)द्वासनीय-

-यौ वैश्री १३, १५ : ९.

प्रवृत्^४ बौश्री ३, २८ : १८.

प्रवृत्, प्रवर्तते लाश्री १०, ३, १३;

निस् ९, १० : ११; बौपि; प्रवर्तते

आश्री ७, १, ११; प्रवर्तन्ते याशि

२, ७८; प्रवर्तते वैग ६, १३ : ५;

द्राष्ट ४, २, ७; अय; प्रवर्तरेन् गोष्ट

४, ७, ३; मीस् ६, २, २३; २४.

प्रवर्तयति बौश्री २, १७:४७××

माश्री; प्रवर्तयन्ति आश्री ४, ९,

१; आपश्री ११, ६, ११; बौश्री;

प्रवर्तयामि आपश्री १२, १६, ७;

†प्रवर्तय ऋञ २, ७, १०४; वृदे

६, ३१; अञ ८, ४; प्रवर्तयेत्

काश्री २५, १४, ८; आपश्री १२,

१६, ७; बौश्री; प्रवर्तयेयुः बौश्री

१४, ३ : २; वैश्री १४, ५ : १८;

तैषा ४, ५२†.

प्र-वर्त- -तैम् आपश्री १९, २३,

११; १३; २४, २; बौश्री १३,

३१ : ६××

आमिष्ट १, ३, ४ :

१८; -तौ बौश्री १७, ३९ : ५;

४१ : १२; जैश्री.

प्र-वर्तक- -कः शंघ ३७८.

प्र-वर्तन- -ने बौध २, १, ७.

प्र-वर्तम् आपश्री ११, ८, २; हिश्री

७, ५, २७; ७, २१.

प्र-वर्तमान- -नम् बौश्री १७, ४३ :

३; आमिष्ट १, ४, १; १६; शंघ ८३.

प्र-वर्तयत्- -यन् वैध २, ५, ५; वृदे

२, ६१.

प्रवर्तयन्ती- -न्तीम् गोष्ट २,

१, १९.

प्र-वर्तित- -तः मीस् १०, ३, ४;

-तम् अप ३७, १९, २.

प्र-वर्त्यमान- -नम् वाश्री ३, ४, १,

५०; -कानाभ्याम्^५ शांश्री ५, १३,

२; काश्री ८, ४, १; आपश्री ११,

६, १०^३; बौश्री ६, २५ : १;

माश्री २, २, १६; वैश्री १४,

५ : १६; हिश्री ७, ५, ५^२; -ने

द्राश्री १४, ४, १५; लाश्री ५,

८, १४; वैताश्री १५, ११.

प्र-वृत्^६- -वृत्, -वृत्म्, -वृत्ते

वैताश्री २६, ८†.

प्र-वृत्, ता- -त्तः बौश्री ९, १७ :

६; १४, ७ : ९××

शंघ ३७७ :

३; बौध ४, ७, १; -त्तम् काश्री

१, ४, १४; बौश्री; -त्तस्य वैश्री

१४, १६ : ५; हिश्री; -त्ता

अप्राय ६, ३^३; विध २३, ६१;

-त्ताः अप्राय ६, २; -त्तानाम्

अप ६४, ४, ७; -त्तानि आपध २,

२२, ३; २३, २; हिध २, ५,

१३३; १५७; -त्तायान् बौश्री

२९, ११ : ९; जैश्रीका ६४; -त्ते

आश्री १२, ४, २२; शांश्री; या

१, ९; -त्तेषु शांश्री १३, ३, १;

-त्तौ शांश्री १६, १८, ८.

प्रवृत्त-त्व- -त्वात् मीस् ३, ५,

४७; ८, १, ३^३; ४, १८^६; ९, ४, २९.

प्रवृत्त-वरण^७- -गात् मीस् १२,

१, ३५.

प्रवृत्त-शि(खा >)ख^८- -खाः

आष्ट ४, २, १^६.

प्रवृत्त(त्त-अ)प्र^९- -प्रान् वाध

a) मलो. कस. > सस. । b) पृ १७२९ e द्र. । c) पाभे. वैप २, ३खं. प्रवर्त्यमानाभ्याम् टि. द्र. ।

d) वैप १ द्र. । e) प्रवृत्तित्वात् इति जीसं. प्रसृ. । f) सस. । g) विप. (अमात्य-) । बस. पूप. = चित्तस्त- ।

h) सप्र. आश्री १०, ८, ८ इतरान् प्रवृत्त्य इति, बौपि १, ३ : १६; २३ प्रकीर्णकेशाः इति, हिपि १ : १५ केशान्

प्रकीर्ण इति, हिपि २ : १३ सव्यान् प्रवृत्त्य इति, बौपि १, ४० सव्यतः केशान् प्रकीर्ण इति च पाभे. । i) विप. ।

बस. पूप. = छिन्न- ।

१५, १२.
 प्रवृत्ता(त्-अ)तिपत्ति- -त्तौ
 अप्राय ४, ४.
 प्रवृत्ता(त्-अ)शिन्^a - -शिनः
 बौध ३, ३, ९; ११.
 प्र-वृत्ति- -त्तयः कौण्ड १, ३, १०;
 शाण्ड १, ८, ५; -त्तिः शांश्रौ ३,
 १९, ७; कौसु; वैध १, ९, १२;
 १३; मीसु ६, ३, १; ७, १, ७;
 -त्तिमिः या २, २१; १३, १३;
 -त्तेः काश्रौ १, २, ११; मीसु ९,
 ४, ५४; -त्तौ माश्रौ १, ३, ५,
 २९; पावा; मीसु १०, ८, ६^b;
 -च्या मीसु ५, १, ८; ४, २; ६, ५,
 ११; ७, ४, १९.
 प्रवृत्ति-कारण- -गम् आपध १,
 ४, ९; हिघ १, १, १२८.
 प्रवृत्ति-तसः (ः) पावा ३, १, ७.
 प्रवृत्ति-लक्षण^c - -गः हिश्रौ ३,
 १, २४.
 प्रवृत्ति-लिङ्ग^d - -ङ्गेन मीसु ८,
 ३, ४.
 प्र-वृत्त्य^e आश्रौ १०, ८, ८^f; कौसु
 २४, २१^h.
 प्र-वृत्तिक^g - -कानाम् सुध ५.
 प्र-वृद्ध्, प्रवर्धते अप १, ९, ५; ७;
 प्रवर्धन्ते वाधुश्रौ ४, १०३ⁱ;
 १०; अप ६६, ३, ४; प्रावर्धन्त
 वाधुश्रौ ४, १०३ⁱ : ९.
 प्रवर्धयति हिश्रौ १३, ३, ३^l.
 प्रवर्धयते या ११, ६; ३६; प्र-
 वर्धयति आपश्रौ १६, १७, १२;
 १८, १२, १; वैश्रौ; प्रवर्धयन्ति
 हिश्रौ १३, ५, १; प्रवर्धयतु या

१०, ३५; प्रवर्धयन्तु या १२,
 ३९; प्रवर्धय या ४, ७; १०, ४०;
 ११, ३०.
 प्र-वर्धन् - -ने अप ७२, ३, १०.
 प्र-वर्धमान- -न्तः अप १८^l, १, १.
 प्र-वृद्ध्, द्वा- पाग ६, २, १४७; -द्वाः
 अप १, ६, ९; -द्वाम् या ११,
 ११; -द्वाः अप ६५, १, ९.
 प्रवृद्ध्-चेतस्^m - -तसः या ९,
 २०; -ताः या ८, ५.
 प्रवृद्ध्-प(द>)दाⁿ - -दा निस्
 १, ४ : ८.
 प्रवृद्ध्-स्कन्धशाखा(खा-अ)-
 न्वित- -पावनि(?)तलरूह-
 -हान् अप ६५, १, ९.
 प्र-वृद्धि- -द्धये अप १, ४०, ३; -द्धौ
 काश्रौ ३, २, २२; ५, १५; ८, ३, ४.
 प्र-वृश्च् (<वश्च्) प्रवृश्चति
 आपश्रौ १४, १४, १; बौश्रौ १४,
 १८ : १४; प्रवृश्च अश्र १२, ५
 (७)†; प्रवृश्चयुः बौश्रौ १४,
 २८ : ४; ५.
 प्र-वृष्, प्रवर्षति अप ६२, ४, ३; ६५,
 १, ८××; प्र-वर्षति कौसु
 १२७, ११; प्रवर्षयुः अप ५९, १,
 १८.
 प्र-वर्षण- -णे अप ७१, १, ५.
 प्र-वर्षत् - -र्षति विघ ६३, ४३.
 प्रा (<प्र)-वृष्^o - पावृ २, ५७;
 -वृट् आपश्रौ ८, ४, १३†;
 -वृषा आश्रौ ४, १२, २†;
 -वृषि काश्रौ ६, १, १; आपश्रौ.
 प्रावृट्-काल- -ले विघ ७८, ५२.
 प्रावृट्-शरद् - -रदौ वैश्रौ १,

१९ : १३.
 प्रावृषिक- पा ४, ३, २६.
 प्रावृषि-ज- पा ६, ३, १५.
 प्रावृषीण^p - -णे वाधुश्रौ ३, ६९;
 ८.
 प्रावृषेण्य- पा ४, ३, १७.
 प्र-वृह् प्र-वृह् द्र.
 प्र-वृ, प्रवयति काश्रौ १५, ५, ४;
 आपश्रौ २१, १७, ९; बौश्रौ;
 प्रवयन्ति शांश्रौ १७, ३, ७.
 प्रो(प्र-उ)त- -तम् बौध २, ७, १५.
 प्रो(प्र-उ)त्य बौश्रौ १७, ४१ : ६;
 १२; आमिगृ.
 प्र-वेक- प्र-विकृ द्र.
 प्रवेणतः^q बौश्रौ २६, ५ : ३०.
 प्र-वेप्, प्र-वेपिन्- प्र-विवृ द्र.
 प्र-वेश-, वेशक- प्रसृ. प्र-विशृ द्र.
 प्र-वेष्ट, प्रवेष्टयते हिश्रौ १०, २, ९;
 प्रवेष्टयति बौश्रौ ४, ४ : ३९××;
 भाश्रौ; प्रवेष्टयन्ति बौश्रौ ११,
 ६ : २७; १२, ७ : ३७; प्रवेष्ट-
 येत् आपश्रौ ७, ११, ८; बौश्रौ
 १७, १३ : १३; हिश्रौ ४, २, ७०.
 प्र-वेष्टय आपश्रौ ७, ११, ९; बौश्रौ
 १, ३ : ३; हिश्रौ.
 प्र-वेष्टय्य- प्र-विशृ द्र.
 प्र-व्यथ् > प्र-व्यथित- -न्तः वृदे ५,
 १८.
 प्र-व्यथ्, प्र-व्याथ- प्र-विवृ द्र.
 प्र-व्ये > प्र-वीथ आपश्रौ ७, ११, ९.
 प्र-वृज्, प्रवृजते काश्रौ ३४; प्रवृजति
 आपश्रौ २४, १२, १०; वाधुश्रौ
 २, ६ : ४; वैश्रौ; प्रवृजामि वाधुश्रौ
 ३, ५ : ३; प्रवृजेत् आश्रौ २, ५,

a) = वानप्रस्थविशेष- ।

b) प्रकृतौ इति जीसं. ।

c) बस. । d) प्रवृत्^o इति आन. ।

e) घा. किलंसने वृत्तिः । f) प्रवृत्त्य इति आन. । g) पाप्मे. पृ १७३३ h द्र. । h) प्रवृत्त्य इति संस्कृतुः टि. ।

i) प्रवृत्त्ययति इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सप्र. आपश्रौ १८, १२, १ प्रवर्धयति इति पाप्मे.) । j) वैप १ द्र. ।

k) विप. (आश्वत्य-) । ख > ईनः प्र. उत्सं. (पा ४, ३, १७) । l) पाठः? प्रवृजतः (उभयोः पार्श्वयोः) इति भवस्वामी ।

४; शांश्रौ १६, १६, १; बौश्रौ;
प्रव्रजेत् वाध १९, ३४; प्रव्रजेयुः
लाश्रौ ८, ८, ६; भाष्ट २, २७ : १.
प्रवव्राज बौश्रौ १८, ४४ : २२;
४७ : १६.
प्र...व्राजेयुः^a वाधूश्रौ ३, १०६ :
७.

प्र-व्रजत् - जत्सु शांश्रौ ५, १०, १४;
-जन् वाधूश्रौ ४, ८९ : ३३;
हिष्ट १, १६, १७^b.

प्र-व्रजन - > न-मन्त्र - नन्त्रः वाश्रौ
३, २, ६, ४५.

प्र-व्रजिता, ता - पाग २, १, ७०; -तः
आपध १, १८, ३१^c; -तस्य
बौश्रौ २०, २३; ६; -तायाः विध
३६, ७; -तायाम् बौश्रौ १८,
४५ : १३; ३२; -ते वाध १९,
३७; विध ६, २७; गौध १८, १७
प्रव्रजिता-गमन - ने शंघ ३७७:
१९.

प्र-व्रजिष्यत् - व्यतः लाश्रौ १०,
१९, ११.

प्र-व्रज्य विध ९६, १.

प्र-व्राज^d - जम् बौश्रौ १८, ४४:
२३.

प्र-व्रियमाण - प्र०वृ (वरणे) द्र.

प्र०वृत्ति, वृत्ती, प्र...वृत्तनीयात् वाधूश्रौ
४, ३० : २^e; ४; प्रवृत्तनीयात्
आपश्रौ १३, ७, १२.

प्र०शंसु, प्र०शंसति शांश्रौ १२,
१६, १; काश्रौ १३, ३, ७; आपश्रौ;
या ९, ८; प्र...शंसति तैषा ७,
१६^f; प्रशंसन्ति बौश्रौ २, १४:
९; १५, ४ : ३; वैश्रौ; प्र...

शंसामि या ५, ९^g; प्र(शंसामि)
आश्रौ ३, १३, १४××; शांश्रौ;
प्रशंस > सा ऋप्रा ७, ३१;
प्रशंसियुः शंघ २१८.

प्रशंस ऋध २, ५, ६१; प्र-
शंसिषः क्षुम् १, ३ : १५; या
१४, २८^h; ऋप्रा १८, २; प्र-
शंसीः या १४, २८; प्र...
शंसिषम् आश्रौ ६, २, ६; आपश्रौ
१४, २, १३; बौश्रौ १७, ३ : ४;
हिश्रौ ९, ७, २१; प्र(शंसिषम्)
आश्रौ ६, ४, १०; वांश्रौ.
प्रशस्यते कप्र १, ६, १२××; अप;
प्रप्र (शस्यते) ऋध २, १,
१३८; वृदे ४, ७; प्रशस्यन्ते या
९, ९.

प्र-शंसत् - प्रसन् आपध २, २४, ९;
बौध २, ६, ३६ⁱ; हिध २, ५,
१७३.

प्र-शंसा - सा आपश्रौ २४, १, ३३^j;
बौश्रौ २, १५ : ६××; हिश्रौ;
-साम् या ४, २४; ९, १०;
-सायाम् पा ३, २, १३३; ५, ३,
६६; ४, ४०; ६, २, ६३; ७, १,
६६.

प्रशंसा-कीर्तन-गान-श्रेषण-
वृत्ति^k - त्तिः वैध ३, १३,
११.

प्रशंसा-नामन् - म या ५, ८,
प्रशंसा (सा-अ)र्थ - र्थम् मीत्
१०, ८, ६८.

प्रशंसा-वचन - नैः पा २, १,
६६.

प्र-शंस्य वैष्ट ४, ११ : ५.

प्र-शस्त, स्ता - -स्त बौश्रौ ९, ७ :
२^l; -स्तः बौश्रौ २३, ४ : २२;
अप ७०^m, २, ५; हिध २, ५,
७५ⁿ; -स्तम् आपश्रौ १४, १६,
१; १९, ३, २; बौश्रौ; हिध १, ८,
३२^o; या ५, १०^p; -स्ता अप
२६, ४, १; ३०, १, ४;
आज्यो ६, ४; -स्ताः बौश्रौप्र
१४, १; आपृ २, १०, ८^q;
भाष्ट; -स्तानाम् वाध १४,
१५^r; गौध १७, १; -स्तानि
अप १, ३१, ३; विध ७९,
२२; गौध २७, १२; -स्ताम्
ऋप्रा १५, १; -शस्तः^s आपध
२, १९, ३^t; -शस्तम्^u आपध
१, ३१, १२^v.

प्रशस्त-मङ्गल्य-देवायतन-चतुष्प-
था(थ-आ)दि^w - दीन् गौध
९, ६६.

प्रशस्त-लक्षण^x - गम् अप १,
४२, ३.

प्रशस्त-स्वप्न^y - ता - ताम् अप
६८, ३, ८.

प्रशस्तो(स्त-उ)र्वी-समुद्भव^z -
-वः कप्र १, ७, १.

प्र-शस्ति - स्तयः आपश्रौ १४,
३३, ६^{aa}; माश्रौ ६, २, २, २१^{ab};
वाश्रौ २, २, २, १^{ac}; हिश्रौ १५,
८, ४^{ad}; -स्तिभिः या १०,
५^{ae}; -स्तिषु बौश्रौ ११, ६ :
२०.

प्रशस्ति-कृत^{af} - कृत् उस् ८,
३०^{ag}.

१प्र-शस्य वृदे ४, ६०.

a) पाठः ? व्रजेयुः इति शोषः विमृश्यः । b) पृ २८७ g द्र. । c) पाभे. पृ ४०९ f द्र. ।

d) न. नाप. (प्रदेश-)। उप. अधिकरणे घञ् प्र. । e) द्वस. > बस. । f) सप्र. शस्तः <> श्वास्तः इति पाभे. ।
g) परस्परं पाभे. । h) सादृश्यात् वावि. इति षाङ् (१, ३९) । i) मङ्गल्य- = दधिघृतादि- । j) बस. ।
k) कस. > बस. । l) वैध १ द्र. ।

प्र-शस्य- -स्यः वृदे ३, ३; या १, १६; ८, ७; ११, ३९; १३, १२; -स्यम् बौध २, ८, १; -स्यस्य अप ४८, ६२; निघ ३, ८; पा ५, ३, ६; -स्ये अप ४८, ६०; पा ४, ४, १२२.
 प्रशस्य-तम- -मः वाध १, ३.
 प्रशस्य-नामन्- -मानि निघ ३, ८; या ३, १३.
 प्र०शद्, प्रशातयति भाश्रौ १, ६, ९.
 प्र-शत्स्वन्- पाठ ४, ११७.
 प्र-शाल्य आपश्रौ १, ६, ७; हिश्रौ १, ३, १.
 प्र०शम्, प्रशाम्यति अप ९, ३, ५; ७०, ९, ६; प्रशाम्यन्ति आज्यो १४, ९.
 प्रशाम्यन्ति आज्यो १४, ८;
 प्रशाम्य अप ३६, १, ६१; ११;
 प्रशामयेत् विध ३, ६८.
 प्रशामयत् वृदे ४, ५३.
 प्र-शाम- -मम् अप ३१, ३, ५.
 प्र-शान्^a पाग १, १, २७.
 प्र-शान्त- -न्तः जैगृ १, १२ : ६८;
 शैशि १५३; याशि १, २३;
 नाशि १, ६, १२; -न्तम् वाध ६, ३०.
 प्रशान्ता(न्त-श्रा)त्मन्^b -त्सा विध ९७, १.
 प्र-शान्ति- -न्तिः अप ७०^३, ११, २३.
 प्र०शस् (हिंसायाम्) > ऋप्र-शस्^c-

-शसा आश्रौ ३, ३, १; शाश्रौ ५, १७, ५; माश्रौ ५, २, ९, ४.
 २प्र-शस्य भागृ २, १५ : ३.
 प्र-शस्त- , प्र-शास्ति- , १प्र-शस्य प्रभ.
 प्र०शंसु द्र.
 प्र-शात्य प्र०शद् द्र.
 प्र०शास्, प्रशास्ति या ३, ४;
 प्रशासति अप ५०, ४, ७; ऋप्र...
 शास्ति ऋप्रा १४, ३६; ४७.
 प्र-शासन- -नम् या ५, ११.
 प्र-शास्तृ^c- पाठभो २, १, १४५; पा ६, ४, ११; पाग ५, १, १२९^d;
 -ऋस्तः आश्रौ ५, २, ११; ११, १; शाश्रौ; -स्ता आश्रौ ५, ५, १७xx; शाश्रौ^e १, ४, ५; ७, १४, ९; आपश्रौ १६, १५, ७;
 बौश्रौ; अप्राय ६, २^fऋ^g; -स्तास्
 आश्रौ ३, १, १६; बौश्रौ; -स्तारौ
 काश्रौ २, ८, ९; आपश्रौ; -स्तुः
 काश्रौ ११, १, २४; आपश्रौ;
 -स्त्रा द्राश्रौ ५, २, २०; लाश्रौ २, ६, १३; -स्त्रे काश्रौ २, १४, ९;
 बौश्रौ ८, ६ : १०; वैश्रौ १५, ३० : ११; -ऋस्त्रोः आश्रौ ३, १, १६; १७; शाश्रौ.
 प्राशास्त्र- पा ५, १, १२९;
 -ऋस्त्रात्^h काश्रौ २, ८, ९;
 काठश्रौ १३१.
 प्रशास्तु-धिष्य- -ष्यम् काश्रौ ११, १, २७.
 ऋप्रशास्त्रⁱ- -स्त्रात् आपश्रौ ७,

१४, ५; ११, १९, ८; काठश्रौ १३०; बौश्रौ ४, ६ : ९; ७, ९ : ७; भाश्रौ ७, ११, ५; माश्रौ २, ३, ६, १७; वैश्रौ १०, १० : १९; हिश्रौ ७, ८, ४२.
 प्रशास्त्रा(स्तु-श्रा)दि- -दीन् काश्रौ ९, ११, ७; -दीनाम् वैताश्रौ २२, ६.
 प्रशास्त्रीय- -यम् आपश्रौ ११, १४, ४; हिश्रौ ८, १, ७३; ९, १, २१; १०, ८, ४९; -ये हिश्रौ १२, ६, २६.
 प्र-शास्य वृदे ४, ९५.
 ऋप्र-शिधि- -ष्टौ आश्रौ २, ११, ८^h.
 ऋप्र-शिस- -शिषम् आपश्रौ २, २०, ६ⁱ; बौश्रौ २४, २९ : १८; भाश्रौ २, १९, १; हिश्रौ २, ५, ४७; -शिषा आश्रौ ३, १, १६; १७; शाश्रौ; वैताश्रौ ३, ९^k; सु २१, २; कौसू २, २१^lxx.
 प्र०शिष्, प्रशिष्यात् आश्रौ १२, ९, ९.
 प्र-शीर्य प्र०शु, शृ द्र.
 प्रशुकीय^m- -यम् शाश्रौ १०, १३, १८.
 प्र०शुच (दीप्तौ), प्र...शोचेष्ट आपमं १, ९, ३ⁿ.
 प्र०शुम्, प्र...शुम्भन्ते आश्रौ ७, ७, ४; ऋशाश्रौ ११, ७, १२; १२, १५;
 ऋअ ३, १, ८५; प्र(शुम्भन्ते) ऋअ २, १, ८५; वृदे ३, १२१.
 प्र०शु (<श्रा) > प्र-शुत- -तम् कौसू ३०, १५.

a) मकारस्य नकारादेशः (पा ८, २, ६४)। b) बस.। c) वैप १ द्र.। d) प्रशो इति भागडा. ? (तु. पाद्म. प्रभ.)। e) ंस्त आ इति पाठे ह्रस्वः प्रकृतिभावश्च उच्यते. (पा ६, १, १२७ [तु. 0.]। f) प्रशो इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सपा. ऋ २, ५, ४)। g) पाठः ? प्रशास्त्रात् इति शोधः (तु. सर्पा. खि ५, ७, ५, ६ आपश्रौ ७, १४, ५ प्रभ.)। h) कर्मणि अच् प्र. उच्यते. (पा ५, १, १२९ [तु. वैप १, १८४८ e])। i) प्रविष्टौ इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आन., सपा. तैत्रा २, ४, ६, १२ प्रशिष्टिम् इति पाभे.)। j) प्रा इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. तैत्रा ३, ७, ५, ११ बौश्रौ. प्रभ. BC. च)। k) पाभे. वैप २, ३खं, प्रशिषा गोत्रा २, १, २ टि. द्र.। l) =सूक्त-। <प्र शुक्रा (ऋ ७, ३४, १)। m) =प्रसविषीष्ट इति हरदत्तः (भू [LXIX]) ?।

प्र√श्रु,श्रु (हिंसायाम्), प्र...
 श्रुणामि अत्र २, ३२; प्र...
 श्रुणीहि अत्र १०, ३.
 प्र-शीर्य काश्रौ ३, ४, ४.
 प्र√श्रु(=श्रु), प्रम...श्रुवे^a आश्रौ
 ४, ५, ३; बौश्रौ १०, १७ : १२;
 प्रम(श्रुवे)^b बौश्रौ १२, ३५ : ३;
 वश्रौ २, १, ३, २४; वैश्रौ.
 प्र-श्रुत- प्र√श्रु(<श्रु) द.
 प्र√श्चुत्, प्रश्चोतन्ति वाधूश्रौ ४,
 ७४ : ५; प्राश्चोतत् वाधूश्रौ ४,
 ९४ : २; ९४^c : १.
 प्रश्चोतयति बौश्रौ २, ९ : ६;
 ९, २ : २९^d : ५; वैश्रौ १३, १३ : १०.
 प्र-श्रोत्य आपश्रौ २, १९, ७; वैश्रौ
 १३, १३ : ८.
 प्र-श्रन- प्रसृ. √प्रच्छ् द.
 प्र√श्रि, प्रश्रयते हिद्य १, ५, १०३;
 प्रश्रयति काश्रौसं २८ : ४.
 प्र-श्रित- -तः वाधूश्रौ ४, २६^e : ६.
 प्र-श्रित्य बौश्रौ ७, ५ : ९; ८, १ : ६.
 प्र√श्रिलष्>प्र-श्रिलष्ट- पाग ६, २,
 १४६; -ष्ट.^b ऋप्रा ३, ३४;
 शुप्रा १, ११६; तैप्रा २०, ५;
 दौश्रि २३६; याश्रि १, ७६; ८१;
 कौश्रि ८; १६; नाश्रि १, ८, १०;
 २, १, ९; -ण्ष्टम् शाश्रौ १२,
 १३, ५^b; निस् १, ७ : ३२^c;
 ऋप्रा २, ६^d; ३, १८^b; नाश्रि
 २, १, ६^b; -ष्टस्य कौश्रि १९^b;
 -ष्टाः ऋप्रा २, २०^c; -ष्टात्
 ऋप्रा १३, २६^c; -ष्टेषु ऋप्रा
 ३, १४^c.

प्राश्रिलष्ट^e- -ष्टः शौच ३,
 ५६.
 प्राश्रिलष्ट-निर्देश- -शात् पावा २,
 ४, ८५.
 प्राश्रिलष्ट-प्रातिहत- -तयोः तैप्रा
 २०, ११.
 प्र-श्लेष^f- -षः ऋप्रा १०, २०; -वे
 ऋप्रा ३, १३; शुप्रा ५, ३३.
 प्रष्टव्य- √प्रच्छ् द.
 प्राष्टि^g- -ष्टिम् शाश्रौ १२, १६, ११^h;
 बौश्रौ ११, ६ : २५××; -ष्टी
 आपश्रौ २०, १६, २; बौश्रौ २०,
 २० : १६ⁱ; द्राश्रौ ५, ३, २६;
 १०, ४, १४ⁱ; लाश्रौ २, ७, २३; ३,
 १२, १४ⁱ; -ष्टीः बौश्रौ २०,
 १३ : १७ⁱ.
 प्राष्टि-वाहिन^j- -हिनम् आपश्रौ
 १८, ३, ३; १७, १; बौश्रौ; -ही
 आपश्रौ १८, ९, १३; बौश्रौ १८,
 २० : ७; १९; हिश्रौ १३, ३,
 ३६.
 प्रष्टव(ष्टि-अ)न्तर- -रयोः द्राश्रौ
 ३, ४, ७.
 प्र-ष्ट प्र√स्था द.
 प्रष्टीला^k- -लाम् वाधूश्रौ ३, १०३ : १; २
 प्र√ष्टीव्, प्रष्टीवन्ति आश्रौ ६, १३,
 १०.
 √प्रस् पाधा. भ्वा. आत्म. विस्तारे.
 प्र√सञ्ज प्र√सह द.
 प्र-सं√ख्या>प्रसं-ख्यान- -नात्
 आपश्रौ २४, २, ३७; मीस् ३, ४,
 ७××.
 प्रसं-ख्याय आश्रौ ९, १, ९; ३, १९;
 हिश्रौ ७, २, ६२; आप.

प्र√सञ्ज, प्र...सञ्ज>क्ष्वा ऋप्रा
 ४, ६४; ७, ३३.
 प्र√सञ्ज, ञ्. प्रसजति बौश्रौ ११,
 ३२ : ४; प्रसजेत् लाश्रौ १०, ४, ३.
 प्रसज्यते पावा १, १, १९; २, ९;
 प्रसज्येत निस् ६, ९ : २०; अप
 ४४, २, २.
 प्र-सक्त- -क्तान् वैश्रौ १४, ५ : १०.
 प्रसक्ता (क्त-अ)दर्शन- -नस्य
 पावा १, १, ६०.
 प्र-सङ्ग- -ङ्गः काश्रौ १, ४, ८; पावा
 १, २, २२××; मीस्; -ङ्गात्
 आश्रौ १, १, २२; काश्रौ; -ङ्गे
 बौश्रौ २९, ८ : १०; पावा १,
 १, ५१; -ङ्गेन बौश्रौ २७, ११ :
 १३; १६; अप; -ङ्गौ पावा १,
 ४, २.
 प्रासङ्गिक- -कम् आपश्रौ
 १२, २५, १४; कप १, ५, ११;
 वाध १९, २९; मीस् ५, १, २८;
 -के मीस् ९, ४, २६.
 प्रसङ्ग- -ङ्गः पावा ४, १, १५;
 ४८××; -ङ्गे पावा ४, १, ८५.
 प्रसङ्ग(ज>)जा- -जा वृदे ३,
 २८.
 प्रसङ्ग-तसः(ः) वृदे ५, १७१.
 प्रसङ्ग-परिकीर्तन- -नात् वृदे
 १, २२.
 प्रसङ्ग-सामर्थ्य- -र्थ्यात् पावा
 १, १, ४४.
 प्र-सञ्ज> ञ्ज्य-प्रतिषेध- -धात्
 पावा १, १, ४४; २, १; -धे पावा
 ७, ३, ८५.
 प्रा-सङ्ग^k- -ञ्चत् ५, २, ८.

a) वैप १ द. । b) = स्वरित-भेद- । c) = संधि-भेद- । d) विप. (पद-) । e) नाप. । स्वार्थे ञ्ण प्र. ।
 f) भाप. । g) पाभे. वैप १, २१०९० द. । h) = आहुति-विशेष- । i) = (उद्गातृपाश्र्ववर्तिनात्) प्रस्तेवृ-
 प्रतिहर्तृ- । j) = आच्छादित-भूमि- । व्यु. ? । प्र√स्तृ > प्र-स्तिर्- (भाप.) + धा- (भाप.) > वैप. यनि. ? ।
 k) = युग-भेद- । कर्मणि ञञि पूष. दीर्घः ।

प्रासङ्ग्य- पा ४, ४, ७६;
 -ङ्यम्: बौश्रौ १८, ३५: ७^०;
 -ङ्ग्यौ बौश्रौ २६, ११: १३^०.
प्र√सज् (<√सज्), प्रसज्जेत
 वाघ ११, २७; बौध २, ८, २१.
प्र-सं√चक्ष्, प्रसंचक्षीत द्राश्रौ ६, १,
 ९; लाश्रौ २, ९, ६.
प्र√सद्, प्रसदीदत् ऋश्च २, १०,
 ४६; साश्र १, ७७; उनिसू ४:
 ११; प्रसदीदत् अप २०, ६, ३;
 प्रसदीदन्तु अमिष्ट २, २, १०;
 ३: २५; वैष्ट ४, ४: ५; जैष्ट १,
 ६: ९; प्रसदीदत्^० आपमं १, १,
 १; बौष्ट १, १, १४.
 प्रसादयेत् गोपि २, ६, १४; वाघ
 २१, २८^०.
 प्रसादयाम् √अस्, प्रसादया-
 मास वृदे ८, ३.
 प्र-सत्त्वन्- पाउना ४, १२७.
 प्रसत्त्व काश्रौ १६, ६, २९; आपश्रौ
 १६, १२, १२; बौश्रौ.
 प्र-सन्न,ञ्जा- -ञ्ज: अप ७०^३, ५, ३;
 वैध २, १४, ९; वृदे ५, १९;
 -ञ्जम् नाशि १, ३, १^०, ४^{२०} कृ^०;
 -ञ्जा अप १, ४५, ५; -ञ्जा: आमिष्ट
 २, ३, ३: २६; अप ६३, १, ८;
 ७०^३, ३, ३; वृदे ६, ८९; -ञ्जानाम्
 बौश्रौ २६, २: ३; -ञ्जानि अप
 ५२, ११, २; -ञ्जे अप ६८, २, ५०;
 -ञ्जेन अप ७०^३, २, ४; विध ९८,
 १०२; -ञ्जेषु अप ५२, ११, ३.
 प्रसन्न-ता- -ताम् अप २१, ७, ६.
 प्रसन्न-मनस्- -ना: आपध २,

१७, ४; हिध २, ५, ३२.
 प्रसन्न-हृदय^० -य: आमिष्ट २,
 ५, ४: १७; बौध ४, ६, १०.
 प्रसन्ना(ञ-ञ्ज)र्विस्- -र्वि: अप
 २४, ३, ५; ७०^३, ४, २.
 प्र-साद्- -द्: आमिष्ट ३, ३, १:
 १०; ११; -दम् गोष्ट ४, ५, १९;
 ८, ९; -दात् वाघ २१, २८;
 -दे अप ४८, २८; -देन अप
 १३, ५, २^३; विध १९, २२.
 प्रसाद्-तस्(:) जैश्रौका २; ऋश्च
 ३, २.
 प्र-सादन- -नम् अप ७०, ७, ५.
 प्र-सादयत्- -यन् अप १, ३८, ४^०;
 अशां ८, ४^०;
 वृदे ४, ९०.
 प्र-साद्य बौष्ट २, ११, ४४; बौपि
 २, ९, २१; ११, ८; विध.
 प्रा-साद्- ऋत ५, २, ८; पावा ६,
 ३, १२२; -द: अप ७०^३, १०, २;
 -दम् अप ३०^३, २, ७; ७०^३, २०,
 १; -दात् आमिष्ट २, ४, ३: ८^१;
 अप ६८, ५, २; -दान् शाश्रौ
 १६, १८, १३; वृदे ६, ५६;
 -दानि अप ७१, १५, ३; -दे
 अप ७०^३, ६, १०; आपध १, १७,
 ७^०; हिध^० १, ५, ३९^१.
 प्रासाद्-गोपुर-मुख^०- -न्वा: अप
 ७०^३, ११, २१.
 प्रासाद्-तोरण-ध्वज- -जेषु अप
 ७२, ३, ७.
 प्रासाद्-तोरणा (ण-ञ्ज)हाल-द्वार-
 प्रासादवेश्मन्- -श्मनाम् अप
 ७०^३, १४, १.

प्रासाद्-तोरणा(ण-ञ्ज)दि-
 -दीनि अप ५७, २, ४.
 प्रासाद्-ध्वज-तोरण- -णे अप
 ७०^३, १३, ५.
 प्रासाद्-ध्वज-शाला- -लासु
 अप ७०^३, ६, ६.
 प्रासाद्-माला- -लासु विध ९९,
 १०.
 प्रासादा(द-अ)दि- -दिषु अप
 ७०^३, २१, १.
 प्रासादा(द-अ)द्वि-विमान-
 -नानाम् अप ७१, २, २.
प्र-सद्स्- -दसि माश्रौ २, ४, २, २०;
 ६, १०; वाश्रौ ३, २, २, ३; ५, ४०.
प्र-सं√धा > प्रसं-धान- -नम् शौच
 ४, १११; १२२; -नाय बौश्रौ
 २८, ११: १२.
प्र-सम्√ईक्ष् > प्रसम्-ईक्ष्य विध
 ५१, ७२.
प्र-सं√पश् > प्रसं-पश्यत्- -श्यन्
 वाश्रौ १, १, ९.
प्र-संप्र√मुच्, प्र-संप्रमुच्यते शाश्रौ
 १४, ७, १^०.
प्र-सयन- प्र√सि द.
प्र-सर्ग-, प्र-सर्जं(न >) नी-
 प्र√सज् द.
प्र-सर्प-, प्र-सर्पक- प्रस्. प्र√सप द.
प्र-सर्वाण- प्र√स द.
प्र-सलविष्- -वि शाश्रौ १७, १४,
 १६; १५, ४.
 प्रसलवि-सु(ष्ठ >)ष्टा- -ष्टाम् वैष्ट
 ६५; ६; -ष्टामि: शाश्रौ १७, २, ९.
प्रसली^१ जैश्रौ ६: १०.

a) विप. ([प्रासङ्ग्ययुक्त-] अश्वरथ-) । तद्वति वृत्तिः । b) विप. > नाप. (उष्ट-) ।
 c) सपा. ऋ १०, ३२, १ प्रसीदतः इति पाठे । d) = गानगुणशुक्तिविशेष- । e) बस. । f) अर्थः ? ।
 g) = दारुमथ-मञ्च- इति हरदत्तः । h) प्र इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. आपध.) । i) दस. > बस. ।
 j) = सदः-प्रदेश-विशेष- । प्रास. । k) = प्रदक्षिण- । अस. वा. क्तिवि. । l) = प्रसलवि- (तु. संस्कृत-
 ननुवादः [१०]) ।

प्रिसव वैग ५, ४ : ३६फं.
 प्र-सव^१- -वः शांश्रौ ६, ८, ८; १३;
 १९, ६; काश्रौ ७, १, २५;
 आपश्रौ; -वम् आपश्रौ २२, ४,
 १२××; बौश्रौ; -वाः आपध १,
 १३, ८; हिध १, ४, २२; -वात्
 काश्रौ ७, ३, १०; बौश्रौ ३, २४ :
 १४; जैश्रौका १६१; वैताश्रौ ३,
 ६; -फंवानाम् शांश्रौ ४, १०, १;
 १५, २२, १; आपश्रौ १८, १२,
 ६^b; बौश्रौ १०, ५६ : १^b;
 वाश्रौ ३, ३, २, १^b; हिश्रौ १३,
 ५, ४^b; वैताश्रौ; चाश्र १५ :
 ६^b; -वाय आपश्रौ १७, २, ६फं;
 वैश्रौ १४, १५ : ६फं; चाश्र ४० :
 ७फं; या २, १९; ७, २०; १३, ४;
 १४, ३३; -फंवे आश्रौ १, १३,
 १; शांश्रौ ४, ७, ५, ६, ८, ६^c;
 काश्रौ ११, १, १९^c; आपश्रौ;
 अष ३२, १, १४; या २, २६;
 ६, ७; -फंवेन शांश्रौ ४, ५,
 १××; आपश्रौ.
 प्रसव-द्वय- -ये जैश्रौका ११५.
 प्रसव-प्रभृति- -ति शांश्रौ ८, १५,
 ५.
 प्रसव-संयुक्त- -क्तम् बौश्रौ २५, ९ :
 ३.
 प्रसव-संनिपात- -ते आश्रौ ६, ६,
 ११.
 प्रसवो(व-उ)थान^d- -नम् चव्यू २,
 ३२.

प्र-सवितृ-, °विन्- प्र√स्(वधा.) द.
 प्र-सव्य^e- -व्यम् आश्रौ ६, १०,
 १३; १७; १२, ७; शांश्रौ १३, ११,
 ४; आपश्रौ; -व्यान् जैग २, १ :
 ७; -व्ये अष ५१, २, ४; -व्येन
 आगृ ४, ७, १२; -व्येषू कौसू
 २३, ३१.
 प्रसव्या(व्य-आ)वृ(त>)त्ता^f-
 -त्त्या हिपि १३:१०; -त्ता: हिपि
 १५ : ६.
 प्रसव्यो(व्य-उ)पमथित^g- -तः हिपि
 १५ : १९^h.
 प्र-सव्य- प्र√स् द.
 प्र√सह, सध्, प्रासधेत् वाधूश्रौ ३,
 १७ : ४.
 प्र...सहस्व अप्रा ३, ४, १;
 फं(सहस्व) कौसू ३६; ३३;
 अष ७, १, ५; अष २ : ७३;
 प्रसहेत् सु २१, ३.
 फंप्रससाहिषे आश्रौ १, ६, १××;
 शांश्रौ; प्रसाक्षते या ११, २१ⁱ.
 प्र-सहन- -ने पा १, ३, ३३; पाग
 १, ४, ७^j.
 प्रसहने√कृ पा १, ४, ७^k.
 प्र-सहान- -नः ऋप्रा ९, १८^l.
 प्र-सह्य वैगृ ३, १ : १०; अष ५३,
 १, २; बौध.
 प्रसह्य-तस्कर- -राणाम् विध ५,
 १६.
 प्र-सह्य^k- -ह्ने काश्रौ २३, ४, २१;
 आपश्रौ १०, १९, ३फं; २०, ७,

१७; २२, २१, ८; भाश्रौ.
 प्र-साह^m- -साहम् ऋप्रा ९, ४०ⁿ.
 प्रा(<प्र)-साह^o- -वाट् अप्रा ३,
 ४, १फं.
 प्रा(<प्र)-सह^o- -सहः ऋप्रा ९, ४फं;
 -सहाⁱ काश्रौ २३, ४, २१;
 आपश्रौ ९, २०, ६××; २२, २१,
 ८; वाधूश्रौ; हिश्रौ १७, ७, २९^m.
 प्रा(<प्र)-सह^o- -हात् भाग १,
 १३, १५; वागृ १५, ११.
 प्र-साद्-, °दन- प्रभृ. प्र√सद् द.
 प्र√साध्, प्रसाधयते काय ३१, २^o;
 प्रसाधयत् या १२, १८; प्रसाध-
 येत् निसू ५, ११:८; विध ७, १३.
 प्र...सीषघाति या १२, १८^oफं.
 प्र-साधन^p- पावा ३, ३, १२३; -नः
 वाश्रौ १, ५, ४, ३०^q; -फंम्
 आपश्रौ १६, ३५, ५; वाश्रौ २,
 १, ८, १६; हिश्रौ ११, ८, २३.
 प्रसाधनी- -फंन्वै^r आपमं २,
 ८, ७; आमिगृ १, १, १ : ५३;
 ५, १ : ४१; भाग.
 प्रसाधन-कर्मन्^r- -र्मा याद, २१
 प्रसाधना(न-आ)च्छादन-स्नाप-
 नो(न-उ)च्छिष्ट-वर्जम् बौध
 १, २, ३८^s.
 प्रसाधनो(न-उ)च्छादन-स्नापनो
 (न-उ)च्छिष्टभोजन^t- -नानि
 बौध १, २, ३६^t.
 प्र-साधि(न् >)नी- -न्यै बौगृ १,
 ३, ३९^t.

a) वैप १ द.। b) पाभे. वैप १, २२१४ q द.। c) पाभे. वैप १, २२१५ d द.।
 d) = परिशिष्ट-विशेष-। e) = अत्रप्रदक्षिण-। प्रास.। f) क्वचिद् वा. क्विवि.। g) सुप्सुपीयः
 समासः। h) सस्थ. उपमथितः इति नेष्टम् (वैतु. संस्कर्तुः सूची °व्या [क्विवि.], उप° इति द्वे पदे ?)। i) पाभे.
 वैप १, २२१५ i द.। j) °हस° इति पाका.। k) विप.। गस.। l) वा. क्विवि.। m) प्र° इति पाठः ?
 यनि. बोधः (तु. आपश्रौ २२, २१, ८)। n) उप. भावे अच् प्र.। वा. क्विवि.। o) घा. अलंकरणे वृत्तिः।
 p) उप. भावाद्यर्थे प्र.। q) सप्र. °ध्न्यै <> °ध्न्यै इति पाभे.। r) बस.। s) °वर्जम् इति मैसू.।
 t) द्वस.। उच्छादन- = छत्रधारण-। u) °घनाच्छा° इति मैसू.।

प्र-साध्य आपश्रौ १५, २१, ७.
 ऋप्र-सामविद्^१ - वित् अप १, २९,
 ५; ४१, ६; अशां ९, ५; ११, ६.
 प्र-सार-^२ ण- प्रवृ. प्र√सू द्र.
 प्र-साव- प्र√सू (बधा.) द्र.
 प्र-साह- प्र√सू द्र.
 प्र√सि>प्र-सयन- -नात् या ६,
 १२.
 प्र-सित- -ते पा ५, २, ६६.
 प्र-सिति^३ - -ति: या ६, १२४;
 -ऋतिम् आपश्रौ ४, ६, ३; आपश्रौ
 १, २१, ७^०; बौश्रौ; या ६, १२४;
 -त्या या ६, १२; -त्या: वाश्रौ
 १, ३, ७, १२४; -त्यै बौश्रौ
 १, २०: २४४.
 प्र√सिच्, ञच्, प्रसिञ्चति बौश्रौ
 १७, ४०: २८; आमिष्ट ३, १,
 १: ९; भाय २, ११: ९; हिष्ट
 २, १०, ६; प्रसिञ्चन्ति पाठ ३,
 १०, २१; प्रसिञ्चामि कौसू
 १२२, ३४; प्रसिञ्चेत् गोष्ट १, ३,
 १; १२; द्राष्ट १, २, १७; कौसू
 १२२, ३; प्रसिञ्चेन् शोध ३४४;
 प्रसिञ्चेयु: भाश्रौ ९, १५, ४; कौष्ट
 ५, ४, ३.
 ऋप्रसिच्यते आश्रौ २, १६, १९;
 बौश्रौ ५, ४: १५; भाश्रौ.
 प्रसेचयति वैश्रौ ५, ५: ९.
 प्र-सिच्य वैश्रौ ५, ५: ८; जैष्ट.
 प्र-सिञ्चत् -ञ्चन् कौसू ४०, १, ९.
 प्र-सेक^४ - -कम् बौश्रौ १०, ५०:
 २; ५४: १^०; ५; १५, ३५:
 १^०; ९; आमिष्ट ३, ६, ४: ५^१.

बौपि १, १३: ५^१; -कस्य बौश्रौ
 २२, १०: १०; १४.
 प्र-सेचन्^५ - -नम् वैश्रौ १९, ६:
 ११३^०.
 प्रसेचन-वत्^६ - -वती आपश्रौ
 १५, ३, १०; भाश्रौ ११, ३, ५.
 प्र√सिघ्, प्रसिध्यति वाधूश्रौ ३,
 ६१: ३^३; वैताश्रौ ८, १६; कौशि
 ८०; प्रसिध्यत: ऋद्रा ११, ७०.
 प्र-सिद्ध-द्वा- -द्ध: बौश्रौ ५, ९:
 १८××; माश्रौ; -द्धम् आपश्रौ
 १२, २६, १४^२; बौश्रौ; बौपि २,
 ३, ६^१; या ६, १६; -द्वा बौश्रौ
 ३, १: १०××; आमिष्ट; -द्वा:
 बौश्रौ २, ७: २३××; सु १, ३;
 -द्धानि बौश्रौ २, ७: २२;
 -द्धे पावा ३, १, ४५; -द्धेन
 बौश्रौ १२, २०: ९××; मीसू
 ११, २, ६२; -द्धौ बौश्रौ १५,
 ११: १५.
 प्रसिद्ध-ग्रहण^७ - -त्व- -खात् मीसू
 ७, २, १३; १०, १, ३५; ६,
 ५६.
 प्रसिद्ध-भास्^८ - -भा: या ६, ४.
 प्रसिद्ध-संनिधान- -नात् मीसू
 ९, ४, २४.
 ?प्रसिद्धा(द्ध-आ) चार^९ - -र:
 हिघ २, ५, १६३.
 ?प्रसिद्धा(द्ध-अ)न्त- -न्तेन मीसू
 ९, ४, ५५^६.
 प्र-सिध्यत् - -ध्यत: ऋद्रा ११, ६७.
 प्र-सेधमान- -ना: लाश्रौ ८, ६, ८.
 प्र√सु (प्रसवैश्वर्ययो:), प्रसौति शाश्रौ

४, ६-७, १७; काश्रौ २, २, ८××;
 आपश्रौ; ऋप्रसुहि^{१०} आश्रौ ५,
 ११, १; शाश्रौ ७, १४, ९; काश्रौ.
 प्र√सु(अभिषवे), प्रसुनोति वाधूश्रौ ४,
 ४०: ६; प्रसुनुयु: आश्रौ १२,
 ४, १०.
 प्र-सुत- -त: काश्रौ ७, १, २१;
 आपश्रौ १०, १५, १^३××; बौश्रौ;
 -तस्य बौश्रौ २५, १६: ३;
 -ता: आपश्रौ २३, ११, ७; बौश्रौ
 १६, ३: १××; -ते काश्रौ ६,
 ६, २५; ८, १५; आपश्रौ ११,
 १३, ११; -ऋतेन आपश्रौ २३,
 १४, १६; बौश्रौ १७, १९: १०;
 हिश्रौ १८, ४, ६८.
 प्र-सुत- प्र√स्वप द्र.
 प्र-सुवत्- प्र√सू (बधा.) द्र.
 प्र√सू(बधा.)^{११}, प्रसूते आमिष्ट २, ५,
 २: ५; शोध १६.
 प्रसूयते आमिष्ट २, ७, ६: ४;
 अप १, ४४, ७××; प्रसूयन्ते अप
 ७१, ७, ४; प्रसूयते अप ६८,
 २, ३३; ७१, ६, १.
 प्रसुवति माश्रौ १, ५, ५, ११; अप
 ४१, ५, ५, या १२, १३; प्रसुवामसि
 अप १^२, १, ५; प्रसुवाति वाधूश्रौ
 ४, १०३: १०^४; ऋप्रसुवै^{१२}
 शाश्रौ १६, १, १८; २०; ऋप्र
 (सुवतु) आश्रौ ५, १२, १०;
 २४; ऋद्रा २, १०, १७५; बुदे ८,
 ७४; ऋप्रसुव आपश्रौ १२, २९,
 १४^{१३}; १८, २, १०; काठश्रौ
 १४^{१४}; बौश्रौ ११, २: ३^३.

a) नाप. । प्रास. । b) वैप १ द्र. । c) पाभे. वैप १, २२१६ ० द्र. । d) = [प्राणयनार्थ-सुवादि-
 मुख- (तु. रुद्रदत्तः [आपश्रौ १५, ३, १०]) । करणे घञ् प्र. । e) सप्र. प्रसेकम् <> प्रसेचनम् इति पाभे. ।
 f) भाप. > वा. क्वि. । g) विप. (दोग्र-). । h) सिद्धम् इति B. । i) बस. । j) पाठः! सपा. आपश्र-
 २, २३, १० विलुद्ध आचारः इति । k) पाठः! प्रसिद्धां तेन इति शोधः (तु. जीसं.) । l) = त्रासयन्तः इति भाष्यम् ।
 m) सपा. प्रसुहि <> प्रसुव इति पाभे. । n) पृ. ५७१ पृ द्र. ।

माश्रौ २,४,३, ३०^३; ६, २७^३;
 ६, १, १,६; बाधूश्रौ; हिश्रौ^३ ८,
 ८, ६३; ९, २, ३८; ४, ६३;
 कप्र...सुव आपश्रौ ३, २ : ८;
 बौश्रौ ३, २६; ७××; भाश्रौ;
 प्रासुवत् शाश्रौ ८, १८, ११;
 बाधूश्रौ ४, १०३; ११; प्रसौ-
 यात् बौश्रौ २३, ७ : २७; प्रसु-
 वीरन् आश्रौ २, १८, ८.
 प्रासावीत् या १२, १३^क;
 कप्रासावीः आमिष्ट १, १, ४ :
 ६××; आपष्ट.
 प्र-सवि(वीऋप्रा.)वृ- -त्वा आश्रौ
 १०,६, ८; शाश्रौ १६, १, १८;
 आपश्रौ; ऋप्रा ९, ५२; या १०,
 ३१; -तारम् या ७, ३१; -त्रे
 शाश्रौ १५, १४, ४××; काश्रौ.
 प्र-सविन्- पा ३, २, १५७.
 २प्र-सव्य^b - न्यः अप ५१, ५, ५.
 प्र-साव^c -वात् बौश्रौ २९, ८ : ५.
 प्र-सुवत्- -वन् बौश्रौ १४, २० : ८.
 कप्र-सू^d -सूः आपमं १, १३, ३;
 हिष्ट १, २५, १; -स्वः आपमं
 १, ९, ३.
 प्रसू^e-मय- -यम् आपश्रौ ८, १,
 १०; बौश्रौ ५, १ : ७××; भाश्रौ
 ८, १, १३; वैश्रौ ८, ३ : १३.
 प्र-सूव, ता- पाग ५, २, ६२^६; -तः
 कशाश्रौ १, ४, ५; ४, ७, १७;
 काश्रौ २, २, ११××; आपश्रौ;
 वैताश्रौ ३, ९^क; भाष्ट १, ७ :
 ९^क; कौसू २, २१^क; या ९,
 १४^क; -कतम् आष्ट १, १५, १;

कौष्ट १, १६, ७; शाष्ट १, २४, ४;
 -कता या २, ५; १९; ९, १९;
 -कताः आश्रौ ५, २, १४^१; काश्रौ
 ५, २, १४; आपश्रौ; द्राश्रौ १५,
 ३, ९^१; लाश्रौ ५, ११, ९^१;
 -तानाम् काश्रौ ९, १४, २०^३;
 -ताम् अशां १३, ४; -तायाम्
 आमिष्ट २, ७, ४ : २; बौष्ट ४,
 ११, १; अप ७२, २, ७; विध
 १७, २१; -तासु विध २२, ४३;
 -ते द्राश्रौ ७, ३, २९; लाश्रौ ३,
 ३, २९^१; सु ३, ५; वैध २, १५,
 ५; -तौ बौश्रौ ५, ८ : १०.
 प्रसूतक- पा ५, २, ६२.
 प्रसूता(त-अ)न्त^६ - -न्तम् काश्रौ
 १०, ३, २४.
 प्र-सूति- -तिः अप ७०^३, ११, २६;
 गौध ८, ३; वृदे १, ९६; ३, २०.
 प्र-सून^१ - -नः माश्रौ १, ७, १, ९^१;
 -नम् हिश्रौ ५, १, ९^१.
 प्र-सूयमा(न>)ना- -ना विध ८८,
 १; -नाम् अप ९, ३, १.
 प्र/सूद, प्रसूदयति बौश्रौ ४, १, २६.
 प्र-सूद-, प्रा-सूद- ऋत ५, २, ८^क.
 प्र/सू, प्र...सिस्वते शुप्रा ६, ७^म;
 कप्र...सिस्वतम् आश्रौ ३, ८, १;
 बौश्रौ १८, १७ : १३; कप्र-
 (सिस्वतम्) शाश्रौ ८, १३, ८; ९,
 २७, २; काश्रौ.
 कप्र...सस्ते आश्रौ ३, ७, ६; ८,
 ९, २; कप्र (सस्ते) शाश्रौ ६, १०,
 २; १०, ९, ४; ११, ५; ऋव २,
 ७, ९५; वृदे ६, १९.

प्रसारयति बौष्ट १, २, २१; प्र...
 सारय बौश्रौ ६, ३१ : २०^क;
 प्रसारयेत् विध ८७, १; प्रसार-
 यीत् आपध १, ६, ३; प्रसारयेत्
 गौध ९, १४.
 कप्र-सर्वाण- -णः वैशि ११६;
 -णम् अप्रा ३, २, १०.
 प्र-स्तार- -रः याशि १, ६४.
 प्र-स्तारण^१ - -णम् अप्रा ३, १, १३;
 माशि ४, १३; पावा १, १, ४;
 -णे पावा १, १, ३; ६, ४, १३३.
 प्रसारण^२ पावा ६, १, १२.
 प्रसारण-ग्रहण- -णम् पावा ६,
 १, ३७.
 प्रसारण-प्रकरण- -णे पावा ६,
 १, ३७.
 प्रसारण-प्रतिषेध- -धात् पावा
 ६, १, ३३.
 प्रसारणप्रतिषेधा(घ-अ)र्थ-
 -र्थम् पावा ६, १, ३७.
 प्रसारण-प्राप्ति- -प्तिः पावा ६,
 १, ३७.
 प्रसारण(ण-आ)दि- -दिषु पावा
 ७, २, १.
 प्रसारणिन्- -णिभ्यः पावा ३,
 २, ३.
 प्र-सारयत्- -यन् वाश्रौ ३, ४, ४,
 १५.
 प्र-सारित, ता- -तम् वाध ३, ४६;
 बौध १, ५, ४८; विध २३, ४८;
 वैध ३, ४, ६; -तया वैश्रौ १२,
 १७ : १७; हिश्रौ ७, २, ३९;
 -ताम् द्राष्ट ३, १, ४९.

a) पाभे. पृ १७४० m द्र.। b) उप. कृत्यः यत् प्र.। c) = अभ्यनुज्ञा-। उप. भावे घ्व प्र.।
 d) वैपश् द्र.। e) प्रसू- = पुष्य-। f) सप्र. प्रसूमयम् <> प्रसूनः <> प्रसूनम् <> काश्रौ ५, १, २०
 कुशाप्रस्वः इति पाभे.। g) तु. पासि. [निसा.]। h) पाभे. वैप २, ३खं. प्रसूतः गोत्रा २, १, २ टि. द्र.।
 i) पाभे. वैप १, २२१५ d द्र.। j) = सुत्या- इति भाष्यम्?। k) वस.। l) विप. (प्रस्तर-, बर्हिस्-)
 m) पाभे. वैप १, २२१७ n द्र.। n) माप., नाप. (पारिभाषिक-संज्ञा- [पा.]।

प्रसारित-द्(शा>)दा^१ - दाम्
काश्रौ ७, २, १६.
प्रसारित-पाद्^२ - द्: शांष्ट ४, ८,
७; बौध १, ५, १५; वैध २, १२, ३.
प्रसारितपादो(द-उ)पस्थकृतो
(त-उ)पाश्रित^३ - तस्य वाध
१३, २३.
प्रसारित-सृजद्वय^४ - न्यस्य विध
११, ३.
प्र-सारिच्- पा ३, २, १४५; -रिणा
अप्रा ३, ४, १०.
प्र-सार्थ आपश्रौ १५, १९, ४; २२,
२८, १०४; बौश्रौ.
प्र-सार्थमा(ण>)णा- गाम् गोगृ
३, ६, ७.
प्र-सृत्, ता- -तम् हिश्रौ २१, २,
५३^२फ; -तात् वाध १५, २०^१.
-तान् शाश्रौ १६, १, २; आगृ १,
१३, ४^०; -तायाम् द्रागृ ३, ४,
११; -ते द्राश्रौ ९, ३, २३^१;
-तेन आगृ १, १३, २^०६.
प्रसृत्^०-यावक^५ - कः वाध २२,
११; बौध ३, १०, १२; गौध १९,
१४; -कम् बौध ३, ५, ४; ६, १^१.
प्रसृता (त-आ)कृति^६ - ति:
आपश्रौ ६, ३, ७.
प्र-सृति^१ - तिना कौस् ६७, २६;
-तिम्^२ माश्रौ १, २, २, ३०;
वाश्रौ १, २, ४, ६६; बौगृ १,

६, २६.
प्रसृति-त्रय- -यस् विध १४, २.
प्रसृति^०-यावक^५ - कम् विध
४८, १^१.
प्र-सृ- > प्रसृ-ता- -ता कौशि ४.
प्र√सृज्, ङप्रसर्जत^३ अप १, ४०, १;
अशां १०, १.
प्रसृजति या १०, ४^१फ; प्र...
सृजन्ति हिश्रौ १७, ७, २५-२७;
प्रासृजत् या १, ७^३; प्र...असृ-
जत् या १, ७^१.
प्रसर्ज या १०, ४^१फ; प्र...
असृचत् निसू ९, ५: ७^१;
प्र(असृक्षत्) शैशि ३३४^१फ; प्र...
असृग्रन् तुस् ३, १०: ३४^१फ;
ङप्र(असृग्रन्) साश्र १, ५३४; २,
३३६; प्र(असृग्रम्) ऋश्र २, ९,
१७^१.
प्रसृज्यन्ते आपगृ २, १६; भागृ
१, १२: १६; प्रसृज्येत लाश्रौ
१०, १९, १; गोगृ १, ५, २२.
प्र-सर्ग^१ - ङौ शाश्रौ ३, २१, ७.
प्र-सर्ज(न>)नी^० - नी कौस् २९,
५.
प्र-सृज्यमान- -नम् निसू ३, १२: २.
प्र-सृ(ष्ट>)ष्टा- -ष्टा: आगृ ४, ७,
१५.
प्रसृष्ट-वृषण^० - ङ: जैगृ १, १२:
३^१फ.

प्र-सृक्ष्यमाण- -ण: आगृ ३, १०, १.
प्र-सृष्टवै वाधश्रौ ४, ७५: २२; ३४.
प्र√सृप्, प्रसर्पति माश्रौ २, ५, १, १;
वाश्रौ ३, ३, ४, १८^१फ; अप ७१,
४, ३; प्रसर्पतः बौश्रौ १२, १८:
७; प्रसर्पन्ति आश्रौ ५, ३, २१;
शाश्रौ ६, १२, १××; आपश्रौ
१२, २९, १५; १८, २१, ५^१;
२२, ९, १७; काश्रौसं; ङप्रसर्पतु
बौश्रौ १७, ४०: २३; आगृगृ १,
३, ३: ७; प्रसर्पत शाश्रौ ६, १३,
३^१फ; प्रसर्पाणि शाश्रौ १५, १४,
७^१फ; प्रसर्पेत् आपश्रौ १३, ६,
१७^१फ; बौश्रौ २१, १९: ४; ७;
प्रसर्पेयुः शाश्रौ १५, १४, ६;
लाश्रौ ९, २, ५^१.
प्रसर्पयति बौगृ ४, ४, ९.
प्र-सर्प^१ > प्रासर्पिक^१ - -कस्य
मीस् १०, २, ३५.
प्र-सर्पक- -का: आश्रौ ५, ३, २३;
हिश्रौ १०, ४, ६२; जैश्रौका १६८;
-काणाम् आपश्रौ १३, ६, १७;
-कभ्यः आपश्रौ १३, ९, ८××;
बौश्रौ.
प्रासर्पक^१ - कम् माश्रौ २, ४,
५, १५.
प्र-सर्पण- -णम् बौश्रौ २५, १९:
६; -णात् आश्रौ ५, १, २.
प्रसर्पण-प्रसृति- -तयः बौश्रौ

a) बस. । b) द्वस. (तु. मनु: [४, ११२]) । c) = संप्रसारण- । d) = नदी- । सप्र. गौध २०,
१० स्रवन्वीभ्यः इति पाभे. । e) = परिमाण-विशेष- । f) सप्र. लाश्रौ ३, ७, ८ प्रस्तुते इति पाभे. ।
g) वैतु. st. old. च दधिप्र^० इति पूर्वेषु समस्तमिति । h) उप. = यवविकार- । i) सपा. °सृत्^०
<> °सृति^० इति पाभे. । j) भाप., नाप. (परिमाण-विशेष-) । k) पाभे. वैप १, २२१६ ६ द्र. ।
l) उप. कर्तारि कः प्र. । m) °तः इति पाठः ? यनि. शोधः । n) = प्र-वास- (तु. सप्र. आश्रौ
२, ५, ७) । o) = प्रन्धि- इति केशवः । p) पाठः ? । सप्र. तां १८, ९, ४ आपश्रौ १८, २१, ५
प्रसर्पन्ति इति, हिश्रौ १३, ७, १३ संप्रसर्पन्ति इति, लाश्रौ ९, २, ५ प्रसर्पेयुः इति पाभे. । q) भाप. ।
r) तस्येदमीयष् ठक् प्र. । प्रस^० इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आन. प्रसृ.) । s) = (प्रसर्पकसंबन्धिन्-) द्रव्यन्- ।
तस्येदमीयः अण् प्र. ।

२६, २: ९.

प्रसर्पण-मन्त्र- न्त्रैः वैश्रौ १६,
५: ८; हिश्रौ ९, २, ७.

प्र-सर्पत्- -र्पन्तः वैताश्रौ १८, १२.

प्र-सर्पिन्- -र्पिणाम् आश्रौ ५, ३, २६.

प्र-सृस- -सः शाश्रौ ७, ७, ४;

आपश्रौ १३, ९, ३; -सम् बौश्रौ

२१, १९: ७; -साः आपश्रौ १३,

१५, ६; -साय आपश्रौ १३, ७,

८; -स्यभ्यः काश्रौ १०, २, ३२;

-सेषु आपश्रौ २१, १०, २;

हिश्रौ १६, ४, १५.

प्र-सृष्य आश्रौ १, ४, ३; ५, ३,

२३××; शाश्रौ.

प्र-सृष्यत्- -स्यन्तः^a हिश्रौ ८, ५,

१५; वैताश्रौ १८, ११.

प्र-सृष्यत्- -स्यन् आपश्रौ १२,

२०, ६; -स्यन्तः^b आपश्रौ

१२, १८, १६; लाश्रौ ८, ९, १२^b.

प्र-सृसेक-प्र-सृसेचन- प्र√सिच् द्र.

प्र-सृसेधमान- प्र√सिध् द्र.

प्र-^a। प्रा^०। सृसे(ना>)न^d ऋत ५, २,

८; -नेन माश्रौ ६, १, ३, २७^c.

प्रसोदरी^e- -यै वैश्रु १६: ६.

प्रस्कण्व^f- पा ६, १, १५३; -ण्वः

शाश्रौ १६, ११, २६; ऋञ्च २,

१, ४४; ८, ४९××; वृदे; साञ्च

१, ९६^g; या ३, १७; -ण्वम्

शाश्रौ १६, ११, २५; -ण्वस्य

ऋञ्च २, ८, ५५; शुञ्च २, ४१८;

या ३, १७^h.

प्र√स्कण्, प्रस्कन्दति बौश्रौ ८, ९:

२३; प्रस्कन्द कौसू २५, २८ⁱ;

प्रस्कन्देत् आपश्रौ १३, ९, ९;

वैश्रौ १६, ११: ७; हिश्रौ ९, ३,
१५; अप ४०, ६, ६^k.

प्रस्कन्दयति बौश्रौ १, ६: २६;

७: १४^k××; भाश्रौ; प्रस्कन्दयस्व

माश्रौ २, ५, १, ११; प्रस्कन्दयेत्

बौश्रौ २०, ७: १८××; वैश्रौ

४, ८: १०.

प्र-स्कन्दत्- -न्दतः आश्रौ १, २०,

८; हिश्रौ १४, १, ४०.

प्र-स्कन्दन्- पाग ३, ४, ७४;

-नात् बौश्रौ २०, ६: २८××;

-ने बौश्रौ २१, १७: १

प्रस्कन्दना(न-अ)न्त^l- न्तः

बौश्रौ २५, ३१: ७; -न्तम्

बौश्रौ २४, ३३: ३××.

प्र-स्कन्दयित्वा आपश्रौ १, २०, ११;

२१, ७.

प्र-स्कन्द्य गौध २१, २२.

प्र-स्कन्न- -न्नात् आपश्रौ ९, १७,

१^k; -न्नात् भाश्रौ १, २२, ८;

-न्नाति भाश्रौ १, २३, ९.

प्रस्तन्ति वाश्रौ ३, १, २, ४४.

प्र-स्तर- प्र-स्तार- प्रष्ट. प्र√स्तृ, स्तृ

द्र.

प्र-स्तीत-^m, स्तीम- प्र√स्ये द्र.

प्र-स्तीर्ण-ⁿ, र्णं प्र√स्तृ, स्तृ द्र.

प्र√स्तृ, प्र^o...स्तवते आश्रौ ६, ७,

८; ९, १, ११; आपश्रौ ११, ९,

१; हिश्रौ ७, ५, ३५; १०, ३, ४१;

प्र^o (स्तवते) शाश्रौ ५, ७, ३;

१३, ९, २; १५, ३, ५; काश्रौ.

प्रस्तोति बौश्रौ १६, ७: ९;

हिश्रौ १६, ४, २०; निस् २,

१०: १; १५; प्र^o (स्तुषे)

आश्रौ ३, ८, १; शाश्रौ ८, ३,
११; काश्रौ; प्रस्तुहि आपश्रौ

१२, १७, १३××; वैश्रौ; प्र-

(स्तोत>ता) आश्रौ ६, ४, १०;

शाश्रौ १२, १, ३: ४; १८, १३, ६;

ऋञ्च; प्रस्तुयात् द्राश्रौ ११, ४,

४; लाश्रौ ४, ४, ४; ७, ६,

१३.

प्र^o...स्ताविषम् कौसू १०७, २^k.

प्रस्तावयति निस् ३, १३: ११;

४, १: २५; ७, २: १३; १७;

प्रस्तावयन्ति निस् ४, १: २६;

प्रस्तावयामः निस् ४, १: २८.

प्र-स्ताव- पा ३, ३, २७; -वा^l

आपश्रौ २१, १०, ४; लाश्रौ ६,

१, १५××; निस् ४, १: २७;

वृदे ८, १२२; -वा^l जैश्रौका

११७; द्राश्रौ; -वात्^l द्राश्रौ ३, ४,

२५; लाश्रौ १, १२, ११; ७, ८, ७;

-वे जैश्रौका ११७; निस् ४, १:

३५^g; ३८; -कृत्वेन आपश्रौ १७,

१०, १; वैश्रौ १९, ६: १५; -वै:

द्राष्ट ३, २, २१.

प्रस्ताविक^l- ऋ लाश्रौ ७,

६, ११.

प्रस्ताव-निमित्त^m- -त्तः निस्

४, १: ३४.

प्रस्ताव-प्रतिहार-णि (<नि)

धन- नानाम् लाश्रौ ७, ९, ६.

प्रस्ताव-शान्थ (<न्ति-अर्थ>)

र्थ- -र्या लाश्रौ ९, ७, ५; निस्

२, १३: ४१.

प्रस्तावा(व-अ)न्त-न्तेषु द्राश्रौ

५, २, ९; लाश्रौ २, ६, ४.

a) परस्परं पाठे. । b) ष्यन्तः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सस्थ. भक्षयिष्यन्तः). c) ऋत. पाठः ।

d) वैष १ द्र. । e) = भूमि-देवता- । व्यु. ? । f) प्रा^० इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. ऋञ्च २, १, ४४) ।

g) उप. भावे अपादाने वा प्र. । h) वस. । i) = (सामादौ प्रस्तोत-प्रस्तुयमाना-) भक्ति- (तु. लाश्रौ ७, ६, १३) ।

j) तस्येदमीयष् ठक् प्र. ।

प्रस्तावान्त-लक्षण- -णम्
 लाश्रौ ६, १०, १.
 प्रस्तावा(व-अ)वधि^३ -धि^३
 जैश्रौका १५१.
 प्र-स्ताव्य^० -व्ये लाश्रौ ६, १,
 २०.
 प्र-स्तुत्, ता- -तः निस् १०, ६:
 १६; -तम् आपश्रौ १९, १२,
 ५; बौश्रौ १९, ३: १३; हिश्रौ
 २३, २, १६; -ता: वैश्रौ ६, ५:
 ९; -तायाम् बौश्रौ ७, ८:
 १२; ८, २: २०××; वैश्रौ;
 -तासु काठश्रौ ५९; -ते बौश्रौ
 ८, ८: ८××; माश्रौ; हिश्रौ १६,
 ३, १९^०; २३^०; २९^०; ४०^०;
 लाश्रौ ३, ७, ८^०; -तेऽ-ते
 जैश्रौका १५४; -तेषु शंघ
 १२.
 प्र-स्तुत्य जैश्रौका १२४; द्राश्रौ ५, २,
 १८; ९, ४, ९; लाश्रौ; प्रस्तुत्य-
 ऽप्रस्तुत्य माश्रौ ५, २, ९, ५.
 प्र-स्तूयमान- -ने जैश्रौ १७: १८;
 जैश्रौका १२३; द्राश्रौ ६, १, १५;
 लाश्रौ २, ९, ११.
 प्र-स्तोतृ^१ - पाठभो २, १, १४५;
 -तः काश्रौ २६, २, २५;
 आपश्रौ १३, २०, ३××; बौश्रौ;
 -ता आपश्रौ ४, १, ६; शाश्रौ ५,
 १२, ३××; काश्रौ; लाश्रौ १, ५,
 १; ९, १; १४; जैश्रौका ३४४.
 वैताश्रौ ११, ३; -तारम् शाश्रौ
 १७, १४, ४; आपश्रौ; -तु:
 आश्रौ ९, ४, १०; १२, ९, २;

बौश्रौ; -त्रा काश्रौ ११, १, १९;
 जैश्रौका ४६××; द्राश्रौ १५, २,
 १९; लाश्रौ ५, १०, १९; -त्रे
 काश्रौ ९, ६, ३४; १५, ८, २३;
 आपश्रौ.
 प्रस्तोता-प्रतिहर्तृ^२ -तारौ शाश्रौ
 १७, १४, ६; बौश्रौ १७, १८: २;
 १९: २; जैश्रौ २: १३××;
 -तृभ्याम् बौश्रौ १२, १८: १५;
 जैश्रौका १०९.
 प्रस्तोतृ-प्रशास्तृ-ब्राह्मणाच्छंसि-
 पोतृ-नेष्टू(ष्टृ-अ)च्छावाको(क-
 उ) श्रेतृ-प्रावस्तुतृ-सुब्रह्मण्य-
 -ण्येभ्यः काश्रौ १०, २, ३१.
 प्रस्तोतृ-मैत्रावरुण-प्रतिप्रस्थातृ-
 ब्राह्मणाच्छंसिन्- -सिभ्यः लाश्रौ
 ९, १, १०.
 प्रस्तोतृ-सुब्रह्मण्य- -ण्यौ द्राश्रौ
 १, १, १३; लाश्रौ १, १, १३.
 प्र-स्✓तुम् पावा ६, १, १५७.
 प्र✓स्तु, स्तु, प्रस्तुणाति कौस् ८७,
 २७.
 प्र-स्तर^३ -रः काश्रौ ५, १, २०^१;
 ८, १, १०; २२, १०, २४; आपश्रौ;
 -रम् आश्रौ २, १९, २२^१; ५,
 २०, ६; काश्रौ; बौश्रौ ५, १:
 ७^१; कौश्रु ४, ४, १०^१; -रयो:
 बौश्रौ ५, ६: ७; -रस्य काश्रौ
 ८, ६, २७; आपश्रौ ८, १४, ७;
 बौश्रौ; -रात् आपश्रौ ३, ७, ५;
 काठश्रौ १३; बौश्रौ १, १९: २१;
 भाश्रौ ३, ६, ९^१; ४, १८, ४^१;
 माश्रौ; -रात् वैश्रौ १८, १६:

८५; हिश्रु २, ६१××; -राय
 बौश्रौ १, २: ९××; माश्रौ १,
 १, १, २९; ३२; -रे आश्रौ ४,
 ५, ७; शाश्रौ ५, ८, ५; १०,
 ३६; काश्रौ; वाध ४, १४^१; -रेण
 वौश्रौ ६, १८: ३××; वाधूश्रौ ४,
 २६^१: ६; वैश्रौ ७, १०: ६; -रै:
 अप ३३, ७, ७^०; -रौ बौश्रौ ५,
 ६: ३; ६.
 प्रास्तर^४ -रम् शुभ्र १, ९८;
 -रे शुभ्र १, १०६; १२७.
 प्रास्तरि- -रीम् शुभ्र १,
 १२८.
 प्रस्तर-ग्रहण- -णम् काश्रौ २,
 ७, १८.
 प्रस्तर-तृण- -णे आपश्रौ ४, १२,
 ८.
 प्रस्तर-परिधि- -धि आपश्रौ
 ११, २, ११; १८, २०, २०; बौश्रौ
 ४, १०: १४××; भाश्रौ १२, २,
 ९; हिश्रौ ७, ४, २; -धीन् बौश्रौ
 २३, ९: ३५; माश्रौ १, ७, ५, १०.
 प्रस्तर-पाणि^५ -णि: आपश्रौ
 २, ९, ५; बौश्रौ १, १३: १९××;
 -णी बौश्रौ ५, ६: ४.
 प्रस्तर-बर्हिस्^६ -र्हि: आपश्रौ
 २, १८, ३; वैश्रौ ६, ८: ९; हिश्रौ
 २, २, २३; ७, ४, २.
 प्रस्तर-बर्हिर्-विद्यति-पवित्र-यूप-
 रशान-शालाक-परिस्तरणा (रा-
 अ)न्तर्धाना(न-अ)सन-त्रायन-
 स्तोत्रोपाकरणा(रा-अ)थे- -र्था:
 बौश्रौ २८, १३: १०.

a) बस. । b) वा. क्रिवि. । c) अर्हार्थे कृत्यः यत् प्र. । d) पाठः? अ-प्रस्तुतम् इति आपश्रौ २१, ७, १० पाभे. (तु. ०.) । e) सप्र. द्राश्रौ ९, ३, २३ प्रस्तुते इति पाभे. । f) = ऋत्विग्-विशेष- । g) पाठः? त्रा इति शोधः । h) वैप इ. द. । i) सप्र. प्रस्तरः <> प्रस्तरम् <> बर्हिः इति पाभे. । j) सपा. शाश्रु ४, १८, ५ खस्तरम् इति पाभे. । k) पुस्ततात् इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सप्र. आपश्रौ ३, ७, ५) । l) = कट- । m) अर्थः? । n) सत्यदेवतीयः अण् प्र. । o) मलो. कस. ।

प्रस्तर-भूय^a - यम् बौश्रौ २०,
२४: ३९; २४, ३३: २२.
प्रस्तर-मात्र- -त्रम् काश्रौ ५, ८,
२९.
प्रस्तर-मूल- -लानि आपश्रौ २,
९, १४; -लैः वाश्रौ १, ३, ३, १९.
प्रस्तर-वत् काश्रौ ३, ७, ११;
आपश्रौ ३, १४, ७; आपगु ७,
१३; बौगु १, ४, ३६; मीसू ११,
३, १०.
प्रस्तर-हस्त^b - स्तः वाश्रौ १,
३, ३, १४.
प्रस्तरा(र-आ)दान^c - नम्
काश्रौ ३, ६, ४.
प्रस्तरा(र-अ)नुग्रहरण- -णम्
काश्रौ ४, २, ४२.
प्रस्तरी√कृ > प्रस्तरी-कृत्य
वैश्रौ ९, ५: ९.
प्रस्तरे-छा- -छाः बौश्रौ १,
१९: ३७; कौसू ६, ९.
प्रस्तार^d - पा ३, ३, ३२; -रः
आपशु १७, ३; ९; बौशु ८:
२१××; हिशु ५, ४२; ५२;
-रम् बौशु ७: १३; १६: ६;
-रान् आपशु ७, ११××; बौशु;
-रे वैश्रौ १८, १६: ८२; आपशु
७, ६××; बौशु.
प्रास्तारिक- पा ४, ४, ७२.
प्रस्तार-पङ्क्ति^e - -ङ्क्तयः अत्र
८, २१; -ङ्क्तिः निसू १, ३:
७; ऋअ १, ८, ६; २, १,

१६४××; शुअ; अत्र २, ४;
६; ९××; ऋप्रा १६, ६०;
उनिसू १: ४३; पिं ३, ४१;
-त्ती ऋअ २, १, ८८; १०, १३२;
अत्र १४, २.
प्रस्तारपाङ्क्ति^f - -ङ्क्तम्
ऋअ २, १०, ९३.
प्र-स्तीर्ण- -णम् शौच १, २४; -णौ
निसू १, ३: ८.
प्र-स्तीर्थ कौसू १, ३६.
प्र-स्तुण(त>)ती- -ती अत्र ८, ७१.
प्र-स्तोक^g - -कः शाश्रौ १६, ११,
१२; ऋअ २, ६, ४७; वृदे ५,
१२४; १४०; -कस्य ऋअ २, ६,
४७; -के शाश्रौ १६, ११, ११.
प्र-स्तोत- प्रष्ट. प्र√स्तु द.
प्र√स्त्यै>प्र-स्तीत-प्र-स्तीतवत्-
प्र-स्तीम-प्र-स्तीमवत्- पा ६,
१, २३; ८, २, ५४.
प्र√स्था^h, प्रप्रतिष्ठ आश्रौ १, १३, ७;
शाश्रौ ४, ७, १७; काश्रौ;
प्र...तिष्ठत हिपि १८: ४१;
प्रतिष्ठेत वाध १०, १; प्रतिष्ठेत्
वैश्रौ २१, ४: ७; प्रतिष्ठेयाताम्
वैगु ५, १: २९; प्रतिष्ठेरन् अग्निगु
३, ५, ५: ३; बौपि १, ४: ३.
प्रस्थास्यति बौध ३, १, ९;
प्रस्थास्यामिⁱ शाश्रौ ४, ७, १६;
काश्रौ ३, ५, १; ६, ९, ७; प्रस्था-
स्यामि^j आश्रौ १, १३, ६; आपश्रौ
३, ४, ५××; बौश्रौ; प्र...अस्थात्

आश्रौ ८, ९, २१; प्र(अस्थात्)
वृदे ६, १८१; ऋ...अस्थुः
आश्रौ ६, ५, २४; या ६, १६;
प्र(अस्थुः) शाश्रौ ९, २०, ३२१.
प्रस्थापयति आपश्रौ १, २, ४;
भाश्रौ १, २, १५; ८, १, ११;
हिश्रौ १, २, १६; प्रस्थापयताम्
हिगु १, १८, ११; प्रस्थापयेत्
आपश्रौ १४, ४, ९; कागु ४५, ६.
प्रस्थापयाम् √अस(भुवि),
प्रस्थापयामास वृदे ५, १३६.
प्र-तिष्ठमा(त>)ना- -नाः आगु
२, १०, ५; कौगु ३, ५, ४; शागु
३, ९, १; हिगु १, १८, १; कौसू
२१, १०; -नाम् कौसू ९२, १५;
-नायाम् कौगु १, ९, १; शागु
१, १५, १.
प्र-ष्ठ- पा ८, ३, ९२.
प्र-स्थ^k - (ब्राम्.) पावा ३, ३, ५८;
-स्थः वेज्यो ८^l; -स्थम् अप ३३,
३, ३^m; विध ९०, १; -स्थयोः
बौश्रौ २२, ५: १३ⁿ; -स्थान्
बौश्रौ २६, २४: १३ⁿ; -स्थानि
अप ७०^o, १०, १^o; -स्थे बौश्रौ
१७, १८: ८^p; -स्थेन अग्निगु
२, ४, १०: २२.
प्रस्थ-चतुर्भागा^q - नाम् अग्निगु
२, ३, १: ११.
प्रस्थचतुर्भागा-तण्डुल-पा
(क>)का^r - का वैश्रौ ११, ९:
१३.

a) उप. भावे क्यप् प्र.। b) बस.। c) उप. <आ/दा (दाने)। d) = स्तर- (तह इति नमा.)। e) = छन्दो-विशेष-। बस.। f) विप. (सूक्त-)। तस्येदमीये ङणि उप. इदिः। g) वैप १ द्र.। h) पा १, ३, २२ परामृष्टः द्र.। i) पाभे. वैप १, २२२० ० द्र.। j) उप. कर्त्राद्यर्थेषु कः प्र.। विशेष उच्यतेषु टि. द्र.। k) = (उपचारात्) प्रस्थ-परिमित-जलनिर्गमनौपधिक- काल-परिमाण-। l) = [द्वान्निशतपत्रप्रमाण-] परिमाण-विशेष-। m) = सीमान्तरित- इति संस्कृतुः सूची। n) = क्मावस्थित-पशु- इति संस्कृतुः टि.। o) पाठः १. प्रस्थानि भूतानि > स्थाने प्रभूतानि इति संस्कृतुः टि. ?शोधः। p) = खाण्डवप्रस्थ- (स्थान-विशेष-)। q) विप. ३. पस. उप. प्रमाणे प्र. लुक्। r) कस. > बस.।

प्रस्थ-चरुस्थाली- लीम्
आप्रियृ २,३,१:१२.
प्रस्थ-तण्डुल- लैः वैश्रु ५, ७:
१०.

प्रस्थतण्डुल-पा(क>)का^१-
-का वैश्रु ११,९:१३.

प्रस्थ-नयः-पू(र्णो>)र्णा- गर्णा-
वैश्रु ११,८:६.

प्रस्थ-पुर-नहा(ह-अ)न्त-न्तात्
पा ४,२,१२२.

प्रस्थ-पूर्ण,र्णा- -र्णः वैश्रु ११,
९:१५; -र्णम् वैश्रु ११, ८:
१३; -र्णा वैश्रु ११, ९:७.

प्रस्था(स्थ-अ)र्ध-तण्डुल-पा
(क>)का^१- -का वैश्रु ११,९:
१३.

प्रस्था(स्थ-अ)र्धो(र्ध-उ)दक-
पू(र्णो>)र्णो^१- -र्णा वैश्रु ११,
८,५.

प्रस्थो(स्थ-उ)त्तरपद^० पा ४,२,
११०.

प्रस्थान- -नात् वाश्रु १,१,५,१४;
-ने बौध्रु २०, १४:२१^०;
आज्यो ५,२; ६,१.

प्रस्थानिक^१- -कम् काट
२३,१; अप १८^२,२,७.

प्रस्थान-काल- -ले विध ६३,३९

प्रस्थानी(य>)या- -याम्
द्राश्रु १२,४,१; लाश्रु ४,१२,
१; -यायाः द्राश्रु १२,२, ३२;
लाश्रु ४,११,२.

†प्र-स्थाय आश्रु ५, ७, ३; शाश्रु.

प्र-स्थायिन्- पाठ ४, ९; पाग ३,

३,३.

†प्रस्था-वत्^०- -वत् वाध २, ३४;

तैषा ३,५.

प्र-स्थानवन्^०- -वानः भाट १,७:
१२^१.

प्र-स्थित,ता- -तः आज्यो ६, ४;

-कृतम् काश्रु ६, ६, २५××;

बौश्रु; -तस्य बौश्रु १३, २६:

११; या ७, ६; -ता या ६,

१६^१क^१; -ताः शाश्रु^० ७, ५,

११^१; आपश्रु १, २, ८; भाश्रु

१, २, १८; हिश्रु १, २, १९;

वैताश्रु १९,२०^१; -तान् शाश्रु^०

७, ५, १९; १७, १५××;

काश्रु; -तानाम् शाश्रु १०, ७,

७^१; १४, ५२, २××; आपश्रु

१, २, ५; हिश्रु १, २, १८;

-तानि या ६, १६; -ताम् जैट्

१,२२:१; -तायाः अप ३५,१,

३^१; -तेषु बौश्रु १६, ३:२८;

हिश्रु ८, ७, ५; -तैः हिश्रु ९,

३,४८; वैताश्रु १९, ५.

प्रस्थित-याज्या^१- -ज्याः आश्रु

५, ५, १८; वैताश्रु २१,२१^१;

निस् ३, १:२४; -ज्यानाम्

आश्रु ८,१,१; वैताश्रु ३१,२७;

-ज्याभिः आश्रु ५,५,१५; निस्

३,१:२६; -ज्यासु आश्रु ५,५,

२०.

प्रस्थितयाज्या-होम- -मान्

वैताश्रु २२,२१.

प्रस्थित-होम- -मान् वैताश्रु

२१,२२.

प्र√स्ना, प्रस्नायात् जैट् १,१६:५;
१७:५.

प्र-स्नातु- -तारौ या ६,१७.

प्र-स्नेय- -याः या १, ९^१; -यात्
काश्रु २०,२,१३.

प्र√स्निह् > प्र-स्निग्ध- -ग्धे अप
६३,१,८.

प्र√स्तु, प्रस्तौतु बौश्रु ८, १०:१^१.

प्र-स्नवन- -ने बौध्रु १,५,४९.

प्र-स्तु(त>)ता- -ता जैश्रु ३:

१९; २१××; -तायाम् वैश्रु

१६,१२:२२.

प्र√स्फुर > प्र-स्फुरत्- -रन्तः अप
६४,६,१०.

प्र√स्मि, प्रस्मयते या ९,१४.

प्र√स्यन्द्, प्रस्यन्देरन् आट् २, ७,

१२; ४,१,१५.

प्रसस्यन्दिरे या २,१६.

प्रो (प्र-उ) अस्थान् ऋश् २,

९,८९^१.

प्र (असिष्यदत्) ऋश् २, ९,

७८^१.

प्र-स्यन्दिन्- -न्दिनि गौध्रु १६,४२.

प्रस्यन्दिनी- -न्याम् आपश्रु

१६, ९,८; वैश्रु १८,७:१०.

प्र-स्न- प्र√सृ द्र.

प्र√स्संस् > प्र-स्सस्य आपश्रु १४,

२२,१;२; वैश्रु; हिपि २:१३^१.

प्र-स्नक्षयमाण- प्र√सृ द्र.

प्र-स्नप्स्यत्- प्र√सृ द्र.

प्र-स्नव- प्रमृ. प्र√सृ द्र.

प्र-स्नष्टवै प्र√सृ द्र.

प्र-स्नाव-^०व्य प्र√सृ द्र.

a) बस. । b) षस. > कस. > बस. । c) = कर्मावसाने इति संस्कृतुः टि. । d) = कर्म-विशेष- ।

तदस्यप्रयोजनमित्यर्थे ठक् प्र. (पा ५, १,१०९) । e) वैष १ द्र. । f) पाभे. वैष १, २२२० a द्र. ।

g) = (तदाख्य-) सोमचमस- । h) पाठः ? 'तान् इति शोधः (तु. उत्तरं स्थलम्, C. च) । i) पाठः ?

'तान् इति शोधः (तु. C.) j) = (सोमचमसपानार्था-) याज्या- । k) मलो. कस. । l) 'ज्या इति पाठः ?

वेदि. शोधः [तु. C.] । m) पाभे. पृ १७३३ f द्र. ।

प्र√सु, प्रसवन्ति आपश्रौ ४,४,४;
 बौश्रौ; कौसू २, २^a; ४१, १४^a;
 अप ३२, १, २६^a; अत्र ६, २४^a;
 प्रसवेत् अप ६४, ८, १.
 प्रस्रावयति आपश्रौ ५, ५, ५;
 हिश्रौ २, ४, ४२; १०, २, ३०;
 प्र(स्रावयन्ति) ऋअ २, ९, १६[†].
 प्र-स्रव- -वे विध २३, ४९.
 प्र-स्रवण^b- -णम्^c आश्रौ १२,
 ६, २७; शाश्रौ १३, २९, २०;
 आपश्रौ २३, १३, ४, ५; हिश्रौ
 १८, ४, ३९[‡]; -णानि^d काठश्रौ
 ७; माश्रौ १, २, १, ६; लाश्रौ
 ९, २, २८[‡]; कागुठ ४६: ४;
 -णे^e बौश्रौ १६, २९: १६; ३०:
 ८; वाध २८, ८[‡]; शंघ १७७[‡];
 -णेन माश्रौ १, ३, २, २०[‡];
 -णेभ्यः वैगृ ६७: १३[‡]; मागृ
 २, १४, २४[‡]; -णेषु विध ८५,
 ५७[‡].
 प्रास्रवण^f- -णम् लाश्रौ १०,
 १७, १२; १७, १४[‡]; -णे काश्रौ
 २४, ६, ७^d.
 प्रास्रवण-देवस्वात-सरोवर- -रेषु
 विध ६४, १६.
 प्र-स्रवत्- -वत् विध ६४, १७.
 प्र-स्राव- पा ३, ३, २७.
 प्र-स्राव्य हिगृ १, १४, २; द्रागृ ३,
 ४, १९.

प्रस्वापयामास वृदे ६, १३.
 प्र-सुस- -सा: अप १, ८, १०.
 प्र-स्वाप-> °स्वापो(प-उ)त्यान-
 -नम् शंघ २४९.
 प्र-स्वापि(त् >) नी^g- -न्यः ऋअ
 २, ७, ५५; वृदे ६, २.
 प्र√स्विद्, प्रस्विद्यन्ते अप ७०[‡], ८,
 ३; प्रस्विद्यन्ति अप ७२, ४, ४.
 प्र√स्र्, प्रस्वराति ऋप्रा १५, ५;
 प्रस्वरेत् द्राश्रौ ३, ४, २[†].
 प्र-स्वार^h- -रः ऋप्रा १५, ५.
 प्र√हन्, प्रहन्ति आपश्रौ २०, ३, १२;
 बौश्रौ १५, ५: २९; हिश्रौ १४,
 १, ३३; प्र (जहि) अत्र १२, ५
 (६[†]); प्रहण्यात् हिश्रौ १४, १,
 ३४.
 प्रघान् आपश्रौ ६, २१, १[†].
 प्राघानि पावा ८, ४, २.
 प्र-घण-, प्र-घाण- पा ३, ३, ७९.
 प्रघाण-रूपⁱ- -पाणि हिश्रौ ७,
 १, ३१.
 प्र-घात- -तः भाशि ३८[†].
 प्रघात-कम्प-निघात- -ता: अप
 ६४, ५, ९.
 प्र-हर-, °ण- प्रमृ. प्र√हृ द्र.
 प्र-हर्ष-, °र्षित- प्रमृ. प्र√हृ द्र.
 प्र√हृस्, प्रहसन्ति अप ७१, १०, १;
 प्रहसेत् मागृ २, १५, ६; प्रह-
 सेयुः अप ७१, १३, १.
 प्र-हृसत्- -सन् अप २४, ४, २.

प्र-हसन- पाग ८, १, २७; -ने पाग
 १, ४, ७४^०.
 प्रहसने√कृ पा १, ४, ७४.
 प्र-हास- -से ऋ १, २, १३; पा १,
 ४, १०६; ८, १, ४६.
 प्रहासो(स-उ) द्वीक्षण-क्रिया-
 -या अप ६४, ६, २.
 प्र-हस्त^j- -स्तम् जैगृ १, २१: १.
 प्रहस्त-मात्र- -त्राणि काठश्रौ ७;
 कागुठ ४६: ४.
 प्रहस्तक^k- -कः शाश्रौ १८, ४, ८; ५,
 ९; ११.
 प्र√हा (त्यागे), प्रजहाति बौश्रौ ६,
 २८: २२.
 प्रहसीत् आपश्रौ ६, २५, २[‡];
 ९, ७, ६[‡]; बौश्रौ २४, ३०:
 २१[‡]; भाश्रौ ६, ५, ५[†] × ×; हिश्रौ
 ६, ७, ५[†] × ×; काय; प्रहासी:
 आश्रौ २, ५, ७[‡]; ३, १२, ७[‡];
 माश्रौ १, ६, ३, १८[‡]; वैश्रौ.
 प्रहीयते आउयो १२, ८.
 प्र-जहित^l- -तम् लाश्रौ २, २, २२[‡];
 -तेषु बौश्रौ २६, ३२: १[‡].
 प्राजहित^m- -तः शुअ १, ३४८;
 -तम् आश्रौ ११, १५, १; २१,
 ३; १३, २५, ३; वैश्रौ १४, १३:
 १ × ×; हिश्रौ ७, ८: ६३; १०,
 ३, ४२[‡]; जैश्रौ; द्राश्रौ ४, २,
 १३[‡]; -तस्य मीस् १२, १, १३;
 -तात् वैश्रौ १०, १३: ४.

a) पाभे. वैप १, २२२१ १ द्र. । b) भाप., नाप. । विशेषेः उत्तरेषु टि. द्र. । c) = (सरस्वत्याः) उद्गम-स्थान-
 १=प्लाक्ष-।) । d) सप्र. प्रास्रवणम् <> प्रास्रवणम् <> प्रास्रवणे इति पाभे. । e) = प्र-सेक- ।
 f) = लोमन्- । g) = दुग्ध-प्रक्षरण- । h) = निर्भर- । i) स्वार्थे अण् प्र. । j) समाहारे द्रस. । k) = ऋच्- ।
 l) = ओकार-शब्द- । m) पाभे. वैप १, २११६ i द्र. । n) बस. । o) तु. पाक. । p) नाप. । प्रास. ।
 q) वैप २, ३३६. द्र. । r) पाभे. वैप २, ३३६. प्रहासीत् तैत्रा १, २, १, २७ टि. द्र. । s) पाभे. वैप १, २२२२ ७
 द्र. । t) = (१पालीशाल-] अग्नि- १ तु. भाष्यम्, म मा ५, ३३ च।) । u) सपा. प्र° <> प्रा?
 इति पाभे. । v) = प्रपक्षेषु (यवेषु) इति संस्कृतुः टि. । w) °वि° इति षाठः ? यन्नि. श्लेषः (तु
 आपश्रौ. प्रमृ.) ।

प्र-हास्यत्-स्यन्तः बौश्रौ ६, २९ : २२.
 प्र-हीण- -गः नाशि १, १, ६; -णम् गौघ ३, १९.
 प्रहीण-द्रव्य^a- -व्याणि वाघ १६, १९.
 प्रहीण-स्वामिक^b- -कान्ति शंघ ३०१.
 प्र√हा (वधा.), प्रजिहीते शाश्रौ १२, १७, ११^c.
 प्रजिहाति सु ३१, २.
 प्रहापयति^d माश्रौ १, ८, १, १०; वाश्रौ १, ६, १, १२; वैश्रौ.
 प्र-हाण- -गः शाश्रौ ५, १६, ४^e; -णम् माश्रौ १, ८, १, ४^f; -णाः माश्रौ २, ३, ६, १.
 प्र-हा^g- -हाम् अश्र ७, ५०^h.
 प्र-हार- प्रम्. प्र√ह द्र.
 प्र√हि (गतौ), प्र (हिषे) शाश्रौ ६, ४, ५; ऋश्र २, ७, ७.
 प्रहिणोति आपश्रौ ५, १५, ३; १७, ८; १८, २२, ३; बौश्रौ; प्रहिण्वन्ति आपश्रौ २१, ४, ४; प्रहिणोमि आश्रौ ३, ११, ६; शाश्रौ ४, ११, ६; आपश्रौ; पाण १, ३, १४ⁱ; प्रहिण्वः आपश्रौ १०, १२, ४; हिश्रौ १०, २, ४३^j; प्रहिन्वः सु ६, ५; प्रहिणुवात् आम्रिय ३, ६, १ : ३; बौपि १, ८ : ३; प्रहिणुत् आम्रिय ३, १, १ : १०; भाण २, ११ : १०; हिण २, १०, ६; श्रया ६, २२; ७, २०; १२, ५; प्र...हिनोत या

७, २०^k; प्र (हिनोत) ऋश्र २, १०, १८८^l; वृदे ८, ८८; प्र...
 दिनव>वा ऋप्रा ८, १५; प्राहिणोत् वृदे ८, २५; प्राहिन्वन् सु १२, ४; प्रहिणुयात् आपश्रौ ६, १५, ११; बौश्रौ १२, १० : ५; हिश्रौ.
 प्राहिषीत् बौश्रौ २२, २१ : १०; २३, २ : ८.
 प्र-हित, ता- -तः काश्रौ १४, ५, ३०; १५, ७, २४; सु ८, २; माण २, १७, १^m; -तम् वाधूश्रौ ३, ६९ : ९; ११; १३; वृदे ६, १५०; -ता या ११, २५; -ताम् ऋश्र २, १०, १०८; वृदे ४, २५.
 प्रहितं-गम- -म पाण ३, १५, १९.
 प्र-हित्य बौश्रौ १२, १० : ७.
 प्रहि- पाठ ४, १३५.
 प्रहिणⁿ- -गः याशि २, ७८.
 प्र-हित- प्र√धा द्र.
 प्र√हु (दाना^o), प्रजुहति वाश्रौ ३, ४, २, २.
 प्रहावयति आपश्रौ १५, ११, १; वैश्रौ १३, १३ : २.
 प्र-हुत्^p- -तः बौश्रौ २४, ४ : २; कौण १, १, ३; ६, ७; शाण; -ताः आण १, १, २; -तानाम् काण १३, ५.
 प्रहुता(त-अ)नुकृति- -तिः बौण ३, ५, १.
 प्र-हुति- -तिम् आश्रौ २, २०, ४; ३, ८, १.

प्र√ह, प्रहरति काश्रौ २, ६, ९; ३४×५.
 आपश्रौ; प्रहरन्ति बौश्रौ ६, ३० : २०; १४, ३ : ६; वाधूश्रौ ४, १६ : ७; प्रहरामि काश्रौ ९, ४, ११; वैश्रौ १५, ११ : १५; सु २७, १; प्रहरासि बौश्रौ १५, ५ : २८^q; प्रहर प्रकौस ४६, ५३; ५४; प्रहराम^r पाण १, ४, १६; काण २५, २२; या ३, २१; प्र...
 अहरन् वाधूश्रौ ४, ६४^s : १; प्रहरेत् आज्यो १०, ५; प्रहरेत् आश्रौ १२, ६, ७; आपश्रौ; प्रहरेयुः माश्रौ ५, १, ६, ४; वैश्रौ २०, २२ : ४; द्राश्रौ ६, ३, २०; लाश्रौ २, ११, १४; प्रहरमे^t आपमं १, ११, ६; आम्रिय १, ५, ३१२; बौण १, ७, ४४; भाण १, १५, १५; हिण १, २०, २; जैण १, २१ : १३.
 प्र (हर्षिं) आश्रौ ७, ४, ८; शाश्रौ १२, ४, १७.
 प्रहरिष्यति वाघ २७, ६; प्रहा.^u तैप्रा ८, ८.
 प्रहियते वाधूश्रौ ४, ३२ : १४.
 प्र...हारयन्ति हिण १, २२, १; प्र...हारयेत् आपण ५, १२.
 प्र-हर^v- -रे कप्र २, ६, ७.
 प्र-हरण- -गः^o आपश्रौ २, २, १; -णम्^p पा ४, २, ५७; ४, ५७; -णैण^q अप ३६, १, ६-११.
 प्रहरण-शेष- -वः काश्रौ २, ६, १३.
 प्रहरणा(ण-आ)दि- -दि काश्रौ

a) मलो. कस. पू. = प्रहीणस्वामिक- b) बस. । c) धा. गतौ वृत्तिः । d) धा. वर्षापने वृत्तिः ।
 e) अर्थः? । = कुवक- इति भाष्यम्, = प्रणत- इति C. (तु. शांत्रा २८, २) । f) पामे. पृ ५७५ g द्र. । g) वैप ३ द्र. । h) पामे. वैप १, २२२२ m द्र. । i) ण्यः इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. आपश्रौ.) । j) = रङ्ग-
 विशेष- (= अनुनासिक-) । व्यु. ? । k) = पाक्यज्ञ-विशेष- । l) पामे. वैप १, २२२३ r द्र. । m) पामे. वैप १, २२२४ d द्र. । n) = याम- । अधिकरणे घः प्र. । o) = मन्त्र-विशेष- । p) = आयुध- ।

२,६,१४.
 प्रहरण(ण-अ)र्थ- श्येभ्यः पावा
 २,२,३६.
 प्र-हरन्- -रन् आपश्रौ ७, १३, ५;
 बौश्रौ ४, ५ : १३; वैश्रौ.
 प्र-हरिष्यत्- -ष्यन् काश्रौ ९, ४,
 १३; भाश्रौ ७, १०, ४; वाश्रौ.
 प्र-हार- > -र-दान- -ने विघ ५, ६९.
 महारो(र-उ)द्यम- -मे शंघ ३१५
 प्र-हृत, ता- -तः वाधूश्रौ ४, १६ :
 १; ८; -तम् काश्रौ २५, २,
 १७; वैश्रौ २०, ७ : १; वैताश्रौ
 ८, १०; -ता वाध १७, ७३;
 बौध ४, १, १७; -तान् वैश्रौ ७,
 ७ : ११; १०, २१ : १५; -ते
 वैताश्रौ २, ४; -तेषु आपश्रौ
 १२, १७, १; वैश्रौ १६, २० : ९;
 हिश्रौ ५, १, ३३ x x.
 प्र-हृत्य शाश्रौ १७, ७, ११; काश्रौ.
 प्र-हियमाण, णा- -णम् काश्रौ २५,
 २, १६; आपश्रौ ४, १२, ७;
 बौश्रौ; -णाभ्याम् काश्रौ ५, ४,
 ७; -णाय शाश्रौ ३, १३,
 १७; काश्रौ; माश्रौ ५, १, ३, ३^१;
 -णासु हिश्रौ १४, २, ३२; -णे
 आपश्रौ ४, ९, ६; १२, ८; माश्रौ;
 -णेभ्यः काश्रौ १७, ३, ३१;
 -णेषु माश्रौ १, ४, २, २०; वाश्रौ
 १, १, ४, ५; हिश्रौ ६, ३, १९.
 प्र-हृत^१ (> प्राहृतायन- पा.) पाग
 ४, १, ११०.

प्र√हृप्, प्रहृष्येत् वौपि ३, १, २.
 प्रहृष्य अप १७, २, १३^१; प्रहृष-
 येत् विघ ७१, ६३.
 प्र-हृष^०- -र्षम्^d मागृ २, ६, ७^०;
 -र्षान् कागृ ५७, ६^{०१}.
 प्र-हृषित-> ^०त-मनस्- -नाः वृदे
 ६, ६०.
 ऋप्र-हृषिन्- -र्षिणः आपश्रौ १२,
 ११, ९; हिश्रौ ८, ३, २७; चाअ
 ३० : १३.
 प्र-हृष्ट, ष्टा- -ष्टः अप ६८, ४, २; वृदे
 ४, ३; -ष्टा विघ ९९, १; आज्यो
 १२, १०; -ष्टे विघ ९९, ११; १७.
 प्रहृलि- पाउवृ ४, ११८.
 प्र√ह्लाद् > प्र-ह्लाद-> प्राह्लादि^६-
 -दिः बौध २, ६, ३०.
 प्रह्लाद-तनय- -यान् वृदे ७, ५३.
 प्र√ह्लु > प्र-ह्लु^६- पाउ १, १५३; -ह्लः
 आश्रौ ३, १, २०; आपश्रौ १२, ११,
 २; २७, १३; काठश्रौ; -ह्लस् वृदे
 ८, ४; -ह्लाः काश्रौ ९, ६, ३१;
 आपश्रौ १२, १६, १७; वैश्रौ १५,
 १९ : ३; हिश्रौ ८, ४, ४५; -ह्ले
 शाश्रौ १७, ५, ५; शांगृ १, ८,
 २१^१; -ह्लेण कप्र १, १, १०.
 प्रह्लौ^६ > प्रह्लौ-कृत्य कौगृ १,
 ४, ५^१.
 प्र√ह्ले, प्र^०अह्ले या २, २५^१.
 ऋप्रहृयसे कौसू १२७, ७; या ३,
 १०; १०, ३६.
 √प्रा पाधा. अदा. पर. पूरणे, प्राति^६

ऋअप ४८, १३; १४.
 प्राउग- प्रउग- द्र.
 प्राकृत्य- प्रकट- द्र.
 प्राकरणिक- प्र√कृ द्र.
 प्राकार्षिक- प्र√कृष द्र.
 प्राकाम्य- प्र-काम- द्र.
 प्रा-कार- प्रमृ. प्र√कृ द्र.
 प्रा-काश- प्र√काश द्र.
 प्राकृत- प्रमृ. प्र√कृ द्र.
 प्राकृतायन- रप्रकृत- द्र.
 प्राकृती- प्र√कृ द्र.
 प्रागद्य- प्रगदित्- द्र.
 प्रागहि^१- > प्रागहीय^m- -यम् शाश्रौ
 ४, २, ११.
 प्रागाथ- प्रमृ. १, २ प्रागाथिक-
 प्र√गा द्र.
 प्रागापरमेत्यरं कृषतनुक्रम- -मेण
 अअमू ८.
 प्रा(प्र-अ)प्र^०- -ग्रम् या ३, १७.
 प्राप्र-तम- -मम् कौसू ८९, ८.
 २प्रा(प्र-अ)प्र^०- -ग्रम् अप २२, ४, २.
 प्राग्वंशि^b- -शयः बौश्रौप्र १७ : २.
 प्राडक्य^p- > ङ्क्य-गृष्ट^१- -स्यौ
 क्षुसू २, १३ : ७.
 प्रा(प्र√अ)च्, ङ्च्, प्राङ्गयति या
 १४, २२.
 प्रा(प्र-अ)च्, ङ्च्- प्राक् आश्रौ
 १, २, २४; १०, ६ x x; शाश्रौ;
 काश्रौ ९, ४, १८^१; बौश्रौ ७, ६ :
 ९^१; माश्रौ २, ३, ४, ४^१; वैश्रौ
 १२, ११ : १^१; १४, १० : ४^१;

a) न्नाय इति पाठः ? यनि. शोधः । b) व्यप. । व्यु. ? । c) = हेषारद- । d) प्रा^० इति बसं. ।
 e) परस्परं पाठे. । f) = घातादिक- इति देवपालः, = क्रोश- इति आदित्यदर्शनः । g) = कपिल- [असुर-] ।
 h) उप. डः प्र. उसं. (तु. P.W. प्रमृ.; वैतु. पासि [३, २, ३] शक. < प्र√ह्ले इति, पाउवृ प्र√हा [त्यागि] इति) ।
 i) सपा. प्रह्ले कृत्वा <> प्रह्लौकृत्य इति पाठे. । j) वैप १, २२२४ n द्र. । k) घा. दाने
 वृत्तिः । l) = आचार्य-विशेष- । m) तस्येदमीथः छः प्र. । n) प्राप्त. । o) बस. । p) व्यु. ?
 < प्र√अङ् इति ? । q) = षडह-विशेष- । बस. । r) = प्राची-दिश- । s) सप्र. प्राक् <> प्राङ्
 इति पाठे. ।

१५,११:१२^क; १९,६:१५^ड;
हिश्रौ ८,३,७^क; जैश्रौ ३:६^ड;
आगृ २,१,१^क; ३,२,२^ड; पागृ
१, ३, २४^ड; ८, १०^ड; आमिगृ
१,३,३:१^ड; २,४, ९:१२^ड;
५,१:१९^ड; कौसू १,१३^ड; वाघ
३, २६^ड; या २,२२; १२,१३;
पा १,४,५६:८०; २, १,३××;
प्राह्^ड शाश्रौ ३, १३,३०; ४,
३,७××; १७, ७, ११^ड; काश्रौ;
आपश्रौ १०, १५, ९^ड; जैश्रौका
२४^ड; या १४, २३^ड; याशि
२, ८^ड; ४१; प्राच: ऋशाश्रौ^ड ७,
४,७; ८, ३, २; शाश्रौ; द्राश्रौ
१०, २, ५; वैताश्रौ ३२,
१३^ड; शांगृ ६, ५, ६^ड;
ऋश्र २, १०, १३१^ड; प्राचा
बौश्रौ १, १९:११; २, १७:
३०××; हिश्रौ ४, २, ४२; ७,
६, २६; प्राचाम् पा १, १,
७५; २, ४, ६०××; पावा ७,
३,४५; मीसू ११,२,५५; प्राचि
हिश्रौ १७,४,३४; द्राश्रौ १, २,
२७; लाश्रौ १,२, २०; ५, ५,
१३^ड; बौश्र ४: २१; ऋप्राची
काश्रौ ८,४,३; बौश्रौ ६, २५:
२; वैश्रौ १४,५: १८^ड; हिश्रौ
७,५, ६^ड; शुश्र १, ३२१; तैप्रा
४,३३; प्राञ्च: आश्रौ १, १, ८;

शाश्रौ १०, २१, १६; काश्रौ;
लाश्रौ ३, १०, ५^ड; प्राञ्चम्
आश्रौ ३, १२, २५××; शाश्रौ;
आपश्रौ १८, १४, १३^ड; वाश्रौ
३,३,२,४०^ड××; प्राञ्चा हिश्रौ
६, ६, १७^ड; प्राञ्चि आश्रौ
२, १९, ४; काश्रौ १, ७, २४^ड;
६,२,१८; निस् १,५: ८; २२;
बौश्र १०: १२; प्राञ्चौ शाश्रौ
१,६,१०××; काश्रौ।

प्राची,ञ्ची- -ञि आश्रौ
५,१३,१४^डक^ड; -ची आश्रौ १,
१२,४××; शाश्रौ; ऋआपश्रौ १९,
१४, १४^ड; १५^ड; बौश्रौ १९,
६: १५^डक^ड; ऋहिश्रौ २३, ३,
१२^ड; २६^ड; -ची: आश्रौ ८,
३, ३०; शाश्रौ ४, ११, ६××;
काश्रौ; आपश्रौ २१, २०, ३^ड;
बौश्रौ १६, २३: ५^डक^ड; वाश्रौ
३,२,५, ४३^डक^ड; हिश्रौ १६, ६,
४१^डक^ड; -चीभि: बौश्रौ १०,३६:
१६××; आपश्रु; -चीम् आश्रौ
५, १३, १४^डक^ड; ६, १४, १६;
शाश्रौ; या ११, ११^ड; -च्य:
काश्रौ १३, ३, २६^डक^ड; बौश्रौ
१२,८: ३; वैताश्रौ ३४, ९^डक^ड;
आगृ; -च्या शाश्रौ ४, ११,
४^डक^ड; आपश्रौ १७,७,६^डक^ड; बौश्रौ;
माश्रौ १, ४, ३, ८^डक^ड; -च्या:

काश्रौ २५,६,२; कौसू ४९,७^डक^ड;
अप; -च्याम् आश्रौ १,१,७^डक^ड;
शाश्रौ ६, ३, १^डक^ड; आपश्रौ ४,
१४,४^डक^ड××; बौश्रौ ३, २०:
१२^डक^ड; भाश्रौ ४, २०, ४^डक^ड;
वैश्रौ ७,१२: १^डक^ड; जैगृ १,४:
१९^डक^ड; अश्र ४, ४०^डक^ड; -ञ्यै
बौश्रौ १८, ५२: १; बौगृ २,८,
३६^डक^ड; भागृ; -च्यो: काश्रौ १७,
४, ११; -च्यौ काश्रौ १७, १२,
१५; वैश्रौ ८, ९: २××; आपश्रु;
-ञ्च्यौ शाश्रौ १७, ५, २.

प्राची-वत् काश्रु १,२१.
प्राची-वर्तमान- -नस्य
द्राश्रौ १४,१,१५^ड।

प्राची-स्थ- -स्थान् अश्र
३,२६.

प्राच्य (ची-अ)न्त^ड-
-न्त्यो: काश्रु १,६.

प्राच्य (ची-अ)र्थ- -र्थ:
बौश्रु १: १८.

प्राच्य (ची-ञ्)र्धा (र्ध्व-अ)
वाची- -चीभ्य: गोगृ ४,७,३७.
प्राक्-काल-> ष्ठाल-अ)
वकृत- -तम् काश्रौसं ३१: १.

प्राक्कालीन^ड- पागवा ४,२,
११६.

प्राक्-कूल^ड- -लान् बौगृ १, २,
४; -लानाम् आगृ ३, २, २;

a) = प्राची-दिश- । b) सप्र. आपश्रौ १७, १६, १ आ इति पाभे । c) सप्र. बौगृ १;
१३, २७ प्राह्यसुख: इति पाभे । d) कचित् वा. क्विभि । e) प्राह् इति C. शोध: ? (तु. पाभे. वैप १, २२२५।) ।
f) पाभे. पृ १७४९ t द्र. । g) प्राह् इति पाठ: ? यनि. शोध: । h) पाभे. वैप १, १९१७ h द्र. ।
i) सपा. षचिवर्तं <> ष्चिवर्तं इति पाभे. । j) पाठ: ? प्राच: इति शोध: (तु. द्राश्रौ १०, २, ५) । k) पाभे.
वैप १, २२२६ d द्र. । l) पाठ: ? प्राह्, च इति शोध: (तु. सपा. मै १, ५, ४ आपश्रौ ६, १९, १) । m) सप्र.
प्राञ्चि <> प्रागपवर्गाणि <> प्राह्यन्यायानि इति पाभे. । n) सपा. प्राचि <> प्राची (तैत्रा ३, ११, ९, ८^ड च) इति
पाभे. । o) पाभे. वैप २, ३३३. प्राची तैत्रा ३, ११, ९, ८ टि. द्र. । p) सपा. प्राची: <> प्राच्य: इति पाभे. ।
q) पाभे. वैप १, २२२७ a द्र. । r) ष्यम् इति पाठ: ? यनि. शोध: । s) उप. = प्रतीची- (तु. भाष्यम्) ।
t) तु. पागम. । u) वस. उप. = अग्र- ।

आग्निग् २, ६, ४ : ३; -लेषु आग्
 ३, ५, ११; गोप्य ४, ५, १४;
 गौघ १, ५६.
 प्राक्-सुबुक्^a - -कम् हिश्रौ ११,
 ७, ५५.
 प्राक्-छाय^b - -ये विध ७८, ५३.
 प्राक्-तन - -नम् निस् ३, २ :
 १३; -नेन वैश्रौ ११, २ : ४.
 प्राक्-तन्त्र^c - -न्त्रम् कौस् ६,
 ३४^१; अप ११, १, ४××.
 प्राक्-तूल^d - -लान् बौश्रौ २, १ :
 २; माग् १, ८, ३; -ले माश्रौ
 १, ३, ४, ३; -लेषु जैग् २, ८ : ८.
 प्राक्-त्व - -त्वे बौश्रौ २१,
 ७ : ८.
 प्राक्-पश्चिम^e - -मम् वैग् १,
 ८ : २.
 प्राक्-पाश^f - -शम् आश्रौ १,
 ११, ४.
 प्राक्-प्रणीत - -तेन काध २७४ :
 ६.
 प्राक्-प्रवण,णा^g - -णम् काश्रौ
 ७, १, १३; आपश्रौ १०, २०, १;
 वैश्रौ १२, ४ : २; -णाम् काश्रौ
 २, ६, १; आपश्रौ २, २, ९; -णे
 वैग् १, ८ : १.
 प्राक्-शस (:) बौश्रौ ६, २६ : ८;
 गोप्य १, ७, २३; ८, ५; कप्र १, ८,
 १४.
 प्राक्-शिरस^h - -रः वैग् ४, १० :
 १३^१; -रसः पाग् ३, २, १३;
 -रसम् शाश्रौ ४, १७, ११; काश्रौ;
 -राः माश्रौ २, १, ३, १०;
 वैश्रौ १, १ : २८; आग्.
 प्राक्-शिलष्टⁱ - -ष्टः माशि ७, २^१;

४^१; ८, २.
 प्राक्-शिलष्ट-जात्य-क्षैप्र - -प्राः
 माशि ८, ५^१.
 प्राक्-सं(स्था)स्थ^a - -स्थम् काश्रौ
 २, १, ६; ४, १५, ७; ५, ८, ३१;
 द्राश्रौ; -स्थानि बौश्रौ २०, १३ :
 १३; आग् १, १०, १७.
 प्राक्-समास^b - -सम् द्राश्रौ ५,
 २, ९; लाश्रौ २, ६, ४; निस् १,
 ११ : १९.
 प्राक्-सिद्ध-त्व - -त्वात् शंघ ७.
 प्राक्-सौत्या काश्रौसं ३४ : १.
 प्राग्-अग्र - > ँग्रिक - -कम्
 वैग् १, ३ : ३.
 प्राग्-अग्र,प्रा^c - -ग्रम् काश्रौ
 १, ३, १६; आपश्रौ १, १२, ३;
 २, १, ५××; भाश्रौ; -प्राः वैश्रौ
 ११, ११ : ४; जैश्रौका १५४;
 -ग्रान् आग् १, १७, ११;
 आमिग् २, ३, २ : ५; बौग्;
 -प्राभिः निस् १, ११ : २३;
 -ग्राम् वैश्रौ १४, ४ : ६; -ग्रायाम्
 शंघ ५४; -ग्रे काश्रौ १, ३, १५;
 काठश्रौ ४९; कौग् १, ४, ४;
 शाग् १, ८, १६; -ग्रेषु कौग् ३,
 ३, १××; शाग्; -ग्रेः आपश्रौ
 १, १४, १४; ६, ३, ५; भाश्रौ;
 -ग्रौ आपश्रौ २, ९, ५; वैश्रौ ५,
 ६ : ११; कप्र २, ५, २०.
 प्रागग्र-ता - -ता शाश्रौ ४,
 ६, ८.
 प्रागग्रो(प्र-उ)द्गग्र - -ग्रान्
 आग् २, ८, १५; काग् ११, २;
 १५, ३.
 प्राग्-अन्त,न्ता^d - -न्तम् वैग्

१, ११ : ५; १४ : ५××; -न्ताः
 वैश्रौ १, ८ : १४; वैग् ६, १४ : ७.
 प्राग्-अपवर्ग^e - -र्गः बौग् २,
 ११, १६; -र्गम् आपश्रौ २, ९,
 २; भाश्रौ; -गोणि आपश्रौ २४,
 २, १५^१; बौश्रौ २, २ : १७^१;
 वाश्रौ १, १, १, ७७^१; आमिग् १,
 २, २ : १५; हिग् २, १९, ३.
 प्राग्-आदि^f - -दि^१ वैश्रौ १, १ :
 ११; आमिग् १, ६, ३ : २०; ४८;
 ७, ३ : ८; वैग् ४, १ : ४.
 प्राग्-आय (त >) वा - -ताम्
 काग् १८, १; कौस् १३७, ५;
 ८; -ते आग् १, ३, १; कौस्
 १३७, ३.
 प्राग्-आया(म >) मा^g - -माः
 आपश्रु ७, ६; हिग् २, ५४.
 प्राग्-आवृत्त - -त्तः बौश्रौ २४,
 २८ : १; जैश्रौ १३ : ११; २६ : ५.
 प्राग्-आहुति - -तेः शाग् १, ३,
 १६.
 प्राग्-ई (षा >) ष^h - -षम्
 आपश्रौ १, ७, ६; १७, ५××; बौश्रौ.
 प्राग्-उक्त - -क्ते अप्राय ५, ३;
 -क्तैः बृदे २, ७१.
 प्रागुक्त(क्त-ऋ)र्षिⁱ - -र्षिः
 अग्र १, ११; २१××.
 प्रागुक्त(क्त-ऋ)र्षि-गण^j -
 -णम् अग्र २, १०.
 प्रागुक्त(क्त-ऋ)र्षि-उन्दो-
 देवता - > ँवत्य - -त्यम् अअ
 ७, १२.
 प्राग्-उत्तर(र-अ)प्र^k - -प्रम्
 वैश्रौ २, १ : १५; वैग् १, १० :
 १२; -ग्रान् वैग् १, १० : १४;

a) बस. । b) = प्राङ्मुखी-ज्याया- (तु. शक. [गजच्छाया-]) । c) कस. उप. = विधि- । d) बस. उप. अग्र-
 e) पंस. वा. किवि. । f) वा. किवि. । g) = स्वरित-विशेष- । h) प्राश्लिष्टः इति संस्कर्तुः टि. । i) ँक्षैप्राणान् ;
 इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. संस्कर्तुः टि.) । j) पाभे. पृ १७५० m द. । k) बस. उप. षस. । l) दस. > बस. ।

-मौ वैगु २,५ : ५; ३,२३: ७.
१प्राग्-उदच्,ञ्च्^a -दक् आश्रौ
१,१,४; २,३,१८××; आश्रौ;
-दञ्च्^b शाश्रौ ४,१५,१; वाश्रौ
१, ७, ४,५९; कौगु ५, ३, २८;
-दञ्च्म् काश्रौ १६, ५, १४;
वाश्रौ;-दञ्चि शाश्रौ ४,१९,७^c;
-दीचः^d काश्रौ १६,३,१४; मागु
१,२१,१०.

१प्रागुदीची^e -ची
आपश्रौ १,१,१०; -ची: शाश्रौ
२,९,१४; माश्रौ; -चीम् काश्रौ
४,२, ४; हिश्रौ १, २, ८; कागु
२५,४७.

प्रागुदक्-प्रवण,णा^f -णम्
शाश्रौ ५, २, २; आपश्रौ १०,
२०,१; बौश्रौ २५,५:४; हिश्रौ;
-णा: अप २४, १, ७; -णाम्
आपश्रौ २,२,९; वाश्रौ १,३, २,
१; वैश्रौ ५,१ : ५; -णे आम्रिगु
१,१,१ : ८; हिगु १,१,९; अप
१८,१,१; २१,४,४.

प्रागुदङ्-मुख^g -खः माश्रौ
१,३,१,३१; ६,२,२; वाश्रौ १,
५,४,४; जैश्रौका ६३.

प्रागुदीचीन- नम् वाश्रौ १,
७,४,३.

२प्राग्-उदच्^d -दग्भिः काश्रौ
४,१३,१५; २६,३,९.

प्रागुदग्-अग्र^h -आ: आम्रिगु
१,१, १ : १२; बौगु १, ३, ६;
हिगु १, १, १३; -अै: आम्रिगु

१,७,३ : ९; आपगु १,१३.
प्रागुदग्-अपवर्ग- -नीम् कौसू
१,१५.

२प्राग्-उदीची^a -चीम्
शाश्रौ २, ९, १४; वाश्रौ १, ५,
२,४६; शागु २,१२, ११; बैगु;
-च्याम् शाश्रौ ४,१७,३; माश्रौ
१,७,७,४; कौगु.

३प्राग्-उदीची^d -च्यो: आश्रौ
२,४,१३.

प्राग्-ग(त>)ता- -ताया: कप्र
१,६,९.

प्राग्-गा(मक>)मिका^e -का:
वाध १९,२४.

प्राग्-गामि(न् >)नी- -नी
वाध १७,६२.

प्राग्-ग्रन्थि^f -न्थि काश्रौ ५,
८,२७.

प्राग्-श्रीव^g -वम् शाश्रौ ४,१६,
२; माश्रौ ६, १, १, २५; वैश्रौ;
-वाणि काश्रौ १, १०, ४; -वे
माश्रौ १, ५, १, १७××; मागु
१,११,१९; १४,७.

प्राग्-(हु>)घुत-शेष^h - -वेण
काश्रौ ४,२,३३.

प्राग्-(हो>)धोम- -मान्
आपश्रौ १४,१८,२.

प्राग्-ज्योतिषⁱ -षम् शागु
६,२,१.

प्राग्-दक्षिणा^j -णम् कौसू
७१, २१; ८०, ४३××; -णा^k
आश्रौ २, ६, २; काश्रौ १६, ५,

१७; वाश्रौ १, २, ३, १; -णाम्
कौसू ५, २, १३^b; कौसू ८४, १५.

प्राग्दक्षिणा-सु (ख>)खा^l -
खा वाश्रौ १, २, ३, ५^l.

प्राग्दक्षिणा(ण-अ)अ^m -अै:
वाश्रौ १, २, ३, ३.

प्राग्दक्षिणा-चारⁿ -रा:
माश्रौ १, १, २, १; ७, ६, १.

प्राग्दक्षिणा (णा-अन् >)
ची^o -चीम् शाश्रौ ४, १४, ९.

प्राग्दक्षिणा-प्रवण^p -णम्
आगु ४, १, ७.

प्राग्दक्षिणा-मुख^q -खः
जैगु २, १ : ११.

प्राग्दक्षिणा(णा-आ)यत-
-तम् जैगु २, २ : १.

प्राग्दक्षिणा (णा-आ)
यतन^r -ने आम्रिगु ३, ११,
१ : २.

प्राग्-दण्ड,ण्डा^s -ण्डम् आश्रौ
१, १३, १; शाश्रौ ४, ७, ६;
आपश्रौ; -ण्डया शाश्रौ २, ९,
१४; आपश्रौ ६, ११, ५; हिश्रौ
३, ७, ९२.

प्राग्-द(शा>)शा^t -शाम् काश्रौ
७, ७, ९; आपश्रौ १०, २४, ७^m;
-शे माश्रौ २, १, ४, ३; -शेन
माश्रौ २, २, ४, २२.

प्राग्-दृष्ट-दोषⁿ -षम् विध ९,
१८.

प्राग्-द्वार,रा^o -रम् माश्रौ ६,
१, १, २५; हिश्रौ ७, १, २९

a) = ईशान-कोण-। बस.।

b) तात्स्थ्यात् विप.।

c) विप.। बस.।

d) द्वस.।

e) = विधवा-।उस. पूष. = पितृ-गृह-।

f) विप.। सुप्पुदीयः समासः > पंस.। यनि. अ्वग्रहः (तु. B.W. M.W.;

वैतु. कर्कवैवाधरौ उप. हुत-शेष- इति)।

g) समासान्तः अच् प्र. उसं. (पावा ५, ४, ७५)।

h) = आनेयी-

दिश- बस.।

i) वा. फि.वि.।

j) सप्र. आपश्रौ १,७,१० भाश्रौ १,७,५ हिश्रौ २,७,१२ दक्षिणाप्राची

तिष्ठन्ती इति धामे.।

k) विप. (चित्ति-).।

l) मले. कस.।

m) सप्र. प्रमदशम् <>.

प्राचीन-नद-सः <> प्राचीन-दशम् इति प्राप्ते.। n) -तस, > बस.

शांठ ६, २, ६; काण्ट; -रा वैश्री
१२, ४; ११; -रा: माश्री ६,
१, ८, १०; -राणि आमिण्ट २,
६, ३; ११; अप १, २७, ३;
१८, २, ८; बौध २, ५, १६; -रे
काश्री १६, ३, १३; २६, १,
१४.

प्राग्द्वार-प्रत्यग्द्वार- रेषु
कौसु २४, ३; ३४, ३.

प्राग्-धातु-वचन- नम् पावा
१, ४, ८०.

प्राग्-बहुव्रीहि-ग्रहण- णम्
पावा ५, ४, ६९.

प्राग्-भाग- णम् कौसु २१,
१८.

प्राग्-भेद^a- दौ बौशु १२: ६.

प्राग्-याम्या(म्य-अ)पर-सौम्य-
-मथानाम् अप ६४, २, ८.

प्राग्-रात्रा (त्र-अ) पररात्र-
-त्रेषु शंघ ३७१; विध ९७,
१६.

प्राग्-वंश^b- शान् वैश्री १४,
११: ६.

प्राग्-वंश^c- श: बौशु ४: १;
-शम् काश्री ७, १, १५; ८, ४,
२१; आपश्री; -शस्य आपश्री

१०, ३, ४; ११, ४, १२; वाश्री;
-शात् आपश्री १०, ७, ५; माश्री

२, १, २, ३३; -शाथ माश्री २,
२, ४, ११; -शे आपश्री १०,
२१, १८, ११; बौश्री.

प्राग्-वंश-काय^d- -य: विध
१, ७.

प्राग्-वंश-वेदि-मान- -नानि

काशु १, १९.

प्राग्-वचन- नम् पावा १, २,
११; ४, ५, ६; -ने पावा ५,
१, १.

प्राग्-वचना(न-आ)नर्थक्य-
-क्यम् पावा ५, ३, ९४; ८, २,
८६.

प्राग्-वत् विध २१, ९; ऋअ २,
८, १.

प्राग्-वत्प्रभृत्येडान्त: वैश्री
१४, १८: ९.

प्राग्-वदन^e- न: जैश्रीका १७;
३८.

प्राग्-वाहि(न् >)नी- नी
गौपि १, ५, ३२.

प्राग्-भावृत्त- -त्त: बौश्री ३,
३०: ११; -त्तस्य बौश्री २,
८: ६.

प्राग्-उच्चार^f- -र: बौश्री २,
२०: ४.

प्राग्-न्याय- -यम् माश्री १, १,
१, ६; -यानि शाश्री १, १, १३;

भाश्री १, १, १२; हिश्री १, १,
५३.

प्राग्-मुख- > प्ल-करण-
-णम् द्राश्री १, २, २२; लाश्री १,
२, १६.

प्राग्-मुख^g- -ख: आश्री १,
१, ४; शाश्री ४, २१, २; आपश्री
६, २, ११; बौश्री; अप्राय १,
३; अप २२, ७, ५; -खम्

आपश्री १७, १९, १०; १९,
९, १३; काठश्री; -खयो:

विध ७३, १३; -खस्य बौश्री ६,

१: २६; भाग; -खा: माश्री
२, ३, ७, ६; कौश १, २, २; शांठ

१, ६, ४; बौशु १, २, ३; -खान्
आमिण्ट ३, ११, ३: ७; बौशु २,
११, १५; १६; वैशु; -खानाम्

कौसु ८२, १; -खाय जैशु १, १९:
३२; -खे वाश्री २, २, ४, १७;
कौशु २, ७, २०; ४, १, ३; शांठ
२, १२, ४; -खेन कप्र २, ८, १२;

-खेभ्य: विध ७३, २७; -खेषु
विध ७३, २५; -खै: जैश्रीका
१२३; -खौ हिशु १, २२, ९;

विध ७३, ३.

प्राग्-मुखी- खी वैश्री
१५, ७: २, ७; आमिण्ट २, ४,
९: ५; कप्र १, ७, १; -खी: बौशु
१०: ३०; -खीम् माश्री १,
६, १, १४; वैश्री ५, ३: ४;

-ख्या: आशु १, ७, ३; कौशु १,
८, १४; १७; शांठ.

प्राग्-मुखा(ख-अ)प्रतस् (:)
विध ७३, २६.

प्राग्-शाथिन्- थो काश्री ५,
२, २१.

प्राचीन, ना^h- नम् आपश्री ५, ४,
३; ६, ३०, ७; बौश्री; या २,
२२; १८, ९; १२; -ना काश्रीसं
३५: ८; -ना: बौश्री २४,
३६: ११; वाश्री २, १, ६, ९;
-नान् वैश्री १७, १२: २;
-नानि अत्र ५, ६; -ने वैश्री ८,
५: १२.

प्राचीन-कण्टकⁱ- कान्
कौसु ३५, २३.

a) वस. । b) मलो. कस. । c) विप., नाप. (पत्नीशालादि- L. तु. काशु १, १९ भाष्यम् ।) ।

वस. । d) ष्वतः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. उत्तरं स्थलम्) । e) पाप्मे. पृ १७५० III द. । f) उत्तरेख

संधिरार्षः । g) पृ ११० सस्य. षष्ठः शायी इति नेष्टम् (तु. देवयानिकः; वैतु. MW. अथः प्राग्शाथिन्- > थो इति) ।

h) अर्थः व्यु. च ? । उप. = मदनी-कण्टक- इति दारिलः, = बदरी-कण्टक- इति केरवः ।

प्राचीन-क(री>)णी^{a,b}-
-र्णाः बौश्रौ ६, २५ : १६; २७ :
१५; वैश्रौ १४, ६ : ९; -र्णाम्
आपश्रौ ११, ९, १३; १०, १;
बौश्रौ; हिश्रौ ७, ७, ७.

प्राचीन-कु(म्ब>)म्बा^{a,b,c}-
-म्बया बौश्रौ ४, २ : ७; ९;
-म्बाम् हिश्रौ ४, १, ४३; ३;
आमिष्ट; -म्बे माष्ट १, ३ : १२.

प्राचीन-प्री(वा>)व^a- -वम्
आपश्रौ १०, ८, १५; २०, १३××;
बौश्रौ; -वे आपश्रौ ५, ५, १;
१६, २१, २; हिश्रौ ११, ७, २;
-वेण शाश्रौ १७, ५, ९; बौश्रौ.
?प्राचीनप्रीवदश- -शम्
भाश्रौ १०, १६, ६^d.

प्राचीन-द (ण्ड>)ण्डा^a-
-ण्डया बौश्रौ २, १८ : ३७; ३, ६ :
२४; २०, २० : १९; भाश्रौ ६,
१३, ८; वैश्रौ २, ५ : १०.

प्राचीन-द(शा>)शा^a-
-शम्^d बौश्रौ ६, १४ : ९; वैश्रौ
१२, १७ : १४; हिश्रौ ७, २, ३, ९;
-शेन बौष्ट १, ८, ६.

प्राचीन-पुष्क(र>)रा^a-
-राः बौश्रौ २०, १६ : ७; ९†;
-रे बौश्रौ २०, १४ : १०.

प्राचीन-प्रवण,णा^a- -णम्
शाश्रौ ५, २, १; आपश्रौ ५, ४,
१†; भाश्रौ ५, २, ११; माश्रौ
२, १, १, ३; हिश्रौ १०, १, २, २;

-णाम् वैश्रौ ५, १ : ५; -णे
काश्रौ ५, १, १६; आपश्रौ.

प्राचीन-प्रसूत- -तानि काष्ट
७२, १.

प्राचीन-प्रोष्ठप(द>)दा^a-
-द्वयोः अप १, १०, ८.

प्राचीन-बिल^a- -लम् बौश्रौ
९, १० : ३३; ११ : २५××;
वैश्रौ १३, १४ : ५; १३; -लौ
बौश्रौ ९, ५ : २७.

प्राचीन-मातृक^a- -कम् माश्रौ
२, १, १, ३४.

प्राचीन-मान^a- -त्रम् भाश्रौ
१०, ६, ८; -त्रा^b आपश्रौ
१०, ९, ११.

प्राचीन-मुख^a- -खम् वैश्रौ
१८, १८ : १०.

प्राचीन-योग^a- (>योग्य-
पा.) पाग ४, १, १०५; -ग्याः
बौश्रौप्र ४ : १; चञ्चू ३ : ७[†].

प्राचीन-रात्र^a- -त्रे वाश्रौ
१, ७, ३ : २०.

प्राचीन-वंश,शा^a- -शम्
आपश्रौ १०, ५, १; ११, ९, ४;
भाश्रौ १०, ३, १; माश्रौ; -शा
बौश्रौ ६, १ : १०; -शाम् बौश्रौ
१५, १ : ११; २५, ५ : ५; वैश्रौ
१२, ४ : ९; ५ : ६.

प्राचीन-शिरस्^a- -रसम्
बौश्रौ २०, २८ : १६.

प्राचीन-स्तोम- -माः बौश्रौ

१८, ४२ : ७.

प्राचीन-हरण- -णत् आश्रौ
३, ११, १०.

प्राचीना(न-अ)ग्र,प्रा^a- -ग्रम्
बौश्रौ १, ३ : १२; ४, ६ : ५५;
-प्राः आमिष्ट १, ७, ३ : ३;
-प्राणि बौश्रौ ९, १ : ११; १०,
३ : १०; -ग्रान् वैश्रौ १८,
१ : ३३; -ग्राम् वैश्रौ १४,
१० : ९; -ग्रे आमिष्ट २, ४, ६ :
६; -ग्रेषु वैश्रौ १३, १ : १३;
-ग्रेः शाश्रौ १७, १०, १४.

प्राचीना(न-अ)पवीत^m->
पतिन्- -ती शाश्रौ १, १, ७; ३,
१६, ११.

प्राचीना(न-अ)र्थ- -र्थस्य
अप १, ३५, २.

?प्राचीना(न-अ)ववीत^m-
-तम् माश्रौ २, ५, २, ४; -तानि
माश्रौ १, ७, ६, २७; ३८; २, ५, १,
३६.

प्राचीनाववीतिन्- -तिनः
माश्रौ २, ५, १, ३५; -ती माश्रौ
२, ५, २, ३.

प्राचीना(न-अ)वीत^m- -तम्
बौश्रौ ३, १० : ६; १८××; वाधृश्रौ
३, ९१ : ६; वैश्रौ १८, ३ : ७;
हिश्रौ १०, ५, ९; आमिष्ट १,
६, २ : ४××; बौष्ट २, ११, ४९;
माष्ट २, ११, ३; हिपि १८ : १३;
अप्राय ६, ७; -तानि आपश्रौ ८,

a) बस.। b) उप. = क्षुद्रशाखामूल- इति भाष्यम् (हिश्रौ.)। c) उप. = रकुम्भ-। d) पाभे.
१७५२ m द्र.। e) = पूर्वा-प्रोष्ठपदा-। f) विप. (क्षौम- [= क्षौम-वस्त्र-])। बस.। उप. अर्थः द्यु. च?। C.
(आपश्रौ. [तु. h]) = दशा- [प्रान्तभाग-तु. उदीचीन-दश-] इति?। भाप. (बन्धनग्रन्थि-) इति कृत्वा (√बध् [बन्धने]
> भावे) *बध्- > [स्त्रार्थे] *बद्धक- > नैप्र. मातृक- इति मतम्?। g) -त्रम् इति किवि.। बस.
उप. नैप्र. < *बद्ध- इति विशेषः। शेषं f द्र.। h) पाठः? -त्रम् इति शोधः (तु. भाश्रौ.; वैतु. C. तु१ < मातृ-
कृति कृत्वा विप. इति?)। सस्य. √दीक्ष् इत्यस्य वसने वृत्तिः?। i) = ऋषि-विशेष-। व्यु. ?। j) नाप. (सामन्-)।
k) तस. (पा २, २, १)। l) = अग्राम्-वंश-। m) कैप. १, २२२७। k द्र.। n) वैष १ द्र.।

१५, १, १६, १५१; बौश्रौ.

प्राचीनावीतिन्- -तिनः
आश्रौ २, १९, १६; काश्रौ १२,
३, १७; आपश्रौ; -तिना आसिण्ट
३, ७, ४ : ३३; ३४; आपश्रु; -ती
आश्रौ २, ३, २१×४; काश्रौ;
वैगु ६६ : ८^{१३}.

प्राचीनौ (न-श्रौ)द्वत्रिजि^b-
-जिः नाशि २, ८, ५.
१प्राच्य^c- पा ४, २, १०१;
-च्यानाम् अप ५२, ९, ५;
-च्येषु काश्रौ २२, २, २४; या
२, २.

प्राच्य^d पा ४, १, १७८.
प्राच्य-कठ^d- -ठाः चव्यू २:३.
प्राच्य-पञ्चाल-उपधा-
निभो(भ-उ)द(य>)या^e-
-याः ऋप्रा २, ८१.

प्राच्य-पञ्चाल-पदवृत्ति^f-
-त्तयः ऋप्रा २, ३३.

प्राच्य-भरत^g- -तेषु पा २,
४, ६६; ४, २, ११३; ८, ३, ७५.

प्राच्यभरत-संज्ञा- -ज्ञा
ऋत ५, २, ५.

प्राच्य-रथ^h- -थः लाश्रौ ८,
६, ९.

प्राच्यो (च्य-उ)दीच्य-नैर्क-
त्य- -स्याः चव्यू २ : ३४.

प्रा(प्र-अ)चमनⁱ- -नात् आसिण्ट ३,

११, २ : ५.

प्रा(प्र-अ)चार्य^j- -र्याय आपध १, ८,
१९; हिध १, २, १०७.

प्राचिक्य^k- प्रचिक- द्र.

प्राचुर्य^l- प्रचुर- द्र.

प्राचुल- -ल्य- प्रचुल- द्र.

प्राचेतस- २प्रचेतस- द्र.

२प्राच्य^m- (>°च्यायन-पा.) पाग ४,
१, ११०.

प्रा(प्र/अ)ज्, प्राजति काश्रौ ७, ९, १२;
१५, ६, १८; पाश्रु ३, १४, ७.

†प्राज्यात् आपश्रौ ५, २३, ३६;

†प्र...आजिषुः लाश्रौ ९, १०, ६^१.

प्रा(प्र-अ)जनⁿ- -नेन गोश्रु २, १,
१३.

प्राजरहा (हा√कृ पा.), प्राजर्या(र्या
√कृ पा.) पाग १, ४, ७४.

प्राजहित- प्र√हा(त्यागे) द्र.

प्राजापत-, प्राजापती-, प्राजापत्य-
प्रश्रु. प्र√जन् द्र.

१-२ प्राज्ञ- प्र√ज्ञा द्र.

†प्राज्ञयति^o या १४, २३^१.

प्रा(प्र-अ)जलि^p- -लिः माश्रौ २, १,
२, ६; गोश्रु १, ६, १६; द्राश्रु;

चव्यू ३ : ७^p.

प्राञ्जलि-स्थित^q- -तम् वृदे ८,
४.

प्राटा, डा^r हति^s- (>°तायन- पा.)
पा २, ४, ६१^t.

प्राङ्-विवाक- √पृच्छ द्र.

प्रा(प्र/अत् >)रा, प्राणति, प्राणन्ति
शौच ४, ५७^u.

प्राणिति भाश्रौ २, १३, १३;
वाधूश्रौ; †प्राणिहि कौश्रु १, १६,

३; शांश्रु १, २४, २; प्राण्यात्
वैश्रौ २०, २ : ६; प्राणीत् ऋप्रा

५, ५७^v.

†प्रा(प्र-अ)णत्- -णत् आपश्रौ १७,
२१, ८; हिश्रौ १२, ६, २६^w;

हिपि १३ : ११^x; कौस १३३,
३; -णतः शांश्रौ ३, १४, ७;

काश्रौ २०, ५, २; आपश्रौ;
काश्रौसं २६ : ३^y; -णता

आपश्रौ १२, ८, ६; वाश्रौ ३, २,
५, ११; -णते अश्रु ११, ४.

प्रा(प्र-अ)ण्य आपश्रौ ६, १०, १;
१२, ८, ६×४; माश्रौ.

प्राण^z- पाग ४, १, ९९; पाश्रु १, १६,
११^z; -†ण आपश्रौ २, १, १०;

५, २, १; बौश्रौ; आपसं २, ४,
१४^z; -†णः आश्रौ २, १०,

४; ८, १३, ९; शांश्रौ; आपश्रौ
७, १४, २^z; बौश्रौ ४, ६ : ५^z;

भाश्रौ ७, ११, ३^z; माश्रौ १,
३, १, २२^z; वाश्रौ २, २, ३,

१८^z; वैश्रौ १०, १० : १५^z;

हिश्रौ ४, ३, २५^z; काश्रु ४१,
१८^z; हिश्रु १, १३, १७^z; \$या

a) °त् इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. संस्कृतुः टि.) । b) मल्लो. कस. उप. = आचार्य-विशेष- ।

c) तत्रमवीयः यत् प्र. । d) = शाखा-विशेष- । e) द्वस. > षस. > तुस. > बस. । f) द्वस. > षस. । g) द्वस. ।

h) कस. । i) प्रास. । j) = ऋषि-विशेष- । k) पाभे. वैप २, ३खं. प्राज्यात् लुशा ९१:२३ टि. द्र. । l) पाभे.

वैप १, २२३९ C द्र. । m) = प्र-तोद- । उप. करणे कृत् । n) प्राङ् चै(च-ए)ति वा प्राङ् चयति वेति B.N. ।

o) बस. । p) = साम-विशेष- । q) पूष. क्वि. । r) <प्राडाहत- (<√प्रच्छ+आ√हृ) इति पागम. ।

s) व्यप. । व्यु. ? । t) प्राण^० इति पाका., प्राटा^० इति वामनः (तु. पागम.) । u) ण्यात् इति पाठः ? यनि. शोषः । तु.

आपश्रौ. । v) प्राणत्प्रः इति पाठः ? यनि. शोषः । तु. संस्कृतुः टि. । w) वैप १ द्र. । x) पृ २६५ C द्र. । y) सपा.

प्राण<>प्राणः इति पाभे. । z) पाभे. वैप १, २२२९ b द्र. । a¹) सपा. आपश्रौ २, १४, १३ यज्ञः इति पाभे. ।

b¹) प्राणः इति पाठः ? प्राणान् इति शोषः ? तु. माश्रौ ६, २, ४, १२ । c¹) सप्र. पाश्रु ३, १५, २१^१; २२^३ ब्रह्मा इति पाभे. ।

१४, ५; २०; -णम् आश्रौ १, ४, ८; २, ४, १४; ३, ३, १^axx; शाश्रौ ४, ७, ११xx; ५, १७, ३^a; काश्रौ ८, ८, २६; ९, ४, २८^bxx; ङआपश्रौ २, ४, ५xx; ५, १२, २०; ङबौश्रौ १, ८; ९xx; २, १७ : ३६^०; भाश्रौ ५, ९, ८^०xx; माश्रौ १, २, ५, ३xx; २, ६, १, ५०^a; वाधूश्रौ; हिश्रौ ३, ४, ३८^०; शंघ ११६ : ६१^०; बौश्र १, ४, १२^१; या ११, १८; १४, १०; -णस्य ङआपश्रौ १५, १४, १; २१, २०, २^१; बौश्रौ; -ङण^a निस् ७, ३ : ३२; साश्र १, ५००; -णाः शाश्रौ १६, २६, २; आपश्रौ; या ८, २२^a; १०, ४४; -णात् आपश्रौ १६, ३२, ३^a; बौश्रौ; -णान् आश्रौ १, १३, १^a; शाश्रौ; -ङणानाम् वाधूश्रौ ४, ९५ : २; कौश्र ३, ५, २; शाश्र ३, ८, ५; आश्रियः; -ङणाय आश्रौ १, ७, २; ६, ९, १; शाश्रौ; आपश्रौ २, २०, ५^a; बौश्रौ १, १७ : १३^b; भाश्रौ २, १८, १६^a; हिश्रौ २, ५, ४५^a; आश्रिय १, ७, ३ : २५^b; या ५, २७^१; -ङणे आश्रौ २, ४, १४^१; काश्रौ; आपश्रौ १२, ११, ७^b; १^b; १५, ११, ४^b; बौश्रौ ९, ११ : ३^b; १८, ३६ : १^b; माश्रौ ११, ११, ४^b; हिश्रौ

८, ३, २७^b; -ङणेन आश्रौ ५, ६, १^१; शाश्रौ १, ११, १^०xx; १७, १७, १^१; काश्रौ; आपश्रौ ६, २५, २^१; बौश्रौ ६४, ३० : २०^१; भाश्रौ ६, ५, ५^१; माश्रौ १, ३, १, २२^१; हिश्रौ ६, ७, ५^१; -ङणभ्यः काश्रौ २६, ७, ४९; माश्र १, २७ : १९; शुश्र ४, ११३; -णेषु आश्रौ १२, ९, १६; आपश्रौ; हिश्र २, १७, ४^१; या १४, ३०; -णैः आपश्रौ १, १६, ८; ४, १०, १^axx; बौश्रौ; या १०, ८. प्राणग्रह^० -हाणाम् आपश्रौ २१, १३, १^b; बौश्रौ १४, २२ : ७; २३, ८ : ४; -हैः बौश्रौ २३, १९ : ३५; २५, १७ : १८. प्राणग्रह-पर्याय- -र्याणाम् वाश्रौ ३, २, १, ३२. प्राणग्रह-मान- -नानि हिश्रौ १६, २, १०^b. प्राणच्छेत्- -त्तुः वाध ३, १५. प्राणत्याग- -नात् विध ४३, ३२. प्राणथ^० - पाउ ३, ११३; -थेन बौश्रौ १०, ४ : ५^a. प्राण-दा- -ङदः आश्र २, ४, १४; माश्र २, ८, ६; -दाश्र ३१, ३, ३. ङप्राण-दा- -दाः काश्रौ १८, ३, ७; आपश्रौ १७, ५, १६; १३, ६; बौश्रौ. प्राण-दृष्टि- -ष्टिः वृदे ८, १३५.

प्राण-देव(ता>)त^a -ताः या ८, २२. प्राण-देवता->थ्य, त्या- -त्या शुश्र १, ४३२; -त्यानि शुश्र २, २००; ५, ८०; -त्ये शुश्र २, २८१. प्राण-देव- -वाम् वाश्रौ १, ६, ४, १९; माश्र १, २२, ६; -शे बौश्रौ २१, ८ : १७; २१; माश्रौ १, ८, ३, १२. प्राण-धर्मन्^a -र्मणि कप्र ३, ३, ४. प्राण-नामन् -म या ३, ८. प्राण-निवह- -हान् आपश्रौ १९, १३, १४^१; हिश्रौ २३, २, ५०. प्राण-पति- (>पत-पा.) पाग ४, १, ८४. प्राण-परायण^a -णः शंघ ४११. ङप्राण-पा^० -पाः शाश्रौ ४, ७, ११; काश्रौ १९, ५, ९; आपश्रौ १२, २१, २; बौश्रौ ७, ५ : ४४; शुश्र २, ४२९. प्राण-प्रभृति- -तिभिः दाश्रौ १०, १, ४; लाश्रौ ३, ९, ४. प्राण-बाधा-भय- -यात् शंघ ४४३; -थेषु वाध ६, १३. प्राण-भक्ष^a -क्षः आश्रौ ३, ९, ६; शाश्रौ ५, १०, २८; -क्षम् आश्रौ २, ७, ३xx; शाश्रौ; काश्रौ १०, ८, ६^१; दाश्रौ १२, ४, २०^१; लाश्रौ ४, १२, १५^१; ८, ८, २^१; -क्षान् आश्रौ २, १९, ३०xx;

- a) पाभे. वैप १, ६४२ b द्र. 1 b) पाभे. वैप १, २२३२ & द्र. 1 c) पाभे. वैप २, ३खं. प्राणम् तैत्रा १, २, १, २४ टि. द्र. 1 d) पाभे. वृ ३३९ ० द्र. 1 e) = अङ्गिरसामन्यतम- 1 f) प्राणान् इति चौसं. 1 g) पाभे. वैप १, ११६० m द्र. 1 h) पाभे. वैप २, ३खं. प्राणाय तैत्रा ३, ७, ५, १३ टि. द्र. 1 i) पाभे. वृ ३३९ & द्र. 1 j) पाभे. वैप २, ३खं. वाचा ऐत्रा ५, १, ५^१ टि. द्र. 1 k) पाभे. वैप २, ३खं. प्राणेन तैत्रा १, २, १, २७ टि. द्र. 1 l) सपा. आपश्रौ २, १४, १३ यज्ञेन इति पाभे. 1 m) पाभे. वैप १, २२३२ f द्र. 1 n) पाभे. वैप १, २२३१ h द्र. 1 o) वैप १ द्र. 1 p) सप्र. °हानां मानानि <> °हमानानि इति पाभे. 1 q) वस. १ r) °नद्विवात् इति पाठः 1 यनि. शोषः (तु. हिश्रौ). 1 s) तुष. जप. = अक्वप्राण- 1 t) वा. क्विचि. 1

शाश्रौ; -क्षेण माश्रौ ४, ३, ३५;
५, २, १६, ६.
प्राण-भूत- -तः वृदे २, ५२.
प्राण-भृत्^१- -भृत् वाधूश्रौ ३, ५३ :
२१; -भृत्तः काश्रौ १७, ६,
३××; आपश्रौ; -भृत्तम् हिश्रौ
१२, ८, ७; -भृत्ताम् कौसू
१३५, ९१; -भृत्तयः काश्रौ १७,
८, १३; ९, १२.
प्राणभृज्-जाति- > प्राणभृज्जा-
ति-व्योवचन^२ वा ५, १, १२९.
प्राणभृद्-देवता-> > व्य-
-त्यानि शुअ २, १७७.
प्राण-मय- -यम् वाधूश्रौ २, १६:६.
प्राण-मार्ग- -गोषु वैश्र ५, ३: २४.
प्राण-यात्रा-> > प्रा-मात्र- -त्रम्
वैश २, ५, १३; ७, ७.
प्राणयात्रिक^३- -कम् बौध २,
१०, ५२.
प्राणयात्रिक-मा(त्रा)>त्र^४-
-त्रः वाध १०, २२.
प्राण-लाभ- -भे गौध २२, ६.
प्राण-वत् वृदे ७, ८२.
प्राण-व(त्)>ती^५- -ती वैश्र १,
१४: ११; -तीन् काश्रौ ४,
१४, १३; वैताश्रौ ७, ९; अप
४५, १, १८.
प्राण-विप्रयोग- -गात् आपध २,
११, १०.
प्राण-वियोग- -गात् हिध २, ४,
१७.
प्राण-विलोप- -पः निसू ७, २: २.
प्राण-वृत्ति- -त्तिम् आपध १, २९,
१; २, २१, १०; हिध १, ७, ५७;

२, ५, ११९.
प्राणवृत्त्य(ति-अ)र्थ- -र्थम् शंघ
३२४.
प्राण-संशय- -भे गोश्र ३, २, २१;
जैश्र १, १७: ५; आपध.
प्राण-संतत- -तः आश्रौ २, १५, १४;
-तम् आश्रौ २, १७, ५.
प्राण-संदेह- -हे आश्रौ १०, १.
प्राण-संमर्शन- -नम् शाश्रौ ४, २१,
२०; ८, ९, ८.
प्राण-संमित, ता- -तः आश्र १, १९,
१३; शांश्र २, १, २१; कप्र ३,
९, १६; -तम् जैश्र १, ७: ५;
१२: ५२. -ताम् आश्रौ १, ७,
६; २, ३, १५.
प्राण-सूक्त- -क्तम् अप ४४, ४, २;
-क्तस्य अशां २३, ५१; -क्तेन
अशां २५, ११.
प्राण-सूत्र- -त्रेण काश्र २९, ११.
प्राण-स्थान- -नम् आश्रिगृ १, ६, ३:
१४; -नेषु आश्रिगृ ३, ४, ३:
१०; बौपि.
प्राण-ह(र)>रा- -रा आश्रौ ५,
१३.
प्राणा(रा-अ)ख्या- -ख्या शौच ४,
३९.
प्राणा(रा-अ)ग्निहोत्र^६- -त्रम् वैश्र २,
१८: १३.
प्राणाग्निहोत्र-मन्त्र- -न्त्रान्
बौध २, ७, २७.
प्राणाग्निहोत्र-लोप- -पेन बौध
२, ७, २४.
प्राणाग्निहोत्र-विधान- -नम् वैश्र
२, १८: १.

प्राणाग्निहोत्र-विधि- -धिना वैश्र
३, ७, ७.
प्राणा(रा-अ)त्यय- -भ्ये वाध १६,
३६.
प्राणा(रा-अ)दि- -दि भाशि ४१.
प्राणा(रा^७-२आद्य>)द्या- -द्याः
अशां २३, ३.
प्राणा(रा-अ)न्त-> > अन्तिक^८- -कः
वाध ३०, १०; -कम् गौध २०,
१४.
प्राणा(रा-अ)पान- -नम् वाश्रौ
२, १, ७, २०; -नयोः बौश्रौ
१४, ४: २१; आपधं २, २०, १;
आश्र ३, १०, ४; ६; कौश्र;
-नाः अश्र ११, ३, (२);
-नाभ्याम् आपश्रौ २, ८, ६;
बौश्रौ १४, ८: २४; भाश्रौ २,
८, ९; माश्रौ २, ३, ७, ११; वाश्रौ;
-ने माश्रौ १, ६, १, ३५; कौश्र २,
८, ९; -नैः अश्र ११, ३, (२);
-नौ आश्रौ १, ५, १७××; काश्रौ;
शांश्र २, १८, ३; -नौ आपश्रौ
१४, १९, ३; बौश्रौ.
प्राणापाना(न-अ)वसद्धि- -द्धयै
कौसू ८०, ३०; ४१.
प्राणा(रा-अ)पान-व्यान- -नाः निसू
८, १२: ५.
प्राणा(ण-अ)पान-व्यानो(न-उ)दान-
समान- -नाः बौध ३, ८, १६.
प्राणा(ण-अ)पान-समानो(न-उ)दान-
व्यान- -नान् शंघ ११६: २३.
प्राणा(रा-अ)पाना(न-अ)युर्-
देवता-> > व्य- -त्यानि अश्र
२, १७.

a) वैप १ द्र. । नाप. [पा.] । b) मत्वर्थीयष् ठन् प्र. । c) बस. । d) = अग्निरश्मि-विशेष- ।
e) परस्परं पाभे. । f) सपा. कौश्र २, १, २१ प्राणान्तिकः इति पाभे. । g) सस. उप. = आहुति- । h) प्राणाय
(शौ ११, ६, १) इत्यस्य प्रतीकम् । i) पाठः ? (तु. Old., सपा. कौश्र २, ८, ९ 'ने इति, शांश्र २, १८, ३ 'नौ
इति च पाभे.) । j) 'नः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. शौ ११, ४, ७) । k) पाभे. वैप १, २२३१ i द्र. ।

प्राणा(ण-आ)यतन^१- नानि भाश्रौ
३,६,११; १८,२; वैश्रौ ७, ७:
१××; द्विश्रौ; -नेषु शाश्रौ ४,
१४,१६; काश्रौ; बौपि ३,३,५^०.
प्राणायतन-मर्मन्- -मार्णि वैश्र
५,१:१९.

प्राणायन^०- पा ४, १, ९९; -ःनः
बौश्रौ १०,३५:४; १४,२२:९.

प्राणा(ण-आ)याम- -मः आग्नि २,
७,९:३४; भागु ३,२०:३; वैश्र
२,४:६××; कप्र; -मम् वैश्रौ
२,४:८; वैश्र; शंघ ११६:
५७^०; -मा: वाध १०,५; २६,
४; बौध; -मात् वैश्रौ १,४:
३; आग्नि २; -मेत वैश्र ४, १:
११;१८; विध ५०,४७; वैध २,
२, ३; सुध ५१; -मै: बौश्र २,
९, ४; वाध २५, ३××; बौध.
प्राणायाम-त्रय- -यम् विध
५४,२३; सुध २६; सुधप ८६:८.
प्राणायाम-धारणा-ध्यान-नित्य-
-स्य: विध ९६,२४.

प्राणायाम-प्रत्याहार-धारणा-
(ण-आ)दि- -दय: वैध १,१०,
८.

प्राणायाम-शत- -तम् वाध २३,
३,१; शंघ ४१२; बौध.

प्राणायाम-शस(ः) आपघ १,
२६,१५; बौध २,४,६.

प्राणायामा(म-अ)मीन्धन-मैक्षा-
चरण-स्थाना(न-आ)सन-शयनो
(न-उ)पस्पर्शन-सुमनस- -नस:
बौश्र ३,३,२३.

प्राणायामा(म-आ)दि- -दय:
वैध १,१०,८.

प्राणायामा(म-आ)सन-प्रत्या-
हार-धारणा-युक्त- -क्त: वैध १,
९, १३.

प्राणा(ण-आ)युस- -यु: अत्र २,
१७.

प्राणा(ण-अ)वन^०- -नाय अत्र ५,
३०.

प्राणा(ण-आ)हुति- ति: आग्नि २,
४,१०:२६; -तिम् आग्नि २,
४, १०:३४; -ती बौश्रौ
१४,४:१९; ३४; -ती:
आपश्रौ १५, ७, ३; बौश्रौ ९,
६:२४××; भाश्रौ.

प्राणिन्- -र्ण आश्रौ ५, १३, १५;
शाश्रौ ७, १८, ७; माश्रौ ३, १,
२१; ५,२,१४,११; कौसू १४१,
१३; -ग्निन: शाश्रौ १६, १५,
८; अत्र ७०^३, १२, २; आपघ
१, २२, ४; द्विध १, ६, ४; या
६, ३६; -ग्निनाम् शाश्रौ १५,
१७, ११; कौसू; -ग्निनि पावा
४,१,४२.

प्राणि^० पा ४,३,१५४.

प्राणि-तूर्य-सेना(न-अ)ङ्ग-
-ज्ञानाम् पा, पावा २,४,२.

प्राणि-प्रतिषेध- -ध: पावा ४,
३,१५४.

प्राणि-सू-पुण्य-सोम-विक्र-
यिन्^१- -श्री विध ५४,१७.

प्राणि-वध- -ध: वाध ४, ७;
विध ५१, ७१; -धात् वाध
६,२५.

प्राणि-विशेष- -ष: शंघ ३७७:
३.

प्राणि-स्थ- -स्थात् पा ५, २,

९६; १२८.

प्राणि-हिंसा - -साम् अत्र १९^३,
५,५.

प्राणिहिंसा-पर- -र: विध
५२, १७.

प्राण्य(णि-अ)ङ्ग- -ङ्गात् पावा
५, २, १२८^६; पागवा ४, १, ४५.

प्राण्यो(णि-ओ)षधि-वृक्ष-
-क्षेभ्य: पा ४, ३, १३५; पावा
४, ३, १३२.

प्राणो(ण-ई)स्वर- -र: आग्नि २,
५,३:१५; बौश्र ३,७,१४.

प्राणो(ण-उ)क्त-क्ता- -क्त्या निस्
५, ८:१५; -क्ता: निस् ७,२:
१.

प्राणो(ण-उ)क्रम- -म: कागुड
४५:८.

प्राणो(ण-उ)त्कान्ति- -न्ति: वैश्र
५, ६:१६; ७, ९:१.

प्राणो(ण-उ)दान- -दानौ शुश्र १,
२५६.

प्राणो(ण-उ)पस्पर्शन- -नम् गौध
१,५४.

प्राणन्त- पाउ ३,१२७.

प्राणपत-, -न्ति- प्रभु. प्राण- द्र.

प्रा(<प्र)णाह^०- -हस्य अत्रा ३,४,
११.

प्राणाहति- (> तायन-) प्राटा-
हति- टि. द्र.

प्रातर(,;स)^०- पाउ ५, ५९; पाग
१,१,३७; -त: आश्रौ २, २, ५;

४, २३; १६, १; ३, १२, २;
४^५××; शाश्रौ २,६,१; ११××;

काश्रौ २, १, १६; ४, २, ३६××;
आपश्रौ १, १, २; १२, ४; ३, १६;

a) = इन्द्रिय-स्थान- । b) तु. R. । c) वैप १ द्र. । d) = साध्य-विशेष- । सप्र. अपु २१९, .

२५ प्राणः इति । e) उप. <√अव् [रक्षणे] । f) जीसं. ण्य-ल्लोम-वि^० इति ? । g) तु. पावा. पासि. ।

h) पाभे. वैप १,१५७६ k द्र. ।

१२-१४××; २, ७, ४^{११}; काष्ठश्रौ; बौश्रौ २८, १२: ७^{२१}; माश्रौ ४, १, ३; ५, १०, १२××; माश्रौ १, १, ३, २२; ६, १, १××; ३, ३, ६^{२१}; वाधूश्रौ ३, २५: ४; १४××; वाश्रौ १, ५, २, ४××; वैश्रौ १, ७: १६; १४: ६; २, २, १३^{२१}; हिश्रौ १, २, १; ४, २०××; १५, २, २१^{११}; जैश्रौ २२: १६; वैताश्रौ १, १६; ७, १०××; निस् ४, ३: १९; आपमं १, १४, १६; आश्रु १, ९, ७; ३, ७, ५; कौश्रु १, १, १; १०, २२××; शांश्रु १, १, ११; ५, ४, ५^{११}; पाश्रु १, ९, ४; आश्रु १, ६, ३: ५१; ७, २: २××; आपश्रु ७, २१; १८, १××; काश्रु २, ३; ५, ११××; बौश्रु २, ६, २१; ३, ४, २२; बौपि १, १: ५; ६××; भाश्रु १, १८: १४; २, ७: २७××; माश्रु १, २, ५; वैश्रु १, ३: १४; ५, ६: २२××; हिश्रु १, १७, ४; १९, ३××; हिपि १४: १४; २१: ८; गोश्रु १, १, २८; ३, ११××; जैश्रु १, १३: ७; १६: २××; द्राश्रु १, ५, १५; २, ३, १××; गो १, ६; २, २८; कप्र १, २, १; १०, १××; कौश्रु १, ३६××; ७२, २९^b; अप्राश्रु १, २; ४, ३××; अप्र १^२, १, २; ४, १, १××; वाध २३, २३; ४३××; शंघ ९८; १३२^२××; आपध २, २९, ७; बौध २, १, ६४;

६५××; विध ४६, १०; ६१, १६; वैध १, ७, ५; २, ६, २××; हिध १, २, १२^०; ६, २०; अप २: २८; ऋया ७, २७; १२, ५; याशि ४, २; ५××; याशि १, ३६; नाशि २, ८, ३; मौस् ६, ५, ४४; प्रातःऽप्रातः कौस् १७, २८; अप ८, १, २.
प्रातः-कर्मन्- -र्मा गा बौश्रौ २६, १३: ८.
प्रातर्-अग्निहोत्र-भक्ति- -क्ति: बौश्रौ २५, १६: ४.
प्रातर्-अनुवाक^d- -कः आश्रौ ४, १५, २; ८, ६, २; शांश्रौ; -कस् आश्रौ ४, १३, ६; शांश्रौ; -कस्य शांश्रौ ११, १३, ५; १४, ५१, ७; काश्रौसं; -कात् आपश्रौ १२, ३, ९; १७, २३, १; बौश्रौ; -काय आश्रौ ४, १३, १; शांश्रौ; -के आश्रौ ६, ९, १; शांश्रौ; -केन बौश्रौ १६, ३: १५; -^०कैः आपश्रौ ४, ९, २; माश्रौ ४, १२, ४; १८, ७; वाश्रौ १, १, २, २८; हिश्रौ ६, ३, २; १०.
प्रातर्नुवाक-काल- -ले वाश्रौ १, १, ६, २.
प्रातर्नुवाक-न्याय- -येन आश्रौ ६, ५, ८.
प्रातर्नुवाक-प्रतिपद^d- -पदि आश्रौ ७, ११, १.
प्रातर्नुवाक-प्रभृति- -ति शांश्रौ ६, १, २५; १४, ५१, ४.
प्रातर्नुवाक-मन्त्र- -न्त्रे वैश्रौ १५, ४: ३.

प्रातर्नुवाक-वेला- -लायाम् शांश्रौ १६, १८, १६.
प्रातर्नुवाका(क-आ)दि- -दि आश्रौ १, १२, १९.
प्रातर्नुवाकाद्यु(दि-उ)द्वसा-नीयान्त- -न्तानि आश्रौ ७, १, ४.
प्रातर्नुवाका(क-अन्त<)न्ता^६- -न्ता द्राश्रौ १, ३, ३०.
प्रातर्नुवाको(क-उ)पक्रमण-वेला- -लायाम् द्राश्रौ १, ३, १८^h.
प्रातर्नुवाको(क-उ)पक्रम-वेला- -लायाम् लाश्रौ १, ३, १८^h.
प्रातर्नुवाको(क-उ)पाकरण- -णम् काश्रौ ९, १, १०; -णात् द्राश्रौ २, २, ४३.
प्रातर्-अन्त^६- -न्तम् कप्र २, ९, १.
प्रातर्-अपवर्ग^६- -र्मा बौश्रौ २४, ३०: १; आश्रु ३, ५, १: ५; बौपि १, १: ४; -र्गाणि बौश्रौ २५, ७: ७.
प्रातर्-अभिवाद्- -द्म् आपध १, ५, १२^०.
प्रातर्-अवनेक [ग]ग^d- -^०कैन् आपश्रौ ६, २०, १; माश्रौ ६, २, १; ३, १०; हिश्रौ ६, ६, २१; -नेन वाश्रौ १, ५, ४, १८^१.
प्रातर्-अह्- -हस्य गोश्रु ४, ६, १०; द्राश्रु ४, १, २३.
प्रातर्-आगामिन्- -०मिन् या ५, १९.
प्रातर्-आचाम^६- -मम् बौश्रौ १५, ३: ५.

a) पांमे. वैप १, १५७६ k द्र. । b) अष्टाधिसो सूत्रे संनिवेशः समुचित इति C. (LZDMG ५१, १३५)। c) सप्र. प्रातः<>प्रातर्भिवाद्म् इति पांमे. । d) वैप १ द्र. । e) पांमे. वैप १, २१७४ p द्र. । f) उप. = आया-ऋन्- । g) बस. । h) परस्परं पांमे. । i) पांमे. वैप १, २२३४ h द्र. । j) वैप २, ३६. द्र. । k) उप. = आचमन- ।

प्रातर्-आश- -शस् वीध २,७,२६;
-शात् कौस् १४१, ३४; वाध;
-शान् वाध २७,१६; गौध २६,
२; -शे हिश्री ६,१,१४; अत्राय
४,४.
✓प्रातराश्र^३, प्रातराशेत् वाग्
१७,२१.

प्रातर्-आहार- -रस् शंघ ४४४.

प्रातर्-आहुति^४- -त्थे वौश्री ३,४:
४; -ति: काश्री २५, ७, १;
वाधूश्री; -तिस् वौश्री २९, ७:
४; वाधूश्री; -ती वैग् ३, ६:
२; -ती: अत्र २३, ८, ४; -ते:
भाश्री ९, ८, ९; माश्री; -तौ
शांश्री १६, १, १०; भाश्री ९,
८, ९; द्राश्री; -या वाधूश्री ३,
२९: ५×४; निस् २, ५: ६;
३१; -त्यास् काश्री २०, १, १९;
-त्यै वाधूश्री ३, ३४: २; ३५:
३.

प्रातराहुति-काल- -ल: वौश्री
२८,१२: ५; वैश्री २, २: १५;
-लात् वौश्री २८,१२: ४; वैश्री
२,२: १४.

प्रातराहुति-श्रुति- -ते: काश्री
१०,९,२३.

प्रातराहुत्य(ति-अ)न्त- -न्ते
काश्री २४,७,३.

प्रातराहुत्यु(ति-उ)पक्रम^५- -मा:
लाश्री १०,११,३.

प्रातर्-इत्त्वन्- -०त्व: या ५,
१९४; -त्वना या ४,१७.

प्रातर्-इष्टि- -ष्टिभि: हिश्री १४,
२,१८.

प्रातर्-उपक्रम^६- -माणि वौश्री २५,
७: ७.

प्रातर्-उपस्थान- -ने वाश्री १, ५,
४,८.

प्रातर्-जप- -पेन कौस् ६५,१६.

प्रातर्-जित^७- -जितस् आपमं १,
१३, १; वाग् ५, १५; वृदे ५,
१७०; अत्र ३, १६; या १२,
१४.

प्रातर्-दुग्ध^८- -ग्धस् आपश्री
१०,१७,५.

प्रातर्-दोह^९- -ह: वौश्री १९, ५:
३८; २७,१३: ६; -हस् काश्री
४, २, ३८; ७,४,२६; आपश्री;
-हस्य वैश्री २०, ३: ५; हिश्री
५,१, १६×४; -हा: हिश्री २,
६,५३; -हात् भाश्री ८, २, १;
-हाग्यास् आपश्री ३,१६, १३;
-हाय आपश्री १,१४,७; वौश्री;
-हे आपश्री ८, २, ५; ९, १,
२९; काश्रीसं; -हेन आपश्री ९,
१,२८; भाश्री; -हौ हिश्री ५,२,
२८.

प्रातर्दोह-पात्र- -त्राणि आपश्री
१,१५,९; १२,४, ३; भाश्री १,
१६,४; हिश्री १,४, ४०.

प्रातर्दोह-वत् आपश्री ८,१०,३;
२०,४; वौश्री २८,४: ८; वैश्री
८,४: ९.

प्रातर्दोह-विकार- -र: हिश्री ४,
५, ६२; -रस् आपश्री ८, ५,
३३.

प्रातर्दोह-स्थान- -ने अत्राय ४,
१.

प्रातर्दोहिक- -कानि वाश्री १,
२,४,४.

प्रातर्-दोहन- -नस् काश्री ४, २,
३७.

प्रातर्-बलि- -लौ वैग् ७,६: ७.

प्रातर्-भास्- -भासास् कप्र १,९,१.

प्रातर्-मन्त्र- -न्त्रेण वौश्री ९,१२:
१६.

प्रातर्-माध्यदिना(न-आख्या>)
स्व^१- -स्वयो: जैश्रीका १४३.

प्रातर्-अज्ञ- -अस्य वैश्री २, २:
१७फं.

प्रातर्-पावन्^{११}- -वभि: आश्री ५,
७,६; शांश्री ७, ७, २; आपश्री;
-वभ्य: शांश्री २,८,२१; ६, ३,
९; काश्री; -वाण: आपश्री ६,
८,४; वौश्री ३, ५: १६; भाश्री
६, ११, ७; हिश्री ३, ७, ५१;
-वाणस् वाधूश्री ४, ८५: १२;
-वाणा आश्री ९, ११, १५;
शांश्री ५,९,२२; ऋअ २,५,७७;
-ष्वा: शैशि ७३.

प्रातर्-युज- -युजा^{१२} आश्री ४,
१५, २; ५, ५, १२; शांश्री; या
१२, ४४; -युजौ^{१३} वैश्री १६,
१५: १०; हिश्री ९,३,५९.

प्रातर्-योगिन्- -गिनौ या १२,४.

प्रातर्-वेष^{१४}- -षाय आपश्री १,
१४,६; हिश्री १,३,५७.

प्रातर्-हस्तस् वाश्री ३,४,५,५.

प्रातर्-हुत- -ते वाश्री १, २, ४,
१.

प्रातर्-होम^{१५}- -म: हिश्री ९,६,३३;
कप्र २,९, ६; ३, २, २; -मस्
आपश्री १३, २५, ९; वौश्री;

-मानास् काग् ४५: १९; -मे
वैग् ६,४: ५; १५: ५; -मेष्
अत्र २३,७,३.

प्रातर्होम-काला(ल-अ)नति-
क्रम- -म: कप्र ३,८,८.

a) क्विबन्त: नाघा. b) वैप २,३खं. द्र.। c) बस.। d) वैप १३.। e) = प्रातर्-दुग्ध-।

f) दस.>बस.। g) पासे. वैप १,२२३५ b.द्र.।

प्रातर्होमा (म-अ)न्त- न्ते वैगृ
 ६, २० : ५.
 प्रातःसन्ध्या- न्ध्याम् आमिगृ २,
 ६, ८ : ४२; शंघ १२७.
 प्रातःसमिद्-घो (<हो)म- मे
 वैगृ ६, ८ : १०.
 प्रातःसव- -वस्य काश्रौ ९, ९,
 ५^b; ६^b; १०, १२^c; काठश्रौ
 १३४^b.
 प्रातःसव- -नम् आश्रौ ५,
 १, ४; ९, १०, १; शाश्रौ ७, २६,
 १५××; काश्रौ; निसू ७, ४:४५[†];
 या ७, ८; -नस्य बौश्रौ ७, १५ :
 ९[†]××; माश्रौ; -नात् शाश्रौ
 ६, १३, १२; १३, ७, १; काश्रौ;
 माश्रौ २, ४, ३, २९[†]; -नाथ
 डापश्रौ १२, ९, ७××; बौश्रौ;
 -ने आश्रौ ५, २, १२××; शाश्रौ;
 काश्रौ ९, ३, १८[†]; २४, ४, १[†];
 आपश्रौ १२, २९, १३[†]; बौश्रौ
 ७, ८ : १[†]; १४, ५ : ९[†];
 वैश्रौ १५, ३८ : १३[†]; हिश्रौ
 ८, २, ४०[†]; ८, ६२[†]; निसू
 ३, ६:२८; ७, ७ : ३१; अश्र ६,
 ४७[†]; -नेन शाश्रौ ७, १७, १४;
 ८, २, १२; आपश्रौ १३, १, २;
 हिश्रौ ९, १, २; निसू ३, ६:१०[†].
 प्रातःसवन-नृतीयसवन- -नानि
 शाश्रौ १०, ११, १०.
 प्रातःसवन-प्रभृति- -ति काश्रौ
 १०, ५, ७.
 प्रातःसवन-भाज्- -भाजः
 वाधूश्रौ ४, ७६ : ३.
 प्रातःसवन-मध्य- -त्व- -त्वात्
 मीसू ११, ३, १३.

प्रातःसवन-योग- -नाम् पाशि७.
 प्रातःसवन-वत् आपश्रौ १३,
 १०, ५; १४, १, ८; वैश्रौ १६,
 १० : ११; वैताश्रौ २६, ४.
 प्रातःसवनिक- -कः शाश्रौ ७,
 १९, ७; ८, ३, ६; बौश्रौ २५,
 २३ : ५; माश्रौ २, ३, २, ३;
 -कम् बौश्रौ २५, १९:६; माश्रौ
 २, ३, १, १९; २, ३५; -कात्
 माश्रौ २, ३, ४, २२; -के आपश्रौ
 १४, १९, ११; माश्रौ २, ३, ४,
 १२; ५, १४; -केषु आश्रौ ९, २,
 ६××; -कैः बौश्रौ २५, १६:११.
 प्रातःसवनिकी- -क्यः आश्रौ
 ५, ५, १८.
 प्रातःसवनीय, या- -याः वाधूश्रौ
 ४, २९[†] : ६; -यात् काश्रौस
 २९ : ११; -यान् शाश्रौ १४,
 २, १७; १३, ४; काश्रौ; -यानाम्
 बौश्रौ १८, २२ : ३; -येषु बौश्रौ
 १८, ३७ : १५.
 प्रातःसाव- -वस्य आश्रौ ५, ५,
 १५; शाश्रौ ७, ४, २; आपश्रौ
 १२, २०, १५^b; २३, ४^c; बौश्रौ
 ७, १२ : ७^b; ११^b; १४ : १०^c;
 २१, १९ : १५^b; माश्रौ २, ३,
 ७, ९^b; ४, १, २१^c; वैश्रौ १५,
 २५ : ६^b; ७^b; २९ : १०^c;
 हिश्रौ ८, ६, २^b; ७, २२^c.
 प्रातःसूक्त- -क्तम् अश्र ३, १६.
 प्रातःस्नान- -नम् शंघ १००;
 १०१.
 प्रातःस्नान-शील- -लः विघ
 ६४, ९.
 प्रातःस्नायिन्- -यी शंघ १०१;

विघ ९०, २९.
 प्रातरग्नि- प्रभृ, प्रातरा^० प्रभृ.
 प्रातर्- द्र.
 प्रातरीय- रप्रतर- द्र.
 प्रातरुप^०, तर्ज^० प्रभृ. प्रातर्- द्र.
 प्रातःसव- प्रभृ. प्रातर्- द्र.
 प्रातिकण्ठिक- प्रति-कण्ठ- द्र.
 प्रातिकूलिक- , कूल्य-प्रतिकूल- द्र.
 प्रातिक्य- रप्रतिक- द्र.
 प्रातिजनीन- १प्रतिजन- द्र.
 प्रातिज्ञ- प्रति/ज्ञा द्र.
 प्रातिवितमितधानाशने अप १८^२,
 ६, ३.
 प्रातिथेयी- प्रतिथि- द्र.
 प्रातिनिधिक- प्रति-नि/धा द्र.
 प्रातिपथिक- प्रतिपथ- द्र.
 प्रातिपद- प्रति/पद् द्र.
 प्रातिपदिक- प्रभृ. प्रतिपद- द्र.
 प्रातिपान- प्रति/पा (पाने) द्र.
 प्रातिबोध- , धायन-रप्रतिबोध- द्र.
 प्रातिभाव्य- प्रभृ. प्रति/भू द्र.
 प्रातिलोमिक- , लोम्य-प्रतिलोम- द्र.
 प्रातिवेश्य- प्रतिवेश- द्र.
 प्रातिशाक्य- प्रतिशाक- द्र.
 प्रातिशाख्य- प्रभृ. प्रतिशाख- द्र.
 प्रातिश्रुत्क- प्रति/श्रु(श्रवणे) द्र.
 प्रातिष्णावी^३ -त्रीः वाधूश्रौ ३, १२:
 ३; -त्रीम् वाधूश्रौ ३, १२ : ७.
 प्रातिसुत्वन्- प्रति-सुत्वन्- द्र.
 प्रातिहत्- प्रति/हन् द्र.
 प्रातिहर्ष- , हारिक- प्रति/हृ द्र.
 प्रातिथेयी- प्रति [ती] थि- द्र.
 प्रातीपिक- प्रतीप- द्र.
 प्रात्यक्ष- प्रत्यक्ष- द्र.
 प्रात्यग्रथि- प्रत्यग्रथ- द्र.

a) वैप १ द्र.। b) सपा. षवस्य <> षावस्य इति पाभे.। c) पाभे. वैप २, ३३. प्रातःसवस्य
 मास ४, २, १, २३ टि. द्र.। d) निसू. बौध. पाठः। e) पाभे. वैप १, २२३५ i द्र.। f) बस. ६
 g) ताप्रमविकः प्र.। h) पाठः ? प्रतिष्ठात्री- इति संस्कृतेः सूची।

प्रात्ययम् वाश्रौ ३, ४, ५, ५.

प्रात्ययिक- प्रती(ति/इ) द.

प्राथमिक- ष्य- प्रथम- द.

प्रादक्षिण्य- प्रदक्षिण- द.

प्रा-दाय प्र/दा द.

प्रादि- प्रम्. प्र द.

प्रादुराक्षि^१- -क्षिः शुभ्र ३, ६०.

प्रादुस् (ः, र्, ष्) ^{१००} वाधुश्रौ ४, ७५:

१८; ३०; मागृ १, १४, ३; अप

७२, ४, ३; वाध १६, २४; शंघ

२४३, वृदे ५, ६७; ७, ४५; ६३;

या २, ८; ७, २३; २९; १४, २;

पागृ १, १, ३७; ४, ६१; ७४.

प्रादुर/सू > प्रादुर-भाव- -वः

अप ६३, २, ८; -वात् आपगृ

८, १३; -वे आगृ ३, ५, २; कौगृ

३, ७, २; शागृ ४, ५, २; पागृ.

प्रादुर्भाव-मन- -नेषु अप

७२, ४, ५.

प्रादुर्भावा(व-अ)न्त^१- -न्तात्

लाश्रौ १०, १७, ९.

प्रादुर-भूत- -तः मागृ २, १३,

६१; -तेषु आपश्रौ ७, २०, ३;

भाश्रौ १, २, १, ८; वाश्रौ.

प्रादुष्/कृ पा १, ४, ७४.

प्रादुष्करण- -णम् शाश्रौ २,

६, ४; कष १, ९, १.

प्रादुष्करण-वेला- -लायाः

गोश्रौ १, १, २४.

प्रादुष्करण-हवनकाल- -लौ^१

शागृ १, १, १२.

प्रादुष्करण-होमकाल- -लौ^१

आगृ १, ९, ४.

प्रादुष्-कृत- -तेषु कौसू १४१,

१६.

प्रादुष्कृता(त-अ)सि- -सिषु

गौष १६, २३.

प्रादुष्-कृत्य गोश्रौ १, १, २७; २८;

द्रागृ १, ५, ७.

प्रादेश- , षिक- प्रम्. प्र/दिश द.

प्रादोष- , षिक- १प्रदोष- द.

प्रादोहनायन- , हनि- प्रदोहन- द.

प्राद्युञ्जि- प्रद्युञ्ज- द.

प्रा(प्र-आ)/घा, प्रादध्युः अप्राय २, ९.

प्राधान्य- प्रम्. प्र/घा द.

प्रा(प्र-अ)धी (धि/इ), प्राधीयते^१

जैगृ १, १४ : ११^१; प्राधीयीरत्

शांगृ ६, २, १०; ३, ७; द्रागृ ३, २,

२०^१.

प्राधी(धि-इ)त- -तस्य गौष १६,

४४; -ते विष २३, ३.

प्राध्य(धि-अ)यन- -नम् कौश्र २, ६,

५; ३, ८, ४; शागृ २, १०, १५.

प्रा(प्र-अ)ध्व^१- -ध्वम् वाधुश्रौ ४, १ :

२; ३; ५, ८; आपध १, २२, ८;

हिध १, ६, ८

प्राध्वम्/कृ पा १, ४, ७८.

प्रा(प्र-अ)ध्वन^१- -ने आपश्रौ १७, १८,

१^१.

प्रानून^१- -नान् बौध १, १, ३०.

प्रा(प्र-अ)न्त^१- पागृ २, १, १७^१;

-न्तानि कौसू ९०, ४; -न्ते

अप ६४, १, ९; याशि १, ५, ५, २;

७५; -न्तैः कौसू २, १९.

प्रान्त-सु(ष्य>)ष्पा^१- पावा ४, १, ४.

प्रान्त^१- पागृ ४, १, ११०^१.

प्रान्तायन- पा ४, १, ११०; -नाः

बौश्रौ प्र ३ : ४.

प्रा(प्र/आ)प्, प्राप्नोति आश्रौ ३,

१०, ३१^१; शाश्रौ १५, १६, ७;

१८, १; काश्रौ; आपश्रौ^१ ९, ४,

१^१; भाश्रौ ९, ५, २२^१; हिश्रौ

१५, १, ७५^१; पा ५, २, ८; प्र^१

आप्नोति शाश्रौ १६, २९, ११;

हिश्रौ १७, ७, १४; प्राप्नुवन्ति

आपश्रौ २३, १३, ४; हिश्रौ १८,

४, ३९; आसिगृ; प्राप्नुतु

शाश्रौ १५, १८, १; आसिगृ

३, ३, २ : १०^१xx; बौगृ;

प्राप्नवानि आसिगृ ३, ३, २ :

११xx; वैगृ ४, ३ : १२; गौपि

२, २, २५; प्राप्नवानि प्राप्नवानि

बौगृ २, ११, २०^१; प्राप्नुयात्

शाश्रौ ३, ८, १४; आपश्रौ; प्राप्नुयुः

माश्रौ ३, ५, १४^१; द्राश्रौ ३,

१, १२; लाश्रौ १, ९, १३; शंघ ५.

प्राप शाश्रौ १५, १८, १; १६,

२९, ६; शुभ्र १, १; प्राप्स्यन्ति

सु ३०, ६; अप २३, १४, २;

प्राप्स्यसि वृदे ७, १५२; प्राप्स्यथ

वृदे ६, ९०; प्रापत् शाश्रौ १५,

१८, १; आपश्रौ १४, २६, १^१;

आगृ ४, ४, २-४; अप्राय ३, १०;

प्रापन् आपमं २, १५, ३; आगृ

२, ८, १६; कौगृ ३, २, ६; शागृ

३, ३, १; मागृ २, ११, १२; प्रापम्

a) व्यप. । व्यु. ? ।

b) वैप १ द. ।

c) वा. √अस, √कृ, √भू इत्येतद्गुक्तं द. ।

d) उप. = अनन्तर- । e) परस्परं पाभे. । f) प्र^१ इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. संस्कृतः टि.) । g) परस्परं

पाभे. । h) प्रास. समासान्तः अच् प्र. (पा ५, ४, ८५) । बन्धनेनाऽऽतुक्ल्ये वा. क्रिवि. (वैतु. अभा. <प्रा[प्र-आ]-

ध्वन् इति) । i) नाप. (देश-विशेष- [वैतु. MW. लद्वासिन्-]) । व्यु. ? । j) नाप. । प्रास. (तु. शक.) वा बस.

केति पागम. । k) तु. पागम. । l) = ओषधि-विशेष- । m) धक्षान्त- (परि. द.) इति पाका. ।

n) पाभे. वैप २, ३खं. प्राप्नोति तैत्रा ३, ७, ३, ६ टि. द. ।

कौसू ६२, १५१; प्रा(प्र-आ)आ-
आ।)प्स्यत् वाधूश्रौ ३, २२ : १३.
प्राप्यते बौश्रौ २९, ८ : १५; अप
३१, १, २; ४; बौध २, १०, ५७.
प्रा... आपयते हिश्रौ १०, ५, ३८;
प्रापयन्ति कौसू १७, १४; प्राप-
येत् गोयु २, १, २१; अप १, ४९,
४; १२, १, १०^३; प्रायेयुः
अप्राय २, ९^२.
प्रेप्सति बौश्रौ १७, २३ : ११;
१२.
प्रा(प्र-आ)पक- -कम् पावा १, १,
७०; ३, ४, ११०.
प्रा(प्र-आ)पण- -णम् मीसू ६, ८,
२०; -णात् आपश्रौ ७, १८, ११;
मीसू ५, १, ३३×४.
प्रापणा(ण-अ)न्त- -न्ते काश्रौ
१७, ४, १०; १८, २, ९.
प्रा(प्र-आ)स,सा- -सः निस् २, ५ :
८; १५; कप्र ३, २, ७; अप; -
सम् बौषि १, १०, ७; वैयु ३,
७ : २६; अप; पा ५, १, १०४;
-सस्य अप ४८, ११७; या ३,
२०; -सा वृदे ३, १३; ७, ४३;
-साः काश्रौ १६, ३, ३०; जैश्रौका
१६७; बौध २, ३, ५७; विध ५१,
६३; -सान् वाश्रौ ३, २, ५,
५०; -सानि कौशि ५१; -साम्
जैयु १, २२ : ३; -सायाम् कौयु
१, ९, १७; शांयु १, १५, २२^१;
-से काश्रौ २६, ४, ६; आपश्रौ
१०, १०, २; वैश्रौ; या ३, २०;
-सेषु गोयु २, ४, ५; मीसू ११,
१, ११; -सौ विध ६७, ३७.
१ प्रास-काल- -ले कायु ३९ :

३; वाध १६, ९.
२ प्रास-काल^७- > ल-त्व-
-त्वात् काश्रौ ७, १, २२; १२, ६,
२९; मीसू ६, ५, ३८.
प्रास-गृह-वृत्त, त्त^८- -त्स्य वैयु
५, ९ : ९; -त्ताम् वैयु ५, ९ : ११.
प्रास-त्व- -त्वात् पावा ६, १, २.
प्रास-निमित्त^९- -त्ते आपध २,
२८, १३; हिध २, ६, १२.
प्रासनिमित्त-त्व- -त्वात्
मीसू ६, ४, १२; ५, ५०.
प्रास-प्रतिषिद्धत्व- -त्वात् मीसू
१०, ८, १.
प्रास-प्रतिषेध- -धः पावा ६,
४, १७१.
प्रास-यौव(न>)ना^{१०}- -नाम्
वैयु ५, ९ : १०.
प्रास-लुस^{११}- -सौ नाशि २, ५, ६.
प्रास-वसु^{१२}- -सु या ६, २१.
प्रास-स्त्व^{१३}- -स्त्वम् अप ७, १, ७.
प्रास-स्थान^{१४}- -नाः निस् ७, ५ :
४; ८, १० : १३^{१५}.
प्रासा(स-आ)दि- -दिषु पावा २,
४, २६.
प्रासा(स-आ)पन्न- -न्ने पा २, २,
४.
प्रासा(स-आ)पन्ना(ञ-अ)लंपूर्व-
गतिसमास- -सेषु पावा २, ४,
२६.
प्रासा(स-आ)र्थ^{१६}- -र्थः विध ६,
२१.
प्रा(प्र-आ)सवत्- -वन्तः विध ७७,
१०; -वान् वैयु ५, १५ : ११.
प्रा(प्र-आ)सि- -सिः जैश्रौका
१४०; अत्र ११, ७^१; मीसू १०,

५, १३; -सेः काश्रौ ७, ५, २१;
मीसू १०, ७, ४१.
प्रासि-प्रतिषेध- -धात् पावा ६,
१, ३७.
प्रा(प्र-आ)प्नुम् कायु ४२ : २०;
बौध ४, ७, ४.
प्रा(प्र-आ)प्य आश्रौ ४, १०, ९;
१३, ४×४; शांश्रौ.
प्रे(प्र-ई)प्सत्- -प्सन्तः बौश्रौ १३,
२२ : ५^१.
प्रे(प्र-ई)प्सा- -प्सा या ६, ३२;
-प्सायाम् अप ४८, ५५.
प्रेप्सा-कर्मन्^{१७}- -र्मणः या २,
१०; ४, ९; -र्मा या ७, १७.
प्रे(प्र-ई)प्सु- -प्सुः वृदे ८, १३; या
६, ३२.
प्रा... प्रायताम्^१ अप्राय ५, ५^१.
प्राबंघायाः दंवि २, ६.
प्रा(प्र-अ)भि^{१८}√भू, प्रा... भिमूयासम्
आपश्रौ ६, १८, २; हिश्रौ ६, ६,
१७.
प्रा(प्र-अ)भि^{१९}√ह्वे, प्राभिह्वयामि या २,
२५.
प्राभूतिक- प्र^{२०}√भू.द्र.
प्रामाण्य- प्र^{२१}√मा.द्र.
१ प्राय^{२२}-पाग ८, १, २७; पावाग २, ३,
१८; -यात् मीसू १, २, ११;
३, ४, ४; -ये शांश्रौ ७, २६,
६; पा, पावा ५, २, ८२; -येण
शांश्रौ ७, २५, २; २७, १६; अप.
प्राय-दर्शन- -नम् पावा २, ३, २३;
-नात् मीसू २, ३, १६; ३, ३, २०.
प्राय-भव- -वः पा, पावा ४, ३, ३९;
प्रायभव-ग्रहण- -णम् पावा ४,
३, ३९.

a) °सायाः इति पाठः? यनि. शोघः (तु. कौयु.)। b) बस.। c) बस.>षस.। d) बस.
उप. भाप.। e) प्रासि^१ इति पाठः? (तु. संस्कृतिः टि.)। f) सप्र. काठ ३५, ४ प्रा... जायताम् इति पाठे,।
g) = प्रायस्- (वैप १ द्र.)। व्यु. ?।

प्रायन्वचन- नात् पावा ३, ३,
११९, १२३; मीसू २, २, १२.

प्राय-शस् (:) अप ५२, २, ४;
६८, १, ३६; वृदे ३, ५२; १५१.

प्राया(अ-आ)पत्ति- त्तैः मीसू १२,
३, २१^१.

प्रप्रा(प्र-अ)य- ष्यण- प्रमु. प्र(प्र✓इ)
द्र.

प्रायत्य- प्र✓यच्छ् द्र.

प्रायश्चित्त- प्रायस्- द्र.

प्रायस(ः)श^१ -यः द्राश्रौ १२, २, ३४;

लाश्रौ ४, ११, ३; ऋप्रा १६, ९×४

प्रायश्चित्त^१ - पाग ६, ३, १०८^०;

पागवा ६, १, १५७^०; -त्तः माश्रौ

९, १०, १२; -त्तम् आश्रौ ६, ८,

७; ८, १२, १४; शाश्रौ २, ७, ६;

३, १९, १; ७, ८; २१, १; १२;

५, १७, १२; काश्रौ १, २,

२३; २५, १, १; ५, ५; आपश्रौ

९, १, १; २९; ७, ११; १०, १२^३;

१५, ८; २०, २; १४, २५, ३; ५^१;

२६, ७; ८; १५, १९, ६; बौश्रौ

१, २० : १८; ४, १० : २०;

२०, १९ : ३३; ३४; ३६;

२३ : १०; १४; २६ : ३६;

२३, ४ : २१; ८ : २७; २४,

२२ : १२; ३३ : १४; ३७ : १५;

३८ : ४; २६, ५ : ५; २७,

२ : २; ४ : ९; ५ : ६; १२ : २;

२९, १ : ५; २ : २; ८; १२-१४;

१८; ३ : ८; १२-१४; ४ : ६;

१३; २५; १२ : १९; माश्रौ ९,

१, १; २, १४; ६, १३; ११, १३;

१६, ८; १७, १०; ११, २०, २;

माश्रौ ३, १, ४; २२; वाघश्रौ ३,

१९ : १८; १०६ : ५; ६; ४, ८८;

२; वैश्रौ २०, १ : ५; ११ : ६;

१३ : १०; १४ : ६; ३९ : ४;

११; २१, ११ : ३; १३ : ५; १५;

४; १८ : ६; हिश्रौ ३, १, २७;

१५, १, १; १२; ३२; २, २३; ३, ३;

४, २८; ५, ११; १२; ६, २३; ४१;

७, २४; २५; ८, ४८^३†; द्राश्रौ

१२, ३, १; २†; लाश्रौ ४, १०, ५;

११, ४; निसू ६, ९ : ९; १२ :

२३; शाश्रु २, १३, ३; पाश्रु ३,

१२, ११; आमिश्रु १, ६, ३ : ४;

५५; ६०; २, ४, ७ : १३; ५, ४ :

५; ६, ५ : ३; ७, १ : ६; ४ : ८;

१५; ९ : ३३; ४१; ३, २, १ : १२;

बौश्रु २, ९, ८; ४, ६, १; ७, १^३; ९,

७-१०; १२; १०, १^३; ३^३; ११, १;

२; बौश्रु २, ६, १२; ८, १; माश्रु

२, १६ : २; ३, १५ : १३†; २० :

२; २१ : ४; माश्रु २, १४, २२;

वाश्रु १, १; वैश्रु ६, १ : १; १४;

३ : ६; ४ : ९; १३; ५ : १; ११ :

६; १२ : ११; १३ : ८; १४ : २;

३; १५ : १०; १६ : १५; १७ :

११; १८ : ७; १९ : १; २; २० :

१; ७, ३ : ६; ८; ४ : १४; १८;

२०; ७ : ७; ८ : ९; हिश्रु २३ :

१४; गोश्रु १, ९, १६; ३, २, २९;

जैश्रु १, १२ : ५७; द्राश्रु १, ३,

१५; २, २, १४; कप्र २, ९, १९;

१०, १६; ३, ४, ५; ६, १६; १८;

८, ९; अप्राय १, १; ३; ५, १; अप

३, ३, १, ४-६; ३, ७, ८, १; वाघ ५,

४; १६; ३५; १७, ६६; २०, १;

२२, २; २३, ४७; २५, २; शंघ

४७; ३, ७९; ३, ९१; ३, ९२^३; ३, ९४;

३, ९५; ४, ४३; आपश्रु १, १, ३४;

२, ६; २५, १४; २, २, ८; बौश्रु १,

५, १२३; २, १, ६३; ३, १०, ४;

विश्रु २२, ९; ३२, २; ४१, ५; ४२,

२; ४५, ३३; ५२, १४; ५४, १;

२७; २९; ३४; हिश्रु १, १, ३२;

३९; ७, ११; २, १, ३०; गौश्रु १९,

४; २०, १४; २२, १; २४, १; ९;

२५, ९; काश्रु २७० : ८; २७१ :

३; ५; २७२ : ८; २७३ : १; २७४ :

४; २७६ : ३; ८; २७८ : १०;

सुधप ८४ : १०; ११; ऋश्रु २,

१०, १६२; १६५; अश्रु २०, ९६;

अप्रा ३, ४, १†; मीसू २, ४, २१;

६, ४, १०; ५, ४५; ४९; ६, ३५; ९,

४, २६; -त्तस्य निसू ६, १२ :

२४; -त्तात् बौश्रु २, ७, २५;

-त्तानाम् अप्राय ६, १०; -त्तानि

काश्रौ २५, १४, ३५; आपश्रौ ९,

१, २; १५, १७, १०; बौश्रौ १,

२१ : ९; २०, २३ : १२; २७,

१ : १; २८, ९ : २८; १० : १;

११; २९, ३ : १; माश्रौ ९, १,

२; ११, १८, १; माश्रौ ३, १, १;

वैश्रौ २०, १ : ८; हिश्रु १५,

१, २; आमिश्रु २, ७, ८ : १; ९ :

१; बौश्रु ४, १, १; ८, १; वैश्रु ३,

८ : ३; अप्राय १, १; ३, ७; ६,

९; शंघ २६१; बौश्रु १, १,

१६; २, १, १; ४, १, १;

२, १; ३; ३, १; ४, १; सुध ६६;

चाश्रु ३८ : २; -त्ताय बौश्रु ९,

२ : ३२; ४ : २५; १७ : १२; १०,

८ : ८; १३ : १३; वैश्रौ

१३, १ : १८; -त्तैः आश्रौ १, १,

१६; वैश्रौ २०, २६ : ३†; बौश्रु

२, ५, ६५; वैश्रु ६, १ : १३; कप्र

३, ८, ७; बौश्रु २, ७, २५; सुधप

८५ : ५; -त्तेन वाघ २१, १२;

गौश्रु २०, १०; -त्तेषु शाश्रु ३,

a) शोपपत्तेः इति जीसं. प्रयासं. । b) वैश्रु १ द्र. । c) तु. पागमं. । d) तु. पाका. पासि. ।

१९,६; काश्रौ १,८,११; अप्राय
५,५; मीसू १२,३,१६.
प्रायश्चित्त-करण-णे बौश्रौ २०,
१८ : ३०; २६ : ३५; २२, ३ :
१८; २३, ४ : १९; ८ : १९; २६.
प्रायश्चित्त-कर्मन्-र्म काश्रौसं
३३ : १९.
प्रायश्चित्त-कृत्य-त्ये निसू ६,
१० : ३५; ७, ७ : ४०.
प्रायश्चित्त-दर्शन-नात् शांश्रु
१, ३, ९.
प्रायश्चित्त-देवता-ताः शुभ्र ४,
११५^६;
प्रायश्चित्त-महावो(णा >)ण^६-
-गः विध १, ५०.
प्रायश्चित्त-वत्-वति आपध १,
१८, ११; हिघ १, ५, ८०.
प्रायश्चित्त-विधान-नात् काश्रौ
१, २, १९; मीसू ६, ३, ७; ६, २९.
प्रायश्चित्त-श्रुति-न्तेः काश्रौ ४,
३, १५.
प्रायश्चित्त-संयोग-नात् काश्रौ
२५, १४, ३२.
प्रायश्चित्त-समुच्चय-यम् बौश्रौ
२९, १२ : १; बौश्रु ४, १, १.
प्रायश्चित्ता(त्-आ)ज्याहुति-
-तीः गोगृ २, ५, २; गौघ २५,
३.
प्रायश्चित्ता(त्-आ)दि-दि
आमिगृ १, ६, ३ : २६; वैगृ ३,
२३ : १३.
प्रायश्चित्ता(त्-आ)न्त-न्ते वैगृ
७, ३ : ९; विघ ५१, ४.
प्रायश्चित्ता(त्-आ)र्थ-र्थः बौश्रौ

२४, १५ : ४; आपध १, २४, ४^६;
-र्थम् हिघ १, ६, ५३^६; वृदे ८,
६९; -र्थाः निसू ६, १२ : २२;
-र्थे निसू ८, ६ : ७; -र्थेन निसू
६, ३ : ८.
प्रायश्चित्ता(त्-आ)र्थक^६-कः कप्र
२, ९, ११.
प्रायश्चित्ता(त्-आ)र्ध-धम् विघ
५४, ३३.
प्रायश्चित्ता(त्-आ)हुति-त्यः
वाश्रौ १, १, ४, १३; ६, ४; शुभ्र
४, १२१; -ती वाश्रौ ३, १९, ३;
-तीः शाश्रौ ८, ८, १०; वाश्रौ १,
३, ७, २०; वागृ १, २९; २, १०;
वैगृ ६, १५ : ६; जैगृ १, ४ : ६.
प्रायश्चित्ति(क >)की^६-क्यः
आश्रौ २, १५, ४.
प्रायश्चित्तिन्-त्ती हिश्रौ १०,
७, १८; कागृउ ४६ : ११; गौघ
१२, ४५.
√प्रायश्चित्तीय, प्रायश्चित्तीयते
याशि २, ११६.
प्रायश्चित्ती(य >)या-याम्
आमिगृ २, ७, २ : २२; ३, २, ५ :
२; ७ : ३; वैगृ ६, १६ : ८.
प्रायश्चित्ते(त्-इ)ष्टि-ष्टिः माश्रौ
५, १, १, २; -ष्टीनाम् आश्रौ ३,
१३, १४.
प्रायश्-चित्ति^६-पाग ६, ३, १०९^६;
पागवा ६, १, १५७^६; -त्तयः
जैगृ १, २२ : २१; २२; -त्तिः
आश्रौ ३, १०, १; आपश्रौ ५,
२९, १३; ९, ४, १३; ८, ३;
१५, १५; २१; १०, १७, ७; बौश्रौ

३, १४ : १६; १४, ३ : २०;
२६ : २१^६; २९ : १५^६; २८;
१५, ८ : १५; १८, ११ : २२;
२७, ३ : ५; ९; ५ : २; १२; ९ :
१०; १० : १; ११ : ४; १२ :
२६; १३ : ११; २८, ६ : ११;
२९, १ : १६; ४ : ९; १५; ११;
११; १२ : १४; माश्रौ ९, १७,
८; १०, १०, २; माश्रौ २, १, ३,
१; ५, १, १, २७; ५, २९; ६३;
६, २५; ४२; ७, २९; ९, २७;
१०, १६; ३६; ४२; ५८; ६५;
२, १, २६; ७, १४; २६; वाघृश्रौ
२, १३ : ६; ३, ४४ : २; ५;
४६ : २; ३; १८; वैश्रौ १२,
१३ : ९; १८, ७ : ५; २०, ३५ :
३; हिश्रौ १५, १, ४१; २, २८;
४, २७; ३५; ३९-४१; ५, ६;
†आपमं १, १०, ३; ६; कौगृ १,
११, ४^६; २, ८, ३; वागृ १, १८,
३^६; ६, २, ११; पागृ १, १०,
४; ११, २^६; †आमिगृ १, ५,
५ : १; ३; ५; ७; कागृ २८, ७^६;
बौगृ १, ६, १२^६; ४, ५, १; ८, १;
बौपि ३, १, १७^६; †भागृ १, १९;
१३; १७; हिगृ १, २४, १^६;
जैगृ १, १३ : १०; †२२ : १४;
१६; १८; १९; द्रागृ १, ४, १२^६;
कौसू ९४, १८; ९५, ५; ९६, ५;
९८, ४; ९९, ५; १००, ४; १०१,
४; १०२, ५; १०३, ४; १०४,
४; १०५, २; १०७, ४; १०८,
४; १०९, १०; ११०, ८; १११,
१०; ११२, ३; ११३, ४; ११४,

a) ष्ता इति म (सा ३९, ५) । b) विप. (विष्णु-) । बस. । c) प्रायश्चित्तमयोवीरः इति जीसं. ।
d) सप्र. र्थः <> र्थम् इति पाठे. । e) वा. किवि. । f) बस. । g) विप. > नाप. (इष्टि-विशेष-) ।
तस्येदमीयष् टक् प्र. । h) वैप इ १. । i) तु. पागम. । j) तु. पाका. पासि. । k) पाठे. वैप २, ३खं. प्रायश्चित्ते
(सं१) मंत्रा १, ४, १ टि. द्र. ।

४; ११५, ३; ११७, ५; ११८, २; १२१, २; १२३, २; १२४, ७; १२५, ४; १२६-१२७, १४; १२८, ६; १२९, ४; १३०, ३; १३१, ३; १३२, २; १३३, ८; १३४, २; १३५, १२; १३६, १३; १३७, ४५; अप्राय १, २; ३; ५; २, १; २-५; ७; ९; ३, ८; ४, २; अप ३७, १, ११; २, १; ३, १; ४, २; ६, १; ७, १; ८, २; ९, ४; २०, १; बौध २, १, ५१; २, ६५; -त्तिभिः कप्र २, ९, १३; -त्तिम् काश्रौ १६, ६, ३१; आपश्रौ ९, १६, १२; माश्रौ ९, १८, ३; १९, ६; ९; वाधूश्रौ २, १३; ४; ३, ४६; ३; १३; हिश्रौ १५, ४, ५; अप्राय २, २; ३; अप २९, २, २; अप्रा ३, ४, १; -त्तिः हिण् १, २३, ११; जैण् १, ११; २२; २२; १३; अप्राय ३, १०; -त्तिनाम् वाधूश्रौ ३, ४४; १; -त्तिं आपमं १, १०, ३-६; पाण् १, ११, २; ३; अग्निण् १, ५, ५; १; ३; ५; ७; ६, ३; ६१; काण् २८, ४; १; बौण् १, ६, १२-१५; भाण् १, १९; १३; १६; १७; हिण् १, २४, १; गोण् २, ५, २; जैण् १, २२; १३; १५; १७; १९; वैध २, १, ९. प्रायश्चित्ति-कल्प- -ल्पः माश्रौ ५, १, ५, ३. प्रायश्चित्ति-पर्यन्त- -न्तम् हिण् १, २३, ११. प्रायश्चित्ति-सामन्- -म निस् ५, १; १७; ८, २; १५; ६; ४१;

९; ३३. प्रायश्चित्त्य(ति-अ)न्त^१- -न्तम् काश्रौ १७, १, १. प्राय(स्य>)स्या^१- -स्या ऋप्रा १६, ६५. प्रायो-दर्शन- -नम् पावा २, ३, २३. प्रायो-देव(त>)ता^१- -ता या ७, ४. प्रायाजिक- प्र^१युज् द्र. प्रायुज- प्र^१युज् द्र. प्रा(प्र-आ)युस्^१- -युः आपश्रौ ६, १९, १; हिश्रौ ६, ६, १७. प्रायोगिक- प्र^१युज् द्र. प्रा(प्र^१अ)र्षि^१र्ष प्र^१इयमिं आश्रौ ६, ४, १०; बौश्रौ १३, ३५; ४; प्र(इयमिं)शाश्रौ ९, १८, ५; १४, ५४, २; वैताश्रौ २६, १०. प्र(आरुः) ऋअ २, ३, ७. प्रा(प्र-आ)रु^१रु^१म, म् > प्रा-रुध्, ब्धा- -ब्धम् वैश्रौ २०, १८; ५; -ब्धायाम् वैश्रौ २०, ४; २; -ब्धे वैश्रौ १६, १; ८; २०, ४; ३. प्रा-रुभ्य अप ७०, ११, २. प्रा-रुभण- (>रुभणीय- पा.) पाण् ५, १, १११. प्रा-रुभमाण- -णः अप ३०^२, १, १. प्रारोह- प्र^१रुह् द्र. प्रारोहि^१- -हयः बौश्रौ ४९; ३. प्रा(प्र^१अ)र्च^१र्च, प्रार्चन्ति या ५, ५; प्र^१अर्चन्ति लाश्रौ ६, ४, १२; प्र(अर्चन्ति) साभ २, १२५; प्र^१अर्चन् आश्रौ ८, ९, २; प्र^१(अर्चन्) ऋअ २, ७, ४३; प्र^१अर्च, > चा आश्रौ ५, ९, २१; या ११, ९; प्र^१अर्च, >

चा) आश्रौ ४, १३, ७; ५, ९, १५; शाश्रौ; प्र^१अर्च, > चा ऋप्रा ७, ३०; ३४; शुप्रा ३, १७; ४, ७; प्र^१अर्च आश्रौ ६, २, ९; या ४, २४; ११, ९; प्र^१अर्च > ता या ४, २४; प्र^१अर्च (अर्चत, > ता) आश्रौ ५, १४, १८; ८, ७, २३; शाश्रौ; प्र^१प्रो- (प्र-अ)र्चत) आश्रौ ६, २, ६; शाश्रौ ९, ६, १२; बौश्रौ १३, १४; ११; माश्रौ. प्रा(प्र^१अ)र्च^१र्च, प्रार्चयति वृदे २, ३७; या ३, ५. प्रा(प्र-अ)र्चयित्- -ता या १०, १०. प्रार्चित-> त्त-होष^१-> षिन्- -षिणौ या ५, २२. प्रा(प्र-अ)र्ण- पावा ६, १, ८८. प्रा(प्र^१अ)र्ण^१, प्रार्थयते अप ४१, ३, १; वैध १, ७, ८; प्रार्थयति अत्र ७, ७८; ८१; प्रार्थयन्ते वैध १, ९, २-४; ?अप्रार्थयत्^१ अत्र १, ८; ९; प्रार्थयत् अत्र २, १३; १९, ७२; प्रार्थयेत् हिध १, २, ६६; प्रार्थयेत् कप्र २, ४, ९; आपध १, ७, ९; प्रार्थयेध्वम् अप ३१, २, २. प्रा(प्र-अ)र्थेन- -नम् अत्र ५, ६. प्रार्थनीय- -यम् अत्र २, १८. प्रा(प्र-अ)र्थेना- -नासु कप्र १, ४, ९. प्रा(प्र-अ)र्थयत्- -यन् अत्र ३, १५. प्रा(प्र-अ)र्थयमाण- -णः कौसू १८, ३०; ३१. प्रा(प्र-अ)र्थयमान- -नः अप ३१, २, ४. प्रा(प्र-अ)र्थित- -तः वैण् २, ६; १६;

a) पामे. वैप २, ३खं. मंब्रा १, ४, १-४ टि. द्र. b) बस. c) भवार्थे यत् प्र. (तु. भाष्यम्)। d) वैप १ द्र. e) = ऋषि-विशेष-। व्यु. ?। f) कस. उप. वैप १, १८८० e द्र. g) पाठः प्रा(प्र-आ)र्च इति श्लोचः (तु. अत्र २, १३)। h) परस्परं-पामे.।

प्रार्थित-प्रदान- -नेन विध २४,
२२.
प्रा(प्र-अ)र्ध्व अत्र ४, ३९; ५, २४.
प्रा(प्र/अ)र्द्ध, प्रार्द्धयति या ६, ३२.
प्रा(प्र-अ)र्द्धक- -कः या ६, ३२.
प्रा(प्र/अ)र्ष, प्रार्षयति माश्रौ १, १, १,
१८; ७, १, ८; प्रार्षयतु आपश्रौ
१, २, ४; बौश्रौ.
प्रा(प्र-अ)र्षण- -णः आपमं २, ११,
२७^१.
प्र(प्र/अ)र्ष, प्र(अर्षति) ऋअ २, ९,
२०^१; ३४; प्र(अर्षन्ति) ऋअ २,
९, ८६; ३, २९; प्र(अर्षसि) ऋअ
२, ९, ४४; साअ १, ५०९; उसू
५, ४.
प्रालेपिका- प्र/लिप् द्र.
प्रालेय- प्र/ली द्र.
प्रा(प्र/अ)व, प्रावति माश्रौ ९, १३,
१; प्र^१अवतु शाश्रौ ८, १६,
१^२१; प्र(अवतु) शाश्रौ ८, १६,
१^२; १७, १; १८, १××; बौश्रौ;
प्रा(प्र-अ)वताम्^१ आश्रौ ३, १२,
२३; भाश्रौ ९, १३, १; माश्रौ;
प्र^१अवताम्, प्र(अवताम्)
शाश्रौ ८, १९, १^३१; प्रावन्तु
या १२, ४५^१; प्र^१अवन्तु
शाश्रौ ८, २०, १^३१; प्र
(अवन्तु) शाश्रौ ८, २०, १^३; २१,
१; २३, १; प्र^१अव वाधूश्रौ
४, ४७; ७; आपमं १, ३, ५; पाय;
प्र(प्र-अ)वतम् आपश्रौ ४, ४,
१; भाश्रौ ४, ४, ३; हिश्रौ ६, १,
२६; प्रा(प्र-अ)वत, >ता शुप्रा

३, ९७^१; प्रा(प्र-अ)वन् या ६,
२^१.
प्र(प्र^१अविध) आश्रौ ७, १२,
१६; शाश्रौ १०, ६, १६; ऋअ
२, ८, ३७; ऋप्रा १७, ३६.
प्र^१अविषत् आश्रौ २, २०,
४; ऋप्रा ५, ५९; प्र^१अविषुः^१
शाश्रौ १२, २४, १.
प्र(प्र-अ)वितृ- -ता वृदे ३, ७९;
-तारः काश्रौ ३, २, १३; आपश्रौ
२, १६, ११^१; बौश्रौ १, १५ :
३०; भाश्रौ.
प्र(प्र-अ)वित्र- -त्रम् आश्रौ १,
४, १०; ५, ३, ९; शाश्रौ १, ६,
१४.
प्रा(प्र-अ)व्य- -व्यम् बौश्रौ ९, १० :
२१.
प्रावचन- प्र/वन् द्र.
प्र(प्र-अ)वण- -णेभिः ऋप्रा ९, ५०; शुप्रा
३, १०५××; तैप्रा ३, ५; ७, ७.
प्रा(प्र-अ)व/निज्, प्र(अवनेनिग्व)
कौस् ६४, ९^१.
प्रा(प्र-अ)व/यम् (नियमने), प्र-
(अव^१अर्थस्त) ऋअ २, १, ५६.
प्रावरण- प्र/वृ (आच्छादने) द्र.
प्रा(प्र-अ)व/रुघ् >प्राव-रुद्धि- -द्धयै
हिश्रौ १७, ५, ३२^१.
प्रावर्गिक- प्र/वृच् द्र.
प्रा-वर्षिन्- प्र/वृष् (परि.) द्र.
प्रावार- प्र/वृ (आच्छादने) द्र.
प्रावास- प्र/वस् (यात्रायाम्)
द्र.
प्रावाहणायन-, णि-, ण्ये-

२प्रवाहरण- द्र.
प्रावाहार्य- -याः बौश्रौप्र ४१ : ३.
प्राविक्य- प्रविक- द्र.
प्रा(प्र-अ)व/विष्, प्राविवेश वृदे ६,
१२.
प्रा-वृत्त-, ण्य प्र/वृ (आच्छादने) द्र.
प्रावृष्-, णिक- प्र/वृष् द्र.
प्र(प्र-अ)व/व- -वाः^१ ऋअ २, १०, ३४;
वृदे ७, ३६; या ९, ८६; -पौ
वाश्रौ ३, ३, ४, १९^१.
प्रावेपिन्- -पी आपश्रौ २२, १२,
६.
प्रावेशन- प्र/विष् द्र.
प्रा(प्र/अ)श् (व्याप्तौ), प्र(अश्याः)
शाश्रौ १०, ६, १८; ऋअ २,
५, ४२; वृदे ५, ३८; शैशि
५५.
प्राश्रयति द्राश्रौ २, ३, १०; लाश्रौ
१, ७, ९.
प्राश्रुते या २, १४.
प्रा(प्र-अ)ष्ट- >ष्ट-वर्ण-ग(र्भ-
भा- -भाः या १०, ३९.
प्रा(प्र/अ)श् (भोजने), प्राश्रानति
शाश्रौ ४, १३, ३; ७, ७, ३; काश्रौ
२, २, १६; ३, ४, १७××;
आपश्रौ; प्राश्रनीतः आपश्रौ ३, ९,
९; बौश्रौ १, २० : १७; ४, १० :
१८; माश्रौ; प्राश्रन्ति शाश्रौ ३,
१६, २५; काश्रौ ३, ४, १९××;
आपश्रौ; शाश्रु ४, ५, १०^१;
प्र(प्र-अ)श्रानामि आश्रौ १, ७, २^३म;
१३, १××; शाश्रौ १, १०,
२^३म××; आपश्रौ; प्र(प्र-अ)श्रान्तु

a) वैप १ द्र.। b) पाभे. वैप १, २२११ e द्र.। c) पाभे. वैप १, २२३८ i द्र.। d) पाभे. वैप १, २२३९ c द्र.। e) वैप २, ३खं. द्र.। f) सप्र. आपश्रौ २२, १३, ११ ब्राह्मणस्य इति पाभे.। g) व्यप.। व्यु. ?। h) वैप १, २२४० c द्र.। i) वैप १, २२४० d द्र.। j) विप. (प्रकरणात्) अश्रवरथ-। अर्थः ?। आदर्शखचित-। जै १३४। वा धात्वनुविद्ध-। आपश्रौ। वेति ? c.। k) कस. > वस.। l) सपा. प्राश्रन्ति <> प्राश्र्य इति पाभे.। m) पाभे. वैप २, ३खं. अश्रानामि माश्र १, ८, १४; १५ टि. द्र.।

आपश्रौ ६, ३०, १०^३; बौश्रौ ३, १२: ९^३; माश्रौ ६, १७, १७^३; माश्रौ १, ६, ४, २६^३; वाश्रौ १, ५, ५, ८^३; वैश्रौ ८, २: ९^३; हिश्रौ ६, ८, १^३; आपर्म २, १०, ७^३; पाश्रु ३, १, ४^३××; बौश्रु^३ १, २, ४८; ४९; गोश्रु ३, ८, २०^३; जैश्रु १, २४: ९^३; द्राश्रु ३, ३, ८^३; या १२, ९^३; प्राश्रुन्तु द्राश्रौ १३, ३, १७; लाश्रौ ५, ४, २; काश्रु ६३, १३; प्राश्रुनाहि अप्राश्रु २, ४^३; प्राश्रुनीत बौश्रौ ६, १२: २; वाश्रुश्रौ ४, ६७: ३; प्राश्रुनीम वाश्रुश्रौ ४, ६७: २; प्राश्रुन्त वाश्रुश्रौ ४, ६७: ४; प्राश्रुनीयात् आश्रौ १, ७, ८; १०, ८××; शाश्रौ; प्राश्रुनीयाताम् बौश्रौ २०, २: ११; माश्रौ १, ४, १, १०; बौश्रु ४, १२, ६; प्राश्रुनीयु: आश्रौ ५, ७, १०××; बौश्रौ.
 प्राश्रुश्रिष्यन्ते द्राश्रौ १३, ३, १७; लाश्रौ ५, ४, २; प्राश्रुत् जैश्रु २, १: ३८; प्राश्रुति: शौच १, १०५^३; प्रा (प्र-अ) श्रिषम् कौश्रु २२, २-४^३.
 प्राश्रुयेत मीश्रु १०, ६, ३३.
 प्राश्रुयति पाश्रु १, ११, ५; १६, ४^३; बैश्रु ६४: ३; आश्रुिग २, १, १: १०; ४: २^३××; बौश्रु २, १, ७^३; ३, ५; भाश्रु १, २४: १०^३; २७: २०; २२; वैश्रु; हिश्रु २, ३, ९^३; प्राश्रुयन्ति आपश्रु १२, १; हिश्रु १, ४, १०; १२;

प्राश्रुश्रामि आपश्रौ १, १०, १०; हिश्रौ २, ७, ५९; आपर्म; प्राश्रु-येत् आश्रौ २, ७, १३; आपश्रौ १, १०, १६; बौश्रौ; प्राश्रुयेयु: द्राश्रौ १२, १, १९; लाश्रौ ४, ९, १३; जैश्रु २, २: २९.
 प्रा (प्र-अ) श्रु- > प्राश्रुपि^३, प्राश्रुपयति माश्रु १, १७, ४^३; २, ३, ६.
 प्रा (प्र-अ) श्रु- न- नम् शाश्रौ ४, ७, १९; काश्रौ १२, ३, २०; आपश्रौ; -नात् भाश्रौ ६, १७, १५; -ने आपश्रौ ६, ३१, ७; बौश्रौ.
 प्राश्रुन-कर्मन्- -र्म जैश्रु १, १०: १.
 प्राश्रुन-कल्प- -ल्प: भाश्रु १, २७: २०.
 प्राश्रुन-मन्त्र- -न्त्र: बौश्रौ २४, ३३: ९; बौश्रु ३, ७, २६.
 प्राश्रुना(न-अ)न्त- -न्ते पाश्रु १, ५, १२; १९, ५××.
 प्राश्रुना(न-अर्थ) > -र्थी- -र्थी: भाश्रु २, १: १०.
 प्राश्रुनार्थीय- -यम् शाश्रु ३, ८, २.
 प्राश्रुनो(न-उ)स्तेचन-परिषेचन- -नानि आपश्रौ २, ११, १२; वैश्रौ २०, २१: ७.
 प्रा (प्र-अ) श्रुथिक्त्वा आपश्रु १५, ४^३; गोश्रु ३, ८, ७; वैश्रु.
 प्रा (प्र-अ) श्रुत्, ता^३- -त: वाश्रुश्रौ २, १५: २; कौश्रु १, १, ३^३; शाश्रु १, ५, १^३; १०, ८^३; पाश्रु १, ४, १^३; काश्रु १३, २^३; जैश्रु १, १:

४^३; -तम् वैताश्रौ ३, १२; जैश्रु १, १२: १८; कौश्रु ६५, १४; ७४, २०; -तानाम् काश्रु १३, ६; -ताभि: वाध ३, ३३; बौध १, ५, १८; -तायाम् आपश्रौ ३, २, ११; १३, ११, ५; वैश्रौ; -ते आपश्रौ ३, २, १०; बौश्रौ.
 प्रा (प्र-अ) श्रुत्-वत्- -वत्सु हिश्रौ ३, २, ४९; -वद्भ्यम् आपश्रौ ५, ७, ३××; भाश्रौ.
 प्रा (प्र-अ) श्रुत्सु वाश्रुश्रौ ४, १०८: ४; ५.
 प्रा (प्र-अ) श्रुत्- पावाग ५, १, १०५; -तृणाम् आपश्रौ ९, १५, १९; भाश्रौ २, १८, ७; हिश्रौ १५, ४, ३९.
 प्राश्रुश्रि- पावा ५, १, १०५^३.
 प्रा (प्र-अ) श्रु [श्री?] त्र^३- -त्रम् आश्रौ १, १३, १; शाश्रौ ४, ७, ४; ७; २१, ६; काश्रौ २, २, १३; ३, ४, १××; आपश्रौ ३, १, १; २××; बौश्रौ १, १७: २६; १८: १७^३××; भाश्रौ २, १९, ९; ३, २, ७××; माश्रौ १, ३, ३, २; ४, २, ८××; वाश्रुश्रौ ४, ३: ३; ४६: ३; वाश्रौ १, १, ३, ८^३; ५, १६××; वैश्रौ ६, १०: ११; १२: १४××; हिश्रौ २, ३, १; ५××; द्राश्रौ १२, ३, ९; १३, २, २; लाश्रौ ४, ११, १०; ५, २, ६; वैताश्रौ ३, ७; १२; वैश्रु; या १२, १४^३; -त्रस्य बौश्रौ २०, १३: ३२; माश्रौ ५, २, १०, ११; -त्राय बौश्रौ १३, २३: -

a) पाभे. वैप २, ३खं. प्राश्रुनातु तैत्रा २, ४, ८, ७ टि. द्र. । b) सप्र. प्राश्रुयति <> प्राश्रुपयति <> प्राश्रुथिक्त्वा <> काश्रु ३४, ६ प्रपाययति इति पाभे. । c) उप. भावे प्र. । d) आश्रुग-आगम: उरुसं. [पावा ३, १, २५ (तु. WSB.); वैतु. BW. MW. <प्रा प्र√अश्रु [व्याप्तौ] इति ?] । e) वस. । f) उप. अधिकरणे कर्मणि च प्र. । g) = पाक-यज्ञ- । h) तु. पाका. पासि. । i) बौश्रौ २०, २४: २६ पाठ: ? । j) = (ब्रह्मणे दीयमान-) हविस्- । शेषं वैप १ द्र. ।

१०; -त्रे आप्रश्चौ १९, २१, ५^३;
६; वौश्रौ।
प्राशित्र-पात्र- -त्रम् वैश्रौ ११,
८: ७.
प्राशित्र-भाग- -गात् द्राश्रौ
१३, २, ३; लाश्रौ ५, २७.
प्राशित्र-वत् वैताश्रौ १९, १५.
प्राशित्र-हरण^०- -णम् आश्रौ १,
१३, १; शाश्रौ ४, १४, २३;
काश्रौ; -णस्य वौश्रौ २०, १०:
३; -णात् माश्रौ १, ७, ६, ३;
-णे काश्रौ २५, ७, २७××; वौश्रौ।
प्राशित्रा(त्र-अ)कृति^०- -ति
वैश्रौ १४, १५: १.
प्राशित्रा(त्र-अ)वदान- -नम्
काश्रौ १, १, १७; वैश्रौ ९, ९: ६.
प्रा(प्र-अ)शिष्यत्- -ष्यन् वौश्रौ ३,
२९: १४; वाश्रौ १, १, ५, ४;
कौश्रु ३, ५, १; शाश्रु २, ८, १.
प्रा(प्र-अ)शिष्यमाण- -णे आश्रौ १,
४, १.
प्रा(प्र-अ)श्नत्- -श्नन्सु द्राश्रौ १२,
४, ८; लाश्रौ ४, १२, ८; -श्नन्तः
वौश्रौ १३, २३: ११; -श्नन्तम्
आश्रौ १९, २४, ८; २२, २६,
७; हिश्रौ।
प्रा(प्र-अ)श्य आश्रौ २, ९, १०××;
शाश्रौ; कौश्रु ३, ७, १२^६।
प्रा(प्र-अ)श्य- -श्यः आश्रौ १, ९,
१३^३; भाश्रौ १, ९, ६^३; हिश्रौ ९,
४, १३; -श्यम् काश्रौ ५, ९, ३१.
प्रा(प्र-अ)श्यमा(न >)ना- -नाम्
वौश्रौ ३, १८: २५; वैश्रौ ७,
१: १३.

प्राश- √पृच्छ् द्र.
√प्राश् > प्राश^०- -शाम् अप्रा ३,
४, १^१।
प्राशन- प्रश्. प्रा(प्र√अ)श्(भोजने)
द्र.
प्राशातिक^०- -कात् आप्रश्चौ ४, ३, ८;
भाश्रौ ४, ४, ६; हिश्रौ ६, १, ३७.
प्राशास्त्र- प्र√शास् द्र.
प्रा(प्र-अ)शित- प्रश्. प्रा(प्र√अ)-
श्(भोजने) द्र.
प्रा(प्र-अ)शु^०- -शु आप्रश्चौ ७, १३, ३;
-शुः निच २, १५^१; या १, ७.
प्राशु^०- -शुः वौश्रौ ९, २: ७^१।
†प्राशुङ्ग^०- -ङ्गः आप्रश्चौ १९, १६,
१६; -ङ्गाः आश्रौ २०, १४, १२;
१५, ३; हिश्रौ १४, ३, १८^२।
प्रा(प्र-अ)श्य प्रश्. प्रा(प्र√अ)श्
(भोजने) द्र.
प्राश्लिष्ट- प्र√श्लिष् द्र.
प्रा-बाह- प्र√सह द्र.
प्रा(प्र-अ)ष्ट- प्रश्. प्रा(प्र√अ)श्
(व्याप्तौ) द्र.
†प्रा(प्र√अ)स्(भुवि), प्रा(प्र-अ)सि
वौश्रौ २८, २: ४७; प्र...अस्तु
आश्रौ ३, १२, ९; ४, ११, ६;
वैश्रौ २, १३: ६; आप्रमं २, १५,
१; या २, १३; प्र(अस्तु) आप्रश्चौ
६, १८, १; १३, ४, ६; वैश्रौ।
प्रा(प्र√अ)स्(क्षिपणे), प्रास्यति शाश्रौ
१७, १०, १३; काश्रौ ५, २, ५; ९,
२९××; आप्रश्चौ; प्रास्यतः काश्रौ
९, १०, ११; प्रास्यन्ति शाश्रौ ३,
१६, २६; काश्रौ १२, ३, ६; हिश्रौ
१६, २, २१; प्र(अस्यथ) ऋश्च २,

१, ३९^१; प्रास्यत् वृदे ५, ९९;
प्रास्यत् वौश्रौ २१, २१: २३;
२६, २१: ४; ७; वाधुश्रौ;
प्रास्येयुः लाश्रौ १०, १७, १२.
प्रा(प्र-अ)सन- -नम् काश्रौ २, ६,
४४; १२, १, २२; २३, ४, २४;
आप्रश्चौ १२, १८, ७; वैश्रौ १६,
२२: ११; -ने वौश्रौ २१, २१:
२२; २४: १६; वैताश्रौ २८,
२७^१।
प्रासन-वत् वीस् ४, २, १६.
प्रा(प्र-अ)स्त- -स्तः वौश्रौ ८, ९: ५;
१४, ६: २३; -स्तम्-स्तम्
आप्रश्चौ ३, १०, ४; -स्तात्
काश्रौ १६, ६, २९; -स्तानि
द्राश्रौ ६, ३, २३; लाश्रौ २, ११,
१६; वृदे ५, १७.
प्रास्त-कवच^०- -चाः वौश्रौ १५,
७: २०.
प्रा(प्र-अ)स्य काश्रौ ३, ६, १४; ७,
१३; ४, १, ७××; आप्रश्चौ।
प्रा(प्र-अ)स्यत्- -स्यन् काश्रौ २, ४.
प्रासङ्ग- प्रश्. प्र√सञ्, ञ् द्र.
प्रासर्पक^०, णिक- प्र√सृप् द्र.
प्रा-सह^०, षह- प्र√सह द्र.
प्रा-साद्- प्रश्. प्र√सद् द्र.
प्रा-सूद्- प्र√सूद् द्र.
प्रासेन- प्रसेन- द्र.
प्रास्तर^०, °स्तारिक- प्र√स्तृ, स्तृ द्र.
प्रास्ताविक- प्र√स्तृ द्र.
प्रास्थानिक- प्र√स्था द्र.
प्रा(प्र-आ)√स्यन्द्, प्रास्यन्देत् वाधुश्रौ
४, ९०^२: ५; ७.
†प्र(आ...असिष्यदन्त) ऋश्च

a) षे, अष्टौ इति द्वे पदे (तु. सप्र. हिश्रौ २२, ४, २ भाष्यम्, C. च; वैतु. Garbe प्राशित्रोष्ठि- >
-शौ इति) । b) =पात्र-विशेष- । उप. कारणे प्र. । c) बस. पूष. =पात्र- । d) पाशे. पृ १७६७ । द्र. ।
e) वैप १ द्र. । f) नाप. (धान्य-विशेष-) व्यु. ? । <प्र-शात्- इति छद्दत्तः g) =क्षिप्र- । प्रास. (तु. दे.) ।
h) पाठः ? प्रास्ताम् इति ? C. (तु. सा [शौ ६, ६३, १]) । C. [पक्षे] दिशि इति ? । i) बस. ।

२, ९, ६८; २, २९; साअ २, ५६३.

शास्त्रवण- प्र√लु द्र.

प्रा(प्र√आ)ह्, प्राह आश्रौ ६, ११, १६; १२, ९, १४; शाश्रौ ७, १०, २; १७, १७, १०; आपश्रौ ३, २०, ८^१; १०, १, २; १४, ९, ७^१; २२, ४, ५; बौश्रौ ३, २६ : ७^१××; १४, ९, २५^१; २८^१; भाश्रौ ३, १८, ८^१; माश्रौ; वैश्रौ १७, ६ : ६^१; हिश्रौ २, ८, ३८^१; १०, ८, ४४^१; या १, १६; ८, २१; प्राहुः शाश्रौ ४, ७, १७^१; बौश्रौ १, ३ : १८××; वाश्रौ; द्राश्रौ १२, ४, १^१; लाश्रौ ४, १२, १^१; या १, ३.

प्राहृतायन- २प्रहृत- द्र.

प्रा(प्र-अ)ह्- पाग २, १, १७; -ह् जैग १, १४ : ११.

प्राहृ-तन- पा ४, ३, २३.

प्राहृदि- प्र√हृद् द्र.

प्रिय- √प्री द्र.

प्रियक^१- (> प्रैयक- पा.) पाग ४, १, १०४.

√प्रियकाय्य प्रस्य. √प्री द्र.

प्रियङ्गु^१- पालभो २, १, ४८; -ङ्गवः

बौश्रौ २४, ५ : १६; २८, १३ :

१; अप १, ४३, ९; अशां १२,

३; सुप्रा ५, ३७^१; -ङ्गुः अप

५, २, १; -ङ्गुभिः विध ८०, १;

-ङ्गुम् अप ७, १, ६.

प्रैयङ्गव^१- चम् बौश्रौ १३, २० :

७; अप १, २८, २; भाशि २८;

-वेण आम्रिग २, १, १ : १३;

हिग २, २, ६.

प्रियङ्गव- -वे^१ माश्रौ ५, १, ६, ३९.

प्रियङ्गु-तण्डुल- -लान् आपश्रौ २०,

१०, ५; हिश्रौ १४, ३, ३; कौस

३२, २.

प्रियङ्गुतण्डुल-चर्मन्^१- -र्माणि

बौश्रौ १५, १६ : ५.

प्रियङ्गु-दूर्वा-गौरसर्षप- -पाणाम्

वाग १४, ६.

प्रियङ्गु-यद-स्यामाक-नीवारा(र-आ)

दि- -दिभिः वैध १, ७, ५.

प्रियङ्गव(ङ्गु-अ)णु- -णवः आपश्रौ

१६, १९, १३.

प्रिय-त्तम- प्रस्य. √प्री द्र.

√प्री^१ पाधा. दिवा. क्त्वात्. प्रीतौ; क्त्वा.

उभ. तर्पणे कान्तौ च; चुरा. उभ.

तर्पणे, ऋषिग्रीहि आश्रौ १, ६, २;

शाश्रौ १, ९, १; ५, १९, २१;

आपश्रौ; पिप्रीत हिश्रौ १, ७, ४०^१

प्रीयेते शंघ ४५७^२; प्रीयेते शंघ

४५७^३; प्रीयन्ते जैग २, १ :

३३^१; शंघ ४५७^३; विध ८०,

१; प्रीयताम् आम्रिग २, ३, ४ : १^२;

वाध २८, १९; ऋषियन्ताम्

शांघ ४, १२^१; आम्रिग^१ २, ३,

२ : ११; ४ : ६^३; बौग ३, १, १२^६;

१२, ३^१; माग २, १४, २९; जैग

१, ६ : १०^१; विध ७३, २७.

ऋषियताम् वैग १, ६ : ५; ६^१;

प्रियेताम् बौग २, ५, ५४^१;

ऋषियन्ताम्^१ वैश्रौ १, ४ : ९;

बौग १, १, २४; भाग ३, १६; ५;

वैग ६, २ : १४.

प्रीणाति शाश्रौ १५, ५, ६; १६,

१, १२××; या ५, १७; प्रीणन्ति

हिघ २, ५, २३; गौघ १५, १४१;

या १, २०; प्रीणांमि शाश्रौ २,

९, १२^१××; आपश्रौ; माश्रौ १,

६, १, ४८^१; ऋषीणात् आपश्रौ

२, २०, ६; बौश्रौ; ऋषीणीताम्

बौश्रौ ३, १८ : ११; माश्रौ १, ४, १,

२७; वाश्रौ १, १, २, १; ऋषीणन्तु.

बौश्रौ ३, १८ : ९; माश्रौ १, ४,

१, २७; वाश्रौ १, १, ३, १; वैग

१, २ : १९; ऋषीणीहि आपश्रौ

६, ११, ५; १७, २२, २; बौश्रौ;

ऋषीणांमि बौश्रौ २४, २९ : २०;

माश्रौ २, १९, १; हिश्रौ २, ५,

४७; अप्रीणात् शाश्रौ १४, ७, १;

प्रीणीत या ५, २६^१.

प्रीयताम् आम्रिग २, ४, ६ : ३७.

प्रीणयति विध ९१, ५; प्रीणयन्तु

माग २, १४, २९^१; ऋषीण(य>)-

या आग ४, ७, ११; आम्रिग

३, ३, १ : २९; ३०; बौपि २, ९,

६; ११, ३; गौपि २, ३, १८^१;

प्रीणयेत् अप ७०, ३, ४.

अपिप्रेट्^१ हिश्रौ ६, ३, ११^१;

अपिप्रेः आश्रौ १, ८, ७;

शाश्रौ १, १३, ३; आपश्रौ;

अपिप्रेम्^१ आपश्रौ ४, १२, ३^१;

माश्रौ ४, १७, ६^१; वैश्रौ ७, ५ : ९.

प्र^१-> प्रेमन्- पा ५, १, १२२; ६,

४, १५७.

प्रेयस्- पा ६, ४, १५७;

-यांसः बौश्रौ १८, १३ : १५;

a) पाभे. वैप १, २२४२ l द्र. । b) = प्रातर्- । c) = ऋषि-विशेष- । d) वैप १ द्र. ।

e) पाठः ? प्रैयङ्गव- > -वे इति शोधः । f) उप. = [चर्म-मय-] मान-पात्र- । g) या १, २०; ८, ४ पावा ७,

३, ३७ परामृष्टः द्र. । h) पाभे. पृ १६२५ ll द्र. । i) परस्परं पाभे. । j) सपा. प्रीयन्ताम् <> प्रियन्ताम् इति

पाभे. । k) तु. मैसू [१९२०] । प्रिय^१ इति मैसू [१९०४] । l) पाभे. पृ १११५ c द्र. । m) वैतु. C. व्याहि इत्येकं

क्रिय. इति ? । n) पाभे. वैप १, १४६४ c द्र. । o) द् वा इत्येवं सतः लैवि. द्र. । p) = अपिप्रयस (तु. वैप १)

प्रेयसी-०सि बौश्रौ १६,
२६:१४^१; -^१सी आपश्रौ
५, २६, ५; हिश्रौ ३, ६, ५;
अप्रा ३,४,७.

प्रेष्ठ-पा ६,४,१५७; -ष्ठ: बौश्रौ
९,७:४^१; -^१ष्ठम् आश्रौ ४,१३,
७; ७,८, १; शाश्रौ; -ष्टा: आगु
२,६,१४.

प्रिय,या^१- पा ३,१,१३५; पाग ५,
१, १२२; ६, ३, ३४; -य:
आश्रौ २,३,१४; ५,१३, १४^१;
शाश्रौ; माश्रौ ३, ४, १^१;
आमिगु ३,६,३:१९^१; बौपि १,
११:१६^१; पा ४,४,९५; -यम्
^१आश्रौ १, ९, ५; २,८,३××;
शाश्रौ; आपश्रौ २, ११, ६^१;
वैश्रौ ५,९:४^१; हिश्रौ १, ८,
२९^१; आपमं २, ४, २^१;
आपध २,७,१४^१; हिध २, २,
३३^१; ^१या ९,१८,१९,३९,१२,
९; -यया बौश्रौ १४,२९:१४^१;
-यस्य आपश्रौ ४,१६, ४; पावा
२,२, ३५; -या ^१आश्रौ १, ३,
१४××; शाश्रौ; या ३,१७; -या:
^१आपश्रौ ५, १०, २××; बौश्रौ;
या ३, १७; -^१याणाम् काश्रौ
२०, ६, १३; बौश्रौ १५, २९:
२५; कौसू ६२, १९; -^१याणि
वाश्रौ ३, १२: ४; ४,
९४^१: ८; हिश्रौ; या ४, १६;
-यात् आपध १, ८, १४; हिध
१, २, १०२; -यान् आश्रौ ५,
१७, ३^१; -^१याम् शाश्रौ १८,
२१, ११; काश्रौ १२, २, २४;

बौश्रौ; -याय आश्रौ ७, ७, ७;
आपश्रौ; -यादा: बौश्रौ २८,
२: ३०^१; -यायै आपश्रौ २२,
२, १६; बौश्रौ २८, २: १४;
हिश्रौ १७, १, ३२; -^१यासु
आश्रौ २, १२, ५; ७, १०, ५;
बौश्रौ २८, २: २९; हिश्रौ ६,
३, २; -^१ये आपश्रौ २, १०,
३^१; ९,१,१७^१; बौश्रौ; -^१ये
आमिगु ३, ५, ६: ६; बौपि १,
४: २३; -^१येण शाश्रौ २,
११,५^१; काश्रौ २, ८, १९; ५,
४,२७; आपश्रौ; कौगु ३,६,९^१;
शागु ३, ११, १४^१; पागु ३, ९,
६^१; कागु ५९, ५^१; विध ८६,
१६^१; -^१येभ्य: काश्रौ १०, ४,
११; आपश्रौ १३,१०,१^१; बौश्रौ;
-यै: विध ९६,३७.

प्रियं-वद,दा- पा ३, २, ३८;
-दा कप्र २,१०,४; -दा: अप
६८,१,२३.

√प्रियकाम्य > प्रियकाम्या-
-न्यया वृदे ६,१४९.

प्रिय-कार- पा ३,२,४४.

प्रियं-कर- पा ३, २, ४४; -र:
अप २१,७,५.

प्रिय-तम,मा- ^१म: माश्रौ १,
७, ४, ११; आमिगु २, ६, ६:
२४; -^१मम् आश्रौ ४, १५, २;
१०; शाश्रौ; -मस्य काठश्रौ
१९; -मा बौश्रौ १३, ४: ८;
दाश्रौ ७,२, ८; लाश्रौ; -^१माम्
आमिगु ३,८, ३: ३; बौपि १,
१५: ७५; -माय काश्रौ १५,

६, १०; माश्रौ २, ५, ४, ३३;
अप १२, ३, १३; -^१मे आपश्रौ
१६, ७, ४; वैश्रौ १८, ५: ३;
हिश्रौ ११, २, २.

प्रिय-ता- -ताम् विध २१,७३.

प्रिय-न्त्व- -त्वम् वृदे ४,७०.

प्रिय-दर्शन^१- -न्म अप ३,३,८^१.

^१प्रियघा^१ आपश्रौ ७, १५, ७;

बौश्रौ ४, ६: ३०; माश्रौ ७,

१२,११; हिश्रौ ४,३,४७.

^१प्रिय-धामन्^१- -मभ्य: काश्रौ

१०,४,११; आपश्रौ १३, १०,

१^१; बौश्रौ ८,१०: ६;८; माश्रौ;

-न्त: आश्रौ ५,१७,३.

प्रिय-प्रिय- पा ८,१,१२.

प्रिय-मेध^१- -ध: ऋअ २,८,२;

६८××; शुअ; या ३, १७^१;

-^१धा: आपश्रौ ६, २२,१; या

४,३.

प्रैयमेध- -ध: ऋअ २,

१०, ७५; -धस्य चाअ^१ ६:

१; २; -धा: भाशि २८^१.

प्रियमेध-वत् या ३,१७^१.

प्रिय-रूप^१- (> प्रैयरूपक-

पा.) पाग ५, १,१३३.

^१प्रिय-व(त् >)ती- -ती बौश्रौ

१३,२०: ८; हिश्रौ ६,३,२.

प्रिय-वद्य^१- -द्येन आपश्रौ १४,

१२,९^१.

प्रिय-वादिन्- -दिने हिपि १८:

२३.

प्रियवादिनी- -नीषु विध

९९, २१.

प्रिय-व्रत^१- -त: शुअ ४, १६१;

- a) वैप १ द्र.। b) पाभे. वैप १, २२४४ e द्र.। c) पाभे. वैप १, २२४४ j द्र.। d) पाभे. वैप १, १४७४ g द्र.। e) सपा. हिध २, २, ३३ काम: इति पाभे.। f) सपा. आपध २,७,१४ मन: इति पाभे.। g) पाभे. वैप १,२२४६ h द्र.। h) वस.। i) वैप १, २२४७ k द्र.। j) प्यमेधस: इति पाठ: इ यन्. शोध:। k) तु. पागम.। l) उप. < √वद्। m) सपा. प्रियवद्येन <> प्रियोद्येन इति पाभे.।

-**प्रीतेभ्यः** काश्रौ १०, ४, ११;
आपश्रौ १३, १०, १^१; बौश्रौ।

प्रिय-स(खि>)खी- -खीम्
माशि १६, ४.

प्रिय-हित- -तम् विध ३१, ५;
-तयोः गौध २, ३७.

प्रियहित-कर्मन्- -माणि
वैध १, २, ६.

प्रियहिता(त-आ)चरण- -गम्
विध २८, ७.

प्रिया√कृ पा ५, ४, ६३.

प्रिया(य-आ)दि- -दिषु पावा ४,
१, १.

प्रिया(य-अ)प्रिय- -ये हिध २,
५, १२२.

प्रियाप्रिय-विपर्यय- -यान्
शंघ ३७०.

प्रिया(य-उ)घ^२- -येन हिश्रौ
१०, ६, ४^b.

प्रियन्ताम्-अन्त^२- -न्ताः वैगृ १,
७ : २^{१d}.

प्रीणत्- -णन्तः बौश्रौ १६, ११ : ३.

प्रीणयित्वा विध १०, १०; २४; २६;
प्रीणाति-> ण्ति-निगम- -मौ या
५, २४.

प्रीत, ता- -न्तः शाश्रौ १४, ७, १^१;
आपश्रौ १६, ३५, ५^१; बौश्रौ;

अप २०, ५, ४; ३१, ४, १; -**प्रीता**
बौश्रौ ३, १८ : १०; माश्रौ १,
४, १, २७; वाश्रौ १, १, ३, १;
ऋअ २, ८, १; -**प्रीताः** आपश्रौ
५, १८, १; बौश्रौ ३, १८ : ९;
माश्रौ; विध ४८, १०^१;
-**प्रीतौ** बौश्रौ ३, १८ : ११; माश्रौ
१, ४, १, २७; वाश्रौ।

प्रीत-मनस^२- -न्ताः अप १, ४०,
१^१।

प्रीत-मानस^२- -सः अप ७०, ३,
४.

प्रीता(त-आ)स्मन्^२- -त्मा अप
४१, ४, ४; वृदे ४, ५५.

प्रीति- -न्तये शंघ ४५७; -**तिः** आगृ
१, १, ४^२; आपध १, ४, १०××;
हिध; या १०, १०; २८; ४६;
-**तिम्** बौश्रौ १८, २९ : १५;
कौगृ; -**तौ** अप ४८, ३०; या
११, ९; पा ६, २, १६; -**त्या** वृदे
४, १; ७६; -**त्यै** शाश्रौ १६, ३,
१७××.

प्रीति-कर्मन्^२- -र्मा या ६, २२;
१४, २४.

प्रीति-दाय^१- -यः विध ५८,
९^१.

प्रीति-प्रधान-त्व- -त्वात् मीस्
९, १, १०.

प्रीति-मत्- -मान् अप ३१,
१०, १.

प्रीति-वर्धन- -नः शंघ १८६.

प्रीत्य(ति-अ)र्थ-त्व- -त्वात्
मीस् १०, २, १३.

प्रीत्यु(ति-उ)पलब्धि-तसः (ः)
आपध १, १२, ११; हिध १, ४,
१२.

प्रीयमाण- -णः पा १, ४, ३३.

प्रीणे(ण>)णी^१- -ण्यः कौस् ३६,
१०; अत्र ६, ८९; अप्रा ३, ४,
१.

प्रीण- -न्ता शाश्रौ ८, १७, १; बौश्रौ
८, १६ : ११; २६, ३१ : १५.

√**प्रीक** पाधा. भ्वा. आत्म. गतौ, प्रवते

निध २, १४^१.

प्रवक- पा, पावा ३, १, १४९.

√**प्रीड्** पाधा. भ्वा. पर. मर्दने.

√**प्रीथ्** (शब्दे)^१, प्रोथतः बौश्रौ १५,
३ : ६; **प्रीथत्**^१ काश्रौ १७,
१२, २४; आपश्रौ १७, ३, ९;
बौश्रौ १०, ४६ : ४८; माश्रौ ६,
२, ३, १७; वाश्रौ २, २, २, १७;
वैश्रौ १९, ४ : १८; हिश्रौ १२,
१, ४४; शुश्र २, २४२.

प्रोथत्- -थते भाशि ५६^१; -**थन्**
माश्रौ २, ५, ३, ८.

प्रोथयित्वा आपध २, १२, २; हिध
२, ४, ३७.

प्रोथ्य आश्रौ ६, १३, १०.

√**प्रीषु** पाधा. भ्वा. पर. दाहे; कष्या.
पर. स्नेहनसेवनपूरणेषु.

√**प्रीषु** (प्रवर्षणे), प्रुष>षा ऋप्रा ८,
१५^१.

प्रीषत्- -षन्तः शाश्रौ १२, २३, ११^१.
प्रीषित- -तम् भागृ २, ३०, १६.

प्रीषु(ष>)ष्वा^१- पाउ १, १५१;
-ष्वाः काश्रौ १५, ४, ३५;
-ष्वाणाम् आपश्रौ १८, १३, १३;
वाश्रौ ३, ३, २, २१.

प्रे(प्र√इ), प्रैति बौश्रौ ९, २ : ८××;
वाधूश्रौ; **प्रीम**...एति शाश्रौ
६, ४, ११××; ऋअ २, १,
१४४; अत्र १८, ४; **प्रीम**
(एति) क्षुस् ३, १० : ३२; ऋअ
२, ९, ९६; सात्र १, ५३३;
प्रयन्ति वैश्रौ १६, ५ : ७; १४ :
४; लाश्रौ १०, ४, ४^१; निस् ८,
११ : २५××; **प्रीम** (यन्ति)
शाश्रौ ७, १५, १४; निस्

a) उप. √वृ + भावे क्यप् (पा ३, १, १०६) । b) पाप्मे. पृ १७७१ m द्र. । c) वस. पूष. क्रिप. । d) ण्तः इति पाठः ? यनि. शोघः । e) पाप्मे. वैप १, १९८८ & द्र. । f) पीताः इति जीसं. । g) वस. । h) मलो. कस. । i) ष्यम् इति जीसं. । j) वैप १ द्र. । k) पा १, ३, ८६; ७, ४, ८१ परासृष्टः द्र. । l) वैप १, २२४९ ० द्र. ।

८, ५ : १५^a; ऋञ्ज २, ९,
३३××; वृदे ७, २३; साञ्ज २,
११११; ऋँतु आश्रौ^b ४, ७,
४; १०, ३; ७, ३, १; शाँश्रौ^b
५, १०, १४; १४, १०; १०,
४, ७; काश्रौ ९, ११, ३××;
२६^b, १, १३; ५, १७; आपश्रौ
१५, १, ७^b; बौश्रौ ९, २ : ८^b;
भाश्रौ ११, १, १०^b; माश्रौ ४,
१, ९^b; वैश्रौ १३, १ : १०^b××;
हिश्रौ २४, १, ५^b; माश्रु २, ११,
१७^b; प्र...एतु आश्रौ ५, १,
८; शाँश्रौ ११, १३, १६; बौश्रौ
९, २ : ८^c; आपमं; ऋँ (एतु)
आश्रौ ५, १०, २८××; शाँश्रौ;
ऋँताम् आश्रौ ४, ९, ४; ८, ९,
५; शाँश्रौ ५, १३, ४; १०, ९,
१६; प्र(इताम्) वृदे ४, ९२^c;
ऋँयन्तु आश्रौ ९, ५, ५; शाँश्रौ;
बौश्रौ ९, २ : ७^d; माश्रौ ५, १,
९, २३^d; या १०, ३०^e; प्र...
यन्तु अप ७, १, ८^f; ऋँ (यन्तु)
काश्रौ ९, ११, ३^g; कौसु ३१, ४;
ऋञ्ज; ऋँहि आश्रौ ४, ४, २;
शाँश्रौ ५, ६, २; आपश्रौ
२, ६, ५××; १५, १०, ७^h;
२२, २६, १५^h; या ९,
३३; प्र...इहि अप १८ⁱ, १,
५^h; ऋँहिऋँहि^h आश्रौ ६, १०,
१९^h; आश्रु ४, ४, ६^h; ऋँतम्
काश्रौ ८, ४, ३; आपश्रौ ११, ६,
११; बौश्रौ; ऋँत, >ता आपश्रौ
१, १०, ६; १९, २०, १०^d; बौश्रौ

३, ११; १९××; १३, २१ : ४^d;
भाश्रौ; माश्रौ ५, १, ८, ११^d; हिश्रौ
२२, ३, २७^d; वृदे ८, १४ⁱ; शुञ्ज
२, २८^h; अञ्ज ३, १९ⁱ; या ७,
२; ऋँप्रा ८, ३१ⁱ; शुप्रा ३,
१२९ⁱ; प्रायन् या ५, २५^h;
प्रेयात् काश्रौ २५, ८, ८; वाधूश्रौ
२, ९ : ५; द्राश्रौ; प्रेयाम् लाश्रौ
८, ८, १.
ऋँप्रेयुः अञ्ज ५, ८; ११, १०.

प्र-यत् -यतः या ३, २^g; -यति
कौसु ६, ३^h; -यन्तः माश्रौ १,
७, ४, ३५; -यन्तम् वृदे ७, १९.
२प्रा(प्र-अ)य^h -यम् अप्रा २, ४,
१६^h; -ये आपश्रौ १२, २४,
१६^h.
प्राया(य-अ)नाशक-शास्त्रा(स्त्र-अ)
मि-विषो(ष-उ)द्वको(क-उ)-
द्वन्धन-प्रपतन- नैः गौध १४,
११.

१प्रा(प्र-अ)यण^h -णम् वाधूश्रौ ३,
१० : २; हिश्रौ १६, १, ३३^h;
जैश्रौ १६ : ८; निसु.
प्रायण काल- ल्ले गौषि १, १, १.
प्रायण-तसु(ः) निसु ४, ५; १; २.
प्रायणा(ण-अ)र्थ- र्थम् निसु ७,
२ : २०; -र्थे निसु ४, १२ : ३०;
१३ : २.
प्रायणीय, या^h -यः आश्रौ ८,
१३, ३१; ११, १, २××; शाँश्रौ;
-यम् आश्रौ १२, ६, ३; शाँश्रौ;
-यया आश्रौ ६, १४, २; शाँश्रौ ८,
१२, १; आपश्रौ; -यस्य आपश्रौ

१३, २३, ५; काठश्रौ १६०; बौश्रौ;
-या आश्रौ ४, ३, १; शाँश्रौ ५,
४, ७; बौश्रौ; -यात् आश्रौ ११,
२, १०; काश्रौ; -याम् आश्रौ ६,
१४, ५; बौश्रौ ६, १० : १४××;
-यायाः आपश्रौ १०, २१, १××,
बौश्रौ; -यायाम् आपश्रौ १०,
४, १०; ११^g; २२, ९, २०;
बौश्रौ; -ये शाँश्रौ १०, १, १२;
काश्रौ; -येन बौश्रौ ९, ५ :
१०^g××; माश्रौ.

प्रायणीय-चतुर्विंश- शसु^m
वैताश्रौ ३१, ७; -शो आश्रौ ११,
७, २०.

प्रायणीयचतुर्विंश-वर्जम्
वैताश्रौ ३१, ८.

प्रायणीय-वत् आपश्रौ २१,
१३, १; वैश्रौ १६, २७ : ५.

प्रायणीय-स्थान- नै आश्रौ
११, २, १२.

प्रायणीय-स्थाली- स्थाम्
वैश्रौ १६, २७ : ६.

प्रायणीय-हविष्कृद्-अन्त^m-
न्ते काश्रौ १७, २, ६.

प्रायणीया(या-आ)तिथ्यो-
(थ्या-उ)पसद्- स्तसु काश्रौ
२२, ९, ३.

प्रायणीया(य-आ)दि- दि
वैश्रौ १२, १५ : ४; वैताश्रौ २८,
२९.

प्रायणीया(य-अ)न्त- न्ते
काश्रौ १७, २, ७.

प्रायणीया-प्रभृति- -ति माश्रौ

a) पांमे. वैप १, २१३५० द्र.। b) पांमे. पृ ७८३ h द्र.। c) पांमे. पृ ७८३ m द्र.। d) पांमे.
वैप १, २२५० b द्र.। e) पांमे. वैप १, २२४९ r द्र.। f) वैप २, ३ खं. प्रेहि तैआ ४, ८, ४ टि. द्र.। g) वैप
२, ३ खं. प्रेहि तैआ २, ७, ८, १ टि. द्र.। h) वैप १ द्र.। i) पांमे. वैप १, २१९७ k द्र.। j) = काल-। उप.
कर्त्तरिः कृत इति भाष्यम्। k) भाप. (प्रारम्भ-), नाप. (सृत्यु-).। l) विप., नाप. (याग-, इष्टि-)। m) समा-
हारे द्रस.। n) सस. > षस.।

६, १, ५, २५; वाश्रौ २, १, ४, ३१; -तिषु हिश्रौ ७, १, ७६.

प्रायणीया(य-आ)रम्भणीय-
-यौ बौश्रौ १६, १४: १०: ३६: १०×४.

प्रायणीया-वत् आश्रौ ४, १, २५; काश्रौ १०, ९, ११; आपश्रौ १३, २३, १; वैताश्रौ २४, ८.

प्रायणीयो(य-उ)द्वयनीय-
-ययो: आश्रौ १२, ७, ७; शाश्रौ १०, १, १८; आपश्रौ २१, १३, ७१; २३, ७; बौश्रौ: -याभ्याम् बौश्रौ २६, १५: २; -ये या १३, ७; -यौ शाश्रौ १२, ६, १; आपश्रौ.

प्रायणीयोदयनीय-वर्जम्
काश्रौ १०, १, १७.

†२प्रा (प्र-अ) यण^१ - गाय आपश्रौ २०, ६, २; ११, २; बौश्रौ १५, ६: २४.

प्रे(प्र-इ) त, ता^१ - ०त पाण्डु ३, १०, २८; बौपि २, ९, १३; -त: काठश्रौ १५; पाण्डु; †बौपि २, ९, ५^०; ११, २^०; -तम् माश्रौ ५, २, ६, १९^१; निस् २, ९: ३४; आण्डु; -तस्य शाश्रौ ४, १४, ४; वाघूश्रौ ३, ३०: ६; आण्डु; -†ता बौपि २, ९, ५×४; -ता: आश्रौ २, ६, १६^१; वाश्रौ १, २, ३, २९^१; आमिण्डु; -†०ता: आमिण्डु ३, ४, १: १८; बौपि ३, २, ९; ३, १; वैण्डु ५, ३: ९; गौपि १, २, ११; -तात् विध २२, ८६; -तानाम् अप ३६, १, ७; गौध २८, २८; -ताम् बौपि २,

९, ६; ११, ३; -ताय पाण्डु ३, १०, २१; २७; ४९; वैण्डु; -ताया: वैण्डु ७, ४: ६; शंघ २९५; -†तायै बौपि २, ९, ५; ११, २; -ते आश्रौ ९, ११, २३; लुण्डु, १: १२; कौण्डु ३, १४, १७^०; ५, १, ७; शांण्डु ४, २, ७; पाण्डु ३, १०, २; १४; हिपि २०: ६; गोण्डु १, १, १२; ३, ३, २३; द्राण्डु २, २, २९; कौण्डु ८०, ६; वाघ ४, ३४; ३६; ७, ५; १३, ३९; १९, २९; बौध १, ५, ९३; विध ५, १८६; ६, २७; २८, ४४; गौध १६, ३२; २८, २९; -०ते बौपि २, ९, १३; -तेन अप ६८, २, ४५; -तेभ्य: आश्रौ २, ६, १८; काश्रौ ४, १, २३; -तेषु वाघ ११, २४; आपघ २, १५, २; हिध २, ३, ३२; -तौ विध ७५, ५.

प्रेत-क^१ - के आमिण्डु ३, १०, २: ११; वैण्डु १, ६: ८; ६, ४: ३; ७, ५: ७; वैध २, १४, १७.

प्रेत-कर्मन् - मं गौपि १, ३, ८; -र्मणि वैण्डु ७, ४: १७; -र्मणि गौध २०, २; १५.

प्रेतकर्म-च्छेद - द: वाघ २३, १४.

प्रेत-कार्य - र्याणि शंघ २९४; ४४०.

प्रेत-क्रिया - याम् वाघ २३, १६.

प्रेत-वृत्ति - सि: बौपि २, १०, ३; -सिम् बौपि २, १०, ५.

प्रेत-त्व - त्वम् शंघ ३५६.

प्रेत-धूम - मम् वैध ३, ३, १.

प्रेत-नामगोत्र - त्राभ्याम् विध २१, ४.

प्रेत-निमित्त - त्तम् वैण्डु ७, ७: ४.

प्रेत-पक्ष^१ - च्चे शंघ २३९; २४०.

प्रेत-पति - ति: अप ६७, ३, ५.

प्रेत-पत्नी - ली आमिण्डु ३, ६, २: ७; बौपि १, ९: १६; हिपि ८: १०; वाघ १७, ५५; बौध २, २, ६०.

प्रेत-पात्र - त्रम् शांण्डु ४, ३, ६; आमिण्डु ३, ११, ३: ३; २२; बौपि २, ११, ८; १२, २; माण्डु.

प्रेतपात्रो(त्र-उ)दक - कम् वैण्डु ७, ८: ८.

प्रेत-पाद्य-पात्र - त्रे विध २१, १४.

प्रेत-पिण्ड - ण्डम् आमिण्डु ३, ११, ३: १५; २३; बौपि.

प्रेत-पिण्ड-क्रिया - वर्जम् शंघ ३५१.

प्रेत-पितृ^१ - ता माण्डु २, १, १.

प्रेत-पूजा - जा वैण्डु ४, ७: १०.

†प्रेतबन्धक - कम् वैध ३, १५, ११^१.

प्रेत-राज - जाय गौपि १, ६, ७^१.

प्रेत-लोक-गत - तस्य विध २०, ३३.

प्रेत-विधान - नम् आमिण्डु ३, ११, ४: ४१; बौपि ३, ७, १.

प्रेत-श्राद्ध - द्धे काण्डु ४५: ६; -द्देषु आमिण्डु ३, ३, १: ९; १४.

प्रेत-संस्कार - रम् बौपि ३, ८, २.

a) वैप १ द्र.। b) = [प्रायेण] मृत-। c) पाभे. पृ १५७३ I द्र.। d) पाभे. वैप १ इयेनम् तै २, ४, ७, १ टि. द्र.। e) ष्त: इति पाठ: ? यनि. शोध: (तु. शांण्डु ४, २, ७)। f) स्तार्थे क: प्र.। g) = पितृ-पक्ष-। h) वस.। i) पाठ: ? प्रेतम् अबन्धुकम् इति C. शोध: (तु. मनु: [१०, ५५])।

प्रेतसंस्कार-विधि- -धिम्
 आसिण् ३,१०,४ : २.
 प्रेत-संकलम् -सम् आपध १,
 १०,२८; हिध १,३,५५.
 प्रेत-स्नान- -ने कप्र १,१०,७.
 प्रेत-स्पर्शिन- -र्शिनः पाण् ३,
 १०, ३५; -र्शिनम् कौण् ३,११,
 ३७; शाण् ४, ११, ५; -र्शिन
 शाण् ४,७,४७.
 प्रेत-स्पृष्ट- -शानि शंघ ३४५.
 प्रेता(त-आ)कार- -रम् बौपि २,
 १०,२.
 प्रेता(त-आ)ग्नि- -ग्निषु माश्रौ ३,
 ८,४.
 प्रेता(त-आ)धान- -नम् गौपि
 १,१,२५.
 प्रेता(त-आ)नुगत-मा(र्ग>)
 गर्गा- -र्गाः अय ५८^२,४,११.
 प्रेता(त-आ)नुगमन- -नम् विध
 २२,६५; वृदे ७,१४.
 प्रेता(त-आ)न्न- -न्ने आपध १,
 ११,२५; हिध १,३,७५.
 प्रेता(त-आ)प्यायन-काल- -लः
 वैण् ५,१४ : ३.
 प्रेता(त-आ)र्थ- -र्थम् वैण् ७,८ : १.
 प्रेता(त-आ)लंकरण- -णे शंघ
 ३६२.
 प्रेता(त-आ)लंकार- -रान् आश्रौ
 ६,१०,१.
 प्रेता(त-आ)वाहन- -नात् बौपि
 २,११,४.
 प्रेतावाहना(न-आ)न्त^०-

-न्तम् बौपि २,१०,२.
 प्रेता(त-आ)शिस्- -शिषः वृदे
 ६,१५८.
 प्रेताहार^०- -रैः विध २२,८५.
 प्रेता(त-आ)हुति- -तिम् बौपि
 २,१०,२; -तीः आसिण् ३,९,
 २ : ६१; बौपि २,५,५.
 प्रेतो(त-उ)पस्पर्शन- -ने गौध
 १४,२२.
 प्रे(प्र-इ)ति^d- -तिः वैताश्रौ २०,
 १३^०.
 प्रैति-वत्- -वन्ति आपधौ
 १४,१९,४; बौश्रौ १४,४ : २९;
 वैश्रौ २१,५ : १०; हिश्रौ १५,
 ५,१८.
 प्रे(प्र-इ)त्य् अप १०, १, २१; वाध.
 प्रे(प्र-इ)यत्- -यन् वाधूश्रौ ४,२६^५;
 १६.
 प्रे(प्र-ए)ष्यत्- -ष्यन् आश्रौ ४,
 १५,८^१.
 प्रेहि> ०हि-कटा^०-, ०हि-कर्दमा-,
 ०हि-द्वितीया-, ०हि-वाणिजा-,
 ०हि-स्वागता- पा, पाग २, १,
 ७२.
 प्रे(प्र√ई), प्रै (ईमहे) आश्रौ ४,१३,
 ७; शाश्रौ ६,४,७; १४, ५३,५;
 ऋश्र २,१,३६; ३,१६; ऋप्रा.
 प्रे(प्र√ई)क्ष्, प्रेक्षते काश्रौ २, ३,
 १६××; आपधौ; प्रैक्षे^१ आपधौ
 १,१७,९; ३,१९,५; बौश्रौ १,
 ५ : ३; १२; भाश्रौ १,१९,९;
 माश्रौ १,२, १, २९; वाश्रौ १,

२,४, २७; हिश्रौ २, ८, १९;
 प्रैक्षथाः काश्रौ ८, ४, २७^१;
 प्रेक्षेत बौश्रौ २५,१ : २१^१; काण्
 १,१८; माण्; प्रेक्षेत् द्राण् २, ३,
 २०××; प्रेक्षेरन् काठश्रौ ८५.
 प्रेक्षयति काश्रौ १९, २, ३०;
 प्रेक्षयेत् जैण् १, २१ : ३३^१.
 प्रे(प्र-ई)क्षक- -कान् माण् १, १२,
 १; जैण् १, २१ : ३१.
 प्रे(प्र-ई)क्षण- -णम् माश्रौ २, १, ३,
 ५५.
 प्रेक्षण-प्रतिप्रेक्षण- -णयोः आपध
 १, ९, ११; हिध १, ३, ११.
 प्रे(प्र-ई)क्षत्- -क्षन् द्राण् ३, २, १०;
 १२.
 प्रे(प्र-ई)क्षमाण,णा- -णः आपधौ
 १५, २१, ८; बौश्रौ ३, २७ :
 २४; २, २० : १८; भाश्रौ; -णम्
 काश्रौ ८, ४, २४; वाण् ५, २०;
 माश्रौ २, ३, ७, ३; -णाम् वाण्
 १४, २३; -णे द्राण् २, ४, ११;
 ४, १, १३^१.
 प्रेक्षमाण-समीक्षण- -णे माश्रौ
 ४, ३, ४२.
 प्रे(प्र-ई)क्षित- -तम् गौध १७, ११^१;
 सुधप ८८ : ३.
 प्रे(प्र-ई)क्ष्य शाश्रौ १, ६, ११; बौश्रौ
 २०, ५ : ३१; वैश्रौ.
 प्रे(प्र-ई)क्ष्य- -क्ष्यः सु ५, ५.
 प्रे(प्र-ई)क्ष्यमाण> ०णा- -णाम् सु
 २६, २.
 प्रेक्षा- पाग ४, २, ८०; ६, २, ८५^१.

a) वृत्स.> वस. b) वस. । c) नाप. (शव-वाहक) । उस. उप. (√वह [प्रापणे]> कर्तरि) *वहार-> नैप्र. *अहार- इति वा *वाह-कार- > नैप्र. *आहार- इति वा (वैतु. मेधातिथिः [मनुः ५, ६४] पूष. दीर्घः उंस. [पा ६, ३, १२२] इतीव इ) । यनि. > नैप्र. प्रेतहार- (तु. मनुः [निसा.] इति कृत्वाऽऽर्वाकरोऽसौ पर्याय इति । d) वैप १ द्र. । e) पाभे. वैप १, २२५१ h द्र. । f) ०ष्यत्स्व^० पाठः? यनि. सोधः (तु. आन.) । g) प्रोह-कटा- इति पाका. । h) पाभे. वैप १, २१६२ f द्र. । i) पाभे. पृ ३६४ i द्र. । j) सपा. विध ५१, १७ अवे-क्षितम् इति पाभे. । k) प्रेक्षाक- इति पासि., पुंसा- इति पाका. ।

प्रेक्षिन्- पा ४, २, ८०.
 प्रे(प्र√ई)ङ्स्, प्रेङ्गयत् शांश्रौ १७,
 १६, ७१.
 प्रे (L, ल्ले^१ प्र, प्ल-ई)ङ्स्, ङ्स्^२ -ङ्स्
 शांश्रौ १७, १७, ४; १८, २१, ५;
 आपश्रौ २१, १७, १३; बौश्रौ १६,
 २० : ४; २१ : ३; वाश्रौ ३, २,
 ५, ५२; हिश्रौ १६, ६, १०;
 -ङ्गयोः बौध २, ३, ३५; -ङ्गाः
 अश्र ४, ३७१; -ङ्गे काश्रौ १३,
 ३, २; -ङ्गौ आपध १, ३१, १४;
 हिध १, ८, ३६.
 प्रेङ्ग-फलक- -कम् शांश्रौ १७,
 १, २; १०, १०××; -कत् शांश्रौ
 १७, १५, १२; -के शांश्रौ १७,
 १५, ११; १६, ७.
 प्रेङ्ग-मिश्र- -श्रम् शांश्रौ १७,
 ७, ११^३; १८, २४, १४.
 प्रेङ्ग-स्थूणा- -गाम् शांश्रौ १७,
 १०, ११; १२; ११, ४; -णायाम्
 शांश्रौ १७, १०, १६.
 प्रेङ्गा-ताण्डव- > ण्डव-विहार-
 चित्रदर्शना(न-अ)ङ्गरागो(ग-उ)
 दान-यान-विवृतशयनो(न-उ)ङ्क-
 छपानभोजन-कन्दुकक्रीडा-धूप-
 गन्ध-मालया(व्य-अ)लंकार-दन्त-
 धावना(न-अ)ज्जना(न-आ)दि-
 -दीनाम् शंघ ३४१.
 प्रेङ्गा(ङ्ग-अ)वट^४ - -टौ शांश्रौ
 १७, १०, २; ४.
 प्रेङ्गोल^५ - > √प्रेङ्गोलि > प्रे-
 ङ्गोलन- नम् आपध २, २०,
 १३; हिध २, ५, १००.

प्रे(प्र-ई)ङ्गण- -णे माश्रौ ४, ३, २१.
 प्रे(प्र√ई)ङ्, ङ्, ङ्(ईडे) आश्रौ ३, ८,
 १; ८, ८, ४; वैश्रौ १६, १५ :
 ११; ऋश्र २, ७, ५३; वृदे ६, २.
 प्रेणी- √प्री द.
 प्रेत-, प्रति- प्रे(प्र√इ) द.
 प्रेत- √प्री द.
 प्रेत्य प्रे(प्र√इ) द.
 प्रे(प्र√इ)ष् > ङ्(प्र-इ)द- -दः
 आश्रौ २, १, ३०; शांश्रौ २, २,
 १५; आपश्रौ.
 प्रेधा^६ माश्रौ १, ८, ३, २६१.
 प्रेप्सत्- प्रम्. प्रा(प्र√आ)प् द.
 प्रेत्यत्- प्रे(प्र√इ) द.
 प्रे(प्र√ई)र्, प्रेरते आपधं २, १७, ४१;
 ङ्(प्र-इ)रते आश्रौ २, १८, ४;
 शांश्रौ १२, १४, १; हिश्रौ १२,
 ६, ६; प्र(ईरते) शांश्रौ ३, १५,
 ९१.
 प्रेरयति बौश्रौ १, १ : ११; या
 १४, १४; पाशि ६; प्र-इरयति
 या १४, १४१; प्र(ईरयामि)
 आश्रौ ३, ८, ११; ङ्(इरय), >
 या अपधं २ : ६१; ऋपा ८, ३०;
 ङ्(इरय) आश्रौ ४, १३, ७; ८,
 ११, ४; शांश्रौ.
 प्रे(प्र-ई)रि(त>)ता- -ताः वैश्रौ ३,
 ३ : ६.
 प्रे(प्र-ई)रितवत्- -वत्तः या ७, २६;
 ११, ४८.
 प्रे(प्र-ई)र्वन्- पाठ ४, ११७.
 प्रेत्वेरीपाः^७ वाश्रौ १, २, १, ९.
 √प्रेष् पाधा. भ्वा. आत्म. गतौ.

प्रे(प्र√इ)ष्(गतौ), प्रेषयति आश्रौ ३,
 २, ४; ६, १४; शांश्रौ ५, १६,
 ४××; ७, ८, २१^८; काश्रौ;
 आपश्रौ २२, १६, ९१^९; हिश्रौ
 १७, ६, ३३१; प्रेष्यतः काश्रौ ९,
 १३, १३; वैश्रौ १०, २१ : ६;
 ङ्(इष्ये) आश्रौ ८, ८, ४; ऋश्र २,
 ४, ३३; ३, २४; वृदे ५, १; ङ्(इष्य
 आश्रौ ३, २, १०××; शांश्रौ;
 पा २, ३, ६१; ८, २, ९१; ङ्(इष्य
 ऽप्रेष्य आपश्रौ ७, १४, ७; २६,
 १३; बौश्रौ; प्रेष्येत आश्रौ ८, १,
 ६; काश्रौ १४१; बौश्रौ.
 ?अप्रेषीत्^{१०} अश्र ६, १३४.
 प्रेषयस्व तु ८, १.
 ङ्(प्र-इ)ष्- प्रेषा ऋश्र २, ९, ९७;
 ३, २९.
 प्रे(प्र-ए)षण^{११} (> प्रेषणिक- पा.)
 पाठ ४, ४, १२; ५, १, ६४.
 प्रे(प्र-इ)षित- -तः आश्रौ १, १, २७;
 ५, ३××; काश्रौ; या ८, ८; -तः
 ऽ-तः आश्रौ ५, ५, १५; ८, ४;
 -तस्य विध ५, ११२; -तः
 आपश्रौ १२, १०, २; वैश्रौ १५,
 ११ : १८; हिश्रौ; -ते काश्रौ ५,
 ५, ५; हिश्रौ ३, ७, ५; कौस्
 ११४, २१.
 प्रे(प्र-इ)ष्य^{१२} - -ष्यः गौध ६, १३;
 -ष्यम् हिण् १, १४, २; -ष्याः
 काट् ६५, ८; बौण्; -ष्यान्
 बौध १, ५, ८०; -ष्येषु अप ७१,
 १७, ६.
 प्रेष्या(ध्य-अ)न्तेवासिन्- -सिनः

a) आपश्रौ. बौश्रौ. वैश्रौ. हिश्रौ. आपध. पाठः । b) वैप १ द. । c) पूष. = प्रेङ्गबन्धनार्थ-
 रज्ज्वादि- इति भाष्यम् । d) मलो. कस. । e) प्रेङ्ग-दोल- [तुस.] > नैप्र. यनि. । f) वैप १ द. ।
 g) पाठः ? शोधः वैप १, २२५२ g द. । h) पाप्मे. वैप २, ३३३. यजन्ते शांशा १३, ९ टि. द. । i) प्रै इति
 पाठः ? यनि. शोधः (तु. हिश्रौ १७, ६, ३३) । j) पाठः ? प्रेषीत् इति शोधः संभाव्येत । k) उप. भावे करण
 च क्त. । l) विप., नाप. । उप. क्यप् प्र. (तु. PW. प्रम्; वैतु. पाशि. [पाना ६, १, ८८] < प्रे(प्र√ई)ष् इति) ।

ह्रिष् १, २२, १४^क.
 प्रेष्या(ष्य-अ)मात्य- न्त्याः
 हिश्रौ ५, २, ३४.
 प्रेष्या(ष्य-अ)र्थ-र्थे ऋत ३,
 ४, ७.
 प्रेष्या(ष्य-अ)हृत- -तम् गौघ
 ९, ५७.
 प्रै(प्र-ए)ष^१- पावा ६, १, ८८; -षः
 आश्रौ ३, ४, ३; ९, ३××;
 शाश्रौ; वृदे १, ३५; ५७;
 -षम् आश्रौ ३, २, १०××;
 माश्रौ; -षाः आश्रौ ३, २, २;
 ४, ८××; शाश्रौ; या ५, ३;
 -षात् आश्रौ ३, १, २१; काश्रौ
 १०, १, १५; भाश्रौ ८, २, ५;
 -षान् आश्रौ ३, १, २०; शाश्रौ;
 -षाय बौध ३, ८, ६; -षे
 माश्रौ २, ४, २, ४××; हिश्रौ;
 -षेऽ-षे जैश्रौका २०७; -षेण
 आश्रौ ५, ४, ५; आपश्रौ २१,
 ७, १५; माश्रौ २, ४, २, ११;
 हिश्रौ १६, ३, ३४; -षेषु आश्रौ
 ४, १, १३; शाश्रौ; -षैः आश्रौ ३,
 २, ४; वाघुश्रौ ४, १९ : ३४;
 वृदे २, १५२; -षौ आश्रौ ५, ५,
 ३; ६; शाश्रौ ७, २, ३.
 प्रैष-कर- -रः आपध १, १८,
 २८^७.
 प्रैष-कार- -रः बौश्रौ १, ९ : ५.
 प्रैष-कृत्- -कृत् भाए १, ७ : ३;
 १५ : ३; कौस् २६, ४××; हिघ
 १, ५, ९६^७; -कृतः लाश्रौ ९, ८,
 ६; -कृतम् कौस् ८७, ५; १२;

-कृते अप ४, ४, ४.
 प्रैष-नात्- -तम् वृदे २, १५४.
 प्रैष-चरण- -णम् निस् १०,
 ११ : ४.
 प्रैष-दर्शन- -नात् काश्रौ १९, ४,
 ३.
 †प्रैष-निविद्- -विदः आपश्रौ
 १६, ३२, ४; वैश्रौ १८, २१ : ११.
 प्रैष-प्रतीक-याज्य^८- -ज्याः
 आपश्रौ ८, २, १५.
 प्रैष-वचन- -नात् आश्रौ ३,
 १, १८.
 प्रैष-वत्- -वन्तः बौश्रौ १७,
 ५५ : १२; ५६ : १२; १८××;
 -वन्तौ बौश्रौ १७, ५७ : २८;
 -वान् बौश्रौ १०, ५५ : १२;
 ५९ : ७××; वाश्रौ १, ७, ५,
 २२^९.
 प्रैष-वर्जम् आपश्रौ ८, ३, १.
 प्रैष-शेष- -षम् वैश्रौ १६, १८ :
 ५.
 प्रैष-संनिधान- -नात् मीस् ३,
 ७, ४५.
 प्रैष-स-लि(ङ्ग>)ङ्गा^९- -ङ्गभिः
 आश्रौ ३, २, ५.
 प्रैष-सूक्त- -क्तम् आश्रौ ३, २,
 ३; ६, १२; ५, ८, ३; वृदे २,
 १५२; १५४.
 प्रैषा(ष-अ)तिसर्ग-प्राप्तकाल-
 -लेषु पा ३, ३, १६३.
 प्रैषा(ष-अ)दि- -दिः आश्रौ ३,
 ८, ७; -दिषु पावा ३, ३, १६३.
 प्रैषा(ष-अ)नुवचन^१- -नम् मीस्

३, ७, ४४.
 †प्रैषा(ष-अ)नुवाचन- -ने काश्रौ
 १, ९, १६.
 २प्रैषा(ष-अ)नुवाचन^१- -नयोः
 काश्रौ १०, ४, ११.
 प्रैषा(ष-अ)न्त- -न्ते शाश्रौ ७,
 ८, ६; आपश्रौ १२, २७, ७.
 प्रैषिक^१- -क्तम् या ८, २२.
 प्रैषो(ष-उ)त्त(र>)रा^१- -नया
 आपश्रौ २१, ७, १५.
 प्रैषो(ष-उ)पचय- -यः काश्रौ
 १०, १, १८.
 प्रै(प्र-ए)षण- -णम् आम्रिष् २, ७,
 ११ : १८^१; -१णान् चाअ ४१ : १५
 प्रैषणी^१- -ण्याः अप्रा २, १,
 ११; ३, २०; ३, ३, १९.
 प्रै(प्र-ए)ष्य- पावा ६, १, ८८.
 प्रैष्यो(ष्य-अ)कार- -रौ हिश्रौ
 २१, २, ३४.
 †प्रैष्ट^१- -ष्टान् वाश्रौ ३, १, २, ३.
 †प्रैष्टनी^१ आम्रिष् ३, ७, २ : ९.
 प्रैष्यत्- प्रैहि-कटा- प्रष्ट. प्रै(प्र√इ)
 द.
 प्रैषक- प्रियक- द.
 प्रैषङ्गव- प्रियङ्गु- द.
 प्रैषमेघ- प्रैषरूपक- √प्री द.
 †प्रैष्यन्^१ अप्रा २, ४, १५^१.
 प्रो(प्र-उ)क्त- प्र√वच् द.
 प्रो(प्र√उ)क्ष्, प्रोक्षति काश्रौ २, ७,
 १६; ५, ३, ३२××; आपश्रौ;
 प्रोक्षतः बौश्रौ ५, ६ : १; २^३;
 प्रोक्षन्ति बौश्रौ १५, ५ : १७;
 १९; २४; २६; २६ : १६; प्रोक्षे

a) वैप १ द. । b) सपा. ँकरः <> 'कृत् इति पाभे. । c) बस. > कस. । d) 'चन् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. बौश्रौ १०, ५९ : ७) । e) तुच. > बस. । f) समाहारे द्वस. । g) द्वस. । h) तात्रमविकृष् ठक् प्र. । i) बस. । j) णे इति संस्कर्तुः टि. । k) = लोट-लकार- । l) विप. > नाप. (अश्व-) । व्यु. ? । m) प्रोष्टिनीम् इति शोधः विमृश्यः (तु. आपश्रौ १८, ६, ४) । सपा. बौपि १, १७ : २९ †प्रोष्टान् इति पाभे. । n) पाभे. वैप १, १७१७ C द. ।

आपश्रौ ३, १९, ३; ऋक्षामि
शांश्रौ ४, १७, ८; काश्रौ ६, २,
१६५; आपश्रौ १, १९, १^a; ७,
१३, १०^bxx; काश्रौसं; बौश्रौ
१, ६: ८^a; ४, ५: २०^b; माश्रौ
७, १०, १०^c, माश्रौ १, २, २, २^a;
वाश्रौ १, २, ४, ३८^b; वैश्रौ १०,
१०: १३^b; हिश्रौ ४, ३, २०^b;
कौसू २, १५^a; ऋक्ष काश्रौ २,
२, ९; आपश्रौ ३, १९, ३; माश्रौ;
प्रोक्षेत् आपश्रौ १२, ३, ५xx;
बौश्रौ; प्रोक्षेयुः आपश्रौ २०, ८, २.
प्रोक्षिष्यामि आपश्रौ १, १९, १;
माश्रौ १, २०, १०xx; वाश्रौ;
प्रौक्षीः बौश्रौ २४, २५: १२.
प्रोक्ष्यते आश्रितृ १, १, १: २०^d.
प्रोक्षयति वैगृ १, ३: १०; ७:
११xx; प्रोक्षयेत् आश्रितृ २, ३,
४: ८; ५, २: १३; वैगृ.
प्रो(प्र-उ)क्ष^e-क्षे हिश्रौ १, १, ३८;
२, ८, १४; -क्षेण बौश्रौ १५,
२६: १४.
प्रोक्षा(क्ष-आ)दि^f-दि आपश्रौ
५, २०, ५; ६, २९, १४.
प्रोक्षा(क्ष-अ)न्त,न्ता^g-न्तम्
माश्रौ १२, ५, १०; -न्ताम्
आपश्रौ ७, ६, ३; माश्रौ ७, ४, ५;
६, १^h.
प्रो(प्र-उ)क्षण-णम् शांश्रौ ४, २०,
४; काश्रौ २, ३, ३५; ८, ६, २६;
आपश्रौ; -णात् माश्रौ १२, ६,
५; माश्रौ; -णे काश्रौ ६, ३, २०;
आपश्रौ ७, १२, ९; बौश्रौ २०,

४: ६xx; -णेन बौश्रौ २५,
३०: १४; माश्रौ १, ५, ५, १९;
अप; -णैः वैगृ २, १२: ३xx.
प्रोक्षणी^b-णीः काश्रौ २,
३, ३९; ६, २५xx; आपश्रौ;
-णीनाम् आपश्रौ ८, १४, ३xx;
बौश्रौ; -णीभिः काश्रौ ६, ३,
२७; बौश्रौ ४, २: ४१xx;
माश्रौ; -णीभ्यः काश्रौ २, ७, ५;
-णीम् माश्रौ १, १, ३, १; वाश्रौ;
-णीषु बौश्रौ १, १२: ४९xx;
माश्रौ; -ण्यः बौश्रौ २४, २५:
११ⁱ†; ३६: ४; २५, २: ५.
प्रोक्षणी-कुम्भ-म्भे
वैश्रौ ९, ४: ११.
प्रोक्षणी-धान^j-नम्
बौश्रौ १, १३: १३; ४, ५: २३;
११, ३: ३५.
प्रोक्षणीधानी^k-नी
माश्रौ ११, ५, १२; वैश्रौ १३, ७:
११; १७: ३†; हिश्रौ २४, २,
५; -नीम् आपश्रौ १५, १५, १;
माश्रौ ११, १५, ७; हिश्रौ २४,
६, १२; -न्याः आपश्रौ १५, ५,
१०; -न्याम् माश्रौ ११, ६, १.
प्रोक्षणी-पात्र-त्रम् बौपि
२, ९, २; मागृ १, २: १०.
प्रोक्षणी-भाजन-नम्
आपश्रौ ८, १३, १७.
प्रोक्षणी-वत् आपश्रौ १,
१६, ५; २४, ३; वैश्रौ ४, ९: १२.
प्रोक्षणी-शेष-षम्
आपश्रौ १, १९, ३; २, ८, ३xx;

८, १०, ५^l; वाश्रौ १, ३, ३, ६^l.
-षेण बौश्रौ २४, ३६: १५; वाश्रौ
१, ६, ३, १८; वैश्रौ ८, १०: ७.
प्रोक्षणी-संस्कार-रः
आपश्रु १, १९.
प्रोक्षणी-हस्त^m-स्तः
बौश्रौ २५, १२: ६; १५: १९.
प्रोक्षण्य(णी-अ) भिमन्त्र-
णा(ण-आ)दि-दि वैश्रौ १४,
१७: ५.
प्रोक्षण्य(णी-अ) वनय-
न->न-यवप्रासन-बर्हिणवस्तर-
ण-सुवाभिहोम-मान् वैश्रौ
१४, ८: १२.
प्रोक्षण्य(णी-अ)वशेष-
षम् माश्रौ ८, ११, २२; १२, २,
२०; हिश्रौ १, ७, ५९xx.
प्रोक्षण्यु(णी-उ)च्छेष-
षम् वैश्रौ १०, ५: २^m.
प्रोक्षण्यु(णी-उ)द्विकⁿ-
क्षेण आपश्रौ ८, १३, १८; माश्रौ
८, १५, १६; हिश्रौ ५, २, २५;
४, २०.
प्रोक्षण-काल-ले वैश्रौ १८, ४:
६.
प्रोक्षण-कूर्च^o-र्चम् वैगृ १,
८: ७.
प्रोक्षण-तसः(ः) बौश्रौ १०, १०:
११.
प्रोक्षण-प्रभृति-ति बौश्रौ २४,
३५: ३; माश्रौ १, ८, १, २२;
२, २, २, ४; -तिना बौश्रौ २६,
६: ४; -तीनि वैश्रौ १, १५:

a) पामे. वैप १, २२५४ g द्र. । b) पामे. वैप १, १२३८ b द्र. । c) पामे. वैप १, २२५४ h द्र. ।
d) पाठः? न्ते इति शोधः । e) उप. भावे प्र. । f) बस. । g) न्ता इति पाठः? यनि. शोधः (तु. पूर्व
स्थलम्) । h) नाप. (रअप- [उपचारात्] पात्र-) । उप. करणे कृत् । i) षि^o इति पाठः? यनि. शोधः †
j) नाप. (पात्र-) । कास. उप. अधिकरणो कृत् । k) =सुग-भेद- । l) परस्परं पामे. । m) षाम् इति पाठः?
यनि. शोधः । n) =प्रोक्षणी-शेष- । o) मलो. कस. ।

५; हिश्रौ ३, ५, १०.
 प्रोक्षण-मार्जन- -ने हिश्रौ २२,
 ३, ७.
 प्रोक्षणा(रा-आ)दि- -दि काश्रौ
 ८, ८, २३; काठश्रौ ८८; आगृ ४,
 ८, १६.
 प्रोक्षणा(रा-अ)वशेष^१ - -षम्
 हिश्रौ ५, ३, १५^b.
 प्रोक्षणो(ण-उ)पाकरण-वर्जम्
 आगृ २, ४, १३.
 प्रोक्षणो(ण-उ)ल्लेखना(न-आ)
 दि- -दि वैगृ ४, १० : ६.
 प्रो(प्र-उ)क्षत्- -क्षन् आपश्रौ १,
 १८, १; ९, १०, ९; बौश्रौ;
 -क्षन्तम् माश्रौ ५, २, १५, १२.
 प्रो(प्र-उ)क्षमाण- -णानाम् विध
 ६८, ४६.
 प्रो(प्र-उ)क्षयित्वा आमिगृ ३, १०,
 २ : १३.
 प्रो(प्र-उ)क्षित, ता- -त्तम् ऋबौश्रौ
 १५, ७ : १८; २९ : ६; ७; जैगृ
 १, १ : ८^१; वैध २, १५ : ३;
 -ताः शांश्रौ १४, ६२, ३; काश्रौ
 २, ३, ३५^१; बौश्रौ; -तान्
 आपश्रौ २२, २०, १२; हिश्रौ
 १७, ७, २३; २५-२७; -तानाम्
 बौगृ ४, २, ५; -तानि आपश्रौ
 १५, ६, ५; माश्रौ ११, ६, ७;
 वैश्रौ; -ताभ्याम् काश्रौ ९, १०,
 ३; आपश्रौ १२, २२, २; बौश्रौ;
 -ताम् भागृ २, १६ : ७; हिगृ
 २, १५, ४; -तेषु वैश्रौ १०, ७ :
 ६; १५, ४ : ९; हिश्रौ २, ४,
 २९××; -तौ काश्रौ ९, १०,

११; आपश्रौ.
 ऋप्रोक्षिता(त-अ)प्रोक्षित- -तान्
 हिश्रौ ८, ७, १; ९, २, ५; -तैः
 बौश्रौ ७, १३ : ७; ८, ४ : ३;
 वैश्रौ १५, २७ : १४; १६, ४ :
 १२; -तौ काश्रौ ९, १०, ३^१.
 प्रोक्षिते(त-इ)धम-शकल-
 -लाभ्याम् माश्रौ २, ४, १, ९.
 प्रो(प्र-उ)क्षिप्यत्- -प्यन्तम् वाश्रौ
 १, १, ५, ११.
 प्रो(प्र-उ)क्ष्य आपश्रौ १, १०, १४××;
 बौश्रौ; आपध १, १६, ७^०.
 प्रो(प्र-उ)क्ष्यमाण- -णम् वैश्रौ ५,
 ५ : ७; हिश्रौ ६, २, ९; -णानि
 आपश्रौ १, ११, १०.
 प्रो(प्र-उ)च्य, च्यमान प्र^१वृ द.
 प्रो(प्र-उ)ढ- प्र^१वृ द.
 प्रो(प्र-उ)त- प्र^१वे द.
 प्रो(प्र-उद् >) त् ^१कृष > प्रोत्-कृ-
 (ष्ट>)ष्टा- -ष्टाः अप ५५, ६, ४.
 प्रो(प्र-उद् >) त् ^१फुल् > प्रोत्-
 फुल्ल- > ल्ल-कुमुदा(द-आ)
 कार^d- -राः अप ६८, १, ३३.
 प्रोत्फुलो(ल्ल-उ)प्यलकुन्देन्दु-
 कुमुदा(द-आ)भो(भ-उ)प्य-
 ल-द्युति^e- -तिः अप २४, ३,
 २.
 प्रो(प्र-उ)स्य प्र^१वे द.
 प्रो(प्र-उद् >) त् ^१सृज्, प्र^१उत्सृ-
 जन्ति हिश्रौ १४, ३, ५५^१.
 प्रोथ् पाधा. भ्वा. उभ. पर्याती.
 प्रोथ- पाउ २, १२; पाग २, ४, ३१.
 प्रोथत्- प्रथ्. ^१पुथ् द.
 प्रो(प्र-उ)दक^d- -कम् बौश्रौ १७, ३१ :

१५; गोगृ १, ३, ७; -कयोः आपध
 १, १०, २७; हिध १, ३, ५४.
 प्रोदकी^१√भू > प्रोदकी-भाव-
 -वात् आपध २, १९, ८; हिध
 २, ५, ८०.
 प्रो(प्र-उ)द् ^१यम्, ऋप्र(उदयस्त)
 आश्रौ ८, ६, १३; शांश्रौ ११,
 १४, १६.
 प्रो(प्र-उ)प^१स्त्वु, प्र^१उपस्त्वुहि बौधि
 १, १५ : ७^१.
 प्रो(प्र-उ)प^१स्त्वु, प्र^१उपस्त्वुहि
 आमिगृ ३, ८, १ : २८^१.
 प्रो(प्र-उ)पे(प^१इ), प्र^१उपयन्तु कप्र
 ८, ५^१.
 प्रो(प्र-उ)प्य प्र^१वृ द.
 प्रो(प्र^१उ)भू^१ > प्रो(प्र-उ)भ्यं शांश्रौ
 ४, १४, १३.
 प्रो(प्र-उ)र्णु, प्रोर्णुते काश्रौ ७, ३, २४;
 १०, ७, २; २६, ३, २; आपश्रौ;
 प्रोर्णोति बौश्रौ ४, ६ : ६२××.
 भाश्रौ; प्रोर्णोति काश्रौ ६, ६, ११;
 प्रोर्णुवन्ति आश्रौ ६, १०, ६;
 प्रोर्णुवीमि सु ११, ४; ऋप्रोर्णोतु
 आपश्रौ १९, १४, १३; बौश्रौ
 १९, ६ : १२; हिश्रौ २३, ३, ११;
 ऋप्रोर्णुवाताम्^१ माश्रौ १, ८, ४,
 १५; वाश्रौ ३, ४, ४, १५; ऋप्रोर्णु-
 वाथाम् कौसृ ४४, ३४^१; ऋप्रोर्णुवा-
 थाम् आपश्रौ ७, १९, १; बौश्रौ
 ४, ६ : ६२; माश्रौ ७, १४, १३;
 वैश्रौ १०, १५ : २; हिश्रौ ४, ४,
 १८; प्रोर्णुयात् बौश्रौ २५, ३२ :
 ५; ७××.
 प्रो(प्र-उ)र्णुत्वं वैश्रौ १६, १८ : १२^१;

a) पूष. = प्रोक्षणी-। b) पाभे. पृ १७७८। द्र.। c) पाभे. पृ ३२९ a द्र.। d) कस. > बस.।
 e) कस. > द्रस. > बस. > कस. > बस.। पाठः? तु. संस्कृतः टि. 'दाभोऽनल' इति। f) सष।
 आपश्रौ २०, १७, ५ उत्सृजन्ति इति पाभे.। g) मलो. बस.। h) पाभे. वैप १, २१८९ k द्र.। i) धा. वन्धने
 कृतिः। j) पाभे. वैप १, २२५५ f द्र.। k) पाभे. पृ ९१४ द्र.।

श्रीषादसाविरसि मागृ २, ७, ११.
प्रोषित- विवस्-प्र√वस् (यात्रायाम्)
द्र.

श्रीप्रोष्ठ- ष्टम् आपश्रौ २२, २८, ४;
बौश्रौ १८, १९: ४५; ५; हिश्रौ
२३, ४, ४४; बौगृ २, ४, ४;
-छान् बौपि १, १७: २९^७.

श्रीप्रोष्ठ-पादा- पा ५, ४, १२०;
-द्वयोः आश्रौ २, १, १०; अप
१, ८, ७x; अशां १३, ४; अप
१, ११, ५१; -दाः हिश्रौ ३, २,
४; अप १, ८, ६; -दाभ्यः शांगृ १,
२६, २४; २५; -दाभ्याम् अशां
१२, ४; -दासु माश्रौ १, ५, १, ७;
कौगृ ४, ४, २; शांगृ ४, १७, २;
-दे कौसू १४०, २; अप १, ३,
१; -देभ्यः वैगृ ३, २०: १०;
११; -देषु आपश्रौ ५, ३, १४;
बौश्रौ २८, ४: १२; भाश्रौ ५, १,
१८; हिश्रौ ३, २, १९; -दैः आगृ
२, १०, ३; भागृ १, २२: २; -दौ
आ १, २, १, १४, १; ५७, १, १.

श्रीप्रोष्ठपद-

श्रीप्रोष्ठपादा- -दाभ्यः पागृ
२, १५, २.

श्रीप्रोष्ठपदी- -दी विध
७६, १; -दीम् वागृ ८, १;
गोगृ ३, १; द्रागृ ३, २, १४;
-द्याम् पागृ २, १५, १; जैगृ
१, १४-१; कौसू १४२, २; वाघ.

२श्रीप्रोष्ठपदी- -दे

कप ३, ९, ३; अप १९, १, २.

श्रीप्रोष्ठपदिक- पा ४, २, ३५.

२श्रीप्रोष्ठपदी- > ष्टपदी- -दीम्
गौष १६, १; -द्याः आगृ २, ५, ९.
श्रीप्रोष्ठपद-हस्त- -स्तौ वैगृ २, ५:
१.

श्रीप्रोष्ठपदा-द्वय- -यम् अशां ६, ३.

श्रीप्रोष्ठपदा-यु(क्त >)क्ता-

-क्तायाम् विध ९०, १४^६.

श्रीप्रोष्ठपदि- प्रोह-पदि- टि. द्र.

श्रीप्रोष्ठपाद- पा ७, ३, १८.

श्रीप्रोष्ठ(र >)नी- -नीम् आपश्रौ
१८, ६, ४; वाश्रौ ३, १, २, २४^६;
हिश्रौ १३, २, १८.

२श्रीप्रोष्ठ- (> १श्रीप्रोष्ठ- पा.) पाग ४,
१, ११२.

श्रीप्रोष्ठिक- (> श्रीप्रोष्ठिक- पा.) पाग
४, १, ११२.

श्री(प्र-उ)ष्य प्र√वस् (यात्रायाम्) द्र.

श्री(प्र-ऊ)ह् (प्रापरो), प्रोहति काश्रौ

२, ५, ७; आपश्रौ १, २१, ६x; ४;

बौश्रौ; या १, १५; प्रोहतः वैश्रौ

१४, ६: ११; प्रोहन्ति बौश्रौ

६, २५: १७; २७: १५; निसू

८, १: १६; प्रोहामि शाश्रौ ४,

१५, ५; प्रोहन्तु जैश्रौ ९: १; २^२;

प्रोहाणि या १, १५^१; प्रोहेत्

बौश्रौ २०, ७: १६; १७; जैश्रौका;

प्रोहेयुः द्राश्रौ ३, १, १८; २०;

लाश्रौ १, ९, २०; २२.

प्रोह > ष्ट-कटा- प्रेहि-कटा- टि. द्र.

प्रोह-कपर्दा-, ष्ट-कर्दमा- पाग

२, १, ७२.

श्री(प्र-ऊ)हण- -णम् हिश्रौ २, ५, ४.

श्री(प्र-ऊ)ह्य काश्रौ ९, ५, १२;

काठश्रौ १२४; वैश्रौ.

श्रीप्रोह- > श्रीप्रोह-पदि- पा, पाग २, १,
७२^६; ५, ४, १२८^६.

श्री(प्र-ऊ)ह- पावा ६, १, ८८; -हेण
बौश्रौ २४, ६: ६; १०.

श्रीप्रोहमाण- , भान- प्र√वह् द्र.

श्रीप्रोह- > ष्टा(ग-आ)कृति- -तिम्
मागृ १, ६, २.

श्रीप्रोह- प्र√वह् द्र.

श्रीप्रोहकलायन- -नाः बौश्रौप्र ५: २.

श्रीप्रोह- प्र√वह् द्र.

२श्रीप्रोष्ठ- (> ३श्रीप्रोष्ठ- २श्रीप्रोष्ठ- टि. द्र.

१श्रीप्रोष्ठक- (> २श्रीप्रोष्ठक-)श्रीप्रोष्ठक- टि. द्र.

१-३श्रीप्रोष्ठपद-, ष्टपदिक- ष्टपदी-

१ प्रोष्ठ- द्र.

√प्लक्ष^७ (बधा.) पाधा. भ्वा. उभ. अदने,

प्लक्षणेति आमिगृ ३, ५, ४: ४;

१२; १९.

१प्लक्ष- पाउ ३, ६३; पाग ४, २,

९१; ३, १६२; -क्षः गोगृ ४, ७,

२२; कौगृ २, ६, ९; अप २६,

५, ७; -क्षम् गोगृ ४, ७, २०;

-क्षस्य पावा २, २, २९; -क्षात्

गोगृ ४, ७, २१; -क्षे अप ७१,

१६, १; -क्षेण पावा १, २, ६४;

२, २, २९.

१प्लक्ष- पा ४, ३, १६२; -क्षः

बौश्रौ २३, ७: २१; -क्षम्

बौश्रौ १२, ४: ३; १४, १८: ७.

प्लक्षी- -क्षीः अप ६५,

३, ५; -क्षीम् काठश्रौ ५२.

प्लक्षकीय- पा ४, २, ९१.

प्लक्षन्त्व- -त्वात् पावा २, २, २९.

a) वैप १ द्र.। b) पासे. पृ १७७७ m द्र.। c)=[तन्नक्षत्रीय-] देवता-विशेष-। d) =(भाद्रपद-
मासस्य) पौर्णमासी-। e) =भाद्रपद-मास-। f) =श्रीप्रोष्ठ-पदी-। वृद्धशभावस्खान्दसः। g) श्रीप्रोष्ठपद्यु इति पाठः ?
यनि. शोषः (तु. जी. सं.)। h) ष्ट इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. आपश्रौ.)। i) व्यप.। व्यु. ?। २श्रीप्रोष्ठ- इति
श्रुका.। j) व्यप.। व्यु. ?। श्रीप्रोष्ठक-, मोष्ठक- इति [पक्षे] पासिः। k) तु. पागम.। l) श्रीप्रोष्ठपदि- इति
आसिः। m) लैवि. <प्रउग-। n) बस.। o) =ऋषि-विशेष-। व्यु. ?। p) तु. BPG.। q) धा. छेदने वृत्तिः +

प्लक्ष-द्वीप^a- -पम् शंघ ११६: ५.
प्लक्ष-पवित्र-पादुका-> का (का-
आ) सन-वैणवदण्ड-शिक्य-कम-
ण्डल्व (लु-अ) लालुपात्र- -त्रम्
आमिष्ट २,७,११: ३.

प्लक्ष-व(न>)ण- पा ८,४,५.

प्लक्ष-शाखा- -खया आपश्रौ ७,
१२, ८; बौश्रौ २०, २७: ६,
वैश्रौ १०,१२: ९; हिश्रौ ४, ३,
४:४७; -खा: काश्रौ ६, २, ७;
हिश्रौ ९, ८, ३६; १३, १, २४;

-खामि: आपश्रौ ७, ६, ३××;
वैश्रौ; -खाम् आपश्रौ ७, ८, ३;
१२, ५; बौश्रौ; -खाया: माश्रौ
१, ८, ५, १८; -खायाम् आपश्रौ
७, २०, ४; २३, १२; बौश्रौ;

-खासु काश्रौ ६, ८, ७; आपश्रौ.
प्लक्षशाखा(खा-अ)- -अण वाश्रौ
३, ४, ३, २४.

प्लक्षशाखा-वत्- -वति गोगृ ४,
१, ९.

प्लक्षशाखो(खा-उ)त्तर-बहि
स^b- -हि: भाश्रौ ७, १८, ८०.

प्लक्ष(क्ष-अ)प्र- -अम् वैष २, ४, २.
प्लक्षो(क्ष-उ)दुम्बर- -रस्य कौसु
२, २, २; ७५, १९.

प्लक्ष^{die}-> प्लक्षि- -क्षय: बौश्रौप्र
४८: ३; -चे: तैप्रा १४, १०.
प्लक्षायण- -णस्य तैप्रा १४,
११.

प्लक्षि-कौण्डिन्य-गौतम-पौष्क-
रसादि- -दीनाम् तैप्रा ५, ३८.

प्लक्षि-प्लक्षायण- -णयो:
तैप्रा ९, ६; १४, ११; १८, ५.

प्लक्ष¹- -क्षम् हिश्रौ १८, ४, ३९^३;
लाश्रौ १०, १७, १२; १४; -क्षे
काश्रौ २४, ६, ७.

प्लक्ष²- -क्षम् आश्रौ १२, ६, २७;
शाश्रौ १३, २९, २०; आपश्रौ
२३, १३, ४; ५; -क्षे बौश्रौ १६,
२९: १५; ३०: ८.

प्लति^d-> प्लत^h- -त: ऋञ्ज २, १०,
६३; शुञ्ज २, ४५३.

प्ल(<प्र)-योग-> प्लायोगि¹- -गि:
शाश्रौ १६, ११, १७; ऋञ्ज २, ८,
१; शैशि ७०^१.

√प्लव¹ पाधा. भ्वा. आत्म. गतौ.

प्लक्ष- , ०क्षी- १प्लक्ष- द्र.

प्लवयत्- प्रमृ. √प्लु द्र.

प्लशि^k- -शिय: आपमं १, १७, ३^१.

प्लशुक^l- -कानाम् काश्रौ १५, ४, ५.

√प्लिह्व पाधा. भ्वा. आत्म. गतौ.

√प्ली(=√प्ली, प्ली)^m पाधा. कया.

पर. गतौ, वरणेⁿ धरणे^p च

प्लीहन्^k- पाठ १, १५९; -हा विष
९६, ९१; -^१हानम् आपश्रौ ७,
२२, ६; २४, १२; भाश्रौ.

प्ली(ह>)हा-कपी^k- -र्ण: शुप्रा ३,
१२९.

प्लीहाकर्णी- ऋत ५, १, ३.

√प्लु^o पाधा. भ्वा. आत्म. गतौ,

प्लवते वैताश्रौ १९, ७; वाध १३,
४६; निघ; प्लवन्ते आमिष्ट ३, ६,
१: ३२; ३: ३६; ऋप्रा ९, १;

प्लवसे आपमं २, १६, ५^१; भाग
२, ७: १५; ^१प्लवामहे काश्रौ
१३, ३, २६; आपश्रौ; प्लवस्व या
९, ७^१; प्लवते मागृ १, १, १४;
प्लवत् बौध १, २, ४१; प्लवेरम्
अप ३७, १६, १.

प्लवयति काश्रौ १०, ९, १; १९,
५, १३; २०, २, २; वैध ३, १५,
१; प्लवयेत् आश्रौ १, ५, ७;
शाश्रौ १, २, १; हिश्रौ.

प्लव(वप्रा.)- पाग ३, १, १३४; -व:
वाधुश्रौ ३, ३१: २^१; निसृ ६,
१०: २८^१; अप ६४, ३, ५^१;
आपध १, १७, ३३^१; हिघ १, ५,
६४^१; -वम् आपश्रौ २२, ४,
२७^१; वाधुश्रौ^o ३, ३१: ३; ५;
जैश्रौप ६^१; लाश्रौ ८, ५, १४^१;

निसृ^p ४, १२: ३४; ३७; कौगृ
३, १३, १७^१; शांगृ ४, १४, ५^१;

आमिष्ट २, ८, २: ४६^१; कागृ
४५, १०^२; बौपि १, १५:
५३^१; मागृ २, १, १४^१;

हिपि १५: २०^१; अप २१,
५, ४; शंघ ४२६^१.

प्लवं-र्ण¹- -गा: अप ७०^२, १८, ४.
प्लव-रूप^u- -पम् आगृ १, १२, ६.
प्लवा(व-अ)तिप्लुत्^v- -ता: निसृ
४, १२: ३७.

प्लवाक- पाउना ४, १४.
प्लवान- -नम् हिश्रौ २१, २, ३४;
शंघ १८३; आपध १, ५, १७;
हिघ १, २, १८; -नेन वाध १४,

a) = द्वीप-विशेष-। b) बस.>कस. (तु. हिश्रौ ४, ५, ३ भाष्यम्)। c) ०ं ७० इति संस्कृतुः टि.।

d) व्यप.। व्यु. ?। e) वैप २, ३खं. द्र.। f) = (सरस्वत्याः) उद्गम-स्थान-। g) स्वार्थे प्र.। h) व्यप.
(गय-।) अपत्यार्थे प्र.। i) वैप १, २२०० d द्र.। j) तु. BPG.। √पव् (यद्र.) इति (पक्षे) BPG.।
k) वैप १ द्र.। l) पाशे. वैप १, २२५६ g द्र.। m) पा ७, ३, ८० परामृष्टः द्र.। n) तु. BPG.।
o) पा ६, ४, ५८, ४, ८१ परामृष्टः द्र.। p) = नौका-। q) = साम-विशेष-। r) आप.। s) = जल-वायस-।
t) नाप.। उप.<√गम्। u) बस.। v) उप. = तीर्ण-।

२६.

प्रावयत्-यन् आश्रौ १,३, ६; ४, १३.

प्रावयित्वा आश्रिपु ३, ४, ५: ४; बौपि ३, १०, १; गौपि.

प्राव्यमान-नम् वैताश्रौ ३०, २.

प्लुत^१-न्तः आश्रौ ७, ११, १३;

शांश्रौ १, १, १९; ऋप्रा; वा ८,

२, ८२; -तम् ऋप्रा ९, ३२;

उसु १, ११; शुप्रा; -ताः हिश्रौ

२१, २, ३४; शुप्रा ८, ३५;

-तानाम् अप्रा १, १, ५; पावा

८, ३, ४१; -तानि शौच १,

१०५; -तेन शांश्रौ १, १, ४२;

-तैः ऋप्रा ७, ३३; -तौ पा ८,

२, १०६; पाप्रवा ४, २२.

प्लुत-कार्य-प्रतिषेधा(ध-अ)

र्थ-र्थम् पावा ६, १, १२७.

प्लुत-पूर्व^२-वर्म तैप्रा १, ४;

-वर्मस्य पावा ६, १, ७६.

प्लुत-प्रकृतिभाव-वचन-नम्

पावा ६, १, १२३.

प्लुत-प्रगृह्य-ह्याः पा ६, १,

१२५; -ह्येषु पावा ६, १, १२३.

प्लुत-प्रग्रह-हौ तैप्रा १०, २४.

प्लुत-प्रतिषेध-धे पावा ६, १,

२७.

प्लुत-प्रसङ्ग-ङ्गः पावा ८, २,

८६.

प्लुत-वचन-नम् पावा ८, २,

१०६.

प्लुत-वर्जम् शुप्रा ७, २.

प्लुत-विकार-रे पावा ८, २,

१०७.

प्लुत-विधान-ने पावा ८, २,

८६.

प्लुत-संज्ञा-न्ना पाप्रवा ४, ३.

प्लुत-स्वर-रस्य शौच ४, ६.

प्लुता(त-अ)कारा(र-अ)न्त^३-

-न्तम् ऋप्रा ५, ५८.

प्लुता(त-आ)दि-दि ऋप्रा

१०, ७; ११, १०; २५; -दिः

आश्रौ ५, ९, ६; शांश्रौ १, २, २;

उसु ४, ९; -दीनि ऋप्रा १०, ३.

प्लुतादि-प्रभृति-तीनि

ऋप्रा १०, ४.

प्लुतो(त-उ)प(ध>)धा^४-धा

ऋप्रा २, ६६.

प्लुतोपधा (धा-अन्त>)

न्ता^५-न्ताः ऋप्रा २, ६७.

प्लुतो(त-उ)पाचरित-ने ऋप्रा

१०, २०; ११, ३८.

१प्लुति-तयः आश्रौ २, १९,

२०; -तिः शांश्रौ १, २, ३;

वैताश्रौ ३२, १५; ऋप्रा.

प्लुत्य(ति-अ)र्थ-र्थम् पावा ८,

२, ८५.

प्लुत्या(ति-आ)दि-द्वयः

पाप्रवा २, ४; -दिषु पाप्रवा ४, २.

२प्लुति^६-तिम् अप ४३, ३, १४१.

√प्लुष् पाधा. भ्वा. दिवा. पर. दाहे;

कथा. पर. स्नेहनसेवनपूरणेषु.

प्लुक्षि-पाठ ३, १५५.

√प्लेव^७ पाधा. भ्वा. आत्म. सेवने.

√प्सा^८ पाधा. अदा. पर. भंक्षणे,

प्लुप्साति अप ४८, १५; निघ २,

१४.

प्सान->प्सानीय-यः या ५,

१४.

प्लु^९-प्लुः निघ ३, ७१.

फ

फ^{१०}->फ-सवर्ण-र्णम् याशि २, ३८.

√फक् पाधा. भ्वा. पर. नीचैर्गतौ.

फट्, लृ^{११} शांश्रौ १२, २३, २१; आप्रश्रौ

१२, ११, १०१; हिश्रौ ८, ३,

३११; १०, ७, १६; फौसु ४, ७,

२१; ११६, ७; फ्रप ३६, १, ४;

९, ३; पाग १, ४, ५७.

फट्-कार-रः अप ३१, ९, १; ३४,

१, ६; ३६, २, ५; -रम् अप ४०,

२, ८.

फट्कार-प्रभृति-ति अप्राय

६, ६.

√फण(वधा.)^{१२}पाधा. भ्वा. पर. गतौ-

फणति निघ २, १४१.

फाणयेत् द्राणु ३, १, ६^१; फाण,

येयुः लाश्रौ १०, ४, १०^{१२}म.

फण, णा^{१३}-णेन कौण्ड ४, २, ३;

शाण्ड ४, १५, ७.

फणा-भृत्^{१४}-भृत्तः अप ६४,

८, ८.

फणिन्-णिनाम् सु २८, १^{१५}.

फाणित^{१६}-तम् अशा १३, २;

-तेन अप १, ४८, ६.

फाणित-पृथुक-तण्डुल-करम्ब-भरु-

ज-सक्तु-शाक-मांस-पिष्ट-क्षीरवि-

कारौ(र-श्रौ)षधि-वनस्पति-मूल-

फल-वर्जम् आपध १, १७, १९-

a) पारिभाषिक-संज्ञा-। b) वस.। c) कस.>वस.। d) = ऋषि-विशेष-। e) तु. BEG.।

f) तु. वैप १, २२५६।। g) रूप-नामन्-। व्यु. ?। <√स्फुर इति दे.। h) = वर्ण-। i) शांश्रौ. पाठः।

j) वैप १ द्र.। k) या २, २८ पा ६, ४, १२५ परामृष्टः द्र.। l) धा. कथने वृत्तिः। m) ष्येयुः इति पाठः ?

यनि. शोधः (तु. भाष्यम्)। n) नाप.। कर्तरि अच् प्र.। o) ष्यी^{१०} इति पाठः ? यनि. शोधः।

p) = इत्तु-विकार- (नभा. राब इति)।

फण्ट^२— पा ७, २, १८; —ण्टम्
जैगु १, ११: ५१^०; कौसू २५,
१८; —ण्टान् कौसू २८, १४;
—ण्टौ कौसू ४०, १५.
१फण्टा(रट-आ)हृत्^० >
हृत्ति— त्ते: पावा ४, १, १५०.
२फण्टाहृत्—, हृताग्रनि-
पा ४, १, १५०.

फण्ड— पाउवृ १, ११४.

फनक^१— कः अप ५२, ५, ३.

फर्करक— (>की- पा.) पाग ४, १,
४१.

फर्फरीक— पाउ ४, २०.

✓फल^०, पाधा.भ्वा. पर.निव्यत्तौ, विश-
रथे, फलते वाध ६, ७^३; फलति
अप ७०, १०, १; फलन्ति बौश्रौ
१७, ३१, १४^३; अप ६४, १०, ६;
७०^३, ६, १.

फल^१— पाग १, ४, ६१^६; २, ४, ३१;
४, २, ८०; ९०; ५, २, ३६; १३६^१;
—लम् आपश्रौ २२, २, ५; काश्रौ
१३, ४, १२; हिश्रौ; हिध १, २, ७; २,
५, १६५^१; या १४, ७; ३२;
मीसू ४, ३, ३^१; —लस्य मीसू
१, २, १७; २, २, २५; ६, ३,
२१; —लात् वैध २, ५, ५; वृदे
८, १३४; पावा ४, १, ६४;
—लानाम् आपश्रौ ६, ३१, ७;
बौश्रौ २८, १३ : १७; वागु १५,
२०; गोगु १, ९, ७; —लानि
शाश्रौ २, ३, २६; हिश्रौ; या ९,
८; —लाभ्याम् जैगु १, ५ : ५;

—लाय अप ५८, १, ५; —ले अप
६४, ८, ७××; या ५, १२; पा ४,
३, १६१; —लेन वाध ६, ३९;
मीसू ३, ४, २४; —लैभ्यः भाशि
५८; —लेषु विध ९९, १६; —लैः
बौश्रौ २८, १३ : २२; आग्रियु;
फल-कर्तृ-संबन्ध— न्यात् मीसू
११, ४, १८.

फल-कर्म-देश-काल-द्रव्य-देवता-
गुण-सामान्य— न्ये काश्रौ १,
७, ३.

फल-काम— मः मीसू ६, २, १०.

फल-खादिन्^क— -दिनः वैध १,
८, १^१.

फल-ग्रहि^१— -हयः आपश्रौ १६,
२०, ४; हिश्रौ ११, ६, ५०; —हिः
आपश्रौ १०, १०, ४××; भाश्रौ;
—हेः वाश्रौ २, १, १, ४.

फल-ग्रहिष्णु— -ष्णुः शाश्रौ १७,
१, १८.

फल-चमस^म— -सः मीसू ३, ५,
४८.

फलचमस-विधान— -नात्
मीसू १२, ४, ४४.

फल-तसः (:) कौसू २५, १७;
आपध २, २२, ५; २३, २; हिध
२, ५, १५७.

फल-द— -दम् विध ३०, २९;
आज्यो ७, ६; —दानाम् विध
५०, ४८; —दौ कौशि ४१.

फल-दर्शन— -नात् मीसू ६, ३,
२५.

फल-देवता— -तयोः मीसू ९, १, ४.
फल-नियम-कर्तृ-समुदाय—
-स्य मीसू ८, १, २०.

फल-निर्वृत्ति— -त्तिः काश्रौ १,
२, १८; —त्तेः मीसू २, १, २७^०.

फल-परिवृद्धि— -द्धिः आपध २,
२, ४^०.

फल-पर्वन्— -र्वणोः पावा ४, ३,
१६.

फल-पाक-शुष्- -शुषाम् पावा
४, ३, १६६.

फल-पातन— -ने वाध २८, ८;
विध २३, ४९.

फल-पुष्प— -ष्पम् अप ७०^३, ६,
१; ७, ४; ८, २; —ष्पयोः अप
७०^३, ४, ५; ७, २३; —ष्पाणि
अप ७०^३, ४, ३; —ष्पेभ्यः शंघ
२१२.

फलपुष्प-ता— -ता अप ७०^३,
८, २.

फलपुष्प-दा— -दाः अप ७१,
१५, २.

फलपुष्पो(ष्य-उ)ञ्जव-
-वानाम् विध ५०, ४९.

फल-पूर्ण— -र्णम् अप २०, ३, ४.

फल-प्रचयन— >°नो(न-उ)द-
पानावेक्षण-वर्षतिधावनो(न-उ)
पानस्त्वयंहरण— -णानि द्रागु ३,
१, ३९.

फल-प्रद, दा— -दम् शंघ ४११;
—दा विध ३०, ३९; —दे अशां
६, ५.

a) = कषाय-भेद- । वैप २, ३खं. द्र. । b) °भिस्का° इति पाठः ? °भिः फा° इति शोधः (तु. संस्कृतुः टि., द्रागु ३, १, ६ च) । c) व्यप. । व्यु. ? । = गोत्र-विशेष- इति वापाभा. । d) = ग्रह-विशेष- । e) पा ७, ४, ८७; ८८ पावा ६, ४, १२० परामृष्टः द्र. । f) वैप १ द्र. । g) फल- इति पाका. । h) तु. पागम. । i) शोधः पृ १३९ j द्र. । j) तु. जीसं. । k) = वानप्रस्थ-विशेष- । l) शैलफलखा° इति C., अफलखा° इति भाष्यम् (तु. C.) । m) मलो. कस. । n) °न्तिः इति जीसं. । o) सप्र. फलपरिवृद्धिः <> फलवृद्धिः इति पाभे. ।

फल-प्रदर्शन- -नम् बुदे ३, १५१.
फल-भक्ष^a- -क्षः हिश्रौ १७, १,
१३; जैगृ २, ८ : २४; बौध ३,
९, १७; -क्षाः बौध ३, ३, ३.

फलभक्ष-ता- -ता वाध २२,
११; बौध ३, १०, १२; गौध
१९, १४.

फल-भाज्- -भाक् कप्र २, ४,
१८.

फल-भूमन्- -मा मीस् ११, १,
२९.

फल-भूयस्त्व- -स्त्वम् आगृ ४,
७, ३.

फल-भेद-तस्स (:) अप २७, २,
५.

फल-मय- -न्यानाम् वाध ३,
५४; बौध १, ५, ३१.

फल-मिश्र- -श्राणाम् मागृ १,
१४, ९.

फल-मूल-पुष्प- -ष्पम् अप १,
६, ३.

फल-मूल-शाक- -कम् वैध २,
४, ५.

फल-मूला(ल-अ)शन- -नैः
विध ५१, ७७.

फल-युक्त- -क्तानाम् काश्रौ १,
२, १०; -क्तानि काश्रौ १, १, २.

फल-योग- -गात् काश्रौ १, ६,
९; ७, १९.

फल-वत्- पा ५, २, १३६; -वत्
अप २१, १, १; मीस् ३, २, २२;

४, ४, ७; -वतः कौगृ १, ९, ७;
३, १, ९; शांगृ १, १५, ६; ३, १,
१५; मागृ १, ७, ९; -वता मीस्

३, २, २२; -वद्धिः अप २१, ४,

१; -वन्तः अप ७१, १५, १;
आज्यो २, १०; -वन्ति आपध
१, १, ६; ४, २९; हिध १, १, ६;
१४८; आज्यो ४, १३; -वान्
बौगृ १, ८, ३.

फलवती- -ती नाशि २,
८, २८; -तीः आगृ २, ६, ९;

-तीम् गोगृ ३, ९, ४; -तीषु
आपश्रौ १६, ३, १४; वैश्रौ १८,

१ : ५६; हिश्रौ ११, १, ४१.

फलवत्-ता- -ताम् मीस् ६,
१, २१.

फलवत्-त्व- -त्वम् मीस् ४,
४, ३४; -त्वात् बौध २, ९, १४^२.

फल-वन्त^b- -न्तः बौगृ १, ८, ३.

फल-विशेष- -षः काश्रौ १, १०,
११; आपध १, ३०, ५××; हिध.

फल-वृक्ष^c- -क्षाणाम् अप ६८,
२, १५.

फलवृक्ष-शाखा- -खया द्रागृ
२, २, २५.

फल-वृद्धि- -द्धिः हिध २, १,
२६^d.

फल-शातन- -ने बौध १, ५,
४९.

फल-श्रुति- -तिः मीस् ३, ७, ९;
४, ३, १; -तेः मागृ ३, १८ : २,
मीस् २, २, २५.

फल-स- पा ४, २, ८०.

फल-संयुक्त- -क्तेषु काश्रौ १, ५,
१६.

फल-संयोग- -नाः मीस् ४, ३,
३६; -गात् मीस् ३, ७, ६.

फल-समवाय- -यात् मीस् ६,
३, २१.

फल-संभव^e- -वानाम् विध २३,
२८.

फल-सिद्ध-त्व- -त्वात् मीस् ३,
८, ९^f.

फल-सेना-वनस्पति-मृग-शकुन्त-
क्षुद्रजन्तु-धान्य-तृण- -णानाम्

पावा २, ४, १२.

फल-स्नान^g- -नम् अप १९^g,
४, ३.

फल-हरितधान्य-शाका(क-आ)
दान- -ने गौध १२, १५.

फला(ल-आ)दि- -दीनि अप
३०^h, २, ५.

फला(ल-अ)धिकार- -रात् काश्रौ
१०, ५, १२; २०, ८, २६.

फला(ल-अ)नुपरोध- -धेन पागृ
२, १७, ६.

फला(ल-अ)न्यत्व- -त्वम् मीस्
११, १, ५; ३२.

फला(ल-अ)न्वित- -तैः आशिगृ
२, ३, ३ : ९.

फला(ल-अ)पहारिन्- -री शंघ
३७८.

फला(ल-अ)फल- > फ(लक-
>)लिका^h- पावा, पावाग २,
१, ६९.

फला(ल-अ)भाव- -वात् मीस्
१, २, ३; ११, १, १२; -वे आपध

२, २८, १; हिध २, ६, १.

फला(ल-अ)रम्भ-निवृत्ति- -न्तेः
मीस् ११, १, ३२^h.

फला(ल-अ)र्थ- -र्थे आपध १,
२०, ३; हिध १, ६, १७; -र्थेन

मीस् २, ३, २६ⁱ.

फलार्थ-त्व- -त्वात् मीस् ३,

a) विप., नाप. (वानप्रस्थ- [पचमानक-])। b) तु. वैप १, २४०२ i। c) मलो. कस.। d) पाभे.

पृ १७८३ p द.। e) विप. > नाप. (पात्र-)। f) 'सिद्धि' इति जीसं.। g) तु. पाक.। h) फलस्या°
इति जीसं. प्रमृ.। i) मलो. कस. वा पस. वा।

१,४; ६,१,४.
 फलाधिन्- > ण्यिन्-स्व-
 न्वात् काश्रौ १, २, १०; मीस्
 ६,१,२०; ३,१५.
 फला(ल-अ)थेवाद्^१ -दम् मीस्
 ४,३,१५.
 फला(ल-आ)वली-समुद्भूत-
 वनसंघ-समाचित- -तम् विघ
 १,३९.
 फला(ल-अ)शिन- -शी विघ
 २५,८.
 फला(ल-अ)श्रुति- -तेः काश्रौ
 १३,४,११; मीस् ४,३,९.
 फला(ल-आ)हार- -रः श्रप ५,
 ३,३; ३१,७,२.
 फलित- पा ५,२,३६.
 फलिन्- पा ५,२,१३६; -लिनः
 श्रप ५७,३,४; -ली श्रप ७०^२,
 ८,१.
 फलिनी- -नी कौष्ट १,
 १४,८; शांष्ट १,२२, १०; पायु
 १,१५,६; याशि २,११२.
 फलिन- पावा ५,२,१२२.
 फलीय- पा ४,२,९०.
 फले-ग्रहि- पा ३, २, २६;
 -हिः शांष्टौ १५,१९,१.
 फले-पाक,का-पाकु- पाग ७,
 ३,५३.
 फलै(ल-ए)कत्व- न्वात् मीस्
 ११,३,२२.
 फलो(ल-उ)त्तम- -मैः कौष्ट १,
 ७,१^b.

फलो(ल-उ)त्तर- -रैः कायु २०,
 २; २१,१७; ३६,१.
 फलो(ल-उ)त्साहा(ह-अ)
 विशेष- -वात् मीस् ६, १,
 १४.
 फलो(ल-उ)दक^३- -केन वीयु
 ३, ९, ९; भायु ३, ११ : १०;
 हियु २,२०,७.
 रफलो(ल-उ)दक^४- -कम्
 आम्रियु २,७,१० : १४.
 फलो(ल-उ)पगम- -दुम-
 च्छेदिन्^d -दी विघ ५,
 ४५.
 फलो(ल-उ)पदेश- -शः मीस्
 ४,३,२४.
 फलक^५- पाग २,४,३१; ४,२, ८०^f;
 -कम् शांष्टौ १७,१०,४; वाश्रौ
 ३,२,५,५३; -कयोः काश्रौ २०,
 २,२०; बौश्रौ ६,२८ : ४३×४;
 वैश्रौ; -कानि शांष्टौ १७, १,
 ९; श्रप १,९,१०; आपश्रु १२,
 १०; हिश्रु ६, ३०; -के काश्रौ
 ७, ९, ४; आपश्रौ २१, १७,
 १४; -केषु बौश्रौ १०,१७ :
 ६.
 फलक-पुर- पा ६,२,१०१.
 फलका(क-अ)मिस्ती(र्ण) > णी^६-
 णी बौश्रौ १०,१२ : ६^h१.
 फलका(क-आ)स्तीर्ण,णी^६- -र्णः
 काश्रौ २२,४, १६; आपश्रौ २२,
 ५,५; हिश्रौ १७,२, ३३; लाश्रौ
 ८, ६, ९; -णी^m आपश्रौ १६,

१०, १६; वाश्रौ २, १, ३, ४;
 वैश्रौ १८,६ : ६; हिश्रौ ११,३,
 ३८.
 फलकिन्- पा ४,२,८०.
 फलका- फलक- टि. द.
 फलादि- प्रसु. ✓फल् द.
 फलि^१- (> फालेय- पा.) पाग ४,१,
 १३६.
 फलिग^२- -गः निघ १, १०; -गम्
 आपमं २,२२,३१.
 फलिङ्गु^३- -ङ्गवे आम्रियु १,२,२ :
 २८; वीयु ३,९,६; भायु ३,११:
 १.
 फलित- प्रसु. ✓फल् द.
 फली पाग १,४,६१ > फली ✓कृ^४
 पा १, ४,६१; फलीकरोति काश्रौ
 २, ४,२२; ४, १, ५; आपश्रौ.
 फली-करण^५- -णाः अश्र ११,
 ३१; -णात्^m भाश्रौ ५,१४, ५;
 ८, १, २०; ५, १२; १५,१७;
 -णान् आपश्रौ ३,१०,१; बौश्रौ
 १, २० : २३; भाश्रौ; -णानाम्
 शांष्टौ १३,३,५; गोगु १,४,३०;
 दायु १,५, ३२१; -णानि भाश्रौ
 १,३,५,१२; वाश्रौ १,३,७,१२;
 -णैः कौस् ४३,२.
 फलीकरण-तुष-तुसा(स-अ)
 वतक्षण- -णानि कौस् १४, १५;
 ४२,२१.
 फलीकरण-मिश्र- -श्रान् पायु
 १,१६,२३; आपयु १५,६; कायु.
 फलीकरण-मुष्टि- -ष्टिम्

a) मत्तो. कस. । b) सर्वसुरभिभिः फलोत्तमैः इत्यस्य स्थाने सपा. शांष्ट १,११,२ सर्वोपधिफलोत्तमैः सुरभिभिः इति, कायु २१,१ सर्वगन्धैः फलोत्तमैः इति च पाभे. । c) समाहारे द्वस. । d) बस. > कस. > उस. । e) बप्रा. । नाप. । व्यु. ? < ✓फल् इति श्रमा., < फल- इति शक. । f) तु. पागम. । का- इति भाण्डा., हलका- इत्यपि [पक्षे] भाण्डा. । g) तुस. (तु. सा [तां १७, १,१४]) । h) सप्र. कास्तीर्णा << कास्तीर्णा इति पाभे. । i) पृ ११८९ सस्थ. तीर्णा इति नेष्टम् । j) व्यप. । व्यु. ? । k) वैप १ द. । l) अर्थः ? । सपा. हियु १, १४, ७ श्लेफमलीकम् इति, भायु २, २८ : ३ परिषम् इति च पाभे. । m) भाप. ।

आपण्य २३, १; भाण्य २, २६; १०.
 फलीकरण-होम- -मः बौश्रौ
 २४, २९; १३; -मस् आपश्रौ
 ३, १०, १; बौश्रौ १, २०; २३;
 वाधूश्रौ ३, ४१; १५; ४, ३; ४;
 -मस्य बौश्रौ २०, ३१; ११; -मे
 आपश्रौ ४, १३, ७; भाश्रौ ४, १९,
 ७; हिश्रौ ६, ४, ३; -मेन बौश्रौ ४,
 १०; २०; ६, ३; १९; २५, ६; १२.
 फलीकरणहोम-प्रभृति-
 -ति बौण्य २, १, २०.
 फलीकरणा(रा-अ)न्त^६-
 -न्तम् माश्रौ १, ६, ४, ९.
 †फली-कतैव आपश्रौ १, २०,
 ११; बौश्रौ १, ६; २७; भाश्रौ
 १, २२, ९; वैश्रौ ४, ७; १५;
 हिश्रौ १, ५, ७१.
 फली-कृत- -ताम् वाश्रौ ४, ३,
 ७; आपश्रौ; -तानाम् भाश्रौ
 ५, १४, ६; ८, १, २१; वाश्रौ;
 -तेषु बौश्रौ १, ७; १; वैश्रौ.
 फली-कृत्य काश्रौ २, ४, २३, वैश्रौ.
 †फली-क्रियमाण- -णानाम्
 आपश्रौ १, २२, २; बौश्रौ १,
 ६; २८; भाश्रौ.
 फलीय- √फल् द्र.
 फल् (> ल्. √कृ पा.) फल्- टि. द्र.
 फले-ग्रहि- प्रभृ. √फल् द्र.
 √फ(ल्) > ल्ग(वधा.) > फल्गु^७-
 पाठ १, १८; -ल्यु अप १, ९, ९०.
 फल्गु-नीथै^८- -थै विघ ८५, २२.
 फल्गु-पात्र^९- -त्राणि विघ ७९,
 २२; -त्रेण विघ ७९, २४.

१फल्गुन- पाठ ३, ५६.
 १फल्गुनी^१- पाठभो २, २, २०२;
 -नी बौण्य १, १, २०; भाण्य २,
 १८; ६; तैप्रा ४, १२^क;
 -नीभ्याम् भाश्रौ ५, २, ७; शाण्य
 १, २६, ९; १०; आपण्य ३, २^क;
 भाण्य १, १२; १७^क; वैण्य ३,
 २०; ५; ६; अशां १२, २; -नीषु
 आश्रौ २, १, १०; कौसू ७५, ५^क
 १३९, १४; अपण्य ७, १; २; -न्यः
 माश्रौ १, ५, १, ५; अपण्य १, २, १;
 -न्योः आपश्रौ ५, ३, ८; बौश्रौ
 २, १२; १३^क × ×; भाश्रौ;
 -न्यौ हिश्रौ ३, २, ४^२; अपण्य १,
 १, २ × ×; अशां ८, ५.
 १फल्गुन-
 १फल्गुनी^१- -नी अप
 १, १, २; -नीभिः आण्य २,
 १०, ३^क; -नीम् अशां २, ५;
 -न्यौ अपण्य १, ३, १; ३३, ११.
 २फल्गुनी^१- -नी
 आपश्रौ ८, २१, ४; वाधूश्रौ ३,
 ६९; ३०; हिश्रौ ५, ६, ६; विघ
 ९०, ७; गौघ १६, ३७; -न्याः
 आश्रौ ९, ३, २; आपश्रौ; -न्याम्
 आश्रौ २, १४, ३; शाश्रौ ३, ८,
 १ × ×; काश्रौ; -न्यै बौश्रौ १२,
 १; १ × ×; वाधूश्रौ ३, ६९; २.
 फाल्गुनी-पक्ष- -क्षस्य
 लाश्रौ ९, १, २.
 फाल्गुनीपक्ष-यज
 नीय- -थे काश्रौ १५, ३, ३५.
 फाल्गुनी-प्रयोग^{१०}-

-गस्य शाश्रौ ३, १४-१५, १.
 फाल्गुनी-शुक्ल-
 -क्लस्य काश्रौ २०, १, २.
 फाल्गुनी-समापन^{११}-
 -नान् वाश्रौ १, ७, ५, ९.
 फाल्गुन्यु(नी-उ)द्द^{१२}-
 ष्ट^{१३}- -ष्टे काश्रौ ५, ११, १६.
 फाल्गुन्यु(नी-उ)पव-
 सथ^{१४}- -थे काश्रौ ५, ११, १८.
 २फाल्गुन^{१५}- पा
 ४, २, २३; -नस्य शाश्रौ १३,
 १९, ४; -ने बौण्य २, ११, ३.
 फाल्गुना(न-आ)
 दि- -दि आश्रौ ८, १४, २१.
 फाल्गुना(न-आ)
 रम्भण^{१६}- -णान् वाश्रौ १, ७, ५, ९^{१७}
 फाल्गुना(न-आ)
 षाठ-कार्त्तिक-पूर्वपक्ष- -क्षेषु
 अपण्य २०, १, २.
 फाल्गुना(न-आ)
 षमी- -न्याम् कप्र २, ७, २३.
 फाल्गुनिक- पा ४, २,
 २३; -कस्य काश्रौसं २९; १४^०.
 २फल्गुन- पा ४, ३, ३४.
 २फल्गुनी-पावा ४, ३, ३४
 फाल्गुनी-द्वितय- -यस्य अशां
 ६, १.
 फल्गुनी-पूर्णमास^{१८}- -से
 आपश्रौ ५, ३, १६^१.
 फल्गुनी-प्रभृति- -तीनि
 शाश्रौ २, १, ९.
 फल्गुनी-प्रोष्ठपदा- -दानाम्
 पा १, २, ६०.

a) बस. । b) वैप १ द्र. । c) = पूर्वा-फल्गुनी- (नक्षत्र-) । d) = तीर्थ-विशेष- । e) पूष. = वृक्ष-
 विशेष- । f) वैप १, २२५८ इ द्र. । g) पाभे. वैप १, २२५८ । द्र. । h) पाभे. वैप १, २२५८ । द्र. ।
 i) ष्योः इति पाठः ? यनि. शोषः । j) स्वाथै अण प्र. । k) फं इति आन. । l) = पौर्णमासी- । m) = मास-
 विशेष- । n) पाठः ? ल्गुन्या इति शोधः (वृ. प्रकरणम्) । o) विप. (वृत्त-) । p) षस. उप. = चन्द्र-दर्शन-
 (फाल्गुनशुक्लप्रतिपद्-) । बस. । q) षस. उप. = ब्रह्मकालीनाऽहन्- (फाल्गुनशुक्लचतुर्दशी-) ।

फल्गुनी-यु(त >) ता- न्ता
विध २०, ७.
फ-सवर्ण- फ- द.
फाणित-, फाण्ट- प्रसृ. √फण् द.
१फाल^१- लम् पाठ २, १३, ४; काण्ट
७१, ४; कौसू २०, ५^१फ; अशां
१२, ८; -फला^२ आश्रौ २, २०,
४; शांश्रौ; -लेन कौसू २४, २;
३३, ९; बौध ३, २, ३.
फाल-कृष्ट, घा^३- ष्टम् वाध ९, ३; बौध
२, ६, १७; गौध ३, ३२; -घायाम्
विध ६०, ४; -ष्टे अप १०, १, २१.
फाल-चमस^४- से कौसू ३५, ४.
फाला(ल-आ)कृ(ष्ट >) घा- -घाभिः
आमिष्ट २, ७, १० : ७.
२फाल^५-> फाली- पागम ५८.
फालि- पाठभो २, १, १६६.
फाली > फाली √कृ > फाली-
करण^६- -?णान्^१ शांश्रौ १३, ३, ५.
फालेय- फलि- द.
१-२फाल्गुन- √*फल्गु द.
३फाल्गुन^७- -नानि आश्रौ ६, ८,
५; १२; आपश्रौ १४, २४, १२;
बौश्रौ १४, २९ : १७; १८; २४,
१, १६; हिश्रौ १५, ६, १५^२.
?फाल्गुन-पा(च >) ची^८- -चीभ्याम्
बौश्रौ १८, ९; २३; -च्यौ बौश्रौ
१८, ८ : ७.
फाल्गुनिक-, नी- प्रसृ. √*फल्गु द.
√फुल् (> √फल्) > फुल- पा ८,
२, २५.

फौल्लि^९- पावा ८, २, ४२.
फुलवत्- पा ८, २, ५५.
√फुल् पाधा. तुदा. पर. संबलने.
√फुल्ल^{१०} पाधा. भ्वा. पर. विकसने.
फुल्ल- √फल् द.
फेन^{११}- पाठ ३, ३; पाग ३, १, १२^क; १३
५, २, ९७^क; १००^क; -नः लाश्रौ
८, ३, १४; -नम् काश्रौ १६, ३,
१६; आमिष्ट ३, ३, २ : ६; -नान्
कौसू ४६, २८^फ; -नेन साश्र १,
२११^फ; भाशि ५८^फ; याशि २,
६५^फ; -नेषु कौसू ४६, २८.
फेन-प^{१२}- -पः वैध १, ७, २; ८.
फेन-प्र(ख्या >) ख्य^{१३}- -ख्यः कप्र
३, ३, ६.
फेन-बुदबुद- -वैः शंघ ६१.
फेन-ल-, फेन-वत्- पा ५, २, ९७;
९९.
√फेनाय पा, पावा ३, १, १२; १३.
फेनिल- पा ५, २, ९९; १००.
√फेल् पाधा. भ्वा. पर. गतौ.
फौल्लि- √फल् > फुल- द.

व

व^{१४}-> व-कार- -रः दंवि २, ११; -रे
दंवि १, २.
√बंह > बंह- > बंहिष्ठ^{१५}- पा ६, ४,
१५७; फि ७; -ष्ठः निघ ३,
३^फ; -फंष्टम् आश्रौ २१४, ११;
३, ८, १; शांश्रौ ८, १२, ८.
श्वक^{१६}- (> बाकायन- पा.) पाग ४, १,

९९.
श्वक^{१७}- -कः माण्ट २, १४, २९.
श्वक^{१८}- फि १४; -कः आमिष्ट २, ५,
२ : १; विध ४४, ३५; -कम्
शंघ ४२६; -काः अप ७०^३, ६,
४; -कानाम् बौय १, ८ : ८;
-कैः अप ७०^३, ६, १०.
वक-बलाका-हंस-प्लव-चक्रवाक-
कारणद्व-गृहचटक-कपोत-पारा-
वत-पाण्डुशुक-सारिका-सारस-
टिट्ठिभो(भ-उ)लुक-कङ्क-रक्तपाद-
चाष-भास-वायस-कोकिल-शाङ्-
ववलि-कुक्कुट-हारीत-भक्षण-
-णे शंघ ४२३.
वक-वत् अप ६४, ५, ३.
वक-व्रत- > प्त-पर^{१९}- -रः विध
९३, ९.
वकव्रतिक- -के विध ९३, ७.
वकव्रतिन्- -तिनः विध ९३, १०.
श्वक- (> श्कीय-) नैवाकव- टि. द.
वकनस्व^{२०}-> ख-गुदपरिणद्ध-, ख-
श्वगुदप^{२१} पा, पाग २, ४, ६८.
वकसकथ^{२२}- पा, पाग २, ४, ६३.
वकुर^{२३}- -रः अप ४८, ११५^फ; निघ
४, ३^फ; या ६, २५^फ; -रेण या
६, २६^फ.
वकुल^{२४}- (> श्लित- पा.) पाग ५, २, ३६
वकोट- पाठभो २, २, ११२.
वज^{२५}- -जः दंवि २, ८^फ.
वज-पिङ्ग- -ङ्गो अशां २१, ४.
?बजाबोजा^{२६}- -जा हिष्ट २, ३, ७^फ.

a) वैप १ द.। b) पामे. वैप १, २२५८ t d.। c) मलो. कस.। d) = खण्ड-। व्यु. ?। e) = फलीकरण-।
f) पाठः ? ण्गात् इति C. (तु. k [शांत्रा १८, १२ मूको. अस्तु]। g) = तृण-विशेष- इति रुद्रदत्तः (तु. P.W. प्रसृ.),
= श्रोषधि- इति नारायणः। h) विप.। अर्थः ?। पूर. = वृक्ष- इति सूची ?। i) व्यप.। j) √फुल् इति [पक्ष] BPG.। k) तु. पागम.। l) = [सपत्नीक] वानप्रस्थ-। उप. < √पा [पाने]। m) वस.। n) = वर्ष-
विशेष-। o) = देवता-विशेष-। p) = जलचर-विशेष-। q) पाका. पाठः। r) वकसकथ-, वकसस्थ- इति
पासि.। s) = पुष्प-विशेष-। व्यु. ?। t) नाप. ((?वाला स्हरणकृत-) राक्षसी-)। व्यु. ?। *वज- (वाङ्-) +
अपभृ(त्य >) त्या- > *स्वजाऽपभृत्या- > नैप्र. यनि. इति कृत्वा तत्परः शोचः (तु. पृ ९६० i)।

√वट् √वट् द्र.

विट्, वीट्, वीट्, वीट् आश्रौ ६, ५, २, ७, ६;
 १४, १८; ७, ४, ३, ९, ५, २;
 शाश्रौ ९, २८, १३; ११, १३,
 २७; ३०; १२, ९, १५; १३, ८,
 २; १८, २३, १४; काश्रौ २५,
 १३, ६; आपश्रौ ४, ४, ४; १३,
 ४, २; १२, ४; १४, १८, १०; १५,
 १०, ११^d; १६, १७, १७; १७,
 १३, ६; बौश्रौ ९, ९: २४; १०:
 १९^d; २१; १०, ५०: १४^d;
 १३, २४: १२; १४, २५: २६;
 भाश्रौ ११, १०, ११^d; माश्रौ ६,
 २, ४, १७; १८; ५, ३, २^d; वाश्रौ १,
 १, २, १६; २, २, ३, २१; वैश्रौ
 १३, १२: १७^d; १६, १४: १: ७;
 १८, १४: ३०; १९, ६: ६९;
 हिश्रौ ६, १, ५१; ९, ३, ५०; ११,
 ६, २१; १२, ४, ७; १५, ५, १२;
 द्राश्रौ ८, २, ३, २२; लाश्रौ ४, ६,
 २३; वैताश्रौ ३, ३, ६; १६;
 कुसू १, १०: ८; आपसं २, १८,
 ९; सु २२, १; हिश्रु २, १७, ९; अप
 ४८, ७१; ऋश्रु २, १, १४१; ५,
 ६७; ८४; वृदे ५, ८८; शुश्रु ३,
 १९९; साश्रु १, २७६; अश्रु १३,
 २; २०, ५८; निघं ३, १०;
 या ११, ३७^क; माशि १४, ३;
 दंवि २, २; उजिसू ७: १४; १६;
 पाग १, ४, ५७.

बटव- पाठभो २, ३, १३५.

बठर^क- पाग २, ३, ३८.

बडभीकार- वडभीका- द्र.

वडवा- वडवा- द्र.

वडाL, ला^क आश्रौ ६, ४, १०^क.
 √वण् पाधा. भ्वा. पर. शब्दे.
 वण्ड, णडा^क- पाठ १, ११४; -ण्डः
 शाश्रौ १६, १८, १८; -ण्डाः
 आपश्रौ २२, ४, २४; हिश्रौ १७,
 २, २८.
 वण्ड-खलति- -ती शाश्रौ १७, ६, १.
 विवत^क शाश्रौ १५, ५, १३; अश्रु १८,
 १; या ६, २७^क; २८; दंवि २,
 ५; ङ्पाग १, १, ३७; ४, ५७.
 विवत^क- -तः अश्रु १८, १; निघं ४, ३;
 या ६, २८^क; दंवि २, ५.
 √वट् पाधा. भ्वा. पर. स्थैर्ये.
 श्वदर^क- पाग ४, १, ४१; ५, २, २४;
 ६, २, ८७; -रेण वैश्रु २, १४: ५;
 -रैः वैश्रौ ३, ८: ८; हिश्रौ १,
 ३, ५३.
 बदरी- पाठभो २, ३, ३८;
 पा ४, १, ४१; पाग ६, २, ८५.
 बदरी-शाखा- -खा कप्र
 ३, ९, १०.
 बादर- -रः आपश्रु ११, १६;
 आपध १, २, ३८; हिश्रु १, १,
 ६९; -रम् बौश्रौ १७, ३९: ४;
 ४१: ५; आपश्रु.
 बादर-मणि- -णिम् आमिश्रु
 १, ३, १: ४; ३: १८.
 बदर-कुण- पा ५, २, २४.
 बदर-प्रस्थ- पा ६, २, ८७.
 बदर-सक्तु- -क्तुभिः आपश्रौ १९,
 २, १०; बौश्रौ १७, ३४: ११;
 माश्रौ ५, २, ११, १६; वाश्रौ ३,

२, ७, २१; हिश्रौ १३, ८, २३^क;
 -क्तुस् वैश्रौ ११, ४: १.

बदरा(र-आ)दि-फल-मि(श्रु >)
 श्रा- -श्राः अण ३०^क, १, १७.

रबदर^क- पाग ४, १, ९९.

बादरायण- पा ४, १, ९९; -णः
 हिश्रौ १६, ७, २३; २२, ४, २०;
 हिश्रु १, २५, ४; मीसू ५, २,
 १९××; -णस्य मीसू १, १, ५;
 -णाः बौश्रौ २०: २.

बादरायणि^क- -णिः अश्रु ४, ३७; ७,
 ५९; १०९.

बादरि- -रिः बौश्रौ ४८: ७;
 बौश्रु १, ४, ४४^क; अप ३०^क, १,
 ३; मीसू ३, १, ३; ६, १, २७; ८,
 ३, ६; ९, २, ३३.

बद्ध-, √बध् द्र.

श्वद्धक->बाद्धकि^क- (> कायन-
 पा.) पाग २, ४, ६१.

रवद्ध-क, बद्ध्वा, बद्धधान- √बध्
 द्र.

बद्ध^क- -द्धम् वाधुश्रौ ३, २४: ११;
 १२^क; १३^क; कुसू २, ९: २०;
 -द्वानि वाधुश्रौ ३, २४: ११;
 दंवि २, ५^क; -द्धे दंवि २, ५^क.

विबद्धन्^क- -द्वा^क द्राश्रौ १, १, २५;
 लाश्रौ १, १, २३.

√बध्, नध्^क पाधा. भ्वा. आत्म., क्त्वा.
 पर. बन्धने, बध्नते काश्रौ ७,
 ३, २२××; बौश्रौ; बध्नाति
 काश्रौ ४, २, १५; ८, १; आपश्रौ;
 बध्नोतः वैश्रौ १४, ६: १२;
 बध्नन्ति शाश्रौ १७, ३, ८××;

a) भाश्रौ. माश्रौ. वैश्रौ. शुश्रु. प्रभु. पाठः। b) वैश्रु १ द्र.। c) ऋश्रु. पाठः। d) पाभे. वैश्रु १,
 ८२५a द्र.। हिश्रौ २४, ४, ९ वषट् इति विशेषः। e) तु. पागम.। f) वटर- इति भाण्डा. पाका.। g) आन.
 पाठः। h) = विकलाङ्ग-। i) व्यप.। j) फिन् प्र. उसं. (पा ४, १, १५४)। k) वैश्रु १,
 -२२६० C द्र.। l) वैश्रु २, ३खं. द्र.। m) सपा. आपश्रौ १०, १, ५ प्रभु. पद्दा इति पाभे. +
 म्) या १०, ४ पा ३, ३, ६; ४, ४१ परामृष्टः द्र.।

आपश्रौ; ऋब्रामि आपश्रौ १२, २०, १५; बौश्रौ १३, २२ : ९; माश्रौ; अश्र १, ३५^a; ब्रह्मात् अश्र १२, ४६^b; ब्रह्मै वाधूश्रौ ४, ९ : २; ३; ऋब्रान्तु आपश्रौ १०.२२, १०^c; वैश्रौ; ऋब्रनीव्व द्राश्रौ १०, ३, ८; लाश्रौ ३, १०, ७; ऋब्रधान आपश्रौ २, १, ६; २०, ३, ४; काश्रौ; ऋब्रव-झीत^d बौश्रौ १, २० : २८; आपमं १, ५, १७; ऋब्रह्मात् शांश्रौ १६, ९, १^e; काश्रौ ३, ८, २; आपमं; ऋब्रवन्नत शांश्रौ १६, ९, १^f; अश्र १०, ९; अश्रवन् अश्र १, ३५; ब्रह्मात् वाधूश्रौ ३, १०१ : ४; आश्र ३, ८, १६; आश्रिण् २, १, ३ : १९^g; हिण् २, ३, ७^h; गोश्र ४, ९, ८; ब्रह्मायात् कौश्र ५, ३, २४; वैश्र १, ११ : ८××, अप; ब्रह्मायुः लाश्रौ ९, ९, ५. बेधिये दंनि २, २ⁱ; ऋब्रन्स्यामि आपश्रौ २०, ३, ३; काश्रौ २०, १, २५; बौश्रौ १५, ४ : १२; हिश्रौ १४, १, २७. बध्यते आपमं १, ६, ८^j; अप ६८, ५, ४; बध्यन्ते आपश्रौ २४, २, २७; वाधूश्रौ ४, १३ : ४; ऋब्रध्यताम् बौश्र १, ५, १०; काश्र ३१, ४; बध्यन्ताम् आश्रिण् ३, ८, २ : ७^k. बन्धयति वैश्र २, ९ : ११; कौश्र ६९, २; बन्धयामि वैश्र २, ११ : ७^l; बन्धयेत् वैश्र ६, ३ : ३; आपध २, २७, १८.

बीभस्सन्ते काश्रौ २५, ५, २५; वाध ५, ९; बीभस्सेत काश्रौ २५, ४, ९; बीभस्सेयाताम् द्राश्रौ ४, ४, २१; लाश्रौ २, ४, १२. बद्ध,द्धा- -द्धः आश्रौ ४, ११, ६; शांश्रौ १२, १६, १^m; आपश्रौ; ऋया २, २८; १३, ७; -द्धस् आपश्रौ २०, ३, ६; बौश्रौ ६, २४ : १६; हिश्रौ; या १०, ३२ⁿ; -द्धा आपश्रौ १९, २७, ४; हिश्रौ २२, ६, १७; बौपि १, ३ : २; वृदे ७, १३५; -द्धाः वाधूश्रौ ४, १३ : ३; द्राश्रौ; या १०, ४४; -ऋदान् आपश्रौ ६, २२, १; या ४, ३; -द्धानि सु २६, ४; -द्दाम् हिश्रौ ७, २, २३; बौपि १, ३ : २; हिपि १, २ : ९; -द्दाय आपश्रौ २०, ७, ८; हिश्रौ १४, २, २१; कौश्र ५२, ४; -द्धे आश्र १, ७, १६. २बद्ध-क^o- -कम् दंनि १, १२^p. बद्ध-कौतुक,का^q- -कः आश्रिण् १, ६, १ : ८; -काम् आश्रिण् १, ६, १ : ११. बद्ध-जिह्व^r- -ह्वः माशि १५, २; पाशि २७; वैशि १६१; याशि १, २७; नाशि २, ८, १२. बद्ध-मेख(ला >)ख^s- -लम् कौश्र ५६, ८. बद्ध-व(त्स >)त्सा^t- -त्सान् गोश्र ३, ६, ७. बद्ध-वीर^u- -राः बौश्रौ १३, २२ : १०^v. बद्ध-शि(खा >)ख^w- -खः आश्रिण् २, ६, १ : २; -खम्

बौश्र २, ५, ७; -खाः बौपि ३, ४, १७; -खेन कप्र १, १, ४. बद्ध-श्रोत्र^x- -त्रः या १०, ४१. बद्ध-हित- -तयोः शुप्रा २, ४४. बद्धा-भक्षयति-नेय- -येषु पा ५, २, ९. बद्ध्वा आश्रौ ८, १४, १२; काश्रौ. ऋब्रद्धवान^y- -नः शांश्रौ ६, ६, ६; -नान् या १०, ९; ऋप्रा ४, ६६. षबधिर^z- पाठ १, ५१; पाग २, २, ३८; ५, १, १२३; -रः ऋआपश्रौ १२, ५, ६; १६, ८, १४; आश्रिण्; या १०, ४१^{aa}; -रस्य या १०, ४१; नाशि २, ८, १७; -रा या १०, ४१^{ab}; -राः विध ४५, ३३. बाधिर्यं- पा ५, १, १२३; -र्यम् बौश्रौ २, ५ : ६^{ac}. बधिर-ता-, बधिर-त्व-, बधिरि-मन्- पा ५, १, १२३. ब्रह्मत्- -ब्रह्मन् आश्रौ ३, ६, १७; शांश्रौ ६, १, १६. बध्यत्- -ध्यतः कौश्र १३७, १६^{ad}; वृदे ५, १३४. ऋब्रध्यमान- -नम् आपश्रौ ७, १५, ६; बौश्रौ ४, ६ : २४; माश्रौ; -नाः बौश्रौ ४, ६ : २४; वैश्रौ १०, १२ : ५; हिश्रौ ४, ३, ४३; -नान् माश्रौ ५, २, १३, १; -नौ माश्रौ ५, २, १३, १. बन्ध^{ae}- पाग ६, १, १६०; -न्धम् वैश्र ६, ११ : ३; अप ३६, २, ३; शुप्रा ३, १२९^{af}; -न्धान् कौश्र ३९, १५; -न्धानाम् सुध ५७^{ag};

- a) पामे. वैप १, ६६८ f द्र.। b) पामे. वैप १, २२६० i द्र.। c) पामे. वैप १, २२६० j द्र.। d) पामे. वैप १, २२६० l द्र.। e) पामे. वैप २, ३खं. अब्रध्नात् माश १३, ५, ४, २ टि. द्र.। f) पामे. वैप २, ३खं. अब्रध्नात् माश १३, ५, ४, ४ टि. द्र.। g) पामे. पृ १००० ० द्र.। h) वैप १ द्र.। i) बस. ६ j) पाठः? मध्यतः इति शोधः (तु. वैप १, २४२७ j)। k) पामे. वैप १, १९७१ p द्र.। l) वृटितः पाठः।

-न्धे पा ६, ३, १३; -^१न्धेषु
आपमं १, ६, ८; काट ३१, ४;
बौध १, ५, १०.

बन्धथ- पाठभो २, २, १५८.

बन्धन^१- नम् काश्रौस ३५ : १४;
कौस् ८९, १०^१; दंवि २, ७^१;
पा, पावा ५, २, ७९; -^१नात्
आपश्रौ ८, १८, ३; बौश्रौ; या
१४, ३५^१; -ने आमिग २, १,
१ : १६^१; हिग २, २, ७^१; पा
१, ४, ७८; ४, ४, ९६; -नैः भाग
१, २२ : १७^१.

बन्धन-पायना(न-आ)चमन-अदे-
हन- नम् कौस् ३१, २६.

बन्धन-पायना(न-आ)चमन-
> न-शङ्कुधानज्वाल^१- लैन
कौस् २७, २९.

बन्धन-बध-क्लेश- शान् विध
५१, ६९.

बन्धन-रक्षिन्^१- -क्षिणः शंघ
४३४.

बन्धन-स्थ- -स्थाः अप १९^१,
५, ६.

बन्धना(न-आ)गर^१- रम् विध
६३, २३.

बन्धु^१- पाठ १, १०; पाग ५, ४,
३८; -न्धु जैग २, २ : ९^१; दंवि २,
१०^१; -न्धुः काश्रौ ७, ६, १८^१;
आपश्रौ; ऋथा ४, २१^१; ६, ७;
दंवि १, ८^१; -न्धुनि पा ५, ४,
९; ६, १, १४; २, १०९; -न्धुभिः
विध २०, ३७; -न्धुभ्यः वैग ३,
१ : ८; -न्धुम् दंवि २, ५^१;

-न्धू आपश्रौ १, ९, ६^१;
-न्धून वाध १५, ६; १९, ३२;
बौध; -^१न्धोः आपश्रौ २४, ५,
२; हिश्रौ २१, ३, २.

बान्धव- पा ५, ४, ३८; -वः
माग १, ७, ६; ७; विध २०,
३९; -वम् भाग १, ११ : १; ३;
वाग १०, ५; विध १९, ६; -वाः
आपश्रौ ९, ११, २३; आमिग;
-वान् वैग ५, १ : ४; विध २०,
३८; -वानाम् आमिग ३, ७, ४ :
१; शंघ ४५५; विध २०, ३२;
-वे भाग १, ११ : ३; वाग १०, ६;
-वेन वृदे १, ७; -वैः वैग २,
१७ : ३; ३, २ : १०; कप्र.

बान्धव-संनिधि- -धौ वैग
६, २ : ९; १०; १४ : ४.

बन्धु-गामिन्- -मि विध १७,
१०.

बन्धु-ज्ञान- -ने काट ३९ : १४.
बन्धु-ज्यानि- -निम् वैश्रौ १,
१९ : २.

बन्धु-ता- पा ४, २, ४३.

बन्धु-दत्त- -त्तम् विध १७, १८.

बन्धु-दायाद- -दाः शंघ २९१.

बन्धु-नामन्- -म माश्रौ १, १,
२, २२^१; -मानि माश्रौ १, ९, १६.

बन्धु-पक्ष-क्षय- -न्यम् आज्यो
७, १०.

बन्धु-पति- (> बान्धुपत्त- पा.)
पाग ४, १, ८४.

बन्धु-परिक्लेश- -शम् आज्यो
७, १०.

बन्धु-मत्- -मन्तः वाधुश्रौ ४,
१८ : २४; २७; जैश्रौ १ : १२;
-मन्तम् जैश्रौ १ : १३; कौस्
५५, ११; १२; -मान् वाधुश्रौ
४, १८ : २०; २१; ३१; हिश्रौ
७, ३, २१.

बन्धुमती- -ती हिश्रौ ७,
२, १६; -तीम् माग १, ७, ८;
वाग १०, ८; -त्यः वाञ्छ ४० : ६.
बन्धु-मैत्री- (> बान्धुमैत्रिक-
पावा.) पावाग ४, ४, १.

बन्धु-शील-लक्षण-संपन्न, वा-
-न्नम् आपग ३, १९; -न्नम्
आपग ३, १८.

बन्धु-शील-श्रुता(त-आ)रोग्य-
-याणि आपध २, ११, १७; हिध
२, ४, ३२.

बन्धु-संनिकृष्ट- -ष्टम् वाध १५,
६.

बन्धुर्- पाठ १, ४१; -रम् दंवि
२, ४^१.

बन्ध्य- -न्ध्यः अप ३७, ९, १; अशां
२५, १^१.

बाबन्ध्यमान- -नान् या १०, ९.

बीभत्स, त्सा^१- -स्ताः आपश्रौ
१०, १४, १; बौश्रौ २८, ९ : १६;
वैश्रौ २१, २ : ३; -स्साम्यः
काश्रौ २५, ११, २७; -स्से आश्रौ
३, ११, २१; -स्सैः आश्रौ ३,
१०, २०.

बीभत्समान- -नः आपध २, ५, ४;
हिध २, १, ८४.

बीभत्सु- -सवः कौस् ७३, १८;

a) भाप., नाप. । b) पाभे. वैप २, ३खं. पड्वींशः मंत्रा १, ३, १० टि. द्र. । c) पाठः ? षमनम्,

शङ्कु इति द्वे पदे (तु. सा [शौ ३, ७ भू.] केशवश्च ; वैतु. दारिलः यनि. समस्तमितीव) । d) पूष. = कारा- ।

e) = कारा- । f) वैप १ द्र. । g) सप्र. बन्धु, अजानतः <> बन्धून् विद्यात् <> बन्धुनाम न विदितम्

<> बन्धुनामानि न विन्देत इति पाभे. । h) पाभे. वैप १, ८७८ f द्र. । i) बन्धून् इति C. शोधः ? ।

j) तु. पागम. । k) कर्त्तरि अच् प्र. ।

बोध १,५,६२.
 बीभ (त्स्य>) त्स्या^१-त्स्याः बौश्रौ
 १९,१०:६२.
बधक^१-> १बाधक,का^१-कः शांश्रौ
 १४,२२,१४; काश्रौ २२,३,९;
 आपश्रौ २२,४,१५; हिश्रौ १७,
 २,२१;-कम् बौश्रौ १४, १६:
 १; आमिष्ट २, ५, ५: १^१।
 कौसू ३६, ३६;-काः आमिष्ट
 २,५,५:२^१;-कान् बौश्रौ १४,
 १६:२; ३; कौसू ४९, २१;
 -कानि बौश्रौ १८, ३६:२;
 -कायाम् आमिष्ट २, ५, ५:३;
 -के कौसू १६, १९^१;-केन बौश्रौ
 १४, १६:५; ६; आमिष्ट २, ५, ५:
 २^१; कौसू ४७, ४८; ११६, ६.
 बाधकी-क्वी अप्राय २,९;
 -कीम् कौसू ४७, १३;-क्याम्
 बौश्रौ १४, १६:६.
 बाधक-दण्ड- -ण्डानि कौसू १६,
 १७.
बधित्र- पाठवृ ४, १७३.
१बधिर- √बध् द्र.
२बधिर- (>बाधिरक- पा.) पाग ४,
 २, ८०.
बधिरक^१- पा, पाग २, ४, ६९.
बधिर-ता-, १-स्व- √बध् द्र.
बधिरिका^१- (>बाधिरिक- पा.)
 पाग ४, १, ११२.
बधिरिमन्-, बधन्त्- √बध् द्र.
बध्न्य- -ध्न्यम् दंवि १, १०^१.

बध्यत्- प्रभु. √बध् द्र.
बन्धक^१- पाग ४, १, ४१^१.
 बन्धकी^१- पाग २, १, ७०; ४,
 १, १२३; १२६; पा ४, १, ४१.
 बान्धकित्नेय- पा ४, १,
 १२६.
 बान्धकेय- पा ४, १, १२३.
 बान्धकि^१- (>कायन- पा.)
 पाग २, ४, ६१.
बन्धथ-, बन्धन- प्रभु. √बध्, द्र.
बन्धा (>बन्धा/√कृ पा.) पाग १,
 ४, ६१.
बन्धा^१- (> बान्धायनि- पा.) पाग
 ४, १, १५४^१.
१बन्धु- √बध् द्र.
२बन्धु^१- न्धुः निघ २, १०^१.
३बन्धु^१- पाग ४, १, १५४; -न्धुः ऋअ
 २, ५, २४; शुअ १, १९२××;
 साअ १, ४४८; -न्धोः चाअ
 ३०:१९.
 बान्धवायनि- पा ४, १, १५४.
 बन्धु-प्रभृति- न्तयः वृदे ३, ५९;
 -तीन् वृदे ७, ८६.
 बन्धा(न्धु-आ)दि- दीन् ऋअ २,
 १०, ५६.
४बन्धु- >२बन्धु-र- पागम ४३१.
बन्धुका- (>किल्- पा.) पाग ४,
 २, ८०.
बन्धु-गामिन्- √बध् द्र.
बन्धुजीव^१-> ^१व-क^१- >क-वत्
 अप ५८, १, ७.

बन्धुजीवा (व-अ) घ(र>) रा^१-
 -राम् विध १, २२.
बन्धु-ज्ञान- प्रभु. १बन्धुर- √बध्
 द्र.
बन्धुक^१- पाठ ४, ४१.
 बन्धुक-तिर्युण्डी-शिष्ट-तित्व-
 तित्नुक-ज- -जम् विध ६१,
 ३.
बन्धूर- पाठवृ १, ४१.
बन्ध्य- √बध् द्र.
बप्सत्- √भ्स द्र.
१^१बभु- -भुः^१ हिश्रौ ६, ७, ८; हिष्ट १,
 २९, १.
बभुवस्-, बभुवुषी- √भू द्र.
बधि- √धृ द्र.
१बभु,भ्रू^१- पाठ १, २२; पाग ५, २,
 १००; ३, १०८; -^१भ्रवः
 आपश्रौ २०, १४, ७^१; हिश्रौ १४,
 ३, १६^१; वैताश्रौ; -^१भ्रवे आश्रौ
 ३, ८, १; निसू ९, ३:३३; अप
 ६६, ३, २; साअ २, ७९४; -भ्रु
 ऋआ १७, १४; -भ्रुः आश्रौ ८,
 ७, २४^१; शांश्रौ १०, ११, ८^१;
 काश्रौ १५, २, १५^१; ९, ५^१;
 आपश्रौ ६, ३१, ५^१; २२, १५,
 ३; बाधुश्रौ ४, १६: १२^१;
 वाश्रौ १, ५, ५, २^१; ३, ३, १, ३०^१;
 ४, ३, १७^१; हिश्रौ; भाट्ट २, ३२:
 १२^१; अप ४०, ५, १^१; या १२,
 ४०^१; -^१भ्रुणा कौसू ४६, ५५;
 अप १, ३६, ७; -भ्रुम् आपश्रौ

a) विप. (२अप-तु. तैआ १, २६, ७)। b) =वृक्ष-विशेष-। c) विकारार्थे षण् प्र. (पा ४, ३, १३७ [वैतु. P.W. प्रभु. <२बाधक- इति])। d) बाधः इति पाठः? यनि. शोषः (तु. बौश्रौ.)। e) कः इति पाठः? यनि. शोषः। f) = [बाधक-प्रज्वालित-] अग्नि- (तु. दारिलः)। g) अबाध इति पाठः? यनि. शोषः (तु. बौश्रौ.)। h) व्यप.। i) व्यु. ? < √बन्ध् इति अभा. शक.। j) तु. पागम.। k) =वैरिणी-। l) रान्धकि- इति पाका.। m) धन-नामन्-। n) = [रक्तवर्षण-] पुष्प-। व्यु. ?। < बन्धु- + जीव- इति अभा.। o) स्वार्ये प्र.। p) बस. उप. =अधरोष्ठ-। q) पामे. वैप १, २२७०। द्र.। r) वैप १ द्र.। s) पामे. वैप १, २२६३। द्र.। t) नाप. (गो-).। u) =देवता-।

१४,६,१३, काठश्री ८३; वीश्री;
-भ्रुवे वीश्री १४, २१: २९^०;
-भ्रू^० या ४, १५^०††; -भ्रू: काश्री
७, ६, १२^०; माश्री १, ५, ३, १५^०;
-भ्रूणाम् या ९, २८††; -भ्रूणि
वाधूश्री ३, १०१: ३; -भ्रून्
आपश्री २०, १४, १३††; हिश्री
१४, ३, १८††^०; अय ६३, १, २;
-भ्रूम^१ वाधूश्री ४, ३५: २;
-†श्रो: कौसू २६, ४३; अश्र २,
९; -भ्रुवो: या ४, १५.
बाभ्रुक- पा ५, ३, १०८.
बभ्रु-क(र्य) > णी- ण्याम् वीश्री
२०, २५: ५†.
बभ्रु-तूल^० -लानि माश्री ३, ६, ४†.
†बभ्रु-नीकाश-शा: शुप्रा ३, ९०;
१२९.
बभ्रु-पिङ्गल^० -ल: अश्र ६, १४.
बभ्रु-पिपीलिका- कानाम् कौसू
११६, ३.
बभ्रु-मत्- पा ५, २, १००.
बभ्रु-सूत्र- त्रेण आपृ २३, ४^०;
भापृ २, २८: ५.
†बभ्रु-लो(मत्) > म्नी^० -घ्नी
आपश्री १०, २२, ४; हिश्री ७,
२, १६.
बभ्रु-व(स्त) > स्ता^० -स्तायै वीश्री
१४, २१: २९.
बभ्रु-व(र्य) > णी^० -र्णानाम् या
९, २८.
बभ्रु-श- पा ५, २, १००.

बभ्रु(भ्रू-अ)नूकाश^१- शान् आश्री
२०, १४, १३^०.
२बभ्रु^०- पाग ४, १, १०५; -भ्रवे
आमिपृ १, २, २: २२; वीश्र ३,
९, ५; भापृ ३, १०: ७; हिपृ २,
१९, ६; -भ्रु: ऋश्र २, ५, ३०;
-भ्रुम् वृदे ५, ३३.
बाभ्रव- > ष्व-दानच्युत्, ष्व-
शालङ्कायन- पा, पाग ६, २,
३७.
बाभ्रव्य- पा ४, १, १०५; १०६;
पाग ४, २, ५३; -व्य: ऋप्रा
११, ६५; -व्यम् कौश्र २, ५, ३;
शांश्र ६, १, १; -व्या: वीश्रीप्र३१:
८; -व्याय आश्री १२, ९, १८.
बाभ्रव्यक- पा ४, २, ५३.
बभ्रु-बाभ्रव्य- व्यौ अपृ ४३, ४,
२०.

१बभ्रुय भापृ २, ३२: १२.
बिभ्रौपव्वै: दंवि २, ४.
बभ्रव- > बभ्रवा-विश्वयस्य^० - पा, पाग
६, २, १४०^१; -यसो: चाश्र ४:
५.
†बभ्रुमारि^० -रि: शांश्री ६, १२, २०;
वीश्री ६, २९: १२; वैश्री १४,
१२: १२; जैश्री १३: १६; -०रे
वीश्री ६, १५: १५^०.
बिभ्रय: दंवि २, २.
†ब[व]रासि, सी^० -सिम् हिश्री
१०, ७, ३^०; -सी आश्री ९, ४,
१७; आपश्री १८, १०, २३;

लाश्री ९, २, १५; -सीम् आपश्री
१४, १३, ३^०.
ब[व]रु^० -पाग ३, ४, ७४^०; -रु: ऋश्र
२, १०, ९६; वृदे ६, ६६^०; -०रो
वृदे ६, ६३^०; -रो: शांश्री ११,
१४, २६; ऋश्र २, ८, २४^०.
ब[व]र्कर^० -पाठमो २, ३, ६४; -रम्
काश्रीसं ३५: १५; -रस्य काश्रीसं
३६: १; वैश्री १३, ८: १४^०;
हिश्री २४, २, १०^०; -राय^०
आश्री १५, ६, १६; भाश्री ११,
६, १२.
वर्करो(र-उ)त्सर्ग- र्ग: काश्रीसं
३५: १४.
वर्करो(र-उ)न्वयन- नम् काश्रीसं
३५: १४.
बर्जह^० - > बर्जह^० -ह्ये दंवि २, २†.
√वर्ब^० पाधा. भ्वा. पर. गतौ.
वर्बर^०, वर्वर^० - पाठ २, १२१; पाठमो
२, ३, ३५; पाग २, २, ३८; ४, २,
८०^०; १२७^०; ३, ९३.
बार्बर^० - पा ४, ३, ९३.
बार्बरीय- पा ४, ३, ८०.
बर्बर-ता- ता ऋप्रा १४, २६.
बर्बर-तीर^० -रा: अय ५६, १, ५.
बर्स्व^० -स्वेषु तैप्रा २, १८.
√वर्ह^० पाधा. भ्वा. पर. प्राधान्ये; चुरा.
पर. हिंसायाम्, उभ. भाषायाम्.
१, २, बर्ह^०, बर्हणा- प्रभृ. √वृह^०
(वधा.)द्र.
बळ बट्.द्र.

a) =घेनु-। b) वैप १ द्र.। c) भ्रुः इति चौसं.। d) विप. (शर्करा-)। e) पाभे. पृ १३५२ & द्र.। f) णि इति संस्कृतः टि.। g) =ऋषि-विशेष-। h) भ्रू इति Winternitz.। i) बस.। j) तु. पाका.। लम्बावि इति भारुडा. प्रभृ.। k) पाभे. वैप १, २२६४ q द्र.। l) हिश्री. पाठः। m) परस्परं पाभे.। n) व्यप.। o) अर्थः ?। वह- इति भारुडा.। p) व^० इति पाठः। q) पाठमो. काश्रीसं. पाठः। r) =छगल-। व्युः ? < √वृक् (आदाने) इति अभा.। s) नाप.। व्युः ? < √वृ इति पाठ., < √वृ इति पाठमो., < √वर्ष इति पाठवृ ३, १३१। t) पाठ. पाठः। u) वर्बर- इति पाका.। v) देश-विशेष-। w) वैप १, २२६५ g द्र.।

√बल् पाधा. भ्वा. पर. प्राणने घा-
न्यावरोधने च; चु. उम. प्राणने.

१बल्- पाग २,४, ३१; ५, २, १३६;
पागवा ५, २, ९७; -लम् आश्रौ
६, ३, १; १२, २; शाश्रौ ३, ७,
४^फ; १४, ५८, १; ६४, १; १८, ३,
२^फ; ११, २; ^फकाश्रौ ५, १२,
१२^०; १३, १^०×; आपश्रौ; या
३, ९^०; ६, २३×; -लस्य वृदे
२, ६; ३, ६२; निघ २, ९; या ५,
२५; ९, २५×; -लात् सु ९,
२; वाघ १७, ७३; शंघ; या ६,
२८; ७, २^फ; १०, १०; -लानि
या ४, ५; -^फलाय शाश्रौ ४, ५,
१; आश्रौ; काट ४१, १३^०;
-ले बौश्रौ २६, ५ : २१; दंवि
१, ५^०; २, १०; -लेन द्विश्रौ
१५, ५, ४^०; वैताश्रौ; ^फबौघ २,
१, ३४^०; ४, २, ११^०; या ६, ८;
८, २×.

बल-काम- -मः शाश्रौ १४, ५८, १;
६४, १^०; काश्रौ ४, १५, २३;
क्षुस्; -मस्य आपश्रौ ६, १५,
१; वाश्रौ १, ५, ३, १; वाश्रौ.

बल-कृति- -तिः अप ४८, १४०;
या ७, १०; ८, २; -त्या वृदे १,
८७.

बल-क्षोभ- -भः अप ६३, ३, १०.

बल-(ज>)जा^०- -जायाम् आपश्रौ
३, ४, ८; द्विश्रौ २, ३, ४९.

^फबल-द^०- -०द आपश्रौ ५, २४, ४;
भाश्रौ ५, १६, १; माश्रौ १, ५,

६, २; वाश्रौ १, ४, ४, ४७; द्विश्रौ
३, ५, २५.

बल-दा^०- -दाः दंवि १, ६^०.

बल-दावन्^०- -वा कौस् ७२, १८^०.

बल-धन- -नयोः या ८, २.

बल-धा- -धा(१धाः^०) जैट १, २ :
१६^०.

बल-नामन्- -म या २, २४; ९, २५;
-मानि निघ २, ९; या ३, ९.

बल-पति^०- -तिः काश्रौ ५, १३,
१^०.

बल-पुष्टि-कर- -रम् वृदे ८, ३२.

बल-प्रती(क>)का^०- -का या १०,
२१.

बल-प्रवा(द>)दा^०- -दाः निस् ६,
११ : ८.

बल-भू- -भूः जैट १, २ : १६^०.

बल-वत्- पा ५, २, १३६; -वत्
लाश्रौ ७, १२, ५; विघ २७, ७;

शुप्रा १, १५९; -वतः कौस् ४,
१^०; -वता बौग ४, ४, ९;

-वत्सु या १, २०; -^फवद्धिः
बौग २, ७, १६; द्विग २, ८, २;

चात्र १७ : ११^०; -वन्तः अप
१८, ३, ११; -वन्तम् सु १४, २;

-वान् बौश्रौ ५, १३ : १६××.
बलवती- -ती शंघ ३३३;

या ९, १०; आज्यो ७, १९;
-तीम् द्राश्रौ ३, २, १८; लाश्रौ

१, १०, १३.
बलवत्-त(म>)मा- -मम्
आपमं १, १५, १^०.

बलवन्-तर- -रः वृदे ५, ९४;
पाप्रवा ५, १६; आज्यो ७, १९;

-रम् क्रप्रा १७, २१.

बलिष्ठ- -ष्ठम् निस् ९, ७ : १५;
आग्रिग २, ७, ६ : ३७^०.

बलिष्ठ-त(म>)मा- -मया
वैताश्रौ २०, २१.

बलीयस्- -यः आपश्रौ २१, १,
२०; २४, ३, ४६; ४७; १४, ६;

बौश्रौ; आपमं २, २, ११^०; शाट
२, १, २९^०; पाट २, २, ११^०;

आग्रिग १, २ : ४०^०; बौग
२, ५, १६^०; भाग १, ६ :
११^०; दाट ५, १^०; -यसे

दंवि १, ७^०; -यांसः कौस् ७६,
३०; -यांसम् बौश्रौ २७, ११ :

१०; लुस् ३, ११ : ३१; -यांसि
भाश्रौ ६, १६, ३; -यांसौ भाश्रौ

६, १६, २; द्विश्रौ ३, ८, ३८;
-यान् आश्रौ १, १, २२; ५, ६;

आपश्रौ.

बलीयसी- -सी आपघ
१, ४, ८; द्विघ १, १, १२७;

-स्या वैताश्रौ २०, २१.

बलीयस्-त्व- -त्वम् पावा
३, १, ६७; ७, १, १.

बल-वर्तिन्- -र्ती या ९, १०.

बल-वित्त- -त्तयोः वृदे ३, ६१.

बल-विशेष- -षेण आपघ २, १०,
१६; द्विघ २, ४, १६.
बल-सामर्थ्य- -र्थ्यम् याशि २,
१०७; नाशि २, ८, २१.

- a) वैप १ द्र. । b) पामे. वैप २, ३खं. बलम् माश ११, ४, ३, ७ टि. द्र. । c) पामे. वैप १ वनम्
कौ ३, १, ३ टि. द्र. । d) सपा. पाट २, २, ११ बलीयः इति पामे. । e) पामे. वैप १, १६९६ ० द्र. ।
f) = धान्य-राशि- । = वंशबन्धन-रज्जु- इति (पक्षे) रुद्रदत्तः । g) पामे. वैप १, २२६६ १ द्र. । h) पाठः ? यनि.
शोघः (तु. ०.) । i) पामे. वैप २, ३खं. बलसात् मंत्रा २, ४, ६ टि. द्र. । j) बस. । k) पामे. वैप २, ३खं.
बलभृत् मंत्रा २, ४, ६ टि. द्र. । l) पामे. वैप १, २२६८ b द्र. । m) पामे. इति पाठः ? यनि. शोघः
(तु. सप्र. मै २, १, १) । n) पामे. वैप १, २२६६ ० द्र. । o) पामे. पृ १३५३ i द्र.

बलात्-कार-रम् विध ५, १८४.
 बलात्कारो(र-उ)पसु(क्त >)
 क्ता- -क्ता वाध २८, २.
 बला(ल-अ)बल- -लम् अ१ ५८^८,
 १, ७; माशि ७, १; आज्यो ७,
 २२; -लानि आज्यो ७, २३.
 बलिन्- पा ५, २, १३६; -ङ्गलिनः
 आपमं १, ९, २; माण्ड १, १४, ८;
 दंवि २, ४; -लिनम् सु८, १०, ३१,
 ७; -लिनौ बौश्रौ १८, ४५; १८;
 -ली वृदे ६, ११४; दंवि १, ७१.
 बल्ल- पावा ५, २, ७, १२२.
 बल्य^१- -ल्यम् द्राण्ड ४, २, १०.
 रबल^२- -लः आज्यो १, ९; -लेन
 आज्यो २, ११.
 रबल- (>बल-कुण-)कुवल- टि. द्र.
 धवल- वल- द्र.
 धवल- (> बल-स-, रबल्य- पा.)
 पाग ४, २, ८०.^२
 दबल^३- -लः या ९, १०^४; दंवि २, १०?
 बलका^४- -का याशि १, ७१; -काम
 याशि १, ७१.
 बल-काम- प्रभु. १बल- द्र.
 बलक्ष^५- -क्षम् आपश्रौ २०, १३, १२;
 बौश्रौ १५, २३; ७; २६; ८;
 लाश्रौ ८, ६, १६.
 बलक्षी^६- -क्ष्याः आपश्रौ १०, २६,
 १२; भाश्रौ १०, १७, १८.
 बल-क्षोभ- प्रभु. १बल- द्र.
 बला^७- -ला अप ५, १, ५.
 बलाक.का^८- पाउ ४, १४; पाग ४,
 १, ९६; ५, २, ११६; -कः शंघ
 ३७७ : २०; -का विध ४४,
 २५; -काः शंघ ४२६.

बालकि- पा ४, १, ९६.
 बलाका-वत्-, बलाकिन्- पा ५, २,
 ११६.
 बलाया^१- -या नाशि १, २, ९.
 ऋबलास^२- -सम् दंवि १, ६; -सस्य
 अप ३२, १, ७.
 बलास-देवता->थ्य- -त्यम् अत्र
 ६, १४.
 बलाह- (>बालाहक- पा.) पाग ४,
 २, ८०.
 बल, व^३लाहक^४- पाग ६, २, १०८;
 -ङ्गकः अप ४८, १००; निघ १,
 १०; -कैः अप ६१, १, १५.
 रबलि^५- पाउ ४, १२४; -लयः आपण्ड
 ८, ४; भाण्ड; -लिः आपश्रौ १६,
 ३२, ४१; वैश्रौ; -लिना आपश्रौ
 १३, २२, ५१; ऋबौश्रौ ४, ११ :
 ९; १४; वैध १, ४, ४; -लिभिः
 कप्र २, ४, ८; अप ७०^३, १६, २;
 -लिम् बौश्रौ १७, ४४ : ७१;
 आपमं; -ली जैण्ड १, २३ :
 २; -लीन् द्राश्रौ १२, १, ६;
 लाश्रौ ४, ९, ४; आण्ड; -लीनाम्
 आपध २, ३, १५; १८; हिध
 २, १, ४६; ४८; -लेः आण्ड २,
 १, १०.
 १बालेय- पा ५, १, १३.
 बलि-कर- पा ३, २, २१.
 बलि-कर्मन्- -मै पाण्ड २, १७, १७;
 वैण्ड ७, ६ : १२; जैण्ड २, ९ : १;
 कप्र; -मैणः कप्र २, ४, ६; -मैणा
 कौण्ड १, ६, ७; शाण्ड १, १०, ७;
 -मैणि कप्र १, ५, २.
 बलिकर्म-समन्वित- -त्तम् कप्र

२, ९, ३.
 बलि-तन्त्र- -न्त्रम् गोण्ड १, ४, २३;
 २४.
 बलि-दान- -नम् वैण्ड ४, २ : ७;
 ५, १० : ६××; कप्र २, ३, ११;
 गौध १०, २३.
 बलिदान-प्रदाना(न-अ)र्थ-
 -र्थम् कप्र २, ३, ११.
 बलि-दैवत- -तानि द्राण्ड १, ५, ३३.
 बलि-निर्वपण- -णम् वैण्ड ५, ११ :
 ८.
 बलि-निर्वापण- -णम् वैण्ड ७, ३ :
 १०; ७ : १.
 बलि-गुणो(ष-उ)पहार- -रैः अप
 ७०, ७, ५.
 बलि-प्रि(य >)या^१- -यासु विध
 ९९, २१.
 बलि-भोजिन्- -जिनः आमिण्ड २,
 ४, ८ : ८.
 बलि-मत्- -मतः काश्रौसं ५ :
 १५; -मते काश्रौसं ३ : ५१;
 ५ : १५; १६१; -मान् अशां
 १५, ३१.
 बलि-मन्त्र- -न्त्रः भाण्ड ३, १२ : १;
 -न्त्रस्य आपण्ड १९, ४.
 बलि-रक्षित- -ताभ्याम् पावा २,
 १, ३६.
 बलि-वर्जम् कप्र ३, ९, १२.
 बलि-विधि- -धिम् आमिण्ड २, ४,
 ८ : १.
 बलि-शेष- -षम् वैण्ड ३, ७ : २३;
 गोण्ड १, ४, १२; -षस्य कप्र ३,
 ९, ७.
 बलि-स्थान- -ने वैण्ड ५, ७ : १०.

a) विध. (श्रवसान- [निवास-स्थान-])। तद्धितः यत् प्र. । b) = मुहूर्त-विशेष- । c) अर्थः
 व्यु. व ? । d) अ-बलः इत्यस्य उप. इति स्क. । e) = ऊष्मवृत्ति-विशेष- । f) वैप १ द्र. ।
 g) = ओषधि-विशेष- । h) = मूर्च्छना-विशेष- । i) निघ. पाठः । j) = मेघ- । k) वैप १, २२६७ p
 द्र. । l) वस. ।

बलि-हरण (वप्रा.)^a- -गम् बौश्रौ
२४, ४: ३^b; आगृ १, २, ३;
पागृ; बौगृ १, १, १^b; १०^b;
११, १^b; २, ८, १^b; ९, २६; ४, ९,
२^b; वैगृ; -गस्य वागृ १७, १९;
गोगृ १, ४, २७.

बलिहरणी- -गीम् आगृ २,
१, २.

बलिहरणा(रा-अ)नुकृति^c- -ति:
बौगृ ३, ९, १; १०, १; -तीनि
बौगृ ३, ७, २९.

बलि-हार^a- -र: मागृ २, १६, ३१.
१बलि-हृत्^d- -हृत: बौश्रौ ३, १६:
२७; भाश्रौ ४, ९, २; मागृ २,
८, ४; कौसू ३, १.

बल्य(लि-अ)न्त- -न्ते कप्र १, ९, ७.
बल्य(लि-अ)र्थ- -र्थम् विध ३, २२.
बल्या(लि-२आ)द्य^e- -द्या: अप ३६,
८, २.

बल्यु(लि-उ)पहार- -रै: अप २१,
६, ६; ६८, ५, २१.

२बलि^o- (> २बालेय- पा.) पाग ४,
१, १३६.

बलिन- १बल-द्र.

बलि, लीवर्दी^f- -फि ६४ -१र्द:
बौश्रौ ३, २३: ८; २६, ११:
१९६; भाश्रौ ५, ८, १४; शंघ
३७७: १६; -र्दम् बौश्रौ २५,
३०: १; भाश्रौ १०, १९, १३;
हिश्रौ ७, ३, १४; -र्दा: कौगृ ३,
१०, ३५; शागृ २, १६, ४; -र्दान्
आपश्रौ १६, १८, ३××; वैश्रौ;
-१र्दाय^g आपश्रौ २०, २१, ६;

बौश्रौ १५, ३५: ७; २६, ११:
१७.

बलिष्ठ-बलीयस्- १बल-द्र.

बलीवर्दी^h- (> बालीवर्दिनेय-) पाग
४, १, १२६.

बलीवर्दिन्ⁱ- (> बालीवर्दिनेय- पा.)
पाग ४, १, १२३.

बलीवर्दी^j- (> बालीवर्दिनेय-)

बलूक- बलूक-द्र.

बलूल- १बल-द्र.

बल्कश, स^k- -शस्य बौश्रौ १७,
३६: ५; -सम् आपश्रौ १९,
४, ८.

बल्ब [, व^l] ज^d- पाउभो २, २, ९२;
पांग ४, २, ८०; ३, १४२^k; ५, १,
५०; -१जम् कौसू ७८, ३^l; अप्रा
३, ४, १; दंवि २, २; -जस्य रूप
२३, १, ५; -जान् आपश्रौ १९,
१९, ४; बौश्रौ; -जानाम् बौश्रौ
२३, २: ९.

बाल्बज- -जम् काश्रौ २६, २, ८.

बाल्बजी- -जी काश्रु ७, १३;
-ज्या हिपि १३: ९.

बाल्बजिक- पा ४, २, ८०; ५,
१, ५०.

बल्बज-भार-> बाल्बजभारिक-
पा ५, १, ५०.

बल्ब [, ल्व] ज-मय- पा ४, ३,
१४४^m.

बल्बूथⁿ- -थे शाश्रौ १८, १४, ५१.

बल्बूल^o- -ल: सु २३, ३.

१बल्य- १बल-द्र.

२बल्य- ५बल-द्र.

बल्लभ- बल्लभ-द्र.

√बल्ह पाथा. भ्वा. आत्म. प्राधान्ये;
चुरा. उभ. भा. पा. याम्.

बल्हिक^p- -कान्^m दंवि २, ६१^q.

वच^r- -वम् आज्यो ४, २; ५; -वस्य
आज्यो ५, १६; -वेन आज्यो ५,
२.

व [, व^k] ष्क्य^d- पाग ४, १, ८६; -ये
दंवि २, ९१.

वा [, वा] ष्क्य- पा ४, १, ८६.

वष्क्यणी- पा २, १, ६५.

१वस्त(वप्रा.)^d- पाउभो २, २, १३०;
-स्त: काश्रौ ८, ९, १^p; आपश्रौ
१७, १, ८^q; बौश्रौ १०, ३८:
१८^q; वाधुश्रौ; -स्तम् आपश्रौ
१८, २१, ७; बौश्रौ; -स्तस्य
आपश्रौ १६, २७, १२; १८;
बौश्रौ; -स्तान् काश्रौ १४, ८,
१३; -स्ते बौश्रौ २, ५: ४^r;
-स्तेन शाश्रौ १५, १२, ३;
अप्राय ५, ६.

वास्त- -स्तम् वैगृ २, ४:
४^p; -स्ते वैश्रौ १७, १५:
१०.

वस्त-चर्मन्- -र्म लाश्रौ ८, ११, २२;
-र्मणा काश्रौ १४, ५, १७;
-र्मणि काश्रौ १४, ५, १५; १८,
५, १२; हिश्रौ १२, ६, ९.

वस्त-पूर्व-पर^r- -र: भाशि ६४.

वस्ता(स्त-अ)जिन^d- -नम् आपश्रौ
१८, ५, २१; बौश्रौ ११, २××;
माश्रौ; -ने आपश्रौ १७, १९,
६××; बौश्रौ.

a) = बलि-दान-। b) पाकयज्ञ-वंस्था-। c) बस-। d) वैप १ द्र-। e) व्यप-। f) वैप
२, ३६. द्र-। g) १ल^o इति पाठः। h) = परिवस्सर- इति तैत्रा L३, ८, २०, ५J, C. [पक्षे] चन्द्र- इति। पाभे,
त्रेष १, २२६८ f द्र-। i) १वर्दी- इति पाका-। j) भाखडा. प्रमृ. पाठः। k) तु. पाका-। l) = सर्प-विशेष-।
m) १कानि इति पाठः? यनि. शोघः (तु. संस्कर्तुः टि., शौ ५, २२, ७ च)। n) = करण-विशेष-। o) पाका. पाठः।
p) तु. चौसं.। व^o इति ऋच्यु-। q) १स्तवम् इति पाठः? यनि. शोघः। r) बस, > द्रस,।

रवस्त^a- (> बास्तायन- पा.) पाग
 ४, १, ११०.
 बस्त-वासिन्^b- सिनः दंवि १, ९३.
 श्वस्ति^c- पा, पाग २, ४, ६३.
 रवस्ति- वस्ति- द्र.
 बहिस् (ः, र, श्, ष्)^d- -हिः आश्रौ
 ८, १४, ३; १०, ८, २; शाश्रौ; पा
 २, १, १२; बहिः-ऽहिः काश्रौ
 १६, २, २३.
 बाहीक- पावा ४, १, ८५.
 बाह्य, ह्य^e- पावा ४, १, ८५;
 -ह्यः कौस् ७६, ९; आशि^f ३, २;
 ४, १; ११; -ह्यम् बौश्रौ २५,
 १ : १६; माश्रौ; आशि ८, २६०;
 -ह्याः आपश्रौ २१, ९, ३; २४,
 २, १३; वाश्रौ; -ह्यानाम् विध
 १६, १८; -ह्यानि बौगृ २, २ :
 १३; -ह्याम् आपश्रौ १६, ३२,
 २; १९, ११, ६; कंशि^g ११,
 १, २६; २३, २, ६; -ह्याम्-ऽह्याम्
 आपश्रौ १६, ३, १; ३२, १; वैश्रौ;
 -ह्यायाम् आपश्रौ १९, १२, १;
 हिश्रौ २३, २, १२; -ह्ये काश्रौ
 २६, ७, १८; आपश्रौ ७, ३, ८;
 अप; -ह्येन^h काश्रौ १८, ३, ६;
 बौश्रौ; -ह्येषु आपव १, ९, १८;
 हिष १, ३, १८.
 बाह्य-तस् (ः) शाश्रौ १४,
 १३, ४; आपश्रौ २, ४, ५××;
 बौश्रौ.
 बाह्यतो-लोमन्ⁱ- -स्त्रा
 शाश्रौ १७, ३, ५.
 बाह्य-वाच्^j- -वाक् माशि

१२, ५.
 बाह्य-विशेष (>) षा^k-
 -षाः आपश्रु २०, ५; ९; १४;
 हिश्रु ६, ४३; ४९; ५४^l;
 -षाम्याम् आपश्रु २०, ८; हिश्रु
 ६, ४८; -षे आपश्रु २०, ५;
 हिश्रु ६, ४५.
 बाह्य-सविशेष (>) षा^k-
 -षे बौश्रु १४ : ३.
 बाह्य-द्वुत- -तम् कौगृ १, ६,
 ७; शांगृ १, १०, ९.
 बाह्यां(ह्य-अं)स^m- -सः गोगृ
 १, २, २०.
 बाह्या(ह्य-अ)ङ्गुष्ठⁿ- -ष्ठम्
 माशि २, १.
 बाह्या(ह्य-अ)भ्यन्तर-मध्य-
 तस् (ः) अप ६२, ४, १०.
 बहिः-कक्ष^o- -क्षः शंघ २२६.
 बहिः-परिधि^p- -धि आपश्रौ ९, २,
 ९; १६, १××; बौश्रौ.
 बहिः-पूर्व^q- -र्वः जैश्रौका १२१.
 बहिर-अङ्ग-लक्षण- -त्वत्
 पावा १, १, ४७; २, ४७; ३, १,
 ३××.
 बहिर-आञ्जन^r- -नम् बौश्रौ ९, ११ :
 १५; वैश्रौ १३, १३ : १३^s!
 बहिर-उपसक्^t- -त्कः बौश्रौ २५,
 २८ : २२; -त्कम् बौश्रौ २५,
 २८ : २०.
 बहिर-ऋच^u- -चम् निसू ३, ११ :
 २१.
 बहिर-ग्राम^v- -मे अप ३३, ४, ३.
 बहिर्ग्राम-निवसन- -नम् विध

१६, १४.
 बहिर-जानु^w- -नुः बौघ १, ५, १५.
 बहिर-जानु-कर^x- -रः शंघ २२६.
 बहिर-ज्योतिस्^y- -तिः वाधूश्रौ
 ३, २५ : १; ५.
 बहिर-गि (<नि)घन^z- -नम् निसू
 ४, ७ : २२; -नस्य निसू ४, ७ :
 २८; -नानाम् निसू ४, ७ : २५;
 -नानि निसू २, ३ : ३; ५; १०.
 बहिर्गिधन-स्थान- -ने निसू ४,
 ७ : २३.
 बहिर-द्वार- -रे वागृ २, ११.
 बहिर-धा वाधूश्रौ ४, २३ : ४; शुग्र^{aa}
 ५, २०^{ab}.
 बहिर्धा-भाव- -वात् काश्रौ ९,
 १, ८.
 बहिर-निर्बाध^{ac}- -धम् वैश्रौ १८,
 ७ : २९^{ad}; -घान् आपश्रौ १६,
 १०, ९^{ae}.
 बहिर-भस्मन्^{af}- -स्म माश्रौ १, २,
 ३, २.
 बहिर-भाग- -गम् निसू ३, ५ : १;
 २; ४; ६; ६ : २३.
 बहिर-मण्डल- (स्थ) > स्था^{ag}-
 -स्थाभिः शांगृ ६, २, ९.
 बहिर-योग- पाग २, ४, ६३^{ah};
 -योग पावा १, १, ३६.
 बहियोगो(ग-उ)पसंव्यान-
 -नयोः पा १, १, ३६.
 बहिर-लोम^{ai}- पा ५, ४, ११७;
 -मम् वैश्रौ १२, ८ : ७; -मा-
 भ्याम् आपश्रौ १०, ८, १२.
 बहिर-लोमन्^{aj}- -म आपश्रौ १७,

a) व्यप. । b) वैप १ द. । c) = बाह्य-प्रयत्न- । d) वा. क्वि. । e) बस. ।

f) वा० इति पाठः? यनि. शोधः । g) = बहिष्पवमान- । h) तु. पृ २१६ t । i) ०रञ्ज० इति पाठः? यनि.
 शोधः (तु. बौश्रौ.) । j) अस. । k) बस. > द्वस. । l) उप. = सामभक्ति- । m) पाप्मे. वैप १,
 २३६९ ० द. । n) अस. > उस. । o) बहियोग- इति पाका. । p) बस. (तु. वैप १, २३४ d) ।
 q) तु. पृ २१९ ।

२६, १४^{११}; आपघ १, २८, १९;
 २१; हिध १, ७, ५४; ५७; -झा
 बौश्रौ २१, १२ : २१; हिश्रौ ७,
 ३, ५; -झी काठश्रौ ७६.
 बहिर्-विध^b - धम् आपश्रौ १६,
 २०, ५; वैश्रौ १८, १६ : २२;
 हिश्रौ ११, ६, ५, २.
 बहिर्-विराज^c - जम् बौश्रौ २४,
 ३३ : ९; १२.
 बहिर्-विशसन^e - नम्^d भाश्रौ १,
 २१, १; वैश्रौ ४, ६ : ९; १२,
 १९ : २३; हिश्रौ १, ५, ४२.
 बहिर्-वेद^f - दे आपघ १, १३, १२;
 हिध १, ४, २६.
 बहिर्-वेदि^g - दि आश्रौ १, १२,
 ४; ४, ८, २८××; शाश्रौ.
 बाहिवेदिक^h - कानि काश्रौ
 २२, १, ४०.
 बहिवेदि-सद् - सदः आश्रौ
 १२, ८, २०.
 बहिश्-शौचⁱ - चम् बौध १, ५, ४.
 बहिः-शर्क^j - रात् बौश्रौ १०,
 २५ : १७××.
 बहिः-शाला^k - लायाः वाग् २,
 १४, ११; -लायाम् शाग् १, ५,
 २; पाग् १, ४, २.
 बहिष्-कर्मन्^l - मं शाश्रौ ७, ७, ४;
 १७, १३.
 बहिष्-टात् भाश्रौ ७, ८, १२; वाधूश्रौ
 ४, ७८ : ३.
 बहिष्ठाद्-विशसन^e - नम्^d

आपश्रौ १, १९, ३; १०, २७, १०;
 १९, २७, ११.
 बहिष्ठान्-निर्वाध^e - धम् हिश्रौ
 ११, ३, २६?†.
 बहि-(स्थ>)ष्ट^f - छः हिपि २० :
 ४; -ष्टे हिश्रौ ४, २, ५७^k.
 बहिष्-पत्नीसंयाज^h - त्व- -त्वात्
 लाश्रौ १०, ३, १.
 बहिष्-पद्-लक्षणⁱ - गे पात्रा ८,
 २, ६.
 बहिष्-परिधि^j - धि आश्रौ १, १२,
 ३४; ३, १३, १६; काश्रौ १९, ३,
 २०; काश्रौसं.
 बहिष्-पल - वर्हिष्पल - टि. द्र.
 बहिष्-पवमान^e - नः आश्रौ १०, ३,
 ११; शाश्रौ १, २१, १××; आपश्रौ;
 -नम् आपश्रौ १४, २६, ३; २०,
 १३, ४; बौश्रौ; -नस्य माश्रौ
 २, ३, ६, ८; लाश्रौ; -नात् आश्रौ
 १, ४, २; आपश्रौ; -नाय काश्रौ
 २०, ५, ३; आपश्रौ; -ने शाश्रौ
 ५, १०, ३५××; बौश्रौ; मीसू ५,
 ३, ५७^m; -नेन शाश्रौ ६, ८, ३;
 वाधूश्रौ.
 बाहिव्यवमानोयⁿ - यम्
 जैश्रौ १३ : ७.
 बहिव्यवमान-देश - शः शुश्र
 १, ३४२; -शम् वैश्रौ १४, १३;
 ४.
 बहिव्यवमान(न-ऋ)र्च^o - नर्चः
 द्राश्रौ ४, १, १०; लाश्रौ २, १, ९.

बहिव्यवमान-चत् आपश्रौ १३,
 २, ७.
 बहिव्यवमान-संयोग - गः
 लाश्रौ ७, ११, २२.
 बहिव्यवमान-समाधि - धये
 निस् ७, ६ : १४.
 बहिव्यवमान-स्तोत्र - त्रम् वैश्रौ
 १७, ६ : ७.
 बहिव्यवमाना(न-आ)स्ताव -
 चम् आपश्रौ ११, १४, १०;
 १२, १९, ७.
 बहिष्-पिण्ड^o - ण्डम् काश्रौ १६,
 ५, १.
 बहिस्-तन्व^p - न्वम् बौश्रु ६:९†.
 बहि-स्पन्धा^q - न्धम् बौश्रु
 २ : १५; १९.
 बहिस्-संध्य-त्व - त्वम् गोध २,
 १६.
 बहिः-सदन^r - नम् वैश्रौ १५, २३ :
 १९.
 बहिः-सदस्^s - दः शाश्रौ १७, ४, २.
 बहिः-सदस्^t - सस् बौश्रौ ७, १० :
 १३; ११, ४××; वैश्रौ.
 बहिः-स्तायिन् - यी विध ८९, ३.
 बहिः-स्वार^u - रम् क्षुस् ३, १० :
 ९; १७; ४४; ४५; निस् ६, ८ :
 ४२; ८, ६ : ४७; -रस्य क्षुस् ३,
 १० : ९; १७.
 बहु^v - पाउ १, २९; पा ६, २, ३०;
 पाग ४, १, ४५; ५, १, १२२;
 -ह्वः आश्रौ १, ११, १†; ३,

a) षमः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. संस्कृतः टि.) । b) पृ २२० h द्र. । c) बस. । d) सपा. बहिविशसनम्
 <> बहिष्ठाद्-विशसनम् इति पाठे. । e) वैप १ द्र. । f) तत्रभवतीयः प्र. । g) मलो. कस. । h) अस्. ।
 i) बहिष्पिण्ड इति पाठः? यनि. शोधः (तु. वैप १, २२६९ ० पाठे.) । j) उस्. पूष. विसर्गलोः (पावा ८, ३, ३६) ।
 k) = बहिर्भाग. बहिष्ठात् इति मूले. । सप्र. आपश्रौ ७, १०, ११ मूलम् इति पाठे. । l) मलो. कस. > बस. ।
 मन्त्रशब्देऽवयवार्थके सति (तु. कैयटः) उप. षस. । m) तु. जीसं. । n) इदमर्थे छण् प्र. उस्. (पावा ४, २,
 १३८) । o) उप. = बुद्बुद्- (तु. विद्याधरः) । p) उप. पृ ११६० b द्र. । q) पृ २२० t द्र. ।
 r) अस्. पाक्षिकः समासान्तष् टच् प्र. (पा ५, ४, १०७) । वा. क्विप्. । s) नाप. । बस. ।

१,१०××; शांश्रौ; -हु^० आश्रौ २,
१८,८; १०,८, ११^१; षशांश्रौ
१२, १६, १; १६, ४, ४^०; ६;
१७, १७, १^२; काश्रौ; -हुः शांश्रौ
१०, १४, २; काश्रौ; आपश्रौ ६,
२७, २^{१०}; कौश्र ३, ४, ५^{११};
शांश्र ३, ७, २^{१०}; -हुनः या
२, ७; -हुना निसू १०, ७; २९;
-हुमिः वाधूश्रौ ३, ८८; १३;
२१; -हुभ्यः आमिश्र ३, ५, २;
१; बौमि १, २; १; वृदे ४,
१०१६; या १०, २०; -हुम्
वाश्रौ ३, २, १, २५; -हुषु आश्रौ
२, १, ६; काश्रौ ६, ३, १६; ८,
२, ३; बौश्रौ; पा १, ४, २१××;
-हृन् शांश्रौ १६, ३, २८;
आपश्रौ ६, २४, ८^{१०}××; बौश्रौ;
हिश्रौ ६, ७, २^{१०}; -हूनाम् आश्रौ
२, १, ६; शांश्रौ ९, २२, ६; बौश्रौ;
-हूनि कायउ ३९. ५; भाश्रु;
या ७, ५; ११, १६; २१; -होः
शांश्रौ १७, १७, १^१; आपश्रौ;
पा ५, ४, २.
बह्वी- पा ४, १, ४५; -ह्वोः
षआपश्रौ १, २, ९; ११, १××;
बौश्रौ; -ह्वीनाम् आपश्रौ २०,
१६, ८^१; बौश्रौ २४, ३१; ८;
हिश्रौ १४, ३, ३१^१; वाध; या
९, १४^१; -ह्वीभिः आपश्रौ
१३, १७, २; वैश्रौ; -ह्वीम् आपमं
१, ८, ३; ११, ७; -ह्वीषु वृदे १,
४४; -ह्वयः बौश्रौ १५, ३; १;

वृदे ३, ८२; -ह्वया वाश्रौ २, १,
२, १२.
बहु-कर^६- पा, पावा ३, २, २१.
बहु-कर्म-तम- -मः या ६, १३.
बहु-काम- -माः शांश्रौ १०, २१, १५.
बहु-कार- -०र काश्रौ १५, ७,
१०^१.
बहु-कृष्णाजिन^१- -नः या ३, १९.
बहु-क्रम- -मम् ऋप्रा ११, २०;
-मे ऋप्रा ११, २५, ३५.
बहु-क्षी(र>)शा^१- -राः अप ५७,
३, ४.
बहु-गण^० पा १, १, २३.
बहु-गामिन्- -मिनौ या १४, २३^२.
बहु-गुण^१- पा, पाग ६, २, १७६;
-गानि बौश्र १, २, ३.
बहु-गु(गु>)गू^१- -म्वै आपश्रौ २०,
४, ३; बौश्रौ १५, ५; २०; हिश्रौ
१४, १, ३८.
बहु-ग्रहण- -गम् पावा ५, १, ३१;
-णे पावा ५, ३, २.
बहु-चारिन्- -री अश्र ११, ३(२)^१.
बहुचारिणी- -णी कौसू ३७, ९.
बहु-छन्दोमान- पा, पाग ६, २,
१७६.
बहु-ज- -जः या १४, २९^१; ३१.
बहु-ज(न>)ना^१- -नायाम् आपश्रौ
१३, ९, २.
बहु-जव^१- -०वाः या १२, ४३.
बहु-जात- -न्तः या १२, ३६.
बहु-जाया- -याम् आमिश्र ३, १०,
३; १; ६.

बहु-ज्ञ- -ज्ञम् वाध ६, ३०; -ज्ञेन
बौध १, १, १३.
बहु-त्य- -यम् बौश्रौ ६, ६; २६;
वाधूश्रौ ३, ७६; १५; १७;
-यान् वाधूश्रौ ३, ७६; १२; १८;
-यानि वाधूश्रौ ३, ७६; ११.
बहुतयी- -यीः वाधूश्रौ ३, ७६;
११; १२; १८.
बहु-ता- -तया भाश्रु २, २८; ४.
बहु-विथ- पा ५, २, ५२.
बहु-तो(य>)या^१- -यासु विध
८५, ६५.
बहु-त्रि- > हुत्रि-वर्ष^६- -वर्ष्य
लाश्रौ ८, ३, ९^१.
बहु-त्व- -त्वम् वाश्रौ ३, २, ६, ४०;
अप ६३, १, ४; विध ८, ३९;
वृदे १, १२; -त्वात् कप्र २, २,
१२; -त्वे कौशि ११.
बहुत्व-श्रुति- -त्वेः मीसू ३, ५,
२६.
बहुत्वा(त्व-अ)भाव- -वात्
पावा २, २, २९.
बहुत्वै(त्व-ए)कत्व-लक्षि(त>)
ता- -ताः वृदे ३, ३५.
बहु-दक्षिण, गा^१- -गाम् अप ५४,
२, ४; ६४, १०, १०^२××; -णेन
माश्रौ ५, १, १, ३७.
बहु-दस्यु^३- -स्यवः शांश्रौ १५,
२६, १.
बहु-दात्-तर- -रौ या ६, ९.
बहु-दास-पु(पू^३)रु(ष>)षा^०-
-वायै आपश्रौ २०, ४, ३; बौश्रौ

- a) क्वचित् वा. क्विन्वि. b) पाभे. वैप १ (परि.) बहु मा २३, ३१ टि. द्र. c) पाभे. वैप १, २२०० l द्र. d) ङु इति पाठः? यत्नि. शोषः (तु. सपा. मा ३, ४२ प्रचु.) e) पाभे. वैप १, २२०० n द्र. f) पाभे. वैप १, २२७१ ० द्र. g) उप. टः वा अच् वा प्र. h) पाभे. वैप १, २२४७ ० द्र. i) बस. l j) बहुजः शब्दो भवति इत्यस्य स्थाने दु. बहुशब्दा भवन्ति इति. k) विप. (सारड-). बस. पू. (विप. = ईषदपूर्वो-
-क्त्वि-विशिष्ट-) बहुज प्र. तस्य च पुरस्ताद् योगः (पा ५, ३, ६७) l) बस. उप. = २दक्षिणा- m) = विश्वामित्र-
-सुत-। कस. n) हिश्रौ. पाठः। o) बस. > दस. l.

१५, ५ : २२; हिश्रौ १४, १, ३८.
 बहु-देवत, ता^१ - तः भाश्रौ ६, १५,
 ९; -ताः आपश्रौ २४, ३, ४३;
 वृदे १, ७५; -ताम् शाश्रौ ३, ६,
 १; -तायाम् या ११, ११; १२,
 ३२; -ते मौस् ९, ३, ४३; -तेषु
 काय ४७, ११; वृदे ४, ७.
 बहु-देवता-> वृत्, ह्या- -त्यम्
 अश्र १, २६; २, १३××; -त्या
 शुअ ४, २२; अश्र ३, १६××;
 -त्याः अश्र ३, २१; १९, ४३;
 -त्याम् शुअ ४, ३५; -त्ये अश्र
 १, ९; ३, १; ४, ४; ६, १०४.
 बहु-दैव^१ - वे वृदे ३, ४१.
 बहु-दैवत^१ - तः वृदे ६, ८४; -तम्
 वृदे २, १२८; १३३; ३, ४३;
 नाश्र ८ : २; या १२, ४०; अश्र
 ६, ४१; -तेषु वृदे ३, १२८.
 बहु-द्वार^१ - रस्य बौध १, १, १३.
 बहु-धा ऋआपश्रौ ७, ४, ५^१; १७,
 १३, २; बौश्रौ; हिश्रौ ४, १,
 ६१^१; आपमं २, १, ८^१; हिश्र
 २, ६, १२^१; या ७, ४; १८^१××.
 बहु-धान्य^१ - न्यः आपश्रौ २२,
 १६, ९; हिश्रौ १७, ६, ३३.
 बहु-धान्य^१ - न्यम् कौस् २०,
 ५^१.
 बहु-घार^१ - रे या ५, २.
 बहु-धी^१ - धीः या ६, १३.
 बहु-नामन् - मानि निध ३, १; या
 ३, १३.
 बहु-निष्क^१, नैष्किक- पावा ५,

१, ३०.
 बहु-पद्म(क्षि-अ)नावात^१ - सम्
 वैश्रौ १, १ : ९.
 बहु-प(त्रक>)त्रिका^१ - काम् बौपि
 १, ४ : ७.
 बहु-पर्ण, णा^१ - णः बौश्रौ ४, १ :
 १६; वैश्रौ १०, १ : १३; -र्णम्
 भाश्रौ ७, १ : ८; माश्रौ १, ८,
 १, ४; हिश्रौ ४, १, १५; -र्णा
 बौश्रौ १, १ : ९; भाश्रौ १, २, ९;
 ७, ९, ९; -र्णाम् आपश्रौ १, १,
 ८××; भाश्रौ.
 बहु-पर्ण-शाख, खा^१ - खम् आपश्रौ
 ७, १, १७^१; -खाम् आपश्रौ ७,
 १३, ५.
 बहु-पलाश, शा^१ - शाः निस् १, ११:
 १८; -शाम् वाश्रौ १, २, १, २.
 बहु-पलाश-शा(खा>)ख^१ -
 खम् वाश्रौ १, ६, १, ७^१.
 बहु-पशु - शुम् भाग १, ११ : ११;
 -शु आपश्रौ २२, ६, ४; हिश्रौ
 १७, २, ४९; -शोः पाय १, २,
 ३; गौध १८, २९.
 बहु-पाद, दा^१ - दाः ऋप्रा १७, ४;
 -दानाम् ऋप्रा १७, ४८; -दे
 आपध १, ८, ९; हिध १, २, ९७.
 बहु-पुत्र, त्रा^१ - त्रः भाश्रौ ४, २१,
 ८; वैश्रौ ७, १३ : १२; हिश्रौ ६,
 ४, २८; ६, १७; आपध २, १६,
 २०^१; -अस्य शंघ २८४; -त्राः
 माय १, १२, ३^१.
 बहुपुत्री^१ - त्रीम् आमिण्ड ३,

५, ५ : ७^१.
 बहु-पुष्ट^१ - ष्टः आपश्रौ ५, १४, १;
 माश्रौ १, ६, १, ६; हिश्रौ ३, ४,
 २३; गो १, २२; २, २४; -ष्टस्य
 माश्रौ ५, १, १, १६.
 बहु-पुरुष^१ - पुरु कौस् २०, ५^१.
 बहु-अकार^१ - रे वृदे १, १९.
 बहु-अकृति^१ - तिः पावा २, ४, १२;
 -तौ शुप्रा ५, ७.
 बहु-अजस^१ - जाः या २, ८; पा
 ५, ४, १२३.
 बहु-अधा(न>)ना^१ - नाः वृदे ४,
 ८.
 बहु-भक्ति-वादिन् - दीनि या ७,
 २४^१.
 बहु-भा(या >)र्य^१ - र्यस्य
 आपश्रौ १६, ४, ५; हिश्रौ ११,
 १, ४८; कप्र ३, १, ४.
 बहु-भार्या - र्यासु विध २६, १.
 बहु-भाषिन् - (बाहुभाष्य- पा.)
 पाग ५, १, १२४.
 बहु-भोक्त्रु - क्तुः कप्र २, ५, २.
 बहु-भो(ग>)गा^१ - गा आज्यो
 १३, १०.
 बहु-मत्स्य^१ - त्स्ये कौस् ४७, ३७.
 बहु-मध्य-गत - तानि ऋप्रा १०,
 ८; उस् ४, ७.
 बहु-मन्त्र^१ - मन्त्रम् आपश्रौ २४, १,
 ४४;
 बहु-माष-ति(ल>)ला^१ - लायै
 आपश्रौ २०, ४, ३; बौश्रौ १५, ५ :
 २१; हिश्रौ १४, १, ३८.

a) बस.। b) पाभे. वैप १, २०४५ h द्र.। c) पाभे. वैप २, ३खं. बहुघा तैत्रा २, ७, १७, ३ टि. द्र.।
 d) वैप १ द्र.। e) वैप १, २२७२ e द्र.। f) बस. (तु. वैप १ भूरिधारा-; वैतु. स्क., L पक्षे।) दु. उस.
 इति। g) तु. पाका.। h) कस. > बस.। i) = ओषधि-विशेष-। बस.। j) बस. > द्रस.। k) सपा.
 बहुपर्णशा^१ <> बहुपलाशशा^१ इति पाभे.। l) सपा. हिध २, ५, २० बहूपत्यः इति पाभे.। m) = ओषधि-
 विशेष-। स्त्री. लीष् प्र. (पा ४, १, ६३)। n) पाठः? पत्रोम् इति शोषः (तु. सप्र. बौपि १, ४ : ७ पत्रिकाम्
 इति पाभे.)। o) कस.।

बहु-मित्र^१- -त्रः आपघ २, १६,
२०; द्विघ २, ५, २०.
बहु-याजक- -कः शेष ३७७: १४.
बहु-याजिन्- -जिनः द्विश्रौ २१, २,
५; गोष्ट १, १, १६; द्राष्ट १, ५,
५; त्रिघ ८२, १२; -जिनम्
आमिष्ट २, ७, ११: ११;
-जिनाम् वायुश्रौ ३, २४: १३;
-जी आपश्रौ ११, २०, ११;
१२; बौश्रौ.
बहु-याज्य^२- -ज्यस्य वाघ १४, १७.
बहु-र[=ल]^३-> -रमध्य- -ध्यम्^४
आश्रौ ५, १, १५५.
बहु-रक्ष^५- -थः या ११, २३.
बहु-रायस्पो (प>) पा^६- -षायै
आपश्रौ २०, ४, ३; बौश्रौ १५,
५: २२; द्विश्रौ १४, १, ३८.
बहु-रुद्र-देवता-> -स्य, त्या-
-स्याः शुभ्र २, २५९; २६५;
-त्यानि शुभ्र २, २६०.
बहु-रूप, पा^७- -पः कौसू १२७, २;
-पम् शाश्रौ १३, ४, १; काश्रौ
२५, १०, १; आपश्रौ १, १९, १५;
१४, २४, १; बौश्रौ; -पा आपश्रौ
१३, २३, १२; कौसू १२६, ५;
-पा: काश्रौ २०, ४, २६; आपश्रौ
८, १३, १९; २०, १४, ७५^०;
१२५^०; १५, ३५^०; बौश्रौ ५,
११: १६; वाधुश्रौ ३, ३२: ३;
वैश्रौ २, ५: ५; ऋद्विश्रौ^० १४,
३, १६; १८^२; आमिष्ट २, ५, ३:
२६५^०; बौष्ट ३, ७: १९; या
११, १७; -पाम् द्विश्रौ २, ६,
१५; -पे अप ७२, १, ४.
बहुरूप-क- -कैः अप ५४, २, ५;

५५, १, ६.
बहुरूप-त्व- -त्वम् वृदे ६, ५५.
बहु-ल, ला^१- -पाग ४, २, ७५; ५,
१, १२२; १२३; १३३; -लः
अप ६२, २, २; -लम्^२ शाश्रौ
१५, १७, १५^०; १७, ६, ५; काश्रौ
२, ७, २०; आपश्रौ २, ९, २५×;
बौश्रौ; पा २, १, ३२; ५७××;
-ल्ला आपश्रौ १६, १४, ५; वाश्रौ
२, १, ५, २०; वैश्रौ १८, १२:
१३; निसू २, १०: २२४; -लः
बहु-आपश्रौ १, ५, ५; १२, ११;
१४; भाश्रौ; -ल्लान् अप्रा ३, ४,
१५^०; -ल्लानि सु २५, ६; कौशि
३०; -लाम् शाश्रौ ४, १३, १५^०;
आपश्रौ ६, ११, ५५^०; बौश्रौ;
-ल्लायाम् अप ५९, १, १२; -ले
बौश्रौ ६, ३०: २; तैप्रा ४, ११;
निघ ३, ३०^०.
वाहुल- पा ४, २, ७५.
बाहुलक- पा ५, १, १३३.
बाहुल्य- पा ५, १, १२३;
-ल्ये पा २, ४, २२.
बहुल-तम- -मः वाधुश्रौ ४,
८४: ११.
बहुल-ता- पा ५, १, १२३.
बहुल-तृण^३- -णे काश्रौ २५, ७,
१५.
बहुल-त्व- पा ५, १, १२३.
बहुल-पर्ण^४- -र्णम् काश्रौ ६, १,
८.
बहुल-पला(श>)शा^५- -शाम्
काश्रौ ४, २, ४.
बहुल-वचन- -नस्य पावा २, १,
५८; ६, ३, १३; -नात् पावा ८,

३, ५९.
बहुल-वर्मन्^६- -र्मा शाश्रौ ८,
२४, १५^०.
बहुला(ल-अ)भिमान^७- -नः
द्विश्रौ १, २, २४^०.
बहुलिमन्- पा ५, १, १२३.
बहुलौ(ल-अ)षधि^८- -धि बौश्रौ
२५, ५: ३; बौषि ३, २, ८.
बहुलौषधि-क- -कम् आगु
४, १, १३.
बहु-वचन- -नस्य या ४, ३; १२, ७;
अप्रा १, २, १; २, २, ५^०; शौच
१, ७८; पा १, २, ५८; ४, २१;
८, १, ७४; -नस्य पा १, २,
६३; ८, १, २१; पावा १, २, ५१;
-नात् द्राश्रौ १२, ३, ६; मीसू
११, ४, ५३; -नानि माश्रौ ५,
२, ९, ४; -ने पा ४, ३, १००;
पा, पावा ७, ३, १०३; ८, २, ८१;
-नेन या ११, १६; मीसू ११,
१, ३८.
बहुवचन-लोप-> लोपिन्-
-पिपु पावा ४, १, १६३.
बहुवचन-विषय- -यात् पा ४,
२, १२५; पावा ४, २, ५२.
बहुवचना(न-अ)न्त- -न्तस्य
पावा २, ४, ६२; ४, ८९; ८, २,
८१.
बहु-वत् आश्रौ ५, ४, ७; शाश्रौ;
या २, २४^०; २७; ११, १६; पा
१, २, ५८.
बहु-व(त>)ती- -ती वाश्रौ ३, २,
६, ३९.
बहु-वर्ष-द- -दः अप ३६, २२, १;
६५, ३, ३.

a) बस. । b) उस. उप. कर्तरि ण्यत् प्र. उत्सं. (पा ३, ४, ६८) । c) वैप २, ३६. द्र. ।
d) पामे. वैप २, ३६. ऐवा २, २० टि. द्र. । e) पामे. वैप १, २०१८ टि. द्र. । f) वैप १ द्र. । g) क्वचित् वा.
क्विति. । h) पामे. वैप १, २२७२ टि. द्र. । i) =यावापृथिवी- ।

बहु-वारि-भय- -यम् अप ५९, १, १२.
 बहु-विक्षेप^a- -यम् या ६, ३३.
 बहु-विद्^b- -वित् आश्रौ ३, १२, १६; आपश्रौ ९, ७, १; १०; ९, ६; भाश्रौ; -विदः बौश्रौ १९, ४; ३६; -विदम् माश्रौ ५, २, १४, २२; -विदा शाश्रौ ३, १९, ९; -विदे वैश्रौ २१, १ : ११.
 बहुवित्त-तम- -मः वाधूश्रौ ४, ८४ : १२.
 बहु-विध^a- -धम् वृदे ५, ६३; कौशि ७०; -धाः वैध १, ८, १; कौशि २४; -धान् अप ६३, १, १; -धैः कप्र ३, १, १०; अप ६८, ५, २२; ७०, ८, ५.
 बहु-व्याल-मृग^a- -नो शंघ ४४३.
 बहु-व्रीहि^a- -हिः वृदे २, १०५; पा २, २, २३; पावा; -हैः पा ४, १, १२; २५; ५८; पावा; -हौ पा १, १, २८; २९; २, २, ३५; ५, ४, ७३; ११३; ६, १, १४; २, १०६; १३८; १६२; १९७; पावा.
 बहुव्रीहि-कृत-त्व- -त्वात् पावा २, १, २४.
 बहुव्रीहि-ग्रहण- -णम् पावा ५, ४, ६९.
 बहुव्रीहि-निर्देश- -शः पावा ३, २, १११; ६, १, १; १८६; १९०; -शात् पावा ६, ३, ८१; -शो पावा ६, १, १.
 बहुव्रीहि-प्रतिषेध- -धः पावा १, ४, १; -धे पावा ४, १, ७.
 बहुव्रीहि-वत् पा ८, १, ९; पावा २, १, ५१.

बहुव्रीहिवत्-त्व- -त्वे पावा ८, १, ९.
 बहुव्रीह्य(हिअ)धिकार- -रात् पावा ४, १, ५४.
 बहुव्रीह्य(हिअ)र्थ- -र्थम् पावा १, ४, १.
 ऋबहु-व्रीहि-य(व>)वा^a- -वायै आपश्रौ २०, ४, ३; बौश्रौ १५, ५ : २१; हिश्रौ १४, १, ३८.
 बहु-शब्द- -ब्दान् द्राश्रौ ४, २, १९; लाश्रौ २, २, २७.
 बहु-शस(ः) वैश्रौ २०, ३१ : ४; जैश्रौका १७७; कौस्.
 बहु-शस्त्र-भङ्ग- -ङ्गः अप ७२, ३, १०.
 बहु-शास्त्र, खा^a- -स्त्रः बौश्रौ ४, १ : १६; वैश्रौ १०, १ : १३; -स्वम् भाश्रौ ७, १, ८; माश्रौ; -स्वाम् आपश्रौ १, १, ८; ९; माश्रौ.
 बहु-शि(खा>)ख^a- -खाः भाग १, २८ : ३१.
 बहु-शीर्ष^a- -र्षाः अप ७०^३, ४, ४.
 बहु-श्लक्ष्ण^a- -श्लाः या २, ७.
 बहु-श्रुत^a- -तः वाध ३, ९; शंघ; -तम् वाध ६, ४४; विध ५, १८९; -ताय वाध ३, ९; -तैः बौध २, १०, ५७.
 बाहुश्रुत्य- -त्येन वृदे ८, १३०.
 बहु-श्रुति^a- -ति भाशि ७६.
 बहु-श्रुति- -तेः काश्रौ २४, ५, २२; द्राश्रौ १२, २, १७; लाश्रौ ४, १०, १८; मीस् ३, ७, २६.
 बहु-संवत्सर^a- -रे शाश्रौ १३, २७, ५.
 बहु-सदश- -शम् जुस् ३, ३ : १३;

४ : ११.
 बहु-सदशी- -शयः जुस् ३, ७ : ९.
 बहु-संभार(र>)रा^a- -राम् अप ७२, ५, २.
 बहु-सर्पिष्क^a- -ष्कम् विध ८६, १८.
 बहु-सर्वे-घ(न>)ना- -नायै बौश्रौ १५, ५ : २३१.
 बहु-सुवर्णक^a- -के कालु ७, २९.
 ऋबहु-सूव(र>)री^a- -री आशिष्ट २, १, ५ : १९; ऋप्रा ५, २७; -रीः हिष्ट १, १८, २.
 बहु-स्वर^a- -रस्य तैप्रा ४, ४०.
 बहु-स्वार^a- -रः याशि १, ८२.
 ऋबहु-हस्ति(क>)का^a- -कायै आपश्रौ २०, ४, ३; बौश्रौ १५, ५ : २२; हिश्रौ १४, १, ३८.
 बहु-हिरण्य, ण्या^a- -ण्यः ऋश्रौ २२, ८, २५; -ण्ययायै आपश्रौ २०, ४, ३; बौश्रौ १५, ५ : २१; हिश्रौ १४, १, ३८; -ण्येन आपश्रौ २२, ९, १९; हिश्रौ १७, ४, १४.
 बहु(हु-उ)दक, का^a- -का या ११, ४०; -कः वैध^a १, ९, १; ३; या ५, ६.
 बहु(हु-ऊन>)ना- -नाः ऋश्र १, ३, ९; जुश्र ५, ९.
 बहु(हु-ऊ)जै^a- -हूर्जि पावा ७, १, ७२.
 बहु(हु-अ)ब्र^a- -रम् ऋप्रा १४, ४३.
 बहु(हु-अ)क्षरा(र-अ)न्त्य^a- -न्त्यैः ऋप्रा ५, १२.
 बहु(हु-अ)च्- -ह्वचः पा २, ४, ६६x; पावा ६, ७, ८२.
 बहुच्-पूर्वपद^a- -दात् पा ४,

- a) बस. । b) वैप १ द्र. । (७ बस. > द्रस. । d) नाप. (समासभेद-) । बस. ? ।
 e) सर्वो बहुस्वारः इत्यस्य स्थाने सप्ता. नाशि २, १, ४ सर्वबहु इति पाभे. । f) नाप. (वानप्रस्थ-विशेष-) ।
 g) कस>बस. ।

४,६४; पावा ६,१,८४.
 बहुञ्-अङ्ग^३- -ज्ञात् पा ४, २, ७२.
 बहुञ्-अर्थ- -र्थम् पावा ४, १, ५४.
 बहुञ्(हु-अ)जा(जा-अ) वि(क>) का^३- -कायै आपश्रौ २०, ४, ३; वौश्रौ १५, ५: २०; हिश्रौ १४, १, ३८.
 बहुञ्(हु-अ)ध्याय^३- पा ६, २, १७६.
 बहुञ्(हु-अ)ब्र^३- -ब्रे वैध २, १५, ४.
 बहुञ्(हु-अ)ब्र, ब्रा^३- -ब्रम् आण २, ७, ९; -ब्राम् अप ७२, ५, २.
 बहुञ्(हु-अ)ब्र-दक्षिण, णा^३- -णः अप ७०^३, ४, १; -णाम् अप ७०^३, १३, १.
 बहुञ्(हु-अ)पत्य^३- -त्यः आपघ २, १६, १२; हिघ २, ५, १२; २०^३; -त्यस्य शंघ ७४; -त्याः वाश्रौ १, १, १, २३.
 बहुञ्(हु-अ)मिधान^३-ज- -जः ऋप्रा १३, २२.
 बहुञ्(हु-अ)र्व^३- -र्वम् हिश्रौ ७, २, ६१^३.
 बहुञ्(हु-अ)र्थ-त्व- -त्वात् पावा २, ४, ६२; मीसू ६, ७, २४; ११, १, ४९.
 बहुञ्(हु-अ)व्या(ल्य-अ)र्थ- -र्थस्य पावा ६, ३, ३४; -र्थात् पा, पावा ५, ४, ४२.
 बहुञ्(हु-अ)ध>)श्वा^३- -श्वायै आपश्रौ २०, ४, ३; वौश्रौ १५,

५: २०; हिश्रौ १४, १, ३८.
 बहुञ्(हु-अ)कार^३- -रः अप ५३, ५, १.
 बहुञ्(हु-अ)ज्य^३- -ज्याभ्याम् आपश्रौ २, ५, ११.
 बहुञ्(हु-अ)व्य-तर->प्रा (र-आ) घा(दि-अ)र्थ- -र्थः पावा २, १, ६९.
 बहुञ्(हु-आ)दि- -दीनाम् पावा १, १, २३.
 बहुञ्(हु-आ)प्- -ह्रापः वैध ३, ४, ११.
 बहुञ्(हु-आ)शित्->शित्-दुर्भाग- -गाः अप ६८, १, १०.
 बहुञ्(हु-ई)ति(क>)का^३- -का अप ५२, १, ६; १५.
 बहुञ्(हु-ऋ)च्^३- -ह्रवाम् आशिण ३, ७, ४: ९; वौपि २, ३, १८^३.
 बहुञ्(हु-ऋ)च्^३- -चः अप २, २, ४; ४, ३; ४; शंघ २००; -चम् अप ३, ३, ३; अथ १२, १^३; -चाः आपश्रौ ६, २७, २; १३, २४, १०; निसू १, २: १४; २, २: ८x; साञ्च २, ६५६; शैशि ३३२; -चानाम् पाण २, १०, १९; ऋञ्च ३, २; -चैः ऋञ्च ३, १४.
 बहुञ्चय- पा ४, ३, १२९; -च्यम् शाश्रौ १, १, १५.
 बहुञ्च-ब्राह्मण^३- -णम् आपश्रौ १, २०, १०; ५, १५, १; ६, १३, ९; १५, १६; ३१, १३; ८, ५, २; ११

२, १०; १२, १७, २; १८, ८, ७.
 बहुञ्च-वाजसनेयिन्- -यिनाम् आपश्रौ ८, १५, १२.
 बहुञ्(हु-ए)क-धातु-ज- -जम् वृदे २, १०३.
 बहुञ्(हु-ओ)षधिक^३- -के कौण्ड १, २१, २१; शंश्रु^३ १, २८, २३; ४, ६, ३.
 बहुकोट- (>बाहुकोट- पा.) पाण ४, २, ११०^३.
 बहुञ्-ल- बहु-द्र.
 बहुञ्-ल- -लः भाण्ड २, १५: २; -लस्य अप ५०, ९, ५; -ले वेज्यो ९.
 बहुञ्-ल^३- (>बहुञ्-ल- पा.) पा ४, ३, ३४.
 बहुलिमन्- बहु-द्र.
 बहुद्रि^३- -रयः वौश्रौप ४३: ५.
 बहुञ्-दंवि १, ९^३.
 बाकायन- १बक-द्र.
 बाड् वाट्-द्र.
 बाड् पाधा. भ्वा. आत्म. आस्राव्ये.
 बाडव- वडवा-द्र.
 बाड् (<बाह्) >बाह^३- पा ७, २, १८.
 शवाण^३- पाण २, ४, ३१^३; -णः आपमं १, १२, ९^३; सु २३, २; कौण्ड १, १२, ६^३; शंश्रु १, १९, ६^३; हिण्ड १, २५, १^३; -णम् वौश्रौ २२, ५: १०; जैण्ड २, ९: १२; कौसू ३५, ३; -णाः आण्ड ३, १२, १९^३; भाण्ड १, २८: २^३; अप

a) बस. । b) बस.>द्रस. । c) कस. । d) कस.>बस. उप. = २दक्षिणा- ।। e) पाभे. पृ १७९९ । द्र. । f) = बहुवचन- । g) वैप १६. । h) बस. उप. समासान्तस्य प्र. अभावः उत्सं. (पा ५, ४, ७४) । i) बहुञ्-चानाम् इति B. । j) अनर्थेतर्यपि समासान्तः अः प्र. उत्सं. (पां ५, ४, ७४) । k) उप. = २ब्राह्मण- । l) बहुञ् इति पाठः ? यनि. ऋधः (तु. कौण्ड.) । m) बाहु^३ इति पाका. । n) = कृष्ण-पक्ष- । व्यु. ? । o) = कृत्तिका-नक्षत्र- (तु. वापामा.) । । p) = ऋषि-विशेष- । q) तु. वैप १, ४५६ । r) वैप १ निर्दिष्टान्तं समावेसः द्र. । s) तु. पाका. । चारबाण- इति भास्कर. प्रम्. ।

७०^३, २१, ५; ७१, १४, ४; उनिसू
 ७ : ३१†; -णे दंवि १, ५†.
 बाणL, णा^३-प (रु^३)णी^३- णी^३म्
 कौसू ३६, १९; ३८; अग्र ३, १८.
 बाण-मुख- -खम् सु २३, १.
 -बाण-वत्- -वत् बौश्रौ १०, २३ :
 १७; २३; -वत् आपश्रौ १८,
 १४, ११; वाश्रौ ३, ३, २, ३९;
 -वद्धिः शाश्रौ १४, २२, ११;
 बौश्रौ १८, २४ : ८; -वन्तः
 काश्रौ २२, १०, २५; आपश्रौ
 १८, १०, २७; २२, ४, २२; माश्रौ
 ५, १, ९, १८; हिश्रौ १३, ४, १३;
 -†वाच् तैत्रा ९, २१; १३, ९.
 बाणा(रा-आ)कार^८- -रम् आसिष्ट
 २, ५, १ : १८.
 बाणौ(रा-ओ)घ- -वैः विध ४३, ४२.
 र्वाण, वा^३ण^३- -०ण द्राश्रौ ११, १,
 ५; ६; लाश्रौ ४, १, ५; ६; -णः
 आपश्रौ २१, १७, १०; बौश्रौ
 २३, ११ : २८; हिश्रौ १६, ६, ९;
 तैत्रा १३, १२†; भाशि ६३†;
 -णम् आपश्रौ २१, १८, ९; बौश्रौ
 १६, २० : ५; २१ : ५; वाश्रौ
 ३, २, ५, २५; द्राश्रौ ११, १, १०;
 दंवि २, ८†; -णस्य द्राश्रौ १०,
 ४, १५†; लाश्रौ ३, १२, १५†;
 -णेन काश्रौ १३, २, २५; हिश्रौ
 १६, ६, १५.
 बाण-भेरी-मृदङ्ग-गर्ता(र्त-आ)र्त^१-
 शब्द- -ब्देषु गौध १६, ७.
 बाण-शब्द- -ब्दस्य माश्रु १, १०,
 ७†; -ब्दे कौश्रु ३, ९, २६; बाध

१३, २१.
 १वाणाकर्णी- ऋत ५, १, ३.
 वादर- प्रमृ. १वदर- द.
 वादरायण- प्रमृ. २वदर- द.
 वाद्धकायन-, वाद्धकि- १वद्धक- द.
 √वाध् पाधा. भ्वा. आत्म. लोटने,
 †वाधते आश्रौ ८, १०, ३; शाश्रौ
 १०, ११, ९; १२, २४, २; आपमं
 १, १५, १; बाधन्ते शाश्रौ २, ८,
 ६†; जैश्रु २, ६ : ११; आसिष्ट
 २, ५, ९ : १३; बाधसे आश्रु ३,
 ७, १†; †वाधे शाश्रौ २, ८, ६;
 दंवि १, ८; बाधताम् माश्रु २,
 १८, २†; †वाधन्ताम्^६ आपमं
 २, २२, ११; भाश्रु २, ३० : १५;
 हिश्रु १, १६, ७; †वाधस्व आपश्रौ
 ७, ६, ७; बौश्रौ ८, १९ : १५;
 वैश्रौ १०, ६ : ३; बाधध्वम् बौश्रौ
 १२, ९ : २३; अबाधन्त भाशि
 ५१†.
 बाध्यते अप ७०^२, २, ४; मीसू
 ३, ३, ८; बाध्यन्ते अप ५१, ५,
 १; २; विध ४३, ४१.
 बाध- -धः कप्र ३, ९, १६; अप
 ४८, १०३†^६; निध २, ९†^६.
 र्वाधक- -कस्य पावा ३, १, १४.
 बाधक-बाधना(न-अ)र्थ- -र्थम्
 पावा ३, ३, ४३; ४४.
 बाधक-विषय- -ये पावा ३, १,
 १४.
 †बाधमान, ना- -ऽनः^१ आपश्रौ १६,
 १६, १; वैश्रौ १८, १४ : ८;
 -नाम् माश्रु १, १४, १६†.

बाधित- -त्म् कप्र ३, ९, १६.
 बाधित-स्व- -त्वात् पावा १, १,
 ४४.
 बाधितुम् वृदे ७, ५४.
 बाध्य- -ध्वः आपध २, २६, १८; २८,
 १०; हिध २, ५, २१३; ६, १०.
 बाध्यमान- -नाः वृदे ७, ५५.
 १वाधक- प्रमृ. बधक- द.
 र्वाधक- √बाध् द.
 १वाधकाशाधयेन^६ अप २४, १, ६.
 वाधकी- बधक- द.
 †वाधते^१ अप्राय ४, १.
 वाधिरक- र्वाधिर- द.
 वाधिरिक- बधिरिका- द.
 वाधिर्य- √बध् द.
 वान्धकायन-, ^१कि-, ^१किनेय-, ^१केय-
 बन्धक- द.
 वान्धव- प्रमृ. √बध् द.
 वान्धवायनि- र्बन्धु- द.
 वान्धायनि- बन्धा- द.
 वान्धुक्य^३- -न्याः बौश्रौप्र १५ : २.
 वान्धुपत-, वान्धुमैत्रिक-, बाबन्ध-
 मान- √बध् द.
 वाध्रव-, ^१व्य-, ^१व्यक- र्बन्धु- द.
 वाध्रुक- १बन्धु- द.
 वाध्रर- प्रमृ. बध्रर- द.
 वाह्रि^३- -र्हाः बौश्रौप्र ३ : ३.
 वाह्रत-, ^१हृदगन- प्रमृ. √वृह् द.
 वाह्ररपत्य- वृहस्पति- द.
 †वाल^३ आपश्रौ १, ९९, ४; बौश्रौ १४,
 १४ : २२; वैश्रौ.
 १वाल, ला^३- पाग ५, १, १२२; १२३;
 १२८^०; -लः कप्र २, २, ९; अप

a) कौसू. पाठः। b) नाग. (ओपधि विशेष-). बस.। c) बस. उप. = २आकार-। d) आपश्रौ. हिश्रौ.
 गौध. द्राश्रौ. प्रमृ. पाठः। e) नाप. (वीणा-विशेष-). f) गर्त- = रथ- इति भाष्यम्। g) पाधे. वैप १ (परि.)
 लुदन्तु शौ ६, १२४, २ टि. द.। h) = १बल-। i) वैप १, २२७४ V द.। j) पाधे. वैप १, १७८७ h
 द.। k) पाठः ?। *कसाधनेन इति संस्कृतुः टि.। l) पाठः ?। सपा. ऋ १, २५, २१ जीवसे इति पाधे.।
 m) = ऋषि-विशेष-। n) वैप १ द.। o) बाL, वा^३ लमन्द्- इति पाधि.।

२,१,५^१; शंघ ३५६; विध ५४,
३३; आ ६, ३१, २, १०६; -लम्
वैगु ३, २२ : ७; कप्र २, २, ९;
-लस्य वैगु ५, १० : १; अशां
१७, ५; शंघ २३; यासि १, ७४;
-ला अप ७०^३, ७, ३; वाध १७,
७४; -लाः कौगु ३, १०, ३५;
शांगु २, १६, ४; आमिगु २, ५,
९ : ११; जैगु २, ६ : ९; वृदे
४, १२०; -लान् कौगु ३, १०,
२४^३; गोगु ४, ८, ३१; अप ५३,
२, ३; आपध २, ४, १२^३;
-लानाम् आमिगु २, ४, ६ : ४२;
अप ६४, १०, २; ६५, २, ९, ७०^३,
८, २^३; शंघ ३००; ३०१; बौध
४, ५, ७; -ले आमिगु ३, ७, ४ :
३; बौधि २, ३, ८; शंघ; -लेन
वैगु ६, ५ : २; -लैः बौश्रौ २७,
११ : १६; १९; वाध ३, ४५.

१बाल-क-कान् विध ६८, २५.

बालक-प्रव्रजित-वृद्ध-द्धेभ्यः
शंघ ७८.

बाल-कृत-न्तम् वैगु १, २१; १०^३.

बाल-ग्रह^६-हान् शंघ ११६ : २६.

बाल-अ-घान् विध ५४, ३२.

बाल-ज्येष्ठ^६-घाः पागु २, ९, १३.

बाल-तर्-रस्य शंघ ३९२.

बाल-ता-पा ५, १, १२३.

बाल-त्व-पा ५, १, १२३; -त्वे
अप ९, २, ७; ३८, ३, ५.

बाल-देशान्तरित-प्रव्रजिता(त-अ)

स्वपिण्ड-गडानाम् गौध १४,

४२.

बाल-धन-नः वाध १६, १८^६;
-नम् गौध १०, ४५; -नानि
शंघ ३००.

बाल-धूर्त^१-न्तम् विध ४८, २२^६.

बाल-बन्धन^१-नः^१ आपमं २,
१६, १; पागु १, १६, २४; भागु
२, ७ : ७.

बाल-भाव-वात् वृदे ४, ३.

बाल-मानस-ग-ध्वान्त->न्त-
विपाटन-पटीय(स् >)सी-
सीम् जैश्रौका ५.

बाल-वत्स-न्त्सस्य याशि १, ६९.

बाल-वृत्त-न्तम् बौध ३, ६, ८^३.

बाल-वृद्ध-पाग २, ४, ४१^३; -द्धान्
बौध २, ७, १९; -द्धानाम् अप
२२, १०, ४; ४१, ३, ९; -द्धौ
विध ५, १८९.

बाल-वृद्ध-मत्तो(त-उ)न्मत्तो(त-उ)
पहतदेह-भाराक्रान्त-स्त्री-स्ना-
तक-प्रव्रजित-न्तेभ्यः शंघ ८६.

बाल-वृद्ध-रोगार्ति-श्वा(न्त >)न्ता-
न्तः(ःन्ताः^१) शंघ १४५.

बाल-वृद्धा(द्ध-आ)तुर-न्तेषु वाध
२३, ४३.

बाल-वृद्धा(द्ध-अ)नाथा(थ-आ)र्त-
श्रान्त-न्तान् वैध १, ४, २^३.

बाल-न्याघिता(त-आ)र्त-न्तैः विध
६३, १३.

बाल-स्त्री-धन-नानि शंघ ३००.

बाल-स्त्री-परिगत-न्तानि शंघ
१६९.

बाला(ल-आ)कृति^६-न्तिः अप
५०, ६, ५.

बाला(ल-आ)तप-न्म वैध ३,
३, १.

बालातप-सेवा-न्वाम् विध ७१,
४६.

बाला(ल-अ)नाथ-स्त्री-धन-नानि
विध ३, ६५.

बाला(ल-अ)र्क-बोधित-सरोरुह-
गर्भ-गन्ध^१-न्धाः अप २४,
६, २.

बाला(ल-अ)र्क-वर्णा(र्ण-आभा
>)म-मः अप २९, १, ५.

बालिमन्-पा ५, १, १२३.

बाल्य-पा ५, १, १२३; १२८;
-ल्ये आमिगु २, ४, ५ : २३;
अप ९, ३, ३; बौध ४, ७, ८; विध
९६, ३४.

बाल्य-यौवन-वार्धक्य-क्येषु
विध २५, १३.

बाल^०-पाग ४, १, १५४.

बालायन^१-नाः बौश्रौप्र ३ : ८;
४७ : ३.

बालायनि-पा ४, १, १५४.

बाल्य-ल्यः बौश्रौप्र ७ : २.

बालेय-न्यः बौश्रौप्र ६ : १.

बाल-बाल-द्र.

बालक-(>क्य-पा.) पाग ४,
२, ४९.

बालखिल्य-वालखिल्य-द्र.

बालन्दन^०-नस्य चात्र १६ : १६.

बालव^१-न्म आज्यो ४, ५, ५, ३;
-वस्य आज्यो ५, १६.

बालाकि-बलाक, का-द्र.

बालाहक-बलाह-द्र.

a) सपा. शांगु २, १४, २१ कुमारान् इति पाभे. । b) पाभे. पृ ८८३ p द्र. । c) = बालपीडक-
धसुर-विशेष-। षस. वा उस. वा । d) वस. । e) मनुः ८, १५० नम् इति । f) मत्तो. कस. । g) सपा.
बालधूर्तम् <> बालवृत्तम् इति पाभे. । h) = बाल-ग्रह-। उस. । i) पाभे. पृ १४४६ I द्र. । j) वृद्धम्
इति मैत्र. । k) तु. प्रगम. । l) पाठः इ यनि. शोघः । m) °द्धाननाथात्त्वश्वा° इति C. । n) कस. >
वृत्त. > कस. > षस. > वस. । o) व्यप. । p) फक् प्र. उसं. (प्र ४, १, ९९) । q) = करण-विशेष- ।

बालिश^१- पाउभो २, ३, १४७; पाग
५, १, १२४; -शस्य या ४, २०.
बालिश्य- पा ५, १, १२४.
बालीवदिनेय- बलीवदी- द्र.
बालीवदिनेय- बलीवदी- द्र.
बालीवर्देय- बलीवर्दिन्- द्र.
श्वालेय- श्वलि- द्र.
श्वालेय- श्वलि- द्र.
बाल्वज- प्रमृ. बल्वज- द्र.
बाल्ही (ही)क^०- पा, पाग ५, ३,
११७; -का: अप १, ७, ८;
-कान् अप ५०, २, ४.
बाष्क^०- -ष्कान्^१ आपश्रौ २०, १४,
१०; हिश्रौ १४, ३, १७.
बाष्कय- बष्कय- द्र.
बाष्कल^०- लम् आग ३, ४, ४; शांय
४, १०, ३; -ला: बौश्रौ प्र ८: १;
२१: १; वृदे ८, ८५; चव्यू १:
८.
बाष्कलक^०- क: ऋअ ३, २१; -के
ऋअ ३, ३६.
बाष्कलेय- न्य: बौश्रौ प्र ६: २.
बाष्प- पाउ ३, २८.
√बाष्पाय पा ३, १, १६.
बास्त- श्वस्त- द्र.
बास्तायन- श्वस्त- द्र.
√बाह् पाधा. भ्वा. आत्म. प्रयत्ने.
बाहव^१- ना आश्रौ ३, ८, १; शांश्रौ
८, १२, ८; ९, २७, २; काश्रौ.
बाहवि- श्वबाहु- द्र.
बाहिवैदिक-, षिष्पवमानीय-,
हीक- बहिस- द्र.

बाहु^१- पाउ १, २७; -ह्व: कौसू
१६, २१; अत्र ११, ९; अप ३:
४८; ४: २७; शुपा ४. ६४;
दंवि १, १२; -ह्व: आश्रौ १२,
९, ७; शांश्रौ; -हुभ्याम् ऋआश्रौ
१, १३, १; ३, १, १६; १७;
शांश्रौ ४, ७, ५१; आपश्रौ;
-हुम् शांश्रौ १, ६, ५१; ४, १२,
१०१; १६, ७; आपश्रौ; या ४,
२०१; ९, १५; दंवि १, ८१;
-हुवो: आपश्रौ २०, १३, १२;
२२, २८, ९१; बौश्रौ; -हू आश्रौ
३, ३, ११; ९, ४; शांश्रौ ५, १७,
५१; आपश्रौ; -हून् माश्रौ ६,
१, ३, ३०१; वाश्रौ २, १, २,
२९१; द्राश्रौ ३, १, १०; लाश्रौ
१, ९, ११; -हौ आपश्रौ ७,
१३, ८; १२, ११, १०; हिश्रौ;
-हो: शांश्रौ ४, १५, १३; काश्रौ;
माश्रौ ५, २, १५, २०१; वाश्रौ
१, १, ५, १९१; वैश्रौ.
बाहुक^१- क: बौध २, ३, ४६.
बाहुकर- पा ३, २, २१.
बाहुगृहीत- तम् कौसू ५५, १६.
बाहुच्युत^१- त: माश्रौ २, ४, ३,
२९^m; हिश्रौ ९, ५, ३६; वैताश्रौ
१६, १७^m; २४, १.
बाहुछेद- दे अप ६८, २, १०.
बाहुदाक्षिण्य- ग्यात् निसू ७, ४:
१६; ५: ५.
बाहुद्वय- यम् विध ९६, ९०.
बाहुनामन्- म या ५, २५; -मानि

निघ २, ४; या ३, ८.
बाहुप्रमाण- णे वैश्रौ ११, ८: ३.
बाहुप्रमाणदण्ड^१- षडानि वैश्रौ
१३, ७: १८.
बाहुप्रशंसा- सा मीसू ९, ४, २३.
बाहुबल-> बलिन्- पावा ५, २,
१३५.
बाहुमात्र, त्रा- त्रम् शांश्रौ १७, १,
१०; माश्रौ; -त्रा कप्र १, ८,
१२; अप २२, २, ३; २३, ६, १;
-त्रा: आपश्रौ १५, ५, १३१;
काश्रौ; -त्रान् काश्रौ २, ८, १;
८, ५, १०; आपश्रौ; -त्रे माश्रौ
२, २, ३, ३५; ४, ४; -त्रौ वैश्रौ
२०, ३: १०.
बाहुमात्रो- त्रौ आपश्रौ ६,
३, ६; -त्रोम् काश्रौ १७, ४,
१२; हिश्रौ ११, १, ११; -त्र्य:
काश्रौ १, ३, ३८; आपश्रौ १,
१५, १२; हिश्रौ १, ४, ३२; -त्र्या
कौसू ४७, २४.
बाहुमात्रा(त्र-अ)न्तर^१- रान्
माश्रौ २, २, ४, ४.
बाहुमात्रा(त्र-आ)याम- मे
वैश्रौ ११, ७: १०.
बाहुमूल-सामान्य- न्यात् या
२, २.
बाहुवीर-> र्य^१- र्ये दंवि १,
९१; -र्येण वाध २६, १६.
बाहुवृक्त^१- क्त: ऋअ २, ५, ७१.
बाहुसंज्ञक^१- कम् अशां १, ५१.
बाहु(हु-अ)ङ्क^१- ङ्के दंवि १, ९१.

a) = मूर्ख-। व्यु. ? < बलिश- इति अभा., < श्वाल- + √शी इति स्क. दु. [या.]। b) = आयुध-
जीविसंघविशेष- (तु. वापामा ४६१)। c) = एकहायन-वत्स- इति ? संस्कृतुः सूची। व्यु. ?। d) पाभे. वैप १,
२२६८ B द्र.। e) व्यप.। f) = [ऋमेदीथ-] शाखा-विशेष-, तदर्थेत्- वा। g) विप. (बाष्कल-शाखीय-
कम्-)। चरणेऽर्थे वुल् प्र. उत्सं. (पा ४, ३, १२८)। h) वैप १ द्र.। i) पाभे. वैप १, २२७६ f द्र.।
j) पाभे. वैप १, २२७६ d द्र.। k) तरत्यर्थे ठन् प्र. (पा ४, ४, ७)। l) सप्र. मनुः ४, ७७ बाहुभ्याम् इति।
m) पाभे. वैप १, २२६८ B द्र.। n) बस.। o) पूष. = आर्द्रा-नक्षत्र-।

बाहु(हु-अ)न्त- न्तात् पा ४, १, ६७.
 २बाहु^a- पाग ४, १, ९६; २, ८०^b;
 -हवः^c बौश्रौप्र ४६: २.
 बाहवि- पा ४, १, ९६.
 बाहवि-नार्ग्य-गौतम-शाकल्य-
 बाभ्रव्य-माण्डव्य-माण्डुकेय-
 -या: श्राय ३, ४, ४.
 २बाहु-क- पा ४, २, ८०^c.
 १बाहुक- १बाहु-द्र.
 बाहुकीट- बहुकीट-द्र.
 बाहुभाष्य- बहु-द्र.
 बाहुमित्रायण^d- ण: बौश्रौप्र ३: १३.
 बाहुल- लक- बहु-द्र.
 बाहुलकि^e- कय: बौश्रौप्र १९: १.
 बाहुल्य-, बाहुश्रुत्य- बहु-द्र.
 बाह्य ह्या- वहिस्-द्र.
 बाह्यकि^f- कय: बौश्रौप्र ३: ४.
 बाह्योग^g- गा: बौश्रौप्र १७: २.
 बाहुच्य- बहु-द्र.
 √विद् पाधा. भ्वा. पर. आक्रोशे.
 विठ^h- ऋम् या ६, ३०ⁱ४; -ठे या ६, ३०.
 वि।, वि^jडाल^k- पाठ १, ११८;
 -ल: पावा ३, २, ८४; -लानाम्
 अप ६४, ७, ५.
 विडाल-नकुल-काक- कानाम् सुध
 ४३.
 विडाल-मत्स्य-सज्ज^l- जानाम् अप

६४, ५, ४.
 विडालो(ल-उ) लक- कयो: अप
 ६४, ६, ९.
 विडाल-काक-नकुल(ल-आ)स्(खु-
 उ)च्छिष्ट-भक्षण- -णे विध
 ५१, ४६.
 विडाल-व्रत- > वैडालव्रतिक-
 -क: विध ९३, ८; -कान् विध
 ८२, ५; -के विध ९३, ७.
 वि।, वि^mद्- पाग ४, १, १०४;
 ११०ⁿ; -दा:^o बौश्रौप्र १: ३;
 ४: १; ४; ५: ५; -दानाम्^p
 श्राश्रौ १२, १०, ९; पा ४, १,
 १०४.
 बै।, वै^qद्- पाग ४, १, ७३; -०द्
 बौश्रौप्र ४: ५; -द: बौश्रौप्र
 ४१: १०.
 १बैदी- पा ४, १, ७३.
 बै।, वै^rद्-त्रिरात्र^s-त्र: निसू
 ८, ८: २४; -त्रम् आश्रौ १०,
 २, १०; -त्रे द्राश्रौ ४, १, १६;
 लाश्रौ २, २, ४; ९, ७, ८; निसू
 ३, ७: ७; -त्रेण आपश्रौ २२,
 १८, ४; हिश्रौ १७, ७, १.
 वैद-स्वरसामन्^t- म्नो:
 वैताश्रौ ४१, ४.
 बै।, वै^uद्वायन- पा ४, १, ११०;
 -ना: बौश्रौप्र ४३: ४.
 विद-वत् बौश्रौप्र ४: ५.
 विदल^v- > वैदल^w- ल: आपश्रौ

१९, ६, २; हिश्रौ २३, १, ११;
 -लम् आपश्रौ १९, ६, ३; हिश्रौ
 २३, १, १२.
 वैदल-क- कान् बौश्रौ २१,
 २६: ६.
 √विन्दू पाधा. भ्वा. पर. अययवे.
 विन्दू^x- न्द: या ६, ३२.
 विन्दूवि^y- (> १विन्दुवीय-)
 २विन्दुवीय- २विन्दु-द्र.
 १विन्दु^z- पाठमो २, १, १०; -न्वव:
 आपध १, १६, १२; बौध १, ५,
 ८९^{aa}; विध २३, ५४; हिध १,
 ५, ११; -न्दु: आपश्रौ १३, ९,
 ९; वैश्रौ १६, ११: ७; २६: ५;
 आप्य २३, ८; या २, १; दंवि २,
 ३^{ab}; -न्दुना कौस् १३, ११;
 -न्दुम् माश्रौ ३, ६, १२; -न्दूर्
 बौश्रौ ८, २०: १८.
 विन्दु-मत्- मत् काश्रौ २५, २, १०.
 विन्दु-सिक्त- क्तम् या १४, ३०^{ac}.
 २विन्दु(वप्र।)- पाग २, ४, ६७; ४, १,
 १०४^{ad}; ५, ३, ११९^{ae}; -न्द्वे काय
 ४, २०^{af}; -न्दु: ऋअ २, ८, १४;
 ९, ३०; साश्र १, १४९; १७४.
 वैन्दव- पा २, ४, ६७; ४, १,
 १०४.
 २विन्दुवीय- पा ५, ३, ११६.
 विन्दुक्^{ag}- के विध ८५, १२^{ah}.
 विन्दुसरस^{ai}- > १-प्रमुख^{aj}- खानि
 शंघ ११६: १११^{ak}।

a) व्यप. । b) सकृत् स्थूलबाहु- इति पाका. । c) बहु. <बाहवि- । d) = अन्तरिक्ष- ।
 MW. निष्क- इति । e) पाठ. विध. पाठः । f) = मार्जार- । व्यु. ? < √विद् (आक्रोशे) इति प्रायिकम् ।
 g) मज्ज- = जलजन्तु- ? । h) बौश्रौप्र. निसू. पाठः । i) व्यप. । व्यु. ? < √विद्, न्द् इति MW. ।
 j) बिदापुट- इति पाका. BFG. PW. प्रसू. । k) बहु. < वैद- । l) निसू. वैताश्रौ. पाठः । m) = अहीन-
 विशेष- । n) पूष. = वैद-त्रिरात्र- । o) बौश्रौप्र. पाठः । p) = वंश-खण्ड- । व्यु. ? < √विद्, न्द्, इति
 वाच. PW. MW. । q) विकारार्थे प्र. । r) = इषु- । s) पृ ६९८ g द्र. । t) वैप १ द्र. । u) तु.
 राज., सिवसं. । न्दुः सिं इति ल. ? । v) = आयुषजीविसंघविशेष- । w) = देवता-विशेष- । x) = तीर्थ-
 विशेष- । y) चित्तके इति जीसं. । z) वस. । a¹) 'सरस' इति पाठः ? यनि. शोभः (तु. वीरमित्रोदयः [२, ३५६]) ।

बिभीत L, द^१ क^२- पाठभो २, २, ३९;
पाग ४, ३, १५४; -कः वाधुश्रौ
४, ५९^२ : १.
बैभीत L, द^१ क- पा ४, ३, १५४;
-कः आश्रौ ९, ७, ७; शांश्रौ १४,
२२, १५.
बिभीदक-तिल्वक-बाधक-नीव-
निम्ब-राजवृक्ष-शालमलय (लि-अ)
रलु-दधित्थ-कोविदार-श्लेष्मात-
क-वर्जम् गोय १, ५, १६.
बिभेदादि- √भिद् द.
बिभ्यत्- √भी द.
बिभ्यस्यत्- √भ्यस् द.
बिभ्युषी- √भी द.
बिभ्रत्- √भ्र द.
श्विम्ब^०- पाठ ४, ९५^४; पाग २, ४,
३१; ४, १, ४१; -म्बस्य^० वैयु
४, ११ : १३; १६.
बिम्बी^१ - पा ४, १, ४१.
बिम्ब-क^२ - काः अप ५२, २, ३.
रविम्ब^१ - > बैम्बकि- पावा ४, १,
९७; -कयः बौश्रौष ४१ : ३.
√बिल् पाधा. तुदा. पर. भेदेन; चुरा.
पर. क्षेपे.
श्विल्^१ - लम् शांश्रौ १२, १७, ११;
काश्रौ १६, ४, ३; आपश्रौ २, ४, ४;
६, १^२ १; ७, ३××; बौश्रौ; -लयोः
वैश्रौ १८, १८ : १३; -लात्
आपश्रौ १६, ४, ११; अप २३,
३, २; -लानि बौश्रौ २४, २७ :
१५; १६; -ले शांश्रौ ५, ९, ८;
आपश्रौ ७, १२, १४; १२, १६,
११; २९, ९; १३, १०, १०;
वैश्रौ; -लेन बौश्रौ ९, १ : ९;

१०, १ : ८; २५, २९ : १;
वैश्रौ १३, ४ : १.
बिल-बाह- -ह्यम् अप २३, ३, ३.
बिल-वत्- -वन्ति आमिष्ट १, १, १ :
२८; माष्ट १, ३ : ४; हिष्ट १, १,
२४.
बिल-वासिन्- -सिनाम् अप ६५,
२, ७.
बिल-शब्द- -ब्दे दंवि १, ५.
बिला(ल-अ)र्ध- -र्धे अप २३,
२, ४.
बिलार्ध-तसः (ः) अप २३, ३, ३.
बिला(ल-अ)वका(श >)शा^१-
-शाम् भाश्रौ १०, ५, १२^१;
हिश्रौ ७, १, ४३.
बिले-शय- -यः विध ४४, १३.
रबिल-(> बिल-स, बैलायन-) पाग
४, २, ८०^१.
बिलिश^१ - शम् सु १७, २.
बिल्म^१ - पाठभो २, २, २४३; -ल्सम्
या १, २०^१.
बिल्म-ग्रहण- -गाय या १, २०.
श्विल्व^३ - पाठ ४, ९५; पाग ४, २,
८०^३; ११; ३, १३६; ६, ४, १५३;
-ल्वः शांश्रौ १२, २४, २१;
वाधुश्रौ ४, ६४^१ : ८; वैश्रौ १०,
१ : ११; अप २३, ६, ५; -ल्वम्
अप ३३, ५, ८; या १, १४;
-ल्वे विध ९९, १२; -ल्वैः
अप ३१, ६, ४; शंघ ४४८.
श्वैल्व- पाग ४, ३, १३६;
पाग ४, २, ८०^३; -ल्वः शांश्रौ
१५, १, १६; आपश्रौ १८, १, ८;
वाधुश्रौ ४, ६४^१ : ८; वैश्रौ;

-ल्वम् आपश्रौ ७, १, १६; १२,
१, १२; बौश्रौ ७, ६, ४६; भाश्रौ;
-ल्वः शांश्रौ १६, ३, २; १२, ३;
आपश्रौ; -ल्वान् बौश्रौ १५,
१४ : ३; २३ : १; वाश्रौ ३, ४,
१, ५५; हिश्रौ १४, २, ४०;
-ल्वानाम् वाधुश्रौ ३, ८१ : ५;
-ल्वानि बौश्रौ १५, १४ : १;
वाधुश्रौ ३, ७६ : ७; -ल्वे हिश्रौ
१४, ५, ११; -ल्वेन काश्रौ ९,
६, ११.
बैल्व-खादिर-पालाश- -शाः
काश्रौ २०, ४, १९.
बैल्व-पालाश- -शौ गौघ
१, २४.
बैल्व-पालाश-खादिरा(र-
आ)श्वत्थ-पैलवौ(व-श्रौ)दुम्बर-
-राः शंघ ३६^१.
श्वैल्वक- पा ४, २, ८०.
बिल्वकीय- पा ४, २, ९१.
श्वैल्वक- पा ६, ४, १५३.
बिल्व-गुल्म-लता- -ताः आज्यो २,
१०.
बिल्व-गौरसर्षप- -पाः अप ३३, १,
७.
बिल्व-तण्डुल- -ल्लैः बौघ १, ५,
३२.
बिल्व-तसः (ः) अप ३६, २, ४.
बिल्व-पत्रो(घ-उ)पल- -लानाम्
अप ७०, ४, ८.
बिल्व-पालाश- -शायोः अप ३६, २,
४.
बिल्व-पालाश-खादिर-रोहीतको(क-
उ)दुम्बर- -राणाम् वाश्रौ १, २,

a) शांश्रौ. पोष्ट. पाठः। b) = वृक्ष-विशेष- (नभा. बहेडा)। c) बत्रा.। व्यु. ?। d) < √वी।
e) = प्रतिमा-। f) वैप १ द्र.। g) = वनस्पति-विशेष- इति पागम.। h) स्वार्थे प्र.। i) व्यप.।
j) ब्रस.। k) शम् इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. हिश्रौ.)। l) = बिलिश-। व्यु. ? < बलिन्- + √शो
इति अभा.। m) वैप १, २२७८ k द्र.। n) बैल्व- इति पाका.। o) बि^० इति पाठः ? यनि. शोघः।

१,३०; ६,१,५.
 बिल्व-प्रमाणक^१- कान् कप्र १, ३,
 १४.
 बिल्व-मात्र- -त्रम् गोट ४,१,१२.
 बिल्व-वृक्ष- -क्षम् अप ३६,२१,१;
 -क्षस्य अप २६,५,२.
 बिल्व-शाखा- -खायाम् वौष्ट २,
 ६; १२.
 बिल्वा(ल्व-अ)कृति^२- -तिः अप
 २३,१,४.
 बिल्वा(ल्व-अ)द- -दः या १, १४.
 बिल्वा(ल्व-अ)दि- -दिषु पावा ४,
 ३,१३४.
 बिल्वा(ल्व-अ)भ्यवहार- -रेण विघ
 ४६,१६.
 बिल्वा(ल्व-अ)शिन्- -शिनः वैध १,
 ८,१.
 बिल्वा(ल्व-अ)हार^३- -रः अप ५,
 ३,३.
 रबिल्व^४- -ल्वयोः हिश्रौ ११, ६,
 २८^५.
 ऋबिल्व^६- -०ले अप ४८, ११६^७;
 दंवि २,२.
 √बिस^८, बिस्यति निघ २,१४^९.
 बिस^{१०}- पाउभो २, ३, १७९; पाग ४,
 २, ८०^{११}; ८६; ५, २, १३५;
 -ऋसम् या २, २४^{१२}; दंवि २,
 ५; -सानि शंघ ४४८.
 बिस-खा^{१३}- -खा या २, २४^{१४}.
 बिस-वत्- पा ४, २, ८६.
 बिसवती^{१५}- -वत्यः बौश्रौ १८,
 ४५; २४.
 बिसा(स-अ)भ्यवहार- -रेण विघ

४६,१५.
 बिसि(न् >)नी- पा ५, २, १३५.
 बिसिल- पा ४, २, ८०.
 बिसो(स-ऊ)र्णा- -र्णयाः आपघ १,
 २३, २; हिध १, ६, १०.
 बिस्त- विस्त- द्र.
 श्वीज^{१६}- पाउभो २, २, ८६; पाग ४,
 २, ८०; ५, १, २; २, ९७^{१७};
 -जम् शाश्रौ १५, १७, १^{१८};
 ऋआपश्रौ २०, ८, १३; १२, ८;
 बौश्रौ; अप ४८, ८७^{१९}; निघ २,
 २^{२०}; -जम्-जम् बौश्रौ २५,
 ३१; ३; ७; भाश्रौ ६, १६,
 २७; -जस्य आपघ २, २, ४;
 हिघ २, १, २६; -जान् आमिष्ट
 २, ५, १२; ३^{२१}; -जानि आपमं
 १, १३, २^{२२}; ३; कौष्ट; -जे हिश्रौ
 ३, ८, ६९.
 बीज-ग्रहण- -णे आज्यो १२, १०.
 बीज-निवपन- -नम् आमिष्ट २, ५,
 १२; १.
 बीज-पूर^{२३}- > ऋक->क-
 माष- -षम् सुषप ८८; ५.
 बीज-भेद- -दे मीसू ११, ३, १४.
 बीजरुहा^{२४} (> बीजरुहा √कृ पा.)
 पाग १, ४, ७४.
 बीज-ल- पा ५, २, ९७.
 बीज-वत्- -वतः आग २, १०, २.
 बीज-वध- -धम् गौध ३, २३.
 बीज-वपन-> णीय^{२५}- -वस्य काट
 ७१, ८.
 बीज-वर- -रम् सु ३, १.
 बीज-वाप-> १बैजवापि- (> बैज-

वापीय- पा.) पाग ४, ३, १३१^{२६};
 ५, ३, ११६^{२७}.
 बीज-वापिन्- (> २बैजवापि- पा.)
 पाग ४, २, ८०.
 बीज-होम- -मः वैश्रौ १, १२; ११;
 १३; १३.
 बीजा √कृ पा ५, ४, ५८.
 बीजा(ज-अ)र्थ- -र्थाः आपघ २,
 २४, ६; हिघ २, ५, १७१.
 बीजिक- पा ४, २, ८०.
 बीजिन्- -जितः वाट १०, २; गौघ
 ४, ४.
 बीजि-क्षेत्रिक- -कयोः शंघ
 २८९.
 बीजो(ज-उ)पहरण- -णम् कौसू
 २४, १.
 बीजौ(ज-ओ)षधि-महाफल^{२८}- -लः
 विघ १, ६.
 बीज्य- पा ५, १, २.
 श्वीज^{२९}- (> बैज्य- पा.) पाग ४, १,
 १२३.
 बीभत्स- प्रभृ. √बध् द्र.
 वीरिट^{३०}- -टम् कृया ५, २७; २८;
 -ऋटे निघ ४, २; या ५, २८;
 -टेन या ६, ३०.
 बुक- (> बुकिन्- पा.) पाग ४, २,
 ८०.
 √बुकक् पाधा. भ्वा. पर. भषणे; चुरा.
 पर. भाषणे.
 बुजेबुजः दंवि २, ५.
 √बुह्^{३१} पाधा. तुदा. पर. संवरणे.
 बुद्बुद, दा^{३२}- पाउभो २, २, १७२;
 -दाः या १४, ६; -दाभिः

a) बस. । b) अर्थः व्यु. च? । c) पाभे. वैप १, २०-२१ d द्र. । d) वैप १ द्र. । e) वि^३
 इति संस्कर्ता । f) या २, २४ परामृष्टः द्र. । g) धा. गतौ वृत्तिः । भेदने वा वृद्धौ वा वृत्तिरिति या. । h) विश-
 विस- इति पाका. । i) = पुष्करणी-विशेष- । j) पृ १११७८ द्र. । k) = अघत्य- । l) अर्धचादित्वम् उच्यते. ।
 m) = फल-विशेष- । नभा. अनार । n) वी^३ इति पाका. । o) = यक्ष-विशेष- । तदस्यप्रयोजनमित्यर्थे छः प्र. ।
 p) व्यप. । q) = आयुष्यबीधिसंघनिरौष- । r) दस. > बस. । s) तु. BPG. ।

आमिष्ट २, ६, १ : ४^६.

बुद्बुदोदरि^२ -रयः बौश्रौष ४९ : ३.

√बुध् पाधा. भ्ना. पर. अवगमने, उभ. अत्रबोधने; दिवा. आत्म. अवगमने, बोधामसि वाश्रौ ३, ३, ३, १^१; बोधाति ऋषा ८, ३२^१; षबोधत् ऋषा २, ४, १५; वृदे ४, १२९; षबोधत् आपमं २, ११, १०; आमिष्ट २, १, ५ : १३; या ११, ३१; षबोध, > धा काश्रौ १६, ६, ३०; आपश्रौ १६, ११, १२^१; १३, १; माश्रौ; या १०, ८.

बुध्यते आपश्रौ १४, ९, ३; हिश्रौ १०, ८, ३९; बुध्यति अप ६८, २, ३; बुध्यन्ते बौश्रौ ७, १:१××; हिश्रौ ८, १, १; अबुध्यत वृदे ५, ६९; बुध्यत वृदे ३, ४८; बुध्यत अप ६८, २, २२; बुध्येरन् बौश्रौ १४, २० : १०. बुबुधे वृदे ६, १००; १५०; षबोधि आश्रौ ४, १३, ७; १५, २; शाश्रौ; अबुधन् शाश्रौ ८, २०, १^१; षबुधम् शाश्रौ ११, ९, ७; ऋषा २, १०, ३५; वृदे ७, ३७.

बोधयति आपश्रौ ६, १, ३; आपमं २, १४, २^१; भाष्ट १, २३ : १७^१; कौसु ५९, १८; षबोधय शाश्रौ २, ५, १३; आपश्रौ ५, २८, १०; १६, ७, ६^१; बौश्रौ; षबोधयत बौश्रौ २, १४ : १३; १०, १७ : ११; बोधयेत् वैताश्रौ ५, ९; आपध १, ४, २५; हिष १, १, १४४; २, ५, २३७.

षबोधयिष्यति आपश्रौ ६, २७, १; वैश्रौ; बोधयिष्यति बौष्ट ४, ९, १५; षबुधत् शाश्रौ १२, १५, २; या ४, १७. बोधयाम् √अस्, बोधयामास वृदे ६, ३७. षबोधति आपमं १, १, १; बौष्ट १, १, १४.

बुद्ध- -द्धे आपध २, २१, १४; १६; हिष २, ५, १२३; १२५. बुद्ध-शास्त्र- -खात् मीसू १, २, ३३.

बुद्धि- -द्धये वैष्ट ५, ३ : २०^१; -द्धिः बौश्रौ २९, ८ : १४; वैष्ट; -द्धिम् वैष्ट १, १९ : १२; वैष १, १२, १४; २, ६, १; या १, ४; -द्धेः अप ४८, ८४; शंघ १६२; -द्धौ पादा १, ४, १०९^१; -द्धया बौष १, १, १६; वृदे ८, १३०; या १३, १९; १४, ६; पाशि ६ बुद्धि-काम- -मः कौशि ६२. बुद्धि-कार-(>बौद्धिकार्य- पा.) पाग ४, १, १५१.

बुद्धि-जन्मन्- -न्म मीसू १, १, ४.

बुद्धि-दीपि(न>)नी- -नीम् माशि १६, १६.

बुद्धि-पूर्व- -र्वम् आपध १, ४, २५; २, २५, ११; २६, १९; हिष १, १, १४४; २, ५, २१४.

बुद्धि-मत्- -मतः या १३, ३५; १४, २२; -मते शाश्रौ २, ५, १३; आष्ट १, ५, २; -मान् अप ५२, १०, ५; ६२, १, १; २; आज्यो ७, १४.

बुद्धिमद्-इन्दुमत्- -मन्तौ आश्रौ २, ८, ८.

बुद्धि-मोह- -हम् आज्यो ७, ९. बुद्धि-रूप-शील-लक्षण-संप (ज>)बा- -बाम् आष्ट १, ५, ३.

बुद्धि-वाच्- -वाक् अप ७०^२, २३, १४.

बुद्धि-शक्ति-समेत- -तः कौशि ५७.

बुद्धी(द्धि-इ)न्द्रिय- -याणि विष ९६, ९४.

बुद्ध्वा आपश्रौ १२, १, १; वैश्रौ. १बुध्^३ -धः आमिष्ट २, ४, १० : ५; ७, ६ : ३६; ३, १२, १ : ११; १२; काष्ट; -धाः आमिष्ट ३, १०, ४ : २१; अप; -धैः कप ३, ५, ३; अप.

बुधा(ध-आ)दि- -दीनाम् पाव ३, १, १३५.

२बुध्^३ -धः वैष्ट ४, १३ : ३; जैष्ट; आज्यो ७, १०; -धम् वैष्ट १, ४ : ९^१; जैष्ट २, ९ : १०; शंघ ११६ : ४८; बौध २, ५, २३^१; -धस्य अप ७०^२, २३, १४; आज्यो ८, ५; -धाष आमिष्ट २, ५, १ : १६; १९; २६; ३५; ४५; वैष्ट; -धे अप ६३, ४, ३; ७१, ७, ४.

बौध- -धाः अप ५२, ३, १; -धे विष ७८, ४.

बुध-बन्धन- -ने अप ५१, ४, २.

बुध-बृहस्पति- -ती आज्यो ८, १. बुध-वार- -रे वैष्ट २, १२ : २.

३बुध्^३ -धः बौश्रौ १८, २६ : ५.

a) विप. (२अप-). तद्वति वृत्तिः। b) व्यप.। c) पा १, ३, ८६; ३, ६१ परामृष्टः द्र.। d) पाभे.

वैप. १, २२७९ III द्र.। e) पाभे. घृ ९९७ ० द्र.। f) पाभे. वैप १, २२८० ० द्र.। g) नाप.। कर्तारि कः द्र.। h) =ग्रह-विशेष-। i) व्यप. (अधि- [सौम्य-])।

ऋअ २, १०, १०१; शुअ २, १२३^१; अअ २०, १३७.
 बुध-गविन्त्रि- -ती ऋअ २, ५, १; शुअ २, २३०; साअ १, ७३.
 बुधन्^१ -> बुधन्-नत्^१ - वान्
 भाश्रौ ५, २०, ६.
 बुधन्ती^१ - ती वैश्रौ १, २० : ३.
 बुधान- पाउ २, ९०; -तः या १०, ४१^१कं.
 १बुध्य^१ - ०ध्य^१ माश्रौ १, ६, ३, ७; १४.
 बुध्यमान- नेषु आपश्रौ १४, ९, ३; हिश्रौ १०, ८, ३९.
 बोद्धव्य, व्या- -व्यः अप ५८^३, ३, ९; ६८, २, १८; -व्याः अप ५८^३, ४, १२; १८.
 १बोध^१ - पाग ४, ३, ९२^६; -घः
 आपमं २, १६, १४^१भा^१; मागृ २, १५, १^१भा^१; चाअ ३८ : ७^१; ४२ : २०^१; अअ ८, १^१.
 बोधेय^१ - -याः चव्यू २ : ३७.
 १बोध्य- पा ४, १, १०७^१.
 -घ्याः बौश्रौ प्र ३१ : १०.
 २बोध्य- पा ४, ३, ९२.
 १बोध-प्रतीबोध- -धौ^१ अप्रा ३, १, ७; शौच ४, ९६.
 २बोध^१ -> बोध-व(त् >)ती^१ -
 -तीम्याम् आपश्रौ १६, १३, १^१; हिश्रौ ११, ५, १२.
 बोधत्-> बोधद्-व(त् >)ती^१ -

-१तीभ्याम्^१ माश्रौ ६, १, ४, ३५; वैश्रौ १८, ११ : १८.
 बोधन्-मनस्^१ - -नाः साअ १, १४०^१कं.
 बोधन- -नात् काश्रौ २२, ४, १.
 बोधयन्- -यन् या १०, ४१.
 बोधयन्ती- -न्ती या ४, १६^१कं;
 बोधयितृ- -०तः या १०, ८.
 बोधित- -तः माशि १०, १; १२, २; -ते वृदे ८, ७.
 बोध्य, घ्या- -ध्यः अप ४७, १, १९;
 -ध्यम् अप ४७, १, १५; -घ्याः
 अप्रं १ : ३२; ४ : ८^१; १७; ५ : १३, १९.
 बुध्न्^१ - पाउ ३, ५; -ध्नः बौश्रौ १०, ५४ : २; १५, ३५ : ३; -ध्नम्
 बौश्रौ ९, ३ : १२; भाश्रौ; या १०, ४४^१कं; -१ध्नात् आश्रौ ४, ६, ३^०; बौश्रौ १३, २७ : ७; ८; ११; हिश्रौ २२, ४, १३; -ध्ने
 शाश्रौ १४, ५७, ८^१कं; वृदे ५, १६६; या १०, ४४^१कं; -ध्नेन
 शाश्रौ २, ९, ६; आपश्रौ ९, २, ९; भाश्रौ ९, ४, १; हिश्रौ १५, १, ४८.
 बुध्न-व(त् >)ती^१ - ती बौश्रौ १३, २७ : ६; १०.
 १बुध्निय^१ - -या तैप्रा १०, १३^१कं.
 १२बुध्निय(२अहि)- -०य आपश्रौ ५, १८, २; बौश्रौ; -यः आपश्रौ

१, २२, २; ४, २, १; ११, १५, १;
 बौश्रौ ६, २९ : २१; भाश्रौ;
 -यम् बौश्रौ १२, ११ : ७;
 -याय आपश्रौ ५, १८, २; हिश्रौ ६, ५, १६; वैगृ ३, २० : ११; ५, २ : २०.
 ११बुध्न्य, ध्न्या- -०ध्न्य^१ आपश्रौ ६, २४, ३; ६; २६, २; ५; हिश्रौ ६, ७, २; ७; -ध्न्यः जैश्रौ १३ : २३; -ध्न्या आश्रौ २, १८, ४; शाश्रौ ३, १५, ९; -ध्न्याः आश्रौ ४, ६, ३; ५, ९, ५; दंवि १, १२; -ध्न्यात् अअ ४, २.
 १२बुध्न्य(२अहि)- -०ध्न्य आपश्रौ ५, १२, २; वाश्रौ १, ४, ४, १; ५, ४, २७; ३६; वैश्रौ १, १४ : १६; -ध्न्यः आश्रौ ५, २०, ६; शाश्रौ ६, १२, २६; ८, ६, ८; आपश्रौ; वृदे १, १२६^१कं; या १०, ४४^१कं; वेज्यो ३४; -ध्न्यम् वृदे ५, १६५.
 √बुन्द्^१ पाधा. भ्वा. उभ. निशामने.
 बुन्द^१ - -न्दः निघ ४, ३^१कं; या ६, ३२; ३३^१कं; -१न्दम् साअ १, २१६; या ६, ३४; -न्देन या ६, ३४.
 बुभुक्षमाण- प्रष्ट. √भुज् द.
 बुभूर्षा- √भृ द.
 बुभूषत्-, षा-, षु- √भू द.
 बुर्षुर्- -रम् निघ १, १२^१कं.
 १बु(त् >)ला^१ - -ला^१ माश्रौ ६, २, २, १०; वाश्रौ २, २, १, २५.
 ११बुस^१ - -सम् अप ४८, ७५; निघ

- a) बुधसौ^१ इति पाठः? यनि. च सौम्यः इति च द्वि-पदः शोधः । b) वैष १, २२८० l द्र. ।
 c) वैष १, २२८० m द्र. । d) वैष १ द्र. । e) पाभे. वैष १, २०४२ f द्र. । f) बप्रा. । विशेषः टि. द्र. ।
 भावे कर्तरि वा प्र. । g) = प्रदेश-विशेष- । h) = ऋषि-विशेष- । i) बोधः प्रबोधः इत्यस्य स्थाने
 स्या. शौ ५, ३०, १० प्रष्ट. बोधप्रतीबोधौ इति पाभे. । j) भाप. । k) = वाजसेनयशाखा-भेद- ।
 l) पाभे. वैष १, २२८० n द्र. । m) बस. । n) पाभे. वैष १, २२८० k द्र. । o) पाभे. वैष १,
 २३८१.० द्र. । p) पाभे. वैष १, २२८१ g द्र. । q) √बुन्द् इति BPG. । r) = उदक- ।
 s) पाभे. वैष १, १६५४ c द्र. ।

१, १२; या ५, १९०.
 रवुस-(>बुस-स- पा.) पाग ४, २, ८०.
 √बुस्त पाधा. चुरा. उभ.आदरानाद-रयोः.
 बुस्त- पाग २, ४, ३१.
 √वृह् पाधा. भ्वा. पर. वृद्धौ शब्दे च; चुरा. उभ. भाषायाम्.
 वृहण^० -०ण विध १, ५५०.
 वृवत्^d->वृवद्-उक्थ^d- -क्थः या ६, ४^०; -क्थम् सात्र १, २१७; निघ ४, ३; या ६, ४.
 वृवु^d-बुः शांश्रौ १६, ११, १२^१; ऋञ्च २, ६, ४५; -बौ शांश्रौ १६, ११, ११.
 वृवु-स्तुति- -तिः वृदे ५, १०८.
 वृवूक^d- -कम् अप ४८, ७५; निघ १, १२; या २, २२०.
 वृस^e- पाग ४, १, ४१^f.
 वृसी- पा ४, १, ४१; पाग ६, ३, १०८; -सीः शांश्रौ १७, ४, ७; १७, ४; बौश्रौ १६, २०-२१ : ४; -सीभ्यः शांश्रौ १७, ६, ६; -सीम् द्राण ३, ५, १०^१; -सीषु काश्रौ १३, ३, १^१; -स्वी शांश्रौ १७, १४, ६.
 √वृह् (बधा. I = √वृह्) पाधा. भ्वा. पर. वृद्धौ; तुदा. पर. उद्यमने.
 बर्ह^d->बर्हिष्ट- -ष्टम् आश्रौ ५, ९, २१^१.
 बर्ह^e->बर्ह-वत्-(>बर्हवत्- पा.) पाग ५, २, ६१.

रवर्हⁱ->बर्हिण^k- पाउवृ २, ४९; पावा ५, २, १२२.
 बर्हिण- पा, पाग ४, ३, १५२.
 बर्हि^k- -र्हिणः अ ५८^१, २, ८; -र्हि विध ४४, ३२.
 बर्ह(ण>)ण^d- -ण^d निघ ४, ३; या ६, १८०.
 बर्हि->बर्हि-ष(<म)द^d-
 -षवत् आश्रौ १, ४, ८; निघ ३, ३; -षवदः आश्रौ २, १९, २१९; आपश्रौ ८, १४, १९९; बौश्रौ १, १९ : ३७; ५, १४ : १०; भाश्रौ; कौसू ६, ९^१; -षवम् शांश्रौ ४, ९, २; काश्रौ ३, ४, १०; आपश्रौ; -षवाम् शांश्रौ ३, १६, ६; काश्रौ १५, १०, १६; १९, ३, २४; -षदे बौश्रौ १०, ५० : १४; -षदभ्यः शांश्रौ ३, १६, २; काश्रौ ५, ८, ११; ९, ६; आपश्रौ ८, १३, १६; २०, १४, १३^m; बौश्रौ.
 बर्हि^d- पाउ २, १०९; पाग ५, १, २; -र्हिः आश्रौ १, १, २३××; शांश्रौ; आपश्रौ ८, १, १०ⁿ; भाश्रौ ८, १, १३ⁿ; वैश्रौ ८, ३; १३ⁿ; हिश्रौ ५, १, ९ⁿ; शुभ्र २, ४३१^०; ऋनिघ १, ३^p; १२; ५, २ⁿ; या ५, २८ⁿ; ६, १४ⁿ; ७, २०ⁿ; ऋ, ९^०; १३ⁿ; १४, ११^{२p}; -र्हिभ्याम् आपश्रौ ७, १२, ८; १२, १७, ९; २८, ५; बौश्रौ; -र्हिषः शांश्रौ १, १५, १५; काश्रौ; -र्हिषा आपश्रौ १, ७, १३;

२, ९, २××; बौश्रौ; -र्हिषाम् वैश्र ५, १३ : १४; कौसू १३७, ३६; -र्हिषि आश्रौ २, १९, ३०; ३, १४, १३^१; ५, २, ८; शांश्रौ; आश्रौ १८, २, १६^१; -र्हिषी आपश्रौ ७, १२, ५; बौश्रौ; -र्हिषे बौश्रौ १, १३ : ६; भाश्रौ १, २, ५, २३; -र्हिषाः बौश्रौ ५, ६ : ७; हिश्रौ ४, ३, ५२; ४, १३; -र्हिषि काश्रौ २, २, १५; ६, २, १८; आपश्रौ ९, १७, १ⁿ; १४, ७, ४; बौश्रौ.
 बर्हिः-कल्प- -ल्पेन वैश्रौ ३, ५ : ४.
 बर्हिः-परिधि- -धि काश्रौ ५, ९, २९.
 बर्हिः-प्रभृति- -ति बौश्रौ २४, ३२ : ८; ९; २४; २५.
 बर्हिर्-अग्र- -ग्रम् वैश्रौ ५, ५ : ६; -प्राणि वैश्रौ ५, ५ : ८.
 बर्हिर्-अन्त^r- -न्तम् काश्रौ ८, ६, २५.
 बर्हिर्-आज्य- -ज्ययोः मीसू १, ४, १०.
 बर्हिर्-आदि- -दि भाश्रौ ७, ६, १^२.
 बर्हिर्-आहरण- -णस्य वाश्रौ १, १, २, ७.
 बर्हिर्-उक्ति- -क्तौ वैश्रौ ११, १० : ७.
 बर्हिर्-बन्ध- -न्धम् वैश्र १, १० : ८.

a) पावा ६, ४, २४ परामृष्टः द्र. । b) कर्तरि प्र. । c) वृ^० इति जीसं. । d) वैप १ द्र. । e) = [दर्भमय-] आसन- । व्यु. ? √ब्रु + √सद् इति पा ६, ३, १०९ । f) पृ १६४२ f द्र. । g) ब्र^० इति पाठः इ यनि. शोषः । h) कूर्मकलक- वा कट- वेति भाष्यम् । i) वशीषु इति चौसं. । j) = मयूर-पिच्छ- । घा. वृद्धौ वृत्तिः । k) = मयूर- । l) पाभे. वैप १, १९ ३६ X द्र. । m) पाभे. वैप १, २२८२ I द्र. । n) पाभे. पृ १७४४ i द्र. । o) = आप्री-देवता- । p) अन्तरिक्ष-नामन्- । q) पाठः ? बर्हिषि इति शोषः (तु. सभ्र- आपश्रौ १४, ७, ४; C. च) । r) बस. वा. क्रि. वि. ।

बर्हिर्-बन्धन- ने वैपु १,१० :
 ५.
 बर्हिर्-सुष्टि- -ष्टिम् आपश्रौ १२,
 १७,४;७; बौश्रौ.
 बर्हिर्-मूल- -स्त्रेभ्यः आपश्रौ २,
 ९,१४.
 बर्हिर्-यजुस्- -जुषा बौश्रौ
 २५,१० : १७; ११:१;२५:२.
 बर्हिर्-लवन- -नः बौश्रौ २४,
 ७ : ४.
 बर्हिर्-लाव- -वः बौश्रौ २०,
 ३ : २२; २५; -वम् बौश्रौ २,
 १९ : १.
 बर्हिर्-वपाश्रपणी-कुम्भी-हृदय-
 झूल-पुश्रवाखा- -खाः वैश्रौ
 १७,१० : ८.
 बर्हिर्-वज्रम् काश्रौ ५, ११, ३;
 १०, ८, २५; ३२.
 बर्हिर्-हस्त- -स्तम् बौश्रौ ४, ४:
 ७; १५; ६, २६ : २७; २७ : ३;
 २८:१; -स्तेन बौश्रौ ८, १० : ५,
 बर्हिर्-होम- -मात् काश्रौ १९.
 ५, ११; वैताश्रौ ३१, २०.
 बर्हिस्-चतुष्टय- -यम् बौश्रौ ६,
 १२ : ३.
 बर्हि- (स्थ >) ष- पा ८, ३, ९७,
 बर्हिष्-पल, पू० ल- पाग ८, ३,
 ४८.
 बर्हिष्-मत्- -मन्त्वम् माश्रौ ५,
 १, ३, २३; -मन्तौ आश्रौ २,
 १९, १२; ६, १३, ४.

बर्हिष्मती- -ती अप्राय ६,
 ९; -त्याम् कप्र ३, २, ३.
 बर्हिष्-वृण- -णेन काश्रौ ७,
 ६, ६.
 बर्हि-संयोग- -गात् काश्रौ ५,
 ८, ३६.
 बर्हि-संनहन^{७४}- -नानि बौश्रौ
 १, १३ : १६.
 बर्हि-स्तरण-मन्त्र- -न्त्रेण
 वाश्रौ १, ३, ३, ९.
 बर्हि-स्थान- -ने आपश्रौ १४,
 ३, २; २०, १३, १०; २१, ६,
 १७; ७, ३; ९; ८, ४; हिश्रौ १६,
 ३, ३९.
 बृह- (> बृह-क-) पावा ५, ४, ३.
 बृहत्- पाठ २, ८४; पाग ३, १,
 १२; ४, १, ४१; ८६; ५, ४, ३;
 -हत् आश्रौ ४, ११, ६; १३,
 ७^३; ५, १३, ६^१××; ८,
 ६, ८^१; ९, ९, १४^१; शाश्रौ
 १, ११, १^३; ५, ९, १९^१;
 ७, १५, ११; १६, ८^१××;
 काश्रौ ४, ९, १३; १६, ५, १९;
 १८, ३, २; २५, १३, १२; आपश्रौ
 २, १४, १०; ५, ६, ३; ७, ४,
 ५^१××; बौश्रौ; अप ४८, ६८^१;
 १४१^१; या १, ७; २, १२; ५,
 १९^१;^१; ६, १४^१; ७, २^१; १०;
 ऋप्रा; -हत्-हत् काश्रौ १०,
 १, ९; आपश्रौ १३, १, १०; माश्रौ
 २, ४, ४, ७; हिश्रौ ९, १, ८;

-हत्-हत्-हत् बौश्रौ ८, १ :
 १७, १८, ३० : १; -हत् आश्रौ
 ४, १, २३; ७, ३, १८; ८, ७, ४; ११,
 १; १२, १९; शाश्रौ; आपश्रौ १८,
 ६, १५^१; या ९, ८^१; १०, ११;
 -हत् आश्रौ १, ७, ७^१; आपश्रौ;
 -हत्वाम् हिश्रौ ८, ६, ३३^१; विष
 १, ५५; -हत्ति शाश्रौ ११, १३,
 २१; ३२; १४, ५; आपश्रौ; -हत्ते
 आश्रौ ४, १३, ७; ५, १४, १८;
 शाश्रौ १७, १३, ३^१; आपश्रौ १४,
 ३४, ५^१; बौश्रौ; -हत्तुः सात्र
 १, ३७; ऋप्रा १६, ७३; १८, १४;
 शैशि २६४; -हत्तुः माश्रौ
 १, ८, ६, २२; ६, २, ४, ३^१;
 -हत् आश्रौ ३, १२, २९; ४,
 १३, ७; शाश्रौ ६, ४, ५; १०,
 ११, ९^१; काश्रौ; माश्रौ २, १,
 २, १५^१; -हन्तः आश्रौ
 ७, ४, ४; शाश्रौ १२, ५, १८; ९,
 ११; १८, ६, २; आपश्रौ; -हन्त्वम्
 ऋश्रौ २, ८, ३; ३, ७, १५; ८, १;
 आपश्रौ; -हन्ता वाश्रौ १, १, ६,
 ६^१; -हन्तौ वृदे २, ३९.
 बृहती- पा ४, १, ४१;
 पाग ४, ३, १६४^१; -०ति
 वाश्रौ ४, २६^१; ५; -ती^१
 आश्रौ २, १०, २१^१; १४, २२;
 ३, ८, १^१; ४, १२, २^१; ८, ५,
 १५; १२, ९, १५; शाश्रौ; आपमं
 २, १७, १८^१; माश्रु १, ६ : ७;

a) मन्त्रे. कस. । b) उस. उप. कारणे कृत । c) विप. > नाप. । उप. कर्तरि कृत । d) = बर्हिर्-
 सुष्टि- । e) पाका. पाठः । f) बर्हिष्पल- इति [पक्षे] पासि. । g) नाप. । h) वैप १ द्र. । i) पाभे.
 वैप १, २२८५ h द्र. । j) पाभे. वैप १, २२८५ f द्र. । k) = महत्- । l) = सामन्- । m) पाभे. वैप १,
 १२३२ a द्र. । n) सपा. बृहत्तः स्तोत्रम् <> बृहत्स्तोत्राय इति पाभे. । o) पाभे. वैप २, ३३. बृहत्ते तैश्चा २,
 १३, १ टि. द्र. । p) पाभे. वैप १, २२८७ h द्र. । q) पाभे. वैप १, २२८६ d द्र. । r) पाभे. वैप १,
 २२८७ l द्र. । s) = ऋषभेद- । t) क्वचित् तु १ द्र. । u) पाभे. वैप १, २२८८ h द्र. ।

कौस् ३५, ४^{१३}१^३; काशु ५, ६^०;
 ऋया २, २५; ७, १२^०; ८, ११^०;
 ९, २९^०; षि ३, २६; -तीः
 काश्रौ १७, १२, ९^०; आपश्रौ १७,
 २, ४^०; ४, १०; बौश्रौ १०, ४^०;
 १३^०××; वैश्रौ; -०तीः बौश्रौ
 ६, ४ : ४; भाश्रौ १०, ५, १०;
 वाधुश्रौ ४, २९ : १०; -तीनाम्
 ऋश्र ४, ३; उनिस् २ : ३४;
 -तीभिः आश्रौ ६, ३, ७;
 माश्रौ ६, २, २, २१; वाश्रौ
 २, २, १, ३१; बौश्रु^० १४:
 ४××; -तीभ्यः निस् ३, १२:
 ४८; -तीम् आश्रौ २, १०,
 २१; शाश्रौ; -तीषु काश्रौ २५,
 १३, ६^०; द्राश्रौ; लाश्रौ ७, ३, ७^०;
 -त्यः आश्रौ ८, ५, १४; शाश्रौ
 ७, २५, १४; १२, ९, १०; आपश्रौ;
 -त्या आपश्रौ १९, २२, १३;
 बौश्रौ १८, ३१ : १०; माश्रौ; या
 २, २५; -त्याः निस् १.३ : १३;
 कौग १, १५, १^०; शांश्रु १, २३, १^०;
 पाश्रु १, १३, १^०; शुश्र ४, १३७;
 उनिस् ८ : १९; -त्याम् शाश्रौ ७,
 २५, ४; काश्रौ १९, ५, २^०; वाधुश्रौ
 ४, ७० : १६; वाश्रौ; -त्यै हिश्रौ
 २, ८, १^०; वैताश्रौ १, १८; -स्यौ
 वाधुश्रौ ४, २६^० : ९; ११; १२;
 द्राश्रौ; या ८, ११.

बृहति(क>)का^०-

पा ५, ४, ६.

बृहती-कारम् आश्रौ

५, १५, ७; ११; शाश्रौ १२, ६, १.

बृहती-क्षय^०- यः

निस् ५, ४ : १०; -यात् लाश्रौ

१०, ६, ११; ७, ६.

बृहती-ग(र्भ>)

र्भा^०- -र्भा अश्र १, १४; २,
 ३५××.

बृहती-ग्रहण- -गम्

लाश्रौ १०, ७, ७.

०बृहती-च्छन्दस^०-

-न्दसः जैश्रौ १५; १३; -न्दांसि
 भाश्रौ १०, १८, १०.

बृहती-त्रिष्टुम्-

-ष्टुभोः लाश्रौ १०, ७, ४.

बृहती-पूर्व^०- -र्वः

ऋप्रा १८, १.

बृहती-फल- -रुम्

आश्रिगृ ३, ६, ३ : ५; १३; बौपि
 १, ११ : ४; ११; द्विपि ९ : ६.

बृहती-मुख^०- -खः

ऋप्रा १८, ११.

बृहती-विपरी(त>)

ता^०- -ते ऋश्र १, ११, ५.

बृहती-सतोबृहती-

-स्यौ ऋश्र १, ११, २; शुश्र ३,
 १९९.

बृहती-संप(ब>)बा-

-बाः काश्रौ २२, ११, २१;
 लाश्रौ ९, ४, ३५.

बृहती-सहस्र- -सम्

शाश्रौ ९, २०, २९; १८, २१, १.

बृहत्य(ती-अ)नुष्टु-

म्- -ष्टुभोः लाश्रौ ९, १२, ८.

बृहत्य(ती-अ)न्त^०-

-न्तम् ऋश्र २, ६, ४३; ८, ७८;
 १०, ९३.

बृहत्य(ती-अ)न्तर-

श्रुति- -तेः काश्रौ १७, १२, १०.

बृहत्या(ती-आ)दि^०-

-दि ऋश्र २, ७, १४; -दिः ऋप्रा
 १८, २१; -दी ऋश्र २, १, १७९.

१बृहत्युत्त(म>)मा-

-मे निस् ५, ७ : ६.

बाहृत^०- पा ४, १, ८६; -तः

आश्रौ ४, १२, १; शाश्रौ ७, २५,
 ४; १०, ६, ५; ऋश्र १, ११, २;
 ऋप्रा १८, १; ११; -तम् आश्रौ

४, १३, ७; १४-१५, २; ७, १२, ७;
 शाश्रौ; -तस्य शाश्रौ ९, ५, १२;
 क्षुस्; -तात् निस् ४, १३ : २२;

६, २ : ७; -तानाम् आश्रौ १०,
 ५, २१; शाश्रौ ७, २५, १२; १२,
 ६, १; द्राश्रौ ८, १, २३; लाश्रौ

४, ५, २०; ८, ५, ९; १०,
 १, १५; वैताश्रौ २२, ९;
 -तानि आश्रौ ८, ४, ८; क्षुस्

१, १ : ११; २ : ५××; निस् २,
 ३ : ३; ४; ७; ८××; -०ताय शाश्रौ

९, २७, १; बौश्रौ; -ते आश्रौ ५,
 १५, ६; शाश्रौ; -तेन निस् १०,
 ४ : ११^०; -तेभ्यः निस् ६, २ :

१२; -तेषु क्षुस् ३, १४ : ३; ६;
 १०; १४; निस् ६, ३ : १५; ४ :

२; ७, ४ : २; ९, ४ : ३०; ३४;
 -तौ वैताश्रौ ३१, १८; ३३, १०.

बाहृत^०- -ती निस्
 ३, ११ : ४; नाशि १, २, १०;

-तीनाम् शाश्रौ ९, २०, ६;
 -तीम् शाश्रौ १८, ८, १.

बाहृत-ग(भे>)र्भा^०-

-र्भा अश्र १, ८; १३, २.

बाहृत-प(र>)रा^०- -रा
 अश्र ११, ७.

a) पाठः? 'ती,पला' इति द्वि-पदः शोधः। b) नाप. (ओषधि-)। c) =इष्टका-विशेष-।

d) =ऋच्-। e) =उत्तरीय-वस्त्र-। f) उप. <√क्षि [क्षये]। g) बस.। h) उप. =सतोबृहती-।
 i) विप. (लोक, सूक्त, स्तोत्र- प्रश्न)। वैप १ द.। j) विप., नाप. (मूर्च्छना- [नाशि.])।

बार्हत-राथन्तर- रम्
शांश्रौ १, २, १८.
बार्हतराथन्तर-ता-
-नायाम् आश्रौ १०, ५, २०.
बार्हत-निलङ्ग, क्ता^३ - क्ताः
निसू ६, २ : १४; -क्तानि निसू
६, २ : १२.
बार्हत-वैराज-ग(र्भ) >
र्भा- र्भा अत्र १२, २.
बार्हत-स्तोम- -मान्
निसू ७, ५ : ३.
बार्हता(त-आ)नुष्टुभ^३-
-मः ऋषा १८, २, १.
बृहत्-चक्र^३ - क्ताणि बौश्रौ १५,
१४ : ७.
बृहत्-छन्द- -न्दम् शांश्रौ ७,
१५, ११; -न्देऽ-न्दे आश्रौ ५,
१२, २०.
बृहत्-छरीर^३ - रः चव्यू ४ :
१७.
बृहत्-खा(खा) > ख^३ - खम् सु
१२, ५.
बृहत्-छिरिस्^८ > श्रोत्रोमश-
करि-रोहित-राजीव- -वाः बौध
१, ५, १३४^d.
बृहत्-छुक्^६ - क्ताः अत्र ६, ५३.
बृहत्-छ्वस्^६ - वाः या ६, १८.
बृहत्-क- पागवा ५, ४, ३.
बृहत्-कण्टारि^६ > रि-कण्टका^६-
-काः अत्र १८, १, १६.
बृहत्-तन्त्र- > बार्हतन्त्र^६-
-न्त्रम् निसू ६, ६ : १२.

बृहत्-नृण- -णैः गोयु ४, ७, १०;
द्रायु ४, २, १०.
बृहत्-पत्र^१ > ऋ-क्षुद्रपशु-
स्वस्व(स्ति-अ)र्थ- -र्थम् कप
१, ५, ८.
बृहत्पत्र-स्वस्वययन-काम-
-मः गोयु ४, ५, २९; द्रायु ४, १,
१४.
बृहत्-पर्व-ग्रन्थि^१ - न्थिभिः
कप १, ७, ६.
बृहत्-पला(श) > शा^६ - -०शे
अत्र ६, ३०^f.
बृहत्-पूर्व- -र्वे निसू ४, ६ : १५.
बृहत्-पृष्ठ^३ - -ष्ठः आश्रौ ८, ५,
१; ९, ३, ८; २४; शांश्रौ ११,
१०, १; १५, १; आपश्रौ २२, १,
५; वाश्रौ ३, २, १, ४४; ३, ७;
हिश्रौ १७, १, ८; द्राश्रौ ८, ३, १;
१५; लाश्रौ ४, ७, १; ३; १०,
१३, ६; १४, ३; ८; छुसू १, ४ :
२०; २, १ : १०; -ष्ठम् आश्रौ
७, ३, ९^{१३m}; शांश्रौ १०, ३, १;
९, १; ११, १; ११, २, १; १३,
१; १२, २७, ४; १४, १३, १२;
द्राश्रौ ८, ३, ३३; लाश्रौ ४, ७,
११; २, १५ : २०; निसू ७, ६ :
२; १० : २०; ८, ४ : १६; ९,
६ : १८; -ष्ठस्य शांश्रौ ७, १४,
१; ११, १५, ३; ८; १४, १३, १३;
३८, ८; निसू ८, २ : ३; -ष्ठाः
छुसू २, ३ : १; निसू ४, १२ :
२५; -ष्ठात् शांश्रौ १४, ८, ९;

-ष्ठानि आश्रौ ७, ५, ३; -ष्टे
शांश्रौ ७, २०, ९; २१, ३; २३, २;
११, १०, ९; १२, ६, ७; बौश्रौ
२५, २२, ९; निसू २, ११ : २^{१३m};
४^१; ६^१; ३, ३ : १४^१; ६, २ :
२०; -ष्टेषु आश्रौ ९, १०, ६;
१२, ७, ५; आपश्रौ २१, २३, ८;
९; हिश्रौ १६, ८, १०; ११;
द्राश्रौ ८, १, २५; लाश्रौ ४, ५,
२०; निसू ६, २ : ३; ३ : १३;
-ष्ठौ वाश्रौ ३, २, २, ११.
बार्हत्पृष्ठय- -ष्ठयम् निसू
६, २ : १५.
बृहत्पृष्ठ-स्व- -स्वात् निसू ६,
१० : ३१; ९, ६ : २०.
बृहत्-षोडशि-सामन्- -म निसू
३, १० : २७; ३२.
बृहत्-सदश- -शम् निसू ३,
१० : ३२.
बृहत्-संनिपात- -त्ते निसू १,
१३ : १०; -त्तेषु निसू १, १३ :
१४.
बृहत्-सामन्- -म शांश्रौ १७,
१२, १; बौश्रौ ११, १३ : १७;
२५, २४ : १३.
बृहत्-सामन्^३ - -मा शांश्रौ
१३, २९, ८; आपश्रौ १२, १४,
१; २०, २२, ३; २१, ८, १२;
२२, २, ५^{२३m} ×; बौश्रौ; -मानम्
आपश्रौ १०, २, ७; २१, ६, १३;
१५, १०^३; २३, १२, १८; बौश्रौ;
अत्र ५, १९^१; -म्ना आपश्रौ

a) बस. । b) विप. । कस. । c) नाप. (मत्स्य-) । बस. । d) र्मी बृहच्छिरोमश इति मैसू.
Büh. च, र्मीबृहच्छिरोमश इति Hultsch । e) = ऋषि-विशेष- । बस. उप. = दाति- । f) नाप. (ओषधि-) ।
g) मलो. कस. । h) = साम-भेद- ? । बार्हतम्, तन्त्रम् इति संस्कृतैः टि. पाठः । i) कस. उप. = वाहन-
(हस्त्यस्वादि-) । j) कस. > पस. । k) वैप १ द्र. । l) कस. (तु. सा [ऐत्रा ४, ३१]) । m) भिन्ने द्वे
पदे इत्यमरः पक्षः (तु. Haug, K. [ऐत्रा.] अत्रैव दशमे सूत्रे रथन्तरम् इति च यत्रापि पृष्ठम् इत्यावर्तते) ।
n) सख्य स्या. हिश्रौ १७, १, २३ रथन्तरम् इति पाठे. । o) वैप १, २२८९ । द्र. ।

१०, २, ६; २२, ९, ११; १०, ३; ६; १२, १७; १३, ८; हिश्रौ; -निन हिश्रौ ८, ४, २.

बार्हत्सा(म>)मा^१- -०मे दंवि २, ७.

बृहव्-स्तोत्र^b- -त्राय वैश्रौ १७, १६: ८^c.

बृहव्-स्तोत्रीय^d- -या: निस् ५, ७: ५; -ये निस् ५, ४: १७.

बृहद्-अग्नि^e- पाग ४, १, १०५^f; २, १११; -ग्नि: बौश्रौप्र ३: २.

बार्हदग्न्य- पा ४, १, १०५.

बार्हदग्न- पा ४, २, १११.

बृहदाग्नेय^g- -यम् लाश्रौ ६, ११, ४.

बृहद्-अग्निष्टोम-सामन्^h- -मा क्षुसू २, १: १८; ५: १७.

बृहद्-अतिरात्र- -त्रे निस् ९, ८: १५.

बृहद्-अनुष्टुप्कⁱ- -ष्कम् द्राश्रौ ८, १, १०; लाश्रौ ४, ५, १०;

-ष्का: जुसू २, २: १.

बृहद्-आसि->सि-ता- -तया निस् ४, ६: १९.

बृहद्-ईप्सा- -प्सया निस् २, ११: ५.

बृहद्-उक्थ^{2e}- -क्थ: ऋअ २, १०, ५४; वृदे; -वधानाम्^l आश्रौ १२, ११, १; -क्थाय आमिण् १, २, २: २०; बौश्र ३, ९, ५; भाग ३, १०: ४; हिण् २, १९, ६;

-क्थे वृदे २, १३१.

बार्हदुक्थ- -०क्थ^k आश्रौ १२, ११, १; हिश्रौ २१, ३, ९.

बृहदुक्थ-वत्^k हिश्रौ २१, ३, ९.

बृहद्-उक्थ्य^e->बार्हदुक्थ्य- -०क्थ्य^k आपश्रौ २४, ६, ९७.

बृहदुक्थ्य-वत् आपश्रौ २४, ६, ९७.

बृहद्-उक्ष^o- -उक्षे बौश्रौ ८, १३: १०¹.

बृहद्-ओप(श>)शाम^m- -शा जुसू २, १०: १७; ११: ७.

बृहद्-गर्भⁿ- -र्भम् लाश्रौ ९, ५, २४.

बृहद्-गिरस^e- >बार्हद्विरस- -स: साअ १, ६.

बृहद्-गिरि^a->बार्हद्विर^g- -रम् लाश्रौ १०, २, १४; निस् ३, १०: ४; ४, ३: २७; ३४, ५, २: ९; -रस्य लाश्रौ १०, २, १५;

निस् ४, ३: २९.

बार्हद्विर-रायोवाजीय- -ये लाश्रौ ७, २, १; निस् ४, ३: ३०.

बृहद्-गु^e- > बार्हद्वग (व>) वी^p- -वी अष १, ३, १.

बृहद्-ग्रावन्^q- -वा^p काश्रौ २, ४, ११; बौश्रौ ६, २९: १; साश्रौ १, २, २, १२; वाश्रौ १, २, ४, ४६.

बृहद्-दिव- -व: ऋअ २, १०, १२०; शुअ ३, २४१; साअ

२, ८३३; अअ ५, ३.

बृहद्-दि(व>)वा- -वा शाश्रौ १०, ७, १२; या ११, ४९^१.

बृहद्-व(<ह)स्ति-रथ^d- -थम् अष १, ४९, १; १४, १, १६.

बृहद्-वह-सामन्- -मा लाश्रौ १०, १४, ८.

बृहद्-भक्ति-त्व- -त्वात् निस् ६, ६: १२.

बृहद्-भानु^a- -०नो द्राश्रौ १, ४, ५; लाश्रौ १, ४, २.

बृहद्-भास^a- -भा: आपश्रौ २, १४, १०¹.

बृहद्-रथन्तर^a- -रम् जुसू २, ५: २६; -रयो: आश्रौ ५, १५, १२; शाश्रौ; -राभ्याम् आपश्रौ १७, १२, १०; बौश्रौ १६, १६: १; वैश्रौ; -रे आश्रौ ८, ५, १६; ६, ८; काश्रौ; लाश्रौ ३, १२, ६^f.

बृहद्वन्तर-धर्म- -र्मन् निस् ८, ७: २८.

बृहद्वन्तर-पुरस्ताज्ज्यो- -तिस्^e- -ति: क्षुसू २, १२: २२; २५.

बृहद्वन्तर-पृष्ठ¹- -ष्ठ: शाश्रौ १६, ३०, ६; काश्रौ; -ष्ठम् निस् ६, ४: ७; -ष्ठस्य शाश्रौ १०, ८, २१; -ष्ठा: शाश्रौ १४, ८४, ३; निस् ५, २: २१; २२; -ष्ठान् निस् ८, ३: ८; -ष्ठानाम् शाश्रौ ११, ११; १३; १२, ९; -ष्ठानि क्षुसू २, १५: ६; ३, १:

a) वैप १ द्र. । b) = बृहत्पृष्ठ-1 कस. । c) पाभे. पृ १८१२ n द्र. । d) मलो. कष. ।

e) = ऋषि-विशेष-1 f) वृद्धि- इति पाका. । g) = साम-विशेष-1 h) कस. > बस. । i) बस. ।

j) बहु. < बार्हदुक्थ- । k) परस्परं पाभे. । l) पाभे. वैप १, २२९० f द्र. । m) वैप २, ३खं. द्र. ।

n) = आर्द्रा-नक्षत्र- । o) पाभे. वैप १, २२९० ० द्र. । p) वैप १ निर्दिष्टानां समावेश: द्र. । q) वैतु. दु. पदद्वयमिति ।

r) पाभे. वैप २, ३खं. बृहव् ऐत्रा ८, १७ टि. द्र. । s) = षडह-विशेष-1

३; -ष्टे शांश्रौ १०, ११, १४.
 बार्हद्रथन्तरपृष्ठ^a - छात्र
 निम् ९, २ : ११.
 बृहद्रथन्तर-पृष्ठ^b - ष्यः
 निम् ९, १ : २१.
 बार्हद्रथन्तरपृष्ठ^c -
 -ष्टयात् निम् ५, १ : ५; ७, ३ :
 १५; ९, १३ : ४६; १०, ६ : १७;
 -ष्टयान् निम् ९, ३ : ५.
 बृहद्रथन्तर-चत् मीस् ६, ६, ९.
 बृहद्रथन्तर-सामन्^d - मा
 आश्रौ २१, ८, १२; -म्ना हिश्रौ
 १७, ५, २१.
 बृहद्रथन्तरो(र-उ)परिष्ठा-
 ज्ज्योतिस्^e - त्तिः लुप् २, १२ :
 २२; २७.
 बृहद्-नथन्तर-कालेय-स्तोत्री-
 य^f - याः लाश्रौ १०, ६, ४; ७,
 ८; १४; निम् ५, ३ : ९; ४ :
 १२.
 ष्वृहद्-रायस्^g - श्यः^h माश्रौ २,
 २, ३, ६; ८.
 वृहद्-रिⁱ - रये वैताश्रौ २५,
 ७^j.
 ष्वृहद्-वत् - वते आपश्रौ
 १२, १५, ११; बौश्रौ ७, ७ : १२;
 २६, ३१ : ४; माश्रौ २, ३, ५, १;
 वैश्रौ १५, १७ : ८; हिश्रौ ८, ४,
 २८.
 वृहद्-योनि^k - नि निम्
 ९, ५ : २४.
 ष्वृहद्-वयस्^l - यसः शांश्रौ
 ८, २३, १; -याः आपश्रौ १७,

६, १; बौश्रौ ३, १३ : ११; हिश्रौ.
 बृहद्-वारवन्तीय- ये लाश्रौ
 ९, ५, १५.
 बृहद्-वैराज- -जाम्याम् आश्रौ
 ९, ११, ६.
 बृहद्-निधन्^m - नम् क्षुप् २,
 १० : १२; ११ : ४; निम् १,
 १३ : १३; १०, १ : २८; -नानि
 निम् १, १३ : १३; -नेन निम्
 ७, १२ : ११.
 ष्वृहद्-मतिⁿ - त्तिः ऋञ् २,
 ९, ३९; साञ् २, २४८.
 बृहद्-महत् - हतोः पावा ६, १,
 १६९.
 √बृहाय पा ३, १, १२.
 ब्रह्मन्^o - पाठ ४, १४६; पाग ४,
 ३, ११८¹; -ह्, > ह्या ष्वृश्रौ
 १, ७, ७²; ४, १, २३××; ष्वृश्रौ
 १, १२, १³; ४, ९, २××; १६,
 ५, २⁴; काश्रौ; आपश्रौ २३, १४,
 १६⁵; बौश्रौ १७, ४४ : १६⁶;
 माश्रौ ५, २, ११, १४××;
 वाधूश्रौ ४, ३६ : ७; ३७ :
 २९××; हिश्रौ २, ४, ७; ५,
 ४७⁷; ६, २, ११; जैश्रौप २;
 जैश्रौका ५०; ६७; ७७; ७८;
 आपमं २, १४, ८; १५, ६; आगृ
 ३, २, २; पागृ १, १६, ६;
 २, १०, २२; आमिगृ १, ५,
 २ : ३८⁸; ४०⁹; २, ६, ८ :
 २१¹⁰××; बौगृ १, ३, ३४××;
 बौपि २, २, २; ३, ५, २;
 १०, १; मागृ १, २, २; वैगृ २,

२ : ५; ३, १७ : ५; ५, ९ :
 ७; हिपि १९ : १४; जैगृ २,
 ८ : १९; ९ : १५; १८; कञ्
 १, १०, ४; २, ४, १०; ३, २, १६;
 अप्राय ३, ३; ५, ६; अप १, २, २;
 १७, १××; ४८, ८८¹¹; ५७,
 ३, ६¹²; बाध २, १२¹³; ६, २; ५; १०,
 ५; २५, ४; ११; संघ ४६२; आपघ
 १, ५, २; ९, १३; १३, ६; ७; ११;
 १८; बौघ १, २, ५०¹⁴; ५२;
 १०, २××; विघ ५५, १७¹⁵;
 ६८, ३९; वैघ ३, ७, ६; १३¹⁶;
 हिघ १, २, २××; गौघ २,
 ९; वृदे १, ६२; २, ४०¹⁷;
 शुञ्; ष्वृनिघ २, ७¹⁸; १०¹⁹;
 या १, ८²⁰; २, ११; ४, ६;
 ६, २२²¹; १३, १३; १४, १;
 ३; १०; ११; ३५²²; ऋप्रा;
 -ह्वा-ह्वा शैशि ३४१²³; -ह्वाणः
 आश्रौ १, १२, १××; शांश्रौ
 ४, ६, १५; ७, १८××; काश्रौ
 ७, १, ९; ९, ११, ३××;
 आपश्रौ १, १५, ५××; बौश्रौ २,
 ३ : १०; ५, १० : २५; ६, ३ :
 १२; ३१ : ६××; माश्रौ १,
 ११, ६; माश्रौ १, ५, ५, १७;
 २, २, ४, १८××; वाधूश्रौ ३, २४ :
 १०; ४, ३५ : ४; ६२ : ५-७; हिश्रौ
 १३, ४, ४; ५, २; १४, ४, ३२××;
 जैश्रौ ९ : १७××; द्राश्रौ ४, २,
 १२; ३, ६××; लाश्रौ २, २,
 २१; ३, ६××; वैताश्रौ ११, ३;
 ३६, २३; ष्वृआपमं १, १४, १××;

a) स्वार्थे अण् प्र.। b) बस.। c) = षडह-विशेष-। d) द्रस. > षस.। e) वैप १ द्र.।
 f) पाभे. वैप १, २२९० p द्र.। g) व्यप.। h) वैप १ निर्दिष्टानां समावेशः द्र.। विशेषः टि. द्र.। i) २ ब्राह्मण-
 इति पापम.। j) पाभे. वैप १, २२९२ p द्र.। k) पाभे. वैप १, २२९२ c द्र.। l) तु. सपा. तैव्रा ३, १२, ९,
 ७; वैतु. BO. ब्रह्मनामा इति। m) सपा. ब्रह्म संमितम् (तैव्रा १०, २६, १ च) <> ब्रह्मसंमिते इति पाभे.।
 n) = अण-। o) = ब्रह्म-बल-। p) = धन-।

कौश्र १, ५, २९; पाश्र १, ५, १०^१;
 ३, १५, २३^३; आमिश्र १, ५, २:
 २७^१; बौश्र १, २, ३४^४; माश्र
 १, ७, २; २२, ६^४; वाश्र ५, ५;
 २१^४; ऋश्र १, १९: १२; ऋश्र
 १, ११, १०^४; गौश्र २, ४, १;
 कौश्र ३, २, ५४, २१; ८२, ५^४;
 अप्राश्र १, ३; अप्र १, ६, १^४;
 शंश्र ८९; बौश्र २, ५, ११; ४,
 ६, १^४; विश्र २०, १५; ५५,
 १५; वैश्र १, ११, १०^३; ३, ११,
 ३; गौश्र १, ६१; ८, २२; २३;
 १०, ४; वृश्र १, १२२^४; शुश्र
 १, १९^४; चाश्र २; ५;
 चाश्र १: १^४; साश्र १,
 ३२१^४; अश्र ६, ६; निश्र ५,
 ४; याश्र १, १^४; ऋश्र १६,
 १२; कौश्र ७१; पाश्र ५, १,
 १३६; ४, १०^४; मीश्र १०, ३,
 ७२; -^१श्रणः आश्रौ ४, ६,
 ३^४; शाश्रौ; -^१श्रण आश्रौ १,
 ६, १; २, १, १७^४; शाश्रौ;
 काश्रौ २६, २, २६^१; आपश्रौ
 १६, ३३, १^६; बौश्रौ २, ६:
 ३५; १२: १०^४; माश्रौ १,
 ५, १, ९; हिश्रौ ३, २, १; वैताश्रौ
 ५, ७; आपमं २, २२, १३^१;
 हिश्र १, १३: १९^६; १६, ६^१;
 जैश्र १, १२: ५; ७; याश्र ५, १४;
 -श्रणम् कौश्र ६५, १२^१;

-श्रणि शाश्रौ ४, १०, ३^१;
 आपश्रौ ६, ९, १; २२, १०,
 १४; बौश्रौ; हिश्र १, ५, १३^३;
 १०, ६^४; आपश्र १, १३, १६;
 बौश्र २, ७, १२; वैश्र १, ११,
 १४; हिश्र १, ४, ३०; कौश्र
 ८१; पावा ६, ३, ८^५; -श्रणे
 आश्रौ ५, १, ८^१; १२, १५,
 १२^३; शाश्रौ १४, १६, ८; काश्रौ;
 आपमं २, ८, ४^१; १२,
 ६^१; आमिश्र १, १, २: ४५^१;
 ४६^१; ४८^१; २, १, ४:
 ६^१; बौश्र १: ५, ६; भाश्र
 १, १९: ५^४; माश्र १, १०,
 ४^४; वाश्र ५, ३९^४; वैश्र
 १, १५: १०; २, १०: ८; १२:
 १२^४; हिश्र १, ४, ६; ८^१;
 २, ३, १०^१; गोश्र १, ९,
 १^४; जैश्र २, ८: ६; द्राश्र
 २, १, २९; कप्र १, ८, १०; २, ४,
 १-५; ५, १; कौश्र ५६, १३; ८३,
 ३२; अप्राश्र २, ६^४; अप्र २,
 १, १^४; शंश्र २१; १३२; बौश्र
 २, १०, ४५; विश्र ६७, १९;
 वैश्र ३, ७, ६; गौश्र ५, १५^४;
 याश्र १४, ३५; शुश्र ४, ७५;
 मीश्र १०, ३, ६५; -^१श्रण आपश्रौ
 १६, १, ३^४; बौश्रौ; -^१श्रण
 आश्रौ १, १२, १२^४; शाश्रौ;
 याश्र २, ४^४; -^१श्रण्यः आपश्रौ

२४, १२, ६; हिश्रौ; -श्र
 आश्रौ १, ४, १; १२, ९; १३, ६;
 २, १६, २०; ४, १, ६^४; शाश्रौ;
 काश्रौ २, १, १८^१; ३, ४, २४; ४,
 ९, ६; ५, ६, ३३; ९, १०^४;
 आपश्रौ २, ८, ७; ३, ३, ११;
 १८, १; ४; २०, ७^४; २२, १७,
 १०^१; माश्रौ १, ८, १, १^१;
 हिश्रौ १७, ६, ४४^१; पाश्र ३,
 १५, २१^१; २२^१; बौश्र ३,
 १०, ६^१; कौश्र १७, ६^१; ६८, ७^१;
 ७५, १३^१; १४०, ४^१; अप्र २,
 २, ४^१; ३, १, ८^१; १०, १, १^१;
 १७, २, १^१; १९, १, ३^१; ३१, १,
 ३^०; ४०, ५, १^१; ६६, १, ३^१;
 ७०^३, १, २^०; वाश्र ३०, ५^१; शंश्र
 १४१^४; वृश्र ३, १८; ६, १३६;
 ७, ७०; शुश्र ४, २६^१; १२७;
 १४६; साश्र २, २९^४; अश्रमू^१
 १; २^३; ३^३; अश्र १, ७; ३, ११;
 १२; १४^४; याश्र १, ८^१;
 २, १२^१; ७, ५^१; १४, १३^१;
 अप्रा: -^१श्रणः आश्रौ ८, ११,
 १; शाश्रौ; याश्र ५, ५; ११, ४;
 -^१श्रणः शाश्रौ १५, १७,
 १; जैश्रौ ३: १७; द्राश्रौ १, ३,
 १०; लाश्रौ १, ३, ३^१;
 आपमं: -श्रणम् आश्रौ १, १,
 १६^४; शाश्रौ; काश्रौ २, १,
 १८^१; -^१श्रणि आश्रौ ५,

- a) पामे. वैप १, २२९३ d द्र. । b) ब्रह्मणाऽनु इत्यस्य स्थाने ब्रह्मानु इति चौरसं. । c) सकृत् पामे. वैप १, १५९३ i द्र. । d) पामे. वैप १, १३३३ e द्र. । e) पामे. पृ १६५९ j द्र. । f) पामे. वैप १, ६८९ b द्र. । g) सपा. ब्रह्मणि <> ब्रह्मणे इति पामे. । h) = २ब्राह्मण- । < ब्राह्मणे इति वा ब्रह्मणि इति वा [आपमं भू XXIV] । i) पामे. वैप १, २२९४ c द्र. । j) = पुरोषस्- । k) पामे. वैप २, ३खं. ब्रह्म तां २१, ३, ७ टि. द्र. । l) पामे. वैप २, ३खं. हुवि: तैआ २, ६, १ टि. द्र. । m) पामे. पृ १७५५ c^१ द्र. । n) 'श्रद' इति पाठः? यनि. शोषः (तु. तां २५, १५, ३ बौश्रौ १७, १८: १) । o) = प्रजापति- । p) = श्रुत्विज्- । q) व्यप. (श्रुषि-). । r) = [देव-पुरोषस्-] बृहस्पति- । s) ब्रह्मण्य इति पाठः? यनि. शोषः (तु. द्राश्रौ). ।

१६, २४^३; शांश्रौ; आपश्रौ
 १५, ११, २^३; बौश्रौ ९, ११ :
 १^३; १४, १२ : ३०; भाश्रौ
 ११, ११, १^३; या १२, ३४^३;
 -ह्राणिऽ-ह्राणि काश्रौसं ४ :
 १५^३; -ह्रमणौ वैश्रौ १०, १ :
 ५; -^३ह्राइन् आपश्रौ १८,
 १८, १०; बौश्रौ १२, १५ : १-४.
 ब्राह्मी^१ - ह्यः आगृ १, ६,
 १^३; वैगृ; कौसू ७९, ३२^३;
 ऋअर, १०, १०९^३; १६२^३; पा
 ६, ४, १७१; -ह्रम् हिश्रौ १४,
 ४, ३६^३; आग्रिगृ २, ६, १८; वैगृ
 १, ४ : २४; ५ : ८; ९ : १; ४,
 ३ : १५; ५, ३ : ३; ६, २-३ :
 ३; ४ : १२; ५ : ३; ७; ७ : ९;
 १४; ११ : ४; ११; १२ : ५; ८;
 १८ : ९; अप ५७, २, १; वाघ
 ३, २६; शंघ ११; ५४; बौध १,
 ५, १२; विध ५७, ७; ६२, २;
 वैध २, ३, २; वृदे ८, १८; शुअ
 ४, २१७; -ह्यस्य पावा ६, ४,
 १७१; -ह्ये वैगृ २, १० : १३;
 ३, २ : ७; जैगृ २, ८ : २८; अप
 ३०, ४, ३^३; शंघ ४९^३; आपघ
 २, ११, १७; बौध २, १०, २२;
 ३, ९, २०; विध ६०, १; हिघ २,
 ४, ३२; -ह्येण मागृ १, ७, ११;
 वागृ १०, ११; वैगृ १, २ : ६; ५;

९; १३ : १; वाघ १, २१; २०,
 ४५; बौध १, ५, ११; विध २४,
 ३३; ६२, ६; वैध २, १३, ५.
 ब्राह्मी^१ - ह्यो वैताश्रौ
 ४३, ४७; अग १, ४४, १०^३; ५०,
 १०^३; अशां १६, १^३; वृदे ६,
 १५२; शुअ २, ३८४; साअ १,
 ३२१; ६२५; अअ ८, १०(५); ९,
 १; १५, १; ५××; -ह्योभिः हिश्रौ
 १२, ६, २६; -ह्योम् अप ७२,
 ५, २; अशां १७, १^३; वाघ
 २७, ११^३; शंघ ३९६^३; वृदे ४,
 ११३; शुअ ३, ५८; -ह्ययः
 वृदे ८, १०९; उनिस् ३ : १५;
 ८ : २८; पि २, १५; -ह्ययाम्^३
 अशां १८, २; १९, २.
 ब्राह्मी-नायत्री-
 -व्यः अअ १५, २; ५.
 ब्राह्मी-घृत- -तम्
 वैगृ ३, १५ : ९.
 ब्राह्मी-पुत्र^१ - अः
 वैगृ ३, १ : १५; बौध १, ११,
 १८; विध २४, २९; गौघ ४,
 ३३^३.
 ब्राह्मी-रस-वि-
 पक- -ह्येण शंघ ३९६.
 ब्राह्म-देया(या-अ)नुसं-
 तान^३ - > तानिन्^३ - नी
 हिघ २, ५, ५०.

ब्राह्मदेवाः^० हिघ २, ४,
 ४१.
 ब्राह्म-वत- -तम् वैगृ
 २, ११ : १; १३ : १६; -तस्य
 वैगृ २, १० : ९.
 ब्राह्मक- पा ४, ३, ११८.
 ब्राह्मण^३ - णम् आपश्रौ
 १०, १२, ८; १७, १९, ८; २४,
 १०, १८^३; काठश्रौ २४; बौश्रौ
 १, १ : ३; ९ : १५××; बौश्रौप्र
 ५४ : १६; वाधुश्रौ २, १० : ३;
 ११ : ४××; वाश्रौ २, १, ६,
 ३०; वैश्रौ ११, ५; ३××; हिश्रौ
 १२, ३, ७; २१, ३, १८^३;
 जैश्रौ ७ : ९; ८ : २७; द्राश्रौ
 ३, ४, ३; ४××; लाश्रौ ४, ५, ६;
 ७, १२, ३-६××; निस् २, ६ :
 ३५; १० : ११××; आगृ १, १,
 ४; ४, ७, २२; शांगृ ६, ३, १४;
 आग्रिगृ १, १, २ : ४६××;
 आपगृ १५, १०; बौगृ १, ७,
 ३६××; बौपि १, १६ : ११××;
 वैगृ ४, १० : ३××; हिपि २१ :
 १३; गौपि २, ४, १२; जैगृ २,
 ४ : १३; कौसू ६, २२; अप १९,
 २, ९××; आपध १, १, १०××;
 बौध १, २, ५८^३××; हिघ १, १,
 १०××; बौश्रु ५ : ११××; शुअ
 ३, १३६; चाअ ९; १; साअ १.

a) तु. आन. । b) पामे. वैप १, १८६४ m द्र. । c) बप्रा. । विप. (अंकार-, प्रह-, मधुपर्क-
 प्रमृ.), नाप. (विवाह-भेद-, ब्रह्मचारि-भेद- [वैध १, ३, १; ३], तीर्थ-विशेष- [आग्रिगृ २, ६, १ : १८ प्रमृ.], आसन-
 विशेष- [वैगृ १, ४ : २४ प्रमृ.] प्रमृ.) । अपत्ये तस्येदमादयर्थे वा अण् प्र. टिलोप-प्रतिप्रसवः (पा ६, ४, १७०; १७१) च ।
 d) ह्ययः इति पाठः ! यनि. शोघः (तु. मूको.) । e) व्यप. (ऋषि-) । f) पामे. वैप १, २२९८ m द्र. ।
 g) = ब्रह्म-लोके- । h) = मुहूर्त-विशेष- । i) विप. (ऋच्, वाच्- प्रमृ.), नाप. । j) = श्रोषधि-विशेष- ।
 k) = शान्ति-विशेष- । l) पूष. = (ब्राह्मविवाहोदा-) स्त्री- । m) = ब्राह्मविवाहोदा-संतति- । तृस. > षस. । सपा.
 ब्राह्मदे^० <> ब्रह्मदे^० इति पामे. । n) पाठः ! तान- > -नः इति शोघः (तु. भाष्यम्, पामे. च) । o) ब्राह्म-
 ऽऽर्द्धेवास इत्येवं शोधितस्वरूपोपक्रमस्य स्वधिकारिणः इत्युत्तरादाः पाठ इहाऽप्रामाणिकः (तु. आपध २, १२, ४) अनन्वितश्च
 तस्य सूत्रेण मत्पूर्वेण २, ४, ३८ तच्छेद्यतया वा तद्व्याख्यानविधया वा योज्यः । p) एतत्संज्ञक-ग्रन्थ-विशेष- । वैप १ द्र. #

२६७xx; या १, १६; ३,
२०xx; -णात् बौश्रौ २, १७ :
१०xx; वैताश्रौ ४३, ४५;
आमिष्ट १, ३, २ : ५xx; बौगृ
१, ३, ८; बौश्रु ६ : १३; वृदे;
-णानि आपश्रौ २४, १, ३२;
हिश्रौ १, १, ८; आगृ; चाञ्च ३० :
१?; ४२ : १४; या ७, २४?;
-णं बौश्रौ १२, ९ : ११?; हिश्रौ
१०, ८, ५४; १४, ४, ३२; शांय; पा
२, ३, ६०; ५, १, ६२; -णेन
आपश्रौ १२, १७, १०; बौश्रौ;
या १, १५; १६.

ब्राह्मण-कल्प- -ल्येषु पा,
पावा ४, ३, १०५.

ब्राह्मण-चोदित, ता- -ता
निसू ६, ८ : ३.

ब्राह्मण-चोदित-स्व-
-त्वात् निसू ४, १३ : ४.

ब्राह्मण-(ज>)जा^b- -जा
बौश्रौ २०, १ : ४८.

ब्राह्मण-पठित- -तान्
चाञ्च ३० : १.

ब्राह्मण-प्रतिषिद्ध-
-द्धानि आपष्ट ८, १२; भाग १,
२० : ९.

ब्राह्मण-लिङ्ग^c- -ङ्गाः कौसू
१, ६.

ब्राह्मण-वचन- -नम् अप
४४, ४, ९.

ब्राह्मण-वत् निसू ६, ७ :
२२.

ब्राह्मण-वत्- -वतः बौश्रौ
१६, १९ : ८; १०; -वताम् बौश्रौ
४, १ : २८; -वन्तः बौश्रौ २४,

७ : १५; हिश्रौ १, १, १८; -वान्
बौश्रौ २३, १३ : ७.

ब्राह्मणवती^d- -त्यः
मीसू ५, ३, १९.

ब्राह्मण-वाद- -वः निसू
२, २ : १९; -दाः या २, १६.

ब्राह्मण-विधि- -धिः
कौसू १, ४.

ब्राह्मणविधि-विहि-
त- -तानि बौश्रौ २७, २ : २१.

ब्राह्मण-विप्रतिपत्ति-
-त्या निसू २, १ : ३०.

ब्राह्मण-विहित- -ताः
निसू ६, ८ : ४; -तात् द्राश्रौ ३,
२, १०; लाश्रौ १, १०, ७; -ते
लाश्रौ १०, १०, ५; -तेषु मीसू
१२, ३, ३१.

ब्राह्मण-व्याख्यात, ता-
-तः आपश्रौ १२, १५, १६; हिश्रौ
२३, ३, ३५; -तम् माश्रौ १, ६,
४, २०; ३, १, २५xx; वाश्रौ
१, ४, ३, २१xx; वैश्रौ; -ता
वाश्रौ २, २, ५, २७?; -ताः
आपश्रौ १२, १४, ४xx; माश्रौ;
-तास्मिन्माश्रौ १०, १३, ६; हिश्रौ.

ब्राह्मण-शब्द- -ब्दः मीसू
२, १, ३१.

ब्राह्मण-शेष- -षः
आपश्रौ २४, १, ३३.

ब्राह्मण-श्रुति^e- -तेः मीसू
६, १, २६.

ब्राह्मणसंस्तुता मैत्र
१५.

ब्राह्मण-सामान्याय- -येन
निसू २, १२ : ३.

ब्राह्मण-संपन्न, ब्रा- -ब्रम्
बौश्रौ १७, २७ : २; -बाः बौश्रौ
१४, ८ : १७; ३१; -ब्राम् बौश्रौ
१०, १ : २.

ब्राह्मण-स्वर^f- -रः भासू
३, १५; २५; २७.

ब्राह्मणस्वर-संस्कार-
नियम- -मः भासू १, १.

ब्राह्मणाच्-छंसिन्^g-
-०सिन् वैताश्रौ १२, ५; -सिन्ः
आश्रौ ७, २, ३; ४, ३xx; शाश्रौ;
-सिन्म काश्रौ ९, ८, १०; ११,
८; आपश्रौ; -सिना काठश्रौ
१४-२; बौश्रौ; -सिने शाश्रौ १२,
९, ८; १३, १०, ९xx; काश्रौ;
-सी आश्रौ ४, १, ६; ५, ३,
२१xx; शाश्रौ.

ब्राह्मणाच्छंसि-भ्राव-
स्तोत्र^h> -स्तोत्रीय^h- -ये काश्रौ
२४, ४, ४५.

ब्राह्मणाच्छंसि-चमस-
-सम् बौश्रौ १७, ८ : २; ८; १२;
-से वैश्रौ १५, ३८ : ४; हिश्रौ
८, ८, ५५; -सैः वाश्रौ ३, १, २,
३०.

ब्राह्मणाच्छंसि-चम-
स-मुख्यⁱ- -स्यः आपश्रौ १४,
३, १०; -रूयान् आपश्रौ १२,
२९, ४; काठश्रौ १४४; माश्रौ
२, ४, ३, १५; वैश्रौ १५, ३८ : २;
हिश्रौ ८, ८, ५४; ९, ७, ४२.

ब्राह्मणाच्छंसि-पोत्र-
नेष्ट् (ष्ट्-श्च) च्छावाक- -कानाम्
काश्रौ ८, ६, १९; वैश्रौ १४, १२ :
१२.

a) णा [ः] इति पाठः? यनि. शोषः (तु. चाञ्च ७ : ५; ११ : १)। b) विप. (इष्टि-। c) वस.।
d) विप. (इष्टका-। e) कांसं. जीसं. पूष. = ब्राह्मण- इति?। f) = भाषिक-स्वर-। g) वैप १ द.। h) विप.
(कर्मन्-। छ>ईषः प्र. (पा ५, १, १३५)।

ब्राह्मणाच्छंसि-प्रभु-
ति- -तीनाम् द्राशौ ४, २, ९;
त्प्रशौ २, २, १८.

ब्राह्मणाच्छंसिय- -ये
आपशौ १७, २१, ३.

ब्राह्मणाच्छंस्य^०-
-स्यम् माश्रौ २, २, ४, ४; -स्ये
काश्रौ १८, ६, ११; माश्रौ ६, ३,
६, २; वाश्रौ २, २, ४, २३.

ब्राह्मणाच्छंस्य (सि-अ)
मीत्-पोट्- -तारः काश्रौ ७,
१, ९.

ब्राह्मणा(स-अ)नुवाक-
-कः शुअ २, ३७६.

ब्राह्मणा(स-अ)नुसार-
-रेण शुअ १, १३.

ब्राह्मणा(ण-अ)भिविहि-
(त >)वा- -ताः वीश्रौ १४,
१५ : २; २२, २० : २४.

ब्राह्मणा(स-आ)र्वैय-छ-
न्दो-दैवत-विद्^०- -वित् ऋअ
१, १, १.

ब्राह्मणा(स-अ)वैक्ष^०-
-क्षः आपृ २, १०; ३, ३.

ब्राह्मणिक- पा ४, ३,
७२.

ब्राह्मणो(स-उ)क्त-का-
-कम् वीश्रौ २७, २३२; वैताश्रौ;
-काः काश्रौ १८, ६, ६; काश्रौसं;
-कान् वैताश्रौ १७, ११;
-कानाम् निसू २, ९ : ३१;
-कानि वैश्रौ १, १ : ५××;
१३, १८ : २^१; -क्तेन वैताश्रौ
३२, १.

२ब्राह्मण^०- पाग २, १, ५९;

४, १, ७३; ५, १, १२४; -†०ण
आश्रौ १, २, २७; शाश्रौ; -णः
आश्रौ २, १, १२××; शाश्रौ; निसू
२, ६ : ३६; ८ : १८××; †आपमं
१, १०, ३; ६; २, १०, ७; १३,
१२^०; सु १६, ५; १७, १; आश्रु
१, १९, ११; ३, ८, ११; कौश्र १,
२१, १२†; ३, १०, ३५××;
शांश्रु २, १७, २; ४, ७, ५५××;
पाश्रु १, ३, ११; ११, २†; २, ३,
७; ५, २; ३, ४, १२†; आश्रु १,
५, ५ : १†××; वीश्रु १, २,
४९†××; वीपि २, २, २××;
भाश्रु १, १ : ७××; माश्रु १, २,
६××; वाश्रु ३, २; ५, २८; वैश्रु १,
१ : १३; २, ८ : २; ६, १२ : १××;
†हिश्रु १, २४, १†; २, ३, ७^०××;
हिश्रु ५ : ८; १९ : ९†; गोश्रु १,
४, १६; ९, १८××; गौपि २, ७,
३६; †जैश्रु १, २ : १८; १९, १२ :
५४××; द्राश्रु १, ३, ५; २, ४,
१०××; कप्र १, १०, १२; २, १,
१५××; कौसू १३, ७; २८, १†;
५७, १६; १९××; अप्राय ५, १;
६, ६; अप १, २५, २; ४३, ६××;
वाश्रु १, ४०; ४५^३××; शंश्रु १०-
१२; ७२; ८६××; आपश्रु १,
३, २८; ५, १६; १४, २५^३××;
वीश्रु १, १, ११; २, १८; ५७†××;
विश्रु २, १; ३, ५८; ७९××; वैश्रु
२, १०, १; ३, ११, ३; हिश्रु १, १,
१०३; २, १६; ४, ५४^३××;
गौश्रु २, २६; ७, ३; २५; ८,
१××; काश्रु २७३ : ३; ८××;
सुश्रु १३; ६७; आपश्रु; या १,

१६; †श्रु, २४; ३१; -ह्रणम्
आश्रौ ३, ११, ३; शाश्रौ; सु
११, ३××; आश्रु १, १९, १××;
कौश्र २, १, १; ३, १३, ९; शांश्रु
२, १, १; पाश्रु २, २, १; आश्रु
१, १, १ : २; ४××; आपश्रु
१, २१××; काश्रु ४३, ४;
वीश्रु २, ५, २××; भाश्रु १,
१ : ५××; माश्रु १, ३, १†;
वाश्रु ५, १; वैश्रु २, ३ : २××;
हिश्रु १, १, २××; गोश्रु २, १०,
१××; गौपि १, १, ३; जैश्रु १,
२ : १९†××; द्राश्रु २, ४, १;
कप्र २, ५, ७; कौसू ६७, १××; अप
१, ९, १××; वाश्रु २, ८†; ४,
३××; शंश्रु ३; ३२××; आपश्रु
१, १, १९^३××; वीश्रु १, २, ८××;
विश्रु ३, ७३××; हिश्रु १, १,
२०××; गौश्रु ११, १२; सुश्रु १,
४८४; ३, १३६; अश्रु ४, ४०; ५,
१८^०××; या २, ४†; वैश्रु १३७;
याशि १, ३; -णयोः वाश्रु १२,
३०; -णस्य आश्रौ ४, १५, ४;
शाश्रौ; आपश्रौ २२, १३, ११^३;
सुसू २, १ : १; २; निसू ७, १ :
५××; सु १६, ४; आश्रु १, १९,
५××; कौश्र १, ८, ३३××; शांश्रु
१, १४, १३××; पाश्रु १, ४, ८××;
आश्रु १, १, १ : १६××; आपश्रु
११, १६; काश्रु ४१, १××; वीश्रु
२, ५, ३××; वीपि १, ५ : ७××;
भाश्रु १, २ : ६××; वाश्रु ५, ३××;
वैश्रु २, ४ : १××; हिश्रु १, १,
१७^३××; हिश्रु ५ : ९; गोश्रु
१, १, १६××; गौपि २, ३, ३७†;

a) वैप १ द. 1. b) उप. <√विद् [ज्ञाने]। c) विप. ([ब्राह्मण-दृष्ट-] विधि-)। d) °णि इति पाठः? यनि. शोधः। e) सपा. आश्रु २, १, ३ : २० ब्राह्मणान् इति पाठे.। f) णाः इति पाठः? यनि. शोधः। (वृ. संस्कार-दिः)। g) शोधः ब्रह्मणवीम् टि. द.। h) पाठे. पृ १७६७ f द.।

जैगृ १, ११ : १९××; कप्र ३, ८, १२××; कौसू ५, १५; ५७, १०××; अप्राय ५, २; अप ३०^३, २, २; वाघ १, २४××; शंघ १६××; आपध १, १, २७××; बौध १, ५, १२३××; विध २, ५××; वैध १, १, ५××; हिघ १, १, २४××; गौघ १, ७××; सुघप ८५ : ६; पावा १, ४, २३; मीसू ५, ४, १०××; -णाः शांश्रौ १५, १४, ९××; काश्रौ; सु ४, ४××; कौघ ३, ९, ५०; वैगृ ६७ : ६; आमिगृ २, ३, ३ : २८××; बौगृ ३, ८ : १; बौपि, १, १५ : १; वागृ १७, १७^३; वैगृ ५, १३ : ३; जैगृ २, ९ : ४; कौसू ६, २६××; अप ५, ४, ५××; वाघ ६, २५××; शंघ १११××; आपध २, १६, ३; बौध २, १, ३५××; विघ १९, ५××; वैघ ३, ११, ३; बृदे ५, १५८; चाग्र ३०:१; निघ ३, १३^३; या २, १०; ३, १६××; याशि २, १; नाशि १, ४, ३; मीसू ३, ५, ५४; -^३णाः आश्रौ ५, ७, ३; शांश्रौ ७, ६, ३; आपश्रौ; कागृ ४३, ५; कौसू ९१, २०; -णात् काश्रौ ९, ८, १०^३; आपश्रौ; वैगृ १, १ : १२××; कौसू ४९, १२; वाघ १, ४३; शंघ २६०; ३२९; बौध १, ४, ९××; वैध ३, १२ : ४; -णात् आश्रौ ३, १४, १××; शांश्रौ; सु १४, ५; आगृ १, २२, १८××; कौघ १, १७, ६××; शांघ १, २५, ९××; पागृ १, १६, १०; १७, १××; आमिगृ १, १, १ : ६××; २,

१, ३ : २०^३; आपगृ ९, ४××; कागृ १२, २××; बौगृ १, १, १४××; बौपि २, ९, १४××; भागृ १, २१ : १३××; मागृ १, ६, ४^३××; वागृ ४, २६××; वैगृ २, १ : ४××; हिगृ १, १, ६××; गोघृ १, ९, ५××; गौपि १, ३, ११××; जैगृ १, ६ : ३××; द्रागृ १, १, ३××; कप्र २, ९, ४; कौसू ६, २३××; अप्राय २, ९; अप १, ३१, ५××; अशां १२, ६××; वाघ २, ५××; शंघ १२८××; आपध २, १०, १५××; बौध १, ११, ३१; विघ २१, १××; वैघ ३, ९, २××; हिघ १, ८, १७××; गौघ १०, ९; अग्र १०, ७^३; -णानाम् आश्रौ ६, ११, १६; काश्रौ १, ६, १३; आपश्रौ; आपमं २, ५, १××; कौघ ३, १४, २××; शांघ ४, १, ४; आमिगृ २, ३, ३ : १५××; आपगृ १४, ६××; कागृ ४१, २१^३; बौगृ २, ५, ६४××; बौपि २, २, १××; भागृ १, १० : ९^३××; वैगृ ३, १८ : ६××; हिगृ २, ११, ४^३; गोघृ ४, ३, २८; गौपि २, ४, १^३; कौसू १, ८; कप्र ३, ९, ९; अप १, ६, ८××; वाघ १४, २४; शंघ १४९××; बौध १, ५, ५६××; विघ १७, १४××; काध २७०:३; सुघप ८८ : १; आज्यो ५, ३; मीसू ६, ६, १८××; -णाय आश्रौ २, १, ४××; शांश्रौ; आगृ १, २४, ११××; कौघ २, ३, २××; शांघ २, ५, ४; पागृ २, ३, ७××; आमिगृ २, २, ५:२०××; आपगृ १३, ५; कागृ

४१, १२××; बौगृ १, २, २१; बौपि १, ७:४; मागृ १, १८, ४; वागृ ५, २६××; हिगृ २, ६, १३; गोघृ १, ४, २५××; जैगृ १, १९:४१; द्रागृ १, ५, ३८××; कौसू १७, १९××, अप्राय ४, ४; अप ७, १, ११××; वाघ ४, ८; शंघ ८६××; आपध २, ४, १६; बौध २, ३, ५०; विघ ५०, ३३××; हिघ २, १, ६९; गौघ २०, १३; या ७, १३; -णासः बौध २, ६, ३४^३; -णे आपश्रौ १७, २६, १८; बौश्रौ; कौघ १, ६, ७; शांघ १, १०, ८××; भागृ २, २१ : १९; वागृ १३, ३; जैगृ २, १ : ३२; अप ४, २, ११××; या १३, ९; पा ५, १, ६२; पावा ३, १, ३३१; -णेन शांश्रौ ३, १९, ९; आपश्रौ; सु १७, २; कौघ ३, १२, १; आमिगृ २, ४, ६ : ३७××; बौगृ १, ७, १××; वैगृ ६, १२ : १२; कौसू ७३, १८; अप्राय ५, ६; अप ३२, १, १२^३; शंघ ७५××; आपध १, ९, १३^३; हिघ १, ३, १३^३××; गौघ ९, १९; अग्र ४, १९^३; -णेभ्यः आश्रौ ६, ११, १६^३; शांश्रौ; आगृ १, ८, १३××; कौघ १, ८, २९××; शांघ १, १४, ११××; आमिगृ २, ३, २ : ८××; आपगृ २२, २; बौगृ १, ४, ३८××; बौपि १, ६:१०××; वैगृ २, ८ : ४××; जैगृ १, ६ : ७××; गो १, २९; अप्राय ३, ७××; अप १, ४९, ५××; अशां १३, १; आपध २, २६, १; बौध २, ६, ५××; विघ ३, २६××; हिघ २, ५, १९६;

गौघ ५, ४४××; काघ २७०:
 ८××; सुघ ५३; ऋघ ३, ३;
 अघ २, ४†; -णेघु शाश्रौ १४,
 ३३, ९; बौश्रौ; आमिघ १, ३,
 ४: १५†××; बौघ १, २, ४९;
 कप्र ३, ८, २१; कौघ ६५,
 १५××; अघ्राय ६, ६; शंघ
 २४४; बौघ १, १०, २; विघ ३,
 ९६××; या १३, ९; -णै:
 †आपमं २, १४, ८××; पाघ
 १, १६, ६†; आमिघ २, ३, ५:
 ९××; भाघ २, १७: ३†; बौपि
 २, १०, २; हिघ २, १५, ९†;
 हिपि २०: ५; अघ्राय ४, १;
 अप ७०^३, ११, १; विघ ३,
 ७२××; वैघ ३, ८: १; -णौ
 आपश्रौ २०, ७, १; वैश्रौ १२, १:
 १५; हिश्रौ १४, २, ६; बौपि २,
 ११, २.
 ब्राह्मणो^b- पा ४, १,
 ७३; -णी द्राघ २, २, २२; वाघ
 १७, ७८; २१, ११; शंघ ६५;
 ३४१; गौघ ४, १८; आज्यो १२,
 १; -†णी: आपमं २, ११, १३†;
 आमिघ २, १, २: १२†; बौघ
 १, १०, ११†; भाघ १, २१: ७†;
 १३; हिघ २, १, ३†; -णीनाम्
 आपश्रौ ५, ११, ७; बौश्रौ २, १६:
 ४५; भाश्रौ ५, ६, ७; हिश्रौ ३, ४,
 ७; -णीम्य: अशां १३, ३; -णीम्
 बौश्रौ ५४: ६; वैघ ६, १२: १;
 अप ३६, ५, ३; वाघ २०, ३४;
 २१, १-३; आज्यो ३, ६; -ण्य:
 आघ १, १४, ८; गोघ २, ४, ६;

७, १२; वैघ ३, ११, ३; साअ
 १, ९२; -ण्या शाश्रौ १७, १५,
 १२; लाश्रौ ९, २, ६; शंघ ४००;
 -ण्या: आघ १, ७, २१; वाघ
 १७, ४८; २१, १-३; -ण्याम्
 बौघ १, ७, १; वैघ १, १: १२;
 ६, ७: १; वाघ १८, १; ४; ६;
 शंघ ३९९; ४०१; आपघ २,
 १७, २१; बौघ १, ९, ६-८; वैघ
 ३, ११, ३; १३, ११; १४, ७;
 हिघ २, ५, ४९.

ब्राह्मणी-क्षत्रिया-
 वैश्या- -श्यासु वाघ १७, ४७.

ब्राह्मणी-गामिन्-
 -मी शंघ ३७७: ६.

ब्राह्मणी-पुत्र- -त्र:
 विघ १८, २; ३९; -त्रा: विघ
 १६, ६; -त्रेण गौघ २८, ३८;
 -त्रौ विघ १८, ३८.

ब्राह्मण-क- पा ५, २,
 ७१.

ब्राह्मणक- पा ४, ३,
 ११८^d.

ब्राह्मण-कन्या- -न्या
 आमिघ २, ४, ९: २.

√ब्राह्मणकाम्य>

काम्या- -म्या बौघ २, १०, ६०.
 ब्राह्मण-कुमार- -रस्य वृदे
 ५, १५.

ब्राह्मण-कुल- -लम् वाश्रौ
 १, ५, ३, ११; गोघ २, ३, १; -ले
 द्राघ १, ४, २; वाघ १०, २४.

ब्राह्मण-क्षत्रिय- -ययो:
 शाश्रौ १, १, ३; -यौ विघ १८,

१२.

ब्राह्मण-क्षत्रिय-विट्-
 छद्- -दान् बौघ २, ३, ११.

ब्राह्मण-क्षत्रिय-विट्-
 श्छद्- -द्रा: बौघ १, ८, १९.

ब्राह्मण-क्षत्रिय-विश-
 -विशाम् वाघ २१, १२.

ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-
 -श्या: वैश्रौ १२, १२: १;

वाघ २, २; विघ १८, २८;
 -श्यानाम् आमिघ ३, १०, २:

११; सुघ ५; १०; -श्यै: वाघ
 १८, ८.

ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-
 रथकार- -राणाम् वाश्रौ १, १,
 १, ४.

ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-
 श्छद्- -द्रा: वाघ २, १; आपघ १,
 १, ४; वैघ १, १, २; हिघ १, १, ४.

ब्राह्मण-ना(व>)वी^f-
 -वी: हिघ १, ६, ६९^g; -न्य:
 आपघ १, २४, २^g^h.

ब्राह्मण-गान- -नम् वाश्रौ
 ३, ४, १, ४१.

ब्राह्मण-गृह- -हे शंघ
 ४०३; -हेषु शंघ ३२७; ४०४.

ब्राह्मण-जात- -तम्
 आपश्रौ २०, ५, १५; हिश्रौ १४,
 १, ४७.

ब्राह्मण-जुष्ट- -ष्टम् कौघ
 १, १६, १५; शांघ १, २४, ६.

ब्राह्मण-तर्पण- -णम् माघ
 १, १९, ५; २, १४, ३२; सुघप
 ८६: ४; अप ६८, २, ६१; शंघ

a) पाप्मे. वैप १, २२९९ ० द्र. । b) विप. ([ब्रह्मसंबन्धिनी] प्रजा- [आपमं २, ११, १३ प्रमृ.], ऋच्-

[साअ १, ९२ प्रमृ.]), नाप. (ब्राह्मण-स्त्री- [वाघ १७, ७८ प्रमृ.]) । c) सपा. पाघ १, १५, ८ मानुषी: इति पाप्मे. ।

d) तु. पायम. । e) *वैश्वैश्यश्च इति सूक्ते. । f) वैप १ ब्रह्मगवी- टि. द्र. । g) परस्परं पाप्मे. । h) उत्त-

रेख संचिर्कार्कः ।

३९०; गौघ २६, १७; -णैः
विध ४९, २.

ब्राह्मणतर्पणा (ण-ञ)
न्त,न्ता^१- न्तम् काश्रौसं ५:१;
८:१८; -न्ता: काश्रौसं ६: २०.

ब्राह्मण-दण्ड- -ण्डः गौघ
१२, ४३; -ण्डौ गौघ १, २४.

ब्राह्मण-दार- -नान् वाघ
२२, १६.

ब्राह्मण-दूषण- -णम्
वाघ ६, २४.

ब्राह्मण-दूषयित्- -ता
विध ५, ९८.

ब्राह्मण-देवता-सर्वभूत-
परीवादा(द-आ)क्रोश^२- -शान्
हिध २, १, ९४०.

ब्राह्मण-द्वेष्ट- -ष्टे या
६, ११.

ब्राह्मण-धन- -नम्
वैताश्रौ ३४, १८.

ब्राह्मणधन-वर्जम् विध
१७, १३.

ब्राह्मण-निमन्त्रणा (ण-
आ)दि- -दि वैगृ ४, ७: २.

ब्राह्मण-परिणी(त >)
ता^३- -तायाम् शंघ ३९९.

ब्राह्मण-पाणि- > ण्य
(णि-ञ)जकर्ण-स्तम्बा(म्ब-ञ)प्-
म्बाप्सु आश्रौ ३, १४, १६.

ब्राह्मण-पुङ्गव- -वे अप
९, ३, १.

ब्राह्मण-पूजन- -नम् विध
५२, ३०.

ब्राह्मण-प्रिय- -०य विध
९८, ३०.

ब्राह्मण-ब्रह्मवर्चसकाम-
-मयोः काश्रौ ४, ७, ५.

ब्राह्मण-ब्रुव^४- -वे विध
९३, २.

ब्राह्मण-भोजन- -नम्
कौगृ १, ७, ४××; शांगृ ४, १६,
५××; पागृ १, २, १३××; मागृ १,
२०, ५; वैगृ ६, ५: ४; शंघ ४४०;
-ने आगृ १, १, २; -नैः वौगृ
३, १२, ९.

ब्राह्मणभोजन-
सुवर्ण-पञ्चु-दान^५- -नानि वैगृ
६, ६: ५; ७: ७.

ब्राह्मणभोजना(न-ञ)
र्थ- -र्थम् आग्निगृ ३, ३, १: १९.

ब्राह्मण-मात्र- -त्रम्
आपघ १, २४, ७; हिध १, ६, ५६.

ब्राह्मण-यज्ञ- -ज्ञः काश्रौ
१९, १, १.

ब्राह्मण-राजन्य- -न्ययोः
काश्रौ २१, १, २; आपश्रौ २४,
१, १; हिश्रौ ३, १, ७; -न्यौ
हिश्रौ १४, २, १८; वाघ २, ४०.

ब्राह्मणराजन्य-वृत्-
गौघ १२, ११.

ब्राह्मण-राजन्य-वैश्य-
-श्यानाम् काश्रौ १, १, ६; आपश्रौ
१०, १२, १२.

ब्राह्मण-राजन्य-वैश्य-रथ-
कार- -रेषु बौघ १, ३, ९.

ब्राह्मण-राजन्य-वैश्य-
शूद्र- -द्राः आपश्रौ १८, १९, २.

ब्राह्मण-लक्षण- -णम्
वाघ ६, २३.

ब्राह्मण-वचन- -नात्

मागृ १, १३, १९; आपघ २, १,
१९; हिध २, १, १८.

ब्राह्मण-वत् बौघ २, १,
११; या ३, १६६; पाग १, १,
३७.

ब्राह्मण-वत्सा- > वत्सा-
ब्राह्मणीवत्स- -वत्सयोः पावा १,
२, ६८.

ब्राह्मण-वध- -धे बौघ
१, १०, १९; गौघ २२, १०.

ब्राह्मण-वर्चस^६- -वत्सम्
अप १, १७, १; -सेन वैताश्रौ
१९, १६.

ब्राह्मण-वर्जम् विध ३,
६३; ५, १××; गौघ ११, १.

ब्राह्मण-वासिष्ठ- -ष्ठे
पागवा ४, १, ९९^६.

ब्राह्मण-विधवा- -वा
आग्निगृ २, ४, ९: २.

ब्राह्मण-विहित- -ताः
हिश्रौ ३, १, ८.

ब्राह्मण-वृत्ति- -त्तिः
सुघ ६.

ब्राह्मणवृत्ति-घ्न- -घ्नः
शंघ ३७६; ४०४; विध ५४,
१५.

ब्राह्मण-वैश्य- -श्यौ
वाघ ३, २४; विध १८, १४.

ब्राह्मण-शासन- -नात्
वृदे ७, १४.

ब्राह्मण-शूद्र- -द्रौ विध
१८, १६.

ब्राह्मण-संज्ञक- -कः
आग्निगृ ३, १०, १: २; बौपि ३,
५, १^६.

a) वस. । b) दस. > षस. > दस. । c) सपा. आपघ २, ५, १३ सर्वभू^० इति पाठे. । d) विप.
(शूद्रा-). e) उस. उप. < √बृ । f) दस. > दस. > षस. । g) वैप १ द. । h) षष्ठ्योः इति पाठा. ।
i) षष्ठितः इति B. ।

ब्राह्मण-संनिधि- -धौ
आमिष्ट २, ७, ११:८; ३, १२, १:
१७.

ब्राह्मण-सप्तक- -कम्
विध ९०, १०.

ब्राह्मण-संपद- -पदम्
वाध ११, २८; बौध २, ८, २२.

ब्राह्मण-संभाष, षा^१- -षः
भाष्ट २, ३२ : ३; हिष्ट १, १४,
२; १७, ६; -षाम् आमिष्ट २, १,
१ : ७; २ : ८; भाष्ट १, २०:११;
हिष्ट १, २४, ८x४.

ब्राह्मण-संभाषा- -षा
आरध २, २, ९; हिध २, १, ३१.

ब्राह्मण-सात् कप्र २, ८,
११.

ब्राह्मण-सामन् - -म
निसू ७, ५ : ३३.

ब्राह्मण-सुवर्ण-हरण-
-णम् विध ३५, १; -णे वाध
२०, ४१.

ब्राह्मण-सुवर्णा (र्ण-अ)
पहरण- -णम् वाध १, २०.

ब्राह्मण-सूत-मागध-च-
ण्डाल- -लान् गौध ४, १८.

ब्राह्मण-स्व- -स्वम् बौध
१, ५, १०१; १०२^३; -स्वानि
आपध २, २६, २; हिध २, ५,
१९७.

ब्राह्मण-हस्त- -स्ते काश्रौ
२५, ४, २; -स्तेषु अप ४४,
३, २; ४; ४, ७; शंघ २१४.

ब्राह्मणा(ण-आ)कोश-
-शे गौध १२, ६.

ब्राह्मणा(ण-अ)मि-

-श्री शंघ ४११; ४३९.

ब्राह्मणा(ण-अ)ञ्जलि-
-लिषु वैष्ट ६६ : ७.

ब्राह्मणा(ण-अ)तिक्रम-
-मः कप्र २, ५, ९^b; वाध ३, १०;
बौध १, ५, ८३; -मेण बौध १,
५, ८२.

ब्राह्मणा(ण-आ)दि-
-दिषु पावा ५, १, १२४; -दीन्
काश्रौ २१, १, ७; १२; -दीनाम्
बौध २, २, ५२; विध २२, ८.

ब्राह्मणादि-चतुष्टय-
-ये अप ३६, ८, २.

ब्राह्मणादि-हत् - -ते
कप्र २, ७, ९.

ब्राह्मणादि-हीन-हत् -
-तः वैष्ट ५, ११ : ३.

ब्राह्मणा(ण-२आ)द्य-
-द्याः बौध १, २, १९; वैध ३,
१५, १४; -द्यैः वैष्ट ७, ४ : १०;
वैध ३, ९, १.

ब्राह्मणा(ण-अ)नुज्ञात-
-तः विध ७३, १०.

ब्राह्मणा(ण-अ)नुमत-
-तः भाष्ट २, ५ : ६; विध ४२,
२; -ते शंघ ३९५; -तेन विध
८१, १८.

ब्राह्मणा(ण-अ)न्तरित-
-तम् विध २३, ४८.

ब्राह्मणा(ण-अ)पसद-
-दाः विध ८२, ३०.

ब्राह्मणा(ण-अ)मिथ्या-
हार- -रः सुधप ८६ : १४^c.

ब्राह्मणा(ण-अ)मिवां-
सन- -ने गौध २१, १७.

ब्राह्मणा(ण-अ)मिश्रा-
वण- -णे सु १, ५.

ब्राह्मणा(ण-अ)मिहित-
-तम् विध १९, २२.

ब्राह्मणायन- पा ४, १,
९९; -नः^d कौसू ३३, १९;
-नम् कौसू ७८, ८; -नाः हिधि
१४ : १०.

ब्राह्मणा(ण-अ)र्थ- -र्थः
विध १७, १४; -र्थे वाध २०,
२७; बौध २, २, ७१; विध १६,
१८.

ब्राह्मणा(ण-अ)पित्त-
-तानाम् हिश्रौ २, १, ५५.

ब्राह्मणा(ण-अ)शौच-
-चे विध २२, १४; १५.

ब्राह्मणा(ण-आ)श्रय^e-
-याः आमिष्ट ३, १०, ४ : २२.

ब्राह्मणे(ण-इ)न्द्र-
-न्द्राणाम् वेज्यो २.

ब्राह्मणो(ण-उ)च्छिष्ट-
मार्जन- -नात् विध ९१, १८.

ब्राह्मणो(ण-उ)च्छिष्टा
(ष्ट-अ)शन- -ने शंघ ३९६;
विध ५१, ५३.

ब्राह्मणो(ण-उ)पवा-
सन- -नम् वाश्रौ १, ४, ३, ४२;

ब्राह्मण्य- पा ४, २, ४२;
५, १, १२४; -ण्यम् बौष्ट ३,
१३, ९; कप्र २, १, १५; ४, १०^e;

अप ४१, ४, ६; ७; -ण्यात् विध
५४, २७.

ब्राह्मण्या(ण्य-आ)
दि-व्यवहार- -रः सुध ४२^e.

ब्राह्मि^f- -ह्ये हिश्रौ १४,

a) बस. । b) ष्णामि^० इति जीसं. । c) सप्र. ष्णामिथ्याहा^० <> ष्यादिभ्यवहा^० इति पाभे. ।

d) नाप. । जीवत्थिवरुक्ने वा जीवत्थविरातृक्ने वा जीवत्थविरतरौ वेति दारिल्लः ।

f) वैष १४. ।

e) ब्रह्म^० इति सूक्नेः ।

४,३८१.
 ब्राह्मण^० -> °ह्यय-वायव्य-
 -व्ययोः अशां ६,३.
 ब्रह्म-ऋषि- -षीन् शंघ ११६ः
 ३१.
 ब्रह्म-कर्मन्- -र्मं शाश्रौ ४,६,१;
 ८, १५, १५; -र्मणि वृदे ५,
 १५८.
 ब्रह्मकर्म-समाधि^० - -घयः
 अप ३०, १,५.
 ब्रह्म-कर्मा(र्म-आ)ःम-देवता-
 > °त्य- -त्यम् अत्र ५,२४.
 ब्रह्म-काण्ड- -ण्डम् अत्र
 १९, १.
 ब्रह्म-काय- > °यिक^० -०क
 विध २८,३८.
 ब्रह्म-कीर्ति^० - -तिम् आमिष्ट २,
 ७,६ : ११.
 ब्रह्म-कूर्च^० - -र्चं अप ३८,३,२;
 बौध ४, ५, २५; -र्चम् आमिष्ट
 २,७, ७ : १.
 ब्रह्मकूर्च-विधि- -धिम् अप
 ३८,१,१.
 ब्रह्मकूर्चो(र्च-उ)दक- कान्
 आमिष्ट २,७, ७ : २१.
 ब्रह्म-कृत- (> ब्राह्मकृतेय-
 [> °वेयी-] पा. यरू.) पाग ४,
 १,१२३; ७३^०.
 ब्रह्म-कृति^० - -तिम् आश्रौ ६, ३,
 ६१.
 ब्रह्म-कोप-मय- -यः अप ५२,
 १४,१.
 ब्रह्म-कोश- -शः पाण्ड ३, १५,

२३६; -शम् बौश्रौ ३, २३ :
 १०; पाण्ड ३, १५, २३.
 ब्रह्म-क्षत्र- -त्राम्याम् बौश्रौ
 १८, २ : १०; -त्रे शाश्रौ १४,
 २९,३.
 ब्रह्मक्षत्र-सुखा (ख-आ)
 वह^० -हः अप ५०,६,३.
 ब्रह्म-क्षत्र-विद्- -विशाम् शंघ
 १७८.
 ब्रह्म-क्षत्रिय-विट्-शूद्र- -द्रान्
 अप ६३,३,८.
 ब्रह्मक्षत्रियविट्शूद्र-विनाश-
 -शः अप ६४,८,४; -शाय अप
 ५८,१,८.
 ब्रह्म-क्षत्रिय-वैद्य- -इयानाम्
 आण्यो २,८.
 ब्रह्म-गा(व< >)वी^१ - -वीः अपंष्टः
 ३५१; -वीभ्याम् कौसू ४८,१३;
 -वीम् अत्र ५,१८१; -व्याम्
 अपं २ : ४४; ५ : १११.
 ब्रह्मगवी-देव(ता)>त^० -
 -ताः अत्र १२,५.
 ब्रह्मगवी-देवता-> °त्य-
 -त्ये अत्र ५,११.
 ब्रह्मगवी-ब्रह्मज्य^० - -ज्यम्
 अत्र ५,११.
 ?ब्रह्म-गव्य^१ - -व्यम् अत्र ४,२१.
 ब्रह्म-गुप्त- पाग ४,१,११२^m;
 ५,३,११६ⁿ.
 ब्राह्मगुप्त- पा ४, १,
 ११२.
 ब्राह्मगुप्तीय- पा ५,
 ३,११६.

ब्रह्मगुप्तीय- पा ५, ३,११६.
 ब्रह्म-ग्रन्थि-यु(त< >)ता-
 -ताम् काण्ड ४३ : २.
 ब्रह्म-घोष- -घेण अप ८,१,२.
 ब्रह्म-घ्न- -घ्नेन कप्र ३, १, ७.
 ब्रह्म-चमस- -सम् आपश्रौ १४,
 १०,७; वैश्रौ १५,३० : १२.
 ब्रह्म-चर्ध^१ - -र्धम् शाश्रौ ३,१३,
 ३०; आपश्रौ ४,१,२××; बौश्रौ;
 आपर्म २,३,२६; आण्ड १, २२,
 १; कौष्ट २, ७, ५; १२; १९१;
 शाण्ड १,१७,५; २,१,१९; ११,
 ६××; पाण्ड २, १, २४; २, ६;
 ६,३; आमिष्ट १, १, ३ : ३१;
 २, ६, ५ : २६; ७, ४ : १६××;
 आपण्ड ८, ८; ९, ४; ११, ११;
 काण्ड २,४; १९, २; ३०, १××;
 बौण्ड २, ६, १७; ९, २४; बौपि १,
 ९ : १४; ३, ४, २२; भाण्ड १,
 १० : १३; ३, ५ : २; ६ : २०;
 १२ : ५; माण्ड १, १, १८; २,
 ६; १४,१४××; वाण्ड ५, १६१;
 ३४; ६, १४××; हिण्ड १,५, २१;
 हिपि ८ : १०; गोण्ड २, १०, १९१;
 जैण्ड १, २ : १८१; १२ : २४१;
 १७ : २; द्राण्ड ४, २, ४; कप्र ३,
 ६, १४; फौसू ५५, ९; ७३,
 १०; १३५, ९××; शंघ ३९;
 ११६ : १९××; आपध १, १,
 २८; २, ६××; बौध १, २, ५५;
 ५७३१; ५८१××; विध २५, १४;
 २८, ४७××; हिध १, १, २६;
 ३९××; गौध २, ११; ५२××;

a) साऽस्येदेवतीयः षयः प्र. उत्सं. (पा ४, १, ८५) । b) बस. । c) विप. (विष्णु-) ।
 d) =(पञ्चगव्यनिर्वर्त्य-) कृच्छ्र-विशेष- । e) ब्राह्मणकृतेय- इति भाण्डा. । f) वैप १, २२९५ b द. ।
 g) पामि. वैप २, ३खं. ब्रह्मणः तैआ ७, ४, १ ति. द. । h) पस. >उत्स. । i) वैप १ द. । j) °वीष्णु
 इति पाठः ? यनि. च ब्रा° चेति श्लोचः । k) समाहारे दस. । l) पाठः ? ब्रह्मा, यं इति द्विपदः श्लोचः (तु-
 सात., प्रकरसं च) । m) तु. पागम. । n) ब्राह्म° इति प्रायम. ।

ऋअ २, ३, १; या ६, २५; पा ५, १, १४; मीस् ६, १, २४; -ये शां २, ११, १३^३; भाग्य ३, १: ३; विध २५, १७; -फँयेण कौट्य ३, १२, १८^६; अप १, ३८, १; अशां ८, १; वाध ११, ४८; बौध २, ६, ३५; ९, ७.

ब्रह्मचर्य-क्षति- -ति: आमिष्ट २, ७, १: ३.

ब्रह्मचर्य-युक्त- -क्त: आपग्य ९, १०.

ब्रह्मचर्य-वत्- -वन्ति बौश्रौ २१, १: ५; -वान् वाध ११, ४८^६; आपध २, २१, ८; १९; बौध २, १०, २; हिद्य २, ५, ११७; १२८.

ब्रह्मचर्य-विधि- -धि: आपध १, २, १८; हिद्य १, १, ५१.

ब्रह्मचर्य-व्रत- -तम् वैध २, ३, ६.

ब्रह्मचर्या(र्य-अ)न्त- -न्ते काग्य १९, ३; जैग्य १, १७: ८.

ब्रह्मचर्या(र्य-आ)श्रम- > षिन- -मी विध ५१, ४३.

ब्रह्मचर्यो(र्य-उ)पपन्न- -न्नम् वाध २, ९; विध २९, १०; या २, ४.

ब्रह्मचारिन्^१- पाग ५, १, १३०^९; -रिण: आश्रौ १०, ७, ९; शाश्रौ १६, २, २६; निस् ८, ४: ३४; आपमं २, २, १; कौट्य २, ३, १८; शां २, ६, ८; पाग्य २, १०, १४xx; आमिष्ट २, ७, ४: ४; बौट्य २, ६, १०^६xx;

हिद्य १, १५, ३^६; हिपि १४: १०; कप्र ३, ५, ६; कौस् ५६, १४^६xx; अप १९, ३, २xx; वाध ६, २०xx; आपध १, २, १७; ५, १०^६xx; बौध २, १, २४xx; विध २५, १७; वैध १, ३, १xx; हिद्य १, १, ४४^६xx; गौध ३, ४xx; या ५, २; -रिणम् आश्रौ ८, १४, १; वाश्रौ; -रिणा कप्र ३, ६, १४; विध २८, ४१; -रिणाम् वाध ६, १९; विध २८, १; ६०, २६; -रिणि अप ३६, १, ४^६xx; हिद्य १, २, १०^६; पा ५, २, १३xx; -रिणे आपश्रौ १३, १९, ९; बौश्रौ; -रिणौ आग्य १, ८, १०; आमिष्ट १, ६, ३: ४३; बौट्य १, ५, १५xx; भाग्य; -फँरिन् बौट्य १, ८, ६; कौस् ५६, १२^६; -फँरिभि: आपमं २, ६, १; आमिष्ट १, १, ३: २८; हिद्य १, ५, १३; अप ३०^६, १, २; -रिभ्य: कौस् ११, ६; ५५, १४^६; -री आश्रौ ८, १४, १४; काश्रौ; आपमं २, ६, १४^६; आग्य १, २२, २^६; कौट्य २, २, १५^६; पाग्य २, ३, २^६; शां २, ४, ३, ५^६; गोग्य २, १०, २९^६; द्राग्य २, ४, १९^६.

ब्रह्मचारिणी- -णी भाश्रौ १०, ९, ९; वैध २, ३, १; आज्यो १२, ३; -णीम् आमिष्ट १, ६, १: २; हिद्य १, १९, २; अप ३६, १, २.

ब्राह्मचारिण- पा ५, १,

१३०.

ब्रह्मचारि-कल्प- -ल्पेन आग्य ३, ५, १५; आमिष्ट २, ४, ४: ४; काग्य ४३, २; बौध ३, ७, ६.

ब्रह्मचारि-गत- -तम् बौध १, ५, ४८.

ब्रह्मचारि-गृहस्थ-वानप्रस्थ-परिव्राजक- -का: वाध ७, २.

ब्रह्मचारि-त्व- -त्वात् मीस् १०, ६, ३२.

ब्रह्मचारि-धर्मन्- -र्माणि वैग्य २, ८: १३.

ब्रह्मचारि-वानप्रस्थ-भिक्षु-गुर्विणी-तीर्थानुसारिन्- -रिणाम् विध ५, १३२.

ब्रह्मचारि-वास^१- -स: आपध १, ३, ११^९; हिद्य २, ५, १११^९; ११५.

ब्रह्मचारि-वासस- -स: हिद्य १, ९, १०.

ब्रह्मचारि-व्रत- -तम् वैग्य ५, ७: ५.

२ब्रह्मचारि-व्रत^१- -त: काठश्रौ २४; काश्रौसं २८: १७.

ब्रह्मचारि-संघ- -घम् आपध १, ३, २६; हिद्य १, १, १०१.

ब्रह्मचारि-सांपद^१- -दानि कौस् ११, १.

ब्रह्मचित्^१- -चित् बौश्रौ १९, ७: ६०; ८: ३; -चित: बौश्रौ १९, ७: १.

ब्रह्म-चोदन^१- -नौ बौश्रौ ६, १५: २८; माश्रौ २, १, ४, २७.

- a) सपा. चरिते ब्र० इत्यस्य स्थाने कौट्य २, ७, १७ चरितब्रह्मचर्ये इति पाठे. । b) वैप १ द्र. । c) चन्द्र-मते पाठ: (उ. पागम.) । सब्रह्मचारिन्- इति भाष्ये. प्रमु. । d) सपा. षरिण: <> षरिणि इति पाठे. । e) सपा. षरिण: वास: <> षरिवास: इति पाठे. । f) पाठे. वैप २, ३६. ब्रह्मचारी माश ११, ५, ४, ५ टि. द्र. । g) उप. <√वस(निवासे)। h) सपा. आपध २, २१, ३ वास: इति पाठे. । i) वस. । j) उप. <संपद्- । k) नाप. (चिति-) उस. ।

ब्रह्मजज्ञान^b -> ^०न-सूक्त-क्तेन
अप १९^१, २, ५; ३, ४.

ब्रह्मजज्ञान(न-आ)दि- दि
वैगृ २, २ : ५.

ब्रह्मजज्ञानीय^b -ये जैगृ २,
८ : १०.

ब्रह्म-जन्मन्- न्म विध ३०, ४४.

ब्रह्म-जप- ष्यः आश्रौ १, १२,
१०; २९; -पम् मागृ १, १०,
१९; कौसू ३, ८; १३७, ४०.

ब्रह्म-जाया- -या ऋअ २, १०,
१०९; वृदे २, ८२; ८, ३६;
-याम् अश्र ५, १७.

ब्रह्मजाया-देवता-> ^०त्य-
-स्यम् अश्र ५, १७.

ब्रह्म-ज्य^c - ऋज्यम् अश्र १२,
५ (३); -ऋज्यस्य आपश्रौ
१३, १, ११; हिश्रौ ९, १, १०;
-ज्येषु कौसू १४१, ७.

ऋब्रह्म-ज्येष्ठ^c - छा अप ३७,
६, १; ४६, २, ६; ९, २१; १०,
३०; अश्र १९, २२.

ऋब्रह्म-ज्योतिष^c - तिः आपश्रौ
११, १५, १; बौश्रौ ६, २९ : २०;
वैश्रौ १४, १३ : ७; हिश्रौ १०,
३, ४२; आमिगृ २, ५, ३ : २०;
बौगृ ३, ७, १६.

ब्रह्मजस-पति-> ब्राह्मणस्पत्य,
त्या^c - स्यः आश्रौ ५, १४, ६;
शाश्रौ १०, ३, ७; ४, ७; माश्रौ
५, २, १०, ३३; शुअ ४, ३८;
-त्यम् शाश्रौ ७, १९, ११;
आपश्रौ; -स्यस्य हिश्रौ २२, ४,

१०; -त्या साअ १, ५६; १३९;

अश्र ८, ६; -त्याः शाश्रौ ७, २६,

२; ऋअ २, १, १८; -त्यानाम्

आश्रौ ७, ३, ५; -त्यानि अश्र

१९, ६१; -त्यामिः हिश्रौ ६,

६, १६; -त्ये ऋअ २, १०,

१५५; -त्यौ आश्रौ ७, ३, १.

ब्राह्मणस्पत्य-सामन्-

-म जैश्रौका ५९.

ब्रह्मणो(राः-अ)यन- नम् बौश्रौ

१७, २७ : ६.

ब्रह्मण्य- पा ५, १, ७; -ण्य

विध ९८, ३६; -ण्यम् अप २०,

५, ३.

ब्रह्मण्य-पित्र^d - ऋः अप

२०, २, ९.

ऋब्रह्मण-वत् काश्रौ ३, २, १३;

आपश्रौ.

ब्रह्मण-वत् -वते शाश्रौ ९, २२,

२; ४; बौश्रौ २३, ९ : १०;

वाधृश्रौ ४, १०८ : ९^१; -वन्तः

बौश्रौ १८, ४६ : ४^२; १४; १५;

तैषा १३, १३^१; भाशि ६३^१;

-वान् आश्रौ ४, १, २२.

ब्रह्मण्वती^c -> ^०त्या(ती-आ)

दि- दीनाम् शौच ४, ९९.

ब्रह्म-तर्पण- णम् वैगृ १, ५ : ९.

ब्रह्म-तस (ः) अप्राय ४, १.

ब्रह्म-ता- पा ५, १, १३६.

ब्रह्म-तीर्थ^c - र्थेन शंघ ९२.

ब्रह्म-त्व- पा ५, १, १३६; -त्वम्

काश्रौ २, २, २२; ११, १,

१; आपश्रौ ३, २०, ११^२xx;

बौश्रौ; -ऋत्वे बौश्रौ २७, ६ : १५;
वैश्रौ २०, ३० : १०; -त्वेन बौश्रौ
२, ३ : १९.

ब्रह्मत्व-कारिन्- रिभिः

दाश्रौ १२, २, १०; लाश्रौ ४, १०,
१०.

ब्रह्मत्व-नियम- -मात् मौसू
६, ६, २४.

ब्रह्मत्व-प्रातिहर्त्र^f - ऋः काश्रौ
२४, ४, ४४.

ब्रह्म-द^g - नः विध ३०, ४४.

ब्रह्म-दण्डा(एड-आ)दि-युक्त-
-कानाम् कप्र ३, ५, १६.

ब्रह्म-दत्त- पाय ४, १, ९९^h;
-त्तम् वैगृ २, ७ : १३.

ब्राह्मदत्तयन- पा ४, १, ९९.

ब्रह्म-दान- नम् कप्र २, ४,
१९; -ने मौसू १०, ३, ७०.

ब्रह्म-दे(य>)याⁱ - या अप
४१, ६, ५; ६; -याम् वागृ १०,
१६; -यायाः कागृ १५, १.

ब्रह्मदेया(या-अ)नुसंतानⁱ-
-नः^k वाध ३, १९; शंघ २००;

विध ८३, १५^l; गौच १५,
२८.

ब्रह्मदेया-पति- -तिः शंघ
२००.

ब्रह्मदेया-पितृ- -ता मागृ १,
८, ६.

ब्रह्मदेया-प्रदायक- -कः शंघ
२००.

ब्रह्म-देवता-> ^०त्य^m - त्यः
अप १, ४, ६.

a) < ब्रह्म जज्ञानम् (मा १३, ३) । b) = साम-विशेष- । मत्वर्थीयः छः प्र. (पा ५, २, ५९) ।

c) वैप १ द. । d) कस. समासान्तः अः प्र. उर्स. (पा ५, ४, ७४) । e) = तीर्थ-विशेष- । f) तु. चौसं. ।

प्रति^g इति अच्यु. ? । g) उप. < √दा (दाने) । h) व्यप. । i) = (ब्राह्मविधिना देया-) कन्या- ।

j) = पक्षिकपावन-भेद- । षस. उप. = संतति- । k) पामे. पृ १८१८ m द. । l) वैतु. टीकाकारः (तु. Jolly)

व-अ इति कृत्वा बस. पूष. = वेदाध्यापन-, उप. भाष. इति । m) विघ. (अभिजिन्-नक्षत्र-) ।

ब्रह्म-देव-भूत-पितृ-नर-यज्ञ-
-ज्ञान् विध ५२, २०.
ब्रह्म-देव(व-ऋ)धि-पितृ-वृष्य-
(मि-अ)र्थ- -थम् वैगृ ३, २ :
७.
ब्रह्म-दैवत्य- -त्यम् वैष २, १,
९; चव्यू ४ : २४; -त्यौ वैगृ
३, १७ : ६.
ब्रह्म-द्विष- -द्विषः द्राश्रौ १०,
२, १६; अशां १५, ५; -द्विषे या
६, ३; ११६.
ब्रह्म-नुत्त- -त्तम् अप्रा ३, १,
७१.
ब्रह्म-पति- -तिः काश्रौ ५, १३,
११.
ब्रह्म-पत्नी- -नीपु आमिगृ २,
५, ३ : २०; बौगृ ३, ७, १६.
ब्रह्म-पद- -दम् वैगृ २, १८ :
१५; ५, १ : १०.
ब्रह्म-पर- -रे शौच २, ६६.
ब्रह्म-पलाश- -शाः चव्यू ४ : २.
ब्रह्म-पा- -पाः आपश्रौ ४, ११,
११.
ब्रह्म-पार्षद- -दान् बौध २, ५,
२०१.
ब्रह्मपार्षदी- -दीः बौध २,
५, २०१.
ब्रह्म-पुत्र- -त्र कागृ ४१,
१७; -त्रः आपमं १, १३, १०;
बौगृ ४, २, ९; हिगृ १, १६, १८;
-त्रम् आश्रौ २, १८, १२६;
-त्रान् आमिगृ २, ४, ८ : १०;
-त्रेभ्यः आमिगृ २, ४, ८ : ५.
ब्रह्म-पुरुष- -षः शंघ २०१;

-वैभ्यः आगृ १, २, ६; आमिगृ
१, ७, २ : ५; कागृ ५४, १५;
मागृ २, १२, १६; वैगृ ३, ७ :
१०; विध ६७, १९.
ब्रह्म-पुरोहित- -तम् वाघ १९,
४१.
ब्रह्म-पूत, ता- -तः बौध २, ४,
२४; १०, १५; -ता बौध २, ५,
११; -ताः आपश्रौ ४, ४, ४;
भाश्रौ ४, ५, ५; वाश्रौ १, १, २,
१७; वैश्रौ ४, ३ : ५; हिश्रौ १,
४, ५६; ६, १, ५१.
ब्रह्म-प्रजापति- पा, पाग २, ४,
१४; -तिभ्याम् कौस् १३९, ६;
-ती पागृ ३, ४, ८.
ब्रह्मप्रजापत्या(ति-आ)दि-
-दीनाम् पावा ६, ३, २५.
ब्रह्मप्रजापत्योः (अयन-)
लाश्रौ १०, १३, ८६.
ब्रह्म-प्रथम- -मान् वैश्रौ १२,
१ : ४.
ब्रह्म-प्रवा(द->)दा- -दाः निस्
६, ७ : ४८; ८, ६ : १३.
ब्रह्म-प्रवेशना(न-आ)दि- -दि
आमिगृ १, ६, १ : १०; ७, ३ :
११.
ब्रह्म-प्रशास्त्र- -स्तृभ्याम्
जैश्रौका ११५.
ब्रह्म-प्रसूत- -तम् गौध ११,
१६१.
ब्रह्म-प्रिय- -य विध ९८,
३७; -याय आमिगृ ३, ११, ४ :
४०१.
ब्रह्म-प्रोक्षि(त->)ता- -ताः

बौश्रौ २४, २५ : १३.
ब्रह्म-बन्धु, न्यु- -न्धवे काश्रौ
२२, ४, २४; लाश्रौ ८, ६, २८;
-न्धुः बौश्रौ १८, २५ : ५-८;
हिपि १४ : ३; गोगृ २, ६, ८;
कप्र ३, ६, ६; -न्धौ शाश्रौ १६,
२९, ८; -न्धवाम् गौध २२, २८.
ब्रह्म-बल- -लम् माश्रौ ५, १,
९, १९१.
ब्रह्म-भक्ष- -क्षाणाम् मीस् १०,
२, १७.
ब्रह्म-भाग- नाः बौश्रौ २५, ६ ;
९; -गम् आश्रौ १, १३, २;
आपश्रौ ३, २०, ६; १०; बौश्रौ
१, १८ : १८; ३, २५ : ११××;
भाश्रौ ३, १८, ५; माश्रौ १,
३, ३, १९; ५, २, १५, २२;
वाश्रौ १, ३, ५, १३; वैश्रौ
७, १४ : १०; हिश्रौ २, ८, ३६;
४१; द्राश्रौ १२, ३, १७; लाश्रौ
४, ११, १७; -गस्य शाश्रौ ४,
७, १९; -गे आश्रौ १, १३, ५;
शाश्रौ १, १२, ९.
ब्रह्मभाग-यज्ञमानभाग-
-गाभ्याम् माश्रौ १, ५, ६, ७; ५,
२, २, २१; -गौ वाश्रौ १, ३, ५,
१३.
ब्रह्म-भाजन- -नम् बौध २,
१०, ७२.
ब्रह्म-भूत- -तः जैगृ २, ८ : २१;
अप २२, १०, ५; बौध २, ४, २४;
३, ९, १५; या १४, १०; -तम्
विध ४९, ८; -ताः वाघ १९,
४८.

a) वैप १ द्र. । b) बस. । c) अथर्ववेदशास्त्राविशेष- । उप. ? । d) उप. <√पा (रक्षणे) ।
e) = देवता-विशेष- । f) = अपाङ्क्य- । समासः ? । g) 'प्राजा' इति पाठः इ. यनि. शोधः (तु. Bw. M.w.) ।
h) उप. <√प्रस् (प्रेरणे) । i) विप. (विष्णु-) । षस. वा बस. वा । j) उप. = पात्र- इति. Būh., = पात्र-
वा अश्रौ- वेति बोधिन्दः । k) कस. (पा२, १, ५९) ।

ब्रह्म-भूय^३- -याय बौध २, ७, २८; १०, ७१; चव्यु २: ३४.
 ब्रह्म-मय- -यः शुभ्र ४, २१९;
 याशि २, ११५.
 ब्रह्म-मुक्त- -क्तात् वैगु ५, १: २५.
 ब्रह्म-मेध^३- -धः हिपि १९: १;
 १४; -धेन वैगु ७, १: १०; वैध
 ३, ८, ४.
 ब्रह्म-यजमान- -नयोः काश्रौ १,
 ८, २७; ५, ८, ३; आपश्रौ;
 -नाभ्याम् माश्रौ ४, २, ५; वाश्रौ
 १, २, ४, १; -नौ आश्रौ १, १२,
 ३५; ३, ३, ६; काश्रौ.
 ब्रह्मयजमान-भाग- -नौ
 आपश्रौ ३, ३, ९; माश्रौ ३, ३, ८;
 वैश्रौ ७, २: १०; हिश्रौ २, ३, ३६.
 ब्रह्म-यजमाना(न-अ)ध्वर्यु- -र्यवः
 वैश्रौ १६, २: १७.
 ब्रह्म-यज्ञ^८- -ज्ञः आगु ३, १, २;
 ३६; कौगु; कप्र. २, ३, ३६;
 -ज्ञम् वैगु १, ४: २४; ६,
 ८: २; १५: २; बौध; -ज्ञस्य
 बौध २, ६, ८१; -ज्ञाः आमिगु
 २, ६, २: २८१; बौध २, ५,
 १४; -ज्ञात् कप्र २, ४, १२;
 १९; -ज्ञाय वैगु ३, ७: ६; -ज्ञे
 शुभ्र ३, १४७; -ज्ञेन बौगु २, ९,
 १५; भागु ३, १५: २६१; -ज्ञैः
 आमिगु २, ६, २: २९१; बौध
 २, ५, १५.
 ब्रह्मयज्ञ-तसः (ः) आमिगु २,
 ६, ५: १७.
 ब्रह्मयज्ञ-विहीन- -ने वैगु

६, ८: ९.
 ब्रह्मयज्ञा(ज्ञ-आ)द्या(दि-अ)तु
 क्रम- -मात् आमिगु २, ६, ७: १.
 ब्रह्मयज्ञा(ज्ञ-आ)रम्भ- -म्भे
 शुभ्र ४, १९६.
 ब्रह्म-याग- -गः अगु १९^३, ५,
 ९; -गम् अगु १९^३, १, ३.
 ब्रह्मयाग-विधि- -विधिः अगु
 १९^३, ५, ८; -विधम् अगु १९^३,
 १, १.
 †ब्रह्म-यातु^१- -तुः चाश्रु ३८: ८.
 †ब्रह्म-युज्^१- -युजा आश्रौ ७,
 ४, ७; वैताश्रौ ३५, १३.
 ब्रह्म-योनि- -निः अगु ३०,
 ३, १; -निम् शांगु ६, १, १;
 आमिगु २, ५, ३: २३१; बौगु
 ३, ७, १७१.
 ब्रह्म-राज्- -राद् नाशि १, ५,
 १७.
 ब्रह्म रात्रि-त्री- -त्रिम् बौध २,
 १०, २१; -त्री बौगु २, १, १९^३;
 -त्र्यान् विध १, १.
 ब्रह्म-राशि- -शिः शुभ्र ८, २५^६;
 -शेः अगु ५२, ७, १.
 ब्रह्म-रूप- -रूपं विध ९८, २९;
 -रूपं याशि २, ११४.
 ब्रह्म(ह्य-ऋ)र्षि- -र्षयः विध
 २०, २६; वैध ३, ११, ३; ४,
 ८, ५; -र्षिम् शांगु ६, १, १;
 ऋअ १, २, ३; -र्षिन् आमिगु
 २, ६, ३: ३६; बौध २, ५, २७.
 ब्रह्मर्षि-गृह- -हेषु वैध १,
 ९, ३.
 ब्रह्मर्षि-ता- -ताम् वृदे ४,

१५.
 ब्रह्मर्षि-वंश- -शानाम् वैध
 ४, ८, ७.
 ब्रह्म-लोक^१- -कः वाध २९, ४;
 -कम् माश्रौ २, २, ४, ८;
 वायुश्रौ ४, ३७: १५; लाश्रौ;
 या १४, ९; -क्तात् वाध ८, १७;
 १०, ३१^३; बौध; -कान् विध
 ९२, ७; -के बौश्रौ ५४: १९^३;
 अगु १, ५०, १०; बौध ४, ८,
 १५; १६; चव्यु.
 ब्रह्मलोक-काम- -मेन विध
 ३०, ३१.
 ब्रह्मलौकिक- -कः शंघ ११.
 ब्रह्म-न्वत् वैताश्रौ १, ७; आपध
 १, ५, ७; हिध १, २, ७.
 ब्रह्म-न्(त् >)वी- -व्यः अगु
 ४६, ७, ४.
 ब्रह्म-वद्य^३- -द्यम् शाश्रौ १६,
 ४, ७; १३, १६.
 ब्रह्म-वध- -धः अगु ५०, ७, १.
 †ब्रह्म-वनि^१- -नि काश्रौ ६,
 ३, ९; शुभ्र १, ३७२; शुभ्र २, ३,
 ९०; -निम्^१ आपश्रौ ७, १०,
 १२; बौश्रौ. ४, ४: ३२x; माश्रौ.
 †ब्रह्मवर्चवृत्^१ भागु १, १: ८.
 ब्रह्म-वर्चस्^१- -र्चसि आपमं २,
 ११, १६.
 †ब्रह्मवर्चस्-काम- -मः अगु
 ७, १६.
 ब्रह्मवर्चस्-विन्- -विनः विध
 ७८, ४६; -†विनम् बौश्रौ १७,
 ४१: ८; १७; आपमं २, ७,
 २५.

a) उप. भाष. । b) = संस्कार-विशेष- । c) = पञ्चमहायज्ञान्यतम- । d) = मन्त्र-संज्ञा- (कोऽसि
 क° [काठ ३७, १४]) । e) वैष १ द्र. । f) = मातृ-विशेष- । g) = वेद-राशि- । h) पामे. वैष १, २३०३ ०
 श्र. ५ । i) पाठः † ब्रह्मवर्चयेत्, यद् इति त्रिपदः संस्कृतुः टि. शोचः । ब्रह्मवर्च-वृध्- > -वृत् इति तु विमृश्यम् ।
 j) समसत्तन्त्रिकल्पः उत्तं. (पा ५, ४, ७८) । k) 'र्चसका' इति W. सात. ।

ब्रह्मवर्चस्विनी- नी
 आगृ १, ५, ५.
 ब्रह्मवर्चस- पा ५, ४, ७८;
 -सम् शाश्रौ १४, २, ४; ९;
 ४२, १२; १३××; काश्रौ ५, १३,
 १३^५; आपश्रौ ५, २, ४; १०,
 २८, ५^५××; बौश्रौ; वाध^५
 १, १३; १५; शंघ ७^५; आपघ
 १, ३, २६^५; बौघ १, १, २८^५;
 ३, २, ५; ४, २, ११; हिघ १,
 १, १०१^५; -सस्य बौश्रौ २,
 १८ : ३९; ३, ७ : १०; -सात्
 बौश्रौ २८, ११ : १५; -सानि
 आपश्रौ २०, १२, ७^५; १५, ३८ :
 २; -^५साय आश्रौ १, ३, २३;
 शाश्रौ; -से शाश्रौ १५, ४, ४;
 जैश्रौ २ : ११^५; -^५सेन आपश्रौ
 ४, ८, १××; बौश्रौ.
 ब्रह्मवर्चस-काम- -मः आश्रौ
 ९, ५, ३; शाश्रौ; -मम् आपश्रौ
 १७, १९, ६××; वाश्रौ; -मस्य
 शाश्रौ २, १०, ३××; काश्रौ; -माः
 आश्रौ ११, २, १०××; आपश्रौ;
 -मानाम् काश्रौ २४, २, ५;
 हिश्रौ १६, २, १७.
 ब्रह्मवर्चसकाम-वीर्यकाम-
 प्रजाकाम-प्रतिष्ठाकाम-मानाम्
 आश्रौ १०, १, ७.
 ब्रह्मवर्चस-वीर्य(र्ष-अ)न्ना-
 घ-प्रतिष्ठा-काम-मानाम्
 काश्रौ २२, ४, ३१.
 ब्रह्मवर्चसिन्- -सिनः
 आपश्रौ २३, २, १९; हिश्रौ
 १८, १, २४; आपघ २, १६,

१०; हिघ २, ५, ११; -सिनम्
 आग्निय १, ३, ४ : २; ११
 भागृ २, २१ : ४; हिगृ १, १०
 ६^२; ११, ३; -सी काश्रौ ३,
 ३, ५^५; आपश्रौ ५, ३, ३; ६,
 २३, १^५××; बौश्रौ.
 ब्रह्मवर्चस्य- पावा ५, १,
 ३९; -स्यम् कौगृ १, २, ३^५;
 द्रागृ ४, २, ९; विघ ७८, १०.
 ब्रह्मवर्चस- -माणि आपश्रौ
 १६, १८, ७; वैश्रौ १८, १६ : ५;
 हिश्रौ ११, ६, २९.
^५ब्रह्मन्वाद- -दम् आपश्रौ ५,
 २, ४; वैश्रौ १, ७ : ७.
 ब्रह्मन्वादिन्- पावा ३, २, ७८;
 -दिनः बौश्रौ १४, २ : ६××;
 वाधूश्रौ ३, १० : १××; वैगृ १,
 १५ : ८××; कप्र १, १०, ९; बौघ;
 -दिना अप १३, ५, ५; -दिनाम्
 विघ १, ५७; -दिभिः अप ७०^५,
 ११, १; विघ ९३, १२; -दिषु
 वाध २, ४१; बौघ १, ५, ७९.
 ब्रह्मवादिनी- नी साश्र २,
 ४४१; -न्यः वृदे २, ८४.
 ब्रह्मन्वाद्य- पा ३, १, १२३;
 -द्यम् आपश्रौ २१, १०, १२^५;
 वाधूश्रौ ४, ६४ : ७.
 ब्रह्मन्वाहस- -०हः ऋप्रा ७,
 ३१^५.
 ब्रह्मविक्रयिन्- यी शंघ २०१.
 ब्रह्मविद्- -वित् हिपि १ : १३;
 -विदः आपश्रौ १०, ७, १३^५;
 बौश्रौ; हिपि १ : १३; आपघ
 २, १७, ४; हिघ २, ५, ३२;

-विदा कौस् ७३, १८^५;
 -विदाम् अप ६९, १, १.
 ब्रह्मवित्-तम- -माः अप
 १३, ५, १.
 ब्रह्मविद्या(द्या-अ)पकारिन्-
 -रिणः शंघ २३०.
 ब्रह्मविराट्त्पोऽन्यः अश्र २,
 १२.
 ब्रह्मवृद्धि- -द्धिम् अप ५०, ५,
 ६; आपघ १, ३, ९^५; हिघ १,
 १, ८१^५.
 ब्रह्मवेद- -दः अप १, १५, १;
 -दाय अप २, १, १; ३३, १,
 १; अश्रम् ८; -दे अप २३,
 १, २; -^५देन कौगृ १, १०, १;
 शागृ १, १६, ३.
 ब्रह्मवेद-ज्ञ- -ज्ञः अप २, २, ३.
 ब्रह्मवेद-तस् (ः) अप २, २, १.
 ब्रह्मवेद-विद्- -वित् वैताश्रौ
 १, १; अप ३, ३, ७.
 ब्रह्मवैखानस- -सानाम् बौघ
 ३, ३, १८.
 ब्रह्मव्यतिरिक्त- -क्तम् वैघ १,
 ११, १०.
 ब्रह्मव्रत- -ते अप्राय ३, १^५; ६,
 ७.
 ब्रह्मशब्द- -ब्दम् दंवि २, ८.
 ब्रह्मशरीर- -रम् वैगृ ३, २१ : ८.
 ब्रह्मशीर्ष- -र्षः विघ १, ३.
^५ब्रह्मसंशित, ता- -तः आश्रौ
 १, ३, ६; शाश्रौ १, ४, १९;
 आपश्रौ ३, १४, ३^५; हिश्रौ २,
 ६ : ३४^५; तैप्रा १६, २५^५;
 -०ते शुप्रा २, २०^५.

a) पृ १८२९ i टि. द्र.। b) सकृत् पाभे. वैप २, ३खं. ब्रह्म तैत्रा २, ५, ७, ४ टि. द्र.। c) पाभे.
 वैप २, ३खं. ब्रह्मवर्चसम् तैत्रा ३, ७, ७, १३ टि. द्र.। d) = (उपचारात्) प्रदेश-विशेष-। e) = (उपचारात्)
 होम-विशेष-। f) वैप १ द्र.। g) = होम-विशेष-। h) = अथर्व-वेद-। i) बस.। j) पाभे. वैप १,
 २२१५ I द्र.।

ब्रह्म-सत्र- -त्रस्य जैगृ २, ८ :
२७.

१ ब्रह्म-सदन^१- -नम् शांश्रौ ६,
१२, २२; काश्रौ २, १, २१;
आपश्रौ १२, २०, ७; बौश्रौ ३,
२३ : २; ६, २९ : २०; भाश्रौ ४,
५, २; वैश्रौ; -नात् काश्रौ २, १,
२२; आपश्रौ ३, १८, ४१; भाश्रौ
३, १४, २; हिश्रौ २, ८, ३; हिगृ
१, १, २२; -नाथ बौश्रौ ३, २३ :
३१; -ने आश्रौ १, १२, ९; १३,
६; काश्रौ २, २, १; आपश्रौ १७,
२१, ७१; भाश्रौ ३, १४, ३; वैश्रौ
१६, ७ : ११; हिश्रौ १०, ५, ५२;
१२, ६, २६१; ऋश्रौ ३, ८;
१३७, ४०; आपध २, ४, ४;
हिगृ २, १, ५७.

२ ब्रह्म-सदन > ना^१- नाः
बौश्रौ १९, १० : ३६.

ब्रह्म-संतानक^१- -काः अप ५२,
४, ३.

ब्रह्म-संमि(त >)वा- -०ते मागृ
१, २, २^६.

ब्रह्म-समूह- -हम् बौपि २, १०,
३.

१ ब्रह्म-सव^१- -वः निसू ७, १ :
५; ७.

ब्रह्म-साम^१- -मम् आपश्रौ १८,
२०, २२; बौश्रौ १२, १८ : १८;
१६, १४ : १७; २६, १४ : ११;
हिश्रौ १३, ७, १०; -मेन अप्राय
६, ३.

ब्रह्मसाम-न्व- -त्वात् लाश्रौ
१०, ४, ४.

ब्रह्मसाम-वृष्ट^१- -ष्टः क्षुस् २,

१४ : १५; १७; -ष्टौ क्षुस् २, ९ :
२४.

ब्रह्मसाम-प्रभृति- -ति निसू
३, ७ : ३.

ब्रह्मसाम-भूत- -तस्य लाश्रौ
१०, ६, १.

ब्रह्मसाम-स्तोत्रीय- -यः
निसू ७, ३ : १८.

ब्रह्मसामा(म-अ)च्छावाकसा-
मन्- -मनी क्षुस् १, १० : ३;

-मभ्याम् क्षुस् १, ५ : १५; १० :
६.

ब्रह्मसामिक- -काः क्षुस् १,
४ : १.

ब्रह्म-सामन्^१- -म आश्रौ ६, ८,
१२; ८, ६, १६; शांश्रौ; -मनी

क्षुस् २, ४ : ३; ५ : २×४; निसू
१०, १ : २०; २४; -मभ्याम्

निसू ७, ४ : ३९; -मानि क्षुस् २,
१४ : १६^३; ३, १४ : ३; ६; ९;

१३; १७; लाश्रौ १०, ८, ६;
निसू ६, ३ : ६; ५ : ९; -मनः

क्षुस् १, ५ : २६; २, ४ : १८;
निसू ३, ७ : २; -मना शांश्रौ

१५, १, २४; काश्रौ २५, १२,
१६; आपश्रौ १४, २५, ७; ८;

वैश्रौ २१, ११ : ४; ५; हिश्रौ १५,
६, २५; -मनाम् निसू ३, ३ :

२६; -मनि आपश्रौ १८, ६,
७; वाश्रौ ३, १, २, २८; वैश्रौ

१७, १० : ८; १६ : ४; हिश्रौ
१३, २, २३; द्राश्रौ ६, २, २;

लाश्रौ २, १०, २; निसू २, ४ :
१९; ३५; मीसू ११, २, ४९.

ब्रह्म-साम(म-ऋ)री-यजुश्-

छन्दस्- -न्दः ऋप्रा १७, १८.

ब्रह्म-सावर्णा^१- -र्णम् शंथ ११६ :
४६.

ब्रह्म-सुवर्चला^१- -लाम् विध ५१,
३२; ४६.

ब्रह्म-सूक्त- -क्तम् अत्र १, ३२;
-क्तेन बौगृ २, ५, ३१; अप १९^३,
४, ४.

ब्रह्म-सूत्र^१- -त्रस्य आमिगृ २,
७, १ : १०.

ब्रह्म-सोम- -सौ वैगृ १, ९ :
१७; ११ : ११; ६, १ : ९.

ब्रह्म-स्तम्भ^१- -मनाः बौश्रौप्र
१७ : १२.

ब्रह्म-स्तेय- -यम् विध ३०, ४२.

ब्रह्म-स्थल- -ले आमिगृ २, ६,
४ : २१; २५; शंथ १३२^३.

ब्रह्म-स्थान- -नात् वैगृ ३, १६ :
११.

ब्रह्मस्थान-वत् निसू ९, १० :
३९.

ब्रह्म-स्व- -स्वम् वाध १७, ८५;
८६^३; बौध १, ५, १०२^३.

ब्रह्मस्व-न्यासा(स-अ)
पहरणा^१- -णम् बौध २, १, ४१.

ब्रह्म-हत्या^१- -त्या बौश्रौ २, ५ :
१५१; वाधूश्रौ ४, ६० : ८; विध

३५, १; -त्याम् बौश्रौ २, ११ :
२११; वाधूश्रौ; बौगृ ३, ८, ६;

वाध २, ४२; २२, ६१; आपध
१, २५, ११; बौध १, ५, ७९;

२, १०, २१; ३, १०, ८^१; हिध
१, ७, ७; गौध १९, १०; या ६,
२७; -त्यायाः वैश्रौ १८, १ : २;

-त्यायाम् विध ५, ४; -ऋत्यायै

a) षस. उप. = आसन-। b) = इष्टका-विशेष-। c) = प्रह-विशेष-। d) पाप्मे. पृ १८१६ III द्र.।

e) वैप १ द्र.। f) वैकल्पिकः समासान्तः प्र.। g) = षडह-विशेष-। h) = मनु-विशेष-। i) = श्रोषधि-द्वय-
(वृ. शंथ ३९६). मलो. कस.।. j) नाप. (यज्ञोपवीत-).। k) = ऋषि-विशेष-। l) द्रस. > षस.।

बौध्रौ २९, ११: ४; वाश्रौ ३,
४, ५, १७^६; हिश्रौ १४, ५, ४^६;
बौध्र १, ७, २२.

ब्रह्महत्या-गुरुत्वपगमन-
स्वर्णस्तेय-सुरापान- -नेषु
बौध्र १, १०, १८.

ब्रह्महत्या(त्या-२आ)घ- -घैः
वैध्र ६, १४: ३.

ब्रह्महत्या-व्रत- -तम् शंघ
३८९; विध ५४, ९.

ब्रह्महत्या-सम- -मानि विध
३६, १.

ब्रह्महत्या-सुरापान-स्तेय-गुरु-
त्वप- -ल्पेषु गौध २४, १२.

ब्रह्म-हन्^७- पा ३, २, ८७; -घ्नः
गौध २२, १; -घ्नाम् विध १०,
९०; -हणि शंघ ३८२; -हा
वाध ३, १७; २०, ४४; २७, १८;
शंघ ११३; ३७५; ३७७: १;
३७९; ३८७; ४४१; ४५४;
विध ४५, ३; ५५, २; सुध ५३;
वृदे ६, १५२.

ब्रह्मह-संस्तुत- -ताः आपध
१, १, ३२; हिध १, १, ३०.

ब्रह्मह-सुराप-गुरुत्वपग-मातृ-
पितृयोनि-संबन्धाग-स्तेन-नास्तिक-
निन्दितकर्मभ्यासि-पतिताल्या-
ग्य(गि-अ)पतितल्यागिन्-
-गिनः गौध २१, १.

ब्रह्मह-सुराप-सुवर्णस्तेय-
गुरुत्वपग- -गानाम् सुध ५२.
ब्रह्म-हृदय^८- येन बौध २, ४, ८.
ब्रह्मा(द्वा-अ)गार- -नात् काश्रौ
१५, ८, १४; -रे काश्रौ १५, ४, ३.
ब्रह्मा(द्वा-अ)ञ्जलि- -लिम् वैध्र

१, ४: २५; २, १२: १९.

ब्रह्माञ्जलि-कृत^९- -तः आध्र
३, ५, ११.

ब्रह्मा(द्वा-अ)ण्ड- -ण्डम् शंघ
११६: ६७.

ब्रह्माण्डा(ण्ड-अ)गिन-
-गिनः आप ३, १, ८.

ब्रह्मातिथि^{१०}- -थिः ऋअ २, ८,
५; साश्र १, २१९.

ब्रह्मा(द्वा-अ)त्म-दैवत- -तम्
अश्र २, १; -ते अश्र ७, १०४.

ब्रह्मा(द्वा-अ)दि- -दि अश्र ७०,
१२, ६; -दिसु वैध्र ६, १२: ६; ९;
विध १७, १९; पावा ३, २, ८७;
-दीन् काश्रौ १२, २, १५; वैश्रौ
१३, ७: २८.

ब्रह्मादि-दैव- -वानाम् वैध्र ३,
२२: १२.

ब्रह्मा(द्वा-अ)दित्य- -रथम् अश्र
५, ६.

ब्रह्मा(द्वा-२आ)घ- -घाः वैध्र १,
२०: ३; कप्र १, १०, ८; -घैः
अश्र २२, ८, ३.

ब्रह्मा(द्वा-अ)धिगुप्त- -सः आध्र
२, ४, १४^६.

ब्रह्मा(द्वा-अ)नुज्ञात- -तः काश्रौ
३, ५, ५; २०, १, २६; पाध्र ३, ४,
६; -ताः पाध्र ३, २, ११; १५.

ब्रह्मा(द्वा-अ)नुवचन- -ने गौध
१, ५९.

ब्रह्मा(द्वा-अ)न्वाधान- -नम् बौध
२, १०, १९^{११}.

ब्रह्मा(द्वा-अ)भिगुप्त- -सः पाध्र
३, ३, ६^६.

ब्रह्मा(द्वा-अ)भिगूर्त- -तम् माध्र

२, ८, ६^६.

ब्रह्मा(द्वा-अ)मन्त्रणा(ण-आ)
दि- -दि काश्रौ ५, ९, २२.

ब्रह्मा(द्वा-अ)यतन- -नम् बौध
१, ७, २३; -नात् भाध्र १, २:
१३; -ने आश्रिण १, १, १: १३;
भाध्र १, २: ३; हिध्र १, १, १४;
जैध्र १, २३: ११; बौध २, १०,
२०.

ब्रह्मायतन-घात- -तेषु अश्र
५८^१, ४, २.

ब्रह्मायतनी(य>)या^{११}- -या
लाश्रौ ६, ६, ८; १८; छुसू १, २:
१२; १६; ८: १७; २, ३: ११;
निसू १, १०: २३; -याम् लाश्रौ
६, ६, ४; ७, ३; ८, २.

ब्रह्मा(द्वा-अ)युस- -युषा विध
२०, १६.

ब्रह्मा(द्वा-अ)रम्भा(म्भ-अ)वसा-
न- -नयोः विध ३०, ३२.

ब्रह्मा(द्वा-अ)वर्त^{१२}- -तम् अश्र
५६, १, ९.

ब्रह्मा(द्वा-अ)श्रम^१->^{१३}मिन्-
-मी शंघ १५९: १४.

ब्रह्मा(द्वा-अ)सन- -नम् आश्रौ
४, १०, ११; पाध्र १, १, २; द्राध्र
१, १, २६; कौसू २, १८; ३, ५;
१२७, ३३; ३७; शुअ १, ३४६;
-नात् आश्रिण १, १, १: २३;
-ने माश्रौ ५, २, १५, ९; द्राश्रौ
१५, ४, १; लाश्रौ ५, १२, ८; गोध्र
१, ६, २१.

ब्रह्मास्कन्द^१- -न्दः अश्र ४, ३१.

ब्रह्मा(द्वा-अ)हुति- -तीः काश्रौसं
६: १८.

a) पामे. वैप १, २३०४ g द.। b) वैप १ द.। c) ञ्नः इति जीसं.। d) = श्रौ भूः श्रौ
शुभः इति अनुवाक- इति भाष्यम्। e) बस.। f) = ऋषि-विशेष-। g) सप. षिगुप्तः <> षिगुप्तः <>
मिगूर्तम् इति पाथे.। h) = सप्तस्तोत्र-विदुति.। i) नाप. (देशः)। j) = ब्रह्मप्रस्थापनम्-।

ब्रह्मिष्ठ-ष्ठः आपश्चौ ३, १८, १; -ष्ठम् काश्चौ २, १, १७; वाश्चौ १, १, ५, १; वैश्चौ ४, १ : १६; हिश्चौ ६, १, ४७.
 ब्रह्मो(ह्य-उक्त >)का-क्ताः कौसू ८२, ९.
 १ब्रह्मो(ह्य-उ)ज्ज^० - ज्जः वाघ १, १८; २०, १२; -ज्जम् कप्र ३, १, ८; -ज्जे बौश्चौ २, ५ : २३.
 २ब्रह्मो(ह्य-उ)ज्ज^० - ज्जम् आपध १, २, १, ८; हिध १, ६, ३८.
 ब्रह्मो(ह्य-ओ)दन^० > ब्राह्मोद-निक^० - कम् आमिष्ट ३, ७, ४ : २८.
 ब्रह्मो(ह्य-उ)दगात्- -तारौ काश्चौ २०, ७, ११; हिश्चौ १४, २, १०.
 ब्रह्मो(ह्य-उ)दगात्-होत्- -तुभ्यः काश्चौ १०, २, २५.
 ब्रह्मो(ह्य-उ)दगात्-होत्-यज-मान-चमस- -सानाम् काश्चौ १३८.
 ब्रह्मो(ह्य-उ)दगात्-होत्र(तृ-अ) ध्वर्थु-ब्राह्मणाच्छंसि-प्रस्तोत्-मैत्रावरुण-प्रतिप्रस्थात्-पोत्-प्रति हर्त्रो(तृ-अ)च्छावाक-नेष्टु(ष्टृ-अ) मीद-सुब्रह्मण्य-आवस्तुद-उञ्चेत्-तून् काश्चौ ७, १, ७.
 ब्रह्मो(ह्य-उ)द्य^० - द्यम् आश्चौ ८, १३, १३; १०, ९, १; काश्चौ १२, ४, १९; बौश्चौ १५, २८ : २९;

वाश्चौ ३, ४, ३, ५०; हिश्चौ १४, ४, ३२; द्राश्चौ ९, ४, १२; लाश्चौ ३, ८, ७; ९, १०, ८; निसू ४, ९ : १७; कौसू ३८, २५; शुश्च ३, ३७; -द्यात् वंताश्चौ ३६, ३३; ३८, ५; -द्याय आपश्चौ २०, १९, ६; -द्ये निसू ४ ९ : १५; शुश्च ३, २४.
 ब्रह्मो(ह्य-उ)पवेशन- -नम् माष्ट १, १०, १; -ननेन द्राश्चौ ४, ४, १०; लाश्चौ २, ४, ५.
 ब्रह्मौ(ह्य-ओ)दन^० - नः काश्चौ ४, ८, ७; २०, ८, २९; बौश्चौ २, १४ : ९; १५, ४ : ७; वैश्चौ १, ६ : २; वंताश्चौ ५, ४; काष्ट १३, ६; -नम् काश्चौ २०, १, ४; आपश्चौ ५, ५, १; ९××; बौश्चौ; -नस्य बौश्चौ २०, १६ : २४××; वाश्चौ १, १, ५, ४; हिश्चौ १४, १, २०; -नात् आपश्चौ ५, ५, ८; वैश्चौ १, ५ : १२; -नान् आपश्चौ २०, २३, ८; ९; माश्चौ ५, २, १०, ११; वाश्चौ ३, ४, ५, २८; हिश्चौ १४, ५, १५; -ने आश्चौ १, ४, १; भाश्चौ ५, २, १२; वाश्चौ ३, ४, १, १४; -नेन बौश्चौ ३, ३ : २१; २४, १९ : ९; वैश्चौ १, २० : १५; -नेषु बोध १, ६, २०; -नैः बौश्चौ १५, ३८ : ५.
 १ब्राह्मौदनिक^० - कः वैश्चौ १, ६ : १२; -कस्य माश्चौ ५, २, १५, २५; -कान् बौश्चौ २, १२ : ८; १०, ५० : ७.

२ब्राह्मौदनिक^० - कम् आपश्चौ ५, ४, १२; ५, १; बौश्चौ २, ७ : १२; माश्चौ १, ५, १, १४; वाश्चौ १, ४, १, ११; वैश्चौ १, ५ : ३; ५; ८ : ७; हिश्चौ ३, २, ३५××; -कस्य^१ वैश्चौ १, १० : ७; हिश्चौ ३, २, ४२; -कात् आपश्चौ ५, १०, ७; हिश्चौ ३, ३, ६; ६, ५, २; -के माश्चौ १, ५, २, ७; ३, १, २, ५; वैश्चौ १, ६ : ७; ७ : १५; हिश्चौ ३, २, ५२; ३, २; -केन आपश्चौ ५, ७, ७.
 ब्राह्मौदनिक-लक्षण^१ - गे वाश्चौ १, ४, १, २३.
 ब्रह्मौदन-मित- -तम् कौसू ६८, ५.
 ब्रह्मौदन-शेष- -षम् आपश्चौ ५, ५, १०; -षे भाश्चौ ५, ३, १२.
 १ब्रह्मौदनिक^० - कम् अष्ट ११, १.
 २ब्रह्मौदनिक^० - कः बौश्चौ २९, १२ : ७; -कम् भाश्चौ ५, ३, १; बौपि २, ४, १४; कौसू ६०, १; ६७, १८; -कस्य भाश्चौ ५, ६, १; -कात् भाश्चौ ५, २, २४.
 ब्रह्मौदनो(न-उ)च्छेष- -षेष् आपश्चौ २०, २, ८.
 बृहत्- प्रत्य. √बृह् (बघा.) द्र.
 बृहस्पति(वप्रा.)^० - पाग ६, २, १४०; पावा ६, १, १५७; -तये क्षाश्चौ ४, ७, १७××; आपश्चौ; माश्चौ ५, १, ७, ४९; आमिष्ट १, २, २ :

a) विप. > नाप. उप. कर्त्तरि प्र. । b) षस. उप. भाप. । c) = २ब्राह्मौदनिक- । d) उप. < √वृद् । e) वैप १ द. । f) तस्येदमयिः उक् प्र. । g) स्वार्थे प्र. । h) = अग्नि-विशेष- । प्रयोजनार्थे उक् प्र. (तु. रुद्रदत्तः [आपश्चौ ५, ४, १२]) । i) सपा. ब्राह्मौ <> ब्रह्मौ इति पाभे. । j) सपा. ब्राह्मौ <> ब्रह्मौ इति पाभे. । k) सपा. ब्राह्मौदनिकात् <> ब्रह्मौदनिकात् इति पाभे. । l) वस. । m) मत्स्वर्थे उक् प्र. । n) = २ब्राह्मौदनिक- । प्रयोजनार्थे उक् प्र. उर्ध्व. (पा ५, १, १०९) । o) वैप १ द. । विशेषः टि. द. ।
 वैप १-प्र-४८

८; २^१; ५, १: १६; १९; २७;
 ३५; ४५; वैगृ २, १२: १३^०;
 ३, २०: ४; ४, १४: १२^०; जैगृ^०
 २, ९: १२; २३; २६; ३०;
 ३३; -ति: आश्रौ १, १२, ९^१;
 १३, ६^१; २, ११, २-४××; शाश्रौ;
 बौश्रौ १८, ४५: १४^०; १६^०;
 ३३^०; ३५^०; ४६: ३^०; ४७:
 ४^०; १०^०; निस् ७, १: ११^०,
 आगृ १, २१, ७^०; शागृ २,
 ४, १^०; पागृ २, २, ७^०;
 मागृ १, २२, १०^०; वैगृ ४, १३:
 ३^०; हियृ १, ५, ११^०; कौस्
 १०८, २^१; अप ३३, १, २^०;
 ५१, १, ४^०; २, १^०; ७०^०; ९, ५;
 ७०^०, २, १^०; ११, १^०; ऋअ २,
 १०, ७१^०; ७२; वृदे २, ३९^०;
 ३, १३३^०; १३७^०; १५६^०;
 ४, १२^०; १३^०; ५, १०२××; ६,
 ११२^०; ८, २५^०; शुअ १, १२०^०;
 ४, १३७^०; अअ १०, ९^०; १^०; या
 २, १२^०××; १०, ११^०; शुआ २,
 ४७^०; ३, ५२; अआ ३, ४, १^०;
 पिं ३, ६३^०; उनिस् ८: १८^०;
 आज्यो ७, ९^०; वेज्यो ३२^०;
 -फंतिना आपश्रौ १८, ४, ८××;
 बौश्रौ; वृदे ६, ११०^०; -तिस्
 आश्रौ २, ११, ४^०; शाश्रौ ६, ३,
 ५; १४, २३, १^०; ३२, १^०; ३८, १^०;
 काश्रौ; अप १, ४, २^०; ४, १, २^०;
 ७, १, २^०; शंघ ११६: ४१^०; गौघ
 २५, २; शुअ ४, २०४^०; अअ ३,

२६^०; या ६, २३^०; नाशि २, ६,
 ५; -०ते आश्रौ १, १२, ९××;
 शाश्रौ; माश्रौ २, ३, ७, ४^०; या
 ४, २५^०; -ते: आश्रौ १, १३,
 १^०; शाश्रौ १६, १७, १; काश्रौ २,
 २, १^०; आपश्रौ ३, १८, ४^०××;
 अप ४८, १४; बौघ ३, ९, १३;
 वृदे ४, १४२; ५, १०३; ७, १३७;
 ८, १०५^०; शुअ १, ५५२^०; वाअ
 १५: २^०; निघ १, १५^०; या
 ११, १२^०; -तौ अप ६३, ४,
 २^०; ७१, १७, १.
 बाहस्पत्य, त्या^० -त्य जैश्रौका
 ९५; -०त्य^० आश्रौ १२, ११,
 ५××; आपश्रौ २४, ६, १८××;
 बौश्रौ १७: १९××; हिश्रौ २६,
 ३, १०^०; वैघ ४, ३, १; २; -त्य:
 आश्रौ ३, ९, २; शाश्रौ; कौगृ
 ३, १०, ३२; शागृ २, १५, ५;
 ऋअ २, ६, १; ४४××; शुअ १,
 २१०; ४९५××; साअ १, ९;
 १९××; या ४, २१; -त्यस् आश्रौ
 १२, ८, ३७; काश्रौ; वाघ २८,
 १३; शंघ १०५; विघ ५६, १७;
 -त्यस्य शाश्रौ ६, १०, ५; काश्रौ;
 -त्या आश्रौ ९, २, ७; ९, ६^०;
 काश्रौ; वैताश्रौ २७, ४५; ३६, ५^०;
 कौस् ३, १०^०; अशां १६, १^०;
 -त्या: शाश्रौ १६, ९, ३१; आपश्रौ;
 -त्यास् आपश्रौ ७, १२, ३; १०,
 १६, ३××; भाश्रौ अशां १७,
 १^०; -त्यायस् आश्रौ ९, ४, ६^०;

अशां १८-१९, २^०; -त्ये बौश्रौ
 १७, ३९: १०; आश्रौ १, ३,
 १: ११; अप ३३, १, ७; वृदे
 ७, १०७; १०८; -त्येन आपश्रौ
 ४, ७, २^०; बौश्रौ १२, ६: १४;
 भाश्रौ ४, ११, १; हिश्रौ ६, २,
 १७; १३, ४, २९; -फंत्येभ्य:
 कौगृ ३, १०, ६; शागृ २, १४,
 ७; -त्यै: विघ ९०, ३; -त्यौ
 आपश्रौ २०, १३, १२; बौश्रौ
 १५, २३: ७; २६: ८; हिश्रौ
 १४, ३, १४.

बाहस्पत्य-त्रयोद(श>)
 शा^०-शा: बौश्रौ १०, २७: ३.
 बाहस्पत्य-वज्जम् आपश्रौ
 १९, ८, २; वाश्रौ ३, २, ७, ६९;
 हिश्रौ २३, १, २९.

बाहस्पत्या-मैत्रावरुणी-
 सौर्या(र्या-आ)दिवनी- न्य:
 काश्रौ २२, ७, २०^०.

बाहस्पत्यौ(त्य-त्रो)ठन-
 देवता^०->त्य- त्या: अअ
 ११, ३.

बृहस्पति-जाया(या-अ)पहरण-
 गम् अअ ५, १७.

बृहस्पति-देवता->त्य- त्ये
 अअ ६, ३९.

बृहस्पति-नेत्र^०-त्रा: भाग २, ६:
 ८^०.

बृहस्पति-पुरोहित^०-ता: हियृ.
 २, १७, ४^०; -०ता: आपश्रौ १६,
 १, ३; वैश्रौ १८, १: ८; हिश्रौ

a) = ग्रह-विशेष-। b) = स्मृतिकार-विशेष-। c) = पुरुष-पुरोहित-। d) = देव-पुरोहित-।
 e) पामे. वैप २, ३खं बृहस्पति: मंत्रा १, २, २१ टि. द्र.। f) पामे. वैप १, १२४२ g द्र.। g) = आचार्य-
 विशेष-। h) = ऋषि-विशेष-। i) व्यप-। j) = [बृहती-ऋन्दस:] देवता-। k) = पुष्य-देवता-। l) ण्ति:
 इति पाठ: ? यनि. शोघ:। m) पामे. वैप १, २३०५ b द्र.। n) पामे. वैप १, २३०७ i द्र.। o) वैप १ द्र.।
 p) विशेष: टि. द्र.। q) = इष्टि-विशेष-। r) = शान्ति-विशेष-। s) बस.। t) तु. चौसं.।
 u) इति अच्यु. ?। u) निप. (पर्याय-। v) पामे. वैप १, २३०८ g द्र.।

११, १, ६; चाञ्च ३८: १४.
 बृहस्पति-प्रचोदित- -ता: बुदे ३,
 १३६.
 †बृहस्पति-प्रसूत^a- -त: आश्रौ १,
 १२, १२; १३, ७; बौश्रौ ३, १६:
 १; १७, ३९: ११; वाश्रौ १, १, ५,
 १०; आग्निष्ट १, ३, १: १२; कौस
 ९, ९.
 बृहस्पति-बुध- -धौ अ५२, ११, ५.
 बृहस्पति-बुधे(ध-इ)न्दु- -न्दव: अ५
 ६८, १, ४.
 †बृहस्पति-मन्- -मत: काश्रौ १०,
 ५, ९; ७, १३; वैताश्रौ १४, ७;
 -मते शाश्रौ ६, ७, १०; -मन्तम्
 शाश्रौ ६, ९, १३^b; -मान् काश्रौ
 १०, ७, १३.
 बृहस्पति-युक्त- -क्ताञ्च अ३, २६.
 बृहस्पति-राजन्^c- -जान: का५ २४,
 १२^क.
 बृहस्पति-वचस्- -वच: अ५ ४, २,
 ११; ७०^३, ११, ३६.
 बृहस्पति-वन् आपश्रौ २४, ६, १८;
 ७, ४; ६; बौश्रौ १७: २०;
 १८: ३; १९: ८; हिश्रौ २१,
 ३, १०^३; वैध ४, ३, १.
 †बृहस्पति-वत्- -वत: आपश्रौ १३,
 १२, २; बौश्रौ ८, १२: १७;
 वैश्रौ: -वते आश्रौ ५, १, १५;
 हिश्रौ १६, ८, २३; -वन्तम् आश्रौ
 ५, ३, १०^b.
 बृहस्पतिवती^d- -त्या आपश्रौ ५,
 २७, १३; बौश्रौ ६, ९: ४; १४,

१: २०.
 बृहस्पति-शिरस्^e- -रसम् कौस
 ४९, १५; -रसि अ५: ९.
 बृहस्पति-सर्व^f- पाग ८, ३, ११०;
 -व: शाश्रौ १५, ४, १; ३; काश्रौ
 २२, ५, ११××; आपश्रौ २२,
 ७, ५××; माश्रौ ४, १, ३; हिश्रौ
 १७, ३, ४××; -वम् शाश्रौ
 १३, २१, ६; वैताश्रौ २७,
 १७; निस् १०, १३: २०;
 -वे शाश्रौ १५, २, १५; बौश्रौ
 २३, १८: १; २६, ८: ४; वैताश्रौ
 ३९, ३; -वेन आश्रौ ९, ५, ३××;
 काश्रौ १४, १, २; आपश्रौ १८,
 ७, १७; वौश्रौ १८, १: १××;
 वाश्रौ ३, १, २, ४६; वैश्रौ १७,
 १८: १०; लाश्रौ ८, ७, ४××.
 बृहस्पतिसवे(व-इ)न्दस्तुत्-
 -स्तुतौ आश्रौ १२, १, ४.
 †बृहस्पति-सुत^g- -तस्य काश्रौ
 १०, ६, १६; आपश्रौ १३, १४,
 ७; बौश्रौ.
 †बृहस्पति-सुत^h- -ता: अ५ ५२,
 २, ४.
 बृहस्पति-स्तुति- -ति: बुदे ४, ८५.
 बृहस्पत्या(ति-आ)दि- -दीनाम् अ५
 १, १, ४.
 बृहस्पत्यु(ति-उ)दानस्- -नसो: अ५
 ३, १, १३.
 √बृⁱ पाधा. क्वा. पर. भरयो.
 वैक-नाट^j- -टा: या ६, २६^क; -^कया
 अ५ ४८, ११५; निघ ४, ३; या

६, २६.
 †विकुरा^k- -रा दाश्रौ ३, ३, १७;
 लाश्रौ १, ११, ९; निघ १, ११.
 †विकुरि^l- -रय: आग्निष्ट १, ५, २:
 ४२; वैष्ट १, १८: ४.
 √वैश्र^m पाधा. भ्वा. पर. गतौ.
 √वैहⁿ पाधा. भ्वा. आत्म. गतौ.
 वैकि^o- (> वैकायन- पा.) पाग २, ४,
 ६१.
 १-२वैजवापि-, वैजवापीय- १बीज-
 द्र.
 वैजि^p- (> वैजीय- पा.) पाग ४, २,
 १३८.
 वैजेय- २बीज- द्र.
 वैडालव्रतिक- विडाल- द्र.
 वैडालिकर्णक^q- (> क-कन्य-
 पा.) पाग ६, २, १२५.
 वैडालिकर्णि^r- (> र्णि-कन्य-
 पा.) पाग ६, २, १२५.
 वैद- विद- द्र.
 वैदल-, लक- विदल- द्र.
 वैदायन-, १वैदी- विद- द्र.
 रवैदी- (> वैदिका-, षी-) वैदि-
 टि. द्र.
 वैन्दव- २विन्दु- द्र.
 वैमीत[.द]क- विभीतक- द्र.
 वैम्बकि- २विम्ब- द्र.
 वैलायन- २विल- द्र.
 १वैल्व- प्रम्. १विल्व- द्र.
 २वैल्व^s- (> वैल्वायन- पा.) पाग ४,
 १, ११०.
 १-२ वैल्वक- १विल्व- द्र.

a) वैप १ द्र. । b) पाभे. वैप २, ३खं. बृहस्पतिमन्तम् शांता १२, ७ टि. द्र. । c) बस. ।
 d) = ऋच्- । e) विप. > नाप. (ओदन-, पर्याय-) । बस. । f) = ऋतु-विशेष- । g) उप. = पुत्र- ।
 h) तु. BFG. । i) वैप २, ३खं. द्र. । j) पाभे. वैप १, २३०८ ० द्र. । k) व्यप. । तु. पाका. ।
 लैकि- इति माण्डा. प्रम्., वैकि- इति [पच्चे] पासि. । l) वैदिजि- इति पाका., वैजि- इति पासि. ।
 m) वैडा^० इति पासि., वैडालिकर्ण- इति पाका. । n) वैडा^० इति पासि., वैता^० इति पाका. । o) = ऋषि-
 विशेष- । वैल्य- इति पाका., [पक्षे] पासि. ।

वैल्वकि- (> काबन- पा.) पाग
२,४,६१.

वैल्वज [ल^१]- (> जक, लक-)-
पा.) पाग ४,२,५३.

वैल्वयत- (> व्वा- पा, पावा.) पाग
४,१,८०; पावाम ४,१,७९.

वैल्ववन- (> नक- पा, पावा)
पाग ४,२,५३; पावा ४,२,५२.

वैल्वायन- रवैल्व- द्र.

बोद्धव्य- १-२बोध- प्रमृ. √बुध् द्र.

बोधायन- बोधायन- द्र.

बोधि^१ आपश्रौ ६,१७, ८; १६,१३,
१; बौश्रौ १०,१८:१०^३; वैश्रौ
१८,११:१८; हिश्रौ ११, ५,
१२; वैताश्रौ ३६, २७; आपमं
१, ४, १३; आमिग १, ५, ४:
६; शुभ्र २,१०३; दंवि १,८.

बोधित-, बोध्य- √बुध् द्र.

बौढ्य^१->बौढ्य-विहार- -र: हिग
२,१,१.

बौध- √बुध् द्र.

बौ,बो^१घायन^१- -न: बौश्रौ ४,
११:३०; ७, ४:२३; ११,
२:२८; १४, १५:२०××;
बौग १, ७, ४७××; बौपि ३,
८, २××; बौध १, ३, १३××;
-नम् आमिग २, ६, ३:३९;
बौध २,५,२७^१; -नस्य बौश्रौ
२०, १:५१××; बौश्रौप्र १:
७; ३१:१; ५४:८; आमिग
३,६,२:३; बौपि १, ९:१३;
-ना: चव्यू २:३६; -नाय

बौग ३,१,६; भाग ३,११:३^१.

बौधेय-, १-२बौध्य- √बुध् द्र.

बौमुक्ष- √मुञ् (पालने) द्र.

√ब्रण्^१ पाधा. भ्वा. पर. शब्दे.

ब्रध्न^१- पाउ ३,५; -^१०क्ष शाश्रौ ४,
१,२; काश्रौ ३,४,१०; आपश्रौ;
-^१०क्ष: आपश्रौ ५,१४,१३; २१,
१,१५^१; भाश्रौ; अप ४८, ६८^१;
१३^१; १८^१; निघ १,१४^१; ३,३^१;
-^१०क्षम् आश्रौ ६,४,१०; शाश्रौ;
माश्रौ १,३, ५,२६^१; -^१०क्षस्य
आश्रौ ६, २, १२; ११, ३, ७;
शाश्रौ; -^१०क्षम् आपश्रौ ३,१३,
५; भाश्रौ २,८, ८; ३,१२, ३;
हिश्रौ २,६,३०.

ब्रध्न-लोक- -क: अश्र ११, ३,
(३)^१.

ब्रध्न^१- (> ब्राध्नायन- |> ^१न्य-
पा ५,३,११३] पा.) पाग ४,१,
९८.

ब्रह्म-ऋषि- प्रमृ., ब्रह्मन्- प्रमृ.,
ब्राह्म-, ब्राह्मक- प्रमृ. √बृह
(बधा.) द्र.

?ब्राह्मगमनेष्ट्यादीनि शंघ ४७.

ब्राह्मगुप्त-, शीय-, १-२ब्राह्मण-,
ब्राह्मी- प्रमृ. √बृह (बधा.) द्र.

ब्रुव-, ब्रुवत्-, ब्रुवाण- √ब्रू द्र.

√ब्रू^१ पाधा. अदा. उम. व्यक्यायां
वाचि, ब्रवत् या १४, २६^१;
ब्रवसि वाधूश्रौ ४, ७५:१९;
२१; २२; १०८:२१.
ब्रूते याशि १,९; ब्रवीति वैध २,

१२, ५; शुभ्र २, ३९०; ब्रूतः
काश्रौ ३, ६, १५; ब्रुवते आश्रौ
१२, ११,१; १२,१; ४; १३,१;
शाश्रौ ६,१,३; आपश्रौ; ^१ब्रवीति
बौश्रौ १८, ४७:१५; सु ६,४;
ब्रुवे कप्र २, ५, १५; ^१ब्रवीमि
आश्रौ २, ९,१०; आपश्रौ; या
११,७; १४,२८^१; ब्रूमहे निसू ९,
७:२१; ब्रूम: निसू ९,७:२२;
^१कौसू २, २; ४; अप; या ११,
३८; ३९××; ब्रवीतु अप ५१,
१,१; वृदे १,५२^१; ^१ब्रुवन्तु
आश्रौ २, १६, ७; १८, १५;
शाश्रौ; आमिग १, ५, ५:
११××^१; ब्रूहि ^१शाश्रौ १,
१४, १; ११; १५, १८, १;
काश्रौ; पा ८, २, ९१; ^१ब्रूतात्^१
काश्रौ ६, ८,१; बौश्रौ ६, १४:
५; ६; ७^१; ८, २०:१८^१××;
माश्रौ २, १, ४, ६^१; वाधूश्रौ
३, ७९:२२^१; २३; २४;
^१ब्रवाणि आश्रौ २,८,७; ६, १,
२; ७, ८, १; शाश्रौ; अब्रवीत्
आश्रौ २, १३, ४; शाश्रौ १२,
२०, २^१; २४, २^१; आपश्रौ; या
९,२०; अब्रूतात् वाधूश्रौ ४,२:
५; ७; ९; १९:४१××; वृदे ३,
२१; तैप्रा ४,५२; अब्रुवन् शाश्रौ
१२, १६, १^१; १४, ८-९,१;
१५, १७, १; आपश्रौ; या १३,
१२; ^१ब्रुवन् निसू ९, ९:५२;
अब्रवी: आपमं २, १६, ४; भाग.

a) व्यप.। b) पाका. पासि. पाठः। c) वैकल्पयत- इति [पक्षे] पाका.। व्यु? बिल्व-वत्->√वैल्व
>यनि. इति पागम.। d) वैप १ द्र.। e) =पलाश-पर्य- वा कर्मनामन्-वेति भाष्यम्। f) प्रायेण आमिग.
बौध. बौधि. बौध. पाठः। g) =ऋषि-विशेष-। < बौधि- (पा ४,१,१०१)। h) तु. BPG.। i) सपा.
हिश्रौ १६,४,१३ इदधु: (परि.) इति पागे.। j) =महत्-। k) =अध्व-। l) =अन्तरिक्ष-। m) पागे.
वैप १ लोके शौ ७,१०४,१ टि. द्र.। n) या २,२२; ५,१९ पा २,३,६१; ४,५३; ३,४,८४; ७,३,९३ पावा १,४,
५१ पाश्रु: द्र.। o) मपु १ लपम्। p) वैप १, २३१०। द्र.। q) पागे. वैप १, २३११। द्र.।

२,७: १५; ब्रवीत निस् ४, ११:
११; १८; गोट ३, ५, २७; ब्रूयात्
आश्रौ ३, १, २०××; शाश्रौ;
या १, ४; ब्रूयुः शाश्रौ ३, १७,
४; काश्रौ; ऋयाः शाश्रौ १५,
२५, १^१; वाध; या २, ४^१.

ब्रुव^b— पा ६, ३, ४३; पाग ८, १,
२७; पागम ११४.

ब्रुवत्—वतः वौष १, १०, ३२;—वति
काश्रौ २, १२, ११;—वद्भिः
वृदे १, १०;—वन् आश्रौ ५, १,
१४; काश्रौ ८, २, १२; ११,
१, ९; बौश्रौ;—वन्तम् जैश्रौका
६; वृदे १, ९.

ब्रुवती—त्यः अप ३६, २५,
४.

ब्रुवान्—०ण जैश्रौ ३: १६; ७:
३; जैश्रौका ८६; द्राश्रौ १, ३, ७;
—णः आश्रौ ३, ११, २२^१;
माश्रौ; अप्राय ४, ३^१; आपध २,
७, १७;—णम् आट्ट ४, ८, ३०^१;
वृदे १, १३०.

√ब्रू पावा. चुरा. पर. हिंसायाम्.
√व्ली^d (= √व्ली, व्ली) पावा. क्वा.
पर. गतौ, वरगे धरसो च.

भ

भ^१— मः भाशि ५८.

भ-कार—>रा(र-आ)दि—दिभिः
द्राश्रौ ६, १, १६; लाश्रौ २, ९,
१२;—दौ शुप्रा ५, १३.

भ-मर^१— रम् दंवि १, ४.

भ-व- -दौ अप्रा ३, २, ३२.

२भ- √भा द.

१, २भक्त- √भक्त द.

√भक्ष^१ पावा. म्वा. उम. ^b; चुरा. पर.

अदने, भक्षति काश्रौ ९, ११,
११^१; भक्षामहे विघ ८०, १४.

भक्षयते माश्रौ १, ३, ३, १६; ७,
२, १८; भक्षयति शाश्रौ ७, ४,
१४××; काश्रौ; भक्षयतः काश्रौ

९, १२, ३; आपश्रौ १२,
२५, २^१; ३; माश्रौ; भक्षयन्ते

माश्रौ १, ७, ६, ४०; भक्षयन्ति
आश्रौ ५, ८, ८××; शाश्रौ;

भक्षयामि द्राश्रौ २, १६,
१९××; ६, १२, ११^१; शाश्रौ;

भक्षयामसि आश्रौ ५, २,
८; भक्षयताम्^k वाश्रौ ३, २,
७, ७६; भक्षयन्तु शाश्रौ

४, २१, ८-१२; आपश्रौ;
भक्षय आपश्रौ १२, २६, ७;

माश्रौ २, ४, १, ५५; वैश्रौ;
भक्षयत आपश्रौ ५, २५, २०;

माश्रौ; अभक्षयम् या ११, १२^१;
भक्षयेत् आश्रौ २, ४, ५; ७, ३;

१६, १९××; शाश्रौ; भक्षयेयुः
आश्रौ ४, ७, ४; ५, ६, २५××;

शाश्रौ; भक्षयेयाः सु १३, ५.
भक्षयिष्यति बौश्रौ १८, २९:

१८; सु १७, ३; भक्षयिष्यामः
द्राश्रौ ६, ३, १६; लाश्रौ २, ११,
१०; निस् ३, ६: २९.

भक्षयां √कृ, भक्षयांचकृ: बौश्रौ

१८, २९: १७.

भिमक्षयिष्यत् आपश्रौ १२, २४,
५.

भमक्ष^१— पाग ६, १, १५६;—०क्ष
काश्रौ ९, ११, २०; आपश्रौ;

—क्षः ऋश्रौ १, ७, ७^१××;
शाश्रौ; द्राश्रौ ७, १, २८^१;
या ९, ८^१; १०, ३;—क्षम्

आश्रौ ४, ७, ४××; शाश्रौ
९, ६, २१^१; काश्रौ;—क्षस्य

आश्रौ ५, ६, २३; ६, १३,
९^१; आपश्रौ; हिपि १८:
२३; पावा ६, ३, ६९;—क्षा:

शाश्रौ ३, २०, १३; आपश्रौ;
निस् ९, ८: ७; सु १८,
४; पा ४, २, १६; ४, ६५;

पावा ४, ४, ६५;—क्षणाम्
आपश्रौ ६, ३०, ९; २०; बौश्रौ;

—क्षाणिⁿ अप्राय ३, ५;—क्षान्
आश्रौ २, ९, ११; १२, ८,
४०; शाश्रौ;—क्षाय काश्रौ १०,

९, २९; आपश्रौ ४, १०, ७××;
बौश्रौ;—क्षे शाश्रौ ६, ८, १४^१;
हिश्रौ;—क्षेभ्यः वैश्रौ १३, ४:

१; द्राश्रौ ७, २, ११^१; लाश्रौ
३, २, ११^१;—क्षेषु आश्रौ २,
१९, ३०; ६, १०, २१××:

काश्रौ;—क्षैः बौश्रौ ७, १८;
१८××; शांठ २, ८, २^०.

भक्ष-काल—ले अप्राय ३, ५.

भक्ष^१>कृ^p>भक्ष-कार— पावा
६, ३, ६९.

a) पामे. वैप २, ३खं. ब्रूयात् ऐत्रा ७, १७ टि. द्र.। b) कर्तृदि अच् प्र. (तु. पाका.)। c) पामे.

वैप १, २१३४ म् द्र.। d) तु. माधा. BPG.। e) =वर्ण-विशेष-। f) वस.। g) पावा १, ४, ५२;

३, २, १ परामृष्टः द्र.। h) तु. BPG.। i) भक्षय^० इति चौसं.। j) पामे. वैप १, २३१२ म् द्र.।

k) पाठः! °ये^० इति संभाव्यते। l) भाप., नाप. (सोम- [आपश्रौ १२, ७, १४ प्रमृ.]।) वैप १ द्र.।

m) सपा. लाश्रौ ३, १, २७ भक्ष्यः इति पामे.। n) अर्धर्वादित्वम् उसं.। o) सपा. भक्षैः <> सैसै-

इति पामे.। p) वैप १ द्र.।

भक्ष-कृत^a - णितस्य आश्रौ
६, १३, ९; आषश्रौ ८, ३, १६; ७,
१०; बौश्रौ ८, १७, १९; आश्रौ
८, ९, १५^b; हिश्रौ ५, १, ४१;
२, ६१; ६२; -ताः बौश्रौ २०,
२१ : २८.

भक्ष-च्छ, छ^cन्दस्- न्दोमिः
द्राश्रौ ७, १, ३०; लाश्रौ ३, १, २९.
भक्ष-जप^d - षः आश्रौ ३, ९, ५;
४, ७, ४; ५, १, ३, ६; ६, ३, २, २; ७,
३, २, ३; -पान् अत्राय ३, ५.

भक्ष-यवमान-परिधि-कपाल-
मन्त्र- न्त्राणाम् मीसू १०, ५,
८८.

भक्ष-प्रतिषेध- षः मीसू १०,
७, ३५; -धात् काश्रौ १, २, ८;
८, १, ६.

भक्ष-प्रभृति- ति काश्रौ ९, १४,
१.

भक्ष-प्रैषा(ष-आ)च्छादन-संज्ञस-
होम-द्वेष- षम् मीसू ६, ८, ३०.

भक्ष-भक्षण- णम् आश्रौ २,
१९, १२; अत्राय ३, १०.

भक्ष-भोज्य- ज्येषु अप ६४, ७,
१०; -ज्यैः अप १९^e, ५, ३.

भक्ष-भोज्या(ज्य-अ)ञ्च-पान-
नम् अप ७०^e, ९, ४.

भक्ष-मन्त्र- न्त्रः शाश्रौ ३, ८,
२७××; आषश्रौ; -न्त्रम् आषश्रौ

१३, १४, १४××; वैश्रौ; -न्त्राः
हिश्रौ १६, २, १४; -न्त्रान्

लाश्रौ ८, ९, १३; -न्त्रेण शाश्रौ
७, ५, १; वैश्रौ १५, ३३ : ५;

हिश्रौ ८, २, १८.

भक्ष-रहित- -तस्य बौश्रौ २७,
५ : ९०.

भक्ष-वत्- -वन्तम् हिश्रौ १५,
७, ९.

भक्ष-वर्जम् काश्रौ १३, २, १४.

भक्ष-विकार- -रः मीसू ३, ५,
४८.

भक्ष-व्यवाय- -ये हिश्रौ ८, ७,
४०.

भक्ष-शब्दा(ब्द-अ)नभिसंबन्ध-
न्धात् मीसू १०, ७, १५.

भक्ष-शेष- -षान् माश्रौ २, ४, १,
४६.

भक्ष-संचर- -रः माश्रौ ५, २,
१६, १७.

भक्ष-हरण- -णम् काश्रौ ९, ५,
२७.

भक्षा(क्ष-अ)नुवाक^f - कः बौश्रौ
१४, ८ : ३७.

भक्षा(क्ष-अ)न्त-रहित- -तः
वैश्रौ २०, २६ : १००.

भक्षा(क्ष-अ)न्तरित- -तः वैश्रौ
२०, २६ : १०; -तस्य बौश्रौ

२७, ५ : ९.

भक्षा(क्ष-अ)पनय- -यः आषश्रौ
१९, २१, ८.

भक्षा(क्ष-अ)भक्ष- -क्षस्य
वायूश्रौ ४, ४९ : २.

भक्षा(क्ष-अ)र्थ- -र्थः मीसू ३, ४,
५०; -र्थाः बौश्रौ २६, ३० : ५;

-र्थानि बौश्रौ २३, ३ : १८; २०.
भक्षार्थ-त्वा- -त्वा मीसू ३, २,
२४.

भक्षा(क्ष-आ)वृत्- -वृता लाश्रौ

८, १०, १०^g.

भक्षा(क्ष-अ)श्रवण- -णात् मीसू
३, ४, ४८.

भक्षो(क्ष-उ)पाय- -यः आश्रौ
४, ७, ४.

भक्षण^h - णः आषश्रौ २२,
२६, ४; हिश्रौ २३, ४, २०;

-णम् आश्रौ ५, ५, ११; २२;
काश्रौ; -णस्य जैश्रौ २१ : १२;

-णा चात्र ३० : २२ⁱ; -णात्
माश्रौ २, ४, २, ४१; ५, १, ४९;

४, ३, ३६; जैश्रौका १४१; विष
५१, १३; मीसू ८, २, ३; -णाय

या ६, २७; -णे बौश्रौ २१, २ :
५; १३ : १९××; जैश्रौका १४०.

भक्षण-काल- -ले आषश्रौ १८,
२१, ३; हिश्रौ १३, ७, १३.

भक्षण-परिषेचन- -ने आषश्रौ
८, १६, ११.

भक्षणा(ण-अ)न्त^j - न्तानि
कौसू ११, ११.

भक्षणा(ण-आ)प्यायन-सादन-
-नानि आषश्रौ १२, २८, ३;

वैश्रौ १५, ३६ : ९^k.

भक्षणा(ण-अ)प्ररेक- -काय
भाश्रौ १, १९, १२.

भक्षणीय- -यम् अत्राय ६, ३;
वैघ २, १५, ६.

भक्षमाण- -णम् शाश्रौ १५, १९, १.
भक्षयत्- -यन् बौश्रौ २०, १२ :

१४; २१, २० : २५; सु १८, १;
अप ३६, २, ६; -यन्तः काश्रौ

२२, ४, ८; आषश्रौ ८, ३, १९^l;
भाश्रौ; -यन्तम् आषश्रौ १४,

a) सुमागमः उत्सं. (पावा ६, ३, ६९)।

b) 'क्षकृ' इति पाठः? यनि. शोषः (तु.

आश्रौ. प्रसू.)। c) लाश्रौ. पाठः।

d) नाप. (मन्त्र-)

e) सप्र. भक्षरहितस्य <> भक्षान्तरहितः

इति पाठे। f) = अनुवाक-। षसं.

g) 'वृताः' इति पाठः? यनि. शोषः।

h) भावे करणे च कृत् ।

i) षसंस्तुटितः। j) षसं.

k) 'ति' इति पाठः? यनि. शोषः (तु. आषश्रौ.)।

३०, ४; वैश्रौ.
 भक्षयितृ- ता विध ५, १७३;
 ५१, ७८.
 भक्षयित्वा आश्रौ २, ४, १२××;
 शाश्रौ; भक्षयित्वाऽभक्षयित्वा
 माश्रौ २, ४, १, ३८.
 भक्षयिव्यत्- व्यन् जैश्रौ १४ : ६;
 -व्यन्तः शाश्रौ ७, ४, १३;
 काश्रौ २२, ८, १९; २४, ३, १३;
 लाश्रौ ८, ९, १२.
 भक्षा^० (> भाक्ष- पा.) पाग ४,
 ४, ६२.
 भक्षित- तः वायुश्रौ ४, ८६^२ : १२;
 १३; अप्राय ३, ३; -तम् शाश्रौ
 ७, ४, १५; माशि १५, ६; पाशि
 २५; नाशि २, ८, १०; -तस्य
 आश्रौ ६, १३, ९; शाश्रौ;
 -तान् आपश्रौ १२, २५, ४; २४;
 वैश्रौ १५, ३३ : ६; -तानाम्
 आपश्रौ १२, २७, १०; हिश्रौ ८,
 ७, ६४; -तानि वैश्रौ १५, ३२ :
 ८; -ते वैश्रौ १५, ३७ : १२; जैश्रौ
 १६ : ३; १८ : १५; जैश्रौका
 १३८; १७९; वैताश्रौ १९, १८;
 -तेषु जैश्रौ १७ : १; १९ : १;
 १९; जैश्रौका १९६.
 भक्षिता(त-आ)प्यायित- तम्
 शाश्रौ ७, ७, ३; आपश्रौ १२, २६,
 ८; वैश्रौ १५, ३३ : १७; हिश्रौ
 ८, ७, ७६; -तान् आपश्रौ १२,
 २५, २७.

६, २२^२; शंघ ११६ : ५९९^१;
 भक्षिन्- -क्षिणः आश्रौ २, ९, ११;
 ५, १३, ३; ६, ३, २०; ७, ३, २४.
 भक्षिवन्^b- वाणः आपश्रौ ३, २,
 ११; माश्रौ ३, २, ४; हिश्रौ ६, ३, २.
 भक्ष्य- फि ७७; -क्ष्यः लाश्रौ ३, १;
 २७^०; सु १३, १; १७, ३;
 १८, ४; -क्ष्यम् जैश्रौका १३७;
 लाश्रौ; -क्ष्याः निसू ६, १३ :
 २८; शंघ २२२; २२४; वाध
 १४, ३९; बौध; -क्ष्याणाम् बौश्रौ
 २८, १३ : १८; बौध १, ५, ६१;
 -क्ष्यान् शंघ २२३; -क्ष्ये
 आपध २, ५, ५; विध;
 पा ७, ३, ६९; -क्ष्येण पा
 २, १, ३५; -क्ष्यैः आपध २, ६,
 १४^d; -क्ष्यौ वाध १४, ४६.
 भक्ष्य-द्रव्य- -व्यैः आमिष्ट ३,
 ३, १ : १३.
 भक्ष्य-भोज्य- -ज्यानि आज्यो
 ७, १.
 भक्ष्यभोज्या(ज्य-आ)दिक-
 -कम् शंघ २३३.
 भक्ष्य-भोज्य-पान-शय्या (व्या-
 आ) सन-पुष्प-मूल-फल-
 -लानाम् विध ५२, ८.
 भक्ष्य-मांस- -सम् शंघ २२२.
 भक्ष्य-वर्जम् विध २२, ७०.
 भक्ष्य-विशेष- -षान् निसू ६,
 १३ : ३४; बौष्ट २, ११, १५.
 भक्ष्यमाण- -णः अप्राय ३, ३;

-णम् सु १३, ३; -णः अप्र
 ६१, १, ११; विध ४३, ३४; ४०;
 -णे अप्र ७०, ५, २.
 रभक्ष- ✓मल् द.
 रभक्ष^० > भाक्षि- -क्षिः बौश्रौप्र
 ४६ : ३.
 भक्ष-काल- प्रष्ट. ✓मल् द.
 भक्षाली- (> भाक्षालक- पा.) पाग
 ४, २, १२७.
 भक्षानृत- प्रष्ट. ✓मल् द.
 भक्षस्थली- (> भाक्षस्थलक-
 पा.) पाग ४, २, १२७.
 भग, गार्- पाग २, ४, ३१^६; ४, १, ४५;
 ५६; -ङ्ग आम्रमं १, १४, ३^१;
 ५^{२b}; बौष्ट २, ६, १०^३; १२;
 जैष्ट २, ३^३; ७^३; -ङ्गः आश्रौ ८,
 १, २३; ९, ५, ५^१; शाश्रौ; आपश्रौ
 ८, १८, ४^१; माश्रौ १, ३, ४, २३^६;
 वाश्रौ १, ३, ६, १६^६; आपमं १, १,
 २^१; १६, १^m; आमिष्ट १, ५, १ :
 २^१××; काष्ट २५, १^१; बौष्ट १,
 १, १५^१; वाष्ट १०, ७^१; अप्र १,
 ४, ३^१; ४८, ९०^०; वृदे ५,
 १४७^१; १६८; १६९; ६, ८^१;
 ७, ११४^१; ८, १२८××; साञ्;
 निध २, १०^०; या १, ७^३क^१;
 ६, १३^१; ३१^१क^१; १२, १३; १४^३;
 ३६; आज्यो १, १०^१क^१; वेज्यो
 ३२^१क^१; -ङ्गम् आश्रौ २, १०,
 ३××; शाश्रौ; काश्रौ ५, १३,
 १^२; माश्रौ १, २, ५, १२^१; ८,

- a) भावे ऋक् प्र. उसं. (पा ३, ३, १०४)। b) कर्त्तरि वनिप् प्र.। c) पामे. पृ १८३७ m द.।
 d) रसैर्भक्ष्यैः इत्यस्य स्थाने सपा. हिघ २, २, १५ शक्तिविषयेण इति पामे.। e) = ऋषि-विशेष-। f) वैष १ द.।
 g) = योनि- इति पागम.। h) पामे. वैष १, २३१३ ० द.। i) भागः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आन.,
 सपा. ऋ ५, ५१, ११ च)। j) पामे. वैष १, २३१४ e द.। k) पामे. वैष १, २०२९ h द.। l) पामे.
 वैष १, २३१४ a द.। m) पामे. वैष १, २३१४ c द.। n) = पूर्वफल्गुनी-देवता-। o) = घन-। p) = अदिति-
 पुत्र-। q) = मुहूर्त-विशेष-। r) पामे. वैष २, ३खं. भगम् माश्र ११, ४, ३, १५ टि. द.। s) पामे. वैष २,
 ३खं. धनम् तैब्रा ३, ३, ११, २ टि. द.। t) = द्वादशादित्याऽन्यतम-।

ऋञ्च २,७,४१^४; या ३,१६,६,
१३; १२,१४^३; -गाया गोग्
१,३,१८; -ङ्गस्य आपश्चौ ६,
२२,१; ८, १८, ४; भाश्चौ; या
२,१३; ९,३१^६; -ङ्गाय आपश्चौ
४,५,७; शांश्चौ ५,८,५; आपश्चौ
११,१,१२; १८, १०, १४^५××;
बौश्चौ ५,१६; ३,१××; १२,५:
२०^०; हिश्चौ १२,४,५^७; दाश्चौ;
वैग् ३, २०: ६^०; -गे आपश्चौ
१६,३०,१; बौश्चौ ७, ५: २२;
१४,४: ३८^६; माश्चौ २, ३, ३,
७; वैश्चौ १८, २: ४६; हिश्चौ
११,८,४; आज्यो ३,५^०; -गेन
बौश्चौ ५, १७: ३^०; वैश्चौ ९,
११: ११^०; आपमं; या ४, ९;
आज्यो ३,६^०.

भगी- पा ४,१,४५.

१भागा- ग: वाश्चौ ३, १,
३५^०; ऋञ्च २, ७, ३८; वृदे ५,
१६७; -गास्य वृदे ३, ४५;
-गानि या ७,२३.

भागी- गी ऋञ्च २, १,
२४; वृदे ३, ९८; साञ्च
१,४३५.

१भाग्य^४- न्यम् बौश्चौ १७,
३९: १२; -न्ये बौश्चौ १७, ३९:
१२; विध ७८, १६.

भाग्य-महा-भा(ग>)गा^५-
-०गे ऋशां २,४.

२भाग्य^१->३भाग्य^१- न्य:

बौश्चौ १७,३९: १३.

भग-काम,मा- नम: भाश्चौ ५, १५,
११; -मा: काश्चौ ५, १०, १५;
-मायै बौश्चौ ५, १७: ३; २१,
६: ३.

भग-देवता->ल्य,त्या- न्यम्
अञ्च ६, १२९; -त्या: शुञ्च ४,
२३; अञ्च ३, १६.

भग-दैवत- -त: वृदे ५, १६९.

भग-नक्षत्र- -त्राणि काट् १९,७.

भग-दर^६- पाग २,४,३१^१; पावा
३,३,४१^०.

भग-पति- -ति: काश्चौ ५,१३,११^०.

भग-प्रमथन^०- -नाय अप ३६, ९,
१०^०.

भग-भक्त- -क्त: शंघ ३७७: ३^०^५;
-क्तस्य वृदे ३,९८^०.

भग-वत्- -व: काश्चौ ६, ८, १;

बौश्चौ; -वत: अप ३, १, १२;

४०, ३, १; पावा ८, ४, ६८;

-वते बौग् २,८,३५^०; शैशि

४; -०वन् आप्तिग् ३, १२,

१: १९^०; ङ्माग्^१ १, १९, ४;

२, १४, ३१; अप; -ङ्गवन्त:

काश्चौ २५,१, १८; आपश्चौ; या

११,४४; -वन्तम् बौश्चौ १७,

४५: ३; आप्तिग्; -वन्ति अशां

६, ७; -वान् वाधुश्चौ ३, ९४:

९; आपमं १, १४, ५; शांग् ३,

७, ३^०^६; आप्तिग्.

भगवती- -ङ्गंति काश्चौ

२५,१, १८^१; बौश्चौ १८, ४४:

१४; १८; माग् २, १४, ३०;

-ङ्गवती आप्ति^० ३, ११, ४;

४, ७, ४; काश्चौ २६, ६, २४;

आपश्चौ; हिश्चौ १५,२,३^१; काट्

२४,१९^१; अप्तिग् २,४^१; -तीम्

अप ४,३,४; -त्य: -त्या गो

२,१०^०.

भागव(त>)ती- >न्ती-

भागवत- पा, पाग २, ४, ११.

भागवत्-तम- -ङ्गम: बौश्चौ ३,

१४: १; पाग् ३,२,७.

भागवन्-तर- -र: शांग् ३, ७,

३^०^५.

भागवत्-पाद-मध्य- -ध्ये विध

९८,२.

भग-वायु- न्यु साञ्च २,४३३.

भग-संयुक्त- -क्तम् भाग् १, १२:

११.

भगा(ग-आ)दि- -दीन् अञ्च ३,

२०.

भगा(ग-ञ्च)न्तर- -रम् वृदे ७, ४६.

भगा(ग-ञ्च)स्थि^०- -स्थि विध ९६,

६८.

भगा(ग-आ)स्य^१- -स्य: विध ४५,

२४५.

भगिन्- -गिन: वैश्चौ १,१७: १३;

-गिने शांश्चौ २,४,६^०; आपश्चौ

५,२३,६; भाश्चौ ५, १५, ११;

माश्चौ १,५, ६, १९; वाश्चौ १,

४,४, ४२; वैश्चौ १, १७: १०;

a) भा० इति पाठः? यनि. शोघः (तु. ऋ ७, ४१, १) । b) सप्र. भगाय<>भागः इति पाठे ।

c) = पूर्वफल्गुनी-देवता- । d) भागे इति पाठः? यनि. शोघः (तु. सप्र. तै ३,१,८,२) । e) = मुहूर्त-विशेष- ।

f) सास्यदेवतीयः अण् प्र. । g) सास्यदेवतीयष् ऋण् प्र. उस्. (पा ४,२,३०) । h) कस.>बस. । i) भावे

प्यञ् प्र. । j) = भाग्यवत्- । k) = रोग-विशेष- । l) तु. पागम. । m) तु. पाका. । n) पाठे. वैप २,

३४. भगपतिः माश ११, ४,३,१५ टि. द्र. । o) = देव-विशेष- । p) पूष. = योनि- । q) सप्र. भगभक्तः

<> भगास्यः इति पाठे. । r) पाठे. वैप १,२३१५ । द्र. । s) पाठे. वैप १ श्रेष्ठतमः तै १,५,१०,२ टि. द्र. ।

t) पाठे. वैप १,२३१६ ऋ द्र. । u) पाठे. वैप १,२३१६ ० द्र. । v) बस. ।

हिश्री ३, ५, २२^३; -गी आश्री २, ८, २; आपश्री ५, ३, ९; २३, ६; भाश्री ५, १, १३; वाश्री १, ४, ४, ४२; हिश्री ३, २, १२; ५, २२.
 भगो(ग-उ)त्तर- राणि शुप्रा २, २१.
 ऋभय^३- न्यः आमिष्ट १, ३, १ : १४; -न्ये आमिष्ट १, ३, १ : १३.
 भग-काम- प्रभृ. भग- द.
 भगल, ला- पाठभो २, ३, ९९; पाग ४, १, ९६^३; २, ८०^०.
 भागलक- पा ४, २, ८०.
 भागलि- पा ४, १, ९६; -लिः वैताश्री १, ३; २२, १; २८, १२; कौसू १७, २७; अश्र ६, ५२.
 भग-वत्- प्रभृ. भग- द.
 भगाल^१- पाठभो २, ३, १०३; पा ६, २, २९; -लम् पाठ २, ७, १२; गौध ९, २२; पा ६, २, १३७.
 भगिनी^१- नी आमिष्ट १, ७, १ : १२; काठ २३, २; शंघ ४३; बौध २, २, ६४; विध ३२, ७; वैध २, ११, २; -नीम् बौध ३, ३, २१; सुधप ८७ : ५; -नीषु आपध १, १४, ९^१; -न्यः सुधप ८५ : ३; -न्यै या ३, ६; -न्यौ सु २, १.

भागिनेय- न्यः सुधप ८५ : ३.
 भागिनेयी- न्यी बौध २, २, ६४.
 भगिनी-भर्तृ- पाय ६, २, ८१.
 भगिनी-वत् बौधौप्र ५४ : ६.
 भगिनी-शुल्क- ल्कम् गौध २८, २६.
 भगिनी-सपत्नी- न्यः सुधप ८५ : ३.
 भग्न- √भञ्ज द्र.
 भ-ग्रह- प्रभृ. √मा द्र.
 भङ्गाङ्गा(बप्रा.)^१- पाग ४, १, ४१^३; ५, १, ३९^१; ६६; -ङ्गः अप ७०^३, १४, २; ७१, १५, ९; ७२, ३, १०; -ङ्गम् बौश्री १८, ३६ : ६६; -ङ्गे अप २३, ११, २^१; -ङ्गेन बौश्री १८, ३६ : ७^१.
 भङ्गी- पा ४, १, ४१.
 भाङ्ग^३- ङ्गानि कौसू १६, १६; -ङ्गे कौसू ४७, ३९.
 भाङ्ग-(ज्या)>ज्य^३- न्येन कौसू ३५, २८.
 भाङ्ग-सौख- -ङ्गान् कौसू १४, २८.
 भाङ्गिक- पा ५, १, ३९.
 भाङ्गिन- पा ५, २, ४.
 भङ्ग-कव्याद-सेवन^०- नम् अप ६४, ६, ८.
 भङ्गा-कट- पावा ५, २, २९.

भङ्गिन्-> भङ्गि-स्व- स्वत् मीसू ४, ४, ११.
 भङ्गय- पा ५, १, ६६; २, ४; -ङ्गेन^३ आपश्री १२, ११, १०; हिश्री ८, ३, ३१.
 भङ्गाङ्गय^१श्रवस्- -ङ्गः^३ आपश्री १६, ६, ४^३; माश्री ६, १, २, २६^३; वाश्री २, १, १, ५०^३; हिश्री ११, १, ६९^३; -वसः वाश्र ३८ : १५.
 भङ्गुर- √भञ्ज द्र.
 ऋभङ्गयश्चिन^३- नौ आपश्री २१, २०, ३; हिश्री १६, ६, ४१.
 भञ्जुण्ड^१- ण्डान् शंघ २२०.
 √भञ्ज (बधा.)^३ पाधा. भ्वा. उभ. सेवायाम्; चुरा. उभ. विश्राणने, भजते निस् ९, ८ : २०; ऋश्र ३, ३७; वृदे १, ५; ७८x४; या ७, १८; २०; ३१; याशि १, ७३; भजति अप ४८, ५५^१; वाघ १, ४४^१; वृदे ३, १४; भजते वृदे १, ११३; या ७, १८; २०; ३१^३; ऋप्रा १८, ३४; भजन्ते शाश्री १३, १२, १३^१; बौश्री २४, ३ : ६; वाश्री ३, २, २, ४२^३; निस् ५, ६ : २; ८, ५ : ३०^१; आमिष्ट ३, १, १ : ११^३; भाठ २, ११ : ११^१; हिष्ट २, १०, ६^१; अप; भजन्ति शंघ २७३; वृदे २, ७३; ७४; ऋभजामहे हिश्री १२,

a) सास्यदेवतीयः यत् प्र. उर्स. (पा ४, २, ३१)। b) व्यप.। c) भलग- इति [१३] भाखडा., पासि.। d) = कपाल-। e) नाप. (स्वस-). व्यु. १। <(√भञ्ज [बधा.]>) भग- (कल्याण-, यत्न-) इति प्रायोवादः ?। (√भञ्ज [संबन्धे]) *अ (आ) गि (रु>) नी-> यनि. (तु. रञ्जु-, √लम्) इति मतम्। f) सपा. आतृषु भगिनीषु<>आतृभगिनीषु इति पाठे.। g) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र.। h) तु. पागम.। i) भङ्गा- इति पागम.। j) = नाश-। k) = मादक-वीरु-। l) पाठे. वैप १, २३१६ Ω द्र.। m) विकारार्थे भण् प्र.। n) बस.। o) द्रस.>षस.। p) स्वार्थे प्र. (वैतु. हिश्री. भाष्यम् तस्मै- द्वितीयः प्र. इति)। q) आपश्री. हिश्री. पाठः। r) वैप १ द्र.। s) पाठे. वैप १, २३१६ r द्र.। t) = फल- विशेष-। u) या १, ७; ३, ९६ पा ३, २, ६२ पावा ६, ४, १२० पराश्रुष्टः द्र.। v) धा. प्रेप्सायां वृत्तिः। w) पाठे. वैप १, १५४० d द्र.। x) उत...भजन्ते>सपा. शौ १८, ४, ४० उप...सुचन्ते [तु. वैप १] इति पाठे.।

६,६; गोष्ठ ४,५,३; जैष्ठ १, १ :
 १७; भजन्त शैशि ६२१;
 ऋभजताम् आपश्रौ ४, ११, १;
 भाश्रौ; भजन्तु अप १, २६, २१;
 भजस्व अप २०, ६, १; वृदे ७,
 ६५; भजतम् अशां ८, ४;
 ऋभजध्वम् आपश्रौ २१, १२, ३;
 हिश्रौ १६, ४, ३५; जैष्ठ २, १ :
 २९; अमजन् वृदे ७, १४३;
 भजेत वैष्ट ६, ७ : १३; आपध
 १, २०, ८; २, २९, १४; हिध १,
 ६, २२; भजेत् अप ६८, २, २३;
 विध १८, ४३; वैध ३, १३, ७;
 भजेत् लाश्रौ ७, ५, २१; विध
 १७, २२; गौध २१, १६; २८,
 १; २१; ४२; भजेमहि शाश्रौ
 १२, २४, ६१.
 ऋभक्षि आपमं १, १४, २; या
 १२, १४.
 भेजे निस् २, ९ : ७; भेजिरे अप
 १, ८, २; ५; ८; ९; १०; आपध
 २, २३, ४; हिध २, ५, १५८;
 १५९; भक्षत या ६, ८१;
 मक्षीष्ट शाश्रौ १५, २६, ११;
 ऋभक्षीय शाश्रौ २, ११, ६१;
 आपश्रौ; ऋभक्षीमहि वाग् ५,
 १५; अप १, २६, ५; या ४, ७;
 अमक्त माश्रौ ३, २, २१;
 ऋभक्त आपश्रौ ४, ११, १; भाश्रौ.
 भाज्य आमिष्ट १, ५, १ : ९१;
 ऋभाजयत जैश्रौ १२ : ४; आपमं
 २, ७, १४; भाजयेत् गौध १०,
 २२.

अविभाजयिषीत् निम् ६, ८ :
 २५१^b.
 १भक्त^c - क्तम् आश्रौ २, १, ४;
 बौश्रौ; -क्तस्य वाश्रौ १, ५, ३,
 ११; कौस् ४७, १७; -क्तानि
 गोष्ठ ४, ५, १०; द्राग् ४, १, १;
 -क्ते कौस् २८, ९; ३६, ३३;
 ४७, २३; अप ७०^d, ७, १३१;
 -क्तेन आपश्रौ ६, १९, ११; गोष्ठ
 १, ९, ५; कौस् ५४, २२; ६८,
 ४०; १३६, १२; १४०, २१;
 अप ७२, ४, ७; अशां १२, ६.
 भाक्त- पा ४, ४, ६८; १००.
 भाक्तिक- पा ४, ४, ६८;
 -काः आपध २, ९, १०^d.
 भक्त-पात्र- -त्रे अप ७०, ५, ३.
 भक्त-यातन- -नात् कौस् २१,
 ५.
 भक्त-शरण^e - -णम् आग् २, ७,
 ८.
 भक्ता(क्त-आख्या >) ख्य^f-
 -ख्याः पा ६, २, ७१.
 भक्ता(क्त-अ)पचय- -येन आपध
 १, २५, ८; हिध १, ७, ४.
 २भक्त, क्त^g - -क्तानाम् अप १९, ८,
 ८; २०, ५, ४; अशां २, २; ३,
 १; ४, २; -क्तम् वृदे ४, २५.
 भक्त-बल^h - -लः शंध २४४.
 भक्त-वत्सल, ला- -०ल विध १,
 ५७; -ला शंध ४४१.
 भक्ति(वप्रा.)ⁱ - पाग ४, २, ९५; ६, ३,
 ३३; -क्तयः लाश्रौ १०, ९, १०;
 निस् ६, ७; ६५; -क्तिः निस् ३,

५; ६; ७, १ : ८; ८, १० : ४१६;
 वृदे १, ७३; कौशि ७८; ऋप्रा
 १७, १३; पा ४, ३, ९५; मीस्
 ३, ८, ४३; -क्तिम् द्राश्रौ ३, ४,
 १२; -क्ती निस् १०, १० : १७;
 -क्तीः वृदे १, ७६; -क्त्या बौश्रौ
 २६, १८ : ९; १३; वैष्ट ४, १२ :
 १३; अप १, ७, ८××; कप्र १,
 १, १६; २, ६; शंध ३७××; विध
 ८६, १५; वैध २, ४, ५; वृदे १,
 ६; ऋप्रा १७, ६; १८, ५९; मीस्
 ४, ४, २८; ६, १, १९××.
 भाक्त्येक- पा ४, २, ९५.
 भक्ति-कर- पा ३, २, २१.
 भक्ति-तन्त्र- -न्त्रयोः निस् ७,
 ६ : ८.
 भक्ति-तस (:) वृदे ५, १७२;
 ऋप्रा १८, ६२.
 भक्ति-ता- -ता भाशि ४.
 भक्ति-त्व- -त्वात् मीस् ६, ५,
 ३४; ७, ३, १४.
 भक्ति^j, क्ती^k -द्यावापृथिवी-
 >^l व्य^m - -व्यम्ⁿ आपश्रौ ९,
 १९, ६; वैश्रौ २०, ३७ : ११;
 -व्येन आपश्रौ ९, १९, ७.
 भक्तीद्यावापृथिवीय^o - -व्यम्
 हिश्रौ १५, ८, १९¹.
 भक्ति-पान^p - -त्व- -त्वात् मीस्
 ३, २, ४३.
 भक्ति-पूर्वक^q - -कम् अप ६९,
 ९, ३.
 भक्ति-मात्र- -त्रम् या ८, २;
 २२; -त्रेण निस् ४, १३ : ७.

a) पाभे. वैप २, ३खं. असक्त तैत्रा १, ४, ३, ३ टि. द्र. । b) अविभा^o इति पाठः ? यनि. शोधः ।

c) =अञ्- । वैष १ द्र. । d) सपा. हिध २, १, १२५ श्रुत्याः इति पाभे. । e) नाप. (महानस-) । f) बस. ।
 g) =सेवक- । h) =विभाग-, सामभक्ति- (लाश्रौ. प्रभृ.), लक्षणावृत्ति- (मीस्.), धर्म- (वृदे. या.), सेवा- (वैष्ट-
 प्रभृ.), स्वरभक्ति- (कौशि.) प्रभृ. । i) वैश्रौ. पाठः । j) ईद् आदेशः उंसं. (पा ६, ३, २७) । k) पूष. अर्थः ?
 यक. यत्, छः प्र. उंसं. (पा ४, २, ३२) । l) परस्परं पाभे. । m) तृस. ।

भक्ति-लोप-दर्शन- -नात् लाश्री
६, १, १४.

†भक्ति-वृत्^१ - -वानः^२ आपश्री
४, १३, ७; माश्री ४, १९, ७.

भक्ति-शेष- -पः अप ४८, १४७;
-षम् या ७, ११.

भक्ति-साहचर्य- -र्यम् या ७, ८.

भक्त्य(क्ति-अ)नुक्रम- -मात्
मीस् १०, ८, ३१.

भक्त्य(क्ति-अ)न्तर- -राणि द्राश्री
३, ४, ७.

भजन- -नम् अप १, ३८, ४.

भजनीय- -यम् या ४, १०.

भजमान, ना- -नाः विध १७, २२;
-नासु बौश्री २२, ६ : १३.

२भाग^३- पाग ५, १, ६६; -गाः
†आश्री १, १३, ४; ४, ७, ४; ९,
११, १९; शाश्री; सु २८, २;
कौश्र ५, ३, २५^४; †आमिष्ट^५ ३,
६, १ : ९; ७, ४; १३; †बौषि १,
८ : ८; २, ४, १^६; हिपि ७ :

७^७; काशु ६, ९; बौशु १ :
३४; ३ : २८; हिशु ३, ३२;
वृदे ३, ८९; शुअ १, १४७^८;

-†गम् आश्री १, ७, ८^९××;
शाश्री; काश्री ३, ४, २५; आपश्री
४, ११, १^{१०}; माश्री ४, १६, २^{१०};

माश्री १, १, १, १९^{११}; ३, ३४^{१२}; ७,
१, ८^{१३}; १२^{१४}; वाश्री १, २, १,
७^{१५}; २, ३२^{१६}; हिश्री १, ३,
५२^{१७}; ६, ३, ३^{१८}; वैताश्री १०,
१५^{१९}; कौश्र ६४, ७^{२०}; या ३, १२;
४, २६^{२१}; कौशि ६; शुप्रा २,

४३; -गयोः बौशु ३ : ८; ११;
१२ : १०; -गस्य काश्री १०,
२, २^{२२}; आपश्री १३, ४, १४^{२३};
बौश्री; -गाः निस् ३, ५ :
२२××; आमिष्ट; या ८,
२२^{२४}; -गात् दंवि २, १;
-गात् शाश्री ३, १६, २६;
१७, १३, ६; काश्री; -गानाम्
निस् ३, ६ : २; ९ : २४; -गे
आपश्री १८, ४, १५^{२५}; बौश्री; पा
५, ३, ४८; -गेन आपश्री १४,
५, १०; १५, ९, १२^{२६}; बौश्री;
-गेषु निस् ३, ५ : ३; ११;
९, ८ : ३१; -गैः बौशु १९; २;
-गौ बौश्री २, १२; २५; ६, २६;
९; माश्री १, ३, ३, २३; ७, १,
९; वैश्री १०, १९ : ५; शंघ
२६८; २६९; २९१; बौशु ५ :
८; ७; १७; १८; याशि २, ११०.

भाग-कर्मन्- -र्मणी पा ४, ४,
१२०.

भाग-नृतीया(य-आ)या(म>)
मा- -माः बौशु १९ : ६.

भाग-दुव^१ - -षम् आपश्री १८,
१९, ६; बौश्री १२, १५ : ८;
वाश्री ३, ३, १, ३७; हिश्री १३,
६, ३१; -षस्य काश्री १५, ३,
११; बौश्री १२, ५ : २९; २६,
१ : १४^२.

भाग-दुह- -घुक् बौश्री १२,
१५ : ९.

†भाग-घ^३ - -घान्^४ आपश्री १,
१०, ६; बौश्री; -घे तैप्रा ४, ११;

-घेन बौश्री १३, १० : ४.

‡भागघातिक^५ - -कम् वाश्री ३,
३, १, ३७^६.

भाग-घेय^७ - -पवा ५, ४, २५;
३६; -यम् आश्री ८, १४,
४^७; †आपश्री १, २१, २;
२, २०, ६; ५, ८, ७; ११, ५, ३;
१४, ३२, ५; २४, १३, ३; बौश्री;
भाश्र २, २२ : १९^८; माश्र १,
११, ६^९; वाश्र १४, २^{१०};
या १४, ३०; -यस्य या ९, ३१;
-†यात् आपश्री ६, ८, ११;
जैश्री १९ : ६; -यानि आश्री
७, ९, २; ८, २, १३; शाश्री १२,
११, १७; -याच्च वाधूश्री ४,
१०३ : १४; -†ये बौश्री १३,
१९ : ११; भाशि ९५; -येन
बौश्री १३, १९ : १३; १४, १९ :
१८.

भागधेयी- पा ४, १, २०;
-†यीः^{११} आपश्री ११, २१, ३-५;
बौश्री ६, ३३ : ६; ८; ११; माश्री
१, ७, ३, ३०; २, २, ५, ३४^{१२};
वाधूश्री ४, ७० : १०; ११^{१३}; वाश्री
१, ६, १, ३२; वैश्री १४, १९ : ५;
८; २० : २; हिश्री ७, ८, ६३;
६५; १५, ५, ४.

भाग-परिहरणा(ण-आ)दि- -दि
काश्री २, २, ३.

भाग-पर्वन्- -र्वणि निस् ३, ७ :
१७.

भाग-लामिन्^{१४} - -मी बौश्री
२६, १ : १५^{१५}.

a) वैप १ द्र. । b) पासे. वैप १, २३१७ d द्र. । c) पासे. वैप १, २३१८ e द्र. । d) = देवता-विशेष- ।
e) पासे. वैप २, ३६ भागम् तैप्रा ३, ७, ५, ९ टि. द्र. । f) पासे. वैप १, १६२३ b द्र. । g) पासे. वैप १, १५४१
i द्र. । h) लु. चौसं. । i) पासे. वैप १, २३१९ e द्र. । j) °दा इति शेषः । *दत्त-> दात- (प्रदान-)>
(तत्कारकेऽर्थे) दातिक-इति द्र. । k) सप्र. भागघातिकम् <> भागलामी इति पासे. । l) पासे. वैप १, २३१८ k द्र. ।
m) पासे. वैप १ वाजम् तै ३, ५, ६, १ टि. द्र. । n) पासे. वैप १, २३१८ e द्र. । o) = भागलाम-प्रयोजक- ।

भाग-विपर्यय- -यः निसू ८,
५:१९; -यस् निसू ८,५:२२.
भाग-विलोप- -पे निसू ६,१०:
११; ८,४:४.
भाग-विशेष- -षः गौघ २८,१७.
भाग-शस् (:) कौसू १३५, ९५;
अप्राय २, ६; अप ३३, ३, ६;
आज्यो ९, ३.
भाग-संतान- -नाब निसू ८,
४:४.
भाग-समाप्ति- -सौ निसू ९,
१०:१९.
भाग-सामान्त^a- -न्ता: निसू
१,१२:१.
भाग-स्तोम^b- -मा: निसू १,
१०:८; -मान् निसू ७,७:११;
८, १०:१२; १०, ४:६;
-मानाम् निसू १०,५:८;१६.
भाग-हारिन्- -रिणः विध १५,
३४.
भागा(ग-अ)गम^c- -मेन निसू
९,७:१६.
भागा(ग-अ)त्मन्- -त्मना वेज्यो
१२.
भागा(ग-अ)न्त- -न्ते निसू ३,
९:२१.
भागा(ग-अ)न्वित- -न्तम् निसू
८,६:१४; ९,१:५५; -तानि
निसू ४,१२:१४; ८, ५:२३;
६:३८.
भागा(ग-अ)पहारि(न् >)णी-
-ग्यः विध १८, ३४.
भागा(ग-अ)र्ध- -र्धम् कौष्ट ३,

१०, ३५; शांष्ट २, १६, ६.
भागा(ग-अ)र्ध-व्यास- -सम्
बौद्य १९:२.
भागा(ग-अ)र्ह- -र्हम् गौघ
२८,४५.
भागा(ग^d-अ)वगाढ-विस्तार^e-
-रम् वैगृ ५,३:११.
भागिक- पा ५,१,४९.
भागिन्- -गिनः बौश्रौ २९,३:
१०; आपघ २,९,५; १४, १४;
२९, १; हिध २, १, १२०; ३,
२५; ६,१४; -ङ्गिनम् आपश्रौ
६,८,११^f; बौश्रौ १४,३:१०;
आपमं २, ६, १२^g; -गिनाम्
बौश्रौ ३, ६:१४^h; -ङ्गी
आपश्रौ ४, ११, १; माश्रौ ४,
१६, २; हिश्रौ ६, ३, ३; विध
९०,२६.
भागिनी- -नीम् आपश्रौ
९,१५,२३; बौश्रौ २७, १:७;
९; २९, ४:१; ३; माश्रौ ९,
१८,१२; माश्रौ ३, १, ३; वैश्रौ
२०,२५:२; हिश्रौ १५,४,४३;
अप्राय ४, १; -न्यै वैश्रौ २१,
३:६.
भागिनी-देवता-
-तानाम् वैश्रौ २०,२५:१.
भागिन्त्व- -त्वम् मीसू १,
३,२५; -त्वात् मीसू ४,४,३४;
७,३,२; ४,७; १०,२, ५९; ३,
४७.
भागो(ग^d-उ)न्नत- -न्तम् वैगृ ५,
१३:१२.

धभाग्य- पा ५,१,४९;६६.
भागिन्- पा ३,२,१४२.
भाज्- भाक् वृदे १,१००.
भाज->भाजी^m- पा ४,१,४२.
भाजनⁿ- -न्म् शांष्ट २, १२,
१५^l; विध ९०,१५; -नानि बौध
३,२,८; -ने अप ३०^o,२,५;
६८,२,३; शोध २२६.
भाजन-वत्- -वत् या ४, १०;
-वति या ११,१९.
भाजनवती- -ती या १२,
१७.
√भञ्ज्^k पाधा. रधा. पर. आमर्दने;
चुरा. उभ. भाषायाम्, अभाङ्क्षी:
सु १४,५.
भञ्जते अप ७१, १६, ४;
भञ्जन्ते अप ५५,६,२; ६४,७,
६; भञ्जेत् हिश्रौ १५, ८, ३५;
कौसू ५७,७.
अभाजि, अभाञ्जि पा ६,४,३३.
भग्न- -न्ने बौश्रौ २७, २:१२;
अप २३,४, १; ७२,२, ६; बौध
१,४,६.
भग्न-नष्ट-दुष्ट-विपरीत-स्फु-
टित- -तेषु बौगृ ४,८,१^l.
भग्न-पृष्ठ-शिरो-ग्रीव^m- -वा:
विध ४३,४४.
भग्न-प्राकार-तोरण^m- -गम् अप
७०^o,२३,८.
भग्न-स्फुटित-वृत्त- -क्षाणाम्
अप ७०,४,७.
भगना(ग-अ)क्षⁿ- -क्षः अप ७२,
२,८.

a) कस. । b) =स्तोम-विशेष- । c) पूष. =भागसामान्त-? । d) =चतुरङ्गुल-प्रमाण- ।
e) बस.>द्वस. । वा. क्वि. । f) सपा. °न्म् <> ञाम् इति पाभे. । g) पाभे. वैप १, २३१६ d द्र. ।
h) =पक्व-व्यञ्जन- । घा. पाके वृत्तिः । i) =पात्र- । घा. धारणे वृत्तिः । j) सपा. कौष्ट २, ७, २७ आञ्ज-
भाजनम् इति पाभे. । k) पा ७, ४, ८६ परामृष्टः द्र. । l) पृ १०९ p द्र. । m) बस.>द्वस. । n) बस.
उप. = २अक्ष-

भग्ना(प्र-आशा >)ञ^३- शः
विघ ६७, ३३.
मङ्गुर- पा ३, २, १६१.
√भङ्गु(र >)रा-वत्^३- वतः
बौश्रौ ३, ९ : १०^०; भाश्रौ ६,
३, ३^०; बौगृ १, ४, ११^०; ऋप्रा
९, ११; तैप्रा ३, ५^०; -वताम्
शुपा ३, ९७^०.
भञ्जन- पाग ६, ३, ११६.
भञ्ज(न >)ना-गिरि- पा ६, ३,
११६; ऋत ४, ७, १०.
भञ्जना(न-आ)दि- द्वौ अत्र
३६, ३०, २.
√भद् पाथा. भ्वा. पर. सूतौ परि-
भाषणे च.
भटिल- पाउना १, ५३.
भट्ट- (>भट्टी- पा.) पाग ४, १,
४१.
भडित^३- पा, पाग २, ४, ६३; पाग
४, १, १०५; ११०; २, १११.
भाडितायन- पा ४, १, ११०; -नः
द्राश्रौ १०, १, १^०.
भाडित्य- पा ४, १, १०५.
भाडित- पा ४, २, १११.
भडिल^३- पाउ १, ५४; पा, पाग २,
४, ६३; पाग ४, १, ११०.
भाडिलायन- पा ४, १, ११०.
√भण् पाथा. भ्वा. पर. शब्दे, भणति
निघ ३, १४^१.
भण्यते वृदे ३, ५४.
भण- > √मणाय^३, भणायते निघ

३, १४^१.
भणिति- पागम ४४५.
√भण्^३ पाथा. चुरा. उभ. प्रतारणे.
√भण् पाथा. भ्वा. आत्म. परिभा-
षणे; चुरा. उभ. कल्याणे.
१भण्ड- पाउमो २, २, ११५.
२भण्ड^३- ण्डानि आश्रौ ६, २८, २.
१भाण्ड^३- पाउमो २, २, ११७^३;
-ण्डम् वैश्रौ २, ११ : ३; हिश्रौ
३, ८, ३; अत्र २३, १३, ३;
-ण्डात् पावा ३, १, २०;
-ण्डानाम् सुधम ८७ : १६;
-ण्डानि वैश्रौ ११, १० : २;
वैगृ ३, १६ : २; शंघ १८३;
-ण्डे आपृ ६, ४; बौध २, १,
२१; विघ ६८, ४९.
भाण्ड-लेप- यः शंघ १४०.
भाण्डा(ण्ड-अ)गार-पति-
-तिम् अत्र ५, ५, ४.
भाण्डा(ण्ड-अ)धिक^३- के अत्र
७१, १७, ४.
√भाण्डि पा ३, १, २०.
३भण्ड^३- (>२भाण्ड- पा.) पाग
४, १, ११२^१.
भण्डिक^३- (>भाण्डिकायन- पा.)
पाग ४, १, ११०.
भण्डित^३- पा, पाग २, ४, ६३; पाग
४, १, १०५; ११०; २, १११.
भाण्डितायन- पा ४, १, ११०; -नः
लाश्रौ ३, ९, १^०; ६, ६, १५.
भाण्डित्य- पा ४, १, १०५.

भाण्डित- पा ४, २, १११.
भाण्डिल^३- पाउ १, ५४; पा, पाग २,
४, ६३; पाग ४, १, ११०.
भाण्डिलायन- पा ४, १, ११०.
भराडु- (>भाण्डव- पा.) पाग ४,
२, ७७.
√भद्, न्दु (वधा.)^३ पाथा. भ्वा.
आत्म. कल्याणे मुले च, √भन्दते
अत्र ४८, ९^३; निघ १, १६^०; ३,
१४^३; या ५, २.
भदन्त- पाउ ३, १३०.
भद्, द्वा^३- पाउ २, २८; पाग १,
४, ७४^१; ३, १, १२^१; ४, १, ३५;
-√दः आश्रौ ७, ८, १; शाश्रौ
१२, ११, १९; २४, ८^३; काश्रौ;
-√दम् आश्रौ १, ९, १; २, ७,
९××; शाश्रौ; बौश्रौ १६, २२; १^३;
छुम् ३, २ : ३५^३; सागृ २, ८,
६^१; या १, १८; ४, ९; ९, ५^३;
१२, १३; -दम् ङ-दम् जैश्रौ
११ : ४; -√दया^३ आपमं २, २,
१०^३; बौगृ २, ५, १४^३; अप्रा;
-√दस्य आश्रौ २, ८, १४;
शाश्रौ १२, २०, २; -√दा आश्रौ
३, १३, १४; ८, १३, १३; काश्रौ;
या ४, ९; १२, १७; ३९;
ऽआज्यो^३ ६, ८; ९; -√दाः
आश्रौ ५, १८, ५; शाश्रौ; -द्वाणि
√आपमं १, १३, २; ३; कौगृ १,
१२, ६^१; शागृ १, १९, ६^१; शंघ
२४५; -√दात् आश्रौ २, ९,

a) बस. । b) वैप १ द्र. । c) पाभे. वैप १, २३२० j द्र. । d) व्यप. । e) सपा. षडिता^०
<> षडिता^० इति पाभे. । f) पावा ७, ४, ३ परामृष्टः द्र. । g) धा. गतौ वृतिः । h) तु. BPG. ।
i) = १भाजन- । j) स्वाधिकः अण् प्र. (पा ५, ४, ३८) । k) <√भा । l) तु. पाका. । जम्भ-
इति भाण्डा. प्रमृ. । m) या ५, २ परामृष्टः द्र. । n) धा. अर्वायां वृतिः । o) धा. ज्वलने वृतिः । p) विप.,
नाप. । वैप १ द्र. । q) डाजन्तं द्र. । r) तु. पागम. । s) = साम-भेद- । t) उत भद्रमस्तु इत्यस्य स्थाने
सप्र. आगृ २, ४, १४ अमयं विश्वमस्तु इति, पागृ ३, ३, ६ अकृन्तद्विश्वमस्तु इति च पाभे. (पृ १३० अयं विशेषः द्र.) ।
u) पाभे. वैप २, ३३. भद्रे मन्त्रा १, ६, २८ टि. द्र. । v) = तिथि-विशेष- ।

१०; ४, ४, २; शांश्रौ; -[†]दात्र
हिश्रौ ६, ३, २; आपमं १, ८, २;
कौगृ ३, ४, ३; शांगृ ३, ५, ३;
बौगृ १, ५, ६; -[†]दात्र शांश्रौ
१०, १९, २९; कप्र २, ५, ११;
अप ४, ३, ४; आज्यो ६, १२^०;
-[†]दात्र कौस् ५८, १^२†; -[†]दात्राम्
आज्यो ७, २^०; -[†]दात्रै कौस्
३९, ९†; -[†]दात्रे वाश्रौ ३, २, ५,
४३; आपमं २, १२, ९; या ११, १९;
-[†]दात्रे कागृ ४१, ११^०;
मागृ १, २२, ७^०; वागृ ५, ७^०;
जैगृ १, १२ : ४८^०; अगृ ४, ३,
५५; -[†]दात्रेण आपश्रौ १८, ७, १;
बौश्रौ ११, ११ : १; वाश्रौ ३,
१, २, ३६; वैश्रौ १७, १७ : ३;
हिश्रौ १२, २, ३०^०; या ११, २४;
शुप्रा ६, ३०; -[†]दात्रिभिः आश्रौ
४, १४, २; शांश्रौ ६, ५, ४; -[†]दात्रो^१
हिपि १८ : ११.
भद्-काली^० - ली अप ७१,
१७, ७; -लीम् कागृ १९, ७;
-ल्यै कौगृ ३, १०, १४; शांगृ
२, १४, १४; वैगृ ३, ७ : १८.
भद्काली-पूजन- > ^०न-
चित्रकर्मा(सं-अ)ङ्गविद्या-तूर्यधो-
षण-मर्दन-वृत्ति^१ - त्तिः वैध
३, १३, १६.
†भद्-कृत- कृत वैगृ १, १८ : ९.
भद्-करण- पावा ६, ३, ६९.
भद्-क(र>)री- -०रि कागृ

५४, ४; विध ६७, ८.
भद्-दास्(ण>)गा^१ - गया
अप १८, ३, १.
भद्-प(ति>)ली- पाठ, १, ३५
भद्-प(द>)दा^१ - -०दे अशां
५, ४.
भाद्रप(द>)दी- >
भाद्रपद^१ - -दे याशि २, ६०.
भाद्रपदो(दा-उ)त्त(र>)
रा^१ - नाम, -०रे अशां ५, ५.
भद्-पीठ- -ठे पागृ १, १५, ४;
कागृ १७, १; जैगृ १, ७ : ४.
भद्-मातृ- > भाद्रमातुर- पा
४, १, ११५.
भद्-सुञ्ज^१ - > भाद्रमौञ्जी^१ -
-ञ्जीम् कौस् ५६, १; ५७, १.
भद्-सुस्त^१ - -स्तैः अप १, ४५, ८.
†भद्-वाच्य^१ - -च्याय काश्रौ ३,
६, २; आपश्रौ ३, ६, ५; बौश्रौ १,
१९ : २३, भाश्रौ ३, ५, १६, भाश्रौ
१, ३, ४, १२; वाश्रौ १, ३, ६, ७;
हिश्रौ २, ४, २०; शुप्रा २, ४०.
भद्-वाह्य- -ह्यानि आज्यो ७,
२^{१०}.
भद्-शर्मन्- (>भाद्रशर्मि-
पा.) पागृ ४, १, ९६.
†भद्-शोचि^१ - -०चे आपमं २,
११, २८; शुप्रा ४, ६५.
भद्-श्रेयस्^१ - -यसी छुसू ३, २ :
३४; -यसोः लाश्रौ ७, ७, १७.
भद्-श्रेयः-स्वस्त्य^१ - -स्त्याः

कौस् १२७, २६.
भद्वा/कृ^१ पा १, ४, ७४; पावा
५, ४, ६७.
भ(द>)दा-व(त् >)ती^१ -
-०ति कौस् ३९, ९†.
भद्वा(द-अ)ह^१ - -†हस् अप १२,
१, १; २^३; ३.
भन्द्- > ^०न्दिष्ट- -†ष्टः शांश्रौ ७,
१०, १३^६; अप्रा ३, २, ३३.
भन्दत्- > ^०न्दत्-इष्टि^१ - -ष्टयः
शांश्रौ ८, २३, १†.
भन्दन्- > ^०नीय- -ये या ११, १९.
†भन्दना^१ - -नाः निघ ४, २; या
५, २०^०.
भन्दमान- -†नः^१ आपश्रौ १४,
११, ४; हिश्रौ १०, ६, ९.
भद्- √भद्, न्द् द
भद्क^१ - -कान् अप ५०, २, ४.
भद्गण^१ - -णाः बौश्रौ २ : ०१.
√भन् (वधा.), भनते अप ४८, ९;
भनति अप ४८, ६; ९.
भन^१ - -नः या २, १४.
√भन्द् √भद् द.
भन्द्यश्व^१ - > भान्द्यश्व- -श्वस्य वाश्र
४२ : ४.
भ-पर- १भ- द.
भ-प्रशस्ता- √भा द.
१-२भय- √भी द.
भयजात^१ - > भायजात्य- -त्यः निस्
८, ४ : २९.
भयमान-, भयानक- √भी द.

a) = प्रजापतितनू-विशेष-। b) = तिथि-विशेष-। c) पामे. पृ १८४५ U द.। d) सप्रणवो निर्देशः
(भद्म् [ऋ १०, १४, १२])। e) = देवी-विशेष-। f) द्रस. > वस.। g) ^०पूजामात्रकर्मा इति रज्ञा.।
h) = ओषधि-विशेष-। i) = नक्षत्र-विशेष-। j) = मास-विशेष-। k) = नक्षत्र- (उत्तर-भाद्रपदा-)।
कस. परप्रयोगः उरसं. (पा २, २, ३१)। l) तुणविशेषयोः द्रस.। m) विकारे अष् प्र.। n) वैप १ द.।
o) ^०वा इति पाठः ? यनि. शोषः। p) (सामविशेषयोः) द्रस.। q) (मन्त्रप्रतीकानाम्) द्रस. (तु. संस्कृतुः
द्रि.)। r) मुण्डने वृत्तिः। s) = देवी-विशेष-। t) पामे. वैप १, २३२३ U द.। u) पामे. वैप १, २३२३ U
द्र.। v) = जनपद-विशेष-। w) व्यप.। x) नैप्र. <नभस्- > -सः।

भ-युञ्- ✓भा द्र.	२, २०.	८, १२; -नः ऋञ् २, ९, ६८
भय- प्रभृ. ✓भीं द्र	भरुञी- पा ४, १, ४५.	शुञ् २, ९४; नाञ् १, ७५
भर ^१ - पाग ५, २, ३३; -रः या ४, २४ ^१ ; -रम् या २, १७; ३, ९; -राणाम् आश्रौ ७, २, १७ ^१ ; - ^१ रं अ ४८, १०५; निघ २, १७; - ^१ रैषु आश्रौ १९, १९, १९; बौश्रौ १२, २०: ६; १८, १४: ५; हिश्रौ २२, ३, १७; निम् ८, १: २०; या ४, २४ ^१ ; भरित- पा ५, २, ३६. भरेषु-जा ^१ - -जाम् बौश्रौ १८, ५: ११	भारुजिक- पा ५, ३, १०८. भरुण्ड ^१ ->भारुण्ड ^१ - ण्डानि वाध २८, १२; शंघ १०५; विघ ५६, १३. भारुण्डेय ^१ - -याः बौश्रौप्र १७: ७. १, २भर्ग- ,भर्गम्- ✓भृञ् (दीप्तौ) द्र. भर्तव्य- , भर्तुम् ✓भृ द्र. १भर्तृ ^१ - (>भार्थ्य- पा.) पाग ४, १, १५१. २भर्तृ- प्रभृ. ✓भृ द्र. ✓भर्त्सं वाधा. चुरा. आत्म. तर्जने. भर्त्सन् -ने पा, पावा ८, २, ९५. भर्भर- पाउभो २, ३, ३५. ✓भर्व् (बधा.) ^१ वाधा. भ्वा. पर. हिंसा- याम्, ^१ भर्वैति ^१ अ ४८ १५; निघ २, ८. ✓भल् वाधा. भ्वा. आत्म. परिभाषण- हिंसादानेषु, चुरा. आत्म. आसण्डने. भल ^१ - ^१ लाय गोष्ट ४, ६, १३; द्राष्ट ४, २, २ ^१ . भलग- (>भालगक- पा.) भगल- टि. द्र. भलन्दन ^१ - पा, पाग २, ४, ६३ ^१ ; पाग ४, १, ११२; २, ८० ^० . भालन्दन- पा ४, १, ११२; -०न बौश्रौप्र ५३, १; वैध ४,	५६३; -नस्य वाञ् १६ १६ ^१ ; -नाः बौश्रौप्र ४२: १२. भालन्दनक- पा ४, २, ८०. भलन्दन-वन् बौश्रौप्र ५३: २; वैध ४, ८, १२ ^१ . ✓भल्ल् वाधा. भ्वा. आत्म. परिभाषण- हिंसादानेषु. भल्ल- पाउनाट्ट ४, ११७; पाग ४, २, ७५; २, ८० ^० ; - ^१ लाय गोष्ट ४, ६, १३; द्राष्ट ४, २, २ ^१ . भाल्ल- पा ४, २, ७५. भाल्लेय- पा ४, २, ८०. भल्लक्रीय- (>भा ^१ पा.) पाग ४, १, ८६. भल्लपाल- (>भाल्लपालेय- पा.) पाग ४, २, ८०. भल्लवि->भाल्लवि ^१ - > १भाल्ल- वेय ^१ - -यः शुञ् ४, १८७. भाल्लवि-ब्राह्मण ^१ - णम् द्राश्रौ ३, ४, २; -णे वृदे ५, २३. भाल्लवि-स्तोम- -माः बौश्रौ १८, २७: १. २भाल्लवे(य ^१ .)यी ^१ - -यी वृदे ५, १५९. भाल्लविन् ^१ - -विनः निम् ३, ६: २७; ५, १: ७; ६, ३: १६; ७, ५: ११; वाध १, १४; बौध १,
भरक- पाउभो २, २, ७. भरट- (> ष्टिक- पा.) पाउ ४, १०४; पाग ४, ४, १६. १, २भरण- , णिक- , णी- , णीय- ✓भरण्य ✓भृ द्र. भरण्ड- पाउ १, १२९. भरत्- , भरद्भुज- , भरद्वाज- प्रभृ. ✓भृ द्र. भा, भा ^१ रम ^१ - (> भारमेय- पा.) पाग ४, १, १२३. भरमाण- ✓भृ द्र. भरिञ्- पाउना ४, १८१; - ^१ त्रे अ ४८, ८१; निघ २, ४. भरिभ्रत्- , भरिमन्- प्रभृ. ✓भृ द्र. भरु- पाउ १, ७. भरुज, जा- पाउभो २, २, ९२; पाग ४, १, ४५; ५, ३, १०८; -जा या		

a) वैष १ द्र. b) संग्राम-नामन्- । c) पाका. पाठः । d) व्यप. । e) नाप. (।भृष्ट-यव-। व्यु. ? <भस्ज् इति दु., <भृञ् [भर्जने] इति स्क. । f) = साम-भेद । तेनदृष्टीयः प्र. । g) अपत्यार्थे ढक् प्र. । h) तु. पागम. । i) या ९, २३ परामृष्टः द्र. । j) धा. अदने वृत्तिः । k) वैष २, ३खं. द्र. । l) BC. फलाय इति ? । m) = ऋषि-विशेष- । n) कलन्दन- इति भोजः (तु. पागम.) । o) अर्थः ? । p) बा^१ इति पाठः ? यनि. शोधः । q) भाल^१ इति पाठः ? यनि. शोधः । r) फलाय इति BC. । s) = भाल्लविन्^१ । वैष ३ द्र. । t) ढक् प्र. उंसं. (पा ४, १, १२३) । u) उप. = १ब्राह्मण- । v) विप. (श्रुति-) । तेनप्रोक्तमित्यर्थे प्र. उंसं । w) = ब्राह्मण-विशेष-, आचार्य-विशेष- । पूर्वै कल्पे प्रोक्तार्थे णिनिः प्र. (पा ४, ३, १०५), अन्यत्र प्रोक्तप्रत्ययान्तात् तदधीते तद्वेदेत्यर्थे प्र. लुक् (पा ४, २, ६४ [वैतु-न्यासकारः <भाल्लव- इति, पासि. <भल्लु- इति] ।

१, २७; -विनाम् निसू ३, ३;
 १५.
 मल्लवि-क^१ -कम् आपश्रौ २१,
 १६, १५; -के हिश्रौ १६, ६, ३.
 मल्लतक- पाउभो २, २, ४२.
 मल्लु. ल्लुक- पाउ ४, ४१.
 रभव- १म- द.
 रभव^२ -चः अप ४३, ५, १९; अत्र;
 वेज्यो १०^०; -वम् वाश्रौ २, २,
 ४, १२; आम्रिण् अप १, ३७, ४^०;
 अशां ७, ४^०; -वस्य आपमं
 २, १८, २२; आम्रिण्; -वाय
 शांश्रौ ४, १८, ५××; आपमं; माण्
 १, ११, १८^१.
 भवानो- पा ४, १, ४९; -न्वै
 शांश्रौ ४, १९, ५^१; पाण् ३, ८,
 १०.
 भवन्नात- -तः जैश्रौका १७२^०.
 भवन्नात-वचस्- -चः जैश्रौका
 २१५; -चसि जैश्रौका ३^१?
 भव-शर्व- -वाभ्याम् शांश्रौ ४, २०,
 १^१; -वौ अत्र ४, २८.
 भव-शर्व-पञ्चपत्यु(ति-उ)प्र-रुद्ध-
 महादेवे(व-ई)शान- -नानाम्
 कौसू ५१, ८.
 भवा-रुद्ध^३ -द्रौ अत्र ११, २^१.
 ऋभवा-शर्व^४ -०वा अप ३२, १,
 ३१; -वौ अप ३२, १, १७;
 अत्र १०, १; -^१वौ वैताश्रौ
 २९, १०; कौसू २८, ८××; अप.
 भवाशर्वीय^५ -यम् अप ४२,
 २, १०.
 भवो(व-उ)ह्व^६ -०व अप २०, ६,

१^१.
 रभव- √भू द.
 रभवत्^१- पाउ १, ६३; -वतः पाण्
 २, २, २०; पावा १, १, २७;
 -^१वता आम्रिण् ३, ३, १ : १०;
 ११; -वत्सु गौपि २, ३, ३५;
 -वद्भिः अप ३०^१, १, २; -वद्भयः
 काण् ६५, ६; विध ७४, ८;
 -०वन् गौध ६, १४; -वन्तः
 आपश्रौ ८, १५, १७^१; आपमं;
 -वन्तम् पाण् १, ३, ४^१; पावा
 ३, ३, १६१; -^१वान् बौश्रौ २,
 ३ : १९; आण्; गोण् २, १०,
 ३४^६.
 भवती- -०ति वौण् २, ५,
 ४९-५१; वाण्; -ती कौसू ५७,
 १७; -^१तीभ्यः काण् ६५, ७;
 हिण् १, १८, ३; विध ७४, ८;
 -^१त्यः आपमं २, २०, २२;
 काण् ६५, ७.
 भवति-म(ध्य >)ध्या^१-
 -ध्याम् वाण् ५, २८.
 भवत्य (ति-अन्त्य >)
 न्या^१- -न्त्याम् वाण् ५, २८.
 भावल्क- पा ४, २, ११५.
 भवच्-छ (<श)ब्द- -ब्दः गौध
 २, ४३.
 भवत्-पुरोहित^१ -तौ वृदे ५, १२६.
 भवत्-पू(र्वे >)र्वा^१ - -र्वया जैण्
 १, १२ : ५४; ५६; आपध १,
 ३, २८, हिध १, १, १०३; -र्वाम्
 पाण् २, ५, २; वाध ११, ६८;
 बौध १, २, १७; १८; २, १०,

४३.
 भवद्-मन्त^१ - -न्तम् विध २७,
 २५.
 भवद्-अ(न्त्य >)न्या^१ - -न्त्याम्
 जैण् १, १२ : ५५; आपध १, ३,
 ३०; हिध १, १, १०५; -न्त्याम्
 पाण् २, ५, ४; वाध ११, ७०;
 बौध १, २, १८.
 भवद्-आदि- -दिभिः पावा ५,
 ३, १४.
 भवद्-भाद्य^१ - -द्यम् विध २७,
 २५.
 भवदीय- पा ४, २, ११५.
 भवन्-मध्य, ध्या^१ - -ध्यम् विध २७,
 २५; -ध्यया आपध १, ३, २९;
 हिध १, १, १०४; -ध्याम् पाण्
 २, ५, ३; वाध ११, ६९; बौध १,
 २, १८.
 भवन्-मध्य(म >)मा^१ - -मया जैण्
 १, १२ : ५५.
 रभवत्- √भू द.
 रभवता^२ अप १, ७, ४.
 भवन- √भू द.
 भवन्त- पाउ ३, १२८.
 भवन्ति- प्रष्ट. √भू द.
 भवाक- पाउना ४, १६.
 रभवान् वाधश्रौ ३, १० : ३.
 भवितव्य- , भविल- प्रष्ट. √भू द.
 भ-शेष- √भा द.
 √भष् पाधा. भ्वा. पर. भर्त्सने.
 १भष- पा ३, १, १३४.
 २भष^० - (>भषी- पा.) पाण् ४, १,
 ४१.

a) = १ब्राह्मण-। स्वार्थिकः प्र.। b) यक. वैप १, २३२५ h, m, d.। c) = आर्द्रानक्षत्र-देवता-। d) पाभे.
 वैप २, ३३३. पञ्चभ्यः तैत्रा ३, ७, ११ टि. द्र.। e) अतः इति पाठः इ यनि. शोधः L. T. M. W.। f) ष्वचः
 इति पाठः इ यनि. शोधः। g) = सूक्त-विशेष-। h) बस.। i) वैप २, ३३३. भवोद्भवश्च तैत्रा १०, ४३, १
 टि. द्र.। j) वैप ३ द्र.। k) सपा. भवान् <> भोः <> भोः इति पाभे.। l) बस. पू. सं. द्र.।
 m) उप. = २आद्य-। n) भरवाः इति संस्कृता। o) तु. पायम.।

३भष^a -> १भाष्य^b -> °व्य-नास्य-
-न्यौ अत्र ४३, ४, १९.

√भस् (वधा.)^c पाया. जु. पर.
भस्तेनदीप्तयोः, ऋबभस्ति आपश्रौ
१४, २९, ३^२१^d; हिश्रौ १५,
७, १६^e; आप्रिष्ट; अत्र ४८,
१५^f; निघ २, ८^g; ऋबप्सति^h
अत्र ४८, १५; निघ २, ८;
ऋबधाम्ⁱ अत्र ४८, १५; निघ
२, ८; या ५, १२.

ऋभसयः^h अत्र ४८, १५; निघ
२, ८; या ५, २२.

बप्सन्-पसता या ९, ३६^क.

बप्सती-ती या ६, ४^क.

भस्त्र, छा- पाउ ४, १६८; पाग २,
४, ३१^क; ४, २, ९०; ४, १६;

-छाम् लाश्रौ ६, २, १२;

-छायाः निसू ७, ११ : ११.

भस्त्र-क<>का- पा ७, ३, ४७.

भस्त्र-फल<>ला^h- पावा ४,
१, ४; ६४.

भस्त्र-ग्रहण- -णम् पावा ७, ३,
४७.

भस्त्रा-न्याय- -यः निसू १, १० :
२१; -यम् निसू १, १० : २७.

भस्त्रिक- पा ४, ४, १६.

भस्त्रिका- पा ७, ३, ४७.

भस्त्रिय- पा ४, २, १०.

१भस्त्र^h- पाउ ४, १४५; -स्म
काश्रौ १७, १, ६^क; आपश्रौ
१, २५, १२; २, ११, १४×;
बौश्रौ; -स्मनः काश्रौ २५, ४,
१९; आपश्रौ १६, १२, १२;

बौश्रौ; -स्मना आश्रौ ३, १०,
१४; १२, २२; काश्रौ ३, १९,
१५; काश्रौ; आपश्रौ ७, २७,
४^क; बौश्रौ ४, १० : १३^क;

भाश्रौ ७, २२, १^क; हिश्रौ ४, ५,
४४^क; -स्मनि शाश्रौ १३,
१२, ७; काश्रौ.

भस्म-करीष-कृष्ट-च्छाया-पथि-
काम्य- -म्येषु गौध ९, ४५.

भस्म-केश-तुष-कपाला (ल-अ)
मेव्य- -ध्यानि गौध ९, १६^क.

भस्म-जल- -लैः दैध २, १५, ४.

भस्म-तस् (:) कप्र ३, ४, ११^क.

भस्म-तुषा(प-अ)धिष्ठान- -नम्
आपध २, २०, ११; हिध २, ५,
९८.

भस्म-परिमाज्जन- > °ज्जन-प्रदा-
हन-तक्षण-धावन- -नानि वाध
३, ४९.

भस्म-प्रवेशन- -नम् आपश्रौ
१६, १३, २; हिश्रौ ११, ५, १३.

भस्म-मिश्र- -श्रान् बौश्रौ १,
१० : ३; ५, ११ : १८; ६२, ६;
९; बौश्रौ २, ८, ६; ३, १२, ७;

बौपि २, ९, ४; १७; ११, ६.

भस्म-मिश्रि(त>)ता- -ताभिः
काध २७७ : ८.

भस्म-मुष्टि- -ष्टी माश्रौ ६, १,
४, ३४; वाश्रौ २, १, ३, ३५.

भस्म-र¹- -राः बौश्रौ २४,
१४ : १.

भस्म-राजि- -ज्या आश्रौ ३,
१०, १५.

भस्म-राशि- -शिम् गौपि १,
६, २.

भस्म-शेष- -षम् अत्र ४०, ५,
५.

भस्म-त्वमारोपण- -णम् आप्रिष्ट
२, ७, ४ : १३; बौश्रौ ४, ९, १२;
१०, २.

भस्म-त्वात् वैश्र ५, १२ : १३;
पाग १, ४, ५७.

भस्म-स्तान- -नम्; -नेन अत्र
४०, ४, १.

भस्मा(स्म-अ)ङ्गार- -रान् गौपि
१, ५, १४.

भस्मा(स्म-अ)न्त- -न्ते आश्रौ
३, ११, २०; काश्रौ ८, ८, ११;

बौश्रौ ९, ११ : १३; वैश्रौ १३,
१३ : १२; द्राश्रौ ६, ३, १९;

लाश्रौ २, ११, १३; वैताश्रौ २३,
१३.

भस्मा(स्म-अ) स्थि-रोम-तुष-
कपाला(ल-अ)पस्तान^h- -नानि

बौध २, ३, ३७.

भस्मा(स्म-अ)स्थ्य(स्थि-अ)इमा-
(श्म-अ)ङ्गार- -राः अत्र ७२, १,
६.

भस्मी√कृ, भस्मीकरोति या
७, २०; १४, ३३.

भस्मी√भू, भस्मीभवति
वाध ६, ३२.

भस्मो(स्म-उ)क्कर- -रम् आपश्रौ
९, ११, १९; हिश्रौ १५, ३, ३९.

भस्मो(स्म-उ)दक- -केन शंघ
१६७.

a) = ऋषि-विशेष-। b) यञ् प्र. उंसं. (पा ४, १, १०५)। c) या ५, १२ पा ६, ४, १०० परामृष्टः
द्र.। d) सकृत् गभस्ति इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. हिश्रौ. वैप १, २३२६ a च)। e) धा. अन्ने वृत्तिः।
f) तु. पागम.। g) = श्रोषधि-विशेष-। h) वैप १ द्र.। i) पागे. वैप १, २३२६ g द्र.। j) °श्म-नस्-तु°
इति अस्तु. पाठः। k) भस्मनः इति जीसं.। l) सादृश्ये रः प्र. उंसं. (पा ५, २, १०७ L तु. सूची)।
m) द्रस.। अपस्तान- = स्तानापगतजल-।

भस्मो(स्म-उ)द्वृत्^३- नम् काश्रौ
४, १५, ३३.

भस्मो(स्म-उ)द्वपन- नम् काश्रौ
१६, ६, १.

भस्मोद्वपना(न-आ)दि- दि
काश्रौ १६, ६, ३.

भस्मो(स्म-उ)द्वाप^३- -पे काश्रौ
२५, २, २५.

भस्द^३- पाउ १, १३०; -सन् काश्रु
३०, ६; वाश्रु १६, २; -सदः

वाश्रौ ३, २, ५, ४९; -सदम्
आपश्रौ १, १९, ५; भाश्रौ १,

२१, ३; माश्रौ १, २, २, ८; २५;
वाश्रौ १, २, ४, ४२; हिश्रौ १, ५,

४४; काश्रु ३०, ५; माश्रु १, १४,
१७; -सदि माश्रौ १, ८, ३, १२;

वैश्रौ १०, १० : १७; हिश्रौ ४,
३, २५; गो २, २६.

भासद^३- -दात् आपमं १, १७,
४^३.

भसत्-तस् (:) आपश्रौ १०, ९, ३;
भाश्रौ १०, ५, १५; माश्रौ २, १,

२, ५; वैश्रौ १२, ८ : १०^३;
हिश्रौ १०, २, ६^३; आश्रु ४,

८, ८.

भसद्-देश- -शम् वाश्रौ १, ६, ४,
१९; माश्रु १, २० : ८.

भस्त्र, स्त्रा-, भस्त्रिक-, भस्त्रीय-,
भस्म-करीष^० प्रभृ., १भस्मन्-

√भस् द्र.
२भस्मन्^३- (> भास्मायन-
। > न्य- पा ५, ३, ११३। पा.)
पाग ४, १, ९८.

√भा^३ पाधा. अदा. पर. दीर्घा, भाति
वाधूश्रौ ४, २६ : २६; अप १,

५०, ९; अशां १३, ५; वीध ४,
८, २; विध ८, २८; या २, १४;

३, १०; भान्ति वृदे २, ६४; या
११, १५; ऋभाभि आपश्रौ १५,

८, १२; वीश्रौ ९, ८ : १३; भाश्रौ
११, ८, १६; वैश्रौ १३, ९ : १३;

हिश्रौ २४, ३, ६; भाशि १२०;
अभात् वाधूश्रौ ४, २६ : २८;

२९; ३१; ३२; ३५; ३८; भायुः
आश्रौ ११, ६, ४; भायाः^६

वाधूश्रौ ४, ५० : ७.

२भ^३- भाति कौश्रु १, १७, ३; शाश्रु
१, २५, ५; भेषु अप ५८^३, ४, ४.

भ-ग्रह^३- -ऋहम् आशिगृ २, ५,
३ : २१; वीश्रु ३, ७, १६.

भ-प्रवा(स्त >)स्ता- -स्ताम्
कौश्रु २, ७, ८; शाश्रु २, ११, ९.

भ-युज्^३- -युक् वेज्यो ३९.

भ-शेष- -षः वेज्यो २७.

भ-सम्ह- -हेन वेज्यो २०.

भां(भ-अं)श- -शाः वेज्यो १५.

भांशा(श-अं)ष्टक-स्थान-
-ने वेज्यो १९.

भा(भ-अं)दान- नम् वेज्यो
१७.

भादानि(क >)का^३- -काः
वेज्यो २१.

भा(भ-अं)र्ध- -र्धे वेज्यो २७.

भा^३- भाभिः अप ५८^३, १, ४.

भा-व(त >)ती^३- -ती अप
४८, ११०^३.

भात्-> भान्ती- -न्तीः सु२५, ५.
भातु- पाउ १, ७३.

१भातु^३- पाउ ३, ३२; -ऋन्वे
आश्रौ ३, ७, ५; वैश्रौ १८, ५ :

१०; -ऋतुः आश्रौ ४, १५, २;
आपश्रौ १५, १७, ५^३; वीश्रौ ९,

१७ : ३६^३; भाश्रौ ११, १७,
५^३; वाधूश्रौ ३, ४७ : १; वैश्रौ

१८, १७ : ४६^३; अप १, ११,
२; ४८, १११^३; निघ १,

९^३; -नुना आपमं २, ११,
२४^३; शंघ ११५; ऋअ २, ५,

३७^३; या १२, ७; -नुभिः
वीश्रौ १३, २० : ९^३; -ऋतुम्

आश्रौ १, ११, ९; २, २, १४; ३,
१०, १५; ५, २०, ६; शाश्रौ ३,

३, ५^३; वीश्रौ ३, ३० : १२; ८,
१५ : ६; १४, १५ : १५; आश्रु

४, ६, ७; अप्राय १, ३; या १२,
७; -नोः शौच ३, ८७.

भानु-मत्- -मतः या १४, २५;
-मन्ति या १४, २५; -मान्

वीश्रौ २६, २९ : ६.

भानुमती^३- -ती शाश्रौ
११, १३, १५.

भानुमतिन्^३- -न्ती
शाश्रौ १४, ३६, १.

भानुमत्-तम- -मम् अप १,
९, ५.

भानु-शब्द- -ब्दे ऋप्रा ५, ४९.

भान्(तु-उ)पस्थिति- -तिम्
जैश्रौका १३२.

१भान्त- -न्तः काश्रौ १७, १०, ८;

a) बस. । b) उप. = राशि- । c) वैप १ द्र. । d) पाभे. वैप १, २३२६ ऽ द्र. । e) व्यप. ।
f) पा, पावा ८, ४, ३४ परामृष्टः द्र. । g) पाठः ? भायात् इति शोधः (तु. प्रकरणम्) । h) = नक्षत्र- । कः प्र.
उसं. (पा ३, १, १३५) । i) उप. कर्त्तरि क्त. । j) विप. (कला-) । मत्वर्थीयष् ठन् प्र. । k) भावे अङ् प्र. ।
l) = उषस्- । m) शोधार्थं वैप १, १०९४ ऽ द्र. । n) = अहन्- । o) पाभे. वैप १, १२७३ ० द्र. ।
p) = ऋच्- (ऋ ४, १३, २) ।

बौध् १०, ४२:३; माथौ ६, २, १, २३; वाथौ २, २, १, १७.
 †भाम^१- पाठ १, १४०S; -मः ऋप ४८, १८; निघ २, १३; -माय अत्र १८, ४; -मेन वाथौ १, ५, १, ९.
 †भामित^१- -तः भाग ३, १२: २२^b; तैप्रा १२, ८^c.
 भामिन्^१- -मिनः या १४, २५†.
 भांश- √भा द्र.
 भा-ऋजीक- √भाम् द्र.
 भाक्क-, °क्तिक-, °केयक- √भञ् द्र.
 भाक्ष- √भञ् > भञ्जा- द्र.
 भाञ्जालक- भक्षाली- द्र.
 भाक्षास्थलक- भक्षारथली- द्र.
 भाक्षि- रभक्ष- द्र.
 †भाग- भग द्र.
 रभाग- प्रभृ. √भञ् द्र.
 भागन्ति^d- -न्तयः बौध्प्र ६: ४; २७: २.
 भागलक-, °लि- भगल- द्र.
 भागवत-, °वती- भग- द्र.
 भागिक-, १, २ भागिन्-, भागिनी- √भञ् द्र.
 भागिनेय-, °थी- भगिनी- द्र.
 भागी- भग- द्र.
 भागुरि^d- -रयः बौध्प्र ४१: १५; -रिः बौध्प्र ४३: ५; वृदे ३, १००; ५, ४०; ६, ८६; -रिस् जैमृ १, १४: ९.
 भागुरिथि^d- -न्थयः बौध्प्र ६: ४.
 भागुरिथायन- -नाः बौध्प्र ४७: ४.
 †-भभाग्य- भग- द्र.
 †भभाग्य- √भञ् द्र.

†भाग्र- -मेण सम् ३७, ६९^e.
 भाङ्ग- प्रभृ. भङ्ग- द्र.
 भाङ्गाश्विन^d- -नः बौध्प्र १८, १३: ३.
 भाङ्गिक-, भाङ्गीन- भङ्ग- द्र.
 √भाञ् पाधा. चुरा. उभ. वृथक्कर्मणि.
 भाञ्-, भाज- √भञ् द्र.
 भाजक् पाग १, १, ३७.
 †भाजन- √भञ् द्र.
 रभाजन- पा, पाग २, ४, ६७; ४, १, १०४.
 भाडित-, °तायन-, °व्य- भडित- द्र.
 भाडिलायन- भडिल- द्र.
 †भाण्ड- रभण्ड- द्र.
 रभाण्ड- रभण्ड- द्र.
 †भाण्ड L, ण्डल^f J- (> भाण्डी [ण्डली]- पा.) पाग ४, १, ४१.
 भाण्डलेप- प्रभृ. रभण्ड- द्र.
 भाण्डव- भण्डु- द्र.
 भाण्डागार^g, √भाण्डि रभण्ड- द्र.
 भाण्डि- (> भाण्डि शाला- पा.) पाग ६, २, ८६.
 भाण्डिकायन- भण्डिक- द्र.
 भाण्डित-, °तायन-, °व्य- भण्डित- द्र.
 भाण्डिलायन- भण्डिल- द्र.
 भातु- √भा द्र.
 भात- (> °त्र-) भ्रातृ- टि. द्र.
 भादान-, °निका- √भा द्र.
 भाद्रपद-, °दी-, भाद्रमातुर- प्रभृ. √भद् द्र.
 †भानु- √भा द्र.
 रभानु^d- -नोः चात्र १६: ६.
 भान्त- √भा द्र.
 भान्द्यश्व- भन्द्यश्व- द्र.
 √भाम् पाधा. भ्वा. आत्म., चुरा. उभ.

क्रोधे, †भामते अत्र ४८, १८; निघ २, १२.
 भामण्य^d- -ण्यः बौध्प्र १७: १६.
 भामित-, भामिन्- √भा द्र.
 भायजात्य- भयजात- द्र.
 भायिन्^d- -यी अत्र ४८, १५†^h.
 भार-, भारक- √भृ द्र.
 भारङ्गि^d, ङ्गी^d- (> °ङ्गि, ङ्गी [क >] का-, °की- पा.) पाग ४, २, ११६.
 भारण-, भारत- √भृ द्र.
 †भारती^d- -ती अत्र ४८, १०२†; वृदे ३, १३; निघ १, ११†; या ८, १३†; -तीम् वृदे ५, १०१; -†त्यै^k आथ्रौ १२, ४, ६; वैश्रौ १५, ४: ६; हिथ्रौ ८, १, ५०.
 भारती-वत्- -वते माथ्रौ २, ३, २, २†^k.
 रभारती-, °तेय-, भारद्वाज- √भृ द्र.
 भारम- (> °भैय-) भरम- द्र.
 †भार^l- -राः शंथ ११६: १७.
 रभारा-, °रिन्- प्रभृ. √भृ द्र.
 भारिष्टकि^d- -कयः बौध्प्र ३१: ६.
 भारुजिक- भरुज- द्र.
 भारुण्ड-, भारुण्डेय- भरुण्ड- द्र.
 भारुण्य^d- -ण्यः बौध्प्र २०: ३.
 भार्गव- प्रभृ. भृगु- द्र.
 भार्गयण-, भार्गी- √भृज् (दीप्तौ) द्र.
 भार्तिक- √भृ द्र.
 भाज्यं- १ भर्तृ- द्र.
 भार्य- √भा द्र.
 भार्यश्व- √भृम् द्र.
 भार्या- √भृ द्र.
 भार्य- १भृश- द्र.

a) वैप १ द्र. । b) पाभे. वैप १, २३२८ a द्र. । c) पाभे. वैप १, २३२८ b द्र. । d) ऋषि-विशेष- । e) पाठः? भासेन इति शोषः (तु. सम् ३५, ३८) । f) पक्षान्तरे पाठः । g) यज्ञ-नामन्- । h) सस्थ. निघ ३, १७ नाथैः इति पाभे. (तु. नाथी इति मूको.) । i) तु. पागम. । j) तारङ्गि- इत्यन्ये (तु. पागम.) । k) सपा. भारत्यै <> भारतीवते इति पाभे. । l) = अप्सरो-विशेष- ।

भालकायनि^१ - नि: वौश्रौप्र ४४:२.

भालगक- भलग- द.

भालन्दन- , नक- भलन्दन- द.

भालु- पाउवृ १, ५.

भालुक्य- -क्या: वौश्रौप्र ४४:७.

भाल्ल- भल्ल- द.

भाल्लकीय- भल्लकीय- द.

भाल्लपालेय- भल्लपाल- द.

भाल्लवि- , विक- , विन्- , १, २भाल्ल-
वेय- भल्लवि- द.

भाल्लेय- भल्ल- द.

भाव- √भू द.

भाव(त>)ती- √भा द.

भावात्क- १भवत्- द.

भावन- , ना- पृथ. √भू द.

भावयव्य- -व्यम् ऋअ २, १, १२६;

-व्यस्य वृदे ३, १५५; या ९,

१०; -व्यात् वृदे ३, १५०;

-व्याय वृदे ३, १५६^२; -व्ये

शांश्रौ १६, १, ५.

भावयव्य- रोम (श>)शा-

-शयो: ऋअ २, १, १२६.

भावयव्य-सुत- -त: वृदे ३, १४२.

भावयित्वा भावित- √भू द.

भावित्र- पाउ ४, १७१.

१भाविन्^१ - वी शुप्रा १, ४६; ४,

४७; -विभ्य: शुप्रा ३, ५६.

भाव्यु(वि-उ)प(वा>)घ^० - घ:

शुप्रा १, ४६; ३, २२; ४, ३५;

-घम् शुप्रा ७, ९.

२भाविन्- √भू द.

१भावुक- पाउभो २, २, २६.

२भावुक- √भू द.

१भाव्य^१ - व्यस्य वृदे ३, १४०.

२भाव्य- √भू द.

√भाष्^१ पाधा. भ्वा. आत्म. व्य-

क्त्यां वाचि, भाषते वाधूश्रौ

४, ३०: २२; भाषन्ते वाधूश्रौ

४, ३०: २१; या २, २; वभा-

षत विध १, ४८; ६२; वृदे ५,

१२७; भाषत वाधूश्रौ २, १७:

१; ४, ३०: २२; गोष्ठ १, ४,

२; ६, १७; जैगु; भाषेरन् द्राश्रौ

७, ३, १२; लाश्रौ ३, ३, १४.

वभाषे विध ९९, ७; वृदे ५,

३२.

भाष्यते अप ४७, १, २०; २,

१; या २, २; ३; ६, ३०; ३१;

याशि २, ४; भाष्यन्ते या २, २^२.

भाषमा(ण>)णा- णा या ५, २.

भाषा^१ - षाम् आपध २, ३, २;

हिध २, १, ३३; -षायाम् या

१, ४; ५^१; ऋत ३, ४, ६; ४,

७, ८; पा ३, २, १०८; ४, १,

६२××; पावा २, ३, ६९; ३,

२, १०८××.

भाषा-स्वरो(र^१-उ)पदेश- -शेषु

मीस् १२, ३, २०^१.

भाषिक^१ - क: भास् १, ४;

-कम् शांघ ६, २, १३; -कस्य

मीस् १२, ३, २१; -का: या

२, २; -केभास् १, १७; -केभ्य:

या २, २.

भाषिक-श्रुति- -ति: मीस्

१२, ३, २१.

भाषिक-स्वर- -र: काश्रौ

१, ८, १७.

भाषण- -णम् अप ६४, ३, ४.

भाषित- -त: कप्र ३, ७, ६; -तम्

अप ६४, ३, ४; विध १००, १;

अप्रा २, ३, २८; याशि २, ११७;

-तानि अप ६४, ५, १०; -तेन

अप २३, १४, १.

भाषित-पुंस्क^० - स्कम् पा ७,

१, ७४; -स्कात् पा ६, ३, ३४.

भाषितपुंस्क-विज्ञान- -नात्

पावा ७, १, ७४.

भाषितपुंस्का(स्क-अ)नुप-

पत्ति- -त्ति: पावा ६, ३, ३३.

भाषित्वा वैगु ५, १: ४.

२भाव्य^१ - ल्येषु शुप्रा १, १९.

१भाष्य- ३भष- द.

√भास्^१ पाधा. भ्वा. आत्म. दीप्तौ.

भास्^१ - पा ३, २, १७७; भांसि

या ५, २७; ऋभा: आश्रौ ४,

६, ३; शांश्रौ; या ६, १२××;

भास: या ५, २८; १२,

७; भासम् या २, १३; १४^१;

५, १९; भासा आपश्रौ ५, २,

४४^१; या २, १३; १४^१; ४, १६;

६, १७^१; भासाम् या २, १४^१;

३, १६; ऋभासे काश्रौ १७, ५,

१०; आपश्रौ; भासो: या ७,

२३.

ऋभा-ऋजीक^१ - क: निघ ४,

३; या ६, ४.

भास-कर^१ - पा ३, २, २१;

पाग ८, ३, ४८; -र: वौश्रौप्र

६: २^१; अप १, ५०, ९; ६१-

१, १७; ६४, २, ३; अशां १३,

५; वाघ ११, ३६; या ६, २६;

-रम् आशिप्र २, ४, ११: १४;

a) = ऋषि-विशेष-। b) = [अकारठय-] स्वर-संज्ञा-। c) बस-। d) वैप १ द-। e) पा ७, ४,

३ परामृष्ट: द-। f) भाप-। g) = भाषिक-स्वर-। h) ष्देशे इति जीसं-। i) विप-

([अभाष-प्रसिद्ध-] घातु- [या २, २]), नाप- (ब्राह्मण-स्वर-)। तत्रविदितेऽर्थे ठञ् प्र- उत्सं- (पा ५, १, ४३)।

j) = विस्लेषण-प्रत्यय-। k) भावायर्थे क्तिप् प्र-।

जैगृ २, ९ : १४; अप ५३, ४, १; -रा: अप २२, ७, ३; -राय अप १२, १, १; -रे अप ५३, ४, ४; ५, ३.

भास्करा(र-इ)ङ्गारक-कौ आग्निगृ २, ५, १ : ९; जैगृ २, ९ : ४.

भास्करे(र-इ)न्टु-इय-यम् अप ६४, ६, ६.

भास्-वत्-वत्: भाश्रौ ५, ११, ७; ६, ४, ९; ५, ९; वाश्रौ १, ५, ४, २७; ३५; हिश्रौ ६, ७, २; -वति या २, ६.

भास्वती^१-न्ती अप ४८, ११०^०; निघ १, ८^०; या ९, २६; -ती: पागृ ३, ३, ५^१; -तीम् काश्रौ ४, १४, १३; वैताश्रौ ७, ९; अप ४५, १, १८; -त्य: निघ १, १३^१.

१भास^१-से अप ७२, १, ६.

भासन्-नम् या १, २०.

भासन्तो(न-उ)पसंभाषा-ज्ञान-यत्न-विमत्यु(ति-उ)पमन्त्रण-णेषु पा १, ३, ४७.

भासन्त-पाउ ३, १२८.

भासमान-न: या ६, २५; ३२.

भासयत्-यन् वृदे २, ६२.

भासयन्त-पाउमो २, २, १३८.

भासुर-पा ३, २, १६१.

भास्वर-पा ३, २, १७५; -०२ विघ ९८, ४२.

२भास^१-स: बौश्रौ १६, १४ : १७; -सम् आश्रौ ८, ६, २१; वाघ २८, १३; शंघ १०५; -से लाश्रौ ६,

१२, ५; -मेन लाश्रौ ७, ५, १२.

भास-निघन-ने लाश्रौ ७, ६, १९.

भास-वैरूप-पयो: लाश्रौ ६, १२, ५.

३भास^१-नस्य अप ७०^१, ३, ४.

भासद्-भसद्-द्.

भास्कर-√भास् द्र.

भास्त्रायण-(>णक-पा.) पागृ ४, २, ८०.

भास्त्रायन्-न्य-रभस्मन्-द्.

भि^१ वैश्रौ २१, २ : ७.

√भिष्^१ पावा भ्वा. आत्न. भिष्त्रायाम्

अलोभे लोभे च, भिष्क्षने भाश्रौ

१०, १२, ४; कौगृ २, ३ १३;

शौगृ २, ६, ४; बौगृ २, ५, ४८;

भागृ १, १० : १; २; बौध १, २,

५७^१; भिष्क्षस्व वगृ २, ५,

४७^१; भिष्क्षेन आगृ १, २, २, ४;

६; पागृ २, ५, २; ७, ६; आग्निगृ

१, १, ४ : १८^१; बौगृ २, ५, ४९;

हिगृ १, ७, १३^१; जैगृ १, १२:

५४^२; आपध १, ३ २८; बौध

१, २, १८; ५७^१; २, ६, २४; विघ

२६, ५; हिघ १, १, १०३;

भिष्क्षेत् आग्निगृ २, ४, ४ : ८;

शंघ १४२; बौध ३, ७, १०.

भिष्क्ष-(>√भिक्ष्य पा) पागृ ३, १, २७.

भिष्क्षण-णम् आपध २, १०, ३;

हिघ २, ४, ३; -णे आपध २,

१०, १; हिघ २, ४, १.

भिष्क्षमाण-ण: आपध १, ३, २५;

हिघ १, १, १००; -णेषु बौध

२, ३, १९; गौध ५, २३.

भिष्क्षा-पागृ ४, २, ३८; ३, ७३;

-क्षया जैगृ २, ५ : १८; -क्षा

आपध १, ७, १४; १९, ७; हिघ

१, २, ७१; ५, १०९; -क्षाम्

बौश्रौ १७, ३९ : २८; आगृ;

-क्षायाम् आपध १, ७, १४;

हिघ १, २, ७१.

भैक्ष-पा ४, २, ३८; ३, ७३;

-क्षम् कौगृ २, ३, १६; शौगृ;

-क्ष्य कागृ १, ३२; कौस् ५७,

२९; बौध १, २, ५७^१; -क्षत्

आपध १, ३, ४२; हिघ १, १,

१११; -क्षाय बौश्रौ २६, ९ :

१४; गौध २२, ३; -क्षेण विघ

२८, ५०; ५४, १३; १५; -क्षै:

कौगृ २, ६, ३^१.

भैक्ष-चर-रा: वाघ ३,

४.

भैक्ष-चरण-णम् कागृ

१, ३०; जैगृ १, १८ : २; विघ^१

२७, २५; २८, ९^१; ५२; वैध १,

३, ३, ९, ७; गौध २, ४२.

भैक्ष-चर्या-र्या वाघ

२०, १८; शंघ ३७९; ४४३;

बौध २, १, ४७; १०, ४२; -र्याम्

बौध २, १०, ४५.

भैक्ष-पात्र-त्रम् वैगृ २,

८ : २.

भैक्ष-भक्ष-क्ष: जैगृ २,

८ : २२.

भैक्ष-भुज्-भुक् अप

३६, २०, १; विघ ५३, ९^१.

भैक्ष-लब्ध-लब्धे वाघ

१९, ३७.

a) वैप १ द्र. b) =उषस्-। c) नदी-नामन्-। d) भाप.। e) =पक्षि-विशेष-। f) पाठ: ?

हि इति शोध: (तु. सपा. बौश्रौ २८, ९ : २१)। सप्र. शौ ७, १०५, १ विभे.। g) पावा १, ४, ५१ परामृष्ट: द्र.।

h) सपा. भिष्क्षस्व <> भिष्क्षेत् इति पाभे.। i) भैक्ष्येग इति जीसं.। j) पाभे. पृ १८३७ ० द्र.। k) 'क्ष्य'

इति जीसं.। l) 'क्ष्या' इति जीसं.।

भैक्षा(क्ष-आ)चरण-
-णम् कौटु २,३,१८; ७, २१;
आमिष्ट २, ७, १ : १३; वैध १,
२,९.
भैक्षाचरणा(ण-अ)-
न्त^० -न्तम् कौटु २,३,९.
भैक्षा(क्ष-आ)चर्य- -र्यम्
वौटु २,५,४५^१.
भैक्षाचर्य-वृत्ति^०-
-त्तिः वागु ६,३^०.
भैक्षा(क्ष-आ)चार्य-
वृत्ति^० -त्तिः कागु १,४^०; मागु
१,१,२^०.
भैक्षा(क्ष-अ)ञ- -ञम्
वैध १,२,९.
भैक्षा(क्ष-अ)भ्यवहरण-
-णम् विध २८,१०^०.
भैक्षा(क्ष-आ)शिन- -शी
आमिष्ट २, ७, ११ : १४; सुधप
८५ : ५.
भैक्षा(क्ष-आ)हार^० -रः
वौटु २,५,७२; ऋप ३६,२२,१;
वौध ४,५,२७; सुव ५६.
भैक्ष्य^१ - -क्ष्यम् शंघ ४०३.
भैक्ष्य-चर्य- -र्यम् वागु
५,२८.
भैक्ष्यवृत्ति^० -त्तिः वागु
६,१५.
भिक्षा-काल- -काल वैध ३,
७,४.
भिक्षा(क्ष-अ)ग्र- -ग्रम् वैध ३,
७,६.
भिक्षा-ग्रहण- -णम् पावा ३,२,
१६.
भिक्षा-न्त्र- -पा ३,२,१७.

भिक्षा-चरण- -णम्^० शांगु २,६,
८; १२,६.
भिक्षाचरण-स्वाध्याय-
लोप- -पे वौटु ४, ११, १.
भिक्षा-चर्य- -र्यम् हिश्रौ १०,
३,२; आमसं २, ६, १४^१; पागु
३, १२, ८; आमिष्ट १, १, ४ :
१७^१; ३०; मागु १,९ : ९^१; ३;
४ : १५; हिगु १,७, १२; ८,२;
आपध १, ३, २५; हिध १, १,
१०; -र्ये आपध १, २६, ११;
हिध १,७,२२.
भिक्षाचर्य-चरण- -णम् पागु
२,५,१.
भिक्षा-चर्या- -र्या पागु २,५,
११.
भिक्षा-दान- -नम् गौध ५,१९.
भिक्षा(क्ष-आ)दि- -दिषु पावा
३,१,२६; ४,२,३८.
भिक्षा(क्ष-अ)ञ^० -ञः वैध २,
१२,६.
भिक्षा-पात्र- -त्रम् वैध २,५,
८; ६,२; ८,३; ३,६,९; ८,२.
भिक्षा-बलि-परिश्रान्त- -न्तः
वौध २, १०, १६.
भिक्षा-म(ध्व >)ध्या^० -ध्याम्
वौध १, २, १७.
१भिक्षा (क्षा-अ) र्य- -र्यम्
विध ९६, २.
२भिक्षा(क्षा-अ)र्य^० - > र्यिन्-
-र्या वाध १६, ३३; शंघ ३८७;
वौध २, १०, ६४; गौध ३, १४.
भिक्षा (क्षा-अ)शिन^० - -शी
वैध २, ८, ७.
भिक्षा (क्षा-आ) श्रम- -मम्

वैध २, ७, ४.
भिक्षा(क्षा-आ)हार^० -रः सुध
५३.
भिक्षाक- -पा ३, २, १५५.
भिक्षित- -न्तम् शंघ १४२; विध
५९, १०.
भिक्षित(व्य >)व्या- -व्याम् वौध
१, २, ५७.
भिक्षितुम् वैध ३, ७, ५.
भिक्षित्वा कौटु २, ६, २; शांगु.
भिक्षु- -पा ३, २, १६८; पाग ५, ४,
२९^१; -क्ष्वे विध ५९, १४;
-क्षुः वौध २, १०, १७; विध
५९, २७; वैध; ऋअ २, १०,
११७^१; -क्षन् वैध १, ४, २;
-क्षोः वैध २, ९, ७; ३, ९, १;
भिक्षु-क- -पा ५, ४, २९; पाग
२, २, ३८; ४, १, ४१^१; २, ४५;
-कः वौध २, १०, १६; -कम्
विध ५९, १८; ८१, १८; ९६,
५; -काः वाध ८, १६; वैध १,
९, १; -कान् पागु २, ९, १२;
-कैः वाध २१, ३३.
भिक्षुकी- -पा ४, १, ४१.
भिक्षुक- -पा ४, २, ४५.
भिक्षु-नट-सूत्र- -त्रयोः पा ४,
३, ११०.
भिक्षु-वत् वैध २, ५, ८; ३, ५,
१३
भिक्ष्व(क्षु-अ)भाव- -वे विध
५९, १६.
√भिद्^१ पाधा. रुधा. उम. विदारणे,
भिद्यत् अप १९, १, १३.
भिनत्ति भाश्रौ २, १०, ८; वैश्रौ
७, ४ : ९; कौटु; या ११, २४;

a) सपा. भैक्षा <> भिक्षा इति पाठे. । b) बस. । c) परस्परं पाठे. । d) द्रस. > बस. (तु. भाष्यम्) । e) 'क्ष्वा' इति जीसं. । f) स्वायें प्यञ् प्र. उंसं. (पावा ५, १, १२४) । g) मलो. कस. । h) = वानप्रस्थ-भेद । i) तु. पागम. । j) = ऋषि-विशेष- । k) पा ३, २, ६१ परासृष्टः द्र. ।

भिन्दन्ति कौम् ८६, १५; काशु
७, ३१; या ५, ५१; भिनन्मि
कौम् २२, २४१; शैशि २५३;
भिन्धि शांश्रौ १२, १, ४१; वौश्रौ;
वृदे ७, १४९; ऋमिन्त वौश्रौ
१०, ५९: १०; आग्नि २, ५,
११: २०; अप्राय ६, २; अमि-
नत् वौश्रौ १८, ३१: १९; आपमं
२, ११, २६१, वृदे ७, १५०;
या ७, २३; ऋप्रा २, ४४१;
अमिनः वौश्रौ १६, २५: ४१;
भिन्ध्यात् वौश्रौ २५, ३४: ५;
माश्रौ ३, ५, ६; हिश्रौ १५, २, ६;
हिशु ५, २७.
ऋभिभेद आश्रौ ६, ३, १; शांश्रौ;
ऋभिभिदुः हिश्रौ ९, ५, ३७;
वैताश्रौ २४, १; वृदे ६, ६४;
भेत्स्यति कौम् ११६, ७१;
ऋमित्याः काश्रौ १६, ४, ३१;
आपश्रौ १६, ९, ४; वौश्रौ.
भिद्यते^a वौश्रौ ३, १५:
१४; ९, ४: २४××; वैश्रौ;
भिद्यन्ते वैश्रौ १७, १०: ९;
भिद्यताम् आश्रौ ३, १४, १२;
काश्रौ २५, ५, २९; आपश्रौ;
भिद्यत काश्रौ २५, २, २५;
आपश्रौ; माश्रु २, १५, ५^b.
ऋभेदि आपश्रौ १६, ५, ३; ११;
वौश्रौ.
भिभेद > ऋद(द-आ)दि- दिषु
दंवि २, १०.
भित्त- न्तम् पा ८, २, ५९.
भित्ति^c- पावाग ३, ३, १०८; -त्ति:
वैश्रौ ११, ८: १२; -त्तिम्
काश्रौ ८, ३, २१.

भित्तिका- पाउ ३, १४७.
भित्वा काश्रौ १७, ७, ३०; आपश्रौ;
भिद्- भिदा जैश्रीका १४२.
भिदा- पाग, पागवा ३, ३, १०४.
भिदि- पाउ ४, १४३.
भिदिर- पाउ १, ५१.
भिदु- पाउ १, २३.
भिदुर- पा ३, २, १६२.
भिद्य- वा ३, १, ११५.
भिद्यमा(त >)ना- ना सु ३, २.
भिद्- पाउ २, १३.
भिन्द^d- न्दः या ६, ३२.
ऋभिन्दन् - न्दन् आपश्रौ १७,
१८, १; या ३, २०; -न्दन्तः
शुप्रा ३, १२९.
भिन्दान- नाः आश्रु ३, १०,
१११^e.
भिन्दु^f- न्दवः बाधुश्रौ ३, ३७:
३; -ऋन्दुः आश्रौ ७, ८, ३; शांश्रौ
१२, २६, २१; आपश्रौ १३, २०,
११६; गौपि २, ४, ७; -न्दूताम्
हिश्रौ ९, ५, ३९१^g.
भिन्दि > ऋन्द-लव (ण >)णा-
पाग २, १, ७२.
भिन्न, ब्रा- न्तः या ९, १२; -न्तम्
आश्रौ ३, ११, ६; १४, १०; शांश्रौ
१३, १२, १३; काश्रौ २५, ५,
२९; वैश्रौ २०, २८: ३; शांश्रु ५,
८, ३; ४; आग्नि २, ७, ९: १२;
माश्रु ३, १८: १६; वेज्यो २७;
-न्तया विघ्न ६३, ४७; -न्त
अप २२, ३, २; २३, ३, ५; नाशि
२, ६, ७; -न्तः अप ६८, १,
४२; ७०^h, १६, ३; -न्तानाम् अप
७०, १, २; -न्तम् वाश्रौ २, १,

६, ३; हिश्रौ ११, ५, २०; वौश्रु
७: १; -न्तानु वौश्रौ २२, २: ५;
-न्ते वौश्रौ २०, २३: २४××;
वैश्रौ २०, २६: ८; आग्नि ७;
-न्तेन गो १, २; या १४, ६;
-न्तेषु वौश्रौ २९, १: ३.
भिन्न-कर्मⁱ- पा ६, ३, ११५.
भिन्न-कार्पापण- गम् वाध
१९, ३७.
भिन्न-काल- लेषु आपश्रौ
२४, १, ४३.
भिन्न-काल^j- लस्य शांश्रु १,
३, ९.
भिन्न-कृ(ण >)णा- ण्णोः
काश्रौ १६, ७, २७.
भिन्न-छिन्न-मल-वल्मीक-केश-
कपाला(ल-आ)स्थि-तुषा(प-आ)
ङ्गारो(र-उ)षरे(र-ई)रिण-पाषा-
ण-वृक्षमूलो(ल-उ)देश^k-
-न्तान् वैश्रु ५, ३: ५.
भिन्न-तन्त्र^l- न्त्राः काश्रौ १५,
१, २; १९, ६, १; -न्त्रान् काश्रौ
२०, २, ६.
भिन्न-ता- ता कौशि ६०.
भिन्न-देव(ता >)त^m- तान्
वैश्रौ १७, १०: ७; -तानाम्
वैश्रौ १७, १०: ११; १२; १६:
७; १८: ५; ६.
भिन्न-देश- शेषु पावा १, १, ९.
भिन्न-द्रव्य-हुत- न्तम् अप
२३, ७, ३.
भिन्न-पात्र- त्रेण वैश्रु २, १४,
१५.
भिन्न-पात्र-भोजिन्- जी वैश्रु
३, १५, ११.

a) कर्मणि कर्मकर्तारि च रूपम् । b) भिद्यते इति पाठः ? यनि शोधः (तु. Knauer.) । c) = कुडप-
d) कर्तारि सः प्र. उल्लं. (पा ३, ३, १३८) । e) पाभे. वैप १ विद्वानाः शौ ६, ३२, ३ टि. द्र. । f) वैप १ द्र. ।
g) वैप १, २३३०० द्र. । h) वच. । i) दस. > कस. ।

भिन्न-भाजन- ने विष ६८, २०.
 भिन्नभाजन-भिन्नभाण्ड-
 भक्त^a - न्कानाम् सुध २६.
 भिन्न-योनि^b - निः वौश्रौ २९, १२: १९.
 भिन्न-विवाह- -हम् वौश्रौप्र १:६.
 भिन्न-साधन^c - नाः अप ६९, १, २.
 भिन्न-सिक्त- -क्तानि आश्रौ ३, १०, २१.
 भिन्न-स्वर^d - रन् अप ३, २, ४; -रे अप ३, ३, १.
 भिन्ना(न्न-अ)न्त^e - न्तम् आपश्रौ १८, ८, १९; आश्रौ ३, ३, १, ८.
 भिन्ना(न्न-आ)सन-गत- -तः विष ६८, १८.
 भिन्नो(न्न-उ)दात्ता (त्त-अ)नुदात्त-क- -कौ याशि १, ८६.
 भेत्तवै काश्रौ १८, २, ५.
 भैत्तृ- -त्ता शाश्रौ ८, १७, १; बौश्रु ३, ५, ११; -त्तारम् वौश्रौ ३, ९: १०; माश्रौ ६, ३, ३; बौश्रु १, ४, ११.
 भेद- पाग ५, १, ६४; -दः काश्रौ १, ७, ४; अप; -दम् बौघ २, ६, ११; -दाः अप ६८, ५, १६; बौश्रु ५: १८; चव्यू २: १; २; ४: १; दंवि २, १०; -दात् काश्रौ २०, ३, १७; -दान् अप ५८^r, २, ३; बौघ २, ६, ३०; बौश्रु ५: १८; -दे काश्रौ ७,

९, ११××; वौश्रौ २८, ११: ५; माश्रौ ३, १, २४; वैश्रु ६ १:१८; वृदे १, ४३; पात्रा ८, १, ५१; -देन काश्रौ ८, ८, १०; २२, ३, २१; २५, ३, २६; ५, ३; -दौ या ९, २१.
 भैदिक- पा ५, १, ६४.
 भेद-काम- -माः आश्रौ २, ११, १३.
 भेद-योजन- -नयोः अप ४८, १७.
 भेद-व्यपदेश- -शात् मीसू १०, ६, ३४^d.
 भेदा(द-अ)भिघात- -तः आज्यो ८, ४.
 भेदा(द-अ)र्थ- -र्थम् मीसू ६, ४, १५.
 भेदन- -नम् काश्रौ १८, २, ६; २५, १२, २७; या ११, ३७; -नात् या १, १४; -ने अप ५१, २, ४; ५, ५.
 √भिन्द् पाधा. भ्वा. पर. अययवे.
 भिन्द- , ंदत्- √भिद् द्र.
 भिन्द्व^g - -वाः वौश्रौप्र २५: २.
 भिन्दान- , ंदु- प्रष्ट. √भिद् द्र.
 भिल्ल- पाठभो २, २, २४३; -ल्लम् या १, २०.
 भिल्ल- पाठभो २, ३, ९२.
 भिल्लिभायन^h - नाः वौश्रौप्र २४: २.
 भिल्लु(क) > काⁱ - का (ईकाम्^h) हिश्रौ १६, ६, ३९; ४०.
 १भिषज्^j - पाउ १, १३८; पाग ३, १, २७; -षक् आपश्रौ १६,

११, ११^r; वैश्रौ १८, ९: १२; १०: १; ३; हिश्रौ; या ६, ५; -षजः ऋष्यश्रौ ८, ७, २५; १६, ११, ११^r; वौश्रौ; वृदे ७, १५४; -षजा आपश्रौ १४, २९, १; कौश्रु १, १०, ६; सांग्र १, १६, ७; शुभ्रा ४, ३१; -षजाम् अप १, ४१, ७; अशां ११, ७; -षजौ वौश्रौ १४, २६: १४.
 भेषज^k - पाउश्रु १, १३८; -षजम् आश्रौ १, ११, १३; १०, ७, ३५^l; ९, २^r; शाश्रौ ३, १९, ३; १६, २, ९५^l××; काश्रौ; आपश्रौ ३, ११, २^r; वौश्रौ १, २१: १२^k; भाश्रौ ३, १०, २^k; वाश्रौ १, ३, ७, २०^k; हिश्रौ २, ६, १^k; कौश्रु १, ५, २९^k; आश्रिण्ट १, ५, २: १५^k; कौसू ५, १३^k; ११७, ३^l; ४^l; अप्राय २, २^l; अप ४८, ६४^m; ७५^m; ६७, ७, ३^l; ६९, ४, ३५; वाध २६, १८५; संघ ४५; बौघ ४, ७५; ऋषिण्ट १, १२^m; ३, ६^m; या १०, ३५^l; आज्यो १०, ४५; -षजस्य आपश्रिण्ट १, १, १: ५१; ५, २: २; बौश्रु १, ३, ३३; भाग १, ५: ८; वाश्रु १, २३; हिश्रु १, २, १८; अप १, ८, ५५; -षजा आपश्रौ ८, ८, ७; २१, २२, १; हिश्रौ १४, ४, ५७; या १०, ७; -जानाम् अप १८^r, ५, २१; -षजेन वौश्रौ २७, ६: ६; वैश्रौ २०, ३०: ५.

a) उप. = १भक्त-। b) वस.। c) उप. = वस्त्र-प्रान्त-। d) व्यपदेशात् इति कासं.। e) = ऋषि-विशेष-। f) = पीति-विशेष-। g) पाठः ? यनि. शोधः (तु. सपा. आपश्रौ २१, २०, १; २ हिंल्लुकाम इति पाभे.।। h) वैप १ द्र.। i) पाठः ? भिषजाम् अस्य > षजौ अस्य इति वा भैषजस्य इति वा संस्कृतः टि.। j) = [भेषज-प्रतिपादक-] मन्त्र- वा रत्नाह्वण- वेति भाष्यम्। k) पाभे. वैप १, २३३१ II द्र.। l) पाभे. वैप १, २३३२ i द्र.। m) = सुख-। n) = उदक-।

भेषजी- पा ४, १,
३०.

१भेषज^१- ज्ञे आ ७०,

१२, १.

१भेषज्य^२- पा ५, ८, २३;

-ज्यः आ ३२, १, २४^०; -ज्यम्

कौस् २५, २; अप १, १०, ८;

३३, १, ९^०; ६, २^०; वृदे ८,

६४; अत्र ७, ४५; आज्यो १०,

३; -ज्यानाम् कौस् ३२, २६;

-ज्यानि कौस् २५, १; या १०,

७; ३५; -ज्याय वैताश्रौ ३८,

१; -ज्येन^३ आपश्रौ १९, ९,

१३; हिश्रौ २३, १, ५०; ऋश्र

२, ४०७.

भेषज्य-नाण- णस्य

अश्रभू १.

भेषज्या(ज्य-अ)मि-

चार- रयोः काश्रौ १५, ७, ३४.

भेषज्या(ज्य-आ)युस्-

धन्वन्तरि-देवत- -त्म् अश्र २,

३.

भेषज्या(ज्य-आ)युस्-

वनस्पति-देवता-> ण्य-

-स्यम् अश्र २, ७.

भेषज्या(ज्य-आ)

युष्य- -स्यम् अश्र ८, ७.

भेषज्या(ज्य-आ)

युस- युः अश्रभू १; अश्र ६,

१०९.

भेषज्या(ज्य-अ)र्थ-

-थे बौध २, १, २५.

भेषज-करण- णम् बौध २,
१, ४४.

भेषज वनस्पति- -तिम्

आसिष्ट १, ६, ३ : ३.

भेषजा(ज-अ)र्थ- -र्थम् वाध

२३, ९; वृदे ७, ९१.

भेष(ज>)जा-वत्- -वान

ऋप्रा ९, १११.

भिषक्-कर्मन्- -र्म अश्र १, १०, ८.

भिषक्-काम^४- -मः अश्र १, ४५, ३.

भिषक्-क्रिया- -यायाम् सुधप

८३ : २.

भिषक्-तम- -मः काश्रौसं ३६ :

१२.

भिषग्-व(त् >)ती- -तीभिः

आपश्रौ १६, ११, ११; वाश्रौ २,

१, २, ३२, वैश्रौ १८, १० : ३.

✓भिषज्य पा ३, १, २७; भिष-

ज्यन्ति शाश्रौ १६, १३, ३;

भिषज्यथः ऋप्रा ४, ९३१;

भिषज्यतु आपश्रौ १४, २०, ७१;

भिषज्यत आपश्रौ १४, २०, ७१;

वाधुश्रौ ४, ७९ : ३; अभिषज्यन्

वाधुश्रौ ४, ७९ : ४; १०३ : २;

आसिष्ट ३, ७, ३ : १९; बौपि २,

२, १.

रभिषज्^१ [L, J]^६- पाग ४, १, १०५;

२, १११; -षक् ऋश्र २, १०,

९७; शुश्र २, १२७; -षजः

चाश्र १६ : १८.

रभेषज्य- पा ४, १, १०५.

रभेषज- पा ४, २, १११.

१भिषज्^२- पाग ३, १, २७.

✓भिषज्^३ अभीष्णात् आपश्रौ

१९, २, १९१^१.

✓भिषज्य पा ३, १, २७.

रभिषज्^४ (> भैःगज्य- L > ञ-

पा.) पाग ४, १, १०५; २, १११.

✓भी^५ पाधा.जु. पर.भये, भयन्ते ऋप्रा

७, ४५१; भयामसि^६ हिष्ट १,

१६, १७१; ऋभयामहे आश्रौ

७, ४, ४; शाश्रौ.

बिभेति वाधुश्रौ २, ८ : २; सु

१६, ५; वाध २७, ६; या १४,

२६; बिभीतः माष्ट १, २, १३;

दंवि १, ४१; बिभ्यति वाधुश्रौ

३, १९ : १७; या १, २०; १०,

११; बिभेषि सु १४, ४; बिभेमि

वाधुश्रौ ३, ९ : १; ५; ९; १४;

आष्ट ३, ११, ११; ऋबिभीत^१

आश्रौ २, ५, १७; काश्रौ ४,

१२, २१; आपश्रौ ६, २७, ३;

वैश्रौ २, १० : १८; हिश्रौ ६,

७, ८; दाश्रौ ७, ३, १; लाश्रौ

३, ३, १; कौष्ट ३, ४, ५;

शांष्ट ३, ७, २; भाष्ट १, २७ : २;

हिष्ट १, २९, १; बिभीतन हिश्रौ

६, ७, ८^१; भाष्ट; बिभेतन काष्ट

२७, ३^१; बिभ्यत कौष्ट ३, ४,

५^२१^३; ऋबिभेत् बौश्रौ २, १७ :

९; भासि १०३; अविभीताम्

या १०, १०; अविभयुः वाधुश्रौ

४, ४८ : ५; बिभीयात् आपश्रौ

३, १५, ७; १८, ९, १४; बौश्रौ;

a) स्वार्थे षण् प्र. । b) वैप १ द्र. । c) = गण-विशेष- । d) पाभे. वैप १, २३३३ ० द्र. ।
e) पूष. = भेषज- । f) पाका. पाठः । g) = ऋषि-विशेष- । h) क्विबन्तः नाधा. द्र. । i) पाभे. वैप १,
२३३४ f द्र. । j) ऋप्रा १४, ४४ पा १, ३, ६८; ४, २५; ३, १, २९; ६, १, ५६; १९२; ४, ११५, ७, ३, ४० परामृष्टः द्र. ।
k) पाठः ? भजामसि इति संस्कृतुः टि. (तु. Böht [ZDMG ५२, ८४])। सप्र. बौष्ट ४, २, ११ भाष्ट २, ३१ : १३
दिशाम्यहम् इति पाभे. । l) पाभे. वैप १, २३३४ h द्र. । m) सकृत् पाभे. वैप १ वेपध्वम् मा ३, ४१ टि. द्र.
अन्यत्र पाठः ? मा ३, ४१ बिभ्रतः इति पाभे. ।

या ३, १६†; विभीथाः शांणु
३,८,५†.
‡विभय आश्रौ २, १३, ७; या
१०, ११†; १४, २६; विभ्यतुः या
८, १५†; विभय>या ऋप्रा ७,
३३†; †मैषोः^१ आपमं २, १६,
१४; गोणु ४, ९, १५; द्राणु ४,
४, १; †मैः^२ माश्रौ १, ३, २,
१२; २, ३, ३, ८; †मैः^३ काश्रौ २,
५, २४; ९, ४, १३; आपश्रौ
२, १८, ९; १२, १०, २; बौश्रौ १,
५ : ३; १२; १६ : १२; भाश्रौ
२, १७, ९; वैश्रौ ६, ८ : २;
१५, ११ : १७; हिश्रौ २, २, २१;
८, ३, ८; शुभ १, ४२९; अमैषम
ऋप्रा १४, ४४†; †मैम शांश्रौ
१२, ३, २२; साश्र २, १५†.
‡विभः^४ माणु १, २, १३†.
विभयां√कृ, विभयांचकार
वायूश्रौ ४, ३७ : ३.
विभीवस->विभ्युषी- षी या
११, ४७.
विभ्यत्- भ्यत् माश्रौ ५, २, ७,
१; माणु २, १६, १; वृदे ४, ८९;
-‡भ्यतः आपमं २, २२, १२;
माणु २, ३० : ११; हिणु १, १६,
५; -‡भ्यन्तः आपध २, १३, ६;
बौध २, २, ३५; हिध २, ३, ६.
‡भय^५- पावा ३, ३, ५६; -यः^६
अप ७०^३, ११, २३; -यम्
‡आश्रौ ४, ४, २; ६, ४,
१०; शाश्रौ; अप १९, १, ८†;
या ६, १२; ९, १९; १०, २१; २४;
-यात् ‡शाश्रौ २, १४, २-४; १५,

२; ४; ५; आपु; -यानाम् या
४, २१; -यानि वायूश्रौ २, ८ :
१; अप ७०^३, ११, ८; १८; २०;
-वाय कौसू ५६, १३†; अप;
-ये आपश्रौ १४, ३२, ५; हिश्रौ
१५, ८, ३१; माणु ३, १४ :
२१†; कौसू; गौध २३, २०†^६;
-येन अप ५१, १, ५; पा २, १,
३७; -येभ्यः कौणु ४, १, ४;
विध ५०, २०; -यैः अप ४,
६, २; ६९, ७, १.
भय-कर- रम् अर ६४, ७, ७.
भय-कारुण्य-हान^७- नम् वाध
१९ २.
भय-कृत्- कृत् अप ७१, १७, ९.
भय-कर- पा ३, २, ४३; -रः
या ६, २५.
भय-द्^८- दः या ६, ३२.
भय-पीडित- ताः अप ५५,
३, २.
भय-प्रतीक^९- काः या १०, २१.
भय-भीत- तेन अप ४, १,
२२; ६८, ५, १८.
भय-वित्र(स्त)>स्ता- स्ताः
सु ४, २.
भय-वेपन- नयोः या ३, २१.
भय-हेतु- तुः पा १, ४, २५.
रभ(य>)या- या सु २४, २;
-याम् सु २४, ३.
भया(य-आ)गम- मः अप
५८^३, ४, १६.
भया(य-आ)ब्ध्या(ब्ध-आ)दि-
ग्रहण- गम् पावा १, १, ७२.
भया(य-आ)तु(र>)ता- ताः

सु ४, ३.
भया(य-अ)न्वित- ताः अप
७०^३, १५, ३.
भया(य-अ)भय- -यम् अप
५०, १, २.
भया(य-अ)र्त्त, र्त्ता- र्तः कौणु
४, १, १; -र्त्तस्य अशां १७, ५;
-र्त्तं सु २, २; काणु ५६, १;
माणु २, १७, १.
भया(य-अ)वह, हा- हः अप
२९, २, ४; -हम् अप ६४, ९, ६;
७१, १६, ५; -हा अप ५८^३,
३, ५; -हाः अप ९, ४, १; -हान्
अप ७०^३, ७, ३.
भये(य-ए)बक^{१०}- कः आपश्रौ
१५, १९, ४; बौश्रौ ९, १८ : १३;
भाश्रौ ११, १९, १३; हिणु १,
१७, १.
भयो(य-उ)द्विधा- म्ना वृदे ८,
३५.
भयमान- नः या ६, २†.
भयानक- पाउ ३, ८२; पाग ३,
४, ७४.
भय्य- पा ६, १, ८३.
भय्या(य-आ)दि-प्रकरण- गे
पावा ६, १, ८२.
भी^{११}- भियः या ५, २८; भीः आपश्रौ
१७, १४, ४; वैश्रौ; या ९, ३०†.
१भीत, ता- तः आपश्रौ १३,
७, ४; माश्रौ ३, ५, ९-१२;
हिश्रौ; या ४, २; १०, ११;
-तम् याशि १, २ ८; नाशि १,
३, ११; -ता माश्रौ ३, २, १†;
अप्राय २, ४†; शैशि १६५;

a) पाभे. वैप १, २३३४ i द्र.। b) पाभे. वैप १, २३३४ l द्र.। c) पाठः ? विभेः इति शोषः
(तु. संस्कृतुः टि.)। d) वैप १ द्र.। e) अर्धवादिस्वं द्र.। f) उत्तरेण संघिरार्षः। g) अभये इति पाठः ?
(तु. साध्यम्)। h) द्वस.>षत। i) उप. <√दा [दाने]। j) बस.। k) नाप. ([जाङ्गल-] मेष-)।
मल्ले. कस. पररूपम् (पावा ६, १, ९३)।

पाशि; -ता: सु २४, १; नाशि
२, ८, २३.

भीत-मत्तो(त-उ)नमत्त-प्रमत्त-
विमंताह-स्त्री-वाल-वृद्ध-ब्राह्मण-
-णः बौध १, १०, ११.

भीता (त-अ) वशीत-रुदिता (त-
आ)कनिद्रता(त-अ)वद्युष्ट-भुधित-
परिसुक-विस्मिन्तो (त-उ) नमत्ता
(त-अ) वधूत-राजपुरोहिता (त-
अ) अ-न्नानि शंघ २२९.

भीम, मा^० - पाठ १, १४८; पा^०, पाग
५, ३, १००^०; पाग ३, ४, ७४;
-०म विध १, ५१; -फमः
आश्रौ २, १०, १४; ६, ३, १; शाश्रौ
३, १, ३; १५, २५, १; आपश्रौ;
या १, २०^०××; -फमम्
आमिष्ट २, ६, ३; १६; बौध २,
५, २०; -फमस्य आमिष्ट २,
५, ८; २४; २९; ६, ३; २०;
२३; बौध; -फमा वाश्रौ २,
१, ८, १; अत्र १२, ५(३); -माः
पाग २, १७, १६^०; -मालाम्
विध ४३, ३७; -फमाय आपमं
२, १८, २०; आग.

भीम-पराक्रम^० - मे आज्यो ३,
५; -मौ बृदे ४, ६७.

भीम-बल^० - लः सु २७, १.

भीम-रूप^० - पा: अप ५२, १३,
१.

भीम-से(ता>)न^० - नम् शाश्रौ
१६, ९, ३.

भैमसेनि^० - ने: चात्र
७: २.

भीमसेना(त-अ)र्जुन^० - पाग
२, २, ३१.

भीमा(म-अ)र्जुन^० - पाग २, ४,
१४.

भीरु- पा ३, २, १७४; -रुः माग
२, १४, २९^०; -रुवः वैग १, १८:
११^०; -रुणाम् विध ९, २९.

भैरव^० - न्वम् अप ७०^०, ६, ४

भीरु-ता- -ता बौश्रौ २, ५, ८^०.

भीरु-छान- पा ८, ३, ८१; पाग
८, ३, ९८^०.

भीरुक- पाठ २, ३९; पावा ३, २,
१७४.

भीषण- -णः अप ७०^०, ३, ३; -णाः
अप ५३, १, ४; -णाय अप ३६,
९, १५^०.

भीषयमाण- -णः सु २३, २.

भीष्म- पाठ १, १४८; पाग ३, ४,
७४; -ष्मः या १, २०.

भीष्म-द्रोण^० - पाग २, २, ३१^०.

फभीस्^० - भीषा आश्रौ ३, ११, १;
शाश्रौ. ३, २०, २; १३, २, २-६;
आपश्रौ.

रभीत^० - (> भैरायनि- पा.) पाग
४, १, १५४.

फभुक्, ग^० आश्रौ ८, ३, २२; शाश्रौ १२,
२३, २; वैताश्रौ ३२, २३; वृदे
१, ५५.

भुग्न- ✓भुजू (कौटिल्ये) द्र.

✓भुजू(बधा.) पाधा. रुधा. उभ. पालना-
भ्यवहारयोः, भोजते निघ २,
१२^०.

भुजे(म>)मा ऋषा ८, २८^०.

मुञ्क्ते काठश्रौ १३०; १५०;

१४२; अमिष्ट; फभुनक्ति वाध

२, ११; बौध २, ३, १८; या २,

४; भुञ्जते आपश्रौ ५, २०, ३;

६, १२, ३^०; बौश्रौ; मुञ्जन्ति

विध ८१, २०; फभुनक्तु आपश्रौ

१, १४, १२; भाश्रौ १, ११,

१; वैग १, १४: २; फभुञ्जताम्

आमिष्ट ३, ११, १: १४; वैग

५, १३: २२; फभुङ्क्ष्व आमिष्ट

३, ११, २: १४; ३: १८;

वैग ७, ७: ४; मुञ्जति आपश्रौ

१५, २०, १३; १४; काठश्रौ;

मुञ्जीयाताम् कौग १, १०,

१४^०; गोय १, ५, २७; ६, ४;

द्राग; मुञ्जीरन् आपश्रौ १०, १५,

१६; भाश्रौ १०, ९, ६; वैश्रौ.

भोक्ष्यते वाध १४, ९; भोक्ष्यामि

कौग ३, १२, १६.

फभुक्षिणीय आपश्रौ १०, १, ४;

१३, १६, ८^०; बौश्रौ; हिश्रौ १०,

५, १२^०; असुक्ष्महि पावा ३, २,

१११.

भुज्यते फआमिष्ट ३, ११, १:

१४; २: १४; आश्र २, ४, २३;

१८, ९^०; बौध.

भोक्ष्यताम् वैग ७, ८: २.

भोजयति हिश्रौ २, ७, ६३; ३, ८,

८६^०××; वैग; भोजयन्ति काग

५२, ८; गोय २, १०, ६; भोजय

पावा २, ४, ३२; भोजयत बौग

१, २, ५८; माग २, २५: २; हिग

१, १३, १५; भोजयेत् आश्रौ ३,

a) वैप १ द्र. । b) <भीम-क- । c) =कुन्तीपुत्र- (तु. पागम.) । d) बस. । e) व्यप. ।
बस. । f) तु. पागम. । g) पासे. वैप १, २३३६ I द्र. । h) भोवे अण् प्र. उसं. (पा ५, १, १३०) ।
i) व्यप. । j) धा. क्रोधे वृत्तिः । k) सह मुञ्जीयाताम् इति पाठस्य स्थाने सप्र. शांय १, १७, १ संपिबेयाताम्
इति पासे. । l) पासे. वैप १, २३१७ i द्र. । m) सप्र. हिघ २, ५, ६१ भोज्यते इति पासे. । n) पाठः ३
=मुष्पम् इति C. ।

१४, १; काश्रौ ४, ६, ११; २३;
४, २३; आपश्रौ; भोजयेयुः हिध
२, १, ७३^a.
भोज्यते हिध २, ५, ६१^b.
बुभुक्षमाण- -गः दाश्रौ १, ५, ५, १;
गौध २४, ३.
बुभुक्षा- पाग ४, ४, ६२; ५, २, ३६.
बौभुक्ष- पा ४, ४, ६२.
बुभुक्षा-पिपासा-गर्ध- -वेषु पा
७, ४, ३४.
बुभुक्षा-मार^c- -रम् अप ७२,
४, ५.
बुभुक्षित- पा ५, २, ३६; -तः
सु १८, १; -ताय या ७, १३.
भुक्, क्त- -क्तम् आमिष्ट १, ७, ३;
२, २, ६, २; ६र्; ३, १२, १; ५;
वैयु; वैध १, ७, ६^d; हिध १, ३,
५२^e; पा ५, २, ८५; -क्ता विध
५, १८७; -क्ताः वाध २८, ५; या
१४, ६र्; -क्ते माश्रौ १, १, १,
११; वैयु ६, ५; २; १९; ७;
विध ५९, १८; -क्तेन वाध ६,
२९; -क्तेः अप ७०^f, ७, १.
भुक्त-भोरा^g- -गम् आमिष्ट ३,
८, १; ७; बौपि १, १४; ७;
-भेन आमिष्ट ३, ८, २; ४८;
बौपि १, १५; ५५; हिपि १५;
२३; २५.
भुक्त-यज्ञ- -जः बौश्रौ २८, ११;
१४.
भुक्त-विभुक्त- पावा २, १, ६०.
भुक्ता(क्त-आ)धि^h- -धिः गौध
१२, २९.

भुक्ता(क्त-अ)भुभुक्त-दशवर्षⁱ-
-र्षम् वाध १६, १७.
भुक्तवत्- -वतः आमिष्ट २, ३, ३;
२३; ३, १, २; २२; आपयु;
-वताम् विध ८१, २१; -वति
विध ९६, ६; -वत्सु आग ४, ७,
२८; कौगृ ३, १४, ५; शांय ४, १,
९; बौयु; विध २१, ४×४; -वद्भयः
आमिष्ट २, ४, ५; २६; बौयु १,
२, ६१; आपध २, १८, १०; बौध;
-वन्तम् आश्रौ ८, १४, ६; वैयु
२, ५; १०; -वान् सु १५, ५;
बौयु १, १, २४; वाध ४, ३१;
३२.
भुक्तवती- -तीम् बौयु १, १,
२४.
भुक्ति- -क्तिः हिश्रौ १६, ७, १८^j;
वाध १६, १०; विध ५, १८४;
-र्क्तिम्^k आपश्रौ १०, १, ४;
बौश्रौ; -क्त्या विध ५, १८६.
भुक्ति-दिन- -नेषु वेज्यो २६.
भुक्त्या(क्ति-आ)चार- -रेण विध
५, १८६.
भुक्त्वा काश्रौ २५, ८, १५; आपश्रौ.
भुक्त्वा-सुहित- पाग २, १, ७२.
र्क्तिभुज्^k- भुजः आश्रौ ७, ४, ३;
शाश्रौ; ङ्वाध ११, ३७; १२, २३;
भुजम् आपश्रौ १२, ७, १०; २१,
२२, ६; हिश्रौ ८, २, ९; १६, ७,
१८; भुजे आपश्रौ १६, ६, ६;
माश्रौ ६, १, २, २५; वाश्रौ.
भुजि- पाठ ४, १४२.
भुजिग्य- पाठ ४, १७९.

भौजिग्य^l- -व्यम् सु १९, १.
भुज्यमान- -नः बौध २, ७, २०.
भुज्यु^k- पाठ ३, २१; -र्क्तिभुज्यु^m
आमिष्ट १, ५, २; ४३; वैयु १,
१८; ४; -ज्युम् वृदे ७,
१०६ⁿ.
भुज्यवा(ज्यु-आ)दि- -दीनाम्
पावा ७, १, १.
भुजन्- -जन्तः जैयु २, १; ३१;
अप ४२, २, ७; -जन् वाश्रौ
१८, २०, ८.
र्क्तिभुजती- -ती दाश्रौ ४, ३, २१;
लाश्रौ २, ७, १९; कौसू ६२, २१.
भुजान, ना- -नः वैश्रौ १, १६; ३;
आमिष्ट; -नम् शंघ २५४;
आपध १, १६, ३३; हिध १, ५,
३३; -ना वाध १७, ५५; २१,
६; -नाः आपध २, १७, २१;
२२; हिध २, ५, ४९; -नान्
आमिष्ट ३, ३, २; २०^o; ११, ३;
१९; काग; -ने आमिष्ट ३, ११,
२; १४; या ९, ३६; -नेषु कौयु
३, १४, ४; शांय ४, १, ८;
आपध १, १७, ३; हिध १, ५,
३५; -नौ आमिष्ट १, ६, ३;
४४.
भोक्तव्य, व्या- -व्यम् आपश्रौ ५,
२५, १५; आमिष्ट २, ६, ७; १६;
वाध १४, १७; शंघ; -व्या
आपध १, १९, ७; हिध १, ५,
१०९.
भोक्तुम् अप २०, ७, ११; आज्यो
५, १२.

a) सपा. आपध २, ४, २० पूजयेयुः इति पाभे. । b) पाभे. पृ १८५९ m द्र. । c) विप. (जानपद-) ।
बस. उप = पररा- । d) पृ १६०९ m द्र. । e) पाठः ? भुक्तम् इति शोधः (तु. आपध १, १०, २५ शूक्तम्
इति पाभे.) । f) बस. । g) कस. उप. = निक्षेप- । h) उभयत्र सुसुपीयः समासः (तु. मनुः ८, १४८) ।
i) पाठः ? भुक्तिम् इति शोधः । j) पाभे. वैष २, ३ खं. भुक्तिम् तां १, १ टि. द्र. । k) वैष १ द्र. ।
l) = दास्य- । व्यञ् प्र. । m) वैष १, २३३८० द्र. । n) व्यप. ।

भोक्तृ- क्ता बौध २, ११, ६६;
 कप्र २, ३, ६; वाध; -क्तुः गौपि
 २, ४, २; शंघ २२७; गौध १२,
 ३४.
 भोक्ष्यत्- -क्ष्यन् वैद्य ६, १७: ८;
 १८: ४.
 भोक्ष्यमाण- -णः आपध १, १६,
 ९; हिध १, ५, ८; -णाः शांश्रौ
 १८, २४, १४.
 भोग- पाग ६, १, १५६; -गः
 शांश्रौ १८, २०, ८; वाधूश्रौ;
 -गम् आगृ ४, ८, २६१; अप १,
 ४४, ८; ६८, १, ५४; या ६, ८१;
 -गः शांश्रौ १५, १७, ११; या
 ४, १९; ५, ५; ८, ५; -गात्
 द्राश्रौ ५, ४, २५; लाश्रौ २, ८,
 २५; -गान् आपध १, २८, ७;
 ऋप; -गाय शांश्रौ १८, २०, ८;
 आश्रौ; -गेन विध ५, १८५;
 -गैः या १०, २१.
 भोग-काम- -मः गोगृ ४, ५, २८;
 द्रागृ ४, १, १३.
 भोग-प्रत्यय- -ययोः पा ८, २,
 ५८.
 भोग-लाभ- -भेन लाश्रौ ८, ६,
 १.
 भोग-वर्धन^b- -नम् अप १, ४३,
 ९; ४५, ७.
 भोगो(ग-उ)त्तरपद- -दात् पा
 ५, १, ९.
 भोग्य^a- -न्यः अश्र १०, ११;
 -न्यम् वाधूश्रौ ४, २९: १४;
 ५९^c: ४; -न्याय वाश्रौ २, १,
 १, ५२^f.
 भोज^g- -जस्य वृदे १, ४८; ६,
 ४२; या ७, ३^f; -जाः वृदे

४, ९८; ८, २३.
 भोजक- -कः विध ५, ११५.
 भोजन^a- -नम् आपश्रौ ६, २२, ११;
 १०, ६, १०; हिश्रौ; हिध १,
 ७, १४^f; निघ २, १०^f; -नस्य
 कप्र ३, १०, १०; मीसू ९, १, ६;
 -नात् गौध १६, ४३; -नानि
 वौश्रौ २८, २: ४५^f; वौद्य १, ३,
 ३; या ४, ५^f; ऋया ७, २७^f;
 -नाय सु १३, ४; वौद्य २, ११,
 ६४; -ने आश्रौ २२, ६, १७;
 हिश्रौ; पा ८, ३, ६९; -नेउ-ने
 वाग्निगृ २, ६, ७: ३४; -नेषु
 वौश्रौ २८, १३: ४; वौद्य १,
 ११, २७; -नैः विध ५१, ७७.
 भोजन-तन्निवृत्ति- -स्योः पावा
 ३, १, २१^e.
 भोजन-भक्षण- -णे काश्रौ ८, ४,
 २३.
 भोजन-वत् मीसू १०, ५, ५५.
 भोजन-विलम्बिन्- -न्वी माशि
 १५, ८; याशि २, १०२; नाशि
 २, ८, २४.
 भोजन-संवेदान- -ने द्राश्रौ ७,
 ३, ९; लाश्रौ ३, ३, ११.
 भोजन-समय- -ये विध ७१,
 २५.
 भोजन-स्थान- -नेषु बौपि २,
 ९, ११; भागृ ३, १६: ३.
 भोजन-हविष्- -वीषि कौसू
 ५२, १६; ५८, २४.
 भोजना(न-अ)चमन- -नयोः
 बौध २, ३, ५९.
 भोजना(न-अ)च्छादन- -ने जैद्य
 १, १७: ४.
 भोजनाच्छादन-तत्पर- -रस्य

वाध १०, २०.
 भोजना(न-अ)नायिन्- -यिनः
 विध ५, १५.
 भोजना(न-अ)दि- -दिषु पावा
 ५, १, १९; -दौ वाध ६, ३४.
 भोजना(न-अ)ध्ययने(न-ई)
 षु- -षुः विध २२, ७५.
 भोजना(न-अ)न्त- -न्ते आग्निगृ
 २, ४, ५: २५; शंघ १४७.
 भोजना(न-अ)भयञ्जन- -नात्
 वाध २, ३०; वौद्य २, १, ५२.
 भोजना(न-अ)र्थ-त्व- -त्वात्
 मीसू ९, ४, ३०.
 भोजनीय, या- -न्यम् हिध २, ५,
 ७५; -न्याः आपश्रौ ९, ३, १२;
 भाश्रौ ९, ५, २; हिश्रौ १५, १,
 ६०; वाध २, ११; या २, ४.
 भोजनीय-मृत^f- -ने वाश्रौ
 २३, ४, २२.
 भोजयितव्य- -व्यः आपध २, १७,
 ५; हिध २, ५, ३४.
 भोजयित्वा काश्रौ २५, ८, १; लाश्रौ.
 भोज्य, ज्या^a- -ज्यम् वैश्रौ ११, ११:
 १२; आग्निगृ २, ३, २: १७; कप्र
 २, ३, ६; शंघ १८३; ४६०;
 वौद्य १, ५, ५५; वैध २, १५,
 २; पा ७, ३, ६९; -ज्यस्य
 अप्राय ३, १०; -ज्याः शंघ २८;
 १२०; -ज्यानि अप ७०^c, १६,
 ५; -ज्याम् वाध १४, १६;
 आपध १, १९, १३; हिध १, ५,
 ११५; -ज्ये आपध २, ५, ५.
 भोज्या(ज्य-अ)ज्ञ, ज्ञा^b- -ज्ञाः
 विध ५७, १६; तुघप ८४: ३;
 गौध १७, ६.
 भोज्यान्न-ता- -ता बौद्य २

a) वैष १ द्र. । b) उप. कर्तरि कृत् । c) पामे, पृ २२ ० द्र. । d) = धन- । e) तु. पाशि. ।
 भोजने, तन्निवृत्तौ इति प्राक् । f) = अजीर्ण-मृत- इति कर्कविधाधरौ । g) वस. ।

१, २१.
 भोज्या(ज्य-ञ)भोज्य- -ज्यम्
 वाच १४, १.
 √मुञ् पाधा. तुदा. पर. कौटिल्ये.
 मुञ्^१- -मम् ऋप्रा २, ३१.
 मुञ्^२- पा ७, २, ६१; -जौ वैष्ट १,
 २: ११; २०.
 मुञ्ज-ना- -गम् शंघ ४२६.
 मुञ्जो(ग-इ)न्द्र-राजी- -जो
 सु २८, १.
 मुञ्ज-ना- -जौ: विघ ४३, ३४.
 मुञ्जंगा(ग-आ)भोग-वेष्टित-
 -ता: विघ ४३, ४३.
 रभोग- -गा: वाधूश्रौ ४, ६४^२:
 ३; ५; -गात् सु ८, ३; -नौ:
 आपश्रौ २०, १६, १२; वाधूश्रौ
 ४, ६४^२: २; हिश्रौ १४, ३, ३७;
 आगृ ३, १२, ११; कागृ ४९, १;
 या ९, १५.
 भोग-वत्- -वन्त: सु ९, १.
 भुजि- प्रसृ. √मुञ् द्र.
 भुजायन्^१- -ना: बौश्रौप्र ४: ३.
 √मुण्ड^२ पाधा. भ्वा. आत्म. भरयो.
 √मुर् (वधा.) > मुरण- पाठभो
 २, २, १२६; पाग ३, १, २७.
 √मुरण्य पा ३, १, २७;
 मुरण्यति निघ २, १४^१.
 †मुरण्यत्- -ण्यन्तम् या
 १२, २२^१; २३-२५.
 †मुरण्यु^२- -ण्यु: अप ४८,
 १०६; निघ २, १५; या १२, २२^१; २३;
 -ण्युम् बौश्रौ १०, ३४: ९.

भूर्णि^१- पाठ ४, ५२; -†र्णिण्यः
 आपश्रौ १६, १८, ७; वैश्रौ १८,
 १६: ४; हिश्रौ ११, ६, २९;
 अप्रा ३, ४, १; -†र्णिम आपश्रौ
 ५, १०, ४; माश्रौ १, ५, २, १४;
 वाश्रौ १, ४, २, ५; हिश्रौ ३, २,
 ३६; या ६, २४.
 भुरिञ्(वप्रा.)^१ - पाठ २, ७२; -रिक्
 शाश्रौ ७, २७, २८^१; अश्र^१ १,
 ३, १५; १७××; ऋप्रा^१ १६,
 १८; २०××; उनिस्^१ २: ४;
 ४: २२; -रिज: निस् १, ६:
 ३××; वृदे ८, १०७^१; अश्र^१ २,
 २४; ३, २१××; -रिजो: शाश्रौ
 १२, १५, ११^१; -रिजौ अप ४८,
 ८१^१; अश्र^१ २, २४; ३५××;
 निघ २, ४^१.
 भुरिक्-त्रिष्टुभ्- -ष्टुभ: अश्र १०,
 ३; १४, २.
 भुरिक्-साझय(ञी-अ)नुष्टुभ्-
 -ष्टुभौ अश्र १२, ५(५).
 भुरिक्-स्वराज्- -राजौ उनिस् ५:
 २३.
 भुरिग्-अतिधृति- -तय: अश्र १३,
 ३.
 भुरिग्-जगती- -त्यौ अश्र ५, २४.
 भुरिग्-बृहती- -त्य: अश्र १९, १९.
 भुरिग्-विष(म>)सा- -मा: अश्र
 २, १९.
 भुलिङ्ग- पाठभो २, २, ६४.
 भुव- √भू द्र.
 भुवंग^१- -गयो: वैष्ट ३, ७: १९; -गात्

वैष्ट ३, १६: १०; १३.
 भुवत्-; भुवन- √भू द्र.
 भुवनु- पाठभो २, १, ७९.
 भुवन्यु- पाठ ३, ५१.
 भौवन्यव^१- -वम् आपश्रौ २०, ६,
 ७; हिश्रौ १४, २, १५; १८; -वे
 हिश्रौ १४, २, १६.
 भुवस्, भुविस- √भू द्र.
 √भू(वधा.)^१ पाधा. भ्वा. पर. सत्ता-
 याम्, चुरा. आत्म. प्राप्ति, भवते
 अप ५१, ५, १; २; नाशि २, ५,
 ७; भवति आश्रौ २, १७, ५; ९,
 ८, ३^१; शाश्रौ; वैश्रौ १८, १६:
 ४१^१; हिष्ट १, १६, ११^१; बौध
 ३, ८, १०^१; या १४, २९^१; पावा
 १, १, ४४; २, १; भवत: आश्रौ
 ८, ६, १०; शाश्रौ; आपमं
 १, ६, ८^१; भवन्ति आश्रौ
 १, ५, २; शाश्रौ; आशिष्ट ३,
 ५, ८: ११^१; ६, ४: ८^१;
 वैध १, ९, १४^१; या ७, २३;
 पावा ३, २, १२३; ५, १, ११९;
 †भवसि आश्रौ १०, ९, २;
 शाश्रौ १६, ६, १; आपश्रौ ९,
 ८, ६; बौश्रौ; भवय: या ३,
 १५; †भवय आपश्रौ १०,
 १७, ११^१; बौश्रौ; आशिष्ट
 ३, ७, १: २२^१; या ११, १६;
 †भवामि बौश्रौ ४, ११:
 १०; माश्रौ; भवाम: आपश्रौ
 ५, १, ७^१; †भवति आपश्रौ
 २, २०, ६; आपमं २, ११, २९;

a) = संधि-विशेष-। b) = बाहु-। घा. कथं: ?। c) वैष १ द्र.। d) = ऋषि-विशेष-। e) तु.
 BPG.। f) घा. गतौ कृति:। g) विशेष: टि. द्र.। h) = छन्दस्-। i) वैष १, २३४० f द्र.। j) = बाहु-।
 k) = देहली- इति भाष्यम्। l) = आख्यान-। तस्येदनीय: अण् प्र.। m) पा ३, २, १७९; ५, ४, ५०; ७, ४, ७३;
 ८, ४, ३४ पावा ३, १, १२; ४० परामृष्ट: द्र.। n) पाभे. वैष १, २३४० k द्र.। o) पाठ: ? भवन्ति इति शोध:
 (तु. पृ ७७० d)। p) पृ १७९८ j द्र.। q) पाभे. वैष १, २३४० l द्र.। r) पाठ: ? भवति इति शोध:
 (तु. बौषि १, ७: १३; १३: ८)। s) आद्विच्यन्ते इति सूको.। t) पाभे. वैष १, २३४० a द्र.।

बौपि १,८ : ५; ऋभवालि आश्रौ
 ४, १०, ५; आपश्रौ; या ९,
 ४; भवताम् आपमं २, १९, १४^a;
 १६^b; आगृ २, ६, ७; आमिगृ
 २, १, ५ : ६^b; ३, १, ३ : २४;
 २८; ३२; मागृ २, १२ : १२;
 १७; १३ : ४; हिगृ २, १३,
 १^c; ऋभवतु माश्रौ ६, १, ५, २२;
 हिश्रौ; ऋभवताम् आश्रौ ८, १४,
 १८; ऋभवन्तु आश्रौ २, १६, १४;
 शाश्रौ; आपश्रौ ४, १५, ४^d; ७,
 १६, ७^d; भाश्रौ ४, २१, २^d;
 वैताश्रौ १४, १^e; मागृ २, १,
 १३^f; हिगृ २, ५, ३^d; ऋभव, >
 वा आश्रौ १, ४, ८; २, ९, १०^g;
 १२, २^h; ५, ६, २६^h; ८, १४,
 १८^h; शाश्रौ ३, ५, ९ⁱ; ४, ८,
 १^k x x; काश्रौ; आपश्रौ ८, १२,
 ४^l; लाश्रौ ५, ३, २ⁱ; वैताश्रौ
 १९, १८^h; आपमं १, १,
 ४^g; ३, १४^{2m}; ५, १^q; ६, ६^{3o};
 २, २, २ⁿ; ७^p; १५, १८^g; आगृ
 १, ७, ७ⁿ; १९^{2m}; २, ३, ६^q;
 शागृ १, ७, ९^g; १३, १^o; १२ⁿ;

१४, ६^m; २, १३, ५^l; ३, ४, २^g;
 ८, ३^g; पागृ १, ४, १६^g; ७,
 १ⁿ; मागृ १, १०, ६^g; २२,
 १२ⁿ; हिगृ १, ४, १ⁿ; १६,
 १८^g; २४, ५^r; २५, १^{2s}; कौसू
 ६८, ३१^t; ७६, २४^m; ऋभवतम्
 आश्रौ ४, १२, २^w; शाश्रौ; मागृ
 १, १०, १६ⁿ; ऋभवत्, > ता
 आपश्रौ २, २०, ६^v; बौश्रौ २,
 ९ : १५; भाश्रौ २, १९, १^v;
 हिश्रौ २, ५, ४७^v; द्राश्रौ;
 या ८, १०^w; भवानि सु १४,
 ३; कौगृ २, २, ६^x; ७,
 १०; वौगृ १, ८, ३; हिगृ १,
 ५, २^x; भवाम^y आपमं २, ५,
 १७; मागृ १, ९ : १७; हिगृ १,
 ७, १०; ऋभवत् शाश्रौ ८, २०,
 १; आपश्रौ; अभवताम् वौश्रौ
 १८, ३५; ३, ५० : ३१; अभवत्
 शाश्रौ १४, ३२, १; वौश्रौ; आमिगृ
 ३, ८, ३ : ६^z; बौपि १, १५ : ७७;
 अभवः शाश्रौ १, १५, १२; बौश्रौ;
 या ४, १४; ऋप्रा २, ४२; ऋत
 ३, २, ८; अभवम् आपमं १, १६,

४^{3a}; भवेत् आश्रौ १, १०, ९;
 बौश्रौ; भवेयाताम् कपट, ४, ३, ३,
 ९, ७; भवेताम् वंश्रौ ११, ८ : १०;
 भवेतुः आश्रौ १०, ५, १; वंश्रौ
 १५, ३१ : १०; जंश्रौ; भवेः मु
 १८, ४; ऋभवेयम् आपश्रौ २०,
 २५, ४; हिश्रौ १४, ६, १५.
 भूतु आपमं १, ७, २^f; भूयाम,
 ०तो(म-उ)काश्रौ २५, ५, २९^f b¹;
 ऋप्रा ५, १८^f.
 इवभूयात्^g वागृ १६, १^f;
 ऋभूयाः आपमं १, ११, २;
 कागृ ३०, ३; मागृ १, १४, १६.
 ऋभूय शाश्रौ ४, १२, १०^g;
 आपश्रौ; माश्रौ १, ८, ४, ३६^d;
 आपमं २, २२, १९^e; मागृ
 २, ४, ५^d; ऋवौ ३, ७, १०^e;
 १६^f f¹; या १, ५, २, ८; १०,
 ४२^e; १४, २; १०^g; बभूवतुः
 वाधूश्रौ ४, ७५ : ३०; वृदे ४,
 ११; या २, १०; ६, १३; बभूवुः
 शाश्रौ १५, १७, १; वौश्रौ; या
 १, ९; १२, ३८; ऋभूय वौश्रौ
 ४, ७ : १५^d; कौसू ४५, ११^d;

a) भव, ताम् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आमिगृ २, १, ३ : २४ प्रसृ. ; वैतु. हरदत्तः द्वे एव पदे) ।

- b) पाभे. वैप १, २३४४ t द्र. । c) पाभे. वैप १, रमन्ताम् शौ ७, १२०, ४ टि. द्र. । d) पाभे. वैप २, ३खं.
 तैत्रा २, ५, ३, ३ टि. द्र. । e) पाभे. वैप १, २३४५ m द्र. । f) पाभे. वैप १, २३४८ a द्र. । g) पाभे.
 वैप १, २३४६ e द्र. । h) पाभे. वैप १, २३४६ g द्र. । i) पाभे. वैप १, २३४७ l द्र. । j) पाभे. वैप १
 यजु मै ४, ११, ४ टि. द्र. । k) पाभे. वैप १, १२३७ k द्र. । l) पाभे. वैप १, २३४७ a द्र. ।
 m) सकृत् पाभे. वैप २, ३खं. अभूम तैत्रा ३, ७, ७, ११ टि. द्र. । n) पाभे. वैप २, ३खं. भव सं १, २, १
 टि. द्र. । o) पाभे. वैप १, २३४६ j द्र. । p) पाभे. वैप १, २३४६ b द्र. । q) पाभे.
 वैप १, २३४६ m द्र. । r) पाभे. वैप १, २३६५ b द्र. । s) सकृत् पाभे. वैप १ विन्दस्व शौ ३,
 २३, ४ टि. द्र. । t) पाभे. वैप १, २३४४ f द्र. । u) पाभे. वैप १, २३४४ t द्र. । v) पाभे. वैप १,
 २३४४ ० द्र. । w) पाभे. वैप १, २३४८ b द्र. । x) पाभे. वैप २, ३खं. असाणि मागृ ११, ५, ४, १
 टि. द्र. । y) पाभे. वैप १, २३४९ k द्र. । z) प्वात् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. बौपि. तैत्रा ६, ९,
 १ च) । a¹) पाभे. वैप १, २३५५ f द्र. । b¹) पाभे. वैप २, ३खं. भूयाम षं १, ६ टि. द्र. । c¹) पाठः ?
 प्थाः इति शोधः (तु. आपमं. प्रसृ., ऋ १०, १८३, २ च) । d¹) पाभे. वैप १, २३५० p द्र. । e¹) पाभे.
 वैप १, १३४३ g द्र. । f¹) पाभे. वैप १, ११३८ m द्र. । g¹) पाभे. वैप १, २३४४ b द्र. ।

या ५, ८; ऋभृव्यिथ आपश्रौ
 २२, १५, १३; हिश्रौ १७, ६;
 २६; ऋभृव्यन्ति आपश्रौ २,
 १५, १^३; वौश्रौ; भृव्यन्ति: छुस्
 ३, १०: ६; भृव्यन्ति गोश्रु
 ४, २, १३; माशि ७४^३; भीस्
 ३, ६, ४६^३; भृव्यन्ति वौश्रौ
 २, १५: १^३; शाश्रु १, १९, ७^३;
 अष ३३, १, ४; वृदे ४, ७८; अष
 ११, ३(२)^३; ऋभृव्यथ शाश्रौ
 १५, २७, १; काश्रौ २०, २, १७;
 भृव्यामि वौश्रौ १३, १८: १;
 वाधुश्रौ ३, २०: २; हिश्रौ २२,
 ३, ८; कौश्रु ३, १२, १२; भृवि-
 प्याव: वाधुश्रौ ४, ७५: १८;
 ऋभृयात् शाश्रौ २, १०, २^३;
 काश्रौ; आपश्रौ १६, ६, ६^३;
 वौश्रौ; वाश्रौ २, १, १, ५२^{२०};
 वैश्रौ १८, ४: ७^३; कौस् १३६,
 ३^३; ऋभृयासु: वौश्रौ २, ५:
 २९; वैश्रौ १६, २५: १५;
 आमिश्रु २, ६, २, ११; वौध २, ५,
 ५; ऋभृया: आपश्रौ १, ११, ६^{४०};
 शाश्रौ ४, ११, ३^{३०}; काश्रौ;
 आपमं २, ३, २५^३; हिश्रु २,
 ४, २^६; ऋभृयास्तम्^३ आपश्रौ
 २, १३, ३; भाश्रौ २, १३, ३;
 हिश्रौ २, १, १७; ऋभृयास्त
 वौश्रौ ३, ८: २३; भाश्रौ ६,

२, ५; माश्रौ २, ३, ७, ३; गो
 २, २; ऋभृयास्थ^३ शाश्रौ ४,
 ५, १; वाश्रौ १, २, ३, २९; हिश्रु
 १, १८, ३; ऋभृयासम् आपश्रौ २,
 १, १४; ५, २, ८; शाश्रौ २, १३,
 २; १०, ३, १०^३; ४, १२^३;
 काश्रौ ४, ४, २२; आपश्रौ २, ५,
 ९; ४, १३, २^३; ३^३; १४, ४^३;
 ६, १९, ७^३; २१, १२, ५^३; वौश्रौ
 १, १२: ३०; भाश्रौ १, ९,
 १०; माश्रौ १, ४, १, २७^३;
 २, १^३; ३; ५; ६^३; ६, १, २,
 २५^३; वाश्रौ १, १, ३, १^३;
 २^३; ४; ५^३; ६^३; ४, १^३; २, ३,
 २९; वैश्रौ २, ८: ११^३; हिश्रौ
 १, ७, २१; ६, ४, १^३; ४२^३;
 जैश्रौ २: ९; आपमं २, ६,
 १^३; ११^३; ९, १४^३; हिश्रु १, ५,
 १३^३; १३, ४^३; कौस् ६, १०:
 ऋभृयासम् आपश्रौ ३, १४, १२^३;
 शाश्रौ ४, ५, १; आपश्रौ ३, २०,
 ९^३; ४, १३, ७^३; ६, २५, १०^३;
 वौश्रौ ४, ६: ४६; माश्रौ १, १,
 २, २४; वाश्रौ १, २, ३, २६;
 हिश्रौ ६, ६, १६^३; द्राश्रौ ४, १,
 ८^३; लाश्रौ २, १, ७^३; आपमं २,
 १५, १७^३; कौस् ९२, २५^३; वौध
 १, ४, ७^३; भुवत् आपश्रौ ५, १२,
 १^३; वौश्रौ २, १७: ४०^३;

वैश्रौ १९, ६: ४; हिश्रौ ३, ४,
 १२^३; द्राश्रौ ६, २, १८; लाश्रौ
 २, १०, १८^३; वृदे ३, ७९^३;
 ऋभृयात् आपश्रौ १, ९, १; शाश्रौ;
 ऋभृयात् वौश्रौ १७, ५०: ११^३;
 या ५, ८^३; कौस् ८३, ५^३; ऋभृ-
 यात् आपश्रौ २, ८, ६; वौश्रौ
 २४, २९: १६; भाश्रौ २, ८, ७;
 हिश्रौ २, ५, ११; माश्रु २, ४:
 १०; या ७, २९; ऋभृयात् शाश्रौ
 १२, ५, १३; ऋभृयात् वौश्रौ
 १०, ५६: ९; भृवत् या १०, ५;
 ऋभृयात् आपश्रौ १, ६, १; शाश्रौ;
 ऋभृयात् आपश्रौ १, ८, १; शाश्रौ
 १०, ६, १६; लाश्रौ; आपमं २, २,
 ८^३; आमिश्रु १, ५, १: २५^३;
 काश्रु ४१, ७^३; वौश्रु २, ५,
 १२^३; माश्रु १, ६: २^३; हिश्रु
 १, ४, ३^३; ६, ३^३; ऋभृयात् शाश्रौ
 १, १३, ४; काश्रौ ६, ५,
 २५; १०, ८, १५; अभृयात्
 आपमं १, ७, ११; ऋभृयात्
 आपश्रौ ३, ८, १; वौश्रौ ६, २४:
 ३४; अभृयात् या ६, १६^३; भृवत्
 या ६, २२^३; ऋभृयात् आपश्रौ ६,
 ४, १०; शाश्रौ ९, ११, ३; वृदे
 ७, ५७; ऋभृयात् आपश्रौ १०,
 ९, ४; वौश्रौ २४, १८: २; हिश्रौ
 १०, २, ७; ऋभृयात् आपमं १, ३,

- a) तु. जीसं. । b) पाभे. वैप १, २३४४ क द्र. । c) पाभे. वैप १, २३५१ ० द्र. । d) पाभे. वैप १, २३५१ w द्र. । e) पाभे. वैप १, २३४५ i द्र. । f) पाभे. वैप १, २३५२ ० द्र. । g) पाठ: ? (छन्दस्त:) भृयास्तम् इति द्विपद: शोध: इति Böht (ZDMG ५२, ८६) । h) पाभे. वैप १, २३५२ d द्र. । i) पाठ: ? भृयास्त इति शोध: इति संस्कृत: टि., c. (शाश्रौ.) च; भृयासम् इति Old. । j) पाभे. वैप १, ११४५ q द्र. । k) पाभे. वैप १, ११४५ r द्र. । l) पाभे. पृ १५५० e द्र. । m) पाभे. पृ ४४७ x द्र. । n) पाभे. वैप १, २३५२ q द्र. । o) पाभे. वैप १ वर्षिषीमहि मा २, १४ टि. द्र. । p) पाभे. वैप २, ३खं भृयास ष १, ६ टि. द्र. । q) पाभे. वैप १, २३५२ u द्र. । r) पाभे. वैप १, २३५२ f द्र. । s) पाभे. वैप १, २३४६ p द्र. । t) पाभे. वैप १, १७९१ k द्र. । u) पाभे वैप २, ३खं. भृत् माश्र १३, ८, १, ४ टि. द्र. । v) पाभे. वैप १, २३४६ k द्र. । w) पाभे. पृ ४४६ u द्र. ।

१४^{अ०}; आसिष्ट १,५,४:४५^०;
 माण्ड १,१७, ६^०; हिण्ड १, २१,
 २^०; ऋभूम आश्रौ ५,६,२६;
 काश्रौ १०,९, ८; आपश्रौ ९,३,
 २२; १०,२३,१^०; बौश्रौ; बौण्ड
 १,१, २९^०; ऋभूम वैताश्रौ ४०,
 ७^०; ४१, १२^०; ऋप्रा ८, १७;
 अभविष्यत् वायुश्रौ ४,९९ : ८;
 लाश्रौ ८,४,६; निस् २,९ : २९;
 या ६, २८; अभविष्यन् या ७,
 २३.
 भाव्यन्ते कप्र १, ९, ३.
 बुभूषत्^० आपश्रौ २, १९, ४;
 ६, ४, १; बौश्रौ ३, ४ : १९;
 भाश्रौ ६,९,१; हिश्रौ ३,७,१९;
 निस् ४, ३ : ५.
 बोभवीति या १०, १७^०;
 बोभूत् पा ७,४,६५.
 बभूव > बभूव-पैलक-गच्छा (च्छ^०-
 अ)न्त-न्ते वैण्ड १,१८:१५.
 बभूवस्-वान् शाश्रौ ८,१७, १^०.
 ऋभूवुषो-षी या ११, ४०;
 दंवि २,११.
 बुभूषत्^०-षतः आश्रौ १०, १,५;
 शाश्रौ; षता आपश्रौ १२, ८,
 १२; वाश्रौ ३, २, ५, १८; अप
 ४, १, २२; षन् आश्रौ १०,
 ३, १२; आपश्रौ २, १९, १४;
 १२, १९, ३; २२, १३, १७; २२;
 माश्रौ १, २, १, ३३; वैश्रौ १५,

२२ : १४; हिश्रौ ८,५,२२; १७,
 ५, ३६; षन्तः आश्रौ १०,५,
 १२; ११, ६, ८.
 बुभूषद्-यज्ञ^०-ज्ञः निस् ८,
 २ : १,५.
 बुभूषु^०-षुः काश्रौ १८, ५, १०.
 ऋभव-पावा ३, १, १४^३; षन्तः
 पा ४, ३, ५३; पावा १, ३, १०;
 षन्तः या १२, ४३; षन्तः पा ४,
 ४, ११०; पापवा १३; पावा ४,
 २, ३४^३; ३, ६६; ५, १, ९४;
 षन्तः अप २०, ६, १^०.
 भव-वत् पा ४, २, ३४; ५, १, ९६.
 भव-व्याख्यान-नयोः पावा
 ४, ३, ६६.
 भवा (व-अ) र्थ-र्थम् पावा ४,
 ३, ६६.
 रभवत्-वत् वृदे १, ६१^१; कौसू
 ९२, १३^०; या १४, १०^१;
 षन्तः सु ३०, २; आसिष्ट ३, ८,
 २ : ४४^०; बौषि १, १५;
 ५१^१; ऋप्रा २, ३७; षन्तः
 वायुश्रौ ४, २८^३ : ५; छुस् ३,
 १६ : ७.
 ऋभवन्ती-न्ती या २, ९;
 पावा ३, २, १२३^१; षन्तः
 आपश्रौ १, ११, १०; १२, ११;
 १४; बौश्रौ १, ३ : १६; भाश्रौ
 १, १२, ३; ६; माश्रौ १, १, ३, ७;
 १७; हिश्रौ १, ३, १९; ३४;

-न्तीम् वायुश्रौ ४, २८^३ : ७.
 भवन्ती-पर-परः पावा
 २, ३, १.
 भवन्त्य (न्ती-अ) र्थ-र्थे
 पावा ३, २, १०२; ३, १३३.
 भवद्-वसु^०-सुः अश्र १३,
 ४ (६)^०.
 भवन्-पाउभो २, २, १८९; पाग
 २, ४, ३१; षन्तः अप २४, ६,
 ४; षन्तः या ४, ५; पा, पावा ४,
 १, ८७; षन्तः अप ६८, १,
 ३५; षन्तः वायु ५, २ : २९^०;
 षन्तः पा ५, २, १; पावा ५, २,
 २९^०; षन्तः अप ७०, ५, २.
 भवन्-चर-चरः अप ६८, ३,
 ११.
 भवन्ति-पाउ ३, ५०.
 भवितव्य-व्यम् आपश्रौ २१, १,
 १३; हिश्रौ १६, १, ३९; आसिष्ट
 ३, ३, १ : ९; ११; अप ३०^३,
 १, २; विष ३१, ३.
 भवितुम् विष ९८, २; वृदे ५, ५९.
 भवितोसः (ः) बौश्रौ १३, १७ : ६^०.
 भविल-पाउ १, ५४.
 भविष्य^०-ष्यम् वृदे १, ४०;
 षन्तः ष्याणाम् विष २०, २०.
 भविष्यत्-ष्यत् शाश्रौ ८, २१,
 ३^०; आपश्रौ; अप ४८, ७५^०;
 निष १, १२^०; या १४, १०;
 ११^०; ष्यता मीस् ४, १, २६;

a) ससपदा बभूव इति पाठः ? ससपदाव(दो,अ)भूव इति शोधः (तु. पाभे.) । b) पाभे. वैष २, ३३^०.
 अभूम तैत्रा ३, ७, ७, ११ टि. द्र. । c) आन. पाठः ? (तु. a टि.) । d) पाभे. वैष १, २३५५ जू द. ।
 e) घा. दीप्तौ वृत्तिः । f) =मन्त्र-त्रय- (तु. तैसं ३, ४, ४, १; ५, १; ७, ३) । g) =सर्वतोम-
 (अतिरात्र- [तां २०, २, २]) । h) तु. पाका. । i) =वर्तमान-काल- । j) सपा. भवत् <>
 भविष्यत् इति पाभे. । k) भव इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सप्र. शौ १८, ४, ५२ आसिष्ट.) । l) =लट्
 लकार- । m) वैष १ द्र. । n) नाप. (गृह- [अप. या ४, ५ प्रष्ट.] । देवता-विशेष- [रुद- [वैण्ड.]], व्यप.
 [द्वादशसंख्यारूपामन्यतम- [शंघ-]) । गृह^३ अर्थे अधिकरणे ल्युट्, अन्यत्र कर्तरि ल्युः प्र. । o) विप., नाप. (अल-विशेष-)
 नैषः <भविष्यत्- इति शक. । p) उदक-नामन् ।

-व्यति आश्रौ १, २, १; पा ३, ३, ३; १३६; पावा; -कँव्यते शांश्रौ ६, २, २; आपश्रौ २०, १, १०xx; बौश्रौ.

भविष्यन्ती- न्त्याम् वैश्रौ १, १७: १५.

भविष्यन्त्य (न्ती-अ)र्थ-र्थे पावा ३, ३, १५.

भविष्यत्-पुराण- णे आपध २, २४, ६; हिध २, ५, १७१.

भविष्यत्-प्रतिषेध- वात् पावा ३, ३, १३३.

भविष्यद्-अधिकार- -रे पावा ३, ३, १५६.

भविष्यद्-आधमर्ण्य- -र्ण्ययोः पा २, ३, ७०.

अव्य, व्या^१- पा ३, ४, ६८; -व्यः सु ३०, २; -कँव्यम् आपश्रौ १६, ३३, १; २०, ११, ८; बौश्रौ १५, १८: १५; ३२: ५; ३६: १२; वाश्रौ ३, २, १, ३०; वैश्रौ १८, १६: ६६; आपमं २, ५, २२; बौगृ २, ५, २६; भागृ २, २७: ९; हिगृ १, १३, १९; कौसू १०१, २; १३५, ९; वृदे १, ४०९; -कँव्यस्य आश्रौ ८, १०, ३; शांश्रौ ३, ५, ८; मागृ १, १०, १५; वृदे १, ६१९; -कँव्या^१ आमिगृ २, ६, ६: २९; हिगृ १, १३, १२; गो १, ३३; २, १२; हिध १, ८, ३०; -कँव्याय आपश्रौ २०, ५, ९; बौश्रौ १५, ७: १६; हिश्रौ १४, १, ४५; या १०, ४२९; -कँव्ये आपश्रौ ९, १४, २९; आपमं २, १८, ५९;

बौगृ ४, ४, ७९; भागृ २, २: १६९; पा ५, ३, १०४९.

भव्या (व्य-आ)दि- दीनाम् पावा २, ३, ७१.

भव्याद्य (दि-अ)र्थ- र्थम् पावा ३, ४, ६७.

भव्या (व्य-अ)पत्य^१- त्यः हिध २, ५, १२.

भाव^१- पा ३, ३, २४; पाग ५, २, ९५; पावा ३, १, १४३; -वः काश्रौ ४, ३, २४; द्राश्रौ ७, ४, २७; लाश्रौ; शंघ ३३३^१; वृदे ४, ७३^१;

या १, १३; पा ५, १, ११९; पावा १, १, ५६; ५७xx; मीसू ६, ४, ३३^१; -वम् माश्रौ ३, ५, २; वृदे ४, ५९^१; ६८; ६, ३८; अपं २: १; या १, १; ऋपा १२, १९; -वस्य वृदे १, ३०; या १, १; ७, ३; पावा ४, १, ३; -वाः अप ६१, १, २०; पावा ५, १, ११९; -वात् वृदे १, ३१; ८, २१; या १, १३; १४^२; या ७, ३; पावा; -वाय आमिगृ २, ४, ८: २४; अप ५२, ११, ३; या ७, २८; -वे पागृ २, १७, ९; गोगृ १, ७, १७; वाध ५, ३; बौध २, २, ४६; पा ३, १, १०७; ३, १८xx; -वेन पा २, ३, ३७; पावा ५, १, ११९; आज्यो १२, ७^१; -वैः या १, १२; आज्यो १४, ४^१.

भाव^१-वः पावा १, १, ११९; ६, १, १xx; -वस्य पावा ३, १, ३६; ६, ४, ६२; -वात् पावा ८, ३, १३; -वे पावा १, १, २०xx; -वेभ्यः पावा ७, १, ९६.

भाव-वचन- नम् पावा ५, ३, ६६; ६, १, १; -नात् पावा ६, १, ६५.

भावा (व-अ) र्थ- र्थम् पावा ३, २, १०९; ६, ४, ५२.

भाव-करण- -णयोः पा ६, ४, २७; ८, ४, १०.

भाव-कर्मकर्तृ- -तरिः पावा ३, १, ६७.

भाव-कर्मन्- -र्मणोः पा १, ३, १३; ३, १, ६६; ६, ४, ६२; पावा ३, १, ६७.

भावाकर्म-निवृत्त्य (ति-अ) र्थ- र्थम् पावा १, ३, १४.

भावकर्म-वचन- -नः पा ६, २, १५०.

भाव-क्षय^१- -यात् अप ५८^२, १, ५.

भाव-गर्हा- -र्ह्याम् पा ३, १, २४.

भाव-ग्रहण- -णम् पावा ३, ३, ४४.

भाव^१-दुष्ट- -ष्टम् वाध १४, २८; विध ६८, ४९; गौध १७, ११.

भाव^१-दूषित- -ते विध ६८, ४९. ?भाव-प्रत्यय- -ये निस् ३, १०: ४६^१.

भाव-दीर्घत्व- -त्वे पावा ७, ४, ९३.

भाव-निवृत्ति- -त्तिः पावा ७, १, ३.

भाव-प्रतिषेध- -धः पावा ३, ४, ८५; ७, १, ३.

भावप्रतिषेधा (ध-अ)र्थ- र्थम् पावा ३, १, २१.

भाव-वचन- नम् पावा ५, ३, ६६; ६, १, १; -नात् पावा ६, १, ६५.

भावा (व-अ) र्थ- र्थम् पावा ३, २, १०९; ६, ४, ५२.

भाव-करण- -णयोः पा ६, ४, २७; ८, ४, १०.

भाव-कर्मकर्तृ- -तरिः पावा ३, १, ६७.

भाव-कर्मन्- -र्मणोः पा १, ३, १३; ३, १, ६६; ६, ४, ६२; पावा ३, १, ६७.

भावाकर्म-निवृत्त्य (ति-अ) र्थ- र्थम् पावा १, ३, १४.

भावकर्म-वचन- -नः पा ६, २, १५०.

भाव-क्षय^१- -यात् अप ५८^२, १, ५.

भाव-गर्हा- -र्ह्याम् पा ३, १, २४.

भाव-ग्रहण- -णम् पावा ३, ३, ४४.

भाव^१-दुष्ट- -ष्टम् वाध १४, २८; विध ६८, ४९; गौध १७, ११.

भाव^१-दूषित- -ते विध ६८, ४९. ?भाव-प्रत्यय- -ये निस् ३, १०: ४६^१.

a) = लट्लकार-। b) वैप १ द्र.। c) = भविष्यत्-काल-। d) पाभे. पृ १३६१ b द्र.।

e) पाभे. वैप १, २०५७ e द्र.। f) वस.। g) भावे कर्तरि च कृत.। h) = अग्निप्राय-। i) = (सजन्) क्व-। j) उप. < √क्षि [क्षये]। k) अर्थः?। भागप्रत्यवाये इति संस्कृतः टि.।

भावप्रत्यया (य-अ) न्त-
 -न्तात् पावा ४, ४, २०.
 भाव-प्रधान^a- नम् वृदे २,
 १२१; या १, १; -ने या १, १.
 भाव-प्रवृत्ति- -त्तौ पावा २,
 ३, ३७.
 भाव-युक्त-त्व- -त्वात् पावा ४,
 १, ३.
 भाव-लक्षण- -णम् पा २,
 ३, ३७; -णे पावा २, ३, ३७.
 भाव-लक्षण^b- -णे पा ३, ४,
 १६.
 भाव-वचन^b- -नः पावा ५, १,
 ११९; -नाः पा ३, ३, ११;
 -नात् पा २, ३, १५; -नानाम्
 पा २, ३, ५४; पावा ३, ३, ११;
 -ने पावा १, ३, १; २, २, ६.
 भाववचन-त्व- -त्वम् पावा
 १, ३, १^c.
 भाव-वत्- पा ५, २, ९५.
 भाव-विकार- -राः या १, २; ३.
 भावविकार-ज- -जाः वृदे
 २, १२२.
 भाव-वृत्त^c- -त्तम् ऋञ् २, १०,
 १२९; १५४; १९०; वृदे २,
 १२०^d; ५, ८७; ११२; ७,
 १२३×४; -त्तानि वृदे २, ८६^d;
 भाववृत्ती^e- -त्ती साञ १,
 ६०३.
 भाव-वृत्ति^f- -त्तिः वृदे ७,
 १३५.
 भावा (व-अ) दिक्र्मन्- -र्मिणोः

पा १, २, २१; ७, २, १७.
 भावा (व-अ) भाव- -वयोः
 पावा १, ३, ९; -वौ अप ५९,
 १, ३.
 भावा (व-अ) रम्भ-वचन-
 -नात् पावा २, ३, ३७.
 भावा (व-अ) र्थ- -र्याः मीसू
 २, १, १.
 भावा (व-अ) विराम-भावि-
 त्व- -त्वात् पावा १, ४, ११०.
 भावैव^g अप ७०, ६, ४.
 भावन^h- -नम् शंघ ११६: ५५;
 -नाय या ७, २५, -ने अप
 ४८, ५१.
 भावनाⁱ- -नाः विध ६, २३.
 भावयत्- -यन् कौसू १३५, ९१.
 भावयित्वा नाशि १, ४, १०.
 भावि (त >) ता- -ताम् बौश्रौ
 ९, १: ३; २: ९; १०, १: २.
 भाविन्- पाठ ४, ८; पागरे, ३, ३;
 आपघ २, २८, १; हिघ २, ६, १.
 भाविनी- -नी विध ९६, ९८;
 -नी विध १, ३१.
 भाविन्- -विनाम् पावा ६,
 ३, ६१^f.
 रभातुक- पा ३, २, १५४.
 रभाव्य- पा ३, १, १२३; -व्यम्
 कप्र १, १, ४; विध २८, ४१;
 पावा १, २, ९^f.
 भूवत्^g- -वः आपश्रौ^k १६, ३२, १;
 २०, १९, १२; २१, १३, ९;
 बौश्रौ^k १०, ३५: ४; १४,

२२: ९; वैश्रौ^k १८, २०: ५८;
 हिश्रौ^k ११, ८, ५; १४, ४, ३९;
 १६, २, १०; कौसू १२८, ४;
 -वाय कौसू ११६, २; अपाय
 २, ६.
 भौवायन^l- -नः बौश्रौ १०,
 ३५: ४; १४, २२: ९; शुञ्
 ४, १९१.
 भूवत्-पति^m- -तयेⁿ काश्रौ २५,
 २, २६; शुञ् १, १००.
 भूवत्^o- -वत् वाधूश्रौ ४, ९८: ५^m;
 -वतः हिश्रौ १७, ८, ३२१.
 भूवद्-वत्- -वद्भ्यः आश्रौ ४,
 २, ५; बौश्रौ.
 भूवन (वप्रा.)^m- पाठ २, ८०; -नः^o
 अप ४३, ५, १५; ऋञ् २, १०,
 १५७; शुञ् ३, ५५; साञ् १;
 ४५२; -भूवत् आश्रौ २, १३,
 ७×४; शांश्रौ; आपश्रौ १९, ३,
 ५^p; हिश्रौ १३, ८, ३०^p; सु
 ३०, २; शंघ ११६: ५५^p;
 अप ४८, ७५^p; निघ २, १२^p;
 या १३, २४; १४, ११; पा ६, २,
 २०^q; -भूवत् शांश्रौ ५, ८, ४;
 आपश्रौ; या ३, १२; ७, ९; १०,
 ४; १४, १६; २१; -भूवत्
 आश्रौ ४, १२, २; काश्रौ;
 -भूवत् आश्रौ ८, ३, १; शांश्रौ;
 या ४, २७; -भूवत् आश्रौ ४,
 ११, ६; आपश्रौ; हिश्रौ ६, २,
 १७^q; -भूवत् आश्रौ ७, ७,
 ७; ९, ५, ५; शांश्रौ; या ७, २२;

a) बस. । b) उप. करणे कृत् । c) विप. (भाववृत्तदेवत्य-] सूक्त-) । d) भाप. (सृष्ट्यादिपदार्थानां प्रवृत्ति- [तु. षड्गुरुशिष्यः]) । e) = ऋच्- । f) भावैः एव > नैप्र. यनि. ? । g) भावाद्यर्थे प्र. । द्वादशसूत्रा- मन्यतम- । h) भावे युञ् प्र. । i) तु. पाका. पासि. । j) वैप १ द्र. । k) पाप्मे. वैप १, २३५७ e द्र. । l) पाप्मे. वैप १, २३५७ k द्र. । m) = व्याहृति- विशेष- । n) विशेषः टि. द्र. । o) व्यप. । p) पाप्मे. वैप १, १०३८ e द्र. । q) अप २१९, २४ भवनम् इति । r) उदकनामन्- । s) न्वा इति पाठः ? यनि. श्लोचः (तु. आपश्रौ. भाश्रौ.) ।

-कनानि शाश्रौ ६, ११, ९, ९, ५,
१; आपश्रौ; या ४, २७; ७,
२९; ८, १४; १०, २६; ३४;
माशि; -कनाय आमिष्ट ३, ८,
२: १७; बौपि; या ७, २५;
-कने आपमं १, ९, ३; अप १,
११, १; -नेभि: आपश्रौ ४, ५,
५; माश्रौ ४, ७, १; हिश्रौ ६, २,
४; -कनेषु शाश्रौ १५, २,
१८××; आपश्रौ; या १४, ३; २४^३.

भौवन^३- -०न शाश्रौ १६.

१६, ३^३; -न: वाश्रौ १६, १६,
२^३; वाश्रौ २, २, ४, ५^३; सु^३
२२, १; २३, १; २५, ६; ऋअ
२, १०, ८१^३; १५, ७^३; शुअ २,
२८४^३; ३, ५५^३; साअ १,
४५२^३; २, ९३९^३; या १०,
२६^३; -नम् सु २०, ३^३; -नस्य
चाअ ३९: ५^३; ८^३.

भौवनि^३- -नय: बौश्रौप्र
३१: ६.

भुवन-नाग- -नाम् शंघ ११६:
३४.

कभुवन-पति- -तये आश्रौ १,
४, ९; ३, १३, १५^३; आपश्रौ;
-ति: काश्रौ २, १, १८; आपश्रौ
३, १८, ४; बौश्रौ ३, २३: १४;
माश्रौ ३, १४, २; माश्रौ ५, २,
१५, २; वाश्रौ १, १, ५, २; ९;
हिश्रौ २, ८, १; वैताश्रौ ७, १८;
-तिभ्य: आश्रौ ४, २, ५; -तिम्
वैष्ट १, ४: ३; -०ते शाश्रौ ४,

२०, १^३; काश्रौ.

भुवनस-पति^३- -ति: कौष्ट ३, २,
६^३; -०ते माश्रौ २, १, ४, ३१^३.
भुवनस-परि शांष्ट ३, २, ९^३.

कभुवस^३(द्र:) पाठ ४, २१७; आश्रौ
१, २, ३××; ५, ९, ११^३; शाश्रौ;
शौन २, ५२; ऋत ३, ७, ४;
पा ८, २, ७१; पाग १, १, ३७.

भुवर्-लोक- -कम् शंघ ११६:
६६; नाशि १, २, ६.

भुविस- पाठ २, ११२.

भुवे या ७, २८^३.

भू^३- पा ६, ४, ८५; पावाग ३,
३, १०८^३; भुव: वैष्ट १, १८:
९^३; विध ३, ८२; २३, ५७;
या ७, २७^३; पा १, ४,
३१^३; कभुव: आपश्रौ
१०, २९, १; बौश्रौ ६, १६:
५; माश्रौ १०, २०, १; वैश्रौ
१२, २०: ९; हिश्रौ ७, ३,
१८; भाष्ट २, २८: १२; भुवम्
जैश्रौका १०५; विध ३, ८१;
८३; ५, १८१; ७१, ४१; ७८,
१२; ९२, ४; भुवा^३ आश्रौ ९,
५, ११; आपश्रौ २२, ७, २६^३;
कभुवाम् वैताश्रौ १, १८; कौस्
११६, २; अप्राय २, ६; ०भुवाम्
वैताश्रौ १, १७^३; भुवि जैश्रौका
९५; वैष्ट; कभुवे आपश्रौ २०,
५, ९; बौश्रौ १५, ७: १६;
हिश्रौ १४, १, ४५; कभू: आपश्रौ
४, ४, ४^३; १२, २१, २;

१६, २३, ७; १०; २०, ५, ९;
माश्रौ ४, ५, ५^३; माश्रौ ६, १,
७, १६; वाश्रौ १, १, २, १६^३;
वैश्रौ १८, १७: २८; २०: ३१;
हिश्रौ ६, १, ५१^३; १४, १,
४५; १७, ३, २४^३; अय ४८,
७२; ९८^३××; वाध; निघ १, १;
३^३; या १४, ११^३.

भू-कम्प- -म्पे वैध २, १२, ३.

भूकम्पो(म्प-उ)ल्कापात-

दिग्दाह- -हेषु विध ३०, ९.

भू-गात- -तम् वैध ३, ४, ४.

भू-चर- -रा: अप ५२, १, ३.

भू-जतु-चर्म-चीर-वेणु-फल-

वल्क- -ल्कानाम् सुधप ८७: १७

भू-तल- -लात् शंघ २२६; -ले

कप्र १, १०, १४; माशि १६, ७;

नाशि २८, २७; आश्रयो १२, ४.

भू-नृण-दृष्टान्त- -न्तेन अश्र २,
३०.

भू-प^३- -प: अप ६८, ४, ५.

भू-पति^३- -कतये आश्रौ १, ४,
९; ३, १३, १५^३; आपश्रौ;

-कति: आश्रौ ८, २, २१; काश्रौ;

-तिम् वैष्ट १, ४: ३^३; -तीन्

अप ३५, १, ६; -कंते शाश्रौ ४,
२०, १; काश्रौ; -ते: विध ६३,
५१; वृदे ५, १९.

भूपत्या(ति-आ)दि- -दीन्

वैध २, १३, ५.

भू-प्रचाल- -ल्: अप ७०^३, ११,
२९.

a) वैप १ द्र. b) व्यप. (विश्वकर्मन्-). c) पाभे. वैप १, २३६० d द्र. d) =असुर-विशेष-।

e) = (भुवनपुत्र-) साधन-। f) = [भुवनपुत्र-] नाभि-। g) = ऋषि-विशेष-। h) पाभे. वैप १, २३६० h द्र.।

i) परस्परं पाभे.। j) पाभे. वैप १, १८९३ a द्र.। k) पाभे. वैप २, ३खं भुवसः (:) ऐवा २, ३१ टि. द्र.।

l) विशेष: टि. द्र.। m) तु. पागम.। n) = अप्सरो-विशेष-। o) माप.। p) = एकाह-विशेष-।

q) सपा. सुवा <> भू: इति पाभे.। r) अन्तरिक्ष-नामन्-। s) उप. <√पा [रक्षणे]। t) वैप १

निर्दिष्टानां समावेश: द्र.। u) पाभे. वैप १, २३५७ k द्र.।

मू-प्रदान- -नम् अप ७०^३, ९, ३.
 मू-प्रदेश- -शो कप्र २, २, ८.
 मू-मण्डल- -लम् विध १, ३५.
 मू-लोक- -कम् अप ४१, २, ८;
 शंघ ११६ : ६६.
 मू-स्थित- -तः बौघ ४, ८, १२.
 मू-स्पर्श- -शैः जैश्रौका १७८.
 रभू^३ - फ़भूः आपश्रौ १०, ६, ५;
 माश्रौ ६, १, ८, ५^b; वाश्रौ ३,
 २, १, ३१^१; चाश्र १६:२९.
 १भूत, ता^a - पाउभो २, २, १३१;
 पाग २, १, ५९^१; ४, ३१^०; ४, २,
 ३८; ७५^d; -०त काश्रौ २, ३,
 १^१; -फ़तः काश्रौ २, ३, १, १८,
 ५, ११; आपश्रौ; निघ ३, १३;
 या ३, १६; ऋप्रा २, ४६;
 -तम् शांश्रौ ८, २१, ३^१;
 आपश्रौ; वाधूश्रौ ४, १९ : ११;
 आपमं २, १०, १३; सु १३, १^०;
 आप्रिगृ २, ५, ११ : ११^१; भागृ
 २, २५ : १; वैगृ ३, २ : ३^१,
 द्रागृ १, ५, १९; अप ४८,
 ७५^६; आपघ २, ३, १०;
 बौघ २, ७, २^b; विघ २०,
 २२^०; वृदे १, ४०^b; निघ १,
 १२^१; या १४, १०^b; ११^b;
 -फ़तस्य आश्रौ २, १०, १८^{xx};
 शांश्रौ; वृदे १, ६१^b; या १०, २३^१;
 -फ़ंतस्य आपश्रौ ३, १८, २; ४,
 ४, २; बौश्रौ ३, २३ : १२;
 हिश्रौ ६, १, ४७; वैताश्रौ १, १७;
 -फ़ता बौश्रौ १६, २७ : १०;

१४; हिश्रौ ६, ३, २^३; १७, ६,
 ३७; -फ़ताः आगृ २, १०, ८;
 बौगृ २, ८, ३८; ३९; भागृ ३,
 १४ : १६; वैगृ २, २ : ८; अप
 १, ८, ३; -तान् वैघ १, ४, ४^०;
 -तानाम् फ़आश्रौ १, ४, ९; २,
 १३, १५; शांश्रौ ४, २०, १;
 ५, १४, १२^१; १५, ११,
 १^{१०}; १६, १५, १^{३०}; काश्रौ;
 या ३, १२; ४, ९; ७, ९; २२;
 २७; १०, २६; १२, १५; -तानि
 शांश्रौ १४, ५०, १; १६, १५,
 १^१; काश्रौ; अप ७०^३, १०, १^१;
 या २, ५; ८; १०; १८; ४, १३;
 २७^१; ५, ४; ५; १४; ६, १५^१;
 ७, २१; ८, ११; १४; १०, ८;
 ११; २६; ३४; ४६; १२, ३१;
 ४१^१, १२, ११; १३, ११; -ताम्
 बौश्रौ २, १०:२०; २४; २८; १६,
 २७ : १०; ११; हिश्रौ; -ताय
 फ़शांश्रौ १, ४, ५; ६, २, २; काश्रौ
 २, ३, २३^१; आपश्रौ; शुश्र १,
 ४२^१; या १४, ३५; ३७; -ते
 आश्रौ १, २, १; १२, ४, १०;
 आपश्रौ; पा ३, २, ८४; ३, २;
 १४०; -फ़तेन बौश्रौ ३, १८:५;
 माश्रौ; -फ़तेभ्यः काश्रौ ५, ४,
 १३; आपश्रौ; या ३, ९६; भाशि
 २४; -तेषु शांश्रौ १६, १५, १^३;
 काश्रौ; या १४, २४; -तैः
 वाधूश्रौ ४, ९६ : ३०.
 मौत- पा ४, २, ३८; ७५;

-तः^m कप्र २, ३, ३; विघ ५९,
 २४.
 भूत-करⁿ -रस्य अप्रा १, ३, ६.
 भूत-करण- -गम् वृदे ८, ८५;
 -गस्य शौच ३, ४९^m.
 भूत-काल- -ले शुप्रा ५, ११;
 अप्रा २, ३, ४; ७.
 भूतकाल-लक्षण-स्व- -स्वात्
 पावा ५, ३, ६७.
 फ़भूत-कृत^a - -कृतः आपश्रौ ६,
 ५, ६; भाश्रौ; -कृतम् आपश्रौ
 १, १०, १०; हिश्रौ २, ७, ५९.
 भूतकृतां (वात्यस्नोत-)
 शांश्रौ १४, ७२, १.
 भूत-गृह^o - -होभ्यः पागृ १, १२,
 २; २, ९, ३.
 फ़भूत-गोप्तृ- -स्त्रे अप १, ३९,
 २; अशां ९, २.
 भूत-ग्राम^p - -मम् कप्र २, २,
 ३-८; विघ १, १७; नाशि १,
 २, १६; -माः या १४, ४; -मै
 चाश्र ११ : ३.
 भूतग्राम-स्थावर-जङ्गम^l-
 -माः या १४, ४.
 भूत-तन्त्र- -न्त्रम् वैघ ३, १२,
 ७; आज्यो ४, ९.
 भूत-स्व- -स्वात् मीस् २, १, ३.
 १भूत-दाह- > ष्ठीय^r - -यान्
 आपघ १, २३, ३^१; ४; ३१, २३;
 हिघ १, ६, १२; ८, ४२.
 २भूत-दाह^t - -हान् हिघ १, ६,
 ११^१.

a) वैप १ द्र. । b) पाभे. वैप १, २३५७ ० द्र. । c) = पिशाच- इति पागम. । नैप्र. <^aबाध-
 मृत- इति । d) मृत- इति पाका. । e) = प्राणिव. । f) = भोज्य-द्रव्य- (डु. C.) । g) = अन्न- ।
 h) = भूत-काल- । i) पाभे. वैप १, २३६२ ० द्र. । j) पाभे. वैप १, २३६२ j द्र. । k) पाठः ? (डु-
 वृ १७४५ ० टि.) । l) पाभे. वैप १, १२६३ ० द्र. । m) = भूत-यज्ञ- । तस्येदमीयः ऋण् प्र. ।
 n) = (पारिभाषिक संज्ञा-) आगम- । o) = देवता-विशेष- । p) षस. उप. = समूह- । पाप्र. ग्रामच् प्र. उंसं.
 (पावा ४, २, ३७) । q) कस. > द्रस. । r) विप. (दोष-) । हितार्थीयः छः प्र. । s) परस्परं पाभे. । t) षस. ।

भूत-दैव (त्यु) त्या^a - त्याः
 वैगृ २, २ : ८.
 भूत-नामधेय- -यानि या १४,
 १०.
 भूत-पति- -तिः मागृ १, ११,
 ९; अत्र २, १४; -०न्ते शांश्री
 ४, २०, १.
 भूत-पूर्व- -र्वस्य पावा १, १,
 २९^१; -र्वे पा ५, २, १८; ३,
 ५३; ६, २, २२.
 भूत-प्रकृति- -तिः या १४, ३.
 भूत-प्रवाक^b - -काय भागृ २,
 २५ : १५^१.
 भूत-प्रवाचन- -ने कप्र २, ९,
 २३.
 भूत-बलि- -लिः आपघ १,
 १२, १५; हिध १, ४, १५;
 -लिम् आमिगृ २, ५, ११ : १; ६.
 भूत-भविष्य-काल- -लः अप
 १, ८, ३.
 भूत-भविष्यत्- -व्यतोः पावा
 ३, २, ११०.
 भूत-भव्य^c - -व्यस्य कौसू
 १३५, ९.
 भूत-भव्य-भवद्-रूप^d - -पम्
 विध ९७, १९.
 भूत-महेस्वर- -रम् विध १, ६०.
 भूत-मात्र- -त्रे पावा ३, २,
 ११८.
 भूत-यज्ञ-ग्रहा(ह-आ)यतन-
 -नेषु शंघ १५७.
 भूत-यज्ञ- -ज्ञः आगृ ३,
 १, २; ३४^१; आमिगृ; -ज्ञम्

आमिगृ २, ६, ७ : ३; बौध
 २, ६, ४; -ज्ञाय वैगृ ३, ७ :
 ७; -ज्ञेन बौगृ २, ९, १५^१.
 भूत-वत् वृदे ४, २९; पा ३, ३,
 १३२.
 भूतवद्-अतिदेश- -शो पावा
 ३, ३, १३२.
 भूतवद्-वचन- -नात् पावा
 ५, ३, ६७.
 भूत-विग्रह- -हे अप ६८, २,
 ३९.
 भूत-संप्लव- -वात् आपघ २,
 २४, ५; हिध २, ५, १७०.
 भूत-हित- -ते विध ९९, २०.
 भूतहिता (त-अ) र्थ- >
 १^१र्थिन्- -र्थिना विध १, १२.
 भूतां (त-अ) श^e - -शाः ऋत्र २,
 १०, १०६; वृदे ८, १८; या १२,
 ४०; -शम् वृदे ८, १९.
 भूता (त-आ) त्मन्- -न्म वाध
 ३, ६०; बौध १, ५, २; ३, १,
 २३; विध २२, ९२; या १४, ३.
 भूता (त-आ) दि- -दिभ्यः
 अत्रा २, ३, १०; -दिषु पावा
 ४, १, ३.
 भूता (त-अ) धिकार- -रस्य
 पावा ३, २, ८४.
 भूता (त-अ) धिपति- -त्तये
 बौध ३, ६, १२.
 भूतानाम्-अवेष्टि^f - -ष्टीः आपश्री
 १८, १५, ९; १६, १२; बौश्री
 १०, ५९ : १; ११, ७ : १९;
 १२, ११ : २०; हिश्री १३, ५,

३१; ३६.
 भूता-भव्य^g - -व्यौ आपश्री
 २०, १२, ९; बौश्री १५, ३६ :
 २१.
 भूता (त-अ) र्म- पा ६, २, ११.
 भूता(त-अ)वेष्टि-मन्त्र- -त्रैः
 वैश्री १९, ३ : १५.
 भूते-च्छद्^h - -च्छद्ः आश्री ८,
 ३, २७; वैताश्री ३२, ३०;
 -च्छदाम् तैप्रा १४, ८^१.
 भूते (त-इ)न्द्रिय- -यैः या १४,
 १०.
 भूते (त-इ)ष्टकाⁱ - -काः आपश्री
 १७, २, ६; बौश्री १०, ४६ :
 ७ x x; वैश्री.
 भूतो (त-उ) पदेश- -शाः मीसू
 ११, ३, ४१.
 भूतो (त-उ) पमा- -मा या ३,
 १६.
 भूतो(त-उ) पसष्ट^j - -ष्टः
 आपश्री १५, १९, ४; भाश्री ११,
 १९, १३; -ष्टानाम् आमिगृ २,
 ५, ३ : ४५; बौगृ ३, ७, २७; २८.
 भूतस्^k - -तः माशि ११५; १२०.
 भूति^l - -त्तये आश्री १, ४, ९^१;
 वैश्री २०, २७ : ४^१; कौसू ३,
 ११; -तिः आश्री ३, १३, १५^१;
 शांश्री; पागृ २, १७, १५^१; भूवैगृ^m
 १, २१ : ८; २, ७ : ११; ३,
 ७ : २३; अपⁿ ४०, ५, १^१; २^१;
 -तिना^o अपⁿ ४, ५, १५; ६, २,
 ७; -तिम् भूश्री २, १३, ६; ५,
 १, १०^१; आपश्री; अप ४, ४, ८^१;

- a) बस. । b) नाप. । उप. कर्तारि अण् प्र., कृत्वम् (पा ७, ३, ५३) च । c) वैप १ द्र. । d) द्रस. >
 बस. । e) सप्र. भूतयज्ञेन <> भूतियज्ञेन <> आमिगृ २, ६, ५ : १६ ? यज्ञभूतिकैः इति पाभे. । f) = आहुति-
 विशेष- । g) होम-विशेषयोः द्रस. पूष. आनङ्गोदेशः उर्स. । h) पूष. = पिशाच- । i) विशेषः उत्तरत्र टि. द्र. ।
 j) पाभे. वैप १, २३६४० द्र. । k) = (उपचारात्) देवता- । l) = १ भस्मन्- । m) पुस्त्वं छान्दसं द्र. ।
 n) पाभे. वैप २, ३ खं. भुक्तिम् तां १, १, १ टि. द्र. ।

५, ११^a; ६, २, ३^a; ७, १, ६^a;
१७, २, १५^a; वृदे ३, ३२;
-इतीनाम्^b भाग ३, १५ : २५;
-फ०ते बौश्रौ १२, १ : १७;
अत्र ६, ८४; -तौ द्राश्रौ २, २,
३३; १०, ३, ७^फ; लाश्रौ ३, ११,
४^फ; -स्याः अत्र ९, ६(५)^फ;
-फ्त्यै काश्रौ १७, २, ४; आपश्रौ
९, १३, ६; १५, ११, १; १६, १६,
१०^{xx}; बौश्रौ; माश्रौ ६, १, ५,
२१^०; वाश्रौ २, १, ४, २७^०;
वैश्रौ १३, १३ : ३; १८, १४ :
१०^०; २० : ३१; हिश्रौ ११, ६,
१२^{xx}.

भौतिक^d - कम् अप ३१,
१०, १; २.

भूतिकर- रम् अप ७, १, ३.

भूतिकर्मन्- र्मणाम् कौष्ट १,
६, १; शांष्ट १, १०, १; बौष्ट १,
१, २१; -र्मसु कौष्ट १, ८, १६;
शांष्ट १, १२, १३; आपष्ट १, १३,
९; हिघ १, ४, २३; आज्यो ५,
३; -र्माणि बौघ १, ३, १२.

भूतिकाम- मः आश्रौ ९, ७,
२८; आपश्रौ; -मस् माश्रौ ५,
१, ७, १; ९, ३७; १०, २६; वाधूश्रौ
४, १० : २९; -मस्य माश्रौ ५,
१, ५, ५; ७१; वाश्रौ; -मैः विघ
१००, ३.

भूतिकाम-राजकामा(म-अ)
चाद्यकामे(म-इ)न्द्रियकाम-तेज-

स्काम- -मानाम् आश्रौ ९, ८,
२३.

भूतिकामिन्- मी आमिष्ट २,
४, ११ : २५.

भूति-देवता->^०व(त्य>)

त्या- स्या शुभ्र २, १२१.

भूतिन्- -तिनः बौष्ट २, ९, १५^b.

भूति-मत्- -मान् आमिष्ट २, ४,
११ : २५.

भूति-यज्ञ- -ज्ञेन भाष्ट ३, १५ :
२५^f.

फूति-वर्धन- -नम् आपश्रौ
५, १८, २; हिश्रौ ६, ५, १६.

भूति-साध(न>)नी- नी
अप २६, ४, ३.

भूत्या(ति-आ)दि- दिष्टु अप
६३, ५, २.

भूत्वा आश्रौ ३, १०, ६^फxx; शांश्रौ;
फूआपमं १, १५, ५^०; १७, ७^b.

भूम¹- माय बौष्ट २, ८, ९^फ.

फूभूमन्¹- म आपमं २, १५, १;
आष्ट २, ७, २^६; या १०, ४;

ऋप्रा ८, १७; अप्रा १, १, १२;
-मा ऋप्रा ७, ३२; ८, ४८.

फूभूम¹ ऋप्रा ८, १५.

रभूमन्^१- पा ६, ४, १५८; -मा
क्षुसू ३, १ : ३; अप्रा ३, १, ६^२;

मांसू १, ४, २७; -मानम् आपश्रौ
४, १०, १^फxx; बौश्रौ; हिश्रौ
१६, ५, १४¹; १८, ४, ६५¹;

-न्नः क्षुसू ३, १ : ५; निसू ४,

३ : ३३; ८ : ८; -फून्नाः काश्रौ
४, ९, १५; आपश्रौ; -म्ने जैश्रौ
११ : ५.

भूमि,मी(वप्रा.)¹म- पाउ ४, ४५;
पाग ३, ४, ७४; ४, १, ११२^०; ३,
७६; ८, २, ९; -मयः या १३,

२; -फूंमि आपमं २, १८, १^०;
पाग; आमिष्ट ३, ८, २ : ३४^०;

बौषि १, १५ : ४२^०; -फूंमिः
आश्रौ ३, १४, १२xx; शांश्रौ;

आपश्रौ ८, ४, २^०; बौश्रौ ५, ४ :
२६^०; हिश्रौ ५, १, ४५^०; पाग २,

१७, १५^०; या १४, ११; ऋमा
४, ४०^०; -मिम फूआश्रौ २,

२०, ४xx, शांश्रौ; या २, ८; ६,
२२^०; ७, २३^०; १०, ४; ११,

३७^०; -फूंमीः आश्रौ ३, ८, १;
बौश्रौ १३, २१ : ९; सु २८, ३;

या १३, ३; -फूंमे वैताश्रौ २७,
८; कौसू; -मेः शांश्रौ १६, ९,

२२; १७, ४, ७; १०, १२; आपश्रौ;
शुप्रा ४, ४०; आज्यो ८, ४; -मौ

आश्रौ १, ३, २२; शांश्रौ; -फूंम्याः
आपश्रौ ४, ५, ५; बौश्रौ; -म्याम्

आपश्रौ ६, ११, ४; ७, १८, १२;
बौश्रौ; -म्वै बौश्रौ ४, १ : १५;

१३, २४ : ९; वैश्रौ १०, १ :
१३; हिश्रौ ४, १, १४; आमिष्ट

३, ६, ३ : १६^०; बौषि १, ११ :
१३^०.

भूमि,मा(वप्रा.)¹म- पा ४,

- a) = १भस्मन्- । b) पाठः? ष्तिनाम् इति शोधः । सपा. बौष्ट २, ९, १५ भूतिनः इति पामे. ।
c) पामे. वैप १, २३६४ ८ द्र. । d) विप. > नाप. (पशुपतेद-व्रत-) । तस्येदमीयष् ठक् प्र. उस्. (पा ४, ३,
१२४) । e) मत्वर्थे इनिः प्र. उस्. (पा ५, २, ११६) । f) पामे. पृ १८७० ० द्र. । g) पामे. वैप १,
२३६४ i द्र. । h) पामे. वैप १, २३६५ ८ द्र. । i) = देवता-विशेष- । वैप ३, ६२० i द्र. । j) वैप १ द्र. ।
k) = १भूयस्- । पाप्र. < बहु- । l) वैतु. भाष्यम् = स्थान- इति । m) विशेषः टि. द्र. । n) व्यप. ।
o) पामे. वैप १, २३६६ ८ द्र. । p) पामे. वैप १, २३६७ b द्र. । q) पामे. वैप २, ३३६. भूमिः तैत्रा १,
५, ५, १ टि. द्र. । r) = (उपचारात्) देवता- । s) वैप १, २३६६ ८ द्र. ।

१, ११२^a; ३, ७६; -मः काश्रौ
२३, ४, २०; अप ५१, ३, २^a;
ऋञ्च २, ५, १^b; साञ्च^b १, ३३६;
३४५; ३६६; ४१५; ५६४; २,
११०२; अप^c ४: ३४^f; आज्यो
८, १; -मम् आपश्रौ २२, २१,
४; वाश्रौ ३, ४, ५, २४; हिश्रौ
१७, ७, २९; माण्ट २, १६, १;
कौसू ३८, १६^d; अप; अञ्च १२,
१^d; -मस्य कौसू ३८, १२;
अप ५२, १५, ५^a; -मा^e अञ्च
३, २९; १८, ३; -माः आपश्रौ
२०, १४, ६^f; -मान् वैण्ट १, ४;
२१^f; शंघ ११६: २६;
-मानाम् काश्रौ २४, ६, २^f;
-माय^g आण्ट २, १, ४; ८, १५;
पाण्ट २, १४, १०^h × ×; बौण्ट; -मे
अप ७०, ३, १; आज्यो ६, १२ⁱ;
-मेन अप ७०^j, ७, १^d.

भौम-दिव्य- -व्यान्
वैण्ट १, ४: २२^k.

भौम-वार- -रे आमिण्ट
२, ७, ६: २१.

भौमा(म-आ)न्तरिक्ष-
दिव्य- -व्यम् अप ८, १, ७.

भौमिक^l- -कैः विध २३,
५४^k.

भूमि-ऋपाल^l- -लः काश्रौ २०,
३, १६; -लम् बौश्रौ २४, १०:
१५; २७, १४: २२; २८, ४:
१३.

भूमि-कम्प- -म्पः अप ५७, ४,
७; ७०^m, २३, १; -म्पाः अप

६२, १, १; ६४, २, ७; ६८, ५,
१६; -म्पान् अप ६४, १, ४;
-म्पानाम् अप ६२, ४, ५; -म्पे
अप ७१, १६, ३.

भूमिकम्पै (म्प-ए) वमादि-
क- -कम् अप ६२, ५, ५.

भूमि-काम- -मस्य अशां १७,
५.

भूमि-खात^m- -तस्य अप ३९,
१, १.

भूमि-ग- -गैः बौध १, ५, ८९^k.

भूमि-गात, ता- -तम् वाध ११,
२४; विध ८१, २३; -ता शंघ

२३४; -ताः बौध १, ५, ५७;
-तान् माश्रौ १, ८, ४, ६; -तासु

आपध १, १५, २; हिध १, ४, ६१.

भूमि-गामन- -नम् या १४, ३१.

भूमि-चलⁿ- -लः कौसू ९८, १;
-ले द्राण्ट ३, २, ३०; कौसू ९३,
६; आपध १, ११, ३०^o.

भूमि-चलन- -ने कौसू १४१,
२१; वाध १३, ३३; हिध १, ३,
८०^o; काध २७५: १०.

भूमि-ज- -जः या १, १४.

भूमि-जोषणा(श-आ)दि- -दि
पाण्ट ३, १०, १०.

भूमि-दान- -नेन वाध २९, १६.

भूमि-दुन्दुभि^p- -भिः वाश्रौ ३,
२, ५, २८; हिश्रौ १६, ६, २७;
-भिम् शंश्रौ १७, ५, १०; १४,
११; १७, ६; आपश्रौ.

भूमि-देव- -वान् बौध २, ५,
२६.

भूमि-देव(त्य>)व्या^l- -त्याः
वैण्ट ३, १६: ९.

भूमि-दोह- -हान् अप ४, ६, ४;
६९, ७, ३.

भूमि-धेनु^q- -नुम् आमिण्ट ३,
१०, २: १०; बौपि ३, ९, ५.

भूमि-प^r- -पः शंघ ९४; -पम्
विध ३२, १७; -पाः याशि २, १.

भूमि-पति- -तिः कौसू ९४, २;
१२६, २; -तेः अप २, ३, ४;
-तौ गोण्ट ३, ३, २४.

भूमि-परिहंण- -णम् आपश्रौ
७, १०, १२.

भूमि-परिलेख- -खम् कौसू ५२,
४; -खे कौसू १८, २२.

भूमि-पाल- -लाः अप ५१, ३,
४.

भूमि-पाश- -शे पावा ६, ३, ९.

भूमि-पुत्र^s- -त्रेण शंघ ११५.

भूमि-पुरुष-ब्राह्मणस्व-वर्जम्
काश्रौ २०, ४, २७.

भूमि-पुरुष-वर्जम् आश्रौ १०,
१०, १०; वाश्रौ ३, ४, ४, २७.

भूमि-प्रदान- -नेन विध ९२, ३.

भूमि-प्रदेश- -शे वाण्ट १४, ६.

भूमि-प्रमाण- -णेन अप २, ३,
२.

भूमि-प्रात, सा- -साम् काश्रौ
१७, ४, १८; -से काश्रौ ८, ५,
३३.

भूमि-भर्तृ- -र्तृणाम् अप ७०,
१, ८.

भूमि-भाग- -गः लाश्रौ १०,
१०.

a) = मङ्गल-ग्रह- । b) व्यप. । c) = (भूमिदेवत्य-) अनुवाक-विशेष- [श्रौ १२, १] । d) = अनुवाक-
विशेष- । e) = ऋच्- । f) विप. > नाप. (यज्ञाङ्ग-) । g) = देव-विशेष- । h) पाभे. वैप २, ३खं.
भूमाय तैश्चाञ्चा ६७, टि. द्र. । i) = मङ्गल-वार- । j) भवार्थे ठञ् प्र. । k) सपा. भौमिकैः
<>भूमिगैः इति पाभे. । l) बस. । m) = तडागादि- । n) = भूमि-कम्प- । o) सपा. °चले <>
°चले इति पाभे. । p) वैप १ द्र. । q) मलो. कस. । r) = क्षत्रिय- । उप. <√पा [रक्षणे] ।

१५, १०; शंघ २५३; -गम्
आय ४, १, ६; २, १०; -गे द्राघ
४, २, ६.

भूमि-मत्- पा ८, २, ९.

भूमि-यज्ञ- -ज्ञम् वैगृ ३, १८ :
४; -ज्ञाय वैगृ ३, १६ : ६; -ज्ञेन
वैगृ ३, १६ : ४.

भूमियज्ञ-द्वैवत्^० - -त्स्यौ वैगृ
३, १६ : ७.

भूमियज्ञद्वैवत्या(त्य-ञ्चा)
दि- -द्वयः वैगृ ३, १७ : १४.

भूमि-लाम- -भः अप ६०, १,
२; -भाय आज्यो ६, ४.

†भूमि-लोक- -के^० आपश्रौ १३,
१८, ९; बौश्रौ १४, २० : १७;
२१; २५.

भूमि-वत् गौघ १३, १९०.

भूमि-व(त>)ती^० - -तीम्
बौश्रौ १९, १० : १०.

भूमि-त्रीहि-यवा(व-ञ्च)जा(जा-
ञ्च)व्य(वि-ञ्च)श्च(श्च-ञ्च)र्षभ-
धेन्व(तु-ञ्च)नहुह- -हुहः गौघ
७, १५.

भूमि-शुद्ध-वर्जम् काश्रौ २२, १,
१०.

भूमि-ष्ठ- पा ८, ३, ९७; -ष्ठः
काश्रौ ७, ९, १२; -ष्ठम् विध
२३, ४३; ६४, १७.

भूमि-संस्कार- -रान् वागृ १४,
४.

भूमि-सम- -मस काश्रौ १६, २,
२; वाश्रौ १६, १, ११.

भूमि-स्तोम^० - -मे वैताश्रौ ४०, १.

भूमि-स्थ-पात्र- -त्राणाम् काघ
२७८ : ५.

भूमि-स्पृश- -स्पृशः द्राश्रौ १०,
४, ७; लाश्रौ ३, १२, ६^१.

भूम्य(मि-अ)नधिष्ठान- -नम्
काश्रौ १५, ८, २५.

भूम्य(मि-अ)नृत^० - -तम् वौघ
२, १, ४१; सुघप ८६ : १; -ते
वौघ १, १०, ३१.

भूम्य(मि-अ)पहरण- -णम् विध
३६, ३.

भूम्य(मि-अ)पहारिन्- -री
शंघ ३७८.

भूम्य(मि-अ)म्बू(म्बु-उ)त्सर्ग-
तस(ः) शंघ ४५७ : १८.

भूम्य(मि-अ)स्थि-क्वाष्ठ- -ष्ठानाम्
सुघ २९; सुघप ८७ : १३.

भूम्या(मि-आ)दान- -ने आपघ
२, २७, १६; हिघ २, ५, २३५.

भूम्या(मि-आ)दित्या(त्य-ञ्च)
न्तर- -रम् अप ४१, ४, २.

१भूम्यस^० - पा ६, ४, १५८; पाग
१, ४, ५७; -यः^१ आश्रौ १, ९,
५^१; २, ५, १४; ५, १६, २^१;
शाश्रौ १, १४, १७; २, १०, २^१;
७, २४, ४^१; १७, १७, १^१; काश्रौ;

निसू ८, ७ : २६^१; आपमं २,
१, ५^१; आगृ १, १७, १३^१;
पागृ २, ६, २६^१; मागृ १, २१,
६^१; २२, ११^१; -यः^१ऽयः

बौघ ४, १, २; २, २; -यसः
आपश्रौ ५, १, ५; ८, १०, ८;
बौश्रौ; -यसा शाश्रौ १२, २, ११;

आपश्रौ; या ३, २; -यसाम्
शाश्रौ १३, १४, ५; हिश्रौ १६,
१, २३; लाश्रौ ६, ४, १५; कप
३, ९, १७; मीसू १२, २, २३;

-यसि आश्रौ १, ७, ७^१; शाश्रौ
१, १२, १^१; काठश्रौ ४९; पावा
१, ३, ११; -यसे आप्रिगृ २, ४,
१२; १२; या १, १९; २, ११^१ × ४;

-यसाः आपघ २, ६, १७;
हिघ २, २, १८^२; -यांसः आश्रौ
९, १, ९; शाश्रौ ८, २१, १^१;

आश्रौ ५, २९, ४^१; २४, ४,
१३; बौश्रौ; -यांसम् आपश्रौ
१२, ९, ७; बौश्रौ; -यांसि
आपश्रौ २४, ४, १२; द्राश्रौ;

-यांसौ वाधुश्रौ ४, ३३ : ५;
-यान् शाश्रौ २, १०, २; १५,
१७, १^१; आपश्रौ.

†भूम्यसी^० - †सि आपश्रौ
४, १०, ४; भाश्रौ; -सी पागृ ३,
१५, २१; अप २२, ३, ५; अशां
१८, १^१; -सीः शाश्रौ ७, १९,
१७; १३, ५, २१; काश्रौ;

-†सीनाम् कौगृ ३, ५, ९; शां
३, १०, ३; गो २, १५; -सीम्
आश्रौ २, ३, १८; शाश्रौ; -सीषु
निसू २, २ : २९; -स्यः वाश्रौ
३, २, ५, ४^१; लाश्रौ ९, ५, ७.

भूम्यस-कर^० - -र शुपा २,
२०^१.

भूम्यस-कृत्^० - †कृत् आपश्रौ
१७, ५, १०; बौश्रौ १०, ४५ :
३२; भाश्रौ; -कृत् आपश्रौ

a) बस.। b) पाभे. वैप १, २३६७ ऽ ऽ द.। c) तु. जीसं.। d) = इष्टका-विशेष-। e) = एकाह-
विशेष-। f) °स्पृशः इति पाठः? यनि. शोघः (तु. द्राश्रौ.)। g) मलो. कस.। h) वैप १ द.। i) क्वचित्
वा. क्वि.। j) भूम्यसः इति संस्कृतुः टि.। k) भूम्यश्रारत्ययम् इत्यस्य स्थाने सपा. आगृ १, १७, १३ भूम्यश्च
राध्याम् इति, मागृ १, २१, ६ भूम्यश्रारत्ययम् इति, पागृ २, १, १६ भूम्यश्रारा दिवम् इति च पाये.। l) सप. मागृ १,
९, २४ सर्वस्मै इति पाभे.। m) पाभे. वैप १, २३६८ ० द.।

१७, ५, १०; बौश्रौ १०, ४५ :
३२; वैश्रौ १९, ५ : २४; हिश्रौ
१२, २, ७.

भूयस्-त्व- -त्वम् हिश्रौ ३, ८,
३३; कप्र २, १, १३; -त्वात्
काश्रौ १, ५, ९; ५, ११, २४; १५,
४, १९; हिश्रौ ३, ८, ३४; -त्वेन
वाश्रौ १, १, १, ७०; मीस् ३, ३,
१०; १२, ३, ३.

भूयो(यस्-ञ)क्षर, रा^१- -रामिः
क्षुस् १, ७ : २०^१५.

भूयोक्षर-त्(र>)रा-
-रामिः माश्रौ ३, ७, १^१५.

भूयो-म(ध्य>)ध्या^१- -ध्या
उनिस् २ : ८.

भूयो-मय- पावा ५, २, ४७.

भूयो-मात्र- -त्रम् कौस् ९१,
१८.

भूयो-वादिन्- -दी भास् ३, ६.

भूयो-वि(द्या>)द्य^१- -द्यः या
१, १६; १३, १२.

भूयिष्ठ, छा^१- पा ६, ४, १५९; पाग ८,
१, २७; -ष्ठम् आश्रौ २, ३, २०;
शांश्रौ २, ९, ५; काश्रौ ४, १४,
१८; आपश्रौ; -छा आमिष्ट ३,
८, ३ : ४^१; -छाः शांश्रौ ८, ८,
७; १५, २६, १; आपश्रौ; या ७,
३; १३; -छान् बौश्रौ ४, ३ : २८^१;
निस् २, २ : ४; -छानाम् बौश्रौ
४, ३ : २७^१; निस् ४, ८ : १०;
-छानि लाश्रौ १०, १, १५; निस्
२, २ : २५; ७, ५ : २५; २८;
९, ३ : ६; -छाम् ङश्रौ ६,
३० : २७; ८, ५ : १४; अत्राय

१, ५; -ष्ठे लाश्रौ ६, ६, ८; माग
१, २, १, १.

१भूयिष्ठ-गत- -न्ते कागृ ४०, १^१.

२भूयिष्ठ-गत^१- -तेषु कागृ ३२,
२.

भूयिष्ठ-भाज^१- -भाक् निस् १,
१० : २३; ९, ८ : २५; -ङ्भाजः

आपश्रौ ३, १२, १; ४, १४, ४; ६,
२५, १०; माश्रौ ३, ११, १; हिश्रौ

२, ६, १४; ६, ६, १६; माशि ४६.

भूयिष्ठा(छ-ञ)चिस्^१- -चिचि
काश्रौ ४, १५, १६.

ङ्भूर^१ (ः) आश्रौ १, २, ३; ५;
११, १३^२; १२, १२; ३३;
३३; १३, ७; २, ३, १२; १६;

२७; ४, २५; ५, १३; १७, १०;
३, १२, ४; ५, २, १२^२; १३;

९, ११; शांश्रौ; वैश्रौ १२०, ५ :
४; ५; पाग १, १, ३७^१.

भूर्-आदि- -दयः कप्र २, १, ६.

भूर्-लोक- -क्वात् नाशि १, २,
६.

१भूरि^१- पाठ ४, ६५; -ङ्भूरयः
आमिष्ट ३, ८, २ : १९; बौपि १,
१५ : २९; -ङ्भूरि^१ आश्रौ १,
१०, ८; ४, १०, १; शांश्रौ ५,
१४, ८; ९, २८, ३; १६, ११,
२७; आपश्रौ १४, ३३, ६; १६,
३४, ४; बौश्रौ; या २, ७^१xx;

११, २१^१; -ङ्भूरिः पाग २,
१, १६^१; निघ ३, १; -रिम्

शांश्रौ ६, ११, ७^१; या १२,
२२; -ङ्भूरिणि^१ आपश्रौ १६,
३५, २; बौश्रौ १३, ३९ : ११;

वैश्रौ १९, १ : ११; १५; हिश्रौ
११, ८, २३; -ङ्भूरिः आपश्रौ ५,
२३, ९; ६, २३, १; पाग १, १८,
४; कौस् ५, २; शुप्रा २, १९.

ङ्भूरि-कर्मन्^१- -मर्ग^१ आपश्रौ २,
११, १०; बौश्रौ १, १० : १७;
माश्रौ २, ११, ११; हिश्रौ १, ८,
३१.

भूरि-ज- -जानाम् शांश्रौ ८,
१७, १^१.

भूरि-जित्^१- ङ्जित् आपश्रौ
१६, ३०, १; वैश्रौ १८, २० :
३९; हिश्रौ ११, ८, ४.

भूरि-लोक^१- -काः या १, १०^१.

भूरि-दा^१- -दाः बौश्रौ ४, ३ :
२७^१.

भूरि-दावत्-तर^१- पावा ८,
२, १७; -रा या ६, १^१.

भूरि-दावत्^१- -न्नः शैशि ७३^१.

भूरि-धन^१- -ङ्भूनाः आपश्रौ ६,
२७, ३; कागृ २७, ३.

ङ्भूरि-धा(र>)रा^१- -रा अत्रा
२, २, १६; -रे या ५, २.

भूरि-सु(त्र>)त्रा^१- -ङ्भूना
आपश्रौ १५, ७, ७; बौश्रौ ९,
७ : १२; माश्रौ.

ङ्भूरि-रेतस्^१- -तसा आपर्म
२, २०, ३१; -ताः^१ माश्रौ १,
२, ४, ४; वाश्रौ १, १, २, १९.

भूरि-शुक्ल^१- -ङ्गाः या २, ७^१.

ङ्भूरि-सख^१- -खाः^१ हिश्रौ ६,
७, ८; हिगृ १, २९, १.

भूरि-संपद्- -पद्ः अप५९, १, ७.

ङ्भूरि-स्था(त्र>)त्रा^१- -त्राम्

a) बस. । b) सपा. ञरामिः (तां ९, ३, ८ च) <> ञरतरामिः इति पामे. । c) वैप १ द्र. ।

d) कस. । e) कवित् वा. किवि. । f) पामे. वैप १, २३६९ d द्र. । g) पामे. वैप १, २१०१ n द्र. ।

h) पामे. वृ १८७३ d द्र. । i) पामे. वैप १, १७१५ r द्र. । j) पामे. वैप १, २३७० m द्र. । k) पामे.

वैप १, २३७० g द्र. । l) बस. समासान्तः अच् प्र. उसं. (पृ ५, ४, ७५) ।

ऋप्रा ५, २७.
 भूष्णु- पावा ३, २, १२९; -ष्णुः
 शांश्री १५, १९, १.
 १-२भू- √भू द्र.
 भूक- पाठ ३, ४१.
 भू-कम्प- १भूत- प्रष्ट. √भू द्र.
 २भूत^१- पाग ४, १, १८; १०५.
 भौत्य- पा ४, १, १०५; -त्यम्
 शंघ ११६; ४६^७.
 भौत्याय(न >)नी- पा ४, १,
 १८.
 भूतांश- प्रष्ट., भूम-, १-२भूमन्-
 √भू द्र.
 †भूमने-छा- -छाः^० आश्री ४, ६, ३;
 शांश्री ५, ९, ६.
 भूमि- प्रष्ट. √भू द्र.
 †भूमना^१ हिश्री १०, ५, ११.
 १भूयस्- √भू द्र.
 २भूयस्^०- (> भौयसि-, भौयि- पा.)
 पाग ४, १, ९६.
 भूयस्-कर- प्रष्ट., भूर, १भूरि-
 √भू द्र.
 २भूरि^१- पाग ४, १, ११२; -र्यः^१
 बौश्री १७; २७; १.
 भौर- पा ४, १, ११२.
 भूरी^०- अप ४८, ७५^१.
 १भूर्ज^१- पाठभो २, २, ९२; पाग २,
 ४, ३१^०.
 भूर्ज-वृक्ष-म(य >)यी- -र्यः
 कागु ४०; २२.

भूर्ज-नाकल- लेन कौमु ३८, ९.
 २^१भूर्ज^१- > √भूर्जि > भूर्जयत्-
 -†यन्तस् साश्र १, ७४; उनिस्
 ४: ११.
 भूर्णि- √भूर द्र.
 †भूर्वरि^१ आश्री १४, १७, ३; हिश्री
 १५, ५, ३.
 √भूष् पाधा. भ्वा. पर., नुरा. उभ.
 अलंकारे.
 भूष्ण^१- पाग २, ४, ३१; ३, १,
 १३४^१; -णम् अप ४१, ६, ५;
 ६८, ५, १२; -णानि अप १, ३१,
 ३; आज्यो ७, १; -णे पा १, ४,
 ६४; ६, १, १३७; -णेषु अप ७०,
 ३; -णैः जैश्रीका १२.
 भूष्ण-प्रातुर्य-वाक्य- -न्येषु
 ऋत ४, ५, ८.
 भूषा-> भूषा-कर्मन्- पावा ३,
 १, ८७.
 भूषित- -ता: अप ६८, १, १७.
 √भू(=द्वा.वधा.)^१ पाधा. भ्वा. उभ.
 भरणे; जु. उभ. धारणापोषणयोः,
 †भरन्ति आश्री २, ६, २^३;
 शांश्री; भरथः या ५, ५^१; †भरथ
 बौश्री १०, ४; २२; वैश्री १८,
 १; ५३; या ९, ९; †भरामि
 आपश्री १, ७, १३; बौश्री २, ९;
 ७; भाश्री; †भरामः आपश्री
 १६, ३, १३; बौश्री १०, ४;
 २२; वैश्री; †भरत, > ता आश्री

६, ४, १०; शांश्री; †भरत
 गोय २, ७, १४; या ११, २;
 १२, १०; †भरम^१ आमिग ३, ८,
 २; ४४; बौपि १, १५; ५१.
 †विभति आश्री २, १०, २१;
 ३, ८, १; शांश्री १२, १९, ४^०;
 आश्री; विभूतः माश्री १, ५, २,
 ४; वाश्री १, ४, १, १९; ५, ४, ३८;
 या ३, २२; तैप्रा ४, ५२; विभ्रति
 वाधूश्री ४, ६५^१; १०; निस् १, ६:
 २१^१; अप १८, ३, १०^१;
 †विभर्षि शांश्री ५, १, १३; बौश्री;
 †विभृयः आपश्री ५, ८, ८;
 बौश्री; †विभृथ, > था आश्री
 ७, ११, ७; पाय ३, ५, ३; या ६,
 २३^१; †विभर्मि आश्री २, ५, ७;
 आपश्री ६, २५, २; बौश्री;
 †विभृवः आश्री २, ५, १०;
 माश्री १, ६, ३, १६; †विभरत्^१
 हिश्री २, २, ४९; आमिग १, ७,
 ३; ३४^१; †विभर्तु आपश्री
 २, २१, ७^१; वाश्री २, १, ३, ५;
 आपमं १, १२, ८^१; हिग १, २५,
 १^१; †विभृतास आपश्री १, १२,
 २; हिश्री १, ३, २३; ४, ३; या
 ९, ४^०; †विभृहि^१ आश्री २,
 ५, ३; बौश्री ३, १३; ३; माश्री
 १, ६, ३, ९; वाश्री १, ५, ४, २९;
 विभृत बौश्री १८, ४४; २१^१;
 या ६, २३; †विभृता^१ तैप्रा ३,

a) व्यप. । b) =मनु-विशेष- । c) वैप १, २३६० p; २३७१ h द्र. । d) पाठः? सूः (क्रिप.), मा
 (अव्य.) इति शोषः (तु. सपा. मा ६, १२ आश्री १३, १८, ७) । e) तु. पागम. । f) बहु. < भौर- ।
 g) =उदक- । h) वैप १ द्र. । i) पाठः? भूवरे इति शोषः (तु. वैप १, ६३० m) । सपा. काठ ३५, ३ ? विभू^०
 इति पामे. । j) भाप., नाप. । k) पृ १२९५ b द्र. । l) या २, १७; ३, ९ पा ३, ४६; ७, २, १३; ४९; ४,
 ७६ परामृष्टः द्र. । m) पामे. वैप १, २३७२ b द्र. । n) पामे. वैप १ स्तृणामि शौ १८, ४, ५१ टि. द्र. ।
 o) पामे. वैप १, २०८३ g द्र. । p) पामे. वैप १, २३७३ b द्र. । q) अवि^० इति पाठः? यनि. शोषः (तु.
 हिश्री.) । r) पामे. पृ १६२५ m द्र. । s) पामे. वैप १, २३७३ n द्र. । t) पामे. वैप १, २३७३ o द्र. ।
 y) वैप १, २३७३ p द्र. ।

१०फं^१; ऋभिराणि^२ आश्रौ २,
५,३; बौश्रौ; ऋभिरभिः कौश्र
५, १, १३; आश्रिण्य ३, ५, २ :
७; बौषि १, २ : ११; ऋप्रा १,
८५; तैप्रा ८, ८; शौच २, ४४;
बिभृयत् वाधुश्रौ ३, ४ : २;
वाण ९, १२; हिण्य; बिभृयुः
बौध २, २, ३८.
ऋभिरिव्यति^३ आपश्रौ १६, १०,
८; वैश्रौ; ऋभिरिव्यामः आपश्रौ
१६, २, ७; बौश्रौ १०, २ : १४;
माश्रौ; ऋभिराः बौश्रौ १०,
२२ : १०; शुप्रा १, १६५; तैप्रा
८, ८; भाः ऋप्रा १, ८२फं.
जर्भरि^४ - नी या १३, ५फं.
ऋभिरि^५ - अत्रिः या ६, १७; -अत्रेः
कौस् ६२, १५; १६; अत्र ११, १.
बिभ्रत् - अत्र आश्रौ ३, १२, १४फं;
शाश्रौ; आपश्रौ १०, २८, ३;
माश्रौ १०, १९, १५फं; -ऋभ्रतः
आश्रौ ४, ६, ३; शाश्रौ; आपश्रौ
६, १६, १२^६××; कौस् ८९, १६;
-अन्तस्^७ विध १, ३७.
ऋभ्रति^८ - ती पाण्य ३, ३, ५;
काण्य २७, ३^८; कौस् २४, ३९××;
अप; -तीः आण्य २, १०, ६^९; दंवि
१, ४; -त्यः शाश्रौ १७, १४,
१३; १७, ८.
बुभूर्पा^{१०} - र्पा आपध २, १०, १; हिध
२, ४, १.
भरण, णा^{११} - पाण्य ३, १, २७^{१२}; ४,
४, १६; -णस् आश्रिण्य ३, ७, ३ :

२०; बौषि २, २, २; हिषि १९ :
७; वाध १७, ५४; शंघ २७९;
आज्यो १०, ४; -णात् या १,
१४; ३, १८; -णानाम् या ९,
२८^१; -णाय या ७, २५; -णे
शंघ २७९.
भरण-कल्प- -ल्यानाम् आपश्रौ
५, ७, १३.
भरण-शेष- -षम् भाश्रौ ५, ३,
१९.
भरणिक- पा ४, ४, १६.
भरणीय- -याः विध १५, ३९.
√भरण्य पा ३, १, २७.
भरण- > णी^{१३} - -०णि अशां
५, ८; -णीः अप १, ५, २; ८,
१०; -णीनाम् माश्रौ ६, २, ३,
८; वाश्रौ २, २, २, १४; -णीभिः
अप १, ३०, २; ४१, ८; ४५, ८;
५०, ८; अशां ११, ८; -णीभ्यः
शाण्य १, २६, २८; अशां १२, ५;
-णीषु जैण्य २, ५ : २०; अप १,
१०, ९; अशां १३, ५; -ण्यः
अप १, १, २; २-३, १; ४, ८; ११,
५, १४, १; ५७, १, १; वेज्यो १८.
भरण-संज्ञक^{१४} - -कम् अशां
५, ८.

ऋभ्रत्^{१५} - रन् बौश्रौ १०, ४ : १७;
१९; वाश्रौ २, १, १, २९; -रन्तः
बौश्रौ ३, ८ : २७; कौस् २, १;
अप ४५, २, १५; ऋप्रा २, ४५;
शुप्रा ४, ६४; -रन्तस् अत्र १०,
११.

भरन्ती^{१६} - -न्ती या ११,
३६फं.
भरद्-वसु^{१७} - -सुः शैशि १३८;
-सोः चाञ ४० : ६.
भरद्-वाज^{१८} - पाण्य ४, १, १०४;
११०; -जः शाश्रौ १४, १२,
२××; निस्; -जस् आपश्रौ
२४, ७, १०; वैण्य १, ४ :
१५; अप १, ३९, ५फं; अशां
९, ५; वृदे ५, १२४; -जस्य
बौश्रौ १८, ५२ : १०; द्राश्रौ १,
४, ४फं; लाश्रौ १, ४, ४फं; शुञ
२, ३५८; चाञ ३९ : १; १४;
-जाः^{१९} आश्रौ १२, १३, २;
आपश्रौ २४, ७, ३; बौश्रौ १७ :
१; १८; हिश्रौ २१, ३, १०; वृदे
४, ९८; -जानाम्^{२०} आपश्रौ २४,
६, १८; बौश्रौ १९ : ९; हिश्रौ
२१, ३, १०; -जाय शाश्रौ १४,
१२, २; आश्रिण्य १, २, २ : १५;
बौण्य ३, ९, ३; ६; भाण्य ३, १० :
१; ११ : ३; वृदे ५, १३९; ऋप्रा
१८, ५७फं; उस् २, ३फं; -जे
ऋप्रा ७, ३४; -जौ अत्र २०,
९०.

भारद्वाज^{२१} - पा ४, १,
१०४; -०ज आश्रौ १२, ११, २;
५××; आपश्रौ; -जः आश्रौ ७, ६,
५; काश्रौ; या ३, १७^{२२}; ६, ३०;
-जम् शाश्रौ १०, ११, ८××;
हिश्रौ; -जस्य पा, पावा ७, २,
६३; -जाः वैश्रौ १२, १ : १९;

- a) पाभे. वैष १, २३७३ न द्र. । b) पाभे. वैष १, २३७४ C द्र. । c) पाभे. वैष १, २३७४ f द्र. ।
d) विप. (अश्विन-)। यङ्लुगन्तात् कर्त्तरि प्र. । e) वैष १ द्र. । f) *अन् इति पाठः? यनि. शोषः (तु.
आपश्रौ १०, २८, ३) । g) पाभे. वैष १, २३७४ j द्र. । h) शतुः लुम् उस्. (पा ७, १, ७८) । i) पाभे.
वैष १, २०८५ n द्र. । j) भावे कर्त्तरि च कृत् । k) तु. पागम. । l) विप. (ओषधि-) । m) वस. पूष.
हृक् (पा ६, ३, ६३) । n) वैष १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र. । o) ऋषि-विशेष- । वस. । p) बहु. <भारद्वाज-
७) व्यप. (ऋषि-, आचार्य- [पा.]) ।

ऋअ २, ६, ५२; -जानाम् वेध४,
३, १; -जाय हिर२, १९, ३; -जे
वृदे ३, १२८; पा ४, २, १४५^६.

भारद्वाजी- जी
ऋअ २, १०, १२७^७; साअ १,
६०९^७; ऋप्रा १७, ४८^८; चव्यू
२: १६^८; -जीषु क्षुस् ३, ४:
९^८; -ज्या: पाण् १, १९, ७^८.

भारद्वाजक^१- -कम्
याशि २, ४.

भारद्वाज-स-गोत्र-
-त्रम् चव्यू ४: २३.

भारद्वाजायन- पा ४,
१, ११०; -ना: बौश्रौप्र २७:
१०; निस् ९, ९: २३.

भरद्वाज-कुत्स-विश्वामित्र-
-त्रा: अअ २०, ८^{१६}.

भरद्वाज-दुहितृ- -ता शुअ
४, १९.

भरद्वाज-धन्वन्तरि^१- -रथे
कौय ३, १०, ४^{११}; शांण् २, १४, ४.

भरद्वाज-प्रवृ^१- -स्केन
कौसू ४७, १२.

भरद्वाज-वत् आपश्रौ २४, ६,
१८; ७, ४, ६; १०; बौश्रौप्र १७:
१९××; हिश्रौ.

भरद्वाज-शिक्षा- -क्षाम्
भाशि १३०.

भरद्वाजा(ज-आ)ग्निवेश्य-
-श्यानाम आश्रौ १२, ११, ५.

भरद्वाजा(ज-आ)दि- -दयः

बौध ४, ६, ९.

भरत^१- पाठ ३, ११०; पाग ४,
१, ८६^{१०}; १२३^{१०}; १७६^{१०}; ५, ३,
११७^{१०}; -तः कौसू ७१, ६^{१०};
साअ^{१०} १, ६११; २, ९४६;
या ८, १३; -तम् आपश्रौ २,
१८, ९; बौश्रौ १, १६: १३;
भाश्रौ २, १७, ९; माश्रौ १, ३,
२, १२; हिश्रौ २, २, २१; -तस्य
आश्रौ ४, ५, ३^{१०}; बौश्रौ १०,
१७: १२^{१०}; ऋअ २, ६, ५२^{१०};
-ता: अअ ४८, ९६^{१०}; निघ
३, १८^{१०}; -तंता: आपश्रौ
१८, १२, ७; १४, १०; बौश्रौ
१२, ९: २०; हिश्रौ १३, ५, ४;
-तान् अअ ५०, १, ६^{१०}.

भारत^१- पा ४, १, ८६;
५, ३, ११७; पाग ४, १, १२३;
-तंता आश्रौ १, २, २७; ७,
८, १; शांश्रौ १, ४, १४; बौश्रौ
१३, ५: ५; माश्रौ ५, १, ४, १२;
हिश्रौ २१, २, ७; -तः आश्रौ
६, १, २; ७, ८, १; ऋअ २, ५,
२७; -तम् शंघ ११६: ४०^{१०};
-तेन वृदे ५, ८३; -तौ ऋअ
२, ३, २३; शुअ १, १८३; ५९०;
२, ३४६; ४, ८; १२.

भारती^१- पा ४, १, १७६.

भारतेय- पा ४, १, १२३.

भरत-द्वादशाह^१- -हः आश्रौ
१०, ५, ८; काश्रौ २४, ७, ११;

आपश्रौ २१, १८, १५; बौश्रौ
१६, ३२: ८, २६, २०: ७;
८; -हा: लुस् २, १५: १.

भरत(त-ऋ)र्षभ- -०म शांश्रौ
१५, २५, १^{१०}.

तंभरत-वत् काश्रौ ३, २, ७;
आपश्रौ २, १६, ५; बौश्रौ १,
१५: २९; १६, २: २५; २४,
२८: ३५; माश्रौ २, १५, ८;
माश्रौ १, ३, १, २६; वाश्रौ १,
३, ४, १८; हिश्रौ २, १, ५०.

भरथ^१- पाठ ३, ११४.

भरमाण- -गः या ५, ४^{१०}.

भरिभ्रत्- पा ७, ४, ६५; -तंभ्रत्
आपमं २, ११, २५; -भ्रत्
वायूश्रौ ३, ४८: २^{१०}.

भरिमन्- पाठ ४, १४८.

भरिप्यत्- -प्यन्ती तैप्रा ४, १९^{१०}.

भरीमन्^१- पाठभो २, १, २९७;
-तंमभिः बौश्रौ १४, १४: ३५;
द्राश्रौ ११, ४, ९; लाश्रौ ४, ४,
८; अत्राय ४, १.

भरत्व्य- -व्यः गौध १०, ६०; १८,
३५; या ४, २६; २, १०; -तंव्यम्
काय ३, १०; माण् १, २, १७;
वाण् ९, १७; -व्या: विध १५,
३३; -व्यौ गौध २८, ४४.

तंभर्तुम् आपश्रौ ६, १९, ७; १५,
१०, ७; बौश्रौ.

भरतु^१- -वैरि माण् ३, १: ४; शंघ;
-तां शांश्रौ ८, १७, १^{१०}; बौश्रौ:

a) = देश-विशेष- । तस्येदमीयः अण् प्र. । b) = [भरद्वाज-पुत्री-] रात्रि- । c) = ऋच्- ।

d) = शाखा-विशेष- । e) = पक्षिणी-विशेष- । f) तस्येदमीयः लुञ् प्र. (पा ४, ३, १२६) । g) °जः कु° इति

पाठः? यनि. शोधः । h) मलो. कस. । i) °धा° इति पाठः? यनि. शोधः (तु. शाण्.) । j) = सूक्त-

विशेष- (शौ २, १२) । मलो. कस. । k) विप. > नाप. (अमि-, आदित्य- प्रच.) । विशेषः टि. द्र. । l) वैप १ द्र. ।

m) = देश-विशेष- । n) व्यप. । o) = आयुधजीविसंघविशेष- । p) = ऋत्विज्- ।

q) बह्वु. < भारत- । r) = प्रन्थ-विशेष- । s) = [तद्देशजा-] कथा- । t) = कतु-विशेष- । u) वैप १

निर्दिष्टानां समावेशः द्र. ।

या १३, ५; -र्त्वारः आपमं २,
२, १०^३; काण्ड ४१, ११^३;
बौध २, ५, १४^३; बौपि ३, २,
३४; जैगृ १, १२ : ४८^३; -र्त्तस्म
आपश्रौ १९, १६, २०^३; आपण्य;
-र्त्तारौ या १३, ५^३; -र्त्तुः आसिगृ
२, ७, ६ : १; ३, ७, ३ : २०^३;
काण्ड; -र्त्तुभिः^३ कौगृ ३, १५,
५; शांण्ड ३, १३, ५; -र्त्तुन् वैगृ
६७ : ८; माण्ड २, १४, १५; -र्त्तै
शंघ १८९.
र्त्तुमर्त्री- -र्त्तौ कौसू १०६, ७;
-र्त्तुभिः^३ आपमं २, १९, २;
आसिगृ ३, १, १ : १५; -र्त्तुम्
आपश्रौ ५, २, १; -र्त्तुः भाशि
६६.
भर्तु-भ(क्त>)का- -क्तया कप्र
२, १०, ३.
भर्तु-वध- -घः वाध २८, ७.
भर्तु-विप्रवास- -से हिध २, ३,
३०.
भर्तु-सकाश- -शम् वाध^३ १७,
७६.
भर्तु-सूक्त- -क्तेन^३ बौपि २, २,
२; हिपि १९ : ७.
भर्तु-स्थिता- -न्ता आज्यो ७,
१९.
भर्तु-हित- -त्ते बौध २, २, ४८.
र्त्तुमर्त्तु- -र्त्तु निध १, २^३; -र्त्तुणे
या ७, २५.
भार^३- -रम् ऋत्तुश्रौ १०, ८, १२^३;
१३^३; शांश्रौ; अप ७१, १५, ७.
भार-तस- -स्वाय बौध २, ३, ५०.

भार-भरा(र-आ)क्रान्त- -न्ताः
याशि २, ६६.
भार-हार- -रः या १, १८^३.
भारा(र-अ)भिनिहत- -तस्य
आपध २, ११, ७; हिध २, ४,
२३.
भारिन्- > परि-वार्धुषिक-
तस्कर- -राणाम् सुध २६.
भारक- -काः वैगृ ५, २ : १३.
भारण- (> णिक- पा.) पाग ४,
४, १६.
२भारा- पाग ३, ३, १०४.
भार्(यं)>र्था- -वैथा बौपि २, ७,
१०; जैगृ १, २१ : ७; कप्र; -र्था
आश्रौ ३, १३, १२; वाश्रौ; -र्थाः
काश्रौ २०, ८, २४; आसिगृ;
-र्थाम् आश्रौ २, १६, २५;
आपश्रौ; -र्थायाः हिश्रौ ३, १,
२८; शांण्ड; -र्थायाम् आसिगृ २,
७, ४ : ३; बौगृ ४, ११, १; कप्र;
-र्थायै आश्रौ १२, ९, ९; आपश्रौ
२२, २, १६; हिश्रौ १७, १, ३२;
-र्थासु शंघ ३६७; ३६८; विध
२२, ४३; -र्थे आसिगृ २, ७, ३ : १.
भार्या-गो- -गोषु काश्रौ २५,
४, ३५.
भार्या-जित- -तस्य वाध १४,
११.
भार्या(र्था-अ)तिक्रमण^३- -णम्
विध ५, १९२^३.
भार्या-त्व- -त्वम् विध ४४, ४५.
भार्या(र्था-आ)दि- -दिः बौध
२, २, ७५; गौध ५, ७.

भार्या-पति- पाग २, २, ३१.
भार्या-पिण्ड- -ण्डम् शंघ १८९.
भार्या-पुत्र- -त्रैः सु १८, ५.
भार्या-मय- -यम् वैध १, ९,
१५.
भार्या-संयुक्त- -क्तम् मीसू ६,
८, १३.
भार्या-संज्ञा-> णिता- -न्ता
आसिगृ ३, १०, १ : २^३.
भार्या-सं(ज्ञक)> जिका^३- -का
बौपि ३, ५, १^३.
भार्या(र्था-अ)ढ^३- पाग २, २, ३७.
भार्या(र्था-उ)पयमन- -नम्
आसिगृ १, ६, ३ : ६८.
भृत्^३- -न्तात् विध ३७, २१.
भृत्-क- -कः विध ५, १५३;
-कम् विध ५, १५७.
भृत्क-दोष- -षात् विध ५,
१५९.
भृत्का(क-अ)ध्यापक^३- -कः
शंघ ३८; -कान् विध ८२, २०.
भृत्का(क-अ)ध्यापन^३- -नम्
विध ३७, २०.
भृत्का(क-अ)ध्यापित-
-तान् विध ८२, २१.
र्त्तुत्कण्व^३- -ण्वः अप १, ३९,
५; अशां ९, ५.
भृत्-त्व- -त्वात् मीसू १२, १,
३२.
भृत्-पत्नी- -न्त्यः वाध १९,
२४.
भृत्^३- पाग ४, ४, १२^३; -तिम्
आपश्रौ १०, १८, ४; माश्रौ २,

a) पाभे. वैप २, ३खं. घर्त्तारः मंत्रा १, ६, २८ टि.द्र. । b) = (भर्तु-सूक्तेन [तैआ ३, १४] ह्यमाना-)
आहुति- । c) सप्र. भर्तुः सूक्तेन <> भर्तुसूक्तेन इति पाभे. । d) सपा. भर्तुभिः <> भर्त्तुभिः <> घर्त्तुभिः
(परि.) इति पाभे. । e) वैप १.द्र. । f) = हिरण्य- । g) पाभे. वैप १, २३७७ d.द्र. । h) नाप. (आत-
न्नायि-विशेष-) । उप. कर्त्तरि क्त्वं । i) णिगम् इति जीसं. । j) परस्परं पाभे. । k) बस. । l) = भृत्ति-, सेवक-
श्रौ. क्त. । n) = उपपातक-विशेष- । तुत्. । o) अर्थः व्यु. च३ । p) द्र. पागम. ।

१,३,१२; ६, १, ४, २६; वैश्रौ
१२, १४: १; विध ५, १५३;
-तौ पा ३,२,२२.

भार्तिक- पा ४,४,१२.

भृति-प्रत्यय-पूर्वपद- दात्

पावा ५,४,११६.

भृति-वचन- -नात् मीस् १०,
२,२६.

भृत्व^१- पा ३, १, ११२; -त्याः
कौस् ७६, २९; १४०, १३; अप
१९, ३, २; हिघ २, १, १२५^b;
-त्यान् विध ५७, १३; ६७, ४२;
-त्यानाम् आपध २, २६, १;
हिघ २, ५, १९६; आज्यो ४, ८;
-त्ये आपध २, २६, २२; हिघ
२, ५, २१७; -त्येषु विध ६७,
४१; -त्यैः विध ६७, ३७; गौघ
५, ४५.

भृत्य-जना(न-अ)वशिष्ट- -ष्टम्
बौध २, ३, १८.

भृत्य-पक्ष- -क्षाः शंघ २५१.

भृत्य-भरण- -णम् गौघ १०,
५४.

भृत्या(त्य-अ)तिथि- -थीनाम्
बौध २, ३, १७.

भृत्या(त्य-आ)दि- -दिषु अप
७२, ३, १२.

भृत्या- पा ३, ३, १९; -त्याम्
या १४, २५^क.

भृत्वा बौश्रौ २२, ३: ६; माश्रौ.

भ्रियमाण- -णे आपश्रौ १६, ११,
११; वाश्रौ २, १, २, ३१; वैश्रौ
१८, ९: १२; ११: १ हिश्रौ ११,
४, ११; १२; १३; १४.

√भृ (=√हृ [दीर्घ]) > भृगि- >

√भृगीय, √भृगीयते अप
४८, २६; निघ २, १२०.

भृ (= भृ-) > भृ-कृ (टि >) टी-

पावाग ६, ३, ४१.

√भृश^१ पाधा. चुरा. उभ. भाषाथे.

√भृश्व^१ पाधा. भ्वा. उभ. अदने.

१भृगु^१- पाठ १, २८; पाग ७, ३, ५३;

-गवः^१ √आपश्रौ १३, २१, ३;
२४, ६, ९; बौश्रौ; √अप^१ ४८,
१३४; १३९; वृदे^१ १, १२८;

६, १५६; ८, १२५; निघ ५,
५^क; या ४, २३^क; ११, १८^क;

१९^क; -गुः आश्रौ ६, ३, १^क;
शांश्रौ; या ३, १७^क; -^कगुभिः^१

आपश्रौ ४, १२, १०; १७, २३, ९;
बौश्रौ; -^कगुभ्यः^१ आमिष्ट १,
२, २: ११; बौगु ३, ९, ३; भागु

३, ९: ११; हिगु २, १९, १; -गुम्
वैगु १, ४: १६; अप ४३, ३,
१७; ६९, १, १; ७०, १, १; ७; ८,

१; -^कगुणाम्^१ काश्रौ २, ४, ३७;
आपश्रौ; -गुस्^१ हिश्रौ २१, ३,
७; आमिष्ट २, ५, ३: ३२^क; बौगु

३, ७, २१^क; शंघ ११६: ५६;
-गोः अप ६३, ४, ४; आज्यो ९,
१; -गौ आज्यो ६, १२^ह.

भार्गव^१- -०व आश्रौ १२, १०,
६-१३; आपश्रौ; -वः शाश्रौ

१५, १२, २; काश्रौ; अप ५१, १,
४^क; आज्यो ८, १^ह; -वस् बौश्रौ

२२, २०: १८; द्राश्रौ २, २, २२^क;
लाश्रौ १, ६, २०^क; जैगु २, ९:
१०^क; अप; -वस्य आपश्रौ

५, ११, ७; भाश्रौ; -वाः वैश्रौ
१२, १: १९; -वाय कागु ४,
२०^क; अप २५, १, २; -वैः अ
४६, २, ३.

भार्गव^१- -वी अशां
१६, १; वृदे ४, ११^क; -वीम्
अशां १७, १; -ध्याम् अशां
१८, २; १९, १.

भार्गव-जामदग्न्य-वस-
-त्सानाम् वैध ४, २, १.
भार्गव-भौमा(म-अ)र्क-
-र्काः अप ६८, १, ३.
भार्गव-शासन- -नम् कप्र
३, ८, १०.
भृगु-पुत्र- -त्राः अप ५२, ५, ४.
भृगु-भाषित- -त्सम् अप ६९,
८, ६.
भृगु-वत् आपश्रौ २४, ५, १२××;
वौश्रौप्र.
भृगु-वत्सा(त्स-२आ)प्रायण- -णेषु
पा ४, १, १०२.
भृगु-शुनक-वसिष्ठ- -ष्ठानाम् मीस्,
६, ६, २६.
भृगु(गु-अ)ङ्गिरस्^१- -रसः बौश्रौप्र
१: ६; कौस् ९४, ४; -रसाम्
वौश्रौ २, १६: ४३; बौश्रौप्र २:
५; वाश्रौ; -रसोः अप ३३, २,
२; -राः अश्रुम् २; अश्र १,
१२; २५××; -रोभ्यः कौस्
१३९, ६^क.
भार्गवाङ्गिरस्^१- -सः वाश्रौ
१, ४, ३: १.
भृगुङ्गिर-प्रोक्त- -क्तैः अप ४६,
७, १.

a) = सेवक- । b) पाप्मे. पृ १८४२ d द्र. c) हृणीयते इति दे. । d) तु. BPG. । e) वैप १

द्र. । f) बहु. <भार्गव- । g) = (माध्यमिक-) देवगणाऽन्यतम- । h) = शुक्र-वार- । i) = शुक्र-ग्रह- ।

j) = साम-विशेष- । k) = महा-शान्ति- । l) व्यप. । m) व्यप. (ऋषि-, [तद्दृष्ट-] अथववेद-) ।

मखे. कस. वा दस. वा । n) अणि प्र. उभयपदवृद्धिः ।

भृग्वङ्गिरो-गण- गेषु बौध्रौप्र
 २: ६.
 भृग्वङ्गिरो-रूप- पम् अप ३७,
 १८, ११.
 भृग्वङ्गिरो-रूपधारिन्- -रिणे
 अप ३७, १, १.
 भृग्वङ्गिरो-विद्^a- -वित् कौस्
 ९४, ३; अप ४४, २, ४; ७०,
 १, ६; -विदः कौस् ६२, ३;
 -विदम् अप ३, १, १३; ३, ६;
 ७२, ४, ६; -विदा वैयाथौ १, ५.
 रभृगु^b-> गु-तुङ्ग^c- ङे शंघ १९४;
 विध ८५, १६.
 भृगु-पतन-> न-सप्राण^d-देशा-
 न्तर-मृत- -तानाम् काथ
 २७४: १.
 भृग्व(गु-अ)ग्नि-जल-संग्राम- -मेधु
 सुध १७.
 भृग्व(गु-अ)ग्न्य(ग्नि-अ)नाशका-
 (क-अ)म्बु-संग्राम-विद्युन्-नृप-
 हत- -तानाम् विध २२, ४७.
 भृज्ज्, ज्ञा^e- पाठ १, १२५; पाग ४,
 १, ४१; -ज्ञा: अप्रा ३, ४, ११.
 भृज्जी- पा ४, १, ४१.
 भृज्जार^f- पाठ ३, १३६; -र: अप ६८,
 २, ३०; -रा: अप ६४, ७, ६.
 भृज्जार-पात्र- -त्रेषु विध २९, १३.
 भृज्जारो(र-उ)द्धृतोर्वरा-रज्जुबद्धैक-
 पशु-कुमारी-मीन- -नान् विध
 ६३, ३३६.

√भृज्^h पाधा. भ्वा. आत्म. भर्जने,
 भर्जन्ति बौध्रौ १३, २५: १६;
 १७, ३१: १३; भाश्रौ ८, १६,
 १२.
 भर्जयति वैश्रौ ११, १: ९;
 हिश्रौ ५, ४, २३; ८, १, ५४;
 भर्जयन्ति बौश्रौ ५, ११: १६;
 भाश्रौ ८, १६, १; भर्जयेत् भाश्रौ
 ८, ५, २०; कप्र ३, ४, ३.
 भर्जन- -नात् आपश्रौ १६, ९, ८;
 हिश्रौ ३, ४, २६; ११, ३, १२.
 भर्जना(न-अ)र्थे -थम् भाश्रौ
 ८, १६, १; हिश्रौ ५, ४, २२;
 -थे आपश्रौ १२, ४, १; भाश्रौ
 ८, ५, १४; वैश्रौ १५, ४: ८;
 १०; हिश्रौ ८, १, ४९.
 भर्जयित्वा वैश्रौ १५, ५: १.
 भृग्व- -ग्वान् बौश्रौ १७, ३१: १६.
 भृज्यमान, ना- -न: या ३, १७;
 -नासु भाश्रौ २, ३, २, ६.
 √भृज्(दीप्तौ)> १भर्ग^e- -र्ग: शाश्रौ
 ५, १, १०१; द्राश्रौ^g ७, ४, ९;
 ११-१३; लाश्रौ^h ३, ४, ८; १०-
 १२; अप ४८, ९११^k; -र्गिम्
 शाश्रौ ५, १, १०१; आपश्रौ २१,
 २२, ६; -र्गात्^l द्राश्रौ ९, ३,
 १०; लाश्रौ ३, ६, ३०.
 रभर्ग(वप्रा.)- पाठमो २, २, ५३^m;
 पाग ४, १, १७६ⁿ; -र्ग: ऋअ २,
 ८, ६०; साअ; अअ २०, ११८^o।

भा(र्गि>)र्गी- पा ४, १,
 १७६.
 भार्गायण- पा ४, १, १११.
 भर्गस्^p- पाठ ४, २१६; -र्गि:
 आश्रौ ६, १२, २^q; शाश्रौ २,
 १०, २; १८, २०, ८; काश्रौ १३,
 १, १२^r; आपश्रौ १०, १,
 ४^l; बौश्रौ २, ४: २२^s;
 ३, ९: ४; १७, ४३: १०;
 भाश्रौ ५, २, १५, २^t; वाश्रौ १,
 १, ५, २^u; हिश्रौ ७, १, ११^v;
 वैयाथौ २१, ९; आगृ १, २३,
 १५^w; आग्निगृ.
 √भृज्ज् भृज्ज् (= √भृज्ज्)^x पाधा.
 तुदा. उभ. पाके, भृज्जति वाश्रौ
 १, ७, ४, १६; मागृ १, ११, २;
 गोय १, ७, ७; अप ४८, १११^y.
 भृज्जन^z- पाठ २, ८०.
 भृज्ज्यमा(न>)ना- -नासु भाश्रौ
 १, ७, ६, ८^l.
 भृज्ज्, षा- -षा: भाश्रौ ८, ५, १८^{aa}.
 कप्र २, ९, ११^{ab}.
 भृज्ज्-पिष्ट- -ष्टम् कौस् २२, १.
 अष्ट्र^{ac}- -ष्ट्रात् भाश्रौ १, ५, ४, ४;
 ६, १, ३, २७; वाश्रौ १, ४, ३, ६;
 कौस् ६९, ८; -ष्ट्र कौस् ४७,
 २८; ४९, २१.
 आष्ट्र^{ad}- पाठ ४, १६०; -ष्ट्रात्
 कागृ २५, ८; -ष्ट्रे या ५, १२.
 आष्ट्र-ज- पा ६, २, ८२.

a) उप. <√विद् [ज्ञाने] । b) नाप. ([अतट-]प्रपात-) । c) = [केदारादि-साहचर्यात्] तीर्थ-
 विशेष- । d) पाठः? 'संप्राप्त' इति शोघः (तु. सप्र. विध २२, ४७) । e) वैप १ द. । f) = सुवर्णमय-पात्र- ।
 g) 'बद्धपशु' इति जीसं. । h) पावा १, १, ४७ परामृष्टः द. । i) सपा. भृज्य <> भृज्ज्य इति पाभे. ।
 j) = साम-विशेष- । k) सुवर्ण-नामन्- । l) पाभे. वैप २, ३खं. भर्गस्- > -र्ग: तां १, १, १ टि. द. ।
 m) <√भृ । n) = देश-विशेष- । o) = ऋषि-विशेष- । p) 'गम् इति पाठः? यनि. शोघः । q) पाभे.
 वैप १, २३७८ i द. । r) वर्गः इति पाठः? यनि. शोघः (तु. चौसं.) । s) पा ६, १, १६; १७; ४, ४७; ७,
 ३, ४९; ८, २, ३६ पावा ४, ४, ४७ परामृष्टः द. । t) वा. हिंसायां वृत्तिः । u) अष्टाः इति पाठः? यनि.
 शोघः । v) एकतरत्र भष्टाः इति पाठः? यनि. शोघः (तु. अस्तृ.) । w) = भृज्जन- ।

आय्म-इन्ध- पावा ६, ३, ७०.
 भुज्यकण्ठ^१->ण्ठ-माहित्य-वैश्य-
 वैदेहक-कान् गौध ४, २०.
 √भृद् पाधा. तुदा. पर. निमज्जने.
 भृणि-, √भृणीय √भृ (दीप्तौ) द.
 भृत-, भृत-क- प्रभृ. √भृ (वधा.) द.
 √भृम्, भ्रम् (वधा.)^२ पाधा. भ्वा.
 पर. चलने; दिवा. पर. अन्-
 वस्थाने, भ्रमते अप २९, २, ३;
 ७०^३, २३, २; भ्रमति वृत् ५, १:
 १८; अप ५८^३, ३, ३; ६८, ३,
 १२^३, ७२, १, ५; निघ २, १४^३;
 भ्रमन्ति अप ५२, ४, १; ६८, १,
 ४७; ७०^३, ११, २०; २२; भ्रमेत्
 आश्रिण् ३ ६, ४: ९.
 भ्रम्यात् पाण् ३, ७, ३; १४, १३.
 भ्रामयति अप १८^३, १, १०;
 भ्रामयेत् अप २२, ८, २.
 भृम^३- -मस् ऋपा ७, ४०^३.
 भृमि^३- पाठ ४, १२१; -मय:
 आश्रौ ७, ९, २^३; शाश्रौ १२,
 ११, २४^३; या ९, २४^३; -^३मि:
 द्राश्रौ ७, २, ७; लाश्रौ ३, २, ७;
 निघ ४, ३; या ६, २०^३.
 भृम्य(मि-अ)श्^३- -श्च: या ९,
 २४.
 भार्ग्यश्च - -श्च आश्रौ
 १२, १२, १; आपश्रौ २४, ८, ७, ८;
 बौश्रौ २५: ३; वैध ४, ३, ९१^६,
 -श्च: ऋअ २, १०, १०२; वृदे
 ६, ४६; ८, १२; या ९, २३; २४.
 भृम्यश्च-वत् आपश्रौ २४, ८,

७, ८; बौश्रौ २५: ४; वैध ४, ३,
 ९६^६.
 भ्रम- पा ३, १, १४०; -मान् काशु
 ७, ४^६.
 भ्रमत्- पाग ३, १, १२; -मन् वैद्य
 ५, १: २६; -मन्तः अप ६८,
 १, ४६; ७०^३, ७, ४.
 √भ्रमाय पा ३, १, १२.
 भ्रमयत् - -यन् कौसू ९९, २^३.
 भ्रमर- पाठ ३, १३२; -रः शंघ
 ३७७: १७.
 भ्रामर- पा ४, ३, ११९.
 भ्रमि- पाठ ४, १२१.
 भ्रमिन्- पा ३, २, १४१.
 भ्रान्त->न्त-चित्ता(त्-प्रा)प्लुते-
 (त-ई)क्षण^३- -णा: अप ६८, १,
 ४०.
 भ्रान्ति- -न्त्या याशि २, ६८.
 भ्राम- पा ३, १, १४०.
 भ्रामक- -कः अप २२, ७, ५.
 भ्रामयित्वा वैश्रौ १, २: ४; ३: २.
 √भृश पाधा. दिवा. पर. अथःपत्तने.
 शृश^३- पाठभौ २, ३, १४१; पाग ३,
 १, १२; ५, १, १२३; ८, १, ६७;
 -शम् अप ३०^३, १, ७; ५३, १,
 ४४४; वृदे ४, २३; या.
 भाश्यं- पा ५, १, १२३.
 शृश-ता-, शृश-त्व- पा ५, १, १२३,
 शृश-दण्ड^३- -ण्डः विघ ३, ९६.
 शृश-दारुण- -णा: अप ५२, ८, ३.
 √शृशाय पा ३, १, १२.
 अशिमन्- पा ५, १, १२३.

२भृ(ग>)शा^३- -शा काण् २८, ४^३.
 भृष्टि^३- -ष्टी: कौसू १६, २९^३; -ष्टीन्
 अशां २१, १^०.
 भृष्टिमतः साअ १, ३२७.
 भृष्टि-ल^३- -लः माश्रौ १, २, १, ७;
 -लम् वाश्रौ १, ३, १, ३१.
 √भृ^३ पाधा. कथा. पर. भर्त्येने, भरषे^३
 हृच्छने^३.
 भेक- पाठ ३, ४३.
 भेत्तवै, भेत्- , भेद- प्रभृ. √भिद् द.
 भेर- पाठ २, २८.
 भेरि, री^३- पाठ ४, ६६^३; -र्यः अप
 ७०^३, २, २.
 भेरी-सुरज-गोमुख- -खा: अप ७१,
 १५, ६.
 भेयां(री-प्रा)वात-वत् पावा १, १, ७०
 भेल- पाठ २, २८.
 √भेप पाधा. भ्वा. उभ. भये, गतौ^३.
 भेषज- प्रभृ. १भिषज्-द.
 भैक्ष- प्रभृ. √मिक्ष द.
 भैक्षवाह^३- -हा: बौश्रौ २४: २^३.
 भैक्षुक-, भैक्ष्य- प्रभृ. √भिष् द.
 भैतायनि- रभीत-द.
 भैदिक- √भिद् द.
 भैमगव^३- -वः बौश्रौ २२: १.
 भैमसेनि-, भैव- √भी द.
 भैलि^३- -लि: बौश्रौ २४: २.
 श्रभैषज-, श्रभैषज्य- १भिषज्-द.
 २भैषज-, २भैषज्य- २भिषज्-द.
 भैष्णज-, ज्य- २भिष्णज्-द.
 भोक्तव्य- प्रभृ., १भोग- √भुज्
 (पालना^३) द.

a) = जाति-विशेष-। b) या ६, २० पा ३, १, ७०; ६, ४, १२४; ७, ३, ७४ परासृष्टः द.। c) वैप १ द.।
 d) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द.। e) विप. (अस्व-। f) ऋषि-विशेष-। बस.। g) यक. चार्म्या इति चर्म्या
 इति च पाठौ इ यनि. श्लोचः (तु. आश्रौ. प्रभृ.)। h) भाप.। i) बस.>कस.>बस.। j) = अति-शय-। -शम् इति
 वा. क्वि.। k) बस.। l) विप. (तनू-। अर्थः व्यु. च १। m) नाप.। अर्थः व्यु. च १। n) = पवि-
 इति दारिलः। o) = वनस्पति विशेष-। p) पाप. मत्वर्थीयः लब्ध प्र. उत्सं. (पा ५, २, ९७)। q) पा ७, ३, ८०
 परासृष्टः द.। r) तु. BPG.। s) = वाद्य-विशेष-। t) <√भी। u) व्यप.। v) बौक्षव इति संस्कृतः टि.।
 वैष-प्र-५४

२भोग- √भुज् (कौटिल्ये) द्र.
 ३भोग- > २भोगन्वत्- (> शी^३-
 पा.) पाग ४, १, ७३.
 भोगक^३- (> भौगक- पा.) पाग २,
 ४, ६७; ४, १, १०४.
 भोगवत्- भोग्य-१भोज- √भुज्
 (पालना^०) द्र.
 २भोज^०- (> भोज्या- पा.) पाग ४,
 १, ८०.
 भोजि^०- (> १भौजीय- पा.)
 पाग ४, २, १३८.
 भोज-दुहितृ-, भोज-पुत्री- पावा
 ६, ३, ६९.
 भोजा (ज-आख्या >) ख्य- ख्यः
 वैध ३, ११, ६.
 भोजक-, भोजन- प्रभृ. √भुज्
 (पालना^०) द्र.
 भोजसिन्^३- -सिनाम् बौश्रौप्र २६:
 २.
 भोजि^०- (> २भौजीय-).
 भोज्य √भुज् (पालना^०) द्र.
 भोस्^३- भोः आश्रौ ८, १४, १५;
 बौश्रौ १८, ४६: १६; आण्य;
 आपण्य ११, ८^०; हिय १, ६,
 १०^०; भोः आण्य १, २१, ४^०;
 शाण्य २, ५, ११^०; ७, ८^० × ×;
 पाण्य; पावा ८, ३, १.
 भो-भगो-अधो-अ-पूर्व- -र्वस्य पा
 ८, ३, १७.
 भो-राजज्य-विश्व- -विशाम् पावा
 ८, २, ८३.
 भोः-शब्दा ब्द-अ)न्त^३- -न्तम्

विध २८, १७.
 भौजिद्य- √भुज् (पालना^०) द्र.
 भौत-, भौतिक- प्रभृ. √भू द्र.
 भौत्य-, भौत्यायनी- २भूत- द्र.
 भौम- प्रभृ., भौमिक- √भू द्र.
 भौयसि-, भौयि- २भूयस्- द्र.
 भौर- २भूरि- द्र.
 भौरि^०- (> शी- पा.) पाग ४, १, ४१.
 भौरिकि^३- पाग ४, १, ४१^१; ८०;
 १५४; २, ५४; ११६.
 भौरिकी- पा ४, १, ४१.
 भौरिकायणि- पा ४, १, १५४.
 भौरिकिका-^०की- पा ४, २, ११६.
 भौरिकि-विध- पा ४, २, ५४.
 भौरिक्या- पा ४, १, ८०.
 भौलिकि^३- पाग ४, १, ४१; ८०;
 १५४; २, ५४.
 भौलिकी- पा ४, १, ४१.
 भौलिकायनि- पा ४, १, १५४.
 भौलिकि-विध- पा ४, २, ५४.
 भौलिक्या- पा ४, १, ८०.
 भौलिङ्गि^३- पाग २, ४, ५९; ४, १, ४१;
 २, ११६.
 भौलिङ्गी- पा ४, १, ४१.
 भौलिङ्गिका-^०की- पा ४, २,
 ११६.
 भौवत्-, भौनि- √भू द्र.
 भौवन्यव- भुवन्यु- द्र.
 भौवायन- √भू द्र.
 √भ्यस् पाधा. भ्वा. आत्म. भये,
 भ्यस्ते निघ ३, २९^१; या ३,
 २१; अभ्यसेताम् ण्या ३, २१;

१०, १०.
 बिभ्यस्यत्- -स्यन्तः या १, १०^१.
 भ्र- (= १भ्र- >) भ्र-कुंस्^१-, भ्र-कुटि^३-
 पावाग ६, ३, ६०.
 √भ्रंश्^१ पाधा. भ्वा. आत्म. अयत्संसेने;
 दिवा. पर. अयःपतने, भ्रंशते
 तैप्रा १६, २२^१.
 भ्रशत् बौश्रौ १८, १६: १५^१.
 भ्रंश- > भ्रंश-कला^० (> ला
 √कृ पा.) पाग १, ४, ६१.
 भ्रष्ट- भ्रः शैशि १५ ९^३; माशि ३,
 २^३; -ष्टम् वाध ६, २; -ष्टा:
 अय ४१, ४, ३.
 √भ्रंस् पाधा. भ्वा. आत्म. अयत्संसेने.
 भ्रंस्- > भ्रंस्-कला (> ला √कृ
 पा.) भ्रंश-कला टि. द्र.
 भ्र-कुंस्-, कुटि- भ्र- द्र.
 √भ्रक्ष् पाधा. भ्वा. उभ. अदने.
 √भ्रज्ज् √भृज्ज् द्र.
 √भ्रण् पाधा. भ्वा. पर. शब्दे.
 √भ्रम्, भ्रम- प्रभृ. √भ्रम् द्र.
 भ्रशिमन्- १भृश- द्र.
 भ्रष्ट- √भ्रंश् द्र.
 भ्रष्टक^३- पाग २, ४, ६९; -काः बौश्रौप्र
 १९: २.
 भ्रष्टक-कपिष्ठल- पाग २, ४, ६९.
 भ्रष्ट- √भृज्ज् द्र.
 भ्रस्ता^०- -स्ताम् आपश्रौ १३, १९, ८.
 √भ्राज् पाधा. भ्वा. आत्म. दीप्तौ,
 आजते अप ४८, २०^१; वृदे १,
 ९३; निघ १, १६^१; नाशि २,
 ८, १९; आजन्ति अप्राय २, ७;

a) व्यप. । व्यु. ? । b) = क्षत्रिय-विशेष- । c) भोजि- इत्यपि पागम. । d) वैप १ द्र. । e) पामे.
 पृ १४४८ k द्र. । f) कस. > बस. । g) तु. पाका. । भौरिकि- इति पामे. । h) भूरि-क- > यनि. इति
 पागम. । i) तु. भारडा. पासि. च । j) = स्त्रीविषघारि-नर्तक- । बस. उप. = भाषण- वा शोभा- वेति पासि.
 प्रभृ. । k) = श्रु-कुटि- । l) या २, २२, ५, १९ पा १, ३, ९१; ३, १, ५५ परामृष्टः द्र. । m) पामे. वैप १,
 २२७९ ४ द्र. । n) = हिंस- (तु. पागम.) । o) तु. पाका. पासि. । भ्रंस् इति भाण्डा. प्रभृ., [पक्षे] पासि. ।
 < भ्रन्त्या- इति भाष्यम् । p) पा ६, ४, १२५; ७, ४, ३; ८, २, ३६ परामृष्टः द्र. ।

†भ्राजतु^a आसिष्ट १, ५, ४ :
 ४७; माष्ट १, १९ : ९; हिष्ट १,
 २२, १४.
 †भ्राज^b- भ्राजस् बौश्रौ ६, १२ :
 ७; जैष्ट १, २३:६.
 †भ्राज^c- पा ३, २, १७७; †भ्राद्
 आपश्रौ १६, ३०, १; वैश्रौ;
 ०भ्राद् बौश्रौ १९, १० :
 २६†^d.
 †भ्राजिष्ठ- ०ष्ठ काश्रौ १२,
 ३, ६†; -ष्ठः शुप्रा २, ४०.
 †भ्राज^e- †भ्रंज^e काश्रौ ७, ८, २२;
 आपश्रौ १०, २६, १५; बौश्रौ.
 भ्राज-भृष्टि^f- -ष्टिमिः गोष्ट ३,
 ४, १९†.
 भ्राज-भृष्णु^g- -ष्णुः पाष्ट २, ६,
 १६†.
 †भ्राज^h-> भ्राजा(ज-भ्रा)दि-
 -दि जैश्रौका ५४.
 भ्राजा(ज-भ्रा)भ्राज- -जयोः निस्
 १०, १३ : १; २; -जाभ्याम्
 जैश्रौ २६ : १३.
 †भ्राजत्- -जत् कौस् ९७, ८; अप
 ३३, ५, २; ६, ४; श्रशां १८, २;
 -जन् वैताश्रौ १४, १†; -जन्तः
 आपश्रौ १६, १२, १; हिश्रौ.
 †भ्राजन्ती- न्ती साश्र १,
 ६१६; उनिस् ६ : १३.
 भ्राजद्-भ्रष्टिⁱ- -ष्टयः शांश्रौ
 १८, २३, ३†.
 भ्राजमान- †नः आपश्रौ १६, १२,
 १; बौश्रौ; -नाः या ३, १५.

†भ्राजस्^b- -जः बौश्रौ १३, ३५ :
 १४; १४, ११ : २६; वाश्रौ;
 -जन्मा या ३, १५; -जसे
 बौश्रौ १४, ११ : २३.
 भ्राजस्-कर^b- -०र वाश्रौ ३,
 २, ४†^d.
 †भ्राजस्-वत्- -वते आपश्रौ
 १९, २३, ३; बौश्रौ १३, ३० :
 ३; ४; १४, ११:१९†; २१†; १६,
 १८ : २†; माश्रौ ५, २, २, १९;
 -वन्तः या ३, १५; -वन्तम्
 बौश्रौ १४, ११ : २२†.
 भ्राजस्वती- -न्तीः आपश्रौ
 १६, ११, १३†; -न्तीमिः वाश्रौ
 २, १, २, ३१; वैश्रौ १८, १० :
 १०†ⁱ.
 †भ्राजस्-विन्- -विन् शांश्रौ
 १०, ४, १२; आपश्रौ; -वी^m
 शांश्रौ १०, ४, १२†; बौश्रौ
 १४, ११ : २१.
 भ्राजिष्णु- पा ३, २, १३८.
 भ्राजिनाक्षत्रेयⁿ- -याः बौश्रौ १९ :
 ३.
 भ्रातृ^b- पाउ २, ९५; पाग ७, १, ३५;
 ५, १, १३०^o; -†न्तः वृदे ४,
 ५२; ऋप्रा १, १०१; -तरः
 शांश्रौ १५, २६, १†; बौश्रौ;
 -तरम् शांश्रौ १३, ११, १;
 माश्रौ; -तरि वाधूश्रौ २, १ : २;
 गौघ १८, १९; पा ४, १, १६४;
 पावा ४, २, ३६; -तरौ पाष्ट १,
 १६, २४; वृदे ७, १५५; या २,

१०; -ता आश्रौ ३, ३, १†;
 शांश्रौ; -तुः आपमं २, २२, ५†^p;
 शांष्ट ५, ९, ६; भाष्ट २, २७ :
 १४†^p; हिष्ट १, १४, २†^p;
 आपध; पा ५, ४, १५७; -तुमिः
 कौष्ट १, ५, २६†; शांष्ट १,
 ९, ९†; ऋप्रा ३, १, १०; वृदे
 ७, ७७; -तुषु आपध १, १४,
 ९†; वृदे ७, ६१; ऋश्र २, १०,
 ५०; -तृणाम् काश्रौ २२, ११,
 ११; वैष्ट; -त्रा सु २१, ४;
 अप २०, २, ९; -त्रोः काश्रौ
 २२, ११, १२; बौश्रौ १८, ३५ :
 १२; पाष्ट ३, ७, २.
 भ्रातृष्-पुत्र- पाग ८, ३, ४८.
 भ्रातृष्पुत्र-ग्रहण- -गम् पावा
 ८, ३, ४१.
 भ्रातृ-गामिन्- -मि विघ १७, ८;
 शंघ २९३.
 भ्रातृ-पत्नी- पाग ४, १, ३५;
 -नीनाम् बौघ १, २, ३४.
 भ्रातृ-पितृभ्रातृ-मातुला(ल-भ्रा)चार्य-
 (र्य-ऋ)द्विगा(पू-२भ्रा)घ- -घैः
 वैघ ३, ३, ८.
 †भ्रातृ-पुत्र^r- -त्राः गौपि १, ४, १.
 भ्रातृपुत्र-गामिन्- -मि विघ
 १७, ९.
 †भ्रातृ-पुत्र- -त्रौ पा १, २, ६८.
 भ्रातृ-पुत्र-पितृ-ऋणुर- -राणाम् पावा
 १, २, ७१.
 भ्रातृ-भगिनी- -नीषु द्विघ १, ४,
 ४१†.

a) पामे. पृ ८११ h द्र.। b) वैप १ द्र.। c) पामे. वैप १, १७६९। द्र.। d) पामे. वैप १,
 २३८०। द्र.। e) बस.। f) पामे. वैप २, ३३६. मंत्रा १, ७, ६-८ टि. द्र.। g) = साम-विशेष-। घा. अर्थः?।
 h) उप. टः प्र. उस्सं. (पा ३, २, २१)। i) पामे. वैप १, २३८०। द्र.। j) पामे. वैप १, २३८०। द्र.।
 k) सप्र. आपश्रौ १६, ११, १२ वाश्रौ २, १, २, ३१ ररिमवतीः इति, वैश्रौ १८, १० : ७ ररिमवतीमिः इति च पामे.।
 l) ष्वव^o इति पाठः? यनि. श्लोघः (तु. वाश्रौ)। m) पामे. वैप १, २३८०। द्र.। n) व्यप.। o) पृ १८५९
 भ्रातृ- इति नेष्टम्। p) सपा. पाष्ट ३, ७, २ मातुः इति पामे.। q) पामे. पृ १८४१। द्र.। r) बस.।

भ्रातृ-भार्या- -र्याणाम् गौध ६, ८.
 भ्रातृ-मत्- -मान् हिश्रौ ४, ३, १.
 भ्रातृ-वल- -पावा ५, २, ११२.
 भ्रातृ-विही(न >)ना- -ना विध १५, ६.
 १भ्रातृव्य^१- पा ४, १, १४४.
 भ्रातृ-स्त्री-काम- -माय अप २०, ४, २१.
 भ्रातृ-स्थान^२- -नः आगृ १, ७, ८.
 भ्रात्र- पा ५, १, १३०.
 भ्रात्रीय- पा ४, १, १४४.
 २भ्रातृव्य^३- पा ४, १, १४५; -व्यः शाश्रौ ४, १२, १०१; १४, ४२, ६; आपश्रौ; -व्यस् फाश्रौ १, ५, १५; -व्यस्य आपश्रौ ४, १३, ६१; बौश्रौ; -व्याः बौश्रौ २४, २५; १८; अप्राय ३, २; -फाश्रौ-णाम् आपश्रौ ६, २०, २; वाश्रौ १, ५, ४, २१; हिश्रौ; -व्यान् शाश्रौ १०, १५, ८१; १४, २३, १; आपश्रौ; -व्याय आपश्रौ ३, १६, ८१; २२, ३, १३; बौश्रौ १३, १०; ५१; ४५; हिश्रौ; -व्ये बौश्रौ २, ५; ४१; १३, १६; २; -व्येण आपश्रौ १२, २१, १९; २२, ५, १६; ४५; बौश्रौ.
 १भ्रातृव्य-क्षयण^४- -णम् कौसू ४८, १, अत्र २, १८; अप २: ११.
 भ्रातृव्य-क्षेत्र- -त्रम् आपश्रौ १९, १९, १०; -त्रे हिश्रौ २२, ३, ९.
 भ्रातृव्य-नवी- -वीम् आपश्रौ १९, १९, ३; हिश्रौ २२, २, २६.

१भ्रातृव्यता^५ अप ३३, ६, ९१.
 भ्रातृव्य-तिस्तीर्षा^६- -र्षा आपश्रौ २२, २, ९.
 भ्रातृव्य-देवता-> -व(त्य>)त्या- -त्या बौश्रौ ३, १७: १८.
 भ्रातृव्य-पराणुत्ति- -त्यै भाशि ३११.
 भ्रातृव्य-यज्ञ- -ज्ञे आपश्रौ १३, ९, ४
 भ्रातृव्य-चत्- -वतः आश्रौ १०, १, ३; काश्रौ; बौश्रौ ७, ७, १०; १; -वता आपश्रौ १२, ८, १२; वाश्रौ ३, २, ५, १८; हिश्रौ; -वन्तस् आपश्रौ १८, ९, ९; वाधूश्रौ ४, ९०: ६; हिश्रौ; -वान् आश्रौ ९, ५, ११; १०, २, २५; ४५; आपश्रौ.
 भ्रातृव्य-वध- -धम् लाश्रौ ८, ५, ११; निसू ६, १०: २४.
 भ्रातृव्य-सङ्ख्य^७- -ङ्ख्येषु वौगृ २, १, १९.
 भ्रातृव्य-ह^८- -हम् अप ३३, ६, ८१;
 भ्रातृव्य-हृ^९- -हृणम् आपश्रौ १६, ३०, १; वैश्रौ १८, २०: ४३; हिश्रौ ११, ८, ४; -हा आपश्रौ ११, १२, २; वौश्रौ ६, २८: २८; वैश्रौ १४, ७: १४.
 भ्रातृव्या(व्य-अ)पनुत्ति- -त्यै भाशि ३११.
 भ्रातृव्ये(व्य-ई)प्सा- -प्सायाम् हिश्रौ १७, २, १५.
 भ्रान्त-, भ्रान्ति- ✓*सू. द.
 १भ्रापराग्न्यव्यय वाश्रौ ३, ४, ३, १८.

भ्राम-, भ्रामक-, भ्रामर- ✓*सू. द.
 भ्रामरिन्^१- -री विध ४५, २६.
 ✓भ्राश^२ पाधा. भ्वा. आत्म. दीप्तौ, १भ्राशते अप ४८, २०; निघ १, १६.
 भ्राश्यति निघ १, १६१;
 भ्राष्ट्र- प्रसृ. ✓सृज् द.
 भ्राष्ट्रविन्दु- -न्दवः बौश्रौ १९: २.
 भ्राष्ट्रम्-इन्ध- ✓सृज् द.
 भ्रियमाण- ✓सृ द.
 ✓भ्री (वधा.) पाधा. क्वा. पर. भये, भरणे च, १भ्रीणाति^३ अप ४८, १८; निघ २, १२.
 भ्रुमल- पाठना १, १०४.
 भ्रुमि^४- -मिम् भाशि २११.
 भ्रुव^५-> -वा(व-अ)शिलोम-शिखा- वर्जम् वाध २४, ५०.
 १भ्रू^६- पाठ २, ६८; पाग ५, २, २४;
 भ्रुवः काश्रौ ७, ३, २७; याशि १, ५५; ५७; भ्रुवि भाशि २११;
 भ्रुवोः आपश्रौ ४, ५; वृदे ८, ११३; ११७; नाशि १, ७, १; भ्रुवौ पाग ३, ६, २; विध ९६, ९२; भाशि १२, ५.
 भ्रु-कुंत्^७- पावाग ६, ३, ४१; ६०.
 भ्रु-कुटि^८- पावाग ६, ३, ६०;
 -टोम् विध ३, ९०.
 भ्रू-जाह- पा ५, २, २४.
 १भ्रू-भङ्ग^९-
 भ्रू-मध्य- -म्यम् वैध १, ११, ४.

a) तु. पाम. । b) वैप १ द. । c) बस. । d) पाठः? भ्रातृव्याणाम् इति शोधः (तु. संस्कृतः टि.) । e) षत. उप. भाप. < ✓सृ (हिंसायाम्) । f) व्यतः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सप्र. तै ६, ४, ११, १) । g) उप. = संभ्राम- । h) उप. डः प्र. उंसं. (पा ३, २, ५०) । i) = अपस्मारिन्- (तु. मनुः L३, १६१) । j) पा ३, १, ७०; ६, ४, १२५ परामृष्टः द. । k) घा. क्रोधे वृत्तिः । l) वैप २, ३३. द. । m) पामे. वैप १, २३७ e द. । n) = भ्रू- । o) भ्रुवोक्षि^{१०} इति पाठः? यनि. शोधः । p) भ्रू-भङ्ग- इति पाधा. ? । q) = भ्रुकुंत्- । r) षत. उप. < ✓कुट् ।

अमध्य-ग^a- नाः वैध १, १०, ३; ११, ४.
 अमध्य-नात- तस्य वैध १, ११, १०.
 २भ्र^b- भ्रुवः चाञ्च ३८ : १०.
 औवैय- पा ४, १, १२५.
 ✓भ्रूण पाधा. चुरा. आत्म. आशा-
 विशङ्कयोः
 भ्रूण^d- पाउमो २, २, १२३; -णः बौध
 १, ७, ६; वैद्य १, १ : १५; -णम्
 बौध १, ७, १६; -णानि वाध
 १७, ७१.
 भ्रूण-घ- -घ्नैव बौधौ २७, ९ : ६.
 भ्रूण-हत्या- -त्या वाध १, २०; ५,
 ८; २८, ७; -त्याम् वैद्य ७, १ :
 ९; वैध ३, १४, ९; या ६, २७;
 -त्यायाः बौधौ २६, १० : २३;
 वाध ५, ८; बौध २, १, ५९; ३,
 ७, ३; गौध २४, ९; -त्यायाम्
 वाध २३, ३८; -त्यायै शाश्रौ
 १६, १८, १९; आपश्रौ २०, २२,
 ६^१; हिश्रौ १४, ५, ४^१; वाध
 ५, ८^१; बौध ४, १, १३; १९.
 भ्रूणहत्या-विधि- -धिः बौध ४,
 २, ६.
 भ्रूणहत्या-सम- -सम् बौधौ
 २९, ८ : २४.
 भ्रूण-हन- पा ३, २, ८७; -ना
 विध ५१, १७; गौध १७, ११;
 -नै आपध १, २९, १; हिध १,
 ७, ५७; -०हन वाध ५, ८^१; -
 हनम् वाध २०, २३; २६, ४;
 बौध ४, १, २९; गौध २०, १;

-हनि गौध २१, ९; -हा आमिद्य
 २, ४, ४ : २; वैद्य.
 भ्रूणघ्नी- -घ्नीम् बौध ४, १,
 २२.
 औणहत्या- पा ६, ४, १७४; -त्ये
 पावा ६, ४, १७४.
 भ्रूण-हनन- -नम् बौध ३, ५, ६;
 ६, १८.
 भ्रूमर्क^c- -के बौधौ २५, ८ : १६.
 भ्रूमुले^e बौध १, १, २६.
 ✓भ्रोज पाधा. भ्वा. आत्म. दीप्तौ.
 ✓भ्रोज (वधा.) पाधा. भ्वा. उभ.
 गतौ, भ्रेषते अप ४८, १८^१;
 भ्रेषति लिघ २, १२^१.
 भ्रेष- -षः आपश्रौ ९, १६, ४^१; १४,
 ३२, ७^१; वैश्रौ २१, ३ : ११;
 -षम् बौधौ १६, ९ : ४^१; २०,
 १९ : ३२; ३३; ३५; लाश्रौ ९,
 १२, १२; -षाः बौधौ २०, २३ :
 १२; १३; -षात् बौधौ १८,
 २ : ७; १३ : १७; ४१ : १८;
 -षे माश्रौ ३, १, १^१.
 भ्रेष-कृत- -तम् बौधौ २०,
 १९ : ३४; ३५.
 ✓भ्रक्ष पाधा. भ्वा. उभ. श्रदने.
 ✓भ्रक्ष^k पाधा. भ्वा. आत्म. गतौ.
 ✓भ्र्लेष पाधा. भ्वा. उभ. गतौ.

म

म^१ पि १, १.
 म^२ वाधश्रौ ३, ४१ : १^m.
 मⁿ- ऋन ३, ३, १०××; मः ऋत ४,
 ४, १०; माशि ७८, ८०.

म-कार- -रः शाश्रौ १, २, ११;
 आमिद्य; -रम् विध ५५, १०;
 -रस्य शौच २, २५; ३१; शौश;
 -रात् ऋप्रा ६, २३; -रे आश्रौ
 १, ५, १४; हिश्रौ.
 मकार-निलय- -यम् या १४,
 ३०.
 मकार-पर^o- -रः तैप्रा ८, ४;
 -रे शुप्रा ४, १८८.
 मकार-पूर्व^o- -र्वः तैप्रा ५, ३५.
 मकार-स्योप- -पः तैप्रा १३, १;
 अप्रा २, १, ४; -षे ऋप्रा ११,
 ४८.
 मकारा(र-अ)न्त^o- -न्तः आश्रौ
 ७, ११, १३; शाश्रौ १, १, २०;
 -न्तम् आश्रौ १, २, १०; शाश्रौ
 १, १, २२; -न्तानि अप्रा २, १,
 १५; ४, १७; १८; -न्ते याशि
 २, ४२; -न्तेन वैताश्रौ २१, ४.
 मकारान्त-त्व- -त्वम् पावा
 १, ४, ७४; ४, ३, २३; -त्वात्
 पावा २, ४, ८१.
 मकारान्ता(न्त-अ)र्थ- -र्थम्
 पावा ३, ४, २६.
 मकारा(र-आ)बाध- -धे अप्रा
 २, ४, १६; १८.
 मकारा(र-अ)वग्रह^o- -हागि
 अप्रा २, ३, २७.
 म-यो(थ-उ)द्य^m- -यः शुप्रा ३,
 ६७.
 म-पूर्व^o- -र्वः पा ६, ४, १७०.
 मपूर्व-प्रतिषेध- -धे पावा ६, ४,
 १७०^१.

- a) =योगि-विशेष-। b) व्यप। c) ष्वोः इति पाठः? यनि. शोघः। d) वैप १, २३०४ d द्र.।
 e) पाभे. वैप १, २३०४ d द्र.। f) =भ्रू-मध्य-। g) पाठः? भ्रमके इति शोघः (तु. बौधौ २५, ८ : १६
 इत्यत्र संस्कृतः टि.)। h) धा. क्रोधे वृत्तिः। i) परस्परं पाभे.। j) सपा. यज्ञं भ्रेषः <> यज्ञभ्रेषः <> भ्रेषे
 इति पाभे.। k) पा ३, १, ७०; ६, ४, १२५ परामृष्टः द्र.। l) =म-नाण- [छन्दोग-]। m) पाठकुटितः।
 n) =वर्ण-विशेष-। o) वस.। p) द्रस. > वस.। q) तु. पाका.। मपूर्वात्वा^१ इति भाष्या. प्रष्ट.।

१म-र- नौ अप्रा ३, २, २४.

म-लोप- -पः पावा ५, ३, ७२; -पात्
तैप्रा १५, १; १७, ४.

मलोप-वचन- -न्म् पावा ८, १,
६७; -नात् पावा ६, ४, १७४.

म-सवर्ण- -र्णम् याशि २, ४२.

मा(म-अ)दि- -दीनाम् फि ५३.

मा(म-अ)न्त^a- -न्तः भाशि ९९;
-न्तस्य पा ७, ३, ३४; -न्ते

माशि ४, १०.

मान्ता(न्त-अ)व्यय-प्रतिषेध-

-धः पावा ३, १, ८.

मंश्च(शन्)तु^b- -तोः ऋप्रा ४, ८२^क.

मंस्तः^c बौश्रौ २५, ३२ : १२ : २२;
२८.

√मंह (बधा)^{b,d}, मघ्, मह् पाधा.

भ्वा. आत्म. वृद्धौ; भ्वा. पर.,

चुरा. उभ. पूजायाम् भाषायाम्

च, मंहते निघ ३, २०^क;

मंहस्व कागृ ३२, ३^क; मंह

बौश्रौ ८, ६ : ७^क; मंहैत् अप

१, ४८, १-४; ४९, ६; अशां

१३, ३; अमंहत् शाश्रौ १६, ९,

१३^क.

महते अप ४८, १३^क.

मंमामहन्ताम् अप्राय ६, १;

ऋप्रा ९, ३२; शुप्रा ३, १२९.

मंमामहे शाश्रौ १२, १४, १.

महयति बौगृ १, २, ६३; भागृ

२, ५ : ९; १६; १७; अप ४८,

९^क; निघ ३, १४^क; महयन्ति

कौगृ ३, १२, ११; कागृ ५७, १;

महयन्ति कौस् ४६, ५४^क; मह-

य>या ऋप्रा ८, १३^क; महयत्

कौस् ८४, ९^क; महयाम् अप्रागृ

२, ५, ३ : ३३^क; महयेत् बौगृ

१, २, ६३; वाध ८, १२.

मंमहयिष्यतः द्राश्रौ ११, २, ५;

लाश्रौ ४, २, ४^क.

मंह->मंहिष्ठ- -ष्ठः शाश्रौ १८,

१५, ५६; अप्राश्रौ; -ष्ठस्य तैप्रा

१६, २७; -ष्ठाय अप्राश्रौ ६, १, २;

७, ८, १; ८, ६, १३; शाश्रौ.

मंहन->मंहन- -यः या ३, १३;

-यस् या ४, ४; १२, ६.

मंहना^b- -ना निस् १, ५ : ५.

मंहम^c- -माय गौघ २६, १२.

मंमघ^d- -घाः¹ भाशि ४०; -घस्

अप ४८, ९०; निघ २, १०;

या १, ७^क; ४, १५; -घस्य ऋप्रा

९, २०^क; -घा या ५, १६^क.

मंमघ-वत्- -वते बौश्रौ १८,

२८ : २१; २६, ३१ : १०; ११;

-वत्सु बौश्रौ १३, ९ : ४;

-वद्भिः अप्रागृ २, ५, ८ : ११;

-वन्तम् बौश्रौ २६, ३१ : ८;

-वान् शाश्रौ १८, १९, ८;

वाधृश्रौ ४, २८, ११; वैताश्रौ.

मघवती- -ती या १, ७.

मघ-वन्^b- पाठ १, १५९; पा

६, ४, १२८; -मंमघवन् अप्राश्रौ

५, १४, २६××; शाश्रौ; या ६,

१××; -मंमघवा अप्राश्रौ २, १०,

१६; ३, ८, १; ५, २०, ६; शाश्रौ;

-मंमघवानः शाश्रौ ४, ९, १६, १२,

२०, २; अप्राश्रौ; -मंमघवानम्

अप्राश्रौ २, २०, ४; शाश्रौ १८, ४,

८; अप्रापं २, ११, ८; -मंमघोना¹

कौगृ १, १६, ७; शांगृ १, २४,

४; -मंमघोनाम् बौश्रौ १८, ६ :

१३; आगृ १, १५, १^क.

मंमघोनी^b- -नी बौश्रौ

३, १८ : २५; हिश्रौ ६, ३, २;

या १, ७^क; ऋप्रा १, १००.

मघव-देवता->म्व(त्य>)

त्या- -त्या शुभ्र १, ४४२.

मघवन्-वर्जम् पावा १, २,

३७.

मघव-श्रुति- -तिः भाशि ४०.

मंमह^b- महः माश्रौ २, ५, १, ८; ९;

महा अप्राश्रौ¹ ४, १५, ७, ८, ११,

१; शाश्रौ ६, ४, ५; १०, ११,

२; १४, ५६, १; अप्राश्रौ १६,

३५, ५; माश्रौ २, ५, ४, १३^क;

वाश्रौ २, १, ८, १६; हिश्रौ ११,

८, २३; साअ २, ६५४; महै

अप्राश्रौ २, १०, ३××; शाश्रौ; कौस्

१२, १^क; अपं २ : ४६^क; या ९,

२७^क; १०, ४७^क; ११, ९^क.

मह- -०ह शांगृ ३, ५, २^क; -हस्य

या ५, ७^क; -मंमहानाम् आश्रौ

८, १, १४^क; हिश्रौ १२, ६, ६;

-हानि आश्रौ ९, ५, १६^क;

-हाय शांगृ ३, ५, १^क; -मंमहे

अप्राश्रौ ६, २, ६; ३, १; ४, १०;

शाश्रौ ९, ६, ६; १८, ४; अप्राश्रौ.

a) वस. । b) वैप १ द्र. । c) =कुम्भवतः (यद्र.) इति सूची । d) या १, ७ परामृष्टः द्र. ।

e) घा. दाने वृत्तिः । f) महये^० इति पाठः? यनि. शोधः (तु. द्राश्रौ.) । g) पाभे. वैप १, २३८५ e द्र. ।

h) =छन्दो-विशेष- । i) वैप २, ३खं. द्र. । j) शब्दाऽनुकरण- । k) पाभे. वैप १, २३८८ f द्र. । l) सपा.

मघोना<>मघोनाम् इति पाभे. । m) पाभे. वैप १, २३८९ c द्र. । n) पाभे. पृ ७३६ j द्र. । o) पाभे.

वैप १, १५७९ d द्र. । p) सपा. मह विश्वाय<>महायमाय इति पाभे. । q) पाभे. वैप १, २३८९ p द्र. ।

r) सपा. विद्व. महाय<>महायमाय इति पाभे. ।

†महः^१ आश्रौ ८, १, १२; ७, २२;
शाश्रौ; आपश्रौ ११, ७, ७^०; १६,
३५, ५^०; अप ४८, ६८^०;
या ६, ६; ९, २५^०; ११, २७^०;
३२; १२, ११; ३२; १३, ७^०.
महो (हः-अपस>)पो-वर्जम्
ऋषा १, ७७.

महत्^२- पाउ २, ८४; पाग ४, १,
४१; ८६; ५, १, १२२; -हत्
†आश्रौ ६, ४, १०; १०, ९, २^३;
शाश्रौ; आपश्रौ १०, १, ४^०;
१६, १९, १^०; हिश्रौ ७,
१, ११^०; ११, ६, ३१^०;
द्राश्रौ १, १, १०^०; लाश्रौ
१, १, १०^०; आश्र १, २३,
१५^०; या ५, १९××;
†निघ १, १२^०; -हत्: †आश्रौ
४, १३, ७; ९, ५, १६; शाश्रौ;
या १, ७××; पा ६, ३,
४५; -हत्वा बौश्रौ १७, ४८:
१०; कौसू ६८, २७^०; कप्र;
-हत्वाम् शाश्रौ १२, २, १४^०;
भाश्रौ १, २४, ५^०; कौश्र; -हति
आश्रौ १०, ९, ५^०; शाश्रौ १६,
७, १^०; काश्रौसं; या ७, २६;
१४, ७; -हते †आश्रौ २, ११,
९; १२, ५××; शाश्रौ; आपश्रौ
१०, ३, ८^०; या ९, २७××;
-हत्सु निस् १०, ७: १५;
शंघ २५१; २६१; विघ २३,
४६; अपं २: ३; ७; -हन्नि:
या २, २४; -†हद्भ्यः आश्रौ
१, ४, ९; शाश्रौ; -हान्
†आश्रौ १, २, २७; ६, १^२××;

८, १०, ३^१; शाश्रौ; या ३,
१०^०; १३^०; -हान्तः शाश्रौ ८,
२१, १; काश्रौ २५, १, ११^०;
बौश्रौ; -हान्तम् काश्रौ ८, ५,
२६; आपश्रौ; आपघ २, २०,
८; हिघ २, ५, ९५^०?; -हान्ति
बौश्रौ ९, ३: १३; सु १२, २;
अप ६३, ५, ३; ६८, १, ३५:
-हान्तौ सु १४, १.

महती- पा ४, १, ४१;
-०ति या ११, ३७^०; -ती
आपश्रौ १९, १५, ६^०; २०, ७,
११; बौश्रौ १९, ९: १०^०; हिश्रौ;
-ती: आश्रौ ४, ७, ४^०; बौश्रौ
१५, १४: १२; -तीभ्यः बौश्रौ
१८, २८: १९^०; -तीम् माश्रौ
६, २, ५, २४; कौग ५, ७, २;
अप ३१, २, २; ६६, ३, ४;
वृदे ७, ४३; -त्यः या ८, १०;
-त्या शाश्रौ १७, १५, १०; वाश्रौ
२, २, ४, २; या २, २५; -त्यौ
या ८, ११.

माहत- पा ४, १, ८६; ५, १,
१२२.

महत्-काण्ड^३- †ण्डाय अप
४६, १०, १८; अत्र १९, २३;
-ण्डैः अप ४६, २, ८.

महत्-तमा(म-अ)धर्म-संबद्ध-
-द्धः वाघ ५, ८.

महत्-तर- -रः वैगृ ४, १४:
१७.

महत्-त्ता- पा ५, १, १२२.

महत्-न्यङ्ग-ङ्गयोः हिश्रौ ४, ५,
९.

महत्-त्व-पा ५, १, १२२; -स्वम्
अप ३१, २, ४^३; ३, ४; बौध २,
१०, १०; या ७, २३; आशि ८,
२१; -त्वात् उनिसू ६: ३४^३;
-त्वे पावा ४, १, ४९; -त्वेन या
१०, ४; १०; ११, ३७; १२, १६.
महत्-पति- -०ते विघ ९८, २६.
महत्-सर्प- -पान् अप ६४, ८,
८.

महद्-अप्-स्वस्-नप्- -पृणास्
पावा १, १, ७२.

महद्-आत्त्व- -त्वे पावा ४, १,
१; ६, ३, ४५.

महद्-उक्त्व^४- -क्थः या ६, ४.

महद्-उत्त(म>)मा- -माम्
अप ६६, १, ३.

महद्-द्वेष्य-दायक- -का:
आमिथ २, ४, १२: ९.

महद्-दि(व>)वा^१- -वा या
११, ४९.

महद्-दुःखा(ख-अ)नुभवन-
-नम् विघ ९६, ३३.

†महद्-भूत्^५- -तम् सु १९,
५^१०; बौश्र २, २, ९^१०.

†महद्-वर्ष-संवृत- -ते अप ६५,
२, ५.

महद्-नामन्- -मानि निघ ३,
३; या ३, १३.

मह(हा-ऋ)खिज्- -खिग्भ्यः
शाश्रौ १६, १, २; आपश्रौ;

-खिजः आपश्रौ १८, ५, १६;
६, १२; २०, १, ६; २१, १०,
१३^०; बौश्रौ; -खिज्स् भाश्रौ

१०, १, ७; अप २९, १, १;

a) वैष १ द्र. 1 b) पाभे. वैष १, २२८६ m द्र. 1 c) पाभे. वैष १, २३९० e द्र. 1 d) सपा.

महत्<>महः इति पाभे. 1 e) भाप. (तु. P.W. प्रसू.) 1 f) पाभे. वैष १, २२८६ f द्र. 1 g) = उदक- 1

h) पाभे. वैष १, २२८७ d द्र. 1 i) पाभे. वैष १, २२८६ d द्र. 1 j) ष्न्ते इति पाठः ? यनि. शोधः (तु.

आपघ. २, २०, ८) 1 k) बस. 1 l) वैष १, २२९० f द्र. 1 m) शोधः वैष १, २३९४ g द्र. 1

-र्विजाम् बौश्रौ ७, १४: २५××;
 वैश्रौ १६, १४: २; वृदे ७, ११३.
 मह(हा-ऋ)र्वि- -र्वयः क्रप्र ३,
 १०, १०; अप १, ३८, ३९;
 ३९, १, १; अशां ८, ३; वृदे १,
 ८१; ८, १२७; -र्विभिः अप
 २३, १३, ५; -र्विम् वृदे ५, ६५;
 -र्विन् अप ५४, १, १; बौध २,
 ५, २७१.
 महा-कक्ष- -क्षे बाध २१, ३२.
 महा-कर- पावा ६, ३, ४५.
 महा-कल्प- -ल्पः विध २०,
 १७; -ल्पम् शंघ ११६: ४४.
 महा-कापोल- -लाः चट्यू ३:
 ५९.
 १महा-काय- > °कायिक-
 -०क विध ९८, ३९.
 २महा-काय- -याः अप ५२,
 ६, ३; १३, ५.
 महा-किल्बिष-कारक- -काः
 बौध १, ११, २१.
 महा-कुल- -लम् बौश्रौ १८,
 २६; २०.
 माहाकुल- °कुलीन- पा
 ४, १, १४१.
 माहाकुलीन- पा ४, १, १४१.
 महा-कू(ल >)ला- -ला या
 ९, २६; -लाम् या ७, २०; १४,
 ३३.
 महा(हा-आ)कृति- -तिः विध
 १, ५.
 महा-कोश- -शः बौश्रौ २६,
 ८: १३.
 महा-कौषीतक- -कम्^h आगृ

३, ४, ४; कौश्र २, ५, ३.
 महा-कौषीतकि- -किम्^h शांगृ
 ४, १०, ३; ६, १, १; अप ४३,
 ४, ३०.
 महा(हा-अ)कृ- -क्षाः बौश्रौप्र
 ३६: २.
 महा-गङ्गा- -ङ्गाम् विध ८५,
 २३.
 १महा-गण- -णेभ्यः अप ४६,
 ९, १७; अशां २४, ६; अत्र १९,
 २२.
 माहागणा(ण-अ)धिपति-
 -तिभ्यः अशां २४, ६.
 महा-गति- -तेः या २, ७.
 १महा-गय- -यम् आप्रश्रौ ५,
 १७, २; हिश्रौ ३, ४, ४७.
 महा-गिरि- > °रि-महानदी-
 रथाहर्-वायु-व्यवाय- -येषु
 द्राश्रौ ३, ३, २१; लाश्रौ १,
 ११, १२.
 महा-गुरु- -रुषु आगृ ४, ४, १७.
 महा-गृष्टि- पा ६, २, ३८.
 महा(हा-अ)ग्नि-वत् बौश्रौ १९,
 १०: ३८.
 महा-ग्रह- -हः बौश्रौ २५, १३:
 २५; अप ५२, १२, १; ५३,
 ५, २; -हाः अप ५२, २, २;
 १५, ४.
 महाग्रहो(ह-उ)दय- -यम्
 अप ६३, ४, ५.
 महा-वास- पावा ६, ३, ४५.
 १महा-घोर- -राय बौश्र २, १,
 १८.
 महा-चक्र- -क्रम् अप ५८^२,

१, ९.
 महा-चमस- -सम् बाधूश्रौ २,
 ८: ५.
 महा-चिति- -तिम् बौश्रौ १०,
 २७: १.
 महा(हा-अ)ज- -जम् बाध ४, ८.
 महा-जहु-^h -ज्वेⁿ, -जुःⁿ
 बौध ३, ९, २१.
 महा-जन- पाग ४, ४, १९.
 माहाजनिक- पावा ५,
 १, ९.
 माहाजनीन- पा ४, ४,
 १९.
 माहाजन-गजा(ज-अ)द्व-
 -द्वानाम् अप ७०, ७, २.
 महा-जहु^h -ह्वेⁿ, -ह्युःⁿ
 जैगृ २, ८: ३०.
 महा-जाति- > °तीय- पा ६,
 ३, ४६.
 महा-जाबाल- पा ६, २, ३८.
 महा-तपस्- -पाः विध १, ३;
 वृदे ४, २५.
 महा-तापश्चित-^p -तम् आश्रौ
 १२, ५, १४; शांश्रौ १३, २७, ४;
 काश्रौ २४, ५, ६; निसू १०,
 ९: ५.
 महा-तुषित^h -०त विध ९८,
 ४८.
 महा-तेजस- -जाः अप ३१,
 १, ३.
 महा-तैजस- -सम् शंघ ११६:
 ४५.
 महा(हा-आ)त्मन्- -त्मनः
 उनिस् ८: ३०; आज्यो १, ३;

a) =काल-विशेष-। b) =सामशाखाविशेष-, तदध्यन्त- वा। c) °कालोपाः इति संस्कृतुः टि.।

d) विष्णु-नामन्-। e) बस. उप. =२काय-। f) बस.। g) व्यप.। h) परस्परं पाभे.। i) =नदी-विशेष-।

j) वैप १ द.। k) द्वस. > षस.। रथाहर्- =रथाह- (यद.)। l) =मन्त्रपाठविशेष- (तु. C.)। व्यु. ?।

m) उप. ?। n) परस्परं पाभे.। o) पाप्र. जातीयर् प्र.। p) =कनु-विशेष-। q) कस. उप. < √तुष्

१४, ११; -त्मना अप २३, १३, ४××; नाशि १, ५, १४; -त्मने अप ६८, १, २; -त्मभिः ऋअ ३, ३७; -स्मा कागुड ४६: १६; अप २४, ३, १××; या ७, १८; -त्मानः अप ५२, १०, ३; -त्मानम् विष १, ६०; आज्यो १४, ८.

माहात्म्य- -त्मात् वृदे १, ७०.

महा-त्रिककुद्^४- -कुदः शाश्रौ १६, २९, १३.

महा-त्रिककुम्^४- -कुप् आश्रौ १०, ३, २१.

महा(हा-आ)त्रेय^४- -याः बौश्रौप्र २७: ६.

महा-दन्त^८- -न्तः सु १३, २.

महा-दान- -नानि अप १४, १, ८.

महादाना(न-अ)तिदान- -नानाम् अप ११, २, ३.

१महा-दिवाकीर्त्य^८- -त्यम् आश्रौ ८, ६, ७; शाश्रौ ११, १३, १; २३; १६, १४, १३; १४;

बौश्रौ १६, १४: १६; द्राश्रौ ८, ३, ४; लाश्रौ ४, ७, १; बौघ ३, १०, ११; गौघ १९, १३;

-त्यस्य शाश्रौ ११, १३, २४; लाश्रौ ७, ६, ११; -त्यै शाश्रौ ११, ११, ३४; १४, ४; ७.

२महा-दिवाकीर्त्य^८- -त्यैः द्विश्रौ १६, ५, २८^०.

महादिवाकीर्त्य-स्तोत्रीया- -या लाश्रौ ४, ६, २३; -याः

द्राश्रौ ८, २, ३२.

महा-देव- -वः वायुश्रौ २, २०: ५१; क्षुत् १, १: ७; माण्ड २, १४, २९१; अप; -वम् वैण्ड १, ४: ५१; अप १, ३७, ४१××;

अशां ७, ४; शंघ ११६: २५; चाअ १७: १३; -वस्य शाश्रौ ४, २०, ११; -ऋवाय आण्ड ४, ८, ९; १९; पाण्ड ३, ८, ६; वैण्ड; -वे अप ७१, १७, २.

महादेव-नाणाधिप- -पान् अप ७०, ९, ३.

महादेव-ह(त>)ना- -ताम् आपश्रौ १०, १९, २; माश्रौ १०, १२, ८; द्विश्रौ १०, ३, ९.

महादेवा(व-आ)यतन- -ने अप ४०, १, ५.

महा-दोष- -षः वृदे ४, ११९.

महादोष-विनाशन- -नाः बौघ ४, ३, ७.

महा(हा-अ)दुसुत- -तानि अप ७२, १, १; ४, ३.

महा-द्युति^८- -तिः अप ४३, ५, १७१; वृदे ५, १४७; १५२.

महा(हा-अ)द्वि- -द्वौ सु २१, १. ऋमहा-धन^८- -ने आश्रौ ३, १३, १२; शाश्रौ ३, ५, ४××; बौश्रौ.

महा-ध्वज- -जः अप २१, ६, ४. महा-नक्षत्र- -त्राणाम् अप १२, १, ४.

१महा-नद- पाण्ड ४, १, ८६; -दे कौसु १७, १.

माहानद- पा ४, १, ८६;

-दम्^४ आपष १, २७, १; द्विष १, ७, २५; २६.

महा-नदी- -दीम् आद्विण्ड ३, ५, ५: ४; बौनि १, ४: ४;

द्विपि १: ४; वृदे ६, ९६; -द्याम् बौघ १, ६, ३९.

महा-नरक- -कम् विष ४३, ७. महा-नर्मा(र्म-आख्या>)ख्य^४- -ख्यः वैध ३, १२, १२.

महा-नवमी- -न्याम् अप १८, २, १; १२, २.

महा(हा-अ)नस(वप्रा.)^४- पाठवृ ४, १८९; पाण्ड ४, १, ८६; -सम् वायुश्रौ २, ७६: १०^४; -सानाम् आश्रौ ९, ९, १४^४; -सानि द्विश्रौ १३, १, ३१^४; -से कप २, ९, २४^४.

माहानस- पा ४, १, ८६.

माहानसी- -सी बौश्रौ १५, २५: १०.

महानसिक- -कः बौश्रौ २६, १: १४^४.

महा-नाग- -नाः सु १३, २^४; -गे अप ५३, ४, २^४.

महा-नाद- -दः नाशि १, ५, १०.

महा-नानात्व^४- -त्वानि लाश्रौ १०, ७, ३.

महा-ना(मृ<)ञ्जी^४- -पावाम ५, १, ९४^४; -ञ्जी^४ आपश्रौ २२, १८, २१; निस् ६, ५: ५; -ञ्जीः आश्रौ ८, १४, २; १५; निस् २, १३: ३२××; जैण्ड; -ञ्जीनाम् शाश्रौ १२, ६, ९; लाश्रौ ७,

a) = ऋतु-विशेष-। b) व्यप-। c) बस-। d) = साम-विशेष-। e) सप्र- आपश्रौ २१, १५, १६ दिवाकीर्त्यसामानम् इति पामे-। f) वैप १ द्र-। g) तत्रमशार्थिकः प्र-। h) जाति-

विशेष-। बस- पूप-?। i) कस- समासान्तपृ टच् प्र-। j) = महा-शकट-। k) = पाक-शाब्दा-। l) माहा-

नसिक- इति संस्वतुः टि-। m) = हस्तित्-। n) अर्थः?। o) = छन्दोविधानविशेष-।

p) = उपचारात्] महानानी-व्रत-।

५,२; ५; निस् ७,१३: ७;१९;
 ८, ७: १९; २८; -स्त्रीभिः
 बौश्रौ १९, १०: ८; द्राश्रौ ९,
 १,१४; लाश्रौ ३, ५, १३; निस्
 ८,७: १५; २३; -स्त्रीभ्यः आश्रौ
 ८,२,२३; -स्त्रीषु लाश्रौ १०,२,
 १; निस् ३, १३: १; कौष्ट २,
 ७, २५; शांष्ट २, १२, १३;
 -न्त्यः आश्रौ ७, १२, १०;
 शाश्रौ १०, ६, १०×४; लाश्रौ;
 -न्त्या बौश्रौ ३, २५: ५;
 १७, ४४: ४; आग्निष्ट २, ६,
 ६: २२; बौष्ट १,२,३६; बौषि
 २, ९, ९.

माहानामिक^३ -
 षान्त्रिक- पावा ५, १, ९४.

महानाश्रिक^३ -काः गोष्ट
 ३, २, १; जैष्ट १, १७: १; -केन
 गोष्ट ३, २, ४७.

महानाश्री-कारित- तान्
 निस् ८, ७: २६.

महानाश्री-गर्भ^३ -र्भम् निस्
 ८, २: ३१.

महानाश्री-बल- लात् निस्
 ८, ७: १८.

महानाश्री-सामन्^३ -सा
 आपश्रौ २०, १३, १; हिश्रौ १४,
 ३, ७^३.

महा-निरष्ट^३ -ष्टः आश्रौ ९, ४,
 ६; -ष्टम् बौश्रौ १२, ५: २५;
 १७: १०.

महा-नीलोत्पल-वर्ण^३ -र्णः चव्यू
 ४: २०.

महा-न्याय- -यः आश्रौ ८, ५,
 ७.

महा-पङ्क्ति^३ -ङ्क्तयः ऋश्र
 २, १, १९१; -ङ्क्तिः ऋश्र १,
 १०, ३; शुश्र.

महापाङ्क्त^३ -ङ्क्तम् ऋश्र २,
 ८, ३७; ३९; ४७; १०, १३४.

महापङ्क्ति-प्रस्तारपङ्क्ति-
 -ङ्क्ती शुश्र १, ५३१.

महापङ्क्त्य(ङ्क्ति-श्र)न्त^३ -
 -न्तम् ऋश्र २, ८, ३६; १०, १६६.

महा-पथ- -थः द्राश्रौ १, १,
 १७; लाश्रौ १, १, १६; अर्ष ३:
 २; -थम् वाध २१, १; २; ३;
 आपध १, १६, १४; हिध १, ५,
 १३; -थे गौषि १, ७, ४; आपध
 १, ११, १०; हिध १, ३, ६६.

२महा-प(थ>)था^३ -थाम्
 पाष्ट ३, ४, ८.

महा-पदपङ्क्ति^३ -ङ्क्तिः ऋश्र
 १, ६, २; २, ४, १०; शुश्र ५, ३३.

महा(हा-श्र)वराह- पा ६, २,
 ३८.

महा-परिधि- -धीन् बौश्रौ ६,
 ३४: ७; ७, १: १७; -धीनाम्
 बौश्रौ १४, ४: ८; २१, १६: ४.

महा-पर्वत- -तान् शंघ ११६:
 ९.

महा-पवित्रेष्टि- -ष्टिः बौश्रौ २८,
 १: ३२.

महा-पशुपति- -तये अर्ष ३६,
 ९, २२^३.

महा-पातक- -कानि वाध १,
 १९; विध ३५, १; काध २७५:
 १; -केभ्यः वाध २३, २२; गौध
 २६, २१.

महापातक-ज- -जानि वाध

२७, ७.
 महापातक-दोष- -पेण अर्ष
 ३६, १६, २.

महापातक-नाशन- -नम्
 आग्निष्ट २, ७, ७: ८.
 महापातकनाशनी- -नी
 शंघ ४५४.

महापातक-संयुक्त- -क्तः
 बौश्रौ २८, १: ३१; कर्ष ३,
 ४, ४; -क्तम् बौध ३, ६, ८.

महापातक-सं(ज्ञा>)ज्ञ^३ -
 -ज्ञः काध २७५: ५.
 महापातक-संबन्ध- -न्धात्
 अर्ष ३६, १७, १.

महापातका(क-आ)दि-
 पतितकर्म्मन्- -र्माणि आग्निष्ट
 २, ४, ७: १.

महापातकिन्- -किनः शंघ
 ३८७; विध ५, १; ३५, ६; ३६,
 ८; ४३, २४; -किनाम् विध
 ८, २५; ४४, ३; ४८, १३; वैध
 ३, ९, १; सुध ५२; -किनि
 कर्ष ३, १, १२.

महा-पाथिकृ(त>)ती^३ -ती
 अर्षाय २, ३.

महा-पार^३ -राय गौध २६,
 १२.

महा-पार^३ -रः या ४, १८.
 महा-पाराश(श-श्र)भिपरीत-
 -ताः बौश्रौ २६, १२: १३.

महा-पिङ्गल^३ -लाय अर्ष ३६,
 १, १५; ९, १.

महा-पितृ- -तरः आग्निष्ट २, ६,
 ३: ६; बौध २, ५, १८.

महा-पितृयज्ञ- -ज्ञः बौश्रौ ५,
 २७, ७.

a) पात्र. पाठः । b) तस्येदमीयष्टं ठन् प्र. । c) बस. । d) साम इति पाठः ? यनि. शोघः
 (तु. आपश्रौ.) । e) वैष १ द्र. । f) कस. > बस. । g) = छन्दो-विशेष- । h) विप. (महापङ्क्तिछन्दो-
 ष्ट-सूक्त-) । i) = इष्टि-विशेष- । j) वैष २, ३खं. द्र. । k) = रुद- ।

१५:३४; २५, ३:१; वैश्रौ ९,
४:१; -ज्ञम् वौश्रौ ६, ११:
१; -ज्ञम् वौश्रौ २१, ४:१;
-ज्ञे वौश्रौ २०, ३:१८; २६,
२५:१६; २९:११; हिश्रौ ७,
४, १६; -ज्ञेन हिश्रौ ५, ४, १.
महापितृयज्ञ-वत् वैश्रौ १४,
२:८.

महापितृयज्ञ-हविस्- -वींषि
वौश्रौ १७, ५७:२०; २२;
६०:१३; ६२:७; २६, २५:
१९; २९:१५.

महा-पु(ण्य>)ण्या^१- -०ण्ये सु
३, ४.

महा-पुरुष- -०ष विध ९८, ८४;
-षाय गौध २६, १२.

महा-पृथ्वी^२- -तैप्रा ११, ३.

महा-पैङ्गव^३- -ङ्गयः अप ४३, ४,
४८^४; -ङ्गयम् आणु ३, ४, ४;
कौण्ड २, ५, ३; शाण्ड ४, १०, ३;

अप ४३, ४, ४२.

महा-पैठीनसि^५- -सिम् अप ४३,
४, ५५.

महा-वैत(क>)की^६- -की हिश्रौ
१२, ८, १५.

महा-प्रजापति^७- -०ते विध ९८,
१६.

महा-प्रती(क>)का^८- -का या
१०, २१.

महा-प्रदेश- -शम् ऋप्रा ११,
४२.

महा-प्र(भा>)भ^९- -साः अप
५२, २, २.

महा-प्रभा(व>)वा^{१०}- -०वे

विध ९९, ३.

महा-प्रभु- -भुः विध १७, १५.

महा-प्रवर- -रे वौश्रौप्र ५४:
१८.

महा-प्रवृद्ध- -पा ६, २, ३८.

महा-प्राज्ञ- -ज्ञः अप २९, १, २;

-ज्ञम् अप ३१, ४, १; ३९, १, १.

महा-प्राण- -पाण ४, १, ८६; -णः^१

आशि ८, १६; २६; -णाः^१

आशि ४, ३; ५.

माहाप्राण- -पा ४, १, ८६.

माहाप्राण-व- -त्वात् आशि
८, १९.

महा-फल^२- -लम् अप ३१, २,
२; ५, ३; ३८, ३, ३.

महा-बल, ला^३- -लः अप ४३, ५,
२९; -ला^३ अप ७१, १७, ७;

-लाः अप ५२, ५, ४; शंभ २११.

महा-बल पराक्रम- -०म विध
१, ५०.

महा-बलि- -लिम् अप ७०^२,

१६, ५.

महा-बृहती^४- -ती ऋअ १, ९,
९; २, १, १०५××; शुअ २,

८५; ४, १०५; ५, ६८; अअ; -त्यः
शुअ २, ४००; अअ ४, ३९; १८,

४; १९, ४५; -त्यौ अअ ९, १.

महाबर्हत्^५- -तः ऋअ १,
११, ४; ४, १०; ऋप्रा १८, १०.

महाबर्हत्-बर्हत्- -तौ
ऋअ २, ६, ४८.

महाबृहती-महासतोबृहती-

-त्यौ ऋअ १, ११, ४.

महाबृहती-मुख^६- -खः ऋप्रा

१८, १०.

महा-ब्रह्म- -ह्वन्- -पा ५, ४,
१०५.

महा-भय- -यम् अप ५५, ६, २;
७०^३, ७, १६; २२; ७०^३, ११, ३३.

महा-भाग, गा^४- -०ग अप २, ४,
३; अगां २, १; ४, २; विध ९८,

४५; -गा आज्यो १३, १०;

-गाः शंभ २११; -०गे अगां
५, ७.

माहाभाग- -यम् या ७,
२३; -ग्यात् या ७, ४; ५; १३, १.

महा-भार- -रत^५- -पा ६, २,
३८.

महा-भास्वर^६- -०र विध ९८,
४३.

महा(हा-अ)भिषव^७- -वः
आपश्रौ १३, १, ७; १०, ५; वैश्रौ

१६, १०:१३; -वम् आपश्रौ

१२, १२, १; -वाय वैश्रौ १५,
१३:१; हिश्रौ ८, ३, ३२; -वेषु

आपश्रौ १२, ८, ४; ११, ११.

महा(हा-अ)भिषेक- -कम् अप
३०^३, २, १.

महा-भूत- -तानाम् कौसु १२,
३१; -तानि विध ९८, २; या

१४, १०; -तेषु या १४, ५.

महा-भूमि- > महाभूमि^८-
-मः अप १, ६, ५.

महा-भूमिका-वत् या १४, ७.

महा(हा-अ)भ- -भ्रेण अप ५८^९,
२, ५.

महा-मख- -खाः कप्र २, ३, २;

महा-मति^{१०}- -तिः अप २९, १,

a) बस. । b) = पडनुवाक्-संज्ञा- । c) = ऋषि-विशेष- । d) = वेदि-विशेष- । कस. । e) विष्णु-
नामन्- । f) = प्रयत्न-विशेष- । g) = देवता-विशेष- । h) = छन्दो-विशेष- । i) = प्रगाथ-विशेष- ।
j) = प्रन्व-विशेष- । k) विप. > व्यप. (विष्णु-) । l) = कर्ष-विशेष- । m) विप. । तस्येद्वरिये ऋषि प्र.
(पा ५, १, ४२) उप. वृद्धिः ।

३; -०ते अप ९,४,३.
 महा-मदमित्र^० - क्रम् अप ४३,
 ४,५०.
 महा-मार्जार-श्रवण - प्रमाण^०
 -णात् कप्र २,३,१४.
 महा-मुख^० - पा ६,२,१६८.
 महामुखी - ह्ययाम् काश्रौ
 १६,७,८; १८,३,४.
 महा-मुनि - निः विध १, २०.
 महा-मेघ - घः सु २६,५; -वाः
 अप ६२,३,२.
 महा-यज्ञ - ०ञ्ज विध ९८,५४^०.
 -ञ्जः शाश्रौ १४, ५, ४; बौश्रौ
 १३,१२ = ९×४; माश्रौ; -ञ्जम्
 बौश्रौ १४,८ = २; -ञ्जाः वाधूश्रौ
 ३,४१; १८; कौश्र ३, १०, ३५;
 पाश्र १,२,६; २,९, १; बौश्र २,
 ९, ७; भाश्र; -ञ्जान् आश्रिण् ३,
 १२, २ = २; वैश्र ४, ४ = २५; ६,
 १६ = २१; शंश्र १३०; -ञ्जानाम्
 आश्रिण् २,७, ९ = ४३; भाश्र ३,
 २१ = ६; -ञ्जे शाश्रौ १४, ८,
 ११; १५,११, ९; वृदे ४,११२.
 महायज्ञ-क्रिया-क्रम - मः
 वाघ २७, ७.
 महा-यज्ञ-प्रदर्शन - न्नात् कप्र
 ३, १०, १०.
 महा-यन्त्र-प्रवर्तन - नम् विध
 ३७, २३.
 महामहा-यम^० - माय कौश्र ३,
 ४, ११; २६.
 महा-यशस्^० - ०शः पाश्र ३, ६,

३; -शाः सु २, ६; वृदे ५, १५२.
 महा-युद्ध - ंद्धम् अप ५५, ६, २.
 महा-योग-बलो (ल—उ) पेत-
 -त्तम् विध १, ५९.
 महा-योगिन् - गी विध १, ११.
 महा-रक्षस् - क्षोभ्यः अशां २४,
 ६१.
 महा-रजन^० - पाउना २, ७५.
 माहारजन - पावा ४, २,
 २.
 महारजन-रक्त - क्तन विध
 ९०, २१.
 महा(हा-अ)रण्य-निवासिन्-
 -सिनः शंश्र २२२.
 महारत्न-सामन्^० - म्ना सस्
 ३७, ६८.
 महा-राज - पाग ५, १, १२४;
 -जः काश्र २०, २; माश्र २,
 १४, २९१; -जम् आपघ २,
 २०, ३; हिध २, १३, ९०;
 -ज्जाय^० भाश्र १, ८ = १; २, ५;
 १५; गोश्र ४, ७, ३६.
 माहाराजिक - पा ४, २,
 ३५; ३, ९७.
 माहाराज्य - पा ५, १,
 १२४.
 महाराजा(ज-आ)हिताभि-
 -मयः अप २३, ९, ३.
 महाराजिक^० - ०क विध
 ९८, ४०.
 महारात्र^० - अः बौपि १, १४;
 २१; -त्रे शाश्रौ ६, २, १; १७,

७, १; आपश्रौ; लाश्रौ ८, ३, ११^०.
 महारात्र-प्रवेदा(श-आ)दि-
 -दि जैश्रौका ३६.
 महारात्रिक^० - कम् बौश्रौ
 २५, १४ = १; -केण बौश्रौ २६,
 १३ = ९.
 महा-राष्ट्र^० - ंष्ट्रे अप ५१, १, ४.
 महारिष्ट^० - टान् आश्रिण् २, ४,
 ८ = ७.
 महारोग - गेण आश्रौ २, ७,
 १७; ९, ७, २२.
 महारोग-प्रनाशन - नम्
 आश्रौ ११, ४.
 महारौरव^० - पा ६, २, ३८;
 -वम् विध ४३, ५; -वे अप
 ६९, ४, १.
 महारौरव-संज्ञा - > सं-
 जित - तम् विध ५४, ७.
 महा(हा-अ)र्व^० - र्वम् बौध १,
 ५, ७९; वाघ २, ४१.
 महा(हा-अ)र्णव - > व-म-
 हेन्द्र^० - न्द्राणाम् अप ६८,
 २, ३८.
 महा(हा-अ)र्थ^० - र्थम् आश्रौ
 ९, १; -र्थानाम् मैश्र १.
 महा(हा-अ)लय^० - ये काश्र ७,
 ४५ = ६; विध ८५, १८.
 महालया(य-अ)ष्टकाश्राद्धो-
 (द्ध-उ)पाकमा(मै-आ)दि - दि
 काश्र ७ ४३ = १२.
 महा(हा-अ)वकाश^० - शे कौश्र
 २४, ३.

a) कस. । b) कस. > षस. > षस. । श्रवण = १कणै- । c) बस. । d) विष्णु-नामन्- ।
 e) वैप १ द्र. । f) पाभे. पृ १८८६ R द्र. । g) पाभे. पृ १८८६ P द्र. । h) = कुसुम्भ-गुष्प- । i) पाठः १
 महाव्रत^० इति शोधः (तु. सस् ३५, ३८ समहाव्रतैः इति) । j) = देवता-विशेष- । k) = विष्णु- (तु. श्रुती. Jolly;
 वैद. अमा. < महा-राजि-इति) । l) = (रात्रेः) तृतीय-भाग- । m) अत्रे इति पाठः ? यनि. शोधः । n) तत्र-
 शब्दार्थे प्र. । o) = प्रदेश-विशेष- । p) = वृक्ष-विशेष- । q) = नरक-विशेष- । r) उप. = पर्वत- ।
 s) = आद-रक्ष- ।

महा-त्रकत्र^a - कत्राय अप ३६, १, १६१.
 महा-वध^b - घात् या १०, ११११.
 महा-वन - नम् काण २६, १.
 महा-वराह^c - ०ह विध ९८, ७९.
 महा(हा-आ)वर्त^d - तेषु अप ६५, १, ६.
 महा-वर्ति-द्वय - येन विध ९०, २०.
 महा-वर्ष^e - खं काघ २७५ : १०; -बेत्तु बौधौ २, ५ : १८१.
 महा-वात - ताः अप ५५, ६, २; -ते काघ २७६ : १.
 महा-वाल-भिद्^f - भित् आश्रौ ८, २, १८; -भिदम् आश्रौ ७, २, १६.
 महा-विक्षेप^g - पम् या ६, ३३.
 महा-विघ्न - घ्नानि माण २, १४, १९.
 महा-विशिष्ट - पावा ६, ३, ४५.
 महा-विष्णु - ष्णवे आग्निण ३, ११, ४ : १४; -ष्णुः आग्निण २, ४, १० : ७.
 महा-वीणा - ष्णा-पिशिल-
 वीणा - षे द्राश्रौ ११, २, ४; लाश्रौ ४, २, ३.
 महा-वीर(वप्रा.)^h - रः आपश्रौ १५, १७, ७; आश्रौ; -रम् आश्रौ ४, ७, ४; शाश्रौ ५, ९, २७; ८, १५, ११; १३, १२, १३; काश्रौ; बौध ३, ४, १६; -राः वृदे ५, ३५; -रान् बौधौ ९, ४ : ८; -रान् काश्रौ २६, १, १; आपश्रौ;

-राय बौधौ ९, १९ : ६१;
 बौध ३, ४, ३६; वैश २, ११ : ३६; -रे आपश्रौ १५, १०, १; १४, १०१; बौधौ; -रेषु बौधौ ९, १५ : ३; माश्रौ ४, १, ३२; -रौ काश्रौ २६, २, ३५; आपश्रौ १५, ६, ११; बौधौ.
 महावीर-पयः-शेष - पम् वैश्रौ १३, १३ : ४.
 महावीर-मात्र - त्रेषु शाश्रौ ५, ९, ४; १०, ३२.
 महावीरपात्रो (त्र-ञ)द्-
 वासन - नम् शाश्रौ ५, १२, २.
 महावीर-संमित - तौ वैश्रौ १३, ७ : १२.
 महावीरसंमिता (त-आ)
 वस्क - स्कौ हिश्रौ २४, २, ५.
 महावीरसंमिता (त-आ)
 वस्क्य - स्क्यौⁱ आपश्रौ १५, ५, ११; माश्रौ ११, ५, १३.
 महावीरा(र-आ)यतन - नम् द्राश्रौ २, २, १४; लाश्रौ १, ६, १३.
 महा-वीर्य^j - र्यम् सु १४, २.
 महा-वृक्ष - क्षः द्राश्रौ १, १, १७; लाश्रौ १, १, १६; निसू ४, ११ : १५; -क्षम् निसू ४, ११ : २३; काण २६, ९; जैण २, ५ : १५; -क्षस्य निसू ४, ११ : २२; -क्षाः अप ५५, ६, २; -क्षान् गोण २, ४, २; -क्षेषु कौसू ७७, ९; -क्षौ निसू ६, १० : २४.
 माहावृ(क्ष >)क्षी - क्षी

निसू ४, ११ : १४.
 माहावृक्ष-फल - लानि गोण ४, ५, १८; द्राण ४, १, ११.
 महा-वेदि - दिः बौधौ १८, २१ : ७; आपण ५, ८; बौध; -दिम् बौधौ ९, १३ : २८; १०, १९ : ४××; माश्रौ; -देः काश्रौ १७, २, ६; आपश्रौ १४, २३, ११; २१, १८, १; हिश्रौ १६, ६, २६; जैश्रौका ६८; द्राश्रौ १४, ३, १०; लाश्रौ ५, ७, ९; बौध ३ : २७; ३१; ४ : ४; -द्याः बौधौ ६, २२ : २२; २३ : ८××; -द्याम् आपश्रौ २४, ८, ५; हिश्रौ १०, ८, १०; -द्यै बौधौ ११, २ : १०; १८, ५० : ११; २५, २६ : १५; ३३ : १३.
 माहावेदिक - कम् हिश्रौ ७, ४, ५८.
 महावेदिक - कम् भाश्रौ १२, ६, ३.
 महा-वैराज^k - जम् बौध ३, १०, ११; गौध १९, १३.
 महावैराजी^l - जी आश्रौ २, ११, १.
 महा-वैश्वदेव^m - पा ६, २, ३९.
 महावैश्वदेव-ग्रहण - णम् काश्रौ १०, ६, २.
 महा-वैश्वामित्रⁿ - त्रम् क्षुस् १, ७ : २३.
 महा-वैष्टम्भ^o - म्भम् क्षुस् २, १० : १९; ११ : ९; निसू ३, १० : ३; -म्भस्य क्षुस् २, १० : १९; ११ : ९.
 निम् ४, ११ : १४.
 महावृक्ष-फल - लानि गोण ४, ५, १८; द्राण ४, १, ११.
 महा-वेदि - दिः बौधौ १८, २१ : ७; आपण ५, ८; बौध; -दिम् बौधौ ९, १३ : २८; १०, १९ : ४××; माश्रौ; -देः काश्रौ १७, २, ६; आपश्रौ १४, २३, ११; २१, १८, १; हिश्रौ १६, ६, २६; जैश्रौका ६८; द्राश्रौ १४, ३, १०; लाश्रौ ५, ७, ९; बौध ३ : २७; ३१; ४ : ४; -द्याः बौधौ ६, २२ : २२; २३ : ८××; -द्याम् आपश्रौ २४, ८, ५; हिश्रौ १०, ८, १०; -द्यै बौधौ ११, २ : १०; १८, ५० : ११; २५, २६ : १५; ३३ : १३.
 माहावेदिक - कम् हिश्रौ ७, ४, ५८.
 महावेदिक - कम् भाश्रौ १२, ६, ३.
 महा-वैराज^k - जम् बौध ३, १०, ११; गौध १९, १३.
 महावैराजी^l - जी आश्रौ २, ११, १.
 महा-वैश्वदेव^m - पा ६, २, ३९.
 महावैश्वदेव-ग्रहण - णम् काश्रौ १०, ६, २.
 महा-वैश्वामित्रⁿ - त्रम् क्षुस् १, ७ : २३.
 महा-वैष्टम्भ^o - म्भम् क्षुस् २, १० : १९; ११ : ९; निसू ३, १० : ३; -म्भस्य क्षुस् २, १० : १९; ११ : ९.

a) वस. । b) वैष १ द. । c) विष्णु-नामन्- । d) उप. = वृष्टि । e) = (वालखिल्यमन्त्रे-
 वेत्संज्ञकार्षिदृष्ट-) विहार- (पादव्यतिषन्न) इति (तु. सा [ऐत्रा ६, २८]) । f) = यज्ञिय-पात्र- । कस. ।
 g) = प्रवर्त्य देवता- । h) परस्परं पाभे. । i) परस्परं पाभे. । j) = साम-विशेष- । k) = इष्टि-विशेष- ।

महा-व्याधि- -धिम् आज्यो
७,९.

महा-व्याहृति- -तयः बौश्रौ
२७,१०:३; २८,११:११; कौश्रु;
शांश्रु ४,९,३^३; -तिभिः शांश्रौ
२,१०, ३; १२,८; १४, ९××;
काश्रौ; -तिभ्यः पाश्रु १, ५,
५; -तोः बौश्रौ २८, १०:
५; १३; २९, १३: २१; कौश्रु
३, ६, ३; ७,१२^२; १४, ४^०;
४,१, ४^१; शांश्रु २, ९, ३; ४,
१,८; ५, १२; १७, ५; आश्रियु;
-तीनाम् शांश्रौ ४, २, ७; कौश्रु
३, १५, ५; शांश्रु ३, १३, ५;
-त्या शांश्रौ ४, २, २; वैश्रौ १२,
६: १२; कौश्रु १,१०,३; शांश्रु.

महाव्याहृति-पूर्वक- -कैः
अप ५, ३, ४.

महाव्याहृति-सर्वप्रायश्चित्ता
(त-अ)न्तर- -रम् कौश्रु १,
५, २७^०.

महाव्याहृति-सर्वप्रायश्चित्त-
प्राजापत्या(त्य-अ)न्तर- -रम्
शांश्रु १,९,१२^०.

महाव्याहृति-सावित्री-
शान्ति^१- -न्तिम् अप ११,
१, ५^६.

महाव्याहृति-होम- -मः
काश्रौ २५,१,४; विध ५४,१०;
-मम् अप ६९, ३, १.

महा-व्रत(वप्रा.)^१- -तम् आश्रौ
८, १३, ३१××; शांश्रौ; हिश्रौ
१८,३,२^१; शोध ४०५^१; विध
५०, ५^१; ११^१; ५२, ३^१; -तस्य
शांश्रौ १३, १५, १३; १७, १, १;
वाधुश्रौ ४, १०३: ३; ४^२;
द्राश्रौ १०, १, १^६; लाश्रौ ३,
९, १^६; शांश्रु ६, ४, २^१; ६^१;
-तात् आश्रौ ८, २, २२××;
शांश्रौ; -ताय शांश्रौ १७,७,१;
-ते आश्रौ १२, ७, १३; शांश्रौ;
-तेन लाश्रौ १०, ९, १; -तेषु
हिश्रौ २३, ३, २७^३.

महाव्रतिक^२- -कम्
शांश्रौ १६, १४, २; ४; १८, २०,
८; कौश्रु २, ७, १६^०; -कानाम्
बौश्रौ २३, ११: ३०; -कानि
आपश्रौ २१, १७, ७; -कैः शांश्रौ
१६, १४, ३; ५.

महाव्रत-चतुर्थ^३- -र्थानि
शांश्रौ १३, १५, ७.

महाव्रत-त्व- -त्वम् वाधुश्रौ
४, १०३: ३-५.

महाव्रत-वृष्ट^४- -ष्टः लाश्रौ १०,
१३, १६.

महाव्रत-वत्- -वान् आपश्रौ
२२, २२, १४; २०; बौश्रौ १६,
२९: ४××; हिश्रौ.

महाव्रत-विधान- -नेन विध
५३, १.

महाव्रत-शिल्प- -व्यानि
हिश्रौ १, ६, ६६.

महाव्रत-सप्तम^५- -मानि
शांश्रौ १३, १५, १०.

महाव्रत-सामन्^६- -मा हिश्रौ
१६, ६, ४.

महाव्रतीय- -यम् शांश्रौ १२,
२७, ४; १४, ४८, २; -ये
काश्रौ २६, ७, ५६; बौश्रौ १४,
२२: ४; १६, १८: १४; २०: ७.

महाव्रतो(त-उ)द्यनीय-
-यभ्याम् आपश्रौ २३, ९, ९;
१५; हिश्रौ १६, ६, ३^१.

२महा-व्रत^७- -तः या ३, १७.

महा-व्रीहि- पा ६, २, ३८;
-हीगाम् कौसू ५४, ११; अप
१६, १, ४.

महा-शाङ्खायन^८- -नम् अप
४३, ४, ३३.

महा(हा-अ)शन^९- -नः या २,
२७.

महा-शब्द- -ब्दाः अप ७०^३,
२, ४.

महा(हा-आ)शय^{१०}- -यः अप
४३, ५, ११^१.

महा-शल्क^{११}- -ल्कम् विध ८०,
१४.

महा-शाखा^{१२}- -खाम् कौशि ४५.

महा-शान्ति- -न्तिः जैश्रु १, २३:
१३; अप; -न्तिम् शांश्रु ५, ११,

a) सपा. आश्रु ३, ४, १ व्याहृतयः इति, बौध २, ९, १४ व्याहृतीः इति च पाठे. । b) षतयः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. शांश्रु ४, ५, १२) । c) षतयः इति पाठ ? यनि. शोधः (तु. शांश्रु ४, १, ८) । d) षतयः इति पाठः ? यनि. शोधः । e) परस्परं पाठे. । f) द्रस. । शान्ति- = (शान्ति-प्रतिपादक-) शान्ति-सूक्त- । g) षन्तिभिः इति संस्कृतुः टि. । h) वैप इ द्र. । विशेषः टि. द्र. । i) षतः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपश्रौ २३, ७, ६) । j) = व्रत-भेद- । k) क्रतु-नामन्- इति लाश्रौ. भाष्यम् । l) = प्रकरण-विशेष- । m) सप्र. आपश्रौ १९, १५, ७ समहा^१ इति पाठे. । n) तस्येदमीयष् ठक् प्र. । o) सप्र. शांश्रु २, ११, १२ व्रातिकम् इति पाठे. । p) बस. । q) ष्यनीभ्याम् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपश्रौ.) । r) = षडधि-विशेष- । s) = मत्स्य-विशेष- । बस. । t) = कृष्णयजुःसंहिता- ।

२; कौसू; -न्ती: अशां १६,
१; -न्ते: अप ७०, १, ८;
-न्त्या: अप ६९, ६, ४.

महाशान्ति-त्रयस्त्रिंशत्-
शत् अप ३३, ७, ७^१।

महाशान्ति-विधान- -नेन
अप ३३, ५, ६.

महा-शाम्बक^b- -कम् कौगृ २, ५,
३.

महा-शा(ला >)ल^p- -लः
वाधूश्रौ ४, ८९: ३१.

महा-शूद्र- -द्रः कौसू १७, १६.

महा-संग्राम- -मम् बौश्रौ १८,
४६: १; १९; ४९: १.

महा-सतोबृहती- -ती ऋअ १,
१०, २; २, ६, ४८; १०, १३२;
शुअ ५, ७२; ऋप्रा १६, ७७.

महासतोबृहत्य(ती-अ)न्त^o-
न्तः ऋप्रा १८, १०.

महा-सतोमु(ख >)खा- -खा
ऋप्रा १८, २७.

महा-सत्र- -त्राणि काश्रौ २४, ५,
१५; निस् १०, ९: २१; कप्र २,
३, २; आपध १, १२, १४; बौध
२, ६, १; हिध १, ४, १४.

महा-संपद्^d- >माहासांपद^o-
-देन वाधूश्रौ २, ४: १.

महा-सरित्- -रित् अप ६९, ४,
२.

महा-सस्य- -स्यात् अप ५९,
१, १०.

महा-सांनपन¹- -नम् कागृ ७,
४^क; बौध ४, ५, १६^क; विध
४६, २०^क; -नेन विध ४०, २.

महा-सिद्धि- -द्धि: अप २१, ७,
६.

महा(हा-अ)सुर- -रम् अप ६,
३८, १; अशां ८, १; -रै: अप
३१, १, १.

महा-सूक्त²- -क्ता: ^h आगृ ३,
४, २; कौगृ २, ५, १.

महा-मेन¹- -नः मागृ २, १४,
२९; -नम् बौध २, ५, २२.

महा-स्तोत्र- -त्रेषु वेताश्रौ ३३,
१८.

महा-स्वन^o- -नः अप ७०³, ५,
३.

महाहन¹- -नात् बौश्रौ १७,
१०: ९.

महा-हविस्^k- -वि: काश्रौ ५,
२, ८; ७, ४; आपश्रौ २२, ८, १८;

काश्रौसं २९: ८; -विभि: बौश्रौ
१७, ६०: १२; ६२: ७; २६,
२९: १४; हिश्रौ ५, ३, ४०;

-विष: आपश्रौ ८, १२, १;
-विषा वाश्रौ १, ७, ३, २४;

-विषाम् बौश्रौ २५, ३: १९;
भाश्रौ ८, १३, १५; -विषि शाश्रौ

३, १५, १६; १४, १०, १६; काश्रौ
५, ११, २८; -विषु बौश्रौ २१,
६: १९; -वीषि बौश्रौ ५, १८:

१३; १५, ११: १²; १७, ५७:

१८; ६०: ११; ६२: ५.

महा-हविस्¹- -वि: शाश्रौ
१०, १८, ४; बौश्रौ १०, ७: ४०;

माश्रौ ५, २, १४, ४; वाश्रौ १, १,
३, १९; आश्रौ १, ७, १: ११;

३, ४, १: ३४; वैगृ ५, ४: १२.

महा(हा-अ)हुति- -ती: आश्रौ
१७, २०, १५; हिश्रौ १२, ६,
२२.

महा-हेम- -मम्^m अप १,
४१, ६; अशां ११, ६.

महा-हे(, है)कौगृ।]म->म-
व(त् >)ती^o- -तीम् कौगृ १,
१४, ११; शांगृ १, २२, १७.

महा-हैलिहिल^o- पा ६, २,
३८.

महा-होतृ^p- -तार: भागृ ३, ५:
१२.

महा-हृद्- -दम् याशि १, ३४;
-दे अप १, ४४, ९.

महिम्न¹- पा ५, १, १२२;
-महिना^q आश्रौ ३, १२, ९;

काश्रौ ९, ३, १८⁵; आपश्रौ;
हिश्रौ २४, १, २१⁶; -हिमन:

ऋप्रा ८, ३⁷; -महिमा काश्रौ
७, ८, ८; आपश्रौ; बौध २,
१०, ८⁸; १०⁹; -महिमान:

आपमं २, २०, ३०; कौगृ ३,
१५, २; शांगृ; -महिमानम्

आश्रौ १, ३, २२××; शाश्रौ;
माश्रौ १, ४, २, ६⁸; या ३, २२⁸;

a) मह^o इति पाठः? यनि. शोधः (तु. संस्कृतुः टि.)। b) = ऋषि-विशेष-। c) वस। d) = अम्यु-
पस्थान-विशेष-। e) तदस्यप्रयोजनमित्यर्थे षण् प्र. उसं. (पावा ५, १, ११०)। f) = कृच्छ्रव्रत-विशेष-।
g) = (महासूक्त [ऋ १०, १-१२८] संबन्धिन्-) ऋषि-। h) क्षुद्रसूक्ताः महासूक्ताः इत्यस्य स्थाने सप्र. शांगृ ४,
१०, ३ क्षुद्रसूक्तमहासूक्ताः इति पाठे.। i) = विनायक-विशेष-। j) पाठः? महाह- (= मध्याह-) इति शोधः
(तु. संस्कृतुः टि.)। k) = [साकमेघान्तर्गत-] इष्टि-विशेष-। वैप २, ३^{खं}. द। l) वैप १ द.। m) यं
महाहेमम् > यं मामहे इति संस्कृतुः टि. ?। n) = गाथा-विशेष-। o) उप. अर्थः ?। p) = मन्त्र-विशेष-।
q) पाठे. वैप १, २३९६ ट द.। r) पाठे. वैप १, २३९६ ष द.। s) पाठे वैप १, २३९५ व द.।

-हिमानौ काश्रौ २०, ५, २^३;
 आपश्रौ २०, १२, ६^३; १३, २^३;
 बौश्रौ १५, २२: १३^३; २६, ८: ५^३;
 माश्रौ ५, १, ३, २७; वाश्रौ ३, ४,
 २, १५^३; ४, २३^३; हिश्रौ १४, ३,
 ८^३; -हिमाभ्याम् बौश्रौ २६, ८:
 ६^३; -हिन्नः आश्रौ १०, ९, ५;
 शाश्रौ १६, ७, १; १२; जैश्रौ
 १७: ८; -हिन्ना आश्रौ १०, ९,
 ४; काश्रौ २०, ७, १६; आपश्रौ;
 -हिन्नि आश्रौ ५, ५, २०;
 -ऋहिन्ने आपश्रौ १२, १७, ४;
 बौश्रौ १४, १४: ५; माश्रौ;
 -हिन्नोः^३ आपश्रौ २०, २०,
 ३; बौश्रौ १५, १५: ९; ३८:
 ७; वाघुश्रौ ३, ७६: २१; वाश्रौ
 ३, ४, २, १३; हिश्रौ १४, ४१.
 महै (हा-इ) न्द्र- न्द्रः आश्रौ
 २, १८, १८; शाश्रौ; -न्द्रम्
 आश्रौ १, ३, ११; वाश्रौ; शंघ
 ११६: ९^३; -न्द्रस्य शाश्रौ १, ९,
 २^३; आपश्रौ; -ऋन्द्राय आपश्रौ
 १, २, ६; बौश्रौ; -न्द्रेण बौश्रौ
 ८, ८: १६^३; वाश्रौ ३, २, ५,
 ५७^३.

माहेन्द्र^d- पा ४, २,
 २९; -न्द्रः शाश्रौ ३, १५, १८;
 १४, ८, ५; काश्रौ ५, ७, ६; ११,
 २८; १४, ५, ३१; आपश्रौ; -न्द्रम्
 शाश्रौ १, ३, १७; १७, ११, १;
 काश्रौ; अप ५७, ४, १^३; ३^३;
 -न्द्रस्य शाश्रौ १, ८, १३;
 आपश्रौ; अप ५७, ४, ७^३;
 -न्द्रात् आपश्रौ १८, २, १७; ४,

१; १२, ११; बौश्रौ; -न्द्राणि
 आश्रौ ९, २, १६; -न्द्राय बौश्रौ
 ८, ७: २५; ८: ७××; -न्द्रे
 वैश्रौ १६, ९: १३; -न्द्रेण वाश्रौ
 ३, १, २, २७; वैश्रौ १७, १६: ३;

माहेन्द्री- न्द्री
 आश्रौ २, १८, १७^३; अशां १६,
 १^३; -न्द्रीम् अप^३ ५४, २, ४;
 ६२, ४, ६; ६८, ३, ९; ७०^३, १७,
 १; ७१, १९, ८; अशां १७, ३^३;
 शुअ १, ४७९^३; ३, ६३^३; -न्द्रयाम्
 वैताश्रौ ९, ६^३; अशां १८-१९, ४^३.

माहेन्द्र-काल- ले
 वाश्रौ ३, १, १, ३१; २, १, ४३;
 ४५; ३, २, ७.

माहेन्द्र-जाल-
 प्रभृति-कर्मा(र्मा-आ)दि-
 -दिषु अप ३, १, १३.

माहेन्द्र-प्रभृति-
 -तीनि हिश्रौ १३, २, १९; ६,
 ४१.

माहेन्द्र-शुनासीरीय-
 -यौ वाश्रौ १४, १०, ११.

माहेन्द्र-स्तोत्र- न्त्रम्
 हिश्रौ १६, ३, १८^३; ६, ४३^३;
 १७, ५, २३.

माहेन्द्रस्य-स्तुत-
 -त्तम् आपश्रौ २१, २०, ६^३.

माहेन्द्रस्य-स्तोत्र-
 -न्त्रम् आपश्रौ १३, ८, ५^३; १८,
 १५, १०××; २१, ६, १७^३;
 बौश्रौ; -त्रे आपश्रौ २१, १९,
 १; बौश्रौ.

माहेन्द्रा(न्द्र-आ)

दि- दि काश्रौ १४, ५, २९;
 १५, ७, २३; -दौ काश्रौ १५, ५,
 १६.

माहेन्द्रा(न्द्र-आ) न्त-
 -न्ते काश्रौ १४, २, १६.

माहेन्द्र-चाप- -पः अप ७०^३;
 ११, ११.

माहेन्द्र-याजिन्- -जिनः
 आपश्रौ १, २, ७; माश्रौ; -जी
 बौश्रौ १, ३: १७××; माश्रौ.

माहेन्द्र-रेखा- -खा अप ७०^३;
 ११, ११.

माहेन्द्र-सदन- -न्म वृदे ४,
 ७६.

माहेन्द्रस्य (अयन-) लाश्रौ
 १०, १३, १६.

माहेन्द्रा, न्द्री [य^३] - पा ४, २,
 २९.

माहेन्द्रे (न्द्र-इ) ज्या- -ज्याम्
 बौश्रौ २३, १७: १०; ११.

महै (हा-ई) श्वर- -०र अप ३६,
 ९, ३^३; -रः वैश्र १, २: १७^३;

अप ४०, ४, २; ३; ५; -रस्य अप
 ४०, ३, १.

महै (हा-इ) श्वास^३ - पा ६, २,
 ३८.

महै (हा-ए) तरेय^३ - -यम् आश्र ३,
 ४, ४; कौश्र २, ५, ३; शांश्र ४, १०,
 ३; ६, १, १; अप ४३, ४, ३६.

महो (हा-उ) क्ष- पा ५, ४, ७७;
 -क्षम् वाघुश्रौ ४, ५२: ४.

महो (हा-उ) क्षन्- -क्षाणम् वाघ
 ४, ८.

महो (हा-उ) श्पात- -त्तम् अप

a) = (तदाख्य-) ग्रह-द्वय- । b) = पर्वत-विशेष- । c) = माहेन्द्र-स्तोत्र- । d) वैप १ द. ।

e) = मण्डल-विशेष- । f) = इष्टि-विशेष- । g) = शान्ति-विशेष- । h) = [माहेन्द्रग्रहदेवत्या-] ऋच्- । i) = [माहेन्द्र-
 देवत्या-] ऋच्- । j) सपा. *न्द्रस्तोत्रम् <> *न्द्रस्य स्तोत्रम् इति पाठिः । k) सपा. *न्द्रस्तोत्रम् <> *न्द्रस्य
 स्तुतम् इति पाठिः । l) = धनुर्-विशेष- इति वापाभाः । m) व्यप. ।

७०^३, ७, १२; -ताः अप ६८, ५, १४; १७.

महो(हा-उ)स्माह^० -हः शंघ २४४.

महो(हा-उ)द(य>)या^० -याम् सु १५, २.

महो(हा-उ)दर^० -रः बौध्रौप्र २२ : २; -राः बौध्रौप्र १४ : १; -राय अप ४२, ५, ५२^१.

महो(हा-उ)दर-भुजो(ज-उ) रस्क-दीर्घ-केश-नख-द्विज^० -जाः अप ६८, १, २१.

महो(हा-उ)मि- -मिभिः अप ७०^३, ११, १६.

महो(हा-ओ)जस्^० -जसाम् अप ५५, ६, ४.

महो(हा-ओ)दवाहि^० -हिस् आय ३, ४, ४; शांश्रु ४, १०, ३.

महो(हा-ओ)षध^० -धस् अशां २१, ४.

महो(हा-ओ)षधि- -धिस् वृदे ८, ५६.

महन्- पाठभो २, १, २७८; -ह्वा आपमं २, १८, ९; कौस् ७०, ६; कृया १०, १०; ११, ३७.

महयित्वा भाय २, ५ : १२××.

महस्(रः)^० - पाग ५, १, १३०; -हः ऋश्रौ १, ३, १४××; शांश्रु; माश्रौ २, १, १, ५^१; वैश्रौ १, ३ : ८^१; ऋश्रामिण २, ६, ३ : १३^१; ८ : २५^१; कप्र २, १, ६^१; शंघ १०७^१; ऋश्रौ २, ५, २०^१;

१०, ३२^१; ३३^१; निघ १, १२^१; या १४, ११^१; -ऋहसः गोश्रु ४, १०, १५; द्राग ४, ४, १८; -ऋहमे आपश्रौ १९, ७, ६; माश्रौ १, ६, ३, १६^१; वाश्रौ; -ऋहांमि आश्रौ २, १८, ४; शांश्रौ ६, ३, ८; आपश्रौ; -होभिः आश्रौ ४, १३, ७^१; -ऋहोभ्यः आश्रौ ३, १, १४; आपश्रौ २०, ११, १८; वैताश्रौ १८ : १.

माहस- पा ५, १, १०.

महस्-लोक- -कम् शंघ ११६ : ६६.

महसन्-वन्-वतः माश्रौ ५, १, १, ३१.

महस्वती- -ती अप ४८, ७४^१.

महा अप ३६, १, १४^१.

महाम् आश्रौ ७, ५, २०^१; शांश्रु १२, ३, ६; ७^१; १४, १६, १९^१; १७, ८, ८^१.

महि- -हि ऋश्रौ २, ८, ३; १०, २१^१××; शांश्रु; वैताश्रौ ६, १^१; ऋअ २, ५, ३३^१; ऋया ११, ९^१; तैप्रा ६, २^१. महित्री^० - पाग ५, २, ६१.

माहित्र^० - पा ५, २, ६१;

-त्रम् शांश्रु २, १२, ६; वाष २६, ५; वृदे ८, ८६; -त्रेग माश्रौ ६, ४, ४; वैश्रौ २, ८ : ८; हिश्रौ ६, ६, १६.

महित्व- -त्वम् शांश्रु २,

४, ३; यौः; या ४, ११; ६, ८^१; ७, २३^१; -त्वा^० आपश्रौ ५, ९; ११××; वैश्रौ; -त्वे^० आपश्रौ २२, १२, २०; बौध्रौ. महिन्वन्- -न्म् आपमं २, २, ४^१.

महिन्माय- -०य आश्रौ ४, ११, ६^१.

महिन्वृष्- -वृधे^० आश्रौ ७, ११, ३; ४; शांश्रु.

महिन्वत्- -०त् धुस् १, ९ : ३; ४; या ३, १७^१.

✓महीय, महीयते बौध्रौप्र ५४ : १९^१; कौश्रु ३, १०, ३५; आमिण.

महीयमान, वा- -न्तः बौध्रौ ११, ११ : ४; -न्तम् कप्र ९, ४१^१.

महीया^० -या हिश्रौ १०, ५, ३४; -याम्^० आपश्रौ १३, २२, ५; वैश्रौ १६, २० : ३; हिश्रौ ९, ५, ४८.

म(हि>)ही-षाह- -षाट् अप्रा ३, ४, १.

महित्- -हितः आश्रौ २, ९, १४; ३, ७, १०.

महित्नी- -०नि आपमं २, १८, ९; या ११, ३७^१.

महित- पाठ २, ५६.

मामहान- -न्तः शुप्रा ३, १२९^१.

मंह-, महन्- प्रष्ट. ✓मंह द्र. मक् पाग १, १, ३७.

- a) वस. । b) व्यप. । c) वस. > दस. > कस. > वस. > दस. । d) = अपमर्ग- । e) वै १ द्र. । f) पाभे. पृ १८८७ d द्र. । g) = व्याहृति-विशेष- । h) = उदक- । i) पाभे. वै १, १५३५ j द्र. । j) वैप १, २३९९ k द्र. । k) पाभे. वैप १, १४३८ g द्र. । l) वैप १, २४०० ० द्र. । m) पाभे. वैप १, २४०० g द्र. । n) < महि श्रीणाम् (ऋ १०, १८५, १) । o) = सूक्त-विशेष- । p) पाभे. वै १, २४०१ ० द्र. । q) वैप १, २०४६ j द्र. । r) पाभे. वैप १, २४०१ k द्र. । s) = ऋण-विशेष- (ऋ ८, ४८, ३) । t) पाभे. पृ ५३६ h द्र. । u) = महत्- ।

मक- पाग २,४,३१^a.

मकथु-(>माकथेय^b- पा.) पाग ४,
१,१२३.

१मकर^c- रैः अप ६१,१,७.

मकर-संस्थित- -ताः अप ६२,३,२.

२मकर-(>माकरायण- पा.) पाग ४,
२,८०.

मकरी-(>री-प्रस्थ- पा.) पाग ६,
२,८७.

मकटु^d- (>माकष्टेय^b- पा.) पाग
४,१,१२३.

म-कार- प्रभृ. म- द्र.

मकि^e अप ४८,१२६^f.

मकुर- पाउ १,४०.

मक्कोल- पाउभो २,३,११५.

√मक्ष^g पाघा. भ्वा. पर. संघाते.

मक्ष^h->मक्षाⁱ- श्वाः अप ९,१^f.

मक्षिक,का^j- पाउ ४,१५४; पाउभो
२, २, १८; पाग ५, २, १७;

पावाग ४, ३, ११६; -का जैगृ

१,३:३; शंघ १६९; विघ २३,

५२; -कामिः वाघ ३, ४६;

-कायाम् बौश्रौ २, ५:२१;

-कैः बौगृ ४,१,५.

माक्षिक- पावा ४,३,११६.

मक्षिका-मशक- -कैः शंघ ४३१.

मक्षिकाल- पा ५,२,१७

११मलु^k->शु>शू आपश्रौ १२,१९,
८; बौश्रौ १३,१७:७; माश्रौ ५,

१, ६, ७; हिश्रौ २२, ३, ७;

कागृ ३८, २; अप ४८, १०६;

वृदे ६,७३; चाअ ४१:९; निघ

२,१५; ऋप्रा ७,५; तैप्रा ३,१३;

पा ६, ३,१३३.

मलुं-ना(म>)मा- -माभिः ऋप्रा
७,९^f.

२मलु-[->यक. माक्षव्य- (> माक्ष-
व्यायान>]नी-)] पाग ४,
१,१०५^g;१८.

√मख्, ङ्ख् पाघा. भ्वा. पर. गतौ.

मख^h- पाउभो २,२,४७; पाग ५, २,

२४^h. -फखः आपश्रौ १५, ३,

७; बौश्रौ; -खम् ऋप्रा ७, ५४;

-फखस्य काश्रौ १६,३, २२××;

आपश्रौ; -खाय फकाश्रौ २६,

१,१०;१२;१४,१६××;आपश्रौ;

कौगृ १,१६,७^f; शांगृ १, २४,

४^f; -खे वृदे १, ११५; ३,

४५; -खेभ्यः या ३,२१^f; -खेषु

अप ३, ३, ७.

मख-जाह- पा ५,२,२४.

फमख-हन्- -घ्ने आपश्रौ १२,२०,

३^f; बौश्रौ.

मगदिन्-(>मागथ- पा.) पाग ४,
२,८०.

मगध,घाⁱ- पाउभो २,२,१७६; पाग

३, १, २७; ४, २, १३८; -घाः

अप ५१, ४, ४; -घायाम् अप

५१, १, ३; -घेभ्यः अप्रा ३,

४, १^f.

१मागध^j- पा ४,१,१७०; -घाः

अप १,७,२; ५०, ३, ३; -घैः

अप ३३,३,३;

मागध-देश->ंशीय-

-याय काश्रौ २२, ४,२४; लाश्रौ

८, ६,२८.

मागध-प्रस्थ-संमि(त>)ता

-ता अप ३३,२-३,५.

मागध-वङ्ग-मत्स्य- -त्स्याः
अप १,७,७.

मगधीय- पा ४,२,१३८.

मगन्द्^k- -न्दः या ६,३२^f.

मगुन्दी^l- -न्द्याः अप्रा ३,४,१^f.

मग्गुश- पाउभो २,३,१४९.

मग्न- √मज्ज् द्र.

मघ-, मघ-वत्- प्रभृ. √मह् द्र.

मघष्टु^m- (>माघष्टेय^b- पा.) पाग
४,१,१२३.

मघाⁿ- पाउना ५,८२^l; -घा अप १,

३८,३; ३१, ८, ६; अशां ८,३;

वेज्यो ३६; -घाः अप १,१, २;

२-३,१; ५,१; ११,२^f; १२,१;

३३, ११; ५७, १,१; -घानाम्

अप ५०,४,२; -घाभिः आपगृ

३,१^f; भागृ १,१२:१७^f;

अप १,९,९;२८,१;४३,८; ४८,

५; -घाभ्यः बौश्रौ २८, ४:५;

शांगृ १, २६,८; वैगृ ३,२०:५;

अशां १२, २; -घाम् अशां २,

३; -घासु आमिगृ २, ५,१२:

२; जैगृ २, ५:१९; कौस् ७५,

५^f; अप.

मा(घ>)घी^o- -घी काश्रौ १३,

१,८; विघ ७६,१; ९०,६; मीस्

६, ५, ३२; -घ्याः शांश्रौ १५,

१२, ३; हिश्रौ १६, ५, १७;

वैताश्रौ ३१, १; ३६,४; आपगृ;

-घ्याम् शांश्रौ ३,१८,१८; १५,

१२, १०; बौगृ ३, ९, २; भागृ

३, ८:१२; बौघ १, ५, १४३;

विघ ९०, २०; -घ्यै आपश्रौ

२१,१५,६; बौश्रौ १६,१३:४-

a) मल- इति पाका. b) डे उवर्णस्य लोपः (पा ६,४, १४७)। c) वैप १ द्र.। d) व्यप.।

e) प्रतिषेधे अव्य.। f) तु. BPG.। g) तु. पाका.। मङ्गु- इति भारुडा. पासि.। h) अर्थः?। i) पामे.

वृ १०३० k द्र.। j) = जनपदविशेष- वा तद्राजन्- वा। k) = कुसीदिन्-। वैप १, २१८८ j द्र.।

l) <√मक्ष्। m) पामे. वैप १ परि. मघासु ऋ १०,८५, १३ टि. द्र.। n) = पौर्णमासी-।

माघ^१- घः वेज्यो ६;
 -घस्य शंश्रौ १३, १९, ३-४;
 -घे वाधुश्रौ ४, २८ : ११; बौग
 २, ११, ३; कौस् ८३, ५१;
 अप ७१, ७, ४; विघ ९०, २७;
 वैघ २, १२, ७.
 माघ-प्रौष्टपद- दशोः
 वैग ४, ३ : १.
 माघ-फाल्गुन- नयोः
 अप ५५, ४, १; -नौ विघ ९०,
 २९.
 माघ-मास- से बौश्रौ
 २६, २९ : ६; अप २, ४, ६.
 माघ-शुक्लपक्ष-प्रतिपद-
 -पदि कौग ३, ८, २^b.
 माघ-शुक्ल-प्रतिपद-
 -पदि शंग ४, ६, १^b.
 माघ-शुक्ल-प्रपन्न- न्नस्य
 वेज्यो ५.
 माघ-श्रावण- नयोः
 वेज्यो ७.
 माघो-पक्ष-यजनीय- ये
 काश्रौ १५, १, ४.
 मघा-त्रयोदशी-श्राद्ध- द्धम् कागुठ
 ४३ : २०.
 मघा-नक्षत्र-जात- तानाम् सु ४,
 ६.
 मघा-भाग- नो अप १, ६, १०.
 मघा-यु(क्त)का- क्काम् शंघ
 १९३.
 मघा-यु(त)ता- ता विघ ९०, ६
 मघी^०- (>मघी-प्रस्थ- पा.) पाग ६,
 २, ८७.

मघोनी- ✓मह् द्र.
 मघनी- (>मघनी-प्रस्थ-) मघी-
 टि. द्र.
 ✓मङ्गू पाधा. भ्वा. आत्म. मगडने.
 मङ्गट- (>टिन्- पा.) पाग ४, २,
 ८०.
 मङ्गण- पाउभो २, २, १२४.
 मङ्गिल^d->माङ्गिल- ००ल वैघ ४,
 ८, १२^e.
 मङ्गिल-वत् वैघ ४, ८, १२^f.
 मङ्गीर^d- रस्य^६ आपश्रौ २१, २०,
 ३; बौश्रौ १६, २३ : ४; हिश्रौ
 १६, ६, ४१.
 मङ्गीर-दाशक- कौ बौश्रौ १६,
 २३ : ७^hफ.
 मङ्गिकल^d- >माङ्गिकल- ००ल
 बौश्रौप्र ५३ : २^e.
 मङ्गिकल-वत् बौश्रौप्र ५३ : २^f.
 मङ्गिक- पाउभो २, १, २२४.
 मङ्गिन्नु- पाग १, १, ३७.
 मङ्गिन्नु- [>माङ्गिन्नु- (>क्याय-
 [न>नी-]) मङ्गु- टि. द्र.
 ✓मङ्गू ✓मख् द्र.
 मङ्ग- पाउभो २, २, ४४.
 ✓मङ्गू पाधा. भ्वा. पर. गतौ.
 मङ्गल^१- पाउ ५, ७०; पाग २, ४, ३१;
 ४, १, ४१; -लम् सु १, ४^२;
 कौस् ७५, ५; अप १, ३५, १^३; २^३;
 गौघ ८, २१; या ९, ४^४क;
 आज्यो १०, २; -लात् वृदे १,
 २५; ३२^३; -लानि वाश्रौ १, १,
 १, ७९; आपगु; -लाय निसू १,
 ११ : १७; -लैः अप १८^३, १, २.

मङ्गली- पा ४, १, ४१.
 माङ्गल^१- लः बौश्रौ २४, २ : ४;
 -लानि आश्रौ ४, १५, ७.
 माङ्गल्य- ल्यम् विघ २७, ६;
 -ल्यानि आश्र ४, ६, ६; -ल्ये
 मागृ १, ११, १६^६.
 मङ्गल-दर्शन- नम् शंघ २५०.
 मङ्गल-पाठक- कैः अप १९^२, ४, ५.
 मङ्गल-युक्त-का- -क्तम् वैग २, ५ :
 ४; ३, २, २ : ३; २३ : २; -काम्
 वैग ३, १० : ४.
 मङ्गल-योग- गः वैग ५, १४ : २.
 मङ्गल-वादिन्- दिमिः अप १९^२,
 ४, ३.
 मङ्गला(ल-आ)चार-तत्पर- ता-
 -ता विघ २५, ८.
 मङ्गला(ल-आ)मङ्गल-वचन- नम्
 पावा ५, ४, ४२.
 मङ्गला(ल-आ)थे- र्थः पावा १, ३,
 १; -र्थम् काग ४०, ७; कागुठ
 ४४ : २१; वागृ ४, १९; अप
 ३, २, २.
 मङ्गलिक^१- -किम्याः^१ अप ४६,
 १०, २९; अश्र १९, २३.
 मङ्गल्य-ल्या^१- ल्यम् माश्रौ २, १,
 २, २८; वैग ५, ६ : २४; विघ
 २३, ५७; ५९; ७२, ५; १००,
 २; -ल्याः अप ७०^१, ३, ३;
 -ल्यान् अप १९^२, ४, १;
 -ल्यानि भागृ १, ११ : ८; मागृ
 १, ८, ५; ६; कौस् ४३, १५;
 -ल्यामिः गोगृ २, ७, १२;
 -ल्याय वैग ५, १२ : २; -ल्यैः

a) =मास-विशेष- । b) परस्परं पाभे. । c) तु. पाका. । मघी- इति भाष्ठा. प्रम् । d) व्यप. ।

e) सपा. माङ्गिल <>माङ्गिकल इति पाभे. । f) सग. मङ्गिकल <>मङ्गिकल इति पाभे. । g) सपा.

मङ्गीरस्य <>मङ्गीरस्य <>मन्दीरस्य इति पाभे. । h) सपा. मङ्गीरदासकौ <>मङ्गीरदासकौ

इति पाभे. । i) वैघ १ द्र. । j) तदस्यप्रयोजनमित्यर्थे अण् प्र. उरसं. (पावा ५, १, ११०) k)

k) म^० इति Knauer. ।

वागृ १६७,७.
मङ्गल्य-नामन^२- मः आपश्रौ
 १८,१९ ६ १०, १० २; वाश्र
 ३,३,३, ३१; हश्रौ ३३, ६, ३१;
 २३, १, ५२
मङ्गल्य-वन- वान वैध ३, ५,
 ७.
मङ्गीर^२- रस्य वैनाश्रौ ३५, १०
मङ्गीर-नामक- कौ देताश्रौ ३४,
 १६.
मङ्गुष^२ (> माङ्गुष्य- पा.) पाग
 ४, १, १५१.
 ✓मङ्गुष पाधा. भ्वा. पर. गत्यात्तेपे
 कानवे, मण्डने च.
 ✓मच्च पधा. भ्वा. आ. म. कल्कने.
मचक- > मचक-चात(>) जी^२-
 न्या: गाणृ १, २३, १६.
मच्छ- पाउमो २, २, ८३.
 ✓मज्जु^२ मजायेम अप ४८, ११५१.
मज्जिरक^२ (> माज्जिरक- पा.) पाग
 ४, १, ११२.
 ✓मज्जु (< ✓मरज्जु), मज्जने अप ६८,
 २, ५; मज्जति अप ३, ३, ३; ४,
 ६, २; ६९, ७, १; वाध २, ३०;
 बौध २, १, ५२; विध १२, ८;
 याशि १, ३५; मज्जसि वाधुश्रौ ३,
 १०५:४.
 मज्जयति काश्रौ ५, ५, २९; १०,
 ९, ३; या ९, ४.
मग्ग, म्ना- म्ग: अप ६८, ५, २;
 विध ४६, ५; या १४, ७;
 -मस्य काश्रौ २०, ८, १६;

-नानाम् शंघ ४; -ग्नाम्
 आपश्रौ १०, १९, १; माश्रौ १०,
 १२, ६; हिश्रौ १०, ३, ७.
मज्ज(त>)ती- तीम् कौसू ४२,
 १९.
मज्जन- नम् काश्रौ १९, ५, १४;
 विध २८, ५; ४६, ४; -नात्
 या ९, ५.
मज्जयत्- यता पागृ २, १, १८१^६;
मज्जयित्वा शांणृ ५, २, ७.
मज्जूक^२- का: या ९, ५४^६.
मज्जनु^२- पाउ १, १५९; -ज्जसु
 आपमं २, ११, १९; -ज्जा वैश्रौ
 १३, १७: १०; विध २२, ८१;
 वृदे ७, ७९; या १४, ६; अप्रा
 २, ३, १२; -ज्जानम् कागृ ६५,
 ६; अप्राय २, ९; वाध २०, २६१;
 गौध २४, ८; शुप्रा ४, १६१;
 -ज्जज्ञा आपश्रौ १६, १९, १;
 वैश्रौ १८, १६: ९; हिश्रौ ११,
 ६, ३१.
मज्ज-तस(:) द्राश्रौ ५, २, ३; लाश्रौ
 २, ६, १.
मज्जा^२- पाउमो २, १, २७८; -ज्जा:
 जैगृ २, ३: १२; -ज्जानाम् भाश्रौ
 ११, १५, २३; -ज्जाभि: वाध
 २०, २६१; -ज्जाम् हिश्रौ २४,
 ६, १८^६; अप ७१, ८, ३.
मज्जा-तस(:) या १४, ६.
मज्जा-रुधिर-वर्षम् अप ७२, ३, ४.
मज्जा-रूप- नम् आपश्रौ १५,
 १५, १^६.

मज्जा(जा-अ)स्थि-रनेह-मांस- -सम्.
 अप ७०^२, १८, २.
मज्जि- ज्यय:^६ शांश्रौ १८, २१, ११;
 काश्रौ १३, २, २४.
मज्जुका^२- का कागृ ६२, ४.
मज्जमन्^२- ज्जमना अप ४८, १०३;
 निध २, ९.
 ✓मज्जु पाधा. भ्वा. आ. म. धारणोऽप्यु-
 पूजनेषु.
मज्ज- पाउमो ३, २, ८२; पाग ४,
 २, ९०; -ज्जम् वौश्रौ १९, १०:
 ५७.
मज्ज-क- पाग २, ४, ३१.
मज्जीय- पा ४, २, ९०.
मज्जरी- पाउमो २, ३, ३८.
मज्जरित- पा ५, २, ३६.
मज्जि^२-> मज्जि-घ- पा ८, ३, ९७.
मज्जिष्ठा^२-> माज्जिष्ठ^०- -ष्ठम् आगृ
 १, १९, ११; कौगृ २, १, ९;
 वाध ११, ६५; आपध १, ३,
 १; हिध १, ७३; -ष्ठा: अप
 ५८, १, ७.
माज्जिष्ठ-हारिद्र^२- द्वे गौध १,
 २३.
मज्जीर- पाउमो २, ३, ४८.
मज्जीरक^२ (> माज्जीरक- पा.) पाग
 ४, १, ११२.
मज्जु- (> मज्जु-ल- पा.) पाउमृ १,
 ३७; पाग ५, २, ९७.
मज्जुषा- पाउ ४, ७७.
मट्मट^२- टा: अप्रा ३, ४, ११.
 ✓मट् पाधा. भ्वा. पर. मदनिवासयोः।

a) वस. । b) व्यप. । c) पाभे. पृ १९९९ g द्र. । d) पाभे. पृ १९९९ h द्र. । e) = ओषधि-
 विशेष- । व्यु. ? । < मसक^० इति MW. । f) सपा. कौगृ १, १५, १ मसकादन्याः इति पाभे. । g) पाभे. वैप १,
 २५१६ ० द्र. । h) मण्डक-पर्याय- । i) वैप १ द्र. । j) सपा. मज्जाम् <> मज्जारूपम्
 इति पाभे. । k) पाठः ? मतयः इति PW. शोधः । l) अर्थः व्यु. च ? । वपा-यूप- इति भाष्यम् । m) अर्थः
 व्यु. च ? । n) = ओषधि-विशेष- (मजीठ इति नभा.) । व्यु. ? < मज्जु- इति अभा. MW., अभा. [पक्षे] <
 मज्जि-घ- इति । o) विप. । रकार्थे अण् प्र. (पा ४, २, १) । p) विप. (वासस्-) । द्वस. ।

मठ- पाग २, ४, ३१^१; ४, १, ४१;
-ठम बौध ३, १, १३; -ठे वैच
३, ६, ६.

मठी- पा ४, १, ४१.

मठर^b- पाउ ५, ३९; पाग २, २, ३८;
४, १, १०४; १००; -राः^c बौध्रौप्र
४१: १.

माठर- पा ४, १, १०४; -रः वैताश्रौ
१, ३; वृदे ८, ८५.

माठरायण- पा ४, १, १००.

मडर^d- (>र-क[न्था]>)न्य-
पा.) पाग ६, २, १२५.

मडार^e- (>साडार्य- पा.) पाग ४,
२, ८०.

मडुर^f- (>र-क[न्था]>)न्य- पा.)
पाग ६, २, १२५.

मडुपिका^g- -काम् आगृ ३, ११.

मडुडुक^h- पाउभो २, २, २६.

माडुडुकⁱ-, माडुडुकिकⁱ- पा ४,
४, ५६.

✓मण्ण पाधा. भ्वा. पर. शब्दे.

मणि^l- पाउ ४, ११८; पाग ५,
२, १७; ४, ३; २९; ६, ३,
१२०; -णयः आपश्रौ २०, १५,
९; हिश्रौ १४, ३, २२; अप ६५,
१, ८; वेज्जो ४; -णिः भागृ २,
२१: ८; ९; कौसू ७६, ९; अप;
-णिना कागृ २९, ११; वैशृ
२, १५: ४; हिपि ५: १०;
गोशृ; -णिम बौश्रौ १७, ३९:
४; ४१: ५; १९, १०: ३२१;
हिश्रौ; -णीन् काश्रौ २०, ५,

१६; आपश्रौ १८, १७, १२;
१९, १७; २०, १५, १०; बौश्रौ;
-णीनाम् बौश्रौ २२, १९: ३;
शंथ ३९५; अश्र १९, ३११;
-णौ अश्र १९, ४६१.

मणि-क^k- पा ५, ४, ३; २९; पावाग
५, १, १२४^l; -कः कप्र ३, ९,
११; -कम् आगृ २, ९, ३;
कगृ ३, ३; पागृ ३, ५, २;
गोशृ ३, ९, ६; -काः आश्रौ
१२, ९ ११^m, -कान् गोशृ १,
१, २६; -कान् आगृ ४, ६, ४;
-के कागृ ३ १०, ११; आगृ २,
१४, १३; पागृ २ १, १. गोशृ ३,
३, ३०; ५, ७; अप ६७, २, ११ⁿ.

मणिक्व- पाता ५, १, १२४.

मणिकन्देग- शो द्रगृ १, ५,
२४.

मणिकप्रिष्ठापन- नन् कागृ
३, ३, ८.

मणिका (क-प्र)वधान- नन्
पागृ ३, ५, १.

मणि-कनक-रजत-शङ्ख-शुक्तयु (क्ति-
उ)पल-प्रवल- -लानाम् सुधप
८७: १२.

मणि-कार^o- -रः वैशृ ३, ११, ९.

मणि-कुण्डल- -लान् बौश्रौ ७,
४: २४१; कंगृ ३, १, १३;
शागृ ३, १, १८.

मणिकुण्डल-बन्धन- -ने भागृ
२, २२: २.

मणि धनुस्^p- नुः पागृ २, ७, १३;

वाध १२, २३; बौध २, ३, ३३;
गौध ९, २३.

मणि-धारण- -णे भागृ २, २१:
१०.

मणि-पा(ल>)ली- (>माणि
पाल-, °लिक- पा. यक्र.) पाग
४, ४, ४८; १, १४६.

मणि-पु(च्छ>)च्छी^q- पावा ४,
१, ५५.

मणि-प्रतिमोचन- -ने हिश्रौ १४,
३, २३.

मणि-बन्ध^r- -न्धात् वाध ३, २६;
बौध १, ४, १५१; ५, ९; गौध
१, ३८.

मणिबन्ध-जालु-तस्(ः) वैशृ १,
२: ४.

मणि-मद्र^s- -द्रः आज्यो ५, १७.

मणिभद्रा(द्र-आ)दि- -दयः अप
७१, १८, ३.

मणि-मय- -यम् विध २३, ३.

मणि-मुक्ता(क्ता-आ)दि- -वेध^t-
-यः वैशृ ३, ११: ९.

मणि-मु हा-प्रवाल-ताम्र-रजता(त-अ)
यः-कांस्य- -स्यानाम् विध ५२,
१०.

मणि-मुक्ताफल- -लेषु अप ७०,
५, ३; -लैः अप २१, ६, ५.

मणि-रत्न- -त्नम् अप २०, ५, २.

मणि-रत्न-वर-प्रतिरूप- -यः अप
२०, ६, ७.

मणि-रत्न-विभूषित- -तम् अप ९,
४, ४.

a) मव- इति पाका. । b) व्यप. । c) बहु. <माठर- । d) मडुर-, मन्दर- इति [पक्षे]
भाख्हा. । e) मार्जार- इति पाका. । f) तु. पाका. । मडुमर- इति भाख्हा. प्रमृ. । g) =कन्था-। अर्थः
व्यु. च? । वामना- वा मण्डक-त्वच्- वेति भाष्यम् । h) =वाद्य-विशेष. । i) =शिल्पि-विशेष. । j) वैप १ द. ।
k) =उदक-भाण्ड- । l) =मणि- । m) = (पशुस्कन्धोय-मणिसदृश-) मांस-खण्ड- (तु. सा [ऐना ७, १]) ।
n) अर्थः? । o) जाति विशेष- । p) =इन्द्र-धनुस्- । q) बस. । r) =पाणि-मूल- । उप. अचिकरुषे
कृत. । s) =यक्ष-विशेष- । t) द्रस. > बस. > उस. उप. कर्तारि कृत. ।

मणि-ल, ला- पा ५, २, ९७; -लाः^a
 आपञ्चौ १९, १६, ७; हिश्रौ २२,
 १, ६.
 मणि-व- पावा ५, २, १०९.
 मणि-वत् वाध ३, ५१; याशि २,
 ३०; नाशि २, ५, २.
 मणि-श्रृङ्ग^b -ङ्गः विध १, ९.
 मणि-संख्या- -व्याभिः काश्रौ २०,
 ७, १.
 मणि-सुवर्ण- -र्णयोः विध ६६, ४.
 मणि-सूत्र-वत् शैशि १८०; माशि
 ९, ६; याशि २, ८; नाशि १, ६,
 ११.
 म(णि>)णी-व(त्>)वी- पा ६,
 ३, १२०.
 मणी(णी-इ)वा(व-आ)दि- -दीनाम्
 पावा १, १, ११.
 ✓मण्ड् पाधा. भ्वा. आत्म. शोके.
 ✓मण्ड् पाधा. भ्वा. पर. भूषायाम्;
 आत्म. विभाजने; चुरा. पर. भूषायां
 ह्रस्व च > मण्डन- पा ३, २,
 १५१.
 मण्डयन्त- पाठ ३, १२८.
 मण्डयितु- पाठभो २, १, ८३.
 मण्ड^d- पाठ १, ११४; पाग २, ४, ३१;
 ५, २, ९७; ८, २, ९; -ण्डः या
 ९, ५^२कु^०.
 मण्ड-मत्- पा ८, २, ९.
 १मण्ड-ल- पा ५, २, ९७.
 मण्डक^e- -काः कप्र ९, १८; -कैः
 अशां १३, २४.
 १मण्डचरवत्^f बौश्रौ ६, ५ : १७.

मण्डप^g- पाग २, ४, ३१; -पम् अप
 १९^२, १, ५; २१, ४, ४; ६८, ५,
 २७; -पस्य अप २०, १, ३;
 -पानाम् काग ७१, १४; अप
 २५, २, ४.
 मण्डप-मध्य- -ध्ये अप १९^२, २, ३.
 मण्डप-वेदि- -द्याम् अप १०, १, ९.
 मण्डर^h- (> मण्डरिक- पा.) पाग
 ५, ३, १०८.
 २मण्डल, ला^k- पाठभो २, ३, ९३;
 पाग २, ४, ३१; ४, १, ४१;
 ५, ३, १०८; -लम् काश्रौ १७,
 १, ५; माश्रौ ६, १, ५, १; वाश्रौ;
 आपञ्च ३, २-४; काञ्च १, २;
 बौश्र १ : ११; हिश्र १, ४०;
 ऋअ^l २, २, १; ३, १; ३२; ४,
 १; ६-७, १; ९, १; ३, ३३;
 वृदे ५, १०३^१; शुअ १, १^m;
 -लात् काश्रौ १६, ७, ३०;
 -लानाम् अप ६४, ३, १०; ७,
 ८; -लानि वैगृ २, १ : ६××; अप;
 ऋअ ३, ३८^१; चव्यू १ : १०^१;
 -लाम्ⁿ माश्रौ ६, १, ७, १४;
 २, १, १६; २, १२; वाश्रौ २, १,
 ६, ३२; २, १, ११; २, ६;
 -लयाम्^o आपञ्च ७, ७; हिश्र
 २, ५५; -ले आगृ ३, ७, ४;
 कौगृ २, ६, ३; आमिगृ;
 ऋअ १, २, २^१; ५, १^१; वृदे
 ३, २८^१; ऋप्रा ४, ९४^१;
 -लेऽ-ले ऋअ २, ३, ५; -लेन
 आमिगृ २, ६, ७ : १०; १२;

-लेषु अप ५२, ७, ३; विध ११,
 ६; -लैः अप ६३, ३, १.
 मण्डली- पा ४, १, ४१.
 माण्डलिक- पा ५, ३, १०८;
 -कः अप ३६, २६, ३७;
 -कानाम् अप ७०^३, १०, ४७.
 मण्डल-कुष्ठ->^p छिन् - -छी शंघ
 ३७७ : १७.
 मण्डल-चक्र^q- -क्रे हिश्रौ ७, ५, १.
 मण्डल-चारिन्- -रिणः अप ७०^३,
 ६, ४.
 मण्डल-दर्शन- -नात् आगृ ३, ७,
 ६; कौगृ २, ६, ४; वांगृ २, ९, ३.
 मण्डल-द्वीप-संमित- -तम् गोगृ
 ४, ७, १२.
 मण्डल-प्रवेश- -शाः शांगृ ६, २, ५.
 मण्डल-भाग- -गेषु वेज्यो २२.
 मण्डल-संस्थि (त्>)ता- -ता अप
 ५८^२, ४, ७; -ताः अप ५८^२, २, ६.
 मण्डल-सप्तक- -कम् विध ११, २९.
 मण्डल-समुत्पत्ति- -ताः अप ७०^३,
 ११, २२.
 मण्डला(ल-आ)कार^r- -रम् बौश्रौ
 २०, १३ : १९.
 मण्डला(ल-आ)कृति^s- -ति अप
 १३, १, ९; शंघ १४१; -तिम्
 अप १२, १, ३.
 मण्डला(ल-आ)गार- -रे आमिगृ २,
 १, १ : ८^२; २ : ९^२; हिश्र २, १,
 ३; २, २.
 मण्डलागार-च्छाया- -यायाम्
 आगृ १, १३, ५.

a) मल्ल- = मलि-हा- (तु. वैप १)। b) बस। c) या ९, ५ परामुष्टः द्र.। d) बप्रा.। = पिच्छ-
 मस्तु- (तु. पाउधे १, १०७) प्रच.। व्यु. ? < √मद् वा < √मुद् वेति या., < √मन् इति पाठ.। e) = जल-
 इति स्कन्द.। f) = अपूप-। g) = पुरोडाश- इति Bolling.। h) = लाङ्गलपाशवत् इति भाष्यम् (तु. सूती)।
 i) नाप.। j) = जीव-विशेष- इति पागम.। k) वैप १ द्र.। l) वैप १, २४०६ h द्र.। m) = सूर्य-
 मण्डल-। n) = मण्डललेखक-। o) = परि-मण्डला- (गार्हपत्य-चित्ति-).। p) = प्रान्ताधिप-। रक्षतीत्यर्थे ठक् प्र.
 (पा ४, ४, ३३)। q) 'ल्लं स' इति जीसं.। r) 'कारे इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. हिश्र.)।

मण्डला(ल-अ)प्र- -अम् अप २७, २, ४.
 मण्डला(ल-अ)दि- -द्विषु ऋअ १, १२, १२.
 मण्डला(ल-अ)भ्यन्तर-स्थ- -स्थाः अप ६४, ७, ३.
 मण्डला(ल-अ)भ्याश-सेविन्- -विन् अप ५२, ८, २.
 मण्डलिन्^१- -ली शंघ ३७६, ३७७: १.
 मण्डली^२ > ०ली-कृत- -तः अप ६३, १, ५; -तात् बौश्रौ २६, २४ : १३.
 मण्डले(ला-इ)ष्टका^३- -काः बौश्रौ १०, ५ : १३; ६ : ७; १२××; वैश्रौ १८, १ : ७६; १९, ५ : १६; हिश्रौ ११, ५, १८; -काम् आपश्रौ १६, २३, ९; १७, १, १५; ४, २; ७; बौश्रौ १०, ३१ : १३; ३९ : २२××; वैश्रौ १८, १७ : २७; ४०××; हिश्रौ ११, ७, ३१; १२, १, ११; ३७.
 मण्डवित्^४- -वित् बौश्रौ प्र ३ : ८.
 मण्डाकक^५- -कः^६ भाग २, ७ : २२; हिग २, ७, २^६.
 मण्डु^७- पाठभो २, १, ५१; पाग ४, १, १८; १०५; -ण्डुस् शांग ६, १, १.
 माण्डव^८- -वस् द्राश्रौ ९, ३, १३; लाश्रौ ३, ६, ३३.
 माण्डव्य- पा ४, १, १०५; -व्यः वाधुश्रौ ४, १०८ : १६; -व्यस् शांग ६, १, १; -व्याः बौश्रौ प्र

३ : २.
 माण्डव्यायन- -नः अप १, ३, १.
 माण्डव्यायनी- पा ४, १, १८.
 मण्डु-माण्डव्य- -व्यौ अप ४३, ४, २११.
 रमण्डुक^९- पाठ ४, ४२; -कः नित् ३, ११ : २; आश्रिण २, ५, २ : ४; बौग ३, ६, १; जैग; -कम् आपश्रौ १७, १२, ७; बौश्रौ १०, ४७ : १५××; वाश्रौ; -कस्य आपश्रौ १७, १२, ८; माश्रौ ६, २, ४, १२, वैश्रौ १९, ६ : ५७; हिश्रौ १२, ४, २; -काः अप ६४, ८, ८^६; वृदे १, १०९; निघ ५, ३१; या ९, ५४××; -कान् आपश्रौ २०, २१, ९१; बौश्रौ; ऋअ २, ७, १०३; वृदे ६, २७; अश्र ४, १५; या ९, ६; -केन माश्रौ ६, २, ४, ११; -कौ कौसू ९६, १.
 १मण्डुकी- -०कि या ९, ७१.
 मण्डुकिका- -का सु ९, ४.
 १मण्डुक- -कान् वाश्रौ २, २, ३, १८^६.
 मण्डुक-नकुल-काक-विन्व-दहर-सूषक-स-हिंसा^{१०}- -सासु गौघ २२, २१.
 मण्डुक-सर्प-सूषिक-मार्जारा(र-अ)न्तरागमन- -ने बौग ४, १, ९.

मण्डुका(क-अ)वका-वतस- -नैः वैताश्रौ २९, १३.
 मण्डुका(क-अ)वका-वेनसशाखा- -खाः काश्रौ १८, २, १०.
 रमण्डुक^९- -कस्य मादि २, ३; -केन माशि १६, १६.
 रमण्डुक- पा ४, १, ११९; -काः बौश्रौ प्र ३ : १.
 माण्डुकायनी^{११}- -ताः चव्यू १:८. माण्डुकायनी- पा ४, १, १९.
 माण्डुकि- पा ४, १, ११९.
 माण्डुकेय- पा ४, १, ११९; -यः कौग १, ५, २५; १६, १६××; शांग १, ८, १३××; -यम् शांग ४, १०, ३; अप ४३, ४, ४६^६; -यस्य ऋप्र ३, १४; -याः बौश्रौ प्र ३ : ३.
 १२मण्डुकी^{१२}- -क्या^६ कौग ५, ५, ५.
 १३मण्डुकी^{१३}- -क्यौ आपश्रौ १६, १८, ४; वैश्रौ १८, १५ : १२^१; हिश्रौ ११, ६, २६.
 मण्डुर- पाठभो ३, २, ५७.
 मत् अस्मद्- द.
 रमत- (>मत-क- पा.) पाग ४, २, ८०.
 रमत- √मन् द.
 रमितङ्ग- -ङ्गः अप १, ८, २.
 रमतङ्ग^{१४}- पाठभो २, २, ६२.
 मतङ्ग-वापी^{१५}- -प्याम् विव ८५, ३८.
 मतङ्गा(ङ-अ)नुचर^{१६}- -रौ सु १४, १.
 मतस्न^{१७}- -स्नम् आश्रिण ३, ५, ७ :

a) = मण्डलकुष्ठिन्- । b) वैप १ द्र. । c) व्यप. । d) सपा. मण्डाककः <> मन्धाककः इति पाठे. । e) = साम-विशेष- । तेनदृष्टीयः प्र. । f) वैप १, २४०६ j द्र. । g) ष्णुके इति पाठः? यनि. शोषः (तु. सपा. माश्रौ ६, २, ४, १२) । h) विन्व- = कुकलास-, दहर- = बालसूषिका- । i) = ऋग्वेद-शाखा-, तदधेतु- वा । j) ष्णु इति पाठः? यनि. शोषः । k) वैप १, २४०७ a, b द्र. । l) ष्णु इति पाठः? यनि. शोषः (तु. आपश्रौ) । m) = मुनि-विशेष- । n) = गयारथ- । तीर्थ-विशेष- । o) पू. अर्थः? ।

२०१^३; हिपि ६:११; -स्नाभ्याम्
 आप्तं १,१७, ३^१; -स्ने हिथौ
 ४,४,५२^१; ५, ११; आग्रिणु ३,
 २,५:९^०; ५,६:१२; माणु २,
 १६:१०^०; हिणु २, १५, ५^०;
 -स्तौ वौश्रौ ४,८:४^१; ९:११;
 २५,३२:९; वौपि १, ४: २६^०;
 ६:१४; हिपि ५: ६.
 मतस्नु^१ - स्नुम् वौश्रौ २, १०:१८;
 ११:१४; -स्नु वौश्रौ २, ९:
 ३३^०; वैश्रौ १०,१७:६^१; १९:५.
 मति- √मन् द्र.
 मतिनुथा^० अप ४८, ८५; निघ ३,
 १५.
 मत्कुण^१ - ग: वौश्रौ २७,९: २.
 मत्त- √मद् द्र.
 मत्तसु(ः) प्रम्. अस्मद्- द्र.
 मत्तैः^० कौसु ११७, २.
 मत्वा √मन् द्र.
 मत्सखि-, मत्सख्य- अस्मद्- द्र.
 मत्सर- √मद् द्र.
 मत्स्य^१ - पाठ ४, २; १०४; पा, पाग ५,
 ३, १००; पाग ४, १, ४१; -त्स्यः
 सु १७, २; शंघ ३७७: २०;
 -त्स्यम् वाधूश्रौ ४, १९: ३८;
 वाश्रौ २, १, ६, ३६; वैध २, १५,
 ५^१; या १०, १२^१; -त्स्यस्य वौश्रौ
 २, ११, ५४; आपघ २, १७, २;
 हिध २, ५, २९; -त्स्याः आश्रौ
 १०, ७, ८^१; वौध १, ५, १३४;
 गौध १७, ३४; ऋअ २, ८, ६७;
 या ६, २७^१; नाशि २, ५, १०;

-त्स्यान् शौश्रौ १६, २, २३^१;
 वौश्रौ: -त्स्यानाम् अप ६५, २,
 ६; वाध १४, ४१; आपघ १,
 १७, ३८; हिध; या ६, २७^१;
 -त्स्येषु शंघ २२४; -त्स्यैः पाणु
 १, १९, ९; -त्स्यौ वाधूश्रौ ४,
 १९: २९; ३७.
 मत्सी- पा ४, १, ४१; पावा
 ४, १, ६३, ६, ४, १६३.
 मात्स्य^१ - -त्स्यम् कौणु १, १९,
 ४; शाणु १, २७, ४.
 मात्सी- -त्स्याम् चाअ १:८.
 मात्स्यिक- पा ४, ४, ३५.
 मात्स्य-गन्ध^१ - न्धा: वौश्रौ प्र ९: २.
 मात्स्यगन्ध- न्धानाम् चाअ २:
 ३; १६:९.
 मात्स्य-घातिन्- -ती विध ५, ५३;
 वैध ३, १४, १२.
 मात्स्य-वन्ध- -न्धेन अप १, २९, ४.
 मात्स्य-बन्धिन्- -न्धी वैध ३, १४,
 ११.
 मात्स्य-बन्धु^३ - न्धु: वैध ३, १४,
 ११.
 मात्स्य-मांस- -सेन विध ८०, २.
 मात्स्य-मांस-दधि-क्षीर-रुधिरा(र-
 आ) गम- -मे अप ६८, २, १२.
 मात्स्य-मुद्गर^१ - -रौ अप ३९, १,
 १०.
 मात्स्य-रूप- > ०पिन्- -पी अप
 ६१, १, १७.
 मात्स्य-वध- -धे शंघ ३७७: २३.
 मात्स्य-विद्^० - विद: शाश्रौ १६,

२, २३^१.
 मत्स्य-सर्व-द्विजाति- -तीनाम् अप
 ७१, १, ५.
 मत्स्या(त्स्य-प्र)द- -दान शंघ ४२६.
 मत्स्या(त्स्य-आ)दि- -नीन् अप ३९,
 १, ९; वैध ३, ५, ७.
 मत्स्याद्य(दि-अ)थ- -थम् पावा
 १, १६८.
 रमत्स्य^१ - -त्स्य: आश्रौ १०, ७, ८;
 शाश्रौ १६, २, २०; ऋअ २, ८,
 ६७; वृदे ५, १५२; -त्स्यात्
 ऋअ २, ८, १.
 रमत्स्य^१ - -त्स्या: अप १, ७, २^१; ५६,
 १, ५; -त्स्यान् अप ५०, २, ५;
 ५३, १, ८.
 रमत्स्यक्राथ^१ - -था: वौश्रौ प्र १७: १७.
 रमत्स्यति अप ४८: १३^१.
 √मथ्, न्थ् पाथा. भ्वा. पर हिसासं-
 दलशभयोः, भ्वा. क्वा. पर.
 िदलोडने; मन्थते वौश्रौ १६, १:६;
 मन्थति काश्रौ ५, २, २; ६,
 ३, २२; १२, १, १५; आपश्रौ
 ५, १०, ७x४; वौश्रौ; मन्थन्ते
 काश्रौ १२, २, ४; मन्थन्ति
 वाधूश्रौ ४, ५: ९; वश्रौ ३, २,
 १, ५१; कप १, ७, १२; ८,
 ४; मन्थाम कौसु ७०, १^१;
 मन्थतु कौसु ६६, १; अथ ८,
 ८; अं ४: २९; मन्थयामथ अप
 ३५, १, २; ३६, १, ३; मन्थन्त,
 >ता वौश्रौ २, १६: ३३; वृदे;
 अमन्थत् आप्तं १, ११, ८^१;

a) स्नाम् इति पाठः? यति. शोषः (तु. हिपि.)। b) सपा. ष्ने<> ष्त्नौ<> ष्न्<>
 आपश्रौ ७, २२, ६ वृक्वौ इति पाठे.। c) सपा. ष्ने<> ष्त्नौ<> ष्न् इति पाठे.। d) = मतस्न-।
 e) वैप १ द्र.। f) नाप.। g) मत्तैः इति संस्कृतुः टि.। h) वैप १ निर्दिष्टानां समावेश. द्र।
 i) = मत्स्यमांसम् इति C.। j) पाठे. वैप २, ३खं. माश १३, ४, ३, १२ टि. द्र.। k) अपत्ये इदमर्थे च कण्
 प्र.। l) व्यप.। कस.। m) = मत्स्य-बन्धिन्-। n) उप. = मीन-विशेष-। o) उप. <√विद् [ज्ञाने]।
 p) पाठे. वैप २, ३खं. मत्स्यदहनः मास १३, ४, ३, १२ टि. द्र.। q) व्यप.। r) = देश-विशेष- वा तद्वास्ति- वा

ऋमन्थ्याम् कौस् ५, ५, ५१;
 आमिथ् ३, ६, ३: १०; बौपि;
 मन्थेन् आपथ्रौ ६, २८, १३x; x;
 बौथ्रौ; मन्थेयु आथ्रौ ३, १२,
 २१; माथ्रौ ६, ८, ८; हिथ्रौ १५,
 ६, ८; अप्राय २, ४.
 मथ्नन्ति वाधुथ्रौ ४, २८ : ७.
 ऋमथोत् शंथ्रौ १४, ५७, १३;
 ऋथ्र २, १, १४८.
 मथ्यते वाथ्रौ ३, ३, १, ४५;
 म्मथ्यति^१ वृदे ३, ६२.
 मन्थयेत् आथ्रौ ३, १०, ८; १२,
 २२; लाथ्रौ ८, ५, ३; अप २२,
 ५, ५.
 मथ- पा ३, १, १४०.
 √मथाय, मथायति अप्रा ३, ४,
 ११.
 मथित,ता- न्तः अप २२, ६, १;
 -त्म् शंथ्रौ १४, ५३, ६१;
 बौथ्रौ; -ते कौस् ६८, ३७; ७३,
 ४१; अप्राय २, ४; अप; -तेन
 कौस् ३९, १३.
 मथित्वा आथ्रौ २, २, १x; शंथ्रौ;
 मथित्वाऽमथित्वा बौथ्रौ १६, १ : ७.
 मथिव्यत्- -थ्यन् माथ्रौ ६, ६, ११;
 वाथ्रौ १, ४, २, १२.
 मथ्य- -थ्यः माथ्रौ ३, ८, ८; वाथ्रौ
 १, ५, ४, ४३; अप २२, ६, २;
 -थ्यम् वाथ्रौ १, ४, ३, ५.
 मथ्यमान- -नः काथ्रौ २५, ४, १;
 आपथ्रौ ७, १३, ४; ९, ३, ३१;
 बौथ्रौ; या ८, २; -न्म् वैताथ्रौ
 ५, १४; २४, १८; अप १३, १,
 ४; -नाय शंथ्रौ ३, १३, १६;

काथ्रौ ५, २, १; आपथ्रौ; -ने
 आपथ्रौ ५, १०, ११; माथ्रौ.
 मन्थ^८- पा ७, २, १८; षाम २, १,
 ४०; ४, २, ८०^d; ६, १, १५६^e;
 -न्थः काथ्रौ ५, ८, १२; १८;
 माथ्रौ १, ७, ६, ३०; वाधुथ्रौ; हिपि
 १५: १६; कौस् २२, ४; -न्थम्
 काथ्रौ ५, ९, १०; आथ्रौ;
 -न्थस्य काथ्रौ ५, ८, १९; आपथ्रौ;
 -न्थात् माथ्रौ ८, १८, १९; वैथ्रौ
 ९, ७: १२; ८: ५; ९; ९: ६; हिथ्रौ
 ५, ४, ६७; ७१; -न्थान् आपथ्रौ
 १९, १३, १२; २२, २६, १; १०;
 बौथ्रौ २, ७ : २४; १९, ५ :
 २८; २१, ६ : २१; हिथ्रौ; -न्थाम्
 शंथ्रौ १२, १७, ११^f; -न्थाय
 माथ्रौ १; ७, ६, ६; ९; -न्थे
 आपथ्रौ ८, १५, २३; माथ्रौ १,
 ७, ६, ४०; कौस् ११, १८; -न्थेन
 माथ्रौ १, ७, ६, ३५; काग् ६५,
 ७; माग् २, १, ६; कौस् ८०, २५.
 मान्थय- पा ४, २, ८०.
 मन्थ-पुरोडाश-धाना- नानाम्
 काथ्रौ ५, ९, ७.
 मन्थ-प्रतिरूप- -पम् कौस् २३,
 ७.
 मन्थ-मूल- -ले वैथ्रौ १, १: २७.
 मन्थ-शिरस्- -रसि कौस् ३८, ९.
 मन्थ-श्री- -श्रीः अप्राय ३, ३१.
 मन्था(न्य-आ)चमनो(न-उ)
 पस्थान^९- -नम् कौस् २८, १६.
 मन्था(न्य-आ)दि- -दीनाम्
 वाथ्रौ १, ७, ४, ४७.
 मन्था(न्य-आ)न्त^५- -न्तानि

कौस् १२, ४; १८, २६.
 मन्था(न्य-आ)भिधान- -ने पावा
 ७, २, १८.
 मन्था(न्य-अर्थे)- -र्थम् हिथ्रौ
 ५, ४, १५.
 मन्थिन्^१- ऋन्थिन् बौथ्रौ ७,
 १४ : ७; वैथ्रौ; -न्थिनः काथ्रौ
 ९, १०, ११^१; १५, ७, १४;
 आपथ्रौ; -न्थिनम् काथ्रौ ९, ६,
 १३^१; आपथ्रौ; -न्थिना काथ्रौ
 ९, १०, २; -न्थिने माथ्रौ २, २,
 ५, २९; -न्थि आपथ्रौ १२, २२,
 ८; बौथ्रौ ७, १३ : २३; वैथ्रौ.
 मन्थि-ग्रह- -हम् वैथ्रौ १५,
 २० : २३.
 ऋमन्थि-प- -पाः आपथ्रौ
 १२, २२, १; बौथ्रौ.
 मन्थि-पात्र- -त्रम् आपथ्रौ
 १२, २३, १२; काठथ्रौ ११६;
 बौथ्रौ ७, २ : १२^२; ६: ४९, १४:
 २४; ८, ४: १३; वैथ्रौ १५, २: ७.
 मन्थि(न्यो[काथ्रौ.])-वत्-
 -वतः काथ्रौ १०, २, ३; आपथ्रौ
 १२, २३, ४; १३, ४, १७^१; बौथ्रौ
 ७, १४ : १०^१; ८, ४: ६^१; २१,
 २० : ३; माथ्रौ.
 ऋमन्थि-शोचिस्- -चिषा
 आपथ्रौ १२, २२, ८; बौथ्रौ ७,
 १३ : २३; वैथ्रौ १५, २८ : १;
 हिथ्रौ ८, ७, १४; १८.
 मन्थि-संखाव- -वस्य बौथ्रौ
 २१, २० : ५; -वात् बौथ्रौ २५,
 १८ : १०.

a) मन्थ्याम् इति पाठः? यनि. श्लोचः (तु. सपा. तैश्चा ६, ४, १) । b) कर्मणि रूपम् (तु. या ८, २ मथ्य-
 मानः इति) । c) नाप. (पेय-द्रव्यं, मन्थन-दण्ड- [आपृ.]) । कर्मणि करणे च कृत् । d) अर्थः? । पन्थ-
 इति [पक्षे] भाष्यम् । e) पृ १२७९ D द्र. । f) वैप १, २४०८ f द्र. । g) षस. > मबो. कप. (वैत्. माथ्यम्
 द्र. इति?) । h) षस. । i) वैप १ द्र. । j) तु. चौसं. ।

मन्थो(न्थ-ञो)दन- नम् वैश्रौ १२, १, २२; लाश्रौ ४, ९, १६.
 १६, ६: ५.
 मन्थौ(न्थ-ञो)दन- नौ कौस् ५४; २, ७, २: ३; आपृ ५, ७, ७.
 मन्थौ (न्थ-ञो)दन-तिल-माष-
 -षा: काश्रौ १०, २, ११; हिश्रौ १०, ४, ३५.
 मन्थत्- न्थन्तौ कौस् ६०, १९.
 मन्थन- नम् आश्रौ ३, १४, १७;
 शाश्रौ: -नस्य बौश्रौ २७, ७:
 ७; १०: ५; -नात् भाश्रौ ५,
 ४, १०; -ने कप्र १, ७, १२;
 -नेन बौश्रौ २७, ७: १; वैश्रौ
 २०, ३१: ६; अप २२, ९, १.
 मन्थन-कल्प- -ल्प: हिश्रौ ३, ६,
 २८.
 मन्थन-यन्त्रक- -कम् कप्र १,
 ७, ५.
 मन्थन-शेष- -षम् बौश्रौ २७,
 ८: ६.
 मन्थन-सामर्थ्य- -र्थ्यम् बौश्रौ
 २७, ८: ६.
 मन्थव्य^a- -व्य: अप २२, ३, ५;
 ८, ४.
 मन्थान^b-> ण-भञ्जन- -ने काघ
 २७६: ११.
 मन्थितव्य- -व्य: आपृश्रौ ९, ९,
 ११; भाश्रौ.
 मन्थिव्यत्- -व्यस्तु द्राश्रौ १२, २,
 १; लाश्रौ ४, १०, १; -ष्यन्
 माश्रौ १, ६, ३, ५; -ष्यन्त: द्राश्रौ

१२, १, २२; लाश्रौ ४, ९, १६.
 मन्थय- न्थय: आमिण्ड १, ६, ३:
 ५४; २, ७, २: ३; आपृ ५,
 १५; माण्ड १, १८: १५; हिण्ड
 १, २२, ४.
 माथ- पा ३, १, १४०.
 मथ- √मथ् द्र.
 मथा^c. न्थ^d क^d पा, पाग २, ४, ६३.
 मथा^e- लाश्रौ ७, १०, १०; ११.
 मथित- √मथ् द्र.
 मथित^f- -त: ऋअ २, १०, १९.
 मथित्वा √मथ् द्र.
 मथुरा^g- पाउ १, ३८^h; पाग ४, २,
 ८२.
 माथुर-> ण-वत् मीस् १, ३,
 २१.
 मथुरा-पुरा-देश- -शान् अप ५६,
 १, ८.
 मथो(थ-उ)दय- म- द्र.
 मथ्य-, मथ्यमान- √मथ् द्र.
 √मद्, न्द् (बधा.)^h पाधा. भ्वा.
 पर. हर्षणोपेनयोः, आत्म. स्तुति-
 मोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु: दिवा.
 पर. हर्षे: चुरा. आत्म. वृत्तियोगे,
 मदति निघ ३, १४ⁱ; ^j मदनित्
 आश्रौ ४, ७, ४; शाश्रौ: काश्रौ
 ८, २, १०^k; ११^l; हिश्रौ
 १५, ५, १^k; आपृमं २,
 १९, ७^l; आमिण्ड ३, १,
 २: २^l; मद्थ > था ऋप्रा
 ७, ३३; ^m मदनताम् आपृश्रौ

१२, ३, ७; हिश्रौ १३, ८, ३३;
 मदनन्तु आश्रौ ३, ९, ३ⁿ;
 बौश्रौ २, १०: ३३; ३५; ३७;
 हिण्ड २, ११, १^o; मद्दध्वम् जैण्ड
 २, १: ६××; अमदत् या १३,
 ४^oक^o; मदनत्^o शाश्रौ १२, १३,
 २; वैताश्रौ ३२, १७; मदनन्तु^o
 आश्रौ ५, १८, २; शाश्रौ ८,
 ३, ४; मदेमहि निघ ३, १९^oक^o;
 मदनम् आपृश्रौ ९, ८, ६^o××;
 बौश्रौ १३, ४३: १०^o××;
 माश्रौ: हिश्रौ १२, ४, ४^o; १५,
 २, ३५^o; अप्राय १, ३^o.
 मन्सि आश्रौ ६, ४, १०; ८, ५,
 १२; शाश्रौ: मन्सव, > स्वा
 आश्रौ ६, २, ९; ३, १××; शाश्रौ.
 ममत्तु बौश्रौ १३, २०: ६^o;
 ममद्दि आश्रौ ६, ३, ११६^o;
 ममत्तन आपृश्रौ १३, ३, ४;
 माश्रौ ४, ५, ४; वैश्रौ.
 मममाद बौश्रौ १३, ७: ४; आपृमं
 २, ११, ८; मन्सव आश्रौ ६,
 २, ११; शाश्रौ: मन्सताम् शाश्रौ
 ८, १९, १^oक^o; मन्सव शाश्रौ
 ८, २०-२१; १^o; २३, १^o;
 मदनसव आश्रौ १, ८, ७; शाश्रौ
 १, १३, ३; आपृश्रौ: हिश्रौ २१,
 २, ६२^o।
 म(मा)द्यन्ते अप ६७, ४, ४;
 माद्यन्ते अप ७०^o, ११, ५; या
 ६, २७; अमाद्यत् शाश्रौ १६, ९,

a) मन्थितव्य-> नैप्र. यनि. । b) =मन्थ-दण्ड- । c) पाका, [पक्षे] भाण्डा. पासि. पाठः ।
 d) व्यप. । e) =निघन-विशेष-(तु. MW.) । f) =नगरी-विशेष- । g) <√मथ् । h) या २, ५, ४, ८, २४;
 ९, ५; १७; ११, ७ पा ३, ३, ६७; ६, १, ९२; ७, ३, ७४ परामृष्टः द्र. । i) धा. अर्चायां वृत्तिः । j) धा. उष्णी-
 भावे वृत्तिः । k) सपा. ऋ १, ८९, ९ भवन्ति इति पाभे. । l) सपा. मदन्ति <> मदनन्तु इति पाभे. । m) पाभे.
 वैप १, १४९५ f द्र. । n) पाभे. वैप १ मदनन्तु मा २१, ४२ टि. द्र. । o) प्रतिगरदिशा = भ्रमदव
 (ऋ १०, ८६, १) । p) पाभे. वैप १, २४१० f द्र. । q) सपा. अप ४८, १२ वनेमहि इति पाभे. । r) पाभे.
 वैप १, २४०९ g द्र. । s) ष्टे इति पाठः ? यनि. श्लेषः (तु. तैत्रा ३, ५, ९, १. आश्रौ. प्रसृ.) ।

१००; या १३,४.
 मादयन्ति या ९, ८०; मादयसे
 वृदे ४, ७८; ऋमादयन्ताम् आश्रौ
 ५, १७, ३; आपश्रौ १, ८, ७, ७;
 ५, १^०; वौश्रौ ३, १८: २८^० x x;
 भाश्रौ ७, ४, १^०; वाश्रौ १, ३,
 ५, ११^०; २, २, २, १२^० x x;
 हिश्रौ ४, १, ६२^० x x; द्राश्रौ
 १२, ४, १^०; आश्रिण् ३, ५,
 ७: ६^०; वौषि १, ६: २^०;
 भाग्य; लाश्रौ ४, १२, १^०; वैताश्रौ
 ४, ३^०; ऋमादयस्व शाश्रौ १,
 ८, १४; बौश्रौ; ऋमादयध्वम्
 आश्रौ^० २, ७, १ x x; शाश्रौ^०
 ४, ४, ११ x x; आपश्रौ; वौश्रौ
 १, १९: ३८^०; माश्रौ १, ७, ६,
 ४८^०; २, ५, १, ३५^०; ६, २,
 ३, ८^०; वाश्रौ १, २, ३, २६^०;
 ७, ४, ५०^०; जैश्रौ १८: १६^०;
 द्राश्रौ ६, २, ४^०; लाश्रौ २,
 १०, ४^०; काण्ड ३९: १५^०;
 गोग्र ४, ३, ११^०; गौषि २, ३,
 ७^०; जैग २, २: ११^०; द्राग ३,
 ५, १७^०; कौसू ८८, १८^०; विध
 ७३, २२^०.
 ऋमीमदन्त आश्रौ २, ७, २;
 शाश्रौ; अमीमदन् माश्रौ २, ३,
 ७, १०; अमीमदम् वौश्रौ १४,
 ८: २८^०.
 ऋमन्दते निध १, १६^०; ३, १७^०;
 मन्दति अप ४८, ५०^०;

ऋमन्दतु आश्रौ ५, १५, २३; ७,
 ११, २७; शाश्रौ; मन्दन्ताम्
 चात्र ३०: १९^०; ऋमन्दस्व,
 >स्वा बौश्रौ ८, ९: २१^०;
 ऋग्र २, २, ३७; वृदे; ऋमन्दध्वम्^०
 आपश्रौ १, ९, ९; ८, १६, ८;
 वौश्रौ २, १०: २९; ३, १०:
 २३; ५, १५: ९; ८, १२: ४४;
 १७: ११; भाश्रौ १, ९, २; ८,
 २०, १; वैश्रौ २, ९: १२; हिश्रौ
 २, ७, ३; ५, ४, ७७; भाग्य २,
 १३: ६; अमन्दन् चाञ ४१: ७.
 ऋमन्दिषीमहि बौश्रौ ५, १५:
 १०^०; ६, ७: १^०; भाश्रौ ८,
 २०, १^०; १०, ११, १०^०; द्राश्रौ
 १३, २, ७^०; लाश्रौ ५, २, १०^०.
 ऋमन्द्य>या ऋप्रा ८, ३३.
 मत्त,त्ता- पा ८, २, ५७; -त्त: आपघ
 १, १९, १; हिध १, ५, १०३; वृदे
 ७, २३; या २, ५; अप्रा २, ३,
 १६^०; -त्तम् अप ६८, २, २८;
 विध ७१, ३१; -त्ताम् बौध १,
 ११, ९; -त्तायाम् अप ७२, २,
 ७; -त्ते विध ९९, ११.
 मत्त-कुद्धा(द्ध-आ)तुर- ऋणाम्
 विध ५, १९.
 मत्त-द्विप-चतुष्क- -ष्कम् अप
 ५, ४, ५.
 मत्त-मातङ्ग- ऋ: शैशि १०९.
 मत्तो(त-उ)न्मत्त-व्यङ्ग- ऋणम्
 विध ६३, ३४.

मत्तवत्- पा ८, २, ५७.
 मत्सरम्- पाउ ३, ७३; -ऋ: शाश्रौ
 १८, १८, ४; आपश्रौ २०, १३,
 ४; वाश्रौ; या २, ५^० षुः -रम्
 शाश्रौ १७, १७, ३^०; वाधूश्रौ
 ४, ७९: ५^०; या २, ५^०.
 मत्सरिन्- -री शंघ ३७७: १७.
 मद्- मद्: बौश्रौ ३, ९: २^०.
 मद्-वत्- -वान् शाश्रौ ७, १९,
 १६; ८, ३, १२; ६, १५; माश्रौ
 २, ५, १, ४७.
 ?मद्-वती- -न्य: निरू २,
 ११: २४.
 ऋमदि(ष्ट>)ष्ट- -ष्टया क्षुस् १,
 ३: २१; ५: १७; या ११, ३.
 मद्- पाग ३, १, १३४^०; ४, २,
 ८०^०; -ऋ: आश्रौ ८, ६, १३;
 शाश्रौ; -ऋदम् आश्रौ ७, ८, २;
 शाश्रौ; -ऋदस्य आश्रौ ८, ४, ३;
 शाश्रौ १२, २६, ११; -ऋदा:
 आश्रौ ६, ३, १; शाश्रौ ९, ५, २;
 या ४, १५; -दानाम् आपश्रौ
 १७, ७, ८^०; -ऋदानाम् आश्रौ
 ६, १, २; शाश्रौ ९, ४, ७;
 -ऋदाय आश्रौ ६, ३, १^० x x;
 शाश्रौ; या ४, ८^०; -ऋदास:
 आश्रौ ७, १२, १६; ८, ७, ११;
 -ऋद आश्रौ ६, ३, १; ४,
 १० x x; ७, ४, ४^०; ९, ५, १६^०;
 शाश्रौ ८, २५, १^० x x; १८,
 ६, ४^०; आपश्रौ १२, ११, ९;

a) पामे. वैप १, २४११ c द्र. । b) पामे. वैप १, २४११ b द्र. । c) ऋताम् इति पाठः? यनि.
 शोषः । d) पामे. वैप १, २४११ a द्र. । e) पामे. वैप १, २४११ e द्र. । f) सपा. शौ ७, ६०, २
 मादयेथाम् इति पामे. । g) घा. ज्वलने वृत्तिः । h) घा. अर्चायां वृत्तिः । i) पामे. वैप १, १४९५ f द्र. ।
 j) पामे. वैप १, २४१० d द्र. । k) पामे. वैप १, २४१२ e द्र. । l) पामे. वैप १, २४१२ f द्र. । m) वैप १
 द्र. । n) = अन्यशुभ-द्वेष- (वैतु. आनर्तीयः क्विचि. इति ?) । o) पामे. वैप १, ८३३ h द्र. । p) पूष. घातु-
 निर्देशपरं द्र. । q) भावे वर्तते च कृत् । r) मर- इति पाठः । s) तु. पाणि. । अर्थः ? । t) पामे. वैप
 १, २४१३ c द्र. ।

१९, ५^०; हिश्रौ; -^१देऽ-दे आश्रौ
 ७, ४, ३; शाश्रौ १२, ४, १२;
 -देन सु ६, १; -देषु वाश्रौ ३,
 ३, ३, १^१.
 मद्-गिल्ल- -रुः या ९, २४.
^१मद्-पति- -^०ती आश्रौ ६, १,
 २; शाश्रौ ९, ४, ७.
 मद्-भागिन्- -गिनः अप ७१,
 ३, २.
 मद्-मित्र^०- -त्रम् अप ४३, ४,
 ४९.
 मद्-र- पा ४, २, ८०.
 मद्(द-अ)वासि- -सिः अप
 ६४, ४, ६.
 मदिन्- > ^०न्-तम- -^१०म
 आपश्रौ १४, २९, १; वैश्रौ;
 -^१मः आपश्रौ १४, १८, १; २०,
 १३, ४; बौश्रौ.
^१मदिन्-तर- -रम् आश्रौ
 ७, ८, २; शाश्रौ १२, २५, ६.
 मद्- -दङिः अप ६८, ४, ४; -दन्
 वैताश्रौ ३१, २२^१; -^१दन्तः
 आश्रौ १, १२, ३६^१; ४, ११,
 ६; आपश्रौ; माश्रौ ३, १, २७^१;
 अप्राय ४, १^१.
 मदन्ती^०- -न्तीः आश्रौ ४, ५,
 ५; काश्रौ ८, १, ८x; आपश्रौ;
 या ५, ६^१; -न्तीनाम् बौश्रौ
 २०, ८ : २७; -न्तीभिः शाश्रौ
 ५, ६, ९; आपश्रौ; -न्तीम्यः
 बौश्रौ १, ९ : ६; २०, ८ : ३०;
 -न्तीम् बौश्रौ १, ४ : १२;
 -न्तीषु बौश्रौ ६, २० : २; ९.
 ?मदन्तिपयोदोहस्तावत्यः-

पूर्णा वैश्रौ, ११, ९ : ९.
 ?मदन्तीक- -कम् जैश्रौका
 ४८.
 मदन्त्य(न्ती-अ)वशेष- -षम्
 वैश्रौ १४, २ : २.
 ?मदन्^०- > ^०नीय- -यम् या ५, १;
 -याय या ४, ८.
 २मदन्, ना^१- पाउना २, ७७; पाग
 ३, १, १३४; -नम् या ९, २४;
 -नस्य अप ३६, ११, १; -ना
 या ११, २८; २९.
 मदन-त्रयोदशी- -श्याम् अप
 १८^३, १५, १.
 मदन-सखि^०- -खा या १३, ४.
 मद्य(त>)न्ती^०- -न्ती अप ५,
 १, ५.
 मद्यन्ती-प्रियङ्गु- -ङ्गुभिः
 अप १, ४३, ६; ४५, ७.
 मद्यित्त्तु- पाउ ३, २९.
 मदितव्य- -व्यम् अप ४६, ३, ६^१.
 मदिर^०- पाउ १, ५१; -^१रस्य आश्रौ
 ८, ४, ३; शाश्रौ १२, २६, ११;
 आपश्रौ.
 मदिष्णु- -ष्णू या ४, १२.
 मदेरु^०- -रू या १३, ५^१.
 मद्य^०- पा ३, १, १००; -दयम्
 अप ७१, १४, १; आपष १, १७,
 २१; हिघ ५, ५३; गौघ २, २६;
 या ५, १^१कृ^१; -दयानाम् विघ ५१,
 २; -द्यानि आश्रौ ६, ५, २४^१;
 विघ २२, ८४; -दये अप ७०^२,
 ८, ३; -दयैः वाघ ३, ५९; विघ
 २२, ७७; २३, १.
 मद्य-प^१- -पः शंघ २०१.

मद्य-स्त्री-गामिन्- -मी
 शंघ ३७८.
 मद्य-स्त्री-निषेवण- -णम्.
 विघ ३७, ३३.
 मद्य-पान- -ने वाघ २०, १९.
 मद्य-पीत- पाग २, २, ३७.
 मद्य-भाण्ड- -ण्डे वाघ २०,
 २१.
 मद्यभाण्ड(स्थ>)स्था-
 -स्थाः विघ ५१, २४.
 मद्यभाण्ड-स्थित, ता- -तम्
 शंघ ४२२; -ताः शंघ ४२६.
 मद्य-मांसा(स-अ)नृत-प्रिय-
 -याः अप ७०^३, १६, ४^१.
 मद्या(द्य-अ)नुगत-भोजन-
 -नम् विघ ४१, ३.
 ?मद्- पाउ २, १३; पाग ३, १,
 १३.
 मद्-कार-मद्-कर- पा ३, २,
 ४४.
 मद्वा/कृ पा ५, ४, ६७.
 √मद्वाय पा ३, १, १३.
 मद्- पाउ ४, ११३; -^१द्वेने
 आश्रौ ६, ४, १०; शाश्रौ ९, १०,
 १; १८, ६, २; वैताश्रौ ४०, १.
 ?मन्द->मन्दिष्ठ- -ष्ठः माश्रौ २,
 १, ३, ११.
 २मन्द, न्दा^१- पाग ३, १, १२; १३;
 ४, १, ४; ५, १, १२२; १२३;
 १२८^m; -न्दः आशि ८, २१;
 -न्दम्^m हिश्रौ १३, ५, १४; वैश्र.
 १, ३; १३; -न्दम्-न्दम्^m वैश्र.
 ५, १ : २५; -न्दा पा ४, १,
 ४.

a) पाभे. वैप १, २४१३ b द्र. । b) = ऋषि-विशेष- । c) वैप १ द्र. । d) हि मामद^० (तु. BC.) ? हिमाः, मद् इति शोघः । 'शतं हिमा मदन्तो हे देवा इह नः सुप्रजास्त्वं महि शर्म यच्छत' इति वा. । e) साम. । f) कर्तिरु द्वृत् । g) बस. । h) = नवमालिका- । i) पाभे. वैप १, २४१५ b द्र. । j) विप, नम. । k) उप. <√पा (पाभे) । l) घा. आलस्ये वृत्तिः । m) पृ १८०३ ० द्र. । n) वा. क्विप्. द्र. ।

मान्दय- पा ५, १, १२३;
 १२८.
 मन्द-गति-त्व- -त्वात् आशि
 ८, २१.
 मन्द-चा(र>)री^०- -री आज्यो
 १२, १०.
 मन्द-ता-, मन्द-त्व- पा ५, १,
 १२२; १२३.
 मन्द-फल^०- -लाः अप ५२, ८,
 ३; १६, २.
 मन्द-फलो(ल-उ)दय^०- -याः
 अप ५२, १४, ३.
 मन्दा(न्द-अ)ग्नि^०- -ग्निः कप्र
 १, ९, १२.
 √मन्दाय पा ३, १, १२; १३.
 मन्दिमन्- पा ५, १, १२२;
 १२३.
 मन्दी√भू, मन्दीभवति वाध
 ११, ३६.
 मन्दन^०- पाउ २, ८१.
 मन्दन-जिह्व- -ह्रस्व या ६, २३.
 मन्दिमान^०- -नः शाश्रौ १४, १६,
 १०; -नाय या ११, ९६.
 मन्दिमन्- -यन् छुस् ३, २; ३३;
 उस् ३, १.
 मन्दिमान^०- पाउ २, ८७; -नः या
 ८, २१; -मना आपमं १, ६, १२;
 काय २६, १२; कौस् ७७, ८;
 अप १०, १, १२; अप्रा ३, ४, १.
 मन्दिमन्- -न्दिने आश्रौ ८, ७,
 २३; शाश्रौ; -न्दी वैय १, ४:
 २७; २, १० : १०; गौपि; या ४,
 २४६; १३, ६.
 मन्दु^०- -न्दुना वृदे २, १४१; या
 ४, १२; -मन्दु अप ४८, ११५;
 वृदे २, १४१; १४२; निघ ४,

१; या ४, १२६;
 मन्दु(र>)रा- पाउ १, ३८.
 मन्द, द्वा^०- पाउ २, १३; पाग ४,
 ४, ६२; -न्दः आश्रौ १, ८, ७१;
 शाश्रौ; अप १, ३६, १; -न्दस्
 आश्रौ ४, १३, ७१; द्विश्रौ २१,
 १, १०; जैश्रौका ९६; ११९; द्वाश्रौ
 ४, १, १८; लाश्रौ २, २, ६; वृदे
 ८, ११५; ऋप्रा १३, ४२; तैप्रा
 २३, १०; पाशि ७; नाशि
 १, ७, ७; -न्दया शाश्रौ
 १, १४, २२; ८, १४, १;
 ८; वैताश्रौ २०, २१; ऋष्य;
 -न्दस्य ऋष्य २, ६, ३९१; वृदे
 ८, १२०; नाशि १, ७, २;
 -मन्दा आपश्रौ १२, २४, ७;
 १९, १३, २४; वीश्रौ; अप
 ४८, १०२; निघ १, ११६;
 या ११, २८-२९६; -मन्दाः
 काश्रौ ४, २, ३२; आपश्रौ;
 -न्द्राणि आश्रौ २, १५, १७१;
 -मन्दासः शाश्रौ १५, ८, २०;
 -न्द्रासु अश्र ५, २७१; -न्द्रे
 द्वाश्रौ ३, ४, ७; नाशि; -न्द्रेण
 आश्रौ १, ५, २५××; आपश्रौ;
 -मन्दैः शाश्रौ ९, ५, ९; १२,
 ९, ११; १८, ११, ३; वीश्रौ.
 मान्द- पा ४, ४, ६२.
 मन्द-कषण-संयुक्त- -क्तस् वृदे
 ८, ११३.
 मन्दि-जिह्व- -०ह्र बौश्रौ ३,
 १८ : २; -ह्रस्व या ६, २३६.
 मन्द-तर- -रेण आपश्रौ १०,
 ४, ११; -रेणऽ-रेण वैश्रौ १२,
 ५ : ८.
 मन्द-मध्यम-तार- -राणि तैप्रा

२२, ११.
 मन्द-स्थान-समाहित- -तः वृदे
 ८, १२०.
 मन्द-स्वर- -रेण लाश्रौ १, ११,
 २६.
 मन्द-स्वार- -रः वाश्रौ १, १,
 १, ८१.
 मन्दि(न्द-अ)जनी^०- -नी अप
 ४८, १०२; निघ १, ११.
 मन्दा(न्द-अ)दि- -दयः तैप्रा
 २३, १७; -दिः मीस् ३, २, २६;
 -दिषु तैप्रा २३, १३.
 मन्दा(न्द-अ)न्त- -न्तान् नाशि
 १, १, ११.
 √मन्दि, मन्दिथते निघ ३,
 १४१.
 माद-> ष्-स्थ- -स्थयोः पा ६,
 ३, ९६.
 मदिन^०- -नस् आश्रौ ६, ४, १०;
 शाश्रौ ९, ८, १.
 मादयिन्- -त्वे लाश्रौ ७, १०,
 १३१.
 मादिन्- पा ३, २, १४१.
 मद्-, मद्-, मद्त्- √मद् द.
 मदिन्^०- (> मादथ- पा.) पाग
 ४, २, ८०.
 मद्नुग्रह- प्रथ. अस्मद्- द.
 मद्यत्- प्रथ. √मद् द.
 मदाथ^०- पाग २, ४, ६९.
 मदार- पाउ ३, १३४.
 मदावाति-, मदि^० √मद् द.
 मद्दुघ^०- -घस् कौस् ३८, १७; -वात्
 अप्रा ३, ४, ११.
 मद्दुघ-मणि- -मिः अप ३७, ९, १;
 -मिस् कौस् ७६, ८; ७९, १०.
 मद्दुर- (> मद्दुर-कन्थ-)मद्दुर- टि. द.

a) उस्. उप. अणन्तम् । b) बस्. । c) बस्. > षस्. । d) वैप १ द. । e) विप., नाध.
 (स्व- ऋप्रा. प्रथ.) । f) अर्थः ? । g) = वाच्- । h) शरदिन्- इति पाका. । i) व्यप. ।

मद्गु^१- पाठ १, ७; पाग ७, ३, ५३;
-द्गुः विध ४४, २२; वैध ३,
१२, १२; -द्रोः वैध ३, १५, ३.

मद्गु-हंस- सम् शंष ४२६.

मद्गुर- पाठभो २, ३, ५२; पाग ६,
२, १२५^b.

मद्गुर-कन्थ- पा ६, २, १२५.

मद्-गृह- प्रसृ. असमद्- द्र.

१मद्- मघ- प्रसृ. √मद् द्र.

२मद्- -द्रान् अप ५०, २, ४; -द्रेभ्यः
पा ४, २, १०८.

मद्-क- पा ४, २, १३१; पावा ४,
३, १००^d; -काः अप ५७, २, ५;

-कान् अप ५०, १, ५.

मद्क-स्थ(ल>)ली- (>माद्रक-
स्थलक- पा.) पाग ४, २, १२७^e.

मद्-कूल- (>माद्रकूलक- पा.)

पाग ४, २, १२७.

मद्-कैकय- -याः अप १, ७, १.

मद्(द्र-अ)र्म- पा ६, २, ११.

मद्गर्- -णाः बौश्रौ २० : १.

मद्गर्शर्म^१- (>माद्रशर्मि- पा.)

पाग ४, १, ९६.

मद्गु- >क-स्थ (ल>)ली^e-

(>माद्रकस्थलक-)

मद्गुर- (>क-कन्थ-)मद्गुर- टि. द्र.

मद्गु- असमद्- द्र.

मद्गु- √मद् द्र.

मद्घविक-, मघव्य- १मधु- द्र.

१मधु^१- पाठ १, १८; पा ४, ४, १२९;

पाग २, ४, ३१; ४, २, ८०^e; ८६;

३, ११८; ५, ४, ३^b; ३८^b; १५१;

८, २, ९; पागम ४३३; -^१धवे

काश्रौ २, १३, २^b; आपश्रौ १२,

२६, १२^b; बौश्रौ ७, १६ : २^b;

भाश्रौ ८, ३, ६; माश्रौ १, ७,

२, ७; २, ४, २, २^b; ३^b; हिश्रौ

५, १, ३०; ८, ८, ४^b; गुश्र १,

४०२^b; -धु^१आश्रौ २, १०,

४^b; ४, ७, ४^३; १२, २^b; ५, ५,

१८; १०, १०××; ^१शाश्रौ १, ५,

९^३××; १७, १४, १४^३; ^१काश्रौ

१३, ३, २६^१××; ^१आपश्रौ

४, ८, ३; १४, ४^m××; काश्रौसं;

^१श्रौश्रौ १, २० : ३३^m; १४,

१३ : १२^१; १६, २३ : ११^३;

भाश्रौ ४, २०, ६^m; माश्रौ २, ४,

२, ११^m; हिश्रौ ६, ४, १५^m;

द्राश्रौ ११, ३, १७^m; लाश्रौ ४,

३, १८^m; कौश्र १, १७, ६^m;

शांश्र १, २५, ७^m; ५, १०, १;

^१आमिश्र १, ५, ४ : १७^०; २,

६, ८ : ३८^m; बौश्र ३, ६, १;

भाश्र १, १७ : १२^m; हिश्र १,

१७, ५^m; २४, ६^m; जैश्र १,

४ : २७^m; २, ७ : ३; ^१अप

४८, ७५^m; १०२^e; निघ १,

४८, ७५^m; १०२^e; निघ १,

१२^m; या २, २; ४, ८^m××;

१०, ३१^f; -^१धुऽधु आपश्रौ

१५, ८, ६; बौश्रौ ९, ८ : ३;

माश्रौ; -^१धुः काश्रौ १७, ४, २४^m;

आपश्रौ ८, २, १८^m; १२, २६,

११^m; १४, २८, ४^m; १६, २४, ९^m;

२०, २०, ५^m; बौश्रौ १०, ३२ :

३^m; माश्रौ ६, १, ८, ७^m; वाश्रौ;

वैश्रौ १५, ३४ : १^m; आपमं १,

१०, ८^m; आमिश्र १, ७, ४ : १०^m;

बौश्र ४, १२, ४^m; -धुनः आपश्रौ

४, ३, ८××; बौश्रौ; आश्र १,

१५, १^t; या ४, ८; -धुना

आश्रौ २, १०, १८^m; काश्रौ

४, २, ३२^m; १२, ३, १४;

आपश्रौ; कौश्र १, २१, ७^m;

शांश्र १, २८, ८^m; या ८,

६^g; १७; १८^f; १०, ३१;

-धुनाऽधुना वाश्रौ ३, २, ५,

५७^m; -धुनि जैश्रौ २५ : ६;

कौश्र २३, ३९; अप; -^१धूनाम्

आश्रौ ५, ५, ४; ऋश्र ७, ३२;

-धूनि अप ७०^३, २३, ९; वाघ

२२, ९^m; बौध ३, १०, ११^m; गौध

१९, १३^m; -^१धो हिश्रौ १२,

६, ६^३; -धोः ^१आश्रौ ४, ७, ४, ६;

३, १; ८, ४, ३; शाश्रौ; द्राश्रौ

१४, ३, ४^m; लाश्रौ ५, ७, ३^m;

कौश्र ३, २, २^m; शांश्र ३, २,

५^m; -धौ या ६, २७^f, -ध्वः

a) वैप १ द्र.। b) तु. पासि.। c) =देश-विशेष- वा तद्वासिच्- वा। d) <माद्र-। e) तु.

पागम.। मद्गुस्थली- इति भाषा. प्रसृ.। f) व्यप.। g) अर्थः?। h) =चैत्रमास-। i) पाभे.

वैप १, २४१९ e द्र.। j) सकृत् पाभे. वैप १, १५७१ l द्र.। k) पाभे. वैप १, २४१९ g द्र.। l) सकृत्

पाभे. पृ ५९३ i द्र.। m) पाभे. वैप १, २४१९ j द्र.। n) पाभे. वैप १, २४१९ n द्र.। o) पाभे. वैप २,

३खं. मिथु तैवा ३, ७, ११, ५ टि. द्र.। p) सकृत् मधु हे <> १मधुगे इति पाभे.। अन्यत्र मध्विदं मधु इत्यस्य

स्थाने सपा. बौश्र १, ४, ४ १मध्वगाहे इति, भाश्र १, १७ : १३ १मध्वगाहे इति च पाभे.। q) =मधुमक्षिका- (तु.

स्र. शांश्र [५, १०, १]; वैतु. शब्दसूची मध्वगागारे इति समस्तं पदमिति। r) =उदक-। s) =वाच्-। t) सपा.

शांश्र १, २४, ४ मधुमत् इति पाभे.। u) पाभे. वैप १, १९०८ d द्र.। v) पाभे. वैप १, २४१९ b द्र.।

w) = (मधुसब्दयुक्त-) अनुवाक-विशेष-। x) पाभे. वैप १, २४२० p द्र.। y) सपा. पाश्र ३, ४, ४ वसोः इति पाभे.।

†आश्रौ २, १९, ३२; ४, ७, ४^b; ५, ५, १९; ६, ३, १^b; ७, ८, २^c; ८, ८, ९; †शाश्रौ ३, १७, १; ८, १५, ११^a; ९, ५, २^b; १२, २५, ६^c; काश्रौ २५, ६, ७†^d; आगृ; या ४, ८†^e; -†ध्वा शाश्रौ ७, १०, १२; आपश्रौ; या ८, ६; १०, ३१†^f.
 १माधव^g - पा ४, ४, १२९; ५, ४, ३८; -†वः आश्रौ ४, १२, २; काश्रौ १७, ४, २४; आपश्रौ; -†वाय आपश्रौ १२, २६, १२; बौश्रौ.
 माधवक- पा ४, ३, ११८.
 १मा(ध्व>)ध्वी^h - पा ६, ४, १७५; -ध्वी विघ २२, ८२; -†वीः आम्रिगृ ३, ३, २: १; ३; कौसू ९१, १ⁱ.
 मधविक- पा ४, २, ८०.
 मधव्य- पा ४, ४, १२९; १३९; -†व्यः वाधूश्रौ ४, २९: ५^j; जैश्रौ; -†व्यम् आपमं २, १०, ५; पागृ १, ३, २०; आम्रिगृ १, ४, १: ५; बौगृ १, २, ३७; मागृ २, २४: ७; वैगृ २, १६: ५; हियृ १, १३, ८; -†व्यस्य कागृ २४, १३^k; -†व्येन आपमं २, १०, ५; पागृ १, ३, २०; आम्रिगृ १, ४, १: ६; बौगृ १, २, ३७;

भागृ २, २४: ८; हियृ १, १३, ८.
 १मधु-क^l - पाउमो २, २, २६^l; पा ५, ४, ३; -कः अप २६, ५, ६^l.
 मधुक-मणि-सूक^m - -क्तम् अत्र १, ३४.
 मधुक-मरिच- -चयोः पात्रा ५, १, ७७.
 मधु-कर्ण- (> माधुकर्णिक- पा.) पाग ४, २, ८०.
 †मधु-कशाⁿ - शया काश्रौ २३, ३, १; आपश्रौ २२, १९, १; हिश्रौ १७, ७, १०.
 †मधु-कृत्^o - -कृत् आपश्रौ १६, २७, ७; -कृतः बौश्रौ ३, ९: २; †वाधूश्रौ ४, २९ⁱ: ६-८.
 मधु-कैटभ^p -सूदन- -०न विघ १, ५४.
 मधु-कोडा-फल^q - -लानि अशां १५, ४.
 मधु-क्षोर-समन्वित- -नैः अप ७०, १२, ५.
 †मधुगे^r बौगृ १, ४, ४.
 मधु-ग्रह- -हम् काश्रौ १४, २, ९; ४, १५; १७; -हस्य शाश्रौ १६, १७, ९.
 मधु-नलुन्ध^s - -न्धः आपश्रौ ६, ३१, ५.
 १मधु-घृत- -तम् नाशि २, ८, ७†^t;

-तस्य अप ७०, ४, ९; -ने पागृ १, १६, ४; २, १३, २.
 २मधु-घृत- -नाम् कौसू १३९, १७.
 मधुघृत-युत- -तम् विघ ९०, २६.
 मधुघृत-संयुक्त- -क्तम् विघ ७९, १०.
 मधु-घृत-तिल- -लैः विघ ७३, २४.
 मधु-घृत-तैल-वसा-प्रदिग्ध- गात्र- -त्रः अप ६८, ४, १
 मधु-चर्मन्^u - -माणि बौश्रौ १५, १६: २.
 मधु-च्छन्द^v -> माधुच्छन्द- -०न्द वैघ ४, १, ८.
 मधुच्छन्द-वत् वैघ ४, १, ८.
 मधु-च्छन्दस^w - -न्दसः शाश्रौ १५, २६, १†^x; वृदे २, १२६; अप ४३, ४, ३८†^y; -न्दसि ऋप्रा १७, ३१†^z; -न्दाः शाश्रौ १५, २६, १^z; कौगृ २, ५, १; ऋअ २, १, १, ९, १; वृदे ३, ५७; शुअ १, १९१××; सात्र.
 माधुच्छन्दस^{aa} - -०स आश्रौ १२, १४, ४^{aa}; आपश्रौ २४, ९, ४; ६; बौश्रौप्र; -सः शाश्रौ १०, २, ३××; ऋअ; -सम् आश्रौ ५, १०, ९; लाश्रौ ७, १, १; निसू ३, १०: ५; गौपि २, ४, ७; -साः आपश्रौ २४, ९, ५; -सान् शाश्रौ ७, १०, ३; -सानि शाश्रौ ११,

a) पासे. वैप १, २४२० p द्र. । b) पासे. वैप १, २४२१ e द्र. । c) पासे. वैप १, २४२१ c द्र. ।
 d) मृ इति पाठः? यनि. शोघः (तु. शौ ७, ३, १) । e) ङाऽपौ प्र. । f) वैप १ द्र. । g) =सुरा- ।
 h) नाप. । i) <√मच् । j) =वृक्ष-भेद- । k) तु. सा (भू. [शौ १, ३४]), मधुघ् इति w. । l) द्रस. पूष. = राक्षस-विशेष- । m) द्रस. । कोडा- = वाराहीकन्द- । n) पाठः? तु. पृ १९१० q टि. । o) अर्थः व्यु. च? । = [अनिश्चित-मधु-] मधुकोश- इति [तु. C.], अन्ये [मधुमिश्र-] गुड- इति भाष्यम् । p) घूमधु इति पाठः? यनि. शोघः (तु. लासं.) । q) उप. = [चर्ममय-] पात्र-विशेष- । r) = मधुच्छन्दस्- । s) ऋषि-विक्षिप्- । वैप २, ३६. द्र. । t) †न्दासि इति पाठः? यनि. शोघः (तु. प्रकरणात् [ऋषितर्पणम्]) । u) = मधुच्छन्दसा इष्टायाम् ऋचि- । v) विप., व्यप. ।

१०,४; -से शांश्री १०,१,११;
निस् ३,१२: १०.

माधुच्छन्दसी- स्ती
गौपि २,४,७.

माधुच्छन्दस-गार्त्समद्-
-दौ शांश्री ११,१०,३.

मधुच्छन्दः-प्रमृति- -तयः शांश्री
१५,२६,१; -तिभिः ऋअ २,
३,४.

मधुच्छन्दो-वत् आपश्री २४, ९,
४;६; बौश्री ३६: ४; ३७: २;
हिश्री २१,३,१२.

मधु-जालक- -कम् अप ६७,२,१.

मधु-निह- -ह्नाः आपश्री १,२०,
२; भाश्री १,२१,९; हिश्री १,
५, ५४; -ह्नाः आपश्री १६,
१८, ७; वैश्री १८, १६:३; हिश्री
११, ६, २९.

मधु-तोक्म-मिश्र- -अम् वाश्री ३,
३,२,३१.

मधु-दधन्- -धिन अप ७०,६,३.

मधु-दधि-वृता (त-अक्त >) क्ता-
-क्तानाम् काथ २७६: ३.

मधु-देवता-> त्य- -त्यम् अथ
९,१.

मधु-धामन्- -न्नोः वैश्री २,
१७: ३.

मधु-धार,रा- -रम् या १०,१३;
-रा अप्रा २,२,१६.

मधु-धेनु- -नुम् अप ९, ३, २.

मधु-नाडी- -ड्यौ शांश्री १५, ३,
१.

मधु-पयः-कुल्या- -ल्याभिः कप्र

२,४,१३.

मधु-पर्क- पाग ५, १, ६६; -कैः

शांश्री ३,१२,६; ४,२१,६; २४;

काश्री ४, ६, ११; आपश्री ६,

३१, ५; आग्र १, २४, ७; ३३;

कौश्री १,१६, ५; ४, ४, ८; शांश्री

४,१७,६; आमिष्ट २,६,६:१८;

आपश्री १३, १०; काग्र १३, ६;

२४,२०; बौश्री १, २, ३३; भाग्र

२, २४: ७; माग्र १, ९, २२;

हिग्र १,१२,१४; १३, ७; कप्र ३,

१०,१८, कौसू २०,२३; ९२,

१-६; ८-१०; ११; १६;

आपथ २,८,७; ८; हिग्र २, १,

१०९; गौथ ५,२८; -कैम् बौश्री

६, ११: २२; १७, ४३: १६;

वैश्री; -कैस्य द्राश्री १, २, ५;

लाश्री १,२, १; काग्र २४, १३;

-कात् बौश्री १,२, ६२; -काथ

कौसू ९०,३; -कै कौश्री ३, १०,

३५; शांश्री २,१६,१; वाथ ४,६;

विथ ५१, ६४; -कैण माग्र २,

२३: ४.

माधुपर्क(क>)की- -क्यः

कौश्री १,८, १०; -क्यौ शांश्री

१,१२,१०.

मधुपर्क-दान- -नम् वैश्री २,

१६: ९.

मधुपर्क-पुरोग(म>)मा-
-माम् अप १,४९८.

मधुपर्क(कै-२आ)दय- -दयेन

अप ३,१,१४.

मधुपर्क(कै-अ)र्थ- -र्थान्-

आमिष्ट २, ६,६: ६.

मधुपर्क्य- पा ५,१,६६.

मधु-पांसु-वर्ष- -र्षम् कौसू ९४,
१४.

मधु-पाल- -नम् बौश्री २, ९:
१६; माग्र २, १४, २८.

मधु-पाथस-सर्पिस्- -र्षिषाम् अप
७०, ५, १.

मधु-पूर्ण- -र्णम् वैश्री १७, १४:
५.

मधु-पूर्व- -वर्म् बौश्री २८, ८: ६.

मधु-फाणित- -ते अप १, ४८, ७.

मधु-मक्षा(क्ष-अ)नाचार- -रे कौसू
९३, २५.

मधु-मक्षिका- -काः कौसू ११८,
१.

मधु-मत्- पा ४, २, ८६; पाग
८, २, ९; -मत् आश्री ५,

१८, ५; काश्री ९, ८, १५;

आपश्री १, ११, १०x४; बौश्री;

कौश्री १, १६, ७; शांश्री १, २४,

४; -मत्तः आश्री ४, ७, ४;

शांश्री; -मति शांश्री १८,

१५, ५; गौपि २, ४, ७; -मन्तः

आपश्री १, २१, ५; वैश्री; या १०,

२४; -मन्तम् आश्री ५, १,

१५; ६, ३, १६; ९, ११, १५;

शांश्री; आपश्री १६, १२, ११;

माश्री ६, २, ६, २०; आमिष्ट

३, २, २: १६; हिग्र २, १४,

७; या १०, १६; -मन्ति

आपश्री १४, २८, ४; माश्री;

हिश्री १५, ७, १२; -मन्

a) वैप १३. b) =सूक्त-विशेष- [ऋ ३, ५४; ५५]। c) विप. (गो-). तस्येदमित्यर्थे तत्र

देयेर्षे वा ठक् प्र.। d) वैतु. भाष्यम् क्य- > -क्यः इति?। e) बस.। f) द्वस. >पस. उप.=३ष्टि।

g) कस. वा षस. वा। h) उत्तमम् इति चौंसं.। पाभे. वैप १, २४२३ d द्र.। i) पाभे. १९१० u द्र.।

j) पाभे. वैप १, १०१० k द्र.। k) सकृत् पाभे. वैप १, ९८७ c द्र.। l) पाभे. वैप १, २४२३ i द्र.।

m) मन्ति इति पाठः? यनि. शोचः (तु. आपश्री. प्रमृ.)।

आपश्रौ ५, ९, १०; १७, ४; १३, १५, १४; बौश्रौ; या ७, १७.

१मधुमती- ती वैश्रौ १५, २१: ८; हिश्रौ ८, ५, १०; -ती: आश्रौ ९, ११, १६; शाश्रौ ७, १८, ९^a; ८, ९, २^b; काश्रौ; बौश्रौ ८, ६: १८^a; या १०, १९; -तीभि: शाश्रौ ८, ९, २^c; बौश्रौ; -तीस् शाश्रौ १, ५, ९; काश्रौ; -त्य: निस् २, ११: २४^d; आमिथ.

१मधुमत्-त्तम, मा- म: शाश्रौ ६, ६, ८; ९, २०, १६; उनिस् ५: ३५; ७: १८; -मस् आश्रौ ३, १, १४^e; शाश्रौ ६, ९, १७^e; आपश्रौ; वैताश्रौ १८, ५^e; -मस्य आश्रौ ६, १, २; शाश्रौ ९, २, ६; -मा बौथ २, ५, ४१; -मा: आश्रौ ५, १६, २; ७, ४, ३; ८, ३, ३२; शाश्रौ.

मधु-मत्स्य-मांस-सूतकप्रेतकाञ्चय- (दि-अ) भोज्य-भोजन- ने वैथ ६, ९: ८.

मधु-मन्त्र-विवर्जित- -त: कप्र १, ३, ७.

मधु-मन्थ- न्थ: आपश्रौ ६, ३१, ५; -न्थम् हिश्रौ ६, ८, १; कौस् ६६, १५; ८३, ३१; अप १, ४९, ४; अशां १३, ३; -न्थस्य द्राश्रौ १, २, ११; लाश्रौ १, २, ७; -न्थान् आथ २, ५, २; -न्थानाम् वाश्रौ १, ६, ६, १४; -न्थे कौस् २९, १५; ३५, ९; -न्थेन अशां १३, ३.

मधुमन्थ-वर्जम् आथ २, ५, ४.

मधु-मांस- सानि हिथ २, ५, १४५; -से काथ १, ७; माथ १, १, २; २, २१; १८, ७; वाथ ६, १९; गोथ ३, १, २१; -सन शंथ २८१^f; -सै: वाथ ११, ४०^g.

मधुमांस-मक्षिन्- क्षी आमथ २, ७, १: १.

मधुमांस-वर्जम् वाथ १०, २४.

मधुमांसा(स-अ)शन- ने विथ ५१, ४५.

मधु-मांस-गन्ध-मालय-दिवास्वप्ना- (प-अ) जना(न-अ) म्यजन- यानो(न-उ) पानत्-छन्न-काम- क्रोध-लोभ-मोह- वाद-वादन- स्नान-दन्तधावन-हर्ष-नृत्त-गीत- परिवाद-भय- यानि गौथ २, १९.

मधु-मांस-धृत-तैल-क्षार-लवणा (ण-अ) वरात्र-वर्ज- जेषु बौथ ४, १, ७.

मधु-मांस-मज्जनो (न-उ) पर्यासन- स्त्रीगमना(न-अ) नृता(त-अ) दत्तादान- नानि पाथ २, ५, १२.

मधु-मांस-मत्स्य-रस-शुक्लाद्य(दि-अ) भोज्य-भोजन-वर्जिन्^h- र्जी वैथ १, २, ९.

मधु-मांस-मद्य-लवण- गानि बौध- २, २, ६०.

मधु-मांस-लवण-पर्युषितात्र- अस् वैथ १, ९, ३.

मधु-मांस-लवण-श्राद्ध- द्धानि काथ ५, ८.

मधु-मांस-लवण-मद्य(स्त्री अ) लले- खन- नानि आथ २, १६, २४.

मधु-माधव- -वे अप ६७, ९, २.

मधु-मिश्र- -अस्म बौश्रौ ९, १३: २; १०, २७: ७x४; कौस्; -आन् आपश्रौ १६, २०, १; बौश्रौ १५, २५: ११; हिश्रौ ११, ६, ४७; लाश्रौ ८, ११, २५; कौस् २२, १०; अप १, ४८, ५; -अ माश्रौ ६, २, ४, १९; -अ्रेण आपश्रौ १५, १४, १३; १५, १४x; बौश्रौ; -अ्रे: गौथ १५, १४ⁱ.

मधुमिश्र-तिल- लै: अशां १३, २.

मधु-मेह^k- > हिन्- ही शंथ ३७८.

मधु-युत, ता- -तान् शंथ २२१; -ताम् शंथ २२०.

मधु-र- पा ५, २, १०७; पाग ४, २, ८०^l; ५, १, १२३; -र: माशि १४, ७; -रम् विथ ६१, ६; शुप्रा; नाशि १, ३, १^m; -नाणि अप ६८, १, ३४; -रै: अप २१, ४, १; ६, ५.

माधुर्य- पा ५, १, १२३; -र्यम् शेषि २०७; २११; माशि ४, ३; १४, १०; याशि १, ३७; २, ८३; नाशि २, ८, ५; -र्यात् माशि १४, ७.

मधुर-ता- ष्व- पा ५, १, १२३.

मधुर-श्वेत-पीत- तानि अप ६८, १, ३६.

१मधुरस्वरिष्टव्याहरण- कम् अप ६५, २, ९.

a) पामे. वैप १, २४२४ d द्र. b) पामे. वैप १, २४२४ e द्र. c) पामे. वैप १, २४२४ g द्र. d) = ऋन्-। e) पामे. वैप १, २४२३ d द्र. f) समाहारे द्वस. g) परत् रं पामे. h) द्वस. > क्त, > उस्. i) मासयो: समाहारे द्वस. j) St. पाठ. k) = रोप-वशेष-। l) अर्थ: १। m) = यानसुषुप्तिविशेष-।

मधुरा(र-आ)स्वाद- इम् आगु
२,८,६.
मधुरिमन्- पा ५,१,१२३.
मधुरिल- पा ४,२,८०.
मधुरेतो^३ आश्रौ ४,१२,२१.
मधु-लवण-नास-माष-वर्जम् कौसू
१,३२.
मधु(ल>)ला^३- नंला आपश्रौ
१५,२,२; ६; बौश्रौ ९, ३:९;
भाश्रौ; -लाम् अत्र ५,१५०.
मधुला-वृष-लि(ङ्ग>)ज्ञा^३-
ज्ञाभिः कौसू २९,१५.
मधु-लाजा-मिश्र-श्रैः अप १८,
१,११.
मधु-वनस्पति^३- नतिम् अत्र १,
३४.
मधु-वर्ण^३- -र्णः आश्रौ ३,८,११.
मधु-वाच- -वाचः अत्र ५,७.
मधुवातीय,या^३- -यम् शंघ २१८;
-याः कौगु ३, १४, ४; शांगु ४,
१,८.
मधु-वादि(र>)नी- -नी बौगु
१, ४, ४; भागु १, १७, १३;
हिगु १,२४,६.
मधु-श्चुत्- -श्चुत्: काश्रौ ९,१०,
१२; १०, २, ३; ३६; आपश्रौ;
-श्चुत्^३ वाश्रौ ३, २, ५,२१;
आपमं २, १८, ४८; आमिगु २,
५, १२:११; या १०,१६.
मधु-श्चुत्-निघन^३- -नम् छुप्
२, १५:१४; ३, ८:५; गौपि
२,४,१२.

मधु-श्चुत्->श्चुत्-निघन^३-
-नम् जैश्रौ २५:७; जैश्रौ १५;
-नात् द्राश्रौ ८, २,३; लाश्रौ ४,
६,३.
मधु-झा(<स्था)ल^३- -लम् आपश्रौ
१८,५,५; हिश्रौ १३,१, ६४^३.
मधु-संयुक्त,का- -क्तम् वाध २६,
१८; -क्ता अप २६, ४,१.
मधु-संयुत्- -त्तः गौपि २,३,१७^३;
बौध ३,६,४; विध ४८,१७.
मधु-संसृष्ट- -ष्टम् आपध २,८,८^३;
हिध २,१,११०^३.
मधु-सर्पिस्- पाग २, २, ३१; ४,
१४; -र्षिभ्याम् अप ३६, १२,
१; -र्षिषा आमिगु ३, ११, ४;
४६; अप १,४५, ६; ५, ४, १;
-र्षिषि अप ७०, ६, २; -र्षिषी
वाध २८, २२; विध ८७, १०;
-र्षिषोः गौध १३,२०.
मधुसर्पिः-समन्वित- -नम् अप
७०^३,९,२.
मधु-सर्पिस्-तिला(ल-आ)त्मक-
-कम् अप ३६,३०,१.
मधु-सहित- -तान् अशां १३, १.
मधु-सूक्त^३- -क्तेन वैताश्रौ १६, १२.
मधु-सूदन^३- पाग ३,१,१३४; -नः
विध १,१३; -नम् आमिगु २,
५,७:१०; बौगु १, ११:७;
वैगु ३,१३:४; बौध २,५,२४;
विध १, ४०; ४४; -नस्य विध
९९,७; -ने विध ९९,२२.
मधु-सोम-पान- -नम् आज्यो ८,३.

मधु-त्वाव- -वे अप ७०^३,८,४.
मधु(धु-उ)क्त- -क्ते वैध ३,५,६.
मधु(धु-उ)च्छिष्ट^३- -ष्टे अप ३१,
१,४.
मधु(धु-उ)त्कट- -क्तेन विध ७८,५३.
मधु(धु-उ)तिसक्त- -क्तेन कौसू ८२,
२७.
मधु(धु-उ)दक- -के आपश्रौ १९,
२१,१६; हिश्रौ २२,४,६; बौध
१,६,४७; मीसू ८,१,४०.
मधुदक-वत् मीसू ९,४,३०.
मधु(धु-उ)दशिवत्- -शिवत् कौसू
३१,२३.
मधु(धु-उ)द्युत्- -तान् माश्रौ ६,
१,६,२; वाश्रौ २,१,५,८.
मधु(धु-उ)द्वाप^३- -पान् कौसू २९,
१०.
मधु > मधु^३- -युवा
क्रंश्रां ९,१६.
मध्व(धु-अ)पूप- -पान् अप १,४८,
३.
मध्व(धु-अ)लाभ- -भे आगु १,२४,
६.
मध्व(धु-अ)शान^३- -नः भाश्रौ ८,
३,२७.
मध्वा(धु-आ)ज्य-कुल्या- -स्याभिः
कप्र २,४,१६.
मध्वा(धु-आ)ज्य-दधि-दुग्ध- -धेषु
अप ७०,५,२.
मध्वाप^३ वाश्रौ ३,४,२,४.
मध्वा(धु-आ)शिनू- -शी काश्रौ ५,
२,२१.

a) शोषः वैप १,२४१९ गृह.। b) वैप १ द्र.। c) नाप.(ओषधि-। d) विप.(क्वन्-) द्रस.>
बस.। e) पूप. = मधुघ- (तु. कौसू ३८,१७)। f) < मधु वाताः (ऋ १,९०,६)। g) पाभे. वैप १, -
२४२५। द्र.। h) = साम-विशेष-। बस.। i) षोष्ठा^३ इति पाठः? यनि. शोषः (तु. आपश्रौ)।
j) पूप. = मधुशब्द-वत्-। k) विप. > नाप. (विष्णु-)। उस. पूप. = राक्षस-विशेष-। l) = सिक्थक-
(सोम इति नभा.)। m) = मधुवृक्षप्रतिका- (तु. केशवः)। n) विप.। बस. वा उस. वा। o) पाठः? (तु. सप्र-
भाश्रौ २०,१०,५)।

मध्वा(धु-आ)हुति- -तिभिः आगृ ३,३,२.
 मध्व(धु-ऋ)च्- -ध्वचः वाच २८, १३; शंघ १०५; बौध २,८,५.
 मध्वो(धु-ओ)दन- -नम् कौष्ट १, १९, ६.
 १मधु^१ (>माधव्य-पा.) पाग ४,१, १०५.
 १मधु-क- १मधु- द्र.
 २मधु^२ -कः वाधूश्रौ ३,४१: २६; बुदे १,२४.
 मधु-क- प्रसृ. १मधु-मत्- १मधु-द्र.
 २मधु^३ मत् (>माधुमत्- पा.) पाग ४,२, १३३; ३, ९३.
 माधुमत्क -पा ४,२, १३४.
 मधुमत्स्पर्- प्रसृ. १मधु- द्र.
 मधु^४ - पाठ २, ११६; -धुः आग्निष्ट ३, २, १: २; अप ४०, ६, १४; ४८, ७६१.
 मधु-संयुक्त- प्रसृ. १मधु- द्र.
 मधूक (वप्रा.)^५ - पाठमो २,२, २९; -काः शांघ ५, १०, १६; -कानि कौष्ट १, ८, ९; शांघ १, १२, ९.
 माधूक^६ -कम् विभ २२, ८३.
 मधूक-घृत-मण्डा (ण्ड-आभ >) भा^७ -भाः अप ६३, ४, ८.
 मधूक- प्रसृ. १मधु- द्र.
 मधूलक^८ -कम् अप्रा ३, ४, ११.

मध्य, ध्या^९ - पाठमो २, ३, ४; पाग २, ४, ३१; ४, १, ४^१; १२६^१; पागवा ४, २, १३८; -ध्यः आपश्रौ ३, ८, ९^२; -ध्यस् ऋआश्रौ ४, १२, २^३; ७, २, १०४×; शांश्रौ; आग्निष्ट २, ३, ५: २२^४; या ६, ३^५; -ध्यस्य निसू १, ११: २५^६; -ऋध्या आपश्रौ १४, १६, १; वाधूश्रौ ३, ४: १२; हिश्रौ १५, ५, १; आपमं; या ४, ११९^७; -ध्याः कौसू १५, १७; अप्राय २, १; अप ६८, १, ४; माशि २, ३; -ध्यात् शांश्रौ ४, २१, १२; काश्रौ १, ९, ६××; आपश्रौ; -ध्यानि आपश्रौ ८, १३, ३; १४, ६, ११; बौश्रौ; -ध्याय वाश्रौ २, १, ५, १३; -ध्ये आश्रौ ५, २०, ६××; शांश्रौ; आपश्रौ ७, ३, ४^८; २१, २०, ३^९; वाश्रौ ३, २, ५, ४३^{१०}; हिश्रौ १६, ६, ४१^{११}; २२, ६, २५^{१२}; कौष्ट ३, ४, ५^{१३}; या २, १६^{१४}; ४, ११××; -ध्येऽ-ध्ये काश्रौ २४, ५, १८; -ध्येन आपश्रौ १४, ६, १०; बौश्रौ; जैश्रौका ९१^{१५}; -ध्येषु कौसू १५, १७; बुदे ३, ११६; -ध्येः आपश्रौ २, ४, ५; भाश्रौ २, ४, ५; हिश्रौ १, ७, ८.
 ऋमाध्य^{१६} -ध्यस् वाश्रौ १, ४,

४, ४१.
 १मध्य- -ध्ये पा ६, ४, १२०.
 मध्य-ग, गा^{१७} - गाः शैशि ५८; भाशि १५; -गम् भाशि ६५; -गा काश्रु ७, ३८.
 मध्य-नात- -तानि ऋप्रा ११, २५.
 मध्य-नर- -रः निसू ५, ८: ८.
 मध्य-वारिन्- -रिणः अप ५२, ६, २.
 मध्य-जिह्व^{१८} - -ह्वस शौच १, २१.
 मध्य-तल^{१९} - -लम् वैष्ट १, ५: ६.
 मध्य-तस्(ः) शांश्रौ १४, २७, ८; १५, ८, २; आपश्रौ; मध्यतःऽ मध्यतः माश्रौ ५, २, ९, ५.
 मध्यतः-कारिन्- -रिणः वाश्रौ ३, २, १, १२; ४, ५, ७; वैश्रौ; -रिणाम् आपश्रौ १२, २३, ४; माश्रौ; -रिभ्यः माश्रौ ५, २, १; ११; ६, २, ५, २७; वाश्रौ.
 मध्यतः-कारि-चमस- -सान् माश्रौ २, ४, १, १.
 मध्य-देश- -शः जैष्ट २, ९: १९; -शम् बौश्रौ २१, ९: ९; -शयोः बौश्रु २: १८; -शे आपश्रौ १, २१, ६; २, ७, ३××; -शेन द्राश्रौ ५, २, १३; लाश्रौ २, ६, ७.
 मध्यदेश(श-ञ्च) प्रदेश- -शयोः कप्र १, ३, १२.
 मध्य-निम्न- -न्मस् वैश्रौ १, ३:

a) पूष. = मधुशब्दवती-। b) व्यप. (तु. पागम.)। c) = ऋषि-विशेष-। d) = देश-विशेष-।
 e) वैप १ द्र.। f) नाप. (वृक्ष-विशेष-, तदीय-गुण-)। व्यु. ? < √मह इति अभा. प्रसृ., < १मधु- इति ऋव.।
 g) = मधुमक्षिका-। h) नाप. (मद्य-विशेष-)। तस्यविकारीयः अण् प्र.। i) द्रस. > वस.। j) तु. पागम.।
 k) ष्व इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. प्रकरणात्)। l) पाभे. वैप १, ८७१० द्र.। m) ष्वमस्य इति मूळे.।
 n) मध्ये संनतम् इत्यस्य स्थाने सपा. काश्रौ ६, १, २७ मध्यसंगृहीतम् इति पाभे.। o) पाभे. पृ ३२८ द्र.।
 p) ष्वः इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. तै २, ४, ११, ५ आपश्रौ १९, २७, १५)। q) येषां मध्ये विपवसन्ति, ये सौमनसो बहु > येषाम् अध्येषि प्रवसन्, येषु सौमनसो बहुः इति शोघः (तु. सपा. मा ३, ४२ प्रसृ. शांघ ३, ७, २)। r) वा. क्वि.। s) उप. < √गम्। t) अत.। u) कस. (तु. ०.)। v) नाप. (ऋषि-चतुष्टय-)। उत.।

३; ७; १०.

मध्य-दिन^१- पाग ४, १, ८६; २, १३८^b; -नः आश्रौ^१ ७, ५, १९××; शाश्रौ ११, १५, ५०××; बौश्रौ १५, ५७; १३^d; लाश्रौ ८, ५, २३^d; अश्र ९, ६(५)^f; अप्रा ३, ४, १^g; -नम् भागृ १, १२: ७^h; अप ४८, १४१^d; अप्रा ३, ४, १^h; -नस्य कौसू २२, ३^f; -ना^f पागृ ३, ४, ८^h; -नाः आश्रौ ८, ५, ७; शाश्रौ १२, ३, ३; -नात् शाश्रौ ८ १, १; बौश्रौ २४, २०: ५; ६; भागृ २, ३१: ४; अप ४२, १, ५; -नाय शाश्रौ ८, १, १; -ने शाश्रौ ३, १५, ५××; काश्रौ; -नेषु आश्रौ ८, ८, १^h; शाश्रौ; -नौ आश्रौ ९, ७, २.

माध्यंदिन, ना^h- पा ४, १ ८६; पावा ४, ३, ६०; -नः शाश्रौ १४, २३, २××; बौश्रौ; -नम् शाश्रौ ८, १४, ३××; काश्रौ; -नस्य ^fआश्रौ ५, ४, ३; ५, १५; शाश्रौ; वैश्रौ १६, ५: १^h; -नाः बौश्रौप्र ४६: ३^h; चव्यू २: ३६^h; -नात् शाश्रौ १३, ८, १; काश्रौ; निसू ८.७: २३^h; -नानाम् शुप्रा ८, ३५^h; -नाय शाश्रौ ७, १४, १२; आपश्रौ; -नायाम् लुसू ३, १०: २२; -ने आश्रौ ५, २, १३××; शाश्रौ;

अप्राय ६, ४^m; -नेन आश्रौ ६, ७, ८; शाश्रौ; -नेषु आश्रौ ९, २, १६; शाश्रौ १२, ३, १.

माध्यंदिनी- न्यः आश्रौ ५, ५, १९.

माध्यंदिन-काल- ले आपश्रौ २१, २४, ८.

माध्यंदिन-पवमान-वत् वैश्रौ १६, १२: १८.

माध्यंदिन-युगⁿ- गम् पासि ८.

माध्यंदिन-वत् काश्रौ १०, ५, ५; आपश्रौ.

माध्यंदिन-विरोधिन्- धी याशि १, ८६.

माध्यंदिन-सवन- नम् बौश्रौ २५, २२: २.

माध्यंदिनसवन-भाज्- भाजः वाधूश्रौ ४, ७६: ३.

माध्यंदिनसवन-शास्त्र- स्त्रम् वैश्रौ १६, ९: ३.

माध्यंदिना(न-अ)न्त- न्तात् निसू ५, ६: २.

माध्यंदिनान्ती(य>) या- -याः निसू ६, २: १४.

माध्यंदिना(न-अ)न्त्य^०- न्त्यम् क्षुसू ३, १०: ४४; ११: ४; निसू; -न्त्यानि क्षुसू ३, १०: २७××; निसू.

माध्यंदिना(न-अ)र्भव- वौ बौश्रौ १८, २३: ५; ९; १३.

माध्यंदिनीय, या- -यः

बौश्रौ २५, २३: ६; माश्रौ २, ३, २, ३; -यम् माश्रौ २, ३, १, १९; ४, ३, २२; निसू ६, १०: ८; -या निसू ६, २: २६; -याः बौश्रौ १८, २: १२; २५, २१: १; २६, ३०: ३; ४; वाधूश्रौ; -यात् शाश्रौ १४, २, १८; आपश्रौ; -यानाम् याशि २, ४०^k; -याम् निसू ६, २: ५; -ये आपश्रौ १४, १९, ११; बौश्रौ; शुअ १, १^p; -येषु बौश्रौ १८, ३७: १५^q; -यैः काश्रौ^१ १४, २, २६; १५, ४, ४०^r; काठश्रौ १४९; बौश्रौ १८, ३४: १; वाधूश्रौ ३, ६१: १०.

माध्यंदिनीया(या-आ)र्भवी(य>)या- -ये निसू ६, २: २९.

मध्यंदिन-च्छन्दस्- न्दः निसू ७, ५: २७^०.

मध्यंदिना(न-अ)पराह- ह्योः लाश्रौ १०, २०, ४.

मध्यंदिनीय, या- पा ४, २, १३८; -या लाश्रौ ६, ९, १५.

मध्य-पथ- -थम् अप ५२, २, ५.

मध्य-पूर्वा(र्व-अ)पर- तसः() वैगृ ५, ३: ११.

मध्य-पूर्वा(र्व-अ)पर-यमा(म-अ)ग्नि- निर्ऋति-सोमे(म-ई)शान-मरुत्-

-रुतः वैगृ १, ९: ३.

a) वैप १ द्र. । b) तु. पासि. । मध्यम- इति भाण्डा. प्रभृ. । c) (उपचारात्) निष्केवल्य- मरुत्वतीयशास्त्रयोः संज्ञा- (तु. आश्रौ ७, ५, १९ शाश्रौ ११, १५, ५ भाष्यं च) । d) = सवन- । e) वैप १, २४२८ द्र. । f) वृ१ । g) = सूक्त- । h) विप. (पवमान- सवन- प्रभृ.) । वैप १ द्र. । विशेषः टि. द्र. । i) ष्वं इति पाठः? यांन. शोधः । j) व्यप. । k) = माध्यंदिन-शास्त्रिन्- । l) °न्दिनीत् इति पाठः? यनि. शोधः । m) उत्तरेण आर्भवस्य इति पदेन संबधिः (तु. संस्कृतुः टि.) । n) विप. । उस. उप. कः प्र. (पावा ३, ५), कुन्तम् (पा ७, ३, ५३) । o) बस. । p) माध्यंदिनशास्त्रीय- (यजुर्वेद-) । q) विप. > नापः (हविस्-) । r) तु. चौसं. । s) मा° इति संस्कृतुः टि. ।

मध्य-भङ्ग- -ङ्गे अप १९, १, १२.
 मध्य-भागे(ग-इ)न्द्र^१- -न्द्रः वृदे २,
 ३१.
 मध्यम,सा^१- पा ४, ३, ८; पाग
 ४, १, ४; १२६; २, १३८^०; -मः
 शांश्रौ ७, २७, २०; आपश्रौ; वृदे
 १, ९३^०; ९४^०; ९९^०; २,
 २६^०; या २, ८^३; ४, २६^०; ७,
 १६^०×; माशि १, ८^०; पा १,
 ४, १०५^०; -मम् आश्रौ २, ७,
 १२××; काश्रौ; कौश्र १, ५, २९^०;
 विध ५, ३०^०; ४१^०; ५६^०; ६३^०;
 ६८^०; १७६^०; ३१, १०^०; ऋप्रा
 १३, ४२^०; तैप्रा २३, ११^०; पाशि
 ८^०; याशि १, ८^०; नाशि १,
 ५, ३^०; -मया आश्रौ ४, ८, २५;
 शांश्रौ; काश्रौ १७, ५, २^०; माशि
 १, ५^०; -मयोः लाश्रौ ६, ८,
 १२××; ऋप्रा १४, २४; मीस्
 ७, ३, २४; -मस्य आश्रौ २,
 १०, २२; १०, २, ७; शांश्रौ;
 -मस्याम् हिपि १८:२; या १२,
 ३१^०; -मा आश्रौ २, १९, २३;
 बौश्रौ; वैध १, ६, ५^०; माशि १,
 २-४^०; ११, ९^०; याशि १, ५^०;
 कौशि ३८^०; ६४^०; ६६^०; नाशि २,
 ८, २^०; -माः आपश्रौ १४, ६, २;
 बौश्रौ; या ११, १८^०; -मात्
 शांश्रौ १०, ८, १६××; काश्रौ;
 या १०, २; २८××; -मान् शांश्रौ
 ७, २६, १३; काश्रौ २५, ४, ३८;
 -मानाम् शांश्रौ १३, १०, ९;

१४, ७२, १; -मानि आश्रौ ६,
 ४, ४; शांश्रौ; -माभ्याम् बौश्रौ
 ६, २२; २××; वैश्रौ; -माम्
 आपश्रौ १६, २८, ६; १९, २२, ५;
 बौश्रौ; शोध १२७^०; ऋप्रा १३,
 ४६^०; ४९^०; याशि १, ४९^०;
 कौशि ६१^०; ६२^०; नाशि १,
 ६, २१^०; -माय ऋश्र २, १,
 ७९; -मायाः लाश्रौ ६, ६,
 ८××; काश्र ११, २; -मायाम्
 काश्रौ १७, ७, ६; आपश्रौ;
 काश्रौसे २७: १५^०; ऋन २,
 ४, २^०; माशि २, १; -मासु
 माश्रौ ६, १, ६, १८; -मे आश्रौ
 ६, ४, ४; शांश्रौ; माशि १, ९^०;
 कौशि ३९^०; नाशि^० १, २, १२;
 ४, १०; ६, ६; -मेऽ-मे लाश्रौ
 ६, २, २७; -०मे शांश्रौ १२,
 २२, १^०; -मेन आश्रौ १, ५,
 २७; ३, १०, २३; शांश्रौ; तैप्रा
 १८, ४^०; -मेषु आश्रौ ७, ११,
 ३०; शांश्रौ; -मैः लाश्रौ ६, १२,
 ३; ऋप्रा ५, ४२; -मौ वैश्रौ
 १५, १३; ६; लाश्रौ ६, ८, ७;
 ८; ऋश्र १, ८, ९; शुश्र ५, ५९.
 माध्यम^१- पावा ४, २, १३८;
 ३, ६०; -माः^२ आश्र ३, ४, २;
 कौश्र २, ५, १; शांश्र ४, १०, ३;
 ऋश्र १, २, २.
 माध्यम-क^१- -कः साश्र
 १, ५२४; -काः या ५, ४; ६,
 १५

माध्यमिका- -क्या
 या १२, ९; -का या २, ९; १०,
 ४६; ११, ४२; ४३; १२, ५;
 -काम् या ११, २७; १२, १०;
 ३२; -कायाः या ६, २.
 माध्यमिकी^१- -कः या ८,
 १४; ११, १८^०; १९^०; -कम्
 या ५, ३; -काः अप ४३, ४, २;
 या २, २२; ७, २६; १२, ३२;
 -कान् या १०, ९; ११, १८;
 १२, ९; -के वृदे ३, २५.
 माध्यमिकी- -क्या या
 १२, ९.
 माध्यमिनेय- पा ४, १,
 १२६.
 मध्यम-क- , 'मिका^१- (>मा-
 ध्यमकीय- , 'मिकीय- पा.)
 पाग ४, २, १३८.
 मध्यम-ग्राम^१- -मम् नाशि १,
 ४, ७^०; -मे नाशि १, २, ८.
 मध्यमग्राम-संभव- -वम्
 नाशि १, ४, ११.
 मध्यम-च्छिद्र- -द्रम् हिश्र ३,
 २३.
 मध्यम-ज- -जम् आपश्रौ २०,
 २३, १; हिश्रौ १४, ५, ११.
 मध्यम-स्व- -स्वम् नाशि १, ५,
 १०.
 मध्यम-दक्षिणे(ए-उ)त्तर-
 -नान् काश्रौ २, ८, १; वैताश्रौ २,
 १३.
 मध्यम-धर्मन्^१- -र्मां वा ७, २३.

a) कस. > षस. । b) विशेषः टि. द्र । c) पृ १९१६ b द्र । d) = अग्नि- । e) = संगीत-स्वर- । f) पारिमा-
 षिक-संज्ञा- । g) पाठः? (तु. भाष्यम्, सप्र. शांश्र १, ९, १४) । h) = दण्ड-विशेष- । i) = अन्तरिक्ष-लोक- ।
 j) = वाक्-स्थान- । k) = ऋच्- । l) नाप. ([उच्चारणार्था-] वृत्ति-) । m) = वेदि-विशेष- । n) = मध्याह्न-
 संज्ञा- । o) मध्यम इति पाठः? यनि. शोधः । p) पाभे. वैप १, २४२८ g द्र. । q) वैप १ द्र. ।
 r) = ऋषि-विशेष- । s) स्वर्थे कः प्र. । t) तत्रभवार्थे ठक् प्र. । u) तु. पागम. । v) = सामस्वर-
 वेद- । w) पाठः? 'मः इति शोधः (तु. लारं.) । x) षस. ।

मध्यम-पञ्चक- -केन विघ ७३,
६.
मध्यम-पद- -दानि उस् २, २९.
मध्यम-पर्ण- -र्णम् मागृ १,
१७, ६; -र्णे माश्रौ १, ७, ७, ५;
-र्णेन काश्रौसं ३२:१३; गोगृ ४,
४, २, ५.
मध्यम-पर्वन्- -र्वणा वैश्रौ १, ३:
१२; -र्वसु नाशि १, ६, ९.
मध्यम-पलाश- -शे कौसू २१,
२; ७७, १८; -शेन कौसू ४८,
२८; -शैः कौसू ८६, ६.
मध्यम-पिण्ड- -ण्डम् शाश्रौ ४,
५, ८; काश्रौ ४, १, २२; कौसू
८९, ५.
मध्यमपिण्ड-प्रदान- -नम्
अप ४४, ४, ११.
मध्यम-पुरुष- -षाय गौघ २६,
१२१.
मध्यमपुरुष-यो(ग>)गा^१-
-गाः या ७, २.
मध्यमपुरुषै(ष-ए)कवचन-
-नस्य पावा ३, ४, २.
मध्यम-पूर्व- -वौ बौधु ७ : १७.
मध्यम-भाव- -वः पावा ४, २,
१३८.
मध्यम-राग- -भे नाशि १, ४, ५.
१मध्यम-वर्ग^१->र्णायि- -ये
ऋत ४, ४, ८; -यैः ऋत ५, ६,
१०.
२मध्यम-वर्ग^१- -र्णे ऋत ४, २, ३.
मध्यम-विलम्बित- -तयोः पावा
१, १, ७०; ४, १०९.
मध्यम-साहस^८- -सः शंघ २६३;
-सम् शंघ ३३०; विघ ५, १०८.

मध्यम-स्थ-(>माध्यमस्थ-
पा.) पाग ५, १, १२४.
१मध्यम-स्थान- -ने काश्रौ २४,
४, ९; -नेन आश्रौ ४, १५, १०.
२मध्यम-स्थान^१- -नः वृदे १,
१२१; २, ७; -नाः वृदे १,
१०३; -नैः वृदे ३, ७४.
मध्यम-स्थूणा- -णायाः आगृ
२, ८, १५.
मध्यम-स्थेय^१- -याय^८ बौश्रौ
१०, ४४ : १७१.
मध्यम-स्वर- -रेण आश्रौ ५,
१२, ८; हिश्रौ २१, १, ९१.
मध्यमा(म-अ)ङ्गुलि- -लेः वैश्रौ
१, ३ : १२; -ल्या आमिगृ २, ३,
१ : ९.
मध्यमा(म-अ)ङ्गुलो(ल-उ)च्छ्र
(त>)ता- -ताम् वैश्रौ १०,
४ : १५.
मध्यमा(मा-अ)ङ्गुष्ठ- -ष्टाभ्याम्
आमिगृ २, ६, १ : २१.
मध्यमाङ्गुष्ठ-योग- -गेन
शंघ ४५७ : २; ४५८.
मध्यमा-त्व- -त्वम् नाशि १,
७, १२१.
मध्यमा(म-अ)दि- -दि आश्रौ
४, १, २७.
मध्यमानां(त्रात्यस्तोम-) शाश्रौ
१४, ७२, १.
मध्यमा(मा-अ)नामिका-
-काभ्याम् शंघ ५७; ४५६.
मध्यमा(म-अ)पर- -रयोः माश्रौ
२, २, ३, २७.
मध्यमा(म-अ)ष्टका- -कायाम्
आगृ ३, ५, २०;

मध्यमीय- पावा ४, २, १३८;
३, ६०.
मध्यमे(म-ई)पा- -षायाम् १९,
२०, १५; बौश्रौ १३, २२ : ६;
७; माश्रौ ५, १, ८, ६; हिश्रौ
२२, ३, २९.
मध्यमो(म-उ)च्चैस्तर>)रा-
-रया वैताश्रौ २२, १०.
मध्यमो(म,मा-उ)त्तम,मा- -मे
बौश्रौ १९, ५ : ३१; -मौ वृदे
२, ३९.
मध्यमो(म-उ)त्तर- -रौ आपश्रौ
८, १४, १०; वैश्रौ ९, ४ : १०.
मध्यमो(म-ओ)दन- -नस्य हिगृ
२, ८, ८.
मध्यरात्र- -त्रात् बौश्रौ २४, २०,
२; ४; बौगृ ३, १, १६; हिघ
१, ८, ५६६; -त्रे आपश्रौ ६, ४,
१०; १०, १७, ३; बौश्रौ.
मध्य-लक्षण^१- -णानि निसू ५,
८ : ९.
मध्य-वेदि- -द्याम् वैध १, ६, ४.
मध्य-संगृहीत,ता- -त्तम् काश्रौ
६, १, २७^१; १७, ५, ३; २६, १,
१७; -तानि काश्रौ ९, २, १४;
-ताम् काश्रौ २, ६, १.
मध्य-रुम- -रुम् आपघ १, ५, १६;
हिघ १, २, १६.
मध्य-संपद^१- -पदः अप ५९, १, ७.
मध्य-स्थ- -पाग ५, १, १२४^१;
-स्थम् विघ १, ३९; मीसू ४, ४,
३; -स्थाः वाधुश्रौ ४, ९८ : २०;
-स्थानि जैश्रौका ६२.
माध्यस्थ्य- पा ५, १, १२४.
मध्य-स्थान,ना^१- -नः निसू १०, ३,

a) बस. । b) कस. । c) =दण्ड-विशेष. । d) वैप १ द्र. । e) पाभे. वैप १, २४२९ f द्र. ।

f) षस्त्व- इति लासं. । g) सपा. आपघ १, ३२, १४ अर्षेद्यत्रात् इति पाभे. । h) पाभे. वृ १९१५ ऽ द्र. ।

i) तु. पागम. ।

८; -ना या ७, २३; -ना: या १०, १, ११, १३; २२; १२, ४१; सात्र १, ४४५.
 मध्यस्थानो(न-ऊ)र्ध्व-शब्द^१-
 -ब्द: या १४, २१^२.
 मध्या(ध-अ)भ्येय-दक्षिणै(ए-ऐ) शान्तो (न्य-उ)त्तर-पूर्व-पश्चिम-
 नैर्ऋत-वायव्या(व्य-आ)श्रित-
 -ता: वैगृ ४, १३: ५.
 मध्य (ध-अ)प्रो(प्र-उ) पनत-
 -तम् काश्रौ ६, १, ८.
 मध्या(ध-अ)धिदेवन^३- -ने वाश्रौ १, ४, ११.
 मध्या(ध-अ)न्त- -न्ताभ्याम् कौशि ५०.
 मध्यान्त-स्थावर- -राणाम् अप ५२, १०, ५.
 मध्या-वर्ष^४- -र्वम् शाश्रौ २, ५, ४; -र्वं कौगृ ३, १५, ४^५; शांणु ३, १३, १; ५, १०, ६; पाणु ३, ३, १३.
 माध्यावर्ष^६- -र्वम् आणु २, ५, ९; हिणु २, १३, ३.
 मध्या(ध-अ)ह- -ह्ना^७ अप १, १९, १; -ह्नात् वैध ३, १४, ९; -ह्ने वैश्रौ १२, १३: ७; आणु २, ६, ८: ४५; काणु ४४: १; वैगृ १, ३: १८; अप १, २१, २; १८^८, १५, १; ४१, ६, २; ७०^९, ११, २९; शंघ ९८^{१०}; बौध ३, ५, ३; विष ६३, ९; ६८, ११;

७१, २१; वैध २, १३, १; आज्यो १, ८.
 मध्याह्ना(ह-अ)पराह- -ह्यो: अप ९, २, ८.
 मध्ये✓कृ पा १, ४, ७६.
 मध्ये-गुरु- पा ६, ३, ११; पाग २, २, ३७^{११}.
 मध्ये-छन्दस्^{१२}- -न्दस: पाणु ३, ३, ५^{१२}.
 मध्ये-ज्योतिस्^{१३}- -ति: निसू १, २: १४; १६; ऋअ २, ८, १०; अज १०, १०; ११, ४; ५; पि ३, ५३.
 मध्ये-निघना^{१४}- -नम् लाश्रौ ६, ४, ५; -नानि निसू ५, ७: २१; ९, ३: २७; २८; -ने लाश्रौ ७, ८, १३; -नेन निसू १, १३: ७; ८; -नेषु दाश्रौ १०, १, ६; लाश्रौ ३, ९, ७.
 मध्ये-वृष्ट्य^{१५}- -ष्ट्या: शाश्रौ १३, २१, ४; आपश्रौ २३, ९, ४; -ष्ट्यान् शाश्रौ १३, २१, ११; -ष्ट्यौ शाश्रौ १३, २१, ११.
 मध्ये-बि(ल>)ला^{१६}- -लाम् वैश्रौ १९, ६: ११२.
 मध्ये-शरीर- -रम् जैगृ २, ४: ६.
 मध्यो(ध-उ)दात्त- -त्तम् कौशि ३५; नाशि २, ७, ५; -ते शुप्रा १, १४९.
 मध्यो(ध-उ)द्वाय^{१७}- -यम् निसू १०, ३: ३६.

मध्यम,मा- प्रच. मध्य- द.
 मध्यमैक्येग्रहानमसवनयति वाश्रौ ३, २, ५, ५६.
 मध्यायु^{१८}- -युव: ऋपा ९, १६^{१८}.
 मध्वगाहे^{१९} बौगृ १, ४, ४.
 मध्वागाहे^{२०} भाणु १, १७: १३.
 ✓मन् (बधा.)^{२१} पाधा. दिवा. आत्म. ज्ञाने; तना. आत्म. अवबोधने, ऋमनामहे आपश्रौ ९, ३, २०; १०, १७, ९; १७, ७, ४; बौश्रौ; या ६, २५^{२२}; मने या ९, २८^{२३}.
 मन्यते शाश्रौ १६, ३४, ४^{२४}; आपश्रौ; मन्येते वृदे ३, १००; मन्यन्ते बौश्रौ १०, ५४: २१××; वाधुश्रौ; या ४, १६; ७, १७××; मन्यन्ति या १०, २९; मन्यसे शाश्रौ १२, २२; १^{२५}; वाधुश्रौ ३, ४०: ७; मन्ये आश्रौ २, १४, ३५^{२६}××; शाश्रौ; पाग १, ४, ५७^{२७}; मन्यामहे आपश्रौ १९, २२, १५××; वाधुश्रौ; मन्यताम् माश्रौ १, २, ६, १८^{२८}; या ९, १३; अमन्यत निसू २, १२: ११; वाध ५, ८^{२९}; अमन्यन्त बौश्रौ १८, २९: २०; वाधुश्रौ ३, १७: ९; मन्यथा: या ३, २०^{३०}; मन्येत आश्रौ ६, ८, ८; १३, ४; शाश्रौ; वाध २, १०^{३१}; हिणु १, १८^{३२}; या २, ४^{३३}; मन्येत विष ३०, ४७^{३४}; मन्वेरन् आश्रौ

a) विप. (आदित्य-). क्त. > वस । b) वैप १ द्र. । c) अस्. उप. = वर्षा- । d) मा^० इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. मूको. शांणु. पाणु. च; वैतु. भाष्यम् अन्यथादर्शि) । e) = कर्मन्- । तत्रमवीचः प्र. । f) = ष्णे (स१) । g) मा^० इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. बौध.) । h) तु. पागम. । i) वस. । j) = छन्दो-विशेष- । k) = साम-विशेष- । l) पामे. पृ १९१० p द्र. । m) या ३, ७; ४, ४; १०, २९ पा १, ४, १०६; २, ३, १७; ६, ४, ३७; ७, ३, ७८ परामृष्टः द्र. । n) पामे. वैप १, २४११ f द्र. । o) विभक्तिप्रतिरूपकम् अन्व. । p) पामे. वैप २, ३६. अनुमन्यताम् तैत्रा ३, ७, ५, २ टि. द्र. । q) पामे. वैप २, ३६. मन्येत संज्ञा ३ टि. द्र. ।

७, ११, २१; १२, ८, ३५; वाधूश्रौ;
मन्वेथाः द्राश्रौ १०, २, १३;
लाश्रौ ३, १०, १५.

मनुवे बौध २, ६, ३३१; ऋमन्वते
आपश्रौ ३, १२, १; बौश्रौ;
वृदे १, २४६; कौशि ६४६;
ऋमन्वे आपश्रौ २०, २३, ४;
बौश्रौ; वैताश्रौ १५, १३१;
ऋमन्महे अप ४८, १२; अअ ४,
२४१; २९; निघ ३, १९;
ऋमन्वत आश्रौ ४, ६, ३; शाश्रौ
५, ९, १६; १५, ३, ७; नाशि २, १,
८; मनुताम् या ९, १३१११;
ऋमन्वै आपश्रौ २४, १३, ३;
बौश्रौ ३, २८ : ११; अमन्वत
आश्रौ ९, ८, ३१; बौध ३, ८, ९;
ऋया २, ६; ४, २५१.

मेने ऋश्रौ १८, ४४ : ३; ४७ :
१; कप्र २, ८, २४; वाध;
मेनिरे शाश्रौ १५, २६, १३;
मनिष्ये शाश्रौ १, ५, ९१; मंसते
ऋया १४, २६; २७; ऋमन्तीय
आश्रौ १, २, १; ४, ९;
आपश्रौ; मन्तीय या ३, ८१;
ऋमन्तीयमहि ऋप्रा १६, ३२;
अमन्स्त निस् ३, ९, ४४; ऋमन्सत
वैताश्रौ ३२, १७; या १, ४; १३,
४१; अमन्सि वाधूश्रौ ४, २२ :
४; अमन्सि अप ४८, ५११.
मनयति लुस् ३, २ : ३२;
मानयन्ति या ३, २१.

रमत, ता- पा ६, ३, ४३; पाग

२, १, ५९; -तः बौश्रौ १६,
२७ : २४; अप ४७, १, १४;
२, १; शध २७९; वृदे १ ८४;
-तम् आश्रौ ३, १२, ११;
२१, १२, ३६; बौश्रौ २९, १ :
३; आशिष्ट; -ता शंघ १००;
वृदे २, १४३; कौशि ५४,
-ताः कप्र ३, ८, २; अप ४७
२, २; ३; बौध १, ५, ९४; २,
२, ४७१; शंघि १०; पाशि ३:
याशि २, ३; दंवि १, १०;
-तानि या १०, २६; १४, १४३;
१९३; -ते वृदे ३, १२२.

मत-वचस्- > मातवचस्-
आश्रौ १२, ११, २; आपश्रौ
२४, ७, ६; बौश्रौ १८ : २;
द्विश्रौ २१, ३, १०३; वैध ४, ३, २.
मतवचो-वत् आपश्रौ २४, ७,
६; ७; बौश्रौ १८ : २; द्विश्रौ
२१, ३, १०३; वैध ४, ३, २११.

मता (त-अ) क्ष- -क्षः बौश्रौ
१२, १५ : १८.

मत्य- पा ४, ४, ९७.

मनि- पा ३, ३, ९६; -ऋतयः वैश्रौ
१८, ५ ११; वैताश्रौ; अप
४८, ८५१; निघ ३, १५१;
-तिः आश्रौ ६, ३, १११; शाश्रौ
९, ५, २११; आपश्रौ; या ६,
१२; ११, १५१; पा ४, ४, ६०;
-ऋतिभिः या ४, १९००;
ऋप्रा ७, २७; -तिम् ऋश्रौ
२, १५, २; ४, ६, ३; शाश्रौ;

विध ७१, ४८; वृदे ३, १४४;
या २, ११; ११, ११; -ती
बौश्रौ ५, १५ : १४१; -तीः
काशु ७, ६; -ऋतीनाम् आश्रौ
६, ७, ६; शाश्रौ; या १४,
१२१. -तौ या ३, १९; ७,
२२००, -त्या काश्रौ ४, ८,
१७००; वाध १०, १९.

मति-पूर्व- -वैम् बौध २, १,
६; -वै गौध १२, ४६.

मति-प्रवृत्त- -त्ते बौध ४, २, १४.

मति-बुद्धि पूजा (जा-अ)थे-
थेभ्यः पा ३, २, १८८.

मति-मत्- -मत् वैताश्रौ ३७,
२१; -मान अप ७०, ११, ३.

मति-मोहित- -तः कौशि ४०.

ऋमति [तीर्ण]-विद्- -विद्ः

आश्रौ ६, १२, ११; शाश्रौ;
-विदे शुप्रा ३, ९७.

मत्वा ऋअ २, १०, ५६; वृदे.

१मनन्- -ऋना आश्रौ ३, ७, ५;

वैश्रौ १८, ५ : १२; वैष्ट २, १०,

५; -नात् या ७, १२; १२,

३३; -नानि या ८, ६; १०,

४२; -नाय या ११, ४२.

मननीय- -थैः या १०, ५.

१मनस- पाउभो २, १, ३२१; पा

१, ४, ५७१; ७, २, १८; पाग

३, १, २७; ५, ४, ३८; १०७;

-नः ऋश्रौ १, ४, ९; २, ५,

१४; ७, ८; १०, १६००; ऋश्रौ

२, ७, ५००; १६, ४, ६१; काश्रौ

a) पाभे. वैप १, २४३१ f द्र.। b) पाभे. वैप १, २४३१ g द्र.। c) वैप १, २४३१ l द्र.।

d) पाभे. वैप १, २४३२ a द्र.। e) पाभे. वैप १, २४३२ g द्र.। f) घा. भावने वृत्तिः। g) पाभे.

पृ ३३९ e द्र.। h) व्यप.। बस.। i) च्वसव इति पाठः? थनि. शोधः (तु. आपश्रौ. प्रमु.)। j) बस. उप.

= १ अक्ष-। k) मेधावि-नामन्-। l) पाभे. वैप १, २४३२ k द्र.। m) बस.। n) शुप्रा. पाठः।

o) वैप १ द्र.। p) नियमार्थे अर्थ. इति पागम.। q) तु. आन.। नमः इति BI. ?। r) सपा. म २३, २५

प्रमु. सुखम् इति पाभे.।

२, १, १८××; ७, ४, ३५^२;
 †आपश्रौ १, १०, ५××; १०,
 १८, ३^२; १६, ३२; ३^०; १७,
 २३, ११^२; १८, १७, ७^०; काश्रीमं;
 वीश्रौ १२, १२: ९^०; १३:
 २४^०; माश्रौ २, १, ३, ११^२;
 †वाश्रौ २, २, ५, ७^२; ३, ३,
 ३, ५^०; वैश्रौ १२, ७: ११^२;
 हिश्रौ १०, २, ६५^२; १२, ६,
 ८^०; ९^०; २२, १, १५^०; कौश्र
 ३, ५, ४^०; आग्निश्र १, १, ४:
 ३७^०; काश्र ४१, १८^०; बौश्र
 १, ५, २९^२; माश्र १, २२,
 ११^०; वाश्र ५, ३०^०; वैश्र ३,
 ८: ६^०; हिश्र १, ८, ४^०;
 जैश्र १, १२: ४२^०; पाशि ६^३;
 माशि २, १२; याशि १, २३;
 भाशि ४४; नाशि १, ६, १२;
 आश्रौ ७, १८; -नस: †आश्रौ
 १, ७, २; २, ११, ८^२; शाश्रौ;
 आपश्रौ १०, ११, ४^०; माश्रौ
 २, १, २, २०^०; हिश्रौ १०, २,
 १४^०; या २, २५××; पा ६,
 ३, ४; -†नस: बौश्रौ ४, १०:
 २४; वैताश्रौ; -नसा आश्रौ २,
 ३, १९××; शाश्रौ १, ११, १^२××;
 ३, १९, ३^०; काश्रौ; आपश्रौ
 ३, ११, २^०; ६, २७, ३^०; ५^०;
 ११, १८, ७^०; १६, १६, ४^०;
 बौश्रौ १, २१: १६^०; १८^०; ६,
 ५: २५^०; २१, ९: २२^०; २४,

२: ९^०; भाश्रौ १०, ७, ३^०;
 वाश्रौ ४, ७१: ४^०; वैश्रौ १२,
 १०: १^०; १४, १७: १^०; १८,
 १४: १२^०; हिश्रौ २, ६, २^०;
 †आश्रमं १, ४, १६^०; ५,
 १८^०; २, २२, १३^०; आग्निश्र
 १, १, २: ७^०; ५, ४:
 १२^०; ६, ३: ५६^०; २, ७, २:
 २४^०; बौश्र २, ६, २९^०; भाश्र
 २, ३०: १८^०; हिश्र १, ३, ६^०;
 २६, १३^०; †श्रौ ५, १३^०;
 १७, ४^०; या २, ४^०; ३, ३-५××;
 १४, २२^०; -नसाम् या १, ९;
 १२ १३; -नसि आपश्रौ ११,
 १, ६^०; बौश्रौ; या ११, १९;
 -†नसे काश्रौ २, १, १८; आपश्रौ;
 -नासि वाश्रौ ४, ६७: २; ३;
 ६; आपमं १, ३, १४^०; काश्र.
 मानस^०- पा ५, ४, ३८;
 -स: वैताश्रौ ३३, २७^०; अप्राय
 ६, ३^०; वाश्र २६, ९; विध ५५,
 १९; या १४, ९; -सम् शाश्रौ
 १०, १२, ३; आपश्रौ; -सस्य
 वीश्रौ १६, ७: १२; जैश्रौ १५: १४;
 -साव् निसू ५, १०: ७; ९, ७:
 ११; बौश्र १, ११, ३८; -सान्
 अप ४७, १, ५; -से निसू १०,
 ७: २१; बौश्र १, ११, ३९;
 याशि १, १२; -सेन आश्रौ ८,
 १३, ३; शाश्रौ १०, १३, २६;
 द्राश्रौ ९, ४, ४; लाश्रौ ३, ८, १;

निसू ४, ८: १८; -सेषु आश्रौ
 ८, १३, २१.
 मानस-ना- -सया निसू
 ४, ६: २०.
 मानस-वत् द्राश्रौ १५,
 ३, १३; लश्रौ ५, ११, १३.
 मानस-संयुक्त- -का:
 निसू ९, ७: ८.
 मानस-स्तोत्र- -त्राय
 वैताश्रौ ३३, २५.
 मानसीन^०- -न: बौश्रौ १२,
 ७: ६; -नेन वाश्रौ ३, ४२:
 १०.
 मन-भावतन- -नम् ऋष २,
 १०, ५८; बृदे ७, ९०.
 मन-पूत- -तम् विध ९६, १७.
 मन-प्रियतम- -मानि आश्रौ
 ७, १.
 मनश्-चक्षुस- -क्षुषो: आपश्र
 ३, २१.
 †मनश् चित्- -चित् अप ४८,
 ८५; निध ३, १५; -चित् बौश्रौ
 १०, १२, ३; आपश्रौ; -सस्य
 वीश्रौ १६, ७: १२; जैश्रौ १५: १४:
 ३३.
 मनश्-शुद्धि- -द्धि: बौश्र १, ५,
 ३.
 †मनः, श्- -शुस- -भा:
 आग्निश्र ३, ४, २: १६; बौपि ३,
 २, ३; गौपि १, २, ४१.
 मनस-पति^०- -ति: शुश्र १,
 १४०.

- a) पाशे. वैप १, २४३४ f द्र. । b) सपा. वै २, १३, ३ वृषिवीम् इति पाशे. । c) पाशे. वैप १, २४३४ g द्र. । d) मनः इति पाठः ? नमः इति श्लोकः (तु. तै ३, ३, ९, १) । e) सपा. शंश्र ३, ९, १ अक्षः इति पाशे. । f) पाशे. वैप १, २४३४ d द्र. । g) सपा. मनः <> मनोसि इति पाशे. । h) पाशे. वैप २, ३६. मनसा तैत्रा २, ४, ६, १२ टि. द्र. । i) पाशे. वैप १, २४३५ k द्र. । j) उत्तरेख संघिरार्थः । k) पाशे. वैप १, २४३६ m द्र. । l) पाशे. वैप १, २४३६ g द्र. । m) पाशे. वैप १, १९०८ f द्र. । n) पाशे. वैप १, २२६७ f द्र. । o) विप. (स्तोत्र-प्रह, अहन्-प्रसू) । वैप १ द्र. । p) तस्येदभयः सम् प्र. उक्तं (पा ४, ३, १) । q) वैप १ द्र. । r) मेघानि-नामन् । s) बौपि. पाठः । t) = ऋषि-विशेष- ।

मनसि√कृ पा १,४,७५.
 मनस्-पाप^१ -०प शौच २,७९.
 √मनस्य पा ३,१,२७.
 मनस्यमान-नेन या ३,७.
 मँमन(स्य>)स्या^२ -स्याम्
 आपमं २,२१,३३; भाग्य २,२६:
 १३; हिग्य १,१५,६९.
 मनस्-वत् -वते बौश्रौ १३, १३:
 ६; -मँवान् वैताश्रौ ३३, १२;
 या १०,१०.
 मनस्वती-ती^३ बौश्रौ २७,
 १०:३; २८, ११:१०; २९,
 १२:२; आसिग्य २, ६, ५:३;
 बौग्य २,९,८; ४,६-७, १; भाग्य
 ३,१५:१३; -ती^४ माश्रौ १,
 १,२,४०; वाश्रौ १,२, ३, ३३;
 ७,४,५५; बौग्य^५ ४,१०, १; ३;
 -तीभिः^६ आपश्रौ १, १०, ५;
 भाश्रौ १, ९, १३; हिश्रौ २, ७,
 ५३; -तीभ्याम्^७ आपश्रौ १६,
 ३, १; बौश्रौ १८,१:२९; हिश्रौ
 ११,१,२५; -तीम् बौश्रौ^८ २७,
 ९:१०; ११:३; २८,१०:५;
 वैश्रौ^९ २०,११:१२; २६:१२;
 हिश्रौ ५, ४, ८८^{१०}; आसिग्य^{११} २,
 ७, २:२१; ३, ९,२:८; बौग्य
 ४, ९, १२^{१२}; वैग्य ६, १६:७^{१३};
 हिग्य १, २६, १३^{१४}; अय २२,
 ९, ३^{१५}; -त्या बौश्रौ २७, ५:
 १२^{१६}; वैश्रौ २०,१४:६^{१७}; भाग्य
 ३,२:१०^{१८}.
 मनस्वती-मिन्दाहुती-

महाव्याहृति-तीनाम् आसिग्य
 २,७,४:१७.
 मनस्वती-मिन्दाहुती-
 व्याहृति-तीभिः आसिग्य २,
 ७,४:१६.
 मनस्-विन्-वी या १०,१०.
 मनस्विनी->नी-त
 (म>)मा-मा: वाधूश्रौ ४,
 ४७:१०.
 मनस्वी√भू>स्वी-भाव-
 -वे या ३,७.
 मनःसंयमन-नात् शंघ ३७२.
 मनःसमाधाना(न-अ)र्थ-र्थम्
 बौध १,२,२७.
 मनःसमेत-तानि आज्यो ७,
 २३.
 मनो-गत-तान् बौध ४,५, १.
 मनो-ग्रह^१-हम् हिश्रौ १६, ४,
 १५; -हाय आपश्रौ २१, १०,
 १; हिश्रौ १६,४,१४.
 मनो-ग्रहण-गम् अत्र २, ३०.
 मनो-जव^२-वेषु या १,९^३.
 मनो-जव^४-वा: अय २०,
 २,१;४; -मँवा: माश्रौ १,१,
 २,१२^५.
 मनोजव-ता-ता आपघ
 २,२३,८^६; हिध २,५,१६१.
 मँमनो-जव^७-वा^८ चात्र १७:
 ११; -वै: आसिग्य २,५,८:११;
 बौग्य २,७,१६; हिग्य २, ८, २.
 मँमनो-जवस्^९-वस: आपश्रौ
 १,७, १३^{१०}; -वसम् माश्रौ ५,

२,६,१९; आसिग्य २, ५, १०:
 ८; -वसाम् चात्र १६:८^{११};
 -वा आपश्रौ २२, २६, ११;
 बौश्रौ ४, ३:१^{१२}; १८,९:३६;
 हिश्रौ २३,४,२६; सु ३१, ९^{१३};
 आसिग्य २, ४, ६:३५; माशि
 ८,७^{१४}.
 मँमनो-जात^{१५}-ता:^१ आपश्रौ
 १०,१७,९; बौश्रौ ६, ७:१०;
 भाश्रौ १०,१०, १४; वैश्रौ १२,
 १३:३; हिश्रौ १०, २, ५७;
 बौध ३, ६, १५; विध ४८, ८.
 मँमनो-जुष-जुष: विध ४८,
 ८^{१६}.
 मनो-ज्ञा^{१७}-पाग ५,१,१३३;
 ६, ३, ३३; -ज्ञम् वैग्य ३, ५:
 १०; -ज्ञाम् आसिग्य १, ६, १:
 २; विध ९०, ७; -ज्ञाय वैश्रौ
 ८,१४:५; -ज्ञेन हिग्य १, २३,
 २; -ज्ञेषु विध ८५,६३.
 मानोज्ञक-पा ५,१,१३३.
 मनो-दत्(त्ता^{१८})-त्ता काष
 २८०:२.
 मनो-दु(ष्ट>)ष्टा-ष्टा विध
 २२,९१.
 मनो(नस्-अ)नु(ग>)गा-
 -गाम् माशि २,१४.
 मनो-ने(त्र>)त्रा^{१९}-त्राम्
 आश्रौ ४,१३,२.
 मनो(नस्-अ)भिधान-ने पाव
 ७,२,१८.
 मनो(नस्-अ)भिरा(म>)मा^{२०}-

a) वैप १ द्र.। b) तान्रभविक्: यत् प्र.। c) वैतु. Böht (ZDMG ५२, ८४) मानसीम् इति शोषः? (तु. घृ ५७४ e)। d) = आहुति-विशेष-। e) = ऋग्-विशेष-। f) = ग्रह-विशेष-, (उपचारात्) आहुति-विशेष-। कस.। g) कस.। h) सप्र. वा: <> ष्वसः इति पाभे.। i) ष्वाम् इति पाठः? यत्. शोषः (तु. हिध.)। j) पाठः? ष्ववैः इति शोषः (तु. मै २,१,१ आसिग्य. प्रष्ट. च)। k) पाभे. वैप १,२४३८ f द्र.। l) पाभे. वैप १,२४३९ b द्र.। m) पाभे. वैप १, २४३९ f द्र.। n) उप. <√दा[दाने]। o) तु. बृहस्पति-नेन- (वैप १)। p) विप.। उस.।

-०मे विध १९, २४.
 मनो-मन्थन- -नम् अत्र २, ३०.
 मनो-युज्- -युक् वाधुश्रौ ४,
 ३६; ३; -फुजः^b आपश्रौ १०,
 १७, ९; बौश्रौ ६, ७; १०; माश्रौ
 १०, १०, १४; माश्रौ २, १, ३, ६;
 वैश्रौ १२, १३, ३; हिश्रौ १०, २,
 ५७; बौध ३, ६, १५.
 मनो-रम, मा- -मा अप ५९, १,
 ८; -मे वैगृ ४, १३; ७; -मैः
 अप १९^३, ४, ३.
 मनो-वश- -शेन विध ७२, ६.
 मनो-वाक्-काय-कर्मन्- -र्मसिः
 वैध २, १५, ११.
 मनो-वाक्-प्राण-चक्षुस्- -क्षुषाम्
 वैश्रौ १६, ७; १०.
 मनो-वाग्-देह-भोजन- -मैः वृदे
 ६, १४३.
 मनो-हन्- -हा पागृ २, ६,
 १०; अत्र १६, ११.
 मनो-हर, रा^c- -रः अप २१, ३, ५;
 ६८, ५, २६; ७०^३, ४, ५; -राणि
 अप २१, १, ३; -रान् अप ६८,
 ३, ४; -राम् अशां ३, २; -रे
 अप १९^३, १, ४; २०, १, ३; -रेषु
 विध ९९, १३.
 मनीषा^d- पाग^d ५, २, १३६; ६, ३,
 १०८; पावाम ६, १, ९३;
 -षया फुआपश्रौ ४, १, ८; ९;
 १०^३; बौश्रौ; या २, २५^३; ९,
 १०^३; -फुषा आश्रौ २, १९,
 २२; ३, ७, ७xx; शाश्रौ; -षाः
 आश्रौ २, १९, २४; ऋप्रा २, ५९;
 -षाणाम् अपसं २, ११, २७^३;

-षाम् या १४, १४^३.
 मनीषा-वन्- पा ५, २, १३६.
 मनीषित- पाग ६, ३, १०८^d.
 मनीषिन्^e- पा ५, २, १३६;
 -षिणः शाश्रौ ६, ४, ९^३;
 आशिगृ; या १३, ९^३३;
 -फुषिणः ऋअ २, १०, १११;
 वृदे ८, ३८; -षिणाम् वैगृ ५,
 ४; ३५^३; आज्यो १४, ९^३;
 -फुषिणे अप १, ३९, २; अशां
 ९, २; -षिभिः फुअप १, ३८,
 २; ५; ३९, ४; अशां; -पी
 अप ४८, ८५^३; बौध २, ६, ३०;
 निघ ३, १५^३.
 मन्तवै^f या ३, ३^३३.
 मन्तव्य- -व्यः या ३, ३; नाशि
 २, ५, ५.
 मन्तु^g- पाउ १, ७३; पाग ३, १,
 २७.
 √मन्तय पा ३, १, २७.
 मन्त्- पाउवृ २, ९४.
 मन्त्र^h- पाउभो २, ३, ८५; पाग २,
 १, ५९^d; ६, १, २०३; -०न्त्र
 विध १, ५३^३; -न्त्रः शाश्रौ २,
 ८, १८; ७, ४, १६; काश्रौ;
 या १, २; ५, ४xx; नाशि १,
 १, ६^३; पा ४, ४, १२५; -न्त्रम्
 शाश्रौ ३, २०, १८; काश्रौ; -न्त्रस्य
 आपश्रौ ९, १३, १२; माश्रौ;
 मीस् ११, ४, ३७^३; -न्त्राः
 आश्रौ १, १, २१; काश्रौ १, ३,
 १; फुआपश्रौ ५, १९, ४; ८, १३,
 ६xx; बौश्रौ; -न्त्राणाम् आश्रौ
 ३, २, १८; शाश्रौ; -फुन्त्रात्

आश्रौ ४, १३, १; आपश्रौ;
 -न्त्रान् आपश्रौ ४, १, ३;
 बौश्रौ; -न्त्राभ्याम् आपश्रौ
 १६, १४, ९; बौश्रौ; -न्त्रे
 आश्रौ १, ११, १०; १२,
 ३१; काश्रौ; पा २, ४, ८०;
 ३, २, ७१; ३, ९६xx;
 आज्यो ८, ५^३; -न्त्रेऽन्त्रे
 वृदे १, २; १२; शुअ ४, १५७;
 -न्त्रेण आश्रौ १, ३, २९; शाश्रौ;
 -न्त्रेभ्यः हिश्रौ ४, १, ४४; या
 १३, ११; -न्त्रेषु शागृ १, २, ५;
 कप्र; पा ६, ४, १४१; -न्त्रैः
 आश्रौ १, ११, १०; आपश्रौ;
 -न्त्रौ आपश्रौ १६, २४, १५;
 द्राश्रौ ३, २, ९; १५; लाश्रौ १, १०,
 ७; ११; मागृ १, ३, ४.
 मन्त्र-करण- -णे पा १, ३, २५.
 मन्त्र-कर्मन्- -र्म बौश्रौ २१,
 ४; ९xx; शंघ; -र्मणि अप
 २, ६, ५; २६, ३, ४; ७०^३, १, २.
 मन्त्र-कारⁱ- पा ३, २, २३; -रः
 मागृ १, ८, २.
 मन्त्र-कृत्^j- -कृतः काश्रौ ३,
 २, ९; आपश्रौ २, १६, ६xx;
 बौश्रौ; -कृताम् कागृ ४१, ११^३;
 -फुकृतयः आश्रौ ८, १४, १८;
 बौश्रौ ९, १९; ८; बौगृ ३,
 ४, ५.
 मन्त्र-कृत- -तम् बौश्रौ २७,
 १; २; -तस्य जैगृ २, १;
 ३८^३.
 मन्त्र-कृष्ट-क्त् काश्रौ १८, २,
 १०.

a) वैप १ द्र. । b) पामे. वैप १, २४३९ b द्र. । c) विप. । उत्त. । d) तु. पागम. ।

e) <१मन्स- + √ईस् इति शाकटायनः (तु. पागम.) । f) षी^० इति पाठः इयनि. शोचः । g) वन्त्र^०
 इति जीवः । h) वै मन्त्रः इत्यस्य स्थाने वि मन्त्रः इति लासं. । i) तु. आन. । j) = युष्म-वाद- । k) उप-
 <√कृ।अश्रौ। । l) विप. > नाप. ।

मन्-क्रम- -मेण काश्रौ १७,
५, १७^०; १२, १०; २६, ४, १७;
७, १३.
मन्-क्रिया- -वा शंघ ३३८.
मन्-गण- -णम् शुभ्र ३,
१४३; २१६; ४, १६१; -णेन
हिश्रौ ३, ८, १९.
मन्-गणा (रा-आ) म्नात-
-तानि बौश्रौ २७, १: १; २:
२३.
मन्-घृ (त >) ता^० -ता:
बौश्रौ २२, ८: २२.
मन्-विकीर्षा (र्षा-अ) र्थ- -थम्
मीसू ९, ३, ८.
मन्-चोदना- -नयोः काश्रौ
१, ५, ७.
मन्-ज्ञ- -ज्ञेषु शंघ २५१.
मन्-तस (:) आपश्रौ ३, ११,
२१; बौश्रौ.
मन्-त्व- -त्वे मीसू १०, ४,
२१.
मन्-दर्श-विद्^० -वित् अप
३१, ३, १.
मन्-दर्शन- -र्शभिः वृदे १,
३४; -र्शां वृदे ५, ६६.
मन्-दूर्वा^० -र्वा बौश्रौ २२,
५: १९.
मन्-दक्ष- -दक्ष्यः वृदे १, १;
-दक्षम् वृदे ५, ५८.
मन्-दष्टि^० -ष्टयः या ७, ३;
-ष्टिषु वृदे १, ३.
मन्-देवता- -ताभ्यः शांघ १,
३, ४.

मन्-दैवत-ज्ञ- -ज्ञः शुभ्र ४,
१५६.
मन्-दैवत-वर्जि(त >) ता-
-ता कप्र १, ८ २१.
मन्-दैवत-विद्^० -वित् वृदे
८, १३३.
मन्-द्रष्टृ- -ष्टा अश्रमू १.
मन्-निरुस- -प्तम् बौश्रौ २३,
२: १३; १८: ४.
मन्-पति^० -तिभ्यः आश्रौ
८, १४, १८; बौश्रौ ९, १९: ९;
बौगृ ३, ४, ५; वैगृ २, ११: ५;
-तीन् बौश्रौ ९, १९: १७; बौगृ
३, ४, ११.
मन्-परिक्रम^० -मान् कौसू
७३, १९.
मन्-पवित्र^० -वत्- -वान् अप
६९, ८, २.
मन्-पाठ-फल- -लम् अश्रमू ८.
मन्-पुरी (ष >) षा^० -षा
बौश्रौ २२, ८: १५.
मन्-पूत- -तः विष ८३, १३;
-तम् कागृउ ४६: ९; -तस्य या
१३, ६.
मन्-पृथक्त्व- -त्वात् शाश्रौ १,
२, २४.
मन्-प्रणिधि^० -धयः शंघ
२५१.
मन्-प्रतिलाभ- -भात् बौश्रौ
२०, २: ३२.
मन्-प्रत्यभिर्शन- -नम् बौश्रौ
२०, २: २८.
मन्-प्रयोग- -गः माश्रौ ४, १,

३२; वागृ ९, ३; कप्र ३, ९, १४
-गात् वागृ २, ३; -गे माश्रौ
५, २, १५, १३.
मन्-प्रयोग-मन्- -न्त्रयोः
वृदे ५, ९४.
मन्-बल- -लम् काश्रौ १,
५, ७.
मन्-ब्राह्मण^० -णम् बौगृ २, ६,
२; ३, २, ६३; मैश्र ३; -णयोः
आपश्रौ २४, १, ३१^१; हिश्रौ १,
१, ७; कौगृ ३, १२, २३; बौगृ
२, ६, ३; चव्यू २: २१; -णानि
वागृ ६, ३२; -णे आपश्रौ २४,
१, ३०; हिश्रौ २३, ३, ३३;
बौगृ २, ६, ४; ५.
मन्-ब्राह्मण-मात्र- -त्रम्
बौश्रौ २८, १०: ८.
मन्-ब्राह्मण-विद्^० -वित्
वाघ ३, १९; गौघ १५, २८.
मन्-ब्राह्मण-कल्प- -ल्पानाम्
चव्यू २: ३९; -ल्पैः या १३, ७.
मन्-ब्राह्मणकल्प-पितृमेघ-
महावता (त-अ) षापदी-वैषुवत^० -
-तानि मागृ १, ४, १२.
मन्-मार्ग-प्रमाण^० -णम् बौघ
४, ६, ९.
√मन्त्रय > मन्त्रयु- पाउना
१, ३७^०.
मन्-लिङ्ग- -ङ्गात् काश्रौ ९,
४, २४; १९, २, ७; मीसू १०,
३, १३.
मन्-लोप- -पात् आश्रौ २,
१९, २७.

a) तु. चौसं. । b) बस. । c) षस. > उस. उप. < √विद् [ज्ञाने] । d) = [दूर्वासब्दवती] इष्टका-विशेष- । e) सस. । f) उप. < √विद् [ज्ञाने] । g) वैष १ द्र. । h) तुस. उप. पवित्र- = पवित्रता- । i) = [पुरीषशब्दवती] इष्टका-विशेष- । j) मलो. कस. पूष. = गुह्य-वाद-, उप. = दूत- । k) दस. उप. = १ ब्राह्मण- । l) 'पदी वैषु' इति पाठः ? मनि. श्रोत्रः (तु. भाष्यम्, Knauer; वैतु. भाष्यम्, मन्त्राव्याख्याचमिति) । m) मलो. कस. । मन्त्रमार्ग- = मन्त्रपाठ- इति भाष्यम् । n) < सन्त्र- + √या

मन्त्र-वचन- नम काश्री १, ७, ८; १०, २, ३०; १८ ६, ९.
 मन्त्र-वत्- वत्^a आश्री १, १२, २३; आपश्री; आमिष्ट ३, १०, ४: २३, मागृ १, १०, २; २, २, २; -वतः आमिष्ट ३, १, १: ३; -वता आपश्री २४, २, १४; बौध १, ७, ७; -वताम् आश्री ६, ३०, ९; २०; -वती आपश्री २, १४, ११; भाश्री २, १४, २; वैश्री ६, ३: १२; -वत्सु शाश्री ४, ६, १०; काश्री ८, ५, ३४; आपश्री; -वन्तः बौश्री २१, १: ६; २५; २२, ९: १९××; -वन्तम् आपश्री १४, २३, ९; १०; बौश्री; -वन्ति बौश्री २१, १: १०××; भाश्री; -वान् बौश्री २०, १६: २४××; गोगृ २, २, ८; १०, १७; द्रागृ २, ४, १०.
 मन्त्रवती- न्ती बौश्री २१, १९: ९; ११; २६: ३××; -नीम् आपश्री १४, २३, ८; बौश्री २६, ३१: ३; -न्यः बौश्री २१, १३: २५; २४, ३६: ५; -न्या आपश्री ५, १९, ३.
 ?मन्त्र-वर्गम्^b वाश्री २, २, ५, ३. मन्त्र-वर्जम् वैश्री १२, १२: १३; पागृ १, ४, ११; आपगृ.
 मन्त्र-वर्जित, ता- तम् विध ७५, ७; -ता वैगृ ५, ९: ४; -ताम् वैगृ ५, ९: १३.
 मन्त्र-वर्ण- णः निस् २, १२: ८; गोगृ ३, ४, १२; मीस् १०, १, १३; -र्णाः या २, १६; -र्णात् काश्री १, ४, १२; शुभ ४, १९४;

मीस् ३, ५, ३८; ६, १, ५०; ९, ३३; ९, २, ५४.
 मन्त्रवर्णि(क^c>)की- की शुभ ३, १५६; -क्यः शुभ ४, ११३.
 मन्त्र-वह^d- -०ह विध १, ५३.
 मन्त्र-वाक्या(क्य-अ)र्थ- र्थाः वृदे १, ६०.
 मन्त्र-विकार- नः मीस् १०, ३, २३.
 मन्त्र-विद्^e- -वित् वाध ११, २०; वृद १, २२; ९०; ३, १३३; ५, ९३; -विदः आगृ २, ३, १०; द्विष्ट २, १७, ८.
 मन्त्रवित्-तम- मः वृदे ३, १३३; -मैः वृदे २, १२२.
 मन्त्र-विधि- -धिः द्राश्री १, १, २; लाश्री १, १, २; वागृ ९, २; मीस् ३, २, २०.
 मन्त्र-विपर्यास- -सम् आपश्री १७, १९, ९; -से आमिष्ट २, ७, ४: ४; बौगृ ४, ११, १.
 मन्त्र-विवर्जित- -ते बौध १, ५, ८३.
 मन्त्र-विशेष- -षः गोगृ १, ३, १२; ३, २, ४३.
 मन्त्रविशेष-निर्देश- -शात् मीस् १०, ४, २९.
 मन्त्र-व्यतिरेक- -के बौध ६: १८.
 मन्त्र-संस्कार-कर्तृ- -र्तुः शंघ २८९.
 मन्त्र-संस्कृत, ता- -तम् आपगृ ४, ३; अप ३६, २८, १; -ता वाध १७, ७३; ७४; -ताः बौश्री २४, ३६: ७.

मन्त्र-संताम- -मः आगृ २, ८.
 मन्त्र-समापन- -नात् आपश्री १७, १७, ८; वैश्री १९, ६: ११४; द्विश्री १२, ६, १.
 मन्त्र-सहि(त >)ता- -तया काश्रीसं ३५: २.
 मन्त्र-सागर- -रः याशि १, ३१.
 मन्त्र-साधन- -ने अप ३६, ७, २.
 मन्त्र-सिद्धि- -द्धये शागृ ४, ५, १६.
 ?मन्त्र-स्कन्ध- -न्धम् आपगृ ४, ३.
 मन्त्र-स्थान- -ने आपश्री २१, ६, १२; १५.
 मन्त्र-स्नान- -नम् वैगृ १, ५: २; ६.
 मन्त्र-सिफज्- -सिफज् विध १, ६
 मन्त्र-स्वर- -रः मासृ १, २.
 मन्त्रस्वर-वध् मासृ ३, २५.
 मन्त्र-हीन- -नम् आमिष्ट २, ७, ७: २; वैगृ ७, ३: १२; -ने बौश्री २८, ११: १.
 मन्त्रहीन-ज- -जः वैध ३, १३, १०.
 मन्त्रहीनो(न-उ)पनीत^f- -तः वैध ३, १३, ८.
 मन्त्र(न्त्र-आ)क्या- -क्या मीस् २, १, ३०.
 मन्त्रा(न्त्र-अ)तिरेक- -के द्विश्री २२, २, ६.
 ?मन्त्रा(न्त्र-आ)दि- -दिः आपश्री ८, ८, २१; १९, ९; २१, १; -दिम् द्विश्री ८, १, ७८.

a) क्विद् वा. क्विदि. b) पाठः ? चर्जम् इति शेषः। c) तत्रमवीयष् उक् प्र.। d) = विष्णु।
 उक्.। e) उप. < √विद्। ज्ञाने। f) विघ. (वराह-विष्णु-।)। षस.। g) सुसुपीयः समासः।

२मन्त्रा(न्त्र-आ)दि^३ - > ष-
(दि-अ)र्थ- -र्थम् पावा १, १,
६८.

मन्त्रा(न्त्र-आ)नर्थक्य- -क्यम्
मीसू १, २, २९.

मन्त्रा(न्त्र-अ)नादेश- -शे
वैताश्रौ १, २; द्राष्ट २, २, १६.

मन्त्रा(न्त्र-अ)तुदिशम्^३ बौश्रौ
२०, २६: १७; २२, ९: २५.

मन्त्रा(न्त्र-आ)तुपूर्व्य- -र्व्यम्^३
बौश्रौ २, ६: १४; -र्व्यात् माश्रौ
४, १, २.

मन्त्रा(न्त्र-अ)तुलोकम्^३ बौश्रौ
२०, २६: १७; २२, ९: २५.

मन्त्रा(न्त्र-अ)तुवाक- -का: मैअ
१०.

मन्त्रा(न्त्र-अ)न्त- -न्तम् वाश्रौ
१, १, ३, १६; हिश्रौ १, ४, ३;

द्राष्ट १, १, १८; -न्तान् आपश्रौ
१९, २५, ६; आसिष्ट; -न्ते शाश्रौ
१, २, २५; माश्रौ; -न्तेन शाश्रौ
१, २, २६; माश्रौ; -न्तै: काश्रौ
१, ३, ५; आपश्रौ २४, २, १;

माश्रौ १, २, २.

मन्त्रा(न्त्र-अ)न्तर- -रे काश्रौसं
३१: ३.

मन्त्रा(न्त्र-अ)न्तर्भू(त>)ता-
-ता: शुअ १, ७.

मन्त्रा(न्त्र-अ)भिवद्- -दात्
द्राष्ट १, ३, ४; ३, १, ९.

मन्त्रा(न्त्र-अ)भ्यास- -स: बौष्ट
२, ८, ८; मीसू ११, ४, ४७.

मन्त्रा(न्त्र-अ)मन्त्र- -न्त्रे बौश्रौ
२०, १६: २४; २१, १: ६×५.

मन्त्रा(न्त्र-आ)ज्ञान- -नात् काश्रौ
६, ३, १८; २०, ७, २.

मन्त्रा(न्त्र-आ)ज्ञाय- -ये कष

३, ६, १.

मन्त्रा(न्त्र-अ)र्थ- -र्थम् शुअ ४,
१५८.

मन्त्रार्थ-चिन्ता(न्ता-अ)
भ्यूह- -ह: -हम् या १३, १२.

मन्त्रार्थ-ज्ञान- -नात् शुअ
४, १५९.

मन्त्रार्थ-नानात्व- -त्वात्
मीसू ११, ४, ४२८.

मन्त्रार्थ-प्रत्यय- -याय या
१, १५.

मन्त्रार्थिन्->^३र्थि-त्व-
-त्वात् मीसू १०, ३, १५.

मन्त्रा(न्त्र-अ)वहत- -तम् काश्रौ
१४, ४, ९.

मन्त्रा(न्त्र-आ)वृत्ति- -त्ति:
काश्रौ ७, ९, ११; ८, ३, २९; ५,
२०.

√मन्त्रि, ण्मन्त्रयते अण ४८,
९; निघ ३, १४; मन्त्रयन्ते

वाधुश्रौ ३, १८: १६; मन्त्रयेत
अण ३७, ४, १; मन्त्रयेरन् माश्रौ
१, ५, ५, १६.

मन्त्रणा->^३णा(शा-अ)र्ह-
(>^३र्ह्यि- पा.) पाग ४, २,
९०.

मन्त्रिन्- पाग ३, १, १३४;
-न्त्रिण: अप १, ३१, ६; ५८^३,

४, ७; ६३, ४, ३; -न्त्रिणम् अण
५, ५, ३; १९, १, १२; -न्त्रिणाम्

अण ५३, ६, २; ७१, १९, ५;
-न्त्रिभि: वाध १६, २०; -न्त्री

वाध १६, २.

मन्त्रै(न्त्र-ए)कदेशा (श-अ)
भ्यास- -स: जैश्रौ २६: १०.

मन्त्रो(न्त्र-उ)क्त, क्ता- -क्त:
अअ ७, ३६; -क्तम् वैताश्रौ ३०,

२७; कौसू; -क्तस्य कौसू २६,
१४; ३६; ३१, २२; -क्ता: कौसू

३९, ५; अअ ३, २४×५;
-क्तान् कौसू १९, २२×५; अअ

१, १×५; -क्तानि वैताश्रौ ११,
१५, कौसू ३४, १४×५; -क्ताम्

वैताश्रौ १, १४; अअ ४, १२×५;
-क्ते वैताश्रौ ५, ७; कौसू ३५, ८;

अअ ६, ४३; -क्तेभ्य: कौसू ७७,
२३; -क्तेषु कौसू ७७, ११;

-क्तै: कौसू ४६, ४२; -क्तौ कौसू
३५, २०; ८०, ४.

मन्त्रोक्त-कर्ममात्र-देवता->
>^३त्य- -त्यम् अअ १९, ६८.

मन्त्रोक्त-काम-देवत- -तम्
अअ १९, ५२.

मन्त्रोक्त-कुष्ठ-देवता->
>^३त्य- -त्यम् अअ १९, ३९.

मन्त्रोक्त-गुल्गुलु-देवताक-
-कम् अअ १९, ३८.

मन्त्रोक्त-गृध्र-देवता->
>^३त्य- -त्यम् अअ ७, १६.

मन्त्रोक्त-तपो-देवता->
>^३त्य- -त्यम् अअ १९, ४१.

मन्त्रोक्त-त्रिषंधि-देवता->
>^३त्य- -त्यम् अअ ११, १०.

मन्त्रोक्त-दन्त-देवता->
>^३त्य- -त्यम् अअ ६, १३९.

मन्त्रोक्त-दर्भमणि-देवता->
>^३त्य- -त्यम् अअ १९, २८.

मन्त्रोक्त-दु:स्वप्ननाशन-
देवता->^३त्य- -त्यम् अअ ७,
२३.

मन्त्रोक्त-देव- -वान् अअ १,
२५; ३, ११×५; -वौ अअ ७, ८.

मन्त्रोक्त-देवता- -ता: अअ
१, १७; ४, ६; ७, १५; -ताभ्याम्

वैताथी ३१, ४^{१३}; -ताम् अत्र
२, २४; ५, ११; ६, ९; १७;
-ते अत्र २, ९.

मन्त्रोक्तदेवता-स्तुति-

-ति: अत्र ६, ५५.

मन्त्रोक्तदेवत्य, त्या-

-त्य: अत्र ११, ३(३); -त्यम्
अत्र ६, ११××; -त्यया अत्र ७,
१२; -त्या अत्र १९, ४; -त्या:
इत्र १०, ५; ११, ३(२)××;
-त्ये अत्र ६, ४०××.

मन्त्रोक्त-देवताक- -कम्

अत्र २, १४; ५, २९.

मन्त्रोक्त-देवपत्नी-देवताक-

-कम् अत्र ७, ४९.

मन्त्रोक्त-दैवत- -तम् अत्र

६, ८९××; -ते अत्र ७, ९९.

मन्त्रोक्त-नक्षत्र-देवता->

°त्य- -त्ये अत्र १९, ८.

मन्त्रोक्त-नानादेवता->

°त्य- -त्ये अत्र ६, ७४.

मन्त्रोक्त पितृ-देवता->

°व(त्य >) त्या- -त्या: अत्र १८,

१.

मन्त्रोक्त-पिप्पली-देवता-

>°य- -त्यम् अत्र ६, १०९.

मन्त्रोक्त-प्राण-देवता->

°त्व- -त्यम् अत्र ११, ४.

मन्त्रोक्त-फालगुणि-देवता-

>°त्य- -त्यम् अत्र १०, ९.

मन्त्रोक्त-बहुदेवता->°त्य,

त्या- -त्यम् अत्र ५, २७××;

-त्या: अत्र १९, १६; २४.

मन्त्रोक्त-ब्रह्मचारि-देवता-

>°त्य- -त्यम् अत्र ११, ५^{१७}.

मन्त्रोक्त-ब्रह्म-देवता->

°व(त्य >) त्या- -त्या: अत्र
१९, ४२^{१८}.

मन्त्रोक्त-मन्यु-देवता->

°त्य- -त्यम् अत्र ६, ४२.

मन्त्रोक्त-मन्युशमन-

देवताक- -कम् अत्र ६, ४३.

मन्त्रोक्त-मरुद्-देवताक-

-कम् अत्र ७, ७७.

मन्त्रोक्त-यक्षमनाशन-

देवता->°त्य- -त्यम् अत्र ६,
९१.

मन्त्रोक्त-रात्रि-देवता->

°व(त्य >) त्या- -त्या: अत्र
१९, ४७.

मन्त्रोक्त-रुद्र-देवता->°व

(त्य >) त्या- -त्या: अत्र १५,
५.

मन्त्रोक्त-रुद्र-दैवत^d- -तम्

अत्र ११, २.

मन्त्रोक्तार्थिदेवता->°त्य-

-त्यम् अत्र ६, ४८.

मन्त्रोक्त-वज्र-देवता->°व

(त्य >) त्या- -त्ये अत्र ६, १३४.

मन्त्रोक्त-वरण-देवता->

°त्य- -त्यम् अत्र १०, ३.

मन्त्रोक्त-वशा-देवता->

°त्य- -त्यम् अत्र १०, १३; १२,
४.

मन्त्रोक्त-वागादि-दैवत-

-तम् अत्र १९, ६०.

मन्त्रोक्त-वृश्चिक-देवताक-

-कम् अत्र ७, ५६.

मन्त्रोक्त-शतौदन-देवता-

>°त्य- -त्यम् अत्र १०, १२.

मन्त्रोक्त-सर्वात्मक-काल-

देवता->°व(त्य >) त्या-

-त्या: अत्र १९, ५३.

मन्त्रोक्त-स्कम्भा(म्भ-अ)

ध्यात्म-देवता->°त्य- -त्यम्

अत्र १०, १०^{१९}.

मन्त्रोक्त-स्वर्गौदनारिन-

देवता->°त्य- -त्यम् अत्र

१२, ३.

मन्त्रोक्ता(क्त-अ)ज-पञ्चौ-

दन-देवता->°त्य- -त्यम्

अत्र ९, ५^१.

मन्त्रोक्ता(क्त-आ)भ्रन-

देवता->°त्य- -त्यम् अत्र १९,

४४.

मन्त्रोक्ता(क्त-आ)रम-देवता-

>°त्य- -त्यम् अत्र ७, २१.

मन्त्रोक्ता-फल^६- -लम् कौस्

३१, २८.

मन्त्रोक्ता(क्त-अ)ब्-देवता-

>°व(त्य >) त्या- -त्या: अत्र

१९, ६९.

मन्त्रोक्ता(क्त-अ)भुदि-देवता-

>°त्य- -त्यम् अत्र ११, ९.

मन्त्रोक्ते(क्त-इ)डा-देवता-

>°त्य- -त्यम् अत्र ७, २७.

मन्त्रोक्ते(क्त-इ)न्द्राग्नि->

°क्त(क्त-ऐ)न्द्राग्नि^७- -तम् अत्र

७, १७.

मन्त्रोक्तौ(क्त-औ)दुम्बर-

मणि-देवता->°त्य- -त्यम्

अत्र १९, ३१.

a) पाठः ? ष्टाम्यः इति श्लोचः (तु. तै ३, ३, ८, ४-६ प्रष्ट., ०.) । b) ष्चारी इति पाठः ? यनि.

श्लोचः । c) ष्वा इति पाठः ? यनि. श्लोचः । d) कस. > कस. । e) ष्मोऽप्या इति पाठः ? यनि. श्लोचः ।

f) कस. > इस. > कस. । षं पञ्चौ इति पाठः ? यनि. श्लोचः । g) पृष. = अकमाची- इति दारिलः । h) साऽत्य-

देवतयि मणि उप. इति ।

मन्त्रोक्तौ(क्त-ओ)षधि-
 देवताक- -कम् अत्र ८,७.
 मन्त्रो(न्त्र-ऊ)न- -नम् बौध्रौ
 २७,४ : ३.
 मन्त्रो(न्त्र-उ)पदेश- -ज्ञाः मीस्
 १२,३,२१; -ज्ञात् काश्रौ छ,
 ३,६.
 मन्त्रो(न्त्र-उ)पनी(त>)ता-
 -ता वाध १७,७२.
 मन्त्रो(न्त्र-उ)पवेशन- -नम्
 वाश्रौ १,१,६,२; ६.
 मन्त्रो(न्त्र-ऊ)ह- -हेण विध
 ७५,७.
 मन्त्रौ(न्त्र-ओषधि>)षधी-
 -ध्यः अप ३, २, २.
 ऋमन्त्र^१- -न्म शाश्रौ १६, २१,
 २७; बौध्रौ; या छ, २५; ६,
 २२६; १०, ४२; -न्मनः आश्रौ
 ५, १०, २८; ७, २, ४; ५, १७;
 शाश्रौ; -न्मना^२ आश्रौ १, ५, ३५;
 माश्रौ; -न्मभिः द्राश्रौ १३, २,
 ८; लाश्रौ; -न्मानि या ८, ६.
 मन्य^३- -न्यात् हिश्रौ ६, ३, १४.
 मन्य-तम- -मात् हिश्रौ ६, ३,
 १४.
 १मन्यस्^४ वैश्र २, २ : ६०.
 मन्यमान- -नः आश्रौ २, १०,
 १०५; बौध्रौ; -ःनाः आश्रौ
 ३, ३, १; ७, ९, २; शाश्रौ.
 मन्यु^५- पाठ ३, २०; -न्यवे
 आश्रौ ६, ४, १०५; शाश्रौ; गोष्ट
 १, ४, १०; कप्र २, ४, १-५;
 -न्युः आश्रौ १८, १७, १२५;

बौध्रौ; अप छ२, २, ११; वाध
 ३, १८; आपष १, २६, १३;
 बौध १, १०, १२; विध ५,
 १९०; हिध १, ७, २४; ६३;
 ६४; ऋअ २, ९, ९७; १०,
 ८३; वृदे १, १२३; २,
 ५३३; साअ १, ५४०;
 या १०, २९; -ःन्युना
 आश्रौ २, १०, १६; आपश्रौ
 १२, २२, ५; माश्रौ १, ६,
 ५, ७; २, ४, १, १५; बौध
 ३, ४, ४; अत्र ७, ९३; -न्युम्
 आपश्रौ २०, २०, ७; आपमं
 २, २२, ३; हिष्ट १, १५, ३; १;
 आपष १, २९, ७; बौध १,
 १०, १२; विध ५, १९०; हिध १,
 ७, ६३; ऋपा ८, ३४; वृद छ,
 १३४; अत्र ५, ३; -ःन्यो
 आश्रौ ९, ७, २; बौध; या १,
 १७; १०, ३०; -ःन्योः आपमं
 २, २२, १; पाष्ट ३, १३, ५; हिष्ट
 १, १५, ३.
 मान्यव^६- -वम् ऋअ २,
 १०, ८३; -वे वृद ७, ११७;
 या १, १७.
 मन्यु-दैवत- -ते अत्र छ, ३१.
 ऋमन्यु-परोस^७- -सस्य आपश्रौ
 ५, २७, १२; माश्रौ ५, १९, १०;
 वाश्रौ १, ५, १, ९; वैश्रौ.
 ऋमन्यु-मत्- -मते बौध्रौ १३,
 १३ : ६; -मन्तः^८ आपश्रौ
 २१, ९, १५; हिश्रौ १६, ४, १३;
 -मन्तम् अप्राय १, ३.

मन्यु-विनाशन- -नम् अत्र ६,
 ८९.
 मन्यु-सूक्त- -क्तम् अत्र छ,
 ३१६; -क्त आश्रौ ९, ८, १९;
 शाश्रौ १४, २२, ५.
 मन्वान- -नः वैश्रौ १२, १८ : ८;
 २० : १३; वृदे ६, ११२.
 १मान^९- -नम् शाश्रौ १५, २७, १५;
 सु २७, ६; वाध २, १२; बौध
 १, २, ५०; माशि ३, ७; -नात्
 माशि १६, १५.
 १मानिन्- -नितः नाशि २,
 ८, २६; -नितम् वाधुश्रौ ३,
 ७६ : १०.
 २मानिन्^१- -निति पावा छ, १, १.
 १मानिन्- -नितोः पा ६, ३,
 ३६.
 मानिन्-ग्रहण- -णम् पावा ६,
 ३, ३५.
 १मान्य,न्या- -न्यः विध ६३, ५१;
 -न्यम् वाध १३, ५६; -न्यानि
 गौध ६, २०; -न्या कप्र ३,
 १, १३; -न्याः शंघ छ३.
 मन्- (>मानायन-) १धर्म-
 टि. द्र.
 १मनन- ✓मन् द्र.
 २मनन^{११}- (>माननायन- पा.) पाव
 छ, १, ११०.
 मनः-शिला^{१२}- -ख्या अप १८,
 ३, १.
 मनःशिला-प्रियङ्गु-त्तरा- -राणि
 अत्र ३५, २, १.
 १मनस्- ✓मन् द्र.

a) वैप १ द्र. । b) पामे, वैप १, १३५५ f द्र. । c) कर्मणि यत् प्र. उत्तं. (पावा ३, १, ९७) ।
 d) <मन्यवे (मा १६, १) वा <मन्युस् (तु. C.) इति वा ? । e) = ऋषि-विशेष- । f) पामे, वैप १, २४४३ d
 द्र. । g) साऽस्यदेवतीयः प्र. । h) सपा. माश्रौ ५, १, १०, ५ मरुवते इति पामे. । i) पामे, वैप १,
 २४४३ m द्र. । j) स्वरमन्यु इति पाठः ? स्वसरे-च यनि. च शोधः (तु. सपा. कौ १, ४५८ आपश्रौ, प्रष्ट) ।
 k) 'न्युः सु' इति पाठः ? यनि. शोधः । l) पा ३, २, ८२; ८३ । m) व्यप. (तु. पासि.) । n) = धातु-विशेष- ।

रमनस् [L, स^३]^३ - (> मानस्य-
मानसायन- पा.) पाग ४, १,
१०५; ११०.

फैमना- ना^० आपश्रौ ४, १०, ४;
१०, २२, ८; बौश्रौ ६, १२:
१७; भाश्रौ ४, १५, ३; १०,
१५, ५; वैश्रौ ६, १२: ८; १२,
१६: १३; माश्रौ २, १, ३, २५;
हिश्रौ ६, ३, २; या ५, ५; -नाये
कौस् १०७, १; २; अप १८^२,
१, ६.

मनाक्^d बौश्रौ ३, २८: ९; ५, ५:
५×५; वैश्रौ ८, १०: ८; आश्रिण्ट
१, ६, ३: ३२; पाग १, १, ३७.

मनाक- पाउभो २, २, १३.

मनाका- पाउवृ ४, १४.

मनायु^b- न्यु: बौश्रौप्र २२: २.

मनिषाण^c हिश्रौ १४, ४, ३८^१.

मनीषा- प्रमृ. √मन् द.

मनु(वप्रा.)^f- पाउ १, १०; पा ४,
१, ३८; पाग ४, १, १८;
१०५; -नव: आपश्रौ १४, १६,
११; हिश्रौ; विघ २०, २४^६;
-फैन्वे आपश्रौ १४, ११, ३^६;
बौश्रौ ६, २४: ३५; ८, १२:
२८^६; हिश्रौ २, १, ६^६××;
हिण्ट १, २, १३^६; -नु^६ ऋअ
३, १४; -नु: आश्रौ ९, ७, २^१;
१०, ७, १^६; शाश्रौ १६, २, १^६;
आपश्रौ; कौण्ट ३, १०, ३५^१; शाण्ट
२, १६, २^१; वैण्ट ३, ४: १२^६;
वाघ १, १७^१; आपघ २, १४,

११^६; बौघ ४, १, १४^१; २, १६^१;
गौघ २१, ७^१; ऋअ^० २, ८, २७;
९, १०१; १०६; वृदे ६, ६८^०;
शुअ ३, २५१^०; या १, ५^१; २,
४^१; १२, १०^०; ३३^१६; ३४^१;
-फैनुना आपश्रौ ३, १, ७; बौश्रौ;
-नुस् काण्ट ४१, ७^१; शंघ
११६: ४०^१; ५६^१; वृदे ७, २^०;
१०७; -नुस् कौस् १०६, ७^१;
-नो: शाश्रौ १०, ११, ८; काश्रौ;
बौण्ट २, ९, १५^०; या ३, ७^६;
-फैनौ आपश्रौ ६, ३०, २०^६;
बौश्रौ ३, १२: २८^६; माश्रौ
६, १८, ७^६; माश्रौ १, ६, ४,
२४^६; वाश्रौ १, ५, ५, ८^६;
हिश्रौ ६, ८, १^६; जण्ट १, २४:
७^६; ऋअ २, ८, ५१××; वृदे
२, १३०^०.

मनाथी- पा ४, १, ३८; पाग
४, १, १८; १०५.

मानाय्य-पा ४, १, १०५.

मानाय्याय(न>)

नी- पा ४, १, १८.

मनावी- पा ४, १, ३८.

मानव^f- ०व आश्रौ १, ३, ५;
शाश्रौ १, ४, १८; आपश्रौ २४,
१०, १२××; बौश्रौप्र; -व: शाश्रौ
१६, ११, २९; आश्रिण्ट; -वस्
शाश्रौ १२, ९, १७; वाघ; -वा:
आश्रिण्ट ३, ८, २: १८; बौण्ट १,
१५: २८; अप ४८, ७८^१; वाघ
१९, ४५; विघ ११, ११; शंघ

५; चव्यू २: ७^१; -वाय द्वाश्रौ
७, ४, ६; ८, २, २; लाश्रौ ३, ४,
१५; ४, ६, २; -बालास् कौस्
१३७, १६^१म; या १२, ३४;
-फैवाय आपश्रौ १७, १३, २;
हिश्रौ १२, ४, ४; -फैवेम्य:
माश्रौ २, ५, ४, २४; हिश्रौ १५,
७, १२; वैताश्रौ १६, १५; -फैवै:
बौश्रौ १०, १०: २; भाण्ट २,
१: १५.

मानवी^f- वी आश्रौ
१, ७, ७^१; शाश्रौ १, १२, ११^१,
आपश्रौ १९, १९, ८; बौश्रौ १३,
१: १०; १७: ७; हिश्रौ २१,
२, ६^१; २२, ३, ७; -वी: बौश्रौ
३, ८: १९^१; -व्य: काश्रौ २४,
२, ८^१; आपश्रौ २४, १०, १८^१;
बौश्रौ २४, २८: ४^१; बौश्रौप्र
५४: ५; ८; हिश्रौ २१, ३, १८;
-व्या: चाश्र ७: १; ४१: १०;
मानव-वत्^० काश्रौसं २९:
२१.

मानवा(व-आ)दि^०- दि:
लाश्रौ १०, ४, १.

मानव्य- पा ४, १, १०५.

मानव्याय(न>)नी- पा
४, १, १८.

मनु-ज- जेषु विघ २०, २५.

मनुजा(ज-अ)धिप- य: ऋअ
७०^२, १७, १.

मनु-जन्तु^०- न्तव: बौश्रौप्र ३१:
८.

a) पाका. पाठ:। b) = ऋषि-विशेष-। c) वैप १, २४४ k द.। d) अस्पाये ऋअ.। व्यु-
वैप १, २४४ ० द.। e) वैप १, ८३९ h द.। f) वैप १ द.। विशेष: टि. द.। g) = प्रजापति-
विशेष-। h) मनुष: (ऋ १०, ११०, १) इत्यस्य प्रतीकम्। i) = स्थिति-अर-। j) = द्वादशसाध्याऽन्यतम-।
अपु २१९, २५ मन: इति। k) पाठ: मशौ इति श्लेष: (तु. वैप १, २४०६ b)। l) = त्रेत्रायस्त्रैवशाखा-
वेद-। m) पामे. वैप १, २४४ g द.। n) = (मनु-दृष्ट-। ऋअ-। सप्र. आपश्रौ २३, ३, ६ मनोर्वेद इति
पामे.। o) पूर. = मानवश्रीतस्त्र-। p) अस्त. पूर. = काम-विशेष-।

†मनु-प्रवल्ह- -व्हः शांश्रौ १०, ११, ८.
 मनु-वत् काश्रौ ३, २, १२; आपश्रौ.
 मनु-वृत- -तः शांश्रौ ७, ९, ३†.
 मनोर-ऋच्- -ऋचः आपश्रौ २३, ३, ६^०.
 मन्व(नु-अ)न्तर^० -रम् शंघ ११६ः ४४; ५६१^०; विघ २०, ११; ४३, २४.
 †मन्वि(नु-इ)द्ध^० -द्धः आश्रौ १, ३, ६; शांश्रौ १, ४, १९; ७, ९, ३; बौश्रौ ३, १८ : २; माश्रौ ५, १, ४, १३; हिश्रौ २१, २, १०.
मनु-ज- प्रभृ. मनु-द्र.
मनुष्य^१ -षाय या ६, २६††^०.
मनुष्य^२ - पा ४, १, १६१; पाग ४, १, ४१; -ष्यः †आपश्रौ ४, १६, ४^०××; बौश्रौ; भाश्रौ ६, ३, ७†^०; हिश्रौ ६, ६, १७†^०; -ष्यम् आपघ १, १६, १४; हिघ १, ५, १३; -ष्यस्य बौप ३, १, २; ४; आपघ १, २१, १५; हिघ; -ष्यस्यऽ-ष्यस्य या ८, ५, १२^३; १०, ८; -ष्या या ३, ११††^०; -ष्याः आश्रौ १, ७, ७†; १०, ७, १; १२, ९, १८; शांश्रौ; या ३, ७†; -०ष्याः आश्रौ ३, ३, १†; -ष्याणाम् शांश्रौ १०, १८, ६†; काश्रौ १, १, ४; २, १, १८†^०; ६, ४, ३†; †आपश्रौ १, १३, ४; ३, १८, ४××; काठश्रौ; †बौश्रौ ३, २३; २१^०; भाश्रौ ३, १४, २†^०; माश्रौ ५, २, १५, २†^०;

वाश्रौ १, १, ५, २†^०; हिश्रौ २, ८, १†^०; -ष्यान् शांश्रौ ३, २०, ४†××; आपश्रौ; -ष्याय या ६, २६; -ष्ये काग ४१, १८†; पा ४, २, १२९; ५, ३, ९८; पावा ५, ३, ९८, -ष्येभ्यः शांश्रौ १, ४, ५××; आपश्रौ; -†ष्येषु आश्रौ १, ३, २३; ६, ३, २२; शांश्रौ; -ष्यैः आपश्रौ २४, ५, ३†; हिश्रौ २१, ३, ३†; आपघ १, १७, ५; २०, १५; हिघ.
 मनुषी- पा ४, १, ४१; पावा ४, १, ६३^०.
 †मनुष्य^१ -ष्यम् आमिगृ २, ६, ७ : ३; -ष्याः वाघ २, ३९; -ष्यान् अप १, ६, ७; -ष्ये कप्र ३, ३, ५.
 मनुष्यक- पा ४, २, ३९.
 मनुष्य-कक्ष^१ -क्षः या २, २, ६, १०.
 †मनुष्य-किल्बिष- -पात् आपश्रौ ७, २१, ६; बौश्रौ ४, ७ : २६; भाश्रौ ७, १६, १३; हिश्रौ ४, ४, ४४.
 †मनुष्य-कृत- -तस्य आश्रौ ६, १२, ३; शांश्रौ.
 मनुष्य-ना(व >)वी^१ -वीः आपश्रौ ४, १०, ४; भाश्रौ ४, १५, ३; वैश्रौ ६, १२ : ८; हिश्रौ ६, ३, २.
 †मनुष्य-ज, जा^१ -जः काग २५, २२^०; -जा^१ आमिगृ १, १, ४ : ३८; हिगृ १, ८, ४; जैगृ १, १२; ४२.
 मनुष्य-जा- -जा^० आपमं १, ३, १;

पागृ १, ४, १६; आमिगृ.
 मनुष्य-जात- -तस्य गौघ ८, २; -तानि या १०, २९; ३१.
 मनुष्य-जाति- -तेः पा ४, १, ६५;
 मनुष्य-जार- -रः या ३, १६.
 मनुष्य-तत्स्थ- -तस्थयोः पा ४, २, १३४; पावा ४, २, १००; १३०;
 मनुष्य-तसः(ः) वाधुश्रौ २, ८ : ४; वाश्रौ १, ३, ७, २०†.
 मनुष्य ता- -ताम् कप्र २, १०, ११-
 †मनुष्य-तीर्थो(र्थ-उ)च्च^१ -च्च याशि १, ५३.
 मनुष्य-धर्म- -र्मः मीसू ३, ४, १; ६, ७, २६; ३३.
 मनुष्य-धृत्- -०धृतः या १२, ४०.
 मनुष्य-नामन्- -म या ३, १५; ४, २; १०, २२; -मानि निघ २, ३; या ३, ७; -म्नः पा ५, ३, ७८.
 मनुष्य-पूर्ण-पिटक- -कस्य अप १, ३२, २.
 मनुष्य-प्रकृति^१ -तीनाम् आंघ १, ११, ३.
 मनुष्य-मिथुन- -नौ या ७, २९.
 मनुष्य-मृग-हृस्व(स्ति-अ)श्व-वृक्षा- (क्ष-अ)इम-पथ-वेरमन्- -इमसु अप ५८^३, १, १०.
 मनुष्य-यज्ञ^१ -ज्ञः आगृ ३, १, २; ३; बौगृ २, ९, ६; भागृ ३, १५ : ९; वैगृ १, १ : ६; ६, १७ : १; ८; बौघ २, ६, १; -ज्ञम् बौघ २, ६, ५†; -ज्ञाय वैगृ ३, ७ : ७; -ज्ञे वैघ २, १२, १; -†ज्ञेन आमिगृ २, ६, ५ : १७; बौगृ २, ९, १५;

a) पामे. पृ १९२९ ० द्र.। b) = कालपरिमाणविशेष-। c) पाठः ?। अणु २१९, २५ अनुमन्तारम् इति। d) वैप १ द्र.। e) पामे. वैप १, २४४६ १ द्र.। f) वैप १, २४४६ ८ द्र.। g) पामे. वैप १, २४४७ ० द्र.। h) पागम. Kielhorn-०थी-इति। i) इदमादयर्थे अणु प्र.। j) उप. = शरीरावयव-† k) = मन्त्र-विशेष- (सु. छद्मत्तः)। l) उप. < > जम्। m) सपा. ञः < > जाः इति पामे.। n) पामे. वैप १, २४५० १ द्र.। o) ष्यम् > [आर्षसंघिना] यनि.। p) वस.। q) = पद्ममहायज्ञाऽन्यतम-।

भाग ३, १५: २६.
 मनुष्य-यशस- -सेन ऋषी १४,
 ५: १; ६.
 मनुष्ययशसिन्- -सी ऋषी १४,
 ५: २; ७.
 मनुष्य-रथ- -थेन वायु ३, १४: १.
 मनुष्य-राजन्- -जाम् निसू ७, ५:
 ३६.
 मनुष्य-लोक- -कम् बौध १७,
 ५०: १८; २९, १३: ७; -के
 आप २३, ११, १४; आण्ड ४,
 ४, ४.
 मनुष्यलोक- -कम् अप्राय
 ३, ८.
 मनुष्यलोक-काम- -मः आप १
 १०, ५, ५; -मस्य आप १
 १४, ६, १०; बौध १७, १२:
 ७; हिश्रौ ७, १, २९; ९, ८, १७.
 मनुष्य-वत् अप ६४, ५, १०; ६, ३;
 या १, २; ८, १३.
 मनुष्य-शिरस- -रसः आप १,
 १७, ३९; हिष १, ५, ७०.
 मनुष्य-भुक्त- -क्तानि आप १,
 १७; बौध १, ३, ७.
 मनुष्य-संभुक्त- -कम् बौध १, ६, १५
 मनुष्य-साक्ष्य- -क्ष्ये निसू ८, २१
 मनुष्य-स्तुति- -तिम् गोय ३, ५,
 २६.
 मनुष्य-स्त्री-कूप-क्षेत्र-वापी-
 -पीनाम् विघ ५२, ६.
 मनुष्य-स्थ- -स्थे पावा ४, २,
 १००.
 मनुष्य-हित- -तः या १४, ३६.

मनुष्या(ष्य-अ)धम- -माय कौस्
 ६३, २.
 ✓मनुष्य मनुस्- द.
 मनुष्य-कक्ष- प्रष्ट. मनुष्य- द.
 मनुष्यत्- -प्यत् अप्रा ३, ४, १;
 शौच ४, ६५.
 मनुष्यतत्स्थ- प्रष्ट. मनुष्य- द.
 मनुष्यत् मनुस्- द.
 मनुष्यत्- -प्यत् या ८, १३७.
 मनुस्- -नुषः आश्रौ ३, ७, ५; ८,
 १, ९; ९, ५, १६; शांश्रौ ५, १६,
 ६; १८, २३, ११; आपमं १, ६,
 १२; काय २६, १२; या ३, ७;
 ८, ५; १२.
 मनुष- पाग ५, १, १२४;
 -ऋषि माश्रौ ५, १, ४, १२; या
 १४, ३६; -ऋषिः आश्रौ १, ३,
 २३; ऋषिः १, ६, १४; १४,
 ६, ९; काश्रौ; माश्रौ १, ८,
 ३, ६; वाश्रौ १, ६, ४, १५; १५,
 १५, ३, ६; लाश्रौ २, ४, ६; ४,
 ९, १६; ५, ११, ६; वाघ १,
 २९; ३५; विघ १०, ११; ११,
 १२; १२, ८; १३, ७; अप्रा ३,
 १२९; -षम् आश्रौ ९, ३, १२;
 शांश्रौ; -षस्य हिश्रौ १०, १,
 १८; बौध ८: ८; ऋप्रा ८,
 ४७; -षाः आश्रौ १, ९, ५; ५;
 शांश्रौ; -षाणाम् कौस् १०६, ७; ७;
 अप ७०, ११, १४; -षाणि
 बौध १७, ३९: २४; आमि १,
 ३, २: ५; अप ७०, १२, २६;

बौध १, ३, ८; -षात् शाश्रौ
 २, १४, २; १५, ५; आश्रौ;
 -षात् आप ७, १३, ८; ८;
 बौध ४, ५: १८; माश्रौ ७, १०,
 ८; वैश्रौ १०, १०: ११; ११;
 हिश्रौ ४, ३, १९; द्राश्रौ; या
 १२, २४; -षे आश्रौ ६, ४,
 १०; शांश्रौ ९, ११, १; १;
 काश्रौ; -षेण आश्रौ ९, ३, १२;
 शांश्रौ १५, २७, १; बौध;
 -षेभ्यः आप ३, ७, १०;
 ५, १४, ५; काश्रौ; -षेषु
 वाश्रौ १, ३, १, ३; अप ५०,
 ९, ६; -षेः अप ७०, २३, १०;
 -षौ बौध ७, ९: ५; माश्रौ
 २, ३, ६, १७.
 मनुषी- -षी आपमं
 २, ४, ६; माण्ड १, २२, ११; वायु
 ५, ३०; गोय; -षीः आश्रौ
 ३, १३, १२; शांश्रौ; आपमं २,
 १७, २६; आण्ड १, १४, ७;
 पाण्ड १, १५, ८; हिण्ड २, १६, ८;
 -षीणाम् बौध ९, ८: १९; १९;
 अप ७०, ११, २६; -षीभ्यः
 शांश्रौ ८, २२, १; बौध; -षीम्
 आप १०, १२, ९; २३, १४,
 २; माश्रौ; -षीषु आप ४,
 ५, ३; माश्रौ ४, ६, ६; हिश्रौ
 ६, २, १; -ष्याम् कौस् २३, ९८
 मनुष-पञ्च-विश्विन्-
 -विणः शंघ २०१.
 मनुषा(ष-अ)मनुष-
 प्रभव- -वाः अप ७२, ३, ८.

a) = मत्स्य-विक्षेप-। बस.। b) वैप १, २४४८ p द्र.। c) वैप १ द्र.। d) पामे. वैप १, २४३७।
 द्र.। e) वैप १ निर्दिष्टानां समावेशः द्र.। f) पामे. वैप १, २४४७.० द्र.। g) पामे. वैप १, २४४९ g द्र.।
 h) षाः इति पाठः? इति. शौचः (द्र. पामे.)। i) पामे. वैप १, २४४९ ० द्र.। j) पामे. वैप १, २४५० f
 द्र.। k) = सपा. आण्ड २, ३, ३। कौय ४, ४, ९ शंघ ४, १८, १ पाण्ड २, १४, ४ याण्ड २, ७, १ तु वस्तुभिः इति
 पामे.। l) पामे. ५ १८२२ ० द्र.।

मानुषा(ष-अ)स्थि-स्थि वाच २३, २४.
 रमानुष्य- पा ५, १, १२४;
 -ष्यम् विध ५८, ४,
 ✓मनुष्य^१, मनुष्यति अप ४८, १९१.
 मनुष्वत्^२ काश्रौ ३, २, ७; आपश्रौ;
 पावा १, ४, १८.
मनो-गत- प्रभृ. ✓मन् द्र.
मनोता^३- -ता आश्रौ ३, ४, ७; ४,
 १२, २१; शाश्रौ; -ता: बौश्रौ
 १०, ५९ : ५; ११, १३ : ७×४;
 -ताम् आश्रौ ३, ४, ६; बौश्रौ
 १९, ५ : १०; -ताया: आपश्रौ
 १९, १३, १५; काश्रौ ६५; बौश्रौ
 १९, ५:१०; हिश्रौ २३, २, ४७;
 -तायाम् मीस् १०, ४, ४१;
 -तायै आश्रौ ३, ६, ११; शाश्रौ;
 -ते बौश्रौ १२, १६:१९; १८:२२
मनोता-काल- -ले आपश्रौ १९,
 १, ३; हिश्रौ २३, १, ४४.
मनोता-त्व- -त्वम् वाधूश्रौ ४, ६७ :
 ११.
मनोता(ता-आ)दि- -दि आश्रौ ५,
 १७, ४; शाश्रौ ८, १, ९.
मनोतादि-पशु- -श्रुता शाश्रौ
 १४, १०, २१.
मनोता-प्रभृति^४ - -तिना बौश्रौ ८,
 १२:१; १७, २२:११; २५, २३ :
 ४; -तिभि: बौश्रौ १७, ३७ : ५.
मनोता-वसा-होम- -सौ काश्रौ ८,
 ८, ३६.
मनोता-सूक्त- -कम् शाश्रौ ५,
 १९, १३; माश्रौ ५, २, ८, २.

मनोत्^५- -ता शाश्रौ ५, १९, १३१;
 वाधूश्रौ ४, ५ : १७.
मनो-दुष्ट- प्रभृ. ✓मन् द्र.
मनोमापायनसहपरिसुखिद्योज-
सहान्तौ अप १, ७, १.
मनो रम- प्रभृ. ✓मन् द्र.
मनोर्कृच्- मनु-द्र.
मन्तवै प्रभृ., १मन्तु ✓मन् द्र.
रमन्तु^६- [>मान्तव्य- (>मान्त-
 व्यान >] नी- पा. यक्र.]
 पाग ४, १, १०५; १८.
मन्तु- मन्त्र- प्रभृ. ✓मन् द्र.
मन्त्रित^७- पाग ४, १, १०५; २,
 १११; -ता: बौश्रौ ११: १७.
 मान्त्रित्य- पा ४, १, १०५.
 मान्त्रित- पा ४, २, १११.
मन्त्रिन्- प्रभृ. ✓मन् द्र.
 ✓मन्थ्, मन्थ- प्रभृ. ✓मथ् द्र.
मन्थर- (>शी- पा.) पाउभो २,
 ३, ३८; पाग ४, १, ४१.
मन्थाकक^८- -क: आपमं २, १६, ८१;
मन्थान- प्रभृ. ✓मथ् द्र.
 ✓मन्द् ✓मद् द्र.
मन्दर- पाउभो २, ३, ३८.
रमन्दर- (>र-कथ-) मडर- टि. द्र.
मन्दाक- पाउवृ ४, १३.
 ✓मन्दाय ✓मन्द् द्र.
मन्दार- (>मान्दार्य- पा.) पाउवृ
 ३, १३४; पाग ४, २, ८०.
मन्दार- पाउवृ ३, १३४.
मन्दिन्- ✓मद् द्र.
मन्दिर- पाउ १, ५१; -रम् अप ३६,
 २९, ११.

मन्दिष्ट- ✓मद् द्र.
मन्दिर^९- -रस्य काश्रौ १३, ३, २६१^{११}.
मन्दु- मन्द्र- प्रभृ. ✓मद् द्र.
मन्दित्र^{१०}- (>मान्द्रित्य- >त-)]
मन्धातक^{११}- > मान्धातकि-
 (>मान्धातकायन- पा.) पाग
 २, ४, ६१.
मन्धात^{१२}- -ता आपश्रौ २४, १३, ३;
 अप ४८, ८५; निघ ३, १५;
 -तारम् आश्रौ १२, १२, ४^१.
 मान्धात्र- -०त्र आश्रौ १२, १२, ४;
 आपश्रौ २४, ७, १२; ८, १.
मन्धुक^{१३}->मान्धुक- -क: आपश्रौ
 १७, १४, ८; -कम् बौश्रौ १४,
 १८ : २; ३.
मन्मथ- पाग ६, ३, १०८^{१२}.
मन्मन्- ✓मन् द्र.
मन्मत- पाउभो २, २, १९२.
मन्य- ?मन्यम्, मन्यमान- ✓मन् द्र.
मन्या^{१४}- पाउभो २, ३, १; -न्या याशि
 २, ७२^{१०}; नाशि २, २, ३.
मन्यु- मन्यु-दैवत- प्रभृ. ✓मन् द्र.
मन्वन्तर- मनु-द्र.
मन्वान- ✓मन् द्र.
मन्विद्ध- मनु-द्र.
म-पूर्व- म-द्र.
 ✓मध् पाधा. भ्वा. पर. गतौ.
मम, मम-क- अस्मद्- द्र.
मममध्यमे अप्राय ४, ३.
ममापताल- पाउ ५, ५०.
 ✓मय पाधा. भ्वा. आत्म. गतौ.
मय^{१५}->मय-खर-सूकर-वानरा(र-अ)
 घिरूढ- -ढ: अप ६८, ४, ३.

a) घा. हिंसायां वृत्तिः । b) वैप १ द्र. । c) =देवी, (मनोवृ- [ऋ ६, १, १] शब्द-वर्ती-) ऋन्, आहुति-? । d) वस. । e) वैप १, २४५१ ० द्र. । f) =ऋषि-विशेष- । g) =मन्दित्रत- इति पायम- । h) बहु. <मान्त्रित्य- । i) पाभे. पृ १९०३ d द्र. । j) नाप. । k) पाभे. पृ १८९९ g द्र. । l) सख. आपश्रौ २४, ७, १२ मन्धातारम् इति पाभे. । m) वैप १, २२६३ h, i, j द्र. । n) तु. पायम- । o) अनुनासिकसंज्ञाविशेष- । मन्धा- इति सूक्ते. (तु. संस्कृतः टि. 12, ७३।)

मयट- पाठवृ ४, ८१.

†मयन्त^१- न्तम् माशौ ६, २, १, ६^१.

मयम् शंघ ११६: ५७.

†मयस्(वप्रा.)^१- -यः आशौ ३, ८, १;
४, १२, २^१; शाशौ ७, १८,
१-५^१××; आपशौ १४, ११.
२××; हिशौ १०, ६, १××;
आपमं.

मयस्-कृत^१- -कृतः बौशौ १५,
१३: १४; १४: १०.

†मयो-भव^१- -वाय^१ आपशौ १०,
२२, १२^१; काग २५, ४२; जैग
१, २१: २९.

†मयो-भु^१- -भु कौसू ११७, ४^१;
या १०, ३५; शैशि ५५; -भुः
हिशौ १२, ६, ६^१; -†भून्,
-भूनि या १४, २५.

मयो-भुव^१- -†व^१ आपशौ ५,
१३, ८; वैशौ १, १२: १०;
हिशौ ३, ४, २२^१᳚.

†मयो-भू^१- -भुवः आशौ २, ९,
९××; आपशौ; वैशौ १६, १९:
२^१; आग २, १०, ६^१; शुअ २,
२२^१; या ९, २७^१; -भुवा आशौ
१, ९, १; शाशौ १, १४, ५;
बौशौ ५, ८: ७; अग्राय ६, १;
-भूः आशौ २, ९, १०^१; ३, ७,

६; ४, ७, ४; शाशौ; माशौ १,
६, ४, २५^१; वाशौ १, ५, ५,
८^१; कौग ३, ५, १^१; शांग ३, ८,
३^१; पाग ३, १, ४^१; जैग १,
२४: ५^१; अअ ५, १७^१᳚.

†मायोभव^१- -वाय^१ आपमं १
३, १०; पाग १, ८, १; आगिग
१, ५, ४: ४३; बौग १, १, २८;
भाग १, १७: ३; वाग १४, २३;
हिग १, २१, १.

†मायोभव्य^१- -व्याय^१ आग
१, ७, १९; कौग १, ८, २८.

†मयि^१ आशौ १, १२, ३६; माशौ ३,
१, २७.

†मयु^१- पाठ १, ७; -युः बौशौ १५,
२३: १४; -युम् बौशौ १०,
३४: २.

मयूख (, ष^१)^१- पाठ ५, २५;
-खः^१ पाग २, ६, १०^१; -†खा:
अप ४८, ११२^१; अअ १०, १०;
अपं ३: १८; निघ १, ५^१;
-खान् आपशौ १५, ५, ११××;
बौशौ; -खे आशौ ९, ९, ८;
काशौ २६, ५, ८; काशौसं ३५:
१२; १३; १४; कौसू ४०, १६;
-खैः बौशौ ६, २४: ३६^१; -खौ
हिशौ २४, ६, १२.

मयूत- पाठमो २, २, १४८.

१मयूर^१- पाठ १, ६७; पाग ६, ३,
१०८^१; -राः लाशौ ८, १२, ६; सु
२८, १; माशि १, ९; नाशि १, ५,
३; -रम् शंघ २२३; -रस्य
अप ७०^१, ३, ४; -राः अप २०,
२, ३; ७१, ३, २; -राणाम्
वेज्यो ४; -रे बौशौ २, ५: २२.
मयूर-कर्ण^१- पाग २, ४, ६९; ४, १,
११२.

मायूरकर्म- पा ४, १, ११२.

मयूर-कोकिला(ल-आ)दि-दीनाम्
अप ६४, ४, ६.

मयूर-गल-> ल-शकूले(कू-इ)न्दु-
मुक्ता-गोक्षीर-पाण्डुर^१- -राः
अप ६३, ४, ७.

मयूर-चक्रवाका(क-आ)दि->
दि-इंसकारणवादि- -दिभिः
अप २१, ४, २.

मयूर-पुच्छा(च्छ-अ)नुग(त>)वा-
-ता अप ५८^१, ४, ८.

मयूर-रोमन्- -मभिः भाग २, २८:
८^१.

मयूर-न्यंसक-^१क-प्रिय^१- पाग २,
१, ७२.

मयूर-हंसा(स-आ)दि-सृदु-
स्वर^१- -राणाम् माशि ४, ६.

a) वैप १ द्र.। b) पामि. वैप १, २४५३ h द्र.। c) पामि. वैप १, २४५३ k द्र.। d) पामि.
वैप १, २४५३ m द्र.। e) नाप. (चर्म-कार-)। पूष. = चर्मन्-। f) उस. उप. भावे प्र.। g) पामि.
वैप २, ३खं. मायोभववाय तैत्रा ३, ७, ७, ११ टि. द्र.। h) मायो^१ इति C. शोचः। i) पामि. वैप १, २४५३ u
द्र.। j) पामि. वैप १, २४५४ b द्र.। k) विप.। उस. उप. √भू+कः प्र. उंसं. (पावा ३, २, ५)।
l) पामि. वैप १, २४५४ c द्र.। m) चः इति पाठः? बनि. शोचः (तु. आपशौ.)। n) भवः इति पाठः?
बनि. शोचः (तु. पूर्वोत्तरस्थलम्)। o) पामि. वैप १, २४५४ h द्र.। p) = ऋषि-विशेष-। q) पामि. वैप १,
२४४४ a द्र.। r) वैप २, ३खं. द्र.। s) च्चर् प्र.। t) पाठः? महि इति शोचः (तु. पृ १९०८ d)।
४) पाग. काशौसं ३५: १२; १३ पाठः। v) नाप. (अभि-मेद- [वैतु. जयरामः < मधु- + √सो इति]।
५) पामि. वैप २, ३खं मरुकः मंत्रा १, ७, १ टि. द्र.। x) = रस्मि-। y) वैतु. पाका. < २मही- + √र।
६) द्र. > उपमानसमाहः (पा २, १, ५५)। z^१) भोजः इति पागम.। b^१) द्र. > वस. >
वस. > वस.।

मयूरा(र-अ)हाल(१)-> षाड्हाल-
पद्मे(अ-इ)न्दु-काश-नील-
निभ- -भानि अत्र ६१, १, १२.
मयूरा, र्थ(र, री-अ[वावाग.])ण्ड-
पावा ६, ३, ४१.

२मयूर^१- -रा: बौश्रौ ३१: ७.

मयोभु- प्रसृ. मयस्- द्र.

मर्- √सृ द्र.

१मर- म- द्र.

२, ३मर-, मरक- √सृ द्र

मरकत^०- > ०त-त्विष्- त्विषा
जैश्रौका १.

मरण-, मरत- √सृ द्र.

मराय^१- -य: बौश्रौ १८, ४८: १९.

मराय-कृत^०- -न्तम् बौश्रौ १८, ४८:
१९, २३, १८: ३९, २६, ३३: १६.

†मरायु^१- -यु या १३, ५.

मराल- पाठभो २, ३, १००.

मरिच- पाठभो २, २, ७७.

मरिष्यत्- √सृ द्र.

मरीचि, ची^१- पाठ ४, ७०; पाग ४,
१, ९६; -†चय: आप्रिगृ १, ५,
२: ३९; वैगृ १, १८: २; अप
४८, ११२; -चि: वृदे ५, १४३;
अत्र ७, ६३; -चिम् अप ४३,
३, १९; माशि ४५; -†ची:
काश्रौ १५, ४, ३८६; आप्र २,
४, १४; पागृ ३, ३, ६; मागृ २,
८, ६; -चोनाम् हिश्रौ १४, ४,
३८; -चे: अप ५२, १६, २;
-च्य: सु ८, ३.

मारीच- -च: ऋत्र २, ८, २९;
वृदे ५, १४३; सात्र.

मारीचि- पा ४, १, ९६.

मरीचि-कश्यप- -पौ शंघ ११६: ४३.

†मरीचि-प^१- -पा: निघ १, ५;

-पेभ्य: आपश्रौ १२, ११, १;

बौश्रौ ७, ५: ४५; ६: ३१;

माश्रौ २, ३, ३, १९; वैश्रौ १५,

१२: ९; हिश्रौ ८, ३, २२.

मरीच्या(चि-२आ)घ- -घा: कप्र
१, १०, ८.

मरीमृश- √सृ द्र.

मरु^१- पाठ १, ७; पाग २, ४, ३१;

-रु: कप्र ३, १०, १५.

मरु-पिशाच- -च: शंघ ३७७: १९.

मरुच्छब्द- मरुत्- द्र.

मरुत्^१- पाठ १, ९४; पाग ४, २,

८६; ५, ३, ६१^१; ३, ११७^१; ४,

३८; ८, २, ९; -†रुत् अप ४८,

७९^१; ९१^१; निघ १, २^१; ३, ७^१;

-रुत: आश्रौ २, ११, १५××;

शाश्रौ; सु २२, ३; २६, १, २;

काय ५, १०; ७, २; अप १, ४,

१^१; ४८, ९६^१; शंघ ११६:

५५; ४०२, गौघ २५, २; अत्र

२०, १३७^१; †निघ ३, १८^१;

या ३, १५; ४, १५^१; ५, ५^१;

६, १६^१; ७, २३; २४^१; ९,

३^१; २६; ११, १३^१; १४, ३४;

-†रुत: आश्रौ २, ११, १४××;

शाश्रौ; -†रुताम् आश्रौ ६, ७,

२; शाश्रौ; निघ १, १५;

-०रुताम् आश्रौ ३, ८, १^१;-रुते

चात्र ४१: १३^१;-रुत्सु वृदे

५, ७२; १०३; या ११, ५०^१;

-†रुद्धि: आश्रौ २, ११,

१२^१××; शाश्रौ; -रुद्भ्य:

आश्रौ २, १८, ३××; शाश्रौ.

मास्त^०- पा ५, २, ६१; ३,

११७; ४, ३८; पावा ५, ४,

३६; -त: शाश्रौ १४, ७, ४;

काश्रौ; सु ४, २; पाशि ७, ९;

-तम् आश्रौ २, १८, १६^१;

शाश्रौ; लाश्रौ ७, १, १^१; निस्

९, ११: २७^१; अप ४१,

५, ७; पाशि ६; -तस्य आश्रौ

८, ४, १२; शाश्रौ; चात्र २:

१७^१; -ता: शाश्रौ १६, ९,

२९; आपश्रौ; -०ता: बौश्रौ

११, १०: २^१;-तात् आश्रौ

९, १०, १६; बौश्रौ ५, २: १८;

३: ११; २४, १०: १२;-तान्

काश्रौ १८, ४, २३; २०, ८, ३०××;

आपश्रौ;-तानाम् कौसू ३०, १२;

-तानि कौसू २६, २४; वृदे ३,

१२१; ५, ३७; ६, ३; -ताय आश्रौ

२, ११, १४; बौश्रौ ५, १: २१;

-ते आश्रौ ८, ८, ५; लाश्रौ ७,

१, ११^१; कौसू; -तेन शाश्रौ

१३, १२, ३; काश्रौ २५, १२,

१६; आपश्रौ; कौसू ४०, ७^१;

बौघ १, ५, ५४; विघ २३, ४१;

-†तेभ्य: माश्रौ १, ८, ६, २२;

अप ४३, १, १८; -ते: आपश्रौ

१७, १६, १७; बौश्रौ १०, ५२:

३२; माश्रौ; कौसू ४०, ७; -तौ

काश्रौ १८, ४, १७.

मारुती- -ती शाश्रौ ३, १४,

a) तु. पागम. । b) = ऋषि-विशेष- । c) = मणि- । d) = एकाह-विशेष-, ज्यायो-राशि- (तु. पृ १३४५ j) । e) विप. (धान्यराशि-) । f) वैप १ द्र. । g) = निर्जल-प्रदेश- । h) मरुत्व- इति पाका. । i) = आसुषजीविसंघविशेष- (तु. वागभा.) । j) = रूप- । k) = सुवर्ष- । l) = मृगशिरनक्षत्र-देवता- । m) = ऋषिज्- । n) पाठः? मारुत् इति शेषः (तु. सा [ऋ ८, ९६, १४] । o) वैप १ निर्दिष्टानां समवेक्ष- । p) = साम-विशेष- ।

४; १५, १४, १३; काश्रौ ५, ४, २१;
१५, ९, १४; आपश्रौ; ऋञ् २,
१, १५; १३९; वृदे ४, ९; ५,
३८; शुञ्च १, २१२; २१३; साञ्च
१, १३५; १४८; अञ्च १, २०१^१;
१३, १; -तीः बौश्रौ १८, ११:
३; २३, १८: १२; -तीभिः
आश्रौ १०, २, २९; -तीभ्याम्
बौश्रौ २३, ३: ४; -तीम् आश्रौ
२, ११, १५; काश्रौ; -ह्यः
आपश्रौ २२, २०, १८; हिश्रौ;
अञ्च २०, ७०^१; -त्या आश्रौ २,
११, १५; आपश्रौ १८, २१,
१४; बौश्रौ; -त्याः काश्रौ ५,
५, २२; आपश्रौ: मीस् ११,
२, ३७^१; -त्याम् काश्रौ ५,
५, ३; आपश्रौ ८, ६, १२;
१७; भाश्रौ; -त्यै बौश्रौ ५, ८:
२९××; भाश्रौ; -त्यौ वृदे ५,
११७; साञ्च १, २५७; २५८;
४०४; ४४४; ४४५.

मारुती-वर्जम् काठश्रौ
३१; वाश्रौ १, ७, २, १५.

मारुती-सप्तम^८-
-मानि काश्रौसं २९: २.

मारुत्या(ती-आ)
श्रावण-प्रभृति- -ति बौश्रौ २२,
२१: ८.

मारुत्-गण- -णः साञ्च २,
१९७.

मारुत्-पर्जन्य- -न्यान् अञ्च
४, १५.

मारुत्-पर्यङ्क- -ङ्काः अप
६५, १, ८.

मारुत्-प्रक्षोप- -पः अप
७२, ३, ६.

मारुत्-प्रतिलोम-(ग>)

गा^१- -गाः अप ५८^१, ४, १७.

मारुत्-वारुण- -णौ आश्रौ
९, २, १०.

मारुत्-वेग-नुङ्ग- -ङ्गानि
अप ६८, १, ४५.

मारुत्-श्रुत^८- -तम् कौस्
४०, ७.

मारुत्वा(त-अ)शन- -नः वाप
२७, १७; बौध ४, ५, ३०.

मारुत्वै(त-ऐ)न्द्र- -न्द्रः
वृदे ४, ४४.

मारुत्^१- -तिः ऋञ्च २, ८, ९६.

मरुत्-छ(< श)ब्द- -ब्दस्य पावा
१, ४, ५९.

मरुतां(त्रात्यस्तोम-)^१ शंश्रौ १४,
७०, १; ७२, १.

मरुतांसंस्तोम^१- -भम् लाश्रौ ६,
४, ८; निसू ६, ११: ३५.

मरुतांस्तोम^१- -मेन आपश्रौ २२,
१३, ४; हिश्रौ १७, ५, २७.

मरुतांधेनु^१- -नु लाश्रौ ७, १, १.

मरुतां(प्रयति-)^१ आपश्रौ २२, ५,
१७; हिश्रौ १७, २, ४५.

मरुतांभूति- -तौ द्राश्रौ २, २,
३३^१.

मरुत्-न्त- पावा ५, २, १२२.

मरुत्-पति- -तिः वृदे ६, ११३;
-०ते विघ ९८, २७.

मरुत्-पर्जन्य-देवता-> -प्य-
-त्यम् अञ्च ४, १५.

मरुत्-मत्- पा ४, २, ८६; ८, २, ९.

मरुत्-वत्^१- पाग ५, २, ६१^१:

-^१०वः आश्रौ ५, १४, २; ८,

१, १४××; शांश्रौ; या १०,

३०^१; -वत् निसू २, ११:

१६; -वतः चाञ्च ३०: ७;

-वत्वा ङौश्रौ ८, ७: १२; १९;

-वते ङौश्रौ ७, १५, १६; १९,

१^१; काश्रौ; माश्रौ ५, १, १०,

५^१; -^१वन्तम् आश्रौ ५, १४,

२; शांश्रौ; -वान् ङौश्रौ २, ११,

८; ११^१; ७, ११, २५; ८, ८,

२; १२, १७; ९, ७, ३१; शांश्रौ

या ४, ८^१.

मरुत्वती- -ती निसू ६,

२: २८; -तीः आपश्रौ १४,

१९, ५; बौश्रौ १४, ४: २९;

वैश्रौ २१, ५: १०; हिश्रौ १५,

५, १९; -तीषु काश्रौ २५, १३,

२^१; माश्रौ ३, ७, १०; शुस् १,

१०: २; -त्यः निसू २, ११:

१४.

मारुत्वत्- पा ५, २, ६१.

मरुत्वतीय, या^१- पा ४, २, ३२;

-यः आश्रौ ५, १४, १८;

-यम् आश्रौ ५, १४, २××;

शांश्रौ; -ययोः बौश्रौ २१, २१:

३; २२: ५; हिश्रौ ८, ६, ५;

१०, ४, ७७; शुञ्च ३, १६८;

-यस्य आश्रौ ५, १४, ४; ७, ६,

४××; शांश्रौ; -याः ऋञ्च २, १,

१७१; -यात् शांश्रौ ८, १४, ४;

११, १०, ७; वैताश्रौ २७, ४;

३६, ५; -यानाम् आश्रौ ७, ३,

६; आपश्रौ २२, २७, ९; बौश्रौ;

a) ऋत्: इति पाठः! यनि. शोषः। b) तु. जीवं.। c) वस.। d) वस. > उस.। e) कस.

उप. नाप. (तु. सा। भू. श्रौ ३, १३।)। f) = ऋषि-विशेष-। g) = कतु-विशेष-। h) = एकाह-विशेष-।

i) = यम्-विशेष-। j) = साम-विशेष-!। पृ १८७१ सख. भूति-> -तौ इति नेष्टम्। k) वैप १ द.।

l) तु ११३५ ह. द.। m) फामे. वैप १, २४६० b. द.। n) फामे. पृ १९२८ h. द.।

-याभ्याम् आपश्रौ १३, ८, १;
-याम् आश्रौ ५, १४, २०;
-याय बौश्रौ ८, ४: ३०; वैश्रौ
१६, ८: २; -ये आश्रौ ५,
५, २०×४; शाश्रौ; साश्र
१, ४४४; ४४५; -येन आश्रौ
५, १४, १; वाश्रौ ३, २,
४, ६; -यैः आश्रौ ७, ५, २२;
आपश्रौ २१, ७, १७; १७, ५;
बौश्रौ; -यौ आश्रौ ७, ३, २;
आपश्रौ १३, २, ३; बौश्रौ ८,
१: २५; माश्रौ.

मरुत्वतीय-ग्रह- -हस्य
शाश्रौ १४, ५३, ३.

मरुत्वतीय-ग्रहण- -णम्
काश्रौ १०, ३, ३; ७.

मरुत्वतीय-साहेन्द्र-
-न्द्राणाम् आपश्रौ २२, २७,
१८; हिश्रौ २३, ४, ३९; -न्द्रौ
काठश्रौ १२८.

मरुत्वतीय-वैश्वदेव- -वयोः
शाश्रौ ७, ९, ५.

मरुत्वतीय-होम- -मम्
वैताश्रौ २२, ३.

मरुत्वतीया(य-अ)न्त-
-न्ते काश्रौ १४, ३, १; १५,
५, १.

मरुत्वत्-य- पा ४, २, ३२.

मरुत्वद्-अनुग्रह- -हः निसू ६,
१३: ५.

मरुत्-सखि^१- -खा शाश्रौ ८,
१६, १; आपृ ३, ५, ७; कौशृ
३, ७, १०; शांशृ ४, ५, ८; अशां
१०, १; अपृ १, ४०, १.

मरुत्-स्तोत्र^२- -त्रः शाश्रौ ८, १६,
११.

मरुत्-स्तोम^३- -मः काश्रौ २२,
११, ११; -मे वैताश्रौ ३९,
१८; -मेन आपश्रौ २२, १०,
१९; हिश्रौ १७, ४, ३८; लाश्रौ
९, ४, २५.

मरुद्-अङ्गिरस- -रसः काशृ ५, २;
-०रसः काशृ ८, २.

मरुद्-आदि- -दीन् अश्र ७, ३३.

मरुद्-गण- -णः वृदे ५, ६७;
-णम् वृदे २, १४४; -णानाम्
काशृ ८, ६.

मारुद्ग(ण>)णी^४- -णी
अशां १६, १; -णीम् अशां
१७, ५; -ण्याम् अशां १८-१९,
७.

मारुद्गण-प्रधान, ना^५- -नः
वृदे २, १४१; -ना वृदे २, १४३.

मारुद्गणप्रधान-त्व- -त्वात्
वृदे २, १४४.

मरुद्-गण^६- -णः शाश्रौ ८,
१६, ११.

मरुद्-वृष, धा^७- -ः शाश्रौ ८,
१६, १; काश्रौ ५, १३, ३; ऋप्रा
७, ३२; -धाः या ९, २६०; -
०धे या ९, २६०.

मरुद्-वृधा(ध-आ)दि- -दीनाम्
पावा ६, २, १०६.

मरुत्-त- मरुत्- द्र.

मरुत्-त्- -त्तः शाश्रौ १६, ९, १४;
-त्तस्य शाश्रौ १६, ९, १६.

मरुत्-पति- प्रशृ. मरुत्- द्र.

मरुव- (>मरुव-मत्- पा.) पाग ४,

२, ८६.

मरुक- पाउ ४, ३९.

मर्क^८- पाउ ३, ४३; -र्कः काश्रौ
९, १०, ४; १०; आपश्रौ; आपमं
२, १३, ९^९; आमिगृ २, १, ३:
१३^{१०}; काशृ ३५, १^१; भागृ १,
२३: ३^{११} हिगृ २, ३, ७^{१२};
-काय आपश्रौ १२, १५, १;
बौश्रौ ७, ६: ५१; जैगृ १, ८: १४^{१३}
मर्कट^९- पाउमो २, २, ९७; -टः
बौश्रौ २४, ५: २१; ऋश्रौ ९५,
१; ३; विष ४४, ४०; -टे बौश्रौ
२, ५: ९^{१४}.

मर्कट^{१०}- > ष्टं-क^{१५}- -काः आपश्रौ
१६, १९, १३.

मर्ग^{११}- -र्गो आपगृ २०, १२.

मर्च^{१२} पाधा. चुता. पर. शब्दे.

मर्चयत्- मृच् द्र.

मर्जू- पाउ १, ८१.

मर्य^{१३}- मृच् द्र.

मार्डित्- मृच् द्र.

मर्त^{१४}- पाउ ३, ८६; -र्तः आश्रौ
३, १२, ९×४; शाश्रौ; -र्तम्
या ५, १७^{१५}; -र्तताः
अप ४८, ७८; निष २,
३; -र्ततासः आपश्रौ ३, १२,
१^{१६}; १२, १८, ७; भाश्रौ ३,
११, १^{१७}; हिश्रौ २, ६: १७^{१८};
आमिगृ १, ५, ४: २०^{१९}; या
११, १६^{२०}; १४, ३०; -र्त^{२१}षु
आपमं २, ११, २५^{२१}; शुप्रा ४,
१६२; भाशि ८५.

मर्त-शब्दा (व्द-अ)दि-वः-
पर^{२२}- -रे ऋप्रा ७, २६.

a) वस. । b) वैप १ द्र. । c) = एकाह-विशेष- । d) = शान्ति-विशेष- । e) = नदी-विशेष- ।
f) = नृप-विशेष- । g) वैप १, २४६१ ह द्र. । h) सपा. शण्डो मर्कः <> शण्डाय मर्काय <> पाशृ १, १६
२३ शण्डामर्कौ इति पामे. । i) उत्तरेण संधिरार्षः । j) = अल-विशेष- । k) स्वार्थे कः प्र. । l) = पामे-
१०) पामे १, १, २७ परामृष्टः द्र. । ११) पामे. वैप १, २४६३ j द्र. । १०) पामे. वैप १, २४६३ d द्र. । p) कस >

मर्त्य, त्या^०- पाउना ४, १२१; पावा ५, ४, ३६; -^०त्वं आपश्रौ ८, २१, १; बौश्रौ; -^०त्वं: आश्रौ १०, २, १८; दाश्रौ १६, १६, ३; आपश्रौ; -^०त्वंस् आपश्रौ १२, ६, ५; १९, १५, ३; बौश्रौ; -^०त्वंस्य काश्रौ १०, ९, ८^b; आपश्रौ ६, १७, १२; बौश्रौ; -^०त्या: निघ २, ३^०; -^०त्त्यान् शाश्रौ १२, १७, १; आपश्रौ ५, १७, ४; हिश्रौ; या १३, ७^०; -^०त्त्यानाम् आपश्रौ १९, ३, ५; बौश्रौ १७, ३८: १; हिश्रौ; -^०त्त्याभ्य: आपश्रौ ८, २१, १; बौश्रौ ५, १८: १९; हिश्रौ ५, ६, ४; -^०त्त्याय आपश्रौ १६, १६, १; बौश्रौ; -^०त्त्यास: आपश्रौ ५, ११, ६; १६, १५, ५; बौश्रौ; -^०त्त्ये आपश्रौ १२, ७, १०; हिश्रौ ८, २, ९; -^०त्त्येन > ना या १४, २३^०; -^०त्त्येभ्य: या १२, १०^०; -^०त्त्येषु शाश्रौ ६, ४, ५; आपश्रौ १४, १७, १; बौश्रौ; -^०त्त्यै: बौश्रौ ८, २०: १२; दाश्रौ ६, ४, ८; लाश्रौ २, १२, ९.
^०मर्त्य-कृत- -तम् बौश्रौ ८, २०: १२; दाश्रौ ६, ४, ८; लाश्रौ २, १२, ९.
 मर्त्य-लोक- -क: कप्र ३, ३, ६.
 मर्त्य-वासिन्^०- -सिनाम् कप्र २, ३, ९.

मर्द- √सृद् द्र.

मर्दल- पाउभो २, २, ९३.

मर्दित- √सृद् द्र.
 मर्मन्^०- -र्मणाम् या ९, २८; १४, ७; -र्मणि कौस् ४७, ५१; ४८, ४; विघ ७१, ७५; या ६, ३३; -र्मणि काश्रौ १३, ३, १३; वैताश्रौ.
 मर्म-शत- -तम् विघ ९६, ८६.
^०मर्म(>)र्मा-विघ^०- -विघम् अथ ११, १०; अप्रा ३, ४, १.
 मर्मर- पाउभो २, ३, ३५; पाग २, ४, ३१^d.
 मर्मरीक- पाउ ४, २०.
 मर्मृज्यमान- √सृद् द्र.
 मर्य^०- पा ३, १, १२३; -र्य: अप ४८, ११६^०; या ३, १५^०; -र्यम् या ३, १५^०; -र्या: अप ४८, ७८; निघ २, ३; या ४, २; -^०र्या: आश्रौ ९, ९, ८; शाश्रौ; या ४, २^०; -र्याय या २, २७^०; -^०र्यास: उस् २, १८; -र्यै: या ४, २.
 मर्या^० वाघुश्रौ २, १३: ३; ५; ४, ८९: ३३.
 मर्याकरोरपि शाश्रौ १२, १६, १^f.
 मर्यादा^०- -दा आभिष्ट ३, २, १: १३^०; या १, ७; ४, २^०; -दा: कौस् ७६, २१; ७९, १; या ६, २७; अप्रा ३, ४, १; -दायाम् पावा ३, १, २६.
 मर्यादान्तसः(ः) या १, ७.
 मर्यादा(दा-अ)भिधान- -नम् या ४, २.
 मर्यादा(दा-अ)भिविधि- -धौ पावा

१, १, १४; -धयो: पा २, १, १३.
 मर्यादा-लोष्ट- -ष्टम् काश्रौ २१, ४, २४.
 मर्यादा-वचन- -ने पा १, ४, ८९; ३, ३, १३६; पावा ३, ३, १३६.
 मर्यादा-वर्चस्क- -स्कयो: कृत ४, ५, ९.
 मर्यादिन्^०- -दिनो: या ४, २^b.
 मर्व^० पाधा. भ्वा. पर. गतो.
 मर्षण- प्रसृ. √सृद् द्र.
 मर्षी(क)>का^०- -का कप्र १७, २०.
 मल^०- पाउ १, ११०; पाग २, ४, ३१;
 -^०लम् शाश्रौ १५, १७, १; आपश्रौ ६, २०, २; ७, १२, ४; २१, ६; बौश्रौ; -ला: कप्र १, १०, १०; विघ २२, ८१; २३, ४०; ५१; -लानाम् विघ ५१, २; -लानि वैध ३, १४, ७; -ले काण्ड ४३^०: ९; १३; -लै: विघ २२, ७७; २३, १.
 मल-कर्म^०- -नम् शंघ १००^०.
 मल-त्र(ल)>ला^०- -लाम् अप ६८, १, १४.
 मल-जु^०- -जु: काण्ड २, ४; माण्ड १, २, ६; वाण्ड ६, ३०.
 मल-मास- -स: काण्ड ४३: ७; -से काण्ड ४३: १८; ४५: १२.
 मल-वत्- -वति विघ ७१, २४.
 मलवद्-वासस^०- -सस: कीस् ३, ४, १८; -^०ससम् आपण्ड ८, १२; माण्ड १, २०: १०; -ससम् काण्ड ३, १४; माण्ड १, २, १९;

a) वैप १ द्र. । b) श्लोघः पृ ३३८ p द्र. । c) उप. < √वस [निवासे] । d) तु. पायम. ।
 e) सत्यमित्यर्थे अन्वय. । f) पाठः ? श्लोघार्थे वैप १, २४६५ e द्र. । पृ २६६ सस्थ. अथि, तत्रत्यं टि. च नेष्टम् ।
 g) मर्या- (भूम्यन्त-) + षादि- (भूम्यादि-) > द्रस. मर्यादि- > मत्वधीनः इति: प्र. इति दु. स्त. प्रसृ. । h) षांशोः इत्यपि पाठः (तु. स्त.) । i) = लन्दो-विशेष. । j) = मल-मास. । k) विघ. (स्वान्-). उस्. । l) कप्र. १५. = १ मलिन. । m) कप्र. ।

वायु ९, १९; हिद्य १, २४, ७^a;
 आपध १, ९, १३; हिद्य १ ३, १३;
 -सा: आपयु ८, १२; बौधु १,
 ७, २२; मायु १, २०: ९; वैद्यु
 ३, ९: १.

मल-वर्जित- -ते विद्य ९९, १८.

मल-संयोग-ज- -जम् शंघ १६३.

मला(ल-अ)न्धकार- -नौ वैद्यु ६, ७:
 ११.

१मला(ल-अ)पकर्षण^b- -गम् शंघ
 १००.

२मला(ल-अ)पकर्षण^c- > णा(ण-
 अर्थ>)र्था- -थां शंघ १००.

मला(ल-अ)पोहक^d- -क: वैद्यु ३,
 १५, ११.

मला(ल-अ)यतन- -नम् विद्य ९६,
 ४७.

मला(ल-अ)वह- -हानि विद्य ४१,
 ४; -हेद्यु विद्य ३३, ५.

१मलिन, ना- पाउवृ २, ४९^d; पा
 ५, २, ११४; -न: विद्य ६९,
 १२; -नाम् शंघ ३३३; विद्य
 ६९, ११.

मलिन-वसन^e- > न-
 जीर्ण-रक्त-वासस^f- -सा: अप
 ६८, ४, १.

मलिन-वासस^g- -ससा वाध
 १२, ५.

मलिना(न-अ)न्तर^h- -रम् वैद्यु
 ६७: १२.

मलिनी/कृ > नी-करण->

णीय- -येषु विद्य ४१, ५.

मलीमल- पा ५, २, ११४.

मलदा- -दा वैद्यु ५, ४: ३५^f.

मलयⁱ- पाउ ४, ९९^d; फि ५३;
 -यम् शंघ ११६: ९.

मलय-क^j- -के अप ५१, १, ४.

मला^k- -ल्या अशां २१, ४^f.

२मलिन- (>मालिन्य- पा.) पाग
 ४, २, ८०.

१मलिम्बु^l- -म्बव: आपश्रौ १६,
 १०, ४; बौश्रौ १०, १४: ५;

वाश्रौ; -म्बु आपश्रौ १६, १०,
 ३; बौश्रौ १०, १४: ४; माश्रौ;
 वैश्रौ १८, ७: २०^h!

मालिम्बव^m- -वम् चाअ १६:
 १३.

मलिम्बु-सेना- -ना तैपा ६, ७^f.

मलिम्बुचⁿ- -म्बुचे आपश्रौ १४,
 २५, ११^m.

√मलिम्बुच^o, १मलिम्बुचामहे^o
 कायु ४५, ७; मायु २, १, १०.

१मलिम्बुच^p- -च: शाश्रौ ६, १२,
 १४; आपश्रौ ११, १५, १;
 १६, १८, ८; वैश्रौ; अप ४८, ८३;

निघ ३, २४; -चायम् हिश्रौ
 १५, ६, २९; -चे कायु
 ४३: १०^q; २१; ४५: ११^r!

मलि^s-हा^s- -हा वाश्रौ ३, ३, ४, ४४.

मलीमल- मल-द्र.

मलूक- पाउना ४, ४३.

म-लोप- म-द्र.

*मलम(ल>)ला^t-> °ला/भू>

°ला-भवत्- -वत् अप ४८,
 २०; निघ १, १७.

√मल्ल पाधा. भ्वा. आत्स. धारणे.
 मल्ल- (>माल्ल- पा.) पाग ४,
 २, ७५.

मल्लक- पाउभो २, २, ७.

म(ल्लक>)ल्लिका- पाउवृ २, ३२.

मल्लूर- पाउवृ ४, १०.

१मल्ल^u- -ल्लव: अप ४८, ११६; -ल्लम्
 अप १२, ११^t.

मल्ल^v- -ल्लहा काश्रौ १५, १०, ३;
 माश्रौ ५, २, १०, १३; -ल्लहा:
 आपश्रौ १९, १६, ६; हिश्रौ २२,

१, ६; -ल्लहाम् आपश्रौ १८, २१,
 १३; बौश्रौ १२, १९: ६; २४-

११: ५; ३८: ७; हिश्रौ १३,
 ७, २२.

√मल्ल^w पाधा. भ्वा. पर. बन्धने.

मल्ल^x-

१मल्लतासाम् माश्रौ ६, २, २, १४.

१मल्लानारम्भभक्षणम् जैश्रौका १८६.

मल्ल- पाउना ४, ९६.

√मल्ल^y पाधा. भ्वा. पर. बन्धने.

√मल्ल^z पाधा. भ्वा. पर. शब्दे, रोष-
 कृते च.

मल्लक- पाउभो २, २, ७; -क:
 बौश्रौ १६, २७: २३; लाश्रौ

७, ९, १४^z; आपमं २, १६, १५-

१७^z; हिद्य २, १६, ५^z; शंघ
 ३७७: १२; -फकान् आपश्रौ

a) तु. भाष्यम्; वैतु. Böht [ZDMG ५२, ८६] Old. च °सा: इति शोध: ?। b) विप. (स्नान-)

उस.। c) षस.। d) <√मल्ल। e) वस.। f) = पर्वत-विशेष-। g) = देश-विशेष-। अदूरभवार्ये

क: प्र. उर्स. (पा ४, २, ८०)। h) = ओषधि-विशेष-। i) वैप १ निर्दिष्टयो: समावेश: द्र.। j) °म्बु इति

पाठ: ? यनि. शोध: (तु. आपश्रौ.)। k) विप. (सूक्त-। l) = मलिम्बुच-। व्यु. वैप १, २४६६ II द्र.।

m) पाभे. वैप १, २४६७ b द्र.। n) घा. मलाधाने कृति:। o) पाभे. वैप १, २४६६ छ द्र.। p) नाप. (बाळ-
 प्रह-असुर-)। शिष्टं वैप १ द्र.। q) = मल-मास-। r) °च: इति पाठ: ? यनि. शोध: (तु. पूर्व स्थलम्)। s) वैप १-द्र.।
 t) पाठ: ? शोषार्थं वैप १, २४६७ i द्र.। u) पा ६, ४, २० परामृष्ट: द्र.। v) पृ १९०१ a द्र.।

२१, १२, ३; हिश्रौ १६, ४, ३५; -कैः वोगृ ४, ९, ५; वाध ३, ४६. मशक-मक्षिका-निलीन- नम् वैध ३, ४, ८. मशका(क-अ)द(न>)नी ^३ - न्याः कौगृ १, १५, १ ^० . ✓मष् पाधा. भ्वा. पर. हिंसायाम्. मष ^० - षम् शांगृ १, २४, ७. मषी- षीम् कौगृ १, १६, १६. :मष्मषा ^० - वा भासि ११९; १२०. ✓मस् ^० पाधा. दिवा. पर. परिणामे ^१ . :मसमसा (>सा ✓कृ पा.) पाग १, ४, ६१. :म-सवर्ण- म-द्र. !मसामित्वा वाधूश्रौ ३, २९ : ३. :मसार- पाउभो २, ३, ४५. :मसि- पाउ ४, ११८. :मसिन- पाउवृ २, ४९. :मसीय ✓मन् द्र. :मसुर ^३ - पाउ १, ४३; -राः अशां १२, ३. :मसुर-कर्ण ^३ - पा २, ४, ६९; पाग २, ४, ६९ ^१ ; ४, १, ११२ ^१ . मासुरकर्ण- पा ४, १, ११२. :मसुराक्ष ^३ - > मासुराक्ष- -न्हाः बौश्रौप्र १२ : १. :मसुर ^३ - पाउ ५, ३; पाग ४, ३, १३६; -रान् अप ४६, १, ४.	मासुर- पा ४, ३, १३६. मसुर-कर्ण ^१ - (>मासुरकर्ण-) मसूस्य ^३ - स्थानि आपश्रौ २०, १०, ५; हिश्रौ १४, ३, ३. मसूस्य-चर्मन्- -माणि वौश्रौ १५, १६ : ५. मसृण- पाउभो २, २, १२३. ✓मस्कू पाधा. भ्वा. आत्म. गतौ. मस्कर ^१ - ऋत ४, ७, ६; पा ६, १, १५४; पाग ६, १, १५३ ^३ . मस्करिन् ^३ - पा ६, १, १५४; पाग ६, १, १५३ ^३ . ✓मस्जू ^० पाधा. तुदा. पर. शुद्धौ. मस्तक ^० - पाउवृ ३, १४८; पाग २, ४, ३१; -कात् आशिगृ २, ६, ७ : १६; -कै वैगृ २, ५ : ५; ३, २३ : ७. !मस्तम् अप ३६, ७, २. मस्तिष्क ^० - -ष्कः वाधूश्रौ ४, २० : २; -ष्कस्य आपश्रौ १७, २४, ३; वैश्रौ १९, ८ : ४; -ष्कात् आपमं १, १७, ११. !मस्तु ^० - पाउ १, ६९; -स्तु काश्रौ ७, ८, ८; -स्तुना कौम् ८७, १८. मस्मसा ^० - सा शुप्रा ५, ३७ ^१ ; पाग १, ४, ६१. मस्मसा- कृ पा १, ४, ६१. ✓मह, मह-, मह- ✓मंह द्र.	२मह- पाग ४, १, ४१; २, ८० ^० . १मही- पा ४, १, ४१. २महिन्- पा ४, २, ८०. महत्- ✓मंह द्र. !महतम् मागृ १, २१, १० ^१ . महन्- प्रथ. ✓मंह द्र. महय्यु ^३ - > माहय्यव- -०व हिश्रौ २१, ३, १० ^० . महय्यु-न्वत् हिश्रौ २१, ३, १० ^० . महवन् ^० - -होनाम् गौपि २, ४, ७ ^१ . महस्- ✓मंह द्र. महस्- पाउ ३, ११७. महा ✓मंह द्र. !महा ^१ माश्रौ २, ५, ४, १३ ^१ . महा ^० - (>३महिन्-) महाकर्णायन् ^३ - -नाः बौश्रौप्र ४७ : ३. महाककेय ^३ - -थाः बौश्रौप्र ४१ : ११. महाचित्त- (>माहाचित्ति- पा.) पाग ४, २, ८०. महाजपत्र ^३ - -त्रम् कौगृ २, ५, ३ ^१ . महादमत्र ^३ - -त्रम् शांगृ ४, १०, ३ ^१ . महानग्न, शा ^१ - -सम् शांश्रौ १२, २४, ३ ^१ ; -गनाम् आपश्रौ १५, २०, ८; भाश्रौ ११, २१, ९; मागृ ३, ६ : १८. महानग्नी- -ग्नी शांश्रौ १२, २४, २ ^१ ; वृदे १, ५५. !महान(ज>)शी ^० - -न्याः ^१ कौम् १३९, १५; अप ३२, १, १०.
--	---	---

a) विप. (वीरुध्-). उस. । b) पामे. पृ १९०० f द्र. । c) नाप. । d) वैप १ द्र. । e) ✓सम् इत्येके । f) परिमारो इति दे. MW. । g) =मसुर- । h) व्यप. । i) तु. पागम. । मसूर^० इत्यपरे, मसू^० इति भाण्डा. प्रथ. । j) सूरु इति पाका. । k) =धान्य-विशेष- । l) =वेखु- । <मा + ✓कृ इति केचित् । m) तु. पागम. । n) =परित्राजक- । <मा + ✓कृ इति पागम. । o) पा ७, १, ६० पावा १, १, ७; ४७; ७, २, ११४ परामृष्टः द्र. । p) =मस्तिष्क- । q) महा- इति पाका. । r) पामे. वैप २, ३ सं. बहुधा तैत्रा २, ७, १७, ३ टि. द्र. । s) पामे. पृ ३३६ ० द्र. । t) पामे. पृ ३३६ ७ द्र. । u) पामे. वैप १, २३८९ p द्र. । x) महा (महान्ता) कवी युवाना, सत्याद्वा जा धर्मणस पती [सं२] । परि सत्यस्य धर्मणो वि सत्यानि सज्जाम्हे इति शेषितः पाठः द्र. । w) पामे. पृ ७३६ j द्र. । x) सपा. महाजपत्रम् <> महादमत्रम् इति पामे. । y) पामे. वैप १, २४६८ B द्र. ।

महापुत्र- (>महापुत्रि- पा.) पाग
४,२,८०.

महावाक्य- -ल्याः बौश्रीप्र ७ : २.

१ महाम् ✓मंह द्र.

१ महामनेन अत्र ६, १३३.

१ महामहयोः वाच १९, १६.

महावेल- -लाः बौश्रीप्र १७ : १०.

१ महासीः निसू ९, ९ : ५३.

महि- ✓मंह द्र

महित- (>माहित्य- |>हित-|
पा.) पाग ४,१,१०५; २,१११.

महित्री, १ महिन्- ✓मंह द्र.

२ महिन्- २मह- द्र.

३ महिन्- महा- द्र.

महिन- ✓मंह द्र.

१ महिम् हिश्री २१, १, १; २.

महिमन्- ✓मंह द्र.

महिर- पाउना १, ५०.

महिल, ला- पाउ १, ५४; पाग ५, ४,
१३८.

महिला-पाद- पा ५, ४, १३८.

महिष- पाउ १, ४५; पाग ६, ३,
१०८०; -फं०ष आपश्री १६, १२,
११; माश्री २, ३, ७, ४५^६; हिश्री
११, ५, ७; -फं०षः आश्री ६, २,
६××; शांश्री; या १४, १३३; ४^१;
१७; -षाः आपमं २, ११, २३३^३;
अप ७१, ३, ५; या ७, २६५^३.

महिषी- पाग ४, ४, ४८^१;

-षी शांश्री १२, २१, २^३५^१;

काश्री १६, ३, २०××; आपश्री;
अप ७१, ७, ४^६; शंघ ३०५^६;
विष ५, १४०^६; -फं०षीः^६ बौश्री
४, २ : २२; भाश्री ७, ३, ५;
माश्री; -षीणाम् बौश्री १८,
४५ : ४^६; -षीम्^१ आश्री १०,
८, ९; शांश्री; अप ६८, २,
३२^६; -ष्याः काश्री १५, ३, ६;
बौश्री २६, १ : १२; वाश्री ३,
३, १, ३५^१; वृदे ५, ६३; -ष्याम्
बौश्री १२, ११ : १०; -ष्यै बौश्री
१२, ५ : २०^१.

१ माहिष- पा ४,

४, ४८^६; -षम् बौश्री २८, १३;

४; वैश्री ११, ११ : १०; शंघ

१५५; ४१८; -षाणि कौस्

१७, २६^१.

माहिषेय- -यः

आपश्री ९, २०, ७.

माहिष्य- -ष्यम्

शंघ ४१८.

महिषि-(क>)का^०-

-काम् काग १९, ७.

महिष्य(षी-अ)षाढा-

-द्वयोः फि ६८.

२ माहिष- -षम् शंघ २२२;

-षेण आपध २, १६, २७; विष

८०, १०; हिग २, ५, २६.

महिष-क->क-वृषभ- -भाः

अप ५१, ४, ५.

महिष-वृष-वराहादि-द्विरद-

जलगण- -जैः अप ६५, २, २.

१ माहिष-मत्^०- पावा ४, २, ८७.

२ माहिषमत्^०->माहिषमती^१-(>
तैयक- पा.) पाग ४, २, ९५.

१ मही- २मह- द्र.

२ मही^०- पाग ४, २, ९७; -फं०हि आश्री

२, १, २९; शांश्री; -फं०ही आश्री

२, ९, १४××; शांश्री; आपश्री

१६, ७, ३^६; हिश्री ११, २, ५^६;

कौग १, १६, १८^६; ३, १५, ५^६;

शांश्री ३, १३, ५^६; माग १, १४,

८^५; अप ४८, ९२^५; १०२^५;

निघ १, ११^५; २, ११^५;

३, ३०^५; या ४, २१^५; ५,

२२^५; -फं०हीः आश्री २, १९,

२२; बौश्री १८, १६ : १४;

आपमं; -फं०हीनाम् काश्री २,

५, ९; ७, २, ३०; आपश्री;

-फं०हीम् आश्री २, १, २९;

१०, २१; ३, ८, १××; शांश्री;

-फं०हा बौश्री २, १० : ३; १०,

३१ : ६××; आपमं; -फं०हाः

आपमं १, ६, १३; २, १९, ४^५;

आमिग ३, १, १ : १५^५; कागः

बौग २, ११, २६^५; माग २, ११ :

१४^५; हिग २, १०, ७^५; -फं०ही

आपमं १, ६, १४; ८, ९.

१ माहेय (बरा.) - पा ४, २,

९७; -यः^२ बौश्री १७, १८ : ५;

a) व्यप. । b) वैप १ द्र. । c) तु. पागम. । d) पाभे. वैप १, २४०० g द्र. । e) वैप १
निर्दिष्टानां समावेशः द्र. । f) = राज-महिषी- । g) = सैरिमी- । h) वैप १, २४६९ l, m द्र. ।
i) फरस्परं पाभे. । j) विकाराथे प्र. । k) = राजमहिषीप्राह्यभाग- । l) = राजमहिषी-गृह- ।
m) अपत्यार्थे ढक्>एयः प्र. उलं. (पा ४, १, १२३) । n) = क्षीर- । विकारे यच् प्र. उलं. (पावा ४, १, ८५) ।
o) = देवता-विशेष- । स्वार्थे प्र. । p) विप. (मास-) । अवयवार्थे प्र. । q) = देश-विशेष- ।
r) = नगरी- । तेननिर्वृतीयः प्र. । s) पाभे. वैप १, २३८९ i द्र. । t) महीम् इति पाठः ? यनि. शोचं
(तु. शंघ.) । u) सप्र. मही<>महाः इति पाभे. । v) पाभे. वैप १, २४७० g द्र. । w) = मो-
x) = वाच्- । y) = दावा-पृथिवी- । z) = नाग-विशेष- ।

बौघ ३, १०, ६^{१६}; -यम् वाघ
१५, २०^१.
मही-तल- -ले अप १०, १, २१;
५७, २, ४.
मही-देवता- >^०त्य- -त्यम् अत्र
२, ३१.
मही-भ्र^०- पावाग ३, २, ५.
मही-निखन- -नेन विध २३, ३.
मही-पति- -तये अप २०, ४, १;
-ति: अप २, १, ३; ६××;
-तिम् अप ५३, ३, ४; -ते:
अप ६३, ४, ५.
मही-पाल- -०ल विध ९८, १२;
-ल: अप २, २, ५.
मही-भस्म-प्रदिग्धा(रध-अ)
ङ्ग-ङ्ग: अप ६८, ५, १०.
मही-भाग- -नाम् अप २, ३, १.
मही-म(य>)यी- -यी कप्र २, ५, १०
मही-रूह^१- -हम् अप ३३, ९, ४.
३मही-(>√२महीय पा.) पाग ३,
१, २७.
√१महीय √मंह द्र.
महीयत्व^१, ल^१]-(>माही^० पा.) पाग
५, २, ६१.
महीयमान-^०था- √मंह द्र.
महीलुका^१- -का अत्रा ३, ४, ११.
महीपाह- -महेन्द्र- प्रसृ. √मंह द्र.
महेला- पाउभो २, ३, ११३.
महेप्रवर- प्रसृ. √मंह द्र.
महोदकि- -कय: बौश्रौप्र ४३: २.
महोदय- प्रसृ. √मंह द्र.
महा- -हौ चात्र १५: ६.

मह्यम् अस्मद्- द्र.
मा^१ ऋशाश्रौ २, १९, ३६××; शांश्रौ;
माश्रौ २, ३, ७, २^२फ^६; आपमं
२, ३, ३१फ^१; आघ १, २०, ७फ^१;
कौघ २, ८, ९फ^१; शांघ २, १८,
४फ^१; आग्निघ २, ४, १: २०फ^१;
काघ ४१, १७^१फ^१; हिघ १, २७,
८फ^१; या ६, २४फ^१; पाग १, १,
३७; ४, ५७^२; पावा १, २, ९.
मो(मा-उ) काश्रौ ५, ५,
११फ^१.
२मा(मा-आ)^क- माभ्याम् ऋत ५,
६, ३.
माकिम् पाग १, ४, ५७.
माकिस्(ः)^१ अत्र १९, ४७फ^१; निघ
३, १२फ^१; ऋश्रुपा ३, ७३; ५, ३७;
तैत्रा ६, ५फ^१; पाग १, ४, ५७.
माकीम्^१ पाग १, ४, ५७.
मानस्तोक^१- -कैन अप ३८, २, ५.
मानस्तोकीय^१- -यम् बौघ ३, २, ६.
मा-शब्द- (>^०बिदक-पावा.)
पावाग ४, ४, १.
√मा (|=√मि|बवा.)^म पाघा.
अदा. पर., जुहु. दिवा. आत्म.
माने, मिमीते शांश्रौ १७, १०,
७; ८; काश्रौ ४, ८, २; ५, ३,
१९×× आपश्रौ; बौश्रौ २१, १२:
१२^१; मिमते आपश्रौ ५, २१,
१०; ऋमिमीमहे कौस् ८५, ३;
१२; ऋमिमीताम् आश्रौ ८,
१, २३; ९, ५, ५; शांश्रौ;
ऋमिमीहि^० अप ४८, १२; निघ

३, १९; मिमीत नाशि २, ६, २;
ऋमिमीत आश्रौ ४, ६, ३; शांश्रौ
५, ९, ७; बौश्रौ; या ९, १०^१.
ऋमिरे काघ ४०: ७; बौघ
३, ११, ४; मीयात् बौश्रौ
२३, १९: ७; ऋमासि कौस्
८५, १७; अत्र १८, २.
मीयते वाधुश्रौ ४, ११३: ७;
अप ६१, १, २१; वृदे ५, १५३.
मापयति बौश्रौ १८, २१: ४;
मापयन्ति बौश्रौ १८, ४८: २४;
४९: ७; १५; ५०: ३; २५,
५: ६; मापयेत् बौश्रौ २५,
५: ७; ८; आघ २, ७, १०; ८, ९;
आपघ २, २५, २; हिघ २, ५, १८.
ऋमा^१- मा काश्रौ १७, ९, ९;
आपश्रौ १५, ८, २; १७, २, ४;
शाश्रौ; ऋपा १७, १९.
२मा(मा-आ)दि- -दीनाम् ऋपा
१७, २०.
मात्र^१- पा ५, २, ३७; -त्रे शौच
४, २२.
मात्रा^१(बवा.)- पाउ ४, १६८;
-ऋम् माशि १३, ३^१; -त्रया
ऋशाश्रौ ३, ८, १; ७, ९, ४; शांश्रौ;
कौशि ६०^१; -त्रयो: अप ४७,
१, १८; -त्रा आश्रौ १०, ९,
२^१; शांश्रौ; या ४, २५^१फ^१;
ऋपा १, २७^१; ३, २७; श्रुपा १,
५६^१; ७३^१; २, २८; ऋत २, ३,
८^१; ४, १^१; ६^१; ५, २^१; शौच १,
३८^१; माशि^१ ४, १२; ९, ९; १३,

a) महय: इति पाठ: ? यनि. शोच: (तु. बौश्रौ.) । b) विप. (पात्र-) । c) = पर्वत- ।
उप. < √ घ [धारणे] । d) = वृक्ष- । e) पाका. पाठ: । f) वैप १ द्र. । g) पाभे. वैप १, १९९१ n द्र. ।
h) पाभे. वृ ४६८ g^१ द्र. । i) पाभे. वैप १, १८९४ g द्र. । j) वैप १, ६११ y द्र. । k) द्वय. ।
l) < मानस्तोके (ऋ १, ११४, ८) । m) पा ३, २, २; ६, ४, ६६; ७ ४, ४०; ५४; ७६ परामृष्ट: द्र. । n) उत्तरेण
संधिर्षा: । o) धा. याञ्चान्यां वृति: । p) = [प्रनाणार्थक-] प्रत्यय-विशेष- । q) पाठ: ? आम् इति ऋषेच:
(तु. सप्र. ऋपा १३, ५०: याशि: १, १७:) । r) = ह्रस्वकालपरिमाण- ।

२; याशि १, ११^२; १८^३; २, २०^३;
 नाशि २, ३, ८^३; -त्रा: आपश्रौ
 २, २, ८; बौश्रौ; वाध २०, ४५^३;
 या ११, १२; -त्राणाम् याशि
 १, १८^३; -त्रामि: बौश्रौ २६,
 २४:३; अप ४७, २, ७; -त्राम्
 बौश्रौ १६, २६:११; २०,
 २४:२८; आपमं; विध ६५,
 १४^०; या १, ८^३; याशि १, १७^३;
 -त्रायाम् कौशि ६५; -त्रायाम्
 हिश्रौ १, ८, १६^३; निसू ९, २:
 १२; शैशि १८९; याशि २,
 २३^३; -त्रे याशि १, १४^३;
 -त्रेभ्य: या १३, ११.
 °मात्र- न्नस्य पावा १, १, ३;
 -त्रे पावा ५, २, ९४.
 मात्रा-काल^०- ल: याशि १,
 १०; -लम् कौशि ६९.
 ?मात्राणुमात्रा^०- त्रा: शुप्रा ४,
 १४९.
 मात्रा(त्रा-अ)णू-भाव- वात्
 या ६, ३०.
 मात्रा-द्विमात्रा-बुद्ध^०- दानाम्
 नाशि १, ६, ७.
 मात्रा(त्रा-आ)धिक्य- न्यम्
 शैशि १९५.
 मात्रा(त्रा-अ)पचार- रे आपश्रौ
 २४, ३, ५४; हिश्रौ ३, १, २६.
 मात्रा(त्रा-अ)पपाठ- डात् याशि
 १, ४२.
 मात्रा-परिग्रह- ह: ऋप्रा १३,
 ५०; माशि १३, ३.
 मात्रा(त्रा-अ)र्धे- र्धम् पावा १,

२, ५०^३; -र्धे पा २, १, ९.
 मात्रा(त्रा-अ)र्धे- र्धम् शौच १,
 ५०; १०७.
 मात्रा-लक्षण- गम् कौशि ६८;
 ७०.
 मात्रा-वत् काश्रौ १, ९, ७; ८,
 २, २३.
 मात्रा-वर्णा(री-अ) विभक्तत्व-
 -वात् मीसू ७, २, ९.
 मात्रा-विशेष- ष: ऋप्रा १३,
 ४८.
 मात्रा(त्रा-अ)वेदन^०- ने वैश्रौ
 २०, १:४.
 मात्रा-संसर्ग- नात् ऋप्रा १३,
 ४०.
 मात्रा-सङ्ग^०- ज्ञात् वाध १०,
 २२.
 मात्रा-संपूरण- गाय निसू ९,
 १२:२७.
 मात्रिक, का^०- क: शैशि ३२;
 याशि २, ४२; ७१; नाशि १, ८,
 ३; -कम् शैशि १९४; २२७;
 याशि १, १२; ९१; नाशि २,
 ३, ६; ४, ३; ६, १०; -का: याशि
 १, १७; -के याशि १, ६७; २,
 ४२.
 ?मात्रैकम्^० माशि ११, १.
 मात्रो(त्रा-उ)पज्ञो(ज्ञा-उ)पक्रम-
 च्छा(या>)य- न्ये पा ६, २,
 १४.
 मापयित्वा शाय १, ८, १७^३; माय
 २, ११, १६.
 मित्वा काश्रौ १६, ८, १; बौश्रौ

२५, १०:२; वाश्रौ.
 मिमान- न: बौश्रौ ६, १४:१७;
 ७, ५:१२; ८, १:८; वैश्रौ;
 -नम् वैताश्रौ १५, ७; कौसू
 १३७, १०; -ना या ८, १२^३क^०;
 -ना: या ६, ६^३.
 मीयमान- न: अप्राय ३, १^३;
 -ने आपश्रौ १४, ८, ५^३; ९, ४;
 हिश्रौ १०, ८, १०; १३; -नेषु
 हिश्रौ १६, २, ३.
 मे(य>)या- न्या बौश्रौ १९, १:
 ८; -याया: निसू ७, २:
 १३.
 √मा पाधा. जु. आत्म. शब्दे, ऋमिमति
 आश्रौ २, १३, ७; या २, ९^३क^०;
 ११, ४२.
 मायु^०- पाउ १, १^०; -यु: वांश्रौ
 १६, ३, १४^३; १२, १३^३; अप ४८,
 १०२^३क^०; निघ १, ११^३; -ऋयुम्
 वांश्रौ ४, १७, १२; काश्रौ; या
 २, ९^३क^०; ११, ४२^३क^०; -ऋयुम्
 बौश्रौ ११, ४:१७; २१; १५,
 २८:२८; २९:१३.
 रमा^०- अस्मद्- द.
 रमा- मा द.
 रेमा- √मा(बधा.) द.
 ऋमा^०इचत्व^०- त्व: अप ४८, १३;
 निघ १, १४; -त्वे ऋप्रा ४, ८२;
 १३, २७.
 मांस्^०- पावा ६, १, ६२.
 ऋमांस-पच(न>)नी^०- पावा ६,
 १, १४०; -न्या: ऋप्रा ४, ८२;
 शुप्रा ४, ४२; ५, ४३.

a) = इत्कालपरिमाण-। b) = संपत्ति-। c) = दर्पण-। d) = स्वर-भक्ति-। e) वस-। f) पाठः ?
 मात्रासर्धमात्रासुमात्राः इति शोधः (तु. भाष्यम् [१, ६०])। g) मात्र-द्विमात्र इति लासं.। h) चस. (तु. भाष्यम्)।
 i) उप. = अलाभ-। j) पूष. = इन्द्रिय-। k) विप., नाप. (एकमात्रामकरवर-)। भवार्थे इदमर्थे च प्र.। l) मात्रिक-
 > कम् इति शोधः (तु. मूको)। m) पाभे. पृ १७१८ म. द.। n) वैप १, २४७४। द.। o) < √ मि-।
 p) = शुभाल-। q) = वार्-। r) पृ ४६८ यनि. संख्यानिर्देशः द.। s) वैप १ निर्दिष्टयोः संभावनाः द.। t) वैप १ द.

मांस-पाक- पावा ६,१,१४०.

मांस^a- पाठ ३,६४; पाग ४,१,४१^b;
४, १०२^b; ५, २, ९७; पागवा
५,१, १०१; -सम् शाश्रौ २,
३, २६; ४, १८, १०; आपश्रौ
५,७,६;१६; २५,१९;६,१५,४;
८, ४, ५; ९,४, १५;१५, २१,
७; १६,८,९; १०; २२,३,१६;
काठश्रौ; आश्र १, २३, २३;
आश्रिण २,४,४; ६; ५,८; १६;
३,१,३; ३७; आपश्र २२, ११;
बौश्र २, ७,८;११, १५; ३४;
६५; ३, ४, ३४; माश्र २, १४,
२८; वाश्र ३, ७; वैश्र ५, १२:
६;११; हिश्र २,१३,४; गोश्र ४,
७, २९; जैश्र १, १४:१४; द्राश्र
३,५,४; कप्र ३, ८, ६; अपश्र १,
३३, २; २७, १, २; ६७, ४,
१; ७०^c, १९, ७; ७१, १४, १;
वाश्र २,२६; ४-५,७; ११, ३४;
३७; १२, २३; २०, २६; २३,
११; शंश्र ३९०; ४१८; ४४८;
आपश्र १,१६,१६; १८,१; २५,
१३; २,५,१६; १६, २८; १८,
१; १९,१४; बौश्र १,११, ३६;
३,३,६; ४,२; ७,८; विश्र २३,
५०; ४३, ३९; ४४, २१; ५१,
७१^d; ७३; ७८; ८०, १४;
वैश्र २, १५, ५; ६; ३, ५,
९; हिश्र १, ५, १५; ७१; ७,
१०; २,१, ९८; ५, २७; ३१;
५३; ८५; गौश्र १४, ३७; १६,
३; २४,८; वृश्र ७,७८; या ४,
३४; १४,६; माशि ४, १४; ९,

११; मीश्र ३, ८, ४२; -सस्य
आपश्रौ १५,१५,१; भाश्रौ ११,
१५, २५; हिश्रौ २४, ६, १२;
आश्र; -सात् आपश्रौ १५,१७,
८; भाश्रौ ४,३,३;११,१७,१०;
माश्रौ; -सानाम् भाश्र २, १७:
१; हिश्र २, १५, ९; १०;
-सानि पाश्र १, ११, ५; अप्राय
३, १०; विश्र-५१, ७६; -से
अश्र १, ११^e; माशि ४, १४;
-सेन आपश्रौ ६,१५,१; १६,१९,
१; भाश्रौ ६, १४,१४; वाश्रौ;
पाश्र १,१६,२^f; -सेषु आपमं
२, ११, १९^g; -सै: पाश्र १,
११, ५; अपश्र १, २७-२८, २;
३०, २; ४४, ३,१०.
मांसी^h- पा ४, १, ४१; -सी
अप ३५,२,४.
मांस-काम- -म: गौपि १,१, २७;
-मा: हिपि २१: १६; आश्रिण
३,९,१:४; बौपि २,५,१.
मांस-क्षीरौ(र-ओ)दन-मधु-कु
(ल्य>)ल्या- -ल्याभि: कप्र २,
४,१५.
मांस-चरु- -रुम् गोश्र ४,१, ६; २,
१४.
मांस-तस(ः) माश्रौ १,५,१, १७;
२,१,२,२;३.
मांस-तैल-विपाक- -का: अप ६४,
६,८.
मांस-स्व- -स्वम् विश्र ५१, ७८.
मांस-स्वग्-अस्थि- -स्थि अप्राय ३,
८.
मांस-धौतⁱ- -तस्य आपश्रौ ६,१२,

३^g.
मांस-परिवर्जन- -नात् विध ५१,
७७.
मां.मां.स-पाक^h- पाग ७, ३,५३;
-क: मीसू १२, ३,६.
मांसपाक-प्रतिषेध- -ध: मीसू
१२,२,२.
मांस-पिप्पलि^h- -०लेⁱ आपमं २,
२१,१^g.
मांस-पेशी^h- -शम् अप ६७,७,२.
मांस-पेशी^h- -श्री अपश्र १, ३५, १;
-शीम् गोश्र ४,२,१२:
मांस-प्रतिषेध- -ध: काश्रौ १, १,
२१.
मांस-भक्षण- -णम् आपश्र १, २१,
१४; हिश्र १,६,४४.
मांस-भैक्षहार^h- -र: सुध ४७.
मांस-मत्स्य-तिल-संसृष्ट-प्राशन-
-ने बौध २,३,२३.
मांस-मधु-घृतौ(त-श्रौ)षधि-गन्ध-
पुष्प-सूल-फल-रस-दारु-पत्रा(त्र-
अ)जिन-सृङ्गाण्ड(ण्ड-अ)
श्मभाण्ड-नैदल- -लेभ्य: विध
३,२५.
मांस-मय- -या: निसू १०, ९:
२०.
मांस-माष-लवण-वर्जम् वाश्रौ १,
१,२,२.
मांस-सुख^h- -स्व: कौसू १२९, १;
-स्वे कौसू ९३,३६.
मांस-मैथुन- -ने काश्रौ २,१,८.
मांस-ल,ला- पा ५,२, ९७; -लाम्
बौश्रौ २,८:१; -ले अप ६३,
१,८.

a) वैप १ द्र.। b) तु. पागम.। c) पाभे. वैप १, २४७५ i द्र.। d) = भोषधि-विशेष-। जटा-
मांसी- 'मुरामांसी-। e) तुस. पूष. = [उपचारात्] हस्त.। f) भाण्डा. [पक्षे], पासि. पाठ:। g) नाप.।
स्स. उप. कर्तरि अण् प्र.। h) नाप.। अर्थ: ?। i) सवा. शांश्र ३, १२, ५; १४, २ सुमनासुस्ति इति पाभे.।
j) = मांस-खण्ड-। k) पाठ: ? मांसं भैक्ष^h इति द्विपद: शोष: (तु. सप्र. सुषप [८६:११])। l) वस.।

मांस-लवण-मिथुन-माघ°- वैभ्यः
 शांश्रौ ४, १, ३.
 मांस-लवण-लाक्षा-क्षीर-विक्रयिन्-
 -ग्री विघ ५४, २१.
 †मांस-वत्- -वत् आपमं २, २०,
 ३३; पागृ ३, १०, ४८; आग्नि ३,
 २, ६: १; भागृ २, १७: २;
 हिगृ २, १५, ९.
 मांस-वर्जन- -नम् आश्रौ ३, १४,
 १९.
 मांस-वर्जम् आपश्रौ १०, १६, १४;
 आगृ १, ९, ५.
 मांस-वर्ष°- -र्वेण अप ७१, ८, ३.
 मांस-शेष- -शेषेण बौगृ २, ११, ५०,
 भागृ २, १७: १५; हिगृ २, १५,
 १३.
 मांस-शोणित- पाग २, ४, ११.
 मांसशोणित-कर्दम°- -मा:
 अप ६२, १, ८; २, ४.
 मांसशोणित-गन्ध- -न्धानि अप
 ७१, १२, २.
 मांसशोणित-वर्षण- -णे अप
 ७१, १, ३.
 मांस-संहित, ता- -ताभ्याम् काश्रौ
 २, ६, ३२; आपश्रौ २, १८,
 १०; भाश्रौ २, १७, ९; वाश्रौ
 १, १, ३१; वैश्रौ ६, ८:
 ३; हिश्रौ २, २, १४; जैश्रौ १, ३:
 २२; -ते काश्रौ ७, ३, १७; भाश्रौ
 १०, ५, १४; हिश्रौ ७, १, ४५.
 मांस-सस्या (स्य-अ)ञ-विद्वेष-
 -षः अप ६४, ५, ५.
 †मांस-सुख°- -खाः आग्नि ३, ४,
 २: १७; बौपि ३, २, ३; गौपि १,

२, ४१.
 मांस-स्थ (स्त्री-अ) नृत- -तानि
 काश्रौ ५, २, २२.
 मांस-स्थ (स्त्री-अ) नृत-मूत्रकृतवा-
 सस्°- -सांसि काश्रौ ४, ४, २७.
 मांसा (स-आ) दि- -दीनाम् सुघप
 ८७: १६.
 मांसा (स-अ) नशन- -नम् शांश्रौ ३,
 १३, ३०.
 मांसानशना (न-आ) दि-व्रत-
 -तानि वैश्रौ ८, ८: ६.
 मांसा (स-अ) भाव- -वे आग्नि ३,
 १, ३: ३७; हिगृ २, १३, ५.
 मांसा (स-अ) भिवार°- -राः गोगृ ४,
 २, १३.
 मांसा (स-अ) वदाना (न-अ) र्थ-
 -र्थः कप्र ३, १०, ३.
 मांसा (स-अ) शन- > °न-श्राद्धसूतक
 भोजन- -नेषु शांश्रौ ६, १, ७.
 मांसा (स-आ) शा- -शा आपश्रौ ७,
 २८, ८†.
 मांसा (स-अ) षका°- -का जैगृ २, ३:
 २.
 मांसिक- पा ४, ४, ६७; १०२; ५,
 १, १०१.
 √मांसीय, मांसीयन्ति आपश्रौ ७,
 २८, ८†; वाघूश्रौ ४, १०: २.
 मांसो (स-उ) क- -क्ते वैघ ३, ५, ६.
 मांसो (स-ओ) दन- -नम् अप १, ३६,
 ५; बौगृ २, ११, ३६; जैगृ २,
 ९: २७†.
 मांसो (स-उ) पर्यासन- -ने काश्रौ
 १६, १, २९.
 मांसो (स-उ) णता- -ता अप ६८,

१, २५.
 मांसो (स-ओ) दन- पागृ ४, १०२६;
 १०३; पागवा ५, १, १०१;
 -नम् आग्नि २, ५, १: ३६†;
 आपगृ २२, ५.
 मांसो दन-पिण्ड- -ण्डान् मागृ
 २, ९, ८.
 मांसो दनिक- पा ४, ४, ६७;
 १०२; १०३; ५, १, १०१.
 मांसो दनिका (क-आ) दि-
 -दिषु पावा ५, १, १९.
 मांस-काम- प्रभृ. मांस-द्र.
 †मांस्ता √मन् (परि.) द्र.
 मांस-पत्र- °पाक- *मांस-द्र.
 माकथेय- मकथु- द्र.
 माकरायण- रमकर- द्र.
 माकष्टेय- मकष्टु- द्र.
 माकिम्, माकिस्, माकीम् मा द्र.
 माक्षव्य- °व्यायनी- रमजु- द्र.
 माक्षिक- मक्षिक- द्र.
 मागद्य- मगदिन्- द्र.
 †मागद्य- मगद्य- द्र.
 रमागद्य°- -घः आपश्रौ २१, १९, ६;
 हिश्रौ १६, ६, २४; वागृ १०, १८;
 बौघ १, ९, ६; वैघ ३, १३, ११;
 अप्रा ३, ४, १; -घम् भाशि
 ४८; -धानाम् विघ १६, १०;
 -घाय आपश्रौ २१, १७, १९.
 मागद्य-वाक्य°- -क्यः बौश्रौ १८,
 २५: ६, ८.
 मागद्यदेश- प्रभृ. मगद्य-द्र.
 मागीर°- -रस्य वाश्रौ ३, २, ५, ४३†.
 माघ- प्रभृ. मघा-द्र.
 माघेष्टय- मघष्टु- द्र.

a) अग्रकृतत्वाद् मिथुन-शब्दो मध्ये प्राक्षित इवेति C. । b) उप. = वर्षा- । c) बस. । d) 'सूत्रकृत°
 इति चौसं. । सूत्रकृत° = सूत्रकिलन्न° इति PW. प्रभृ., रजकश्रौत° इति त्रिद्याधरः । e) = माघमासकृष्णशुक्लष्टय-
 कर्मन् । मलो. कस. । f) सपा. मांसो <> मांसो इति पाभे. । g) तु. पागम. । h) वैप १६. ।
 †) = सङ्कीर्ण- । j) पामि. पृ. १८९९. g द्र. ।

माघी- मघा- द्र.
 माङ्- माङि पा ३, ३, १७५.
 °माङ्- पा ६, १, ७४.
 माङ्-योग- गो अत्रा २, ३, ७; पा ६, ४, ७४.
 माङ्गिल- मङ्गिल- द्र.
 माङ्गिकल- मङ्गिकल- द्र.
 ✓माङ्क्ष पाधा. भ्वा. पर. काङ्क्षायाम्.
 माङ्क्ष्य- °व्यायनी- २मङ्क्षु- द्र.
 माङ्गद- -दः या ६, ३२०.
 माङ्गल- मङ्गल- द्र.
 माङ्गलि- -लयः बौश्रौप्र २७ : २.
 माङ्गल्य- मङ्गल- द्र.
 माङ्गुल्य- मङ्गुष- द्र.
 माच^१- (> च्चि- पा.) पाग ४, १, ४१
 माचाकीय^२- -यस्य तैप्रा १०, १२.
 माजिरक- मजिरक- द्र.
 माजिष्ठ- प्रभृ. मजिष्ठा- द्र.
 माजीरक- मञ्जीरक- द्र.
 माटव- -वम् निस् ७, ११ : १७०.
 माठर^१- मठर- द्र.
 रमाठर^२- (> °रक- पा.) पाग ४, २, १२७.
 माठरायण- मठर- द्र.
 ✓माङ्^३ पाधा. भ्वा. उभ. माने.
 माडार्य- मडार- द्र.
 माङ्गुक- °किक- मङ्गुक- द्र.
 माणभिन्द्व्य^४- -व्याः बौश्रौप्र १७ : ५.
 माणव^५->माणव-क^६- -कः गोय २,

१०, ६; १६; ३२; -कस्य चाञ्च
 १६ : १९; -काय काय २८, ५.
 माणवीन- पा ५, १, ११.
 माणव्य- पा ४, २, ४२; ५, १, १२४.
 माणि- -गिः बौश्रौप्र ३१ : २.
 माणिक्य- मणि- द्र.
 माणिचर^७- -राय पाय ३, १४, ७.
 माणिपाल- °लिक- मणि- द्र.
 माण्डरिक- मण्डर- द्र.
 माण्डलिक- २मण्डल- द्र.
 माण्डलेखि^८- -खयः बौश्रौप्र ४७ : १.
 माण्डव- प्रभृ. मण्डु- द्र.
 रमाण्डक- १मण्डक- द्र.
 रमाण्डक- °कायन- प्रभृ.
 २मण्डक- द्र.
 मात^९- पावा १, १, १४.
 मातर-पितृ-, मातरि-पुरुष- मातृ- द्र.
 मातरिभ्व(त्>र>)री^{१०}- -री^{११}
 अत्रा ३, २, ३२; ४, १.
 मातरिश्चन्^{१२}- पाठ १, १५९; पाग ५, २, ६२; -°श्चन्- -°श्चन् या ७, ३१; -°श्चनः काश्रौ ४, २, २०; आपश्रौ; -श्चना बौश्रौ ३, २८ : १९१^०; -श्चनि शांश्रौ १६, ११, २६; -श्चने सु ६, ५; -श्चा ऋश्रौ १, ६, १; ४, १२, २; ५, १, १; शांश्रौ; ऋश्र २, ८, ५४^०; या ७, २६१^०; -श्चानम्

या ७, १८^१; २६; -°श्चाना^{१३}
 आपश्रौ ६, २१, ११^१; -°श्चानौ^{१४}
 वाधूश्रौ ३, ५४ : ११.
 मातरिश्चक- पा ५, २, ६२.
 मातलि^{१५}- -लिम् शंष ११६ : १५.
 मातली^{१६}- -ली आश्रौ ५, २०, ६;
 शांश्रौ ८, ६, १३; वैश्रौ ९, ९ : १;
 कौसू ५८, २५; अप ३२, १, ३१;
 ४६, ६, ४; अश्र ११, ६.
 मातवचस- ✓मन्->मतवचस- द्र.
 मातवै^{१७} या ११, ४२.
 माता-पितृ- मातुल- प्रभृ. मातृ- द्र.
 मातुल- पाठभो २, २, ६५.
 मातृ^{१८}- पाठ २, ९५; पाग ४, १, १०;
 पावा ६, १, १४; -०तः शांश्रौ १, ५, ९१^१; काश्रौ १५, ६, २५१^१; वैताश्रौ; सु ६, ३; ७, ४; ९, ५; ११, ३; २१, ४; माय १, २, २१; -°तः आश्रौ ६, १३, ११; ८, १२, ६; काश्रौ; आपर्म १, ११, ४^१; काय ३०, ३^१; बौय १, ९, ३^१; या ३, ६; १२, ७^१; १४, ६; -°तरम् आश्रौ २, १, २९; ७, ११; १०, २१; ३, ८, १××; ८, १३, २^१; शांश्रौ; माश्रौ २, ५, ४, २१^१; लाश्रौ ३; ७, ८^१; कौय ३, ६, १^१; शांय ३, ११, ४^१; या २, ४; १०, ४६; -°तरा आपश्रौ १३, १९, ५^१;

a) = मा । b) = मगन्द- । व्यु. ? । c) = ऋषि-विशेष- । d) तु. पागम. ।

e) पाठः? माटचम् (<मटची-) इति शोषः संभाव्यते (तु. [वंशतः] मूको.) । f) पृ १९०१ गनि. वनि. संख्यासंकेतः द्र. । g) = देश-भेद- । ग्राम- इति पागम. । h) तु. BPG. । i) = बाळक- । व्यु. ? । पाय ४, १, १६१ <मनु. गु. - इति । j) अनुक्रमगायां कन् प्र. । k) अर्थः व्यु. च ? । = [रथाषिष्ठानी-] देवता- इति जयरामः, असुरविशेष- इति Old, पूष. < मणि- इति MW. । l) = मातृ- । m) वैप १ द्र. । n) वैप १, २४७६ द्र. । o) शोषः वैप १, २२८७ & द्र. । p) परस्परं पाभे. । q) = इन्द्र तारयि- । व्यु. ? < मतल- इति अम. सक. । r) वैप १, २४७७ e द्र. । s) पाभे. वैप २, ३३. माता तैआ १०, २६, १ टि. द्र. । t) वा विद्वैतलोपः उच्च. (पावा ८, ३, ३६) । सपा. उत्तरः <> °तरी इति पाभे. । u) पाभे. वैप १, २४७७ d द्र. ।

बौध ३, ११, ३; या ९, ३९;
 -तरि आपश्रौ १६, २६, १२०;
 वैश्रौ; शंघ २७०; ३४८; आपघ
 १, १०, ४; १४, ६; या ३,
 ४; ७, २६; पावा ४, २, ३६;
 -तरौ माय १, १४, १६; या ९,
 ३९; -पाता आश्रौ १, ३, २२;
 शाश्रौ; आपश्रौ १६, २६, १२०;
 वैश्रौ १८, १८: १६०; हिश्रौ
 ११, ७, ५१; आश्रिण २,
 ६, ८: २२; ३, ८, ३: ११;
 या २, ८; -पाता शाश्रौ १२,
 २२, १; आपश्रौ; शांघ ३, १३,
 ५; पाय ३, ७, २; या २,
 ८; ८, १८; पा ४, १, ११५;
 -तुभिः आश्रौ ४, ७, ४२;
 काश्रौ; -तुभ्यः बौश्रौ १०, ४:
 ११; पाता २, १, १९; ११,
 ३४; आश्रिण; -तुः आपश्रौ २१,
 ८, ३; बौश्रौ; -तुणाम् काश्रौ ४,
 २, ९; -त्रा शाश्रौ १५, १७, ११;
 काश्रौ २०, २, ९; आपश्रौ;
 सु १५, ३; १८-१९, १; आश्रिण
 २, २, ३: ३; विध १५, २५;
 पा १, २, ७०; -त्रे काश्रौ १४,
 ५, १४; आपश्रौ; आश्र १, १७,
 ११; माय १, ११, ३;
 अप ३२, १, १९; शंघ ११६:
 ७३; आपघ १, ७, १५; विध
 ७४, १; हिघ १, २, ७२.
 मातर-पितृ- पा ६, ३, ३२.
 मातरि-पुरुष- पाय २, १, ४८; ६,
 २, ८१.
 माता-पितृ- तरि हिघ २, ३, ४४;

-तरौ आश्र १, १५, ८; कौय;
 -तुभ्याम् वाघ १७, ३७, ७१; बौध
 २, २, २०; २३; विध १५, १९;
 वैध ३, ३, ८; गौध १४, ४१; -त्रो:
 काश्रौ १५, ४, १६; पाय.
 मातापितृ-कृत- -तम् अप ३८,
 ३, ५.
 मातापितृ-निमित्तक-
 -कः वाघ १५, १.
 मातापितृ-रहित- -तः विध २४,
 २३.
 मातापितृ-विहीन- -नः बौध २,
 २, २८.
 माता-पुत्र- -त्रयोः आश्रिण २, १,
 ५: १; -त्रौ भाग १, २६: ३;
 हिण २, ४, ६; वृदे ४, ३९.
 माता-मह- पा, पावा ४, २, ३६; पाग
 ४, १, ४१; -हः वाघ १७, २३;
 विध २४, ३८; -हयोः पाय ३,
 १०, ४०; -हस्य वाघ १७, २२;
 -हान् आश्रिण २, ६, ३: ४८;
 कप्र २, २, ३-८; बौध २, ५,
 २८; -हानाम् विध ७५, ७;
 -हाय शंघ ११६: ७३; -हे
 विध २२, ४२; -हेभ्यः आश्रिण
 १, २, २: ३२×४; बौध ३, ९, ७;
 भाय ३, ११: ६; हिण २, २०,
 २; अप ४३, ६, ३.
 मातामही- पा ४, १, ४१;
 पावा ४, २, ३६; -ही बौश्रौ १२,
 १८: ७; -हीः आश्रिण २, ६, ३:
 ४९; बौध २, ५, २८; -हीभ्यः
 आश्रिण १, २, २: ३३; ३, ११,
 ४: २५; बौध २, ११, ३४;

-है शंघ ११६: ७४.
 मातामह-पितामह- -हाभ्याम्
 शंघ २९०.
 मातामह-प्रभृति- -तीन् कप्र
 १, ३, १२.
 मातुल- पा, पावा ४, २, ३६; -लः
 आश्रिण २, ३, ५: १४; बौध १,
 २, ६५; वैध २, ११, २; -लम्
 बौपि ३, १, ५; आज्यो १२, ६;
 -लस्य या १४, ३०; -लाः
 सुघप ८५: २.
 मातुलानी- पा, पावा ४, १,
 ४९; -नी बौध २, २, ६४.
 मातुलानी-पितृष्वस्-
 स्नुषा-भगिनी-दुहितृ-गमन-
 -नेषु शंघ ३८६.
 मातुली- पावा ४, १, ४९.
 मातुल-पितृ-ष्वस्- -सा बौध
 २, २, ६४.
 मातुल-पितृष्वस्-दुहितृ-
 गमन- -नम् बौध १, १, १९.
 मातुल-मातामह- -हेभ्यः अप
 ४४, ४, ९.
 मातुलयोगकन्याभागम् या
 १४, ३०.
 मातुल-स्वशुर- -रौ बौध २, ३,
 ५७.
 मातुलसुतामातृष्वसुगोत्रापौ-
 सुघ ४५.
 मातु-ष्वस्-मातु-स्वस्- पा ८,
 ३, ८५.
 मातृ-क- पावा ६, १, १४; पाग ४,
 २, १३८.
 मातृ-गण- -गः अप ३२, १, ४; -गैः

a) = (वायु-मातृस्थानीय-) अन्तरिक्ष- । b) पामे. पृ १९४५ t द. । c) पामे. वैप १, २४७८ f द. । d) पामे. वैप २, ३६. माता तैत्रा १०, २६, १ टि. द. । e) पामे. वैप १, १६१२ & द. । f) पामे. पृ १३३ d द. । g) पामे. पृ १८८३ p द. । h) वैप १ द. । i) वस. । j) दस. पूषः आनन्ददेवः (पावा ६, ३, २४) । k) पाठः ? प्रतिपत्त्यर्थं संस्कृतुः टि. द. । l) तु. पायम. ।

अप २०, २, ६.
 मातृ-गमन- -नम् विध ३४, १.
 मातृ-गामिन्- -मि विध १७, ७.
 मातृ-गोत्र-नामा(म-अ)न्त-
 -न्तात् वैय १, ७, ८.
 मातृ-धात- -त्तेन आग्रिण्य २, ४, ८ :
 १९.
 मातृ-घ्न- -घ्नः शंघ ३७७ : १०.
 मातृ-त(म>)मा^१- -मासु बौश्रौ
 १२, ९ : १०फं.
 मातृ-तस(ः) आश्रौ ९, ३, २०; आगृ;
 शंघ ७०; विध २४, १०; ५७,
 ४; सुधप ८८ : ८; या १४, ५.
 मातृ-त्व- -त्वात् वृदे ६, ९१; -त्वे
 वृदे ६, ३८.
 मातृ-नामन्^२- -मभिः वैताश्रौ ५,
 १०; कौसू ९४, १५; ९५-९६, ४;
 १०१, ३; ११४, ३; अप ३३, ५,
 ६; -मा अप ३२, १, ४; अशां
 २३, १; अअभू २^३; अअ ४, २०;
 -मानि कौसू ८, २४; १३६, ९;
 अप ३२, १, ४; ३३, ६, २; -म्नोः
 कौसू २६, २९.
 मातृनाम-गण- -णस्य अअभू
 २^३; -णेन अप १९^३, ४, २.
 मातृनाम-देवता- > ^४त्य-
 -त्यम् अअ ८, ६.
 मातृनाम-दैवत- -न्तम् अअ ४,
 २०.
 मातृनाम-वास्तोष्य- -त्यौ
 अप ३३, १, ९.
 मातृ-पक्ष- -क्षानाम् शंघ ११६ :
 ७६^३; ११८^३.

मातृ-पितृ-> ^५तृ-क^६- -काणाम्
 शंघ १६२.
 मातृ-पितृ-तद्वन्धु- -न्धूनाम् गौघ
 ६, ३.
 मातृ-पितृ-भक्त- -क्तः काघ २७० :
 ४.
 मातृ-पितृ-भगिनी-गामिन्- -मी
 शंघ ३७८.
 मातृ-पितृ-आतृ-सखि-मत्-
 -मन्तम् वैश्रौ १०, ९ : १४.
 मातृ-पितृ-वंश- -शः वाघ ३, १९.
 मातृ-पितृ-शुश्रूषु- -सुः अप ४४,
 २, ४; शंघ १९९.
 मातृ-पितृ-संयोग- -गात् या १४,
 १ : ६.
 मातृ-पूर्वक^७- -कम् अप ४४, १, ५.
 मातृ-बन्धु- -न्धुभ्यः वाय १०, २;
 वाघ ८, २; गौघ ४, ५.
 मातृ-भक्ति- -क्त्या विध ३१, १०.
 मातृ-भगिनी-गामिन्- -मी शंघ
 ३७८.
 मातृ-मत्- -मन्तम् आपश्रौ २०,
 २, १०; हिश्रौ १४, १, २४;
 -मान् हिश्रौ ४, ३, १.
 मातृ-म(य>)यी- -दी काय १८,
 २फं.
 मातृ-मातामह- -हानाम् गौपि २,
 २, १७.
 मातृ-मातृ^८- -त्रोः पांवा १, २, ६४.
 मातृ-याग- -गम् शांघ ४, ४, ३.
 मातृ-युक्त^९- -क्ते विध ५, ३४.
 मातृ-योगीश्वरी- -रीम् शंघ ११६ :
 २७.

मातृ-वंश- -शः शांघ ४, १०, ६;
 अप ४३, ४, ६०फं.
 मातृ-वत् बौश्रौप्र ५४ : ६; बौघ
 २, १, ३८; वैघ २, ५, ३; ११, २.
 मातृ-बल- -पागम ४३०.
 मातृ-वृत्ति- -त्तिः वाघ १९, ३०^३.
 मातृ-श्राद्ध- -द्धम् शंघ १९०^३.
 मातृ-श्व- -स्वस्- पा ८, ३, ८४;
 -सा विध ३२, ३; -सारः सुधप
 ८५ : २; -सारम् सुधप ८७ : ६१.
 मातृश्वस्-पितृश्वस्-स्तुषा-भगि-
 नी-भागिनियो-गो-चण्डाली-
 -लीनाम् सुधप ८७ : १.
 मातृश्वस्-स्तुषा-भगिनी-भगि-
 नेयो-चण्डाली- -लीनाम् सुध
 ४८.
 मातृश्वसेय- , मातृश्वसीव-
 पा ४, १, १३४.
 मातृ-सपिण्ड- -ग्ढाः गौघ १५,
 १३.
 मातृ-स्ववर्ण- -र्णाः विध १६, २.
 मातृ-स्थान- -न्ने कौय १, १८, २.
 मातृ, त्रा- प्रत्य. √मा (वधा.) द्र.
 ?मात्रातलेखनी- -नीम् अप ३३,
 ६, ७.
 ?मात्वमध्यवच्छित्वासौ^{१०} कौय २,
 ३, १३फं.
 मात्सी- , मात्स्य- , मात्स्यिक- १मत्स्य-
 द्र.
 माथ- √मथ् द्र.
 माथुर- मथुरा- द्र.
 माद्- √मद् द्र.
 मादघ- मददिन्- द्र.

a) वैप १ द्र. । b) = ऋषि-विशेष- [अप. अअ.], ऋषि-गण- , सूक्त- [वैताश्रौ. कौसू. प्रमृ.], देवता-
 [अअ.]. । c) 'माग' इति पाठः ? यनि. शोघः । d) विप. (दोष-) । ततः आगतार्थे ष् प्र. (पा ४, ३, ७८) ।
 e) बंस, पूष. = षोडशमातृ-पूजन- । f) लघ. (< √मा [माने]) = परिच्छेत्- । g) = (मातृदेस्यक-) आक्षेप- ।
 h) उप. = (धर्म्य-) युक्त- । i) पाठः ? वाऽत्रा(त्र-आ)व इति वा तत्रा(त्र-आ)व इति वा तत्रा(त्र-आ)व इति
 वा संसर्तुः टि. शोघाः । j) पाठः ? । सप्र. शांघ २, ३, ५ इत्ययदेसमभिस्तु इति इति पाठे. ।

मादन-^१ दधिलु- ✓मद् द्र.
 मादाधि^२- वयः बौश्रौप्र ७ : ३;
 ३२ : २.
 ?मादानक^३-> क-श्रुत- तम् कौसु
 १२, १.
 ?मादायिषु निस् २, ९ : ३२.
 ?मादि^४- म-द्र.
 ?मादि- ✓मा (बधा.) द्र.
 ?मादि-मादेः^५ द्राश्रौ ६, २, ९.
 मादिन्- ✓मद् द्र.
 माद्रकस्थलक- रमद्र-द्र.
 माद्रकारि^६- रयः बौश्रौप्र २२ : ४.
 माद्रकूलक- रमद्र-द्र.
 माद्रपथि^७- थयः बौश्रौप्र १७ : ७.
 ?माद्रव- वम् शंघ ११६ : ६२^८.
 माद्रशर्मि- मद्रशर्मन्- द्र.
 माद्रुकस्थलक- मद्रुक-द्र.
 माद्रय^९-> ^{१०}द्वेय-ताम्रलिस- सः
 अप ५६, १, ४.
 ?माधव- १मधु-द्र.
 ?माधव^{११}- नम् आम्रिण २, ५, ७ :
 ९^{१२}; बौश्र १, ११, ७; वैश्र ३,
 १३ : ४; बौध २, ५, २४.
 माधवक- १मधु-द्र.
 माधव्य- २मधु-द्र.
 माधुकार्णिक- प्रमृ. १मधु-द्र.
 माधुमत- त्क- २मधुमत-द्र.
 माधुर्य- १मधु-द्र.
 माधूक- मधूक-द्र.
 माध्य-^{१३}ध्वदिन- प्रमृ. मध्य-द्र.

माध्यमेय^{१४}- याः बौश्रौप्र ६ : ३.
 माध्यस्थ-^{१५}ध्वावर्ष- मध्य-द्र.
 ?माधि^{१६}-^{१७}ध्वी आश्रौ ४, ७, ४;
 शाश्रौ ५, १०, २१; बौश्रौ ७,
 ३ : २; -ध्वीभ्याम् बौश्रौ ७,
 ८ : २१; माश्रौ २, ३, ६, १४.
 माध्वी- १मधु-द्र.
 ✓मान^{१८} पाधा. भ्वा. आत्म. चुरा.
 उभ. पूजायाम्; चुरा. आत्म.
 स्तम्भे.
 ?रमान- ✓मन् द्र.
 रमान^{१९}- नः अप्राय ३, १०; -नम्
 शाश्रौ १२, १९, ४^{२०}; आपश्रौ
 २१, १३, १४; १५; बौश्रौ
 १७, ३१ : १८; १९, १ : ४;
 २४, ६ : ४; ७ : ११; १२;
 वैश्रौ १, ३ : १२; ११, ९ :
 १२; कप्र १, ७, ४; अप २२,
 २, ५; आपध २, १८, १५^{२१};
 हिघ २, ५, ६८^{२२}; काशु ७, १५;
 २०; २८; या ११, ५; -०नस्थ
 भाग २, ३ : १३^{२३}; -नात्
 या ४, २५, २७; -नानि आपश्रौ
 २१, १३, ८; ९^{२४}; १०; कौसु
 ८५, १; -ने बौश्रौ २१, १२ :
 ११; हिपि १३ : ८; अप २५,
 २, ४; आपध २, १८, १७^{२५};
 हिघ २, ५, ७०^{२६}; या २,
 २२^{२७}; पा ४, ३, १६२;
 -नेन आपश्रौ २१, १३, १६;

बौश्रौ ६, २२ : १२; १८; हिश्रौ
 ७, ४, ४१; अप २४, १, ४; वृदे ५,
 १५३; या ३, १३; -नैः बौश्रौ
 १३, २७ : ८^{२८}.
 मान-कर्तृ-^{२९}नैरि कप्र १, ६, ११.
 मान-कूट-^{३०}टम् अप ९, ३, ४.
 मान-कृत-^{३१}कृत कप्र १, ६, ११.
 मान-क्रिया-^{३२}न्यायाम् कप्र १, ६,
 ११.
 मान-पद्मवङ्ग-^{३३}ङ्गयोः पा ५, ३, ५१.
 मान-मूल्य-मा(त्रा >)त्र-^{३४}त्रम्
 वाघ १९, १५.
 मान-योग-^{३५}गः बौश्रु ३ : २४; ४ :
 ४; ७; १०.
 मान-विद्^{३६}-^{३७}वित् काशु ७, २९.
 मान-हविर-निवास-सामिधेनी-
 -नीषु पा ३, १, १२९.
 माना(न-अ)धिक,का-^{३८}कम् काशु
 ७, ३०; -का काशु ७, १२.
 माना(न-अ)भिमर्शन-वर्जम् काश्रौ
 १०, ३, १६.
 माना(न-अ)र्थ, र्था-^{३९}र्थाः बौश्रु.
 १६ : ८; -र्थेषु आपश्रु ६, १४;
 बौश्रु १ : ७; हिश्रु २, ४३.
 मानो(न-उ)न्मान-^{४०}ने वाघ १९,
 १३.
 मानो(न-उ)पावहरण-^{४१}गे मीसू १०,
 ६, ७७^{४२}.
 रमान्य^{४३}-^{४४}न्यः वृदे ५, १५३; -न्यम्
 वृदे ४, ५२.

a) = ऋषि-विशेष-। b) = वृक्ष-विशेष-। मादनक- [< मदनक-] इति पाठः संभाव्येत (तु. B [भू. LIII] MW. च)। c) पृ १८८६ यनि. संख्यानिर्देशः द्र.। d) यन्मे मनः (तांभा १, ५, १७) इत्यादिरिति भावः (तु. सा. तांभा १, ५, १८)। e) = विधेदेव-विशेष-। सपा. अपु २१९, २२ माद्रवाः इति, शक. आद्रवाः इति च पाठे.। f) = मद्रजनपद- वासिन्-। g) वैप १, २४८०। द्र.। h) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र.। i) पा. पाका ३, १, ६ परामृष्टः द्र.। j) ब्राम्.। k) = धिष्यन्-। < ✓मि इति हरदत्तः ४। l) पाठे. वैप १, १८९४ ह्र. द्र.। m) पाठे. पृ १७५६ p द्र.। n) उप. < ✓विद् [ज्ञाने] ४। o) षौ इति पाठः यनि. शोषः (तु. जीसं.)। p) षसान- (अगस्त्य-ऋषि-) (वैप १) > संमितार्थे यत् प्र-
 च्यते (प ४, ४, ९१)।

३मान^a->मान-शब्द- व्दे अप्रा ३,
४, १.

३मान^b- आपश्रौ २१, १८, ८; द्राश्रौ
११, १, ७; लाश्रौ ४, १, ७.

मानङ्गि^c-ङ्गि- बौश्रौप्र २७: ९.

मानतन्वय- न्य- गोष्ट १, ६, १;
द्राष्ट २, १, ५^d.

माननायन- २मनन- द्र.

मानव- प्रभृ. मनु- द्र.

मान-वल्ली^e-(>वलक- पा.) पाग
४, २, १२७.

मानवी- न्य- प्रभृ. मनु- द्र.

मानस- प्रभृ. √मन् द्र.

मानसायन- २मनस्- द्र.

मानसीन- √मन् द्र.

मानसोत्तर^f- >रा(र-आख्या >)
ख्य^g- ख्यम् शेष ११६: १५.

मानस्तोक- ंकीय- मा द्र.

मानस्थ(ल >)ली^h-(>स्थलक-
पा.) पाग ४, २, १२७.

मानस्य- २मनस्- द्र.

मानायन- मन- द्र.

मानाय्य- मानाय्यायनी- मनु- द्र.

१, २मानिन्- √मन् द्र.

१मानिस्वाङ्ग- ज्ञानि अप ६८, १, ९.

मानुष- ंषी- प्रभृ. मनुस्- द्र.

१मानुष्य- मनुष्य- द्र.

२मानुष्य- २मनुस्- द्र.

मानुष्यक- ंष्यलोक- मनुष्य- द्र.

मानोन्नक- √मन् >मनो-ज्ञ- द्र.

मा(म-अ)न्त- म- द्र.

मान्तव्य- न्यायनी- २मनु- द्र.

मानत्रवर्णिकी- √मन् द्र.

मान्त्रित- न्य- मन्त्रित- द्र.

१मान्थालⁱ- न्ना: भाशि ५७.

मान्थ्य- √मथ द्र.

१मान्दा^j- न्दा: आपश्रौ १४, १८,

१××; बौश्रौ १२, ८: १३××;

वाश्रौ ३, ३, २, १६; हिश्रौ १३,

५, १४; १५, ५, ४××; आश्रिष्ट;

-न्दासु^k आपश्रौ १२, ८, २;

बौश्रौ १४, १२: ९; वैश्रौ १५,

१०: ३; हिश्रौ ८, २, ३८.

मान्दार्थ- मन्दार- द्र.

मान्द्य- मान्द्र- √मद् द्र.

मान्द्रित- न्य- मन्द्रित- द्र.

मान्धातकायन- ंतिक- मन्धातक-
द्र.

मान्धातु^l- तु: बौश्रौप्र २२: ३.

मान्धातृ^m- तारम् आपश्रौ २४, ७,
१२ⁿ.

२मान्धात्र- ंत्र आपश्रौ २४,

७, १२^o; ८, १^p.

मान्धातृ-वत् आपश्रौ २४, ७, १२;

८, १.

१मान्धात्र^q- मन्धातृ- द्र.

मान्धुक- मन्धुक- द्र.

मान्धूप^r- प: बौश्रौप्र २२: ३.

१मान्य- √मन् द्र.

२मान्य^s- न्य: ऋञ्च २, ८, ६७.

मान्यव- √मन् >मन्यु- द्र.

मापयित्वा √मा (बधा.) द्र.

मामक- ंकी-, ंकीन- अस्मद्- द्र.

मामण्ड^t- ण्डा: बौश्रौप्र १७: १.

मामतेय^u- न्य: वाधुश्रौ ३, ९४: ७.

मामन्धरेषण^v- णा: बौश्रौप्र १२:
१.

मामहान- √मह द्र.

मामिका- अस्मद्- द्र.

मायते निघ ३, १९.

माया^w- पाठ ४, १०९; पाग ४, २,

१७^{xy} ५, २, ११६; -यया

१आश्रौ ४, ६, ३; १०, ९, २^z;

शाश्रौ १६, ६, १^{aa}; आपश्रौ;

लाश्रौ ९, १०, १२^{ab}; वाध ६,

५; वृदे २, ४३; -या सु २५,

१; २; अप ४८, ८४^{ac}; निघ ३,

९^{ad}; -१था: निघ ७, ११: २०;

अप्राय ६, ९; या१२, १७^{ae}; शुप्रा

४, २७; -याम् आश्रौ १०, ७,

७; शाश्रौ १६, २, २१; बौश्रौ;

या ७, २७^{af}; -यथा: अप्रा

३, १, ६^{ag}; -यायाम् पा ४,

४, १२४.

माया-देव^{ah}- वा: हिष्ट १, १४, ४.

माया-बल- न्नात् वृदे ७, ८८.

माया-भेद^{ai}- न्दम् ऋञ्च २, १०

१७७; वृदे ८, ७५; -दे वृदे ८

७६.

१माया-वत्- वान् ऋषा ४, ७३.

माया-विन्- पा ५, २, १२१; -विन:

काण्ड ४०: ७^{aj}; -विनम्

वाध ६, ५; -विनौ ऋषा २,

- a) = [यजमानादि-शब्दानाम्] उत्तरांश-। b) पाठ: ?। = सपा. जै १२३ जैमि २, ४५। हिश्रौ १६, ६, १५ तु आन: इति पाभे. (तु. धन्वी)। c) = ऋषि-विशेष-। d) 'दन्त' इति आन., Old. च। e) = देश-विशेष-। f) = पर्वत-विशेष-। g) बस.। h) मानक इति [पक्षे] पागम., माषा इति पाका. पासि.। i) वैप १ द्र.। j) पाभे. वैप १, २४८१ ० द्र.। k) संस्कृतु: टि. भूयान् पाभे.। l) पाभे. पृ १९३२ I द्र.। m) पृ १९३२ निराकृतं द्र.। n) पृ १९३२ यनि. संख्यानिर्देश: द्र.। o) वैप १ २४८१ ७ द्र.। p) माका- इति पाका. पागम.। वामा- इति वामन: (तु. पागम.)। q) = नगरी- इति पागम.। r) पाभे. वैप १, २४८२ j द्र.। s) नाप.। बस.। t) विप. (मायाभेद-देवताक-) सूक्त- बस.।

१०, ५६^३; वृदे ७, ८६.
 मायिक- पा ५, २, ११६.
 मायिन्- पा ५, २, ११६; -फयिनः
 बौगृ ३, ११, ४; ऋप्रा २, ४५;
 -फयिन्म् आश्रौ ८, ८, २; शांश्रौ
 १०, ५, ८.
 मायु- √मा (शब्दे) द्र.
 मायुक- √मि, मी द्र.
 मायूरकर्ण- १मयूर- द्र.
 मायोभव-, °भन्ध- मयस्- द्र.
 मारण- √मृ द्र.
 मारायण^३- -णाः बौश्रौप ४१: ८.
 मारिषाभिगि^३- -गिम् वायूश्रौ ४,
 १०८: १६.
 मारी- √मृ द्र.
 मारीच-, °चि- मरीचि- द्र.
 मारुक- √मृ द्र.
 मारुत- प्रमृ. मरुत- द्र.
 मार्कण्डेय- मृकण्ड, खडु- द्र.
 मार्कायण^३- -णाः बौश्रौप ३: ११;
 ४: २.
 मार्कूल- पाठभोवृ २, ३, ११२.
 √मार्ग^३ पाथा. चुरा. उभ. अन्वेषणे.
 र्मार्ग^३- -र्गः अप ५०, ४, २; ५८^३,
 ४, १९; वैध १, ११, २; नाशि
 १, ६, १६; -र्गम् अप ५०, ४, ३;
 -र्गे मायृ २, १०: १३; हियृ २,
 ९, ८; अप ५२, २, ४; ७२, ३, ५;
 -र्गेण वैश्रौ २०, १९: ६; -र्गेषु अप
 ५२, १२, २.
 मार्ग-क्षेत्र- -त्रे शंघ ३०८; ३१०;
 -त्रेभ्यः वाघ १६, ११.
 मार्ग-ग^३- -गाः वैध १, १०, २; ८.

२मार्ग- मृग- द्र.
 ?मार्गपाली^३- > °ल्य(ली-अ)हन्-
 -ह्नि कप्र ३, ७, ८^{११}.
 १-२मार्गशीर्ष-, मार्गिक- मृग- द्र.
 मार्गीयव^३- -वम् लुसृ ३, १०: २३;
 -वस्य लाश्रौ ६, ११, २.
 मार्ग्य- √मृज् द्र.
 √मार्ज् पाथा. चुरा. पर. शब्दे.
 मार्जन- प्रमृ. √मृज् द्र.
 र्मार्जार^३- पाठ ३, १३^७; -२: शंघ
 ३७७: १५; विध २३, ५२; -२ैः
 शंघ ४३१.
 मार्जार-नकुल-मण्डुक-रव-सर्प-गर्द-
 भ-वराहा(ह-अ)इवा(श्व-आ)
 दि- दिषु वैध २, ११, ९.
 मार्जार-मुख-संस्पृष्ट- -ष्टम् वाघ
 १४, २७.
 मार्जार-मूषक-स्पर्श- -शौ कप्र १,
 २, १४.
 मार्जार-लिङ्ग-> °ङ्गिन्- °ङ्गिनः
 विध ९३, १०.
 मार्जार-वत् अप ७१, १३, १.
 मार्जारा(र-आ)दि- दिभिः वैश्रौ
 २०, ३६: ८.
 २मार्जार-(> मार्जार्थ-) मडार-
 टि. द्र.
 मार्जालीय^३- पाठ १, ११६; -यः
 शांश्रौ ६, १२, २१^१; बौश्रौ ६,
 २७: ३२xx; माश्रौ; -यम्
 आश्रौ ५, ३, १७; शांश्रौ; -यस्य
 शांश्रौ ६, १३, १०; -ये आश्रौ
 ६, १०, २१; ९, २, १७; शांश्रौ.
 मार्जालीय-देश- -शम् काश्रौ २६,

७, ३१; -शौ शांश्रौ १०, २१,
 ११; १२, ११, ३; आपश्रौ.
 मार्जालीय-न्यन्त- -न्ते आपश्रौ
 १८, ७, २; २१, १८, ७; वैश्रौ
 २१, ८: ७; हिश्रौ १३, २, ३१;
 १५, ५, ३७.
 मार्जालीय-सदेश- -शे लाश्रौ ८,
 ८, ४.
 मार्जालीया(य-अ)न्त- -न्ते वाश्रौ
 ३, २, ५, ४१.
 मार्जाल्य^३- -ल्यः बौश्रौ २८, २: ४५!
 मार्जित- √मृज् द्र.
 मार्डीकव-, °वायन- मृडाकु- द्र.
 मार्डीक- √मृड् द्र.
 मार्तेण्ड^३- पावाग ६, १, ९४; -ण्डम्
 आम्रियृ २, ४, ११: १३; शंघ
 ११६: ४४; -फण्डाय अप १४,
 १, ७; १७, १, ८.
 मार्त्तिक- √मृद् द्र.
 मार्त्यव-, मार्त्वी-, मार्त्य्य-
 √मृ > मृत्यु- द्र.
 मार्द- २मृद- द्र.
 मार्दव- √मृद् द्र.
 मार्दायन- २मृद- द्र.
 मार्ष^३- -र्षव कायृ २४, ९.
 मार्षण्य^३- -ण्याः बौश्रौप ११: २.
 माल- पाठ २, २८; पा, पाग ४, २, ७५.
 मालक- पाग २, ४, ३१^३; ४, १, ४१.
 मालकी- पा ४, १, ४१.
 मालकुज^३- -जः बौश्रौप २७: ३.
 मालत- पाठवृ ३, ११०; पाग ४,
 १, ४१.
 मालती- पा ४, १, ४१.

a) = ऋषि-विशेष-। b) = पथिन्-। c) उप. < √गम्। d) अर्थः व्यु. च ?। = सुखरानि-
 प्रतिपद्- इति गोग्र. भाष्यम्। e) °ल्येऽङ्गि इति पाठः ? यनि. शोचः (तु. भाष्यम् [गोयृ ३, ६, १४])। f) = साम-
 विशेष-। g) = विडाल-। h) < √मृज्। i) वैप १ द्र.। j) मर्जो इति पाठः ? यनि. शोचः
 (तु. ऋ. ५, १, ८)। k) वैप १, २४८३। h द्र. (वैतु. पाशे. < मृतापड- इति)। l) = भाद्रसीय-मुख-
 m) = प्रामान्तरालम्दवी- इति धायम्.

मालति- पाउवृ ४,५९.
 मालव^१- पाउभो २, ३, १३४; पाग
 ४,२,५३^२; -वान् अप ५०, २,
 ५.
 १मालवक- पा ४,२,५३.
 २मालवक^३- -कः वैध ३,१२,२.
 माला^४- पाउ २, २८^६; पाग ५, २,
 ११६; १३१; ६, २, ८५; ८८;
 पावाग ५, १, १२४^५; -लया
 बौगृ १,५,२९; -ला आगृ ३,
 ८, १८; -लाम् आगृ १, ३,
 १ : ५; मागृ १, २, १५; वागृ
 ९, ११^२†; कौसू ३६, १६××;
 अप; वाध १२, ३९; बौध २,
 ३,३०.
 माल-भारिद्- पा ६,३,६५.
 माला(ला-अ)ञ्जन- नम् अप
 ६८,२,२६.
 माला-निष्प्रमन्द^६-दन्तधावन-केश-
 -शम् कौसू ३६,१५.
 माला-प(द)दी- पाग ५,४,१३९.
 माला-पृष्ठ- -ष्ठे अप २०,१,३.
 माला-प्रस्थ- पा ६,२,८८.
 †माला(ला-अ)भ्यञ्जन- नम्
 कौसू ९२,२२.
 माला-वत्- पा ५,२,११६.
 मालिन्- पा ५, २, ११६; १३१;
 -ली आपध १,८, २; हिध १,
 २,९.
 मालो(ला-उक्त)का- -क्ताम्
 आगृ ३,६,१७; गोगृ ३,५,१७.

१माल्य- पात्रा ५,१,१२४; -ल्यम्
 मागृ २, १४, २८^५; अप १,
 ४५, ७; ३०^३, २, ५××;
 शंघ ३४७; विध ७१, ११;
 -ल्येन बौगृ २,५,५४; ३, ११,
 २; -ल्यैः कौगृ १,१२,२; गौपि
 १, ४, १७; अप ४, ५,५××.
 माल्य-वत्^७- -वन्तम् शंघ
 ११६ : ८.
 माल्य-ह(स्त)स्ता^१- स्ता
 अप ३०^३,२,७.
 माल्या(ल्य-अ)नुलेन- नम्
 अप ६८,१,१२.
 मालिन्य- रमलिन- द्र.
 मालिम्बव- मलिम्बु- द्र.
 मालु- पाउभो २,१,५.
 मालूर- पाउभो २,३,५८.
 २माल्य^१- -ल्याः बौधौप्र ७ : २.
 माल्ल- मल्ल- द्र.
 मा-वत्- अस्मद्- द्र.
 मावा- (>मावेध-) माया- टि. द्र.
 †मावार्थम् भागृ २,४ : १३.
 †मा वो रक्षो मनः^६ कौगृ ३,५,४†.
 माशब्दिक- मा द्र.
 १माष^{१०}- पाउभो २,३, १०५; पाग
 २, ४, ३१; ५, १, २०; ४,३;
 -षः वाध १९, २१; विध ४,
 ७; -षम् शंघ ३०४; ३०५;
 -षाः बौधौ २६, २२ : १९;
 वैश्रौ; -षाणाम् काञ्च ७, २८;
 -षान् आपश्रौ १३, ५, ४†;

१६, ६, २; ३; बौधौ; -षेण
 आपश्रौ १९,२१,२; हिश्रौ २२,
 ४,२; -षेभ्यः आपश्रौ १५,१७,
 ८; भाश्रौ; -षेषु बौश्रौ १८,
 २३ : ११; -षैः बौश्रौ १०,९ :
 १८××; गोगृ; -षौ आगृ १,
 १३,२; जैगृ १,५ : २.
 माष-क- पा ५, ४, ३; -कम्,
 -काणि अप ३३,३,२.
 माष-कण^२-मन्य^२- न्येन कागृ
 ४५,५.
 माष-कमण्डलु^३- -लुम् आपश्रौ
 २२,२६,५; हिश्रौ २३,४,२१.
 माष-कल्माष-मूल-फल- -लम् मागृ
 २,१४,२८.
 माष-कोद्रव-गौरा(र-आ)दि- नदि
 कप्र १,९,१०.
 माष-वान्य- -न्यौ वैगृ ३,११ : ४.
 माष-पिष्ट- -ष्टानि कौसू ७१,६.
 माष-भग्न-मात्र^४- -त्रम् आगृ
 २,६,१ : ५.
 माष-मत्स्य-मांस-भक्ष्याशन- नम्^५
 आगृ २,३, २ : ८; -नैः^५ जैगृ
 १,६ : ८.
 माष-मन्य- -न्यम् कौसू ७०,१२.
 माष-म(य)यी- -यीम् अप ३६,
 ५,३.
 माष-मांस-वर्जम् वैश्रौ ३,२ : ११.
 माष-वर्जम् वाश्रौ १,१,२,९.
 माष-सकु- -क्तवः अप १,३४,४.
 माष-स्मर^६- -रान् कौसू ३६,१३^६-

a) जनपद-विशेष- वा तद्वासिन्- वा तदाज- वा । b) तु. पाका. । c) =जाति-विशेष- । d) =सङ्- ।
 e) <√मा (माने) । f) तु. पागम. । g) अर्थः ? । h) =पर्वत-विशेष- । i) बस. । j) =ऋषि-
 विशेष- । k) पाठः ? गावः भंशः (?सः =स्कन्धः । सपा. शांय. अपि यनि. शोचः द्र.) न बः इति शोचः (तु.
 सपा. शांय ३,९,१) । l) =धान्य-विशेष-, परिमाण-भेद- । m) वैप १ द्र. । n) माषकण- =माषचूर्ण- ।
 o) मलो. कस. । p) बस. उप. परिमाणोऽर्थे मात्रच् प्र. (तु. बौधौ ४, ७, ३ 'भसं तु तन्मात्रम् इति पाभे.) †
 q) परस्परं पाभे. । r) = पुनरुक्ति- । पकञ्चक-माष- । षस. उप. (√सु > सव- > सवावार-
 > स्व । स्वा । र- । तु. दारिद्र्य- । यनि. = अङ्कुर- । s) माषान् इति सा (भू । शौ ६, १३० ।) पाभे. ।

†माषा(ष-आ)ज्य^a-ज्येन आप्रश्नौ
 २, ३, २२; वैश्रौ १८, ३: ४;
 हिश्रौ १५, १, ७, १.
 माषिक- पा ५, १, २०.
 माषीण- पा ५, २, ४.
 माषो(ष-ऊ)ण[न] पावा ८, ४, १०.
 माष्य- पा ५, १, ७; २, ४.
 रमाष^b- पाग ४, १, ९६^c; -षा: ऋञ्ज
 २, ९, ८६; साञ्ज २, २३६; ३८१.
 माषि- पा ४, १, ९६.
 माषशराविन्->माषशरावि- पा
 ४, १, ९६^c; -वय: बौश्रौष ४१:
 ४; द्राश्रौ ८, २, ३०; लाश्रौ
 ४, ६, २१; निस् ५, २: २६;
 ८: १७.
 माष-स्थ(ल>)ली-(>स्थलक-)
 मानस्थली- टि. द्र.
 मास्^d- पा ६, १, ६३; मास: बौश्रौ
 १२, ३: ३xx; माश्रौ; मासाम्
 हिश्रौ १८, ३, ८; अप; मासि
 आश्रौ १२, ४, ३; शाश्रौ; भाग्य
 २, ११: १०^{††}; हिग्य २, १०,
 ६^{††}; मासिउमासि आश्रौ
 १२, ६, १२; बौश्रौ; मा:सु लाश्रौ
 १०, ६, १; निस् ५, ३: ६; ४:
 २; ६: १९; तैप्रा १६, १२[†].
 मासि-ग्रहण- णम् मीसू १०, ८,
 २३; २७.
 मासि-गृष्ट^e- ष्टम् बौश्रौ १६, १५:
 ७.
 मासि-श्राद्ध- ऋम् आमिग्य ३, ३, १:
 २; ९; बौग्य २, ११, ६८; भाग्य
 २, ११: १; वैग्य १, १: ७; ४, ७:
 ९; हिग्य २, ५, ४; -द्धस्य आपग्य

२१, १; भाग्य २, १७: १५; -द्धे
 आमिग्य ३, ३, २: ११; बौग्य १,
 ८, १४; वैग्य ६, २०: १; आपग्य
 २, २०, १; -द्धेन आपग्य २२,
 १२; भाग्य ३, १७: १२.
 मासि-श्राद्ध-वत् बौपि २, ११, २.
 मास^f- पाठभो २, ३, १६८; -स:
 आश्रौ १२, ४, १०; शाश्रौ; या
 ११, ५^{††}; आज्यो ४, ४; -सम्
 आश्रौ ९, ८, १xx; शाश्रौ; लाश्रौ
 ४, ७, ११[†]; बौग्य १, ७, १४;
 ३, १, १४; बौपि १, १७: ३५;
 भाग्य ३, ८: ११; वैग्य २, ३: ५,
 हिपि १४: १६; अप ५७, ४,
 ७xx; वाघ ११, ७७xx;
 शंघ ११६: ४७; ४१०; ४२६;
 ४३१; ४३४; ४३६; ४३९;
 ४४८[†]; विघ ७८, ५३; ८०, १;
 ८९, ३xx; गौघ १२, २६xx;
 -सम्-सम् काश्रौ २४, ४, १६;
 -सयो: आश्रौ २, १७, १८;
 ९, ३, २५; आपश्रौ २०,
 २३, १२; वाघूश्रौ; -सस्य
 आश्रौ १२, १, ५; ६; २, ५;
 बौश्रौ; वाघ २, ४८; २३, ४५;
 -सा: आश्रौ १, ११, ७^{††}xx;
 शाश्रौ; कौग्य ३, १५, ५^{††};
 वैग्य ५, १: ९; ११; या ४, २७[†];
 वेज्यो २८; -सात् आपश्रौ २०,
 ७, ७; हिश्रौ १४, २, २०; द्राश्रौ
 ८, ३, २७; लाश्रौ ४, ७, ८[†]; अप
 ७१, ६, ६; वाघ २१, ७; २६, ४;
 शंघ ३४९; बौघ ४, १, २९; विघ
 ५५, १३; पावा ५, ४, ११६;

-सात् आश्रौ ११, ७, २xx;
 शाश्रौ; आग्य ३, ५, १४; कौग्य ३,
 ८, ३; १५, ३; शांघ ४, ६, ७xx;
 पाग्य २, ११, १०xx; आमिग्य
 ३, ७, २: १५xx; काग्य ९,
 १०xx; बौग्य १, ७, १६xx;
 बौपि १, ११: २xx; भाग्य २, १:
 १८; माग्य १, ४, ७xx; वाग्य ८,
 ७; वैग्य २, १२: २१; जैग्य २,
 ८: २३[†]; द्राग्य ३, २, २४; कौस्य
 १३९, २०; कप्र २, २, ३-८xx;
 अप ७१, ४, ५; वाघ ४, ३३xx;
 शंघ ४०३xx; आपग्य १, ९,
 ३xx; बौघ २, १, ४८xx;
 विघ ३०, १; वैघ १, ७,
 ६; दिघ १, ३, ३xx; गौघ
 १६, २; वृदे ४, ३४; -सानाम्
 बौश्रौ १८, ५१: १६; २५; वाश्रौ;
 -साम्याम् वाघूश्रौ ३, ६९: १८;
 अप ६२, २, ६; -साय शाश्रौ
 १८, २४, ६; बौश्रौ १८, २४: २;
 -से शाश्रौ २, २, २; काश्रौ; पाग्य
 १, १४, २xx; काग्य ३९, १;
 काग्य ४ ४३६; वैग्य ५, १२: २xx;
 अप १, ३३, ८xx; विघ ९०,
 २७; वैघ २, १२, ७; या १४, ६[†];
 याशि २, ६०; वेज्यो ११; -से-
 से या ६, ३५; -सेन बौश्रौ
 १८, ६: २२xx; वाघूश्रौ; वाघ
 ४, ३०; शंघ ४४८; -सेम्य:
 बौश्रौ २४, ३२: २०; कौग्य ३,
 १०, १[†]; शांघ २, १, ४[†];
 वैग्य २, १२: ११; अप २,
 ५, २; वाघ ९, ११xx; बौघ

a) वैप १ द्र. । b) व्यप. [पा.], ऋषिगण- [ऋञ्ज. साञ्ज.] । c) माष-, शराविन्- इत्यस्य स्थाने
 माषष^o इति पागम. । d) पाभे. वैप १, ७२७ III द्र. । e) विप. > नाप. = गवाम्-अयन- । वस. ।
 f) वैप १. २४८४ ० द्र. । g) पाभे. पृ १२४३ I द्र. । h) पाभे. वैप १, २४८५ b द्र. । i) पंक्त- इति
 पाठः ? यत्कि. शेषः (तु. द्राश्रौ.) ।

२, १, ४७; -सेषु आपश्रौ ७,
२८, ६××; काठश्रौ ४५; बौश्रौ
५, ५: १; भाश्रौ ७, २३, ८;
माश्रौ; -सेषुऽसेषु माश्रौ १, ७,
८, १८; -सैः आश्रौ १२, ३, ५;
बौश्रौ २, १०: ५^१××; आपमं;
आमिष्ट ३, १, १: १८^१;
बौष्ट २, ११, २७^१; माष्ट २,
११: १७^१; अष्ट ७०^२, २३,
३; शंघ २१८; आज्यो १२, ११;
-सौ शाश्रौ १३, २५, ४; आपश्रौ
१७, २६, ६××; बौश्रौ
मास-कृत्- -कृत् या ५, २१^१.
मासकृद्-विग्रह- -हेण वृदे २,
११२.
मास-क्षपण- > णिक- पागम
३६०.
मास-नाण- -णानाम् बौश्रौ २६,
१६: १.
मास-चतुष्क- -ष्केण या १४, ६.
मास-जात- पावा २, २, ३६.
मास-तनु- -न्वोः पा ४, ४, १२८.
मास-तम- पा ५, २, ५७.
मास-तुल्य- -त्यैः विध २२, २५.
मास-त्रय- -येण या १४, ६.
मास-द्वय- -यम् कप्र १, १०, ५.
मास-द्वित्रिचतुष्पञ्चसंवासर-द्वादश-
संवासर-परिमित- -तम् अप
४०, १, ३.
मास-नामन्- -मभिः आपश्रौ ८, २,
१८××; भाश्रौ; -मानि आपश्रौ
१९, १२, ११; माश्रौ; -म्ना
आपश्रौ ८, २०, ८; भाश्रौ ८,
२३, ७; वैश्रौ.
मास-निचव^१- -यः विध ९४, ११.
मास-परा(र्व्य>)र्ध्या^१- -र्ध्या कौस

६७, ९.
मास-पाक- मांसपाक- टि. द.
मास-प्रमृति- -तिषु आपश्रौ १६,
१३, ५; वैश्रौ १८, ११: २१;
हिश्रौ ११, ५, १७.
मास-भाज्- -भाजः निस् १०, ८: २
मास-मात्र- -त्रात् या १४, ६;
-त्रे लाश्रौ ८, ११, १३.
मास-वर्ष- -र्षाणाम् वेज्यो ४४.
मासवर्ष-गणना- -नया विध
२०, १५.
मास-शब्द-वैयर्थ्य- -र्थ्यम् निस्
५, ४: २.
मास-शस्(ः)काश्रौ १७, ७, १४.
मास-सव^१- -वः बौश्रौ १८, ३:
१३.
मास-स्तोम^१- -माः शाश्रौ १४,
७६, १.
मासा(स-अ)दि-षणमास-
पर्यन्त-न्तम् वैश्रौ २०, १५: ९.
मासा(स-अ)नुमास-> णसिक^१-
-कम् कप्र २, ७, ६.
मासा(स-अ)न्त- -न्ते द्राश्रौ ८, ४,
१६; लाश्रौ ४, ८, १४.
१मासा(स-अ)न्तर- -रे निस् ५, ४:
३; -रेण अप ७०^२, ७, २०;
-रेषु वैताश्रौ ३६, ३.
२मासा(स-अ)न्तर^१- -राः काश्रौ
१५, ९, १६; -राणि काश्रौ १५,
९, ७.
मासा(स-अ)पवर्ग^१- -र्गाः आश्रौ
१०, १, १२; शाश्रौ १६, २०, ८;
काश्रौ २३, १, १.
मासा(स-अ)भ्यवहण- -रेण विध
४६, १४.
मासा(स-अ)यतन^१- -नाः आपश्रौ

२१, १, १४; हिश्रौ १६, १, ११.
मासा(स-अ)धमास- -सान् हिष्ट
२, १७, २^१.
मासा(स-अ)वर्ष-कारिन्- -रिणः
लाश्रौ ४, ७, ६^१.
मासा(स-आ)वृत्त-कारिन्- -रिणः
द्राश्रौ ८, ३, २५^१.
मासा(स-अ)ष्टक- -कात् अर ७१,
१४, २.
मासाष्टक-युत- -तस्य अप ३६,
२०, १.
मासिक- -कः अप ५१, ५, ५;
६८, २, ५९; -कम् आमिष्ट ३,
१, १: १; बौष्ट ३, १२, १; हिष्ट
२, १०, १; वृदे २, ५७; -के
वैष्ट ३, २१: ४; हिष्ट २, १४,
१०; १५, ११; १४; शंघ ४३२.
मासिक-श्राद्ध- -द्धम् आमिष्ट
३, १२, १: ५.
मासिका(क-अ)र्थ- -र्थे विध
२१, २१.
मासिकार्थ-वत्- -वत् विध
२१, १९.
मासीन- पा ५, १, ८१; -न्म् गोष्ट
४, ४, ४.
मासे(स-इ)ष्टका- -काः बौश्रौ
१९, ३: २९.
मासो(स-उ)पवासिन्- -सिनः वैष
१, ९, ४.
मास्य- पा ५, १, ८१.
मासपूजाद्वाद्यज्युदुलिकापि-
ष्टकाः वाश्रौ ३, २, ५, २६.
मासर^१- पाठो २, ३, ६८; -रु
आपश्रौ १९, ४, ८; ५, ९; बौश्रौ
१७, ३१: १८; हिश्रौ २३,
१, ८; -रम् काश्रौ १९, १, २०;

a) पामे. वैम १, २४८५ b द. १. c) =कृत्-विशेष- d) मन्वर्षे षष्ठ प्र. ३
e) परस्परं पामे. f) वैम. १ द. ३

आपश्रौ १९, ४, ७; वाश्रौ ३,
२, ७, ३; वैश्रौ ११, ६ : ३; हिश्रौ
१३, ८, ४१; -राणि वाश्रौ ३,
२, ७, ८६; -रेण आपश्रौ १९,
४, ६; ५, ११; बौश्रौ; -रैः वाश्रौ
३, २, ७, ८५.

मासर-कुम्भ-म्भम् काश्रौ १९,
५, १३; वैताश्रौ ३०, २२.

मास-वर्ष- प्रभृ. मास- द्र.

मासुरकर्ण- मसुर-कर्ण- द्र.

मासुराक्ष- मसुराक्ष- द्र.

मासूर- मसूर- द्र.

मासूरकर्ण- मसूर-कर्ण- द्र.

मास्य- मास- द्र.

√माह (बधा.) पाधा. भ्वा. उभ.
माने, माहते अप ४८, ३९१^१.

माहकस्थ(ल >) ली- (> स्थलक-
पा.) पाग ४, २, १२७.

माहत- √मंह द्र.

माहनी^१ कौसू १०८, २.

माहय्यव- महय्यु- द्र.

माहस-माहाकुल- प्रभृ. √मंह द्र.

माहाचित्ति- महाचित्त- द्र.

माहाजनिक- प्रभृ. √मंह द्र.

माहापुत्रि- महा-पुत्र- द्र.

माहाप्राण- प्रभृ. √मंह द्र.

माहित- स्थ- महित- द्र.

माहित्र- √मंह द्र.

माहित^१- पाठ २, ५६; -नः निघंटे, ३१
माहि(न >) ना-वत्- वात् ऋप्रा
९, १११^१.

१-२माहिष- श्वेय- महिष- द्र.

माहिष्मती- श्वेयक- २माहिष्मत्-
द्र.

माहिष्य- महिष- द्र.

माहीयत्व[ल]- महीयत्व[ल]- द्र.

माहुः अप ४८, ७०^१.

माहृद्- प्रभृ. √मंह द्र.

√मि(=√मा [बधा.])^१ पाधा. स्वा.

उभ. प्रक्षेपणे, मिनोति काश्रौ ६,

३, ८; ८, ५, २६; ३०; १४, ३, १७;

१६, ८, १७; २३; आपश्रौ ११,

९, ४; ५; ९×४; बौश्रौ; काशु

६, १०; निघ २, १९१^१; मिनृतः

हिश्रौ ७, ५, २०; ७, १२;

मिन्वन्ति आपश्रौ २०, १०, ४;

२२, ८, ६; ८; भाश्रौ; ऋमिनोमि

कौश्रु ३, २, ५; शाश्रु;

ऋमिनोतु आपश्रौ ११, १०, १^१;

बौश्रौ ६, २७ : ६^१; वैश्रौ १४,

१० : १२^१; हिश्रौ ७, ७, ८^१;

जैश्रौ ६ : ७^१; आश्रिण; मिन्वीत

हिश्रौ १४, ३, १; मिनृयात्

आपश्रौ ११, १०, ७; १४, ५,

२२×४; बौश्रौ.

मित्- मितः^१ आश्रिण ३, ८, २ : ३५;

बौपि १, १५ : ४३; बौश्रु १ : २७.

रमित्वा भाश्रौ ७, ८, १४.

√मि.मी^१ (बधा.) पाधा. दिवा. आत्म.,

क्रया. उभ. हिंसायाम्; चुरा. उभ.

गतौ, मिनाति ऋनिघ २, १४^१;

१९; शौच ३, ८६; मिनन्ति

आपश्रौ ६, २२, ११^१; ऋमिनीम-

सि^१ बृदे ८, ४८; ऋप्रा १८, ५३;

अमिनात् या ५, ९१^१ठ्.

ऋमोमाय अप्रा ३, १, ७; शौच

४, ९६.

मीयते ऋआपश्रौ १०, १४, १०;

२१, १, ९; वैश्रौ १२, १२ :

१०; कौसू ४, १६.

ऋमायुक^१- ऋः अप ४८, ६७; निघः
३, २.

ऋमेनि^१- निः अत्र १२, ५(३)^२;
निघ २, २०; -निम् वैताश्रौ
३८, ६.

√मिक्ष(संमिश्रणे)^१, ऋमिमिक्षताम्

शाश्रौ ३, १८, १४; बौश्रौ १४,

१४ : ३५; द्राश्रौ ११, ४, ९;

लाश्रौ ४, ४, ८; अप्राय ४, १;

ऋमिमिक्षतम् काश्रौ २३, ३, १;

आपश्रौ २२, १९, १; हिश्रौ १७,

७, १०.

ऋमिमिक्षे^१ शाश्रौ ८, ४, १; शुभ्र

२, ३२२.

मेक्षयति भाश्रौ २, ५, १, ५;

मेक्षयत् बौश्रौ २३, ६ : २.

मेक्षण^१- णम् आश्रौ २, ६, १४;

शाश्रौ ४, ४, २; काश्रौ ७, ५, १५;

आपश्रौ १, ७, ५×४; बौश्रौ १, ४ :

९; १७ : १८×४; भाश्रौ; अप

२३, ४, ५; कप्र २, ५, १४;

१५; -णस्य बौश्रौ २०, १३ :

३०; २१, ३ : ३; -णानि

बौश्रौ ५, १ : ५; ३ : १४; ५ :

३; ८ : ३३; १० : ३; १८ : ३;

-णाभ्याम् गोश्रु ४, १, ६; २, १४;

द्राश्रु ३, ४, १८; -णे आपश्रौ १,

८, ३; ५; भाश्रौ १, ८, ३; १०;

१४, ११; हिश्रौ २, ७, १७; गोश्रु

४, २, २६; -णेन आश्रौ २, ६,

१२; शाश्रौ ४, ३, ७; काश्रौ ४,

१, ६; आपश्रौ १३, १३, १७;

a) धा. दृशिहाने वृत्तिः । b) शोचः वैप १, २४०४ k द्र. । c) वैप १ द्र. । d) या ७, २९ पराश्रुः
द्र. । e) धा. वधे वृत्तिः । f) वैप १, २४८६ k द्र. । g) वैप १, २४८७ a द्र. । h) पा ६, १, ५० : ८, ४
१५ पराश्रुः द्र. । i) मिनति इति लघुसाक्षीयः पाठः । j) पामे. वैप १, ७५१ c द्र. । k) धा. अल्पीभावे वृत्तिः
(वै. दे. < √मि [प्रक्षेपणे] इति) । = हस्व- । l) व्यु. पामे. च वैप १, १४८८ a, b द्र. ।

बौश्रौ; कौश्र ५, २, १०; वैश्र
६६: १२; आश्रिण २, ५, ८:
१६×५.
मेक्षण-न्याय- -येन बौश्रौ २०,
१३: ३१.
मेक्षयित्वा आपश्रौ १३, ९, ७; वैश्रौ
१६, ११: ४.

√मिघ्, मिद्^०(बघा.) पाधा. भ्वा. पर.
सेचने, मेहते अप ६८, २, ३१;
मेहति काश्रौ ७, ४, ३२; बौश्रौ
१३, ३८: ५; ३९: १८; मेहेत्
वैश्रौ १५, १८: ३; आश्रिण २, ७,
८: ६; शंघ ५०, ९९.
†मिमिदिद्^० अप ४८, १२;
निघ ३, १९.
भमेहयन् या ९, २३†.

मीढ^०- -ढम् अप ४८, १०†.

†मीढ्वा, ङ्ह्व^०स्^०- -दुषः बौश्रौ
५, ८: २; -दुषे आश्रौ २, ५,
९; ३, ११, ११; ४, ८, ५; शाश्रौ ३,
२०, २; १३, २, २; आपश्रौ ६,
२५, ७; ९, ५, १; १७, ६;
माश्रौ ३, २, १; ५, १२;
हिश्रौ १५, २, १; आपमं २, ११,
४; अप्राय २, ४; -०ढ्वः
आश्रौ ८, ८, २; शाश्रौ; -द्वान्
आपमं २, १८, ११; भाश्र २, ८:
८; हिश्र २, ८, ५; पा ६, १, १२०.

मीढुषी- -षी आपमं २,
१८, १२†; भाश्र २, ८: ९; हिश्र;
-षीम् आपश्र २०, २; भाश्र;
-†ण्यै आपमं २, १८, १२; भाश्र.
†मीढुषट (<)म- -०म

शुप्रा २, २०; -मम् तैप्रा ६, ५;
-मान् उस् ५, २†.
मेघ^०- पाग ४, ३, ४५; ५, १, ६६;
३, १०३; ७, ३, ५३; -घः सु १३,
२; अप; या १, २०; २, २; १६; २;
२१०×५; -घम् या ५-६, १;
७, २३; १०, ४; ९; ३२; १३;
५०; -घस्य अप ४८, १००;
या ६, २०; -घाः बौश्रौ २३,
७: ६; अप; -घात् या ११,
४७; -घान् अप ५५, १, ७; वृदे
५, १६६; -घानाम् अप ६१,
१, २०; निघ १, १०; या २,
२२; ११, ३७; -घे विघ ९९, ९;
वृदे ४, ४१; या २, ९; -घेन
या १०, १२; -घेषु अप ६१, १,
३; १०; २१.

मेघ-गर्जन- -ने काघ २७६: २.
मेघ-कर- पा ३, २, ४३.
मेघ-दुन्दुभि-निर्वोष- -घः
याशि २, ५९; -वैः अप २१,
७, २.
मेघ-नामन्- -मानि निघ १, १०;
या २, २१.
मेघ-वारण^०- -णाः अप ६१, १,
२२.
मेघ-सखि^०- -खा सु ३, २.
मेघ-स्थायिन्- -यी या १, २०.
मेघ-हन्- -हनम् या ७, २३.
मेघा(घ-अ)मिदृष्ट- -ष्टानाम् अप
७०^३, ५, १.
√मेघाय पा ३, १, १७.
मेघायत्- -यते तैप्रा ३, ५†.

मेघे, घ-इ- न्द्रचाप-वाग्पा^० (म्मा-
२आ)घ- -घान् विघ १, १७†.
मेघ्य- पा ४, ३, ५४; ५, १, ६६;
३, १०३; पाग ६, २, १३१; -घ्यः
भाशि ३८†.

मेढ^०- पा ३, २, १८२; पाम २, ४,
३१; -ढम् काश्रौ ६, ६, ३;
आपश्रौ; -ढस्य आपश्रौ १५,
१५, १; भाश्रौ ११, १५, २०;
हिश्रौ २४, ६, १२; -ढे जैश्र २,
४: ४; शुअ ४, २०८.

मेह- पाग ३, १, १३४†.
मेहन- -नम् वाघ ६, १२^०; -नात्
आपमं १, १७, ५^०; -ने शंघ
५३^०.

मेहमान- -नम् विघ ७१, २७.

√मिच्छ पाधा. तुदा. पर. उत्कलेत्ते.
मित- √मि (बघा.) द्र.

१मित, ता^०- पाग २, १, ५९;
-तः आश्रौ ३, ६, २४†; ८,
१३, ३१; -तम् शाश्रौ १४,
१६, ३; आश्रौ १९, ३, ४†;
बौश्रौ; वैश्रौ ११, ५: ३†;
हिश्रौ १३, ८, २९†; वैघ २, ४,
६; ३, १, ३; आज्यो १२, ४;
-ता वाघुश्रौ २, १९: १; ऋप्रा
१६, १२; -ताः लाश्रौ ८, ९,
१०; निसू ५, १२, ९; वृदे ८,
१०९; -†तासः आपश्रौ १७,
१६, १९; बौश्रौ १०, ५३: ७; ८;
वैश्रौ १९, ६: ११०; -ते वैश्रौ
१६, १: ११; -तेषु शाश्रौ ५,
१४, १.

a) या २, २१ पावा ६, १, १२ परामृष्टः द्र. । b) घा. याच्चायां वृत्तिः । c) = घन- । d) लाश्रौ.
अश्र. पाठः । e) वैप १ द्र. । f) पामे. वैप २, ३खं. मीढुषे ऐत्रा ५, २७ टि. द्र. । g) पामे. वैप १, १५६६ a
द्र. । h) उप. = हसिन्- । i) बस. । j) विप. (विद्युत्-). बस. । k) षसंपातान् इति जीसं. । l) तु.
पागम. । m) = मृत्- । n) = मेद्- । o) पाठः † अपामे इति मदनपारिजतः (४६) । सप्र. वैघ २, ९, ५ सुवे इति
पामे. । p) पामे. वैप १, ११५६ ० द्र. । q) = स्वल्प- ।

मित-दक्षि(या>)णा^३- ङा निस्
६, १: १३.

मित-दु^३- पाठ १, ३४; पावा ३,
२, १८०; -^३द्ववः आपश्रौ १८,
४, २१; या १२, ४४^३कू.

मित-मोजिन्- -जिनः आपघ १,
२५, ११; बौध २, १, ४१; हिघ
१, ७, ७.

मितं-पच- पा ३, २, ३४.

मित-नाविन्^३- -विणः या ११, १३.

मित-रोचिन्- -चिनः या ११, १३.

मित-शरण^३- -णः कौसू २१, १६.

मिताक्ष- -क्षाः बौश्रौप्र २५: १.

मिताक्षर^३- -रः निस् १, १३:
१९; -रे ऋप्रा १२, २६; -रेषु
बुदे २, ९०; ९२; या १, ९.

मिता(त-आ)लम्भन^३- -नम् काश्रौ
९, ४, ८.

शमित- (>मैतायन-) मिमत-
टि. द्र.

शमित^३- -तः बैगृ ६७: ५.

मितकुम्भ- -म्भाः बौश्रौप्र ४१: ७.

मित्र,त्रा (वप्रा.)^३- पाठ ४, १६४;

पाग ४, १, ९९^१; २, १२७^१; ३,
५४; -^३त्र आश्रौ ३, १२, ९;

४, ११, ६; शाश्रौ ४, १०, १^३;

काश्रौ; -^३त्रः आश्रौ २, ११,

२××; शाश्रौ १०, १५, ४^३;

आपश्रौ ९, २, ६^३; भाश्रौ ९,

३, ८^३; माश्रौ ३, २, ८^३;

हिश्रौ १५, १, ४५^३; पागृ १,

५, १०^३; आशिगृ १, ५, २:

२७^३; वैगृ १, १७: ८^३; ५,

४: १०^३; अप १, ४, ४^३××;

ऽबुदे २, ४९; ५, १४७^३; १४८^३;

शुअ ४, १४१^३; या १०, २१^३कू;

२२^३; केज्यो^३ १०; ३३;

-^३त्रम् आश्रौ २, ११, ४; ५,

५, १८××; शाश्रौ; पागृ २, ७,

१८; आशिगृ ३, २, ४: १२^३;

१५^३; ६: १७^३; २०^३; ७: १६^३;

१७; १९^३; अशां ९, ५^३; शंघ

११६: ४३; ५८^३; विघ ५०,

१०; सुधप ८८: १०^३; या ७,

१८; १४, १; -^३त्रयोः^३ आश्रौ

७, ५, ९; शाश्रौ ७, ११,

४; १२, १, ३; ऋअ २, ७,

६६; ऋप्रा २, ६१; -^३त्रस्य

आश्रौ १, १३, १; ६, ५,

१८××; शाश्रौ; बुदे ८,

१०७^३; या २, १३^३; १२, १६;

-त्राणाम् जैगृ १, १९: १५^३;

अप ६७, ५, १; -त्राणि विघ ७८,

२२; -त्रात् अश्र १९, १६^३;

-त्राम् आपगृ ३, १२; -^३त्राय

आश्रौ ३, ११, २; ५, १०,

२८; ७, ५, ९; शाश्रौ; माश्रौ

३, २, ८^३; अप्राय ४, ३^३;

-त्रे आश्रौ ७, १०, ५^३; शाश्रौ

१०, ४, ५^३; विघ ३, ७४; ऋअ

२, ५, ७२^३; ऋत ५, १, ५; पा

६, ३, १३०; पावा ६, २, १६५;

-^३त्रेण आगृ २, ९, ५; आशिगृ;

-त्रेभ्यः कौसू १६, १८; -त्रैः

शंघ २६४.

१मैत्र(वप्रा.)^३- पावा ५, ४, ३६;

-त्रः शाश्रौ ३, १७, १०; १४,

१०, १६; काश्रौ; वाघ २६,

११^३; विघ ५५, २१^३; आज्यो

१, ७^३; ९, ४^३; -त्रम् काश्रौ

२५, २, ११; आपश्रौ; अप ४१,

५, ७^३; आज्यो २, ३^३; ९,

९^३; -त्रस्य आपश्रौ १८, ११,

२३; बौश्रौ; अशां ६, १^३;^३-त्राः

वैगृ ३, १७: १४; -त्राणि

आज्यो २, ३; -त्रात् आपश्रौ

६, २०, २^३; -त्रान् वाश्रौ ३,

३, १, ५४; अप ८, २, ४^३;^३-त्रे

विघ ७८, २२^३; आज्यो २, ३^३;

९, ९^३; १०, १०^३; ११, ५^३; -त्रेण

काश्रौ ४, १५, १८^३; आपश्रौ;

आपमं १, ७, १०^३; कागृ २६,

६^३.

मैत्री^३- -त्रिया हिश्रौ ११,

१, ६३; -त्री ऋअ २, १, १५१;

बुदे; नाशि १, २, १०^३; -त्रीभिः

आपश्रौ १६, ५, १०; वैश्रौ

१८, २: २; बौध २, १०, ६२;

-त्रीभ्याम् वैश्रौ १३, ५: ९;

बौध २, ४, ११; -त्रीम् बौश्रौ

२४, २२: १०; बुदे ४, १७;

-इयः आश्रौ ७, ५, ९; -व्या

आपश्रौ ६, २६, ७; १५, ४, ४-

a) बस. उप. = २दक्षिणा-। b) उस. उप. <√हु। c) उस. उप. <√ह। d) बस. उप. = गृह-। e) बस.। f) पूष. [प्रकरणतः] = सोम-। g) = विनायकाऽन्यतम-। h) वैप १ द्र.। i) पृ १२५५ b द्र.। j) तु. टि. मित्रवर्ध-। k) पाशे. वैप १, २४९१ b द्र.। l) पाशे. वैप. १, ८१२ m द्र.। m) = अतुराधानक्षत्रदेवता-। n) = द्वादशादित्याऽन्यतम-। o) = विराट्छन्दो-देवता-। p) = मैत्री-। q) = [मित्रवती-] कन्या-। r) पाशे. वैप १, २४९३ b द्र.। s) स्वार्षे प्र.। t) = मुहूर्त-विशेष-। u) = नक्षत्रवर्ण-विशेष-। v) = अक्षरदैवत-विशेष-। w) = सुहृद्-। x) पाशे. वैप-१, २४९७ e द्र.। y) = मूर्च्छना-विशेष-।

वैश्रौ २०, ५:७; २१, १६: ११.

मैत्र-कठा (ठ-आ) पस्तम्ब-

सूत्र- -त्रेषु काठश्रौ ४.

मैत्र-पात्र- -त्रम् हिश्रौ १२,

४, २३.

मैत्र-युक्त- -क्तम् आज्यो ५,

५.

मैत्रा(त्र-अ)नुवाक->

०क्किक- -कः मैत्र ३२.

मैत्रो(त्र-उ)त्तर^०- -रेषु अप
३१, ५, २.

मैत्रक- पा ४, २, १२७.

मैत्रायण- पा ४, १, ९९; पाग
४, २, ८०^b.

मैत्रायणक- पा ४, २, ८०.

मैत्रायणीय^c- -याः चव्यु

२: ४; ६.

मैत्रायणीयक^d- -के वृदे
२, १२८.

मैत्रायणीय-ब्राह्मण-

-णम् बौध् ८: ९.

मैत्रायणीय-सूत्र- -त्रस्य

वाग् १, १.

मैत्रायणि^e- -णिः माग् १, २१,

१३; वाग् ९, १.

मित्र-कर्मन्- -र्मं गौध १५, १२.

मित्र-कार्य- -र्याणि आज्यो २, ३.

मित्र-र्या^f- -र्याय अप्रा ३, २, १२१.

मित्र-द्रुह^g- -धुक् शंघ ३७७: ७;

३९०; ४१४; भाशि १७१.

मित्र-धा-> ०धेय^h- पात्रा ५, ४,

३६.

मित्र-धितिⁱ- -त्ये निस् १, ७: ६१.

मित्र-भृत्^j- -०भृतः बौश्रौ १३,

३८: ९; गो २, ३१; अप्राय

६, २.

मित्र-महर्ष^k- -र्षं०हः आपश्रौ ४,

१५, १३; १४, २९, ३; भाश्रौ.

मित्र-वत् शंघ १३५.

०मित्र-वत्- -वत् आश्रौ ४, १२, २१;

-वान् कौग् ३, १२, २९.

मित्र-वर्ग- -र्गः आज्यो ९, ४; -र्गाः

आज्यो ११, ५.

०मित्र-वर्धन- -नः^l आपश्रौ २२,

२६, १६; बौश्रौ १८, १०: १८;

हिश्रौ २३, ४, ३०.

मित्र-विन्द^m> -न्दाⁿ- -न्दा आश्रौ

२, ११, ११; काश्रौ ५, १२, ११;

-न्दायाः शाश्रौ ३, ७, १.

मित्र-विरोध- -धे अप ७२, ३, ११.

मित्रा^o ०मित्रा ऋप्रा ४, ९२१

मित्रा(त्र-अ)तिथि^p- -थौ ऋश्र २,

१०, ३३; वृदे ७, ३५.

मित्रा(त्र-आ)दि- -दयः वैश्रौ २०,

१९: ३; -दिभ्यः वृदे ३, १२७;

-दीन् वृदे ३, ५१; अश्र ३, ८.

मित्रा-वृहस्पति-> मैत्राबार्हस्पत्य,

त्या^q- -त्यः काश्रौ १५, ३, २६;

-त्यम् आपश्रौ २२, २५, ११;

बौश्रौ; -त्यस्य आपश्रौ २२, २५,

१६; बौश्रौ २२, १७: २०;

हिश्रौ २३, ४, १०; -त्या आपश्रौ

१८, ११, ८^r; वाश्रौ ३, ३, १,

४१६; -त्ये बौश्रौ २४, ३: ९;

-त्येन वाश्रौ ३, ३, १, ५, ७.

मित्रा(त्र-अ)मित्र- -त्रयोः पा ५,

४, १५०.

√मित्राय> १मित्रायु- -युवः

ऋप्रा ९, २४१.

मित्रा(त्र-अ)र्यमन्- -मगोः साश्र १,

२०६; -माणौ वृदे ६, ८१.

मित्रा-वरुण- पा, पाग २, ४, १४^s;

-णयोः ०आश्रौ ३, १, १६; १७;

शाश्रौ; आश्रि २, ५, १२: २^m;

वाध ३०, १११; या २, १३; ५,

१४; -णा आपमं १, ७, १२; १४, १;

कौस्य; या ११, २३^t; ०-०णा

आश्रौ २२, १४, ११; शाश्रौ;

आपश्रौ १२, १४, १२ⁿ; हिश्रौ

८, ४, १४^o; -णम्याम् आश्रौ

६, ११, १६^p; शाश्रौ; काश्रौ ९,

१, १५; बौश्रौ १७, ५१: १३;

-णौ आश्रौ ४, १२, १; शाश्रौ;

काठश्रौ १३०; १३१; वाधूश्रौ ४,

८३: १०; सुश्र ४, १८५; या ११,

२३; पि ३, ६३; उनिस ८:

१९; -०णौ आश्रौ २, ५, २;

१२; शाश्रौ.

मैत्रावरुण^r- -०ण^s आश्रौ

१२, १५, २; आपश्रौ; -णः आश्रौ

३, २, ४xx; शाश्रौ; बौग् ३, १०,

६; वृदे ८, १२०; साश्र १, २६;

३८; ४५; या ५, १४^t; -णम्

आश्रौ २, १४, १०xx; शाश्रौ;

-णस्य आश्रौ ५, ३, २३xx;

शाश्रौ; मौस् ४, २, १६^u;

a) = अनुराधायां तिस्रु उत्तरासु चेति भावः । b) अर्थः ? । c) = शाखा-विशेष- तदर्थेत्- वा ।

d) चरणे बुष् प्र. (पा ४, ३, १२६) । e) = आचार्य-विशेष- । अथत्यार्थे फिष् प्र. उस्. (पा ४, १, १५४) ।

f) वैप १ द्र. । g) वैप १, २४९४ f, i द्र. (वैतु. पात्र. धेयः प्र. इति) । h) पामे. वैप १, २४९५ ४, परि. व द्र. ।

i) = इष्टि-विशेष- । j) विप. (दीक्षणीयिष्टि-) । k) ०त्यम् इति पाठः ! यनि. शोचः (द्र. आपश्रौ.) ।

l) तुः पामम. । m) = (मित्रावरुणदेवत्य-) नक्षत्रद्वय- । n) पामे. वैप १, ८२८ m द्र. । o) = ऋषि-विशेष- ।

p) = वसिष्ठ-ऋषि- । q) ०णाय इति जीसं. प्रम्. ।

-१० गस्य काश्रौ १२, ३, ३; माश्रौ २, ३, २, ९; बौश्रौ १५, ५ : ६; हिश्रौ ८, १, ५८;
-णाः शाश्रौ १६, ९, ३०;
बौश्रौ; -णान् काश्रौ २०, ८, ३०; -णानि वृदे ५, ८१; -णाय शाश्रौ ५, १५, ८; १३, १०, ९; काश्रौ; -णे आश्रौ ८, ७, ७; काश्रौ ९, ११, २३; माश्रौ २, ४, १, ४; हिश्रौ १०, ४, २४; -णेन आश्रौ ७, ५, १६; काठश्रौ; -णौ वाधुश्रौ ४, ८३ : १९; ८४ : ५; अश्र ९, १०.

मैत्रावरुणी- णी

आश्रौ १, ७, ७; ६, १४, ७××; शाश्रौ; काश्रौ १५, ४, ४०^०; १८, ६, २५^०; ऋश्र २, १, १५; ४३××;
-णीम् आश्रौ १२, ७, १२;
आपश्रौ; -ण्यः शाश्रौ १२, २, १६; गो २, १०^०; वृदे ६, ६५; १२४; -ण्या शाश्रौ ९, २८, १८; १४, ४०, २३; आपश्रौ;
-ण्याः आपश्रौ ११, ५, १२;
चाश्र २ : १३; -ण्याम् हिश्रौ १०, ५, ४७; -ण्यै बौश्रौ २१, २४ : ७; २६ : ५; ७; माश्रौ.

मैत्रावरुण्या (ए-)

आ) शिक्षा- क्षायाम् बौश्रौ.
२१, १ : ११.

मैत्रावरुण-चमस-

-सम् काश्रौ ९, ३, ९; १८; आपश्रौ;
-सात् आपश्रौ १२, ६, २; वैश्रौ;
-मे काश्रौ ९, ३, १०; आपश्रौ;
-सेन काश्रौ ९, ३, ५; आपश्रौ.

मैत्रावरुणचमस-

मुख्य^b -स्यः आपश्रौ १४, ३,

१०; -ख्यान् आपश्रौ १२, २८,
१३; काठश्रौ; हिश्रौ ८, ८, ४५^०.

मैत्रावरुणचमसी-

(य>)या- -याः आपश्रौ १२,
१६, ११; बौश्रौ; -यानाम्
माश्रौ २, ३, २, २१; -यासु माश्रौ
२, ३, २, २१; २५.

मैत्रावरुण-चमसाध्वर्यु-

-र्युः हिश्रौ ८, १, ५९.

मैत्रावरुण-चोदित- -तः

माश्रौ ५, २, ८, ४.

मैत्रावरुण-दण्ड-

-ण्डम् आपश्रौ ७, ८, ३; बौश्रौ; -ण्डे
बौश्रौ ३, ३१ : ५; -ण्डेन काश्रौ
६, ३, १०; आपश्रौ.

मैत्रावरुण-देव(ता>)

त^b -ते आश्रौ ३, ६, ४.

मैत्रावरुण-धिष्ण्य-

-ष्ण्यम् वैताश्रौ १८, १८;
-ष्ण्यस्य काश्रौ १५, ४, ४०;
वाश्रौ १, १, ६, ६.

मैत्रावरुण-पात्र-

-त्रम् बौश्रौ ७, २ : १०; ६ : ४०; १४ :
३६; वैश्रौ १५, २ : ६; -त्रे
बौश्रौ ७, १५ : ३.

मैत्रावरुण-प्रभृति-

-तयः शाश्रौ ६, १३, २.

मैत्रावरुण-मरुवीय-

वैश्रवदेव-पौष्ण- -ष्णाः ऋश्र २,
१, २३.

मैत्रावरुण-षष्ठ^b- -ष्टाः

आपश्रौ ७, २३, ३; २६, ५; माश्रौ
७, १७, १३; वैश्रौ १०, १८ : २;
हिश्रौ ४, ५, ३२.

मैत्रावरुण-सामन्-

-म निसू २, ११ : २२; ६, ५ : ५;

८ : ४१; ७, २ : ६; ८, ६ : ७;
४५; -मनी क्षुसू ३, २ : ८.

मैत्रावरुणा(ण-अ)अ^b-

-आः आपश्रौ १४, २२, ४; माश्रौ
३, ८, ७; हिश्रौ १५, ५, ३७;
-आन् काश्रौ २५, १३, ४०;
बौश्रौ १४, २७ : १७; २३, ८;
२५; वैश्रौ २१, ८ : ७.

मैत्रावरुणाज्ये निसू ६,
१३ : ३६.

मैत्रावरुणा(ण-आ)दि-

-दिभ्यः वैताश्रौ २५, १.

मैत्रावरुणा(ण-२आ)घ-

-घाः वैश्रौ १५, २७ : १६.

मैत्रावरुणि^d- -णिः ऋश्र २,
८, ६७; वृदे ५, १६०.

मैत्रावरुणीय^e- -यम् माश्रौ

२, २, ४, ४.

मित्रावरुणयोर-अयन-

-नम् आश्रौ १२, ६, १०; शाश्रौ १३,
२९, २२.

मित्रावरुण-वत् आपश्रौ २४,

१०, ७; बौश्रौप्र ४६ : ६; हिश्रौ
२१, ३, १४; वैध ४, ६, ३.

मैत्रावरुण-समीरि(त>)-

-ताम् आपश्रौ ३, १, ७; बौश्रौ

१, १८ : ३; भाश्रौ ३, १, १;

हिश्रौ २, ३, ८.

मित्रा-वरुण-दक्षां (क्ष-अं) श-तुवि-

जात-भगा(ण-अ)थैमन्- -ण्याम्
वृदे ४, ८२.

मित्रा-वरुणा (ण-अ) यमा (स-आ)

दित्य- -त्यानाम् साम् ११,
१९२.

मित्राी/कृ > श्री-कृत्य वृदे २,

४९.

a) तु. चौसं. । b) बस. । c) कृत्यौ इति पाठः ? यनि. कोषः (तु. आपश्रौ.) । d) व्यय. ३

e) तस्येदमीयस्य उण् प्र. उत्सं. (पा ४, २, १३८) ।

√मित्रीय > मित्रीयत् -यन्तः
ऋत्र २,१०,१०८.

मिथ्य- पा ४,३, ५४; पाग ६, २,
१३१; -ञ्यः काश्रौ १५, ५, ३०.

मित्र-कर्मन्- प्रभृ. मित्र- द्र.

मित्रयु^०- पाउ १, ३७^०; पा, पाग २,
४, ६३; पाग ४, १, १००^०; १०४^०;
१३६; -युवः बौश्रौ ७ : १;
४; हिश्रौ २१, ३, ७^०; -युवाम्
आश्रौ १२, १०, १२.

मैत्रेय- पा ४, १, १०४; १३६; ६, ४,
१७४; ७, ३, २; -यः बौश्रौ
२०, १ : ३४; वाधूश्रौ ३, ९४:
४; -यस्य बौश्रौ २०, २४:
२६; -ये पावा ६, ४, १७४.

मैत्रेयो- -यी आश्र २, ४, ४;
कौश्र २, ५, ३; साश्र ४, १०, ३;
अप १, ३, १^०; ४३, ४, २७^०.

मैत्रेयायण- पा ४, १, १००.

मैत्रेयक > यिकार्- पा ७, ३, २.

मित्र-चत् प्रभृ. मित्र- द्र.

मित्रवर्ध-, °वर्ध्- (>मैत्रवर्धक-,
ध्र्क- पा.) पाग ४, २, १२७.

मित्रा, √मित्राय, १मित्रायु- मित्र- द्र.

२मित्रायु^०- युवः आपश्रौ २४, ६, ५^०.

मित्रा-चरुण- प्रभृ. मित्र- द्र.

१मित्राहे वाश्रौ ३, २, ६, ३९.

मित्री- (> २मैत्र-पा.) पाग ५, २, ६१.

मित्री √कृ मित्र- द्र.

मित्रेरु^०- -रुन् शैशि ३१०^०.

१मित्वा √मा(वधा.) द्र.

२मित्वा √मि(वधा.) द्र.

√मिथ्, मेथ्^{१६} > मिथ(त् >) ती-
-त्तीः भाशि ५६^०.

मिथस्^१- पाउना ४, २२४; पाग
१, १, ३७; -थः आश्रौ ३, १३,
५; शाश्रौ ३, ४, ३^१; काश्रौ
१, ३, ३; २५, ४, ३१; आपश्रौ;
भाश्रौ ९, ५, ६^{१०}; कौस् ११९,
२^{१०}; पावा २, २, ३५^०.

मिथो-भेद- -दः अप ६४, ८,
६; ७०^०, ७, १२; ७१, १०, ५.

मिथो(थस् अ)वगृह्य- -ह्ययोः
शौच ४, ४२.

मिथु^०- पाग १, १, ३७; -^१थु
आपश्रौ ३, १२, १^०; भाश्रौ ३,
११, १^०; वाश्रौ १, ३, ७, २०^०;
हिश्रौ २, ६, ४^०; शुप्रा ३, १२१५;
तैप्रा ३, १३.

^१मिथुया^१ भाग २, ३२ : १९^०;
आपध २, १३, ११; हिथ २, ३,
११; अप्रा ३, ४, १^०.

मिथ्या^१ माश्रौ १, ७, ४, ११^०;
आश्रिण २, ४, ८, १७; २०; २२;
वाध.

मिथ्या √कृ^१ पा १, ४, ७४

मिथ्या-चरत्- नत् विध
५, १७५.

मिथ्या-दर्शन- -नार् या
१४, ५.

मिथ्या(थ्या-अ) धीत्-
प्रायश्चित्त- -त्तम् आपध १,
२६, १०; हिथ १, ७, २१.

^१मिथ्या-प्रयुक्त- -क्तः
पाशि ५२; नाशि १, १, ५.

मिथ्या(थ्या-अ) भिंसं-
सिन्- -सो शंघ ४०३; ४०४;
४१४.

मिथ्या-वचन- -ने गौध
१३, २३.

मिथुन, ना^१- पाउ ३, ५५; पाग
१, १, ३७^०; ५, १, १३०; -नम्
शाश्रौ १५, १७, १^०; काश्रौ
१३, ३, ११; बौश्रौ; आश्रिण २,
१, ३ : २३^०; -नयोः कौस्
५१, ११; -नस्य ^१बौश्रौ ७,
८ : ८x४; वाधूश्रौ ४, २८^०;

१; -^१ना आपध १, ७,
११; बौग ३, ११, ४; या १२,
१०; -नाः आपधौ ५, ६, १^०;
बौश्रौ; या ३, ४; -नात् निस्
८, २ : ४३; -नात् बौश्रौ १७,
४७ : १२; माण २, १०, २;

-नानाम् कौश्र ४, ४, ११; साश्र
४, १९, २; या ३, ४^०; -नानि
वाधूश्रौ ४, २९ : ३; द्राश्रौ ५,
३, १८; लाश्रौ २, ७, १७; ^१कौस्
११४, २; १२८, २; -^१नाभ्याम्
आपधौ १०, २५, १५; भाश्रौ;

-ने आश्रौ ३, २, १२; -^१नेन

a) व्यप. । b) <मित्र- + √या । c) तु. पागम. । d) सपा. मित्रयुवः <> मित्रायुवः
इति पाभे. । e) विप. ([मित्रयु-ऋषिका-] अनुराधा- [नक्षत्र-]) । f) तद्भावाथे वुञ् प्र. (पा ५, १, १३४) ।
g) मित्र- (तु. पागम.), १वल्- इति पाका. । h) = मित्रयु- । i) वैप १ द्र. । j) √मिद्, मेद् टि. द्र. ।
k) या ४, २ परामृष्टः द्र. । l) श्वः सं इति सूनी ? । m) मिथौ इति पाठः ? यनि. शौचः । n) पाभे.
वैप २, ३ खं. १ मिथु-> थु तैप्रा ३, ७, ११, ५ टि. द्र. । o) तु. पासि. । p) पाभे. वैप १, २३१८ k द्र. ।
q) पाभे. वैप १, २४९८ e द्र. । r) पा १, ३, ७१ परामृष्टः द्र. । s) तु १ रूपम् (तु. B.N.M.). । t) पाभे.
वैप २, ३ खं. मिथुनीभवन्ति एवम् ७, १३ टि. द्र. । u) सपा. आपध २, १४, १ विधुस् इति, हिथ २, ३, ७ विधुस्
इति च पाभे. ।

आपश्रौ १३, २१, ३; बौश्रौ;
-नेभ्यः आश्रौ ३, २, १५; -नेषु
शाश्रौ ६, १, १३; -नैः काश्रौ
३, ३, ३; वाधूश्रौ ४, १५ : १०;
९७^३ : ८; ११६ : ५; -नौ
काश्रौ ४, ५, २२××; आपश्रौ;
या ७, २९^१†; १२, १०^२.

मैथुन- पा ५, १, १३०; -नम्
शाश्रौ ९, २८, १८; काश्रौ; वाध ६,
२९××; शंघ १३××; आपध २,
२, २६××; हिध १, १, ५९××;
-नस्य बौध २, १०, ४१; -नात्
आय ३, ९, ६; शांय ४, ११, १;
आपध; -नाय वृदे ४, १२; ७,
४; -ने आपध १, ९, १२; २,
१३, ३; विध.

मैथुन-क्षुरकृत्य-स्नाना-
(न-अ)वलेखन-दन्तधावन-
पादधावन- नानि द्राय २, ५,
१२.

मैथुन-मांसभोजन- नम्
काश्रौ २५, ४, २७.

मैथुन-वर्जन- नम्
आपध २, १, ९; वैध ३, ६, ५;
हिध १, ९, ९.

मैथुन-वर्जम् आमिष्ट २,
४, ११ : ३.

मैथुन-भ्यपेत, ता-
-नायाम् वाध १३, २५;
-तेन वाध १३, २६.

मैथुन-शङ्का- -ङ्कायाम्
गौध २, २२.

मैथुन-संयोग- -नो गौध

१३, १९.
मैथुना(न-आ)चरण-
-गम् विध ३८, ४.

मैथुना (न-अ)र्थ- -र्थम्
वृदे ६, १५४.

मैथुने(न-इ)च्छा-
-च्छायाम् पावा ७, १, ५१.

मिथुन-काम- -मः जैय १, २१ :
२.

मिथुन-चारिन्- -रिभ्याम् वाश्रौ
३, २, ५, ३६.

मिथुन-त्व- -त्वाय बौश्रौ १०,
५ : १५.

मिथुना (न-आख्या >)ख्य-
-ख्ये ऋत ३, ८, १.

मिथुना(न-अ)र्थ- -र्थम् ऋअ २,
१०, १०.

मिथुनी/√भू > मिथुनी-भूय
आपध १, ३२, २; हिध १, ८, ४४.

मिथुनि^a- -नी वाधूश्रौ ३, ७० : ७;
४, ३१ : ७; जैश्रौ ७ : ९†; बौय
३, ५, ७^३; गौध ९, २६; †तेप्रा
४, ५३^b; १०, १८^b.

†मिथुस^a- -थुः आपश्रौ २, २०,
६; भाश्रौ २, १९, १; हिश्रौ २, ५,
४७.

मिथुश्-चरत्- -रन्तम् भाशि
५६†^c.

मिथू- > मिथू-कृत्^a- -कृतम्
शाश्रौ १८, ११, २†.

†मिथू-दृश्^a- -दृशा ऋप्रा ८,
३१; ९, ८.

मिथो^d पाग १, १, ३७.

मेथत्- -थन्तौ या ७, २९.

मेथन- -ने वैताश्रौ ३८, १०.

†मेथि^a, थि^aत^b- -तः^a आपश्रौ ९,
३, १; भाश्रौ ९, ४, ३; हिश्रौ १५,
१, ४९.

मिथत्-, मिथस्^a √मिथ् द.

मिथिन्- पाउना ४, ११.

मिथि(त् >)त्ता- पाउ १, ५७.

मिथु^a-, मिथुन- प्रम्., मिथ्या
√मिथ् द.

√मिद्, मेद्¹ पाषा. भ्वा. उभ. मेघाहि-

सनयोः, भ्वा. आत्म., दिवा. पर.
स्नेहने, मेघति या ६, १२;
मेघन्तु या ८, ३†.

मेदयन्ति वाधूश्रौ ४, ५२ : ५;

मेदयेयुः वाधूश्रौ ४, ५२ : ५.

१मेद^a- -दम् विध ७९, ७.

मेदा(द-आ)हुति-मक्ष¹-
-क्षेभ्यः माश्रौ ४, १, १६.

मेदस्^a- -दः काश्रौ ६, ६, २४†^m;

२०, ७, ७; आपश्रौ; बौश्रौ ४, ७;

१२†^m; ११, ५ : १३†^m; वैश्रौ

१०, १६ : १०†^m; या ४, ३†^q;

१४, ६; -†दसः आश्रौ ३, ४, ३;

काश्रौ ६, ६, २२^m; आपश्रौ ७,

२१, १^m××; काश्रौसं; बौश्रौ ४,

७ : ११^m; माश्रौ ७, १६, १^m; ७^m;

माश्रौ १, ८, ४, ३३^m; वाश्रौ १, ६,

६, १०^m; वैश्रौ १०, १६ : ९^m; हिश्रौ

४, ४, ३७^m; †या ६, १६ : १४, ६;

-दसा आपश्रौ ७, २४, ९; २६, ३;

भाश्रौ; -†दसाम् आपश्रौ २०,

१९, ३^q; ५^q; -दसि बौश्रौ १८,

a) वैप १ द. । b) शोधार्थं वैप १, २४९९ e, d यथाक्रमं दः । c) पाभे. वैप १, २४९८ e, d. ।
d) = मिथस्- (तु. MW.) । e) स्ते इति C. शोध-प्रस्तावः । f) भाश्रौ. पाठः । g) वैप २, ३खं. दः ।
h) पाभे. वैप १, १०८० C द. । i) √मिथ्, मेथ् इति च √मिध्, मेध् इति च पाठात्तरम् (तु. भासंडाः प्रम्.) ।
j) या ४, ३; २७, २१ पा १, २, १९; ३, ११; ३, १, ५५; ७, ३, ८२ पराम्पदः दः । (क) = मेदस्- । (द) प्रस्. > दसः ।
m) सपा. मेदः <> मेदस्ः इति पाभे. ।

४० : २१; २४.

मेदः कुल्या- ल्याभिः कप्र २, ४, १४.

मेदस्-तरस^a-सः बाधूश्रौ ३, ९५ : २.

मेदस्-त्स(ः) या छ, ३; ६, १६^क;

मेदस्तःऽमेदस्तः माश्रौ ५, २, ९, ५.

मेदस्-पिण्ड- पाग ८, ३, ४८.

मेदस्-वत्- वत् बौश्रौ छ, ९ : ३५; हिश्रौ छ, ५, ३१.

मेदस्वती- -ती भाग २, १६ : ५^क; -तीम् भाश्रौ छ, २१, १; हिग २, १५, २^क.

मेदस्-विन्- -विन्म् वैश्रौ १०, २० : ८.

मेदस्विनी- -नीम् वैश्रौ १०, २० : ६.

मेदो-मजा(जा-अ)स्थि-वृष्टि- -ष्टयः अप ६४, ५, ८.

मेदो-मधु-श्यामाके(क-इ)षीक- तुल- -लानि कौस् ११, ४.

मेदो-मि(श्र >)श्रा- -श्राम् हिश्रौ छ, ५, ३०^०.

मेदो-रूप^d- -पम् बौश्रौ २८, ७ : ८.

मेदिन्^d- -डी अप छ ८, ११६^क;

-दिनम् पावा ६, १, ६७; ८, २, ६.

मेदिनी^d- -नी वैग ३, १६ : ७; छ, ११ : ९^क;

-नीम् अप ६१, १, १७; ६८, ३, १२.

मेदुर- पा ३, २, १६१.

√मिघ्, मेघ् √मिद् टि. द्र.

√मिन्द् (बधा.) पाधा. चुरा. पर. स्नेहने > मिन्दा^e- न्दया^f

आपश्रौ १३, १७, ८; हिश्रौ ९, ४, ५६; १०, ५, १६; -क^{न्दा}

आपश्रौ ९, १२, ११; १३, १७, ८; बौश्रौ.

मिन्दा(न्दा^f-आ)हुति- -ती बौश्रौ २१, २४ : ९^३×४; वैश्रौ;

-त्योः बौश्रौ २१, २४ : ८.

मिन्दाहुत्या(ति-आ)श्रावि- तादि- -दीन् वैग ६, १० : ३;

१३ : ४; २० : ३; ४; छ, ७, ८ : १०.

√मिन्व् (बधा.) पाधा. भ्वा. पर. सेचने, मिन्वति भाश्रौ ५, २, १९^६.

मिमत्^h- पाग छ, १, १९^१.

मैमत्- पा छ, १, १५०.

मैमतायन- पा छ, १, १९९.

मैमतायनि- पा छ, १, १५०.

मिमान- √मा (बधा.) द्र. √मियन् (= √म्यक्ष्), मियक्षति निघ २, १४^क.

√मियेघ^k- -घः आश्रौ ६, ११, ११.

मियेघ्य^d- -ध्य बौश्रौ ९, ७ : २^क.

मिरिका^l- > °का-वन-पावा ८, ४, ६.

√मिर्मिर^d- -रः आपश्रौ २२, ७, ७; बौश्रौ १८, १ : ४; ५^६क^६; हिश्रौ १७, ३, ७.

√मिल् पाधा. तुदा. पर. श्लेषणे, उभ. संगमे, मेलयति हिश्रौ ९,

३, १०.

मिलिक- (> मैलिक्य- पा.) पाग ५, १, १२८.

√मिलिऽमिलि अप ३६, १, १२.

√मिश् (बधा.) पाधा. भ्वा. पर. शब्दे रोषकृते च > मिश्, श्रा^m-

पाउवृ २, १३; -श्रः बौश्रौ २०, ११ : १२; सु १४, ३;

माशि ८, ६; -श्रम् आपश्रौ १३, २४, १६^क; बौश्रौ; -श्राः बौश्रौ १५, ८-९ : ८; वाश्रौ ३, ४, १, ३७;

३९; अप १, ४८, ६; अशा १५, ५; -श्राणि अप छ ४, ३, ३;

-श्रान् अप छ २, ६, १; ऋशा १, ५३; -श्रासु विघ २६, २; -श्रे पा ६, २, १२८;

-श्रैः काश्रौ १९, २, २५; अप ७०^२, ७, १७.

मिश्र-चोर- -रः विघ छ ५, १०^m

मिश्र-देवता-त्व- -त्वात् मौस् ५, ४, २१.

मिश्र-धान्यⁿ- -न्यानि कौस् ८, २०; -न्धैः अप १, ४४, ६.

मैश्रधान्य- -न्यम् कौस् १९, ५; २२, १; २४, ८; छ ६, १०;

-न्यस्य कौस् १३३, १; -न्यानि अप १७, २, ५.

मिश्र-निघन- -नम् निस् ४, १ : २३.

मिश्र-मिश्र^o- -श्रान् वाश्रौ ३, ४, १, ४८.

मिश्र-वत्- -वत्तः निस् ७, ७ : २.

मिश्र-वर्ण^p- -र्णः आमिगृ २, ४, १२ : ७.

a) मलो. कस. । b) परस्परं पाभे. । c) °श्रम् इति पाठः ? यनि. शोषः । d) वैप १ द्र. । e) घा.

स्खलने वृत्तिः । वैप १ द्र. । विशेषः टि. द्र. । f) = ऋग्-विशेष- । तद्वति वृत्तिः । g) घा. प्रक्षेपणे वृत्तिः ।

h) व्यप. । i) २मित- इति [पक्ष] पागम. । j) लघुशाखीयः पाठः । k) वैप १, २५०० k, m द्र. ।

l) अर्थः व्यु. च ? । = शोषधि-विशेष- इति प्रसिद्ध. । m) घा. संमिश्रणे वृत्तिः । n) °चौ इति जीतं. ।

o) नाप. (मिश्रित-धान्य-) । p) विप. [ओद्प्रभण-होम- (तु. म [मा २२, २०])] । सस. । q) बस. ।

†मिश्र-वासस्^१ - ससः आपमं
२, १३, ११^b; भाग १, २३, १^b;
वैग ३, १५ : ५^b; १७ : ६.

मिश्र-स्वप्न-स्वभाव^१ - वेषु अप
६८, १, ४८.

√मिश्रि पा ३, १, २१; मिश्र-
यति काश्रौ १०, ४, ६.

मिश्रण- -गम् काश्रौ ५,
१०, ९.

मिश्रि(त>)ता- -ताः अं
५ : २.

मिश्री √कृ > मिश्री-करण-
-गम् पा, पावा २, १, ३५.

मिश्री √भू > मिश्री-भाव-
-नः अप ७०^३, ११, ४.

‡मिश्रीभाव-कर्मन्-
-र्मणः या २, १६.

‡मिश्रीभाव-कर्मन्^१-
-र्मा या ५, १५.

मिश्री-भूत- -ताः अप ५२,
६, १.

√मिश्र^d पाधा. चुरा. उभ. संप्रकें.

मिश्रक- (> 'का-वान् >]ण-पा.)
पाग ६३, ११६; ८, ४, ४.

मिश्र-चोर- प्रभृ. √मिश्र द.

मिश्रोदन^१ - -नाः बौश्रौप २२ : २.

√मिष्^f पाधा. भ्वा. पर. सेचने, तुदा.
पर. स्पर्धायाम् > †मिषत्-

-षत् बौश्रौ १७, १९ : १०; हिपि
१८ : १३; -षतः भाग ३, ९ :

४; अत्र ४, २९; -षद्भयः हिपि

१८ : १३; -वन्तम् आश्रौ ४,
७, ४; या ११, ४२^क.

मिष्ट^१ - -ष्टात् माशि १५, १०.

मिष्टै(ष्ट-ए)क-भोजिन्- -जी
शंघ ३७७ : १५.

मिष्टै(ष्ट-ए)का(क-आ)शिन्-
-शी शंघ ३७७ : ५.

‡मेष- पाग ३, १, १३४.

मेषा(ष-आ)द्य(दि-अ)र्थ- -र्थः
पावा ३, १, १३५.

‡मिषे^d आपश्रौ २४, १४, १३.

√मिस्, मिस्थति^f निघ २, १४.

√मिस्^d

√मिह् √मिष् द.

मिहिर- पाठ १, ५१.

√मी √मि (बधा.) द.

√मी (= √मा [माने]), †मिमाय
बौश्रौ १९, १० : २७; आग्रिष्ट
२, ५, १ : २४; अत्र ९, १०; या
११, ४०.

†√मी (= √मा [शब्दे]), मिमेति अप
४८, ४; मीमयत् या २, ६^क;

‡मीमेत् आश्रौ ४, ७, ४;
शाश्रौ ५, १०, ६; या ११, ४२.

मीढ-, मीढुषी- प्रभृ. √मिष् द.

‡मीतस् वाधूश्रौ २, १६ : ९.

मीन^f - पाठ ३, ३^k; पाग ४, २, ८०¹;
-नान् वृदे ६, ८८; -नानाम्
नाशि १, ६, १६.

मैतिक- पावा ४, ४, ३५^m.

मीन- पा ४, २, ८०.

√मीमांसⁿ, मीमांसते अप ३३, १,
९; मीमांसन्ते वाधूश्रौ ४, ९० :

२९; बौध १, ४, १०; वाध २२,
२; गौध १९, ४; तैप्रा १६, ९^k;

मीमांसित वाधूश्रौ ४, २८¹ : ५;

जैश्रौ १ : ५; ६; मीमांसिरन्.
आपश्रौ २३, १, १५; वाश्रौ ३,
३, ४, १८; हिश्रौ १८, १, २०.

मीमांसमान- -नस्य आपध २, ६,
१९; हिध २, १०, २०.

मीमांसा- पाग ४, २, ६१^१; -सा
शाश्रौ १८, २४, ३४; आपश्रौ

१५, १८, १२; १९, १६, ९;
बौश्रौ २, १२ : ११; १४××;

वाधूश्रौ; चव्यू २ : २८^०.

मीमांसक- पा ४, २, ६१;
-कानाम् तैप्रा ५, ४१^२.

मीमांसित- -तस्य आपध २, ६,
१९; हिध २, १०, २०.

मीमांसित्वा बौध १, ५, ६३.

मीमांस्य- -स्यम् गोष्ट १, २, ९;
वांध ३, ४४.

मीमांस्यमान- -नाः आश्रौ ११,
२, ६.

मीयमान- √मा (बधा.) द.

मीर- पाठ २, २५.

√मील्^p पाधा. भ्वा. पर. निमेषणे.
√मीव् पाधा. भ्वा. पर. स्थौल्ये.

मीव- पाठ १, १५४.

मीवर- पाठ ३, १.

मुकय^१ - पाठभो २, ३, ७; पाग ४, १, ४४

a) बस. । b) सपा. हिष्ट २, ३, ७ विश्वासः इति, आग्रिष्ट २, १, ३ : १७ विश्वासाः इति च पाभे. ।
c) कस. > बस. । d) √मिष् इत्यपि BPG. । e) = ऋषि-विशेष- । संस्कृतेः टि. भूयान् पाभे. । f) या ३.
१६ परामृष्टः द. । g) नाप. । < √'मृष् 'माधुयै' (तु. पंजा. मखीर [मधु-]; नभा. मखाना [शर्करित-धान्य-];
पार., नभा. भिल्ली) । h) पाठः ? इष्- > इषे इति शोषः (तु. C., अत्रैव ऊर्ज- > ऊर्जे च) ।
i) वैतु. दे. < √मस् इति । j) = मत्स्य- । व्यु. ? । k) < √मी [हिंसायाम्] । l) अर्थः ? ।
m) तु. पाधि. । n) वैप १ द. । o) = मीमांसा-स्तम्भ- । p) पा ७, ४, ३ परामृष्टः द.

मुकयी- पा ४,१,४१; पावा ४, १,६३.
मुकुट^a- पाठमो २, २, १०६^b; -टेन विध १,४२.
मुकुर^c- पाठ १, ४०; पाग ५, २, ३६^d; पावाग ८, २, १८^e.
 मुकुरित- पा ५, २, ३६.
मुकुल^f- पाग २, ४, ३१; ५, २, ३६; १३६^g; पावाग ८, २, १८^e.
 मुकुलित- पा ५, २, ३६.
 मुकुलिन- पा ५, २, १३६.
 मुकुलोल लउप(मा>)म^h- मम वैश्री ११, ८: २.
मुक्त- √मुच् द.
मुक्ता- > मौक्तिक^b- कम् अप ९, १, ५; -कानि अप ६७, ५, १. मौक्तिक-लाङ्गूल-भूषित- -त्म् विध ८७, १.
 मुक्ता-मणि-सुवर्ण- -र्णेन अप १, ४३, ३.
 मुक्तामणिसुवाशुङ्ग- -ङ्गाः अप ६८, १, ३१.
 मुक्ता-लाङ्गूल(ल>)ला^h- -लाम् विध ९२, ८.
 मुक्ता-स्फटिक-रजत-वैडूर्या(र्य-अ)- व्जन-भ्रमर-सर्प-संनिकाश- -शेषु अप ६५, १, ५.
मुक्ति- मुक्त्वा √मुच् द.
मुसति अप ४८, २८^f.
मुक्षीयमाण- √मुच् द.
मुक्षीजाⁱ- -नजा, -जा या ५, ११६^g.
मुन्तु- पाठमो २, १, १०८.
मुख^j- पाठ ५, २०; पाग २, ४, ३१; ४, ३, ५४; ५, २, २४; ३, १०३;

-खम् आश्री १, ३, २८४; शांश्री; पा ६, २, १६७;
 -खयोः बौश्री १५, २: २१;
 वाधूश्री ३, ७०: ४; -खस्य शांश्री १, १२, ५^f; आपश्री; -खा अप ४६, ३, ४^f; -खात् काश्री १९, ४, १४; आपश्री १७, १९, १०; बौश्री १०, ५७: २२; ११, ७: ११; माश्री ५, २, ११, २४; ६, २, ५, ३१; वैश्री १९, ६: १२५; हिश्री १२, ६, १३; कप्र १, ९, १५; वैध ३, ११, ३; वृदे ६, १०२; या ७, १२^f; -खानि काश्री १०, ८, ९; आपश्री; -खाय आपश्री ६, २८, ११; वैश्री २, ११: ९^f; -खे आश्री ३, ११, ३; काश्री; वाध ३, ४१^h; -खेन आश्री १, १३, १^f; आपश्री; या ७, ३^f; -खेषु आपश्री १२, १२, ११^f; कप्र ३, २, ५.
 मुख-कमल-, मुख-चन्द्र- पाग २, १, ५६^e.
 मुख-जाह- पा ५, २, २४.
 मुख-तस(ः) शांश्री १६, १, १२; आपश्री.
 मुखतीय- पागवा ४, २, १३८; पावा ४, ३, ६०.
 मुख-दन्- -घनम् वाधूश्री ३, ७६; ५; -घ्ने बौश्री ९, १३: १६; १०, ४८: ३; १९, ४: २६; वैश्री १९, ६: ३६; ४५.
 मुख-देश- -शम् आपश्री २४, १४, १३.
 मुख-दोष- -षान् माशि २, १३.

मुख-नामि(का>)क- -कम् शौच १, २७; -के अप ४७, १, १२.
 मुख-नासिका^k- > मुखनासिका-करण^m- -णः गुप्रा १, ७५.
 मुखनासिका-वचन- -नः पा १, १, ८.
 मुखनासिक्य- -क्वाः तैप्रा २, ५०.
 मुख-नासिका- -काभ्याम् ऋप्रा १३, २०.
 मुख-नासिका(का-अ)क्षि-श्रोत्र- -त्रम् या १४, ६.
 मुख-पद्म- पाग २, १, ५६.
 मुख-पुच्छ-पाद-शुङ्ग-शुक्लⁿ- -कल्म विध ८६, ७.
 मुख-पुण्डरीक- पाग २, १, ५६^e.
 मुख-बाहु(हु-ऊ)रु-पाद- -देषु वैध १, १, २.
 मुख-मात्र- -त्रे काश्री ४, १४, १२; १८, १, ४.
 मुखमात्री- -त्रीम् काश्री १६, ८, ३३.
 मुख-र- पावा ५, २, १०७.
 मुख-वत् वैश्री ११, ७: १३.
 मुख-व(त्>)ती- -त्यः हिश्री १, ४, ३२.
 मुख-वर्ण-विनाश- -शे विध ८, १८.
 मुख-वल्मीक^o- -कः काध २७८: ९.
 मुख-वात- -त्वेन बौश्री ४, २, ६; हिप १, १६, ४.
 मुख-वाद- -दः आपश्री १६, २१, १०; वैश्री १८, १६: ४३; हिश्री

a) =किरीट-। b) <√मुच्। c) =दर्पण-। d) पृ ८८४ II द्र.। e) तु. पागम.। f) =कुडमल-। g) बस.। h) स्त्रार्थे ठक् प्र.। i) धा. सादरे वृत्तिः। j) वैप १ द्र.। k) मुखे इति पृष्ठः इ धनि. शोधः (तु. कश्चन मूको., सप्र. मनुः [५, १४०.]। l) मलो. कप.। m) =अनुनासिक-। n) दस.>सस.। o) उपमार्थे बस. इति!

११,७,१०; बौधु ६:२०.
 मुख-वाद्य^१- -द्यम् अप ३६, २५,
 २.
 मुख-वास^२- -सम् वैगु ४, ४: १८;
 १२: १०; ५, १३: १८.
 मुखवास-दान- -नम् वैगु २,
 १६: १०.
 मुखवासा(स-आ)दि-दक्षिणा^३-
 -गाम् वैगु ५, १५: १४.
 मुख-विकृति- -ति: अप ४७, २, ७.
 मुख-विगन्ध^४- -न्ध: शंघ ३७७:
 १६.
 मुख-विमार्जन- -नम् शांश्रौ ४,
 २१, २१; ८, ९, ८.
 मुख-विस्तीर्ण- -नी: अप २३, १, ४.
 मुख-शब्द- -ब्दम् शंघ ९५; आपध
 २, १९, ६; हिघ २, १३, ७८;
 -न्देन शंघ २२६.
 मुख-षड्-गण्ड^५- -ण्ड: काध
 २७८: ९.
 मुख-संमित, ता- -तम् काश्रौ ७,
 ४, १; वैश्रौ ६, १२: ५; १२,
 ९: १; -ताम् शांश्रौ १, १०,
 ७; बौश्रौ ३, २८: २५; वैताश्रौ
 ७, ८; अप ४५, १, १६.
 *मुख-स्वर-> शो(र-उ)पचार-
 -रा: पावा १, १, ४१.
 मुख-हृदय- -ये आश्रौ ५, ६, २६.
 मुखा(स-आ)दान^६- -ना: हिघ
 १, ६, ३४^१.
 मुखा(ख-आ)दि- -दीनि कौसु ४४,
 १८.
 मुखा(ख-अ)न्त- -न्तात् गौपि १, २,
 ३३.

मुखेना(न-आ)दायिन्^१- -यिन: बौध
 ३, ३, ९; १२.
 ?मुखोच्चक: भाशि ६१.
 मुखो(ख-उ)पस्पर्शन- -नम् काश्रौ
 ६, ९, ११.
 मुख्य, ख्या^७- पा ४, ३, ५४; ५, ३,
 १०३; पाग ६, २, १३१; -ख्य:
 शांश्रौ १३, १४, ४××; आपश्रौ;
 -ख्यम् आश्रौ ३, १३, १८;
 आपश्रौ; -ख्यम्-ख्यम् आपश्रौ
 १४, ३, ११; बौश्रौ; -ख्यया
 वृदे ३, ३७; -ख्यस्य आपश्रौ
 १६, २७, १९; बौश्रौ; मीसू ११,
 ३, ३५^१; -ख्या आश्रिण ३, ६,
 ३: १३; बौपि १, ११: १०;
 ऋप्रा ६, ३३; -ख्या: आपश्रौ
 १४, ४, १३; बौश्रौ; -ख्यात्
 बौश्रौ ९, ४: ८; २०, ८: ११;
 मीसू ३, ४, ४७; -ख्यात्-ख्यात्
 भाश्रौ ८, १८, ४; -ख्यान्
 आश्रौ ५, ६, १७; माश्रौ;
 -ख्यानाम् आश्रौ ४, १, १७;
 बौश्रौ २३, १३: २४; भाश्रौ
 ७, १९, १; मीसू ११, २, १;
 -ख्याम् बौश्रौ १०, ६: ३××
 वैश्रौ; -ख्याया: बौश्रौ १०, ७:
 ९; वैश्रौ १८, २: ३; -ख्यायाम्
 वैश्रौ १८, १८: ११; -ख्ये
 आपश्रौ १२, २८, १६××;
 काठश्रौ; ऋप्रा १४, २२; -ख्येन
 बौश्रौ २१, २०: २७; २२:
 १०; अश्र; -ख्येभ्य: आश्रौ १,
 ४, ३^१; -ख्येषु .माश्रौ १, ६,
 ४, ८; -ख्यौ ऋप्रा २, ४, १०.

मुख्य-काल^८-त्व- -त्वम् मीसू
 ४, ३, ३८; -त्वात् मीसू ५, १,
 २३; ११, ३, १.
 मुख्य-क्रम- -मेण मीसू ५, १,
 १४.
 मुख्य-चमस- -सात् आश्रौ ५,
 ६, २०.
 मुख्य-तन्त्र- -न्त्रेण मीसू १२,
 १, ३.
 मुख्य-तम, मा- -मा हिपि १४:
 ४; -मौ वृदे २, ८.
 मुख्य-त्व- -त्वम् हिश्रौ ३, ८,
 ३२; -त्वात् हिश्रौ ३, ८, ३३;
 मीसू ४, १, ३९; १२, ३, १४.
 मुख्य-देवता(ता-अ)नमी-
 ज्य^९-त्व- -त्वात् मीसू १०,
 ७, ४६.
 मुख्य-नामन्- -म या २, २२.
 मुख्य-प्रथम^{१०}- -मान् माश्रौ ५,
 २, १२, २२; २६.
 मुख्य-प्रवाद^{११}- -द्: हिश्रौ २२,
 ३, २५^१.
 मुख्य-भेद- -दे मीसू ७, १, १.
 मुख्य-लक्षण- -गाम् मीसू ४,
 ४, ३४.
 मुख्य-विप्रतिषेध- -घात् मीसू
 ३, ६, ८^{११}.
 मुख्य-शब्द-संस्तव- -वात्
 मीसू ४, १, २४.
 मुख्य-स्थान- -ने हिश्रौ ११,
 ७, ६१.
 मुख्या(ख्य-अ)धिगम- -मे
 मीसू ६, ३, ३६.
 मुख्या(ख्य-आ)नन्तर्य- -र्यम्

a) पस. । b) सुगन्धि-द्रव्य- । उप. <√वस् [गन्धे] । c) उप. = २दक्षिणा- । d) बस. ।
 e) बस. > कस. । f) = वानप्रस्थ-विशेष- । g) विघ., नाप. । h) मुख्यधा° इति जीसं. प्रष्ट. ।
 i) तु. आन. । म° इति BI. ? । j) कस. > बस. । k) = प्रामणी- । बस. । l) सप्र. आपश्रौ १९, २०, ७
 अश्रवादी इति पभे. । m) मुखप्र° इति जीसं. ।

मीस् ५, १, १८; -र्थात् मीस्
१२, २, २७.
मुख्या (ख्य-अ) र्थ- र्थः मीस्
३, ८, ३५.
मुख्या (ख्य-अ) वदान-परिमाण-
-णात् मीस् १०, २, ६.
मुख्या (ख्य-आ) सन- नेभ्यः
काश्रौ २४, ४, ४७.

मुग्ध- √मुह् द्र.

√मुङ्क्^१ पाधा. भ्वा. पर. गतो.
√मुच्, ङच् (बधा.)^२ पाधा. तुदा. उभ.
मोक्षणा; चुरा. उभ. प्रमोचन-
मोदनयोः, ङमोचि^३ आप्रिट्
२, ४, ४ : १६; बौध ३, ७, ११.
ङमुमुचि आपश्रौ ६, २२, १;
अप २ : ५८; या ४, ३; ङमुमु-
क्त^४ अत्र ५, ६; अप ३ : ९;
अमुमुक्तम् ऋषा २, ४०^५.
मुच्यन्ति अप ७०^६, ११, २७.
मुच्यति भाश्रौ १०, २०, १५;
वाश्रौ ३, १, १, ३३; कौसू ३९,
१५; अप १, ५०, ७; ४८,
३६^७; मुच्यन्ति अप ७०^८,
७, ३; ७०^९, ११, १३; मुच्यथः
अप्राय ६, ९^{१०}; ङमुञ्चामि शाश्रौ
१६, १३, ४; काश्रौ; ङमुञ्चतु
आश्रौ ३, ६, २४; १३, १५; काश्रौ;
आपमं १, ४, ७^{११}; ङमुञ्चताम्
आपश्रौ ३, १२, १; बौश्रौ २७,
६ : १२; वैश्रौ २०, ३० : ९;
ङमुञ्चन्तु काश्रौ २५, १, ११;
आपश्रौ; मुञ्चस्व या १४, ३२;
ङमुञ्च आश्रौ ३, ६, २४^{१२}; शाश्रौ;

बौश्रौ ३, ४ : ८^{१३}; ९^{१४}; २४, ३० :
१०^{१५}; १२^{१६}; भाश्रौ ६, ७, ६^{१७};
वाश्रौ १, ५, २, ४^{१८}; हिश्रौ
३, ७, ५^{१९}; ६^{२०}; अप्राय १, २^{२१};
मुञ्चऽमुञ्च अप २०, ७, ८;
ङमुञ्चतम् बौश्रौ १३, ३४ : ५;
६; अमुञ्चताम् हिश्रौ २४, ३, ६;
ङअमुञ्चन् आपमं २, १२, १०^{२२};
आप्रिट्; ङअमुञ्चतम् आपश्रौ
१५, ८, १२; बौश्रौ; ङअमुञ्चत
>ता आपश्रौ ६, २२, १; तैप्रा
३, १२; मुञ्चेत् शंघ २२६.
मुमुचे शाश्रौ १६, ११, २; मुमोच
वृदे ६, १५; मुमुचुः वृदे ६, ८९;
मुमुचिमि वैताश्रौ १०, १७^{२३};
ङमुक्षीय आपश्रौ ८, १८, ३;
बौश्रौ; या १४, ३२^{२४}; ङमौक्
बौश्रौ १, ११ : ११; १६ : २१;
भाश्रौ २, १, ९; ङअमुक्तम्^{२५}
आपश्रौ १९, २५, ६; हिश्रौ २२,
५, १७.
मुच्यते वाश्रौ ३, ४, ५, १९;
कौट् ४, १, ४; ९; आप्रिट्; या
५, १९^{२६}; मुच्यन्ते बौध १, १०,
३०; ४, २, ६; मुच्यस्व सु ११,
६; मुच्येत सु ३१, ६; अप ३५,
२, ७; ५४, २, ६; शंघ ३७०;
बौध २, १, १६; मुच्येय बौश्रौ
२७, १४ : १६^{२७}.
अमोचि आपमं २, १२, ९^{२८};
मोचि वाश्रौ १, ६, ५, १०^{२९}.
अमुक्याः अत्र २, १०^{३०}.
मुमुक्षते आश्रौ ४, ११, ६.

मुक्त, क्ता- -क्तः सु २९, १^{३१}; ४^{३२}.
कौट्; -क्तम् शाश्रौ १, १५, १०;
माय्; -क्तयोः अप ५३, ६, ५;
विध ६८, २; -क्ता सु २९, १;
४; -क्ताः माशि ४, ८; दंवि १,
३.
मुक्त-क्तेषु^{३३}- -शाः वाध २, २१.
मुक्त-अन्थि^{३४}- -न्थीन् वैश्रौ ५,
५ : ३.
मुक्त-बन्ध, न्धा^{३५}- -न्धाः वैट् १,
१० : २; -न्धे वैट् ५, १ : २१
मुक्त-योनिदोष^{३६}- -षाः वैट् ५,
१३ : ३.
मुक्त-शि(खा >)ख^{३७}- -खः वैट्
५, ५ : २०; गौपि १, २, २; शंघ
९५; बौध १, ५, १५; -खाः वैट्
५, ६ : ९; गौध २०, ५.
मुक्त-संशय^{३८}- -यम् पावा १, २,
६४; -ये पावा ३, २, १२३;
-येत पावा ३, १, २६; ४, ३, ३९.
मुक्ति- -क्तिः माय् १, १३, १५^{३९};
अप २३, १४, ४; वैध १, ११,
१२; १३; -क्तिम् वैध १, ११,
१३.
मुक्ति-द- -दम् अप २३, १४,
५.
मुक्ति-सिद्धय(दि-अ)र्थ- -र्थम्
अप २६, ३, ४.
मुक्त्वा पाय् ३, ७, ३^{४०}; वैट्.
मुक्ता^{४१}- > √मुक्षीय^{४२} > मुक्षी-
यमाण- -णः माय् १, १३, १५.
मुचिर- पाउ १, ५१.
मुच्य बौध २, ९, ४.

a) √थक् इति [पक्षे] BFG. । b) पा ७, १, ५९; ४, ५७ परामृष्टः द्र. । c) हेः पित्वाद्
शुष्णः (पा ३, ४, ८८) । d) पामे. वैप १, २१९१ । द्र. । e) घा. शुद्धौ अपि वृत्तिः । f) पामे. वैप २, ३ खं.
मुञ्चतु संज्ञा १, १, १० टि. द्र. । g) पामे. पृ १५५९ k द्र. । h) पामे. वैप १, २५०५ e द्र. । i) सपा.
तै २, ३, १३, १ मुञ्चतम् इति पामे. । j) सपा. शौ २, १०, ६ अमुक्याः इति पामे. । k) बस. । l) आप. ।
m) क्यजन्तः नाधा. ।

†मुच्च्यमा(न>)ना- नाम आम्निष्ठ
३, २, ६: ५; भाग २, १७: ६.

मुच्चत्-ञन्तम् शंघ २५४.

मुमुक्षु-क्षुणा विध ९६, ९८; -चोः
वैश्रौ २, ९: १.

मुमुचान^१- पाउ २, ९३; -नः
आश्रौ १९, १०, ५; हिश्रौ २३,
१, ५५; बौध ४, ४, ४.

मोक्तव्य-व्याः अप १९३, ५, ६.

मोक्ष^२- पाउमो २, ३, १६८; -क्षः

सु १०, ३; अप ३५, १, १४; वाध

१०, २०; आपध १, २५, ४;

हिश १, ७, १; पाशि २५; -क्षम्

वैध १, ७, ८; ९, २, ३; याशि २,

३४; ३५.

मौक्ष^३-क्षम् निसू ६, ८:

१८; ९, ४: ३१; -क्षस्य द्राश्रौ

९, ३, ३; लाश्रौ ३, ६, २२.

मौक्ष-सोम-सामन्-

-मनी द्राश्रौ ९, ३, ४; लाश्रौ ३,

६, २२.

मोक्ष-कर-रम् अप ३१, १०, २.

मोक्ष-काङ्क्षन्-दिक्षणा वैध

१, ११, १३.

मोक्ष-काल-ले अप ४०, ५, ५.

मोक्ष-विद्^४-वित् वाध १०,

२३; -नः विद्ः आम्निष्ठ ३, ४, ४:

११; बौपि ३, ४, १४; १५.

मोक्ष-संसार-मोचन^५- नम्

वाध २९, २०.

मोक्ष(क्ष-अर्थे)->र्थिन्^६-

-र्थिनः वैध १, ९, १.

मोक्षण-गम् अप ४०, ५, ५; -णे

अप ६५, २, ६.

मोक्षयिष्यत्-व्यन् गौध ९, ७१.

मोक्षित-तः अप ४१, ४, ४.

मोचन-नात् या ५, १९; ६, १; ३.

मोचयितुम् सु १०, २.

मोचयित्वा वैगृ २, १३: ४; शंघ ३७९.

मोच्य-च्यः गौध १२, १.

मुचिर-√मुच् द्र.

मुचुकर्ण-(>मौचुकर्णिक-पा.) पाग
४, २, ८०.

मुचुकुन्द-पाउमो २, २, १६९.

मुच्च्य √मुच् द्र.

√मुञ्ज,ञ्ज पाधा. भ्वा. पर. शब्दे.

√मुञ्च् √मुच् द्र.

√मुञ्च् पाधा. भ्वा. आत्म. कल्कने
कथने च.

मुञ्ज^७-ञ्जः या ९, ९४; -ञ्जान्

आपश्रौ १५, ४, २; १६, ९, ६;

भाश्रौ ११, ३, १६; माश्रौ ६, १,

३, २३; हिश्रौ ११, ३, ६; कौसू

३३, १; -ञ्जानाम् शाश्रौ १७, ४,

५; -ञ्जैः माश्रौ २, १, ४, ३४.

मौञ्ज^८-ञ्जः माश्रौ ४, २, २;

-ञ्जम् काश्रौ १७, २, ८; २६,

२, ७; बौश्रौ ९, ५: ८^१; १५:

७; १०, १२: ७; माश्रौ; हिपि

१५: ६, -ञ्जाः काश्रौ १३,

२, २६; -ञ्जान् आपश्रौ २१,

१७, ९; -ञ्जानि आपश्रौ १५,

५, १७; भाश्रौ ११, ५, २२;

वैश्रौ; -ञ्जे आपश्रौ १५, ५, २०;

१६, १०, ८; भाश्रौ; -ञ्जेन

आपश्रौ २, ५, ४; १६, ३, ७;

बौश्रौ; -ञ्जैः कौसू ३२, ३;
४६, २६; -ञ्जौ भाश्रौ ११, ५,
२१; वाधूश्रौ ३, १००: ४.

मौञ्जी-ञ्जी आपश्रौ

१०, ९, १३; २०, २, ७; वाधूश्रौ;

-ञ्जीभिः शाश्रौ १७, २, ९;

आपश्रौ; वाश्रौ ३, २, ५, २५ १६;

-ञ्जीभ्याम् बौश्रौ १५, ६:

६; -ञ्जीम् बौश्रौ १५, २: ३;

भाश्रौ; -ञ्ज्यः द्राश्रौ ११, १,

२; लाश्रौ ४, १, २, विध २७,

१८; -ञ्ज्या आपश्रौ २१, १७,

१३; भाश्रौ १०, ९, १०; वैश्रौ

१२, ९: ४; भागृ १, ६: ६;

हिपि १३: ९; -ञ्ज्याम् वाधूश्रौ

३, ६९: ३५; -ञ्ज्यौ शाश्रौ

१७, २, १; बौश्रौ १०, १: २.

मौञ्जी-ज्यामौवी-

सौत्री^९-ज्यः गौध १, १७.

मौञ्जि L,ञ्जी^{१०}]-

बन्धन^{११}-नम् विध २८, ३७;

-नात् वाध २, ६; बौध १, २, ७;

विध २८, ४०; -ने वाध २, ३.

मौञ्जी-मेखला-

-राम् आम्निष्ठ १, १, १: १६.

मौञ्ज-परिहि(त>)ता-

-ताः कौसू २१, १४.

मौञ्ज-प्ररन^{१२}-रनेन कौसू

२६, २.

मौञ्ज-विवय(न>)नी^{१३}-

-नी भाश्रौ १०, २०, ८^{१३}.

मौञ्ज-विवा(न>)ना^{१४}-ना

आपश्रौ १०, २९, ७^{१४}; १६, १०,

a) वैप १ द्र. । b) =साम-विशेष- । c) उप. <√विद् L ज्ञाने । d) तुस.>उस. उप.

कर्तारि कृत । e) =संन्यासि-विशेष- । f) विप. (३वेद-तन्तु-प्रसू.) । वैप १ द्र. । g) षञ्ज इति पाठः ? यनि.

शोधः । h) द्रस. सौत्री- =शरणातन्तवी- (द्र. मनुः [२, ४२]) । i) विध २८, ४० पाठः । j) षस. पूष. वा ह्रस्वः

(पा ६, ३, ६३) । k) कस. उप. =उष्णीष- वा इत्य- वा । l) उस. उप. <वि√वे । m) पररपरं

पाठे । n) वस. ।

१६; १२, १, १०; वैश्रौ १२, २१; २^{१६}; हिश्रौ ७, ३, २२; ११, ३, ३८; २३, १, ४८; -नाम् आपश्रौ २१, १७, १२; द्राश्रौ १, ४, १; लाश्रौ ३, १२, १.

मौञ्ज-वेद^१- -दम् भाश्रौ ११, १५, ३; २४.

मौञ्ज-शिक्य-क्या- -क्यम् वाश्रौ २, १, ३, ५; -क्या वाश्रौ २, १, ३, ४.

मौञ्जिन्- -ञ्जी शंघ ३९०.

मुञ्ज-कक्क-हलि- -लिषु पा ३, १, ११७.

मुञ्ज-काश-ताम्बली^८- -ल्यः गोष्ट २, १०, ९.

मुञ्ज-कुलाय^९- -यम् बौश्रौ २, ६; २६; १२ : ५×; वैश्रौ; -येन आपश्रौ १६, ९, ४; हिश्रौ ११, ३, ३.

मुञ्जकुलाय-प्रभृति- -तिना बौश्रौ २९, ६; १०; -तीनि वैश्रौ २१, १७; ६.

मुञ्जकुलाय-स्थिति- -तिम् जैश्रौका १८.

मुञ्जकुलाया(य-अ)वस्ती(र्षा)> गर्ण- -गर्णम् काश्रौ १६, ४, ३१.

मुञ्ज-केश- -फि ७२.

मुञ्ज-ज्या-बल्बज-म(य>)यी- -व्यः विध २७, १८^०.

†मुञ्ज-नेजन^१- -नम् ऋपा ८, ३२.

मुञ्ज-प्रलव^१- -वाः वाधूश्रौ ३, १००; ४; वैश्रौ १३, ७; २१;

-वान् आपश्रौ १५, ५, २०; ७, ३^१; काश्रौ; हिश्रौ २४, २, ६^{१६};

-वैः बौश्रौ ९, १४; १७; १६; ३.

मुञ्ज-बल्बज- -जैः आपध १, २१, १; हिध १, ६, ३०.

मुञ्ज-म(य>)यी- -यी काशु ७, १४.

मुञ्ज-मि(श्र>)श्रा- -श्रास् जैष्ट १, १२; ४९.

मुञ्ज-मेखला- -लाम् गोष्ट २, १०, ३३; द्राष्ट २, ४, २०.

मुञ्ज-योक्त्र- -क्त्रेण काश्रौ २, ७, १; १६, ३, ५.

मुञ्ज-रज्जु- -ज्जवः काश्रौ १६, ५, २.

मुञ्ज-वत्^१- -वान् या ९, ८.

मुञ्ज-वेद- -दम् काश्रौ २६, २, १९; -देन काश्रौ २६, ५, १५.

मुञ्ज-शिरस^१- -रः कौस् २५, ६.

मुञ्जा(ज-अ)भाव- -वे द्राश्रौ १०, ४, ३; लाश्रौ ३, १२, ३; पाष्ट २, ५, २४;

मुञ्जा(ञ-ओ)वलोप^१- -वान् माश्रौ १, ५, ३, १.

२मुञ्ज^१- पाग ४, १, ९९.

मौञ्जायन- पा ४, १, १९;

पाग ४, १, ७३; ५, ३, ११६^१;

-नाः बौश्रौप्र ४३; ३.

मौञ्जायनी- पा ४, १, ७३.

मौञ्जायनीव- पा ५, ३, ११६.

मुञ्जक^१- >मौञ्जकि- -क्यः बौश्रौप्र ४९; ३.

√मुद्^१ पाधा. भ्वा. पर. प्रमर्दने^{१०}; तुदा. पर. श्राच्यमर्दनयोः; उरा. पर. संचूर्णने.

√मुद्^१ पाधा. भ्वा. पर. मर्दने; तुदा. पर. उत्सर्गे^{१०}.

†मुडिज्ञाना अप ४८, ११६.

√मुग्^१ पाधा. तुदा. पर. प्रतिज्ञाने.

√मुण्ठ^१ पाधा. भ्वा. आत्म. पालने.

√मुराड्^१ पाधा. भ्वा. आत्म. मार्जने मुण्ठने^{१०}; पर. खराडने प्रमर्दने^{१०} च >मुण्ठ, ण्ढा^१- पाग २, १, ५९; ४, ३१; -ण्ढः काष्ट १, २४; माष्ट; -ण्ढाः काष्ट ४०, ४; काष्ट ४४; २०; -ण्ढान् माष्ट २, १४, ८; -ण्ढाम् आपष्ट ३, १२; -ण्ठेन विध २८, ४१.

मौण्ढय- -ण्ढयम् वैष्ट २, ५, ८; वैध २, १, २.

मुण्ढ-जटिल-शिखाजट- -ट्याः गौध १, २९.

मुण्ढ-तारा^१- -ताः अप ५२, ५, १.

मुण्ढ-संभावित^१- पा २, १, ५९.

√मुण्ढि पा ३, १, २१.

मुण्ढिन्- -ण्ढी अप ४०, २, ९.

मुण्ढित- -तः वैध २, ६, ३.

मुण्डिम^१- -मः शुअ ३, ४७.

√मुद्^१ पाधा. भ्वा. आत्म. हर्षे; उरा. उभ. संसर्गे, मोदते बौध २, ९, ५; ४, ८, १२; मोदन्ते अप ६२,

a) मो^० इति पाठः? यनि. शोधः। b) उप. = २वेद-। c) ताम्बली- (=[रणतान्तवी-] < तम्बल-)। वासूनी- (< वासून-) इति संस्कृतेः टि. पाठे.। d) मलो. कस. (तु. वैप २, ३खं; वैतु. बौश्रौ. सूवी बस. इति १)। e) भयः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. जांसं.)। f) वैप १६.। g) उप. = खराड-। h) प्रलवान् इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सप्र. आपश्रौ १५, ५, २०)। i) = पर्वत-विशेष-। j) पुष्पाधार-क्राष्ट-। k) व्यप. १ व्यु. १। l) = आयुषजीविसंघविशेष-। m) तु. BFG.। n) विप. (मुण्डित-शिरस-), नाप. (शिरस-)। o) मँलो. कस. १। p) तु. पागम.। q) या ९, ५; ११, ७ परामृष्टः द्र.।

४, ४; ऋमोदाम आपम २, ५, १६; आमिष्ट १, १, ४: १२; भाग्य; मोदेत आ ४, २, १२; आपध १, २२, ८; हिध १, ६, ८.
 सुद्- पावा ३, ३, १०८^०; सुदः अप ६२, ४, ४; शंघ ११६: १६^१; सुदा वाग्य १५, २४; वृदे ५, ५३.
 सुदं-गिल- लः या ९, २४.
 सु(द >)दा^०- ऋदा^० आमिष्ट १, ५, २: ४७; वैग्य १, १८: ७.
 सुदित- नतः अप ६८, ४, २; -ताः अप ५२, १६, ७; ७१, १९, ९.
 ऋमोद^०- दः आमिष्ट १, ५, १: ९; -दाः सु २५, ५; -दाय आपश्री १९, ७, ४; वाश्री ३, २, ७, ६७; हिश्री २३, १, २६.
 मोद इव^० आपश्री १२, २७, १२^२; १४^२; १७; १३, १३, ९; १०; १४, ३, ४; बौश्री; मोद इवम् आपश्री १२, २७, १५^२; मोद इवोम् आपश्री १२, २७, १५; वैश्री १५, ३६: २; मोदा मोद इव आश्री १३, १३, ८-१०××; बौश्री; मोदा मोद इवोम् वैश्री १५, ३५: १५; मोदामोदैव माश्री २, ५, १, ४७; मोदामोदैवो शाश्री १२, ११, १०; मोदामोदैवोम् आश्री ५, २०, ६; मोदैव आश्री ५, ९, ४; ५××; शाश्री; मोदैवमदे आश्री ६, ३, १४; शाश्री; मोदैवोम् आश्री ८, ३, ११××; मोदैवोश्म् आश्री ७, ११, १५××; माश्री.
 मोदक- पाग २, ४, ३१; -कान्

अ ६, १, ७; -कानि शंघ २२६.
 मोदति-> ०ति-कर्मन्- मणः या ९, ५.
 ऋमोदन्-> ०न-जिह्व^१- ह्म या ६, २३.
 ऋमोदमान, ना- नः^० काश्री २५, ५, २८; आपश्री^० ६, २७, ३××; वैश्री १८, १४: १३^१; हिश्री^० ६, ७, ८; ११, ६, १४; आग्य; कौग्य ३, ४, ५^१; शाग्य ३, ७, २^१; भाग्य १, २७: ३^१; हिग्य १, २९, १^१; -ना सु ३, ५; काग्य २७, ३^१; -नाः ऋमोद् ४०, १३; ७०, १; -नाय या ११, ९.
 मोदमानी^१- नीम् कौग्य १, १४, ११; शाग्य १, २२, १६.
 मोदि(त >)ता- ताः अप ६२, ४, ४.
 मुदिर- पाठ १, ५१.
 मुदेर- पाठमो २, ३, ६१.
 मुद^०- पाठ १, १२८; पाग ४, ३, १३६; -द्वाः कप्र ३, ७, १३; -द्वाः विध ८०, १.
 १मौद्र- पा ४, ३, १३६; ४, २५.
 मुद्र-गिल- लः या ९, २४.
 मुद्र-पायस-मिश्रधान्य-मोदक- कानि अप २०, ३, ४.
 मुद्र-वत्- वान् या ९, २४.
 मुद्र(द्र-ञ्)ञ- ञम् आग्निग्य २, ५, ६: ८.
 मुद्रौ(द्र-ञ्)दन- नम् कौग्य १, १४, ३; शाग्य १, २२, ५.
 मुद्र^१- पाठमो २, ३, ३६६; -रः काशु ७, ८; -रम् काशु ७, ११.

मुद्रल^०- पाठमो २, ३, ९९; पाग ४, १, १०५; २, १११; -लः ऋग्र २, १०, १०३; वृदे: या ९, २३^१; २४^१; -लम् अप्रा ३, ४, १^१; -लस्य चाञ्च ४२: ४; -ला^१ बौश्रीप्र २५: १; ३; ३०: १; ३; -लानाम^१ आश्री १२, १२, १; आपश्री २४, ८, ७; वैघ ४, ३, ९.
 मुद्रलनी- पावा ४, १, ४९.
 मौद्रल्य- पा ४, १, १०५; पाग ४, २, ८०; -ल्य आश्री १२, १२, १^२; आपश्री २४, ८, ७; ८; बौश्रीप्र २५: ३; वैघ ४, ३, ९; -ल्यः बौश्री १६, १४: १६××; बौघ; या ११, ६; -ल्यस्य बौश्री २०, १३: २०; २३, १९: ३१.
 मौद्रल- पा ४, २, १११.
 मौद्रलीय- पा ४, २, ८०.
 मुद्रल-वत् आपश्री २४, ८, ७; ८; बौश्रीप्र २५: ४; वैघ ४, ३, ९.
 मुद्रा- पाठ २, १३; पाग ५, २, ३६; ४, ३^१.
 मु(द्र < द्रा | क >)द्रिका- पा ५, ४, ३.
 मुद्रित- पा ५, २, ३६.
 मुधा^० पाग १, १, ३७; ४, ५७; वृदे ७, ४३.
 मुनि^०- पाठ ४, १२३; पाग ४, १, ४५; ११२; २, ८०^१; ५, २, १००^०; ३, १०८; ६, २, ८५; ३, ११९; -नयः सु १, ३; १३, ४; अप; -निः वैग्य २, १: १७; वाघ; -निभिः अप २३, ७, ५; ५१,

a) तु. पागम.। b) परस्तरं पाभे.। c) वैप १ द्र.। d) भावे कर्तरि च कृत्। e) वैप १, २५०६ f द्र. (वैतु. सा। एषा ३, १२। आमोद इति)। f) बस.। g) पाभे. पृ १६०८ f द्र.। h) पाभे. वैप १, २५०६ j द्र.। i) = गाथा-विशेष.। महाकाली- इति भाष्यम् ?। j) नाप.। k) <√सुद् >। l) बहु. = <मौद्रल्य-। m) अन्व.। n) अर्थः ?। मुनिस्थल- टि. द्र.। o) पाका. सुनि- इति ?।

१, २; शंघ; -निभ्यः वैगृ २,
१२: १०; -निम् वृदे ७, ४७;
-नीनाम् वीगृ ३, ५, १११;
-०ने अप ७०, १, २; -नेः बौश्रौ
१८, १२: १६; मागृ.

मुनी- पा ४, १, ४५.

१मौन- नम् अप ४२, २, ७;
शंघ; -नात् वाध २२, ५; विध
५५, १७; -ने बौध २, १०, ५७.

मौन-व्रत- -तेन वैगृ २, ८:

४; ६.

मौनव्रतिन्- -ती बौध ४,

७, ६.

मौनिन्- -निनः वैध १, ८,

१^१; -नी आमिगृ २, ४, ५:

२१; जैगृ २, ८: ११; वैध २,

१२, ६.

२मौन^b- पा ४, १, ११२; -तः

बौश्रौप्र ६: १.

मौनिक- पा ४, २, ८०; ५, ३,

१०८.

मुनि-काण्ड^c- -गडे भाशि ८१^१.

मुनि-चित्, चि^d]- (> मौनिचिति

[, चि]- पा.) पाग ४, २, ८०.

मुनि-प(द् >)दी- पाग ५, ४, १३९.

मुनि-मुख्य- -ख्यैः बौध १, ४, १६.

मुनि-वसु-पिशाच- -चाः कप्र ३, ६,

९.

मुनि-व्रत^e- -तः कागृ ४, १४.

मुनि-श- पा ५, २, १००.

मुनि-सचम- -सः वृदे ८, १८.

मुनि-सत्रे(त्र-इ)ष्टि- -ष्टया शाश्रौ

१४, ६, ६.

मुनि-स्थ, स्थ^f]-ल- (> मौनिस्थ
[, स्थू] लिक्- पा.) पाग ४, २,
८०^६.

मू(नि >)नी-व(त् >)ती- पा ६,
३, ११९.

मुन्य(नि-अ)न्न- -न्नानाम् विध ५१,
७७.

मुन्य(नि-अ)यन- -नम् शाश्रौ ३,
११, १०; बौश्रौ १६, ३: १.

मुमुजु-, मुमुचान- √मुच् द्र.

मुमुषेत्-, मुमुषे- √मुष्ट द्र.

√मुष्ट पाधा. तुदा. पर. संवेष्टने.

मोर- पाग ३, १, १३४.

मुर^b- (> मौर्य- पा.) पाग ४, १,
१५१.

मुरज- पाउमो २, २, ९१.

मुरल- पाउमो २, ३, ९९; पा, पाग ४,
१, १७३^१.

√मुर्त् √मूर्त् द्र.

मुर्त्- पाउमो २, ३, ५२.

√मुर्व पाधा. भ्वा. पर. बन्धने.

√मुर्त्^१ पाधा. चुरा. पर. रोहणे.

रमुल^b- (> ल-वत्-, लिन्- पा.)
पाग ५, २, १३६.

२मूल- १मूल- टि. द्र.

मुशाल^१- पाउवृ १, १०६.

√मुष् (बधा.)^१ पाधा. भ्वा.^१,
क्र्या. पर. स्तेये; दिवा. पर.

खरडने, मोषय > था या ६,
४^१; ऋप्रा ७, ३३.

मुष्णाति बौश्रौ २५, १०: १४.

मुष्यते द्राश्रौ ३, ४, २^१; आपध
२, २६, ८; हिध २, ५, २०३.

मुसुषाण- पाउना २, ८९.

मुषि- > मुषी-वत्- -वान् निध
३, २४^१.

मुषि(त >)वा- -ताम् कागृ १, १८;
मागृ १, १, ८.

मोषण- -णात् या ६, १; ३.

मोष्य^m- -ष्यः वाध १२, २२.

मुपल^१- पाउवृ १, १०६; -लम् लाश्रौ
८, ८, ३१.

मुष्क^१- पाउ ३, ४१; -^१क्योः
आमिगृ १, ५, १: ८; १०; -^१कौ
शाश्रौ १२, २४, २; ३; लाश्रौ
९, १०, ५.

मुष्कर- पा ५, २, १०७; -रः
आपश्रौ ३, १, ५, ७; -रम् आपश्रौ

५, २०, १६; माश्रौ १, ५, ६, ९;

-राः हिश्रौ ११, २, १; -रान्

आपश्रौ १६, ७, १; वाश्रौ २, १,

२, ३; वैश्रौ १८, ४: १३.

मुष्क-वत्- -वान् ऋम २, १०, ३८.

मुष्टि^१- पाउमो २, १, १८९; पाग ४,
२, ८६^१; -ष्टिः या ६, १६; माशि

२, ११; -ष्टिना शाश्रौ ४, ३, ६;

आपश्रौ; -ष्टिभिः वाधश्रौ ४,

७४: ७; वैगृ ५, ३: १२; -ष्टिम्

आश्रौ १०, ८, १०^१; शाश्रौ

१६, ४, १^१; आपश्रौ; कौगृ ४,

४, ३^१; -ष्टी आपश्रौ १०, १८,

२; ११, २, १××; बौश्रौ; -ष्टीन्

काश्रौ २, ३, २०; आपश्रौ;

-ष्टीनाम् सीस ६, ५, १८; -ष्टेः

सीस १०, २, ६४; -ष्टौ काश्रौ

१, ७, ११; पा, पावा ३, ३, ३६;

a) = वानप्रस्थ-विशेष-। b) व्यप.। c) कस. पूष. = सप्तम-। d) पाक्क. पायम. पाठः।

e) बस.। f) पाक्क. पाठः। g) मुनि, स्थल- इति [पक्षे] पागम.। h) तु. पागम.। i) तु. BPG.।

j) = मुसल-। k) वैप १ द्र.। l) शौच २, ७६ या ४, ५ पा १, २, ८ परामृष्टः द्र.। m) घां. उन्मोचने वृत्तिः।

n) तु. पाक्क.। रुष्टि- इति भारुडा. पासि., रिष्टि- इति पायम., हृष्टि- इति [पक्षे] पाक्क.। o) वैप १, २५० c d द्र.।

p) पम्मे-पृ १६२९० द्र.।

-श्याम् कप्र २,९,२५.
 मुष्टि-कपाला (ल-अ) वदाना (न-अ)
 क्षना (न-अ) भयक्षन-नपन-पावन-
 न्नेषु मीसू ५,२,४.
 मुष्टि-करण^a - णम् बौश्रौ २१,
 ९:२४; वैश्रौ १८,७:९; ९:११;
 -णा: बौश्रौ २१,९:२१^b; -णात्
 माश्रौ ६,१,३, २१; हिश्रौ ११,
 ३,३; -णे बौश्रौ २१, ९:२४.
 मुष्टिकरण-प्रभृति- -ति आपश्रौ
 १६, ११, १०; माश्रौ ६, १,४,
 १९; -तीनि हिश्रौ ११,४,१.
 मुष्टिकरणप्रभृति-कर्मन्-
 -माणि वैश्रौ १८,९:१.
 मुष्टिकरण-वाग्यमन- -ने काश्रौ
 ७,४,४.
 मुष्टिकरणा(ण-आ)दि- -दि वाश्रौ
 २,१,३,१९.
 मुष्टि-कर्मन्- -र्मण: आपश्रौ १६,
 ९,४.
 मुष्टि-(क>)का^c-> का(का-आ)
 कृति^d - -ति: याशि १,४४.
 मुष्टि-नाह^e - -हम् वैश्रौ १२,९:१०.
 मुष्टि-धम- पा ३,२,३०; पावा ३,
 २,२९.
 मुष्टि-धय- पा ३,२,३०.
 मुष्टि-परामर्शम् वाधूश्रौ ४,७४:८.
 मुष्टि-प्रमाण- -गम् आमिण् ३,११,
 १:४; बौपि २,१०,२.
 मुष्टि-प्रसृता(त-अ)ञ्जलि^f - -लिभि:
 कौसू ६१,११.
 मुष्टि-बन्धिन्- -न्धी याशि १,४४.
 मुष्टि-मात्र- -त्र: हिश्रौ ७, १, ५५;

-त्रम् अप २३,२,३.
 मुष्टिमात्रो- -त्रीम् हिश्रौ ११,
 १,११.
 मुष्टि-मुख- पा ६,२,१६८.
 मुष्टि-मेखल^g - -लम् काश्रौ ८,२,४.
 मुष्टि-लोप- -पात् मीसू १०,२,६२.
 मुष्टि-विसर्ग- -र्गात् काश्रौ ७, ४,
 १७; ८,१,९.
 मुष्टि-संयुक्त- -कम् अप २२,७,२.
 मुष्टि/कृ.मुष्टीकुरुते माश्रौ २,१,२,
 २०; वैश्रौ १२, २४:१××;
 हिश्रौ १०, ३, ३×××; मुष्टी-
 करोति आपश्रौ १०, ११, ४;
 बौश्रौ ६, ५:२६; माश्रौ; मुष्टी
 ...करोति बौश्रौ १०, १४:८;
 १६:११; १२, १७:१×××;
 मुष्टीकुरुष्व बौश्रौ ६, १९:२४;
 मुष्टीकुर्यात् वैताश्रौ ११, २३.
 मुष्टी-कृत्वा काश्रौ ७,३,७; माश्रौ.
 मुष्टया(ष्टि-आ)कृति- -ति: याशि
 १,६१; -तिम् माशि ४,१०.
!मुष्टिनः^h बौश्रौ १७, २४:४.
१मुसलⁱ- पाउभो २,३,९९; पाग २,
 ४,३१; ४, १,४१^j; ५, १, ४;
 ६६; २,३६; ६, ३,१०८^k; ८,
 ३, १०८; -लम् काश्रौ २, ४,
 ११; १७, ५, ३; आपश्रौ;
 या २, ३५४; -लस्य बौश्रौ
 २०,६:२७; २५,३१:६; वृदे
 ३,१०१; -लानाम् अप ६४,
 ४,१०; -लैः काश्रौ ३, ८, १;
 आपश्रौ; -लेन आपश्रौ २०,३,
 १२; बौश्रौ; -लैः विध ४३,३८^k.

मुसली- पा ४,१,४१^l;
 १मौसल^m - -लः कौसू ९२,६;
 -ला: आश्रौ ९,७,६; -ले शुअ
 १,५५.
 १मौसली- -ली: अशां २१,
 २; -ल्यौ ऋअ २,१,२८.
 मुसल-धर्म- -र्मान् आपश्रौ १२,
 ४,१५.
 मुसल-प्रपतन- -ने मागृ २,१५,६.
 मुसल-प्रपात- -तः अप ३७,१,६१.
 मुसल-बुध्नⁿ - -ध्नेन कौसू २९,२२.
 मुसल-संसर्ग- -र्गे मागृ २, १५,
 ६०.
 मुसला(ल-आ)कृति^o - -ति: अप
 ५४, २,२.
 मुसलित- पा ५,२,३६.
 मुसलिन्- -ली गौघ १२, ४०.
 मुसलीय- पा ५,१,४.
 मुसलो(ल-उ)ल्लखल- -लम् अप
 २३, १३,२; -ले कप्र २, ५,
 १६; वृदे १, ११३.
 मुसल्य- पा ५,१,४; ६६.
२मुसल^p- पाग ४,१,१०५; २,१११;
 -ला:प^q बौश्रौप्र ४१:१६.
 मौसलि- -ल्यः बौश्रौप्र ४२:४.
 मौसल्य- पा ४,१,१०५.
 २मौसली-> ली-पुत्र-
 -त्र: अप ४,४,१२.
 २मौसल- पा ४,२,१११.
मुसल-धर्म-प्रभृ. १मुसल- द्र.
✓मुस्त पाधा. चुरा. पर. संघाते.
मु(स्त>)स्ता^r- पाउभो २,२,१३४=

a) = कर्म-विशेष-। उप. भावे कृत्। b) = मन्त्र-विशेष-। करणे कृत्। c) स्वार्थे प्र.। d) = हस्त-विशेष-। बस.। e) उप. करणे कृत्। f) तु. कौसू ६७,२६। g) समाहारे द्वस. उप. = मेखला-। h) पाठः मुष्टिना इति संस्कर्तुः टि.। i) वैप १ द्र.। j) तु. पागम.। k) मुष्प इति जीसं.। l) = ओषधि-विशेष-। m) सास्यदेवतीयस्तस्येदमायस्व प्र.। n) बस.। o) तु. Knauer। p) = ऋषि-विशेष-। q) बहु. <मौसलि- वा मौसल्य- वा। r) = वृष्ण-विशेष- (नभा. नागरमोथा)।

मौस्त-स्तेन बौश्रौ १५, २५:३^a.

मौस्त कृत-तेन आपश्रौ
२०, १५, १२^a; १३^f; हिश्रौ
१४, ३, २३^a.

मौस्त-फाण्ट-ण्टेन वाश्रौ
३, ४, ३, ४^{a,b}.

मुस्त्र-पाजवृ २, १३.

√मुह^o पाधा. दिवा. पर. वैचित्थे,
मुहति वैगृ ५, १ : २३; बौध
२, २, १९; विध २०, ४९;
मुहन्ति वाध्रौ ४, ४०:१७;
१८; कप्र १, ४, ११; मुहन्तु
या १०, २७^f; मुह्येत बौश्रौ
२७, १२:१४; १९; मुह्येत लुस्
३, १४:११; आपध १, २३, १;
हिध १, ६, ९; मुह्ययाताम्
आपश्रौ १४, २८, ४; हिश्रौ १५,
७, १२; मुह्ययुः बौश्रौ १७, १४:
७^f; माश्रौ ३, १, १८; हिश्रौ
९, ८, ३३^f.

मुमोह वृदे ७, ८८.

मोहयति बौश्रौ १७, १४:८^f;
हिश्रौ ९, ८, ३३.

अमूमुहत् अश्र ३, २^f.

ममूमुहत्^d आश्रौ ८, १४, ४^३;
मागृ २, ३२:१९.

मुग्ध-नङ्घा: आपश्रौ ३, १२,
१; बौश्रौ २७, ६:११; वैश्रौ २०,
३०:८; ग्घै: बौश्रौ २७, ११:
१६; १९; ग्घौ वैश्रौ २१, १५:
११.

१मूढ[ळह^o]-ढ: हिश्रौ १५, ३, २८;
आगृ ३, ७, ९^f; या२, २५; ढम्

वैगृ ६७:१२; -ढा: अअ ११,
१०^f; या ६, ८; ढे आपश्रौ ९,
११, १; भाश्रौ ९, १४, १४; वैश्रौ
२०, २०:४.

मूढ-गर्भ-> १भि(न् >)णी-
णी वैगृ ५, ३:९; -णीम् वैगृ ५,
९:१३.

मूढ-स्वस्तर^h-रे आपध १,
१५, १३; हिध १, ४, ७२.

मोह-ह: आपध १, २३, ५; -हम्
विध ९६, ३४; वैध १, ११, १२;
-हात् कप्र १, ३, ४; २, १०, ११;
अप ६९, ९, ३; शंघ.

मोहन^m-नात् या ६, १; ३; -नानि
कौस् १४, १७.

मोहनी-नंनि अप ३६, १,
४; -नी बौगृ २, १, १९^f.

मोहयित्वा मागृ २, १८, २^f.

मोहयिष्यत्-ष्यन् अप्राय २, ६.

मोहित-त: वृदे ७, ५४.

मोहिष्यत्-ष्यन् कौस् १२५, २^f.

मुहिर-पाठ १, ५१.

मुहुस्(,र:)^l सु ३, ३; वैगृ ५, ४,
२८^f; अप; आपध १, ८, २२^k;
हिध १, २, ११०; या २, २५^f;

पाठ २, १२०; पाग १, १, ३७;
मुहुःसमुहुः अप ६३, २, ६;
७०^३, २०, ५; ७०^३, ११, ७; शंघ.

मुहुःसर^l-रम् या ९, ३५.

मुहुतै^l-पाठवृ ३, ८९; पाग ४, ३,
७३; -तै: अप १, ५, ५; या २,
२५^f; आज्यो १, ६; -तैस्
काश्रौ ४, १५, ३२x४; बौश्रौ;

वृदे ७, १५७; या २, २५^f;
आज्यो १, ३; १४, २; -तैस्
आज्यो १, ५; ७, १६; १७;
वेज्यो ३८; -ता: शाश्रौ १४,
८०, २; आज्यो १ ११; -तान्
आपश्रौ १९, १२, २x४;
हिश्रौ २३, २, १३x४;
-तानाम् बौश्रौ १९, ३:३३;
आज्यो १, ८; -तै अप ४, २,
२; ५, ४, २x४; नाध १२, ४७;
१७, ६१; शंघ ४९; ३०४;
बौध २, १०, २२; आज्यो ७,
११; -तैन वृदे ४, ६६; ५,
१५०; आज्यो २, ५; ६; ३, ३;
७, १३-१५.

मौहूर्त-पा ४, ३, ७३.

मुहूर्त-ज्ञान-न्तम् आज्यो १, ३.

मुहूर्त-मात्रा-त्रा: निस् ९, ८:३.

मुहूर्त-स्तोम^m-मा: शाश्रौ १४,
८०, १.

मुहूर्तै(त-इ)ष्टका^m-का: बौश्रौ
१९, २:४; ९; १५; २०; ३३.

मुहूर्तौ(त-उ)दय-पर्वन्-र्वणाम्
वेज्यो ४४.

मुहूर-पाठ १, ६१.

√मू पाधा. भ्वा. आत्म. वन्धने.

१मूक^l-पाठ ३, ४१; पाग ५, १,
१२३; १२४; -क: आमिगृ ३,
१०, १:४; बौपि ३, ५, २; शंघ
३७६; ३७७:१८; विध; -क:
विध ४५, ३३.

मौक्य-पा ५, १, १२३; १२४.

मूक-ता-मूक-स्व-मूक-मन्-पा

a) परस्परं पाभे. b) फाटेन इति पाठः? यनि. शोघः। c) पा ७, २, ४५; ८, २, ३३ परासृष्टः द्र.।
d) पाभे. वैप १, १४९ d द्र.। e) आगृ. या. पाठः। f) मूढः इति जीसं.। g) कस. उप. = [पलालाप्रमूढ-
भागनिर्मिते] आसन-। h) भावाद्यर्थे प्र.। i) = मातृ-विशेष-। j) वैप १ द्र.। k) मुहूर् इति पाठः (तु-
शाष्यम्) ? यनि. शोघः (तु. हिध.)। l) उ१. टः प्र. उत्सं. (पा ३, २, १८)। m) = याम-विशेष-। बस.।
n) = इष्टका-विशेष-।

५, १, १२३.
२मूक^a -कः बौश्रौप्र ६: १.
मूचिक- (> मौचिक्य- पा.) पाग
 ५, १, १२८.
मूचीप^b -पा: शांश्रौ १५, २६, १.
मूज -> ११मूज-वत्^c -वतः आपश्रौ
 १२, ५, ११; बौश्रौ; -वताइः
 बौश्रौ ६, १४: २४; -वति या
 ९, ८; -वत्सु बौश्रौ २, ५: १९;
 -वान् या ९, ८६.
मौजवत्^c -तः या ९, ८६;
 -तस्य माश्रौ ३, ६, ४; या ९,
 ८१.
२मूज-वत्^d -> मौजवत्^d -वान्
 ऋत्र २, १०, ३४.
१मूद- √मुह द्र.
२मूद^e - पाग ४, १, १५१; -दा:^e
 बौश्रौप्र १०: २.
मौढ्य- पा ४, १, १५१.
मूत^f -तः लाश्रौ ८, ३, ८; -तयोः
 काश्रौ ५, १०, १८; आपश्रौ; -ते
 आपश्रौ ८, १७, ५; १८, ७;
 बौश्रौ; -तेन माश्रौ १, ७, ७, ४;
 -तेषु आपश्रौ ८, १७, ६; १८,
 ७; २१, ३; हिश्रौ ५, ५, ६.
मूत-कार्य^g -र्यम् काश्रौ १, ३, २३;
 आपश्रौ.
मूत-कृत- -तम् बौश्रौ २६, ३३: १७.
√मूत्र पाया. चुरा. उभ. प्रह्वयो.
 √मोमूत्र्य पावा ३, १, २२.
मूत्र^h -पाउ ४, १६३; पाग ५, २, ३६;
 -त्रम् आपश्रौ ९, १८, ९; १०,
 १३, १४; बौश्रौ; -त्रे कौसु
 २२, ८; बौध १, ५, ६९; -त्रेभ्यः

आश्रौ ५, ११, ३; -त्रैः वाध ३,
 ५९.
मूत्र-कृच्छ्रⁱ -> ०च्छ्रन्-च्छ्री शंघ
 ३७७: १२.
मूत्र-पुरीष- पा, पाग २, ४, ११; -वम्
 आश्रिग २, ६, ८: ५; कौसु ४८,
 ३२; या १४, ७; -षयोः आपध
 १, ३०, १४; १६; १८; १९; ३१,
 ३; बौध; -षे काश्रौ ९, ६, २२;
 आपश्रौ; गौध ९, ३९^m; -षेण
 वाध २८, १; -षौ वैध २, ९, २ⁿ.
मूत्रपुरीष-करण- -णे गौगु ४,
 ११, १.
मूत्रपुरीष-प्राशन- -नम् आपध
 १, २१, १६; हिध १, ६, ४६.
मूत्रपुरीष-मध्ये- -ध्ये विध ९६,
 ३१.
मूत्रपुरीष-लेप- -पान् आपध १,
 १५, २३; हिध १, ४, ८२.
मूत्रपुरीषा(ष-अ)पकर्षण- -णम्
 गौध ९, १५.
मूत्रपुरीषो(ष-उ)त्सर्ग- -र्गम्
 शंघ ४९; विध ६०, १.
मूत्र-पुरीष-पूय-शोणित-रेतः-श्लेष्मो-
 (ष्म-उ)च्छिष्टा(ष्ट-अ)ङ्गनिष्पेष-
 -षान् वैध ३, २, ८.
मूत्र-पुरीष-रेतस्- -तसाम् गौध
 २३, ४.
मूत्रपुरीषरेतो-विसर्ग- -र्गे वैध
 २, १२, ३.
मूत्र-पुरीष-रोहित-रेतः-प्रभृत्यु-
 (ति-उ)पहत- -तानाम् बौध
 १, ४, ५^k.
मूत्र-पुरीष-लोहित-रेतः-प्रभृत्यु-

(ति-उ)त्सर्ग- -र्गे बौध १,
 ६, ३२.
मूत्र-पुरीष-लोहित-रेतः-प्रभृत्यु-
 (ति-उ)पहत- -तानाम् बौध
 १, ६, ११; २८^l; ३४^l; ३७^l.
मूत्र-पुरीष-वातकर्मो(र्म-उ)च्चैर्भाषा-
 हास-धीवन-दन्तस्कवन-निःश्र-
 ङ्खण-भ्रूक्षेप-ताल-निष्ठ्य-
 -ष्टयानि हिध २, १, ९०^l.
मूत्र-पुरीष-वातकर्मो(र्म-उ)च्चैर्भाषा-
 -हास-धीवन-दन्तस्कवन-निःश्र-
 ङ्खण-भ्रूक्षेपण-तालन-निष्ठ्य-
 -ष्टयानि आपध २, ५, ९^l.
मूत्र-पुरीष-धीवना(न-आ)दि- -विधुः
 शंघ ६०.
मूत्र-पुरीष-स्नेहु-विस्सना(न-अ)
 भ्यवहार-संयोग^m -गेषु गौध
 १, ५०.
मूत्र-पुरीषा(ष-अ)मेध्य- -ध्यानि
 गौध ९, १३.
मूत्र-पुरीषा(ष-अ)सुक-शुक्ल-
 कुणप-स्पृष्ट- -ष्टानाम् बौध १,
 ५, ४२.
मूत्र-फेन- -नेन कौसु ३१, ११.
मूत्र-मेहⁿ -> ०हिन- -ही शंघः
 ३७८.
मूत्र-मौण्ड्य- -ण्ड्यम् शंघ ३२५.
मूत्र-वत् बौध १, ५, ७३; वैध २,
 ९, ९.
मूत्र-विसर्जन- -ने शंघ ३७७: ११.
मूत्र-शकृत्-छका(क-अ)भ्यवहार^o
 -रेषु वाध २०, २०.
मूत्र-शकृत्- पाग २, २, ३१^o; ४,
 ११.

a) व्यप.। b) = क्षत्रिय-जाति-विशेष-। c) वैष १ द्र.। d) अपत्यार्थस्य प्र. लोपश्छान्दसः इति षड्गुणशिष्यः। e) बहु. <मौढ्य-। f) विप.। उत्स.। g) = रोग-विशेष-। h) St. पाठः। i) षे इति ०.। j) परस्परं पाभे.। k) 'लोहि' इति Hultschi। l) परस्परं पाभे.। m) द्रस. > षस. > षस.। n) द्रस. > षस.। o) तु. पागम.।

सूत्रित- पा ५, २, ३६; -तः गौध
१६, ११; -तस्य वाध १३,
२९.
सूत्रो(त्र-उ)च्चार- -रे गौध ९, ३८.
मूर, रा^१- पावाग ८, २, १८; -ःराः या
६, ८६; ११, २.
मूर-मूल^२- > लो(ल-उ)पधा(न >)
ना^३- नायै हिय २, २, ६.
मूर्ख, खी^४- पाउ ५, २२; पाग ३, ४,
७४; ५, १, १२३; -खैः वाध ३,
९; बौध; -खाः वाध ३, ६; बौध
१, १, १२; -खान् विध ७१,
२; -खाम् आमिष्ट ३, ५, ३ : २;
बौपि १, ३ : १; हिपि ४ : ४;
-खै कप्र २, ५, ८; वाध ३, ९;
बौध १, ५, ८३.
मौख्य- पा ५, १, १२३.
मूर्ख-ता, मूर्ख-त्व- पा ५, १, १२३.
मूर्ख-संयोग- गात माशि १६, १५.
मूर्खिमन्- पा ५, १, १२३.
✓मू (<मु) चर्छ, छै (बधा.) पाधा.
भ्वा. पर. मोहसमुच्छ्राययोः,
मूर्छति वाश्रौ ३, ३, १, ४४.
मूर्छना^५- -ना नाशि १, २, ११;
१२; -नाः नाशि १, २, ४;
९; १०; १३^६; १४^७.
मूर्छमान- -नाः विध ४३, ३६.
मूर्छयिष्यत्- -ष्यन् बौश्रौ १, ३ :
३३; २०, ४ : २९; ३०.
मूर्छयित्वा कौस् १२, २; ३५, ४.
मूर्छा- पाग ३, १, १३^८; ५, २, ३६;
९७.
✓मूर्छाय पा ३, १, १३.

मूर्छा-ल- पा ५, २, ९७.
मूर्छित- पा ५, २, ३६.
मूर्त्^९- पाउना ३, ८९; पा ८, २,
५७; -त्तम् या १, १; ७, २७;
-त्तेन वृदे २, ३३.
मूर्ति- -तिः या १४, ५.
मूर्ति-मत्- -मन्त्वम् वृदे ७,
१४६.
मूर्तिमती- -त्यौ सु २, १.
मूर्ति-सामान्य^{१०}- -न्यात् मीस्
८, २, १५.
मूर्द्ध, र्धन्^{११}- पाउ १, १५९; -र्धन्
आपश्रौ ५, १२, २१××; १९, १,
१८; २०, २२, ६; बौश्रौ; -र्धनि
शांश्रौ १६, १८, १९; काश्रौ; शांश्रु
१, ६, ९; १३, १××; पाग १, ८,
५; ११, ४; माग १, १८, ६; २, १४,
२६; २७; या ९, ३११^{१२}; ३११^{१३};
ऋप्रा ८, ४५; शुप्रा १, ६७;
तैप्रा २, ३७; ऋत २, १, ६;
नाशि १, ७, १; वेज्यो ४; -र्धा
ःआश्रौ १, ६, १; ८, ६, २३;
शांश्रौ; वाधूश्रौ ३, ९४ : ४^{१४};
११^{१५}; १३; १७; २०; विध ९६,
८९; वृदे ४, १२०; या ७,
२७^{१६}; -र्धानम् आश्रौ ८, ६,
२३^{१७}; शांश्रौ; पाग १, १८,
३; ६; आमिष्ट २, १, ३ : ८;
वाग ३, ९; वैग १, २ : १३;
१८; हिग २, ३, ३; द्राग २, ३,
१३; २९^{१८}; शंघ ५७, १७; ११६;
५५^{१९}; विध ६२, ८; ६८,
३८; ऋसात्र १, ६७-६८^{२०};

-र्धः वेताश्रौ ५, १४^{२१}; जैग १, ७;
५; द्राग; -र्ध्ना आपश्रौ १,
४, १५; बौश्रौ; -र्धि बौश्रौ १५,
३७ : ३; २६, ११ : १९; वाश्रौ;
शैशि १२९; याशि ९; आशि
८, ७; -र्धोः कौस् ७८, ११.
मूर्ध-देश- -शे गोग २, २, १४.
मूर्धन्य^{२२}- -न्यः अप ४७, २, ५;
शौच १, ६३; २, ६०; पा ८, ३,
५५; -न्यम् शुप्रा ३, ४०; ७९;
ऋत ५, ६, ७; -न्याः शुप्रा १,
७८; ८, ४२; पाशि १७; याशि
२, १; ९४; आशि १, १३;
-न्यानाम् शौच १, २२; आशि
२, ६; -न्यानि कप्र ३, १०, २;
-न्यौ कौस् १२४, १; ऋप्रा १,
४३.
मूर्धन्या(न्य-आ)पत्ति- -त्तिः
शुप्रा १, ४२.
मूर्धन्-वत्- -वतः आश्रौ २, १०,
११; -वता वृदे २, १८^{२३}; -वान्
आश्रौ १०, ६, ३; वाधूश्रौ ४, ४७ :
४^{२४}; ऋग २, १०, ८८^{२५}.
मूर्धन्वती- पा ४, ४, १२७^{२६};
-ती^{२७} बौश्रौ २६, ४ : १४; निस्
१०, १ : ४; -तीः^{२८} बौश्रौ १०,
३८ : १५; हिश्रौ १२, १, ५; ४१;
८, २; -तीभ्याम्^{२९} आपश्रौ १६,
२२, ७; वैश्रौ १८, १७ : १३;
हिश्रौ ११, ७, २५; २६^{३०}; -त्याः^{३१}
शुग १, ८१.
मूर्ध-भिन्न, न्ना- -न्नाः सु २५, ६;
-न्नैव बौश्रौ १७, ४५ : १.

a) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र. । b) =उदुम्बरमूल- इति भाष्यम्? Old. च । c) विप.
[सोष्यन्ती-] खी-)। बस. । पृ ७५३ ऊरुमूलो इति नेष्टम् । d) वैप १ द्र. । e) =संगीत-प्रकार- । f) तु-
पामम. । g) पृप. =घनत्व- । h) शांश्रु. पागृ. प्रष्ट. पाठः । i) सु इति पाठः ? यनि. श्रोघः (तु. उत्तरं
रुधत्म्) । j) मूर्धनि इति ज्ञान. । k) =मृग-विशेष- । l) ण्वम् इति पाठः ? यनि. श्रोघः । m) विप-
नाप. ([पूर्वस्थानीय-] वर्ष-) । n) व्यप. । o) =इष्टका- । मूर्धन्वत्-वत्- > यनि. । p) =ऋत्- ।

मूर्ध-ललाट-नासाग्र-ग्रमाण^h - गाः
 बौध १, २, १६; गौध १, २, ८.
 मूर्धा(र्ध-अ)क्षि-कर्ण-वक्त्र- -क्ताणि
 कप्र १, ७, ८.
 मूर्धा(र्ध-अ)वसिक्त^o -> °क्त-क्षत्रि-
 य-धीवर-पुल्कस- -सान् गौध
 ४, १९.
 मूर्ध्नि-नात् - तम् याशि १, २९.
 ?मूर्धपधानाय^c आमिष्ट २, १, १ :
 १४.
 ✓मूल पाधा. भ्वा. पर. प्रतिष्ठायाम् ;
 चुरा. पर. रोहणे.
 १मूल^d - पाठ ४, १०८; पाग २, ४,
 ३१; ४, २, ८०³⁰; ५, १, ५०;
 १२३^१; ४, ३; पावाग ८, २, १८;
 -लम् आश्रौ १२, १२, ६; काश्रौ;
 आपश्रौ ७, १०, ११^६; या ५, ४;
 ६, ३^६; -लात् काश्रौ ४, २, १२;
 आपश्रौ; -लान् कौसू ६९, १९;
 -लानाम् बौश्रौ २८, १३ : १७;
 -लानि काश्रौ २, ६, ३; आपश्रौ;
 -ले शाश्रौ ४, ४, २१; १७, १, ८;
 ३, ६; आपश्रौ; -लेन भाश्रौ ५,
 १, २; वैश्रौ; -लेषु काश्रौ २, ७,
 १७; -लैः काश्रौ २, ६, ३९;
 आपश्रौ.
 मौल^h - लाः शंघ २५१.
 मौलक- पा ४, २, ८०.
 मौलिक- पा ५, १, ५०; -कम्
 विघ ९१, १९^१.
 मौल्य^l - ल्येन काश्रौ २२,
 ८, १६.

मूल-क- पा ५, ४, ३; पाग २, ४,
 ३१; -कम् वैध ३, ५, ८^k.
 मूल-कन्द-फल- -लानि वैश्रौ ११,
 ११ : ८.
 मूल-कर्मन्^l - > °र्मा(र्म-आ)दिक-
 -कम् अप ७, १, १२.
 मूल-कारण- -गम् भाशि १.
 मूल-कुण्ड- -ण्डम् कौष्ट २, ४, २४.
 मूल-कृच्छ्र^m - -च्छ्रः विघ ४६, १५^६.
 मूल-क्रिया^l - -यासु विघ २५, ७.
 मूल-क्षीर^m - -रात् अप ३६, ११, १.
 मूल-गामिन् - -मी वैष्ट १, १४ :
 १४.
 मूल-तस (:) आपश्रौ १, ६, ७; ७,
 ३, १; भाश्रौ.
 मूलतः-पुष्कर^o - -राणि बौश्रौ
 २०, १६ : ९.
 मूल-दण्ड, ण्डा^o - -ण्डः अप २३,
 २, ४; -ण्डा अप २३, ३, १;
 -ण्डाः काश्रौ १, ३, ३८; भाश्रौ
 १, १६, ६.
 मूलदण्डा(एड-अ)रत्नी- -त्नीम्
 भाष्ट १, १ : ३^p.
 मूल-देश- -शे माश्रौ १, १, २, १६;
 २०; २, ५, २७; २, २, १, २६;
 कप्र १, ३, ११.
 ?मूलपलाशकानि^p भाश्रौ ६, १८,
 १५.
 मूल-पाक- पाग ७, ३, ५३.
 मूल-पूर्ण- -र्णम् अप २०, ३, ४.
 मूल-फल- -लम् कौष्ट ३, ९, ५०;
 शाष्ट ४, ७, ५५; वाघ ९, ४;

-लेन अप ५३, ३, ३; -लानि
 आपध १, १८, १; २, १६, २३;
 हिघ १, ५, ७१; २, ५, २३;
 -लेभ्यः आश्रौ १२, ८, ४०;
 आपध २, १९, १०; हिघ २,
 ५, ८२; -लैः बौष्ट २, ११, ५५;
 बौष्टि ३, ६, ९; आपध १, २१,
 १; विघ ८०, १; हिघ १, ६,
 ३०.
 मूलफल-भक्ष- -क्षः काश्रौ २२,
 १, २५; -क्षौ आपश्रौ १७, २६,
 १५.
 मूलफला(ल-आ)दि-व्यञ्जन-
 -नानि आमिष्ट २, ६, ७ : ३०.
 मूलफला(ल-अ)शन^l - -नः वाघ
 २७, ५.
 मूलफला(ल-आ)शिन् - -शी
 बौध २, ६, १७; वैध १, ७, ३;
 गौध ३, २६.
 मूल-फल-पान- -नेभ्यः शंघ २१८.
 मूल-फल-पुष्पौ(ध्य-श्रौ)षध-मधु-
 मांस-तृणे(ण-इ)न्धन- -नानाम्
 गौध १०, २६.
 मूल-फल-पुष्पो(प-श्रौ)षध-मधु-
 मांस-तृणे(ण-उ) दका(क-अ)
 पथ्य- -थ्यानि गौध ७, १२.
 मूल-फल-भैक्ष^h - -क्षेण वाघ ९, ७,
 ६, ५.
 मूल-बर्ह(रा>)णी- -णी अथ १२,
 ५(४)†.
 मूल-भक्ष- -क्षः हिश्रौ १७, १, १३.

a) दस. > वस. । b) = क्षत्रियाद् ब्राह्मण्यां जात- । c) पाठः ? सपा. हिष्ट २, २, ६ मूरु-
 मूलोपधानायै इति पाभे. । d) वैप १ द्र. । e) सकृत् १मूल- इति [पक्षे] पागम. । f) तु. पागम. । g) पाभे.
 पृ ७१७० k द्र. । h) = स्थानीय-मूलनिवासिन्- । ततश्चागतेऽर्थे षण् प्र. । i) तत्रभववीथय् ठक् प्र. । j) भवार्थे
 व्योः प्र. डसे. (पावा ४, ३, ५८) । k) = शाक-विशेष- । l) = वशीकरण-क्रिया- (तु. मनुः [१९, २९०]) ।
 m) = व्रत-विशेष- । n) अर्थः ? । o) वस. । p) °ण्डामर° इति मूको. । q) मूलफलशाकानि इति संस्कृत-
 टि. । r) उप. कर्तारि कृत् । s) समाहारे दस. ।

मूलभक्षन्ता-न्ता बौध ३, १०, १२.
 मूल-भङ्ग-ङ्गे अप १२, १, १२.
 मूल-भार- (>मौलभारिक- पा.) पाग ५, १, ५०.
 मूल-मध्या(ध्य-अ)ग्र- -ग्राणि वैश्रौ १०, ८ : ३; वैश्र १, १४ : ३.
 मूलमध्याग्र-देश- -शेषु कप्र १, ४, २.
 मूल-वत्- -वसु अप ६५, १, ६.
 मूल-विभुज- पावा, पावाग ३, २, ५.
 मूल-शाखा-समन्वित- -तम् अप १२; १२ : १७; २५x.
 ३६, २१, १.
 मूल-षट्-भाग^a- -नो अप २२, ४, ४.
 मूल-स- पा ४, २, ८०.
 मूल-स्तम्भ- -स्तम्भाः अप २१, ५, २.
 मूल-होम- -मः वैश्र १, १८ : १५; ३, १८ : ६; -मम् वैश्र २, ६ : ३, १८ : ६; -मम् वैश्र २, ६ : ३, १८ : ६.
 मूलहोमा(म-अ)ङ्गहोम- -मौ वैश्र ३, ९ : १४.
 १मूलहोमा(म-अ)न्त- -न्ते वैश्र ३, ४ : २; २३ : २.
 २मूलहोमा(म-अ)न्त^b- -न्तम् वैश्र २, १३ : ६.
 मूला(ल-अ)ग्र- -ग्राभ्याम् वैश्र १, १४ : २; -ग्रे वैश्रौ ११, ११ : ४.
 मूलाग्र-व(त् >)ती- -तीम् काश्रौ १७, ४, १८.
 मूला(ल-आ)धार-> -धारा(र-अ)ना- हत-भ्रूमध्य- -ध्ये आश्रित्य २, ४, १२ : १०.
 मूला(ल-आ)सिन्- -शी विध २५,

११.
 मूले-नाह^b- -हम् वैश्रौ ११, ७ : ३.
 मूलो(ल-उ)च्छेदन- -नात् काश्रौ २, ६, २.
 मूल्य- पा ४, २, ८०; ८८; ४, ९१; -ल्यम् विध ५, ५१; १५३; १५७; ९, ४; -ल्यत् शंघ ३२४; विध ५, ८३; -ल्येन विध २९, २.
 मूल्य-सम- -मम् विध ५, ८८.
 २मूल^c- -ल अशां ४, २; -लम् अप १, १, २; २-३, १; ५, १; ७, ९; ४०, २; ३१, ८, ६; ५७, ३, १; अशां ४, २; १०, २; वेज्यो ३६; -लस्य अप १, ४, ५; अशां ६, ५; -लाथ शांश्रु १, २६, १७; वैश्र ३, २०, ८; अशां १२, ३; -ले अप १, १०, ५^d; ३३, ९; -लेन अप १, २९, १; ४४, ७; ४९, ६; अशां १३, ३.
 मूलाट^e- (> ष्टी- पा.) पाग ४, १, ४१.
 मूलिक- (> मौलिक्य- पा.) पाग ५, १, १२८.
 १मूलिपुरोडाश- -शोन निस्र ५, २५.
 मूलैर- पाठ १, ६१.
 १मूष^f- मूषः अप ४८, ११५; निघ ४, १; या ४, ६६.
 मूष- पाग ४, १, ४५^g.
 मूषा- पाठभो २, ३, १५१; पा ४, १, ४५^h.
 मूषी- पा ४, १, ४५ⁱ; -ष्याम् वाग ४, २१^j.
 मूषक^k- > क-मार्जार-नकुल-मण्डू-

क-हुण्डुभा(म-अ)जगर- -राणाम् विध ५०, ३१.
 मूषक-स्थल- -ले वाध ६, १७.
 १मूषकलाङ्ग^l- -ङ्गम् हिध १, ५, २६.
 मूषिक, का- पाठ २, ४२; पा, पाग ४, १, ४; पाग २, ४, ३१; -कम् अप ७०^l, ६, २; -काः अप १, ६, १; या ४, ६; -कैः शंघ ४३१^l.
 १मूषिकलाङ्ग^m- -ङ्गम् आपध १, १६, २७.
 मूषिकाⁿ- (> मौषिकि- पा.) पाग ४, १, ९६.
 मूषी-वत्- √सुप् द.
 √मृ^o पाधा. तुदा. आत्म. प्रायत्यागे, मरते^o या ११, ३८^oक^o.
 मृणाति अप ४८, १९^o.
 मुरीय या ७, ३^o.
 म्रियते काश्रौ २२, ६, ५; बौश्रौ; म्रियन्ते वैश्र ६७ : ९; मात् २, १४, १७; अप ५५, २, २x; ऋत्रियसे आपश्रौ ७, १६, ७; ९, १८, ८; ११; बौश्रौ; म्रियते काश्रौ २५, ९, ४; १३, २७; १४, १; आपश्रौ; बौपि ३, ९, १०.
 ऋममार बौश्रौ १४, ७ : ४; १८, ४८ : १६६; कौसु ८१, ३७; या १४, १८; मसुः आपश्रौ १, ८, ७^o; मरिष्यति आपश्रौ ९, २०, ७^o; वाधुश्रौ ४, ४ : ४; १५ : ५; ८० : ६x; अप; मरिष्यसि आपमं २, १६, १४^o; गोश्रु ४, ९, १५^o; बौध १, १०, ३२; अत्र ११, ३(२)^o;

a) षव. > कस. । b) बस. । c) = नक्षत्र-विशेष- । d) छेन इति संस्कृतः शोषः? (तु. प्रकरम्) । e) < १मूल- + √अट् इति पागम. । f) वैप १ द. । g) तु. पागम. । h) धा. अर्थः? । i) = सुवर्णाद्यावर्तन-स्थान- वा आच्छु- वेति पागम. । j) = गर्त- । k) परस्परं पाभे. । l) = मूषक-पुरीष-, मूषकाङ्ग- इति भाष्यम् । l) कू^o इति पाठः? यनि. शोघः (तु. शंघ [असृ. ४१८]) । m) व्यप. । n) पा १, ३, ६१ परासृष्टः द. । o) सुवर्णाम् इति B. ।

मृत^१ आपमं २, ३, ३१^३; आगृ
१, २०, ७, कौगृ २, ८, ९; कागृ
४१, १७^२.
मारयति अप्रं ३: ५८^१; या ११,
६; मारयेत् अप्र ६८, २, ५४.
मारयिष्यति वाधूश्रौ ३, ४६: ५.
मार्यति अप्र ७०^३, १५, ४.
मुसूर्ध्वत काश्रौ २२, ६, १९;
लाश्रौ ८, ८, ४०.
मर्- > मर्-मृत्यु-पाग ६, २, १४०.
२मर्^२ > मर्-क-कः अप्र ५७,
१, ८; =के अप्र ६९, ४, १.
३मर्^३-
मरण-णम् काश्रौ २५, ७, ५;
आमिगृ; -णस्य काश्रौ २५, १३,
३६; मीसृ ११, ३, ३५, ४३; -णात्
वैश्रौ २०, २३: १; वाध;
-णानि अप्र ६२, १, ४, ३, ५;
-णाय अप्र ७०^३, ४, ४; -णे
आमिगृ ३, ९, ३: २३; बौपि २,
७, १९; ८, ७; वैगृ; -णेषु सुघ
१०.
मरण-काम- मः आपश्रौ २२,
७, २१; हिश्रौ १७, ३, २०;
-मस्य शाश्रौ १५, १०, १; काश्रौ
२२, ६, १.
मरण-काल- ले गौपि १, १, ८.
मरण-धर्मन्^४ -र्मा या ३, १५.
मरण-प्रमृति- -ति वैगृ ७, ७: २.
मरण-संशय- -ये आमिगृ ३, ४,
१: १; बौपि ३, १, १८; हिपि
१: २.
मरणा(ण-अ)न्त^५ -न्तम् शाश्रौ
४, १४, २; काश्रौ २५, ७, ९;
कौगृ ५, १, २; कप्र ३, ३, ८.

मरणा(ण-अ)शङ्क^६ -ङ्कम् निस्
४, २: ३२.
मरणा(ण-अ)शौच-मध्य- -ध्ये
विध २२, ३८.
मरत- पाउ ३, ११०.
मरिष्यत्- -ष्यन्तम् वाधूश्रौ ३, १४:
३; ७, १०.
मारण- -णम् विध ५१, ६०; -णे
आपध २, २८, ६६.
मारणा(ण-अ)दि- -दौ अप्र
२५, १, ११.
मा(रि>)री^७ -रीम् अप्र ५०,
५, १.
मारुक- -का: मागृ २, ११, २.
मुसूर्ध्वत- -र्धत: या ९, २६.
मुसूर्ध्व- -र्धु: वैगृ ५, १: ४; -र्धो:
वैगृ ५, १: ८.
मृत, ता- -त: आपश्रौ १४, २९,
१^३क; बौश्रौ; -तम् शाश्रौ ३,
५, ७; काश्रौ; -तस्य शाश्रौ १३,
२, ८; आपश्रौ; -ता कागृ ४२:
१८; -ता: आमिगृ ३, ५, ८:
५क; मीपि १, ७: ७; २, १२,
२; वैगृ ५, १५: ६; -तान् शाश्रौ
१३, ५, १२; जैश्रौका ८७;
-तानाम् बौपि २, ८, ३-५; ३,
७, १; वैगृ ५, ८: १३; -ताम्
आपश्रौ १०, १८, ९; १९, ४;
वैश्रौ १२, १४: ४क; वैगृ ५, ९:
१०; ७, ३: ११; -तायाम्
काश्रौसं ३२: १५; कागृ ३९:
२; कप्र ३, १, ८; ९; -तासु विध
२२, ४३; -ते शाश्रौ १३, २, १;
६; ७; ३, १; २९, १९; काश्रौ;
-तन् कागृ ४२: २०; -तेषु

विध २२, ४३; -तै: आगृ ४,
४, ९; आमिगृ ३, ७, १: १९;
बौपि १, १७: १७.
मृत-क^८ -क: आमिगृ २, ७,
८: २५; वैगृ ७, १: ४; -कम्
वैगृ ५, २: १; १७; ३: १७;
२३; ७, २: ८; ३: २; -कस्य
वैगृ ५, ३: १.
मृतक-निमित्त-त्व- -त्वात्
वैगृ ५, १३: ५.
मृतका(क-अ)र्थ- -र्थम् वैध
३, ९, १.
मृत-चैल-धारण^९ -णम् विध
१६, १४.
मृत-जात- -ते विध २२, २६.
मृत-दार^{१०} -र: वैगृ ५, ९: ६;
-रम् वैगृ ७, २: ७.
मृत-पञ्चनख^{११} -खात् विध २३,
४४; ५४, २.
मृत-पतिका^{१२} -काया: आमिगृ
३, ७, ४: १९.
मृत-पत्नीक^{१३} -क: आमिगृ ३, ७,
४: १७; बौपि २, ४, २; -कस्य
बौपि २, ४, १३.
मृतपत्नीकसमा(म-अ)
मि- -मिभि: आमिगृ ३, ७, ४:
२७.
मृत-प्र(ज>)जा^{१४} -जाम् बौध
२, २, ५९.
मृत-प्रतिकृति- -तिम् गौपि १,
६, ५.
मृत-बलि- -लिम् आमिगृ ३,
११, १: १.
मृत-बान्धव- -वानाम् विध
१९, २४.

a) सपा. शांगृ २, १८, ३ मृध: इति पाठे. | b) =मरण- वा व्याधि- वा | c) पृ १९०७ I १. |
तत्र यन्नि. संख्या-निर्देश: द: १ (d) वस: | e) सपा. हिघ २, २, ६ हरणे इति पाठे. | f) =व्याधि-विधेय- |
g) स्वार्थे प्र. | h) षच्चे इति जीस: |

मृत-भर्तृका^१ - कायाम् वैध ३,
११, ४.

मृत-भाव-वेन वाध २, ४९.

मृत-मत्स्य-स्त्यान् अप ७१,
१३, ५.

मृत-व(त्स>)त्सा^२ -त्सा अप
६९, ५, १; -त्सायै बौश्रौ २४,
३१ : ६.

मृत-शब्द-ब्दः आश्रौ ३, १३,
११.

मृत-शिष्ट-ष्टेभ्यः वृदे ७, ११.

मृत-संस्कार-रः बौपि ३, १,
४; वैगृ ७, १ : १; ३; -रेण
बौपि ३, १, ४.

मृतसंस्कार-प्रायश्चित्त-

-त्तम् वैगृ ७, १ : १.

मृत-सूतक-कयोः सुध २५.

मृतसूतका(क-अ)न्न-भोजन-

-ने काध २७७ : २.

मृता(त-अ)दर्शन-नयोः काश्रौ
२०, ३, २१.

मृता(त-अ)दि-दीनाम् अप
७०^३, ७, ४.

मृता(त-अ)ह-हे विध २१,
११; २२, ५७.

मृता(त-अ)हन्-हनि शंघ
१९०.

मृता(त-अ)हिताग्न्या(मि-आ)
वृत्-वृत् काश्रौ २२, ६, १४.

मृति-तिः आग्नि ३, १०, २ : ११.

मृत्यु^४ - पाठ ३, २१; -त्यवः अत्र
८, २१; -त्यवे शांश्रौ ४, ५, १^२१;

आपश्रौ १९, १३, १५××; बौश्रौ;
हिश्रौ २३, ३, ३२; कागृ ५४,

६; हिगृ २, १९, ६; कौगृ ७४,
५; अप ५३, ५, १; विध ६७,

१०; -त्युः ऋशांश्रौ ४, १६,
५××; आपश्रौ; आग्नि १, ५,

३ : ५^१; अमू ३^१; निघ ५,
५^१; या ७, ३^१; ११, ६^१; उनिस्

८, ३९; आज्यो ५, १७; -त्युना
बौश्रौ ९, १८ : ९^१; वाधूश्रौ

३, ४६ : १७; ४, १०८ : २८;
हिश्रौ १०, ३, ९; १७, ७, २९;

हिगृ; -त्युस शांश्रौ ६, ३, २;
आपश्रौ; आपमं २, ३, १^०;

आग्नि १, १, ३ : १^०; हिगृ
१, ५, १^०; -त्युन् आपश्रौ

१६, १६, १^२; वैश्रौ १८,
१४ : ५^२; हिगृ १, १९, ७^०;

कौसू ९७, ८; -त्यो काश्रौ
२१, ४, ७; आपश्रौ; -त्योः

आश्रौ ३, ६, २७^१; शांश्रौ;
बौश्रौ १३, २३ : १; वाधूश्रौ ३,

३२ : २^१; ४, ९५ : ८; १०;
वैश्रौ १०, १ : ३; सु १६, ५;

आग्नि ३, ८, २ : ५४^१; बौपि
१, १७ : २०; २, ९, ८; अप

१९, १, १०; ५२, ३, ३××; ऋअ
२, १०, ५९; वृदे ७, १०; चाअ^६

३० : २७; ३८ : ७; ११; ३९;
१५; -त्यौ हिश्रौ १४, ४, ३८;

बौध.
मार्त्यव^५ - वम् अत्र ६,

१३^१; -वाय कौसू ५६, १३^१;
मार्त्यव^५ - त्व्यैः अप्रा ३, २,
१२^६.

मार्त्यव^५ - त्वीं अत्र १०,

६; -त्व्यैः अत्र १२, २.

मृत्यु-काल-ले वाध ६, ३.

मृत्यु-ग्रह^७ - हः आपश्रौ १९,
१३, १७; बौश्रौ; -हम् बौश्रौ
१९, ५ : ११.

मृत्यु-जाति-प्राय-ये मागृ ३,
१४ : २२.

मृत्युं-जय^८ - यम् बौध २, ५,
२५.

मार्त्युं-जय^८ - याय कौसू
५६, १३.

मृत्यु-तस(ः) अप ६३, ३, ५.

मृत्यु-दायक-काः अप ७१, ७,
४.

मृत्यु-देवता-> ष्य, त्या-
त्यम् बौश्रौ २४, ३६ : ४;

-त्याम् शुभ ४, ४७; ५२.
मृत्यु-देव(त>)ता^९ - ताः
ऋअ २, १०, १८.

मृत्यु-नाशन^{१०} - नम् शुभ १,
६०७.

मृत्युं-धय^{११} - यम् वागृ १५,
११.

मृत्यु-पाश-शात् आपमं १,
४, ७; आगृ.

मृत्यु-पीत-तस्व बौश्रौ १९,
५ : २२^१.

मृत्यु-भय-ये अप ३१, ८, १.

- a) वस. । b) = मरण-, तदधिष्ठातृ-देवता-। वैप १ द्र. । c) परस्परं पाभे. । d) मृत्यु इति पाठः? यनि. शोधः (तु. प्रकरणात्) । e) सपा. मंत्रा १, ६, १४ मर्त्यम् इति पाभे. । f) पाठः? मृत्यो इति शोधः (तु. तैत्रा ६, ७, २) । g) = ऋषि-विशेष- । h) साऽस्य देवतौयस्तस्येदमीयश्च अण् प्र. । i) मर्त्यम् इति पाठः? यनि. शोधः (तु. W.) । j) = मार्त्यव-। यत्नेवः यखादेश्च उलं. (पा ६, ४, १०५) । k) सपा. श्रौ ८, १३, ७ मार्त्यवः इति पाभे. । l) = ग्रह-विशेष-। m) = ख-। n) स्वायं अण् प्र. । o) उप. कर्तारि कृत् । p) उस. उप. खण् प्र. उलं. (पावा ३, २, ३०) ।

मृत्युभय-प्रद- -दा: अप ६२, १,३.
 मृत्यु-भीरु- -रव: उनिस् ८: ३३.
 मृत्यु-मत्- -मान् वाधूश्रौ ४, ८४: १.
 मृत्युमती^a- -ती: बौश्रौ १९, १०: २१.
 मृत्यु-लाङ्गल^b- -लम् बौध ४, ३, ७.
 मृत्यु-लोक- -कम् अश्रभू ८.
 मृत्यु-वत्- -वन्तम् वाधूश्रौ ३, ४: १, ४.
 मृत्यु-विमोच(न>)नी- -नी ऋअ २, ७, ५९.
 मृत्यु-शस्त्र (ल-अ)मि-तस्कर- -रै: अप ५२, १५, १.
 मृत्यु-संयुत- -त: तैप्रा ६, ७[†].
 मृत्यु-सव^c- -व: बौश्रौ २४, ११: २; -वेन बौश्रौ १८, १६: १.
 मृत्युसवा(व-अ)न्त- -न्ते बौश्रौ २३, १८: २२.
 मृत्यु-सूक्त- -क्तेन आमिष्ट ३, ७, ३: २४; बौपि २, २, २; हिपि १९: ११.
 मृत्युत्व(ल्यु-अ)न्तक- -कौ शाश्रौ १४, २२, ४.
 म्रियमाण- -गस्य हिपि २१: ३[†]; -णान् विध २०, ३८; -णे आपश्रौ १६, १२, २; बौपि २, ६, १२.
 मृ^d वेजो १८.
 मृकण्ड, ण्डु [पाउभो]^e- पाग ४, १, १२३; पाउभो २, १, ५३.

मार्कण्डेय- पा ४, १, १२३; -या: बौश्रौ प्र ३: १.
 मृक्त- √मृच् द.
 √मृक्ष^f(वधा.)[†] पाधा, भ्वा. पर. संघाते; ^gचुरा. पर. प्रक्षणे म्लेच्छने संघाते च>मृक्ष^h- -क्ष: शाश्रौ १८, ८, १५[†].
 मृक्षित- -तेषु काश्रौसं २८: २.
 √मृग^h पाधा. दिवा.^g, चुरा. आत्म. अन्वेषणे.
 मृग(वप्रा.)- ग: आश्रौ २, १०, १४[†]; शाश्रौ; आश्रौ १३, ७, १६[†]; वैश्रौ १६, ८: १[†]; हिश्रौ १०, ५, १[†]; अप ७०^३, ६, ७; ७, २; वाध ३, ११; शंघ ३७७: १४; बौध १, १, ११; ऋ^३या १, २०; ९, १९; १३, ३; पा ४, ३, ५१; -गम् माश्रौ ५, २, १०, २४; वाधूश्रौ; ऋया ५, ३; ६, २४; -गस्य आपमं ११३, ६[†]; आश्रु; -गा: आपश्रौ १७, १८, १; अप; -गाणाम् अप १, ६, ६; ७०^२, २३, १०; विध ४८, ६[†]; या १४, १३[†]; -गान् आपश्रौ २३, ११, १३; हिश्रौ १८, ४, १६; द्राश्रौ ५, ३, १६; लाश्रौ २, ७, १५; कौसू १२७, ५[†]; -ऋणेषु आपश्रौ १६, ३५, १; वैश्रौ १९, १: ५; हिश्रौ ११, ८, २१; कौसू ११५, २; या १३, ९[†]; -गै: आमिष्ट २, ७, १०: १५; बौध ३, २, १६; ३, २३.
 मृगी- पावाग ६, ३, ४१.
 मृगी-श्रीर- -रेण आपश्रौ

१७, ११ ३; वैश्रौ १९, ६: ३५;
 हिश्रौ १२, ३, ४.
 रमार्ग^k- -गम् लाश्रौ ८, २, ९;
 काग ५, ९; शंघ २२२; आपध १, १८, १; हिध १, ५, ७१;
 -गान् आपश्रौ ४, ३, ८; माश्रौ ४, ४, ६; हिश्रौ ६, १, ३७.
 मार्ग-वासस्^l- -सा: वाग ६, ३; काग १, २; माग १, १, २.
 मार्ग-वैयाघ्र-वास्त- -स्तानि विध २७, २०^m.
 मार्गिक- पा ४, ४, ३५.
 मृग-श्रीर- पावा ६, ३, ४१.
 मृग-ग्रहण- -णे वाध २८, ८; बौध १, ५, ४९; विध २३, ४९.
 मृग-चप(ल>)ला- पावाग ६, ३, ४१ⁿ.
 मृग-चार-> ^oरिक्- -का: वैध १, ८, १.
 मृग-जीविन्-> ^oवि-श्ववृत्ति- -त्तिनाम शंघ ४३४.
 मृग-तीर्थ^p- -र्थम् आश्रौ ५, ११, ३;
 द्राश्रौ ५, २, २२; लाश्रौ २, ६, १५.
 मृग-द्विज- -जै: अप ६३, २, ३.
 मृग-पक्षिन्- -क्षिग: आ ६२, १, ४x; -क्षिगाम् आमिष्ट २, ७, ७: ४; अप; -क्षिमि: बौध ३, ३, २१; -क्षिवु अप ५०, ९, ६.
 मृग-पद- पावाग ६, ३, १.
 मृग-मय- -य: या ९, १९.
 मृग-महिष-गण्डक-वराह-शरभ- (म-ऋ)क्ष-सिंह-व्याघ्र-मण्डूक-

a) = ऋग्-विशेष-। b) = मन्त्र-विशेष-। c) = याग-विशेष-। d) = मृगशिरो-नक्षत्र-।
 e) = ऋषि-विशेष-। f) = √मृक्ष। g) तु. BPG.। h) या ९, १९ परामृष्ट: द्र.। i) वैप १ द्र.।
 j) पाणे. वैप १ वृष्ण शौ ३, ७, २ टि द्र.। k) विकारार्थे प्र.। l) बस.। m) 'प्रवा' इति जीते.। n) तु.
 o) यमम्.। c) = [सकनान्ते] बहि:सर्पसामार्ग-।

सुकर-मत्स्य-ग्राह-शिंशुमार-
 डुण्डुभा(म-आ)दि- नदीनाम्
 काध २७१: ९.
 मृग-मांन- सै: अप १, २७, २.
 ✓मृगय> मृगयु- पाउ १, ३७;
 -यु: अप्रा ३, १, १४^१; -युम्
 शुप्रा ५, २१^१; -यो: वाध १४,
 १४; १९; आपध १ १९, १४;
 हिध १, ५, ११६.
 मृग-यो न- नय: विध ४४, ७.
 मृग-रमण- जे पावा ६, ४, २४.
 मृग-लोमन-> षमक- कानाम्
 विध २३, २४.
 मृग-वत्- वान् अप ७१, १५, ७.
 मृग-वाचि-त्व- -त्वात् पावा ७, १,
 ९६.
 मृग-व्याध^१- -ध: अप ४३, ५, ९^१; ६;
 ५२, ९, ५^१; विध ४५, २३^१;
 -घाय वैगृ ५, २: २९^१.
 मृग-शकुनि-गण- -ग: अप ७०^३,
 ११, २६.
 मृग-शिर^१- -रम् अप १, ४, १.
 मृग-शिरस्^१- -शिर: कागृ १४,
 १०; वैगृ: -रसि आश्रौ २, १,
 १०; माश्रौ: -रसे शांगृ १,
 २६, ३; पागृ ३, २, ३; अशां
 १२, १.
 मृगशिर: -श्रविशो(घा-उ)त्तर-
 -राणि वागृ १०, ४.
 मृग-शीर्ष^१- -र्षम् हिश्रौ ३, ४;
 बौगृ १, १, २०; -र्षाय वैगृ ३,
 २०: ४; -र्षे आपश्रौ ५, ३, ६;
 भाश्रौ ५, १, १०; -र्षेण वाधूश्रौ

२, १८: ३.
 १मार्गशीर्ष-> षी^१- -र्ष्या:
 आपगृ १९, २; हिगृ २, १६, १०;
 -र्ष्याम् हिश्रौ ५, ३, १; ४४;
 वैश्रौ: -र्ष्ये बौश्रौ १८, ११: २;
 पागृ ३, २, ३.
 २मार्गशीर्ष^१- -र्षे अप
 ५५, ३, १; विध ३, ४०.
 मार्गशीर्ष-ज्येष्ठ-
 मास- -सयो: वैध १, ५, ५.
 मार्गशीर्ष-पौर्णमासी-
 -स्याम् आम्रिगृ २, ५, ८: १.
 मार्गशीर्ष-पौष-मा-
 घा(घ-अ)परपक्ष- -क्षेयु कौस्
 १४१, २४.
 मार्गशीर्ष शुक्ल-
 पञ्च-दशी- -श्याम् विध
 ९०, १.
 मार्गशीर्ष-शुक्ले-
 (क-ए)कादशी- -श्याम् विध
 ४२, १.
 मृग-शृङ्ग- -ङ्गम् वैताश्रौ ११, २५.
 मृग-संयोग- -गे शुप्रा २, २५.
 मृग-हन्तृ- -न्तु: विध ५१, ६२^१.
 मृगा(ग-आ)खर^१- -रात् कौस् ३४,
 १४; -रे आपश्रौ २०, ७, १२;
 बौश्रौ १५, ८: ११; २४, १०:
 १५; अप्राय ६, ७.
 मृगाखर-कुलाय-मृत्तिका->
 कानोचना-गुग्गुल- -ला: मागृ
 २, १४, २३^१.
 मृगा(ग-अ)र्ध- -र्धस्य अप ४६,
 १, ९; -र्धेषु अप ४६, १, १०.

मृ(ग>)गा-व(त>)ती^१- पाव
 ६, ३, ११९.
 ✓मृगि, मृगयन्ते या ५, ३^१.
 मृगयत्- -यद्गय: कौस् १२७,
 ५^१.
 मृगया- -याम् आपश्रौ २३,
 ११, १२; बौश्रौ: -यायाम् शंघ
 १७७.
 मृगया(या-अ)क्ष स्त्री-याना-
 (न-अ)भिरति- -तिम् विध ३,
 ५०^१.
 मृगार^१- -र: आम्रिगृ २, ४, ५: ८^१;
 बौध ४, ७, ५; अअ ४, २३^१; -रै:
 कौस् २७, ३४.
 मृगार-संज्ञक- -कानि अत्र ४, २३.
 मृगार-सुक- -क्तानि कौस् ९, १;
 अप ३२, १, १८; २६.
 मृगारे(र-इ)ष्टि^१- -ष्टि: बौश्रौ २८,
 १: ३३; वैश्रौ २०, ३४: ४;
 बौध ४, ६, २; -ष्टिम् आपश्रौ
 २०, २३, २; वाश्रौ: -ष्टे: माश्रौ
 ५, २, ११, ४८; हिश्रौ १४, ५,
 १४; -ष्ट्या वैश्रौ २०, ३३: ४.
 मृगारेष्टि-पशुपुरोडाश- -शानाम्
 वाश्रौ ३, ४, ५, २७.
 ✓मृच्, मचयति शैशि ९२.
 मचयत्^१- -क्यता आपमं २, १, ७;
 आगृ १, १७, १६; भागृ २, १९:
 ६; हिगृ १, ९, १६.
 मृक-> क-वाहृ^१- -हा: ऋअ
 २, ५, १८; साअ १, ८५.
 मृचय^१- -यस्य आश्रौ ६, ५, १८^१.
 मृचय- मृचय- ✓मृद् द.

a) वैप १ द. । b) बप्रा. । उस. । c) = शिव- । d) = ऋषि-विशेष- । e) = लुक्-क- ।
 f) = नक्षत्र-विशेष- । g) = पौर्णमासी- । h) = मास-विशेष- । i) षाह इति जीसं. । j) षा गु
 इति बडोदासं. । k) तु. पागम. । = नदी-विशेष- । l) ष्वेत्वमि इति जीसं. । m) = मृगारेष्टिमन्त्रगण-
 (अन्तेमन्त्रे [तै ४, ७, १५, १] प्रसृ) । n) पृ ८ द. । o) = याग-विशेष- । p) पाशे. वैप १, २५१ द.
 ० द. । q) वैप २, ३३६. द. । r) पाशे. वैप २, ३३६. मृचयस्व ऐत्रा ४, १० टि. द. ।

√मृज्^a पाधा. अदा. पर. छुद्धौ;
 चुरा. उभ. शौचालंकरणयोः,
 माष्टिं वैश्रौ १२, ७ : ११;
 आश्रिणु; निघ २, १४^b; मृजते
 बौश्रौ २६, ५ : १७; ऋमृजन्ति
 आश्रौ ५, १२, १५; शांश्रौ ७,
 १५, ७^c; ऋप्रा ४, ८३; ऋमृज्महे
 आपश्रौ ९, ३, २२; हिश्रौ १५,
 १, ७१^d; ऋमृज्द्वम् कौसू
 ७१, १६; ८६, १९; अमृजत
 बौश्रौ २४, २७ : २; मृज्यात्
 जैश्रौका १००.
 मिमाष्टि पाठ ३, ६, २.
 ऋमृमृजुः आपश्रौ १, ४, १५;
 भाश्रौ; ऋमृजन्त ऋश्र २, ९,
 २६.
 ऋमृज्यते बौश्रौ २८, २ : ४५,
 मृजयन्ति वैताश्रौ १०, १९;
 ऋमृज्यन्त आश्रौ २, १६, ७;
 शाश्रौ ३, १३, १७; या १२,
 ४३^f.
 मृजयते आपश्रौ ६, १४, ६;
 ११, २, ३; १४, ९, ३; काश्रौ;
 मृजयति बौश्रौ २, ८-९ : १८;
 १० : ३०××; माश्रौ; मृजयेते
 बौश्रौ १, २० : १७; ४, १० :
 १८; भाश्रौ; मृजयन्ते आश्रौ ३,
 ५, १; शांश्रौ १, १२, ८;
 काश्रौ; मृजयन्ति वाश्रौ ३,
 ४, १, २८; वैनाश्रौ ८, २०;
 मृजयताम् आश्रौ १, ११, ७^g;
 ऋमृजयन्ताम् आश्रौ १, ११, ७^g;
 शांश्रौ; मृजयस्व बौश्रौ ६, १९ :
 २५; मृजयेत दाश्रौ १५, १, १६;

लाश्रौ ५, ९, १४; जैश्र १, १३ :
 १; मृजयेत् आश्रिणु १, ६, ३ :
 २१; मागु २, २, २७^d; मृजयेत्
 दाश्रौ १२, ३, ५; लाश्रौ ४, ११,
 ७; जैश्र १, २१ : ३१.
 मृजयीत गौघ २६, १०; मृजि
 यीत् गौघ १४, ३६.
 अमृजन्त बौश्रौ ५, १५ :
 १६^h.
 मृज्यते बौश्रौ १०, २ : १७××;
 पावा ७, ४, ९१; ऋमृज्यन्ते
 आपश्रौ १८, १५, ३; हिश्रौ १३,
 ६, ३९; मृज्य पा ७, ४, ६५^e.
 ऋमृजन्ते कौसू १२४, ४;
 ऋमृज्म > ज्मा ऋप्रा ७, ३३.
 ऋमृज्यⁱ - ज्यम् शांश्रौ ७, १५, ७.
 मृज्यमान, ना- ऋना आपश्रौ ४,
 ५, १; भाश्रौ ४, ६, ४; हिश्रौ ६,
 २, २; -नासः पावा ७, ४, ९१.
 मृज्य- पा ३, १, ११३.
 मृजन्- नम् आश्रौ १, ८, २; २,
 १९, १३; ३, ५, ३; ४, २, ६;
 काश्रौ ४, २, ४०××; आपश्रौ;
 -नात् आश्रौ १, १२, १७; शांश्रौ;
 -नानि माश्रौ ४, ३, ४३; -ने
 बौश्रौ २३, १९ : २३; जैश्रौका
 ८३.
 मृजनी- -०नि^j वाश्रौ ३, २,
 ५, ३२; दाश्रौ ११, ३, १०; लाश्रौ
 ४, ३, ११; -नी आपश्रौ ४,
 १०, ८; भाश्रौ ४, १६, १; हिश्रौ
 ६, ३, २.
 मृजन्-कर्मन्- -र्मणि जैश्रौका
 १२२.

मृजन्-प्रभृति- -तीनि हिश्रौ ८,
 ७, ६१.
 मृजन्-मन्त्र- -न्त्रम् वैश्रौ १६,
 २५ : ४.
 मृजन्-वेला- -लायाम् माश्रौ
 ४, १, २०.
 मृजन्-सादन- -ने वैश्रौ १५,
 १५ : ९.
 मृजाना(न-२आ)घ- -घैः वैघ
 ३, ४, ३.
 ऋमृजाना(न-अ)न्त- -न्ते पाठ
 ३, २, ५.
 ऋमृजाना(न-अ)न्त^k- -न्तम्
 वैताश्रौ २४, ७.
 मृजानो(न-उ)पलेपना(न-अ)
 प्लेक- -कैः वैघ ३, ४, ३.
 मृजानो(न-उ)पाजन- -नैः विघ-
 २३, ५६.
 मृजयित्वा आश्रौ १, ८, १; १३,
 २××; आपश्रौ.
 मृजित- -ते काश्रौ ६, ७, २९; ९, ७;
 ९, १२, १; वाश्रौ १, १, ५, १६.
 मृजा- पाग ३, ३, १०^l.
 मृजान- -नः आश्रौ ५, १४, २४;
 शांश्रौ १०, १३, ५^k; -नाः काश्रौ
 २२, ४, २६^h; लाश्रौ ८, ६, २८;
 कौसू ८४, १०.
 मृज्य- पा ३, १, ११३.
 मृज्यमान- -नः आश्रौ ५, १२,
 १५^h; -ने आश्रौ ५, १२, १७.
 ऋमृज- -घः छुअ १, ३४^h.
 मृज-लुञ्जित- पाग २, २, ३१.
 मृज-व(त् >)तीⁱ- -तीः शाश्रौ
 ७, १५, ७.

- a) या १, २०; १३, ३ पा ७, २, ११४ पावा १, १, ३; ६, १, १३ परामृष्टः द्र. । b) घा. गतौ वृत्तिः ।
 c) षं इति पाठः ? यनि शोधः (तु. सपा. शौ १२, २, १३) । d) मृजयते इति Kn. । e) लिटि प्रपु १ रूपम्
 इति पाठः. प्रासि. । f) वैप १ द्र. । g) भाप., नाप. । h) विप. (पुंश्ली-) । कर्तरि क्वत् । i) वस्. ।
 j) वज्ज- इति पाठः । k) पाभे. वैप १, २०७० h द्र. । l) = ऋण-विशेष- ।

सृष्ट(ष्ट-अ)क्षर-पद-स्वर^१-रम्
वैग ३,१९ : ५.

मृष्ट्वा आश्रौ १२, २९, ९××;
बौश्रौ.

√मृड्, ल् (वधा.)^{१००} पाधा. तुदा.

पर. सुखने; कया. पर. क्षोदे
सुखे च, ङमृडाति आपम २,

१८, ४७; या १०, १५०; मृड-
मृडातः^१ शुप्रा ४, ३११; मृड-

तात् अप्रा २, ४, १८१; मृड-
ताम् सु ३१, ३१; ङमृड्, > डा

आश्रौ ३, ८, १; ८, १०, ३;
शाश्रौ; ङमृडतम् वैताश्रौ २९,

१०; कौसु; ङमृडत > ता
आपश्रौ २, २०, ६; भाश्रौ.

मृडयाति शांय ६, ५, ६१;
ङमृडयताम्^१ आपमं २, १७,

१४; १९; ङमृडयन्तु वाश्रौ ३,
२, ५, २१; आपमं; या १०,

१६०; ङमृडय, > या आपश्रौ
९, १, ११; भाश्रौ; मृडयत आपमं

२, १७, २५.

ङमृडित्-न्ता या १४, २८; -तारम्
बौश्रौ २४, १३ : १०

मृड^१-डः सु ९, ४; अप ५२, १०,
१; -डाय आग ४, ८, १९१^{१००}.

मृडानी- पा ४, १, ४९.

मृडक- पाउना ४, २५.

मृडङ्ग- पाउ ४, २४.

ङमृडयत्^१- यद्भ्याम् ऋप्रा ७,
१९; -यन्तः ऋप्रा ८, ३४.

मृडित्वा वाधुश्रौ ४, ७४ : ९.

मृडोक^१- पाउ ४, २४; -क^१ ऋष
२, ९, ९७; १०, १५०; -ङमृम्

आपमं १, ४, १५; आश्रिग १,
५, ४ : ११; अप्राय ४, १.

ङमृडाक^१- ऋम् आपश्रौ ८,
१४, २४.

मृडाकु^१- (>मृडाकव- < >

वायन-] पा.) पाग ४, १,
१०४; १००.

√मृण् पाधा. तुदा. पर. हिंसायाम्,

मृणन्ति बौश्रौ १८, २१ : ५;
ङमृणः लाश्रौ ७, १०, १२६;

निसु ७, ११ : ८^२.

मृणाल^१- पाउ १, ११८^६; पाग २,
४, ३१; ५, २, १३५; ६, ३, १०८^१.

मृणाल-कोमल- लौ विध १, २५.

मृणाल-पद्म-दूर्वा(र्वा-आ)भ-
कुमुदो(द-उ)त्पल-गन्ध-

सुच्^१- सुक् अप २४, २, ५.

मृणाल-पद्मा(द्म-अ)निल-
तुल्य-गन्ध-न्धे अप २४,

५, २.

मृणाल-फलक- कानि अप ६८,
१, ३१.

मृणाल-बद्ध- द्वाः अप ७०^३, ११,
२०.

मृणालि(न् >)नी- पा ५, २, १३५.

मृ(णि >)णी^१- ग्यः अप ४८, १३०^१.

√मृण्^१ पाधा. चुरा. पर. प्रेरणे.

मृण-भय- प्रमृ. √मृद् द्र.

मृत्- √मृ द्र.

मृत्- पाउ ३, ८८.

मृत्क- प्रमृ., मृत्- √मृ द्र.

मृत्खन- मृत्तिका- प्रमृ. √मृद् द्र.

मृत्यु- प्रमृ. √मृ द्र.

मृत्सा- मृत्सना- √मृद् द्र.

√मृद्, मृद्^१ (वधा.)^१ पाधा. भ्वा.

आत्म. मर्दने; कया. पर. क्षोदे,
मर्दति अप ७०^३, ३, २६; निघ २,

१४^१.

मृदति अप ४८, ३८^१.

मृदनाति माग २, १४, ४; अप
४८, १९^१; मृदनीयात् माश्रौ

२, १, ३, १६; १७.

मर्दयेत् आज्यो ३, २.

मर्दयिष्यति अप ४, १, १३^१.

मर्द^१- > ^१द^१कर्मन्- मर्म्यः अप
४५, २, १९.

मर्दित- -ताः अप ४, १, १३^१.

मृद्^१- पाग ४, ३, १४२; मृत् काश्रौ
१६, १, २०; बौश्रौ ९, ३ : २३;

४ : २५××; वाधुश्रौ; बौध
१, ६, ३६; विध २२, ८८; मृदः

आपश्रौ १५, ३, १०; १६, ५, ४;
बौश्रौ; मृदम् काश्रौ १६, २, २१;

आपश्रौ; आश्रिग २, ६, ८ : ३^१;
मृदा काश्रौ १६, ७, ९; आपश्रौ;

मृदि आपश्रौ १६, ४, ४; बौश्रौ;
मृदिः अप ४२, १, ६; शंघ १०३;

१६२; विध २३, ४२; ६०, २४.
मृच्चय-यः या ६, ११^१.

a) बस. > द्रस. । b) या १०, ५५; १६ पा १, २, ७ परामृष्टः द्र. । c) वैप १ द्र. । d) वैप १, २५१८ g द्र. । e) सपा. मै २, १३, २१ मृडताम् इति पासे. । f) विप. > व्यप. । अर्थः ? । g) 'दा' इति षाठः ? यनि. शोधः (तु. जीस. old. MW.) । h) = छद्र- । i) व्यप. । j) = बिस- । k) < √सृष् । l) तु. पागम. । m) विप. (अनल-) । द्रस. > बस. > कस. > द्रस. > षस. > उस. । n) = तीमिक- । व्यु ! < √सृष् [हिंसायाम्] ? । बन्नयः इति संस्कृतुः शोधः ? । o) तु. BPG. । p) पा ७, ४, १५ परामृष्टः द्र. । q) पा १, २, ७ परामृष्टः द्र. । r) धा. गतो वृत्तिः । s) धा. सुखने वृत्तिः । t) भाप. । u) प्रकरखतः = मृत्लोह- । v) उप. < √चि [चयने] ।

सृच्-छ (<श)य^३ -यः आसिष्ट
२,४,११:३.

सृच्-छि (<शि)ला-मय-
-येभ्यः वैध २,७,२.

सृण्^३ न्-मय- पा ४, ३, १४२;
-यः बौश्रौ २६, २२: २०; अप

२३, १, ४; ३३, ६, ६; -यम्
काश्रौ १९, ३, १२^३; २५, ५, २९;

आपश्रौ; आसिष्ट २, ४, ६: ७; ६,
८: १; वैध २, ८, ३; -यान्

याशि २, ९३; -यानाम् अप
२१, २, १; बौध १, ६, ३३;

विध २३, ३३; काध २७७: ९;
-यानि आश्रौ ३, १४, १२;

काश्रौ; -ये आपश्रौ १, ७, ९;
पाण्ड; -येन आपश्रौ १, १४,

४x; बौश्रौ; बौपि २, ७, ५^३.

सृन्मयी- -यी वैश्रौ ११,
९: ७; कप्र २, ५, १२; -यी:

आपश्रौ १६, १३, ६; माश्रौ;
-यीम् शुषा ५, २०^३.

सृन्मय-भाजन- -ने आसिष्ट
३, ९ १: १७^३.

सृन्मय-भोजन^३ -ना: ^३बौपि
२, ६, ६^३.

सृन्मया(य-अ)श्ममयौ (य-
औ)डुम्बर- -राणि शंघ २१७.

सृन्मय-पात्र- > ^३त्र-पतित-
विष्टान्न-भोजिन्- -जी शंघ
३७९.

सृन्मयपात्र-भोजिन्-
-जिनः वैश्रौ २०, २३: ४.

सृन्मय-भोजन- -ना: हिपि
२२: १४^३.

सृन्मय-वर्जित- -तम् गौपि
२, ३, २१.

सृन्मया(य-अ)पान^३ - -नम्
काश्रौ २२, १, ३०.

सृन्मया(य-अ)श्ममय-
-यानाम् काश्रौ २५, ७, ३५.

सृत्-खन^३ - -नः आपश्रौ १५, १,
९; माश्रौ ११, १, १२; वैश्रौ १२,

१: १२; हिश्रौ २४, १, ६; -न्म्
आपश्रौ १५, १, १०^३x; माश्रौ;

-नात् आपश्रौ १६, २, ११;
हिश्रौ ११, १, २३; -ने आपश्रौ

१५, १, १०; १६, ३, ७; माश्रौ.
सृत् ति(क>)का^३ - पा ५, ४,

३९; -का शंघ ५३; ४५२; शुषा
६, २६^३; -का: वाध ६, १७;

१८; शंघ ५३^३; १०२; -काम्
वैश्रौ १८, १: ५७; द्राश्रौ; -^३के

आसिष्ट २, ६, १: २५; २७.
मात्तिक^३ - -कः बौश्रौ

२३, १८: १०; -कम् माश्रौ १,
२, १, ९; १०; माण्ड २, १५, ५;

अप्राय ६, ५; -कान् वाश्रौ ३,
१, १, १४; -कानि बौश्रौ २२,

२: २१; -के वाश्रौ ३, २, ५, २१;
-केन माश्रौ १, २, १, ८.

सृत्तिका-स्नान- -नम् अप १,
४४, १.

सृत्-तोय- -यै: विध २२, ७७;
७८, ९१; ६४, १८; वैध ३, ३, ३.

सृत्-पात्र- -त्रम् वैगृ ५, ४: १५;
-त्राणाम् सुध ३०; -त्रे वैगृ ७,

६: ९; -त्रै: वैगृ ५, ७: १०.
सृत्पात्र-लोह- -हानाम् सुध

८७: १३.

सृत्पात्र-विनियोग- -ने
अप्राय ३, ८.

सृत्पात्र-संपुट- -टम् कप्र ३,
४, १२.

सृत्-पिण्ड- -ण्डः बौश्रौ २६,
२७: १३; शुश २, ५८; -ण्डम्

काश्रौ १६, २, २; आपश्रौ;
-ण्डान् बौध २, ३, ७; वैध २,

१४: १; -ण्डानाम् वैगृ ५, ३;
१; -ण्डानि वैगृ ५, २: २३;

-ण्डेन वैगृ ५, ३: १३.
सृत्-पिण्ड^३ - -ण्डः याशि २,
९१.

सृत्-प्रक्षेप- -पेण विध २३, ३८^३.

सृत्-(स>)सा-, सृत्-(स्न>)
स्ना- पा ५, ४, ४०.

सृद्-अरिष्टके(क-इ)ङ्गु-बिल्व-
तण्डुल-सषपकल्क-चार-गोमूत्र-

गोमया(य-आ)दि- -दीनि शंघ
१६८.

सृद्-गोमय-जल- -लै: शंघ १६४.

सृद्-ग्रह(ण>)णी^३ - -णीम् वैध
२, ६, २; ३, ८, २.

सृद्-दि(श>)ग्धा- -ग्धा:
काश्रौ १६, ५, २.

सृद्-द्वय- -यम् वाध ६, १८.

सृद्-भस्म-गोमूत्र-क्षरो(र-उ)
दक- -कै: शंघ १७४.

सृद्-भस्म-मिश्रित- -तेन बौपि
२, ८, ७.

सृद्-माण्ड- -ण्डानाम् अप
६४, ५, १.

सृद्-वारि- -रि विध २३, ३९.

a) उप. कर्तरि कृत् । b) अप ३३, ६, ६ आसिष्ट २, ४, ६: ७ प्रमृ पाठः । c) सृन्मयम् इति शोषः [तु. B.] d) प-स्वरं पाठे । e) वस. । f) ^३भोजिनः इति B. । g) चौसं. । उप.अ-पा^३ इति । h) = [सृत्खन-नीय-गृह-] उप. अधिकरणे प्र. । i) वैप १ द्र. । j) विकारार्थे प्र. । k) सृद्-क्षे^३ इति जीसं. । l) नाप. ^३ उप. अधिकरणे कृत् ।

सृष्टासि-सृचि- नचिः विध
२२, ८९.

१सृदु- पाउ १, २८; पाग २, १,
७०; ५, १, १२२; २, ९७; -द्वः
अप ६८, १, ४०; -दु नाशि
२, ७, ९; -दुः आपध १, ३, १७;
५, ११; हिश्रौ; नाशि १, ७, १३^२;
-दुम् शाश्रौ १७, ३, १६; याशि
१, ६१; नाशि १, ६, १०^३; -दूनि
आज्यो १४, ६.

मादैव- पा ५, १, १२२;
-वम् आपध १, २३, ६; हिध १,
६, १४; तैषा २२, १०.

†सृदु-क^१- कम् दाश्रौ ११, २,
९; लाश्रौ ४, २, ८.

सृदु-कर्मन्- कर्मसु अशां १, ४;
३, २; ५; ५, ६.

सृदु-तर- -रः तैषा २०, ११;
माशि ८, ३^२; -रौ माशि ८, २.

सृदु-ता- पा ५, १, १२२; -ता
कौशि ४.

सृदु-वृण- -णैः गोष्ट ४, ७, ११;
द्राष्ट ४, २, ११.

सृदु-त्व- पा ५, १, १२२; -त्वम्
नाशि १, ७, १२; मीसू १०, ८,
५१.

सृदु-दारुण- -णाः अप ५२, १६,
१.

सृदु-ध्रुवो(व-उ)प्र-क्षिप्र- -प्रेषु
अप ५२, १५, ३.

सृदु-नादिन्- -दिना माशि ४,
४.

सृदु-पद-वर्ण-स्वर-कुहरण-
युक्त- -कम् नाशि १, ३, ९.

सृदु-फलो(ल-उ)द्वय^०- -याः
अप ५८^२, ४, १८.

सृदु-मण्डल- -ले अप ६३, १, ८.

सृदु-मध्यम- -मयोः नाशि १,
७, ९.

सृदु-मध्या(ध्या-आ)य(त >)
ता^१- -ताः नाशि १, ७, ११.

सृदु-मन्द-दिवाकर^०- -रः अप
६३, २, ७.

सृदु-ल- पा ५, २, ९७.

सृदु-वाच्^०- -वाचः या ६, ३१.

सृदु-स्पर्श- -शंश् माशि १६,
१२; याशि २, १०६.

सृदु(दु उ)द्वर^०- -रः, -रेषु या
६, ४.

सृदु√सू > सृदु-भाव- > ^०व-
कर्मन्^०- -र्मणः या ५, १५.

सृदु(दु-अ)ङ्ग^०- -ङ्गाः अप ६८,
१, १०.

सृदु(दु-अ)वग्रह^०- -हेण ऋप्रा
१५, १६.

अदिमन्- पा ५, १, १२२.

अदिष्ट^१- -ष्टात् आश्रौ ५, १७,
५.

अरीयस्- -यान् माश्रौ २, १,
१, १९^१.

सृदु- √सृद् द.

१सृदु^१- -दान् वाधुश्रौ ४, ५९^२: ७.

२सृदु^२- (> मादै- [> ^०दायन-]
पा.) पाग^१ ४, १, १०४; १००.

सृदुङ्ग^१- पाउ १, १२१^३; -ङ्गम् काष्ट
१७, २; -ङ्गाः अप ७०^३, २, २;
-ङ्गानाम् अप ६४, ४, २; -ङ्गेन
पावा २, २, ३४.

सृदुर- पाउ ५, ४१.

सृदुरिष्ट^० प्रसृ. √सृद् द.

२सृदु^२ ^१ (> मादैव- [> ^०दायन-])
मादैय^१ - > ^०य-पुर- पा ६, २, १०१.

सृदुर^० -रः आपध १, १७, ३९; हिध
१, ५, ७०.

सृदुगो^० प्रसृ. √सृद् द.

सृद्य माश्रौ १, ८, ५, ८.

सृद्वीका^१- पाउमो २, २, २०; -काम्
शंघ २२०.

सृद्वीकार-स-माध्वीक^०- -के विध
२२, ८३^१?

√सृध्र(बधा.)पाधा. भ्वा. उभ. उन्दने,
सृधाति आश्रौ २, १०, १६^१;

†सृध्र > धा^१ आश्रौ २, ९, १०;
कौष्ट ३, ५, २; शांष्ट ३, ८, ५.

सृध्रन्ति काश्रौ २२, ३, ४५.

†सर्ध्वीः बौश्रौ १३, १४ : ३;
हिश्रौ २२, ४, ६; सृध्रः शांष्ट २,
१८, ३^१?

सृध्र- -द्धस्य हिष्ट १, १५, ३^१.

†सृध्र^१- सृध्रः आश्रौ २, १०,
१४^२; १८; १३, ८××; आपश्रौ.

†सृध्र^२- -ध्रम् बौश्रौ ७, ३ : १६;
-ध्रस्य आपमं २, २२, १^१.

†सृध्र-वाच्^१- -वाचः या ६,
३१^१; उसू २, १६; -वाचम्
उसू २, १७.

a) उदु इति लासे. । b) सार्थे कः प्र. । वा. क्तिवि. । c) कस. > वस. । d) युु इति ल सं ।
e) वस. । f) तु. श्रान. । सृ इति BL. ? । g) स्वरूपम् ? यव-पर्याय- इति वा यव- इति शोधो वेति संस्कर्ता ।
h) व्यप. । i) तु. पाका. । २सृदु- इति भाण्डा. । j) = वाच-विशेष- । k) < √सृद् । l) अपपये ढकि (पा
४, १, १२३) उकार-लोपः । m) = मकर- । n) = द्राक्षा- । o) षस. > दस. । p) सृद्धि इति पाठः ? यनि.
शोधः । q) पाभे. वैप २, ३खं. जुषागः तैषा २, ५, ३, १ टि. द. । r) सपा. मंत्रा २, १, १४ (तु. श्रान. [आश्रौ.])
सृया इति पाभे. । s) पाभे. पृ १९७६ a द. । t) पाभे. पृ १४३ O द. । u) वैप १ द. ।

मृन्-मय- प्रसू. √मृद् द्र.
 √मृश्^० पाधा. तुदा. पर. आमर्शने >
 मरीमृश^० - शम् अप्रा ३,४,११.
 †मृशाय^० - यस्य शाश्रौ ९, २०,
 २६.
 √मृष् (माधुर्ये) > २मृष्ट- -ष्टम् विध
 ६८, २६.
 †मृष्टशान्तिकरण- -गानि वाश्रौ
 ३,४,२,४.
 मृष्टा(ष्ट-आ)शान^० - ने विध ९९,
 १८.
 मृष्टा(ष्ट-आ)शिन^० - शी विध
 ४५, २७.
 √मृष्^० पाधा. भ्वा. पर. सेचनसहनयोः
 दिवा. चुरा. उभ. तितिक्षायाम्,
 मृष कौसू ३, ७^६; १३७, ३९^६.
 ममर्षं वृदे ४, १३; ऋमीमृषः
 द्राश्रौ ७, २, ७; लाश्रौ ३, २, ७;
 आश्रु १, २३, २५.
 मर्षण^० - गः शंघ २४४.
 मृष^० - मृषा शाश्रौ १६, १६, ३१;
 आपश्रौ; सु ६, ४; कप्र २, १०,
 १; बौध १, १०, ३४; ३५; विध
 १०, ९; या १, ५; पाग १, ४, ५७^६.
 मृषा-वादिन् - दी वाधूश्रौ ४,
 ९० : २४.
 मृषो(षा-उ)ष्^० - पा ३, १, ११४;
 -ष्टम् आपध १, २३, ५; हिघ
 १, ६, १३.
 †मृष्ट- √मृज् द्र.
 २मृष्ट- √मृष् (माधुर्ये) द्र.
 मृष्ट्वा √मृज् द्र.
 √मृ^० पाधा. क्र्या. पर. हिंसायाम्.

√मे^० पाधा. भ्वा. आत्म. प्रणिदाने.
 मे पाग १, ४, ५७^६.
 मेकल^० - पाउमो २, ३, ११७.
 †मेकलालयौ अप ५६, १, २.
 मेक्षण- , †क्षयित्वा √मिक् द्र.
 मेख(ल)ला^० - पाउमो २, ३, ११७;
 पाग ५, २, ११६^०; १३६^६; ६,
 ३, १०८^६; -लया भाश्रौ १०,
 ६, १०; वैश्रौ १२, ८ : १२;
 आम्रिष्ट १, १, २ : ३५; भाग्य- -ला
 आपश्रौ १०, ९, १३; वैश्रौ; -लाः
 वैश्रौ १, ३ : ७; आश्रु १, १९,
 १२; बौध १, २, १४; गौध;
 -लाम् काश्रौ ७, ३, २२;
 आपश्रौ; पाग २, २, ८; ६, १५;
 बैगृ ६५ : ६; आम्रिष्ट १, ३, ३ :
 १; आपगृ १० ११; १२, ४; कागृ
 १, ६; ४१, ११; बौगृ २, ५, १३;
 ७०; ७२; भागृ १, २ : ६; २,
 १९ : १०; भागृ १, १, २; २२, ७;
 ८; २३, २७; वागृ ५, ७; ४२;
 ६, ३; वैगृ २, ५ : १३; हिगृ १,
 १, ७; ९, १०^३; गोगृ ३, ४,
 २२; जैगृ १, १२ : ४४; १९ : ५;
 द्रागृ ३, १, २०; कौसू ५६, १;
 ५७, १; विध २७, २९; वैध २, ७,
 ७; -लायाः काश्रौ २६, १, १७;
 आपश्रौ १३, १८, ७; कौसू ४७,
 १७; -लायाम् वाधूश्रौ ३, १०१;
 ३; वैश्रौ ३, ३ : ८; -ले बौश्रौ
 ८, २० : १९; वैश्रौ; -ऋंले
 आपमं २, २, १०; कौगृ.
 मैखल^० - लम् गुश्र १, २४९.

मेखलाक्षेत्र- -त्रम् अप ३०^३, १, ८.
 मेखला-च्छेदन- -ने आम्रिष्ट २, ७,
 ४ : ५.
 मेखलात्रय- -यम् अप ३०^३, १, ९.
 मेखलात्रय-संयुत- -तः कागृ ७,
 २२.
 मेखला-दण्डा(ण्ड-अ) जिनी(न-उ)
 पवीत-धारण- -णम् विध २८,
 ८.
 मेखला(ला-आ)दि- -दि काश्रौ ७,
 ४, ५; ९; -दीन् वैध २, २, २४;
 -दीनि वैगृ २, १४ : ४७; अप
 ३७, १६, १.
 मेखला-देवताक- -कम् अश्र ६,
 १३३.
 मेखला-धारण- -णम् आम्रिष्ट २,
 ७, १ : ११.
 मेखलाधारण-मैक्षचर्च-दण्डधा-
 रण-समिदाधानो (न-उ) दको-
 पस्पर्शन-प्रातरभिवाद- -दाः
 गोगृ ३, १, २५^५.
 मेखलाधारण-मैक्षचर्च-दण्ड-
 समिदाधानो (न-उ) पस्पर्शन-
 प्रातरभिवाद- -दाः द्रागृ २, ५,
 १६^५.
 मेखला-यज्ञोपवीत- -तस्य बौगृ ४,
 ११, १.
 मेखला-वत्- पा ५, २, ११६; १३६;
 -वन्तम् काश्रौ २६, १, १७.
 मेखला-विन्- पावा ५, २, १२२;
 -वी अप्रा ३, ४, ११.
 मेखलिन- पा ५, २, ११६; १३६;
 -लिनः कौगृ २, १, १२; शागृ २,

a) पावा ३, १, ४४ परामृष्टः द्र. । b) वैप १ द्र. । c) विप. । d) पाभे. वैप २, ३३. मृचयस्य ।
 ऐषा ४, १० टि. द्र. । e) मि^० इति जीसं. । f) पा १, २, २०; २५ परामृष्टः द्र. । g) पृ १२६० ० द्र. ।
 h) कर्तारि कृत्. । i) तु. पागम. । j) उप. <√वद्. । k) √सृ, √स्वृ इति BFG. । पा २, ३, ८०.
 परामृष्टः द्र. । l) पा ८, ४, १७ परामृष्टः द्र. । m) =पर्वत-विशेष- । n) तु. पाका. । o) सात्यदेवतीयः अण्.
 द्र. । p) परस्परं पाभे. । q) परस्परं पाभे. ।

१, १४; -लो आसिण्ट १, १, ४; ४६; वैण्ट २, ८ : १२; हिर १, ८, १०; शंघ ३९०; वैध १, ३, ५; सुधप ८५ : ६.

मेखलो(ला-उ)पवीता(त-अ)जिन-
दण्ड-धारणा(ण-आ)दि-ब्रह्म-
चर्य-वर्जित^० -ते वैण्ट ६, ९;
२.

मेखलो(ला-उ)पवीता(त-अ)जिन-
दण्ड-धारिन्-री वैध १, २, १.

मेघ- प्रच. √मिष् द्र.

मेचक- पाठ ५, ३७.

मेडि^० -डि: अप ४८, १०२; निघ
१, ११; -डिम् साअ १, ३२७.

मेड्- प्रच. √मिष् द्र.

√मेथ् √मिष् द्र.

मेथ^० (> १मेथी^० - पा.) पाग ४, १,
४१.

मेथत्, मेथन- √मिष् द्र.

मेथि, थि^० -थिषु वैश्रौ १४, ६ : ६;

-थी भाश्रौ ११, ५, १३;

वाधुश्रौ; आपमं १, १, १०^१;

काण २५, ९^१; -थीम् आपश्रौ

११, ७, ३; १५, ५, ११×५;

बौश्रौ; -थ्यः^० बौपि १, १४ :

४; १४; -थ्या: हिपि १४ : ६;

-थ्यो: आश्रौ ४, ९, ६; बौश्रौ

२१, १४ : २७; माश्रौ २, २, २,

२५; -थ्यौ माश्रौ २, २, २४.

मेथि-ष्ठा (< स्था)^० -ष्ठा: भाशि
५६^१.

मेथि(थि)त्- √मिष् द्र.

√मेद्, १मेद- √मिद् द्र.

२मेद- (> मेदी- पा) पाग ४, १,
४१.

मेदस्- प्रच. √मिद् द्र.

√मेष्^० पाथा, भ्वा, उभ. संगमे.

१मेघ, घा^१ - पाग ३, १, १३४^१; -घ:

आश्रौ ३, ४, १४^१; शाश्रौ ७, ५.

२२^१; आपश्रौ २, ११, ११^१;

बौश्रौ १, १४ : ५^१; भाश्रौ २,

१०, ४^१; माश्रौ १, २, ६, २२^१;

वाधुश्रौ ४, १९ : १२^१; १४-१७;

१९^१; २०; २२-२७; हिश्रौ १, ८,

२५^१ आसिण्ट; -घम् आश्रौ ३, ३,

१^१; शाश्रौ ५, १७, १; काश्रौ^०

२५, १०, ९; १०; १४^१;

आपश्रौ; -घा: वैताश्रौ ३८,

१५; आसिण्ट ३, ७, ४ : ३५;

बौपि २, ४, २०; -घान् शाश्रौ

६, १, ५; १६, १५, ८; वैताश्रौ

३८, १२; कौस् ६१, १३^१;

-कंघाय आपश्रौ २०, ३, ३;

४; बौश्रौ; -घायाम् आश्रौ ३, २,

१४^०; -घे वृदे २, १५३; -घौ

शाश्रौ ६, १, ५.

मेघ-पति- तये शाश्रौ ६, १, ५;

माश्रौ ५, २, ९, ३^१; भाण्ट १, ४:

११^१; -तिभ्यः शाश्रौ ६, १,

५; माश्रौ ५, २, ९, ३; -तिभ्याम्

आश्रौ ३, ३, १^१; शाश्रौ ५, १७,

१; माश्रौ ५, २, ९, ३; -ती

आश्रौ ३, २, १३^०.

मेघपती- -तीभ्यः माश्रौ

५, २, ९, ३; -तीभ्याम् माश्रौ

५, २, ९, ३; -त्यै माश्रौ ५, २,

९, ३.

मेघपति-त्व- -त्वम् मीसू ९,

३, ३५.

मेघ-पति-सो(स-उ)त्तर^० - रे भाशि

८८.

मेघ-त्वण^० - णम् काश्रौ २५, १०,

७^०.

२मेघ- (> १मेघी- पा.) पाग ४, १,

४१^१.

२मेघ^० -घ: वृध ३, २५२^०.

मेघस्^० -घा: अप ४८, ८५^१.

२मेघा^० -> मेघा^० तिथि- थि: ऋञ्च

२, १, १२; ८, २^१×५; वृदे;

-थिम् अप्रा ३, १, १७; -थे:

वृदे २, १५७; -थोः जैश्रौ ३,

१४; द्र श्रौ १, ३, ३; लाश्रौ १,

३, १; -थौ वृदे २, १३०; १५५;

ऋप्रा ४, १०.

मेघातिथि^० -थ्य: शाश्रौ ११,

७, २; वाधुश्रौ ४, ७५; १७; -थम्

शाश्रौ १६, ११, १६; लाश्रौ ७,

४, १; तुसू २, १५ : २८; निस्

७, २, ८; ७ : ३९; या ८, २२.

मेघातिथी- -थ्य: शाश्रौ

७, ८, ५; २१, ७, ३.

मेघातिथि-मेघ्यातिथि- थि

ऋञ्च २, ८, १.

a) तु. C. भाष्यम् । b) द्रस. > षस. > बस. > कस. > तुस. । c) वैप १ द. । d) अर्थः व्यु. च ? । < √मेथ् इति पागम. । e) शाक-भेद- इति पागम. । f) पांमे. वैप १, २५२२ ङ द. । g) सपा. आसिण्ट ३, ८, १४; १५ मेघ्यः इति पांमे. । h) √मिद् टि. अपि द्र. । i) वै १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र. । j) पृ १४५० C द्र. । k) ष इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. l टि.) । l) वैप २, ३४०. तैत्रा ३, ७, ५, ३ टि. द्र. k. m) = गर्भ-रस- । n) सर्वमेघम् इति कांसं. । o) = स्त्री-यञ्- । p) णीम् इति आन. । q) द्वप. > बंध. । r) षस. पूष. = गर्भ-रस- । s) आ^० इति चौस. ? । t) < √मेष् [संगमे] इति पागम. । x) = ऋषि-विशेष- । v) मेघाः इति भाष्यम् । w) = मेघाविन्- । x) विप. (शास्त्र-सूक्त-सामन्-) ।

३मेधा(वप्रा.)^a- पाग ३, १, २७; ३,
१०४; ४, ३, ५४; ५, १, २; ६६;
-ॠधया आश्रौ ४, ५, ६; शाश्रौ;
-धा वाधुश्रौ ४, २९; ५; आपमं
२, ४, ६; १; आमिष्ट; काष्ट ४१,
१८^b; माष्ट १, २२, ११^c; वाष्ट
५, ३०^d; हिष्ट १, ८, ४^e; निघ
२, १०^f; या ३, १७; १९^g;
-धाः? वाष्ट ८, २^h; -ॠधाम्
आपश्रौ १२, ८, १०; बौश्रौ;
काष्ट ९, २०; माष्ट १, ४, २ⁱ;
शंघ ११६; ३०; -धायाः साञ्च
१, १७१; -धायाम् माष्ट २, ६;
२^j; -ॠधायै बौश्रौ ६, ४; १;
वाधुश्रौ; -ॠधे कौसू १०, २०;
५७, २८; अञ्च ६, १०८; अपं
२:६१.

मेधा-काम-मः काष्ट ४१, २०;
माष्ट १, २२, १७; हिपि १७;
३; शुञ्च ३, १५२; -मसु बौष्ट २,
५, ५; -मस्य बौश्रौ १४, १९; ४.

मेधा-कार-रम् आपश्रौ १६, ३५,
५; वाश्रौ २, १, ८, १६; हिश्रौ
११, ८, २३; जैष्ट १, १४: ७;
चाञ्च ३९: १६.

मेधा-गुण-जैः याशि २, ११२;
नाशि २, ८, २८.

मेधा-जनन^d- नम् आष्ट १, १५, २;
२२, २०; २६; कौष्ट १, १६, १७^e;
शाष्ट १, २४, १०; आमिष्ट २, १,
४: १^f; माष्ट १, १०: ४^g; हिष्ट
२, ३, १०^h; गौष्ट २, ७, १९; -नाशि

वैष्ट ३, १५: ९ⁱ; कौसू १०, १;
-ने^j माष्ट १, २७: २१; कौसू
५७, ३१.

मेधाजनना(न-आ)युष्य-^k ष्ये
पाष्ट १, १६, ३.

मेधा-तपस्- पाग २, ४, १४.

मेधा-देवता-> ष्य- ष्यम् अञ्च
६, १०८.

मेधा(धा-अ)धिक^l- कम् शंघ १६.

मेधा-प्रद-दम् वैध २, १२, ६.

√मेधाय पा ३, १, २७.

मेधा(धा-अ)र्ध-> ष्यिन्^m- ष्यौ
बौध ३, ६, १६ⁿ.

मेधा-वत्- पा ५, २, १२१.

मेधा-विन्- पा ५, २, १२१; पाग ५,
१, १३३; -विनः अष्ट ४८, ८५;
आपध २, २९, ५; हिध;
-ॠविनम् कौसू ८९, ६; वाध
२, ९; विध; -विनाम् निघ ३,
१५; -विने या २, ३; -वी
आपश्रौ ४, ५, ३^o; भाश्रौ; विध
४८, ११^p; या ३, १९^q.

मैधावक- पा ५, १, १३३.

मेधावि-नामन्- म या ९, ५;
-मानि निघ ३, १५; या ३, १९.

मेधावि-शस्त- -स्ताः या १२,
३३.

मेधा-सूक्त- क्तम् वृदे ८, ५८.

१मेध्य- पा ४, ३, ५४; ५, १, २; ६६.

मेधा^r-तिथि- प्रष्ट. २मेधा-द्र.

मेधानर्त- पृ १४५० Cद्र.

मेधिर^s- पावा ५, २, १०९; -ॠरः

शाश्रौ ३, १८, १५; आपश्रौ ८,
२०, ५.

२मेधी- २मेध- द्र.

२मे (वि >) धी^t- धीः, -धीम्
माश्रौ ५, २, ९, ३; -ध्यः^u
आमिष्ट ३, ८, १: ४; १५; -ध्यौ
माश्रौ ५, २, ९, ३.

२मेध्य, ध्या^v- -ध्यः शाश्रौ १५, १८,
१^w; आपश्रौ; अप ६, २, २^x;
ऋञ्च २, ८, ५३^y; ५७^z; साञ्च
१, २८^{aa}; -ध्यम् शाश्रौ १६,
३, २७; ९, १३^{ab}; काश्रौ;
आपश्रौ २०, ३, ३; -ध्यस्य
बौश्रौ १५, ७: १; वृदे ४, २७
-ध्याः आश्रौ ३, ३, १^{ac}; शाश्रौ;
-ध्यान् आपश्रौ २०, २५, १२;
हिश्रौ १४, ६, २२; २३; भाशि
७५^{ad}; -ध्यानि वाध २२,
११; बौध ३, १०, १२; विध;
-ॠध्याय आपश्रौ ५, ५, ८^{ae};
बौश्रौ २, १४: ६^{af}; माश्रौ;
वैश्रौ १, ५: १३^{ag}; हिश्रौ ३, २,
४४^{ah}; -ॠध्यासः आपश्रौ १६,
२९, १; वैश्रौ; -ॠध्ये शाश्रौ
१६, ११, २६; तैप्रा ४, ११;
-ध्येन शाश्रौ १६, १८, ११;
आपश्रौ; -ध्यौ वाध १४, ४६.

मेध्य-त्व- त्वाय बौश्रौ १४, १८:
३०; हिश्रौ १, २, ६१^{ai}.

मेध्य-पाश- शौन वाश्रौ १, ६, ४, १४.

मेध्या (ध्य-अ) मेध्य-विभाग-
(ज >) ज्ञा- -ञ्जे कौष्ट २, ८-

a) वैप १ द्र.।

b) = घन-।

c) ष्धा अष्ट^o इत्यस्य स्थाने सपा. ऋ ८, ६, १० काष्ट ९, २

प्रष्ट. ष्धाम् ऋत् इति पाठे.।

d) विप. (सर्पिस-), नाप. (मन्त्र-)| उप्त. उप. करणे क्त।

e) = संस्कार-

विशेष-। षस।

f) = (मेधाजननोपयोगिन्-) पदार्थ-।

g) वस. उप. = आधिक्य-।

h) ष्धावी इति

मैसु.।

i) सप्र. मेधाधी <> मेधावी इति पाठे.।

j) = २मेधी-।

k) पाठे. पृ १९८५ g द्र.।

l) मध्यः

इति पाठः ईयनि. श्लोघः (तु. सूको.)।

m) = ऋषि-विशेष-।

n) पाठे. वैप १

वेधाय ऋ ५, १५,

१ दि. द्र.।

४; शांय २, १३, ५.
 ३मे(ध्व>)ध्या->मेध्या^१-तिथि^२-
 -थये ऋअ २, ८, १; -थि: ऋअ
 २, ८, ३; ३३; अअ.
 मेध्यातिथि-प्रियमेघ- -धौ अअ
 २०, १८.
 ३मेन (क>)का^३- पाउभो २, २, ७;
 पावा ६, ४, १२०; पागम ६१.
 २मेनका^४->मैनाक^५- -कम् अप
 ५६, १, ९.
 ३मेना (बपा.)^६- -कान् अप ४८, ८६^३;
 निघ १, ११^०; ३, २९; -ना:
 या ३, २१^०; -क^०ने जैश्रौ ३:
 १५; द्राश्रौ १, ३, ३; ७^३; लाश्रौ
 १, ३, १.
 मेने-ब्रुवाण- -णयो: लाश्रौ १, ३, ७^३.
 ३मेनि- ✓मि, मी (बधा.) द्र.
 ✓मेप् पाधा. भ्वा. आत्म. गतौ.
 ३मेया- ✓मा (बधा.) द्र.
 ३मेरु^७- पाउ ४, १०१; -रुम् शंघ
 ११६: ८; -क^०रो: वैगृ ५, २:
 १६; २०; -रौ आभिगृ २, ४,
 १०: ३८.
 मेरु-दुहितु- , मेरु-पुत्री- पावा ६,
 ३, ७०.
 मेरु-मात्र^८- -त्रम् सु १४, २.
 ✓मेव पाधा. भ्वा. आत्म. सेवने.
 ३मेव- ✓मिष् द्र.
 ३मेव^९- -क^०ष आपश्रौ १, १८, २;
 बौश्रौ; -व: आश्रौ ३, ४, १०;
 काश्रौ; या ३, १६^१; -वम्
 क^०आश्रौ ६, ४, १०; ८, ६, ६; १२;
 शांश्रौ; -वस्य हिश्रौ ५, २,
 २७; -षा: आपश्रौ १९, ३, २^१;

-क^०षाणाम् आपश्रौ २०, १९, ५^३;
 काश्रौसं २६: ५; वाश्रौ; -वान्
 या ५, २१^१; -वाय बौश्रौ
 ५, १६: १४^१; वैश्रौ ८, १०:
 ५; द्राश्रौ; -वे जैश्रौ २५: ७;
 द्राश्रौ २, २, ५०; लाश्रौ १, ६,
 ४७; -वौ काश्रौ ५, ५, १६;
 आपश्रौ.
 मेषी- -षी आश्रौ ५, ३, ३; शाश्रौ;
 ऋप्रा १६, १२^१; -षीणाम्
 काश्रौसं २६: ५; -षीम् आपश्रौ
 ८, ५, ४३××; काश्रौसं; -ष्य:
 बौश्रौ २४, ११: ८; -ष्या: माश्रौ
 १, ७, ४, ३; -ष्यै बौश्रौ ५,
 १६: १४^१; वैश्रौ.
 मेस्य (षी-अ) थं- -थान्
 आपश्रौ ८, ५, ३८.
 मेष-प्रतिकृति- -तिभ्याम् माश्रौ ८,
 ५, ९; १४; -ती आपश्रौ ८, ५,
 ४२; ६, ११; १६; माश्रौ.
 मेष-मिथुन- -नम् काश्रौ ५, ३, ६;
 ५, २.
 मेष-वध- -धे काथ २७२: २.
 मेषा(ष-अ)ज-वध- -धे विध ५०,
 २८.
 मेषा(ष-अ)थं- -थान् आपश्रौ ८, ५,
 ३८.
 मेषत्- पाउना १, १२४.
 मेष्क^१->मेष्क-ह(त>)ता- -ताम्
 आपश्रौ १०, १९, १; माश्रौ १०,
 १२, ९; हिश्रौ १०, ३, ९.
 मेह- , मेहन- ✓मिष् द्र.
 ३मेहना^२- -ना आश्रौ ७, ८, ३^३; वाश्रौ
 ११, ११, १५^३; १८, १८, ८^३;

अप ४८, ११५; निघ ४, १;
 या ४, ४६^३.
 मेहमान- ✓मिष् द्र.
 ३मैतयन- रमित- द्र.
 ३मैत्र- मित्र- द्र.
 ३मैत्र- मित्री- द्र.
 ३मैत्रक- मित्र- द्र.
 ३मैत्रवर्धक- , ३ध्रक- मित्रवर्ध- द्र.
 ३मैत्रानुवाकिक- , ३मैत्राबाहृस्वत्य- ,
 ३मैत्रायण- , ३णक- प्रसृ., ३मैत्रा-
 वरुण- , ३णि- , ३णी- , ३णीय- ,
 ३मैत्री- मित्र- द्र.
 ३मैत्रेय- , ३यायण- , ३श्रेयिका- , ३श्रेयी-
 मित्रयु- द्र.
 ३मैथुन- प्रसृ. ✓मिष् द्र.
 ३मैधातिथ- रमेधा- द्र.
 ३मैधावक- रमेधा- द्र.
 ३मैनाक- रमेनका- द्र.
 ३मैनिक- मीन- द्र.
 ३मैमत- , ३तयन- प्रसृ. मिमत- द्र.
 ३मैरेय^३- पा ६, २, ७०; -यम् विष
 २२, ८३.
 ३मैरेय-पान- -नम् मागृ २, १४, २८.
 ३मैल^४- -लम् अप ४६, ८, ३.
 ३मैलो(ल-उ)त्तर^५- -नम् अप ४६, ८,
 ३.
 ३मैलिक्य- मिलिक- द्र.
 ३मैश्रधान्य- ✓मिष् द्र.
 ३मो मा द्र.
 ३मोको^६- -की अप ४८, ७४; निघ
 १, ७.
 ३मोक्त- अप ४८, ७०^१.
 ३मोक्त्य- , ३मोक्ष- प्रसृ. ✓मुच् द्र.
 ३मोघ^७- -घम् बौश्रौ १८, ४५: २०;

a) वैप १, २५२५ de द्र. । b) वैप १ द्र. । c) अर्थ: व्यु. च ? । d) = पर्वत-विशेष- ।

e) = वाच्- । f) सपा. मेने ब्रुवाण <> मेनेब्रुवाणयोः इति पाभे. । g) विप. (हास्तन-). । h) पाठः ई-
 सपा. खि ४, ९, ४ महिषी इति (तु. संस्कृत-टि.) । i) = हिंस-पशु- । j) पाभं. वैप १, २५२६ h द्र. । k) = सुरा-
 विशेष- । l) = व्रत-विशेष- । m) पुरातन-नामन्- । n) वैप १ निर्दिष्टानां समावेशः द्र. ।

माय २, १७, ११; कौट ३, १०, ३०; वायु २, १४, २६; कप्र १, ३, २; वाघ १७, ८; १; आपघ २, १३, ६; ऋगोष २, २, ३६; ७, १६; हिथ २, ३, ६; बृदे १, ४९; भाशि ३८.	मौञ्ज- प्रसृ. १मुञ्ज- द्र. मौञ्जकि- मुञ्जक- द्र. मौञ्जायन- प्रसृ. २मुञ्ज- द्र. मौञ्जिगन्ध ^d - न्धा: बौश्रौप्र २१: २. मौञ्जिन्- १मुञ्ज- द्र. मौञ्जिमौञ्जि ^d - अय: बौश्रौप्र २१: १.	मौषिकि- मूषिका- द्र. मौषीतकि ^d - किक: बौश्रौप्र २६: ३; ४: ४. १मौसल- १मुसल- द्र. २मौसल-, °सलि- २मुसल- द्र. १मौसली- १मुसली- द्र. २मौसली-, मौसलय- २मुसली- द्र. मौस्त- मुस्ता- द्र. मौहूर्त- मुहूर्त- द्र. √*मना पाधा. भ्वा. पर. अभ्यासे. †√*म्यक्ष, म्यक्षति निघ २, १४४. अम्यक् अप ४८, ११५; निघ: ४, ३; या १, १५; ६, १५४. √*म्रक्ष पाधा. भ्वा. पर. सङ्घाते; चुरा. पर. म्लेच्छने. √*म्रद्, म्रदिमन्- प्रसृ. √*म्रद् द्र. म्रागैक्ष-वेणि ^d - गि: अप २४, ६, ३. म्रियमाण- √*म्र द्र. √*म्रुच्, ङ्च् ¹ पाधा. भ्वा. पर. गतौ. क्रोक- क: अत्र १६, ११. √*म्रेष्ठ पाधा. भ्वा. पर. उन्मादे. म्लानि- √*म्लै द्र. √*म्लिच्छ, म्लेच्छ पाधा. भ्वा. चुरा. पर. अव्यक्ते शब्दे. म्लिष्ट- पा ७, २, १८. म्लेच्छ- पाग ६, १, १६०; -च्छ: बौश्रौ २, ५: १८; -च्छान् अप ५०, २, ५. म्लेच्छ-देश- -श: विध ८४, ४; -शम्, -शे शंघ १९१. म्लेच्छ-भाषा- -षाम् वाघ ६, ४१.
मोचन-, °चयितुम् प्रसृ. √*मुच् द्र. मोद्-, मोदक-, मोदन- √*मुद् द्र. २मोदन ^a - पाग ४, २, ९५ ^b ; ११६. मौदनिक् > का-, °की- पा ४, २, ११६. मौदनेयक- पा ४, २, ९५. १मोदमान- √*मुद् द्र. २मोदमान ^a - (>मौदमानिक् > का-, °की- पा.) पाग ४, २, ११६. १मोमुसुहु: सु १४, ३. मोषण-, मोष्य- √*मुष् द्र. मोह-, मोहन- √*मुह् द्र. †मोहम ^d - -माय काय ४, २० ^२ ; गौध २६, १२. मोहमान ^d - (>मौहमानिक् > का- °की-) मोहयित्वा प्रसृ. √*मुह् द्र. मौकुलि- पाउभो २, १, २३३. मौकिक- मुक्ता- द्र. मौक्य- १मूक- द्र. मौक्ष- √*मुक् द्र. मौचिक्य- मूचिक- द्र. मौचुकर्णिक- मुचुकर्ण- द्र. मौजवत्- २मूजवत्- द्र. मौजवत- मूज- द्र.	मौद- मुद्र- द्र. मौदल- प्रसृ. मुदल- द्र. मौदलयाकर- (>°रीय- पा.) पाग ४, २, ८०. १-२मौन- प्रसृ. मुनि- द्र. मौर्थ- मूर्ख- द्र. मौर्य- मुर- द्र. मौर्व (> वीं ^१ - वीं पाय २, ५, २३; वैयु २४: ३; -वींम् काय ४१, १२; भाय १, २: ६; वायु ५, ७; जैयु १, १२: ४८; कौसू ५७, २. मौल- °लह- °लभारिक- १मूल- द्र. मौलि- पाउभो २, १, २३३. मौली (ल-इ)न्दु- पाग २, २, ३७. मौलिक- १मूल- द्र. मौलिक्य- मूलिक- द्र. मौलय- १मूल- द्र.	

a) = नगर-, ग्राम- वेति पागम. । b) पौदन- इति पागम., सोदन- इति वामनः (तु. पागम.) ।

c) मोहमान- इति पाका. । d) व्यप. । e) = ऋषि-विशेष-, तत्प्रोक्तशाखाध्यायिन्- । व्यु. ? <मोद्- इति P.W., <मुद्- इति M.W. । f) विप. (मेखला-) । व्यु. ? <मूर्वा- इति शक., अभा., आदित्यनारायणः (काय.), M.W.; <मुर्व- इति देवपालः (काय.), <मुर्- इति पायु. भाष्यकृतः । g) मियक्षति इति लघुशास्त्रीयः पाठः । h) विप. (अवनि-) । बस. पूष. ? (तु. संस्कृतुः टि.) । i) पा ३, १, ५८ परामृष्टः । j) वैय. १ द्र. ।

म्लेच्छ-वत्- -वान् अप १,६,१.
 म्लेच्छ-विषय^०- -यम् विध ८४,
 २; -ये विध ८४,१.
 म्लेच्छा (च्छ-अ)न्त्यज- -जान्
 विध ७१,५९.
 म्लेच्छा(च्छ-अ)न्त्यज-पतित-
 -तैः विध ६४,१५.
 म्लेच्छा(च्छ-अ)शुच्य(चि-अ)
 धार्मिक- -कैः गौध ९,१७.

म्लिष्ट-

√*म्लिच्छ द्र.

- √म्लुच् इच् पाधा.भ्वा.पर.गतौ.
- √म्लेच्छ प्रभृ. √म्लिच्छ द्र.
- √म्लेद् पाधा.भ्वा.पर.उन्मादे.
- √म्लेव् पाधा.भ्वा.आत्म.सेवने.
- √म्लै पाधा. भ्वा. पर. हर्षक्षये,
 म्लायते अप ६४,७,१०.
 म्लानि- पाठवृ ४,५१.

य

यू^०->य-अच्-पर- -रः पा ८,३,८७.
 य-उदय^०- -यः शुभ्रा २,६६.
 य-व- -वाभ्याम् पा ७,३,३.
 य-व-कार- -रम् ऋप्रा १४, ४८.
 श्य^०-यः याशि २, ५२^३; यम् ऋत
 ३,६, ७; यस्य पा ६, ४, ४९;
 यात् अप्रा १,३,१४.
 य-कार- -रः अप ३४,१, २; ऋप्रा;
 -रम् ऋप्रा १४, ४१; ४७;
 शुभ्रा; -रात् ऋप्रा १४, ५२;
 -रे ऋप्रा ७, ४१; ९, १३××;
 शुभ्रा; -रेण शैशि ३२७.
 यकार-प्रतिषेध- -धः पावा ६,
 १,१६.
 यकार-रेफ- -रौ शैशि ११९.
 यकार-लोप- -यः शुभ्रा ४,१३०;
 अप्रा २,१,८;९.

यकार-वकार-विकर्ष- -र्षेण
 उनिसू २ : ९.
 यकार-स्पर्श-संहित- -तम् ऋप्रा
 ५, ४७.
 यकारा(र-अ)कार- -रयोः शुभ्रा
 ४,४१.
 यकारा(र-आ)दि- -दयः उम्
 १, ४; -दि ऋप्रा २, ३५;
 -दिम् या १, १३; -दौ अप्रा
 ३,१,७; १४; शौच ३, १८.
 यकारा(र-अ)न्त^०- -न्तः अप्रा
 ३,२,१२; २१.
 य-र-ल-व- -वाः याशि २,७३;१४.
 य-र-वो(व-२ऊ)भ्मन्- -भ्मसु माशि
 ९, ७.
 यरवोभ्मो(भ्म-उ)दय^०- -याः
 ऋप्रा ६, २३.
 य-नो(र-२ऊ)भ्मा(भ्म-आ)पत्ति- -त्तौ
 शौच १,६८.
 य-ल-व- -वेषु नाशि २,४,४.
 य-लोप- -पे पावा ६,४,४९.
 यलोप-प्रतिषेध- -धः पावा १,
 १,५७.
 यलोप-वचन- -नम् पावा १,१,
 ५७; ४, १, ७८; ६, ४, १७४;
 -नात् पावा ५,२,१२^३.
 य-लोप^० पावा ६,४,२२.
 यलोप-स्वर-स्वर्णा (रि-अ)नु-
 स्वार-दीर्घ^० पा १,१,५८.
 य-व- -वम् माशि ७, ७; -वयोः
 शुभ्रा ४, १२७; शौच २, २१;
 -वाभ्याम् उनिसू २ : ९; -वौ
 शुभ्रा १,११५; माशि ७,६;याशि.
 य-व-कार- -रे शैशि ८२; -रौ
 तैप्रा १०,१५; १९; शैशि ८४.
 य-व-कार-पर^०- -रः तैप्रा १३,

३; -रौ तैप्रा १४,२१.
 य-व-कार-भाव- -वे तैप्रा २०,१.
 य-व-भाव- -वः कौशि १२.
 य-व-लोप- -पे शौच ३, ३५.
 य-व(व-अ)न्त^०- -न्तात् शौच
 ३,५७.
 य-व-चन- -नम् पावा २,४,५४.
 य-व-न-ह-पर- -रः तैप्रा १२,४.
 य-व-ल- -लाः माशि ११, ९; पावा
 ८,३,२६.
 य-व-ल-पर^०- -रे पावा ८,३,२६.
 या(य-आ)दि- -दयः अप ४७ १,
 ९; पाशि ४; शैशि १३; २७;
 -दौ शौच ४, २९.
 यादि-लोप-निपातन- -नम्
 पावा ६,४,१७४.
 यो(य-उ)प(धा>)घ^०- -धात् पा
 ५,१,१३२.
 योपघ-प्रतिषेध- -धे पावा ४,
 १,६३.
 योपघ-प्रस्थादि- -दीनाम् पावा
 ४,२,१०४.
 २य-यकृ-का- यद्- द्र.
 यकृन्^०- पा ६, १, ६३; -कनः भाश्री
 ७,१८,१२; १९,१०; माश्री १,
 ८,५, १८; आपमं १, १७, ३१^३;
 अप्रा ३,२,२२^३.
 यकृत्^०- पाठभो २, १, २६७; -कृत्
 काश्री ६,७, ६; आपमं २, १४,
 २१^३; आश्रियः या ४,३६.
 यकृत्-न्तसः (ः) या ४,३.
 यकृन्-मेदस्- पाग २,४,११.
 यकृल्-लोम, मन्^० (> याकृलोम
 [मन्]- पा.) पाग ४,२,११०.
 यकृल्-लोम-नख^०- (> याकृलो-
 मन्ख- पा.) पाग ४,२,११०.

a) उप. =देश-। b) =वर्ण-विशेष-। c) वस.। d) वैप १ द्र.। e) पाका. पागम. पाठः।
 f) =ग्राम-विशेष- इति शाकटायनः (तु. पागम.)। g) तु. पागम.।

✓यक्ष (बधा.) पाषा. चुरा. आत्म.
 पूजायाम् > यक्ष^२ - क्षः माण २,
 १४, २९^१; -^१क्षम् गोग ३, ४,
 २७; द्राण ३, १, २५; अत्र १०,
 १०; -क्षाः आण ३, ४, १; कौण २,
 ५, १; शाण ४, ९, ३; कप्र ३,
 ६, ९; अप ४३, २, ३७^१; ७१,
 १८, ३; नाशि १, २, १४;
 -क्षाणि कौसू ९५, १; -क्षणाम्
 अप ३६, १, ९; -क्षान् आमिण २,
 ५, ३; ३^१; बौण ३, ७, २१;
 कप्र २, २, ३-८; शंघ ११६;
 २१; नाशि १, २, १६; -क्षेम्यः
 माण २, १२, १७; -क्षेषु कौसू
 ९३, ३.

यक्षी^१ - > °क्षी-बलि- -लिः
 बौण ३, ११, ५.

यक्ष्य(क्षी-अ)तमी^०-
 -म्यौ बौण ३, ११, १.

यक्ष-पति- -तिः अप ६७, ५, ३.

यक्ष-नाक्षस- -साः वृदे ७, ६८.

यक्ष-नाक्षस-किन्नर- -राः आमिण २,
 ६, ७; ११.

यक्ष-राक्षस-नाग- -नैः अप ७०^३,
 १०, ७.

यक्षम^३- पाउ १, १४०; -^३क्षम
 पाण २, ९, १०; भाण; -^३क्षमः
 आपमं २, १२, ८; आमिण २,
 १, ४; १३; हिण; -^३क्षमम्
 आपमं २, १०, ४; आपमं १,
 १७, १-६; कौण; -क्षमस्य या ३,
 १५^१; -क्षमाः आपमं १, ६, ९^१;
 बौण; -^३क्षमात् आपमं २, १२,

९; अप्राय; -क्षमाय शांशौ १२,
 १५, ५^१.

यक्षम-गृहीत, ता- -तस्य आण
 १, २३, २०; ३, ६, ३; -ताम्
 आपण ९, १०.

यक्षम-ध्व- -ध्वम् ऋत्र २, १०,
 १६३.

यक्षम-चात(न>)नी- -नीः वाण
 ५, २८^१.

यक्षम-नाश- -शाय वृदे ७, १५४.

यक्षम-नाशन^१- -नः ऋत्र २,
 १०, १६१^६; अक्षमू २; -नम्
 वृदे ८, ६४; ६६; अत्र ३, ७.

यक्षमनाशनी- -नीः अत्र
 १४, १.

यक्षमनाशन-काम- -मः अत्र
 ६, ८५.

यक्षमनाशन-कुष्ठ-देवता->
 °त्य- -त्यम् अत्र ५, ४.

यक्षमनाशन-देवता-> °त्य-
 -त्यम् अत्र ३, ११; ६, १२७.

यक्षमनाशन-देवताक^१-
 -कम् अत्र १, १२.

यक्षमनाशन-दैवत^१- -तम्
 अत्र ३, ७; ६, २०; -ते अत्र २,
 ९.

यक्षमनाशना (न-अ)ग्नि-
 दैवत^१- -तम् अत्र १, २५.

यक्षम-नाशि(न>)नी- -नी
 ऋत्र २, १०, ८५; वृदे ७, १३३.

यक्षम-निर्गमन- -नम् अत्र २,
 ३३.

यक्षम-विवर्हण- -णम् अत्र २,

३३.

यक्षिमन्- -क्षमी विष ४५, ३.

यक्षमो(क्षम-उ)पघात- -तः अशां
 २३, २^१.

यक्षमन्^३- पाउमो २, १, २८५;
 -क्षमणा आपशौ १०, १९, ४;
 २०, ७, २०; २२, २१, ११.

यक्ष्य^३- -क्ष्येण अप २०, ३, ३^१.

यद्यत्-यक्ष्यमाण- ✓यज् द्र.

✓यच्छ, यम् (बधा.)^१ पाषा. भ्वा.

पर. उपरमे दाने च; चुरा. पर.

परिवेषणे, यच्छति शांशौ २, ७,

१९; ४, ८, ३xx; काश्रौ; यच्छतः

आपशौ १, १६, ७; ६, ७, ३;

वाधुश्रौ; यच्छन्ति आपशौ ८,

१३, २२; काश्रौ १२, ४, २२;

भाश्रौ; ङ्यच्छामि आपशौ ५,

८, १; बौश्रौ; यच्छताम् बौश्रौ

३, २७; १८^१; ङ्यच्छतु आमिण २,

१, ५; १०; १२; वैण ६५:

१०; माण २, ८, ६; यच्छताम्

या ९, ३८^१; ङ्यच्छन्ताम्

काश्रौ २, ३, १९; आपशौ १,

१७, १२; बौश्रौ; यच्छन्तु

भाश्रौ १, १९, १०^१; हिश्रौ;

ङ्यच्छ, > च्छा आपशौ १, १२,

३७; २, ३, १७xx; शांश्रौ;

आपशौ ६, ८, ११^१; हिश्रौ ३, ७,

३६^१; ५९^१; आपमं २, ४, २^१;

या ९, ३२^१; ऋप्रा ७, ३३;

शुप्रा ३, १०७; यच्छतम् आपशौ

४, १२, २; आपमं १, ८, ५;

ङ्यच्छत, > ता आपशौ १, १२,

a) वैप १ द्र.। b) = देवी-विशेष-। c) द्वस. उप. ?। d) पाठः ? (दु. वैप १, १० b)।

e) पाठे. वैप १, २५२९ a द्र.। f) उप. भावादयर्थे प्र.। g) = ऋषि-विशेष-। h) बस.। i) द्वस. > बस.। j) पा १, २, १५; १६; ७, २, ७३; ३, ७७; ७८ पाषा ६, ४, ४० परामृष्टः द्र.। k) धा. नियमनदानादिषु वृत्तिः। l) पाठे. वैप १, १५५६ c द्र.। m) सपा. आपशौ ६, ६, ८ इह इति पाठे.। n) सपा. शाण १, २७, ७-चैसम् इति पाठे.।

३६; आपश्रौ ६, २१, १^०; माश्रौ;
अयच्छत् या २, १२^१; अयच्छन्
आपमं २, २, ३^१; यच्छेत् आश्रौ
८, १४, ७; शाश्रौ; यच्छेताम्
वाश्रौ १, २, ४, ११; यच्छेयुः
द्राश्रौ ३, ३, ४×४; लाश्रौ.
यन्धि निघ ३, १९^१^b; यन्त>

न्ता ऋषा ७, ३३^१.
†येमिरे माश्रौ १, ६, ३, १;
अप्राय ५, ३; †यंसत् आश्रौ २,
११, १२^०; शाश्रौ ३, ६, २^०×४;
शांय १, २७, ७^d; †यंसन्
या ९, १९^०; तैप्रा १६,
२०; अयंसत या ७, २^१;
अयांसम् ऋषा १३, २७^१.

यमयति आपश्रौ १०, १६, १६;
१७, २; भाश्रौ; यमयत् आपमं
२, ११, १८; यमयेत् द्राश्रौ १४,
१, ७; लाश्रौ ५, ५, ५.

यंयम्यते पावा ७, ४, ८५.

१यत्->०त-वाच्- -वाक् विध
६१, १६.

†यत्-सुच्- -सुच् अप ४८,
९६; निघ ३, १८.

यत्(त-श्चा)स्मन्- -स्मन् बौध
४, ५, १५.

यत्वा शाश्रौ २, १४, ९; आपश्रौ.

यन्त(व्य>)व्या- -व्या आपश्रौ
१०, १६, ३.

यन्तु^१- -न्तोः चाञ् ४० : १५.

यन्तु^०- -न्ता काश्रौ १४, ५, १८^१;
१५, ६, २९^१; बौश्रौ; आपध २,
२०, २०^१; हिध २, ५, १०५^१;
-†न्तारः अप ४८, १२; निघ
३, १९; -†न्तुः बौश्रौ १०, ५८;
२^१×४; वैश्रौ; चाञ् ४० : १५^१.
†यन्त्री- -न्त्री आपश्रौ १७, २,
५; बौश्रौ.

यन्त्र (वप्रा.)^k- पाञ् ४, १६७;
-न्त्रम् बौश्रौ ६, १२ : ९^१;
वायूश्रौ; जैय २, ९ : ३६^१;
आमिष्ट २, ५, १ : ४८^१; कप्र १,
८, १; ३; -न्त्राणि बौध
४, ७, ३; -†न्त्राभ्याम् आपश्रौ
४, ६, ५; भाश्रौ ४, ९, ३; हिश्रौ
६, २, १६; -†न्त्राय आपश्रौ
१८, ५, २०; बौश्रौ; -†न्त्रे
आपश्रौ २, ९, १३; ४, ६, ५;
बौश्रौ; -न्त्रेण †बौश्रौ १०, ५८;
२×४; वैश्रौ; आमिष्ट २, ५, १ :
४८^m; जैय २, ९ : ३६^m; वैध
३, ८, १ⁿ; -न्त्रैः शाश्रौ
६, १०, १०^१; बौध ४, ७, १;
४; विघ ४३, ४३; वृदे ८,
५८^१; या १०, ३२^१.

यन्त्र-प्रयोग- -गः अप २२, ८, ३.

यन्त्र-प्रासाद- -दे अप ७०^३,
१०, ६.

यन्त्र-वाहन-शस्त्र- -स्त्रेषु अप
७०, ५, २.

१यम्- पा ३, ३, ६३; -मान् पाञ्
२, ७, १; वैध २, ४, ४; ८, ७.

यम-नियम-मन्त्र- -न्त्रैः
आमिष्ट २, ७, १ : ५^१.

यम-नियम-मन्त्र-व्रतो(त-उ)प-
वास-> ०सा(स-आ)दि-
-दिभिः शंघ १६२.

यमनियममन्त्रव्रतोपवा-
सिन्- -सी आमिष्ट २, ७, ११ :
१४^१.

यम-नियम-मन्त्रो (न्त्र-उ)पवा-
सा(स-आ)दि- -दिभिः आमिष्ट
२, ७, १० : ८; शंघ ३६२.

यम-नियमा (म-आ)सन-प्रा-
णायाम-प्रत्याहार-धारणा-ध्यान-
समाधि- -धयः वैध १, १०, ९^१.

यमन^०- -†नः बौश्रौ १५, ५ : ५;
वाश्रौ ३, १, २, २२; वैश्रौ १७,
१५ : ६; हिश्रौ १३, २, १२; -नात्
काश्रौसं २७ : १२; या २, १५.

यमनी- -नी वाश्रौ २, १, ८, १^१.
†यमि(त्तु>)त्री^k- -०त्रि आपश्रौ
१४, ३३, २; अप्राय ६, १.

यम्य आमिष्ट १, २, ३ : ११.

यम्य, म्या- पा ३, १, १००; -म्या
निघ १, ७^१; -म्येन बौश्रौ २६,
१२ : १९^५.

१याम- पा ३, ३, ६३; -मः शाश्रौ
१५, ५, १३^१; बौश्रौ १८, १५ :
१५^१.

a) पाभे. वैप १, १५५६ C द.। b) घा. याञ्चार्या वृत्तिः। c) पाभे. वैप १, २५३१ C द.।
d) पाभे. वृ १९९० n द.। e) बस.। f) = ऋषि-विशेष-। तुन् प्र. उंसं. (पाञ् १, ६९)। g) वैप १
निर्दिष्टानां समावेशः द्र.। h) = सारथि-। i) = अदात्- इति भाष्यम्। j) पाभे. वैप १, ७५३ f द.।
k) वैप १ द.। l) अर्थः ? यातना इति ?, घोरम् इति C. शोधः (तु. बौधशे [१, १६, ३७])।
m) = पूजाधार-यन्त्र- [चित्र-]। n) = उपस्तम्भोपकरण-। o) भाप. (योगाङ्ग-)। p) म्यन्त्रैः इति
पाठः ? यनि. शोधः (तु. आमिष्ट २, ७, १० : ८)। q) म्यन्त्रं इति पाठः ? यनि. शोधः। r) नियमयमास^०
इति C.। s) भावे कर्तृरि च कृत्। t) = रात्रि-। u) भाप. (नियमन-)। वाचंयम्येन इति संस्कृतः टि. ?।
v) = अन्त- इति C., = नियामक- इति सा (तां २०, ३, ५)।

येमान- -नः उस् ३, ११.

✓यञ् पाधा. भ्वा. उभ. देवपूजासङ्-
तिकरणदानेषु, यजते आश्रौ २,
९, ४१; शाश्रौ; यजति आश्रौ १,
५, ३××; शाश्रौ; काठश्रौ ३६^{३०};
यजतः शाश्रौ १०, ७, ९; काठश्रौ
१४, १०^{१०}; ६, १४, २३××;
शाश्रौ; यजन्ति आश्रौ १, १०,
४××; शाश्रौ; ऋजसि आश्रौ ५,
१९, ३^०; या ८, ५; ऋजे आश्रौ
८, १४, ४^०; काश्रौ; माश्रौ १,
८, ३, १^०; आपमं २, ८, ५^०;
हिय १, २, १८^०; यजामि अप
६६, ३, २; ऋजामहे आश्रौ ७,
११, ३८; ८, १४, ४; शाश्रौ;
आपश्रौ २, २०, ५^०; माश्रौ २,
१८, १६^०; हिश्रौ २, ५, ४५^०;
यजामः गौपि २, ६, २२^०; यजाते
वाधूश्रौ ४, २६; १८; या १४, २७;
ऋजयति आपश्रौ ३, १२, १;
बौश्रौ; यजात् कौसू ५, १२^०;
ऋजयसि हिश्रौ २१, १, १; तैत्रा
१६, १८; ऋजयस्व शाश्रौ १४,
५५, ४; १५, १८, १^०; ऋञ्
२, ६, ११; या १०, २७; ऋज,
>जा आश्रौ ३, ९, ३; १२,
१४^०; ५, ८, ५××; शाश्रौ; बौश्रौ
१३, ४३; २०^०; हिश्रौ १५,
१, ८६^०; ऋजञ्ज्यज काश्रौ
३, २, १८; ५, ७; ९, ११,
७; आपश्रौ; यजतात् आपश्रौ
१४, १७, १^०; ऋजतम्

आपश्रौ १२, २७, ६; २१, ७, १५;
काठश्रौ; ऋजध्वम् आपश्रौ २०,
२०, ९; माश्रौ ५, २, ७, १५;
वाधूश्रौ ४, १०३^२; १०; या
१२, ५; यजत > ता आपश्रौ
२२, २५, १०^०; बौश्रौ ९, ९;
२४^०; ऋजे शाश्रौ १५, १८, १^०;
२०, १; १६, १०, १४; आपश्रौ;
ऋजनाम आश्रौ १, ४, ११; शाश्रौ;
अयजत शाश्रौ १४, ६, १××;
बौश्रौ; अयजेताम् बौश्रौ १८,
३५; ३; ५०; ३१; अयजन्त
आश्रौ २, १६, ७; शाश्रौ;
अयजन् वाधूश्रौ ४, ४३; २-६;
ऋजयथाः आपश्रौ २०, ६, ५;
बौश्रौ; यजेत् > ता आश्रौ १,
१०, ६; शाश्रौ; यजेत् आश्रौ १,
११, ११××; शाश्रौ; यजेयाताम्
बौश्रौ १८, ३५; ६; लाश्रौ
९, ४, ३०; ३२; यजेरन् शाश्रौ
१३, ११, १; २०, ८; काश्रौ;
यजेयुः माश्रौ ३, ८, ४; विष ३७,
३५; यजेयम् शाश्रौ १४, २७, १;
२८, १; यजेमहि शाश्रौ १४,
४०, १.
ईजे शाश्रौ १५, १६, १०; १६, ९,
८××; बौश्रौ; ईजिरे बौश्रौ १८,
३; १८; ४; १४; २६; ४-६;
यक्ष्यते वाधूश्रौ ३, ६९; ५; ४,
५; ३; यक्ष्यन्ति शाश्रौ १४, ४०,
१; यक्ष्ये आपश्रौ २२, २, १६^०;
काश्रौसं; यक्ष्यामि कौगृ ३, १२,
१३; यक्ष्यावः माश्रौ १, ३, १,

१२^०; वाश्रौ १, ३, ४, ७^०;
ऋक्षि आपश्रौ ५, ६, ३; बौश्रौ;
ऋक्षत् आश्रौ १, ६, ५^०; ३, ४,
३××; शाश्रौ; वाञ्छ ४१; १४^०;
यक्षतः माश्रौ ५, १, ३, २७^०;
ऋक्षत आपमं १, ५, ५७;
आयः अयष्ट शाश्रौ १५, १६,
११; अयाक्षीत् बौश्रौ २६, १४;
३; ऋयाट् आश्रौ १, ३, १४;
६, ३^०; ८, ७××; शाश्रौ; अयाट्
ऋयाट् आश्रौ १, ६, ४; अया.
ष्टाम् माश्रौ ५, १, ३, २७^०;
अयाः या ४, २५^०; अयाक्षीः
या ४, २५; अयत्तध्वम्
वाधूश्रौ ४, ५५; ९; अयक्षथ
वाधूश्रौ ४, ५५; ८; अयक्षमहि
वाधूश्रौ ४, ५५; ८.
इज्येते शाश्रौ १, १६, ३; इज्येते
वाधूश्रौ ४, ४५; २; इज्यन्ते
आपश्रौ ८, ९, १०; १३, ५^०;
बौश्रौ; इज्येत मीसू १०, ७, १०;
इज्येरन् लाश्रौ ८, ९, १३.
याजयते शुञ्च १, ५; याजयति
बौश्रौ १३, ३; ११; १७; ४;
वाधूश्रौ; याजयन्ते जुसू १, ११,
१४; याजयन्ति आश्रौ ४, १, ७;
शाश्रौ; याजयसीइ वाधूश्रौ ३,
४१; ५; याजयतु बौश्रौ २, ३;
१८^०; याजयतात् वाधूश्रौ ४,
७५; १९; ३०; याजय
ऋबौश्रौ १८, ४०; ३; ९; याजयत
शाश्रौ १४, ४०, १; बौश्रौ
१८, २०; १२; वाधूश्रौ ४,

- a) या ७, १२ पा २, ३, ६३ परासृष्टः द्र. । b) सकृत् यत्रति इति पाठः? यनि. शोधः । c) पाभे.
वैप १, १५४० d द्र. । d) पाभे. वैप १, २५३४ e द्र. । e) पाभे. वैप २, ३खं. यजे माश १४, ९, ३, ३ टि. द्र. ।
f) सपा. तै ३, १, ४, १ यजाम इति पाभे. । g) पाभे. वैप २, ३खं. यजामहे तैत्रा ३, ७, ५, १३ टि. द्र. । h) पाभे.
वैप १, २५३४ c द्र. । i) पाठः? यजेत इति C. शोधः । j) ञ् इति पाठः? यनि. शोधः (तु. उत्तरं स्थलम्) ।
k) पाभे. वैप १, २५३५ m द्र. । l) सपा. मा २१, ४७ प्रसृ. अयाट् इति पाभे. । m) पाभे. वैप १, २५३५ द्र.

१०८ : २५; याजयानि वाधूश्रौ
 ४, ७५ : २०; ३२; या २,
 १०; याजयाम वाधूश्रौ ४,
 १०८ : २१; अयाजयत् बौश्रौ
 २४, १२ : ७; वृदे ५, ३३; ५३;
 ऋष्याजयन् आपश्रौ १४, १२,
 ६; हिश्रौ १०, ६, ६; याजयेत्
 शंघ ८८; याजयेत् आपश्रौ ९,
 १४, १२; १०, २०, ८५; बौश्रौ;
 याजयेत्; आश्रौ ६, १०, २४; ९,
 ७, ४; ९, ४; शाश्रौ.
 याजयिष्यथ बौश्रौ १८, २० :
 ९; याजयिष्यामि बौश्रौ १८,
 ४५ : १५; ३४; कौश्र ३, १२,
 १४; वृदे ८, ५.
 याजयां/कृ, याजयांचकार
 शाश्रौ १६, ८, २७; बौश्रौ.
 इज्य^१ - ज्यम् वैश्र २, ७ : १३;
 १८ : १३; -ज्यानि कागृ ४७,
 १६.
 इज्यमान, ना - ना बौश्रौ १७, ४९ :
 ७; -नाः शाश्रौ १, १६, १०;
 -ने कागृ ५७, ४; -नेषु वाश्रौ १,
 १, ५, १४.
 इज्या^२ - पा ३, ३, ९८; -ज्यया वाध
 २५, ७; -ज्या आश्रौ २, ८,
 १०^६ × ×; शाश्रौ; -ज्याः मीस्
 ४, ४, २९; -ज्यानाम् माश्रौ ५,
 १, १, ७; कौस् ८, ३; -ज्याम् निस्
 २, ५ : २९; मीस् ११, १, ६२;
 -ज्यायाम् शाश्रौ १, ३, ७; मीस्
 ६, ६, ३९; -ज्यायै बौश्रौ २१, ६ :
 ९; -ज्यासु माश्रौ ५, २, १०, ३.
 इज्या-गामिन् - मी मीस् ६, ४,
 २२.
 इज्या-बोदना - ना मीस् ६,

५, १.
 इज्या-दर्शन - नात् काश्रौ ८, ९,
 ५.
 इज्या-दानो(न-उ)पनयनसंस्कार-
 क्रिया - याः शंघ ७६.
 इज्या(ज्या-अ)ध्ययन-धर्म-
 मेषु वाध ६, २२.
 इज्या(ज्या-अ)नुवाक्या^३ - क्ये
 आश्रौ ५, ५, ५; ६, ११, १०.
 इज्या-प्रधान^४ - नस् वाश्रौ १,
 १, १, ११.
 इज्याप्रधान-त्व - स्वात्
 मीस् ६, ६, ३८.
 इज्या-योग - गात् काश्रौ २५,
 ४, ४०.
 इज्या(ज्या-अ)र्थ - र्थम् बौश्रौ
 २१, ६ : १२; वृदे ४, १०६.
 इज्या-विकार - रः मीस् ३, ५,
 ४९.
 इज्या-विशेष-वत् मीस् ६, ६,
 ३७.
 इज्या-शेष - षात् मीस् १०,
 ७, १०.
 इज्या-संयुक्त - क्तम् बौध १,
 ६, ४.
 इज्या-संयोग - गात् मीस् १०,
 १, ३४.
 इज्या-स्तव - वः ऋश्र २, ८, ३१.
 इज्यै(ज्या-ए)कत्व - त्वात्
 काश्रौ ६, ७, १८.
 ✓ इयक्ष, इयक्षस्ति ऋप्रा १७, २९; ऋ;
 इयक्षेत बौश्रौ २३, १७ : १०^६;
 इयक्षयेत् बौश्रौ १७, ४९ : ३^६.
 इयिक्षेत भाश्रौ १, १५, १४^६.
 इष्ट - यद्.
 इष्टवत् - वान् कप ३, ७, १७; शंघ

१३८.
 इष्ट्वा आश्रौ २, १६, २२ × ×; शाश्रौ.
 इष्ट्वीनम् पा ७, १, ४८.
 ईजान - नः काश्रौ ८, ९, ७; बौश्रौ
 १३, ४१ : २ × ×; वाश्रौ; -फनम्
 बौश्रौ १२, ५ : १६; १७, ५० : २०;
 ऋश्र २, १०, १३२; वृदे; -नस्व
 शाश्रौ १४, ४०, १०; काश्रौ; -नाः
 काश्रौ २५, ९, ७; या १३, ८.
 यक्षयत् - क्षयन् बौश्रौ १, १६ : ३;
 ६, १८ : २८; हिश्रौ ४, ४, ३६.
 यक्ष्यमाण - णः आश्रौ २, १,
 १५ × ×; वाश्रौ; -णम् जैश्रौ १ :
 १९; जैश्रौ का ७; -णस्य शाश्रौ
 २, १, ६ × ×; बौश्रौ १०,
 ९ : २ × ×; माश्रौ; -णाः आपश्रौ
 २१, २, १३; हिश्रौ १६, १, २८;
 लाश्रौ; -णानाम् वाश्रौ ३, २, १,
 ७; -णै बौश्रौ २०, ४ : ४०^६.
 यज् - ऋषिजिष्ठ - ष्टः आश्रौ ५,
 ९, २१; आपश्रौ; -ष्टम् आश्रौ
 ७, ८, १; आपश्रौ.
 ऋषिजीयस् - यान् आश्रौ ३, १३,
 १२; आश्रौ २४, १३, ३; वैश्रौ;
 या ८, ८^६.
 यज् - ऋषिष^५ - षाणि काश्रौ
 १५, ४, ४; १८, ६, १९.
 यज-स्थान - ने काश्रौ ६, ४, ८.
 यजत् - जतः वधूश्रौ ३, १७ :
 २१; वृदे ६, ५८; चाश्र १४ :
 २; -जताम् अप १९^२, १, २;
 वृदे ६, ७३; -जति शाश्रौ १६,
 १, १०; -जन् वैश्र १, १ : १४.
 यजत्, ता - पात् ३, ११०; -तः^६
 ऋश्र २, ५, ६७; साश्र २, ४९६;
 -तंस्व आश्रौ २, १६, ११ × ×;

a) क्यप् प्र. उत्तं. (पा ३, १, १०९)। b) माप., नाप.। c) = देवता-दत्त- इति भाष्यम्।
 d) = याज्यानुवाक्या- इति भाष्यम्। e) वस.। f) परस्परं पाप्मे.। g) = ऋषि-विशेष-।

आपश्रौः या १२, १७र्क; -तस्य
या ८, ७र्क; -ते या ८, ११र्क.
यजति^१ - तस्यः काश्रौ १, २, ४;
६; -तिः काश्रौ ४, ३, १; मीस्
२, ३, १४; -तेः मीस् ७, ४, १.
यजति-चोदना- -ना मीस् ४, २,
२७.
यजति-जुहोति- -तीनाम् काश्रौ
१, २, ५.
यजति-शब्द- -ब्दात् काश्रौ
१३, १, १३; १४, २, २८.
यजत्या(ति-आ)दि- -दिषु काश्रौ
१४, १, ११.
यजति^२ - > ंति-कर्मन्- -र्म या
३, १९.
यजति-चोदन- -नात् मीस् ८,
२, २७; १०, ६, ६१.
यजति-शब्द^३ - -ब्देषु द्राश्रौ १,
३, ९^१.
यजति-श्रुति- -तेः मीस् ८, २,
२६.
यजते>यजते-शब्द- -ब्देषु लाश्रौ
१, ३, ९^१.
यजत्र^४ - पाठ ३, १०५; -०त्र
आश्रौ ३, १४, १०^१; पाठ १, ५,
११^१; -०त्रा आश्रौ ९, ११,
१९; -त्राः गौपि २, ३, ७;
अप्राय ६, १; -०त्राः आपश्रौ
६, २२, १; १४, १६, १; हिश्रौ;
-त्रैः आपश्रौ ७, १४, २; बौश्रौ;
यजत्र^५ - -थाय आपश्रौ ५, ६, ३;

हिश्रौ ३, २, ५५.
यजथ्यै या ८, १२र्क.
यजथ्वैनम्^६ पा ७, १, ४३.
यजन- -नम् बौध ३, १, १४; सुध
७; ८; -नाय या ८, १२; १०,
८; १३, ७.
यजन-याजना (न-अ)ध्ययना(न-
अ)ध्यापन-प्रदान-प्रतिग्रह- -हम्
सुध ६.
यजना(न-अ)ध्ययन- -ने विध
२, ९.
यजना (न-अ)ध्ययन-दान-
-नानि वैध १, १, ६.
यजनीय^७ - -यम् हिश्रौ १३, ७,
३३^१; -ययोः काश्रौ २४, ६, ३;
२७; -ये आपश्रौ १०, १५, २^३;
४^४; बौश्रौ; हिश्रौ १७, ६, १४^१;
लाश्रौ ९, ३, ७^१.
यजनीय-काल- -लः काश्रौ
२४, ६, २५.
यजनीय-प्रयोग^८ - -गः गोघृ
४, ६, ४; ८, २३; -गंषु गोघृ ४,
५, १२; द्राघृ ४, १, ४.
यजमान, ना^९ - पा ३, २, १२८; पाग
४, ४, ४८; ५, १, १३०; -फं०न
आश्रौ १, ९, १; ५, ३, ९^२××;
शाश्रौ; -नः आश्रौ १, ७,
७××; शाश्रौ; आपश्रौ ९, २,
९^१; हिश्रौ १५, १, ४८^१;
-नम् आश्रौ १, १, १५; ४, ६,
३××; शाश्रौ; आपश्रौ ४, ५,

५^१र्क; ७, १७, २^१र्क; ९, १८,
१^३र्क; बौश्रौ ६, ३० : १२^१र्क;
भाश्रौ ४, ८, २^१र्क; हिश्रौ ४,
३, ५५^१र्क; ६, २, ९^१र्क; १५,
८, ३^१र्क; वैताश्रौ ४, १५^१;
आग्निघृ ३, ९, १ : ५^१र्क; बौपि २,
५, १^१र्क; -नयोः काश्रौ २२,
११, १५; वैश्रौ; -नस्य आश्रौ
१, ३, १; ५, ६, २३××;
शाश्रौ; -फं०ना वैश्रौ ७, ९ : ११;
हिश्रौ २, ५, १९; -नाः आश्रौ
५, ६, १६; ८, १३, १४××;
शाश्रौ; -०नाः द्राश्रौ १४, ३, ८;
लाश्रौ ५, ७, ७; कौस् ७३, १५^१;
-नात् द्राश्रौ १२, २, २३; लाश्रौ
४, १०, २५; -नान् आपश्रौ २१,
२०, २^१र्क; बौश्रौ; -नानाम् शाश्रौ
१०, १५, ८^१र्क; छुस् १, १ : १४;
१७; कप्र १, ७, १४; शुश्र
१, ५४०; -नाभ्याम् शाश्रौ
६, १, ५; -नाय फं०आश्रौ
१, ३, ६××; शाश्रौ; आपश्रौ
४, ६, २^१र्क; हिश्रौ ६, २,
१०^१र्क; वैताश्रौ ६, १^१र्क; -ने
आश्रौ १, १०, ८^१र्क; शाश्रौ;
-नेन शाश्रौ १६, १८, १२; काश्रौ;
-नेभ्यः शाश्रौ ६, १, ५; १०,
१६, ८^१र्क; १८, ८; १९, २^१र्क; काश्रौ
१२, ४, १८^१र्क; -नेषु माशि २४^१र्क;
-नैः काश्रौ १२; ३, ६; १३, २,
२४; बौश्रौ १६, ५ : १०^१र्क.

a) = याग-। b) घा. निर्देशः। c) पूष. = क्रिप. अनुकरण-। d) 'निश<>तेश' इति पाभे.। e) वैप १ द्र.। f) पाठः ? यद्, अत्र इति द्विपदः शोधः (तु. सपा. मै १, ७, १; BC. च)। g) सपा. ऋ १०, ७, १ देव इति पाभे.। h) वैप १, २, ५३९० द्र.। i) विप., नाप. (प्रतिपत्-तिथि-). j) सप्र. आपश्रौ १८, २२, १५ उद्दृष्टे इति पाभे.। k) बस. वा उस. वा। उप. कर्मणि घञ् प्र.। l) पाभे. वैप २, ३खं. यजमानः तैत्रा ३, ७, २, ७ टि. द्र.। m) पाभे. वैप २, ३खं. यजमानम् तैत्रा ३, ७, ६, ५ टि. द्र.। n) पाभे. वैप १, २, ५४१ द्र.। o) 'नः' इति ०. शोधः। p) सपा. हिपि २१ : १६ गौपि. १, १, २७ यजमानमांसम् इति पाभे.। q) यजमानमांसम् इति B.। r) पाभे. वैप १, २, ६४। h द्र.।

यजमानो- नी शांश्रौ

१, १५, ६.

याजमान- पा ४, ४, ४८;

५, १, १३०; -नः बौश्रौ २१,

५ : २५, २६; २५, ३, २२; -नम्

शांश्रौ २, ११, १; १४, ७; ५,

४, १; १३, १४, ३; काश्रौ ४,

१२, १५; १२, १, ९; २५, १३,

४१; आपश्रौ ४, १, १; १६,

१८; २१, १, १९; काठश्रौ २१३;

बौश्रौ १३, १ : ८; २०, १८ :

१६××; भाश्रौ; लाश्रौ ८, ८, ९०;

निसू ९, ९ : १२; आधिगृ १, २,

१ : ८; कागृ २५, ३४; बौगृ

३, १, २१; छुश्र १, १४४;

मीसू ३, ८, १९; -नम्ऽ-नम्

माश्रौ १, ८, ६, २७; -नस्य

बौश्रौ २०, १८ : १६; २३, १ :

५; -नाः आपश्रौ १४, १५, ४;

२१, ३, ३; बौश्रौ २०, १० :

३४××; हिश्रौ; -नात् वैताश्रौ ४,

२३; निसू ३, ८ : १९; -नानि

वैश्रौ २०, २० : ५; वंताश्रौ ४,

२३; -ने आपश्रौ २१, १, १८;

बौश्रौ २०, २ : ५; २३, १९ :

१५; २७, ६ : १५; भाश्रौ;

-नेन बौश्रौ २१, ८ : ३९; वैताश्रौ

४, २३; -नेषु मीसू १२, ४, १;

-नैः आश्रौ २१, ३, १०; बौश्रौ

२०, १० : ३०; ३२××; भाश्रौ

२, ७, ७; हिश्रौ १६, १, ३६.

याजमान-काल- स्ते

भाश्रौ ४, २२, १४.

याजमान-ब्रह्मत्व- स्वे

द्राश्रौ ४, ४, १; लाश्रौ २, ३,

१७.

याजमाना(न-अ)संयुक्त-

-क्तः बौश्रौ २६, १ : ११.

यजमान-कर्मन्- मार्गि अप्राय

३, ५^२.

यजमान-गण- -गे मीसू १२,

४, ३२.

यजमान-गृह्य- -ह्याः काश्रौ ५,

३, ३; ६, २४; १०, १.

यजमान-चमस- -सः काश्रौसं

३० : ९; -सम् वैश्रौ १५, ३१ :

३; हिश्रौ ८, ७, ४३; -सात्

वैश्रौ १५, ३१ : ४.

यजमानचमसो(स-उ)व्यन-

क्रम- -मे वैश्रौ १५, ३१ : ३.

यजमान-त्व- -स्वम् मीसू ३, ७,

३७; १०, ६, ५२.

यजमान-दशपद-> °प(ध>)

द्या- -द्याम् काश्रौ ५, ३, २९.

यजमान-देवता-> °व (त्य>)

त्या- -त्यां छुश्र २, १२०.

यजमान-नर- -नाः जैश्रौका

१३७.

यजमान-नामधेय- -यानि द्राश्रौ

१, ३, १९; लाश्रौ १, ३, १८.

यजमान-निमित्त- -क्तः शांश्रौ

४, ६, ३.

यजमान-पञ्चम- -माः शांश्रौ

१, १२, ६; आपश्रौ.

यजमान-पत्नी-होत्रा (तृ-आ)

शिसू- -शिषः ऋञ २, १०,

१८३.

यजमान-पात्र-> °त्र(त्र-ऋ)

र्जिष-हविस्- -र्विषि काश्रौ २२,

६, ७.

यजमान-पाद-मा(त्र>)त्री-

-त्रीम् काश्रौ १६, ३, २१.

यजमान-पितृ- -तृभ्यः काश्रौ

१०, ५, १२; वैश्रौ १६, १५ : २.

यजमान-पुरोहित- -तो अ५ २९,

१, ५.

यजमान-प्रथम- -मान् वैश्रौ

१६, २६ : ११; हिश्रौ ९, ५,

४४.

यजमान-प्रशंस- -सा ऋञ २,

८, ३१.

यजमान-प्रसङ्ग- -ज्ञात् वृदे ६,

७२.

यजमान-बहुत्व- -स्वेन मीसू १०,

६, ६०.

यजमान-बाहु- -हुम् काश्रौ

१५, ४, १४.

यजमान-ब्राह्मण- -गम् अश्र

९, ६(२).

यजमान-भयंकर- -रम् अप

३०^३, १, ६.

यजमान-भाग- -नः काश्रौ ८,

१, ६; बौश्रौ २०, २४ : ३९××;

वाधूश्रौ २, १५ : १; -गम्

आश्रौ १, १३, ३; शांश्रौ;

-गस्य आपश्रौ ४, १६, ९;

बौश्रौ २५, ६ : ८; भाश्रौ ४,

२२, ३; -गात् माश्रौ १, ३, ३,

१९; -गे बौश्रौ ३, १८ : २३;

२०, २४ : २९; वैश्रौ ६, ११ : ६.

यजमानभाग-प्राशन- -नम्

हिश्रौ ६, ४, १६.

यजमानभाग-ब्रह्मभाग- -नौ

बौश्रौ २४, ३ : ७; ३७ : ५; २५,

६ : ९.

a) स्त्री. डीष् प्र. (पा ४, १, ४८) । b) बप्रा. सत् विप. (मन्त्र- प्रभृ.), नाप. (यजमान-कर्मन्, [याज-
मानाध्वर्यवकारोक्त-] मन्त्र- प्रभृ.) । तस्य धर्म्यमित्याद्यर्थे अण् प्र. । c) °ज्य° इति पाठः इति शोचः
धृ) उप. = पारिवारिक-जन- । e) विप. । प्रमाणे यत् प्र. । f) बस. ।

यजमान-मांस-सम्^a हिप्ति
२१: १६; गौपि १, १, २७.

यजमान-मात्र-त्रा- -त्रम् हिशु
२, ६; -त्राम् वाश्रौ १, ३, १,
४३.

यजमानमात्री- -त्री बौश्रौ
२४, २४: ४; भाश्रौ २, १, २^b;
आपशु: -त्रीम् काश्रौ ८, ५, २६;
आपश्रौ २, १, १^bxx; भाश्रौ.

यजमानमात्री-संमि
(त>)ता- -ता: हिश्रौ ७, ७,
१२.

यजमान-मुख- -खेन बौश्रौ
२४, २४: १०.

यजमानमुख-मात्र- -त्रम्
काश्रौ ६, ४, ४.

यजमान-यज्ञषति-वाद- -दान
माश्रौ ५, २, १३, १.

यजमान-योम- -गात् काश्रौ ९,
१३, २३.

यजमान-लोक- -के बौध ३, ७,
११.

यजमान-लोमन्- -मानि काश्रौ
४, १, १८.

यजमान-वत् वैश्रौ १५, २४: ४;
मीस् ९, ४, १०.

यजमान-वशा- -शा: बौश्रौ १७,
४: १२.

यजमान-वाचन- -नम् द्राश्रौ
५, २, १९; लाश्रौ २, ६, १२;
-नात् द्राश्रौ ६, ३, ६; लाश्रौ २,
११, ३; -ने द्राश्रौ ४, १, ६;
लाश्रौ २, १, ६.

यजमान-वाचिन्- -चि माश्रौ ५,
२, १, ३.

यजमान-व्रत- -तम् बौश्रौ २१,
१: २९.

यजमान-व्रतदुषा- -घाम् काश्रौ
२६, ७, ४३.

यजमान-शब्द- -ब्दम् द्राश्रौ
३, २, ८; लाश्रौ १, १०, ६;
-ब्दात् आश्रौ ५, ३, ७; निस्
५, १३: ९.

यजमान-षष्ठ- -ष्ठा: काश्रौ ८,
२, ६; वैश्रौ ८, १३: १०; १३,
१४: ६.

यजमान-संस्कार- -र: मीस्
११, ३, ३४.

यजमान-संचर- -र: लाश्रौ ४,
१०, २८; -रेण लाश्रौ ३, ७,
११.

यजमान-सदन- -नम् वैश्रौ १५,
२३: १८.

यजमान-सप्तदश- -शा: आपश्रौ
११, १, २; भाश्रौ १२, १, २.

यजमान-समाख्यान- -नात्
मीस् ३, ८, १९^d.

यजमान-संमि (त>)ता- -ता
आपश्रौ ११, १०, २; -ताम् वैश्रौ
१४, १०: ८.

यजमान-सहित- -तम् काश्रौ
७, ८, १७.

यजमाना(न-आ)ग्नि-दैवत्य-
-त्यम् शुअ २, ३४०.

यजमाना(न-आ)ग्न्यु(मि-उ)
पस्थान- -नम् शुअ १, १७७.

यजमाना(न-आ)जुजात- -त:
वैश्रौ १२, १: ६.

यजमाना(न-आ)यत- -तम्
वैश्रौ ११, १: १.

यजमाना(न-आ)यतन- -नम्
आपश्रौ १२, २०, ७; -नात्
बौश्रौ ११, ११: १०; -ने

आपश्रौ १४, २०, ५; १९, १, १४;
२२, २५, ५; २८, २; १०; बौश्रौ.

यजमाना (न-आ)रूढ- -उम्
वैश्रौ १७, १३: ५.

यजमाना(न-आ)यजन- -नात्
(?ना:०) वैताश्रौ १, १८.

यजमाना(न-आ)यैय- -यागि:
काश्रौ ३, २, ८.

यजमाना(न-आ)शिस- -शिषम्
शुअ १, २२६; -शी: शुअ १,
१७०; २, ३८९xx.

यजमाना(न-आ)सन- -ने आश्रौ
६, १०, २८; अप्राय ३, ५.

यजमाना(न-आ)हृत- -तम्
वाश्रौ १, ५, २, १५.

यजमानो(न-उ)क्ति- -क्तौ काश्रौ
१०, ८, ३२.

यजमानो(न-उ)च्छय^f- -यम्
अप २१, ५, ३.

य(ज>)जा^e- -जायै पाठ २, १७,
१०.

यजुस् (:;र,ष्)^h- पाठ २, ११७;
पाग ४, २, ६०ⁱ; -जु: शाश्रौ

६, २, २; काश्रौ २४, ७, १९;
आपश्रौ ४, ३, ५; ११, ६^fxx;
बौश्रौ; हिश्रौ १, १, २२; मैत्रा

७:२९; ३१; ३२; या १, १६^f;
७, १२^f; -जुभि: आश्रौ २,
१३, ८; ऋआपश्रौ १०, ३,

६xx; बौश्रौ; -जुभ्ये: जैग
२, ८: ७; बौध ३, ९, ५^f;
-जुभ्याम् आपश्रौ ३, ८, ५;

a) पाभे. पृ १९९४ p ६. b) परस्परं पाभे. c) बस. d) याजमाने समा^० इति जीसं.

त्रयार्च. e) पाठ: ? यनि. शोध: (तु. c., सप्र. लाश्रौ ५, ३, ६ यजमानस्यामात्या: इति पाभे. च)। f) बस. १.

g) = देवता-विशेष. h) वैप १ द. i) तु. पायम. ३

१६, २२, ७; वाधूश्रौ; -जुषः
 बौश्रौ ७, १७ : ३; माश्रौ; -जुषा
 काश्रौ २५, १, १३; आपश्रौ;
 -जुषाम् शाश्रौ १३, २०, ७;
 अप्राय ३, ४; शंघ २००; शुअ
 १, २; अपं २ : २; चव्यू २:१२;
 ३९; ऋप्रा १६, १०; १३; याशि
 १, ३१; उनिस् ३ : १७; पिं २,
 ६; १६; -जुषि शुप्रा १, १३२;
 पा ६, १, ११७××; -जुषी
 बौश्रौ ६, ६ : २४××; शुअ;
 -**जुषेऽ-जुषे** शाश्रौ ४, ८,
 १; बौश्रौ; -जुषोः बौश्रौ २१,
 १० : १; वाधूश्रौ ४, ११५ : ८;
 -जुषु आमिग १, १, ३ : २९; १;
 शुप्रा ४, ८०; चाअभू ४; -जुःषु
 वैग २, ६ : ६; १; हिग १, ५, १३; १;
 वृदे २, १५३; १५४; -जुषि
 शाश्रौ १५, ११, ६; काश्रौ;
 आग ३, ३, १-३; आमिग २, १,
 ४ : ३; १; चव्यू २ : १०; ३१.
 याजुष^१ -षः बौश्रौ २२, २;
 ३; -षम् शाश्रौ १६, २, ६; बौश्रौ
 २०, २ : ३८; ४०; -षाः मैअ
 २०; -षाणि याशि १, ३९^०;
 -षात् बौश्रौ २०, २ : ३८; ४०;
 -षेषु मैअ २८.
 याजुषी- षी अत्र ८,
 १०(२); ९, ६(१, ६)××; -षीः
 बौश्रौ १०, २० : १४××; -षीम्
 बौश्रौ १०, ५५ : ३-६; -ष्यै
 बौश्रौ २२, २ : २.
 याजुषी-भायत्री-
 -य्यः अत्र ११, ३(२).

याजुष्क- पा ४, २, ६०.
 १यजुर्-अन्त- -न्ते शुअ २, १३.
 २यजुर्-अ (न्त>)न्ता^१- -न्ता
 शुअ १, १३२; ३५५××; -न्ताः
 शुअ २, १८२; -न्ताम् शुअ १,
 १३०; ४६८; २, १०३; -न्ते
 शुअ १, ३२२.
 यजुर्-अन्तम^१- -मानि वैश्रौ
 १८, १ : १३.
 यजुर्-अन्तरय^१- -ये द्राश्रौ १,
 १, २६; लाश्रौ १, १, २५.
 यजुर्-अष्ट(म>)मा^१- -माभिः
 आपश्रौ १६, १, ४; हिश्रौ ११,
 १, ७.
 यजुर्-आदि- -दि भाशि १२९.
 यजुर्-इष्टका- -काः बौश्रौ १९,
 ७ : ४५; -के बौश्रौ १९, ७ : ६;
 १५; २६; ३४.
 यजुर्-उत्पूत, ता- -ताभिः भाश्रौ
 ७, १७, ८; माश्रौ १, ८, १, २५;
 २, २, १, १९; वैश्रौ १६, २३ : ५;
 हिश्रौ ९, ५, ६; १२, ५, १९;
 -तेन हिश्रौ ५, ३, ९.
 यजुर्-उन्न^१- -न्नः या ३, १९.
 यजुर्-ग(र्भ>)र्भा^१- -र्भा शुअ
 २, १९.
 यजुर्-निगद- -देषु आश्रौ ३, २,
 १६.
 यजुर्-म(व्य>)ध्या^१- -ध्या
 शुअ १, ६१५.
 यजुर्-मय- -यः लाश्रौ १, ६,
 ३७; सु २७, ३; शुअ ४, २१९;
 -यम् बौश्रौ १६, ६ : १७; -याः
 मैअ २१.

यजुर्-मान- -न्म्^१ आपश्रौ
 २१, १३, ८; ९; -न्स्य हिश्रौ
 १६, २, १६; -नेन^१ हिश्रौ १६, २,
 १०; ११.
 यजुर्-युक्त- -क्तः आपश्रौ १८,
 ३, १३; वैश्रौ १७, ११ :
 ६××; मौस् १०, ३, ७४^०;
 -क्तम् काश्रौ १४, ३, १८;
 आपश्रौ १५, ६, २१^१; १८, ३,
 १०××; बौश्रौ; -क्तान् काश्रौ
 १४, ४, १२.
 यजुर्-युज्- -युजः बौश्रौ ११, ७;
 २२; ९ : ४; -युजम् बौश्रौ ११,
 ९ : ९.
 यजुर्-विद्^१- -विदम् वैताश्रौ
 ११, २.
 यजुर्-वेद^१- -दः आश्रौ १०, ७,
 २; शाश्रौ १६, २, ६; वाधूश्रौ;
 -दम् कौग १, १६, १६^१; शाग
 १, २४, ८^१; आमिग; -दस्य
 कौग २, ९, ५; भाग ३, १५ :
 ४; चव्यू २ : १××; -दात्
 वैताश्रौ १, ८; -^१दाय आमिग
 १, २, २ : २५; कौग; -दे
 शाश्रौ ३, २१, ३; आमिग २, ४,
 १२ : ११; पाग २, १०, ५; साअ
 १, १९२; -देन आपश्रौ २४, १,
 ६; ९; १८; माश्रौ.
 यजुर्वेदा(द-आ)न्नाय- -ये
 शुअ १, १.
 यजुः-शब्द- -ब्दः मौस् २, १,
 ३५.
 यजुः-श्रुति- -तौ ऋअ ३, १३.
 यजुष्-कृत- -तम् कौग ३, ५, ७;

a) सपा. यजुषि<>यजुर्वेदम् इति पाभे । b) विप. । तस्येदमाद्यर्थे अण् प्र. । c) भाप. ।

d) षस. । e) उप. =त्याग- इति भाष्यम् । f) उप. <>उद् । g) सपा. ँन्म् <>ँन्स्य <> ँनेन इति पाभे. । h) ँके इति जीसं. । i) शोषार्थं वैप १, २५४२ g द्र. । j) उप. <>विद् । (काने) । k) =वेद-विशेष-

-तानाम् बौश्रौ ३, १५: १३.
यञ्-क्रिया- -या काश्रौ १, १०,
१३.
यञ्-ट(<त)सः आश्रौ १,
१२, ३२; आपश्रौ.
यञ्-ट्व(<त्व)- -ट्वम् मैञ्
१५.
यञ्-पात्र- पा ८, ३, ४८.
यञ्-मत्- -मत् या ११, ४३.
यञ्-मती- -ती: काश्रौ १६,
७, १८; १७, ९, १५.
यञ्: (, ष [हिय.]) -पवित्र^०-
-त्रेण आपघ १, २, २; हिय १, १,
३५.
यञ्: (, स [वैध.]) -संहिता- -ताम्
वैग् ६, ८: ९; वैध २, १३, ५.
यञ्: -सहस्र- -स्त्राणि चव्यू २:
१८.
यञ्: -साम (म-क्त) चै- -मर्चाम्
उनिसू ३: १^०.
यञ्: -सुत^०- -तम् या ११, ४.
यञ्- पा ३, ३, ९०; पाग ४, २,
६०; ३, ७३; -फञ् आश्रौ १,
११, १५; शाश्रौ; आपश्रौ १४,
२७, ७६; विध ९८, ५३६^०; -ञ्:
फआश्रौ १, ११, ७; १२, ३४; ३,

१०, ६; १३, १५^०; १४, १०^०xx;
शाश्रौ; आपश्रौ २, १४, १३^०; ३,
१२, १^०फ^०; १४, २६, ५^०फ^०;
बौश्रौ फ^०४, ३: २३^०; माश्रौ ३,
११, १^०फ^०; ७, ५, ६^०फ^०mm; हिश्रौ
२, ६, १६^०फ^०; ४, २, २०^०फ^०;
आमिग १, ५, ४: १८^०फ^०; निघ
३, १७^०फ^०; या ३, १९^०फ^०; ७, ४;
७; -ञम् फआश्रौ १, ३, २३xx;
शाश्रौ १, १५, १७^०फ^०; १०, ९,
१७^०फ^०; काश्रौ २, २, २१^०फ^०;
आपश्रौ ७, १७, २^०फ^०; ९, १६,
४^०; १४, ३०, ४^०फ^०; ३२, ७^०फ^०;
२२, १९, १^०फ^०; हिश्रौ ४, ३,
५५^०फ^०; १५, ७, १९^०फ^०; शांय ४,
१२, ७^०; -ञम्-ञम् शाश्रौ
४, ११, १; काश्रौ ३, ३, १२;
बौश्रौ १, २१: ७; ३, २०: ६; माश्रौ
१, ३, २, ७; -ञस्य आश्रौ १,
६, १^०फ^०; ३, १३, १५xx;
शाश्रौ; आपश्रौ ३, १२, १^०फ^०;
माश्रौ ३, ११, १^०फ^०; हिश्रौ २,
६, ४^०फ^०; १५, ७, ८^०फ^०; आमिग
१, ५, ४: १७^०फ^०; -फञ्-ञ्जा
आश्रौ ५, २०, ६; शाश्रौ;
-ञ्जा: आपश्रौ १३, २२, १^०फ^०;

वाधुश्रौ; हिश्रौ ९, ५, ४३^०फ^०;
-फञ् आपश्रौ ६, २४, ८;
बौश्रौ २, ९: ३^०; माश्रौ; -ञ्जा
शाश्रौ १५, ५, १; द्राश्रौ;
-फञ्जानाम् आश्रौ १, ३, ६xx;
शाश्रौ; उनिसू ४: ४; -फञ्जय
आश्रौ ७, ११, १४; १७; शाश्रौ;
आपश्रौ १२, २२, ९^०फ^०; बौश्रौ
७, १३: २८^०फ^०; हिश्रौ ८, ७,
१९^०फ^०; -ञ्जे फआश्रौ १, ९, १;
१०, ८; २, २०, ४^०फ^०xx; शाश्रौ;
काश्रौ २३, ३, १^०फ^०; माश्रौ १,
६, ३, १८^०फ^०; हिश्रौ १७, ७,
१०^०फ^०; कौय ३, ११, ६^०फ^०; ४,
४, ११^०फ^०; अत्र ७, ९७^०फ^०;
-ञ्जे-ञ्जे वाधुश्रौ ४, ११४: ५;
निसू ३, १०: ४२; -ञ्जेन
फआश्रौ १, ३, २२; २, १६,
७xx; शाश्रौ; आपश्रौ २, १४,
१३^०फ^०; फहिश्रौ २, १, ३^०फ^०; या
१२, ४१^०फ^०; -फञ्जिभि: आश्रौ
७, ११, २४; शाश्रौ १०,
५, ६; -ञ्जेयु आश्रौ ८, ९, २^०फ^०;
फशाश्रौ; -फञ्जे: आश्रौ ३, ८, १;
शाश्रौ; हिश्रौ ३, ६, १५^०फ^०; -ञ्जौ
कौसू ७२, ४४; ७३, १६^०फ^०.

a) = इष्टका-विशेष- । b) = मन्त्र-विशेष- (तै १, २, १, १) । c) 'मर्चि' इति पाठः ? यत्नि. शोधः
(तु. संस्कृतः टि.) । d) उप. <√सु [अभिषवे] । e) वैप १ द्र. । f) तु. पागम. । g) पामे. वैप १,
२५४३ d द्र. । h) = विष्णु- । i) पामे. वैप १, १२७२ s परि. च द्र. । j) पामे. पृ १७५५ a द्र. ।
k) पामे. वैप २, ३ खं. यञ्जः तैत्रा ३, ७, ११, ५ टि. द्र. । l) सपा. हिश्रौ १५, ६, ३६ यञ्जकतुः इति पामे. ।
m) सपा. आपश्रौ ७, ७, २ विष्णुः इति पामे. । n) जुटितः पाठः (तु. सपा. हिश्रौ ४, २, २०) । o) पामे.
वैप २, ३ खं. यञ्जम् शां २६, ६ टि. द्र. । p) सकृत् सपा. शौ ६, ३५, ३ आश्रौ ८, ११, ४ उक्थम् इति पामे. ।
q) सपा. शौ ९, ५, २ यञ्जे इति पामे. । r) पामे. पृ १८८५ j द्र. । s) पामे. वैप २, ३ खं. यञ्जे तां २१, १०,
१९ टि. द्र. । t) सपा. यञ्जम् <> यञ्जे इति पामे. । u) पामे. वैप २, ३ खं. यञ्जस्य तैत्रा ३, ७, ११, ५ टि.
द्र. । v) पामे. वैप १, २३८८ f द्र. । w) पामे. वैप १, २५४९ ० द्र. । x) सपा. मै १, ३, १२ यञ्जे
इति पामे. । y) पक्षे इति BI. । z) पामे. पृ ४४९ ० द्र. । a^१) सपा. शांय ४, १८, ७ च्जे इति
पामे. । b^१) पाठः ? यञ्जस्य इति शोधः । c^१) पामे. पृ १७५६ l द्र. । d^१) पामे. वैप १ परि. यञ्जे
शौ १२, २, ६ टि. द्र. ।

याज्ञ^१- पा ४, ३, ७३; -ज्ञे
अप्राय १, १; या १, १७^०; ६,
२२; -ज्ञेषु या ७, ३.

याज्ञ-द्वैवत- तः या ७,
४०; -ते या १, २०^०.

याज्ञिक-का^०- पा ४, २, ६०;
-कः वाग् ६, ३२; काशु ७, ३४;
-कम् वैश्रौ ११, ९ : ५; आग्निग्;
-कस्य पाग् २, ६, ८; बौध १, २,
१६; -काः बौश्रौप्र ३: १३^१;
जैश्रौका २१५; निसू २, १ : ७;
२८^२; वैग् १, ८ : ८^६; कप्र;
-कात् आग्निग् २, ७, २ : १५;
३, ९, ३ : १; बौग् १, ३, २; भाग्;
-कानाम् बौश्रौ २८, १३ : १४;
वैश्रौ; -कानि बौपि ३, १, २०;
-के आग्निग् २, ४, ९ : १४; अप
२३, ५, २; -केभ्यः शाग् १,
१४, १७^५; -केषु अप २३, ६,
३; -कैः शाश्रौ ७, ४, १३; वैश्रौ.

याज्ञिकी- -की शाश्रौ
१, २, ३; काशु ७, २७; -कीभ्यः
ऋबौग् ३, १, ४; २, ५××.

याज्ञिक-शकल- -लानि
आग्निग् ३, १२, २ : २.

याज्ञिका(क-अ)नुमत-
-तेन अप २३, १४, १.

याज्ञिक्य- पा ४, ३,
१२९.

यज्ञ-कर्मन्- -र्म मीसू ९, १, १;
९; -र्मणि काश्रौ १, ८, १९;
बौश्रौ.

यज्ञकर्मा(र्म-अ)र्थ- -र्थाः
हिश्रौ १, १, १५.

यज्ञ-काण्ड-परिच्छद^१- -द्म्
अप २४, ४, १.

यज्ञ-काम- --०म शाश्रौ १६, २९,
७^१; -मः आपश्रौ ५, ३, ६; ७,
१, १६; माश्रौ; -मस्य शाश्रौ
५, २, २; हिश्रौ २१, २, ५०^१; या
१०, ४५; -माः आपश्रौ २१,
१, १४; निसू २, ३ : १६.

यज्ञ-कात्स्न्य- -त्स्न्यम् हिश्रौ ३,
१, ८.

यज्ञ-काल- -लः लाश्रौ ८, १,
१; निसू २, ५ : १५.

यज्ञकाला(ल-अ)र्थ-सिद्धि-
-द्धये वेज्यो २.

यज्ञ-कीर्ति- -र्तिम् चाथ ३०:९.

यज्ञ-कृत^१- -कृतः बौश्रौ ७,
१०:२; वैश्रौ १५, २३ : २; हिश्रौ
८, ५, २४; -कृताम् नुसू ३,
२ : २.

यज्ञ-कल्पय(पित-अ)र्थ- -र्थम्
अप २३, ११, ४.

यज्ञ-कृत^१- -तवः शाश्रौ १६,
२३, ६; बौश्रौ १४, ४: २४^१××;
वाधूश्रौ; -तुः शाश्रौ १६, २०,
१३; २९, ८^१; बौश्रौ; हिश्रौ

१५, ६, ३६^६; -तुना शाश्रौ १४,
२७-२८, १; १५, १, १०; बौश्रौ;
-तुभिः शाश्रौ १५, १, ३; बौश्रौ;

-तुम् शाश्रौ १०, १४-१८, २××;
आपश्रौ; -तुषु बौश्रौ २७, २ :
१६; भाश्रौ ६, १, ६; -तू शाश्रौ
१४, ३८, १^१; -तूत् शाश्रौ १४,
६९, २; ७५, २××; आपश्रौ;

-तूताम् बौश्रौ ७, ४ : ६^१××;

वाधूश्रौ ३, ९२ : ९; -तोः
बौश्रौ २, ३ : १५; १८, १३ :
५; १३; वाधूश्रौ; -तौ हिश्रौ
१७, २, ५९^१; -त्वोः वैश्रौ
४, १ : २.

यज्ञ-क्रम- -मः वैताश्रौ ४३,
४५

यज्ञ-गत- -तौ काथ २७५ : ८.

यज्ञ-गम्य^३- -०म्य विध २८,
५६.

यज्ञ-गाथा- -था आश्रौ २, १२,
६; ५, ५, २१; ८, १३, ३१; शाश्रौ.

यज्ञ-ज्ञ- -ज्ञाः कप्र १, ५, ३; या
११, १८.

यज्ञ-तति- -तिः शौच ४, १०४.

यज्ञ-तनू^१- -नूः आपश्रौ १२,
१, ३; १४, १७, २; १७, ६, ३;
बौश्रौ; -नूभिः वैताश्रौ १६, ५;
-नूम् वैश्रौ १५, १ : १०; -न्वा
वैश्रौ १५, १ : १०; ११.

यज्ञ-तन्त्र- -न्त्रे वाध १, ३१;
आपध २, ११, १९; हिध २, ४,
३४.

यज्ञ-तपस- -पसोः निसू १०,
८ : २४.

यज्ञ-तुर^३- >याज्ञतुर^३- -रः
शाश्रौ १६, ९, ८; -रे शाश्रौ
१६, ९, १०.

यज्ञदत्त- (>याज्ञदत्तक- पा.)
पाग ४, २, ८०.

यज्ञ-दान-यु(क>)का- -क्ताः
काश्रौ २०, २, ७.

यज्ञ-देवता->त्व(त्य>)स्था-
-स्था शुअ १, ५४९; २, ३०३.

a) तस्येदमाद्यर्थे क्षण प्र.। b) यज्ञे इति कश्चन मूको.। c) कस.। d) द्रस.। ०^० इति केचन मूको.। e) विप., नाप. (याजक-)। तस्येदमाद्यर्थे प्र.। f) व्यप.। g) =याज्ञिकी-। h) पाभे. पृ ११२५ द्र.। i) षस.>वस.। j) वैप १ द्र.। k) पाभे. पृ १९९८ द्र.। l) सपा. आपश्रौ २२, ६, १४ क्रतौ इति पाभे.। m) =विष्णु-। n) वैप २, ३खं. द्र.।

१यज्ञ-दैवत- > ०त-विश्व^a-
 -श्वात् वैष्ट १, १३ : २; ३; वैध
 १, ६, ४; -ऋषेभ्यः वैष्ट १, १५ :
 १४; १७; वैध १, ६, ४.
 २यज्ञ-दैवत^b -तम् वैष्ट ३, १६ :
 ६; शुभ्र १, २१६.
 यज्ञ-नामन्- -म या १, ८;
 -मानि निध ३, १७; या ३, १९.
 यज्ञ-निघन^c - -न विध ९८,
 ५७.
 ऋयज्ञ-नी- -नियम्^d बौश्रौ १,
 ७ : १२; १३ : ३५; -नीः भाश्रौ
 ९, १९, ३; -न्यम् शाश्रौ ४, ८,
 ३^d; -न्योः या ७, ३०.
 ऋयज्ञ-पति^e - पाग ४, १, ८४४;
 -तये शाश्रौ १०, १५, ६;
 आपश्रौ १२, २२, ९^f; बौश्रौ^f
 ७, १३ : २८; ३०-३४; हिश्रौ ८,
 ७, १९^f; अय; -तिः आपश्रौ
 १, १२, ३४; शाश्रौ ४, ११, ४;
 १३, ३^g; काश्रौ ३, ८, २६^g;
 आपश्रौ १, १३, ११××; ४,
 १३, ९^g; ७, १४, २^g; बौश्रौ १,
 ९ : १४; ३, २० : ९^g××; ६ :
 ६^g; ७, ३ : २६^g; भाश्रौ^h ४,
 १९, ८; ७, ११, ३; माश्रौ^h
 १, ४, ३, ५; ८, ३, १२;
 वाश्रौ^h १, १, ४, १४; ६, ४, १९;
 वैश्रौ ७, १२ : ३^h; हिश्रौ^h ४, ३,
 २५; ६, ४, ११; वैताश्रौ ४,
 २१^h; मैश्र १६^h; -तिना
 आपश्रौ १४, २६, १; हिश्रौ १५,
 ६, २९; -तिम् आश्रौ १, ७,

७; १३, ६××; शाश्रौ; -०ते
 बौश्रौ ४, १० : २३^h, ४, ४ : २२^h;
 ८, १८ : ९^h; २० : ९; १७, ३७ :
 १०^h××; भाश्रौ ७, २२, १७^h;
 वैश्रौ; -तेः बौश्रौ १, १५ : २२;
 वाश्रौ १, ६, १, २३; -तौ आश्रौ
 ३, ११, २; शाश्रौ.
 यज्ञपत्नी- -त्नी भाश्रौ
 ९, १९, ३ⁱ.
 याज्ञपत- पा ४, १, ८४.
 यज्ञपति-वत् मीसू १०, ४,
 ५०.
 यज्ञ-पथ- -थम् शाश्रौ १६, १०, ८.
 यज्ञ-पद्- > ०पदी^j -दी अश्र
 १०, १३^j.
 यज्ञ-परिभोजन^k - नम् बौश्रौ
 १२, ५ : ३.
 यज्ञ-परुस्^l -रुः बौश्रौ २९,
 १० : १२^k; -रुषा बौश्रौ १९,
 २ : ११.
 यज्ञ-पा- -पाः वैताश्रौ ३७, २.
 यज्ञ-पात्र- -त्राणाम् अय २३, १,
 १; विध २३, १०; -त्राणि शाश्रौ
 ५, १४, ५; काश्रौ; -त्रेषु लाश्रौ
 ८, ८, ३५; अय २३, १४, २; -त्रैः
 वैश्रौ २१, ९ : ९; लाश्रौ.
 यज्ञपात्रा (त्र-आ)युध-विभू-
 षित- -तः कय ३, २, १६.
 यज्ञ-पारव- > ०श्व-हौत्रक^m-
 -कम् चव्यू २ : ३१.
 यज्ञ-पुच्छⁿ -च्छम् आश्रौ ६,
 ११, २; बौश्रौ २५, २६ : १६;
 २६, ३२ : २१; ३३ : १०; लाश्रौ

९, ५, ४; -च्छानि बौश्रौ २६,
 १२ : १२.
 यज्ञ-पुरुष^o -षः शुभ्र ३, ३;
 ७०; -षम् वैष्ट ४, १२ : ११.
 यज्ञपुरुष-देवता- > ०त्य-
 -त्यः शुभ्र २, ३२४.
 यज्ञ-पूत- -तः विध ८३, १०.
 यज्ञ-प्रत्यवहार- -रेण निस् ८,
 ४ : ३५.
 यज्ञ-प्रत्युक्त- -क्तम् मीसू ९, १,
 ३.
 यज्ञ-प्रयोजन- -नम् मीसू ९, १,
 १९.
 यज्ञ-प्रवा(द>)दा^p -दाः
 निस् २, ११ : ९.
 यज्ञ-प्रसारणी-काल- -ले बौश्रौ
 २८, ११ : ८.
 यज्ञ-प्रायश्चित्त- -त्ते वैष्ट ३, ६ :
 ६.
 ऋयज्ञ-मी^q -मीः आश्रौ २, १२,
 ५; ५, १०, ४; शाश्रौ ७, १०, ९.
 यज्ञ-फल- -लम् वैष्ट ५, ८ : ९;
 अय १३, ५, १; शंघ १२४.
 यज्ञ-बलि-होम-जल-पुष्पा
 (ष्य-२या)घ- -घैः वैध १, ४, ४.
 यज्ञ-भाग- -नाम् या १४, ३०.
 यज्ञभाग-विवर्जित- -ताः
 गौपि २, ४, १८.
 यज्ञभाग-हर^r -०र विध
 ९८, ६६.
 यज्ञ-भाण्ड- -ण्डम् वैष्ट ५, ३ :
 २; -ण्डानि वैष्ट ५, २ : ७.
 यज्ञभूतिक- -कैः आपिष्ट २,

a) वा. उप. उत्तरवर्तिना देव- इत्यनेन संबद्धं द्र. । b) बस. । c) = विष्णु- । d) पाभे.
 वैष्ट १, २५५२ a द्र. । e) वैष १ द्र. । f) सपा. मै १, ३, १२ यज्ञपतौ इति पाभे. । g) पाभे. वैष १,
 ३५३९ h द्र. । h) पाभे. वैष १, २५३९ g द्र. । i) ०दीः इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. शौ १०, १०, ६) *
 जो उप. = [यज्ञोपकरण-] दमादि- । k) = परिशिष्ट-द्वय- । l) वैष २, ३३६. द्र. । m) = विष्णु- शर्षप-विशेष-
 (गुण.) ।

६, ५ : १६^a.
 यज्ञ-श्रेष- -ष. ^b बौश्रौ २७, २ :
 ३; ४ : ५; २९, ४ : १२; वैश्रौ
 २०, २५ : ८; हिश्रौ १५, ८, ३३;
 -षम् बौश्रौ ३, १४ : २.
 यज्ञ-मनस्^c -नाः आश्रौ १,
 १२, ३०.
 यज्ञ-मय- -यम् वाधूश्रौ २,
 १६ : ५.
 यज्ञ-मह^d -हे सु १२, ३.
 यज्ञ-मुख- -खम् ऋश्रौ ३, १७ :
 २; ५, ९×४; निसू ३, १ : ६; -खस्य
 शाश्रौ १६, २०, १४; -खात्
 निसू ३, ३ : २१^f; -खे शाश्रौ
 १४, ३१, ४; बौश्रौ : -^fखेन
 आपश्रौ ५, ६, १; बौश्रौ.
 यज्ञ-मुष^e -^fमुषः बौश्रौ १४,
 २१ : ३; १०×४; बौश्रु ४, ४, १.
 यज्ञ-मूर्ति^f -^gते विघ १, ५२.
 यज्ञ-यशस्^g -^hसम् आपश्रौ ११,
 १, ४; -^hसेन आपश्रौ १२, २९.
 १; १६, १, ६; माश्रौ.
 यज्ञ-याजिन्- -जी विघ ३, ७८.
 यज्ञ-योग- -गेन वैश्रौ ४, ६ :
 १७.
 यज्ञ-योग^h -ⁱग विघ १८,
 ५५.
 यज्ञ-रूप- -षम् बौश्रौ २३,
 १७ : ३.
 यज्ञरूप-स्यूतⁱ -^jतम् काश्रौ
 १५, ५, ११.
 यज्ञ-^kज्ञ-^kर्त्त- -^kर्त्तः अश्रु ८, १०^l.
 यज्ञ-लक्ष(रा)^lणा^l -^mणा अश्रु

२१, २, ५.
 यज्ञ-लोप- -षः हियि २१ : ३ⁿ.
 यज्ञ-वज्र- -ज्रम् वाधूश्रौ ४,
 ६३ : १; ८० : २; -ज्रेण वाधूश्रौ
 ४, ८० : ३.
 यज्ञ-वराह- -हेण विघ १, १२.
 यज्ञ-वलकⁿ -^oपाग ४, १, १०५;
 २, १११; -^oल्काः^o बौश्रौ ३१ :
 ५.
 यज्ञवलक्य- पा ४, १, १०५;
 पावाग ४, २, ६६. -^oक्यः शुश्र
 १, १; -^oक्यम् शंघ ११६ :
 ४२; बौध २, ५, २७^o।
 -^oक्याय बौश्रु ३, ९, ६^o।
 -^oक्येन याशि १, १९; २, १८;
 ११७.
 यज्ञवलक- पा ४, २,
 १११.
 यज्ञवलकीय- -यम् शुश्र
 ४, १६७.
 यज्ञवलक्या(क्य-आ)-
 दि-^oदिभ्यः पावा ४, ३, १०५.
 यज्ञ-वाद^o -^oदान् अष ६८, १,
 १, ३५.
 यज्ञ-वास्तु^o -^oस्तु बौश्रौ १४,
 ११ : १३; २६, ७ : १३; आश्रिण
 २, ५, ६ : २३; गोश्रु^o १, ८, २५;
 २८; द्राश्रु २, १, २७^o; कौश्रु;
 -^oस्तुनि कप्र २, ९, २५; -^oस्तौ
 बौश्रौ १४, ५ : ३६^o.
 यज्ञवास्तु-रूप^o -^oषम् बौश्रौ
 १७, ११ : १३.
 यज्ञवास्त्व(स्तु-अ)न्त- -^oन्ते

कप्र १, ८, १०.
 यज्ञ-वाह^o -^oहानाम् बौश्रौ ४
 ५१ : १; वैध ४, ८, ३.
 यज्ञवाह- -^oह बौश्रौ ४
 ५१ : १; वैध ४, ८, ३.
 यज्ञवाह-वत् बौश्रौ ४
 ५१ : १; वैध ४, ८, ३.
 यज्ञवाहस्^o -^oहसः बौश्रौ ५:
 ७ : १२^o; -^oहसः वैश्रौ २०,
 ३८ : ७; हिश्रौ १५, ८, २५;
 -^oहसम् बौश्रौ ६, ७ : ८^o;
 -^oहसा आपश्रौ २१, ७, १६;
 हिश्रौ १६, ३, ३५; माश्रौ २, ४,
 २, ११; वाश्रौ ३, २, २, १.
 यज्ञ-विघ^o -^oविदः कप्र ३, ६, ३;
 अष ५३, २, ४; -^oविद्विः कप्र
 २, १०, १६.
 यज्ञ-विधि- -^oधिः अष २२, ७, १.
 यज्ञ-विघ्रष्ट^o -^oष्टः आपश्रौ २२,
 ६, १४; बौश्रौ १३, २६ : १^o।
 हिश्रौ १७, २, ५९; २२, ४, ७;
 -^oष्टम् आपश्रौ १४, १४, ११;
 -^oष्टस्य काश्रौ २२, ४, ३२; हिश्रौ
 २२, ४, ७; क्षुसू १, ४ : २६;
 -^oष्टे क्षुसू १, ८ : ३०.
 यज्ञ-विलोप- -^oषः निसू २, ६ :
 ३; गीपि २, ७, ३.
 यज्ञ-विवर्ध(न>)नी-^oनी अष
 १८, १, ७.
 यज्ञ-विवाह- -^oहयोः गोश्रु ४,
 १०, २६^o; द्राश्रु ४, ४, २६^o; गौध
 ५, २०.
 यज्ञ-विष्णु- -^oष्णू अश्रु ३, ४.

a) पाठः ? भूतियज्ञकैः वा भूतयज्ञकैः वेति शोधः संभाव्येत (तु. सप्र. बौश्रु २, १, १५ भूतयज्ञेन इति पाठे.) ।
 b) पाठे. घृ १८८५ ज. द. । c) बस. । d) उप. = उत्सव- । e) वैप १ द. । f) = विष्णु- । g) विप.
 (वस्त्र-) । कर्त्त. रूप. = सुकम्बुवादि-विह- । h) = आपि-विशेष- । i) बहु. < यज्ञवलक्य- । j) परस्परं पाठे. ।
 k) उस. अन्त- । l) = कर्म-विशेष- । m) नाप. । बस. । n) पाठे. वैप १, २५५३ II द. । o) पाठे.
 वैप १, २५५३ II द. । p) उप. < [विद् [ज्ञाने] ।

यज्-वृक्ष-क्ष- अप २२, १, २;
 -जा: अप २३, ६, ५.
 यज्-वृक्ष-ज-वल्कल- लैः
 अप २२, ७, २.
 यज्-वृक्ष-मय- -यैः अप २६,
 ४, ६.
 यज्-वृष- -वृष: या १२, ३३.
 यज्-वेशस- -सम् बौश्रौ १४,
 १९: ३१; १७, ११: १३.
 ?यज्-वोढवे^१ निसू १, ६: २३.
 यज्-शरीर- -रम् बौश्रौ २९, ४:
 २६.
 यज्-शर्मन्- -र्मणः आसिगृ ३,
 ३, १: ३^२; ४-६.
 यज्-शिष्ट- -ष्टम् वैष २, १५, ६.
 यज्-शिष्टा (ष्ट-अ) शान- -नम्
 विध ६७, ४३.
 यज्-शेष- -षम् द्राश्रौ १५, ३,
 २०; लाश्रौ ५, १२, ४.
 यज्-श्रेष्ठ- -ष्ठौ कौसू ७३, १०५.
 यज्-संयोग- -गात् या ९, ११;
 मीसू २, ३, ३; -गे पा ३, २,
 १३२; ४, १, ३३; -गेन या १०,
 २१.
 यज्-संसिद्धि- -द्धिम् गोपृ १, ६,
 १७.
 यज्-संस्था- -स्था: शांयृ १, १,
 १५; -स्थाम् हिश्रौ १७, ३, २३.
 यज्-संकर- -रम् अप ७२, ४, २.
 यज्-समास- -सः निसू १०,
 ८: ७.
 यज्-समास-त्व- -त्वाद् निसू
 १०, ८: १७.
 यज्-ससुद्धि- -द्धये आसिगृ २,

६, ५: ९; बौगृ २, ९, ११; भागृ
 ३, १५: १८; -द्धिम् आश्रौ १०,
 ८, ३; -द्धीः बौश्रौ १, २१: ११;
 बौगृ ४, ९, ६.
 यज्-संपादिन्- -दिनः या ९,
 ३७; -दिनाम् या ७, २७.
 यज्-संपूर्ण-काम- -मः अत्र ७,
 ९७.
 यज्-संप्रदाय- -यम् भाश्रौ ३,
 १५, ६; हिश्रौ १०, ८, ३.
 यज्-संबन्धि(न्>)नी- -नीम्
 अप्राय ६, ८.
 यज्-साधन- -नम्^२ आपश्रौ
 १७, २२, १; हिश्रौ १२, ६, २६^३.
 यज्-सामान्य- -न्यात् निसू ६,
 ७: ४६.
 यज्-सारथि- -थि जैश्रौ २५:
 १; जैश्रौका २०५; द्राश्रौ २, २,
 ४३; लाश्रौ १, ६, ४०.
 यज्-सिद्धि- -द्धये बौश्रौ २१,
 १०: ८; वृदे ५, ५२.
 यज्-सेन- -नस्य चात्र ३९:
 १८.
 यज्-सेन- -नः वाधूश्रौ ४,
 ३७: १; ६.
 यज्-सेन^४->नी- -नी
 आपश्रौ १७, २६, ९५; -नीनाम्
 बौश्रौ २२, ८: १९; -नीम्
 आपश्रौ १७, ४, ९; हिश्रौ १२,
 १, ४०; -न्या वैश्रौ १९, ५: २.
 ?यज्-सोमैक-शौच- -चम् शंघ
 १६७.
 यज्-स्तम्भ- -म्भा: बौश्रौप्र
 १७: १४.

यज्-स्तुति- -ति: शुअ २, ३२१.
 यज्-स्थ- -त्त्वित्ज- -त्विजे
 विध २४, २०.
 यज्-स्थान- -नम् निसू ७, ६:
 ६; -नानि निसू २, ५: १; -ने
 निसू ७, १२: ९; ८, १: १४^५.
 यज्-हन- -हनः आपश्रौ ४, ६,
 ४^६; १४, १०; ७, ७, २; बौश्रौ.
 यज्-हुत्- -हुताम् विध २९,
 १४^६.
 यज्-हेतु-त्व- -त्वात् मीसू ९,
 ४, ५४.
 यजा(ज्-आख्या>)ख्य-
 -ख्येभ्यः पा ५, १, ९५.
 यजा(ज्-अ)गार- -रेषु शांश्रौ ५,
 १४, १; -रैः शांश्रौ १८, २४,
 १४.
 यजा(ज्-अ)गिनसाधन-वादि-
 (न्>)नी- -न्यः शुअ २,
 २९५.
 यजा(ज्-अ)ङ्ग- -ङ्गम् कौसू २,
 २८; या ७, ४; १४, १; -ङ्गस्य
 भाश्रौ ६, १५, ७; -ङ्गानि आश्रौ
 ३, १, १९; काश्रौ; -ङ्गे भाश्रौ १,
 २, ५; पा ७, ३, ६२; मीसू ४, ३,
 १८; -ङ्गेन आपश्रौ २४, २,
 १४; भाश्रौ १, १, १५^७; वाश्रौ;
 -ङ्गेभ्यः बौघ १, ७, ११; -ङ्गेषु
 हिश्रौ ६, १, ३; ६; -ङ्गैः द्राश्रौ
 १, २, २१; लाश्रौ १, २, १५;
 द्रागृ १, १, २७.
 यज्-ज्ञाङ्ग-काम- -मम्
 आपश्रौ २४, ४, ११; बौश्रौ २,
 १: २.

a) वैप १ द्र. b) पाठः ? 'ङ्गम् वो' इति द्विपदः शोधः (तु. M.W.). c) व्यप. d) सप्त. e) पाभे. वैप १, २५५४ ० द्र. f) 'धवम् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपश्रौ.). g) = साम-विशेष- h) निप. (चित्ति-). दृष्टार्थं अण् प्र. i) सपा. हिश्रौ ६, २, १५ यातुधानाः इति पाभे. j) = ऋत्विज्- k) 'अभ्युत्तम् इति जीसं. ।

यज्ञाङ्ग-कार्य- -येँ अप २३,
७, १.

यज्ञाङ्गाङ्गा(ङ्गा-आ)दि- -दौ
आपश्रौ २४, ४, ११; बौश्रौ २,
१ : २.

यज्ञा(ङ्गा-आ)स्मन्^१- -स्मने वैध
३, १०, ४^१.

यज्ञा(ङ्गा-आ)दि- -दिसु वृदे ८,
१३५.

यज्ञा(ङ्गा-आ)धिक^२- -काय
आमिप २, ७, १० : १४.

यज्ञा(ङ्गा-आ)धिगम- -मे बौश्रौ
२४, १३ : २.

यज्ञा(ङ्गा-आ)न्त^३- -न्तेन पाठ १,
१०, २.

यज्ञा(ङ्गा-आ)न्वारम्भ- -रभेण
वैश्रौ १२, १० : ११^०.

यज्ञा(ङ्गा-आ)पचार- -रः भाश्रौ
१, १७, ३.

यज्ञा(ङ्गा-आ)परय (त्ति-आ)र्थ-
-र्थम् वैप ३, २ : ७.

यज्ञा(ङ्गा-आ)भिधान- -नम् मीस्
८, ४, १.

यज्ञा(ङ्गा-आ)भिपरीत- -तः बौश्रौ
२४, ३७ : १७.

✓यज्ञाय > यज्ञायत्- -यते
ऋप्रा ९, २३^१.

यज्ञायज्ञिय^४- -यम् काश्रौ
१०, ७, १; १८, ३, २; आपश्रौ;
बौश्रौ १०, १५ : ७^१; कौश्रु
१, १४, ११^१; -यस्य आपश्रौ
१३, १५, ३; बौश्रौ; -याय
अत्र १५, ३^१; -चे हिश्रौ ३,
४, २२; ३८; १०, ५, १०;
-येन आपश्रौ १३, १५, ५;

बौश्रौ ८, १४ : ३६; -चैः वैश्रौ
१६, १८ : १३.

यज्ञायज्ञिय-स्तोत्र- -त्रम्
वैश्रौ १६, १८ : ९.

यज्ञायज्ञिय-स्थान- -ने
काश्रौ २२, ६, ५.

यज्ञायज्ञिय- -यम् शाश्रौ ६,
३, ८^१; ८, ६, १; १७, १२,
१ × ×; काश्रु; -यस्य आश्रौ ६,
८, १२; ७, ५, ७; ८, ५, २; ६,
२१; शाश्रौ; -यात् क्षुसू १, ९ :
१०; निस् ४, १० : १५;

-क्याय^१ शाश्रौ १७, १३, ५;
द्राश्रौ १०, ३, ६; लाश्रौ ३, ११,
३; -ये आपश्रौ ५, ११, ६; १३,
८; १५, ६; वैश्रौ १, १३ : ९;
लाश्रौ ७, ५, १२; -येन आश्रौ
९, ६, ४; माश्रौ १, ५, ४, १५.

यज्ञायज्ञिय-कारिन्- -री क्षुसू
३, ९ : १; १२.

यज्ञायज्ञिय-गौरीविति-
रथन्तर-वामदेव्य- -न्यानि
निस् ४, ९ : १४.

यज्ञायज्ञिय-चतुर्थ^५- -र्थेषु
निस् ७, ८ : ८.

यज्ञायज्ञिय-धर्म- -मान्
निस् २, ७ : २१.

यज्ञायज्ञिय-निघन^६- -नम्
क्षुसू ३, १० : ४७; ४८; -ने
लाश्रौ ६, १२, ६.

यज्ञायज्ञिय-प्रथमा- -मायाम्
लाश्रौ ६, ८, १२.

यज्ञायज्ञिय-प्रवृत्ति- -तीनि
लाश्रौ ६, ४, १.

यज्ञायज्ञिय-बृहत्- -हती

द्राश्रौ ८, ३, १४; लाश्रौ ४, ७, २.

यज्ञायज्ञिय-भास- -से द्राश्रौ
८, २, ३१; लाश्रौ ४, ६, २२.

यज्ञायज्ञिय-योनि- -नौ
आश्रौ ९, ६, ८.

यज्ञायज्ञिय(य-ऋ)र्च- -यर्क्षु
लाश्रौ ६, ८, १२.

यज्ञायज्ञिय-सामन्- -म
जैश्रौका २३.

यज्ञायज्ञिया(य-अ)नुरूप-
-पः क्षुसू २, ५ : १७; -पे निस्
२, ७ : १२.

यज्ञा(ङ्गा-आ)यतन- -नम् कौसू
१८, ३७.

यज्ञा(ङ्गा-आ)युध^७- -धः बौश्रौ
१८, ३५ : ७; -धानाम् बौश्रौ
२४, २५ : १८^१; -धानि आपश्रौ
९, ११, १३; बौश्रौ; -धैः माश्रौ
५, १, ५, ५९.

यज्ञायुधिन्- -धी निस्
२, ६ : ३५; बौपि १, ७ : २;
हिपि ६ : ८; गौपि २, ७, ३५.

यज्ञा(ङ्गा-आ)रण्य- -ण्ये आपश्रौ
१८, ७, ११^१.

यज्ञा(ङ्गा-आ)र्वि- -र्विस् हिश्रौ
८, १, ५^१.

यज्ञा(ङ्गा-आ)र्थ- -र्थः निस् २, १ :
८; -र्थम् भाश्रौ १०, ९, ५;
हिश्रौ; विध ५१, ६३^१; -कथै
आपश्रौ १०, १५, १६; वैश्रौ १२,
४ : १४; आपध १, १८, २६;
हिध १, ५, ९४; -र्थेन मीस् ९,
१, १९; -र्थेषु विध ५१, ६५.

यज्ञार्थ-तत्त्व-वेत्- -त्तारः
कप्र ३, ७, १०.

a) = विष्णु-। b) विप.। बस.। c) रभेण इति पाठः? अनि. शोधः (तु. संस्कृतः टि.)।

d) वैप १ द.। e) पाप्मे. वैप १, २५५४ h द.। f) पाप्मे. वैप २, ३३. भद्रात्वं ऐवा ५, १, २ टि. द.।

g) 'र्थे' इति जीसं.।

यज्ञार्थे-स्त्व- -स्वात् मीस्
१०,६,३३.
यज्ञार्थे-हेतु- -तुभिः अय
२२,८,३.
यज्ञा(ज्ञ-अ)विक्षेप- > ष्विन्-
-यी माण २,१४,२१^४.
य(ज्ञ>)ज्ञा-साह- -साहम्
ऋप्रा ९,३.
यज्ञिय,या- पा, पावा ५, १,
७१; -यः आश्रौ ३, १४, १३^१;
आपश्रौ; -यम् शांश्रौ ८, २०,
१^१; आपश्रौ; -यस्य बौश्रौ
१३, १४ : ७^१; लाश्रौ; -^१या
आश्रौ ३, १०, ६; आपश्रौ;
-याः शांश्रौ १८, १, २^१;
काश्रौ; -०याः आण ३, ५,
७^१; कौण ३, ७, १०^१; शाण; या
३, ८; -यात् बौपि २, ७, २;
-^१यान् आश्रौ १, ४, ११; शांश्रौ;
-^१यानाम् शांश्रौ १७, ८, ७;
आपश्रौ; या ७, २७^१; ११, १९;
-याम् आपश्रौ ५, १, ४^१; बौश्रौ;
-^१याय शांश्रौ ८, २२, १; बौश्रौ
९, १० : १६; हिश्रौ; -यायाम्
आण ४, ८, ११; -^१यासः शांश्रौ
६, १०, ६; कौण ५, ३, ३१; या ७,
२९; -^१यासः आपश्रौ २४,
१३, ३; बौश्रौ ३, २८ : १४; ६, २;
२५^१; हिश्रौ; -ये ^१आपश्रौ ५,
१२, २; १३, ८; १५, ६××; बौश्रौ;
-येभ्यः शुप्रा ४, ७८^१; -^१यैः
आश्रौ २, १, १७; ४, २, ३^६;
आपश्रौ; बौश्रौ ६, ३० : ११^६;
काण ३०, ३^६.
यज्ञिय-वृक्ष- -क्षस्य वैश्रौ

१२, ९ : १०.
यज्ञियवृक्ष-चमस- -सेषु
गौपि २, ३, १४.
यज्ञियवृक्ष-दण्ड- -ण्डैः
काश्रौ १५, ७, ५.
यज्ञियवृक्ष-शङ्कु- -ङ्कुः
काश्रौ ७, ४, ८.
यज्ञीय- -यस्य द्राश्रौ ५, २, १;
१०, ४, २; वाण ५, ४२.
यज्ञे(ज्ञ-इ)धम- -धमः साअ २,
६९७; या ८, ५.
यज्ञे(ज्ञ-ई)श- -शम् वैश्रौ १७,
६ : ३.
यज्ञे(ज्ञ-ई)श्वर- -राय वैध ३,
१०, ४^१.
यज्ञे(ज्ञ-इ)ष्टि-प्रारम्भ- -म्भे
वैश्रौ २०, ३ : १३.
यज्ञो(ज्ञ-उ)क-वृक्ष- -क्षाणाम्
वैश्रौ ११, १० : १३.
यज्ञो(ज्ञ-उ)खा- -खा या १०,
४५.
यज्ञो(ज्ञ-उ)त्यत्ति- > ष्यु-
(ति-उ)पदेश- -शे मीस् १२,
१, ४२.
यज्ञो(ज्ञ-उ)त्यत्ति- -त्तौ हिश्रौ
३, ८, ४५.
यज्ञो(ज्ञ-उ)न्नव- -न्नैः अय ६२,
४, ४.
यज्ञो(ज्ञ-उ)पकरण- -णम् काश्रौ
२४, ६, ९; -णानि वैश्रौ १५,
२३ : २; लाश्रौ ८, ६, १.
यज्ञोपकरण-शेष- -षान्
लाश्रौ १०, १७, १६.
यज्ञो(ज्ञ-उ)पवीत- -तम् बौश्रौ
३, १० : १४××; भाश्रौ; कौण

२, ८, ७^१××; शाण २, २,
३^१; १३, ७××; आमिण १,
१, १ : २२; ४, १ : १८××; पाण
२, २, ११^३; बौण २, ५, ७^३; १^२;
११, ४८××; भाण १, २ : १२;
३ : १४; २२ : ८; २, ७ : १××;
वाण ५, ८; वैण २, ५ : १४^१;
हिण १, १, २२; गोण १, २,
१; गौपि २, ३, २८; जैण १,
१२ : ७२; द्राण १, १, ४; अण
३७, १६, १; ४३, ३, १; बौध १,
५, ५; वैध २, ९, २; -तस्य
आमिण २, ७, ४ : ५; -तानि
आपश्रौ ८, १५, १; १६, १५;
बौश्रौ; -ते वाध १२, १४; वैध
३, १, १; -तेन पाण २, २, ११^१.
यज्ञोपवीत-क- -कम् काण ७
४६ : ९.
यज्ञोपवीत-प्राचीनावीत-
-तयोः द्राश्रौ १३, १, १९; लाश्रौ
५, २, १.
यज्ञोपवीत-मेखला(ला-अ)
जिन-दण्ड- -ण्डान् वैध २, ११,
६.
यज्ञोपवीत-विधि- -धिम्
आमिण २, ४, ९ : १.
यज्ञोपवीत-शौच- -चे आश्रौ
१, १, १०.
यज्ञोपवीता(त-आ)दि- -दि
अप ३७, १६, १.
यज्ञोपवीतिन्- -तिनः काश्रौ
५, ८, ३२; ९, १६; वैश्रौ; बौपि ३,
४, १७; -तिनम् बौण २, ५, ८;
जैण १, १२ : १२; -तिना आमिण
३, ७, ४ : ३३; आपण; -तिनाम्

a) = देव-विशेष- । b) ष्यः इति मूको । c) वैप १ द्र । d) पाभे. वैप १, २५५५ a द्र ।
e) पाभे. वैप १, २५४० e द्र । f) पाभे. वैप १, २५५६ a परि. च द्र । g) पाभे. वैप १, २०१० i द्र ।
h) मन्त्रे. वस. > वस. । i) उपदेश- = समीपदेश- इति भाष्यम् ? । j) वस. ।

कौस् ८२, १; -ती आश्रौ १, १,
४; २, ६, १३; शाश्रौ; आगृ ३,
२, २; ७, ३; कौय २, १, ३३;
शांगृ १, १, १४; ४, ९, ३; ११, २३;
वैगृ ६६ : १२; १४; आमिगृ
१, १, १ : ३८; २, ३, २ : ४; ४;
९ : २३××; बौगृ २, ८, ३५;
३, ४, ७; १३; बौपि २, ९,
२१; ११, ८; भागृ ३, १४ :
१२; वैगृ ५, ५ : १७; हिगृ १,
२, ६; २, ७, २; १०, ७; हिपि
११ : १; गोगृ १, २, २; जैगृ १,
४ : २१; ६ : ४××; द्रागृ १,
१, ७; कौस् १, ११; ८, १; ६७,
१८××; अप ४४, ३, १; वाध
१०, ३१; शंघ ११०; आपध १,
६, १८; १५, १; २, १९, १२; हिघ
१, २, ४१; ४, ६०; गौध १, ३८.

यज्ञोपवीतिनी-नीम्

आमिगृ १, ६, १ : ११; गोगृ २,
१, १८.

यज्ञोपवीति-विपर्यय-

-यम् काश्रौ ५, ९, २३.

यज्ञोपवीतो(त-उ)दकाचमन-
ने द्राश्रौ १, २, २०; लाश्रौ १,
२, १४; जैगृ १, १ : ५.

यज्ञ^०-(>याज्ञायिन- पा.) पाग
४, १, १५४.

यज्यु^b- पाउ ३, २०.

यज्वन्^b- पा ३, २, १०३; -^०ज्वनः
अप १, ३७, १; अशां ६, ७; ७,
१; -ज्वनाम् या १०, ८; -^०ज्वने
बौपि २, ८, ५; अन्न ४, २१;
-ज्वनोः वृदे ६, ७४; -^०ज्वा
शाश्रौ १२, २०, २; वाध ११,

४८; वृदे ६, ७३; शैशि ६९;
-ज्वानः विध ८, ८^०.

यँयज्व(र>)री^b-रीः आश्रौ ४,
१५, २; शाश्रौ ६, ६, २; ७, १०,
१२.

यष्टव्य-व्यः कप्र २, ९, १५;
-व्यम् आपश्रौ ८, ५, २; बौश्रौ;
-व्याः कप्र ३, ६, ९; अप ७०^३,
१९, २.

यष्टुम् आपश्रौ १४, ३२, ५१; बौश्रौ.

यष्टृ-^०यष्टः^d बौश्रौ १, १५ : १४;
भाश्रौ; -ष्टा जैश्रौका ११३;
-ष्टाम् जैश्रौका ८६; हिपि
१८ : २४^१; -ष्टुः जैश्रौका
१६३; वैताश्रौ ४३, ४७; अप;
-ष्टा जैश्रौका १४.

यष्टृ-तर-रः या ८, ८.

यष्टृ-पत्नी-संयुक्त-क्तः जैश्रौका
६६.

यष्टृ-पद-क्रम^०-माः जैश्रौका
१२२.

याग^१-गाः कागृउ ४४ : २; ५; अप
६७, ६, ६; -गम् कागृउ ४२ :
२१; अप ७०, २, ४; ५; ९, २;
३; -गानाम् अप १९^३, १, ३; -गे
अप २६, १, ५; वाध ४, ७; विध
५९, ११.

याग-ग^०-गम् शंघ ३८८.

याग-स्थ-स्थम् शंघ ३८८;
विध ५०, ७; -स्थस्य विध ३६,
१.

याग-होमा(म-आ)दि-दिषु
शुअ ४, १२७.

यागो(ग-उ)पनयन-योग्यता-
रहित-तान् काश्रौसं ३० : ४.

याजक-पाग २, २, ९; ६, २, १५१;
-कः बौध २, १, ३९; विध ५४,
१६.

याजन-नम् कौगृ ३, ११, ४४;
शांगृ ४, ११, १३; वागृ; वाध २,
१४^१; आपध २, १०, ४; -नात्
अप २, ६, ५.

याजन-प्रतिग्रह-हौ विध २,
११.

याजना(न-अ)ध्यापन-नात्
वाध १, २२; २७, ९; बौध २,
१, ६२; -नाभ्याम् ऋश्र १, १, १.

याजना(न-अ)ध्यापन-प्रतिग्रह-
हाः गौध ७, ४.

याजयितृ-तारः वाधूश्रौ ४, ६४^१;
६; ८.

याजयित्वा काश्रौ २५, ८, १५;
आपश्रौ.

याजयिष्यत्-व्यन् वैश्रौ १२, १ :
११; जैश्रौ १ : १९; आगृ १,
२३, १९; कौस् ४६, ४.

याजि-पाउ ४, १२५.

याजिन्-पा ३, २, ८५.

याज्य, ज्या^b-तैत्रा ११, ३^१; पा
७, ३, ६६; -ज्यः द्राश्रौ १०, १,
८; लाश्रौ १, १, ८; वाध १९,
४४; शंघ ३०३, ३१७; हिघ
१, ५, ११८; -ज्यम् आपश्रौ
२१, १, ५; हिश्रौ १६, १, १५;
शंघ ३०३^२; वृदे ५, ५५; -ज्यया
शाश्रौ ९, २५, २; बौश्रौ; आमिगृ
२, ५, ३; १३; ३५××; बौगृ १, ६,
१०; १०, ४××; -ज्या आश्रौ १,
५, २९××; शाश्रौ; -ज्याः आश्रौ
३, ७, ३; ५, ४, ७; ९, ११, २०;

a) = ऋषि-विशेष-। b) वैप १ द्र.। c) यज्वनः इति जीसं.। d) सपा. काठ १, १२ यष्टा इति
पाप्मे.। e) तु. जैश्रौ ११ : २४-२६। f) = यज्ञ-। g) उप. <√गम्। h) य^० इति पाठः? बनि.
श्लोचः (तु. आपध.).। i) = याज्याऽनुवाक-।

शाश्रौ; -ज्यात् वाच ११, २;
-ज्यानाम् शाश्रौ १, २, २; वैताश्रौ
१९, ७; -ज्याभिः शाश्रौ १०,
७, २; -ज्याभ्यः आश्रौ ६, ४, ९;
-ज्याम् आश्रौ २, १६, १४××;
आपश्रौ; -ज्यायाः आश्रौ १, ५,
६; २, १५, १५; ३, ६, ८; शाश्रौ;
-ज्यायाम् आपश्रौ २४, ४, १८;
हिश्रौ २२, ४, १७; -ज्यायै काश्रौ
६, ८, १६; आपश्रौ २४, १४, ३;
बौश्रौ; -ज्यासु शाश्रौ १, १, ३९;
७, ७, ६; तैप्रा ३, ११; -ज्ये
आश्रौ १, ५, ३४; २, १२, ३××;
शाश्रौ; -ज्यौ हिश्रौ २१, २, ४६.
याज्या(ज्या-आ)दि- दिः आश्रौ
१, ५, ४.
याज्या-निदर्शन- नम् आश्रौ
१, ५, २०.
याज्या(ज्या-अ)नुवाक्या^१- पाप
६, २, ३७; -क्ययोः आश्रौ ४,
१, ११; -क्या वाश्रौ ३, २, ८,
१५^२; वैश्रौ २०, ३: १६; -क्याः
आश्रौ १, ६, १××; काश्रौ; हिश्रौ
२२, ५, २१^३; -क्यानाम् आश्रौ
४, ८, ११; -क्याभिः बौश्रौ १७,
३६; ११××; वैश्रौ; -क्याभ्यः
हिश्रौ १, १, ३६; -क्यासु काश्रौ
१, ८, ९; आपश्रौ २४, २, ६;
मीस् १२, ४, ३; -क्ये आश्रौ १,
५, ३६××; आपश्रौ.
याज्यानुवाक्या-वत्- वन्ति
वाश्रौ १, १, १, ५१.
याज्या(ज्या-अ)न्त- पावा ८,
२, १०७; -न्तः माश्रौ ५, १, १,

११; पा ८, २, ९०; -न्तम्
आश्रौ १, ५, ८; -न्ताः हिश्रौ
२१, २, ३४; -न्ते शाश्रौ १, २,
८; हिश्रौ २१, २, ३३^४; ३६;
-न्तेन शाश्रौ १, १, ४२.
याज्या(ज्या-अ)न्त^d- न्तानि
आश्रौ ५, १०, २१.
याज्या(ज्या-अ)पनय- न्ये मीस्
३, ५, ४५.
याज्या-पुरोनुवाक्या- -क्याः
बौश्रौ १५, १७ : १२××; हिश्रौ;
-क्यानाम् शाश्रौ १, १७, १××;
-क्याभ्याम् बौश्रौ २३, १ : २७;
३२××; -क्यासु बौश्रौ २७,
१२ : १३; २९, २ : १४; -क्ये
शाश्रौ १, १६, ८××; बौश्रौ.
याज्यापुरोनुवाक्या-वत्-
-वन्तः काश्रौ १, २, ६.
याज्यापुरोनुवाक्यावती-
-तीषु हिश्रौ २, २, ८.
याज्यापुरोनुवाक्या-विप-
यास- -से वैश्रौ २१, १२ : ६.
याज्यापुरोनुवाक्या-संप्रैष-
-षः हिश्रौ २, २, ४०; -वौ वैश्रौ
६, ९ : २.
याज्या-पुरोरुच्- -रुचोः मीस्
२, १, १९.
याज्या(ज्या-अ)चित्त- -तौ वृदे
५, ६४.
याज्या-लक्षण- -णानि शाश्रौ
१, १७, १५.
याज्या-वत् शाश्रौ ३, ७, ८; मीस्
२, १, १३.
याज्या-वत्- -वत्सु वाश्रौ १, १,

१, ५०; ५४.
याज्या-वर्जम् आपश्रौ २४, १३,
१२.
याज्या-वषट्कार- -रयोः मीस्
१२, २, ३२.
याज्या-शब्द- -ब्दः मीस् ३, २,
१२.
याज्या-संप्रैष- -षः वैश्रौ ६, ५ :
८; हिश्रौ २, २, २; ८, ६, ७;
२१, २, ३५; -षस्य हिश्रौ ४, ३,
३०; -षात् हिश्रौ २१, १, ७.
याज्या-होम- -मान् वैताश्रौ २५,
२.
याज्यमान- -नः वाधूश्रौ ४, १०१ :
९.
यायजूक- पा ३, २, १६६; -कम्
भाच १, ११ : १०.
यज्- ,जत्- प्रम्. ✓यज् द्र.
यिज्जे जैश्रौका ५३.
यज्ञ- प्रम्. ✓यज् द्र.
यिज्ञापयः^५ बौश्रौप्र ९ : १.
यिज्ञादेतसम्^६ शाश्रौ १२, १९, २.
यिज्ञायज्ञिय- ,ज्ञीय- प्रम्. ✓यज् द्र.
यिज्ञायुरनुसंचर^७- -नान आपश्रौ
१, ६, १; भाश्रौ १, ५, १३; वाश्रौ
१, २, १, ३२; हिश्रौ १, २, ६६.
यिज्ञिय- ,यज्ञीय- प्रम्. ✓यज् द्र.
यराव^८- -ण्वम् लाश्रौ १०, ५, ७; निस्
१०, ३ : ३४;
यण्वा(ण्व-अ)पत्य- -त्ययोः लाश्रौ
७, ३, १३; -स्ये लाश्रौ ७, ३,
११.
✓यत् (बधा.)पाधा.भ्वा. आत्म.प्रत्यये;
सुरा. उभ. निकारोपस्कारयोः,

a) वैप १ द्र. । b) सकृत् पाठछुटितः । उपक्षेपव्येन उत्तरा इत्यनेनाऽन्वितम् एकवचनं द्र. (हु-
काश्रीकरः) । c) याज्या^१ इति लैवि. पाठः ? यनि. शोषः (हु. सा [तै २, ५, १२, १]) । d) बस. । e) भूयान्
पामे. संस्कृतः दि. द्र. । f) शोषः वैप १, १८६५ h, २५४९ b द्र. । g) वैप २, ३३. द्र. ।
h) =साम-विशेष- ।

कियते निघ २, १४^a; या ७, २२^f; २३^f; यतन्ते या ४, १३^f; कियतस्व काश्रौ १०, २, १७; बौश्रौ ८, ६: १७; १०, २९: १३; वैश्रौ; यतेत शंघ २५१; बौध २, ३, ५१; गौध ९, ६५; वृदे २, ११९.

यातयते अप ४८, १९^b; कयातयति आश्रौ ३, ११, २२^d; आपश्रौ ६, २६, ७^d; माश्रौ ३, २, ८^d; अप्राय ४, ३^d; बौध २, ४, ११^d; निघ २, १९^b; या १०, २२^f; यातये बौश्रौ १८, १३: ५.

कियतमान, ना- ना: आमिष्ट ३, ७, १: ८; बौपि १, १७: ८; बौध २, २, ४८; -ने आश्रौ ४, ९, ४; हिपि १७: १७.

यतिष्यमाण- ण: बौश्रौ २३, २: ५; बौध १, ४, १५^f.

यत्- पा ३, ३, ९०; -ल: बौश्रौ ५४: १७; -लम् कौष्ट ३, १२, ३१; वैध १, ११, १४; -लात् बौध १, १०, ३१; विध ८२, ३; वैध; -लेन वैश्रौ १२, १: ३; जैश्रौका.

यत्-तस (:) हिपि १७: ५; अप ५, १, ३; १९^f, ४, १; शंघ.

यत्-वत्- -वान् अप २४, २, २; बौध २, ९, ११.

यातना-> ंना-क्षम^f- -मै: विध ४३, ४४.

यातना-दु:ख- -खम् विध ६४,

४२.

यातना-स्थान- -ने विध २०, ३५.

यत्- √इ द्र.

श्यत्- √यच्छ द्र.

श्यत्, ता^b- -त: कञ्चप ४८, ७०^b; १०४^f; -तायै कौसू ३९, ९^f.

यतम-, यतर- यद्- द्र.

कियत(व्य >) व्या^k- -च्या आपश्रौ १९, २५, ५; बौश्रौ १३, ३४: ४; हिश्रौ २२, ५, १७.

यत्स(:) यद्- द्र.

यत्स्यन्-, यतात्मन्- √यच्छ द्र.

श्यति^f- पाउ ४, ११८; -ति: आश्रौ ६, ३, १^f; शाश्रौ ९, ५, २^f; आमिष्ट; -कतिभि: आश्रौ ४, १२, १०; भाश्रौ ४, १८, ७; हिश्रौ ६, ३, २०; -तिभ्य: ऋपा ७, ४६^f; -तिम् आमिष्ट ३, १०, ४: ५; ३१; -तीन् शाश्रौ १४, ५०, १^d; गौपि २, २, ९; वाध ११, १७; -तीनाम् आमिष्ट ३, १०, ४: २; वाध; -ते: आमिष्ट २, ७, ११: १२; ३, १०, ४: २३.

यति-चान्द्रायण- ण: विध ४७, ७; -णम् बौध ४, ५, १९.

यति-धर्मेन्- -र्मा शंघ १३३.

यति-पात्र- -त्राणाम् शंघ १६७.

यति-संस्कार- -रम् आमिष्ट ३, १०, ४: ३.

श्यतिसमयपात्र- -त्राणाम् शंघ १६७.

यति-सांतपन^o- -नम् शंघ ४४५.

यत्(ति-अ)तिथि-व्रतिन्- -तिभ्य:

बौध ३, ३, ५-७.

श्यति- यद्- द्र.

यती- √इ द्र.

यत्कर- यद्- द्र.

यत्र यद्- द्र.

श्यत्रस्यते अप ४८, १५.

श्यत्रास्मन्नत: अप ४८, ११६^f.

यत्वा √यच्छ द्र.

यथा प्रच. यद्- द्र.

यद्^k-> श्य, या- कथ: आश्रौ १, ३,

२२; ६, १^f; शाश्रौ; यम्

कआश्रौ १, ३, २२; ४, ६, ३; ५,

५, १९; शाश्रौ; आमिष्ट ३, १०,

५: १०^f; यमस्यम् बौश्रौ

२५, ३०: ५; अप ३०^f, २, ५;

७०, १२, ६; बौध २, ६, १०^f;

यथा आपश्रौ २०, १६, २०;

हिश्रौ; ययो: माश्रौ २, ५, २, २५;

क्षुम् ३, १: ८; अप्राय ६, १^f;

या ९, ४२^f; यस्मात् आश्रौ

३, ११, १; वैश्रौ; अप्राय ५,

६^f; यस्मिन् आश्रौ २, १,

१४; ३, १३, ११; आपश्रौ;

यस्मिन्स्यस्मिन् विध ८, ४०;

आज्यो ११, ६; यस्मै आश्रौ २,

१०, ९^f; लाश्रौ ८, ६, २८; पाठ;

यस्य कआश्रौ २, ११, १४; ३, ८,

१^f; आपश्रौ; पावा १, १, ४४x x;

यस्यस्यस्य शांठ २, ७, १८; अप

७०, ३, ३; यस्या: आपश्रौ ४,

१३, ४^f; वाश्रौ १, ४, १०;

वैश्रौ; यस्याम् आपश्रौ १, १३,

४^f; हिश्रौ; यस्याम्स्यस्याम्

a) धा. गतौ वृत्ति: । b) धा. हिंसायां वृत्ति: । c) परस्परं पामे. । d) पामे. वैप १, २५५७ h द्र. । e) तु. मैसू. । f) विप. । उस. । g) वप्रा. । व्यु. ? । h) पुरातन-नामन्- । i) = वज्र- । j) = ओषधि-विशेष- । k) वैप १ द्र. । l) वैप १, २५५८ d द्र. । m) पामे. वैप १, २५५८ h द्र. । n) वैप १, २५५८ k द्र. । o) = व्रत-विशेष- । p) पाठ: ? भयम् इति शोध: (तु. सपा. आपश्रौ ९, ११, २३) । q) सकृत् सपा- ऋ ५, ७, ४ आपश्रौ १४, २९, ३ सु समा इति पामे. ।

अप ६४, २, ६; यस्यै कौट १, १२, ६^१; शांठ १, ५, ९; बौट १, २, ६१; छुअ १, ५१७^१; यस्यैऽयस्यै आपश्रौ १४, १२, ६^१; बौश्रौ २७, ३: ९; हिश्रौ १०, ६, ६^१; या आश्रौ ५, २०, ६^१; शांश्रौ ४, ५, १^०; ६, १०, ८^१; आपश्रौ; माश्रौ २, ४, १, २४^१; या: आश्रौ १, ५, ३१; ११, ८^१; शांश्रौ; यान् आश्रौ १, ८, ७^२; वाश्रौ १, ७, २, २९; यानि ऋआश्रौ २, ९, ९; १०, १६; आपश्रौ; ऋयामि: आश्रौ २, २०, ४; ३, ८, १; आपश्रौ ५, २, १; वृदे १, ८६; या १०, १९; याभ्याम् वाश्रौ १, ६, ४, ३४; लाश्रौ ८, ६, ११; बौपि १, ३: ९^१; याम् आश्रौ १, १२, ४; शांश्रौ; याम्ऽयाम् बौश्रौ २६, २९: १८; ऋप्रा १७, २४; यासाम् आपश्रौ ४, ६, १^१; बौश्रौ; यासु द्राश्रौ ३, १, १६; लाश्रौ; ये आश्रौ १, ३, १५; ७, ७^१; २, १९, १९; शांश्रौ; कौट ३, ४, ५^१; बौट १, ५, ५^१; माट १, १३, ४^१; येऽये बौश्रौ २७, ११: १२; बौट; येन, > ना शांश्रौ १, १, ८; ६, ३^१; आपश्रौ; पाग १, १, ३०^६; येनऽयेन आपश्रौ ५, १६, २; हिश्रौ

२, ८, १३; माट १, १३, १८^१; अप दरे, ५, २; ६८, १, ५१; येभि: आपमं २, ३, २; काट; येभ्य: काठश्रौ १५; माश्रौ १, १, २, २१; येषाम् आश्रौ ३, ४, १३; आपश्रौ; येषु वाधूश्रौ ३, १०२: ३; द्राश्रौ; शांठ ३, ७, २^१; यै: द्राश्रौ २, ३, ११; ऋप्र; यौ शांश्रौ ४, २०, १^१; आपश्रौ १, ५, १; हिश्रौ; आपमं २, २१, १७^१; पाट ३, १४, ६^१.

यतस् (:) ऋआश्रौ ३, १०, ३१; १४, १०; ७, ४, ४; १०, ९, ५; शांश्रौ; यतऽयतः कौसू ४, ६; अप ५८^२, ४, १९.

यत-उच्चार^१ - रम् बौश्रौ १०, ३०: १३; वैश्रौ १८, १७: १५.

यतो-बृहतीक^१ - ऋ: शांश्रौ ११, १२, १.

यत्र > न्ना आश्रौ १, १२, १०; ३४^१; शांश्रौ; लाश्रौ २, १०, १३^१; पा ६, १, १६१; ८, १, ३०; यत्रऽयत्र ऋआपश्रौ ५, १३, ४; २२, १३, ३; बौश्रौ.

यत्र-स्थ- स्थम् अप ७०, ६, ५.

यथा, यथो (था-उ)^१ आश्रौ २, १३, ७^१; १४, १५; ६, २, ६; ७, ४, ४^२; शांश्रौ; काश्रौ १३, ३,

२६^१; आपश्रौ २१, २०, ३^१; वाश्रौ ३, २, ५, ४३^१; हिश्रौ १६, ६, ४१^१; आपमं २, १, ३^१; आट १, १३, ६^१; आमिग ३, ५, २: ८^१; आपष २, ४, ६^१; या १, १४.

यथ (<था)-ऋत्विज्^० - त्विजौ कौसू ७३, ४; १३.

यथ (<था)-ऋवि^० - वि आश्रौ ३, २, ७^१; आमिग २, २, ५: १७^१.

यथ (था-ऋ)वै^० - वैम् लाश्रौ ७, ११, ९.

यथ (था-ऋ)तु^१ - तु ऋआपश्रौ ६, ३१, १४; १०, २५, १^१; बौश्रौ; हिश्रौ ७, २, ४७^१.

यथर्तु-ज-जा - जा: काश्रौ २२, ७, १५; आपश्रौ २२, ९, ७; हिश्रौ १७, ४, २.

यथ (था-ऋ)र्वि^१ - र्वि काश्रौ ४, ९, १; आपश्रौ; हिग २, ६, ११^१.

यथर्वा (र्वि-आ)धान^१ - नम् हिश्रौ ३, ४, ५; -नानि आपश्रौ ५, ११, ७; -नेन आपश्रौ ५, ११, ६; १३, ८; १५, ६; १७, १; भाश्रौ.

यथ (था-ऋ)र्वि-पक्ष^० - ऋ ऋअ ३, १२.

- a) सपा. शांठ १, १९, ६ हिग १, २५, १ यस्य (क्रिप. L <✓यसJ) इति, आपमं १, १२, ८ व्यस्य इति च पाठे. । b) या: इति पाठः? यनि. शोच: । c) पाठे. वैप १, १४४७ a द्र. । d) पाठः? शोधा^१ वृ १९१५ वृ द्र. । e) या (यानि) इति शोच: । f) सपा. तै १, ७, ७, २ यौ इति पाठे. । g) तु. पागम. । h) बस. । i) वैप १ द्र. । j) सपा. यथा <> यदा इति पाठे. । k) सपा. शौ ६, ६८, ३ विविष्ट: पाठे. । l) तु. जीसं. । m) पाठे. वैप १, २५६८ W द्र. । n) सपा. यथा देवताभ्य: <> यथादेवतम् इति पाठे. । o) विप. (पूर्णहोम-, वैश्वदेव-) । बस. पूष. हस्व: (पा ६, १, १२८) । p) अस. पूष. हस्व. । q) यथा इति BI. । r) सपा. यथाऋवि <> यथर्वि इति पाठे. । s) अस. । t) पाठे. वैप १, २५६९ X द्र. । u) = मन्त्रसमूहविशेष- । बस. उप. भाप., यदा उस- उप. करणे <आ/वा द्र. ।

यथा-कथा-च^a या १०,
१६.
यथाकथाच- पा ५, १,
१८.
यथा-कनिष्ठ^b- -ष्टम् पाण्ड ३,
२, ६.
यथा-कर्मन्^b- -र्म आश्रौ १,
१२, १३; शाश्रौ.
यथा-कर्म-संयोग^b- -गम्
वाश्रौ १, १, २, १५.
यथा-काण्ड^b- -ण्डम् अपं
२: ६.
यथा-काम^b- पाण ५, १,
१२४; -मम् काश्रौ २२, ५, १;
भाश्रौ ७, १९, १; माश्रौ.
यथाकाम्य^c- पा ५,
१, १२४; -म्यम् शाश्रौ २, १,
६; १०, १३, ५; -म्यात् निसू २,
४: २१; -म्ये पावा ८, १,
६६^d.
यथाकामी- -मी
शाश्रौ १, ३, ७; ६, ६, १८; काश्रौ;
द्राश्रौ २, २, २०^d.
यथाकाम-कल्प-तर-
-रा: छसू ३, १४: १७.
यथाकाम-कल्प्य-त्व-
-त्वात् निसू ५, ५: २२.
यथाकाम-प्रयोग- -गः
बौश्रौ १७, ४७: ११.
यथाकामी- -मी
वाश्रौ १, २, २, ३७; ५, २, ६; ४९;
६, ६, ६; लाश्रौ २, ५, १६^d;
१०, १, ६; पाण्ड.
यथा-काम- -मः बौश्रौ २,

१: १६; -मा: वाधूश्रौ ४, १९:
९; १०.
यथा-काय^b- -यम् काश्रौ
६, १, ३२.
यथा-कारम् पा ३, ४, २८.
यथा-कार्य^b- -यम् अप्राय
३, ६.
यथा-काल^b- -लम् काश्रौ
४, १२, १५; १६, ७, ७४४;
आपश्रौ; -ले शंघ ३१२.
यथाकाल-विधान- -नात्
पावा ३, ४, १.
यथाकालो(ल-उ)पपात-
-ते काश्रौ २५, २, २३.
यथा-कुल^b- -लम् शंघ २७.
यथा-कुलधर्म^b- -र्मम् आण्ड
१, १७, १; १८; काण्ड ४०, ८;
काण्ड ४४: २१; कौसू ८२, ३५.
यथा-कृत^b- -तम् काश्रौ १६,
४, १०; निसू ५, १: १७; बौण्ड
४, ५, ३; विघ ६, ४२.
यथा-कृत्य^b- -त्यम् वाधूश्रौ
३, १०६: ६.
यथा-कृष्ट^b- -ष्टम् काश्रौ १७,
३, ३.
यथा-कृत^b- -तु बौश्रौ १४,
४: ३४; २१, १७: ३; २२, ११:
२४.
यथा-क्रम^b- -मम् काश्रौसं
३: ६; वैश्रौ १५, १२: १४४;
आमिण्ड; मीसू ११, १, १६^b;
-मेण बौश्रौ २९, २: ८; आमिण्ड
२, ५, १: १४; वैण्ड ४, १४:
२; अप २६, ५, ७.

यथा-कौश^b- -शम् काश्रौ
२२, ३, ३७.
यथा(धा-अ)क्षर^b- -रम् अप
४१, २, ६; अत्र १०, ६; ११,
३(२).
यथा-खात^b- -तम् काश्रौ ८,
५, ८; १२; ८, १८; वैश्रौ १४,
८: १०; आपण्ड १७, ५.
यथा-ख्यात^b- -तम् बौश्रौ
६, ६: ५; ६.
यथा(धा-आ)गत^b- -तम्
बौश्रौ २१, १३: ८; जैश्रौका ३०;
१७५; अप ३०^d, २, ८.
यथा(धा-आ)गाम^b- -मम्
आपण्ड १, १७, १३; २, ५, १८;
हिघ १, ५, ४५; २, १, १००.
यथा(धा-आ)गम-प्रसा-श्रुति-
-स्मृति-विभव- -वात्^b शाण्ड ६,
६, १६.
यथा-गव^b- -वम् बौश्रौ १०,
२५: १०; आमिण्ड ३, ८, २: १४;
बौषि १, १५: २५; २२: १४.
यथा-नात्र^b- -त्रम् कौसू ८१,
२६.
यथा-गीत^b- -तम् द्राश्रौ
२, १, २७; लाश्रौ २, ५, २१.
यथा-गुण^b- -णम् आपण्ड २,
२५, ९; हिघ २, ५, १८८.
यथा-गृह^b- -हम् बौश्रौ १८,
२५: ४.
यथा-गृहीत^b- -तम् आश्रौ
३, ६, २७; काश्रौ ९, ७, ८; भाश्रौ;
-तेन आपश्रौ ३, ८, १०; भाश्रौ
३, ७, ११.

a) अनादरे निपातसमाहारः। b) अस.। c) प्यञ्जि प्र. वृद्धिः (पा ७, २, ११७)। d) सपा.

याथा^e<>यथा^f इति पाभे.। e) वैतु. पाका. य^g इति ?। f) उप. = २काय-। g) वैप १ द्र.।
h) यथाप्राप्तम् इति जीसं. प्रच.। i) उप. = २कौश-। j) उप. = शाब-। k) वा. क्विवि.। l) अस.
समासान्तपृ टच् प्र. (तु. भायती-गव- [पा २, १, १७])।

२यथा-गृहीत^b- -तस्य पावा
६, १, १३; ७, १, ३३.

यथा-गोत्र^b- -त्रम् बौश्रौ २,
१६; ४९; १७: ५; ४३.

यथा-गोत्र-कुल-कल्प^c-
-स्पम् गोय २, ९, २३; द्राय २,
३, ३०.

यथा(था-अ)गिन- -गिन
काश्रौ १६, ८, २१; काशु ६, १.

यथा(था-आ)गनीध्रभाग^b-
-गम् वाश्रौ १, ६, ७, २०.

यथा-ग्रहण^b- -णम् आश्रौ ५,
१०, २०.

यथा(था-आ)ङ्ग^b- -ङ्गम् शाश्रौ
१७, १२, ६; काश्रौ २१, ४, ८;
आपश्रौ.

यथा-चमस^b- -सम् शाश्रौ
८, २, १३; ९, २; आपश्रौ १३,
१७, ९; काठश्रौ.

यथा(था-आ)चरित^b- -त्तम्
काय ४७, ४; ५०, २.

यथा(था-आ)चार^b- -रम्
काय ५०, ३; ५१, १३.

यथा-चित्ति^b- -ति काश्रौ
१८, ४, १५.

यथा-चोदित^b- -त्तम् आश्रौ
१, ५, २४; शाश्रौ २, ५, १७;
आपश्रौ १४, ५, २; बौश्रौ २९,
२: १०.

यथा-छन्दस्^b- -न्दः वाश्रौ
३, २, ४३; अशा १८, ३.

यथा-छन्दस्^d- -सम् शाश्रौ
९, २०, ५.

यथा-जात^b- -तम् जैश्रौ ७:
६.

यथा-जाति^b- -ति द्राश्रौ ५,

३, १६; लाश्रौ २, ७, १५; ६, ५,
२५; ८, २, १७; १८.

यथा-ज्ञात^b- -ते मीसू २, ४,
२३.

यथा-ज्ञान^b- -नम् गोय ३,
९, १९; कप्र २, १०, ५.

यथा-ज्येष्ठ^b- -ष्टम् बौश्रौ
२४, १२: ११; द्राश्रौ.

यथा-ज्यैष्ठ्य^b- -ष्टयम् कप्र
२, १०, ५.

यथा-तत्त्व^b- -त्वम् वाघ
१६, ३२.

यथा-त(था>)थ^b- पाग ५,
१, १२४^o; -थम् आपश्रौ ३,
१२, १^३५; भाश्रौ ३, ११, १^३५;
द्विश्रौ.

१याथातथ्य- पा ५, १,
१२४; -थ्यात् निसू ५, ७:
२६; -थ्येन वृदे १, ४; शुभ्र ४,
१६०.

यथा-तथा (> २याथा-
तथ्य- पा.) अश्र ११, ३ (२);
पाग ५, १, १२४^o.

यथा-तृप्ति^b- -त्ति वैय ४,
४: १५.

यथा-दत्त^b- -त्तम् बौश्रौ
११, ९: १०; विघ ६, १.

यथा-दधिभक्ष^b- -क्षम्
शाश्रौ ८, ९, ९.

यथा-दिक्ष^b- -दिक् आगृ २,
८, ९; अप ५८, १, १२.

यथा-दिश^d- -शाम् आमिगृ
१, ७, २: ५; काय २३, ४;
वैय.

यथा(था-आ)दिष्ट^b- -ष्टम्
आपश्रौ १९, १८, ३; २२, १, २;

वाश्रौ.

यथा-दृष्ट^b- -ष्टम् द्विश्रौ
१६, ७, २३; बौश्रौ १, १०, २९;
मीसू २, ३, १५.

१यथा-देवत^b- -तम् शाश्रौ
४, ९, ६; १४, १०, १४; काश्रौ;
द्विघ २, १, ५९^f.

२यथा-देव(त>)ता^g-
-तया वायु १, २५.

१यथा-देश^b- -शम् शाश्रौ
१३, २४, १५; काश्रौ ४, १५, ३;
२०, ५, १५; २४, ६, २; जैश्रौका
३३; लाश्रौ १०, १५, १०.

२यथा(था-आ)देश^b- -शम्
जैश्रौ १८: ११; आगृ १, २३,
१८^५; गोय १, १, ४.

यथा-दैवत^b- -त्तम् द्विश्रौ ८,
६, २८; १४, ५, १७; जैश्रौ.

यथा-द्वय^g- -व्ये काश्रौ
२२, २, २२.

यथा-धर्म^b- -र्मम् बौश्रौ
११: १५; १२: १२; १३: ७.
यथा-धवित्र^b- -त्रम् बौश्रौ
२३, ६: २.

यथा(था-आ)धान^b- -नम्
वैश्रौ ७, ५: ९.

यथा(था-आ)धिकरण^b- -णम्
बौश्रौ २०, ८: २१; २४, २: १;
भाश्रौ ५, १४, १३; ८, ६,
१६.

यथा(था-आ)धिकार^b- -रम्
निसू २, १०: २४; गौघ ११,
२४; पावा ४, २, ६६; ४, २०;
मीसू ७, १, १; ४, ८.

यथा-धिगिण्य^b- -यम्
आपश्रौ २१, १२, ६; द्विश्रौ १०,

a) कस.। b) अस.। c) अस.>दस.>षस.। d) वैप १ द.। e) तु. पागम.।

था इति मारुडा.। f) पाप्मे. पृ २००८ n द.। g) बस.।

४, ५७; १६, ५, २.

यथा-धिष्ण्य^१ - ण्यम् शांश्रौ

५, १९, १; वैताश्रौ १८, १८.

१ यथा (था-अ) धीत^२ - तम्

द्राश्रौ ६, ३, १८; ९, ३, १७;

१५, ४, ९; ११; लाश्रौ.

२ यथा (था-अ) धीत^३ - तानि

जैश्रौ २६: ९.

१ यथा-धुर^४ - रम् माश्रौ २,

३, २, २२; हिश्रौ ८, १, ७६.

यथा (था-अ) ध्याय^५ - यम्

आमिष्ट १, २, १: ७; २: ४२; हिष्ट

२, १८, ७; २०, ९; आपध १,

११, २३; हिष्ट १, ३, ७३.

यथा-नामन्^६ - म वैश्रौ १३,

११: ६.

यथा-ना(मन् >) मा^७ - मा

आपश्रौ १५, ९, ४; भाश्रौ ११,

९, ५; हिश्रौ २४, ४, २; आमिष्ट

१, १, ३: ५; हिष्ट १, ५, ५.

यथा-निपात^८ - तम् ऋश्र २,

१०, १२४.

यथा-निमित्त^९ - तम् वाष्ट

१४, ४.

१ यथा-निरुप्त^{१०} - प्तम् बौश्रौ

२०, ६: ९; आष्ट १, १०, ७;

कौसू ८८, ३.

२ यथा-निरुप्त^{११} - स्तान्

अप्राय २, २.

यथा-निर्भेद^{१२} - दम् बौश्रौ

२२, १८: ९.

यथा-निवेश^{१३} - शम् मीसू

१०, ५, ९.

यथा-निसान्त^{१४} - न्तम्

आश्रौ ५, ९, १३; ७, १२, १३;

१४; ८, ३, २२.

यथा-निःसृष्ट^{१५} - सम् शांश्रौ

७, १४, १२.

यथा (था-अ) लुकूल-लम्

कौष्ट १, २०, ५.

यथा (था-अ) लुपूर्व^{१६} - र्वम्

माशि १, १.

यथालुपूर्व-करण- गम्

बौष्ट ४, ११, ३.

यथा (था-अ) लुपूर्व्य-करण-

गम् काश्रौ २५, ५, १८; १०, २३.

यथा (था-अ) लुरुप^{१७} - पम्

शंघ २५१.

यथा (था-अ) लूक^{१८} - कम् अप

६८, १, ५४.

यथा (था-अ) न्तर^{१९} - रम्

आश्रौ ५, ३, २४; ८, ७, १५;

कौसू ८, १०; ऋप्रा १, ५६.

याथान्तर्य- र्यात्

निसू ८, १०: ३३; १३: २८.

यथान्तर-प्रत्यासत्ति-

-त्ति: निसू २, १३: ४४.

यथा-न्याय^{२०} - यम् काश्रौ

१४, २, २२; बौश्रौ २, २: २०;

वैश्रौ.

१ यथा-न्युस^{२१} - सम् काश्रौ

९, ७, ५; १०, ६, १४; बौश्रौ.

२ यथा-न्युस^{२२} - सै: बौश्रौ

७, ८: २७.

यथा (था-अ) न्ववेत^{२३} - तम्

भाश्रौ ३, १८, १०; ४, २२, ११.

यथा-पद^{२४} - दम् ऋप्रा ११,२३; ३३; उसू ७, १९^{२५}; ८, ३१.यथापद-लोम^{२६} - भा:

माश्रौ २, २, ४, १२.

यथापद-संधि^{२७} - धि:

उसू ७, १८.

यथा-परिदत्त^{२८} - तम् कौष्ट२, ७, ३१^{२९}.यथा-परिधित^{३०} - तम् आपश्रौ

२, १३, १; माश्रौ १, ३, १, ८;

४, २.

यथा-परिमाण^{३१} - गम् हिश्रु

१, ३९.

यथा-परिलिखित^{३२} - तम्

काश्रौ ८, ५, ७.

यथा-परीत्त^{३३} - त्तम् शांष्ट२, १२, १८^{३४}.यथा-परह^{३५} - रू कौसू ६४,

१०; ८५, २५; ८६, ८.

यथा-पर्युक्षित^{३६} - तम् काश्रौ

४, १४, ३०.

यथा-पर्वन्^{३७} - र्वं शांश्रौ १४,

१०, ४.

यथा-पिण्ड^{३८} - ण्डम् द्राष्ट ३,५, २०; २८^{३९}.यथा-पु (रा >) र^{४०} - रम्आपश्रौ ९, २०, ७^{४१}; जैश्रौका

२०४; कौसू ७२, ४३; आपध २,

२७, १; हिष्ट २, ५, २२०.

यथा-पुरुष^{४२} - षम् हिश्रौ ११,

७, २७.

यथा-पुरोडाश^{४३} - शम् हिष्ट

२, १४, ४.

यथा-पूर्व^{४४} - र्वम् काश्रौ १,

८, ३२; २, १, ७xx; आपश्रौ.

यथा-पृष्ठ^{४५} - ष्टम् निसू ५,

९: २४.

यथा-पृष्ठ^{४६} - ष्टयम् शांश्रौ

१४, ८, ७.

a) अस. । b) मलो. कस. । c) वैप १ द्र. । d) पाभे. वैप १, २५७० & द्र. । e) वस. ।

f) = यथापठित- । g) तु. Pertsch; वैतु. कालिसं. उत्तरेण समस्तम् ष्टप्रत्या इति ? । h) परस्परं पाभे. ।

i) वैप २, ३खं. द्र. ।

यथा-प्रकाश^a - शम् शंघ
११६: ७१.
यथा-प्रकृति^a - ति शांश्रौ
११, १३, ४; काश्रौ ८, २, २६;
आपश्रौ २, ७, ५; भाश्रौ.
यथा-प्रकृति - ?तिम्^b
बौश्रौ २३, ११: ३; १८: १६.
यथा-प्रदान^a - नम् मीसू ५,
४, ३.
यथा-प्रदेश^a - शम् वैश्रौ
१२, १५: १९.
यथा-प्रधान^a - नम् शांघ ६,
३, २; मीसू ५, १, १७; १०, ८, ५३.
यथा-प्रपन्न^a - नम् शांश्रौ ५,
१८, १२; २०, ७; १७, १२, ४;
बौश्रौ.
यथा-प्रयोग^a - गम् बौश्रौ
२१, १: ५; तैप्रा १८, ७.^c
यथा-प्रवृत्त^a - त्तम् काश्रौ
९, ८, १५.
यथा-प्रवेश - शम् वैगृ ५,
२: १७.
यथा-प्रस्त^a - सम् आश्रौ
६, १२, २; काठश्रौ १४५; बौश्रौ
७, ११: २४; वाश्रौ १, ६, ९.
यथा-प्रस्त^a - रम् द्राश्रौ ५,
१, २३; लाश्रौ २, ५, १८.
यथा-प्राप्तु^a - तु^c आपश्रौ
७, १३, ३.
यथा-प्रेषित^a - त्तम् काश्रौ
२, ६, २७; माश्रौ १, ८, ६, २; २,
३, २, १०; ४, १, २२; वाश्रौ १,
३, २, ६.
यथा-प्रेष^a - षम् आश्रौ ५,

८, ४; वैताश्रौ १९, २३.
यथा-फलविभाग^a - तसु (:)
अप २६, १, १.
यथा-बल^a - लम् कौसू ७३,
१४; बौध १, १०, २०.
यथा-बाल^a - लम् बौध १,
५, ११०.
यथा-ब्राह्मण^{a:d} - गम्
आपश्रौ १३, २४, १९; १७, २,
९; बौश्रौ.
यथा-ब्राह्मणोक्त^a - त्तम्
काठश्रौ १६६; अप्राय २, २.
यथा-भक्ति - क्ति निसू ८,
५: ५; २१.
यथा-भक्षित^a - त्तम् काश्रौ
१९, ३, १७.
यथा-भाग^a - गम् ऋश्रौ
२, ७, १×४; शांश्रौ; आपश्रौ २४,
३, १७; १८; काश्रौसं ४: ४;
बौश्रौ ३, १०: २३; हिश्रौ ३, ८,
६३; निसू ५, ९: २४; कौसू
६, ११; शंघ २७३.
यथाभाग-मन्त्र - न्त्रेण
वैश्रौ ८, ४: ७^e; ९, ४: १६;
६: २.
यथा(था-अ)भिधान^a - नम्
ऋश्र १, २, २१.
यथा(था-अ)भिप्रेत^a - त्तम्
द्राश्रौ १०, २, १३; ११, ३, १५;
लाश्रौ ३, १०, १३; ४, ३, १६;
९, २, २९.
यथा-भूमिपमाण^a - णेन
अप ३, १, १६
यथा-भूयस^a - य: विध

७३, २.
यथा-भूयस्य^a - स्येन निसू
१०, ७: ६.
यथा-भूयिष्ठ^a - ष्टम् निसू २,
८: १२.
यथा-मङ्गल^a - लम् पागृ २,
१, ४; २१; २, ४.
यथा-मति^a - ति तैप्रा १७,
८^f.
यथा-मनस^a - सम् आपश्र २,
९, १; हिध २, १, ११६.
यथा-मन्त्र-वर्ण^a - णम्
काश्रौ ६, ३, २०.
यथा-मात्र^a - त्रम् आपश्र १,
८, २९; हिध १, २, ११७.
यथा-मात्रविचक्षण -
ग: शैशि १८१.
यथा-मुख - > खीन - पा
५, २, ६.
यथा(था-आ)स्नात^a - त्तम्
काश्रौ १, ८, १६; ६, ७, २५;
१९, ५, ६; बौश्रौ.
यथा(था-आ)स्नात^a - त्त:
माश्रौ ५, १, २, ६, ९.
यथा(था-आ)स्नाय^a - यम्
बौश्रौ २०, ८: १६; २६, ४: ३;
जैश्रौका.
यथा(था-आ)स्नाय-प्रणि
धि^a - धि बौश्रौ २४, १: २.
यथा(था-आ)यतन^a - नम्
शांश्रौ १७, १२, ४; आपश्रौ १२,
१४, १०; १३, १३, १२; १९, १,
२०; ३, १२; बौश्रौ; बौपि ३, १,
१७^g.

a) अस. । b) पाठ: ? कृतम् इति शोध: (तु. संस्कृत: शब्दसूची) । c) सप्र. हिश्रौ १३, १३

यथासुखम् इति पाठे । d) उप. = ब्राह्मण. । e) सप्र. हिश्रौ ५, १, १५ विभागमन्त्रेण इति पाठे ।

f) उप. = भूयस्त्व- । g) अस. उप. समासान्तषु टच् प्र. (पा ५, ४, १०७) । h) अस. > षस. । i) विप. ।

सखे. कस. वा बस. उप. भाप. वा । j) यथायथम् इति B. ।

यथा-य (था >) य^अ- -यम्
 आश्रौ २, ५, १०^फ; शाश्रौ;
 आपश्रौ १२, ६, ३^फ; १६, २५,
 २^फ.
 १यथा-युक्त^०- -क्तम् बौश्रौ
 ११, ७: ३३; -क्तात् तैप्रा ५, २.
 २यथा-युक्त^०- -क्तः आपध
 २, १२, ४; बौध १, ११, १७;
 हिघ २, ४, ३९.
 यथा-यूप^०- -पम् काश्रौ ८,
 ८, २१; काशु ६, ८.
 यथा-यूपावट^०- -टम् माश्रौ
 २, २, ३, १३.
 यथा-योग^०- -गम् काश्रौ
 १७, ६, ३; आपश्रौ.
 यथायोग-नत- -तम्
 आपशु १६, ३; ५; हिशु ५, २४;
 २६.
 यथायोग-परिणाह^०-
 -हम् वैश्रौ १, १: २६.
 यथा-योनि^०- -नि वैश्रौ २, १:
 ८; २०, १२: १; हिश्रौ ८, ४, १३;
 लाश्रौ ७, ९, ६.
 यथा(था-आ)रम्भ^०- -न्भम्
 काश्रौ १०, २, २४.
 १यथा-रूप^०- -पम् शाश्रौ ६,
 २, ३; बौश्रौ ६, ७: २३; ९, १७:
 ३०; १५, २४: ७; भाश्रौ.
 यथारूप-विशिष्टा-
 (ष्ट-आ)क्षेप^०- -पे शंघ ३१२.
 २यथा-रूप^०- -पा: लाश्रौ ८,
 १०, ६; ९, ४, २६; -पान् बौश्रौ
 १५, १६: ७.
 यथा (था-आ) रोह^०- -हम्

जैश्रौका ४४.
 १यथा (था-अ) र्थ^०- -र्थम्
 आश्रौ १, ९, ३; ३, २, ११; १५××;
 शाश्रौ; वागु १४, २५^फ.
 यथार्थ-दृष्ट- -ष्टम् अप
 ७०^३, ११, ३२.
 यथार्थ-प्रत्यासत्ति- -त्ति:
 लाश्रौ ९, ७, ६.
 यथार्थ-स्तोमा (म-अ)-
 न्वय- -यात् द्राश्रौ ९, १३, २.
 २यथा(था-अ) र्थ, र्था^०- -र्था:
 दंवि १, ८; -थान् आपध २, २५,
 १२; हिघ २, ५, १९१; -र्थाभ्याम्
 वैश्रौ १३, ३: ८.
 यथार्थ-कल्पना- -ना मीसु
 ७, ४, ६.
 यथार्थ-लक्षण-> ण्य^०-
 -ण्यम् वागु १५, ४.
 यथा (था-आ) र्थ^०- -र्वम्
 माश्रौ १, ५, ४, १३.
 यथा (था-आ) र्थेव^०- -य:
 आपश्रौ २, १६, ५; भाश्रौ २,
 १५, ८.
 १यथा(था-आ) र्हे^०- -र्हम् पागु
 २, ९, १२; १३; कौसु १११, ११;
 १२७, १३; आपध २, २६, १;
 विघ ३, ३८××; वैध.
 २यथा(था-आ) र्हे^०- -र्हेण अप
 ५, ५, ४.
 यथा-लक्षण^०- -गम् हिश्रौ
 २१, २, ३५; अप ६५, २, ४;
 कौसि ४७.
 यथालक्षण-संयुत- -तान्
 अप २१, १, १.

१यथा-लाम^०- -भम् बौश्रौ
 २, ६: २२; २९, १: १३; वाश्रौ
 १, ५, २, २३; वैश्रौ १, ७: १२;
 ११: १५; आसिगु २, ६, ५: १४;
 ६: ३२; बौगु २, ९, १४; मागु
 ३, १५: २३; हिगु १, २६, ७;
 आपध १, ४, ३; हिघ १, १,
 १२२.
 १यथालामगन्धसक्षीर-
 फलवत्^०- -वद्भ्यः वागु १४, ६.
 यथालाम-मिश्र- -श्रम्
 वैगु ५, ४: १.
 यथालामो(म-उ) ब्रत-
 -तम् वैगु १, ८: ३.
 २यथा-लाम^०- -भेषु अप
 २३, ६, ३.
 यथा-लिखित-पाठक- -क:
 याशि २, ८२.
 यथा-लिङ्ग^०- -ङ्गम् काश्रौ ३,
 ३, ७; ५, ४, १०××; आपश्रौ.
 यथा-ल्लत^०- -नम् माश्रौ १,
 १, १, ४२; वैश्रौ ३, ४: १४.
 यथा-लोक^०- -कम् आपश्रौ
 १^फ, १८, १०; २७, १××; काठश्रौ.
 यथालोक-बृहद्दरथन्तर^०-
 -रा: निसु १०, १: २५; २८.
 यथा(था-अ) वकाश^०- -शम्
 आपश्रौ १२, २, ८; १७, ४, १०;
 १९, १४, ७; बौश्रौ; शांगु ४, ८,
 ४^६.
 यथा-वचन^०- -नम् या १, ३.
 यथा-वत् वैश्रौ १६, १०:
 ६; बौगु.
 यथा(था-अ) वत्त^०- -त्तम्

a) वैप १ द्र. । b) पाभे. वैप १, २५७० a द. । c) अस. । d) कस. वा बस. उप. भाप. वा ।

e) बस । f) सुप्सुपीयः समासः > षस. । g) दत्त्वा यथार्थम् इत्यस्य स्थाने सपा. ऋ १०, ८५, ३३ दत्त्वायुथात्तं इति पाभे. । h) यत् प्र. डसं. (पा ४, ४, ९२) । i) मलो. कस. । j) पाठः ? लामं गन्धांश्च क्षीरफलवद्भ्यः इति संस्कर्तुः टि. । k) सपा. यथावकाशम् <> यथासनम् इति पाभे. ।

काश्रौ २०,८,८.

यथा(था-अ)वदान^a- नम्
माश्रौ १,३,२,१९; ३, १, ३१;
-नेन अप्राय ३,९.

यथा(था-अ)वनिक^a- न्त्म्
काश्रौ ४,१,११; ५, ९,१४; पाण्ड
२,१४,१३.

यथा(था-अ)वनेजित^a- तम्
शाश्रौ ४,४,५.

यथा(था-अ)वभृथ^a- थम्
काश्रौ २२,७,२०.

यथा-वयस्^{a,b}- यः आश्रौ
१२, ८, १७; आपध २, ६, ७;
हिध २,२,७.

यथा-वयस्^c- न्त्म् लाश्रौ
८,१२,३; गौण २,४,१०.

यथा-वर्ग-परिग्रह^d- हम्
अप ५२,१५,४.

१यथा-वर्ण^e- र्णम् वौश्रौ
९, ४ : १४; २१,९ : २६; २४,
१६:४; वैश्रौ; अप ५२, १५,४'.

२यथा-वर्ण^f- र्णानि अशां
६,६.

यथा-वर्ण-परिग्रह^h- हात्
अप ६४,२,१०.

यथा-वर्तन-गोचर्मन्ⁱ- >
०र्म-चक्र-तरुण(लप-इ)षु-संमि-
(त>)ताⁱ- ता अप २४,१,६.

यथा(था-अ)वलेप^{a,k}- पम्
शंघ ९.

यथा-वषट्कृत^a- तम् शाश्रौ
७,८,१०; आपश्रौ १२,२७,९.

यथा(था-अ)वसित^a- तम्
माश्रौ ३,५,५.

यथा-वाक्य^a- न्यम् वृदे
२,१२२.

यथा(था-अ)वाहन^a- नम्
वैण्ड १,१३ : ४.

यथा(था-अ)वाहित^a-
-त्म् आश्रौ १,५, २४; माश्रौ ३,
१,३०.

यथा-विकार^a- रम् हिश्रौ
६,४,४१; ८,२; ५; ७'.

यथा-वितान^a- नम् कौसू
१३७,१; अप २१,५,१.

यथा-विदित^a- तः शंघ
३२५.

यथा-वि(घा>)घ^a- घेन
विघ ५८,१२.

यथा-विधान^a- नम् वौघ
२,८,१९.

यथा-विधि^a- धि जैश्रौका
६६; ७६; १५०; आमिण्ड.

यथाविधि-दत्त-जल-
पिण्ड-दानादि- दि वैण्ड ५,
१५ : १८.

यथा-विभक्ति-वाचित-
-त्म् वैण्ड १,७ : १०.

यथा-विभवा(व-अ)नुरूप^d-
-पम् वैण्ड ५,९ : ७.

यथा-विभाग^a- गम् शाण्ड
१,३,३.

१यथा-विहित^a- तम् वाश्रौ
३,३,१,१५.

२यथा-विहित,ता^m-
-तानाम् पावा ३,३,११; -ताम्

विघ ६,४.
यथाविहिता(त-अ)-

लुघान- नम् वैध १,९,११.

यथा-वृद्ध^a- द्दम् शंघ ३४४.

यथा-वेद^{a,m}- द्दम् काश्रौ
७,१,८; वौश्रौ ७,८:३×४; वैश्रौ.

यथा-वेदि^a- दि काश्रौ ५,
४,८.

यथा-व्यावर्तन^a- ने अप
३३,४,५.

यथा-शक्ति^a- क्ति आश्रौ
२,७,२; काश्रौ; -क्त्या कप्र २,
३, ७; अप १०, १, ५; ७०ⁱ,

२२,२; वाध २७, ८; विघ ६७,
४५; ७३,१२.

यथा-शरीर^a- रम् आपश्रौ
५,३,११'.

यथा-शर्क(रा>)र^a- रम्
वौश्रौ १०,२० : १३; २६ : १७;

१९,२ : ७; आमिण्ड ३, ८, २;
२४; वौपि १,१५ : ३३.

यथा-शाक^{a,o}- कम् वाधूश्रौ
३,१०४ : १.

यथा-शास्त्र^a- स्त्रम्
आमिण्ड २,४, ७ : १३; ३, १२,
१ : १; २२; अप.

यथा-शास्त्रा(स्त्र-अ)नु-
सार^h- तसः(:) आमिण्ड २, ६,
७ : ४.

यथा(था-अ)शिष- षम्
लाश्रौ ६,२,३.

यथा-शिष्ट^a- ष्टम् मीसू ५,
१,१९; ७,२,१.

१यथा-श्रुत^a- तम् वौश्रौ
२१,५ : ४.

२यथा-श्रुत^m- तान् हिश्रौ

a) अस. । b) उप. = आयुस्- । c) अस. समासान्तष् टच् प्र. उस्. (पा ५,४,१०७) । d) अस. >

षस. । वा. क्तिवि. । e) उप. = जाति- । f) उप. = शुक्लादि- । g) बस. । h) अस. > षस. ।

i) बस. > कस. । j) विप. (वेदि-) । k) उप. = ज्ञान- । l) बस. वा मलो. कस. वा । m) मलो. कस. ।

n) उप. = वेद- । o) उप. भाप. (शक्ति-)

२२, ४, १६.

यथा-अ(द्वा>)द्ध^३- -द्धम्
शांश्रौ १४, १२, ५; काश्रौ.यथाभ्रद्-दक्षि (णा >)
ण^{७७}- -णः आपश्रौ ३, १५, ४;
भाश्रौ ३, १३, ७; -णम् बौश्रौ
२६, २० : ३; -णाः जैगृ १, ४ :
३०.यथा-आद्ध^३- -द्धम् काश्रौसं
६ : ६१; कौगृ ५, ७, १; कौसू
१४१, ११; गौध १५, २.यथा-श्रुत^३- -तम् बौध १,
१०, २९.यथा-श्रुति^३- -ति जैश्रौका
११५; १५५; अप ७०, ९, २;
आपध २, ९, ९; हिध २, १,
१२४; हिद्यु ४, २०; मीसू.यथा-संवाद^३- -दम् काश्रौ
२०, ८, २४.यथा-संहि(ता>)त^३- -तम्
ऋप्रा १०, ६; ११, ४५; उसू ३,
४; ६३; ४, २०; ६, ९; अप्रा २,
४, १५.यथा-सं(ख्या>)ख्य^३-
-ख्यम् काश्रौ १, ३, २४; २,
३, ५; ३, ३, ३×४; पागु; पा १,
३, १०; पावा ३, ३, १२७^६.यथासंख्य-वचन- -नम्
पावा १, ३, १०.यथा-सदृश^३- -शम् वाश्रौ
१, १, १, ६९.यथा(था-आ)सन^३- -नम्
आश्रौ ६, ९, ४; १०, २०; शांश्रौ
६, १३, ५; ७, १४, १२; द्राश्रौ;कौगृ ३, ९, ५४^०.यथा-संधि^३- -धि ऋप्रा ३,
१८.यथा(था-आ)सन्न- -न्नम्
बौध १, ५, ११३; शुप्रा १, १४२.
यथा-सप^३- -पम् आश्रौ
२, १०, १४.यथा-सभक्ष^३- -क्षम् आश्रौ
५, ६, १९.यथा-समाम्नात^३- -तम्
शांश्रौ ६, १, ६; ७, १, ३, ९, ६, २०;
१०, १, १२; आपश्रौ.यथा-समाम्नात^३- -तः
कौगृ ३, १३, ८; -तानि वैश्रौ
१७, ८ : ४.यथा-समाम्नाय^३- -यम् निसू
६, ७ : ८; २८; ११ : १९×४.यथा-संमुदित^३- -तम् बौश्रौ
८, ६ : १२; १६, ८ : १३.यथा-संपद^३- -पत् कौसू
१११, ११; १२७, १३.यथा-संप्रकीर्ण^३- -र्णम् शांश्रौ
१८, २४, २६.यथा-संप्रेषित^३- -तम् शांश्रौ
३, ७, ९.यथा-संप्रेष- -षम् बौश्रौ ६,
१० : २२; २३ : ८×४; हिश्रौ २,
३, ४१.यथा-संभव^३- -वम् वैश्रौ
२१, ७ : ५; जैगृ २, ४ : १०.यथा-सव^३- -वम् कौसू ६३,
१२; २३.यथा-सवन^३- -नम् शांश्रौ ७,
१, ४; काश्रौ ९, ९, ७; २४, ३,

११; २५, १२, ६; बौश्रौ.

यथा-सामन्^३- -म बौपि १,
१५ : २८^१.यथा-सारा(र-अ)पकार^३-
-रम् शंघ २६३.यथा-सुख^३- -खम् वैश्रौ ४,
८ : ९; हिश्रौ १, ५, ८८; ४, ३,
१३; १०, २, १४; ४, ८; कौगृ ४,
१८, १३; मागृ १, २, २१.यथासुख-चारिन्- -रिणः
अप्राय ३, ७.यथासुख-सुख^३- -खः
वाध ६, १३.यथा-सुष्ठु^३- -ष्ठु बौश्रौ
१०, १७ : ६; २० : १३; २६ : १६;
१९, २ : ७; २०, ३ : ६; आमिगृ
३, ८, २ : २४; बौपि १, १५ :
३३.यथा-सूक्त^३- -क्तम् शांश्रौ २,
७, २८.यथा-सूत्र^३- -त्रम् बौश्रौ २४,
२२ : ६; २५, २७ : १२; २९;
२८ : १७; २७, ११ : ६; २९,
८ : ४; बौध ३, १, १०; -त्रे
अप्रा ३, ३, २१.यथा-सूत्र-वचस्^३- -चः
जैश्रौका १८३.यथा(था-अ)स्त^३- -स्तम्
मागृ १, १३, ८.यथा-स्तुत्^३- -स्तुद काश्रौ
२२, ५, ३.यथा-स्तुत^३- -तम् आश्रौ ५,
१५, १४; ६, ५, ९; ६, ९; शांश्रौ
११, ३, ३; वैताश्रौ ३५, १.

a) अस. । b) बस. । c) उप. = २दक्षिणा- । d) तु. पासि. । e) पाभे. पृ २०१३ k द्र. ।

f) उप. = शेष- । g) पाभे. वैप २, ३खं. सापुयन् तैत्रा २, ४, ६, ५ टि. द्र. । h) मलो. क्त. । i) अस. >
षस. । वा. क्वि. । = अथापराधानुसारेण (तु. विवादात्नाकरः [पृ ६६४]) । j) पाभे. पृ २०१२ ० द्र. । k) अस. >
षस. । l) अस. उप. = (अभिष्टुत्- प्रसू.) एकाह- । m) वैप २, ३खं. द्र. ।

यथा-स्तोत्रि(या >)य^अ-
 -यम् शांश्रौ ११, ३, २.
 १यथा-स्तोम^० -मम् शांश्रौ
 १२, ८, ११; १४, १९, २; जैश्रौ
 १५: २३; लाश्रौ १०, १४, ७.
 २यथा-स्तोम^० -मम् क्षुस्
 ३, १५: १.
 १यथा-स्थान^० -नम् आश्रौ
 ३, ८, ८; ४, १५, ७; ११, ६, ९;
 शांश्रौ ८, १०, ११××; काश्रौ;
 आश्रु ३, ६, ८; हिश्रु १, १७,
 ४; -ने आश्रौ ७, ५, ५.
 २यथा-स्थान(न >)ना^०-
 -ना: शांश्रौ १४, १०, १२.
 यथा-स्थित^० -तम् आश्रौ,
 ३, २२; काश्रौ २४, ६, १.
 यथा-स्व^० -स्वम् आश्रौ ४,
 ११, ३××; काश्रौ; वौश्रु ३, ९,
 ७; -स्वे पा ८, १, १४.
 यथा-स्वर^० -रम् वैताश्रौ
 १, १०; २, १.
 यथा-स्वल्लिङ्ग^० -ङ्गम् अप
 १९, १, ९.
 यथा(था-आ)हित^० -तम्
 वौश्रौ २४, ३०: १७.
 १यथा(था-आ)हृत^० -तम्
 आश्रौ ५, ६, ११; वौश्रौ.
 २यथा(था-आ)ह(त >)ता^०-
 -ताम् वाश्रौ २, १, ५, १३.
 यथे(था-इ)च्छा^० -च्छया
 अप २२, ३, ५.
 यथे(था-इज्या >)ज्य^०-
 -ज्यम् माश्रौ २, ४, २, १९; ५,
 १, ७, १५; १०, २५; ३, २, २१.

यथे(था-ए)त^० -तम् आश्रौ
 २, ५, ३; १३××; शांश्रौ ८, ५, ७;
 काश्रौ २, २, २१××; आपश्रौ ३,
 ११, १; २०, १०××; काठश्रौ
 ११०; वौश्रौ १, २०: २६; २, ५:
 ३०××; लाश्रौ २, ४, १७.
 १यथे(था-इ)ष्ट^० -ष्टम् काश्रौ
 ५, १२, ७; १४, ४, १८; वौश्रौ;
 पावा ८, १, १२.
 २यथे(था-इष्ट >)ष्टा^०-
 -ष्टाम् नाशि २, ८, ८.
 यथेष्ट-त्व- -त्वात् पावा
 १, १, ७२.
 यथेष्टा(ष्ट-आ)सन^० -न:
 विध २८, २३.
 यथै(था-ए)त^० -तम् शांश्रौ
 १७, १७, ९; जैश्रौ ३: ९; ९: ३;
 जैश्रौका ३०; द्राश्रौ ४, ४, २६.
 १यथो(था-उ)क्त^० -क्तम्
 काश्रौ २, ६, २२; ४, २, ६××; वौश्रौ.
 २यथो(था-उ)क्त, क्ता^०-
 -क्तस्य काश्रौ २४, ७, १९; मीस्
 ६, ४, ३६; -क्ता कौस् ६८, ४१;
 अप ५८, १, १३; -क्तात् गौध
 १०, ४; मीस् १०, २, ५९;
 -क्तान् गौध ९, १; अप २०, ७,
 ११; -क्तानि वौश्रौ १४, १५: ८;
 -क्तान् माश्रु १, १०, ११; अश्रु
 ४१, ३, ६; ७; अशां २५, ५; -
 -क्ते वैश्रु ६, १४: ६; -क्तेन कप्र
 २, ७, १०; अप १, ४२, ३; अप
 १: ३६; -क्तेषु वैश्रु २, ८: १३;
 -क्ते: वैश्रु ५, १: २; अप १०, १,
 १; ७०^३, १०, ७^३.

यथोक्त-काल- -ले वैश्रु ६,
 १९: ११; -लेन विध २२, ३१.
 यथोक्त-क्रम-समन्वा-
 रब्ध- -ब्धा: वैश्रौ १५, १९: ३.
 यथोक्त-जलदान-पिण्ड-
 निर्वाप-ब्राह्मणभोजन^१- -नेषु वैश्रु
 ७, ८: १२.
 यथोक्त-देवता- -ता:
 हिश्रौ २१, २, २७; ४९; ६३.
 यथोक्त-पृष्ट^० -ष्ट: काश्रौ
 २४, ७, २८.
 यथोक्त-प्रकाश^० -शस्य
 अश्रु ८.
 यथोक्त-फल-द- -दम्
 शंघ १०४.
 यथोक्त-योग्य- -न्यौ
 वैश्रौ ११, ९: ६.
 यथोक्त-वस्त्व(स्तु-अ)
 संपत्ति^१- -नौ कप्र २, ५, २१.
 यथोक्त-विधि- -धिना
 अप १९^२, १, ५; ५८, १, १३;
 ६८, ५, २८.
 यथोक्त-विपरीत- -त:
 अप २१, ७, ५.
 यथोक्त-स्थान- -ने वैश्रु
 ५, १५: १.
 यथोक्ता(क्त-अ)नुष्ठान-
 -नम् वैध १, ११, १३.
 यथोक्ता(क्त-अ)र्ध- -धम्
 वैध २, ९, ८.
 यथो(था-उ)चित^० -तम्
 जैश्रौका १३७; हिश्रु २, ६, ११.
 यथो(था-उ)च्चारित^० -तम्
 पावा २, ४, ११.

a) अस.। b) वैप २, ३खं. द्र.। c) बस.। d) स्वयम् इति पाठः? यनि. शोधः (तु. हिश्रु २, २०, २)। e) मलो. कस.। f) सप्र. यथे<>यथै^० इति पाठे.। g) तु. पासि.। h) =यथे-त-उप. <आ/√ह। वा. किवि.। i) कस.>दस.। j) कस.>षस.। k) सपा. आमिश्र २, २, ५: १६ यथोदितम् इति पाठे.।

यथो (था-उ)च्छ्रित^a- -तम्
काश्रौ ८, ८, २५.

१यथो (था-ओ)द^b- -दम्
आपय २०, ४; भाय २, ८:७;
८; हिग २, ८, ५^c.

२यथो (था-ओद)द^b-
-दाम् आपश्रौ ९, १५, २२; बौश्रौ
२७, १: ११; भाश्रौ ९, १८, ११;
हिश्रौ १५, ४, ४२.

यथो (था-उ)त्तर^a- -रम् निस्
५, १: १०.

यथोत्तरो (र-उ)पयोग-
-गम् वैश्रौ १२, १: २.

यथो (था-उ)स्पत्ति^a- -त्ति
कौसू ६३, २४; मीसू १०, ५, ८८.

यथो (था-उ)स्पन्न^a- -न्नम्
बौश्रौ २०, ४:३९; -न्नं बौश्रौ
२१, ४: २७; २२, १: १५.

यथो (था-उ)स्पादित^a- -तम्
काय ४६, ६.

यथो (था-उ)स्ताह^a- -हम्
काश्रौ ६, १०, १३; २२, २, २२;
५, ५; बौश्रौ १६, २:९; द्राश्रौ १२,
१, ११; लाश्रौ ४, ९, ७; ८, ४,
१३; ५, १६××; काय १.

यथोस्ताह-दक्षि (णा>)
ण^a- -णा: लाश्रौ ८, ११, ६.

१यथो (था-उ)द्वय^a- -यम्
ऋप्रा ९, ८.

२यथो (था-उ)द्वय^a- -यानि
ऋप्रा ८, १५.

१यथो (था-उ)दित^a- -तम्
आमिग १, ७, ३:७; २, ५: १६^d;
४, ५:३:७:१२; ५, १२:१३; ७, ६:

२७; अप २५, १, ८.

२यथो (था-उ)दित, ता^b- -ता:
अप २२, १, ३; ऋप्रा १६, ३१;
-तै: अप ६८, ५, २०.

यथो (था-उ)दिष्ट^a- -ष्टम्
कौसू १३६, १३.

यथो (था-उ)दृष्ट^a- -तम्
आपश्रौ ७, २४, ४; वैश्रौ १०,
१८:१७.

यथो (था-उ)पज्ञा> > ज^a-
-जम् भाय १, २८:१.

यथो (था-उ)पदिष्ट^a- -ष्टम्
माश्रौ १, ६, २, १२; ४, १, २;
वैश्रौ १४, १३:१; हिश्रौ १, १,
१८; ११, १, २; ऋप्रा ११, ६४;
पा ६, ३, १०९.

यथो (था-उ)पदेश^a- -शम्
काश्रौ २४, १, ३; आपय २, ७;
७, २४××; बौग ३, २, ५;
१८××; भाय २, ३२: २०××;

आपय १, ४, १६××; हिध
१, १, १३५××; ऋअ १,
१, १; मीसू ३, ५, २१; ७, ५१.

यथो (था-उ)पपत्ति^a- -त्ति
आश्रौ २, २०, २; ४, १, २; काय
२०, २; ३४, ३.

१यथो (था-उ)पपन्न^a- -न्नम्
बौश्रौ २०, २३: ३.

२यथो (था-उ)पपन्न^b- -न्नं
बौग २, ११, ५२; भाय ३, १: ३.

यथो (था-उ)पपातम्^a आपश्रौ
१५, २०, ९^f; भाश्रौ १, १६, ४;
११, २१, ११^f.

यथो (था-उ)पपादम्^a शाश्रौ

७, १७, १८; बौश्रौ ७, १३:
१०××; ९, १९: ३८^f; वैश्रौ;
हिग १, १, २१^g.

यथो (था-उ)पपाद-मूत्र-
पुरीष^b- -ष: गौध २, ४.

यथो (था-उ)पपादिन्- >
दि-पञ्च^c- -ञ्च: कौसू १३८, २.

यथो (था-उ)पमुक्त^a- -क्तम्
काश्रौ १४, ५, ३६.

यथो (था-उ)पलब्ध^a- -ब्धम्
हिपि १७: २०.

यथो (था-उ)पलम्भम्^a
आपश्रौ ६, ४, ३; ७, ९; हिश्रौ
३, ७, १८; निस् ८, ५: २७;
गोय २, ८, २३.

१यथो (था-उ)पस्थित^a- -तम्
द्राश्रौ ७, ३, ६; लाश्रौ ३, ३, १०.

२यथो (था-उ)पस्थित^b-
-तम् बौश्रौ ३०, २०: २७; ३०;
हिश्रौ १४, ३, ४६.

यथो (था-उ)पहित^a- -तम्
माश्रौ ६, १, ७, २९.

यथो (था-उ)पाकृत^a- -तम्
आपश्रौ २०, १७, १.

यदा आश्रौ २, ९, ३××; शाश्रौ;
आपश्रौ २१, २०, ३^f; वैताश्रौ
३४, ९^f; यदाऽयदा भाय
१, २५: १६.

यर्हि आपश्रौ ९, १८, १३^f; बौश्रौ
१४, १: १९; ३: २××;
भाश्रौ.

यद्- पाउ १, १३२; पा ८, ४, ३०;
पाग १, १, २७; ५, ४, १०७; यत्

प्राश्रौ १, ६, ५; ९, ५; शाश्रौ;

a) अस. । b) मलो. कस. । c) वस. । d) पामे. पृ २०१६ । द्र. । e) उस. उप. णसुलन्तम् ।
f) परस्परं पामे. । g) पदम् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. भाष्यम्, मूको.) । h) अस. > वस. >
दस. । i) कस. । j) पामे. पृ २००८ । द्र. । k) सकृत् यदारं इति पाठः ? 'दा रा' इति शोधः (तु.
आपश्रौ., C.) ।

आपश्रौ १६, १६, ११^३; माश्रौ
१, ३, ५, १७^{१३}; वाश्रौ १,
३, ७, १७^{१३}; वैताश्रौ २८,
२७^{१३}; ऋश्रौ ४६, १९^३, ५२,
३; यत्-यत् अश्र १२, ३^३;
यदि पा ३, २, ११३; ११४; ३,
१६८.

यक, का^० पा ७, ३, ४५;
पावाग ७, ३, ४५^६; -कः छुप्रा
४, ७५^१; -कका काश्रौ २०,
६, १८; बौश्रौ १५, ३० : ४.

यच्छन्दस^० - न्दाः कौय २,
४, १६; शांय २, ७, १८.

यच्छन्दस-क > का^० -

-कायाम् निसू १, १३ : २१.

यज्-जाति > यजाती(य >)

या- या निसू २, ४ : १०.

यतम- पा ५, ३, ९३; पाग १,
१, २७; -तमः वाश्रौ १, ५, ५,
७; अश्रा ३, ४, १.

यतर, रद्, रा- पा ५, ३, ९२; पाग
१, १, २७; -रः आपश्रौ २२,
१६, १२; भाश्रौ ९, १३, ८; हिश्रौ
१७, ६, ३५; -रत् वाधुश्रौ ४,
६७^३ : ७; -रस्मिन् भाश्रौ २, ५,
२; हिश्रौ १, ५, ३४; ७, १४;
९, ५, १३; -रस्मै भाश्रौ ९, २,
८; -रस्याम् भाश्रौ ६, ३, १७;
-रा बौश्रौ २०, १९ : ३५;
अश्रा ३, ४, ११; -राः वाधुश्रौ
४, ६७ : ८; -रे बौश्रौ १८,
१३ : १३; -रेण वाधुश्रौ ३, ९ :
२१; -रेषाम् बौश्रौ १८, ४६ : १६.

यत्-यति- ति आसिण् ३, ७,
१ : ८^१; बौपि १, १७ : ८^१; ऋप्रा
५, १८.

यत्-कर- पा, पावा ३, २, २१.

यत्-काम^० - स्मेन वाधुश्रौ ४,
७४ : २८.

यत्-काम, मा- -मः शाश्रौ
४, ८, ५; १०, ३; आपश्रौ; -मा
आपश्रौ १९, १८, ४; हिश्रौ २२,
२, ४; -माः शाश्रौ १०, २१,
१४; बौश्रौ; या १०, ४३^१.

यत्-कारिन्- -री बौश्रौ १४,
३० : १२; हिय १, १९, ३.

यत्-काल^० - न्हाः शैशि २००.

यत्-कृत^० - तौ वैज्यो ३७.

यत्-क्रिया- युक्त- -क्ताः पावा
१, ४, ६०.

यत्-पृष्ठ^० - छेन शाश्रौ १४,
२२, ६.

यत्-प्र-पर^१ - -रः तैप्रा ४, ३३.

यत्-प्रयोग- -गात् अप ३१, ४, ३.

यत्-सामन्^० - -मा निसू ८, ६ : ४.

यत्-स्थल- -ले भाशि १२८.

यत्-स्थान- -ने मीसू ९, ५४.

यद्व्यामन्तं वाश्रौ ३, ४, १, ५.

यद्-अनुपूर्व^० - -र्वाणि हिश्रौ २,
२, ३३.

यद्-अन्न^० - -न्नः निसू १०, ९ :
१९.

यद्-अभिहार^१ - -रम् बौश्रौ २४,
९ : ५.

यद्-अभीज्या- -ज्या मीसू ९,
२, ५८.

यद्-अर्थ^० - -र्थः निसू ७, ११ : २२.

यद्-अवसान^० - -नः लाश्रौ ६, ६,
१; छुसू ३, १३ : ८; -नम् छुसू
३, १३ : ९.

यद्-अश(न >) ना^० - -ना बौश्रौ
७, १५ : ३३; ८, ४ : ३१;
१२ : ४५.

यद्-उत्पत्ति- -तौ मीसू १, ४, २.

यद्-अच्छा^१ - -पाग २, १, ७२;
-च्छया बौध २, १०, ५२; काछु
७, ३२; वृदे १, २५; २८; ५, ९९;
-च्छायाम् आपध १, १४, ५;
हिध १, ४, ३८.

यादच्छिक^१ - -कम् वृदे
१, ३०.

यदच्छ-ज^० - -जः कौसू
१३५, ९.

यदच्छा(च्छा-अ)शक्तिजानु-
करण- > ण^० - -णाः आशि
६, ६.

यदच्छा(च्छा-अ)शक्तिजानु-
करण-ल्लुत्याद्य(दि-अ)र्थ^० - -र्थः
पाप्रवा २, १.

यदच्छा-संनिपात- -ते आपध
१, २८, ८; हिध १, ७, ४४.

यदच्छो(च्छा-उ)पनत- -ते
ऋप्रा ११, ३५.

यद्-दक्षि(णा >) ण^० - -णः
जैश्रौ १ : १८.

यद्-देवत, ता^० - -तः आश्रौ ५,
३, २; शाश्रौ १३, २०, ९;
आपश्रौ ७, २२, ४; या ७, ४;
-तम् वाय १, २५; -ताः आपश्रौ

a) सपा. मा १२, ६५ प्रश्न. युम् इति पाभे. । b) सपा. तै १, १, १०, २ युम् इति पाभे. । c) वैप १
द. । d) तु. पागम. । e) बस. । f) पाभे. वैप १, १२९४ a द. । g) कस. । h) तुस. ।
i) दस. > बस. । j) बस. उप. = प्रचुर- । k) भाप. । कस. उप. < √ क्रच्छ (इच्छायाम् तु.
अश्रौ १) । l) तन्नभीज्या ऋ प्र. । m) उस. पू. ह्रस्वः (पा ६, ३, ६३) । n) तद्वति. वृत्तिः । o) उप.
= इच्छाया- ।

१२, १६, १०; -ते पाण्डु ३, ११, १०.

यद्-देवता-> °व्य, स्या- -स्यः काठश्रौ ६३; बौश्रौ १, १४ :

१०; ४, ५ : ६××; वैश्रौ; -त्यम् बौश्रौ १३, १:१५; वैण्ड ३, २०:१;

द्राण्ड २, १, २३; ऋश्र २, १, ९४;

-त्या अश्र १, १९; ३२××;

-त्याः बाधुश्रौ ४, ८७ : १०;

-त्यायाम् निसू १, १३ : २२;

-त्यासु लाश्रौ ६, ९, ४.

यद्-दैवत^a - -तम् अप्राय २, २; ३.

यद्-दैवत्य^b - -त्यम् आमिण्ड ३, ९, ३ : १९.

यद्-द्वन्द्व^c - -द्वेषु द्वाश्रौ १०, १, १६०; लाश्रौ ३, १, ९८०.

यद्-धि (< हि) - तु-पर- -रम् पा ८, १, ५६; -रस्य पावा ८, १, ५६.

यद्-युक्त - -क्तः हिण्ड १, २४, ६^d.

यद्-योग - -गः भासू २, १४;

-गात् बुदे ७, १०९; पावा ८, १, ७१; -गे माशि ६, ४.

यद्-योग (> ग) - -गा पावा ४, ३, १२०.

यद्-योनि - -नौ विध ३०, ४५.

यद्-वत् याशि २, ६१.

यद्-वाहिष्ठीय^e - > °य-वत् लाश्रौ ६, १, ३.

यद्-वित्त^f - -तौ बौण्ड १, ४, ५^d.

यद्-वृत्त - -त्वात् पा ८, १, ६६.

यद्-वृत्तो (त्-उ) पपद^g - -दात्

शुभा ६, १४.

यन्-मात्र - -त्रम् विध २३, ३५.

यन्-मुख्य^h - -ख्याः आपश्रौ १२, २८, १२.

यस्तेम (> दा) - -दा निसू ६, २ : २५; -दाम् निसू ६, २ : ७.

यातज्जतीयⁱ - -यम् शाश्रौ १८, १९, ३.

या-दृश - -दृक् आपश्रौ १, ५, ८; ६, १; २; ५; ६; बौश्रौ; -^jदृशिमन्^k

अप ४८, ११५; निघ ४, ३; या १, १५; ६, १५^l.

या-दृश - -शः निसू ३, १२ : ३१; ४२; माशि १२८; नाशि १, ८, ४; -शम् वैण्ड ३, ९ : ६;

अप ३१, २, ३; ५४, १, १; बौध; -शे निसू ३, १२ : २९; ४, ७ : २१; या ६, १५^m; -शेन

आज्यो १२, ७; -शैः अप ५५, १, ५; २, १; ३, १; ४, १; ५, १; ६, १.

यादृशी - -शी याशि २, ७५;

-शीम् आमिण्ड ३, ७, ३ : ६.

या-वत् - पा ५, २, ३९; पाण्ड १, ४, ५७; -वत् आश्रौ ८, १०, १ⁿ;

शाश्रौ; हिश्रौ १, ७, २६^o; पा २, १, ८; -वत्-वत् निसू ३, ७ : १३;

-वत्तः आश्रौ ७, १०, ८ⁿ;

शाश्रौ; -वता आपश्रौ ५, ४, ४; ७, ३, ८; बौश्रौ; -वताऽ-वता

आपश्रु ३, १५; हिश्रु १, ५४;

-वताम् शाश्रौ ४, १८, ५ⁿ;

वाण्ड १५, ११; शंघ; पावा १,

२, ६४; -वति बौश्रौ ११, ११ : १८××; माश्रौ; -वदसिः

या १, १२; -वन्तः आश्रौ १, ३, १; ४, १, १९; शाश्रौ;

-वन्तम् आपश्रौ १, २५, ५; २१, ५, ४; १०, ३; बौश्रौ;

-वन्ति शाश्रौ ८, ७, ५; १४, ७, १४; बौश्रौ; -वन्तिऽ-

वन्ति निसू ९, ११ : ३३;

-वान् आपश्रौ ७, २, १३; १४××; बौश्रौ.

यावती - -ती काश्रौ २६, ७, ५४ⁿ; आपश्रौ १०, ४, १०;

१३, ३, ३ⁿ; बौश्रौ; -तीः आपश्रौ १९, २३, १२; २२, १, ७; बौश्रौ; -तीनाम् भाश्रौ

१, २, १३; कौण्ड ३, ५, ९;

शाण्ड; -तीभिः माश्रौ ३, ७, १; ध्रुव १, ७ : १४; १९;

आण्ड २, ४, ६; -तीम् आपश्रौ १५, १, १२; भाश्रौ ११, १, ७;

बाधुश्रौ; -ⁿतीषु अशां २०, ३; अश्र ८, ७; -त्यः शाश्रौ

१५, ९, ४; आपश्रौ ३, १७, १××;

बौश्रौ; -वत्यऽ-वत्यः आश्रौ ८, ५, ७.

यावच्-ञ् (< श) राव¹ - -वम् आश्रौ १२, ८, ३५.

यावच्-ञ् (< श) कं (रा >) र^m - -रम् आपश्रौ १, ६, १३;

भाश्रौ १, ६, १५.

यावच्-ञ् (< श) स्त्र^m - -स्त्रम् शाश्रौ १८, २१, १.

a) बस. b) =साम-विशेष- (तु. PW. प्रष्ट.)। व्यु. ?। c) पृ १३१५ सत्य. द्वन्द्वेषु इति नेष्टम्।

d) सपा. आमिण्ड १, ५, ४ : ४१ ङयद्वित्तः इति, बौण्ड १, ४, ५ यद्वित्तौ इति च पाप्मे। e) =साम-विशेष-।

f) <युद् वाहिष्म (ऋ ५, ३५, ७)। g) =ऋव्-। <यस्ते मुदः (ऋ ६, १९, ७)। h) विप. (नवर्क-।) <या

त ऋतिः (ऋ ६, २५, १)। i) वैप १ द.। j) श्वाः इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. दु. स्क. राज.)। k) याव

इति पाठः ? यनि. शोघः। l) विप. (यावच्छराव-परिमित-। सौम्य-चर-।) m) अस.।

यावच्-छे(<शे)ष^a -षम्
काश्रौ १२, ६, २०.
यावच्-छु(<श्रु)ति^a -ति
मीसू १०, ७, ६२.
यावज्-जीव^{a,b} -> ष्वक-
-कम् वैगृ २, १८ : १४.
यावजीव-कृत- -तम्
वाध २८, १९.
यावजीव-प्रयुक्त-
-क्तानाम् बौश्रौ २५, १ : १;
-क्तानि बौश्रौ २१, १ : २; २५,
१ : ८.
यावजीव-प्रयोग- -गात्
मीसू ९, १, ३५.
यावजीविक^a -कः मीसू
२, ४, १; -कम् आश्रौ ३, १४,
२२.
यावज्-जीवम् आश्रौ ३, ११,
३; शांश्रौ ३, १, ८; काश्रौ; पा
३, ४, ३०.
यावत्तिथ- -थः पावा १, ३,
११.
यावत्-कपाल^a -लम् काश्रौ
२, ५, २०; माश्रौ १, २, ३, २२;
वाश्रौ १, ३, १, २१; वैश्रौ ४,
१० : ७.
यावत्-कर्मन्^a -र्मं बौश्रौ
२९, १३ : १३.
यावत्-काम^a -मम् हिगृ १,
१३, १८.
यावत्-काल^a -लम् शांगृ
६, १, १३.
यावत्-कृत्वसः(:) बौश्रौ १०,
१६ : १४××; वाधूश्रौ.
यावत्-ताल^{a,d} -लम् वैश्रौ

११, ९ : १०.
†यावत्स्मृत^a -तम् आपश्रौ
१०, २३, ३; बौश्रौ ६, १३ : ८;
२९, १ : ४; भाश्रौ.
यावत्-पद^a -दम् आपश्रौ
१९, १४, १९; हिश्रौ २३, ३,
१७.
यावत्-परिमि(त>)ता-
-न्ताः हिश्रौ १०, ३, ३.
यावत्-पुरा(रा-आ)दि-
-दिषु पावा ३, ३, ४.
यावत्-पुरा-निपात- -तयोः
पा ३, ३, ४.
यावत्-पूर्वपक्ष^a -क्षम् वैश्रौ
२०, २२ : २.
यावत्-प्रमाण,णा^a -णा
काश्रु ३, ७; १२; ७, ३३; आपश्रु
३, ११; हिश्रु १, ५०; -णानि
काश्रु ६, ७.
यावत्-प्रवर- -रेषु बौश्रौप्र
२ : ४.
यावत्-सं(ख्या>)ख्य^a -
-ख्यम् विध १९, १२.
यावत्-संनिपात^a -तम्
आपध २, १, २१; हिध २, १, २०.
यावत्-संबन्ध^a -न्धम् पागृ
३, १०, १७.
यावत्-सहज^a -जम् आपश्रौ
८, २२, ४; हिश्रौ ५, ६, १०.
यावत्-सामिधे(नी >)नि^a -
-नि काश्रौ ३, १, ९.
यावत्-सिद्धि^a -द्धि बौश्रौ
१३, १ : ८.
यावत्-सु(त्या>)ख्य^a -
-ख्यम् वैश्रौ १२, ७ : २०.

यावत्-स्मृति^a -ति काश्रौ
१४, ५, २१.
यावत्-स्व^a -स्वम् काश्रौ
४, २, २८; मीसू ११, १, ४६;
४७.
यावद्-अग्नि-मान^a -नाः
हिश्रौ ११, ५, २२^b.
यावद्-अङ्ग- > ण्यावदङ्गी-
न^a -नम् कौसू ४०, १७; अप
४६, ६, १.
यावद्-अध्ययन^a -नम्
आपश्रौ १५, २१, २; बौश्रौ ९,
२० : ३; भाश्रौ; आपध १, १३,
१३^c.
यावद्-अध्याय^a -यम् हिध
१, ४, २७^d.
यावद्-अन्त^a -न्तम् वैध
२, १२, ७; -न्ते^e आपश्रौ ९,
१५, १२; हिश्रौ १५, ४, ३२.
यावद्-अर्थ^a -र्थम् वैश्रौ
१४, ६ : २; मीसू १०, ६, ७४.
यावदर्थ-विस्ता(र>) -
रा^a -राम् वैश्रौ ४, ११ : २.
यावदर्थ-संभाषिन् -नी
आपध १, ३, १६; बौध १, २, २४;
हिध १, १, ८९.
यावद्-अर्थ^a -> र्था-
-र्थां हिश्रौ १, ६, ६०.
यावद्-अह^a -हे काश्रौ ७, ९,
१७; द्राश्रौ १, ३, ४; लाश्रौ १, ३,
१.
यावद्-आदिष्ट^a -ष्टम् शांश्रौ
५, ११, ८.
यावद्-आदेश^a -शम् निस्
३, १ : १४.

a) अस. । b) उप. = आयुस्- । c) तत्रमवीयष् ठञ् प्र. । d) उप. = इताल- । e) वैप १ द्र. ।
f) वस. । g) कस. > वस. । h) सपा. वैश्रौ १८, ११ : २७ यावदाभ्याताः इति पाभे. । i) परस्परं पाभे. ।
j) विषः इति भाष्यम्? । k) वैप २, ३६. इ. । l) कस. (इ. अ. व.) ।

यावद्-आपद^a- -दम् काण्ड
४५: १८.

यावद्-आस^b- -सम् माश्रौ
४, १, १२.

यावद्-आभूत-संखलव^c-
-वम् काथ २८१: ६.

यावद्-आम्नात^d- -तम्
बौण्ड १, ४, ४३, बौपि २, ८, ११;
-तेन हिशु ३, ३^d.

यावद्-आम्नात^e- -ता:
वैश्रौ १८, ११: २७^f; -तेन
बौश्रौ २२, ११: १८; २५,
३१: १०.

यावद्-आम्नात^g- -नेन
आपशु ८, ३^d.

यावदाम्नान-सारूप्य-
-प्यम् आपशु २१, ९; हिशु ६,
६७.

यावद्-आयाम^h- -सम् हिशु
१, २.

यावद्-हृष्ट(का>)क^b-
-क्तम् काश्रौ १८, ६, १३.

यावद्-उक्त^d- -क्तम् काश्रौ
५, ६, १२; १५, ९, २८; २६,
२, ५; हिश्रौ.

यावद्-उक्त^e- -क्तम् काश्रौ
९, १३, २३; १०, ६, १२.

यावद्-उपर^f- -रम् वैश्रौ
१०, ८: १३.

यावद्-गव^g- -वम् हिपि
१५: ४^f.

यावद्-गृहीत-> °तिन्-
-ती द्राश्रौ ७, २, ६; लाश्रौ ३,
२, ६.

यावद्-ग्रहण^b- -णम् पाण्ड
२, ५, १५; आग्निष्ट १, १, ४:
४७; ३, ६, २: ६; बौपि १,
९: १५; वाण्ड ६, २९; हिण्ड १,
८, १४.

यावद्-आस^b- -सम् आपध
२, १९, ५; हिण्ड २, ५, ७७.

यावद्-घृत^b- -तम् माश्रौ २,
१, ३, ४२.

यावद्-घृतान्वक्त^b- -क्तम्
वैश्रौ १२, १७: २.

यावद्-द्वज- -जम् बौश्रौ
१०, ४६: ३०.

यावद्-ध(<ह)विस्^b-
-वि: काश्रौ ३, ३, २५; ४, ३.

यावद्-धा काश्रौ १६, ४,
१६; द्राश्रौ ३, १, ७; लाश्रौ १,
९, ७.

यावद्-यजुस्^b- -जु: वैश्रौ ९,
१: १०; द्राश्रौ १, १, ५^f; लाश्रौ
१, १, ५^f.

यावद्-यज्ञ^b- -ज्ञम् आपश्रौ
२०, ३, २; हिश्रौ १४, १, २५.

यावद्-यूप^b- -यम् आपश्रौ
२२, १०, १७.

यावद्-रात्र^b- -त्रम् हिपि
१४: ६; -त्रा आपश्रौ १३,
२५, ९^f.

यावद्-रात्रि^b- -त्रौ हिश्रौ ९,
६, ३४^k.

यावद्-वचन^b- -नम् द्राश्रौ
१२, २, १९; लाश्रौ ४, १०, २०.
यावद्द्वय- -येन हिश्रौ १८,
२, १०.

यावद्-वि(धा>)ष^b- -षम्
बौश्रौ १०, १९: ९.

यावद्-वेदम्^l पा ३, ४, ३०.
यावद्-न्यासि^m- -सि या ३,
१५.

यावन्-निगद^b- -दम् निस्
२, ८: २.

यावन्-मन्त्र^b- -न्त्रम् आपश्रौ
१९, १५, २; बौश्रौ १९, १०: १;
हिश्रौ २३, ३, २३.

यावन्-मात्र^b- -त्रम् बौश्रौ
३, २६: २; ६, ७: १२; १९:
१९x; बौध २, १०, ५९^f;
या ७, ३, १^f; -त्रान् बौश्रौ २०,
७: ११; -त्रे बौश्रौ २४, २३: ६.

यावन्मात्री- -त्री: बौश्रौ
१६, ३: ५; -त्रीम् बौश्रौ २२,
२: २.

यदा प्रष्ट. यद्- द्र.

यदि, >दीⁿ आश्रौ १, ६, १; २, १,
१८x; शाश्रौ; आपमं २, १९,
७^f?; आग्निष्ट ३, ५, १: १५^f?;
बौपि १, १: १३; भाण्ड २,
२७: ३; हिण्ड १, १४, ४^f?;
२, ११, १^f?; ऋषा ७,

a) अस. समासान्तष् टच् प्र. उंसं. (पा ५, ४, १०७)। b) अस.। c) अस. >षस.। d) सपा. °तेन <> °नेन इति पाभे.। e) कस.। f) पाभे. पृ २०२० h द्र.। g) बस.। h) समासान्त: अच् प्र. उंसं. (पावा ५, ४, ७५)। i) तु. धन्वी; वैतु. MW. विप. इति। j) बस.। तद्वति वृत्ति:। k) परस्परं पाभे.। l) उप. <√विद् (लाभे)। m) अस. (तु. स्क. PW. प्रष्ट; वैतु. अन्ये उत्तरेण समस्तं व्यासिभूत: इति पृथक पदमिति)। n) वैप १ द्र.। o) पाठ: ? यति इति शोच: (तु. सपा. ऋ १०, १८, ६ प्रष्ट. [तु. Old.])। p) दिवि प्र° इति पाठ: ? यति. च चिप्र° इति च द्विपद: शोच: (तु. सप्र. बौपि.)। q) यदिति इति पाठ: ? यति. शोच: (तु. आपमं २, २२, १० भाण्ड. च)।

३३०; ३४^०; शुभा ३, १२९^०;
 तैप्रा ३, १३^०; पा ८, १, ३०.
 ऋयदु^a - दवः अप ४८, ७८; निघ
 २, ३; -दवे आश्रौ ९, ५, २.
 ?यद्या वाश्रौ ३, २, ५, २४.
 ?यद्वाहि(ध्व) ष्टया- ष्टया या
 १४, ११^b.
 यन्तव्या- प्रसृ. √यच्छ् द.
 √यन्त्र् पाधा. चुरा. पर. संकोचे.
 यन्त्र- प्रसृ. √यच्छ् द.
 ?यन्त्रया^c या ३, १६^०.
 ऋ/यम् पाधा. भ्वा. पर. मैथुने,
 यभति बौश्रौ १५, ३० : १;
 यभ शाश्रौ १२, २४, २.
 यियप्यते शाश्रौ १६, ४, ६;
 यीयप्यते आश्रौ ८, ३, २४^d.
 यीयप्यमा(न>)ना- ना शाश्रौ
 १२, २३, ५^e.
 यम् पाग १, ४, ५७.
 √यम्, १यम- प्रसृ. √यच्छ् द.
 २यम, मा^f - ऋंम आश्रौ २, १९,
 २२xx; शाश्रौ; -मः आश्रौ २,
 १९, २१^g; १०, ७, २^h; शाश्रौ
 ६, ३, २ⁱ; १५, ९, २^j; १६, २,
 ४^k; आपश्रौ; माश्रौ १, ३, ४,
 २३^०; वाश्रौ १, ३, ६, १६^०;
 अप ३२, १, ११^०; वाध ११,
 २०^०; १४, ३०^०; शंघ^० १४४;
 १८२; २२३; ४४३; ऋअ २, १०,
 १४^०; वृदे १, १२३; २, ११;
 ४८^०; ७, ६४; ८, ४८; साअ १,
 ९२^०; २, ४४१; अअभू २^०; निघ
 ५, ४; ६; या १०, १९^०; २०^०;

१२, २८; वेज्यो ३६^०; -मम्
 आश्रौ ५, १९, ५^०; शाश्रौ; आपश्रौ
 १२, २०, ४; भाश्रौ ९, १८, ५;
 माश्रौ २, ५, २, ७; ६, १, २, २६^०.
 वाधूश्रौ ३, ९० : १^k; ९१ :
 १^k; ४^k; ४, ६१ : ८; वैश्रौ १५,
 २३ : १३^०; हिश्रौ ८, ५,
 ३५^०; १३, ८, ३३; १५, ४,
 ३८^०; आमिगृ २, ६, ३ : ३०^०;
 बौगृ ३, ४, १२; हिपि १७ :
 १७; जैगृ २, ९ : १६^०; अपअ ३, ५,
 ३६; शंघ ११६ : १८ : ४०^०; अअ
 ५, २४; ६, २९; या ११, ३४^०xx;
 -मयोः ऋप्रा ९, ४४^०; -ऋमस्य
 आपश्रौ १, १०, ६xx; बौश्रौ
 १७, ४६ : ३^०; भाश्रौ; वाधूश्रौ
 ३, ९१ : २^०; ३-५; अशा १४,
 २; बौध २, २, ३४^०; विघ
 ४३, ३३^०; चाअ ४२ : १४^०;
 वेज्यो ३६^m; -मा आपश्रौ
 २३, ७, ५ⁿ; -माः बौश्रौ २६,
 ११ : २३^०; ३२ : १९^०; निस्
 १०, २ : ३७; या १४, १९^०;
 -मानाम् अप ४६, १, ९^k;
 -माभ्याम्ⁿ काश्रौ २२, १, ३३;
 बौश्रौ १८, ५० : १; लाश्रौ ८,
 १, १९; -माम् आश्रौ ११, ५,
 ४ⁿ; -माय शाश्रौ ४, १^०xx;
 काश्रौ; आपश्रौ १, ८, ६;
 बौश्रौ २७, ३ : १७^०; आमिगृ
 १, २, २ : ९^०; ६, ३ : ४७^०;
 कागृ ५४, १२^०; कागृ ४२ :
 १९; बौगृ ३, ४, ६; ९, ३;

बौपि ३, ६, ५; भागृ ३, ९ :
 ८; वागृ १७, ६; वैगृ ३, ७ :
 ११; २० : १२; हिपि १८ :
 ४; कौस् ८४, २; -ऋंमे
 आश्रौ ४, ९, ४; शाश्रौ; -मेन
 बौश्रौ ३, ११ : २३^०; आमिगृ;
 अप्राय ५, ६; अप ३४, १, ५;
 -मेभ्यः अप ४३, ५, ५५^०;
 -मेषु अप ४६, १, १०; अअ १८,
 ४; अपं ४ : ४१; -मौ^p आश्रौ
 ३, १३, १२; शाश्रौ ३, ४, १४; ५,
 ११^०; १४, ३९, ७; काश्रौ १५,
 ३, १६; आपश्रौ ९, १४, ७xx;
 बौश्रौ १८, ५० : २५; भाश्रौ ९, १६,
 १३; वैश्रौ २०, ३० : १; हिश्रौ
 १५, ४, १४; कौगृ ५, १०;
 शां ३, १०, ४; कौस् १०९, १;
 अप्राय ५, ५; वृदे ६, १६३; या
 १०, २१^०; १२, १०.
 यमी^q - -मि या ११,
 ३४^०; -मी अप ४८, १३९^०;
 ऋअ; -मीम् वृदे ६, १५४; या
 १२, १०; -म्यम् अअ १८, १^०;
 -ऋंभ्या^r आमिगृ ३, ६, ३ : २६;
 ८, २ : ४५; बौपि १, १२ : १;
 १५ : ५१.
 यमी-यम- -माभ्याम्
 गौपि १, ५, २०^०.
 २याम् - -मः वैताश्रौ ४३, ३३;
 साअ १, ३२०; -मम् वाश्रौ ३,
 ४, ३, १५; छुस् ३, ४ : ५^०; ११ :
 ४^०; कौस् १३२, १^०; ऋअ २,
 १०, १४; १३५; अअ ६, ११६^०;

a) वैप १ द्र.। b) षिष्या इति राज.। c) पाभे. पृ १३०२ I द्र.। d) = यम-राज-। e) सपा. तै ३, २, ५,
 ४ आपश्रौ ९, १२, ११ हिगृ १, २६, ९ बौध २, १, ३८ अग्निः इति पाभे.। f) = मृत्यु-। g) = स्मृति-कृत-। h) = ऋषि-
 विशेष-। i) = अग्नि-। j) = भरणीनक्षत्र-देवता-। k) अर्थः ?। l) = शनैश्चरप्रह-देवता-। m) = भरणी-
 नक्षत्र-। n) = युगल- (द्विगुण-).। o) विप. (प्रमदेवत्य- छाग-).। तद्वति वृत्तिः। p) = युगल-। q) पाभे.
 वैप १, २०१० I द्र.। r) विप. (पशु-, सूक्त-, कर्मन्-).। साऽस्यदेवतायर्थे प्र.। s) = साम-विशेष-।

-मस्य क्षुस् ३, ४: ५^४; -मान् कौस् ८१, ३४; -मानाम् बौश्रौ १५, ३१: १९; -मानि क्षुस् ३, ११: ६^४; -मेन^४ शांश्रौ १६, १२, २१; काश्रौ २२, ६, १५; २५, १३, ३०; आपश्रौ २०, १७, ११; बौश्रौ.

यामी^४-मी आपश्रौ ९, २०, ४; वैश्रौ २०, ३९: ६; १०; साश्र १, ३४१; ३९५; -मी: आश्रौ ६, १०, १८; आपश्रौ १४, २२, १; बौश्रौ १४, २७: १२; वैश्रौ २१, ८: ४; हिश्रौ १५, ५, ३५; -मीनाम् शाश्रौ ८, ७, १७; १४, ५७, १२; -मीभि: आपश्रौ १४, २२, ५; हिश्रौ १२, ६, २६; -म्य: शांश्रौ ८, ६, १३; -म्याम्^८ वैगृ १, १०: ११; १४; गौपि १, २, १७.

१याम्य^४-म्ये आम्रिगृ २, ४, ११: ९; -म्येषु अप ५९, १, १५.

याम्या(मी-आ)दि^८-दि आपश्रौ ९, २०, ८.

याम-गाथा-थाभि: वैश्रौ १८, ३: १०^४.

याम-त्रिच-चस्य गौपि १, २, ४०.

याम-सारस्वत^८-तान् कौस् ८३, १६.

२याम्य, म्या^४-पावा ४, १, ८५^४; -म्य: आपश्रौ २२, ७, २२; हिश्रौ १७, ३, २१; अप ५२, ११, ५; विघ २०, ३९;

-म्यम् वैगृ ६, १९: १४; ७, ३: ५; ४: १८; गौपि १, ५, १६; शंघ १०१; विघ ४३, ३२; ६४, ४५^४; अश्र १, १४; -म्यस्य अशां ६, ५^४; -म्या अशां १६, १६; -म्या: बौश्रौ २४, ३८: ३; -म्यात् वैगृ ३, १६: १४; -म्यानि अश्र ६, २९; -म्याम् आश्रौ ४, १२, २१; अशां १७, ४^४; -म्यायाम् अप २५, १, ६०; ५२, १०, २०; ५९, १, ५०; अशां १८, ६^४; १९, ६^४; -म्ये हिपि १७: ४; विघ ७८, ३५^४; -म्येन आम्रिगृ ३, ६, १: १९; बौपि १, ८: १७; हिपि ७: ९; -म्येभ्य: कौपि ३, १०, ६; शांश्र २, १४, ७; -म्येषु अप २५, १, ६; -म्यौ वैगृ ३, १७: १३.

याम्या-कर्म-प्रयोग-ग: अप ७०^४, १३, २.

याम्या(म्या-आ)दि-दि वैगृ १, १५: ६.

याम्या(म्या-अ)न्त-न्तम् वैगृ १, १५: ६.

यम-क^{१५}म्-कम् अप ७०^४, ४, ३२.

यम-गाथा-था: माश्रौ ६, १, २, २६; वाश्रौ २, १, १, ५०;

-थाभि: आपश्रौ १६, ६, ४^४; बौश्रौ २२, २: २६; हिश्रौ ११, १, ६९; हिपि १८: १२; -थाम् पागृ ३, १०, ९.

यम-गीत-न्तम् वाघ १९, ४८;

-तान् वाघ १८, १३.

यम-जनन-न्ते काश्रौ २५, ४, ३५.

१यम-वृत्-न्त पागृ ३, १५, १९;

-ता: अप ४३, ५, ६४^४;

-ताभ्याम् हिपि १८: ९; -तेभ्य: अप ४३, ५, ५६^४.

यम-देव(ता >)त्^८-त: हिश्रौ १५, ४, २५; गोगृ ४, ७, २२;

बौध २, १, ३१.

यम-देवता->व्य, त्या-त्यम् माश्रौ ९, १८, ५१^४; हिश्रौ १५, ४, ३८^४; अश्र १८, १; -त्या: अप १, ४, ८.

यम-दैवत्व^८-त्यम् आपश्रौ ९, १५, १८^४.

यम-नामन्-म या १२, १४.

यम-पद^८-दयो: भासू ३, ८.

यम-पुत्र-न्त्र: वृदे २, ६१; -त्रा: अप ५५, १, ३; -त्राणाम् अप ५५, ४, ३; -त्रान् अप ५५, ४, १.

यम-पुर-रे अप ९, ४, १.

यम-पुस्व-षान् कप्र २, २, २; शंघ ११६: २०; -ष्वेभ्य: आगृ १, २, ५; आम्रिगृ १, ७, २: ६; कागृ ५४, १२; भागृ.

यम-प्रभव^४-वौ गौध २८, ५२.

यम-भय-यम् अप १९, १, ८; -ये अशां १७, ४.

यम-यज्ञ-ज्ञम् हिपि १७: १.

यम-यमी-म्यो: ऋश्र २, १०, १०; -म्यौ वृदे ६, १६३.

यम-राज-न्ज कौगृ ५, २, १३^४;

-जम् बौध २, ५, २५.

यमराज-ग-गान् अप १, ३८,

a) =साम-विशेष-। b) =ऋच-। c) =दक्षिण-दिश-। d) विप. (दक्षिणादिक्-स्थित-] पत्र-
तोयद-। e) बस-। f) संपा. यामगाथाभि: <> यमगाथाभि: इति पाभे-। g) कस-। h) विप. (पशु-
पथिन-^४, सूक्त-^४, दिश-^४ प्रत्य-। i) वृ. पाका-। j) =भरणी-नक्षत्र-। k) =शान्ति-विशेष-। l) =युगल-।
m) स्वार्थे प्र-। n) परस्परं पाभे-। o) पूष- =आभेदित-। p) दस-पूष- =निवृत्ति-; उप- =प्रवृत्ति-।

३३; अशां ८,३.
 १यम-राजन्- -जानः शांश्रौष्ठ, २१,
 ९; बौश्रौ १०; ५२: १; माश्रौ
 ६, २, ४, १; वाश्रौ २, २, ३, २;
 काण् २४, १२; -ज्ञः काण् ४५,
 ६३; कौसू ६२, २१.
 १यम-राज्य- -ज्यम् माण् २, १, ८^b;
 -जे आपश्रौ १, ९, १२; बौश्रौ
 ३, ११: १; माश्रौ.
 १यम-ल- पाउभो २, ३, ९६^d;
 -लानि अप ६७, ३, २.
 यमल-जनन- -ने आमिण् २,
 ७, ४: ३; बौण् ४, ११, १.
 यम-व्रसा- -स्तायाम् कौसू २३, १७
 यम-वरुण- -गौ गोण् ३, ६, १३.
 यम-विषय- -ये शंघ ३७^५.
 यम-व्रत- -तम् कौसू ८२, ४२.
 यम-स(भा >)म-> ०भीय- पा
 ४, ३, ८८.
 यम-सा(<स)दन्- -नम् आमिण्
 २, ५, १: ३; जैण् २, ९: ३;
 -नात् अअ २, १२; -०ने
 आमिण् ३, ८, २: ४१; ५८; बौपि.
 यम सू- -सु: अप्राय ५, ५; -सूम्
 कौण् ३, ५, १०; वाण् ३, १०, ४.
 यम-सूक्त- -क्तम् आमिण् २, ४,
 ३: १६; पाण् ३, १०, ९.
 यम-स्तोम- -मः शांश्रौ १५, ९, १;
 -मम् शांश्रौ १५, ९, २.
 यमा(म-अ)ङ्गिरस- -०रसा आपश्रौ
 ६, २, १, १; -रसो: चाश्र ४: ६.
 यमा(म-अ)तिरात्र- -त्रः आपश्रौ

२३, ७, ४^१; निसू १०, २: ३७;
 -त्रम् आश्रौ ११, ५, ४^१;
 काश्रौ २४, ३, ६.
 यमा(म-अ)न्यतर- -रः हिश्रौ ४,
 ३, १.
 १यमा(म-आ)दि- -दीन् बौध ४,
 ८, ३.
 यमा(म-अ)न्त- -न्ता: -न्तानि
 माश्रौ ५, २, १०, ४.
 यमा(म-अ)लय- -यम् काध २८१:
 १.
 यमि(त् >)नी- -नीम् अअ ३,
 २८.
 यामिन्य- -न्यम् अअ ३, २८.
 यमे(म-इ)न्द्र-वरुण- -णान् अप ७०,
 ९, ४.
 यमे(म-इ)ष्ट- -ष्टम् बौश्रौ १२,
 ११: १५^१.
 ३यम- -मः ऋप्रादि, ३२; अप्रा; -मम्
 ऋप्रा १४, ३४; ५३; याशि २,
 ९२; -मयो: अप ४७, १, १९;
 -मा: अप ४७, १, १०; २, ३;
 ३, ६; शुप्रा; -मात् ऋप्रा ६, ३६;
 -मान् अप ४७, १, ६; ऋप्रा ६,
 २९; तैप्रा २१, १३; माशि ११,
 २; याशि २, ९१; -मानाम् माशि
 ६, ९; -मे शुप्रा ४, ११५; -मेन
 ऋप्रा ६, ३३; -मै: शौच १, ९९;
 -मौ अप ४७, १, १६; १७;
 आशि ४, २, ४.
 यम-दोष- -षा: माशि ११, ४.
 यम-स्थान-गत- -तम् बौधि २१६.

२यमा(म-आ)दि- -दयः याशि २, १.
 यमा(म-अ)नुस्वार-नासिक्य- -न्या:
 ऋत २, २, २; -न्यानाम् शुप्रा १,
 ७४.
 यमा(म-अ)पत्ति- -त्ति: शुप्रा ४,
 १६४; -त्तिम् ऋप्रा ६, ३०.
 यमो(म-उ)पदेश- -शः ऋप्रा १, ५०.
 ४यम- -मः ऋप्रा १३, ४३; -मा:
 ऋप्रा १३, ४४; तैप्रा २२, १२;
 २३, १३.
 यम-क- , १यम-दूत- प्रसृ. २यम- द्र.
 २यमदूत- -ता: बौश्रौप्र ३१: ४.
 यमन- √यच्छ द्र.
 यम-नामन्- २यम- द्र.
 यमनी- √यच्छ द्र.
 यम-पद्- प्रसृ. २यम- द्र.
 २यमल-> यामलायन-पा.) पाग ४,
 २, ८०.
 यमण्डु-> यामण्डेय-पा.) पाग ४
 १, १२३.
 यमस्तम्भ- -म्भा: बौश्रौप्र १७: १३,
 यमिष्ठी- √यच्छ द्र.
 यमुना- पाउ ३, ६१; -ना लाश्रौ १०,
 १९, १०; शंघ ४५७: ९; या ९,
 २६; -नाम् शांश्रौ १३, २९,
 २१; ३०; काश्रौ २४, ६, १०;
 ३६; आपश्रौ २३, १३, ६^१; १४;
 हिश्रौ; -नायाम् आश्रौ १२, ६,
 २८; -०ने आपमं २, ११,
 १२^१; भाण् १, २१: ८^१; या
 ९, २६^१; शैशि १३३.
 यामुन- -नेषु जैण् २, ९: १८.

a) वैप १ द्र. । b) सपा. ञ्जः <> ०ज्यम् इति पाभे. । c) = युगम- । स्वार्थिकः लृच् प्र. उत्सं.
 (पा ५, २, ९७) । d) वैतु. <√यम् इति पाउभो., १यम- + √ला इति शक्. । e) बस. । f) उप. = देश- ।
 g) उप. = सदन- । h) = ऋषि-द्वय- । i) = सत्र-विशेष- । j) पाभे. वैप २, ३खं. तां २४, १२, २ टि. द्र. ।
 k) सास्यदेवतीयः पयः प्र. उत्सं. (पा ४, १, ८५) । l) पाभे. वैप १, २५७७ ७ द्र. । m) = (अक्षरायाम्)
 संज्ञा-विशेष- । n) = संगीतस्वर-विशेष- । o) व्यप. । p) सप्र. ०नाम् अवन्यथम् <> ०नावन्यथम् इति पाभे. ।
 q) पाभे. ५, ९६० ० द्र. । r) = देव-विशेष- । अण् प्र. (पा ४, २, ७०) ।

यमुना-तीर- -रे विध ८५, ९.
 यमुना(ना-अ)वभृथ- -थम् हिश्रौ
 १८, ४, ४०^a.
 यमुन्द-(>यामुन्दायनि-पा.)पाउभो
 २, २, १७०; पाग ४, १, १५४^b.
 यम्य- √यच्छ् द्र.
 ययाति^c- पाउभो २, १, १९७; -ति:
 ऋअ २, ९, १०१; साअ १, ५४७;
 अअ २०, १३७; -ते: चाअ
 ४०: ३.
 ययावर^d- -रात् अय ५०, २, २.
 ययी-, ययु- √या द्र.
 य-र-ल-व-, य-र-वो(व-र-ऊ)धमन्-,
 य-रो(र-र-ऊ)ष्मापत्ति-१य-द्र.
 यर्हि २यद्- द्र.
 य-ल-व-, य-लोप- प्रम्. १य-व-
 १य- द्र.
 २यव^e->यविमन्- पा ६, ४, १५६.
 यवीयस- पा ६, ४, १५६; -यस:
 गौध २८, ७; १६; -यसाम्
 कौस् ८४, १४; बौध १, २, ४६;
 गौध ६, ९; -यसे शंघ २६८;
 -यांसम् वृदे ४, ११२; -यान्
 गौध १८, १९; -यान् ऽ-यान्
 आमिष्ट ३, ६, १: २२; बौपि १,
 ८: १९.
 यवीयसी- -सीम् आमिष्ट
 १, ६, १: २; माग १, ७, ८;
 वाग १०, १; वाध २, २२; गौध
 ४, १.
 यवीय-प्रथम^f- -मानि कौस्
 ८२, १.
 ३यव^g- पाग ५, २, १००^h; ११७; ४,

३; ८, २, ९; -फं०व आमिष्ट ३,
 ८, ३: ३३; बौपि; -फं०व: शाश्रौ
 १२, १७, १; काश्रौ; काश्रु ७,
 २४ⁱ; -वम् फंशाश्रौ १६, ४,
 ४; १३, १७; आपश्रौ; -फं०वम्
 ऽ-वम् निस् ६, ७: ३८; ऋअ
 २, ९, ५५; साअ २, ३२५;
 -वस्य जैगृ १, २४: ८; माशि
 २, १०^j; -वा: काश्रौ २१, ४,
 २९; आपश्रौ ८, ५, ३५; १२,
 ४, ५; काश्रौसं; काश्रु ७, २५^k;
 -०वा: बौध ३, ६, ६-१०; विध
 ४८, १९-२२; -वान् आश्रौ
 ६, ९, १; शाश्रौ १४, ७, १; काश्रौ;
 -वानाम् काश्रौ ४, ६, २; १५, ७,
 ३१; आपश्रौ; हिश्रौ १७, १,
 ४२^l; -वेन अप्राय ५, ६; या
 ३, २०^m; -वेभ्य: आपश्रौ ६,
 ३१, १३ⁿ; बौश्रौ २८, ५:
 ८; भाश्रौ; -वेषुं आश्रौ २, ९,
 ५; बौश्रौ १८, २०: ९××; -वै:
 आपश्रौ ६, ३०, १८××; बौश्रौ.
 यवानी- पावा ४, १, ४९.
 १याव^o- पाग ५, ४, २९; -व:
 काश्रौ ५, १२, ३; -वम् काश्रौ
 ४, ११, ८; शंघ १३६.
 याव-क^p- पा ५, ४, २९;
 -क: बौध ४, ५, २३^q; -कम्
 काय ६, ४; वाध २१, ६; शंघ
 ४२२; ४४८^r; बौध; -केन
 काय ४३, ६; वैगृ २, ३: ५;
 वाध ११, ७७.
 यावक-भक्ष- -क्ष: जैगृ

२, ८: २३; बौध ३, ९, १७.
 यव-क- पा ५, ४, २.
 यवक्य- पा ५, २, ३.
 यव-कर्कन्धु-चूर्ण- -र्णानि काश्रौ
 १९, २, २२.
 यव-कर्कन्धु-दधि- -विभि: कप्र १,
 ३, १३.
 यव-कलापि^s- -पि: शाश्रौ १४,
 ४०, ९.
 यव-क्री^t- > °क्री-तोष-रैभ्य-
 -भ्या: अप ५२, ९, ३.
 यव-खल- -ल: शाश्रौ १४, ४०, ७.
 यव-नोधूम- -मानाम् आपश्रौ १९,
 ६, ७; हिश्रौ २३, १, १६; अप
 १२, १, ३.
 यव-नोधूम-पयो-विकार- -रम्
 विध ५१, ३५.
 यव-चूर्ण- -र्णै: शाश्रौ ४, १५, २२;
 कौगृ ५, ६, ५.
 यव-ध्यान-तिल- -लै: अप ३०,
 ३, १.
 यव-नीवार-वेणु-श्यामाक-श्रीहिजा-
 ति-प्रियङ्गु- -ङ्गव: वैश्रौ ११, ११:
 ७.
 यव-पाल- पा ६, २, ७८.
 यव-पिष्ट- -ष्टानि बौश्रौ ९, १७:
 २६; २८, १३: ७; बौगृ ३, १०,
 ४; -ष्टै: हिश्रौ १४, ४, १८.
 यवपिष्ट-मधु-सर्पिस- -र्पिभि:
 शंघ १६.
 यव-पुरी (ष>)षा^u- -षा बौश्रौ
 १८, २१: ५.
 यव-प्रमुख^v- -खान् शंघ ११६: १४.

a) पाप्मे. पृ २०२४ p द्र.। b) व्यप.। c) वैप १ द्र.। d) देश-विशेष-। e) पाप्र.
 <युवन्- इति। f) वस.। g) वैप १, २५७८ p द्र.। विशेष: टि. द्र.। h) तु. पागम.। i) =परिमाण-
 विशेष-। j) =[यवाकार-] अक्षुण्णित्व-व-आन्त-। k) °नीम् इति पाठ: ? यनि. शोध: (तु. सपा. आपश्रौ २२,
 ३, ४)। l) विकाराऽर्थे प्र.। m) वैतु. अभा. <यवक- इति। n) =[उपचारात्] कृच्छ्र-विशेष-। o) उम.
 =तृणमुष्टि-।

यव-प्रवाद- -दम् निस् ६, ७ : ३९.
 यव-प्रसूत- -नानि बौध १, १०, ८;
 -नैः बौध १, १०, ७.
 यव-प्रासन- -नम् हिश्रौ ७, ७, ६.
 यव-बहिस्^१ -हिः बौश्रौ १८,
 २१ : ७.
 यव-बुस^२ > यवबुसक- पा ४,
 ३, ४८.
 यव-मणि- -णिम् कौसू १९, २७;
 अश्रां १९, ३.
 यव-मत्- पा ५, २, ११७; ८, २, ९;
 -मन्त् आपश्रौ १, १७, ५; वैश्रौ ४,
 ४ : २; हिश्रौ १, ५, १; -त् मन्तः
 शाश्रौ १३, ३, ४; बौश्रौ ११,
 ३ : १९××; माश्रौ; -मान्
 शुभ्र १, १३५०.
 यवमती- -तीः बौश्रौ ४, ४ :
 ७××; वाश्रौ; -तीभिः आपश्रौ
 ७, ९, ९; ११, ९, १२; १२, ५;
 भाश्रौ; -तीभ्यः बौश्रौ ४, १ : ६.
 यव-मध्य, ध्या(बप्रा.)^३ -ध्यः^४ विध
 ४७, ३; ६; -ध्यम् बौध ३,
 ८, ३३^५; -ध्या^६ ऋअ १, ४,
 ६; ९, १०; २, १, १०५××;
 शुभ्र; -ध्याः कप्र २, ८, २^६;
 अअ ५, १०^७; -ध्याम् माशि ९,
 ५^८; -ध्ये अअ ९, १.
 यवमध्यो(ध्या-उ) त्तर^८ -रः
 ऋप्रा १८, १३.
 यव-मय- पा ४, ३, १४९; -यः
 काश्रौ १५, १, २४; आपश्रौ;
 -यम् आपश्रौ २, ११, २; ५, ४,
 १५^९××; बौश्रौ; -यानि भाश्रौ
 ८, १५, १५.

यव-मात्र- -त्रम् काश्रौ ३, ४, १;
 आपश्रौ ३, १, २; बौश्रौ; -त् मात्र
 आपश्रौ ३, १, २; बौश्रौ.
 यव-मुष्टि- -ष्टिम् गोग ३, ७, ७.
 यव-मेघ- -घेन वाधूश्रौ ४, १९;
 ३२.
 √यवयु>यवयु- -युः ऋप्रा ९,
 ४३^१.
 यव-वत् कप्र १, ३, ९.
 यव-वेला- -लायाम् लाश्रौ ८, ३, ७.
 यव-व्रीहि-तिला (ल-आ) दि-
 -दीनाम् अप्र २१, २, २.
 यव-व्रीहि-महाव्रीहि-प्रियङ्गु-
 -ङ्गूपाम् अप्र २३, ७, २.
 यव-शालि- -लीन् आज्यो ३, ३.
 यव-रुक्तु- -भिः आपश्रौ १९, ७,
 १; वाश्रौ ३, २, ७, ६३; वैश्रौ
 १५, १६ : ६; हिश्रौ २३, १, २५.
 यवसक्त-मिश्र- -श्रम् आश्रिण २,
 ६, ६ : ११.
 यव-ससक- -कम् विध १३, ४.
 यव-सर्षप- -पौ आश्रिण २, १, १ : ९.
 यव-स्तम्ब- -म्बम् आपश्रौ ६, ३०,
 १४.
 यवा(व-अ)क्षत-तण्डुल- -लैः
 आश्रिण १, ७, १ : ८.
 ?य(व>)वा-गिरि- ऋत ४, ७, १०.
 यवा(व-अ)अयण^२ -णस्य बौश्रौ
 २८, १२ : १३; १४; -णेन बौश्रौ
 १२, ३ : ४; १५, ९ : १८.
 यवा(व-अ)प्रायण^३ -णे वाश्रौ १,
 ५, ५, ६.
 यवा(व-अ)वार^४ -रौ अप्र ४०,
 ३, ५.

यवा(व-अ)चाम^१ - -मेन बौध ४,
 ५, २५.
 यवा(व-अ)चित्त^२ - -तम् आश्रौ ९,
 ४, १८; काश्रौ १५, ८, २३;
 आपश्रौ १८, २१, ७; बौश्रौ १२,
 १८ : १७.
 यवा(व-अ)दि- -दीनाम् अत्राय ६,
 ५.
 यवादि-रहित- -तः कप्र १, ४, ३.
 यवा(व-अ)न्तर- -रम् नाशि १,
 ६, ९.
 यवा(व-अ)न्न- -न्नम् शंघ ४४८;
 विध ९५, १२.
 यवा(व-अ)शिर^३ - -शिरः हिश्रौ
 १२, ६, ६^४; -शिरम् आश्रौ ६,
 २, ६××; शाश्रौ १५, २, १; शुसू
 १, ७ : १३; २, १० : २४.
 यविक- , यविन्- , यविल- पा ५, २,
 ११७.
 यवो(व-उ)दक- -कम् वैध ६, २ :
 १४; -केन भाण ३, १६ : ९.
 यवो(व-ओ)दन- -नम्^१ बौपि १,
 १७ : ३१; हिपि १२ : ४; -नस्य
 बौपि १, १७ : ३१; हिपि १२ : ५.
 यवोदन-प्राशन- -नात् हिपि
 १९ : १३.
 यवो(व-उ)दर^२ - -राणि अप्र २६,
 १, ३; -रैः अप्र २३, ५, ५.
 यवो(व-उ)र्व(र>)रा^३ - -रा शाश्रौ
 १४, ४०, ६; आपश्रौ २२, ३, ३;
 लाश्रौ ८, ३, ४; हिश्रौ १७, १,
 ४१; -रायाम् काश्रौसं २७ :
 १६^४.
 १यवौ(व-ओ)दन- -नम् आश्रिण ३,

a) बस.। b) = [उपचारात्] काल-विशेष-। c) = ऋषि-विशेष-। d) = चान्द्रायण-। e) = छन्दो-
 विशेष-। f) विप. (कुश-। g) = विशृति-विशेष-। h) = [वसन्ते] नवाश्लेष्टि- (तु. भाष्यम् [काश्रौ १, ८, ६; ४,
 ६; १; २])। i) = आहुति-विशेष-। मलो. कप्र.। j) उप. = [उपचारात्] पयद्रव्य-। k) वैप १ द्र.। l) सपा.
 यवौ <> यवौ इति पाठे.। m) = प्रमाण-विशेष-। n) दिप.। तुस.। o) गवो^१ इति पाठः ? यनि. ऋषि-।

७,२: ११^३; -नस्य आग्निष्ट ३,
७,२:१२.
श्यवौ(व-ओ)द्वन्^१- नौ अशां
१२,३.
श्यव्य,व्या- पा ५, १, ७; २, ३;
-व्यानि^० आपश्चौ २०, १२, १;
बौश्रौ १५, ३७: ११; -व्ये शुभ्रा
२,२०^१.
श्य(व्य>)व्या- व्याचैबौश्रौ १५,
२६: १^१.
श्यव^०- -वा: माश्रौ ६, २, ३, २;
वाश्रौ २, २, २, ८.
श्यव्य^०- -व्य: कप्र २, ६, ८.
यवक-, -व्य-, -श्री- श्यव- द्र.
यवखद->^०दिक- पा.) पाग ५, २,
११६.
य-वचन- १य- द्र.
श्यवन^१- पाठ २, ७४; पावा, पावाग
४, १, १७३; -ना: अप ५७,
२, ५; -नेषु अप ५१, १, ३.
यवनानी^१- पावा ४, १, ४९.
यवन-काम्बोज- -जान् अप ५०,
२, ४.
यवन-मुण्ड- पाग २, १, ७२.
यवन-बलय-कान्ती-सिंहल-लङ्का-
पुरी^१- -री अप ५६, १, ५.
श्यवन- √यु द्र.
य-वन-ह-पर- १य- द्र.
श्यवने^१ अप ४६, ३, ६^१.
√यवय प्रसृ. श्यव- द्र.
यवया^१- > यवया-वन्^०- -वान:
अप्रा ३, १, ७^१.

य-व-ल- १य- द्र.
यवषि->^०षिन्- यवाष- टि. द्र.
यवस्- √यु (बधा.) द्र.
यवस्^०- पाठमो २, ३, १७३; -सम्
आश्रौ ३, ११, ४; आपश्चौ ८, १,
४^१; २०, ७, ८; हिश्रौ १४, २,
२१; आष्ट २, ४, ८; -^१से बौश्रौ
१०, ४६: ४८; माश्रौ ६, २,
३, १७; वैश्रौ; -^१सेन आपश्चौ
१२, १४, १२; हिश्रौ ८, ४,
१४.
यवस-भार- -रम् शंभ ४०१.
यवस-मुष्टि- -ष्टिम् शाश्रौ ३, २०,
१.
यवसो(स-उ)दक- -के काश्रौ २६,
६, २४; पाष्ट ३, १४, १५; विध
६३, १८.
यवागू^०- पाठ ३, ८१; -^१गु: वाश्रौ
१, ५, ३, ३; ४; -गू: आश्रौ २,
३, २; शाश्रौ २, ७, ९; काश्रौ,
-गूस् भाश्रौ ३, १०, ३०;
आपश्चौ ६, १५, २; ९, १, २३×४;
काश्रौसै; -न्वा आश्रौ २, ४, २;
शाश्रौ ३, १२, १५; ४, ५, ११;
काश्रौ; -न्वा: माश्रौ १, १, ३,
३५.
यवागू-नियम- -म: मीस् ११, १,
५०.
श्यवाचष्टति^१ लाश्रौ ४, २, ९.
यवानी- श्यव- द्र.
यवाष- (>^०षिक-, षिन्- पा.)
पाग ४, २, ८०^२.

यवास्- पाग ४, २, ८०^३; ३, १३९; ५,
२, १३५^०.
यवास्- पा ४, ३, १३९.
श्यवासिन्- पा ४, २, ८०.
श्यवासि(न् >)नो- पा ५, २,
१३५.
यविक-, यविन्- श्यव- द्र.
यविमन्- श्यव- द्र.
यविल- श्यव- द्र.
यविष्ठ^०- पा ५, ३, ६४; ६, ४, १५६;
-^१ंष्ठ आश्रौ १, ६, २; ७, ८, १;
काश्रौ; वैश्रौ १, ६: ८^१; आपमं
२, ११, २८^१; -^१ष्ठ: शाश्रौ १२,
१९, ४; १८, २२, ६; वाश्रौ १,
३, ७, २०; -^१ष्ठम् आपश्चौ १६,
३५, ५; वाश्रौ २, १, ८, १६;
हिश्रौ ११, ८, २३; -^१ष्ठस्य चाश्र
१६: २७^१; -^१ष्ठय बौश्रौ १३,
५: ३; ५; अप्राय ६, ६^१; -^१ष्ठे
वृदे ७, ६१.
श्यविष्ठय^०- पावा ५, ४, ३६६;
-^०ष्ठय आपश्चौ ५, ६, ३;
बौश्रौ २, १४: १६; हिश्रौ ३,
२, ५४; ऋप्रा ७, ३०; शुभ्रा ४,
१५६^२; भाशि ८३; -^१ष्ठय: बौष्ट
३, ५, १२-१४.
यवीयस्- श्यव- द्र.
यवीयुध- √युध् द्र.
श्यवैलायाम् काश्रौसै २८: २.
श्यवोहिषु नाशि २, ४, ६.
श्य(व्य>)व्या^०- -व्या बौश्रौ ५,
८: २; -व्या: निघ १, १३.

a) पामि. पृ २०२६ l द्र.। b) द्वस.। c) = होम-विशेष-। विकाराऽर्थे यत् प्र.। d) पामि. वैप
१, २५७९ f द्र.। e) वैप १ द्र.। f) पामि. वैप १, २५७९ h द्र.। g) स्वार्थे यत् प्र.। h) नाप.
(जनपद-; तद्राजन्-। i) ष) = लिपि-। j) द्वस. > मलो. कस.। k) पाठः? सपा. ऋ २, १०८, ५ पवते इति
पामि.। l) पाठः? षुः इति शोधः। m) पाठः?। यच्च चेष्टितम् इति शोधः (तु. द्राश्रौ ११, २, १०)।
n) सकृन्-स- इति पासि. पागम.। अन्यत्र यवषि- इति पासि.। o) पय- इति दुर्गः (तु. पागम.)। p) पामि.
वैप १, २५८१ e द्र.। q) पामि. वैप १, २५८० p द्र.। r) व्यप. ?। ष्टस्य इति पाठः? यनि. शोधः।

✓यज्ञ (वधा.)^a > यज्ञ^b - शस् मागृ १५, ४^{२०}.

१यज्ञस्^c - पाठ ४, १९१; पावाग ५, १, १११; -ज्ञः आश्रौ ६, १२, २१^d; ९, ३, १०; शाश्रौ; पागृ २, ६, २०^e; मागृ १, ९, २७^f; १३, ७^g; ८^h; वागृ १२, ३ⁱ; कौसू १३, ४^j; अप ४८, ७^k; -ज्ञसः वाधूश्रौ ४, ९४^l; ७; द्राश्रौ ९, ३, १०; लाश्रौ; -ज्ञसा आश्रौ ९, ३, १०; शाश्रौ १६, २९, ७; आपश्रौ; बौश्रौ १०, ४६; ११^m; -ज्ञसि बौश्रौ १०, ४५; ३१ⁿ; वैश्रौ; -ज्ञसि आश्रौ १, ३, २३; २, ९, ९×४; शाश्रौ; माश्रौ १, १, ३, ७^o; -ज्ञसि या ५, २५.

यज्ञः-प्रती(क>)का^p - का या १०, २१.

यज्ञस्-कर- राय आग्निगृ २, ४, ३; ११.

यज्ञस्-काम- -मः आश्रौ ९, ८, ५; ७; माश्रौ; -मस्य आपश्रौ ६, १५, १; भाश्रौ ६, १४, १४; आग्निगृ २, ४, ११; २; -माः बौश्रौ ३, १४; ९.

यज्ञस्-कामिन्- -मी आग्निगृ २, ४, ११; २४.

यज्ञस्-कृत्- -कृतम् बौश्रौ ३, ८; ११^q.

यज्ञस्य, स्या- पावा ५, १, १११; -स्यः आगृ ४, ८, ३५; पागृ ३, ८, २; -स्यम् मागृ १, १८, २; द्रागृ ४, २, १३; अप २०, ७, २; बौध ३, ८, ३८; विध १००, २; शुप्रा ८, ३२; -स्ये बौश्रौ ६, २४; ३५^r.

यज्ञस्य-वर्चस्य- -स्थानि अप १८, १, १४.

यज्ञस्-वत्- -वन्तः बौश्रौ ३, ८; १०^s.

यज्ञस्वती- -ती आश्रौ ४, १२, २^t; आपश्रौ १९, १४, १३; बौश्रौ; अप ४८, ७^u.

यज्ञस्-विन्- -वि आपमं २, २, ११; शागृ २, १, २९; पागृ; -यं विन् आपश्रौ १७, १०, २; बौश्रौ; -विनः अप २०, ५, ३; याशि १, ३७; नाशि २, ८, ४; -यं विन् आपश्रौ ६, २१, १; वाधूश्रौ; आगृ २, ६, ९^v; अप २०, ५, ३^w; -यं विना भागृ १, २०; ८; हिगृ १, २४, ३; -यं वि काश्रौ ३, ३, ५; आपश्रौ ६, १४, ६×४; बौश्रौ.

यज्ञस्विनी- -न्ति मागृ २, १४, ३०^x; -नी मागृ २, १३, ६^y; -नीः कौसू १३, ५, ९^z; -नीम् मागृ २, १३, ६^{aa}; कप्र ३, १, १०; वृदे ४, ५७; ५, ५४.

यज्ञस्वि-तम- -मः वाधूश्रौ ४, ९४^{ab}; ४; ५; ७.

यज्ञः-सद्^{ac} -सत् आपश्रौ १६, २९, २; वैश्रौ १८, २०; २८; हिश्रौ ११, ८, ४.

यज्ञो-(हन् >)श्री- -श्री पागृ १, ११, २; ४; वैगृ ५, ९; ३; जैगृ १, २२; २२.

यज्ञोऽन्य(श्री-अ)न्त^{ad} -न्तम् वैगृ ३, ४; ४.

यज्ञो-डा^{ae} -दाः आपश्रौ १७, ५, ९; बौश्रौ; -दाम् आपश्रौ १७, ५, ९; बौश्रौ.

यज्ञो-धा^{af} -धाम् माश्रौ ५, २, ८, २०^{ag}.

यज्ञो-भग^{ah} > णिन, ना- पा ४, ४, १३२; -यं ना हिश्रौ २, ५, ४३; ६, ४, ३.

यज्ञोभगय- पा ४, ४, १३१.

यज्ञो-धित-हर- -रान् विध ५, १९२.

यज्ञस्-शस^{ai} -शसः^{aj} आपश्रौ १, ११, १०; बौश्रौ १, ३; १६; भाश्रौ; -शसम् आश्रौ ३, ८, १; ४, १३, ७; काश्रौ ५, १२, १०; आपश्रौ; -शसा आश्रौ ४, ४, ४; -शाः आश्रौ ७, ४, ३; शाश्रौ १२, ९, ११; अत्र ६, ५८.

यज्ञस्तपाः^{ak} आग्निगृ १, ३, ४; १६^{al}.

यज्ञस्-तम- -मः वाधूश्रौ ४, ९४^{am}; ४; ५; ७.

यष्टव्य- ✓यज्ञ द.

- a) वैप १ द.। b) = १यज्ञस्-। c) सपा. मागृ १, १३, ८ बलं यज्ञः इति पाभे.। d) पाभे. वैप १, २५८२ h द.। e) यज्ञोधा^o इति पाठः? यनि. च धास्यै (तुमर्थीयम्) इति व द्विपदः शोधः। f) सपा. शौ २, १३, ३; १९, २४, ६ पै १५, ६, ३ विभे.। g) पाभे. वैप १, २५८२ g द.। h) = उदक-। i) पाभे. वैप १, २५८२ k द.। j) पाभे. वैप २, ३खं. यज्ञसः तैत्रा ३, ७, ४, १४ टि. द.। k) वस-। l) पाभे. वैप १, २५८२ d द.। m) पाभे. वैप २, ३खं. दशस्यै तैत्रा १, ८, २ टि. द.। n) पाभे. वैप १, २५८३ g द.। o) पाभे. वैप १, २५८३ h द.। p) = राशि-। q) = मन्त्र-विशेष-। रस-। r) पाठः? स्तमः इति शोधः (तु. शौ ६, ५४, ३; सूको. षः इति)। सपा. बौश्रौ १, १३, ४३ स्तमः इति पाभे. ?।

यष्टि,ष्टी^a- पाउभो२,१,१८६; पा,पाग
४,१,४५; -ष्टयः बौध २, १०,
१२; ३२; -ष्टिः वाघ १२, १४;
-ष्टिमिः कौसू ३९, १५; -ष्टिम्
वागृ ९, १४; बौध ३, १, ८; विध
७१, १३; -ष्टया कौसू ४७, २४.
याष्टीक- पा ४, ४, ५९.

यष्टि-ग्रह- पावा ३, २, ९.

यष्टुम्, यष्टृ- √यञ् द्र.

√यस्^b पाधा. दिवा. पर. प्रयत्ने,
ऋष्यस्य^c शांत् १, १९, ६; हिद्य
१, २५, १.

यस्क^d- पाग २, ४, ६३; ४, १, ११२;
-स्काः^e बौधप्र ६: १; ५.

यास्क- पा ४, १, ११२; -स्कः
बौधौ १६, २७: २२; वृदे २,
१११; १३७x; साभ; -स्कस्य
पि ३, ३०; -स्कानाम् वैध
४, २, ४१^f; -स्काय वाधूश्रौ ३, १:
१०; या १४, ३६.

यास्क-कात्यक्य- -क्यौ वृदे
३, १००.

यास्क-गार्ग्य-रथीतर- -रा:
वृदे १, २६.

यास्क-प्रभृति- -तयः साभ
१, ५८१.

यास्क-भागुरि- -री वृदे ६,
१०७.

यास्क-वाधूल-मौन-मौक-

-का: आपश्रौ २४, ६, १.
यास्क-वाधूल-मौन-मौक-जात-
वाह^g- -हा: हिश्रौ २१, ३, ७१.
यास्क-शाण्डिल्य- -ह्यौ वृदे
२, १३२.
यास्कौ(स्क-श्रौ)पमन्यव-
-वौ वृदे ७, ६९.

यस्क-वाधूल-मौन-मौक-शार्कराक्षि-
साष्टि-सावर्णि-शालङ्कायन-जैमि-
नि-द्वैवन्त्यायन- -नानाम् आश्रौ
१२, १०, १०.

यस्त्वृत्वो तत्रागेवसः^h मैत्र ३२.

यस्मान्मिनोतिⁱ अत्राय ५, ६१.

√यह्(वधा.)>यह्->यहु- -हुः
निघ २, २१; -हुम् या ८, २;
-०हो वृदे ३, ६४१.

यह्^d- पाठ १, १५४; -०ह
या ८, ८१; -हः आपश्रौ १२,
१६, ८; वाधूश्रौ; अप ४८, ६८^k;
निघ ३, ३६; -हम् आश्रौ ४, १३,
७; शांश्रौ ६, ४, ७x; ऋअ;
-हस्य आपश्रौ १२, ७, १०^l; १३^l;
१३, १६, ८; हिश्रौ ८, २, ९^l; १०,
५, १३; -ह्वाः आपश्रौ १७, १८, १.

यह्नी^d- -ह्यः अप ४८, ७६१.
यह्नीहस- -हः निघ १, १२^m; २, ९ⁿ.

√या(वधा.) पाधा. अदा. पर. प्रापणे,
याति आपश्रौ ९, १०, १७१;
१६, ३५, ५१; २३, ११, १२;

बौश्रौ; यातः विध ५४, ७;
यान्ति आपश्रौ १०, २४, २;
२३, १२, १७x; बौश्रौ;
यासि आश्रौ २, १३, ७१;
आपश्रौ; या ८, ३; ऋयामि^o
आश्रौ २, १७, १५^p; ३, ७,
१५; ५, १६, २; ७, ४, ३; शांश्रौ;
आपश्रौ ३, ११, २^p; ९, १२, ४^p;
यामः या २, २६^q; ऋयातु माश्रौ
२, ३, ६, ४; वैद्य ५, ३: २३;
ऋयान्तु बौद्य २, ११: ४२; गोपि
२, ४, १९; ऋयाहि आश्रौ ३, ७,
१०; वैश्रौ; ऋयातम् अत्राय ६,
९; अत्र २०, १४१; वैशि १२५;
ऋयात्, > ता गोपि २, ५, १४;
अप ४४, ४, १२; तैत्रा ३, १०;
यातन या ४, ७; अयात् सु २४,
३; ऋयातम् आश्रौ ९, ५, २;
शांश्रौ; यायात् वाधूश्रौ ४, ९४^r;
७; वाश्रौ १, ७, ४, ६५; आपश्रौ.
ययौ अत्राय २, ३१; ययुः आमिद्य
३, ५, ४: १८^s; बौपि १, ३:
२७^t; कप्र ३, २, १३; ययाथ
कौसू ८१, ३९^t; यास्यति कप्र
३, ३, ६; वैध १, ६, १; यासिष्ट
बौश्रौ १८, २६: ८.

ययी^d- पाठ ३, १५९; -ऋयम्
काश्रौ १२, ३, १४; आपश्रौ; वाश्रौ
३, २, २, २८^u; हिश्रौ १६, ३,

a) नाप. (दण्ड-). व्यु. ? <√यञ् इति प्रायोवादः, <√यम् इति P.W. प्रसू., <√यक्ष इति [पक्षे] अभा.। b) पा ३, १, ७१ परासृष्टः द्र.। c) लोटि मपु १। पाभे. पृ २००८ a द्र.। d) वैप १ द्र.। e) बहु. <यास्क-। f) याकतस्का इति पाठः? यनि. शोधः। g) ऋकैरजा इति पाठः? यनि. शोधः (तु. आपश्रौ २४, ६, १)। h) पाठः? यस्त्वृत्वो तत्रागेव स्यात् (यत् तु ऋत्वा उ तत्र अग् एव स्यात्) इत्याकारकः पाद-शोधः। i) पाठः? प्रस्मा मिनोति इति त्रिपदः शोधः (तु. ऋ ५, ७, ४ आपश्रौ १४, २९, ३ प्रसू.)। j) नाप. (अपत्य- [निघ.])। शेषं वैप १, २५८४ j द्र.। k) = महत्-। l) पाभे. वैप १, १३७४ o. द्र.। m) = जल-। n) = १वल-। o) धा. याञ्चायां वृत्तिः। p) पाभे. वैप १, २५८५ i द्र.। q) पाभे. वैप १, ७५१ f द्र.। r) ष्यम् इति पाठः? यनि. शोधः।

३६३.

यद्यु^b- पाउ १, २१; -फंयुः बौश्रौ
१५, ७; १४; आपमं २, २१, २८.

यात्- यातः बौश्रौ १८, ४१; १फं;
याताम् आमिण् २, ५, १०; ३१फं;
वृदे ८, ८७; यान्तः लाश्रौ १०,
५, १०; यान्तम् बौश्रौ ६, ९; ६;
२१, १०; २१; विध ७१, १८;
ऋअ २, १०, ४०फं.

यात- पाग ४, ४, १९^d; -तः सु १८,
६; विध ७२, ६; या ८, ८; -ताः
अप ३१, ३, ५; -त्ते विध १,
१९; -तौ वृदे ७, १३१.

यात-याम^b- मम् श्रुअ १, ५;
-मैः कौघ ३, ११, ४०; शाण्
४, ११, ९.

यातयाम-ता- -तायै गोयु
१, ८, १२.

यातयाम-त्व- > °त्व-का-
रिन्- -रि कप्र ३, ८, १६.

यात-यामन्^b- -मानि ऋअ १,
१, १; -झा बौश्रौ २९, १०; १२.

याता(त-अ)नुयात- पावाग २,
१, ६०.

यातिक- पा ४, ४, १९.

यातो(त-उ)वयात- (> °तिक-
पा.) पाग ४, ४, १९.

यातवे माण् २, ७, ५फं.

यातवै वाधूश्रौ ४, १०; ७.

१यात्- -ता आश्रौ ६, ३, १फं;
-तारम् अप ४८, ११६फं.

यात्रा- पाउ ४, १६८; -त्रा आज्यो
६, ६; -त्राम् अप ६८, ३, ५; विध
३, ४०; आज्यो १०, ३.

यात्रा(त्रा-अ)र्थ- -र्थम् कौस्

६७, १५.

यात्रा-विधान- -नम् आज्यो
७, ७.

यात्रिक^a- -कम् शंघ ३९०.

यात्रो(त्रा-उ)घान- -ने अप
२४, १, ३.

यात्वा काश्रौ ७, ९, १५××; आपश्रौ.

१यान^b- पाग २, ४, ३१; -नम्
बौश्रौ ९, १९, ४१; आण् १, ८,
१; पाण्; -नस्य अप ६८, २,
१४; आपध २, ११, ७; हिध २,
४, २३; या १३, १२; -नात्

आपध २, ९, २; हिध २, १,
११७; -फंनाच् या ८, ६; अप्रा
२, ४, १७; -नानि शाश्रौ १५,
३, १४; हिश्रौ १३, १, ३१;

लाश्रौ ८, ४, १३; अप;
-नाय बौघ ४, ४, १०; -नेन

लाश्रौ ८, ५, ६; बौघ; -नेषु
आपश्रौ ६, २८, २; हिश्रौ ३, ८,
३; गौघ १३, २२; -नैः बौघ

१, ५, ८४.

१यानी^b- -फंनी आपश्रौ १६,
२४, ८××; बौश्रौ.

यान-वत्- -वन्तम् आपध २,
९, २; हिध २, १, ११७.

यान-विपर्यास- -से पाण् १,
१०, १; गोण् २, ४, ३.

यान-स्थ- -स्थः गौघ १६, १७.

याना(न-अ)नुसर्पण- -णे अप
७१, १, ३.

याना(न-आ)सन- -ने विध
६५, १४.

यानासना(न-अ)शन- -नात्
वाध १, २२६; बौघ २, १, ६२.

याप(न>)ना- -नायाम् पा ५, ४,
६०.

याप्य- -प्यः गौघ १३, २३;
-प्याः सुधप ८५; ४; -प्ये

पा ५, ३, ४७; -प्येन बौघ ३,
१०, २; गौघ १९, २.

३याम^b- पाउ १, १४०; -मम् कप्र
२, ६, २; -मान् कप्र २, ६, १०;

-मै वैश्रौ १७, ४; ४; माश्रौ ४, ८,
१; अप ६८, २, ५८; -मेषु वैश्रौ

१७, ४; २; या ४, १५फं.

फंयामन्- -मन् वाश्रौ १, ३, ३, १;
हिश्रौ १, ७, ४०; -मन् ङ-मन्

अअ ४, २९; -मनि आश्रौ
५, ७, ३; शाश्रौ ७, ६, ३; ऋप्रा
७, ३४.

याय(त् >)न्ती- -न्तीनाम् शाश्रौ
१६, २२, २१.

यायावर^b- पा ३, २, १७६; -रः
आपश्रौ ५, ३, २२; १६, १३, ४;

भाश्रौ; -रस्य आपश्रौ ११, १७,
१; -राः बौश्रौ २४, ३१; २;

हिपि २१; ४; -राणाम् अप
२३, ७, ५; शंघ १५८.

यायावर-त्व- -त्वम् बौघ ३,
१, ३.

यायावर-धर्म- -मैण बौश्रौ २४,
३१; १; ३; हिपि २१; ५.

यायावर-वनस्थ- -स्थेभ्यः बौघ
४, ५, २७.

यायिन्- -यिनः अप ५१, २, १;
६३, ४, ३; -यिनम् अप ५१,
२, २; -यिनाम् अप ६३, ४,

१०; -यी अप ५१, २, २; १.

यायि-सङ्घ- -ङ्घाः अप ५१, ५, २.

a) षम् इति पाठः ? यनि. शोधः । b) वैप १ द्र. । c) पाषे. वैप १, १०९३ f द्र. । d) तु.

पक्षे । पागम. । e) घा. हिंसायां वृत्तिः । f) विप. > नाप. । g) ष्वाहानात् इति लैवि. पाठः ? यनि. शोधः

(तु. बौघ., मनु ११, १८०) ।

यियासु-सूत्र कप्र १, १०, ९.
 १यु^१- योः शाश्रौ १४, ५२, ५५.
 याकूलोम, मन- यकृत- द्र.
 याग- प्रभृ. √यज् द्र.
 √याच्^२वाधा. भ्वा. उम. याच्यायाम्,
 याचते बौश्रौ २, २: १४; १०:
 ३८; ३, ११: १६; वाधूश्रौ;
 याचति आपश्रौ १०, ३, १; बौश्रौ;
 याचतः बौश्रौ ५, ९: ११;
 याचन्ति या ८, २; याचामि कौसू
 ४६, ६५; या ७, १५; अयाचत
 ऋअ २, ४, १५; अयाचताम्
 वृदे ३, २०; अयाचन्त बौश्रौ
 २, ७: ३५; अयाचन् अत्र १२,
 ४५; याचेत् आपश्रौ ६, १९, ३५;
 अत्र २, ६, २; वाध; याचेत्
 काश्रौ २२, १, ३१; आपश्रौ;
 याचेरन् पाठ ३, १०, १३.
 याचिष्यते या ६, २४; याचिषत्
 या ६, २४५; याचिषामहे^३ पावा
 ६, १, ८; याचिष्वमि गौपि २, ५,
 १२; विध ७३, ३०.
 याच्यते वृदे १, ८.
 याचयति आमिष्ट १, ६, १: ६;
 याचयेयुः वैश्रौ १२, ३: १०.
 याचक- कम् माशि १५, १; -कान्
 माश्रौ २, १, ३, १३.
 याचत्- चतः बौध २, २, ८०; -चन्
 आपध १, १९, १५; या ६, २४५.
 याचमान- नः कप्र १, ६, १५; -नाः
 या ४, ३; -नाय हिश्रौ १०, ४, ६५.
 याचित- न्तः आश्रौ २, १०, १६५;
 आपश्रौ १३, ७, ३; कौसू; -तस
 वाण ९, २०; -न्ते जैश्रौका १४.

याचित-क- पा ४, ४, २१.
 याचित्- -तारः विध ७३, ३०;
 -तारम् गौपि २, ५, १२.
 याचितार-दातृ^४- -तारौ अत्र
 १०, १, ३.
 याचित्वा बौश्रौ २, ६: ५; भाश्रौ.
 याचिष्यत्- -ष्यन् कौसू ४६, ६.
 याच्य, च्वा- पा ३, ३, ९०; -च्यः^५
 या ३, १९; -च्वा वृदे १, ३५;
 ४९; भाशि ५९.
 याच्या-कर्मन्- -र्माणः निघ ३,
 १९; या ३, १९.
 याच्या-क्रयण- -णम् मीसू ६, ८,
 २८.
 याच्या(च्वा-अन्त >)न्ता^६-
 -ताम् बौध १, २, १७.
 याच्य- पा ७, ३, ६६.
 याजक- प्रभृ. √यज् द्र.
 याज्ञग्नी वाश्रौ ३, २, ४, १०.
 याज्ञिक- प्रभृ. √यज् द्र.
 यात्-, यात- प्रभृ. √या(बधा.) द्र.
 यातऊतीय- यद्- द्र.
 यातना- प्रभृ. √यत् द्र.
 यातवातहसहभविष्यति आमिष्ट
 ३, १०, ४: २०.
 यातवे, तवै, तिक- √या(बधा.) द्र.
 यातु^७- पाठ १, ७३; -तु कौसू १०६,
 ७५; -तुनाम् या ६, ३०५.
 यात(व्य >)व्या- पा ४, ४, १२१.
 यातु-धान^८- -नः या ७, ३५; -नम्
 अत्र १, ८; -नाः आपश्रौ २, २,
 २५; वाश्रौ; हिश्रौ ६, २; १५;
 आमिष्ट २, ६, ७: ११; बौध
 २, ८, १५; -नान् विध ८१, ४;

शुप्रा ३, १५०५; -नानाम् आपम्
 २, १७, ७५५; विध ७३, ११.
 यातुधानी^९- -नीः अत्र १,
 २८; -न्यः अप्राय २, ५५;
 -न्याः अत्र ३७, ५, ५५.
 यातुधान-प्रबोधित- -तः काश्रौ
 २५, ११, ३३५.
 यातु-मान्त्^{१०}- -वत् शौच ४, ८५.
 यातु-हन्- -हन्म् आपश्रौ १६,
 ३०, १; वैश्रौ.
 रयातु- √या(बधा.) द्र.
 रयातृ^{११}- पाठ २, ९७; पाठ ४, १, १०;
 ५, १, १३०.
 यात्र- पा ५, १, १३०.
 यात्रा-, त्रिक-, यात्वा √या(बधा.)
 द्र.
 याथाकथाच-, कामी-, काम्य-,
 १, २याथातथ्य- यद्- द्र.
 यात्स्^{१२}- पाठमो २, १, ३३८; -दः अत्र
 ४८, ७५५; -दसाम् अत्र ६७,
 २, ४.
 या(य-आ)दि- १य- द्र.
 यादु^{१३}- -दुः निघ १, १२५.
 यादच्छिक-, °दृश्- प्रभृ. यद्- द्र.
 रयान-, रयानी- √या(बधा.) द्र.
 रयान-(> रयानी-) रयान- टि. द्र.
 यापना- प्य- √या (बधा.) द्र.
 रयाम- √यच्छ् द्र.
 रयाम- रयम- द्र.
 रयाम- √या (बधा.) द्र.
 ४याम^{१४}- पाठ ४, १, ९९.
 यामायन- पा ४, १, ९९; -नः ऋअ
 २, १०, १३५; १४४; -नाः
 ऋअ २, १०, १४.

a) वैप १ द्र. । b) पावा १, ४, ५१ परामृष्टः द्र. । c) यियाचिषामहे इति पाम. । d) द्रस. पूष.
 आरह् उसं. (पा ६, ३, ३२) । e) विप. (यज्ञ-) अधिकरणे नड् प्र. । f) बस. । g) सग. काठ १६, १५
 यातुधानाः इति पामे. । h) ४यातृ- (तु, वैप १) द्र. । i) = जलन्, जलजन्तु- । j) परस्परं पामे. ।
 k) = उदक- । < √या [प्रापणे] इति दे., √याद् इति MW. । l) = ऋषि-विशेष- ।

यामन्- √या (बधा.) द.
यामलायन- रयमल- द.
यामष्टेय- यमष्टु- द.
यामिन्य- ,भी- रयम- द.
यामुन- यमुना- द.
यामुन्दायनि- यमुन्द- द.
१,२याम्य- रयम- द.
यायजूक- √यञ् द.
यायन्ती-, यावर-, यिन- √या
(बधा.) द.
श्याव- प्रभृ. श्यव- द.
रयाव^a - -ना^b आपश्रौ १७, ५, १५;
बौश्रौ १०, ४५ : ४०; हिश्रौ १२,
२, १२; -वानाम् बौश्रौ १०,
४२ : १५९.
यावक- श्यव- द.
यावत्- प्रभृ. यद्- द.
?यावतीशासीषाविद् वाधुश्रौ ३,
६९ : १९.
यावस- पाठ ३, १, १९.
यावास- यवास- द.
याष्टीक- यष्टि- द.
√यास्, अयासिषम्^b जैश्रौ १३ :
२९१; आपमं १, ९, ८; आमिष्ट.
यियासु- √या (बधा.) द.
यीयन्त्यमान- √यम् द.
√यु(बधा.)^d पाधा. अदा. पर. मिश्रणे-
ऽमिश्रणे च; सुरा. आत्म. जुगु-
प्सायाम्, ङ्यौति^e अप ४८, ९;
निघ ३, १४; यूथाताम् आपश्रौ
१४, २९, ११^f; ङ्युद्वम्^g
भाश्रौ ८, २०, ५; हिश्रौ २, ७,
४६; हिष्ट २, १२, ८^h; ङ्युद्वम्^h

आमिष्ट ३, १, ३ : १४-१६.
ङ्युयोतु माण १, २२, २; या ६,
७; शैशि ५९; ङ्युयोधि आश्रौ
३, १३, १२; आपश्रौ ११, १२,
३; बौश्रौ; युयोत > ता ऋप्रा ७,
५४^f; योयवत कौस् ८८,
१५^f; युयवन् या १२, ४४^f;
युयोथा: हिश्रौ ४, ४, २२^f.
युवते शाश्रौ १५, १६, १७;
युवत > ता वाधुश्रौ ३, ५५ : २^f
ङ्योष्ठा: आपश्रौ १०, २३, १;
आपमं १, ३, १४; आमिष्ट;
ङ्योष्ठ^g आपश्रौ १, १०, १; भाश्रौ;
ङ्योषस् आपश्रौ १०, २३, १;
बौश्रौ १७, ४३ : ९; हिश्रौ.
युयते या १०, ३९.
यवयसि ऋप्रा ९, ४३^f; यवयन्तु
ऋप्रा ९, ४४^f; ङ्यवय, > या
बौश्रौ ४, ४ : १४^g x x; भाश्रौ.
यावयन्तु या १२, ४४; ङ्यवय
> या ऋप्रा ७, ३३; ९, ३२.
ङ्युयवत् या ९, ४२^f.
रयवन- पाग ३, १, १३४.
यावन- नम् या ४, २१.
याव्य- पा ३, १, १२६.
युत, ता- -तः वैध १, ५, ३; याशि
१, ८२; -तम् कौस् ८४, ३; विघ
९९, ८; -ता वैश्रौ १८, ६ : ६;
याशि २, ११२.
युयुषत्- -षन् या ५, १५^f.
युवत्- -वतः सु ७, ४.
यूति- पा ३, ३, ९७.
१यूथ^a - पाठ २, १२; पाग २, ४,

३१; ४, १, ४१; ३, ५४; -थम्
कौष्ट ३, ६, ३^g; शांष्ट ३, ११, ८;
पाग ३, ९, ६^g; काग ५९, ५;
अप १८^g, १, ११; ७०^g, ११,
३; ङ्या ४, २४^f; उस् ३,
१^f; -थस्य निस् १, ७ : १४^f;
आग ४, ८, ३; विघ ८६, ८; या
११, ४९^f; -था अत्र १८, ३^f;
-थे कौष्ट ३, ६, ६; ७; शांष्ट ३,
११, ११; १३; पाग ३, ९, ६^g;
काग ५९, ५; -थेन शांष्ट ३, ११,
९; अप १८^g, १, ११.
यूथी- पा ४, १, ४१.
ङ्युथ-(त्व >) त्वा- -त्वायै कौस्
२४, २०; अप १८^g, १, ११.
यूथ्य- पा ४, ३, ५४; -थ्यः
हिश्रौ ४, ३, १; -थ्यम् वैश्रौ १०,
९ : १४.
यून- -नम् काश्रौ ५, ८, २८; हिश्रौ
१६, ८, १५; -नानि काश्रौ १, ३,
१४; -ने काश्रौ १, ३, १५.
यूनबद्ध- -द्धम् काग ४, ४.
ङ्युयुवि^a - -विः ऋप्रा ९, ४८;
शैशि ५९.
योत्र- पा ३, २, १८२.
योयुव(त् >) ती^a - -त्यः सात्र २,
८६२.
१यु- √या (बधा.) द.
२यु¹ - युः या १, ८.
युक्त- प्रभृ., १-५युग- प्रभृ. √युञ् द.
√युङ्ग् पाधा. भ्वा. पर. वर्जने.
√युङ् पाधा. भ्वा. पर. प्रमादे.
√युञ् पाधा. दिवा. आत्म. समाधौ;

a) वैप १ द.। b) पाभे. वैप १, २५७९ h द.। c) पाभे. वैप १, २५७९ j द.। d) या ३,
१५ शौच ४, १२ पा ६, ४, ५८; ७, २, ४९ परामृष्टः द.। e) घा. अर्चायां वृत्तिः। f) पाभे. वैप १, २५९२ l द.।
g) सपा. युद्वम् <> योद्वम् <> योयुवत <> योष्ट <> युङ्घ्वम् इति पाभे.। h) Böht [ZDMB
५२, ८७] युङ्घ्वम् इति शोधः? (तु. पाभे.)। i) पाभे. वैप १, २५९२ m द.। j) = प्रत्यय-। k) अप
४८, १७ पावा ३, १, ८७ परामृष्टः द.।

हृधा. उभ. योग; सुरा. उभ. संयमने, ङयोज>जा बौश्रौ ५, १५: ११; १४; वाश्रौ; ऋप्रा ७, १८; शुप्रा ३, १०७.

ङयुजे आश्रौ ४, ९, ४; शांश्रौ ४, १८, १^०; वैश्रौ; ङयुङ्क्त्वा>क्वा आश्रौ ४, १३, ७; ७, १०, ४; शांश्रौ; काश्रौ १७, ५, ५^०; आपश्रौ^० १६, २६, १३^३; १७, १०, ११^३; बौश्रौ १०, ३३: १३^{३०}; वाश्रौ २, १, ७, २^{३०}; वैश्रौ १८, १८: १२^{३०}; १९, ६: २१^०; हिश्रौ ११, ३, २६^०; ७, ५३^०.

युञ्जति जैश्रौ ५: १०. युङ्क्ते आश्रौ ४, १२, ३^०; आमिग; युनक्ति शांश्रौ १४, ३१, ४; काश्रौ; युञ्जते ङआश्रौ ५, १२, ९^३; ७, ५, २३; शांश्रौ; युञ्जन्ति आश्रौ ६, ४, १०^०; शांश्रौ २, १७, १^०; १२, १, ४^०; १७, १५, १; काश्रौ; ङयुजे जैश्रौ ८: १६; द्राश्रौ २, ४, ११; लाश्रौ १, ८, ९; ङयुनञि आश्रौ ६, ११, ९; ७, ४, ७; शांश्रौ; आपश्रौ १८, १७, १^०; बौश्रौ १२, ७: ३४^०; हिश्रौ १३, ६, २^०; ङयुनक् आपश्रौ १, १६, १०; ४, ४, ९; ५; बौश्रौ; ङयुङ्क्ताम्^० बौश्रौ १, ८: १९; ३, १५: १३; वैश्रौ ४, ९: ८; ङयुङ्क्त्वा>क्वा जैश्रौका ५८; २१३; चाञ्ज ४१: ५; साञ्ज; ङयुङ्क्त्वा आश्रौ ४, १२, २^०; बौश्रौ; ङयुञ्जाथाम्

शांश्रौ ६, ६, ६; काश्रौ; युङ्क्त्वम् आश्रौ २, ७, ६^०; बौश्रौ १४, १७: २१^०; ङयुङ्क्त्वा काश्रौ २१, ३, ३३; पाण्य ३, १४, २; ङयुनक्त बौश्रौ १०, २५: ३; वैश्रौ १८, १५: १३; अञ्ज ३, १७; युञ्जानि हिण्य १, २४, ४; अयुङ्क्त्वा या ४, ११; अयुनक् बाधुश्रौ ४, १०३: ८; ङआयुनक् हिण्यि १८: २१; ऋप्रा २, ७६; उस् २, ६; शुप्रा ३, १२९; अयुञ्जत शांश्रौ ८, २०, १^०; अयुञ्जन् बौश्रौ ११, ६: २२^०; युञ्ज्यात् बौश्रौ २२, ११: २१-२३; द्राश्रौ. युयुजे या ७, ७^०; अयुक्त या ४, ११^०; ङआयुक्त ऋप्रा २, ७७; उस् २, १५; ङअयोक्षीत्^० आपश्रौ ३, १३, ५; भाश्रौ ३, १२, ४; ४, २०, २; वैश्रौ ७, १२: ७; अयोक्षीत्^० हिश्रौ २, ६, ३१^०; आयुञ्जाताम्^० ऋप्रा २, ७७^०. युञ्जते बौश्रौ २, ३: २१; ११, ६: २६; निस्; युञ्जते निस् १, १२: १३; युञ्जन्ते निस् ६, ८: ३६; कौस् ५९, २४; या ७, १; ङयुञ्जसे आपश्रौ १६, २६, १; बौश्रौ; युञ्जे बौश्रौ ३, २३: ७^०; युञ्जातै बौश्रौ १, १२: २३^०; युञ्जन्ताम् बौपि १, १५: १८^०; युञ्ज्येत् पाण्य १, १४, ३; अप ७०, ८, ३; गौघ १८, २१; हिण्य ४, २०; युञ्ज्येत् अप १, ४३, ३; युञ्ज्यथाम् माश्रौ २, १, ४, २७^०. अयोजि बौश्रौ ७, ३: २१^०.

योजयति बौगृष्ट, ४, ६; योजयन्ति काण्य ५७, ४; कप्र १, ९, १५; योजयेत् बौश्रौ २९, ११: ७; काण्य ४, ३, १; पाण्य. योजयन्ते गौपि १, १, १७. योजयन्ते अपण्य ११, १६; बौश्रौ २१: ७.

युक्त, क्ता- पाण्य २, १, ५९; -क्तः शांश्रौ २, १६, २^०; काश्रौ २२, ४, १७; आपश्रौ; पा ४, २, २३; -क्तम् काश्रौ १०, २, ७; १५, ८, २३; बौश्रौ; वैध १, ११, १०^०; पाण्य १, १, ३^०; -क्तयोः कौस् १४, २४^०; २३, १२; ५०, १७^०; -क्तस्य बौपि १, १५: १६; -क्ता आश्रौ ८, ५, १५; ङआपश्रौ २, ५, १०; २१, १२, ३^०; अप; -क्ताः काश्रौ ३, ४, १९; ५, ६, २३; आपश्रौ; -क्तान् आपश्रौ १६, १८, ६; वैश्रौ; -क्तानाम् बौध ४, ३, १; ४, १; आज्यो ५, ७; -क्तानि आश्रौ ११, १, १; शांश्रौ १५, ३, १४; आपश्रौ १८, ३, ५; बौश्रौ; -क्ताभ्याम् कौस् १८, १५; २३, ३; ५; अप ४४, ४, ८; -क्ताम् अप ३१, ३, १; काघ २८१: ८; बृदे ४, २४; -क्ताय अप १४, १, १४; -क्तायाम् विध ९०, १; -क्तासः शांश्रौ ९, २८, १०^०; -क्ते बौश्रौ १४, १९: १९; वाश्रौ ३, ४, १, ४४; अप; पा २, ३, ४^०; ६, २, ६६; पावा ३, २, १३५;

a) पामे. वैप २, ३खं. युजे माश्र १४, ९, ३, ३. टि. द. 1. b) पामे. वैप १, २५९४ j द. 1. c) पामे. वैप १, २५९५ b द. 1. d) पामे. वैप १ विमुञ्चताम् तै १, १, ७, २ टि. द. e) पामे. वैप १, २५९५ j द. 1. f) पामे. पृ २०३२ Q द. 1. g) परस्परं पामे. 1. h) वैप १ द. 1. i) पाठः ? अयुक्तम् इति C. 1. j) वा. क्रि. (तु. पाण्य.) 1. k) सपा. हिश्रौ १६, ४, ३५ युक्त्वा इति पामे. 1. l) भाप. (योग-) 1.

६३, ४५; -क्तेन वायूश्रौ ४,
१०३: १२१; कौट १, ९, १६;
शांयु; -क्तेषु आपश्रौ ६, २८,
७; माश्रौ १, ६, ३, १; वाश्रौ;
-क्तौ आपश्रौ ३, ९, १०१; बौश्रौ.
युक्त- -क्तम् पा ८, १, ३०.
नैयुक्त-प्रावन्^३- -वा वैताश्रौ
२५, १३.
युक्त-त्व- -त्वात् काश्रौ ४, ९,
७.
युक्त-दण्ड^६- -ण्डाः अप ५०, ४,
७.
युक्त-नामन्^८- -मभिः काश्रौ ४,
४, १७.
युक्त-नाह^६- -हम् वैश्रौ ११, ९: १.
युक्त-पूर्णा(रि-अ)न्त^८- -न्तः
पावा २, १, ३५.
युक्त-वत् पा, पावा १, २, ५१०.
युक्त व(त् >)ती^१- -तीभ्याम्
हिश्रौ ११, ७, ५३.
युक्त-संभव^६- -वे वेज्यो १९.
युक्त-सुच^६- > यौक्तसुच^६-
-चम् लाश्रौ ६, ११, ४१; निसू
७, ३: १५.
युक्त-स्वर^८- -रः पावा ६, २, ५२.
युक्ता(क्त-अ)रोहिन्- पाग ६,
२, ८१.
युक्ता(क्त-अ)र्थ-संप्रत्यय- -यात्
पावा २, १, ३५.
युक्ता(क्त-अ)ध^६- > यौक्ता-
ध^६- -धम् निसू ७, ३: २७;
-धयोः लाश्रौ ६, ११, ५; -इवे

जैश्रौ प ६.
यौक्ताध-सौवर्ण- -र्गानाम्
लाश्रौ ६, ११, ४.
यौक्ताश्व-हाविष्मत-
-ते निसू ९, ४: ३०.
युक्तो(क्त-उ)त्तम- -मात् भाशि
८७.
युक्ति- पाग ३, ३, १०८^६; -नैकिः
काय ९, २; मायु; -क्तिभिः
विध ७, १२; -क्त्यै काय ९, ३१.
युक्ति-दण्ड-हर- -रेषु पावा ६,
३, २०.
युक्ति-युक्त- -क्तम् याशि २,
११७.
युक्त्वा काश्रौ १४, ४, १३××; बौश्रौ;
हिश्रौ १६, ४, ३५; द्राश्रौ.
युक्त्वाय वायूश्रौ ४, १०३: ९१.
युग्म^३- -नोन्^३ आपश्रौ १४, ३१,
३१.
युग-पद्^३- पाग १, १, ३७; ४,
५७; ५, १, १२४; -पत् काश्रौ
२, ४, २४; ५, १९; ३, ६,
१६××; आपश्रौ.
यौगपद्य- पा ५, १, १२४;
-द्यम् मौसू १, १, १५; ११, १,
५५; ६७; -द्यात् मौसू १, १,
९; १९; -द्ये शाश्रौ १३, १४,
२; मौसू ६, ५, ४९; ११, १, ५४^७.
युगपत्-कर्मन्- -र्मसु द्राश्रौ
३, १, १; लाश्रौ १, ९, १.
युगपत्-काल^६- -काल् आपश्रौ
८, ५, १८.

युगपत्-प्राप्ति- -प्तेः मौसू
११, १, १६; -प्तौ आप ४, ४, ५.
युगपद्-अधिकरण-वचन-
-ने पावा २, २, २९.
युगपद्-अन्वाचय-यौग-
पद्य- -द्यम् पावा १, १, ४४.
युगपद्-भाव- -वः काश्रौ १,
७, १; -वात् काश्रौ १, ५, १.
युगपद्-वचन- नम्, -नस्य
पावा २, २, २९.
युगपद्-वचना(न-अ)नुप-
पत्ति- -त्तिः पावा १, १, ६.
युगपद्-वचना(न-अ)भाव-
-वः पावा १, २, ६४.
युग्म^३- > युग-ग्रह^८- -हाः अप
५२, १२, २१.
युग-ल^३- पाउभो २, ३, ९९९.
युगला(ल-अ)दि^६- -दिः
नाशि २, २, १८.
युग-संपन्न- -न्नम् माशि ११, ८.
युग्म^३- पा ४, ४, ७६; पाग ५, १,
२; ६६; ६, १, १६०; -गम्
शाश्रौ १६, १३, १४१; बौश्रौ;
आपश्रु ६, ९; -नैगस्य आपर्म
१, १, ९; १०; कायु; -नैगा
बौश्रौ १०, २५: ३; वैश्रौ १८,
१५: १४.
युग-च्छिद्र- -द्रम् आपयु ४, ८.
युग-तर्धन्^१- -र्धनः मायु १,
१०, ७^६; -र्धना कौसू ३५, ६;
५०, १८; अप १८^६, ६, ३; -र्धनि
कायु २५, ९; कौसू ७६, १२;

a) वैप १ द. । b) बस. । c) कस. । d) द्रस. > बस. । e) वैतु. पाका. [पक्षे]

‘वद्-व्यक्ति’ इति समस्तमिव सत् पूष. कवचन्तमिति । f) = (युक्तशब्दवती-) ऋन्- । g) पूष. = (सूर्या-
चन्द्रमसोः) योग- । h) = ऋषि-विशेष- । i) = साम-विशेष- । j) ‘श्रुचम्’ इति पाठः? यनि. शोषः
(तु. निसू.) । k) तु. पागम. । l) पाभे. पृ २०३३ k द. । m) वैप ३ द. । n) वा. क्रिवि. (तु. भा. सा
वैप ३, ७, १०, ११) । o) वैतु. अभा. < √यु वा युग- (अर्थः?) + √पम् वेति? । p) ‘द्यात्’ इति प्रयासं. ।
q) < √युञ् । r) षस. । s) ‘तन्मनः’ इति पाठः? यनि. शोषः (तु. K. टि., [अर्थतः] भाष्यम्) ।

-कौसु काण्ड २६, ३.
 युग-धार^a- -रस्य माण्ड १, १०, ४.
 युग-धुर्^b- -धुरम् आपश्रौ १, १७, ६; भाश्रौ १, १९, ४; -धुरि आपश्रौ २०, १६, १; वैश्रौ ७, ८: ६; कौसु ७६, १२; -धुरो: आपश्रौ ३, ८, ४^c; -धुरौ आश्रौ ४, १३, ६; वैश्रौ १५, ४: १.
 युग-धर(बप्रा.)- पा ४, २, १३०^d; पाण्ड ४, १, ९९^e, १७३^f; -र: अप ६८, २, ४३^g.
 यौगन्धर- -रक- पा ४, २, १३०.
 यौगन्धरायण- पा ४, १, ९९.
 यौगन्धरि- पा ४, १, १७३;
 -रि: आपसं २, ११, १२^h.
 युग-लाङ्गलⁱ- -लम् आपश्रौ १६, १८, ४; बौश्रौ १०, २४: २०×४; वैश्रौ.
 युग-वरत्र, त्रा^k- पाण्ड ४, २, ४५^l; -त्राणि माश्रौ ६, १, ५, ३५; वाश्रौ २, १, ५, १.
 यौगवरत्र- पा ४, २, ४५.
 युग्य^m- पा ४, ४, ७६; ५, १, २; ६६; -ग्यस्य निस् २, ४: १७; -ग्यौ आपश्रौ २२, ५, ५; वाश्रौ ३, १, १, ४२; २, १३; हिश्रौ १३, १, ४९; १७, २, ३३.
 युग्य-कृतⁿ- -न्ते हिश्रौ ७, ५, १^p.

युग्यक्रोशोत्सर्ग- -नैण हिश्रौ १७, १, ३६.
 युग्य-वास- -स: आपश्रौ १, १८, १; २८, ३; हिध १, ५, ७१; ७, ३९.
 युग्य^q- -गम् शंघ ११६: ४६; वेज्यो ६; २८; -गस्य वेज्यो ५; -गानि या ४, २०^r; ९, २८.
 युग-पर्यन्त- -न्तम् वृदे ३, २४.
 युग-लब्ध- -ब्धम् वेज्यो २५.
 युग-सहस्र- -सम् या १४, ४^s.
 युगसहस्र-पर्यन्त- -न्तम् या १४, ४.
 युगसहस्रा(स-अन्त >) न्ता^t- -न्ताम् या १४, ४.
 युगा(ग-अ)न्त- -न्त: अप ६३, ३, ८; -न्तम् अप ५०, ५, १; -न्तस्य अप ५०, ७, ३; -न्तात् बौश्रौ ६, २५: १४.
 युग^u- -गम् काशु २, ४; बौशु १: ५; हिशु २, ३८; -गो आपशु ६, १४; बौशु १: ७; हिशु २, ४३; -गेन आपश्रौ ७, ३, १२; आपशु ६, १३.
 युग-प्रमाण- -णम् काशु २, १०.
 युग-मा(त्र >)त्री- -त्री माश्रौ ७, २, १८; -त्रीम् काश्रौ ५, ३, २९; १७, ३, १४; भाश्रौ १२, ५, ३.
 युगमात्रो(त्र-उ)दित- -न्ते काशु ७, ३५.
 युग्म, ग्मा- पाण्ड १, १४६; -ग्मम्

वैगृ ६, १: १०; गोगृ २, ७, ४^v; अप ७०^w, ११, २; ऋत ५, ३, १; आज्यो ६, १३; वेज्यो ९;
 -ग्मयो: ऋषा २, १९; -ग्मा: काश्रौ १६, ७, २४; बौश्रौ १८, ५१: २७; २८^x; लाश्रौ ६, ५, १५; वृदे ४, ४४; ७, ३०; ऋत २, २, ६; -ग्मान् आण्ड २, ५, १३; कौगृ ३, १४, १९; शाण्ड ४, ४; आश्रिगृ; -ग्मानाम् बौश्रौ १८, ५१: २९; -ग्मानि आण्ड १, १५, ७; गोगृ ४, ५, २०; -ग्माभि: वृदे ८, २९; -ग्माम् आपण्ड ९, १; बौगृ १, ७, ४५; -ग्मासु आश्रौ ५, १४, २२; आज्यो १३, ३^y; -ग्मे आज्यो १४, १; -ग्मेन आण्ड १, १४, ४; पाण्ड १, १५, ४^z; -ग्मेभ्य: आश्रौ ८, ७, १६; -ग्मेषु आश्रौ ७, ६, ७; १२, ६, १२; वैताश्रौ ३१, २४; -ग्मै: वाश्रौ ३, ४, २, ६; वैश्रौ ११, १०: ३; -ग्मौ वैश्रौ १७, १३: ४; ऋषा १, १३; १६, ५७.
 युग्म-कृत^{aa}- -न्ते वैश्रौ १४, ५: ७^b.
 युग्म-कृष्णल^{ac}- -लम् कौसु ११, १९; ५२, २०; अशां १९, २; ५.
 युग्म-मास^{ad}- -सेषु द्राश्रौ ८, ४, ६; लाश्रौ ४, ८, ६.

a) = युग-कीलक- । b) षस. । c) उप. = छिद्र- इति स्वरदन्तः (आपश्रौ १, १७, ६) C. च, = कीलक- इति MW. । d) पामे. पृ १३५० e द्र. । e) = जनपद-विशेष- । f) = ऋषि-विशेष- । g) = क्षत्रियजाति- विशेष- । h) शकट-वंश- । i) = राज-विशेष- । j) मलो. कस. वा समाहारो द्वस. वा । k) षस. उप. = चर्म-रज्जु- । l) आ- इति पाणि. । m) पाक. ष आ इति ? । n) वैप १ द. । o) बस. (तु. पा २, २, ३५ पामे. च; वैतु. भाष्यम् कस. इति) । p) सप्र. आपश्रौ ११, ६, ३ भाश्रौ १२, ६, ९ नद्वयुगे इति, बौश्रौ ६, २४: १४ योस्यकृते इति, वैश्रौ १४, ५: ४ युग्मकृते इति च पामे. । q) = काल-वचन- । वैप ३ द. । r) बस. । s) = (८६ अल्-गुलि-परिमित-) प्रमाख-विशेष- । t) परस्परं पामे. । u) कस. ।

युग्मा (गम-ञ्)न्त(स्थ>)
 स्था^१- >°न्तस्था-दन्तमूलीय-
 पूर्व-^२ः ऋप्रा ५, २०.
 युग्मा(गम-ञ्)न्त्य>न्त्या^३-
 -न्त्याभिः ऋअ २, १०, १०८.
 युग्मा(गम-ञ्)न्वय^४-त्व- त्वात्
 आश्रौ ८, १२, १९.
 युग्मा(गम-ञ्)युक्त-क्ताः लाश्रौ
 ६, ५, १५.
 युग्मा(गम-ञ्)युज्-युग्म्यः
 लाश्रौ ६, ५, २६; -युजाम् लाश्रौ
 ६, ५, २९.
 युग्मायुक्-पर्याय-याणाम्
 निसू १, ८ : ३०; ३४; ४१; ४४;
 युग्मायुक्-संहार-रः लाश्रौ
 ६, ७, ८.
 २युग्य-ययम् पा ३, १, १२१.
 युज्, युज्^५- पा ३, २, ५९; युञ्जु माश्रौ
 ५, २, १, २२; ऋयुङ् आपश्रौ
 १८, १७, १२××; बौश्रौ;
 युजः ऋश्रौ १२, २, १४; १८,
 ३, २; आपश्रौ; युजम् शैशि
 २८८^६; ऋयुजा आपश्रौ १२,
 २२, ५^७; १७, ५, २××;
 बौश्रौ; युजाम् लाश्रौ ६, ५, २७;
 ऋयुजे काय ९, ३; माय १, ४,
 ३; वायु; युजोः ऋप्रा १३, ३९;
 युजौ ऋअ १, ७, ८; ८, ५; शुअ
 ५, ५५; ऋयुञ्जम् या ९, ३४^८.
 युग्-मत्-मताम् निसू १, ८ :
 ३०; ३३; ४१; ४३; -मन्तः
 निसू १, ८ : ३; ६; ९ : १.
 युजान- पाउना २, ८७; -ऋनः
 शाश्रौ १८, ११, २; ऋअ २, ६,

४७; शैशि १४६.
 युज्य-ञ्यः आप्र ३, ६, ६^९.
 युज्यमान, ना-नः अप्र १५, १, ३;
 अअ ९, ७^{१०}; -नम् काश्रौ १७,
 २, १०; माश्रौ; -ना आश्रौ ६,
 ४, १०; -नानाम् मीसू ९, १,
 २; -ने काश्रौ २१, ३, ३३.
 युञ्जान- पाग ५, २, ६२; -नः काश्रौ
 १६, २, ७; आपश्रौ.
 युञ्जानक- पा ५, २, ६२.
 युयुक्षमाण-गः निसू ८, १२ : १६;
 ९, १ : ५१.
 योक्तव्य-ञ्यः बौश्रौ २, ३ : २२;
 १४, ५ : ४१.
 योक्त-क्ता आपध २, २०, १८;
 हिध २, ५, १०४.
 योक्त्र^{११}- पा ३, २, १८२; -क्त्रम्
 आश्रौ १, ११, ३; शाश्रौ १, १५
 ९; काश्रौ; -क्त्रस्य आश्रौ १,
 ११, ८; -क्त्रा बौश्रौ ३, १९ :
 ११^{१२}; -ऋक्त्राणि अप्र ४८, ८२;
 निघ २, ५^{१३}; या ३, ९^{१४}; -क्त्रेण
 काश्रौ ७, ४, ६; आपश्रौ २, ५,
 ४; १०, ९, १३; बौश्रौ.
 योक्त्र-परिहरण-णम् काश्रौ
 १८, ६, २.
 योक्त्र-पाश-शम् आपश्रौ ३,
 १०, ६; ८, ८, १४; १०, २८, १;
 २९, ९; काठश्रौ.
 योक्त्र-मेखला-ले आपश्रौ
 १३, २०, १४.
 योक्ष्यमाण-गः या ५, २१.
 योग(बप्रा.)^{१५}- पाग ५, १, १०१^{१६};
 -गः वाधश्रौ ४, ८५ : ११-१३;

निसू ७, ११ : २२; कायु; वाध ६,
 २३; २५, ८^{१७}; आपध १, २३,
 ६; बौध ४, १, २७; वैध १, ११,
 १३^{१८}; हिध १, ६, १४; गौध
 १०, १२; काश्रु १, २५^{१९}; आपश्रु
 २, १^{२०}; हिश्रु १, २०^{२१}; आज्यो
 ७, २२^{२२}; वेज्यो २६^{२३}; -गम्
 बौश्रौ ११, ६ : २६; १२, ७ :
 ३६; वाधश्रौ; अप्र १, २६, २^{२४};
 या १४, ६^{२५}; -गयोः पावा
 १, १, ६७; -गस्य पावा १,
 १, ४९; -गाः चव्यु २ : ३३;
 -गात् हिधि १९ : ४; वाध;
 -गान् आपध १, २२, १^{२६}; हिध
 १, ६, १^{२७}; पावा १, ३, ११; -गाय
 कायु ९, ३^{२८}; कौसू ४२, ४^{२९};
 या १०, ३; -गे बौश्रौ २०,
 ८ : २४; २२, ११ : २१;
 वैताश्रौ; -ऋगेऽ-गे आश्रौ ६,
 ४, १०; शाश्रौ ९, १७, १; काश्रौ;
 -गेन बौश्रौ १, ८ : १८; ३,
 १५ : ११^{३०}××; अप्र; बौध ४,
 १, २७; -शैः अप्र ७, १, १.
 यौगिक- पा ५, १, १०२.
 श्योग-गो पा ५, ४, ५०.
 योग-क्षेम^{३१}-मः शाश्रौ १०,
 १८, ८^{३२}; -मसू ११४,
 २^{३३}; अप्र ५०, ४, ३; ७१, १९,
 १; विध १८, ४४; गौध ११,
 १८; -ऋमस्य आश्रौ ३, १४,
 १३; आपश्रौ ९, १६, ११;
 भाश्रौ ९, १९, ८; हिश्रौ १५,
 ४, ५९; -माभ्याम् कौसू ५६,
 १३^{३४}.

a) कस. उप. = रेफ-वकार-। b) द्वस.। c) बस.। d) वैप १ द्र.। e) पाभे. वैप १,
 २५८ f द्र.। f) = अङ्गुलि-। g) भाप., नाप.। h) तु. पागम.। i) योगम् इति ०।।
 j) = युक्ति-। k) = (विहरण-साधन-) रज्जु- (तु. भाष्यम् १, १)। l) = (ज्योतिष-) संज्ञा-विशेष-।
 m) = योग-शास्त्र-। n) = योगाङ्ग-।

योगक्षेमा(म-अ)र्थ- -र्थम्
विध ६२, १; गौध ९, ६३.
योग-पर^३- -रः शंघ २००.
योग-परीष्टि^६- -ष्टिः या ११, १४.
योग-प्रमाण- -णे पा १२, ५५.
योग-प्ररोह- -हः आज्यो ८, ७.
योग-भूत^८- -तम् विध ४९, ८.
योग-महामन्त्र-मय^९- -यः
विध १, ८.
योग-मार्ग-तत्त्व-ज्ञ- -ज्ञाः
वैध १, ९, २.
योग-मूल^{१०}- -लः आपध १,
२३, ३; ५; हिध १, ६, ११; १३;
-लाः बौध ४, १, २७.
योग-योग^{११}- -गेषु आज्यो १४,
६.
योग-विद्- -वित् काशु ७, ५.
योग-विभाग- -गः पावा १,
१, १८; ४, ५८; ५९××; -गात्
पावा १, १, ३; ६१××.
योग-विमोक्त- -कौ आपश्रौ २१,
५, ६; ८.
योग-विमोक्षण- -णे हिश्रौ १६,
२, ७.
योग-विशेष- -वान् आश्रौ ११,
१, १.
योग-व्यवसान- -नम् पावा २,
४, ८३.
योग-शेष- -षे पावा १, १, ५२.
योग-संपत्तिक^{१२}- -कम् आज्यो
२, ११६.
योग-सामान्य- -न्यात् मीस्
४, २, १०.
योग-सिद्धि- -द्धिः मीस् ४, ३,

२६.
योगहासया अप १, ६, ९.
योगा(ग-आ)ख्या- -ख्या मीस्
१, ३, २१.
योगा(ग-आ)पत्ति- -त्तिम्
आश्रौ १, १, १.
योगा(ग-अ)प्रख्यान- -नात्
पा १, २, ५४.
योगा(ग-अ)भाव- -वात् पावा
१, २, ५१.
योगा(ग-अ)भ्यूह- -ह्याभ्याम्
बौश्रौ २०, ६ : २९; -हौ बौश्रौ
२०, ८ : २२.
योगा(ग-अ)र्थ- > ०र्थिन्- -र्थी
वैध २, ६, १.
योगा(ग-आ)विर्भाव- -वः
विध ९७, ६.
योगा(ग-अ)विशेष- -षात्
काश्रौ २२, १, १०.
योगा(ग-आ)सन- -नानि
आज्यो ७, २.
योगिन्- -गिनः अप १९^२,
५, ५; विध ८३, १९; वैध १,
१०, १; -गिनम् विध ८३, २१;
-गिनाम् शुभ्र ४, १२६; -गी
वैप ५, ८ : ३; शंघ ३७१;
विध ९७, १६; शुभ्र ४, १२८.
योगि-त्व- -त्वात् वृदे ३,
११५.
योगे(ग-ई)श्वर^{१३}- -०र अप ३६,
९, ३१.
योग्य- पा ५, १, १०२; -न्यः^१
हिश्रौ १३, ३, ४४; -ग्यम्^१
बौश्रौ ११, ६ : २१; २४; १२,

७ : ३३; ३५; १५, २४ : ३.
योग्य-कृत^{१४}- -तम् बौश्रौ ६,
१५ : १९; १२, १४ : ११; वाश्रौ
१, २, ४, १९; -ते बौश्रौ ६, २४ :
१४^१.
योगस्- पाठ ४, २१६.
रयोगिन्- पा ३, २, १४२.
रयोग्य^{१५}- -न्यः बौध ४, ७, १०;
-ग्यम् अप ९, ४, ४; -ग्यस्य
मीस् १, १, २२.
योजन^{१६}- -नः हिपि २ : ११; -नम्
आपश्रौ १६, १८, ४१; बौश्रौ
१८, २० : १८; माश्रौ ६, १,
५, ३५^१; वाधूश्रौ ३, ६९ :
१९^{१५}; वैश्रौ; -ना बौश्रौ ११,
७ : ३६; -नात् शुप्रा १, २४;
माशि ४, ९; -नानाम् माशि
१६, ८; नाशि २, ८, १५;
१६; -नानि सु १३, ४; अप
४८, ८२^{१६}; निघ २, ५१^{१६}; या
३, ९^{१६}; -ने वाश्रौ १४, ४०, १४;
काश्रौ २२, ३, ३२; आपश्रौ २२,
२, २०; हिश्रौ १७, १, ३६; अप
१, ४०, ३१; अशा १०, ३.
यौजनिक- पा, पावा ५, १,
७४.
योजन-क- -कम् अप ६१, १, २७.
योजन-पर^{१७}- -रः अप ६०, १, ५.
योजन-भाज्- -भाक् अप ६१,
१, २६.
योजन-मात्र- -त्रेभ्यः काश्रौसं
२७ : ६.
योजन-शत- > यौजनशतिक-
पावा ५, १, ७४.

a) वस. । b) उप. = परीक्षण- । c) कस. । d) विप. (विष्णु-) । e) पूष. = संज्ञा-विशेष- ।
f) नाप. (कोष-) । g) णः सं० इति पाठः ? यनि. शोधः । h) = रुद्र- । i) विप. (।युग्य-। अश्व-) ।
j) पात्रे. पृ २०३५ p द. । k) विप. । प्यत् प्र. । l) भाप., नाप. (मन्त्र-, अश्वपरिमाण-) । m) अर्थः ? ।
n) = अश्वयुलि- ।

योजना(न-आ)दि- -रीनि
आपश्रौ २२, २, २३; हिश्रौ १७,
१, ३६.

योजना(न-आ)ध्यहन- -ने द्राश्रौ
३, २, १३; लाश्रौ १, १०, ९.

योजनी(य >)या- -याम् कौसू
१५, ५.

योजयत्- -यन् अप १, ३८, ४^१;
अशां ८, ४.

योजयित्वा माश्रौ ६, १, ७, २६;
आपयु.

योजित- -न्ताः अप १, ७, ६.

युञ्- प्रभ्. √युञ् द्र.

√युत् पाधा. भ्वा. आत्म. भासने.

युत्- प्रभ्. √यु (बधा.) द्र.

√युष्^१ पाधा. दिवा. आत्म. संप्रहारे,

युध्यते बौश्रौ १२, २० : २;

युध्यति आपश्रौ १८, १३, ४;

निघ २, १४^१; युध्यन्ति अप

७०, ७, ३; ऋयुध्यथाः आपश्रौ

२०, ६, १४; बौश्रौ; युध्येत कौसू

१५, १०; बौध १, १०, ११;

युध्येत् शंघ २५३; युध्येयुः

आपश्रौ ११, ४, ८; भाश्रौ.

योधिष्टम् शाश्रौ ६, १०, ९^१.

योधयति कौसू ४१, ६; योध-

य > या ऋप्रा ८, ३३^१; योध-

येत् अप १, १०, ४.

युयुत्सति सु २०, ३.

यवीयुध्- -युत् ऋप्रा ९, १६^१.

युद्ध- पाग ५, २, १३६; -द्धम्

अप ६४, ६, ९; ८, ७; -द्वाय

बौश्रौ १५, ७ : २०; वृदे ४,

१३१; -द्धे बौश्रौ १२, २० :

२; अप ६१, १, २०; आपध २,

१०, १०; हिघ २, ४, १०; पा
३, ३, ७३; आज्यो ४, ८.

युद्ध-जय-यु(क्त >)का- -क्ताः
काश्रौ २०, २, ८.

युद्ध-वत्- पा ५, २, १३६.

युद्ध-वर्ण- -र्णाः या २, १६.

ऋयुद्ध-शूर- -राः आमिष्ट ३,

४, ४ : ९; ११; बौपि ३, ४,

१४; १५.

युद्ध-हरण- -णेन विघ २४, २५.

युद्धा(द्ध-आ)दि- -देः वृदे ५,

१३४.

युद्धिन्- पा ५, २, १३६.

युद्धो(द्ध-उ)पकरण- -णम् वृदे

५, १२८; -णानि अत्र ६, १२६;

या २, ११.

ऋयुध्- युत्सु आश्रौ ३, ७, ७;

शाश्रौ; युधः अत्र १०, १३;

युधा बौश्रौ १५, ६ : १३;

युधि आमिष्ट ३, ४, ४ : ९;

१०; बौपि; वृदे ५, १२४^१ × ×.

युधा-जि- > यौधाजय^१ - -यम्

लाश्रौ ६, ११, ४; ७, ८, ५; लुसू.

यौधाजय-स्थान- -ने

निसू ६, १० : २२.

युधि-ष्ठि(<स्थि)र- पा ८, ३,

९५; पाग ४, १, ९६.

यौधिष्ठिरि- पा ४, १, ९६.

युधान- पाउ २, १०.

युधि^१ > युधि-गाम^१ - -मः शाश्रौ

१२, २१, ६^१.

युध्म^१ पाउ १, १४५; -ऋमस्य

आश्रौ ७, ११, २८^१ × ×; शाश्रौ.

युध्यत्- -ध्यन् वृदे ८, १३.

युध्यमान- -नाः आपध २, २६, ३;

हिघ २, ५, १९८; -नेषु आण
३, १२, १९.

युयुत्समान- -नाः हिश्रौ २२, २, २५.

युयुत्सु- -न्तो वृदे ५, १३५.

युयुधान- पाउ २, १३.

ऋयुयुधि^१ - -धिः ऋप्रा २, ५०.

योत्स्यमान- -नः वृदे ६, १११.

योद्ध- -द्धारम् वृदे ५, १२९; -द्धन्

शुभ्र २, २८७.

शयोध^१ > शयौध^१ - -धानाम्

लाश्रौ ८, ५, १.

शयोध^१ - पाग २, ४, ३१; ५, ४,

३८; -धाः अप ५१, ४, ४; ६१,

१, ९; ७०^३, ८, १; -धान् शाण्ट

२, २, १४^१; अप १, ३१, ३;

-धानाम् आज्यो ४, ८.

शयौध^१ - पा ५, ४, ३८; -धम्

कौण्ट २, २, ९^१.

योधयत्- -यन् कौसू ८७, १२^१;

वृदे ४, १३२.

योधिन्- -धिन्ः अप ५०, २, ६.

√युप् पाधा. दिवा. पर. विमोहने,

योपयति माश्रौ ३, ४, ९; वाधुश्रौ

४, १४ : ५; अयोपयन् वाधुश्रौ

४, १४ : ३; ४.

योयुप्यते आपश्रौ २, ३, ९; बौश्रौ

१, ११ : ३३; भाश्रौ २, ३, १०;

योयुप्येत वैश्रौ ५, २ : २.

ऋयोपयत्- -यन्तः^१ आमिष्ट ३, ७,

१ : २१; बौपि १, १७ : २०.

योपयित्वा कौसू ७१, १९^१; ८६,

२२.

योयुपन- -ने बौश्रौ २०, ९ : ७.

योयुपित्वा बौश्रौ ४, ३ : २९; ५,

२ : ३ × ×.

a) पा १, ३, ८६ परामृष्टः द्र. । b) घा. गतौ वृत्तिः । c) वैप १ द्र. । d) = साम-विशेष- ।
e) ष्यस्य इति पाठः? यनि. शोवः (तु. आन.) । f) = युद्ध- । g) तत्रभवीयः प्र. । h) = योद्ध- ।
i) सपा. योधान् <> यौधम् इति पाठे. । j) पाठे. वैप १, पृ २६०२ i द्र. ।

युयुत्तमाणा- √युज् द्र.
 युयुत्समान- प्रभृ. √युध् द्र.
 युयूषत्- √यु (बधा.) द्र.
 युव- युष्मद्- द्र.
 युवत्- √यु (बधा.) द्र.
 युवद्- युष्मद्- द्र.
 युवन^१- पाउ १, १५६; पा ६, ४,

१३३; १५६; पाग ५, १, १३०;
 १३३; युवभ्यः आपश्रौ २४,
 १३, ३१; बौश्रौ ३, २८; १५१;
 गौध १५, १०; युवा ऋश्रौ ३,
 १, ९; ७, ८, ३; शाश्रौ; काश्रौ ४, ९,
 ११; वैताश्रौ १, ३; ४३, ३;
 ऋपाय २, २, ९; ६, २५; ११,
 १२^१; काण्ड ४२: ११; कौसू
 ९, ११; अप २०, २, ६; ३८, ३,
 ५; आपध २, २६, १८; विध
 ३२, १४; हिघ २, ५, २१३;
 या ४, १९०; पा ४, १, १६३;
 युवानः आश्रौ १०, ७, ३; ९;
 वाश्रौ १, १, २३; आश्र २,
 ७, ११; युवानम् आश्रौ ८, १,
 १८^१; शाश्रौ; आश्र ३, १०,
 १०^१; या १४, १८^१; युवाना
 आश्रौ ६, १२, १२; ८, १०,
 २; शाश्रौ; आपश्रौ १३, १८, २;
 वैताश्रौ २३, १५; यूनः शाश्रौ
 ५, १, १; १६, २, ८; २९;
 आपश्रौ; यूनि पा २, ४, ५८; ४,
 १, ९०; ९४; पावा; यूने आपश्रौ
 ८, १४, २४.

युवति^१, ती- पाउमो २, १,
 १९२^१; पा २, १, ६५; ४, १, ७७;
 पाग ४, २, ३८; -तयः आश्रौ
 १०, ७, ४; आश्र ४, ६, ४; ११;

-तिः आपश्रौ ४, ५, १^१xx;
 भाश्रौ; हिश्रौ ६, २, २; १०; आपसं
 १, ११, ३; विध ३२, १३;
 -तिम् आमिष्ट ३, ५, ८; ३^१०;
 कौसू; वैध २, ११, ४; या १०,
 २९^१; -ऋती आपश्रौ ७, ५, १;
 भाश्रौ; -तीः शाश्रौ १६, २,
 ११; -तीनाम् बौध १, २, ३४;
 विध ३२, १४; गौध २, ४१;
 -ऋतीम्^१ बौपि १, ७; ६; हिपि
 ४: ८; -त्यः कौश्र १, ८, १;
 शांश्र १, १२, १.

यौवत्- पा ४, २,
 ३८^१.

युवति-ग्रहणा (रा-आ)
 नर्थक्य- -क्यम् पावा ४, २, ३८.

युवति-दा- -दाः
 आपश्रौ १७, ५, १६; वैश्रौ १८,
 २१: १८; हिश्रौ ११, ८, १०.

युवत्या (ति-आ) दि-
 -दिष्ठ, -दीन् अप्रा ३, ३, २१.

यौवन- पा ५, १, १३०; पाग
 २, ४, ३१; -नम् विध २०, ४९;
 वृदे ६, ५५; ७, ४४; -नानि
 कौसू ४६, ५४^१; -ने आमिष्ट
 २, ४, ५: २३; अप ९, २, ७;
 ३, ३; वाघ.

यौवन-व(त् >) ती- ती
 नाशि २, ८, २८.

यौवन-स्थ- -स्थान् अप ५३,
 २, ४.

यौवनक- पा ५, १, १३३; पावा
 ६, ४, १६३.

√युवकाम्य > का(म्य >) म्या-
 -म्याया वृदे ६, ७७.

युव-खलति, ती- युव-जरत्, ती-
 पा २, १, ६७.

युव-तर- -रः वाधूश्रौ ४, ३७: ३.

√युवन्य^१ > युवन्यु- -न्यूर ऋपा
 ४, ६९^१.

युव-पलित, ता- पा २, १, ६७.

युव-प्रत्यय- -यस्य पावा २, ४, ५८.

युव-मारिन्- -रिणः आपध २, १६,
 २०; हिघ २, ५, २०.

युव-राज- (> यक्र. यौवराजि [क
 >] का-, की-, यौवराज्य-पा.)
 पाग ४, २, ११६; ५, १, १२४.

युवराज-पुरोधस्- -धसाम् अप
 ६४, २, ९.

युवराज-भय- -यम् अप ६३,
 २, ९.

युव-राजन्- -जानम् अप ६३, ३, ९.

युव-वलिन्, ना- पा २, १, ६७.

युव-सं(ज्ञा >) ज्ञ- -ज्ञः पावा ४, १,
 १६३.

युव-स्थविर-स्त्री-पुंस^१- -सानाम्
 पावा १, २, ६८.

युवा(व-आ)दि- -दीनाम् पावा ६,
 १, १३.

युवादि-प्रतिषेध- -धः पावा ८,
 ४, ११.

युवा(व-आ)ल्प- -ल्पयोः पा ५, ३,
 ६४.

युवनाश्व^१- > यौवनाश्व- -ऋश्व
 आश्रौ १२, १२, ३; ४; आपश्रौ
 २४, ७, ११; १२; बौश्रौप्र
 २२: ५; वैध ४, ३, ६; ऋअ २,
 १०, १३४; साश्र १, ३७९.
 युवनाश्व-वत् आपश्रौ २४, ७, ११;
 १२; बौश्रौप्र २२: ५; वैध ४, ३, ६.

a) वैप १ द्र.। b) श्लोभार्थं पृ १५०५ e द्र.। c) पाभे. वैप १, १३४९ a द्र.। d) < √यु।
 e) सषा.। ऋ ४, १८, १३ जायाम् इति पाभे.। f) पाभे. वैप २, ३३३. युवतिम् तैआ ६, १२, १ टि. द्र.। g) तु.
 BFG. पाका.; वैतु. पासि. यौवन- इति। h) द्रस. समासान्तः अच् प्र. वसं. (पा ५, ४, ७७)। i) ऋषि-विशेष-।

√युवन्य, युवन्यु- √युवन्- द्र.
 यु(इ-उ)वर्ण- इ- द्र.
 ङयु(व>)वा^१- -वा आपश्चौ १७,
 २०, १४; माश्चौ ६, १, ८, १४;
 वैश्चौ १९, ६: ३०; हिश्चौ १२,
 ६, २२.
 युवाकु- युष्मद्- द्र.
 युवाचो^२ गौपि २, ५, १५.
 युष्म- युष्मद्- द्र.
 युष्मद्^३-
 तव आश्चौ २, १०, १२; १४,
 १२^४; ३, १२, २९; आपश्चौ; पा
 ७, १, २७; २, ९६.
 तव-क- पा ४, ३, ३.
 तावक-, तावकीन- पा ४,
 ३, ३.
 तुभ्य- पा ७, २, ९५; -ङ्भ्यश्चौ
 १०, ५, १९; वैताश्चौ ३२, ६;
 -ङ्भ्यम् आश्चौ २, १०, १२; ३,
 ७, १५; आपश्चौ २१, २०, ३०;
 वाधुश्चौ; वाश्चौ ३, २, ५, ४३०;
 हिश्चौ १६, ६, ४१०; वैताश्चौ
 ३४, ९०.
 ते शाश्चौ १, ४, ५^३; ङ्ङ् आपश्चौ १,
 ३, १३; १४; काठश्चौ; द्राश्चौ १२,
 १, १९^४ लाश्चौ ४, ९, १३^५;
 बौघ १, २, ३६०; हिद्य १, १३,
 १७^६; पा ८, १, २२.
 ३^७त्व, *त्वा- त्वद् ङ्ङ् आपश्चौ २, १४,

१२; ३, १०, २३; ६, २, ६; ४,
 १०; काश्चौ; पा ७, १, ३२;
 ङ्ङ् त्वम् आश्चौ १, ३, ६; २, १६,
 ७; शाश्चौ; माश्चौ ४, ४, ३५^८;
 लाश्चौ ५, ६, ८^९; आपमं २, १९,
 १४^१-१६^१; आग्निद्य ३, १, ३:
 २५^१; २८^१; ३२^१; भाद्य २,
 १२: १२^१; १७^१; १३: ४^१; हिद्य
 २, ४, २^१; पा ७, २, ९४; त्वा
 आश्चौ १, १३, १×४; शाश्चौ;
 आपश्चौ ३, १४, २^१; हिश्चौ
 १०, ५, १२^१; ११, ७, ५४;
 आपमं २, ४, ५^१-९^१; १५,
 ४^१; १८^१; कौसू ४३, १३^१;
 पा ८, १, २३; त्वाम् आपश्चौ
 १, ४, ५, ६, १; बौश्चौ; ङ्ङ्
 आश्चौ २, १, १७; शाश्चौ.
 त्वच्-ङ्गी (<श्चौ)- -ङ्गियः
 निसू ३, ९: ५२.
 ङ्ङ् त्वत्-पितृ^१- -त्तारः बौश्चौ ३,
 १३: १३; वैश्चौ २, १०: ११;
 तैप्रा ११, १६.
 त्वत्-पुरोहित^१- -ताः बौश्चौ १४,
 २०: ३.
 त्वत्-पूर्त- -र्तम् भाद्य २, ५:
 १३^१.
 त्वत्-प्रसाद-तसः (:) बृदे ६, ५६.
 त्वत्-समीप- -ये विध ९८, २.
 त्वद्-अर्थ- -र्थम् विध १, ३२;

-थे शुप्रा २, ५^१.
 त्वदर्थ-वाचिन्- -चिनौ याति
 २, ५७.
 त्वद्-गत- -तः बृदे ४, ७३.
 त्वद्-दत्त- -त्तम् भाद्य २, ५:
 १२^१.
 त्वद्-भार- -रः विध १, ४७.
 त्वद्वाष्टयोरधि^१ कौघ १, ८,
 १३.
 त्वद्विच्^१- -द्विक् ऋप्रा ८, २८.
 त्वद्-विवाचन^१- -नाः बौश्चौ ३,
 १३: १३^१.
 त्वन्-मुख- -खे सु १८, ५.
 त्व-मति- -तिः पावा १, ४, ५१.
 त्व-विधि- -धिः पावा १, ४,
 ५१.
 त्वा-दात^१- -तम् या ४, ४^१क^१.
 ङ्ङ् त्वा(त्वा-आ)दि- -दि शुभ्र १,
 १२.
 त्वाम्-आहुति^१- -तयः बौश्चौ
 ३, १३: १३^१.
 √त्वाथ^१>त्वाथा- -या आश्चौ
 ४, १, २३^१.
 ङ्ङ् त्वायु^१- -यवः आश्चौ ६,
 ४, १०; वैताश्चौ २६, ५; शुप्रा ५,
 २०.
 ङ्ङ् त्वा-वत्^१- पा, पावा ५, २,
 ३९; -वतः शाश्चौ ९, ५, ३; १८,
 १४, २; साग्र; -ङ्ङ् आपश्चौ

a) वैप १ द्र.। b) पाठः? सपा. मा ९, १९ प्रमृ. चाऽऽमा इति पाभे.। c) पृ ३२८ गृ द्र.।
 d) शोधार्थं पृ १४५१ i द्र.। e) पृ १४५१ j द्र.। f) पाठः? त्वा इति स्यात् (तु. पाद्य ३, १५, २२; Böht [ZDMG ५२, ८४] च)। g) पाभे. वैप १, २६०६ l द्र.। h) स्वम् इति पाठः? यनि. शोधः (तु. मा ४, १)।
 i) पाभे. पृ ११३७ a द्र.। j) छन्दस्तः भूयाः इत्यनन्तरं यनि. सुपठम् (तु. Böht [ZDMG ५२, ८६])।
 k) पाभे. वैप १, १४०७० द्र.। l) स्वा इति पाठः? यनि. शोधः। m) पाभे. वैप १,
 २६०७ f द्र.। n) पाभे. वैप १, ७९३ b द्र.। o) पाभे. वैप १, ८५१ a द्र.। p) वस.।
 q) =युष्मच्छब्दार्थ-। r) पाठः? त्वद्-दात्र [=त्-] > -त्राय वयः (आयुः) एधि इति त्रि-पदः शोधः। सपा.
 मा ७, ४७ त्वग् दात्र एधि > तवक-दात्रे वय एधि इत्यपि शोधः द्र.। तत्र शोधान्तरकृते सस्थ. मयस- ह्ययस-
 इत्यत्रापि टि. द्र.।

१७,८,४; वाश्रौ २,१,८,५.
 ऋत्वो(त्वा-ऊ)त-न्ताः ऋप्रा ८,
 २८.
 *त्वय^a- त्वया आश्रौ २,९,१०;
 ४,११,६; काश्रौ; माश्रौ १, ६,
 १,४^b; ऋत्वयि माश्रौ २, २,१,
 ७; आप्रमं २, १२, ३,४; कौय.
 *युव- पा ७, २,९२; -ऋवभ्याम्
 आश्रौ ६,५,२४; -वम् ऋआश्रौ
 १,६,१; २,५,२; शाश्रौ; -वयोः
 तैप्रा ११,१६ऋ; -वाभ्याम् या
 ६,९ऋ; -वाम् माय १, १०,
 १६ऋ; या ४, १२; -ऋवोः^a
 आश्रौ ४,१५, २; शाश्रौ ६, ६,
 ६; १२,८,७; ऋव्य.
 ऋयुवाकु^a- ऋवः ऋव्य २,
 १, १७; सुव्य ३, २२१; ऋप्रा
 १६, २१.
 *युष्म- ऋत् आश्रौ २,१२; ५ऋ;
 पा ७,१,३१; -ष्मभ्यम् या ५,
 १; पा ७, १, ३०; -ष्मान्
 ऋवौश्रौ^c १, ६; ५; १३; ३;
 वाश्रौ १२,३, २९ऋ; हिश्रौ ९,
 ५, ४४ऋ^d; सु १०,४; तैप्रा ६,
 १४ऋ; -ष्माभिः वाधूश्रौ ३,
 ९२ऋ; पाय १, ३, १३; -ऋष्मे
 शाश्रौ १२,१९,३; ऋप्रा १,७३;
 शौच १,७७.
 युष्माक^e- ऋकम् आश्रौ २,
 ७,७; शाश्रौ ४,५,१; माश्रौ १,
 १,२, ३५; पा ७, १, ३३.
 योष्माक- ऋकोण- पा ४,
 ३,२.
 युष्मानोत^f- तः तैप्रा १३,

१५ऋ.
 युष्मद्- पाठ १, १३१; पाग १,
 १,२७; ४,१,१०^g; -ष्मदि पा
 १,४,१०५; पावा १, ४, १०८.
 युष्मत्-तत्-तत्क्षुस्- -क्षुःषु
 पा ८,३,१०३.
 युष्मत्-प्रसाद- -दात् अप ४,
 १,१७.
 युष्मद्-अस्मद्- -स्मदोः पा ६,
 १, २११××; पावा १, १,
 ६३××; -स्मद्भ्याम् पा ७, १,
 २७; पावा ४,३,१; ५,२,३९.
 युष्मदस्मत्-छेष-वचन-
 -नम् पावा १,४,१०८.
 युष्मद्-अस्मद्- पावा ६,४,१.
 युष्मा (द-अ)स्मद्-अन्य- -न्येषु
 पावा १,४,१०८.
 युष्मद्-अस्मद्-हृदं-किं-लोप-
 -पेषु पावा ६,१,१५७.
 युष्मद्-आदेश- -शे अप्रा २, ३,
 २८; शौच २, ८४.
 युष्मदीय- पा ४, ३, १.
 यूसम् शाश्रौ ४, ५, १ऋ; वौश्रौ;
 पा ७,२,९३.
 ऋवः आश्रौ १, २, ७; १३, १;
 २,५,१७^h; ७, ७ⁱ; शाश्रौ.
 वाम् आश्रौ १,६,१ऋ; २,७,१३ऋ;
 ४,६,३; शाश्रौ; पा ८,१,२०.
 √युस् √युष् (विभागे) टि. द्र.
 यूक्,का^j- पाठ ३, ४७^k; पाग ५,
 २,९७; -के वौश्रौ २७,९ : २.
 यूक-मत्कुण-पृवीक-लिय-मातृवाह-
 कश-जलक-कण्डूपवाहक-
 -कानाम् सुघ ४०.

यूका-ल- पा ५,२,९७.
 ?यूकभिः^l अप १,८,८.
 यूकर- (>यौकरीय- पा.) पाग ४,
 २,८०.
 यूति-, यूथ- √यु (वधा.) द्र.
 रयूथ- (>यूथ-न, यौथ- पा.)
 पाग ४,२,८०^m.
 यूथी-, थ्य-यूत- √यु (वधा.) द्र.
 यूनर्ⁿ-> ऋनर्-वन्- -वा जैश्रौ ६ :
 ५^k; द्राश्रौ २,३,५; लाश्रौ १,७,५.
 यूप^o- पाठ ३,२७; पाग २, ४,३१;
 ४,२,८०^p; ५,१,४; -पः आश्रौ
 २, ७, १५; १६; १२, ६, ४;
 शाश्रौ; -पम् शाश्रौ १४, १०,
 १०; १६, ३, २०; १७, ११; काश्रौ;
 आप्रश्रौ ७, ११, ५^q; -पयोः वौश्रौ;
 १७, १३ : ९ऋ; -पस्य काश्रौ
 ६, १, २८; २५, ६, ६; आप्रश्रौ;
 -पाः शाश्रौ १६, ३, १; १२, १;
 काश्रौ; -पात् काठश्रौ ५७; वौश्रौ;
 -पात् आप्रश्रौ १४, ५, ६; १४;
 १९××; वौश्रौ; -पाय आश्रौ ३,
 १,८; शाश्रौ ५, १५, २; काश्रौ;
 -पे शाश्रौ १३, ४, १; १६, ११, ३;
 काश्रौ; -पेन वौश्रौ ६, ३३ : ५;
 १०; २०, २६ : ४१; वाधः ७,
 ३५; -पेभ्यः वृदे ४, १०१; -पेषु
 आप्रश्रौ २०, २४, ४; वौश्रौ ३५,
 २३ : १३; १६; वाश्रौ ३, ४, ३,
 २३; हिश्रौ १४, ३; १८; ५१;
 -पौ वाश्रौ १, ७, ५, २६;
 यौ(प>)पी- पी साश्र १,
 ५७; -प्यौ वृदे ४, १००; ऋव्य
 २, १, ३६.

a) वैप १ द्र. । b) पाभे. पृ ११३७ b द्र. । c) पाभे. वैप १, २६११ b द्र. । d) सपा.
 आप्रश्रौ १३, २२, १ अस्मान् इति पाभे. । e) तु. पागम. । f) छुदजन्तु-विशेष- । g) <√यु ।
 h) अर्थः ? । <यूकन्- इति ? । i) सङ्कृत यूप- इति पाका. । j) वैप २, ३खं. द्र. । k) योनोर्वा इति पाठः ? ।
 यनि. शोधः (तु. तां ६, ४, ८) । l) पाभे. पृ १२०७ h द्र. ।

यौष्य- पा ४, २, ८०; -प्यः
मीस् १२, ७, २७; -प्यस्य वागृ
६, २१.
यूप-कर्मन्- ईं काश्रौसं २७: ५;
१५.
यूपकर्म-त्व- -त्वात् मीस् ११,
३, ५.
यूप-केश^a -> यूपकेशिन्^b -शी
मागृ २, १४, २९^c.
यूप-चिति-इमशान-रजस्वला-सूतिका-
(का-अ)ञ्चि- -चीन् वाध ४,
३८.
यूप-च्छेदन- -नम् काश्रौ ७, १, २८;
-ने हिश्रौ १, १, ३८.
यूप-त्व- -त्वम् वाधुश्रौ ४, १४: ३;
४; ६४^d: २.
यूप-कृष्ट^e - -ष्टः विध १, ३.
यूप-दर्शन- -नात् मीस् ८, १, १५.
यूप-देवता-> व(त्य>)व्या-
-व्याम् शुभ्र १, ३७१; -त्ये
शुभ्र १, ३७२.
यूप-देश- -शाम् काश्रौ ९, १०, ७;
-ज्ञात् काठश्रौ ४९.
यूप-द्रव्य- -व्याणि आपश्रौ २४,
४, १३.
यूप-प्रमाण^f - -णानि हिश्रौ ४, १,
२७.
यूप-मूल- -लम् काश्रौसं ३२: २०.
यूप-लक्षण- -णम् चव्यु २: २९.
यूप-वृक्ष^g - -क्षाः गौष १, २७.
यूप-वद् काश्रौ ७, २, ८; ८, ५,
२७; आपश्रौ ११, ९, ११;
१०, ३; पागृ.
यूप-वासस- -सांसि वैज्ञाश्रौ २७, ८.

यूप-विरुद्ध^h - -दानि काश्रौसं
३२: २०; अप्राय ५, ६.
यूप-विरुद्धⁱ - -दाः काश्रौसं ३२;
१९.
यूप-विरोहण- -णे काश्रौ २५, १०,
१.
यूपविरोहणीय^j - -यः बौश्रौ
२४, १८: १५.
यूप-वृक्ष- -क्षाः वैश्रौ १०, १:
११.
यूप-वेहन- -नम् काश्रौ १४, १,
२०; -नानि काश्रौ १४, ५, ३५.
यूप-शकल- -लम् काश्रौ ६, ३,
१५; बौश्रौ ४, ४: ८xx;
माश्रौ; -लानि माश्रौ २, ५,
४, ८; -ले बौश्रौ २४, ३५: २;
-लेन माश्रौ ७, ८, ५; वैश्रौ १०,
८: १०; हिश्रौ ४, २, ४४; -लौ
काश्रौ ९, १०, ३; माश्रौ २, ४,
१, ८.
यूप-शक- -लकम् वाश्रौ १, ६,
२, ११.
यूप-संयोजन^k - -नानि बौश्रौ २०,
२६: ४१.
यूप-सकाश- -शे आपश्रौ ७, १,
१२.
यूप-समान^l - -नात् आपश्रौ १७,
२२, ६; वैश्रौ १९, ६: १४३;
हिश्रौ १२, ६, २७; -नेन हिश्रौ
४, २, ३६; ७, ८, ३५.
यूपसमाना(न-आ)दि- -दि
वैश्रौ १४, १७: ५.
यूप-स्तुति- -तिः ऋश्र २, ३, ८.
यूप-स्थायिन्- -थी अप ५०, ४, ६;

५, ४.
यूप-स्थूल(?ण^m) - -स्पर्शन- -ने
काथ २७७: १.
यूपा(प-अ)दि- -थी काश्रौ ६, ६,
१५; काठश्रौ ५८.
यूपा(प-अ)ग्र- -ग्रम् वाश्रौ १, ६,
३, ८; ९; ३, २, ६, २३; वैश्रौ;
-अग्रै वैश्रौ १०, ८: २; -अग्र
वाश्रौ ३, १, १, ८; -अग्रैः बौश्रौ
१५, १४: ८; १९: ७.
यूपा(प-अ)ङ्ग- -ङ्गम् मीस् ४, ४,
२३.
यूपा(प-अ)ञ्जन- -नम् आपश्रौ
२१, २, २; वाश्रौ ३, २, १, २२;
हिश्रौ १६, १, २३; -ने काश्रौ
२, ८, ८; हिश्रौ ३, १, २१.
यूपा(प-आ)दित्या(त्य-आ)हवनीय-
निर्मन्थ्य- -न्थ्यान् आश्रौ
५, ३, १५.
यूपा(प-अ)न्त- -न्ते काश्रौ ७, १,
२८; माश्रौ १, ८, १, ६.
यूपा(प-अ)न्तर- -रे माश्रौ ५, २,
१२, ११; -रेषु काश्रौ २०, ६, ६.
यूपा(प-अ)न्तराल- -लानि आपश्रौ
१४, ५, १७; वाश्रौ ३, २, ६,
१३; हिश्रौ ९, ८, १२; -लेषु
आपश्रौ २०, १४, ३; २४, ९.
यूपा(प-आ)रोहण- -णात् हिश्रौ
१३, २, ८.
यूपा(प-अ)र्थ- -र्थम् बौश्रु ४:
२२.
यूपा(प-अ)वटⁿ - -टः माश्रौ ५, २,
१२, ३७; वाश्रौ ३, २, ६, ५९;
-टम् काश्रौ ६, २, ८; आपश्रौ

a) मङ्गो. कस. । b) =देव-विशेष- (वैतु. MW. राक्षस-विशेष- इति) । c) बस. । d) उप.

=प्ररोह, अलङ्कार- । e) उप. =अहङ्कृत- । f) नाप. (विधि-) । तदस्यप्रयोजनमित्यर्थे छः प्र. (पा ५, १, १११) ।

g) यूप (यूप-वृक्ष-विशेष-) । h) उप. सं. √भि (पठेपे) । i) पाठः ? बनि. शोधः (तु. चिन्तामणिः; वैतु. मङ्गो.

स्वल्प- इति) । j) वैप १ द्र. ।

७, ९, ६; बौश्री; -टस्य बौश्री
२०, २ : २४; २६ : १०; वाश्री
१, ६, १, २३; -टाः बौशु ४ :
१६; २४; -टान् बौश्री १७,
११ : ८; २६, २४ : ४; -टानाम्
बौश्री २६, २४ : २; -टाय वैश्री
१०, ३ : ४; हिश्री ४, १, ४१;
-टै वैश्री १०, ८ : ४; हिश्री ४,
२, ४१.

यूपावट-काल- लम् बौश्री
२५, ९ : २.

यूपावट-देश- शम् आपश्री
७, ३, १०; भाश्री ७, २, १९;
१२, ५, २; आपशु ८, १३;
हिशु ३, १९.

यूपावट-प्रभृति- ति माश्री २,
२, ५, ४; ५, २, ४, २२; ११, १७.

यूपावटा(ट-अ)न्त^१ - न्तम्
बौश्री ६, ३१ : २४.

यूपावटीय- यः बौश्री ६, २२ :
८; -यम् बौश्री १०, २३ : २४;
२२, ५ : ९; -यात् बौश्री ६,
२२ : १०; १३; १७; १०, १९ : ६;
१९, १ : १२; बौशु ४ : ८.

यूपावट्य^२ - ट्यः भाश्री १२,
४, १३; -ट्यात् काश्री १६,
७, ३१; भाश्री १२, ४, १६;
काशु ६, १०.

यूपा(प-आ)हवनीय- यम् वैश्री
१८, १४ : ३८; -ययोः वैश्री
१०, १८ : १०; -यो वाश्री १,
६, ६, २८.

यूपा(प-आ)हुति- तिः बौश्री २४,
३७ : ७; २६, २३ : १; वाश्री
३, २, ६, ३; मीसू ११, २, २५;
-तिस् आपश्री ७, १, ७; १४,

५, ६; बौश्री; -तेः माश्री ५,
२, १२, १; -त्यै बौश्री २०,
२५ : १८; २१, ७ : १४.

यूपाहुति-वत् काश्री ६, १०, १०.
यूपाहुत्य(ति-श्च)भयादान-यवा
वपन- नानि काश्री ८, ८, ९.

यूपै(प-ए)कादशिनी- नी काश्री
८, ८, ६; २१, १, ४×४;
आपश्री २१, १४, ११; माश्री;
-न्याम् काश्री ८, ८, ३७.

यूपो(प-उ)त्तरवेदि- दी काश्रीसं
२८ : १६.

यूपो(प-उ)पर- राणि बौशु ४ :
२४.

यूपो(प-उ)पस्थान- नम् हिश्री
१०, ५, ४६.

यूपौ (प-श्री)दुम्बरी-द्रोणकलश-
शाः वैश्री २१, १८ : ३.

यूप्य,प्या- पा ५, १, ४; -प्यम्
काश्रीसं २७ : १; २८ : २; बौश्री
१८, २० : १; -प्यस्य बौश्री
१८, २० : २; -प्याः आपश्री
७, १, १५; भाश्री ७, १, ५;
माश्री; -प्यान् आपश्री ७, १,
१९; हिश्री ४, १, १३;
-प्यायाम् बौश्री ११, ३ : ३४.

यूप्यम् युष्मद्- द्र.

यूप्युचि- √युष् द्र.

यूप्युचि- √यु(बधा.) द्र.

√यूप्यु^३ (बधा.) पाधा. भ्वा. पर.
हिंसायाम्, खोषिष्ठि निघ २,
१४^{१०}.

यूप्य^४- पाजसो २, २, १६७; पाग २, ४,
३१; ४, १, ४१; २, ८०^०; -प्यम्
शाश्री ४, १८, १०; माश्री १, ८,
५, २१; आम्रिय २, ५, ८ : १६;

बौय २, ७, १८; ११, ३४; -षाणि
आपश्री १९, ९, २; हिश्री २३,
१, ४४; -षे आपश्री ७, २४, ९;
भाश्री ७, १९, २; ८; वाश्री १, ६,
७, ५; ३, १, २, १४; हिश्री ४, ५,
१०; -षेण आपश्री १९, ९, ५;
माश्री १, ८, ५, २०; वाश्री;
गोय ४, १, १२; कौसू ६४,
२१; -षैः अप ४४, ३, १०;
शंघ २१८.

यूपी- पा ४, १, ४१.

यूप-पिशित- तानि कौसू ३९,
१४.

यूपपिशिता(त-प्र)र्थ- थ्यम् कौसू
३९, ४.

यूप-र- पा ४, २, ८०.

यूपन्^५- पा ६, १, ६३; -ष्व बौश्री ४,
९ : ६; ९×४; -ष्णः आपश्री १९,
१३, १५; बौश्री १९, ५ : ११;
३३; ३४; भाश्री; -ष्णा आपश्री
७, २४, १२; बौश्री; -ष्णि वैश्री
१०, १९ : ३.

यूप^६- यूः बौश्री ४, ८ : ७; ३३.

यैकैः वायुश्री ४, १००^२ : १२.

येमान- √यच्छ द्र.

येयजामह^७- हः शाश्री १, १, ३६;
३९; ४०; २, २; ७, २, १५;
-हम् आपश्री २४, १३, ५; ६;
हिश्री २१, २, ६०; -हात् शाश्री
१, २, १९; आपश्री ५, २८, ९;
भाश्री ५, २०, २.

येयजामह-वषट्कार- स्तोः शाश्री
३, १६, १५.

येवाष^८- षः अथा ३, ४, १^१.

यैयो^९ पाय २, ११, १२.

यैयोक् पाग १, १, ३७.

a) बस. 1

b) भ्वार्थे चत् प्र. 1

c) ध्वा. गतो वृत्तिः 1

d) वैप १ द्र. 1

e) षर्कः १

f) पृ १५०५० द्र. 1

पृ २०४१ i द्र. 1

योक्तव्य-^१ क्त- प्रभृ. √युज् द.
 योत्र- √यु(वधा.) द.
 योत्स्यमान-योद्द्य-प्रभृ. √युध् द.
 योनि^२- पाठ छ, ५१; -नयः आपश्चौ
 १५, १७, ५१; बौश्रौ; भासू ३,
 १८; -ना या २, ८१; -निः
 आपश्चौ ३, १०, ५१; ५, १५,
 १६; शांश्रौ; आपश्चौ १९, २,
 १२; बौश्रौ १४, १९; ३३; ४१;
 २९; ७; १८, ५०; २९; २९,
 ७; २; ९; ५; माश्रौ २, ५, १,
 ४४; ६, १; १, २८; ७, १; २, ६,
 ३२; वाधूश्रौ ३, १२; ७; ३९;
 ९××; वैश्रौ १, १; २३; २४;
 ७; १७; १२, १; २०; छुसू १,
 ११; ७; २, ४; १४; ५; १४;
 वैताश्रौ २४, १४; निसू २, १;
 ९; ३१; ७, ७; ४०; शांश्रौ ५,
 १, ३; बौपि १, ८; १३; वैश्रु ३,
 १५; ६; कौश्रु १४, १०; अप
 २२, ६, १; २३, १, १; ४८, ७५;
 ८९; शंघ ३३३; गौघ ३, ३^b;
 काशुः ६, ६^०; वृदे १, ६२; निघ
 १, १२^{२d}; ३, ४^०; या २, ८;
 छ, ३; १४, ११; -निभ्यः आश्रौ
 ३, १२, २२; भाश्रौ; -निम्
 आश्रौ ३, १०, ६१; ११, ६××; ६,
 ५, २१; ७, ३, ११; ५, ७; ८,
 ७, ४; १२, १८; शांश्रौ छ,
 ११, ६१××; ७, २१, २; १०,
 ९, १४; ११, १२, २; १३, ३२;
 १५, ६; १८, २३, १३; आपश्चौ;
 बौश्रौ ११, ३; २१; २२, ३;
 २७; हिश्रौ २, ४, १२; जैश्रौ ९;
 २७; ११; २२; आपमं १, १२,

८; ९; १३, १; २, ९, १४; २०,
 ३१; आमिष्ट १, ५, ५; १४; १५;
 बौश्रु १, २, २९; वैश्रु ३, ८; ६;
 ९; १३; १५; १४; ६; हिश्रु १,
 १४, ७; २४, ३; जैश्रु १, २२;
 २५; अप ३०^३, १, ११;
 वाध १, ३३; वृदे ८, १४०;
 अश्रु ३, २३; या १४, ६;
 य शि २, ६४; -निषु माश्रु २,
 १५, ६१; वाध २०, १६;
 आपध २, २, ७; हिघ २, १, २९;
 ऋषा ८, ६१; -नी आश्रौ ८,
 ६, ८; १६; ७, ९; वैताश्रौ ३३,
 १०; -नीः आश्रौ ७, ५, ५; ८, ७,
 ६; बौश्रौ २४, १५; ९; वाधूश्रौ;
 -नेः आपश्चौ ९, ९, ११××;
 बौश्रौ छ, १; १५१××; १४,
 २९; ७; २९, ६; ३; भाश्रौ
 ९, १३, ५; ९; वैश्रौ १०,
 १; १३; हिश्रौ छ, १, १४;
 १५, ३, ११^३; छुसू १, ४;
 ३०; ३, ९; १८; वैश्रु ३, १०;
 २; कौसू; -नौ आश्रौ २, ४१;
 शांश्रौ २, ११, ६××; १०, १२, ४;
 काश्रौ; बौश्रौ १४, १९; ३३;
 वाधूश्रौ ३, ३९; ११; १२;
 लाश्रौ ७, ९, १३; निसू २, ७;
 १७; आपमं १, ५, १६; १७;
 २, ११, २३; आमिष्ट २, ७, ६;
 ३२; वैश्रु ३, १४; ५; या १४, ६;
 शौच छ, ५; -न्यः आश्रौ ७, ३,
 १३; -न्या निसू २, १; १०^६;
 -न्याम् बौश्रौ १४, १९; ४२१;
 अप; आश्रौ १२, १०.
 यौन^३- नात् वाध १, २२; २७,

९; बौध २, १, ६२; -नेन वाध
 १, २१; २०, ४५.
 यौन-सौव-मौल- लैः
 विघ ३५, ५^१.
 योनि-कृत- -कृतः आमिष्ट ३, ८,
 २; ५७; बौपि १, १५; ६२.
 योनि-गर्भ-देवता- > ष्य- न्यम्
 अश्रु ५, २५.
 योनि-गोत्र-मन्त्र-संबन्ध- न्धान्
 आमिष्ट ३, १, १; ३.
 योनि-गोत्र-मन्त्रा(न्व-अ)न्तेवास्य-
 (सि-अ)संबन्ध- न्धान् आपध
 २, १७, ४; हिघ २, ५, ३२.
 योनि-गोत्र-मन्त्रा(न्व-अ)संबन्ध-
 न्धान् आपध २१, २; हिश्रु २,
 १०, २; बौध २, ८, ६.
 योनि-गोत्र-श्रुत-वृत्त-संपन्न- -ज्ञाः
 बौश्रौ २, ३; १; -ज्ञान् बौश्रु २,
 ११, ५.
 योनि-देवता-> वत्य- न्यम् अश्रु
 ३, २३.
 योनि-बन्धु- न्धुः वैश्रु ६, ३; ११;
 ७, १; ६; ७; न्धुनाम् वैश्रु ७,
 ६; २.
 योनि-मत्- न्तम् वाध ६, ३०.
 योनि-मात्र- -त्रात् गौघ १८, ७.
 योनि-योनि- -नौ बौध २, ६, ३३१.
 योनि-वधा(ध-अ)र्थ- -र्थे निसू ७,
 १; १९.
 योनि-वाद- न्दः निसू ५, ९; ८.
 योनि-विपर्यास- -से अप ७०^३, १२,
 ५.
 योनि-व्यतिकर- -रः अप ७१, ५,
 १; -रम् अप ७१, ७, १; -रे
 अप ७१, १, ३.

a) वैप. १ द. । b) = उत्पत्ति-कारण- । c) = (अन्तःपाल्य-गार्हपत्ययोर्मध्यस्थित-) अग्निक्षेत्र- ।

d) = उदक- । e) = गृह- । f) = अन्तरिक्ष- । g) न्याम् इति संस्कृतः टि. । h) भवार्थे अण् प्र. ।

i) मौलैः संबन्धैः > मौलसंबन्धात् इति जीसं. । j) वैप २, ३ खं. द. ।

योनि-श(स्य>)श्या- -स्याः मीस्
७,२,१७.

न्योनि-षद्- -षदः आसिगृ १, ५,
३: ४?; हिगृ १, १९, ७.

योनि-सङ्कट-निर्गमन- -नात् विध
९६, ३३.

योनि-संकर- -रम् अप २२, ३, ५.

योनि-संकर-दोष- -षेण कप्र १,
७, १३.

योनि-संकर-संकीर्ण- -र्णे अप
२२, ४, १.

योनि-संबन्ध- -न्धाः गौध २०, ६;
-न्धान् गौध २०, २; -न्धे

आपध १, २१, ८; हिध १, ६,
३८; गौध १४, १९; -न्धेभ्यः

आसिगृ ३, ७, ४: १; बौपि २, ३:
७; आपध २, ११, १६; १५, २;

हिध २, ३, ३२; ४, ३१.

योनि-स्थान- -नम् आश्रौ ५, १५,
१८; ८, ६, १८; -ने आश्रौ ५,

१५, १७; ७, १२, १४.

योन्य(नि-अ)नुशंसन- -नम् शाश्रौ
७, २१, ५.

यो(यन्)पध- प्रसृ. १य- द्र.

योपयत्-, णित्वा प्रसृ. √युप् द्र.

योयुवती- √यु(बधा.) द्र.

न्योषणा- -णासु आश्रौ ३, ८, १;
-णे या ८, ११.

योषा- पाठ ३, ६२; -नषा बौश्रौ
२४, २४: ९; हिश्रौ; -नषा:

आपश्रौ १७, १८, १; या ३, ४;
७, १७; २०; -षाम् शाश्रौ ८,
१८, ११; कप्र २, २, ९;

शंघ ४४०; -षायाः कप्र ३,
५, ११.

योषा(षा-अ)र्थ-> णिन्- -र्धी
अप १, ४४, २.

योषित्- पाठ १, ९७; -षित् कप्र
२, २, ९; विध २५, १६; -षितः

अप ४८, ७६; ६४, २, ३;
-षिताम् जैश्रौप ११; कप्र २,

११, ६; -षिद्भ्यः कप्र २, ७, ११.

योषिद्-आस्य- -स्यम् वैध ३, ४, ६.
योषिद्-देवता-> ळ्य- -त्यम्

अत्र १, १७.
?योषि- -ष्टिः अप ४८, २१.

न्योस- -यो आश्रौ ३, १०, ८; आपश्रौ
५, ४, १; बौश्रौ; या ४, २१६.

यौकरीय- यूकर- द्र.

यौकल्लुच-, यौकल्लुच-, यौगन्धर-
यौगिक-, यौजनशतिक-,
यौजनिक- √युज् द्र.

यौट् पाषा. भ्वा. पर. बन्धे.
यौतिक^d-(> ळ्या- पा.) पाग ४, १,
८०.

यौथकालकि^d- -किः बौश्रौप ४४:
४.

यौथपाल^d-> ळा(ल-आ)जपाल-
-लाः बौश्रौप ४४: ५.

यौथय- २यूथ- द्र.
१-२यौध- प्रसृ. √युध् द्र.

यौधेय^e- पाग ४, १, १७६; पा, पाग
५, ३, ११७.

यौधेयी- पा ४, १, १७६.
यौधेया(य-आ)दि-प्रतिषेध- -धः

पावा ४, १, १७५.
यौधेया(य-आ)दि- -दिभ्यः पा ५,
३, ११७^f.

यौन- प्रसृ. योनि- द्र.
यौपी-, ष्य- यूप- द्र.

यौवत-, ळन्-, ळनक- युवत्- द्र.
यौवताश्व- युवताश्व- द्र.

यौवराजिक-, ळज्य- युवन्- द्र.
यौष्माक-, ळकीण- युष्मद्- द्र

र

र^g-र्षि १, ३; रः पा ८, ३, १४; रि पा
७, ४, ५१; ८, ३, १४.

रन्- वीः पा ८, २, ७६.
र^h- रः शुप्रा १, ६८; ७७; ऋत ४,
३, १०; भाशि ९१; पा ७, २,
१००; ८, २, ६९; रम् ऋत ३,
५, ७; ६, ५; रस्य तैप्रा १, १९;

पावा ७, २, १००; रात् भाशि
४; १६; पा ६, ४, २१; ८, २,
२४; पावा ६, १, ६७; रेण पावा
१, २, १८ⁱ.

र-पर- -रः शैशि ८७; पा १, १,
५१; ६, १, १९१.

रपर-स्व- -न्वात् पावा १, १,
५१.

रपर-प्रतिषेध- -धः पावा १, १,
५१.

रपर-प्रसङ्ग- -ज्ञात् पावा १, १,
५०.

रपर-वचन- -नम् पावा १, १,
५१; ७, १, ९६.

र-प्रकृति^a- -तिः ऋत ३, ६, ६.
र-प्रतिषेध- -धः, -न्वात् पावा ७,
१, ९६.

र-भावा(व-अ)प्रसिद्धि- -द्धिः
पावा ७, २, २०.

र-ल- -लाभ्याम् याशि २, १७;
-लौ शुप्रा ४, १७; ऋत २, ३,
४; शैशि १११.

a) वैप १ द्र. । b) लुप्तयोकारः निषदः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. हिगृ.) । c) = नदी- । d) व्यप. ।

e) = अयुधजीविसंघविशेष- । f) ळिभ्याम् इति पाका. । g) = १२-, र-गण- (छन्दो-गण- [र्षि.]) ।

h) = वर्ण-विशेष- । i) तु. पाका. । j) बस. ।

र-लोप- -पे शौच ३, २०.
 र-वत्-प्रतिषेध- -धात् पाप्रवा २,
 ५.
 र-विधान- -न्ने पावा ४, १, ७.
 र-विधि- -धौ पावा १, १, ६३.
 र-विस्वर्जनीय-जिह्वामूलीयो (य-उ)
 पध्माननीय- -याः तैप्रा १४, १५.
 र-श- -शयोः याशि २, १४.
 र-ष- -षयोः माशि ९, १२^{१६};
 -षाभ्याम् पा ८, ४, १.
 रष-पूर्व- -र्वः भाशि ६२.
 र-स्वरित^१- -न्ताः याशि २, ३२;
 नाशि २, ३, ४.
 १र-ह- -हयोः माशि ९, १२; याशि
 २, १४.
 रह-पूर्व- -र्वम् नाशि २, २, ११.
 र-ह-य- -याणाम् नाशि २, २, १७.
 रा(र-आ)देश- -शे पावा ७, २,
 १००; ८, २, ६९; ३, १.
 रा(र-अ)न्त-प्रतिषेध- -घः पावा
 १, १, ५१.
 रो(र-उ)पधा- -धयोः पा ६, ४,
 ४७.
 रो(र-उ)पध्मन्- -ध्मसु शुप्रा ४, १.
 २२^०- रम् ऋत २, ३, ६; रात् ऋत
 ४, ३, ९; ५, ६, ४; रे ऋत ३,
 १, ८; ६, ९; ५, ५, १०; रौ ऋत
 ३, ४, ३.
 र-मध्य- -ध्ये ऋत ४, २, ९.
 र-संधि- -धिः ऋत ५, ५, २.
 रंरि^१- -सु निघ ४, ३; या ६, १७०^१.
 √रंरि^१ पाधा. भ्वा. पर. गतौ; चुरा.
 पर. भाषायाम्, रंहति निघ २,

१४^१.
 रंरि^१- -हिः या १०, २९; -ह्या
 अप्राय ६, ३^१; -ह्ये बौश्रौ ४, ९;
 १८; तैप्रा १६, २३.
 रंहित- -तस्य कौसू ४९, ५.
 √रक्^१ पाधा. चुरा. उभ. आस्वादाने,
 आस्वादाने^१.
 रक- (> राक्य- पा.) पाग ४, ३,
 ९२.
 ररक्त- (> राक्ति- पा.) पाग ४, १,
 ९६^१.
 २-दरक्त- प्रसृ. √रज् द्र.
 √रक्ष पाधा. भ्वा. पर. पालने, रक्षते
 वाधूश्रौ ३, १७ : २३; अप २,
 २, २; रक्षति आश्रौ ४, ७, ४^१;
 काश्रौ; आपमं २, २०, ३२^१;
 रक्षतः अप १, ४१, ८; अशां;
 रक्षन्ति शाश्रौ १२, २, १४^१××;
 आपश्रौ; रक्षसे अश्र १७, १^१;
 रक्षसि आपश्रौ १, १४,
 ६××; हिश्रौ; रक्षथ आपघ
 २, १३, ६; बौध २, २,
 ३६; दिघ २, ३, ६; रक्षतु
 आश्रौ ४, १२, २; बौश्रौ;
 माश्रौ ३, ५, १५^१; रक्षतात्
 शांग १, १२, ६^१; रक्षताम् कौसू
 ५, २^१; रक्षन्ताम् बौश्रौ २७,
 ६ : १६××; वैश्रौ; रक्षन्तु
 बौश्रौ ३, २८ : २; जैयु; रक्षस्व
 आपश्रौ १, १४, ५; १२,
 २, २, ३; रक्ष, > क्षा
 आश्रौ २, १०, ६; ४, १२,

२; शाश्रौ; रक्षतात् शांग १,
 २५, ८^१; रक्षेथाम् भाश्रौ १,
 २०, ७^१; रक्षतम् आश्रौ ४,
 १२, २^१; रक्षध्वम् काश्रौ २५,
 १३, २५; आपश्रौ; रक्षत, >
 ता आपश्रौ ६, २१, १; वाध
 १७, ९; ऋप्रा ८, १५; रक्षेत्
 शंघ १४^१; २६२; आज्यो १०,
 ९; रक्षेत् शाश्रौ १३, २९, २७;
 काश्रौ २४, ६, ३०; आपश्रौ;
 रक्षेयुः लाश्रौ ९, ९, ९; १०,
 १७, ४.
 ररक्ष ऋप्रा ९, ४५^१; ररक्षुः
 वाधूश्रौ ३, ७५^१.
 रक्षयेत् कप्र २, १, ४; वाध १६,
 ६.
 रक्ष- -क्षे अप ४८, १४.
 रक्षण- -णम् गौध ८, ३; १०, ७;
 -णात् गौध १८, १४; -णे अप
 २, २, ५; १८, ३, ५; ५२,
 १६, ६.
 रक्षणा(ण-अ)धिकार- -रात्
 वाध ३, २५.
 रक्षणा(ण-अ)र्थ- -थाय शंघ
 ३९१.
 रक्षणीय- -यम् शंघ ४४३.
 रक्षत्- -क्षन् अश्र १९, ४६^१;
 -त्तन्तः सु २६, १.
 रक्षन्ती- -न्ती सु २४, २.
 रक्षमाण, णा- -णम् वाधूश्रौ ३, १७:
 २२; माय २, १५, १^१; -णा
 पाय ३, ४, १५^१; -णाः वैताश्रौ
 २५, ८^१.

a) पाठः? रसायोः इति शोधः (तु. याशि २, १४)। b) बस.। c) स्वर- इत्यस्याऽन्त्यानुकरणम्।

d) वैप १ द्र.। e) या ९, ११ परामृष्टः द्र.। f) रंखात् इति पाठः? यनि. शोधः (तु. अ ९, ६, ८)।

g) √रक्ष; रक्ष इत्यन्ये। h) तु. BPG.। i) तु. पासि.। j) पामे. वैप १, १३७३ g द्र.। k) पामे.

वैप १ शुन्धतु काठ ३५, ४^१ टि. द्र.। l) पामे. वैप १, १२२५० द्र.। m) इह, रक्षतात् इत्यस्य स्थाने रक्ष.

सा ३५, १७ प्रसृ. अभिरक्षतात् इति पामे.। n) पामे. वैप १, २६२० h द्र.।

रक्षस्- पाठवृ ४, १८९; पाग ३, ४, ७४^b; ५, ३, ११७^c; ४, ३८; -क्षः ऋश्रौ २, ३, ५××; शांश्रौ; बौश्रौ १२, ४; १५; १६; सु १२, १; अप ७०, २२, २४; शुअ १, ३८; या ४, १८; उनिस् ७; १०^f; -क्षसः शांश्रौ १४, ५४, १^f; आपश्रौ; वाश्रौ १, ६, २, १५; या ४, १८; -क्षसाम् ऋश्रौ ३, ८, ७; ६, ६, ८××; आपश्रौ; वैश्रौ १, १; २३; जैश्रौ ५; ८; २२; ८; कौश्रु १, १५, २; शांश्रु १, २३, १; अप्राय ३, २; अप ५३, ४, २; -ऋक्षसे अपं ३; ६३; या ४, १८; -क्षांतिआश्रौ ऋश्रु, ६, ९; १२, ३; १०, ७, ६; शांश्रौ ४, ४, २; १६, २, १७; आपश्रौ; बौश्रौ १३, ३; ८; २३, १; २२; वाधूश्रौ ४, ८८; १०; जैश्रौ ५; ६; ७; २१; ६; ७; वैताश्रौ ६, ११; आपमं २, १३, ६; आश्रु ३, ४, १; कौश्रु २, ५, १; शांश्रु ४, ९, ३; आश्रिण २, ५, ९; १३; बौपि २, ९, ११; वैश्रु ४, ४; २१; जैश्रु २, ६; १०; कप्र १, १०, १३; २, २, २; अप २, २, ४; ६७, ३, ३; शंघ ४६२; विध ९३, १२; वृदे ८, ११५; या ३, ८; १०, ११; माशि ८; १११; -क्षोभिः अप ७०^३, १५, ४; -क्षोभ्यः आपश्रौ १८, ९, १४; माश्रौ ५, १, ७, ३८; हिश्रौ १३, ३, ३७; जैश्रौ १०; ६; आश्रु; अप २०, ७, ३; ३३, ७, ४.

राक्षस, सा^d- पा ५, ३, ११७; ४, ३८; -सः आश्रु १, ६, १; वैश्रु ३, १; २; १०; आपध २, १२, २; बौध १, ११, ८^f; विध २४, १८; २५^f; हिध २, ४, ३७; गौध ४, १२; -सम् काश्रौ १, १०, १४; कौश्रु १, ६, ७; शांश्रु १, १०, ९; कप्र ३, ८, ४; शुअ १, ५२; १४३; -सा अघ २७, १, ४; -साः बौश्रौ २४, २७; १२^f; अप २८, १, ४; ३३, ७, ५; -सात् वैश्रु ६, १२; १०; -सान् कौस् १०६, ७^f; अप ७१, ७, ५; शंघ ११६; २१; -से वैश्रु ६ १२; १०; शुअ १, ३३; ६०.
राक्षसी-सीभ्यः माशि २, १०१; नाशि २, ८, २५.
राक्षस-त्व- -त्वम् अप २२, ५, १.
राक्षस-पैशाच- -चौ वैश्रु ६, १२; १३.
रक्षः-पतङ्ग- -ङ्गैः अप ७०^३, १५, ३.
रक्षः-पन्नग-यक्ष- -क्षेषु अप ७१, १७, १०.
रक्षः-पिण्या (य्य-अ) भिचार^f- -रे जैश्रौका १०६.
रक्षः-पिशाच- -चाः बौध १, ११, ३७.
रक्ष (स्य >) स्या- पा ४, ४, १२१; -स्या बौश्रौ १३, ३४; ५^f.
रक्षो-गण- -णाः द्राश्रु १, ५, ३३^f.
रक्षो-घ्न- -घ्नस् अप १८, १,

१४; शुअ १, ३४; ३२६; -घ्नानि विध ७९, १६; शुअ १, ५९१; -क्षैः कौस् १२६, ९; अप ६, १, ९.
रक्षो-जन- -नेभ्यः वाश्रु १७, ११; गोश्रु १, ४, ११; कप्र २, ४, १.
रक्षो-देवजन- -नेभ्यः बौश्रु २, ८, १७^f.
रक्षो-देव(ता >)त^f- -तः हिश्रौ १५, ४, २५^b.
रक्षो-देवता- -ताभ्यः वाध २३, ३^f.
रक्षोदेवत्य, त्या- -त्यः आपश्रौ ९, १५, ४^f; -त्या कौस् ४, १२.
रक्षो-दैवत^f- -तः बौध २, १, ३१^b; -तम् वाध २३, १.
रक्षो(क्षस्-अ) धिपति- -तिभ्यः ऋशां २४, ६^f.
रक्षो(क्षस्-अ)पहनन- -नाय बौश्रौ २०, २; १६^f.
रक्षो-भूत- -तेन वृदे ६, ३४.
रक्षो-मुख- पाग २, ४, ६३.
रक्षो-यक्षा(क्ष-आ)दि-सत्त्व- -त्वानाम् अप ६४, १, ९.
रक्षो-राज- -जेन आपमं २, १३, ११; आश्रिण.
रक्षो-रूप- -पाणि अप ७०^३, १५, ३.
रक्षो-विद्या- -द्या, -द्याम् शांश्रौ १६, २, १८.
रक्षो(क्षस्-अ)सुर-(> राक्षोसुर- पा.) पाग ५, २, ६१.
रक्षो-हण- (> णक- पा.) पाग ५, २, ६२.

a) बप्रा. । वैश्रु १ निर्दिष्टानां समावेशः द्र. । b) रजस- इति वाका. । c) = आयुर्विज्ञानविशेषविशेष- । d) विष., नाष. (रक्षस्-, विवाह-भेद-) । अण प्र. । e) कस. । f) [तदाख्य-मन्त्राणाम्] समाहारे द्रस. (तु. काश्रौ १, १०, १४) । g) बस. । h) सपा. °देवतः <> °देवत्यः <> °दैवतः इति पाभे. ।

रक्षोहणा(ण-आ)दि-दि
बुदे ७,१४२.

रक्षो-हृन्^१ -न्नः आपश्चौ १२,
२,१५^२†; माश्रौ; -न्ने आपश्चौ
१८, ९, १२†; १९, १८, १४;
बौश्रौ १३, ३:७; १०; २३, १:
२२; माश्रौ ५, १, ७, ३८;
हिश्रौ २२, २, १०; -हणः
†काश्रौ ८,५,१९; २१^१; आपश्चौ;
-हणम् आपश्चौ ९,८,८†××;
बौश्रौ; अप ३३, ७, ३; -हणा
काठश्रौ ९६†; -हणी शुअ
१, ३९६; -हणौ काश्रौ ८, ५,
२२^२†; आपश्चौ; -हा †आपश्चौ
१२,२,१५; १६,६,७^३; वाधूश्रौ;
हिश्रौ ७, ६, ३३^१; ३५^१; जैश्रौ
५: ६; २१: ७; बुदे ६, १३४;
ऋअ २, १०, १६२^१; अअ २०,
९६^१.

†रक्षोष्नी- -ष्नी माश्रौ २,
२,३, ३६; ३७; -ष्नीः आपश्चौ
१६, ३३, १; १९, १८, १६९^१;
वैश्रौ १८, १६: ५९.

राक्षोष्नी^१ - -ष्नी बौश्रौ
२२,३:१२; जैश्रौका ६९^१; ऋअ
२, ४, ४; ७, १०४; १०, ८७;
११८; बुदे ६, २८; चाअ ४१:
४; -ष्ना^१ शुअ २, १४४^१;
-ष्नानि जैश्रौ २५: ३^१; बौगृ
२, ११, ४०^१; बौध २, ८, ५^१;
-ष्नेन बौश्रौ १०, १४: ३; वैश्रौ
१८, ७: १९.

राक्षोष्नी- -ष्नी साअ
१,२४; -ष्नीः आपश्चौ ७, १३, ४;
-ष्नीषु निस् ३, १२: ३९; -ष्नीयः
चाअ १६: २१.

राक्षोष्ना(न्न-आ)पनेय-
-यम् बुदे ८,४०; ६५.

रक्षा- पाग ६, २, ८५^१; -क्षा अप
७०^२, १५, ३; आपध १, १८, १;
हिध १, ५, ७१; -क्षाम सु २०,
१; २७, १; आग्निगृ २, ३, ५:
२३; २७; अप; -†क्षायै वाश्रौ
१,२,४,३०; वागृ १४, १२.

रक्षा-बन्धन^१ -नम् अप १८^२,
१६, १.

रक्षा-सूत्र- -न्ने अप १८^२, १, ६.

रक्षित- -त्ते वाध १९, १२.

रक्षित-वत्- -वन्तौ आश्रौ २,
१०, ५; माश्रौ ५, १, १, २८; ५,
३९; ६०.

रक्षितवै वाधूश्रौ २, २०: ८.

रक्षितव्य- -व्यः वैगृ २, ८: ९;
-व्यम् या ४, १८.

रक्षितृ- -ता †आपमं २, १७, १४-
१९; अप २, २, ३; अशां १९,
६; या ११, ५†; -†तारः बौगृ
१, ३, ३५; या ४, १९; -तारम्
या ११, ५; -तारौ हिपि १८:
७†.

रक्षित्वा लाश्रौ ९, ९, ५.

रक्षिन्- -क्षिणः आश्रौ १०, ६, ७;
काश्रौ २०, २, ११.

रक्ष्य,क्ष्या- -क्ष्यम् आपअ २, २६,

६; हिध २, ५, २०१; गोध १०,
३६; ४५; -क्ष्ये आपध २, २६,
२३; हिध २, ५, २१८.

रक्ष्य-तम- -माः बौध २, २, ५५.

रक्ष्- ,रक्षण- प्रभृ. ✓रज् द्र.

✓रख्,ङ्ख् पाधा. भ्वा.पर.गतौ.

✓रग् पाधा.भ्वा.पर.शङ्क्याम्.

रघु^१- पाठभो २, १, ३२.

रधीयस्^१- -यांसः तैप्रा १६, १३†.

रघु-मन्घु^१- -०न्यवः शाश्रौ ११,
१२, १३.

†रघु-व्यद्^१- -व्यदः आश्रौ ५, ५,
१९^१; आपश्चौ १३, ७, १६^१;
वैश्रौ १६, ८: ८^१; हिश्रौ १०,
५, १^१; अप ३२, १, ७.

रङ्क- पाठभो २, २, ३१.

रङ्कु- पाठभो २, १, ३८; पाग ४, २,
१३३^१; १३४.

राङ्कव- पा ४, २, १००; १३३.

राङ्कवक- पा ४, २, १३४.

राङ्कवाय(ण>)णी- पा ४, २, १००.

१-३रङ्गना- ✓रज् द्र.

✓रङ्ग् पाधा.भ्वा.आत्म. गतौ; चुरा.
उभ. भाषायाम्.

✓रच् पाधा. चुरा. उभ. प्रतियेके,
रचयति वैश्रौ २०, २९: ७.

रचना- -नाः मीस् १, १, २४^१.

†रचायम्^१ वाधूश्रौ ३, ८१: ६.

रचित- (> राचित- < > तायन- < >
पा. यक.) पाग ४, १, १०४; १००

✓रज्,ञ्ज्^१ (बधा.) पाधा. भ्वा.,
दिवा. उभ. रागे, †रज्जति^१

a) वैप १ द्र. । b) पाभे. वैप १, २६२३ ० द्र. । c) °हृत् इति पाठः? यनि. शोधः (तु. काठ २, ११) । d) व्यप. (ऋषि-) । e) परस्परं पाभे. । f) <रक्षो-न्न- इति MW. । g) = साम-विशेष- । h) विप. (ऋच्-) । i) रक्ष्- इति पाका. । j) = कर्म-विशेष- । k) °ष्ण इति पाठः? यनि. शोधः (तु. ऋ १, ८५, ६ आन. च) । l) °व्यतः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सप्र. शौ ३, ७, १) । m) = देश-विशेष- । n) श्वचनाः इति जीसं. प्रयासं. । o) रचा- (रचना-)> -चायाम् इति शोधः (वैतु. C. अरचायम् इति) । p) या ४, १९ पा, पावा ६, ४; २४ परामृष्टः द्र. । q) धा. गतौ वृत्तिः ।

अप ४८, ११६; निघ २, १४.
 अरज्यत अत्र १५, ८१.
 रज्जन्ति शैशि २३०; याशि २, ७७.
 रज्यते याशि २, ७२; ७३;
 नाशि २, ४, ५; ६.
 रज्यति निघ ३, १४^{१०}.
 रज्जयति निघ ३, १४^{१०};
 रज्जयेत् शैशि २२३; याशि २, ७५.
 ररक्त- -क्तम् पा ४, २, १.
 रक्ता(क्त-आ)दि- -दीनाम् पावा ४, २, १.
 ररक्त, क्ता^{१०} -क्तः आ २९, २, ४;
 याशि २, १; -क्तम् कौष्ट १, ७, १; शांयु १, ११, ३; आमिष्ट; -क्ता अप २१, ६, २; -क्तानि अप ५८, १, ८; ९; -क्तानि आमिष्ट १, १९, ११; बौष्ट १, ८, ११; अप; -क्तम् जैष्ट २, ९; ३२; -क्ते अप ३, ३, २; ५०, ५, ६; ६३, ४, ५; -क्ते अप ३५, १, १; -क्तौ आमिष्ट २, ५, १; ९; जैष्ट २, ९; ४.
 रक्त-कङ्कण- -णम् कौष्ट १, २०, ७.
 ररक्तकण्ठगत- -ते अप ६८, ५, ४.
 रक्त-कुसुम- -मैः अप १२, १, ५.
 रक्त-कृष्ण- -ष्णम् कौष्ट १, ८, ८; शांयु १, १२, ८.
 रक्त-चन्दन- -नेन आमिष्ट २, ४, ११; १८.
 ररक्त-दत्^{१०} -दत् अपाध १, ७, ११; हिध १, २, ६८.

रक्त-धेनु- -नुम् वैष्ट ४, १४; ११.
 रक्त-निर्गिक्त- -क्ते गौध ७, १०.
 रक्त-पाण्डुर-मेचक- -कान् अप ६३, १, २.
 रक्त-पाद^{१०} -दान् शोध ४२६.
 रक्त-पाद-तुण्ड^{१०} -ण्डाः गौध १७, २७.
 रक्त-पीत-शुक्ल कृष्ण-नील-हरि-त-चित्र-वासस्- -सांसि माष्ट २, १४, २८.
 रक्त-पीता(त-अ)र(णु>)णा^१ -णाम् अप ६४, ९४.
 रक्त-पीता(त-अ)सित- -तैः अप ६४, २, ८.
 रक्त-पुष्प- -ष्पेण आमिष्ट २, ४, ११; १८.
 रक्त-भौम^{१०} -मम् शोध ११६; ३.
 रक्त-वर्ण, र्णा^{१०} -र्णाः आमिष्ट २, ४, ११; १८; १२; ७; -र्णा अप ३४, १, ५; -र्णानि शोध १९७.
 रक्त-वर्मिका-दशन- -ने काध २७६; ७.
 रक्त-वस्त्र-> -स्त्र-रङ्ग-रत्न-गन्ध-गुड-मधु-रसो (स-ऊ)र्णा-विक्रयिन् -यी विध ५४, २०.
 रक्तवस्त्रा (स्त्र-आ)वृत्- -तैः अप ७०^१, ७, १६; ७१, ११, ४.
 ररक्त-वासस्- -सांसि विध ४४, ३७.
 रक्तवास(स>)सा^१ - -से अप ३५, १, १.

ररक्त-वासस्^{१०} -साः अप ३१, ९, ३.
 रक्त-शालि-सहस्र- -क्षेत्रे अप १, ४३, ६.
 रक्त-सूत्र- -त्रम् कौष्ट १, २०, ७.
 रक्ता(क्त-अ)क्ष^{१०} -क्षाः अप २०, ६, ३.
 रक्ता(क्त-अ)र्का(र्क-अ)स्तमनो-(न-उ)द्वय^१ -याः अप ६४, ९, १.
 रक्ता(क्त-अ)सिता(त-अ)तिरक्त-श्याम-पीत-सिता(त-अ)सित-कृष्ण-धूम्र-वर्णा^१ -र्णाः वैष्ट ४, १३; ४.
 रक्ता (क्त-आ)स्य-नेत्र-पाणि-पाद- -दम् वैष्ट ४, ११; ३.
 रक्तो(क्त-उ)ष्णोष-> षिन्-षी अप ३१, ९, ३.
 ररक्त^{१०} -क्तम् अप ७०^२, ७, २४; ७०^१, ८, ५; -क्ते अप ७०^२, ८, ३.
 ररक्ता^{१०} -क्तः ऋप्रा १, ७५; १३, २०; ऋत ३, ६, ४; -क्तम् ऋप्रा १४, ५१; माशि १०, ७, ८; नाशि २, ४, ५; -क्ताः ऋप्रा ६, १९; -क्तात् ऋप्रा १४, ३२; ५३; ५७; -क्तैः ऋप्रा १४, ५६.
 रक्त-पर^{१०} -रात् ऋप्रा १४, ३४.
 रक्त-सं(ज्ञा>)ज्ञ^{१०} -ज्ञः ऋप्रा १, ३६.
 रक्त-संहित- -तम् ऋप्रा ११, १०.
 ररक्त^{१०} -क्तम् नाशि १, ३, १^१कुं.
 ररक्ता^{१०} -ज्ञः माशि १०, १०; याशि २, १; ७०-७२; ७४; नाशि २,

a) घा. अर्चायां वृत्तिः । b) = लोहित-त्रयी. वा तद्वत्. वा । c) वस. । d) = कपोत । e) वस. > द्वस. । f) विप. (सन्ध्या-) । g) = पाताल-विशेष- । h) अच् प्र. उंसं. (पा ५, २, १२७) । i) कस. > पस. > द्वस. । j) द्वस. > वस. । k) = रुधिर- । l) = अनुनासिक- । m) = गानगुण-वृत्तिविशेष- ।

४, ७-९; -ङ्गम् बौधि १५;
२२६; याशि २, ७६; ७७; -ङ्गाः
शैशि २००; २२९; पाशि १९;
माशि १०, ९; याशि २, ७८;
-ङ्गे याशि १, ६४; २, ६९;
-ङ्गेण याशि २, ९०.

रज्ज- > रङ्गा(ङ्ग-अ)वतरण- -गम्
विध १६, ८.

रङ्गा(ङ्ग-अ)वतार^b- -रे बौध २,
२, ५६^c.

रङ्गा(ङ्ग-अ)वतारिन्- -रिणः शंघ
४३४.

रङ्गो(ङ्ग-उ)पजीवन- -नम् बौध
२, १, ४४.

रङ्गो(ङ्ग-उ)पजीविन्- -विनाम्
शंघ २६२.

रजक- पाउ २, ३२; पावा ३, १,
१४५; ६, ४, २४; -कः विध
४५, २२; वैध ३, १५, १०;
-कस्य शंघ ४३४.

रजत, ता^d- पाउ ३, १११; पाग २,
४, ३१; ४, ३, १५४; -तः
आपश्रौ २२, ५, ५; वाधूश्रौ ३,
७६ : २५; लाश्रौ ८, ६, १७;
-तम् आश्रौ ३, १२, १७; शाश्रौ;
-तस्य शंघ ३९५; -ताः वाधूश्रौ
३, ७६ : २९; ३३; ३४; -तात्
वाधूश्रौ ४, ५९^e : ११; -ताम्
बौश्रौ १५, १५ : ४; वाश्रौ ३,
४, ३, ४७; वाधूश्रौ ३, ७६ : २४;
-तानि बौश्रौ १५, ३ : १; १८,
३७ : ३; वाधूश्रौ ३, ७६ : २३;
अप ६८, ५, १२; -ताभिः वाश्रौ
३, ४, ४, १७; -ताम् आश्रौ
२, ३, १५; आपश्रौ ६, ९, ४;

बौश्रौ ३, ६ : १; हिश्रौ ३, ७,
६१; -ते शंघ २०७; -तेन
बौश्रौ १५, ३१ : १४; कप्र २,
८, ३; अप १८, ३, १; शंघ
१८३; -तैः बौश्रौ १५, २८ :
१४; ३० : २७; ३३ : ३.

राजत, ता- पा ४, ३, १५४;
-तः शाश्रौ १४, ३२, ६; काश्रौ
२०, २, ६; २२, ४, १८; हिश्रौ
१७, २, ३३; लाश्रौ ९, २, १३;
-तम् काश्रौ १९, ४, १०; आपश्रौ
१५, ७, ३; ११, २; १८, १७,
१२^f; २०, २, ५; बौश्रौ; -ताः
बौश्रौ २२, १९ : ११××; हिश्रौ
१४, ३, २२; -ताम् आपश्रौ
२०, १५, १०; बौश्रौ २, १२ :
७××; हिश्रौ १४, ३, २२;
-तानाम् बौश्रौ १५, १५ : ६;
-तानि बौश्रौ १५, १५ : १३;
१६; २१, २ : १३; विध ७९, १५;
-ताभिः बौश्रौ १५, ३० : १६;
-तेन काश्रौ २०, ५, २; आपश्रौ
२०, १३, २; वैश्रौ; वैश्रु ३, २१ :
१३; शंघ ११६ : ७१; ११७;
-तैः अप २७, १, २; -तौ आश्रौ
९, ४, १३; अप ३९, १, १०.

राजती- -तीभिः
आपश्रौ २०, १८, ७; हिश्रौ १४,
४, १७.

राजत-मणि- -णिम्
हिश्रौ १३, ६, ११^g.

राजत-सुवर्ण- -गौं भाश्रौ
११, ११, १५.

राजत-सुवर्ण-सीसा^f-
-साभिः काश्रौ २०, ७, २.

रजत-कर^h- -रम् विध ९, ७.

रजत-काञ्चन- -ने वृदे ७, ७८.
? रजत-क्षत-सप्रभ- -भम् अप
६४, ५, ८.

रजत-ग(भे >)भा^h- -भाम्
आपश्रौ ६, ९, ४; हिश्रौ ३, ७, ६१.

रजत-ग्रन्थि^h- -न्थि वाधूश्रौ ३,
७६ : २६; -न्थीन् बौश्रौ १५,
१५ : ११.

रजत-जातरूप- -वे द्वाश्रौ २, २,
२६; लाश्रौ १, ६, २४.

रजत-स्सर^h- -रवः वाधूश्रौ ३,
७६ : २८; -रून् बौश्रौ १५,
१५ : ४.

रजत-दण्ड^h- -ण्डानि बौश्रौ
१५, १५ : १५.

रजत-धारण- -णम् काश्रौ २५,
३, २०.

रजत-नामि^d- -मिः अत्र ८,
१०^h; -मी तैप्रा ४, १२.

रजत-निर्बाध^h- -धानि वाधूश्रौ
३, ७६ : २३.

रजत-पिपीलिका- -कानाम् कौस्
११६, ३^h.

रजत-मय- -येषु विध ७३, १३.

रजत-रा(स्ना >)स्न^h- -स्नान्
बौश्रौ १५, १५ : १४; वाधूश्रौ
३, ७६ : २४.

रजत-शङ्कु^h- -ङ्कुनि बौश्रौ
१५, १५ : १२.

रजत-शतमान- -नम् काश्रौ
२६, २, ३९.

रजत-ज्ञा(म्या >)भ्य^h- -भ्यः
वाधूश्रौ ३, ७६ : २५.

रजत-सुवर्ण- -गौं आपश्रौ १५,

1) a) = रङ्ग-मञ्च-। b) = रङ्गावतारदार- [पण्यली-]। c) सप्र. मनुः [८, ३६३] आत्मोपजीविषु इति
फले.। d) वैप १ द्र.। e) सपा. राजतम् <> राजतमणिम् इति पाठे.। f) रज्ज इति बौध.।
g) बसः उप. = रकर-। h) बसः।

५,१५; माश्रौ ११,५,१९; हिश्रौ २४,२,६.
 रजन^०- पाउ २, ७९; पाग ४,१, ४१; पावा ६, ४, २४.
 रजनी (बप्रा.)- पाउभो २, २, १८८^०; पा ४, १, ४१^०; -नीम् माग २, १३, ६१^०; नाशि १, २, १३^०.
 रजनि^०- पाउभो २, १, २१२.
 रजनि-कर->र-दिवाकर- -रौ अप ६८,३,१०.
 रजस्^१- पाउ ४, २१७; पा ५, ४, ५१; पाग ३,४, ७४^०; पावा ६, ४, २४; -जः आश्रौ ४, ६, ३; बौश्रौ ६, २: ८; ३: ७; २९, १३: १२; माश्रौ; ऋअप ४८, ७४^०; वाध ४, २३^०xx; आपध १, १९, ६^१; बौध ३, ४, ४^१; ४, ८, ७^१; हिध १, ५, १०८^१; ऋनिध १, ७^०; या ४, १९^१क; ९, २९^१क; १२, २३^१क; -जसः आश्रौ १, ११, ८^१xx; २, १३, ७^१; ८, ११, १^१; आपश्रौ ९, १७, ६^१; १६, १५, ७^१म; १६, १^१xx; १९, २७, १०^१; बौश्रौ; ऋमाश्रौ १, ६, ४, २१^१; या १२, ७^१xx; -जपा बौश्रौ १९, ७: ३३^१; वैगृ २, २: १५^१; अप ६४, ६, ९^१; ७०^१, ११, ८; वाध ३, ५८^१; बौध ३, ४, ४^१; विध; -जसि हिश्रौ १३, २, २१; आपमं २,

११, २३; वैगृ ६, १२: ३^१; १३: ३; अप्राय; -ऋजसी^० बौश्रौ १८, १०: २१; अप ४८, ६०; निध ३, ३०; या २, २१; ४, १९^१; -जसै बौध ३, ४, ४^१; -जस्सु या १०, ४४^१; -जःसु ऋप्रा ५, १७^१; -जासि ऋआश्रौ २, ११, ८; ४, १५, २xx; शाश्रौ; वृदे २, ६४; या ४, १९^१; ऋ, कृ.
 राजसी- सी अप ३०, १, १०.
 रज-उद्वा(स>)सा^०-सायाः कौसु ३५, २.
 रजः-कर्णी^०- पाग ८, ३, ४८.
 रजः-प्राप्ति-सौ वैगृ ६, १३: १.
 रजः-शा(य>)या^१-यास् काश्रौ ८, २, ३६.
 रजस्-तम->मा(म-आ) श्रित-तम् अप ६४, ३, ८.
 रजस्-तमस्-मसी या १४, ३.
 रजस्-वत्->वद्-वासस्-ससा वागृ ९, १९^०.
 रजस्-वल,ला- पा ५, २, ११२; -लः सु १६, ५; आपध १, ७, ११^१; हिध १, २, ६८^१; -लम् विध ९६, ५३; -लया बौश्रौ २७, ९: ५; गोगृ ३, ५, ५; द्रागृ ३, १, ३४; वाध १२, ६; -ला बौगृ ४, १, १०; वाध ५, ६; शंघ ८३; विध २२, ७२; ७३; -लाः^१ कप्र १, १०, ५; -लाम् शांगृ २, १२, १०; वाध; -लायाः

वाध ५, ८^१; विध ३६, १; ७.
 रजस्वल-तम- -मैः या ८, १९.
 रजस्वला-कृष्णशकुनि-पदो-(द-उ)पहत- -तम् गौध १७, १०.
 रजस्वला-गमन- -ने आगिगृ २, ७, ४: ३^१.
 रजस्वला-चाण्डाल-यूप- -पान् विध २२, ६९.
 रजस्वला(ला-अ)भिगमन- -ने बौगृ ४, ११, १^१.
 रजस्वला(ला-अ)वधृता(ता-आ)दि-गमन- -ने शंघ ४०२.
 रजस्वला-षण्ड-स्पर्शन- -ने काध २७६: १२.
 रजस्वला-सहो(ह-उ) पपति-वेधमन्- -इमनाम् विध ५१, १६.
 रजः-सुवासि(त्>)नी- -न्या मागृ १, २, १९.
 रजा-शय,या^१- -यम् वाधूश्रौ ४, ५९^१: १०; -ऋया माश्रौ २, २, १, ३९; वैश्रौ; -याम् आपश्रौ ११, ४, ५; बौश्रौ ६, २२: ३; भाश्रौ १२, ४, ८; ५, १३.
 रजो-दोष- -षः कप्र १, १०, ७.
 रजो-निर्णजक- -कः वैध ३, १५, १०.
 रजो-नीहार-धुमा(म-अ)अ-वृक्षा प्रा(प्र-अ)न्तरित- -न्ते कप्र १, ९, ४.
 रजो-रोगा(ग-आ)दि- -दिना

a) = रजक-द्रव्य- । b) = हरिद्रा- । c) = देवी-विशेष- । d) = मूर्च्छना-विशेष- । e) = रात्रि- । f) वैप १ द्र. । g) घृ २०४७ b द्र. । h) = अर्तव- । i) = पातक- । j) = रजोगुण- । k) = ज्योतिस्- उदक- । l) = उदक- । m) = धूम- । n) पामे. वैप १, १६२५ i द्र. । o) = घानागृधिवी- । p) नाप. (उत्कृष्टमलनासु- ली-) तुस. > बस. संभसान्तः डञ् प्र. (पा ५, ४, ७३) * q) तु. पागम. । r) बस. । s) सपा. रजस्वद्वारा <> रजोवा इति पामे. । t) विप. (नदी-) । u) परस्परं पामे. ।

कप्र २,९,२३.
 रजो(जस्-ञ्)र्केपरिवा(घा-ञ्चा)
 दि-द्वयः अप ६४,७,८.
 रजो-वर्षम् अप ७२,३,४.
 रजो-वासस्^१-रसा काट ३,
 १५^०.
 रजो-हरण-गम् कौसू १३,११.
 रजन-नेन सुघष ८८:९.
 रजित-न्तम् याशि २,९०.
 १राग^०-पाग ५,२,३६.
 राग-दोष-घात् जैय १,१७:४.
 राग-द्वेष-घात् सुघष ८५:५.
 रागद्वेषा(ष-ञ्च)विन-दग्ध-
 रधानाम् शंघ ४.
 रागा(ग-ञ्च)न्ध-न्धस्य विध
 २६,५.
 रागित-पा ५,२,३६.
 २राग^१-पाग ४,१,४५;-गात् पा४,
 २,१;-गान् आपश् १,२०,१२;
 ३०,१०; हिष १,६,२६;८,१०.
 रागी-पा ४,१,४५.
 राग-खाण्डव^०->ध्व-सुक-दधि-
 गुड-गोधूमयवापिष्टविकार-
 र्भ्यः शंघ २२२.
 राग-द्रव्य-व्याणि शंघ १७२.
 ३राग^२-गः ऋप्रा १४,५६.
 रागिन्-पा ३,२,१४२; पावा ६,
 ४,२४.
 रज^०-
 रजउद्गासा-, रजः-कर्णी-, प्रष्ट.,
 रजक-√रज् द.
 रजणक^१-कस्य चाञ्च ४१:९.
 १रजत-प्रष्ट. √रज्-द्र.
 १रजनि^१ आश्रौ ८,३,१९; वैताश्रौ ३२,

२५.
 रजनि-नी-,रजस्-प्रष्ट. √रज् द.
 रजिमन्-,जिष्ठ-,जीघस-√कज् द.
 १रजेषित^१-न्तम् ऋप्रा २,७१.
 रज्जु^१-पाठ १,१५; पा^१,पाग ५,३,
 १००;-ज्वः काशु २,७;
 -ज्जुः आपश्रौ १,१२,८^१; माश्रौ
 १,१,३,४२; हिश्रौ १,३,२९^१;
 १३,४,१०; काशु; या २,१;
 २; अप्रा २,३,१२;-ज्जुभिः
 शाश्रौ १७,१०,१०; आपश्रौ
 १५,५,७; बौश्रौ ६,१०:८;
 १०,१२:५; माश्रौ ११,५,
 ९; वाधूश्रौ ३,८१:३; वैश्रौ
 १८,६:६; हिश्रौ २४,२,४;
 वैय ५,८:५;-ज्जुभ्याम् बौश्रौ
 १५,६:६;-ज्जुम् शाश्रौ १७,
 १०,११; १२; काश्रौ;-ज्जुषु
 आमिष्ट ३,५,६:२६; बौपि
 १,५:१२; हिपि ३:१४;
 -ज्जुः शाश्रौ १७,२,१;-ज्जुः
 शाश्रौ १७,३,७; आमिष्ट ३,
 ५,६:२५; बौपि १,५:१२;
 हिपि ३:१३;-जौ हिशु २,
 ३९;-ज्ज्वा काश्रौ ८,४,१८;
 १६,८,१७; २१,३,३१;
 आपश्रौ;-ज्ज्वाम् काश्रौ १७,४,
 २६;-ज्ज्वोः कौसू ९३,१५.
 रजन्य-व्यम् काश्रौ २६,२,७.
 रज्जु-कण्ठ^१-(>राज्जुकण्ठन्-
 पा.) पाग ४,३,१०६.
 रज्जु-छेद-दे अप १९,१,१३;
 ६८,२,५०.
 रज्जु-दामन्-म बौश्रौ ९,५:९

रज्जु-द्रव्य^१-व्यम् बौश्रौ ९,१५;
 १८.
 रज्जु-धान^१-नम् कौसू ४४, २३.
 १रज्जु-पल्य^०-व्यानि अप १,९,६
 रज्जु-पुष्प-व्यागाम् सुध ३३.
 रज्जु-भार^१-(>राज्जुभारिन्-पा.)
 पाग ४,३,१०६.
 रज्जु-मय-व्यम् आपश्रौ १५,१५,
 १; माश्रौ ११,१५,१७; वैश्रौ
 १३,१७:९; हिश्रौ २४,६,१८;
 हिपि १५:६.
 रज्जु-मान-नम् काशु ७,१६.
 रज्जु-वत् वैध १,६,४.
 रज्जु-विदल-चर्मन्-र्मगाम् वाध
 ३,५३; गौध १,३५.
 रज्जु-वेणुविदल-लाभ्याम् गौध २,
 ५०.
 रज्जु-शास्त्र-विष-विभ्रम-प्रतिषिद्ध-
 हत-न्तः वैय ५,११:२.
 रज्जु-शास्त्रो(स्त्र-उ)दका(क-ञ्च)शनि-
 दंष्टि-पशु-सर्पा(र्ष-ञ्च)दि-
 दिभिः वैध ३,९,१.
 रज्जु-सदान-नम् काश्रौ २६,२,
 २१; ५,१; ७,२४.
 रज्जु-समास-सम् काशु १,१.
 रज्जु(ज्जु-उत>)वा-न्ताम् काश्रौ
 १५,७,१.
 रज्ज्व(ज्जु-ञ्च)न्त-न्तयोः काशु १,
 ४.
 रज्ज्व(ज्जु-ञ्च)र्थे-र्थे माश्रौ १,१,
 ३,४२.
 रज्जुदाल^१->राज्जुदाल-लः शाश्रौ
 १६,१०,४; १२,५; काश्रौ
 २०,४,१७^०; वाश्रौ ३,४,१,

a) बस. । b) पाठे. पृ २०५१ ४ द. । c) भाप. । d) = [रजन-साधन-] कुसुम्भादि- । करणे प्र. ।
 e) = सिष्ट-विशेष- (तु. MW.) । पूर्ण. । f) = अनुनासिक- । g) पृ ११२२ । d. । h) व्यप. । i) वैप १ द. ।
 j) <रज्जु-क- । k) कस. । l) उप. अधिकरणे प्र. । m) अर्थः ? । n) = श्लष्मातक-वृक्ष-
 (तु. भाष्यम्) । o) रज्जु इति पाठः ? यनि. शेषः (तु. PW. प्रष्ट.) ।

५४; वाधूश्रौ ३, ७६: ७; ७९ :
२४; -लम् आपश्रौ २०, ९, ६;
बौश्रौ; -लेन वाधूश्रौ ३, ८१: १.

√रज्ज् √रज् द्र.

√रट्, रट् पाधा. भ्वा. पर. परिभाषणे.
†रिडि^१ - ङि: काण् २६, १०;
५९, ३.

√रण् (बधा.)^१ पाधा. भ्वा. पर.
कृद्धे गतौ च, रणन्ति ऋप्रा ७,
४५; रण>रणा ऋप्रा ७, ३३.
रण्ण बौश्रौ १३, १३: ६;
या ११, ३९कृ; रणिष्टन शुप्रा
३, १२९.

रण्य>या ऋप्रा २, ७४.

रण^०- पाग २, ४, ३१; पावा ३, ३,
५८; पागवा ६, १, १९९; -†णः
आपश्रौ ४, १६, ११^१; हिश्रौ ६,
४, १८; अप ४८, १०५; निघ २,
१७; -†णाय आश्रौ ६, ३, १;
आपश्रौ १०, ३, ८; बौश्रौ ८, ७:
९; वैश्रौ १६, ९: १; हिश्रौ ९,
१, १३; जैश्रौ १२: ३; आपमं
२, ७, १३; या ४, ८कृ; ९,
२७कृ; १०, ४७^३; १४, २६;
-णे अप ३६, २४, १^१; शंघ
४११; शुप्रा ३, १२९; -णेऽणे
वैताश्रौ ५, १४; -णेऽगोम^०
माश्रौ ५, १, ३, २^१.

रण-कारणा (ण-अ)र्थ- -र्थम्
आज्यो ७, ५.

रण-देवता- -ता: वृदे ५, १३१.

रण-प्रवाद- -द: निसू ४, १२:
३१.

रण^१- पाग ५, २, ३६; -णम्

बौपि २, १२, ५^१.
रणित- पा ५, २, ३६.

रण्य^०- ण्या या ६, ३३^१कृ^१.

†रण्व, णवा^०- ण्वया आपमं २, १५,
१९; पाण् ३, ४, ७; काण् १२,
१; माण् २, ११, १९.

√रण्व > †रण्वतु^१ आपश्रौ
१०, २३, २; बौश्रौ ६, १३: २;
माश्रौ १०, १५, ७; वैश्रौ १२,
१६: १९; हिश्रौ ७, २, २५; रण्व
बौश्रौ ४, ५: ५^१.

रण्व-सदृश^०- -दृक् आश्रौ ४,
१३, ७^१.

रण^१- पागवा ४, १, ९९.

राणायन- पावा ४, १, ९९.

राणायनी-> श्नी-पुत्र- -त्रः
लाश्रौ ६, ९, १६; निसू ९, १:
१९.

राणायनीय^१- -या: चव्यू ३:
४^२.

राणायनि- पा, पाग २, ४, ५९;
-निम् जैण् १, १४: ८.

राणि- पा, पाग २, ४, ५९; -णयः
बौश्रौ ११: २.

रत-, रति- √रस् द्र.

रत्- पाठ १, १२.

रत्न^०- पाठ ३, १४; -†त्नम् शाश्रौ ८,
३, ४; आपश्रौ; वैण् ४, ११:
१२^१; अप ४८, ९०^१; निघ २,
१०^१; या ५, ५^१कृ; -†त्ना आश्रौ
५, १८, २; शाश्रौ; -त्नानाम्
अप ६१, १, २५; ७०, ३, २;
-त्नानि †आश्रौ ३, १२, १४;
८, ११, ३; शाश्रौ; शंघ ३७३;

वैध ३, ३, ९; वृदे ५, १२३;
६, ५२^१; -त्ने या १३, ५; -त्नेषु
विध ९९, १०.

†रत्न-धा^०- -धा: बौश्रौ ९, ९: १०;
बौण्; -धाम् आश्रौ ४, ६, ३;
शाश्रौ ५, ९, ७; बौश्रौ.

†रत्नधा-तम^०- -तम् माश्रौ ५,
१, २, १७; अप्राय; या ७, १५^१कृ;
उसू ८, १४.

रत्न-भाज्^०- -भाक् बौश्रौ २७,
१४: १६^१.

रत्न-भूत- -तम् पाणि ३१.

रत्न-मय- -यौ अप ९, १, ४.

रत्न-वर्ण(र्ण-अ)भा- -भा याशि
२, ७५.

रत्न-विभूषिता(त-अङ्ग>)ङी-
-०ङि विध ९९, ३.

रत्न-संकाश- -शः अप ७०^३, २, ५.

रत्न-सुवर्णो(र्ण-उ)पस्कर^१- -राणि
माण् १, २०, ३.

रत्न-हविस्^१- -वीषि काश्रौ १५, ३,
१^१.

रत्ना(त्न-अ)पहारिन्- -री शंघ ३७७:
१३; विध ५, ८७.

रत्निन्- -त्निनः आपश्रौ १८, १८,
९; बौश्रौ १२, ५: १; १४: २४;
हिश्रौ १३, ६, २५; -त्निनाम्
आपश्रौ १८, १०, १२; बौश्रौ
१८, ५-६: ६; २६, १: १६; ३: ६;
१३; हिश्रौ १३, ४, १; -त्निभ्यः
आपश्रौ १८, १२, ७; १८, १४;
२०, ५, ९; हिश्रौ १३, ६, २७.
रत्नि-हविस्^१- -वीषि वाश्रौ ३,
३, १, ३४^१.

a) अर्थः व्यु. च ?। b) पावा ७, ४, ३ परामृष्टः द्र.। c) वैप १ द्र.। d) भरणः इति पाठः ? यनि.

शोघः (तु. तैत्रा ३, ७, ६, २४ हिश्रौ ६, ४, १८ च)। e) सप्रणवो निर्देशः द्र.। f) = शब्द-। g) वैप १, २६२८ k
द्र.। h) पाभे. वैप १, २६२९८ द्र.। i) व्यप.। j) (सामवेदीय-) शाखा-विशेष-। k) = धन-। l) मलो. कस. > वस.।
m) पूष. = सेनानीप्रभृतिद्वारादशरत्नग्रह-निर्वर्त्य- (तु. सप्र. माश्र ५, ३, १, १-१२)। n) सप्र. रत्न^० <> रत्नि^० इति पाभे.।

रत्नो(ल-उ)त्तम-विभूषि (त>)ता-
-ताम् विध १,२८.
रत्नि^१- पाठ ४,२.
रत्नि-मात्र- -त्राः कप्र १,२,३.
रत्नि-मान- -नेषु बौश्रौ २४, ११:५.
रत्निन्- रत्न- द्र.
रथ^२- पाठ २, २; पाग ४, ४, १०;
-०थ आग २, ६, ५१; -थः
आश्रौ ४, १४, २१; शाश्रौ;
आपमं १, १, ११; या ३, ५१;
-थम् आश्रौ ४, १५, २१; ५,
१४, ४; १८, ५४; शाश्रौ;
आपश्रौ १८, ३, ३; -थस्य आश्रौ
१२, ८, ११; शाश्रौ १२, १४,
१; बौश्रौ; -थाः आपश्रौ ३३,
२१, ३१; १८, ४, १७; बौश्रौ;
-थात् माग १, १४, ५; वाग
१५, १५; -थान् शाश्रौ १५,
३, १४; आपश्रौ; -थानाम् बौश्रौ
२२, १४: २१; २५, ३३:
१; छसू; -थाय णाश्रौ १०,
११, ६; ११, ४, ८; वाधूश्रौ;
-थे आश्रौ ६, ४, १०; शाश्रौ;
-थेन आश्रौ ३, ८, ११; ६,
५, २४; ७, १२, ७; ८, ९, २;
शाश्रौ; -थेभिः या ११, १४१;
-थेषु आपश्रौ २१, १८, ६;
बौश्रौ १८, २०: २२; वाश्रौ;
-थौ काश्रौ २२, ३, १३; आपश्रौ
२२, ४, १४; हिश्रौ.
रथ-क(द्य>)द्या- पा ४, २, ५१;
पावाग ७, ३, ४४.
रथ-कार- पाग ४, १, १५१; २, ८०;
-रः बौश्रौ २, १२: १५१; २४,
१६: ३; भाश्रौ; -रम् बौग २,

५, ६; भाग १, १: ११; -रस्य
काश्रौ १, १, ९; आपश्रौ;
-राणाम् वाधूश्रौ ३, ७६: १६;
-रान् वाधूश्रौ ३, ७६: ३;
-रेभ्यः आपश्रौ १७, ११, ४१;
राथकारिक- पा ४, २, ८०.
राथकार्य- पा ४, १, १५१.
रथकार-कुल- -ले आपश्रौ २०,
५, १८; हिश्रौ १४, १, ४८.
रथकार-गृह-वास- -साः काश्रौ
२०, २, १६.
रथ-कुञ्जर- -राः अ ६८, १, ३२.
रथ-कृत- -कृतः काश्रौ ४, ९, ३;
बौश्रौ १५, १३: ५४; १४: ९.
रथ-क्रीत- -तम् कौसू ५८, २५;
अप ३२, १, ३१; अत्र ११, ६.
रथ-क्षय^३- -याणि शाश्रौ १२, ५,
१३१.
रथ-नागक- पाग २, २, ९; ५, १,
१२९; ६, २, १५१.
राथगणक- पा ५, १, १२९.
रथ-गोप- -पान्^४ ऋअ २, ६,
७५; वृदे ५, १३१.
रथ-गोपायितृ- -तृन् शुअ ३, १२३.
रथ-चक्र- -कम् शाश्रौ १६, १७, १;
काश्रौ १४, ३, १२; आपश्रौ;
-कस्य बौश्रौ २०, १७: २२;
कौसू १५, ४; -क्राणि बौश्रु १६:
२; -क्रात् बौश्रौ ३, २: २; वैश्रौ
१७, १४: ६; -के शाश्रौ १६,
१७, ४; आपश्रौ १८, ४, ६; २२,
२६, १७; २८, १८; बौश्रौ २५,
३४: ७; हिश्रौ १३, १, ४४; ५३;
२३, ४, ३१; ५७; द्राश्रौ १२, २,
१४; आपग २२, १४; -क्रेण

वाश्रौ १, ४, ३, १८; कौसू १४, २.
रथचक्र-चित्- -चित् काश्रौ १६,
५, ९; बौश्रौ १७, २९: ७; काश्रु
४, १; बौश्रु १६: २२; -चितम्
बौश्रौ १७, २९: ११; हिश्रौ
१२, ८, ८; आपश्रु १२, १०१;
बौश्रु १६: १; हिश्रु ४, ३११;
-चित्ता बौश्रु १८: ३; ९.
रथचक्र-चिति- -तौ बौश्रौ २३,
१५: १५.
रथचक्रचित्या(ति-आ)कृति^५-
-ति बौश्रौ २७, ३: १.
रथचक्र-मात्र- -त्रः बौश्रौ १२,
१: १३; -त्रम् आपश्रौ १२,
११, ६; हिश्रौ २३, २, ६; काग
३७, २; बौपि ३, २, ८.
रथचक्र(क्र-आ)कृति^६- -ति:
काश्रु ७, २१; -तिम् वैश्रौ २०,
२८: ११.
रथ-छिद्र- -द्रेण वृदे ६, १०५.
रथ-च्छेदन- -ने अप ७२, ३, ११.
रथ-जङ्घ^७- -ङ्गाम् द्राश्रौ ३, १,
२३; लाश्रौ १, ९, २६.
रथ-जित^८- -जिताम् कौसू ३६,
१३; अत्र ६, १३०; १३२; अप
२: ५९.
राथजिते(य>)थी^९- -थीनाम्
अप २: ६०१.
रथ-दुन्दुभि-देवता- > ँवस्य-
-त्यौ ऋअ २, ६, ४७ शुअ ३, १२८
रथ-धनुष्- -नुर्भ्याम् गौध १०, १४.
रथ-नाडी- -डीम् बौश्रौ १४, १७:
२४; -ड्याम् बौश्रौ २३, ७:
१८; २४, ८: ३.
रथ-नीड-परिहार^{१०}- -रः काश्रौ १८,

a) = प्रमाण-विशेष- । < अरत्नि- इति MW. । b) वैप १ द्र. । c) पाठः ? रथस्य इति शोधः
(तु. सपा. ऋ ८, ११, ७) । d) पाशे. पृ १२७९ a द्र. । e) परस्परं पाशे. । f) वस. । g) = रथावयव-
विशेष- । h) पूष. = [घान्यायापवनस्थान-] रथोपस्थ- ।

५, १८.
 रथ-नेमि-मि- या ५, ५.
 रथनेमि-घोष- -घः अप २४, ५,
 ५.
 रथनेमि-मणि- -णिम् कौसु
 १६, २९; अशां १९, ४.
 रथ-पक्षस्- -क्षसी वैश्रौ १७, १२:
 १०.
 रथ-पथ- पा^१, पाग ५, ३, १००;
 -थम् द्राश्रौ १०, २, १२; लाश्रौ
 ३, १०, ११.
 रथ-परिमाण- -णम् आपश्रु ६, ९;
 हिश्रु २, ३८.
 रथ-पर्युढ- -ढात् काश्रौ १५, ३,
 २८.
 रथ-पुरुषा(ष-आ)दि- -दयः वैश्रौ
 २०, १९: ५.
 रथ-प्रोष्ठ^b- -ष्ठः वृदे ७, ८५.
 रथ-भ्रेष- -षम् बौश्रौ ११, ८: २५.
 रथ-म(व्य>)ध्या^b- -ध्याम् माश्रु
 २, १३, ६१.
 रथ-मा(त्र>)त्री- -त्री काश्रौ ५,
 ३, ११; आपश्रौ ७, ३, ७; आपश्रु
 ६, ४१; हिश्रु २, ३२१; -त्रीम्
 काश्रौ ४२; वाश्रौ १, ६, १,
 १८; हिश्रौ ४, १, ३८.
 रथ-मुख- -खम् बौश्रौ १४, १७:
 १७; १८, २४: १२; -खे
 आपश्रौ १७, २०, ५; बौश्रौ १०,
 ५४: १४; १४, १७: १६; २३,
 ७: १८; २४, ८: २; वाश्रौ २,
 २, ४, १५; वैश्रौ १९, ६: १३२;
 हिश्रौ १२, ६, १७.
 रथ-यज्ञ- -ज्ञस्य काश्रु ७१, १६.
 रथ-यन्त्र-वारण-प्रवहग-वादित्रा-
 (त्र-आ)दि- -दिषु अप ७२,
 २, ४.

रथ-यान- -नानि आज्यो ७, ५.
 रथ-यु^b- -युः या ६, ३११.
 रथ-युग- -गम् बौश्रु २, १, १६;
 -गेन बौश्रौ २०, २५: ३०.
 रथ-युज्- -युजम् आश्रौ ३, ८, १.
 रथ-य- > √रथय^b, रथयति ऋनिष
 २, १४; ४, ३; या ६, २८०.
 रथ-वत् सु १, २.
 रथ-वर्त्म-मात्र- -त्रम् आपश्रौ ८,
 ५, १०.
 रथवर्त्ममात्री- -त्री बौश्रौ २४,
 २४: १२; -त्रीम् आपश्रौ २,
 २, ७; भाश्रौ २, २, ८; वैश्रौ ५,
 १: ३; हिश्रौ १, ६, ९४.
 रथ-वाहन, न^b- -णम् शुप्रा ३,
 ८६१; -णस्य काश्रौ १५, ६,
 ३०; -णे काश्रौ १५, ६, २७;
 -णम् आपश्रौ १७, १७, ७;
 २०, १६, १८; बौश्रौ; -नस्य
 माश्रौ ५, १, ८, ५; -नात् वैश्रौ
 १७, ११: २; -ने आपश्रौ १८,
 १७, १४; २०, ९, ६; १६, १८;
 बौश्रौ.
 रथवाहन-वाह^b- -हः आपश्रौ
 १८, २२, ६; ८; वाश्रौ ३, ३, ४,
 ३६; ३८; हिश्रौ १२, ७, २४;
 -हम् बौश्रौ १२, १९: १८; २१.
 रथ-वाहिन- -हिनः अप १, १०, २.
 रथ-वा(ह>)ही- -ही काश्रौ १५,
 १०, १८.
 रथ-विपर्यासन- -ने काश्रु २७६:
 ११.
 रथ-विमोचन-> ०नीय, या^b-
 -यम् बौश्रौ ११, ८: २६; वाश्रौ
 ३, १, २, १२; ३, १६; -या:
 बौश्रौ १२, १४: ९; -यान्
 आपश्रौ १८, १७, १४; -यानि

काश्रौ १५, ६, २३; हिश्रौ १३,
 ६, २४.
 रथ-वीति^b- -तये वृदे ५, ७३;
 -तिः वृदे ५, ५०; ७७; -तिम्
 ऋत्र २, ५, ६१; वृदे ५, ७४;
 -तेः वृदे ५, ७३.
 रथ-वृत्^b- -वृत् आपश्रौ १४,
 २९, १; अप्राय ६, ३.
 रथ-शकट-हल-सीर- -रेभ्यः पावा
 ४, ४, ७६.
 रथ-शत- -तानि वाधूश्रौ ३, ७९:
 ११.
 रथ-शब्द- -ब्दः आपश्रौ २४, १,
 ३६; -ब्देन आपश्रौ २१, ६, ११;
 बौश्रौ १६, ३: १८; हिश्रौ १६,
 ३, १२.
 रथ-शिरस्- -रः काश्रौ १८, ५, २०;
 आपश्रौ १७, २०, ६; हिश्रौ १२,
 ६, १७; द्राश्रौ ५, ४, १; लाश्रौ
 २, ८, १; -रसा हिश्रौ १२, ६,
 १७; -रसि काश्रौ १८, ५, १७;
 माश्रौ ६, २, ५, ३३.
 रथ-संयुत- -ताः वृदे १, ८४.
 रथ-संसारण- -णम् काश्रौ १२, ३,
 ७.
 रथ-संमि(त>)ता- -ता बौश्रौ
 २०, २५: २९; बौश्रु ३: २५;
 -तायाः काश्रु २, १; -तायाम्
 बौश्रौ २०, २६: ८; १९.
 रथ-सिंहासना(न-अ)सि-छत्र-चामर-
 ध्वज-नाज-वाजि-वस्त्रा(ह्र-अ)
 लंकार-सांवासर-चिकित्सक-पुरो-
 हिता(त-आ)दि- -दीनि अप
 ३, १, ३.
 रथ-सीता-हल- -लेभ्यः पावा १, १,
 ७२.
 रथ-स्तुति- -तौ या २, ५.

रथ-स्थ-स्थः कौट ३, ९, २७; बाण्ट
४, ७, ३२.
रथस-पति^a- -तिः वृदे ८, १२७;
ऋषा १३, ३०१; उस् ८, १९१.
रथ-स्पृत्^a- -स्पृतम् कौसू ६, १११.
रथस्-या^b- पाग ६, १, १५३०; ऋत
४, ७, ५.
रथ-हीन- -नाः वाध २६, १७.
रथा(थ-अ)क्ष- -क्षः माण १, १३,
१७; -क्षम् बौश्रौ १७, ११: ६;
माश्रौ ५, २, १२, ९; वाश्रौ ३,
१, १, ३२; वैश्रौ १७, १२: ८;
-क्षस्य कौग १, ९, ३; बाण्ट १,
१५, ३; -क्षाणाम् बौश्रौ २६,
१०: ५; २३: ४; बौश्रु ४: १७;
१९; -क्षाम् काशु ६, ९; -क्षेण
बौश्रौ १७, ११: ४; २०, २५:
२९.
रथाक्ष-मात्र- -त्राणि काश्रौ ८,
८, ६; आपश्रौ १४, ५, १७; वाश्रौ
३, २, ६, १३; हिश्रौ ९, ८, १२.
रथाक्षमात्री- -त्री आपश्रु ६,
५; हिश्रु २, ३४; -त्रीम् हिश्रौ
४, १, २९.
रथाक्षा(क्ष-अ)कृति^d- -ति
आपश्रौ १८, ४, ३; हिश्रौ १३,
१, ४१.
रथाक्षा(क्ष-अ)न्तराल^d- -लाः
बौश्रौ २६, २३: ७; बौश्रु ४:
१६.
रथा(थ-अ)ङ्ग- -ङ्गम् आपश्रौ १०,
१९, ७; माश्रौ १०, १२, १५, २१;
आण्ट २, ६, ७; कौग १, ९, १३;

शाण्ट १, १५, ९; माण्ट १, १३,
१७; पा ६, १, १४९; -ङ्गे काण्ट
२७, २; पावा ४, ३, १२०;
-ङ्गेन आपश्रौ १०, १९, १४;
माश्रौ २, १, ३, १५; हिश्रौ
१०, ३, १२.
रथाङ्ग-स्तुति- -तयः ऋअ २, ३,
५३.
रथा(थ-अ)भिमर्श(न >) ना- -नाः
वृदे ५, ११२
रथा(थ-अ)रोहण- -णम् पाण्ट ३,
१४, १; भाण्ट २, २९: १.
रथा(थ-अ)वहरण- -णम् काश्रौ १४,
३, १.
रथा(थ-अ)ञ्ज-गज-घान्त-
-न्यानाम् बौध २, ३, ५४.
र(थ >)था-सह- -सहा ऋषा ९,
३.
रथा(थ-अ)ह^e- -है काश्रौ २५, १४,
२४^f.
रथाह्व^g- -ह्वम् आपश्रौ १४,
२०, ४; हिश्रौ १५, ५, २३^h.
रथिक- पा ४, ४, १०.
१रथिन्- -थिभ्यः वाश्रौ २, २, ३,
४; शुषा ४, ८५; -थी शैशि १४७.
२रथिन्-> ⁱनी- पावा, पावाग ४,
२, ५१.
३रथी^a- -थीः आश्रौ १, ३, ६; ७,
८, ३; शाश्रौ १, ४, २०; ७, ९, ३;
१८, १८, १३; आपश्रौ १६, ६, ७;
वाश्रौ २, १, ५, २०; हिश्रौ ११, १,
७३; -थीनाम् बौश्रौ १८, १७:
५ⁱ; ऋषा ९, ५१; शुषा ३, १११;

-थ्यः आपश्रौ ३, १५, ५.
रथी-तम^a- पावा ८, २, १७;
-मः ऋषा ९, ७१; -मम् बौश्रौ
१८, १७: ५१; वृदे ५, ११९; शुषा
३, ११११; उस् ४, १९; -मौ
तैषा ३, ७१.
१रथी-त्तर^a- पावा ८, २, ११;
-रः वृदे ४, ७३; ऋषा ९, २३१.
√रथीय > रथीय(त् >)न्ती-
-न्ती ऋषा ९, ५०.
रथे-शुम्^a- -शुम् काण्ट २२, ११.
रथे (थ-ई)षा- -षया बौश्रौ २०,
२५: २९.
रथेया-मा(त्र >)त्री- -त्री माश्रौ
७, २, १८, हिश्रु २, ३४; -त्रीम्
हिश्रौ ४, १, ३९.
रथे-ष्ठा^a- -ष्ठाम् आश्रौ ८, १८, ११;
रथो(थ-आ-ऊ)ढ^a- -ढ ऋषा २,
७११.
रथो(थ-उ)पस्थ- -स्थः बौश्रौ १८,
२४: १५; -स्थम् द्राश्रौ ३, १,
२३; लाश्रौ १, ९, २५.
रथ्य, थ्या^a- पा ४, २, ५०; ३, १२१;
४, ७६; पावा ५, १, ६; -थ्यः
भाशि ५७१; -थ्यम् आश्रौ
७, ४, १२; आपश्रौ १७, ८,
७; वाश्रौ १, ४, ३, ८; वैश्रौ
१९, ५: ५३; द्राश्रौ ५, ४, २;
२०५; लाश्रौ २, ८, २; २०५;
-थ्यस्य हिश्रौ १२, ६, १७;
-थ्याः-थ्यासः या १०, ३११;
-थ्याम् गोण्ट १, २, ३२; विष
२२, ७५; -थ्यायाम् कौग ३,

a) वैप १ द्र. ।

b) = नदी-विशेष- ।

c) °स्पा- इति न्यासः ।

d) बस. ।

e) रथस्य अहः (= अहर्गमः) इति कृत्वा षस. समासान्तः अच् प्र. ।

f) सप्र. 'ह्ने <> ह्वयम् (जैत्रा १,

३६० च) इति पाभे. । g) स्वार्थे यः प्र. ।

h) ष्थाध्वम् इति संस्कृतः शोधः ? ।

i) पाभे. वैप १

रथीनाम् ऋ १, ११, १ टि. द्र. ।

j) विप., नाप. (रथ-समूह-, प्रतोली-) । वैप १ निर्दिष्टयोः

समावेशः द्र. ।

९, २५; शांठ ४, ७, २०; कौसु
१४१, ३८; विध ६०, १२; -थ्ये
ऋषा १४, ३९१.

रथ्या-कर्म-तोय- -यानि विध
२३, ४१; -येन शंघ १८४.

रथ्या-कर्म-वर्षा- -र्षासु शंघ
१०२.

रथन्तर^b- पाग ४, १, ८६; १०००,
१०४०; -र्षांर जैश्री १७: ८;
१०; -रम् ऋषाश्री ४, १२, २;
५, १५, २४; शांश्री; निसू १०,
१३: १७^d; -रस्य आश्री ७, ३,
१७; ८, ६, ९; शांश्री; -रात्
ऋषाश्री १०, ३५: ६; १४, २२:
११; द्राश्री; -र्षाय शांश्री १७,
१३, २; द्राश्री १०, ३, ६; लाश्री
३, ११, ३; आश्री १, ५, २: २०६;
अप्राय ६, ९; -रे आपश्री ५, ११,
६; १६, ४१; १४, ३१, ३१; भाश्री;
-रेण आश्री ११, ३, २२; ७, ७^३;
९, ११, ५; आपश्री.

रथन्तर^b- पा ४, १, ८६;
१०४०; -र: लाश्री ४, १२,
१; वौश्री १६, २५: १६;
१८, १५: १३; निसू ७, १०:
१५; अप्राय ३, ३; भाशि ५७;
-रम् शांश्री ७, १४, २; १०, १३,
११; १८, ४, ६; माश्री; -रस्य
लुसू २, १५: २४; निसू ९, ४:
११; २८; -राणांम् आश्री १०,
५, २०; -राणि लुसू २, ५: ८;
निसू; -रात् निसू ८, ४: २०;
-राय शांश्री ९, २७, ११;
आपश्री; -रे काठश्री १६६; लुसू
१, २: ६; निसू ३, १०: ४१;
६, ८: १२; १४; -रेण निसू

१०, ४: १०; ११; -रेषु निसू ५,
५: २३; ६, ३: १५; ४: १;
९४: ३३.

रथन्तरी- -री द्राश्री ८,
२, १४; लाश्री ४, ६, १४; निसू
३, ११: ४; ७, १०: १५.

रथन्तर-बाहते -ता: निसू
८, ३: ९; ९, ४: ३; -तानि
द्राश्री ८, १, २०; लाश्री ४, ५,
१९; निसू ९, ८: १४; -ते लाश्री
१०, १८, ५^३; निसू ६, ३: १५.

रथन्तर-बाहते (इतैत-ऐ)
ड-डानि निसू ९, ५: ३०.

रथन्तरायण- पा ४, १,
१००.

रथन्तरीयौ निसू ५, ७: ६.

रथन्तर-णि (<नि)घन^f- -नानि
निसू १, १३: १४.

रथन्तर-धर्म- -मोन् निसू ७, १३:
१८.

रथन्तर-पृष्ठ^f- -ष्ठ: आश्री ६, १०,
२२; शांश्री; -ष्ठम् शांश्री १०,
२, १; १०, १; वाश्री ३,
२, १, ४२; द्राश्री ८, १,
१०; लाश्री ४, ५, १०; निसू
१०, १३: १९; -ष्ठस्य वैश्री
२१, ८: ९; द्राश्री ८, २, २४;
लाश्री ४, ६, १४; -ष्ठा: लुसू
२, २: १; -ष्ठानि आश्री ७,
५, २; -ष्ठे शांश्री ७, २०, ८;
२१, २; २३, १; वौश्री; -ष्ठेन
शांश्री १५, १६, ९; निसू ६, १:
२२; -ष्ठेषु आश्री १२, ७, ४;
आपश्री.

रथन्तर-पृष्ठोमा निसू ६, ३: ४.
रथन्तर-प्रभृति- -तीनि द्राश्री २,

१, १३; लाश्री १, ५, १०.

रथन्तर-बृहत्- -हृती द्राश्री ८, २,
१९; लाश्री ४, ६, १५.

रथन्तर-बृहत्-पृष्ठ^f- -ष्ठ: निसू ९,
११: १४; -ष्ठम् द्राश्री ८, १,
२८; लाश्री ४, ५, २३; लुसू २,
५: २३.

रथन्तर-बृहत्-सामन्^f- -मा
द्विश्री १७, १, २३^६.

रथन्तर-बृहत्-व्यव्यास- -सम्
द्राश्री ८, १, २९; लाश्री ४, ५,
२४.

रथन्तर-भक्ति-> क्तिन्- -क्तिन:
निसू ७, ४: ३.

रथन्तर-भक्ति^f- -क्ति: निसू ६,
४: ८.

रथन्तरभक्ति-त्व- -त्वात्
निसू ६, ४: २०.

रथन्तर-मध्यन्दिन^f- -न: लाश्री
१०, १४, ३; ८; -ना: लुसू २,
३: १.

रथन्तर-माध्यन्दिन^f- -ना: निसू ४,
१२: २५.

रथन्तर-वत् आपश्री १७, ८, ८^१;
९, २; वैश्री १९, ५: ५४; ६:
५.

रथन्तर-व(णं)>र्णा^f- -र्णा द्राश्री
३, ४, २४; लाश्री १, १२,
१०; -र्णाम् जैश्री १९: १६;
-र्णाथाम् लाश्री ७, ११, ६; निसू
२, ८: १६.

रथन्तर-संनिपात- -ते निसू १,
१३: १०. -तेषु निसू १, १३:
१३.

रथन्तर-सामन्^f- -मा शांश्री १३,
२९, १०; आपश्री; -मान:

a) षस. > मलो. कस. । b) वैप १ द्र. । c) व्यप. । d) रथा^३ इति पाठः ? यनि. शोघः ।

e) पाठः ? यनि. शोघः । f) बस. । g) पाभे. पृ १८१४ ङ द्र. ।

आपश्रौ २१, १४, १४; २२, ५, ४; ७, १; बौश्रौ २६, २०: ८; हिश्रौ १७, २, ३२; -मानम् आपश्रौ १०, २, ७; २१, ६, १०; ९, १; १५, १०^३××; बौश्रौ; -मानौ आपश्रौ २२, ५, २; -न्ना आपश्रौ १०, २, ६; २२, ६, २; ७, २६; १०, २, ६; १२, ११; १७; हिश्रौ; -मिन् हिश्रौ ८, ४, १. रथन्तर-स्तोत्रिय- -यम् लाश्रौ १० ७, १०; निस् ५, ४: १८. रथन्तर(र-अ)ग्निष्टोम-सामन्^०- -मा क्षुस् २, १: १०. रथन्तर(र-अ)पचिति- -त्या निस् १०, २: २७. ?रथाऽस्य^० अप्राय ५, २. १-२रथिन्- प्रमृ. रथ- द्र. रथिर- पावा ५, २, १०९. १रथीतर- प्रमृ. रथ- द्र. २रथीतर^०- पाग ४, १, १००; १०४; -र: वृदे ३, ४०; ७, १४५; -रा^० आपश्रौ २४, ८, ४; बौश्रौ २४: १; ३. राथीतर- पा ४, १, १०४; -०र बौश्रौ २४: ४^०; -र: बौश्रौ ७, ४: २५; २०, १: ३६; ५: १०; ११: २५; १३: १९; २६; २८: ८; भाशि ५४^०; -राणाम् बौश्रौ २०, १६: २, १८: १. राथीतर-स्तुति- -तौ वृदे ५, १४२. राथीतरायण- पा ४, १,

१००. रथीतर-वत् बौश्रौ २४: ४^०. ✓रथीय, रथ्य, थ्या- प्रमृ. रथ- द्र. ✓रद्^० पाधा. भ्वा. पर. किलेखने, िरदति अप ४८, ४६; या ६, २०; रद>दा ऋप्रा ७, ३३^०; अरदत् या २, १६^०. ✓रद्, न्यु(बवा.)^० पाधा. दिवा. पर. हिंसासंराधयो: रारन्धि या १०, ४०^०। रथ्यन्ताम् माश्रौ १, ६, २, १७^०; िरथ्य बौश्रौ १२, १५: ११; हिश्रौ १३, ६, २७. रथ्यासम् बौश्रौ १२, १५: ११^०; िरथ्यम् आपश्रौ ४, १५, १; भाश्रौ ४, २१, १; माश्रौ १, ६, २, १७; हिश्रौ ६, ४, १८; भाशि ४८; िरथ्याम् बौश्रौ १७, ४२: १४^०; आपमं २, ९, ६; आम्रि १, ३, ५: १५; काय ५९, ५^०; माय २, २२: १६; हिश्रौ १, २२, १३; कौस् ८२, १३; विघ ८६, १६; या १०, ४०; भाशि ४८. रन्धयति माश्रौ १, ३, ३, ११; ५, ९; माय २, ९, ७; कौस् ८४, ३; िरन्धय, >या या ६, ३२; १०, ४०; ऋप्रा ८, ११; अरन्धयत् अप्रा २, ४, १५^०. रध^०- ध: अप ४८, ११६^०. िरन्धयत्- -यन् आपश्रौ ४, १५; १; भाश्रौ ४, २१, १; हिश्रौ ६,

४, १८. रन्धयित्वा माश्रौ १, ५, ५, १५; माय २, ९, ८. रधीतर^०->राधीतर- -०र^०, -राणाम् वैध ४, ३, ८. रधीतर-वत् वैध ४, ३, ८^०. िरन्ति^०- -न्ति: आश्रौ ४, १२, २^०, काश्रौ २०, ३, ४^०; आपश्रौ ६, ५, ७^०××; बौश्रौ; माश्रौ ६, १०, ५^०; हिश्रौ ३, ७, २८^०; द्राश्रौ २, ४, २२^०; लाश्रौ ३, ८, १२^०; माय २, २: ६^०; शुभ्र ३, १३^०; -न्तिम् आम्रि १, ४, १: १९; -न्ती वाश्रौ १, ३, २, ५; उत्सि ७: २९; -०न्ते काश्रौ १३, ४, १८; आपश्रौ. ?रन्तु अप ४८, ११६^०. रन्धस- पाउभो २, ३, १७३. रन्ध्र^०- पाउभो २, ३, ३०; -न्ध्रम् बौश्रौ २५, ७: ५^०; -न्ध्रे लाश्रौ १, ६, ४२. ?रन्धिणी->ण्या(णी आ)मिक्षा- -क्षाम् कौस् ६५: ५. ✓रप्(बवा.)^० पाधा. भ्वा. पर. व्यक्तायां वाचि, अरपत् ऋप्रा २, ४४^०. रापपति ऋप्रा ९, ३२^०. रप्स^०- -य: वृदे ७, ९५; या ४, २१; -पस: वृदे ७, ९५; ८, ५०. राप्य- पा ३, १, १२६. र-पर- प्रमृ. १२- द्र.

a) कस. > बस. । b) पाठ: ? रथाऽध्व: वा रथ: अध्व: इति द्विपदो वा श्लोच: (तु. संस्कृत: टि. मूको.) । c) व्यप. । d) बहु. <राथीतर- । e) सप्र. थि^० <> थि^० इति पाभे. । f) सप्र. थि^० <> थि^० इति पाभे. । g) या २, २६ परामृष्ट: द्र. । h) या ६, ३२ पा ७, १, ६१; ६२; २, ४५ परामृष्ट: द्र. । i) रा^० इति पाठ: ? यनि. श्लोच: (तु. ऋ १०, १२८, ५ प्रमृ.) । j) वैप १ द्र. । k) तु. वैप १ १रन्ति- । l) पाभे. वैप १, २६३९. ० द्र. । m) पाभे. वैप १, २६३९ II द्र. । n) पाभे. वैप १, २६३९ p द्र. । o) = कटि-प्रदेश- इति संस्कृत: सूची । p) या ६, २१; ९, ११ परामृष्ट: द्र. ।

शरिपि^a शांश्रौ १२, १६, १.
 र-प्रकृति- प्रसृ. १२- द्र.
 शरिप्रसादे^b अप ४८, २८.
 √रप्^c
 रप्सु^d -प्सु^e अप ४८, ७९१.
 √रफ्, रम्फ् पाधा. भ्वा. पर. गतौ.
 √रम्^f, रम्भ पाधा. भ्वा. आत्म. राभस्ते,
 रभते हिश्रौ २१, २, ३४; रभस्व
 माश्रौ ३, ५, १३१.
 *रम्^g -> रभीयस् - न्यसः शांश्रौ
 ६, १, ५; -यासौ शांश्रौ ६, १, ५;
 -यान् आश्रौ ३, ४, १४१.
 रभमाण- णे माश्रौ ३, ५, १३.
 रभस्^h -> रभस् - पाठ ३, ११७;
 -सः बौध १, ५, ८६; निघ ३,
 ३१^m; -सम् आश्रौ ८, १, १२१.
 रभसो(स-उ)स्सव- -वे शंघ
 १५७.
 रम्भⁱ -म्भः अप ४८, १२२; निघ
 ३, २९; -म्भम् या ३, २१७.
 र-भावा^j १२- द्र.
 √रम्(बधा.)^k पाधा. भ्वा. आत्म. क्रीडा-
 याम्, रम्भते आश्रौ ५, १८, २^l;
 शांश्रौ ८, ३, ४^l; आप्रमं १, १५,
 ४; पाठ; रमन्ति अप ६४, ७,
 ९; रमे या ११, ३९; रम्भताम्
 आप्रमं ४, १, ८^k; बौश्रौ; हिण
 १, १२, २; रम्भन्ताम् आप्रमं
 ४, १, १०^l; ७, १७, १; बौश्रौ;
 रम्भस्व आश्रौ ३, १२, २३;

काश्रौ; गोण ३, ४, २४^l; रम
 आश्रौ ८, १३, १^m; रम्भेयाम्
 काश्रौ ८, ४, ५; आप्रमं; रम्भध्वम्
 आश्रौ ८, १३, १; शांश्रौ; आप्रमं
 २१, ९, १३; हिश्रौ १६, ४,
 १२^l; रमत आमिण् २, ४, ८;
 १६; अरमत वाधुश्रौ ३, १९;
 ११; अरमन्त या १२, ४३.
 रन्त या १२, ४३१^l.
 रारान्धि जैश्रौ १४: २१; दाश्रौ.
 रम्णाति निघ २, १९१^m;
 रम्णातु माश्रौ २, १, ३, ३९१^o;
 रम्भन्ताम् आश्रौ ९, ८, ४;
 शांश्रौ ८, २५, १; या १०, ३२१^o;
 अरम्णाः या १०, ९११^o.
 रमयति भाश्रौ ९, १२, १२; या
 ४, १०; रमयतः बौश्रौ ६, २५;
 ७; रमये वृदे ६, ५४; रम्भयतु
 काश्रौ ४, १४, २२^o; आप्रमं;
 वैताश्रौ ७, १७^o; रम्भय > या^h
 आश्रौ १, २, १; ऋषा ९, ४३;
 रम्भयत आप्रमं १२, २५, १८;
 बौश्रौ; रमयन्त या १२, ४३;
 अरमयत् या १०, ३२; अरमयः
 ऋषा ९, ४३.
 रमयां/कृ, रमयामकः पा ३, १,
 ४२.
 रत- -तम् अप ७०, १, १; -तस्य
 वाध १०, २०.
 रति- -तयः अप ४८, ८६१^l; -तिः

आश्रौ ४, ७, ४^l; काश्रौ १२, ४.
 ८^m; आप्रमं २१, ९, १३^m; हिश्रौ
 १६, ४, १२^m; शांश्रौ ३, ११, ४^m;
 पाठ १, १०, १^m × ×; वाध १२,
 २३^o; विघ ८६, ९^o; शुभ्र १,
 ५३८; -तिम् अप ७०^o, १६,
 २; विघ ५१, ७०; वृदे ६, ५५;
 -तौ शंघ १७७^o.
 रति-संसर्ग- -ने वाध २८, ८;
 बौध १, ५, ४९.
 रति-संश्रयोग- -ने वाध १६, ३६
 रत्य(ति-अ)न्त- -न्तम् आमिण्
 १, ६, ३: ६७; २, ७, ६: ३४.
 रत्य(ति-अ)र्थ- -र्थम् विघ २६,
 ५; ऋषा २, १, १७९.
 रत्य^h -न्त्यम् शांश्रौ १८, २, ३^l.
 रम्^h -मः शांश्रौ १८, २१, ११;
 काश्रौ १३, २, २४^l; दाश्रौ ९, ४,
 २२^l; लाश्रौ ३, ८, १२^l; हिण
 १, १२, २^m; जैण १, २२: ११^m.
 रमक- पाठ २, ३३.
 रमण^m - पाठ ३, १, १३४; -णम् या
 १, ११; -णात् या ६, १७; -णाय
 वाध १८, १८; या १२, १३.
 रमणीय- -न्यम् माश्रौ १, ५,
 ५, १६; -यानाम् या ७, १५;
 -यानि अप ५५, ६, ३; ५७,
 २, ७; -याय या ४, ८; ९,
 २७; १०, ४७; १४, २६; -ये
 या १, २०; -यौ या ६, ३३.

a) पाठः ? रभि- > -भिम् इति शोधः (तु. वैप १, २४६५ e टि.) । पृ २६६० यदुक्तं तत्रेष्टम् ।
 b) पाठः ? अग्रमादे इति शोधः संभाव्यते (तु. मूको.) । c) ऋषा ६, २२ परामृष्टः द्र. । d) = ह्यप- ।
 e) सपा. निघ ३, ७ प्सुः इति पाठे. । f) पा ७, १, ६३; ४, ५४ परामृष्टः द्र. । g) वैप १ द्र. । h) = महत्- ।
 i) या १०, ९ पा ७, २, ७३ पावा ६, ४, ५२ परामृष्टः द्र. । j) पाठे. वैप १, ११७९ f द्र. । k) पाठे. वैप २,
 ३खं. तैत्रा ३, ७, ४, ३ टि. द्र. । l) पाठे. वैप २, ३खं. रमस्व मंत्रा १, ७, ११ टि. द्र. । m) पाठे. वैप १,
 २६३९ d द्र. । n) धा. वधे वृत्तिः । o) पाठे. वैप १, २६२९ o द्र. । p) धा. संयमने वा विसर्जने
 वा वृत्तिरिति या. । q) पाठे. वैप १ रमयतु का ३, २, ५ टि. द्र. । r) पाठे. वैप १, २६३५ j द्र. । s) = मैथुन- ।
 t) तु. चौसं. । रसः इति अच्यु. ? । u) कर्त्राद्यर्थे कृत् ।

रमणीय-क^a- -कम् सु ७, २.
 रमण्य- पाठ ३, १०१.
 ररमति^b- पाठ ४, ६३; -ति:
 आपश्चौ ४, १०, ४; १०, ३, २;
 २१, ९, १३^{३०}; १२, ७^०; बौश्रौ
 १५, ७: ४; १६, ८: १२^०; १७,
 ४३: ६^०; भाश्रौ; हिश्रौ १६, ४,
 १२^{३०}; -तिम् आश्रिण् १, ४,
 १: १९; -०ते हिश्रौ ६, ३, २.
 रममाण-ण: या १, ११; -णम्
 या १, २०; -णा: बौश्रौ ११,
 ११: ३.
 रमयत्-यन्त: बौश्रौ १५, ३: ४;
 १८, १८: ९.
 १रम्य, म्या- -म्यम् अप ६८, १,
 २९; -म्या अप ४८, ७४^{१०};
 -म्यान् अष ७, ६०; -म्ये वृदे
 ५, ७५; -म्येषु विध ९९, १६.
 रम्या(म्य-अ)क्षि^१- -क्षि: शुभ
 ३, ५९.
 रम्या(म्या-आ)वसथ-प्रिय^६-
 -म्यस्य वाध १०, २०.
 रा(म्य>)म्या^d- -म्या निघ १,
 ७^{१०}.
 रिरंसत्- -सतो: वृदे ४, ५९.
 रिरंसु-सु: वृदे ४, ५८.
 रमठ- पाठभो २, ११४.
 र-मध्य- २२- द्र.
 √रम्फ् √रफ् द्र.
 √रम्ब, म्भू पाधा भ्वा. आत्म. शब्दे,
 रम्भन्ति^h याशि १, ८; नाशि

१, ५, ३; रम्भान्ति माशि १, ९^१.
 रम्भण- -णम् अप ७०^३, ३, ५.
 √रम्भ् √रम् द्र.
 ररम्य- (> रम्य-वत्- पा.) पाग
 ४, २, ८६.
 √रम्बू पाधा. भ्वा. पर गतौ.
 √रय् पाधा. भ्वा. आत्म. गतौ.
 रय^१- -य: माश्रौ १, ५, २, १३.
 ररयि^b- -यि: शाश्रौ ४, १६, ५; ५,
 १०, ८^१; आपश्चौ; अप ४८, ७५^६;
 निघ १, १२^६; या ४, १७^६;
 -यिम् आश्रौ १, ६, १××; शाश्रौ;
 बौश्रौ २, १६: ५^१; आपमं १, ३,
 २^३; ८, ४^३; पाठ १, ४, १६^३;
 काठ २५, २२^३; बौग १, ४,
 ८^३; भाग १, १६: ३^३; माठ १,
 १०, १०^३; वाठ १४, १०^३; जैठ
 १, २१: ५^३; -यीणाम् आश्रौ ३,
 ८, १; आपश्चौ; या ४, १७^६;
 -य्या आश्रौ २, ५, ९; आपश्चौ,
 -य्याम् बौश्रौ १६, २७: ५;
 -य्यै आपश्चौ ९, ९, १^०××;
 बौश्रौ १४, २४: ३९^०; माश्रौ
 ९, ११, ८^०; १२, १२^०; माश्रौ;
 हिश्रौ १५, ३, १^०; १०^०;
 अप्राय ५, १^०.
 रयि-धारण-पिण्ड^१- -ण्डान् कौस्
 २८, ३.
 रयिन्-> ररयिन्-तम- -म:
 शाश्रौ १०, ६, १४; १८, १८, ९;
 शांठ ६, ४, ४.

ररयि-पति- -तये आपश्चौ ६, १३,
 २; हिश्रौ ३, ७, १०५; -०ते^१
 बौश्रौ १४, ८: १५; हिश्रौ १०,
 ४, २५.
 रयि-मत्- -ममते शाश्रौ २, १०, १;
 काश्रौ ४, १४, २२; वैताश्रौ;
 -मन्त: वृदे ४, ७२; -मन्तम्
 माश्रौ १, २, ६, ४^१; -मन्तौ
 बौश्रौ २०, १८: १४; २८, ३: १६;
 माश्रौ ५, १, ३, १८; ५, ४; ३१;
 १०, ११; -ममत् आश्रौ २, ५,
 १२; शाश्रौ २, १५, ४; बौश्रौ.
 ररयिमती- -त्यै आपश्चौ २०,
 ४, ३; बौश्रौ १५, ५: २२; हिश्रौ
 १४, १, ३८.
 ररयि-वत्- -वो: शाश्रौ^१ १०, ६,
 १४; १८, १८, ९; शांठ ६, ४,
 ४^१; ऋअ २, ६, ४४^१; ३, २५.
 ररयि-वृध्- -वृध: आश्रौ ३, ८,
 १; ८, १०, १; आपश्चौ १९,
 १६, ५; वैश्रौ.
 ररयि-छ (>)छा^b- -छा आपश्चौ
 १९, १७, ११; बौश्रौ १४, १५:
 १३; हिश्रौ २२, १, २२; -छाम्
 आश्रौ ३, १०, १६; आपश्चौ
 ९, १०, १७; बौश्रौ.
 रयि-स्थान^b- -न: ऋपा ५, २९^१.
 √रयीय > रयीयत्^b- -यन् ऋपा
 ९, १४^१.
 रराका^१- (> राराक्य- | > राराक- |
 पा.) पाग ४, १, १०५; २, १११.

a) = द्वीप-विशेष-। MW. रामणीयक- इति शोधः। b) वैप १ द्र.। c) पाभे. वैप १, २६३९ ० द्र.।
 d) = रात्रि-। e) सपा. रम्या<>राम्या इति पाभे.। f) = ऋयि-विशेष-। बस.। g) कस.> बस.।
 h) परस्परं पाभे.। i) = रयि-?। j) पाभे. वैप १, २६३५ j द्र.। k) = उदक-। l) पाभे. वैप १, १२३१ k
 द्र.। m) पाभे. वैप १ रयिम्, ऋ १०, ८५, ४१ टि. द्र.। n) पाभे. वैप २, ३४. धनम् तैत्रा ३, ११, २
 टि. द्र.। o) पाभे. वैप १ राये मा १३, ३५ टि. द्र.। p) = मृलोष्ठ- (तु. दारिलः BW. प्रयु.)। मदनफल-
 इति केशकः?। q) पाभे. वैप १, १५८८ h द्र.। r) पाभे. वैप १, २६१२ e द्र.। s) तु. पागमः।
 अरराका- इत्यन्यः (तु. पागम.), अदरक- इति पाति., अररक- इति आण्डा. प्रयु.।

रराट^a - ङट्म् काश्रौ ८, ४, १५;
 आपश्रौ; -दात् पाठ २, ६, २;
 -दानि आपश्रौ १८, ३, २; वाश्रौ
 ३, १, १, २७; हिश्रौ १३, १,
 २८; -टे हिश्रौ ७, २, ७८.
 रराटो^b - टो आश्रौ ४, ९, ४;
 हिश्रौ ७, ५, २५; -टोम् आश्रौ ४,
 १३, ४; आपश्रौ; -ट्याः आपश्रौ
 ११, ८, ४; हिश्रौ ७, ५, २६;
 -ट्याम् आपश्रौ ११, ८, १.

रराट्या(टी-आ)लम्भन-
 नम् काश्रौ ९, ३, १६.

रराट्य,ट्या^c - ङट्या आपमं २,
 २२, १; पाठ ३, १३, ५; हिट् १,
 १५, ३; -ट्याम् काश्रौ ८, ३, २३;
 ४, १५; द्राश्रौ ३, १, ९; लाश्रौ १,
 ९, ९; -ट्येषु बौश्रौ २६, ११: ५.

रराण-, ररिवस्- √र द्र.

√रफ्^d पाधा. भ्वा. पर. गतौ.

र-ल-, र-लोप- १र- द्र.

रव-, रवण-, रवत- √र द्र.

रवत्प्रतिषेध- १र- द्र.

रवथ- प्रसृ. √र द्र.

?रवन्ति^e या १४, ३१.

रवमाण- प्रसृ. √र द्र.

रवि^f - विः सु ३, ५; कप्र १, ९, २;
 वाध ११, २२; वेज्यो २२; -विम्
 आमिष्ट २, ४, ११: १४; अप
 ५३, १, १; बौध ४, ८, ३; -वेः
 अप ५२, ९, ३; ५३, १, २; ६५,
 २, ११; वृदे ३, १०; १७; -वौ
 कप्र १, ९, ४; वाध २७, १८;
 बौध ४, ५, ३१.

रवि-कल्प^g - लपम् आमिष्ट २, ४,
 ११: १.

रवि-वर्ष^h - षेण वैश्व ३, २१: ७.

रवि-संक्रम-हीन- नः काण्ड
 ४३: १७.

रवि-सोमⁱ - मयोः अप ६४, ४, ५;
 ७, ३; -सौ अप ६४, ७, ४.

रचित्- √र द्र.

र-विधान- प्रसृ. १र- द्र.

√रञ्(बधा.) > रञ(न)ना^j - पाठ
 २, ७५; -नया आश्रौ ९, ५, २१;
 शाश्रौ ५, १९, २०१; आपश्रौ ७,
 ११, ५; १५, ९, ५; बौश्रौ; -नयोः
 बौश्रौ १७, २८: ३; -ना काश्रौ
 ६, ३, १३; आपश्रौ २०, २,
 ७; बौश्रौ; -नाः शाश्रौ १६,
 १८, १०; काश्रौ ८, ८, १६;
 आपश्रौ; लाश्रौ ८, ११, २३^k;
 अप ४८, ८२^k; निघ २,
 २५^k; -नानाम् आपश्रौ १४,
 ७, ५; हिश्रौ ९, ८, ३७; १३, १,
 २४^l; -नाभिः या ३, १४^k;
 -नाभ्याम् आपश्रौ १४, ५, १२;
 ६, १२; बौश्रौ; -नाम् काश्रौ ९,
 ८, १; २०, १, ७; २५; आपश्रौ;
 -नायाः आपश्रौ १९, १६, १५;
 भाश्रौ ७, ८, ६; वाघुश्रौ ४, ६३:
 ५, ८; वाश्रौ; -नायाम् आण्ड, ८,
 १५; अप्राय ३, २; -नासु बौश्रौ
 १७, १२: ७; -ने काश्रौ ८, ७, ५;
 आपश्रौ ७, ८, ३; ११, २; काठश्रौ.
 रञान-गुण- णे वाश्रौ १, ६, ३,
 २५^m.

रञान-संमि(त)ता- -ताम्
 आपश्रौ १४, ६, १०; बौश्रौ १७,
 १२: ६; हिश्रौ ९, ८, १७.

रञाना-काल- -लान् बौश्रौ २०,
 २५: १०; -ले आपश्रौ १८, १,
 १२; हिश्रौ १३, १, ९.

रञाना-कृतⁿ - तः कौसू १२७,
 ५ⁿ.

रञाना-गुण- -णे^o आपश्रौ ७,
 ११, ९; भाश्रौ ७, ९, ६.

रञाना(ना-अ)प्र- -अम् वाश्रौ १,
 ६, ३, २१.

रञाना(ना-अ)दाना(न-अ)दि-
 -दि काश्रौ २०, ३, २१.

रञाना-देश- -शे आपश्रौ ७,
 १०, ४; वैश्रौ १०, ८: १४;
 हिश्रौ ४, २, ४९.

रञाना(ना-अ)न्त- -न्तेन हिश्रौ
 ४, ३, १७.

रञाना-परिग्याण- -णे वैश्रौ १७,
 ८: १.

रञाना-पृथक्त्व- -त्वात् शाश्रौ
 ६, ९, ४.

रञाना-स्थान- -ने वाश्रौ ३, १,
 १, ९.

रञाना-हस्त^p - -स्तः बौश्रौ ७,
 ९: १.

रञानो(ना-अ)दसन- -नम् वैश्रौ
 १७, १०: १०.

रञिम^q - पाठ ४, ४६; -इमयः
 ङआपश्रौ १०, १, १४; ३, १;
 १६, ११, १२; १२, १; बौश्रौ;
 -ङश्रमये आपश्रौ १५, १०, २;

a) वैप १ द्र.। b) = (पूर्वद्वारस्थणयोर्बद्धा-] ऐषीकी-) रज्जु-। c) विप., नाप. (रराटो-)। स्वार्थाविधे
 यत् प्र.। d) तु. BPG.। e) R.N. द्रवन्ति इति, शिवसं. भडकमकरश्च द्रुवम् इति ?। f) = सूर्य-।
 ल्यु. ?। g) = कर्म-विशेष-। h) उप. = संवत्सर-। i) उप. = चन्द्र-। j) रसनाः इति पाठः ? यनि. शो कः
 (तु. MW.)। k) = अङ्गुलि-। l) रञानाम् इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. पूर्व स्थलम्, आपश्रौ. च)। m) सपा.
 णगु <> णगु इति पाठे.। n) बस..।

बौश्री ९, ९ : २६; भाश्री ११,
९, १८; -रश्मिः शांश्री^१ ४, १२,
१०; १७, १३, १०; आपश्री १४,
१०, १०; १७, ३, ५^०; काठश्री;
बौश्री १०, ४५: ८^०; १४, २०: ७^०;
माश्री २, ५, २, २६^१; वैश्री १७,
६: ६^०; हिश्री १०, ८, ४६^०; १२,
१, ३२; द्राश्री १५, ३, १^०; लाश्री
५, ११, १^०; वैताश्री १७, ४^०; वृदे
३, १७^१; चाश्री १७: ५^०; \$या
२, ६; १४^१; १५^१; -रश्मिना
काश्री ११, १, २१; १७, ११, ९;
आपश्री १६, ११, १२; माश्री^०
५, २, १६, १४; ६, २, २, ३;
वाश्री १, १, ६, ५^०; २, २,
१, २२^०; वैश्री १८, १०: ६;
हिश्री ११, ४, १२; शुभ्र २,
२१२; -रिमभिः आश्री ६,
१४, १८; आपश्री; बौश्री १४,
१२: १२; २१, ३: १२; ८:
२३; भाश्री; -रश्मिभ्यः बौश्री
९, १२: ७; भाश्री ११, १२, २;
माश्री ४, ३, ३९; वैश्री १३,
१०: १७; १४: १३; हिश्री
२४, ३, ७; -रिमम् आश्री २,
१३, ७^१; -रिमषु आपश्री ५,
१०, ८; माश्री १, ७, ५, ३१;
५, १, ६, ६; वाश्री; -रश्मी द्राश्री
१, २, २५; लाश्री १, २, १९;
-रश्मीन् आश्री ३, १०, १६;
आपश्री ९, १०, १७; २२, २८,

२१^२; बौश्री; -रश्मीनाम्
आपश्री १२, २१, २; ११; १३,
१६, ८^०; बौश्री ३, २१: ६^०;
७, ५: ४४^०; ६: ३०^०; १८,
२३: ४; रश्मिः १५, १२७:
७^०; १६, २०: ६; रश्मिः^०
१०, ४, २२; ५, १२; अप;
-रश्मेः साश्री १, १४७; -रश्मौ
पा ३, ३, ५३.
रश्मि-नामन्-मानि निघ १,
५; या २, १५.
रश्मि-पवि(त्र)त्रा-त्राभिः
आपश्री ४, ४, ४; बौश्री २, १:
४; भाश्री ४, ५, ५; हिश्री १,
४, ५०.
रश्मि-पोषम् या १२, १६.
रश्मि-भेद्-दे अप ५३, ६, २.
रश्मि-वत्-वन्तः या १२, ३२;
-वात् अप ५१, २, ५.
रश्मि, रश्मी^० वती^०-त्तीः^०
आपश्री १६, ११, १२; वाश्री २,
१, २, ३१; -त्तीभिः वैश्री १८,
१०: ७^०; -त्तीम् शुभ्रा ३, १७.
रश्मि-संसर्जन-नम् अप ५१,
२, ३.
रश्मि-संगम-मे अप ५१, २, ४.
र-श-र-प- १र-द्र.
✓रस्(वधा.)^१ पाधा. भ्वा. पर. शब्दे;
चुरा. उभ. आस्वादनस्नेहनयोः,
रसति निघ ३, १४^१.
रसत्-रसद्भिः अप ६३, २, ३; ६४,

७, ५.

रसन-नम् अप ६४, ६, ४; ९, ५.
रस्-पाठ-पाठ २, ४, ३१^०; ५, २, ९५;
-सः शांश्री ७, १५, ८^१; १५, १,
३६; काश्री १५, ६, २४; २५, ११,
२२; आपश्री; द्राश्री ७, ३, १^१;
लाश्री ३, ३, १^१; निस् १, ५:
१९^१; रश्मि ४८, ७५^१; ८८^१;
१०२; रश्मि १, १२^१; २, ७^१;
-सम् शांश्री १५, १, ३७; आपश्री;
गोप ४, १, ८^०; कौस् २१, १७^०;
-सस्य आपश्री १०, १३, ११^१;
बौश्री २८, ९: १०^१; वैश्री २१,
१: ७^१; वैताश्री १२, ९^१; माप
२, ४, १०; विघ ६, १४^०; वृदे
२, १९; -साः बौश्री २, ११;
१; वैश्री १, ४: ११^१; हिश्री;
कौस् ८, १९; वाघ ६, ३१^०; ऋप्रा
१८, ५९; -रश्मात् आपश्री १६,
२९, २; वैश्री १८, २०: २७;
हिश्री ११, ८, ४; या १४, ६^१;
-सान् बौश्री १८, ८: ३; निस्
४, २: ३४; पाप १, १९, ५^१;
कौस्; हिघ १, ५, ४७^१; -सानाम्
हिश्री १२, ६, ६^१; अप ७०, ६,
१; ७१, १, ५; शंघ १७^१;
आपघ १, १७, १५^१; २०,
१५; हिघ; -सानि या ११,
२५^१; -रश्माय आश्री २, ७,
७; शांश्री ४, ५, १; आपश्री;
-रश्मे काश्री २५, ८, ५; माश्री ४,

a) परस्परं पाभे. । b) परस्परं पाभे. । c) शुभ्रा. पाठः । d) वैप १ द्र. । e) पाभे. घृ १८८३ k द्र. । f) या ६, २१; ९, ११; ११, २५ पराश्रुष्टः द्र. । g) धा. अर्चने वृत्तिः । h) तु. पागम. । i) पाभे. वैप १, ११२३ d द्र. । j) = छन्दो-विशेष- । k) = उदक- । l) = अन्न- । m) = मांस-यूष- । n) अर्थः ? । o) = तरल-पदार्थ- । p) = [शरीरस्थ-] घातु-विशेष- । q) = [मधुरादि-] षड्-रस- । r) परस्परं पाभे. । s) 'नि तामि इति पाठः ? 'निवतानि इति समरतैकपदः शोषः । अस्मिन् कल्पे 'वर्थ रसाया [= 'व्यानि (रसमयानि वैतु. पपा. 'याः इति).] पयांसि अतः' इति मन्त्रस्य वा. (तु. [अर्थतः] दुः; वैतु. अन्ये सर्वेऽन्य-आह्लासः; तथाहि- लसं. शिवसं. पूर्वपाऽसमस्तं कथं रसानि इति, स्क. R.N. B.N.M. भडकमकरश्च तदेव समस्तमिति) ।

१, १९^a; आसिष्ट ३, ६, ३ : २९;
 वीपि १, १२ : ५; -सेन आश्रौ
 १, ३, २३^{रि}; ऋशांश्रौ २, ८, १०;
 ८, ९, २; आपश्रौ; वांयु २,
 १३, ८^०; या १४, ४^०; -सेभ्यः
 निस् ४, २ : ३६; -सेषु कौस्
 १३९, १६; अप १, १२-१६,
 ४; १७-२०, ३; २३, ३; २४,
 ३; -सैः कौस् २१, २४; ६२,
 १८; ६६, ९; ६८, २३; अप;
 आपध २, ६, १४^d.
 रस-कर्मन्-र्माणि कौस् २१, २२.
 रस-ज-जाचाम् विध ५०, ४९.
 रस-देवता->व(त्य>)त्या-
 त्या शुभ्र १, ५५५.
 रस-धारण-गम् या ७, ११.
 रस-पूर्ण-र्णम् अप २०, ३, ४.
 रस-प्रतिषेध-धः मीस् ९, ४, ३८.
 रस-प्राशन-नात् वाश्रौ ३, २, २, ६.
 रस-प्राशनी^०-नी कौस् २१, २१;
 -न्या वैताश्रौ २१, २०; ३०, ६.
 रस-भोजन-नम् मीस् १०, ६, २७.
 रस-मिश्र-श्रम् कौस् ११, १४;
 २२, १; २३, १५.
 रस-वत्-पा ५, २, ९५; -वत् वैश्रौ
 ११, ११ : १२; -वतः कौस् २०,
 २३; -वते बौश्रौ १३, ७ : ४;
 हिश्रौ २२, २, १८; -वान् बौश्रौ
 १३, ७ : ५.
 रस-वर्जम् शंघ ६२.
 रस-वाचित्व-त्वात् पावा ४, ४,
 २४.
 रस-हरण-णात् या २, २०; ३,

१६; ११, ५.
 ऋसा(स-अ)भ्र-भुञ्-भुक् अप १,
 ३७, १; ३९, ३; अशां ७, १, ९, ३.
 रसा(स-आ)दान-नम् अप ४८,
 १४५; वृदे २, ६; या ७, ११.
 रसा(स-आ)दि-दयः वैगृ २, १८ : ५.
 रसादि-धेनु^१-न्ः अप ९, ३, ३.
 रसा(स-आ)देश-शः द्राश्रौ १, २,
 १४; लाश्रौ १, २, ८.
 रसा(स-आ)धारण-गम् अप ४८,
 १४५.
 रसा(स-अ)नुप्रदान-नम् या ७,
 १०; -नेन या १०, ३४.
 रसा(स-अ)न्यत्व-त्वे अप ७०, ६,
 १.
 ऋरसिन्-सिनः आश्रौ ३, ९, ५;
 ५, १५, २१; ७, १२, ७; शाश्रौ.
 ऋरसिनी-नी आपश्रौ २२, १५,
 १३; हिश्रौ १७, ६, २६.
 रसो(स-उ)व्यक्ति-त्तिः अप ६४,
 ९, ८.
 रसो(स-उ)वृक^१-कम् शंघ ११६ : ७.
 ररस^१-(>रासायनि-पा.) पाग ४,
 १, १५४.
 र-संधि-२२-द्र.
 रसा^१-सा या ११, २५; -साम् वृदे
 ८, ३२; -सायाः या ११, २५^{रि}क^१.
 रसा-तल^१->ल-ना(त>)ता-
 ता विध १, १२.
 रसातल-तल-लम् विध १, ४५.
 रसातल-समुद्भव-वान् अप
 ६४, १, ४.
 रसा-पार->र-निवासिन्-सिनः

वृदे ८, २४.
 रसायु-पाठो २, १, ४.
 रस्न-पाठ ३, १२.
 रं-स्वरित-१२-द्र.
 ✓रह् पाधा.भ्वा.पर.,चुरा.उभ.त्यागे.
 रहस्^१-पाठ ४, २१५^m; पा ५, ४,
 ५१; पाग ३, १, १२; ४, ३, ५४;
 -हः सु ११, ६; अप १, ८, १०;
 -हसि वैगृ ३, १ : ११; आपध
 १, ४, २५; २, २७, १८; हिध १,
 १, १४४; २, ५, २३७; या ४,
 १८.
 रहः, शू^१-शील-लः आपध १,
 ३, १४; हिध १, १, ८७.
 रहस्य, स्या-पा ४, ३, ५४;
 -स्यम् कौगृ २, ७, १७^०; वांयु
 २, ११, १३^०; आपध १५, ३;
 मायु १, २३, २१^०; वायु ७,
 १७^०; वैगृ ३, १९ : ८; गौध
 २, ४, १; -स्थानि द्राश्रौ १२,
 १, ३५^०; कप्र ३, ९, २^०;
 -स्यासु साश्रु^१ १, ५८९; २, १-९;
 -स्ये वायु ७, १८^०; वृदे ६,
 १२९^१; उनिस् ६ : १^१; -स्येषु
 वाध ५, ४^१.
 रहस्य-प्रायश्चित्त-त्तानि
 विध ५५, १.
 रहस्य-ब्राह्मण-गम् निस् २,
 ४ : २२; ३०; ४, १२ : ३५;
 -णे निस् २, १२ : १२; ५, २ :
 १४; ५ : ३४.
 रहस्य-मन्त्र-प्रयोग-नो
 माश्रौ ४, ८, ४.

a) पाभे. वैप १ रसे मै ४, ९, १ टि. द्र. । b) = प्रणव- । c) = तन्मात्राऽन्यतम- । d) पाभे. पृ १८२९ d द्र. । e) = ऋच्- (शौ ५, २, ३) । उप. करणे ल्युट् प्र. । f) मलो. कस. । g) = समुद्र-विशेष- । h) = ऋषि-विशेष- । i) पृथिवी-, नदी- । j) वैप १ द्र. । k) = लोक-विशेष- । l) धा. अर्थः १ । m) <✓रस् । n) आपध. पाठः । o) = उपनिषद्- । p) = ऋग्वि-विशेष- । q) = ऐतरेयारसयक- । r) = [सामवेदीय-] आरसयक- । s) = प्रायश्चित्त-विशेष- ।

रहस्य-मर्मादावचन-व्युत्क-
मण-यज्ञपात्रप्रयोगा (ग-अ)भि-
व्यक्ति- -क्तिषु पा ८, १, १५.
रहस्य-विद्- -वित् बौध २,
८, ३.
रहस्ये(स्य-इ)ष्टि- -ष्टिः बौश्रौ
२८, १: ३३; -ष्टया बौश्रौ २८,
१: ३.
रहस्यो(स्य-उ)क्त- -क्तम्
वाध २५, २.
रहः-संयोग-काम्या- -म्यया
बुदे ४, ५७.
√रहाय पा ३, १, १२.

रह-ह- १२-द्र.

रह^१- (>राह- पा.) पाग ४, ३,
१२.

रहक्षित^०- -तः वाधूश्रौ ४, १०८: ५.

रहूगण^०- पाग ४, १, १०५^d: २,
१११; -णः ऋअ २, ९, ३७;

-णानाम^० आश्रौ १२, ११, १.

१राहूगण^१- -णः ऋअ २, १, ७४;

बुदे २, ४६; शुअ १, १८०: साअ;

-णाः बौश्रौ ११: २^६.

राहूगण्य- पा ४, १, १०५; -०ण्य

आश्रौ १२, ११, १.

२राहूगण- पा ४, २, १११.

रहोगण^d- (>राहोगण- I >
राहोगण- J).

√रा (बधा.) पाधा. अदा. पर. दाने,
कुराति अप ४८, १३; निघ
२, १४^d: ३, २०; कुरास्व, >
स्वा आश्रौ १, ७, ८; शाश्रौ;
काश्रौ ७, ५, २; शुअ १, २६४^१;

शुप्रा ४, १४७^१.
ररते ऋषा २, ४५^१; रिरीहि कप्र
२, ४, ११; अप ४८, १२^१;
निघ ३, १९^१; ररीध्वम् बौश्रौ
१३, ३९: १२^१; पावा ६, १,
४५.

कुरास्मि >मा ऋषा ७, ५४;
८, ३५; शुप्रा ३, १२९; कुरासति
अप ४८, १३; निघ ३, २०;

रासत् या १२, १८^१क^१;
रासताम् अप १, ११, ४^१क^१;

कुरासन्ताम् आश्रौ १, ९, ५;
शाश्रौ; रासन् शाश्रौ १०, ७, ७^१क^१;

अरासत् शाश्रौ १५, २४, १^१क^१.

कुराण, ण^१- -णः आपमं १,
४, १५; ११, १; आमिण्य;

या २, १२^१क^१; शुप्रा ३, १२९;
-णा वाश्रौ १, ४, ४, ४१; आपमं

२, ११, ११; आमिण्य २, १, ५:
१६; भाग्य १, ६: ७; कौसु

१०६, ७.

कुरास्व- -वान् या ४, २५^१क^१.
कुरात्, ता- -तम् बौश्रौ ७, ४: १४;

-ताम् आपगृ ३, ११.
रात्-हव्य^०- -व्यः आश्रौ २,
११, १२^१क^१; शाश्रौ ३, ६, २^१;

ऋअ २, ५, ६५^m.
राति^०- पा ३, ३, ९६; पाग ४, १,
४५; -कृतयः आश्रौ ६, २, ६;

शाश्रौ; -तये भाग्य २, २४:
१२; -कृतिः काश्रौ १७, १२,
१५; आपश्रौ; अप्राय ६, ९ⁿ;

या १२, १७^१क^१; ३९^१क^१;

-तिना आपगृ १२, १४^०;
-कृतिभिः आपमं १, ११, ४;
बौगृ १, ९, ३; -तिस्र अप १,
३२, ७; -तेः बौश्रौ १७, ४०:
१८; -कृतौ शाश्रौ १, ६, २;
आपश्रौ २४, १२, ६.

राती- पा ४, १, ४५.

राति-कुल- -लेषु आमिण्य १,
१, ४: १८; हिण्य १, ७, १४.

राति-वा (<सा)च्^०- -षाचः
शाश्रौ ८, २१, १^१क^१.

राक्ता^०- पाउ ३, ४०; -का बौश्रौ
२४, २०: १०; ११; निस्व;

या ११, २९^२; ३०^१क^१; -काम्
कुराश्रौ १, १०, ६; ७; ५, २०,

६; शाश्रौ; या ११, ३१^१क^१;

-कायाः शाश्रौ ८, ७, १४;
१४, ५७, ९; आपश्रौ; -कायाम्

अप १, ७, १; -कौष्य बौश्रौ
८, २२: ७; १२, ४: २०;

भाश्रौ; -कृके शाश्रौ १, १५,
४; हिश्रौ.

राका-सिनीवाली- -लीभ्याम्
शाश्रौ ९, २८, २; -त्योः ऋअ

२, २, ३२; बुदे ४, ८७; -त्यौ
शाश्रौ १, १५, ३; हिश्रौ २, ५,
१०.

राक्ति- १२क्त- द्र.
राक्य- रक- द्र.

राक्षस्- प्रष्ट. √रक्ष् द्र.
? राक्षे(?)ति शैशि २१३.

राक्षोघ्न- , प्राश्रौ- , ष्नी-
√रक्ष् द्र.

a) भोजः यनि. इति, वामनः वह- इति च (तु. पागम.) । b) व्यप. । c) वैप १ द्र. । d) राहोगण-
इत्यन्यः (तु. पागम.) । e) बहु. < राहूगण्य- । f) अपत्ये अण् प्र. (तु. सा. P.W. प्रष्ट.) । g) रहूः
वा. रहो^० वेति केचन मूको. । h) धा. गतौ वृत्तिः । i) वैप १ रास्व मा ४, १६ टि. द्र. । j) धा.
शास्त्रायां वृत्तिः । k) वैप १ⁿ निर्दिष्टानां समावेशः द्र. । l) पाभे. वैप १, २, ५६ द्र. । m) = ऋषि-विशेष- ।
n) अत्रिः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. ऋ १, ११७, १) । o) वैतु. सुदर्शनार्चयः <√रम् इति ।

√राख् पाधा. भ्वा. पर. शोषणा-
लमर्थयोः
?राखन्दी^१ - न्यौ बौश्रौ १६, २३;
७^१.
!राखाटी^२ - न्यौ आपश्रौ २१, २०,
३; हिश्रौ १६, ६, ४१^३.
१-शराग- √रज् द्र.
रागक्षति^४ - पा, पाग २, ४, ५९.
राग-दोष- प्रभृ. √रज् द्र.
?रागायान्यै^५ आम्रिय १, ३, ५: ६.
रागित-, गिन्-, शी- √रज् द्र.
√राख् पाधा. भ्वा. उभ. सामर्थ्ये.
†राघटी^६ - टी वाश्रौ ३, २, ५, ४३;
वैताश्रौ ३४, ९^६.
राङ्कव- प्रभृ. रङ्कु- द्र.
राचित-, तायन- रचित- द्र.
√राज् (बधा.)^१ पाधा. भ्वा. उभ.
दीप्तौ, राजते काश्रौसं २६: २;
कौशि ६६; नाशि २, ८, ११;
राजति ऋश्रौ ८, २, २१^१; ९, ५,
५; अय ११, २, ५; ४८, २१^१;
निघ २, २१^१; पाशि २६; माशि
१५, ५; राजसि ऋश्र ३, ११^१.
राज्^२ - राजि^३ लाश्रौ ९, ४, १;
वैताश्रौ ३९, १२; राट् काश्रौ १७,
९, ४^१; २२, १०, ७^१; ऋश्रौ
१७, २, ५^१; १८, ५, २०; १९,
२४, २; २२, १०, २०^१; २३,
२२; २८, २; बौश्रौ; हिश्रौ १७,
४, ३९^१; निस् १, ५: १८^१; या
१२, ४६^१; ऋश्र १७, ५^१.

राङ्-विराज्^१ - राजोः आश्रौ ९,
८, २१.
राजत् - जन्तम् बौश्रौ ३, ८: २७^१.
राजन्^२ - पाठ १, १५६; पाग ४,
२, १३८^१; ३, ११८^१; ५, १,
१२४; १२८; ४, ३८; - ऋञ्जन्
आश्रौ ३, ६, २४; शाश्रौ; आपश्रौ
८, ७, २५; बौश्रौ ८, १९: १४;
१३, ३२: १७^१; १८, ९: ३१^१;
वैश्रौ १६, २४: १०; हिश्रौ
९, ५, २१; लाश्रौ ७, १२,
५^१; कौश्र १, १९, १०^१;
बौध २, १, १६^१; ङुबुदे ३,
१४५; ५, ५५; ८, ५; या ४,
७; ६, ६; १०, ४०; -जनि
आश्रौ ४, ४, ५; ६, ८, १; शाश्रौ;
पाना ४, १, १६६; ८, २ ७०;
-जभिः शाश्रौ १६, १, २५;
आपश्रौ २०, ६, १३^१; हिश्रौ १४,
२, १६^१; वाघ १९, ४५; -जभ्यः
या १२, ३६^१; - ऋञ्सु बौश्रौ
१७, ४१: २२; आपमं; विघ
५, १९१; ऋश्र २, ८, १०१; -जा
ऋश्रौ १, १०, ५२^१; शाश्रौ ३,
१४, २०^१; ५, ८, ४^१; काश्रौ;
आपश्रौ १८, १९, ५^१; बौश्रौ १२,
१५: १५; हिश्रौ १३, ६, ३०;
या २, ३६^१; पा ६, २, ६३; -जानः
बौश्रौ १८, १८: ७^१; वाधुश्रौ;
ऋञ्जानः आपश्रौ २०, ३, १;
बौश्रौ; -जानम् आश्रौ ३, ९,

५^१; शाश्रौ; काश्रौ ७, २, १;
२५, १३, ३०; आपश्रौ १०, २,
९; ३, ७^१; काठश्रौ १४^१;
काश्रौसं २७: १३; २९: २४;
बौश्रौ ६, १: १८; १४: ४^१;
भाश्रौ १०, १३, ९; १०^१; माश्रौ
२, १, ३, ४८; ५२^१; वाधुश्रौ २,
२२: ३; ३, ७१: ४^१; वाश्रौ
३, २, १, २५; ३, ४, १३; वैश्रौ
१२, १: १२; ३: ५^१; हिश्रौ ७,
१, ७२; २, ३६^१; जैश्रौ ३:
८; ९: १७^१; द्राश्रौ ३, १,
१०; २, ३०^१; लाश्रौ १, ९,
११; १०, २१; वैताश्रौ १३,
१२; १५, १६^१; सु १७, ४;
-जाना या ११, २३^१; -जानौ
ऋश्र २, ५, २७; ९, ११०; बुदे;
-ऋञ्जानौ आश्रौ ६, १, ३; ८,
२, १६; शाश्रौ ९, २, ५; १२,
१०, ५; -ज्ञः आश्रौ २, ९, ६; ३,
६, २४^१; शाश्रौ; काश्रौ २०, १,
११; वैताश्रौ १५, ३^१; हिघ १,
५, ९६^१; या २, ३; ९, १०; ११,
१२^१; पाना ४, १, १; १३७;
-ज्ञा आश्रौ ५, १९, ५^१; शाश्रौ;
-ज्ञाम् आश्रौ १३, ४; १२, १५,
४; वाधुश्रौ; आपघ १, १८,
२८^१; -ञि गौघ १६, ३२;
ऋश्र २, १०, ३३; बुदे ७,
३५; -ज्ञे आश्रौ ९, ३, ९; १०,
६, १०; शाश्रौ १५, १४, ४; २२,

- a) परस्परं पाभे । b) रागागधौ इति मुक्तौ । c) तु. पाका. । व्य. । d) पाठः ?
(तु. पृ ८६२ d टि. सपा. पाय २, ६, २३ कामायेन्द्रियाय इति पाभे.) । e) शोषः पृ २०१७ k द्र. ।
f) या २, ३; १२, ४६ शौच २, ३६ पा ३, २, ६१; ६, ४, १२५; ८, २, ३६ परामृष्टः द्र. । g) पाभे.
वैप १ राजति मा ३६, ८ टि. द्र. । h) वैप १ द्र. । i) शेषं टि. द्र. । j) = एकाह-विशेष- ।
k) = छन्दो-विशेष- । l) (एकाहयोः) द्वस. । m) तु. पागम. ।) पाभे. वैप १, २४९० g द्र. । o) = गीति-
विकार- (< ऋ ९, ११, ३) । p) पाभे. वैप १, ८१२ k द्र. । q) राज्यज्ञः इति चौसं. ।
r) परस्परं पाभे. ।

१; आप्रश्री; वैताश्री १६, ११^१.
 राज्ञी-० जि वृदे ४, २; -नींशी
 काश्री १७, ९, २; १२, १; आप्रश्री.
 राज-ऋषि- धीन् आमिष्ट २,
 ६, ३; ३६^१.
 राजक- पा ४, २, ३९.
 राज-कर्मन्- र्मणि विध २२,
 ४८; -र्माणि अप्र ४, २, १; १७,
 १, १; १८^१, १९, १.
 राजकर्म-संवात्सरीय^b- यम्
 अप्र १८^२, २०, १.
 राजकर्मा(र्म-आ)भिचारिक-
 -केषु कौस् ३, १५.
 राज-किल्बिष- -षम् बौध ३, ६,
 ८.
 राजकीय- पा ४, २, १४०.
 राजकीय-क- -कः अप्र ६७,
 १, ४.
 राज-कुमार- पा ६, २, ५९.
 राज-कुल- -लम् विध ३, ४८;
 -लात् आप्रध २, ४, २०; -ले
 बौष्ट ४, ३, ९.
 राजकुल-रक्षण- -णम् शंघ
 २५१.
 राज-कृत्वन्- पा ३, २, ९५.
 राज-कोश- -शः अप्र १९, १, १३.
 राज-कतु- -तुः शंघ २५३.
 १ राज-कथ- -यः आश्री ४, २,
 १८; -थे लाश्री ९, ९, ५.
 २ राज-कथ^c- > ष्या(य-आ)घ-
 (दि-अ)हः-संख्यान^d- नेन
 आश्री ४, ८, १३.
 राज-कथ (रा >)णी^e- -णी

माश्री २, १, ३, ३०; वाश्री ३, १, १,
 २; २, १, २६; -णीम् माश्री २, १,
 ३, ३३; ३५; ५०; -ण्या माश्री
 २, १, ३, ४७; -ण्याः द्राश्री १४,
 १, १०; लाश्री ५, ५, ७.
 राजक्रयणी-पदा(द-अ)र्ध-
 -धेन माश्री २, २, २, १५.
 राज-क्रोध- -धात् गौध १४,
 १०.
 राज-क्षप(रा >)णी^f- -णीम्
 आमिष्ट ३, ५, ५; ७^१.
 राज-ग(व >)वी- -वी आमिष्ट
 ३, ५, ३; ८; बौषि १, ३; ७; -वीम्
 कौष्ट ५, २, ३; ८, १२; आमिष्ट
 ३, ५, ६; १; बौषि १, ४; १७;
 हिपि २; ८; ४; ३; ९; -च्या
 हिपि १२; १०.
 राजगवी-क्षीर- -रे पावा
 २, १, १.
 राज-गामिन्- -मि शंघ ३००;
 बौध १, १०, ३२; विध १७, १३;
 ३७, २; गौध २१, १०; -मिषु
 अप्र ७०^२, २३, १३; -मीनि
 वाध १६, १९; शंघ ३०१.
 राज-गुरु-माता-पितृ- -तृन् वैध
 ३, ३, ६.
 राज-गृह- पाग ४, २, १२७;
 -हाः^h बौश्री १५, ३; ३; १८,
 १८; ७; -हान्^h बौश्री १८,
 १८; १५; -हे बौश्री २, ५; २^१.
 राजगृहक- पा ४, २, १२७.
 राज-घ- पावा ३, २, ५५.
 राज-घातक- -कम् गौध २०, १.

राज-छत्र- -त्रे अप्र ७२, २, ६.
 राज-जन-संपत्- -कृत्- -कृत्
 अप्र २५, २, ३.
 राज-जाति- > तीय-त्व-
 -त्वात् निसू ६, २; १९.
 राज-तस (ः) अप्र ६३, ३, ५.
 राज-इण्ड- -ण्डः अप्र ७१, १३,
 २; शंघ ३९२.
 राज-द्वन्त- पाग २, २, ३१.
 राज-दर्वि- -र्वीणाम् अप्र ६४,
 ५, १.
 राज-दुहितृ- पावा ६, ३, ६९;
 -तरः काश्री २०, १, १३.
 राज-द्रोह-साहसⁱ- -सेषु विध
 ९, २; २२.
 राज-द्वार- -रे अप्र ७०^३, ६, १.
 राजद्वार-कृत- -तम् विध
 ४८, २२.
 राजद्वारिक- -कम् आज्यो
 ५, ६.
 राज-द्विज-वृष- -षात् अप्र ६८,
 २, ४८.
 राज-धन- -नम् गौध १०, ४२.
 राज-धर्म- -र्माः विध ३, १.
 राज-धानी- -नीषु अप्र ७१, १८,
 ५.
 १ राजन- पा ५, ४, ३८.
 २ राजन^j- -नम् शाश्री १६, १४,
 ७; ८; जैश्री २३; ९; जैश्रीका
 ५५; द्राश्री १०, ४, ८^१; लाश्री
 ३, १२, ७^१; -ने लाश्री ७, ६,
 २०; निसू ३, १२; १०; ऋत
 ३, ७, ३.

a) पाठः? राज्ञि इति श्लेषः (तु. प्रकरणम्, C., सा [श्री २, ५, १]) । b) = परिशिष्ट-विशेष- । पस.
 उप. भवार्थे छप प्र. उसं. (पावा ४, २, १३८) । c) वस. । d) वस. > कस. > पस. । e) = [सोमक्रयसी-]भो- ।
 f) = ओषधि-विशेष- । पूष. = राज-रोष- । g) सभा. बौषि १, ४; ७ राजवृक्षपर्णीम् इति पाठे. । h) अर्थः? ।
 = राजद्वार- इति अन्वयस्यै? । i) पस. > दस. । j) = साम-विशेष- । < ऋ ७, २७, १-३ (तु. सा
 [एया २, ३, ४]) ।

राजन-रौहिण^१- ण वाघ
२२, ९; बौध ३, १०, ११; गौध
१९, १३.

राजन-रौहिणक^२- -के द्राश्रौ
२, २, ३९; लाश्रौ १, ६, ३५.

राज-नक्षत्र- -त्रम् अप १, १०, ५.

राज-नन्दन- -नः अप ६९, ४, ४.

राजन्य, न्या^३- पाठ ३, १०००;

पा ४, १, १३७; पाग ४, २, ५३;

फि ७६; -न्यः आश्रौ २, १, ३;

शाश्रौ २, ६, ५; काश्रौ १४, ३,

२०; १५, ५, ३०; १६, १, १७;

२०, २, ८; २२, १, २९; आपश्रौ;

-न्यम् आपश्रौ १२, २४, ५;

१७, १९, ६; ८; बौश्रौ;

-न्यस्य आश्रौ ४, १५, ५;

शाश्रौ २, ३, ६; काश्रौ; -न्या

वाघ १७, ७८; शंघ ७२; -न्याः

शाश्रौ १६, १, १६; काश्रौ १५,

८, १९; बौश्रौ २६, १० : १५;

लाश्रौ ९, १, २२; -न्यानाम्

शाश्रौ १, ७, ३; काश्रौ २०, १,

१४; लाश्रौ ९, १०, ४; विघ

२४, २८; -न्याम् वाघ २०,

३८; -न्याय आपश्रौ २२,

२६, ५; बौश्रौ १२, ९ : ११;

१८, ९ : १०; निसु; -न्यायाः

वाघ १७, ४९; -न्यायाम् वाघ

१८, २; ५; २१, ४; -न्ये

आपश्रौ १७, २६, १८; १९,

२७, २२; बौश्रौ ९, १३ : २२;

हिश्रौ; -न्येन हिश्रौ १०, २,

३२; वाघ १८, ६.

राजन्यक- पा ४, २, ३९;

५३; पावा ४, २, ५२; ६, ४, १६३.

राजन्य-त्सः(ः) वैध ३, १३, ३.

राजन्य-स्व- -त्वात् अप ५२,
८, २.

राजन्य-पुरोहित- -तौ
काश्रौसं ३० : ८.

राजन्य-बन्धु^४- -न्धुः लाश्रौ
८, २, १०; -न्धुनि बौश्रौ २,

५ : १५;

-न्धोः माश्रौ ६,

१, २, २३; वाधूश्रौ ३, ४६ :

१२; वाश्रौ २, १, १, ४९.

राजन्य-बहुवचन-द्वन्द्व-

-न्द्वे पा ६, २, ३४.

राजन्य-वध- -धे गौध २२,

१३.

राजन्य-वैश्य- -श्ययोः

आश्रौ २, १७, ७; आपश्रौ १७,

१९, ९; वाघ २१, १७; -श्या-

भ्याम् शंघ १३५; -श्यौ आपश्रौ

४, ३, २; १०, ११, ६;

१२, ८; माश्रौ.

राजन्यवैश्य-कर्मन्- -र्मा

गौध ६, १८.

राजन्य-व्रत- -त्तेन वैश्रौ १२,

१३ : १२.

राजन्य-हिंसा- -सायाम्

वाघ २०, ३७.

राजन्या(न्य-अ)त्रि-वध्रयश्च-

वसिष्ठ-वैश्य-शुनक- -कानाम्

माश्रौ ५, १, १, १७.

राजन्या-पुत्र- -त्रः गौध

२८, ३६.

राजन्या-वैश्या- -श्ययोः

वाघ २१, ५.

राजन्यावैश्या-पुत्र-

समवाय- -ये गौध २८, ३८.

राजन्यो(न्य-उ)च्छिञ्छ (घ-

अ)शन- -ने विघ ५१, ५२.

राजन-वत्- पा ८, २, १४.

राज-पक्ष- -क्षः अप ६३, ४, ३.

राज-पति- -तिः काश्रौ ५

१३, ११.

राज-पत्नी- -त्नी आज्यो १३,

१०; -त्नीम् अप ५८^२, ४, ६;

६३, ४, १; -त्न्यः वाघ १९, ३३.

राज-पथ- पा^१, पाग ५, ३, १००.

राज-पीडा- -डा अप ६०, १, ४.

राज-पुत्र- पा ४, २, ३९; ६,

२, १३३; -०त्र शाश्रौ १५,

२५, ११; -त्रः आपश्रौ १२,

१६, ४; १८, ३, १४; ४, २;

७, ९; काश्रौ; -त्रस्य चाअ

३८ : १२; -त्राः शाश्रौ १६,

१, १६;

१३; २१, १९, १६; बौश्रौ;

-त्राणाम् बौश्रौ १५, १ : १७;

५ : १०; वाधूश्रौ ३, ७९ : २;

वाश्रौ ३, ४, १, १७; -त्राम् काश्रौ

२०, २, १७; वाधूश्रौ ३, ९२ :

५; शंघ ११६ : २८; -त्रैः

आपश्रौ २०, ४, १; हिश्रौ १४,

१, ३८; -त्रौ वृदे ७, १५५.

राजपुत्रक- पा ४, २, ३९.

राजपुत्र-सहस्र- -त्ताणाम्

अप ६२, २, ५.

राजपुत्र(त्र-अ)पहार- -रे

शंघ ३२१.

राजपुत्रापहार-वत्

शंघ ३२२.

राज-पुत्री- पावा ६, ३, ६९;

-त्री लाश्रौ ९, १०, १; वृदे ५,

५४; -त्रीः आपश्रौ २७, १५;

८;

-त्रीभिः वाधूश्रौ ३, ९० :

२; -त्रीम् वृदे ५, ५४; -त्र्यः

a) साश्रौः द्वस्र. ।

b) वैप १ इ. ।

c) <√राज् ।

d) नाप. पु. न. (क्षत्रिय-) ।

e) <√राजपथ-क- ।

आश्रौ १०,८,११; १३.
 राज-पुमंस- -मात् वाघ १९,
 १३.
 राज-पुरुष- पाग ५, १, १२४;
 पागवा ७,३,२०; -षः आसिष्ट
 ३,४,४ : १६; बौपि ३, ४, १६;
 गौपि १,४,४; या २,३.
 राजपौरुष^१- -षम् आज्यो
 २,६.
 राजपौरुष्य- पा ५,१,१२४;
 पावा ७,३,२०.
 राज-पुरोहित- -तयोः काश्रौ
 २२,११,१५; -तौ आपश्रौ
 २२,१०, १९; १३, १०; हिश्रौ
 १७,४,३८; ५, ३१; लाश्रौ ९,
 ४,३०.
 राजपुरोहितयोर्-यज्ञ- -ज्ञः
 निसू ७,१० : ३१.
 राज-पूजित- -त्तम् अप १,४३,
 १.
 राज-प्रथमा(म-अ)भिषेक- -के
 अप ३,१,१.
 राज-प्रभृति- -तिभ्यः काश्रौ
 १५,७,१८.
 राज-प्रेषित- -तः पाग ३, १५,
 २०.
 राज-बन्धव^२- -र्षवैः^३ भाग २,
 १ : १५; हिग २,१६,८.
 राज-बन्धवी- -वीः आपमं २,
 १७,२६१^०.
 राज-बान्धव- -र्षवैः^३ कौग ४,४,
 ९; शोग ४, १८, १; पाग २,
 १४,४.
 राज-बान्धवी- -वीः आग २,
 ३, ३०; -व्यः माग २,७,१०.

राज-बाल-धन- -नानि वाघ
 १६, ७.
 राज-ब्राह्मण- पा ६, २, ५९.
 राज-भङ्ग- -ङ्गम् अप ७०^२, २३,
 १२.
 राज-भव्य^४- -व्यः वाश्रौ ३, १,
 १, ४५.
 राज-भृत्- पाग ४, २, ७५;
 -भृतः वैश्रौ १९, ६ : १३१.
 राजभृत- पा ४, २, ७५.
 राज-भृत्य- -त्यः अप ६८, २,
 ५५; शंघ २०१; हिघ २, ५,
 ४९.
 राज-भोग^५- > शीन- पावा ५,
 १, ९.
 राज-भ्रातृ- -ता काश्रौ १५, ७,
 १२.
 राज-महिषी- -ष्याः वाघ १९,
 ३१.
 राजमहिषी-गामिन्- -मी
 शंघ ३७७ : २१.
 राजमहिषी-भय- -यम् अप
 ७१, १७, ७.
 राज-मात्र- -त्रः शाश्रौ १७, ५,
 ४; १५, ३; -त्रम् शाश्रौ १७,
 ५, ३; -त्रस्य निसू ७, १० : १०.
 राज-मार्ग-रथ-परिवर्तन- -नम्
 शंघ ३१०.
 राज-मार्ष^६- > ष-मसूर-पर्यु-
 षित-कृतलवण- -णानि विघ
 ७९, १८.
 राज-मुख- -खम् अप ३०^३, २,
 ८.
 राज-मृत्यु- -त्यवे अप ६४, १०,
 ४; ७०^३, १७, ४; ७०^३, ११,

१०; -त्युम् अप ५०, ३, २;
 ७, ४; ८, १.
 राजमृत्यु-कर- -रम् अप
 ७०^३, १४, १.
 राजं-भव्य^४- -व्यस्य आपश्रौ
 १३, २४, ८.
 राज-यक्ष^७- -क्षमः अश्र ११,
 ३(२); -क्षमे कौसू १३, १२.
 राजयक्ष-गृहीत- -तः माश्रौ
 ५, १, १०, १५.
 राजयक्ष-म- -मम् ऋअ
 २, १०, १६१.
 राजयक्ष-म-हन्- -हणम् वृदे
 ८, ६४.
 राज-यज्ञ- -ज्ञः काश्रौ २२, ११,
 १३; निसू ७, १० : १; १९; ८,
 ७ : १; -ज्ञाः बौश्रौ २४, ११ :
 १; -ज्ञे निसू ७, ५ : ३९; ४१;
 ६ : १९; १३ : २; ८, ७ : ७;
 -ज्ञेषु निसू ६, २ : १७; ३ : ३;
 -ज्ञौ काश्रौ २२, १०, २९.
 राज-युध्वन्- पा ३, २, ९५.
 राज-रथ- -थः अप ७२, २, ८.
 राज-राष्ट्र-भय- -यम् अप
 ५८^३, ४, १.
 राजराष्ट्रभया(य-आ)वह,हा-
 -हः अप ६४, २, २; -हम् अप
 ६४, ३, १; -हाः अप ५८^३, ४,
 १०; १२; -हौ अप ६४, २, ५.
 राज(ज-ऋ)त्विक्-श्रोत्रिया-
 (य-अ)धर्मप्रतिषेधु(धि-उ)
 पाध्याय-पितृव्य-मातामह-
 मातुल-श्वशुर-ज्येष्ठभ्रातृ-संब-
 न्धिन्- -न्धिनः विघ ३२, १.
 राज(ज-ऋ)र्षि- -र्षयः अप १३,

a) भवे षण प्र. । b) उप. = बान्धव- । c) सपा. °बन्धवैः <> °बन्धवीः <> °बान्धवीः

<> °बान्धवैः <> °बान्धव्यः इति पाभे. । d) = राजं-भव्य- । e) षस. उप. = शरीर- (उ. पाका.) ।

f) माष-भेद- । राजदन्तादिषु उल्लं. । g) = युवराज- । व्यु. वैप १ षेजुं-भृग्या- टि. द्र. । h) वैप १ द्र. ।

५, ४; विध २०, २६; वृदे ४, ९८; -र्षिः वृदे ५, ५०; ७, २; -र्षिभिः काश्रौ २०, ३, २; ८; -र्षिणाम् चात्र १५ : ६; ४१ : २५; -र्षिन् आश्रौ १, ३, ४; शंघ ११६ : ३१; बौध २, ५, २७; वृदे ३, ५४; ५, २९; -र्षेः वृदे ६, ५१; -र्षौ वृदे ७, १४७. राज-लक्षण-संपन्न-न्नाः वैगृ ६७ : ७.

राज-वंश->श-ग(त)>ता-ता आज्यो १३, १०.

राजवंश्य- -श्यानाम् अप ६१, १, १६.

राज-वत् अशां २५, ५१; वैध ३, ११, ७.

राज-वत्-वति आपध २, २९, ७; हिध २, ६, २०.

राज-वध-धः अप ६४, ८, ७.

राज-वाहन-नम् जैश्रौ ३ : ८;

द्राश्रौ १, ३, १^a; -नस्य जैश्रौ ३ :

४; -नात् जैश्रौका ४४; वैताश्रौ

१३, १२; -हने जैश्रौका ४३.

राज-वाहिन-ही अप १, ४५, ५.

राज-विनिषिद्ध-द्धम् विध ५, १३०.

राज-विप्र-स्व-स्वात् शंघ ३०२.

राज-विश्र^b-विशाम् आश्रौ १, ३, ३; बौश्रौ २४, २३ : १^c.

राज-विशि(ष्ट)>ष्टा-ष्टायाः पावा २, १, १.

राज-वी(धि)>थी-थी अप

५०, ४, २; -थीम् अप ५०, ६, ४. राज-वृक्ष-प(रि)>र्षी^d-र्षीम् बौपि १, ४ : ७^e.

राज-वृद्धि-द्धिम् अप ६०, १, १.

राज-वेष्टमन्-ष्टमनि अप ४, ५, ९; ७०^f, ६, ९; -ष्टमसु अप ७०^g, १३, ५.

राज-शब्द-ब्दम् लाश्रौ ३, १२, ९^f.

राज-शासन-प्रतिषेध-धे शंघ ३१६.

राज-श्रोत्रिय-गो-ब्राह्मण-व्यसन-ने विध ३०, २३.

राज-श्रोत्रिय-प्रव्रजित-कितव-तस्कर-पराधीन-स्त्री-बाल-साह-

सिका(क-अ)तिवृद्ध-मत्तो (त-उ) न्मत्ता(त-अ) भिशस्त-पतित-

क्षुत्तृष्णार्त-व्यसन-रागान्ध-न्धाः विध ८, २.

राज-संयोग-गात् या ९, ११.

राज-संवृत्-वृताम् अप ६४, ८, ४.

राज-सनि-नि वैगृ ५, ४ : २४.

राज-सर्षप-पः विध ४, ३; -पैः अप ३६, ८, ३.

राज-साक्षिक^h-कम् विध ७, २; ३.

राज-सामन्^h-म निस् ७, ५ : २०; -मसु निस् ७, ५ : ३३;

-मानि निस् ७, ५ : १७.

राज-सायक-कः अप ५२, ५, २.

राज-सूय, याⁱ पा ३, १, ११४;

पाग २, ४, ३१^j; -यः काश्रौ १५,

१, १; आपश्रौ १८, २२, २०;

बौश्रौ; -यम् शाश्रौ १५, १२, १;

२०, १; आपश्रौ २२, २५, १०;

१५; बौश्रौ; -यस्य आपश्रौ १०,

२६, ८; भाश्रौ १०, १७, १५;

-याः आश्रौ ९, ३, १, ४, १; नाश्रौ

३, ३, २, २, ८^k; चात्र १५ : १^l;

-यात् माश्रौ ५, २, ७, १; -याय

बौश्रौ १२, ८ : ६^k; १६; ९ : ७;

-ये शाश्रौ १५, २०, १; १६,

१८, १; काश्रौ ७, ३, ३; आपश्रौ;

-येन आश्रौ ९, १९; शाश्रौ

१५, १२, १; आपश्रौ; -येषु

वैताश्रौ ४०, ४.

राजसूय-गण-गणभ्याम्

बौश्रौ १२, १० : ४.

राजसूय-याजिन्-जिनः

काश्रौ १५, १०, २३; निस् ७, ५ :

३४.

राजसूय-वत् आपश्रौ १९, ९,

१२; १०, २; हिश्रौ २३, १, ४६;

५२.

राजसूय-विध^h-धेन लाश्रौ

८, ११, ७.

राजसूय-सोम-सैः काश्रौ

१४, १, ७.

राजसूय-हविस-विर्भिः

बौश्रौ २६, ३ : १९.

राजसूया(य-अ)भिषिक्त-

-क्तः बौश्रौ १८, २ : ९.

राजसूया(य-अ)श्वमेध-

-धाम्याम् अप २३, १४, २.

राजसूयिक^l-कः बौश्रौ ९,

a) अथैतद्वाजवाहनम् इत्यस्य स्थाने लाश्रौ १, २, २३ दक्षिणमनह्वाहम् इति पाठे. । b) उप. = वैश्य- । c) पाठः ? ञा वि इति शोभः (तु. भवस्वामी संस्कृतः टि. च) । d) = ओषधि-विशेष- । षस. > षस. । e) पाठे. । f) सपा. द्राश्रौ १०, ४, १० राज्यशब्दम् इति पाठे. । g) षस. । h) = साम-विशेष- । i) वैप १. द. । j) तु. पापम्. । k) विप. (२अप्-) । पाठे. वैप १ राजस्वः मा १०, १ टि. द. । l) तस्येदमावर्षे ठक् प्र. ।

१८:४; २५, १३: २४; -कान्
बौश्रौ २४, १०: १२; -कानि
हिश्रौ १३, ५, ३५; -केषु हिश्रौ
१३, ३, ६.

राजसूयिकी- -कीभिः
कागृ ४४, ३.

राजसूये(य-इ)ष्टि-पशुबन्ध-
-न्धानाम् हिश्रौ १३, ३, ९.

राज-सेवक- -कम् कप्र १, ६, ७;
-कान् विध ८२, २६.

राज-स्त्री-दर्शन- -नम् शंघ
१२.

राज-स्थली-(>°लक- पा.)

पाग ४, २, १२७.

राज-स्नातक- -कयोः वाघ १३,
५९.

राज-स्व- -स्वम् वाघ १६, १८.

राज-हंस-प्रतीकाश- -शम् अप
६८, १, ३४.

राजा(ज-आ)क्रोशक- -कः शंघ
३७७: २१.

राजा(ज-आ)चार्य- -र्यौ गौध
११, ३४.

राजा(ज-आ)ज्ञा-कारिन्-
-रिणाम् विध २२, ५२.

राजा(ज-आ)तङ्क- -ङ्कम् विध
१४, ४.

राजा(ज-आ)द्य(दि-अ)र्थ-
-र्थम् पावा १, १, ६८.

राजा(ज-आ)धिकरण- -णे विध
७, ३.

राजा(ज-आ)धिरूढ- -ढः अप
७२, २, ८.

राजा(ज-अ)धीन- -नेभ्यः आपघ
२, २५, १४; हिघ २, ५, १९४.

राजा(ज-अ)भय- -यम् अप ३५,
३, १०.

राजा(ज-अ)भिद्रोह- -हात् शंघ
२५५.

राजा(ज-अ)भिषेक- -कः आपश्रौ
२२, २८, २५; हिश्रौ २३, ४, ६६;
-के विध ९९, १६; -क्रेण वाघ
२, ४९.

राजा(ज-अ)मनुष्य-पू(र्धं>)
र्वा- -र्वा पा २, ४, २३.

राजा(ज-अ)र्थ- -र्थे वाघ २०, २७.

राजा(ज-अ)र्षित- -तानाम् हिश्रौ
२, १, ५५.

राजा(ज-अ)शक्ति- -क्तेः विध
५, १७.

राजा(ज-आ)सन्दी- -न्दीम्
आपश्रौ १०, ३१, २; बौश्रौ
६, १०: ७; ८, १९: ३;

हिश्रौ २४, २, ४^२; -न्द्या बौश्रौ
२१, १२: २७; २८; -न्द्याः
काश्रौ २६, २, ३२; आपश्रौ १५,
५, ७; ६, १०; वैश्रौ १३, ८: ७;

भाश्रौ ११, ५, ८; ६, ८; हिश्रौ
२४, २, १०.

राजा(ज-अ)हः-सखि- -खिभ्यः
पा ५, ४, ९१.

राजा(ज-आ)हार^२- -रः अप्राय
६, ४.

राजे(ज-इ)क्ष्वाकु-प्रभृति- -तयः
अप १३, ५, ४.

राजो(ज-उ)पसेवा- -वया बौध
१, ५, ८४.

राजो(ज-उ)पसेविन्- -विनाम्
आज्यो ५, ६१^b.

राज्य^b- पा ५, १, १२४; १२८;
-ज्यम् काश्रौ ५, १३, ११^१; आपश्रौ
१८, १२, ९१^१; २२, १०, २०;
बौश्रौ; पा ६, २, १३०; -ज्यस्य
शुसु ३, १४: ८; -ज्यानाम् शाश्रौ

१५, १२, १^१; -ज्यानि शाश्रौ
१६, २, ३२; -ज्याय शाश्रौ १७,
१६, ११^१; आपश्रौ ६, १४, ७^१;
२०, २, १२; बौश्रौ; -ज्ये भागृ
२, ५: १३^१; वृदे ८, २; या २,
१०; आज्यो ८, ४; -ज्येन वृदे
७, १५७; ८, ४; या २, १०.

राज्य-काम- -मः आश्रौ १०,
२, १०; अप ७२, ५, २; -मस्य
काश्रौ २२, १०, ७; २३, २, ९;
अशां १७, ३.

राज्यकाम-यज्ञ- -ज्ञः
निसू ७, ७: ४.

राज्य-क्षय- -कर- -रम् अप
७२, ६, ५.

राज्य-धी- -धीः अप २६,
५, १.

राज्य-नाश- -शो अप ६९,
४, १.

राज्य-भाज्- -भाक् विध
९०, २५.

राज्य-भ्रंश- -शम् अप ५३,
५, ४.

राज्य-यशस्-काम- -मस्य
काश्रौ ४, ११, २.

राज्य-योग्य- -यः अप ६९,
४, ४.

राज्य-वर्धन- -नम् अप २५,
३, २.

राज्य-शब्द- -ब्दम् द्राश्रौ
१०, ४, १०^०.

राज्य-हर- -रम् अप ३०^३;
१, ७.

राज्या(ज्य-अ)भिषेक->
°क-नाण- -णस्य अश्राम् ३.

राज्याभिवेक्य- -क्यम्
अश्राम् ४, ८.

a) वैष १. द. 1 b) राज्ञो इति पाठः इ यानि. शोषः 1 c) पाप्मे. पृ २०६९ ई. द.

राज्या(ज्य-ञ)र्थे श्री-ब्रह्म-
वर्चस-काम- -मस्य अशां १७,
१.
राज्यो(ज्य-उ)पकरण- -गम्
अत्र ४,२२.
!राज- -जम् शंघ ११६:५६^१.
राज-ऋषि-, राजक- प्रसृ. √राज् द्र.
राजत-, -ती- √रज् द्र.
राजन्-, १-२राजन- प्रसृ. √राज् द्र.
राजल^०- पा, पाग ४,१,११२.
राजसी- √रज् द्र.
राज-सूय- प्रसृ. √राज् द्र.
राजस्तम्भ^०- -म्भा: बौश्रौप्र १७:
१२.
राजस्तम्भि^०- -म्भि: बौश्रौप्र १७:
८.
राजायन-(>)नक- पा. पाग ४,
२,५३.
राजार्थ- प्रसृ. √राज् द्र.
!राजि^०- -जय: बौश्रौप्र १९: ५.
२राजि^०- पाठ ४,१२५; -जिम भाश्रौ
१०,५,१४; -जो आपश्रौ १०,
८,१६; माश्रौ २,१,२,४; हिश्रौ
१०,२,५.
राजी->राजी-व, वा^०- पाग ५, २,
१३५; -वा: आपश्रौ २२, २०,
१४; बौश्रौ १८,११:१३; हिश्रौ
१७,७,२७; शंघ २२४.
राजीव-पृदिन^०- -इनय: काश्रौ
२२,९,१३.
राजी-वि(न् >)नी- पा ५, २,

१३५.
राजिका^०- -काम् अप ३५,१,९.
राजिततायिन्^०- -यिन: बौश्रौप्र ६:२.
राजितवाह^०- -हा: बौश्रौप्र ३:१५.
राजक्ष्वा^० प्रसृ. √राज् द्र.
राज्जुकण्ठन्- रज्जु- द्र.
राज्जुदाल- रज्जुदाल- द्र.
राज्जुभारिन्- रज्जु- द्र.
राज्ञी-, राज्य- प्रसृ. √राज् द्र.
राणायन- प्रसृ. ३रण- द्र.
रात-, रात्रि- प्रसृ. √रा द्र.
!रात्र- प्रसृ. रात्रि- द्र.
रात्रि, त्री^०- पाठ ४,६७; पा ४, १,
३१; -त्रय: ऋश्रौ २४,१०:
२०; २५, १: १५; वाधुश्रौ;
-त्रये शाश्रौ ९,२८,५१; बौश्रौ
१७,५:१०; -ऋंवि शाश्रौ
९,२८,१०; आश्रिण; या ९,
२९; -त्रि: आश्रौ १, २,
११; शाश्रौ; गौघ २५, १३^१;
ऋअ २, १०,१२^०; साअ १,
६०^१; निघ ५, ३१; या २,
१८^०; -त्रिमि: या १२, २३;
-त्रिम आश्रौ २, ३, १५^१;
काश्रौ; आपश्रौ १६, ११, ४^१;
वैश्रौ १८, ९: ६^१; हिश्रौ ११,
४, ५^१; कौघ ४, ३, २^१; पाण
२, १६, ५^१; अप ४, ५, ४^१;
या १४, ४; ८; -ऋत्रिम^०
-त्रिम^१ बौश्रौ १०, १४: १;
अप्राअ ४,४; अप ४^१; २, १५;

अअ १९, ५५; -त्रिया ऋश्रौ
३,४:८; २४,३०:११; माश्रौ;
-त्रिया: वाधुश्रौ ३,२६:३××;
माशि ११, ५^१; -त्रिये आपश्रौ
१५,१२,७^१; बौश्रौ; -त्रियु
शाश्रौ ४, १५, ८; वैश्रौ; -त्री
ऋश्रौ ६,११,६; ९, २८, १०;
काश्रौ ६,१५,९; ऋपाण ३,३,५;
४,१५; काण; अप २:४१^१; ऋया २,
१९; ४, ११; -त्री: आपश्रौ ६,
२८,५××; १९,१२,३^१; ७^१; बौश्रौ
हिश्रौ २३, २,१४^१; १८^१; बौपि;
१, ११:२^०; -त्रीणाम् आपश्रौ
१९,१२,४; ८; बौश्रौ १४,२१:
५^१; हिश्रौ २३, २, १५; १९;
-त्रीमि: बौश्रौ २०, १:१४;
तैपा ३, ७^१; -त्रीम् शाश्रौ १६,
१८,१५; १८, २३, १८; बौश्रौ;
शाण ४, १६, ४^१; बुदे ५, ७४^१;
-ऋत्रीम्-ऋत्रीम्^१ काश्रौ १६,६,
२१^१; माण १,५,४; -त्रे: आश्रौ
४,१३,१; आपश्रौ १८, ९,१०;
बौश्रौ; या २,१८; ३, १६; १४,
८; पा ४,१,३१; ५,४,८७; ६,
३,७२; पावा ६, ६, ७१; -त्री
शाश्रौ ७,१४,८; काश्रौ ४,७,१६;
२०,७,२७^१; बौश्रौ; वाध ६,१०;
१३××; शंघ १९१; ३०४; ३९०;
बौघ ४,५,६; ३०; विघ ४६, ७;
६०,२××; वैध^१ २,५,१; ९, २××;
गौघ ९, ३७; ४१××; या ३,१५;

a) पाठ: ?। = द्वां दशम्यवन्त्यतम-। अपु: २१९, २४ चाजनम् इति । b) व्यप.। c) = पङ्क्ति-।
व्यु? √राज् इति पाठ. अभा. शक. < √रज्, रज् इति MW.। d) विप. [रेखावती-] वसुतरी-
नाप. (कमल-मस्तक-). e) कस.। f) = सर्वव-विशेष-। g) वैप १ द्र.। h) तु. St.।
i) = इष्टका-विशेष-। j) सपा. ऋत्रिम् <> ऋश्रौ इति प्राप्ते.। k) = [उपचारात्] देवै-। l) प्राप्ते. वैप १
शुश्रिम्-ऋत्रिम् तै ४,१,१०,१ टि. द्र.। m) प्राप्ते. वैप. २, ३खं. रात्रिम् तै ४, १०, ४टि. द्र.। n) ऋत्रि इति
पाठ: ? यनि. शोघ: (तु. बौ ५,५,१)। o) प्राप्ते. पृ ३४७ II द्र.। p) ऋत्रि- इति पाठ: ? यनि. शोघ:
(तु. सप्र. मे २,७,७ प्रसृ., चौत.)।

४, १८; ६, १९; १४, १८; पाप
१, १, ३७; -व्या आश्रौ २, २,
६५; शाश्रौ २, ६, ८५; आपश्रौ ६,
१, ७५; बौश्रौ; बृदे ५, ७५^४;
-व्या: शाश्रौ ६, ११, ६; अप
१, २४, १; २; बृदे ८, ४४; अञ
१३, ४ (४)५; या ५, २८;
-व्याम् आश्रौ २, १८, ८; शाश्रौ
२, ६, ३; आपश्रौ; लाश्रौ ६, १०,
११^५; आश्रु १, १७, १३^५; हिष
१, ८, ३८^६; -५^५ आपश्रौ ६,
५, ६; काश्रौसं ३५: ९^{३०}; माश्रौ
४, ३, ४६^०; वैताश्रौ २२, ४^१.
! रात्र- -त्रम् वाश्रौ ३, १, ४३.
! रात्रा(त्र-अ)नुबन्ध-ता- -तया
निसू ३, ५: १४.
रात्रि-कर्मन्-> ०^५मिन्- -मिणः
बौश्रौ १५, १९: १०; १३; २२: २
१०; -मिणौ बौश्रौ १५, २२: ३.
रात्रि-कारित- -तः लाश्रौ ९, १२,
१६; निसू ८, १२: २५.
रात्रि-कृत- -तात् बौध २, ४, २१.
रात्रि-गोष्ण- पाउभो २, २, १२९.
रात्रि-चर- -रा: अप ५२, १, ३;
७०^३, ५, ५.
! रात्रि-देवता-> ०^५व्या, ल्या- -त्यम्
शुभ्र १, १८८; -स्या साभ १,
६०९; -स्याम् शुभ्र ४, १९.
२रात्रि-देव(त)>(ता^५- -ता गोष्ण
३, १०, १; -ताम् आश्रु २, ४,
१२.
रात्रि-नामन्- -म या ८, १०;
-मानि निष १, ७; या २, १८.

रात्रि-दिव- पा ५, ४, ७७.
रात्रि-पर्याय^५- -यः काश्रौ २०, ८,
१४; माश्रौ २, ५, ३, २७; वैश्रौ
१७, ४: ७; ५: ६; हिश्रौ ९, ७,
४३; ४४; -यम् आपश्रौ ६, ४,
१०^३; माश्रौ ६, ९, ८^३; -यस्य
बौश्रौ २६, २२: १५; द्राश्रौ ७, ४,
८; लाश्रौ ३, ४, ७; निसू ८, १:
१०; -या: निसू ३, ५: १७;
१८; अप्राय ६, ९; -५^५यात्
द्राश्रौ १५, ३, ३; लाश्रौ ५, ११,
३; -यान् शाश्रौ ९, १९, ४;
वाधूश्रौ ४, ३२: २२; लाश्रौ
६, ६, १५; -ये आपश्रौ १४,
४, १३; -येण माश्रौ २, ५,
३, १२; -येभ्यः बौश्रौ २१,
१९: ५; २६, २२: ११; -येषु
शाश्रौ ६, १३, १३x४; काठश्रौ
१६६; बौश्रौ २३, १३: २४;
-ये: आपश्रौ १४, ३, ९; २३,
१२; वैश्रौ १७, ४: २; हिश्रौ
९, ७, ३९.
रात्रिपर्याय-स्थान- -नम् निसू
३, ५: २४.
रात्रि-भृत- -भृतः बौश्रु ७: २०;
-भृतम् बौश्रौ १०, १२: २.
रात्रि-यज्ञ- -ज्ञस्य काश्रु ७१, १८.
रात्रि-श्रु(त)>ता- -तया काश्रौ
४, ११, १५.
रात्रि-शेष- -षम् आपश्रौ २०, १२,
१०; आश्रु ३, ७, १; -षे वाध
४, २५; विध २२, ३६; गौध
१४, ७; पावा ३, २, ११०.

रात्रि-वा(<सा)मन्- -म लाश्रौ
९, ७, १०^१; निसू ८, १: ३०;
८: २६^१.
रात्रि-संस्ताव- -वः बृदे ३, १०५.
रात्रि-सत्र- -त्राणि आश्रौ ११, ६,
१६; शाश्रौ १३, १४, ९; काश्रौ
२४, १, १; वैताश्रौ ४२, १२:
१५; -त्रेषु आपश्रौ १९, १५,
७; बौश्रौ १४, २२: २३; हिश्रौ
११, १, २; २३, ३, २७; लाश्रौ
८, २, १६; १०, ३, २०; निसू
९, ११: २८.
रात्रिसत्रन्याय- -चः निसू ९,
१०: १२; -येन निसू १०,
५: २^६, १९.
रात्रि-संध्या- -ध्वे शंघ ११६: ४९.
रात्रि-संबन्ध- -न्धात् मीसू १०,
५, १३^१.
रात्रि-सामन्^५- -म बौश्रौ १६, २५:
१५^१.
रात्रि-सूक्त- -क्तानाम् अप ४, ५, १.
रात्रि-स्तनित- -तः अप ६५, २, १०.
रात्रि-स्तव- -वम् ऋभ्र २, १०,
१२७.
रात्रि-हुत-शेष- -षम् काश्रौ २०,
५, १८.
रात्री-पूर्व- -र्वाणि अप १, ५, ५.
रात्री-सूक्त- -क्तेन शांश्रु ५, ५, ९.
राश्र्य^५- -व्याणि अप ४, ४, १.
राश्र्य(त्रि-अ)पाय- -यात् निसू ८,
११: १७.
राश्र्य(त्रि-अ)हस-संवासर- -रात्
पा ५, १, ८७.

a) = [उपचारात्.] देवी-। b) = साम-विशेष-। c) पामे. पृ १८७३ k द्र.। d) सपा. आपध १,
३१, १९ निशायाम् इति पामे.। e) पामे. वैप २, ३खं. रात्रियै तैश्चा ४, १०, ४ टि. द्र.। f) पामे. वैप १ रात्रियै
तैश्च, ४, १, १ टि. द्र.। g) बस.। h) वैप २, ३खं. द्र.। i) उप. बल्वं वैकल्पिकम् उरुसं. (पा ८, ३, ९८)।
j) सपा. 'त्रिषा' <> 'त्रिसा' इति पामे.। k) रात्र' इति प्राठः १। l) 'त्रिषाब्दसं' इति जीसं. प्रस.।
m) = रात्रि- सामन्-। n) तस्येदमीयः यत् प्र.।

रात्र्यु(त्रि-उ)पवास- -सः बौध २, ४, १६.

रात्र्यु(त्रि-उ)पाय^३- -यम् निस ९, १: ४९; -यात् लाश्रौ ८, १, १४; -ये लाश्रौ ८, १, १३.

रात्र्यु(त्रि-उ)षस्- -षसोः वृदे ३, १३८.

राथकारिक-^०कार्य- रथ-द्र.

राथन्तर- प्रथ. रथन्तर-द्र.

राथीतर-^०तरायण- २रथीतर-द्र.

?रादले अप ४८, २८.

रा(र-अ)देश- १२-द्र.

✓राघ्(बधा.)^० पाघा. दिवा. पर. वृद्धौ; स्था. पर. संसिद्धौ, ऋराघत् आश्रौ ४, ६, ३; शाश्रौ; राघाम शाश्रौ १२, २, १४^१.

राघ्यति आपघ १, १२, १२; द्विघ १, ४, १३; ऋराघ्यताम् शाश्रौ ४, ८, ३०; बौश्रौ^० १, १२: २६; २८; ३, १५: ५; ७; ९, १९: २४; २६; माश्रौ १, ७, २, २४^०; वाधूश्रौ २, ११: ७^०; आश्रिण्^० १, ५, ४: ३४-३७; बौग^० १, ५, १४^२××; भाग^० ३, ४: ९××; जैग^० १, १२: ६३-६६^०; कौसू २०, ६××; ५६, ६^०.

राघ्नोति आश्रौ ८, १३, १४; शाश्रौ १०, २०, २; राघ्नवन्ति आश्रौ ८, १३, १४; शाश्रौ १०, २०, २; या ४, ४; भाशि ८६^१; ऋराघ्नहि आपश्रौ २०, ३, ४; बौश्रौ १५, ४: १४; अराघ्नोत् वाधूश्रौ ३, २१: १; अराघ्नवन् आश्रौ ८, १३, १०.

रात्स्यति आग ४, ४, २-४; रात्स्यसि अत्र ११, ३(२)^१; रात्स्यामि वाधूश्रौ ४, २२: ३; रात्स्यामः आश्रौ ८, १३, १०^१; ऋराध्यासम् आश्रौ ८, १४, ६^०; शाश्रौ; आपश्रौ ४, ३, ४^०; ८, ४, ३^०; १३, ६, १२^१; बौश्रौ ५, ४: ३१^०; ८, ६: २^१; माश्रौ ४, ३, ७^०; माश्रौ १, ७, २, २४^०; वाश्रौ^० १, १, २, ६; वैश्रौ^१ १६, ७: ५; हिश्रौ ६, १, २७^०; १०, ४, ४६^१; कौसू ५६, ६^०; ऋरात्सीत् आपश्रौ २२, १६, ९; हिश्रौ १७, ६, ३३; ऋरात्सुः काश्रौ १२, ४, १८; आपश्रौ; ऋरात्सम् शाश्रौ ४, १२, १०^०; माश्रौ; ऋरात्सम् आश्रौ ८, १३, १५; १९; आपश्रौ.

राघ्यते वृदे ८, १८.
 ऋराघि आश्रौ १, ४, ९; बौश्रौ १, २१: ४^०××; वाधूश्रौ २, १२: २^०; बौग^० २, ५, ६७××; भाग^० ३, ५: ७××; जैग^० १, १२: ६७^०.

राघयामसि जैग^० १, २०: २१^१; राघयेत् हिश्रौ १२, ७, ५.

ऋराद्ध-द्धः काश्रौ ४, ८, ७; बौश्रौ २, १४: ९××; वैश्रौ १, ६: २; कौसू ५६, ७; -द्धम् कौसू ५६, ७.

राद्धि-द्धिः आश्रौ १२, १०, ४; द्राश्रौ; -द्धिम् आश्रौ १२, १०, ४; ऋद्राश्रौ १०, ३, ४^१; ११, २, ३; ऋलाश्रौ ३, ११, ३^१; ४, २, २; -द्धीः द्राश्रौ ११, १, ६;

लाश्रौ ४, १, ६.
 राध^१- -धेन कौसू १०६, ७^१.
 ऋराध-श्रुत्- -श्रुत् भाशि ५०.
 राधस्-^१- ऋधः आश्रौ ६, १२, २^१; शाश्रौ १२, १९, २; ३; आपश्रौ; अप ४८, ९०^१; निघ २, १०^१; या ४, ४; ६, २२; -धसः शाश्रौ १८, १८, ७^१; -ऋधसा आपश्रौ १४, १६, १^१; बौश्रौ ६, ७: २२; माश्रौ १०, ११, १४; हिश्रौ ८, ४, ४५^१; १५, ५, १; कौसू; अप्राय ६, १^१; या ११, २४^१; -ऋधसे आश्रौ ७, ८, ३; १०, ८; वैताश्रौ १६, १७^१; -ऋधांसि आश्रौ २, ८, ३; काश्रौ; या १४, ३५^१.
 ऋराधस्-पति^१-^०ते शाश्रौ १८, १५, ५; ऋद्रा १३, ३०; उसू ८, १९
 राधस्-व(त्>)ती- न्यः निसू ७, ४: ५२.
 राधो-गू(त्>)र्ति^१- र्तिः बौश्रौ ७, ५: १६^१.

राधे^१ अप १, ११, ३^१.
 राध्य^१-^०ध्याः शाश्रौ १५, २७, १^१.

राधा अप ५२, ५, ३.

राधि-(>धी- पा.) पाग ४, १, ४५.

राधीतर- रधीतर-द्र.

रा(र-अ)न्त^० १२-द्र.

रान्ध्य^१-^०न्धा वैशि ३२९.

राप्य- ✓रप्-द्र.

राभु-^०भुः या १४, ११.

शराम^१- पाग ४, १, ९६^१; -मः कप्र ३, १, १०^१; ऋभ २, १०, ११०^१; -मम् शंघ ११६: ४४^१.

a) उप. = आगम- । b) पा १, ४, ३९; ६, ४, १२३ पावा ६, ४, १२३; ७, ४, ५४ परामृष्टः द्र. ।
 c) परस्परं पाभे. । d) पाभे. वैप १, १०१५ द्र. । e) परस्परं पाभे. । f) वैप १ द्र. । g) पाभे. वैप १
 वृचैः वै २, ३, ४ टि. द्र. । h) = धन- । i) परस्परं पाभे. । j) बप्रा. । व्यु. ? < ✓रम् इति प्रायोवाद्. ।
 k) व्यप. । l) = दास्यरधि- । m) = [जायन्त्यन्तं परशुराम- ।

शरामराष्ट्रकान्वीतान् अप ५६, १, ७.
 रामा(स-त्र)यण^१ - पागम ३६०.
 रामि- पा ४, १, ९६.
 रराम->रामा^१ - मा वाध १८,
 १८; या १२, १३^१; -फाम्
 आपश्रौ १५, १२, १३; १७, २४,
 २; बौश्रौ; वैश्रौ १३, १५: २१^०;
 या १२, १३.
 फरराम, मा^१ - म: आपश्रौ १५,
 १२, १३^१; बौश्रौ १, १२: २६^१;
 भाश्रौ ११, १२, २०^१; वैश्रौ १३,
 १५: २^१; द्विश्रौ २४, ५: ७^१;
 काय ६३, १९^०; कायउ ४१:
 २०^०; विध ७३, २६^०; -मा
 जैय २, १: ३७^०.
 रामक^१ - क: वाध १८, ४.
 रामठ- पाउ १, १०१.
 रामोद^१ (> दायन- पा.) पाग ४,
 १, ११०.
 राम्या- √रम् द्र.
 रायत्- √रै द्र.
 रायस्- प्रभृ. रै- द्र.
 राराक-, क्य- रराका- द्र.
 रावण- √र द्र.
 रावणि^१ (> गायन- पा.) पाग २,
 ४, ५९; ६१.
 √राश् √रास् टि. द्र.
 शराशि^१ - पाउ ४, १३३; पाग २,
 १, ५९; -शि: अप ३६, १५, १;
 ४७, १, ११; -शिमू वाध २१,
 २५; फूकूपा ८, २३; २७;
 -शौ द्विश्रौ ३, ८, ६४.

राशि-कृत- तम् बौश्रौ १८, ४८:
 १८^१; २३, १८: ३९; २६,
 ३३: १६.
 राशि-पल्य^१ - ल्याणि कौसू २५,
 २६^१; -ल्येषु कौसू २१, २.
 रराशि^१ - शि: बौश्रौ १८, ४८: १८.
 राशि-मराय- -यम् जैश्रौ २२:
 ५; -ययो: आश्रौ १, ८, २२;
 वैताश्रौ ४०, ३; -यौ शांश्रौ
 १४, ३९, १; बौश्रौ १८, ४८: १७.
 राशि-मरायु^१ - यू आपश्रौ २२,
 ११, १४.
 राशि-वैराज-सं(ज्ञा>)ञ-
 -ज्ञयो: जैश्रौका २०.
 रराशि^१ - शि: वेज्यो १३; -शौ
 आमिगृ २, ५, ४: १०.
 राष्ट्र^१ - पाउ ४, १५९; पाग २, ४, ३१;
 -ष्टम् शांश्रौ १४, ५०, १; काश्रौ
 ५, १३, १^१; आपश्रौ; -ष्टस्य
 बौश्रौ १७, ४१: २१^१; निस्
 ५, १२: ९; आपमं; -ष्टाणि
 आपश्रौ ५, ७, १७^१; बौश्रौ;
 -ष्टात् शांश्रौ १५, १६, १७;
 बौश्रौ १४, १७: २०; कौगृ;
 -फूष्टाय आश्रौ ४, १२, २^१;
 आमिगृ १, १, २: ४७; द्विगृ १, ४,
 ८; जैगृ १, १२: ७; -ष्टे शांश्रौ
 १२, १७, १^१; आपश्रौ; -ष्टेण
 बौश्रौ १४, १७: ४; ९; १३;
 आपमं १, ८, ७^१; -ष्टेषु अप ३,
 ३, ७; ५०, ४, ७; ७१, १५, १;
 वाध ३, १२.

राष्ट्र-काम- -माय बौश्रौ १४,
 १७: १^१.
 राष्ट्र-जिवांसु- -सु: द्राश्रौ ३, ३,
 १८; लाश्रौ १, १०, १३.
 फर्राष्ट्र-दा^१ - दा: आपश्रौ १८,
 १३, २०^१; बौश्रौ १२, ८: ७××;
 द्विश्रौ १३, ५, ११; १३^१.
 राष्ट्र-नाश- -शाय अप ७०^१, ११, २९
 राष्ट्र-पति- पाग ४, १, ८४;
 -ति: काश्रौ ५, १३, १^१.
 राष्ट्र-पत- पा ४, १, ८४.
 राष्ट्र-भय- -यम् अप ५८^१, ४, ९.
 राष्ट्र-भृत्^१ - फूभृत् बौश्रौ १७,
 ४३: ८; आपमं; -भृत्: काश्रौ
 १८, ५, १६^०; आपश्रौ १७,
 १०, २^१; १९, १२^०; १९, १७,
 १८^०; बौश्रौ फर, ११: १७;
 १३: ६; १०, ४६: ११^१;
 ५४: १३^०; १४, १६: २५^०××;
 माश्रौ ६, २, ५, ३२^०; वाश्रौ २,
 २, ४, १३^०; -भृताम् वाश्र
 ३८: ७; -भृत्तय: आमिगृ १,
 ६, ३: ५८.
 राष्ट्र-भंश- -शाम अप २, ५, २.
 राष्ट्र-मर्यादा- -दायाम् आपश्रौ
 १, १२, ५; वैश्रौ २०, २५: ७.
 राष्ट्र-वर्धन- -न: बौश्रौ १८,
 १७: ३^१.
 राष्ट्र-विद्रव- -व: अप ६४, ८, ६.
 राष्ट्र-विभ्रम- -म: बौश्रौ २९, ८: १.
 राष्ट्र-संवर्ग^१ - गै: अप १९, १,
 ६.

a) =ग्रन्थ-विशेष-। b) वैप १ द्र.। c) मम् इति पाठः! यनि. शोधः (तु. आपश्रौ. प्रभृ.)।
 d) =श्रद्- इति भाष्यम्। e) =कृष्ण-शकुनि-। f) =(वैश्याद् ब्राह्मणयो जात-) जाति-विशेष-।
 g) व्यप.। h) श्रौ इति मूको.। i) =धान्य-राशि-। मलो. कस.। j) णि इति संस्कृतिः टि.। k) =एकोद्-
 विशेष- वा साम-विशेष-वा। l) एकाहयोः द्वस.। m) नाप. (मेषादि-).। n) =सपा. तै ४, ४, १२, ३ मै
 ३, १३, ४ पै १५, १, ७ तु चत्राणि इति. पाभे.। p) =होम-विशेष-। q) =इष्टका-विशेष-। q) पाभे. वैप १,
 २४, ५५ b द्र.। r) =अथर्ववेदीय- परिशिष्टाऽन्यतम्- इति MW.।

राष्ट्र-संप्लव- -वम् अप ७१,
९,४.
राष्ट्रा(स्र-अ)वगमन- -नम् कौस्
१६, २७.
राष्ट्रीय- पा ४, २, ९३.
राष्ट्रीय^२- -यः माश्रौ ५, १, ७,
४८.
राष्ट्र- > ऋराष्ट्रि, ष्ट्री^१ - ष्ट्रिः
गोष्ट्र ४, १०, १२; द्राष्ट्र ४, ४,
१५; -ऋष्ट्री आश्रौ ४, ६, ३;
शाश्रौ ५, ९, ६; १८, १,
२; ष्ट्राष्ट्रौ^० ४, ८९: २४;
२८; अप ४८, ११४^०; निघ
२, २२^०; या ११, २८; शैशि
६२.
✓रास्^० पाधा. भ्वा. आत्म. शब्दे.
रासभ^२- पाउ ३, १२५; -भः
काश्रौ १६, २, ४; ३, ११;
बौश्रौ; -भम् आपश्रौ १६, २,
२१; बौश्रौ; पाग ३, १५, ६;
भाग २, ५: ३; -भस्य अशां
१५, ५; -ऋभौ अप ४८, ९४;
निघ १, १५.
रासभ-करभ^२- पाग २, २, ३१.
रासभे(भ-इ)न्द्र- -न्द्रेण अप १,
३१, ८.
रासभे(य >)थी^२- -थी शुभ
२, ४६.
रासायनि- २रस- द्र.
रा(स्न>)स्ना^२- पाउ ३, १५;
-ऋस्ना काश्रौ २, ७, १; १६,
३, २९; २६, ५, ३; आपश्रौ;

-स्नाम् आपश्रौ १५, ३, ३; १६,
५, १; बौश्रौ; -स्नायाः आपश्रौ
१६, ५, २; माश्रौ ६, १, २, १०;
वाश्रौ २, १, १, ३८; हिश्रौ ११,
१, ५६
रास्ना-व^२- -वम् काश्रौ २, २, ५.
रास्ना-वत्- > वत्-परिग्रीवा- >
°विन्^१- -वि बौश्रौ ७, ६: ३६.
रास्ना-संधि- -धिषु बौश्रौ १०,
५: १८.
रास्प- > °स्पिन्^२- -स्वी या ६,
२१.
रास्पिन^२- -नः निघ ४, ३१; या ६,
२१^०; -नस्य या ६, २१^१.
राहक्ष, क्षि^१ति^१- पा, पाग २, ४,
५९^३.
?राहस- -सम् गौपि २, ४, ७.
राहु^२म- पाउ १, ३; -हवे आमिष्ट
२, ५, १: २०; ३१; -हुः वैष्ट ४,
१३: ३; जैष्ट २, ९: २०; कौस्
१००, २१; अप ५१, १, ४;
५२, ११, ५××; -हुणा अप
७०^३, ११, ४-६; -हुम् वैष्ट १,
४: ११^१; जैष्ट २, ९: ६; १०;
शंघ ११६: ४८; बौध २, ५,
२३^१; -होः आमिष्ट २, ५, १:
१७; ३६; ४६; वैष्ट ४, १४:
१३; जैष्ट.
राहवि- पा, पाग २, ४, ५९.
राहु-केतु- -त् आमिष्ट २, ५, १: ११.
राहु-केतु-वानैश्वर- -नाः अप ६८,
१, ४.

राहु-वात- -तः अप ५१, ५, १.
राहु-चन्द्र^१- पाग २, २, ३१.
राहु-दर्शन- -नम् विघ ७७, ८;
-ने शंघ ४६.
राहुदर्शन-दत्त- -त्तम् विघ ७७, ९.
राहुदर्शन-वर्जम् विघ ६४, ७.
राहु-निपीडित-मण्डल- -लः अप
७०^३, ११, ३.
राहु-युत्र- -त्राः अप ५२, ७, ५; ८,
१; ६४, ७, ३.
राहु(हु-उ)शनस^०- -नसौ अप ५१,
२, १.
१-२राहूगण- , ण्य- रहूगण- द्र.
राहोगण- , ण्य- राहोगण- द्र.
राह- २रह- द्र.
✓रि, री^१ पाधा. दिवा. आत्म.
श्रवणे^१, स्वा. पर. हिंसायाम्:तुदा.
पर. रातौ, ऋवा. पर. गतिरेषणयोः
ऋरिति अप ४८, १९.
ऋरीयते आष्ट १, ८, २; काष्ट ४,
६; १३××; निघ २, १४.
ऋरिगाति निघ २, १४; या १४,
२४; ऋरिणाः आश्रौ ८, ३, २७;
शाश्रौ १२, १६, १; वैताश्रौ ३२,
३०.
रोति^२- -तिः आपश्रौ ५, २३, ९^१;
-तिम् आपश्रौ १७, ६, ७; ९;
१९, १४, ११; १२; हिश्रौ २३,
३, ९; १०.
रीति-वाद- -दः आपश्रौ १६,
२१, ९; वैश्रौ १८, १६: ४२;
हिश्रौ ११, ७, १०; बौश्रु ६: १९

a) वैष १ द्र. । b) विप., नाप. (तु. नू-> नारि, रो-) । c) = वडवा । d) ईश्वर-
नामन्. । e) ✓राश इति [पक्षे] BFG. । f) तु. पागम. । g) = ऋच्- । साऽस्य देवतीयषु ढक् प्र.
उत्सै. (पा ४, २, ३३) । h) मत्वर्थीयो वः प्र. (पावा ५, २, १०९) । i) = रात्ना-व. । j) भाप. । व्यु. ?
✓रि वा ✓स्स वैति ? । k) = स्तोत्र- । मत्वर्थीयः प्र. । l) व्यप. । व्यु. ? । < राह-क्ष [क्षि]न-
इति पागमं. । m) राहक्षिति- इति पाका. । n) व्यप. (पाग.), नाप. (ग्रह-विशेष) । o) उप. = शुक्र-ग्रह- ।
p) पा ७, ३, ३६ या ३४, २४ परामृष्टः द्र. । q) स्रवणे इति PW. ।

रीती √भू>रीती-भूत^a-न्ताः
पाठ ३,१०,२३.
†रीत्या(ति-आ)प^b- न्यापा
आश्रौ १,९, १; शाश्रौ १, १४,
५; उसू ८,२९.
रेरिवन्^c- वा बौघ २,५,२४.
†रिक्त्^d-क्का अप ४८,८३; निघ
३,२४.
रिक्षा^e- पावाग ८,२,१८.
√रिख् पाधा. भ्वा. पर. गतौ > रेखा^f-
पाग ३,१,२७; ३,१०४; पावाग
८,२,१८६; -खाः वैश्रौ २०,
३९:१०; हिश्रौ १,६,५७; वैश्र १,
९:४;६; आपध २, १, १३^h;
-खाम् कौश्र १, ३, २; जैश्र १,
१:२; २, २: २; -खायाम्
शंघ ५४; -खासु आधिग २,६,
१:८.
‡रेखान्तरापुसाराणि अप ५३,
१,४.
√रेखाय पा ३,१,२७.
√रिङ्ग् पाधा. भ्वा. पर. गतौ.
√रिच् पाधा. रुधा. उभ. विरेचने; चुरा.
उभ. वियोजनसंपर्चनयोः; †आरि-
णक् ऋप्रा २,७७; उसू २, ७.
अरिचत् या २, १९; २०; †आरैक्
मागृ २,७,५; या २, १९; २०;
३,६; ऋप्रा.
रिच्यते या ३, २.
रिक्त्, का- †क्तः आपध १, १०,
८; हिध १, ३, ३७; -क्तम्
आपश्रौ १२, ११, ५; माश्रौ
१,२,२,९; २,५××; -क्ताः गो
२, २२; आज्योⁱ ६, ८; १०;

-क्ताम् काश्रौ १७, १, २०;
आपश्रौ; आज्यो ६, १२^j;
-क्तायाम् आज्यो ७, ४^k; -क्ते
पा ६,१,२०८.
रिक्त्-कुम्भ- -म्भम् कौसू ८४,
९; -म्भान् अप १, २६, ४^l.
रिक्त्-गुरु- पा ६,२,४२.
रिक्त्-पाणि^m- -णिः अप २८,
१,४; आपध १,१५,७; हिध १,
४,६६.
रिक्त्ता-पर्वन्ⁿ- -वर्णी वैश्र २,
१२:१.
रिक्थ^b- पाठ २, ७; -क्थम् अप
४८,९०^o; शंघ २७१; २९२;
बौध; -क्थयोः शाश्रौ १५,
२७, १^o; -क्थस्य वाध १९,
३६; वृदे ४,१११.
रिक्थ-ऋय-संविभाग-परिग्रहा-
(ह-अ)धिगम- -मेषु गौघ १०,
३८.
रिक्थ-आहिन्- -हिभिः विध
१५, ३३; -ही विध ६, २९.
रिक्थ-पिण्ड- -ण्डौ शंघ २९१.
रिक्थ-पिण्डो (एड-उ)दक-
-कानि शंघ २९९.
रिक्थ-पिण्डो (एड-उ)दक-यज्ञ-
-ज्ञेषु शंघ ८५.
रिक्थ-प्रतिषेध- -धे या ३,५.
रिक्थ-भाग- -नाः शंघ २७१;
२७४.
रिक्थ-भाज्- -भाक् गौघ २८,
२९; -भाजः बौध २, २, ३१;
गौघ १२, ३७; २८, ३३.
रिक्थ-मूल^p- -लम् शंघ २७०.

रिक्थ-लोभ- -भात् वाध १७,
६५.
रिक्थ-विच्छित्ति- -त्तिः सुधप
८८:२.
रिक्थ-विभाग- -गः शंघ २७०.
रेक्णस्^q- पाठ ४, १९९; -†क्णः
अप ४८, ९०; निघ २, १०; या
३, २६; ऋप्रा १६, ३३.
रेक्णस्-व(त>)ती- -ती या
११, ४६^r†^o.
√रिङ्ग्, रिङ्गति अप ४८, २^o.
√रिघ्^s, रिघ्यते, रिघ्यति आज्यो ५,
१०.
√रिप्^t>†रिप्- रिप.^m अप ४८,
७२; निघ १, १.
रिपु^b- पाठ १, २६^u; -पवे मागृ २,
१६, ३^o; -†पुः आपश्रौ ६,
१७, १०; †भाश्रौ ६, ४, ४;
हिश्रौ; -पुणा आपश्रौ १७, १८,
१^o; -पुस् आश्रौ ७, ११, २१^o†;
-पून् माश्रौ १, ६, २, १७^o†; अप
३६, १२, १; -पोः अप ३१,
९, ४; -पौ विध ३, ७४.
रिपु-नय- -यम् विध ३३, १.
रिपु-मित्रा(त्र-अ)र्थसंबन्धि-वि-
कर्म-दृष्टदोष-सहाय- -याः विध
८, ३.
रिपु-संधि-कार्य- -र्यम् आज्यो
८, ५.
†रिस- -सम् आश्रौ ३, ९, ५^o;
आपश्रौ १९, ८, ११; हिश्रौ २३,
१, ३८.
रिस-लेप- -पम् आपश्रौ ८,
१६, ८.

a) = पङ्क्ति-बद्ध- । b) वैप १ द्र. । c) वैप २, ३खं. द्र. । d) नाप. (चौर-). व्यु. † < √रिप्
इति दे. । e) = लिखा- । f) = पङ्क्ति- । g) तु. पागम. । h) सपा. रेखा: <> लेखा: इति पाठो. ।
i) = तिथि-विशेष- । j) बस. । k) द्रस. पूप. = तिथि-विशेष- । l) = √कृष् । m) वैष १
२९६५ इ. द्र. । n) < √रिप् । o) शिष्टम् इति आन. ।

रिप्र^३- पाउ ५, ५५; -प्रम् आपश्रौ
७, ४, ५१; बौश्रौ; या ४, २१;
-प्रप्राणि आपश्रौ ९, ३, २२;
हिश्रौ १५, १, ७१.
ःरिप्र-वाह^३ -हः काण्ड ४५, ६;
माण्ड २, १, ८.

रेपस्^३- पाउ ४, १९०.

√रिफ्^३ पाधा. तुदा. पर. °कथनयुद्ध-
निन्दाहिंसादानेषु, रेफत हिश्रौ
१, ७, ४०१^३.

√रिफ्^३, रिफ्यते आश्रौ १, ५, १०.

रिफित- -न्तः शाश्रौ १, २, ९;
शुप्रा १, १६०; उस् ७, ११;
-त्तम् शुप्रा ४, १९; -तात्
शुप्रा १, ३३; -तानि ऋप्रा १०,
२२; २३; -ते शुप्रा ४, १९५.

रेफ^३- पाउ ५, ५४; पावा ३, ३,
१०८; -फः अप ४७, २, ५;
ऋप्रा ४, ८६; ६, ८; १२, ४; ८;
१३, ३४; तैप्रा २१, १५; ऋत
२, १, ८; अप्रा ३, १, १; ३, २;
शौच १, ६६; २, २९; ४२;
बौशि १९६; २२०; पाशि १४;
माशि १०, १; ४; याशि २,
४६; ९४; कौशि ७८; आशि
१, १७; नाशि २, २, १५; ३, ४;
४, ७; ५, ४; ६, ३; ६; ७; -फम्
शाश्रौ १, २, ९; अप ४७, ३,
१; २; ऋप्रा १, ४६; ४, २७;
३९; ६९; ६, १७; ११, ४१;
शुप्रा ३, ३९; १४१; तैप्रा ५,
१०; ८, ६; २०; ९, २०; बौशि

२८७; माशि ८, ९; १०, ३३;
-फस्य अप ४७, २, ४; शौच
१, २८; ६४; २, १९; कौशि
७७; पावा ८, २, १९; पाप्रा
५, ४; -फात् ऋप्रा ६, ४; ४६;
तैप्रा १४, ४; शौच १, ७१;
१०१; भाशि १५; ११४; -फे
ऋप्रा १, ९८; १४, २६; शुप्रा
४, ३५; तैप्रा २, ४१; शौच २,
१९; माशि ८, ८; ११, १०;
१२, ४; याशि २, ४९; नाशि
२, २, ६; -फेण ऋप्रा १२, ८;
उस् ७, १०; ११; शुप्रा ३, ४९;
७, ९; कौशि ५१.
रेफ-ग^३- गः भाशि ९०.
रेफ-नकार(र-आ)दि- दिः
अप्रा ३, २, ३०.
रेफ-निमित्त-संशय- -यात्
ऋप्रा ११, ७.
रेफ-पर^३- -रः तैप्रा ५, २९; ८,
७; १६; १४, १९; -रस्य शौच
२, १०६.
रेफ-पूर्व^३- -र्वम् ऋप्रा १४, ४०;
-र्वयोः तैप्रा १४, ६.
रेफपूर्व-क^३- -काः आशि १,
१९.
रेफ-प्रकृति- -तिः अप्रा ३, १, १^३.
रेफ-मध्य- -ध्ये अप्रा ३, २, ९;
१०.
रेफ(फ-ऋ)कार(र-ऋ)कार-
पर- -रः ऋप्रा ५, २३.
रेफ-लकार- -रौ शुप्रा ४, १४८.

रेफ-लोप- -यः उस् ६, १; ४.
रेफ-चत्- -न्तः ऋप्रा १४, ३१;
-न्ति माशि ८, ८.
रेफ-वर्जम् ऋप्रा ४, ७.
रेफ-वर्जित- -न्ताः आशि ६, ११.
रेफ-शकार- > शी- -री
माशि ९, १३.
रेफ-षकार- -रयोः माशि ९,
१३; याशि २, १४.
रेफ-संधि- -धयः ऋप्रा ४, २७;
-धिम् ऋप्रा १५, १२.
रेफ-सहित- -न्तम् उस् ६, ८;
-तात् उस् ६, ७^६.
रेफ-हकार- -नाभ्याम् शुप्रा ४,
१०२; -रौ शौच ३, ३१.
रेफहकार-क्रम-ज- -जम्
शौच १, ५८.
रेफ(फ-आ)दि- दिः निस् ८,
६; ४३; अप्रा ३, २, १९.
रेफ(फ-अ)नुस्वार- -रे माशि
१२, ५.
रेफ(फ-अ)न्त^३- -न्तः अप्रा
३, २, २६.
√रेफाय, रेफायति वैट् २, ११;
९; हिट् १, १०, ३; आप्य २,
१४, १३; हिष २, ३, २४.
रेफित, ता^३- -न्तः माशि ७, ३;
-त्तम्, -ता माशि ८, ८.
रेफिन्- -फी आश्रौ १, ५, ११;
ऋप्रा १, ७६; ४, २७; ३१.
रेफो(फ-उ)द्वय^३- -यः ऋप्रा ४,
२८.

a) वैप १ द.। b) √रिह इति [पक्षे] BPG.। c) कथन° इति BPG. PW.। d) सपा.
वाश्रौ १, ३, ३, १ रेभत इति पाप्मे.। e) १र- + डिफः प्र. उभं. (पावा ३, ३, १०८) > √रिफ- (रेफ-)>यनि.
रकाशेचारयो नाधा.। f) भाप. > नाप. (वैट्. पावा [३, ३, १०८] १र- + इफः प्र. इति, शुप्रा [१, ३९] १र- +
एफः प्र. इति, पाउदु [६, २३] √रा + इफः प्र. इति)। g) उप. < √गम्। h) बस.। i) णि° समस्त
इत्त पाठः? यनि. शोधः (तु. संस्कृतः दि.)। j) विप. (स्वरभक्ति-) अर्थाद्यजन्तात् स्त्री. ङीष् प्र. उभं.
(प्रा. ४, १, ४१)। k) सं इति Pertsch.। l) इत्त् प्र.।

रेफो(फ-उ)प(घ>)घा^३- -धाम्
ऋप्रा ६, ५१.

रेफो(फ-रज्)ष्मन्- -ष्मणाम्
माशि १०, २; आशि ६, १३;
-ष्मणोः ऋप्रा ४, १५; -ष्मसु
आश्रौ १, २, १८; ऋत ४, ४,
१३; शैशि २७४; नाशि २,
४, ४; -ष्माणौ ऋप्रा ५, ५६.

रेफोष्म-पर^३- -रः तैप्रा १३,
२.

रेफोष्म-संयोग- -गे तैप्रा
२१, १५.

रेफो(फ-रज्)ष्म-यकार-भाव-
-वात् तैप्रा १५, १; १७, ४.

√रिष् (बधा.) ङरिभत्^३ अप ४८, ९;
निघ ३, १४; रंभत् वाश्रौ १,
३, ३, १^०.

रिभ्यत् वृदे ३, १६.

ङरिभ्वन्^३- -भ्वा अप ४८, ८३;
निघ ३, २४^०.

ङरिभत्- -भम् विघ ४८, ६; या
१४, १३.

रिंसत्- , रिंसु- √रस् द्र.

√रिञ् (बधा.) पाधा. तुदा. पर.

हिसायाम् > रेवाय^३- > ष्य-
दारिन्^३- -रिणः^३ या ६,
१४.

ङरिशाद्स्^३- -दसः शाश्रौ १२, २,
१४; २०, २६; -ङरिदसः अप
४८, ११५; अप्रा ३, ४, १; निघ
४, ३; या ६, १४^०; -इसा

आश्रौ ५, १०, २८; शाश्रौ ७,
१०, ११; -दाः अप्रा ३, ४, १.

रिड्य^३- -श्यस्य अत्र ५, १४^०.

ङरिष्^३ पाधा. भ्वा. दिवा. पर.

हिसायाम्; रिष्यति आपमं
१, ६, ११; वौगृ १, ५,
४; अयः रिष्यतः मागृ १,
२, १३; रिष्यसि आपश्रौ ७,
१६, ७; रिष्यथः माश्रौ ५, २,
१३, १; रिष्यथ माश्रौ ५, २,
१३, १; रिष्यात् वौश्रौ ३,
१६: २८; भाश्रौ; हिश्रौ १, ६,
९१^३; रिष्यतु वौश्रौ २, ५: २६;
ऽरिष्येत मागृ १, १३, १७;
वागृ १५, १३; रिष्येत्^३ आपश्रौ
११, ५, १; वौश्रौ १, ११:
२७; ६, २३: ४; भाश्रौ २,
२, ६.

रिषत् आश्रौ २, ५, १७; शाश्रौ
१२, १५, ४^३; आपश्रौ; कौसु ३, ३,
९^३; रिषः आपश्रौ ९, १८, १;
वौश्रौ ८, २०: १२; माश्रौ; रिषन्
द्राश्रौ ७, ३, ५; रिषम् आपश्रौ
१, ३, १४^३××; वौश्रौ १,
२: ११^३××; भाश्रौ १, १, १२^३;
५, १^३; वाश्रौ १, २, १, १८^३;
हिश्रौ १, २, ३४^३; २, ७, ५^३;
आसिगृ ३, ८, २: ३०; वौपि
१, १५; ३९; वागृ १४, २३;
रिषाम् > मा आश्रौ २, ५, ९;
आपश्रौ ६, २, २××; वौश्रौ.

रीरिषत् अप्राय ६, १; ऋप्रा
९, ५०; भाशि १०; रीरिषुः
मागृ २, १६, ३^३; रीरिषः
आश्रौ ३, १४, १३; आपश्रौ
९, १६, ११××; २१, ४,
१; भाश्रौ; या १०, ७;
११, ७; रीरिषत् आपश्रौ १४,
१६, १; वाधुश्रौ ३, ४: १२;
हिश्रौ; रीरिषीष्ट ऋप्रा ९, ४७.

ङरिष्^३- रिषः हिश्रौ १०, २, ६५;
द्राश्रौ ६, ४, ८; लाश्रौ; रिषे
आश्रौ ६, १२, २; या १०,
४५^०.

रिषण^३- > √रिषण्य^३, रिषण्यति
पा ७, ४, ३६; रिषण्यः आश्रौ
३, ७, १०^३; ङरिषण्यत् कौगृ
२, २, ९; शांगृ २, २, १४; मागृ
१, ७: १२^३.

रिष्ट- -ष्टे आपगृ ६, ४.

रिष्ट-इ- -दस् अप ६९, ५, ५.

रिष्टि^३- पाउभो २, १, १८९; पाग
४, २, ८६^३; -ष्टिः वाधुश्रौ २, ९;
४; पागृ ३, १४, १४; मागृ १,
१३, १५^३.

रिष्व- पाउ १, १५३.

ङरी (<रि)षत्- -षतः ऋप्रा ९,
४७; -षते मागृ २, १६, ३; ऋप्रा
९, ५१; -षन्तम् ऋप्रा ९, ४६.
रेषण^३- -णाय या १०, ४५; -णे
आपगृ २२, १८^३.

ङरिह् (बधा.)^३, रिल्हि या १०, ४६.

- a) वस. । b) धा. अर्चयामि वृत्तिः । c) पाभे. पृ २०७७ d) द्र. । d) = स्तेन- । धा. चौथै वृत्तिः ।
कनिष् प्र. (वैतु. दे. <√रम्) । e) रिह्वा इति मूको. । f) कर्तरि शः प्र. उसं. (पा ३, १, १३८) । g) उप.
<√वृ [विदारणे] (तु. PW. प्रभृ.) । h) श्वदासिनः इति दु. तत्र ष्यत्-आ^३ इति तदीयोऽवग्रहः । i) वैप १
द्र. । j) पा ७, २, ४८ परामृष्टः द्र. । k) पाभे. वैप २, ३खं. रिष्येत् तैप्रा ३, ७, ७, १३ टि. द्र. । l) सकृत् षन्
इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. सपा. ऋ १०, १७, २०) । m) पाभे. वैप १, १०१८ ॥ द्र. । n) षे^३ इति
पाठः ? यनि. शोषः (तु. ऋ ८, २०, १) । o) करणे भावे वा कृत् । p) पृ १९९९ ॥ द्र. । q) भाप. ।
१) √रिफ् टि. द्र. । धा. अर्चनास्वादनयान्वासु वृत्तिः ।

रिहिद्द्वि अत्र ४८, १२; निघ
३, १९.

रिहति निघ ३, १४; रिहन्ति
या १०, ३९७; रिहन्तु हिश्रौ
२, ४, २२.

रिहा^४ हिश्रौ २, ४, २२१.

रिहाण, ग^० - ग्नाः आपश्रौ ३, ६,
१; बौश्रौ १, १९ : २०; भाश्रौ;
-णे या ९, ३९१.

रिहत् - हत् सुप्ता ३, १२९.

रेहाण - ग्नाः आपश्रौ १२, १७, ३.

रिहायस् - याः निघ ३, २४०.

रिहन् - ह्ना^० अत्र ४८, ८३१.

√री, रीति - प्रघृ. √रि द्र.

√रु^६ पाधा. भ्वा. आत्म. गतिरेषणयो;
अदा. पर. शब्दे, र्वत् आपश्रौ
३, ३, १; शाश्रौ ५, १७, ९.

रौति वैश्रौ १०, १३ : १३; हिश्रौ
४, ३, ५५; अत्र ४८, ९१^५; निघ
३, १४^५; या १०, ५; रू, रू

यात् आपश्रौ ८, ११, २०; भाश्रौ
८, १३, ८; भाश्रौ १, ७, ५, ३०;
वाश्रौ १, ७, ३, २२; हिश्रौ ५,
३, ३८.

रुह्वे बौश्रौ १८, ४५ : ७.

रावयन्ति आपश्रौ २, १८, १२.

रोरुयते सु २२, ४; या १०, ४६.

रौरोरुवति आपश्रौ ५, १७, ४;

हिश्रौ ३, ४, ४८; या १३, ७७;

रोरुवन्ति अत्र ७०^३, ६, ५.

रुव^० - र्वम् आपश्रौ १२, १५, ६;

हिश्रौ ८, ४, २१; -वेण बौश्रौ

१८, १ : १५^१; वृदे २, ३६;

४३; -वैः आमिण् ३, १०, ४ : ६.

रवण- पाउ २, ७४; पाग ४, १,
११२^६.

रावण- पा ४, १, ११२; पा, पाग
५, ४, ३८^१.

रवत् - त्ते आपश्रौ ८, ११, १९^५;

२१; भाश्रौ ८, १३, ७^५; ९; हिश्रौ

५, ३, ३७^५; ६, ८, ८.

रवथ^० - पाउ ३, ११३; -थे बौश्रौ

५, १० : २४^५; भाश्रौ १३, १, १५;

लाश्रौ ५, १, १३.

रवमाण- -णे शाश्रौ ४, १७, १२.

रवाण^० - -णे भाश्रौ २, १८, १०.

रुत- -तम् अत्र ७२, ५, ५; -त्ते काश्रौ

५, ६, ३२; कौस् १४१, ३९.

रुवत् - वति माश्रौ १, ७, ५, २९^५;

-वन् वृदे २, ५९.

रुवथ- पाउ ३, ११५.

रोरवण- -णम् या १३, ७.

रौरोरुवत्^० - वत् वृदे ७, ३२; या

५, १६७.

रोरुयमाण- -णः बौध १, ५, ८६;

या ५, १६; १०, ५.

√रुंश, सु पाधा. चुरा. उभ. भाषा-
याम्.

रुक्-काम- प्रघृ. √रुच् द्र.

रुक्त् - पाउवृ ३, ६६.

रुक्त्^० > (> रौक्ष्य- [> रौक्ष-]

पा.) पाग ४, १, १०५; २, १११.

रुक्त्^० - क्षाः अत्र ६३, ४, ९.

रुक्त्-वाच्^१ - वाक् माशि १२, ६.

रुक्त्^० > रौक्षक- -०क बौश्रौप्र

३४ : २; -काः बौश्रौप्र ३४ : १.

रुक्त्-वत् बौश्रौप्र ३४ : २.

रुग्ण- √रुच् द्र.

√रुच्^० पाधा. भ्वा. आत्म. दीप्तावभि-

प्रीतौ च, रोचते आपश्रौ ९, १२,

९; बौश्रौ; अप ७०^३, ६, ५; ९, ३;

वाध ३, ६९; रौरोचन्ते बौश्रौ

१५, २४ : २; आपमं १, ६,

२; रोचसे अत्र १३, २१;

रौरोचत आश्रौ ८, १०, ३;

शाश्रौ १०, ११, ९; भाश्रौ ५,

१, २, १२; या ७, २३; अरोचथाः

बौश्रौ २, १६ : ४१.

रुह्वे भाशि २२१; रोचासम्

जैग १, १८ : १५१.

रोचयते माश्रौ ४, २, ३०;

रोचयति बौश्रौ १०, ४६ : १६;

रोचयतः बौश्रौ ९, ८ : १२;

रोचय आपश्रौ ६, ६, ८१;

रोचयेत् बौश्रौ २२, ८ : ३४.

रौरोरुवत् - आश्रौ ४, ६, ३;

शाश्रौ ५, ९, २५; बौश्रौ;

अरोचयिष्यत निस् ८, १३ : ३९.

रुक्त्^० - पाउ १, १४६; -क्मः आश्रौ

९, ४, १६; शाश्रौ ३, १८, ६१;

काश्रौ; -क्मम् काश्रौ १५, ५,

२६ × ×; आपश्रौ; -क्मस्य बौश्रौ

१०, २२ : १०; १५; वैश्रौ १८, १७ :

a) पाठः ? मा २, १६ प्रघृ. रिहाणाः इति पाठे.। b) वैप १ निर्दिष्टानां समावेशः द्र.। c) वैप १ द्र.।

d) = स्तेन-। < √रिह् इति दे.। e) परस्परं पाठे.। f) = स्तेन-। g) पा ३, ३, २२;

७, ३, ९५ परामृष्टः द्र.। h) घा. अर्चने वृत्तिः। i) माश्रौ. पाठः। अन्यत्र छान्दसो दीर्घः। j) न स्. रू.।

यात् > सया. द्राश्रौ १३, १, १५ लाश्रौ ५, १, १४ अ-रुवति इति पाठे.। k) व्यप.। घा. अर्थः ?।

l) तु. पागम.। m) = रव-। भावे अतत् प्र. उस्. (पाउ ३, ११०)। n) सपा. रवते <> रवथे <>।

रुवति इति पाठे.। o) = शब्दायमान-। p) व्यप.। q) = रुक्त्-। r) बस.। s) या २, ३, ४; २०;

३, १३; ६, १३; ११, ५; ३९ पा १, ३, ८९; ४, ३; ६, ३, ११६ परामृष्टः द्र.।

७; हिश्रौ ११, ७, २११; -फक्मा
कौस् ६४, २५; अस् ९, ५; माशि
११, ३; -क्मात् वाश्रौ ३, ४, ५,
३०; -क्माभ्याम् आपश्रौ १९,
२१, ९; बौश्रौ; -क्मे आपश्रौ
१५, ७, ४; भाश्रौ; -क्मेण आपश्रौ
१५, ८, ५; बौश्रौ ९, ७, २२;
भाश्रौ; -क्मौ काश्रौ १९, ४, १०;
आपश्रौ १५, ५, १५××; बौश्रौ.
रौक्म^१ - क्मे विध ७१, १६.
रौक्मी^२ - क्मीम् शुभ्र

२, ७८.

रुक्म-कुण्डल - ले वाघ १२,
३८; बौघ २, ३, २८.

रुक्मकुण्डलिन् - ली वैश्रौ
१७, १८ : १०.

रुक्म-केश^३ - शाः अप ५२, ५,
१.

रुक्म-प्रतिमुक्त - क्तम् आपश्रौ
२२, ३, १४^४; माश्रौ ३, ७, ३^६.

रुक्म-प्रतिमुचन - > ण-विष्णु-
क्रम-वात्सप्र - प्रेषु काश्रौ १६,
४, ३२.

रुक्मप्रतिमुचनाना(न-आ)दि-
दि काश्रौ १६, ६, ६; वाश्रौ २,
१, ३, १७.

रुक्म-प्रतियुक्त - क्तम् हिश्रौ
१७, १, ५२^५.

रुक्म-प्रतिहित - तम् अप्राय ६,
७^६; -तेन वाश्रौ ३, ४, २, १६.

रुक्म-अस्तरण^७ - णम् कौस्
७७, ११.

रुक्म-भाज् - भाक् अप ३६,
२१, १.

रुक्म-भौम^८ - मम् शंघ ११६;
३.

रुक्म-म(य >)यी - च्या वाघ
१२, ३९.

रुक्म-ललाट^९ - टः काश्रौ २२,
२, ११.

रुक्म-वक्षस्^{१०} - क्षसः वृदे ५,
६८; या ३, १५१.

रुक्म-वत् - > रुक्मव(त् >)
ती - तीभिः माश्रौ ४, ३, ३७.

रुक्मवच्-छिद्र^{११} - द्रम् काश्रौ
१५, १०, १६.

रुक्म-शकल - लम् वैश्रौ १,
१० : १.

रुक्म-सूत्र - त्रम् आपश्रौ १६,
१५, ८; १६, १; माश्रौ.

रुक्म-स्तम्भ-निभ - भौ विध
१, २५.

रुक्म-स्तेय - > थिन् - यी
शंघ ३८७.

रुक्मा(क्म-आ)बद्ध - द्भम्
काश्रौसं २८ : ९.

रुक्मा(क्म-आभा >)भ - भम्
वैघ ४, ११ : ३.

रुक्मिन् - विमणम् शाश्रौ १६,
९, ११; -क्मी आपश्रौ २२,
१२, ६.

रुक्मिणी^{१२} - (> रौक्मिणेय-
पा.) पाग ४, १, १२३.

रुक्मन् - पाउभो २, १, २८५.

रुक्म^{१३} - रुचः आपश्रौ १६, २४,
२; १७, २०, १७^{१४}; बौश्रौ;

रुक्म आपश्रौ ६, २२, १; बौश्रौ
९, ६ : ६; १०, ५४ : १६××;

माश्रौ ६, २, ६, २२; वाश्रौ २,
२, ५, ७; आपमं २, २२, ४^१;

भाघ २, २६ : ८^१; माघ १, १,
२३; वाघ ५, ३७; हिघ १,
१५, १^१; शुभ्र २, ३३५;

रुचा बौश्रौ १८, ९ : ३७;
१७ : २; वाश्रौ; रुचाम् आपश्रौ
९, १२, ९६; ०रुचाम् आपश्रौ ६,
२२, १; रुचे आपश्रौ ६, २२,
१××; बौश्रौ.

रुक्-काम - मः बौश्रौ १३, ५ :
१११; -मस्य बौश्रौ १४, १९ :
४; -माः आपश्रौ २१, १, १४;
हिश्रौ १६, १, ११.

रुक्-मत् - मते बौश्रौ १३, ५ :
१११.

रुक्-काम - मः बौश्रौ १३, ५ :
१११; -मस्य बौश्रौ १४, १९ :
४; -माः आपश्रौ २१, १, १४;
हिश्रौ १६, १, ११.

रुक्-मत् - मते बौश्रौ १३, ५ :
१११.

रुक्-मत् - मते बौश्रौ १३, ५ :
१११.

रुक्-मत् - मते बौश्रौ १३, ५ :
१११.

रुक्क - पाउ २, ३७.

रुक्चान^{१५} - नः आपमं २, ११, ३११.

रुक्चि^{१६} - पाउ ४, १२०; -फक्विः
वैताश्रौ १४, २; अस् १७, १;
-चिम् शंघ ११६ : ३०; -च्या
सु १३, ३; -च्यै वाघ १३, २१.

रुच्य(चि-अ)र्थ^{१७} - र्थः वाघ ६,
९; -र्थम् काघ १, २०; माघ १,
१, १०.

रुचित^{१८} - पाउ ४, १८६; -फक्त्^१
शाश्रौ ५, ९, २५; काश्रौ; -तम्
द्राश्रौ २, २, २८; लाश्रौ १, ६,
२६; वैताश्रौ १४, २; -तात्
जैश्रौका ५४; -ते काश्रौ २६, ४,
५; जैश्रौ २३ : ९; कौघ १, २,
३; शाघ १, ६, ५.

रुचित^{१८} - पाउ ४, १८६; -फक्त्^१
शाश्रौ ५, ९, २५; काश्रौ; -तम्
द्राश्रौ २, २, २८; लाश्रौ १, ६,
२६; वैताश्रौ १४, २; -तात्
जैश्रौका ५४; -ते काश्रौ २६, ४,
५; जैश्रौ २३ : ९; कौघ १, २,
३; शाघ १, ६, ५.

रुचित^{१८} - पाउ ४, १८६; -फक्त्^१
शाश्रौ ५, ९, २५; काश्रौ; -तम्
द्राश्रौ २, २, २८; लाश्रौ १, ६,
२६; वैताश्रौ १४, २; -तात्
जैश्रौका ५४; -ते काश्रौ २६, ४,
५; जैश्रौ २३ : ९; कौघ १, २,
३; शाघ १, ६, ५.

रुचित^{१८} - पाउ ४, १८६; -फक्त्^१
शाश्रौ ५, ९, २५; काश्रौ; -तम्
द्राश्रौ २, २, २८; लाश्रौ १, ६,
२६; वैताश्रौ १४, २; -तात्
जैश्रौका ५४; -ते काश्रौ २६, ४,
५; जैश्रौ २३ : ९; कौघ १, २,
३; शाघ १, ६, ५.

a) विकारे अन् प्र. (पा ४, ३, १५४)। b) = [रुक्मदेवत्या-] ऋच्-। c) वस.। d) सपा.
०तिसुक्त् <> ०तियुक्त् इति पाभे.। e) सपा. ०तिसुक्त् <> ०तिहितम् इति पाभे.। f) वैप १ द्र. १,
४) = पाताल-विशेष-। h) व्यष.। i) पाभे. वैप १ रुक्चिम् शौ ३, १५, ६ टि. द्र.। j) पाभे. वैप १ रुक्चिम्
मै ४, ९, ५ टि. द्र.।

रुचिर- पाउ १, ५१.
 रुचिष्य, ष्या- पाउ ४, १७९; -ष्या
 वाग १३, २१.
 रुच्य- पा ३, १, ११४.
 रोच^०- -च: जैगृ १, १८: १४.
 रोचन, ना^०- पाउभो २, २, १८५;
 पाग १, ४, ७४^०; ३, १, १३४^०;
 -फँन: पाग २, ६, १०; गोप ३,
 ४, १५; द्राग ३, १, १४; गौघ
 २०, ११; -नम् जैश्रौ २३: ९;
 जैश्रौका ५५; द्राश्रौ २, २, २८;
 लाश्रौ १, ६, २६; शंघ ११६:
 ६२^६; -नया^० अप १, ४५, ४;
 १८^३, १, ५; -फँना आपश्रौ ४,
 ६, ४^०; बौश्रौ २, १९: १२; ३,
 १२: १८; १३, २: ४; ९; १५,
 २४: २१; भाश्रौ ४, ९, २^६;
 माश्रौ; हिश्रौ ६, २, १५^०; आपमं
 १, ६, २१^०; अप^० ५, २, १; विघ
 २३, ५८^०; ऋअ २, ५, ६९^०;
 शुप्रा २, ६१^०; -फँना: आपश्रौ
 ३, १४, २; भाश्रौ ३, १३, १;
 हिश्रौ २, ६, ३४; -फँनानि आश्रौ
 १, ६, १; ३, ८, १; कौस् -नाय
 आपमं २, २१, ६१; -फँने शाश्रौ
 ५, १०, २१; बौश्रौ; -नेन अप
 १८, ३, १^०.
 रौचनिक- पा ४, २, २.
 रोचना √कृ पा १, ४, ७४.
 रोचना-चन्दना(न-२आ)घ-
 -घै: अप १९^३, ३, १.
 फँरोचना-वत्- -वत् बौश्रौ १८,
 १६: १०.

रोचमान- पाग ६, २, १६०; -फँन:
 वैताश्रौ १४, १; आमिग.
 रोचिष्णु- पा ३, २, १३६; -फँष्णु:
 पाग २, ६, २८; -फँष्णू आपमं
 १, ३, १४; आगृ १, ७, ६; पागृ
 १, ६, ३.
 रोचिष्णू (ष्णु-उ)रस्क^६- -स्का:
 या ३, १५.
 रोचिस्^०- पाउभो २, १, ३११;
 -फँचिषा आश्रौ २, १, २५; काश्रौ
 १८, २, ११; माश्रौ ५, १, २, २.
 रोच्य- पा ७, ३, ६६.
 र्श्चि- √रुच् द.
 रश्चि^० > रौच्य^०- -च्यम् शंघ
 ११६: ४६.
 √रुज्^० पाधा. तुदा. पर. भङ्गे; चुरा.
 उभ. हिंसायाम्, रुजति वाधूश्रौ
 ४, ७५: ७; ९; कौस् २५,
 ३३; रुजन्ति या ६, ४; फँरुजासि
 आपश्रौ ३, १२, १; भाश्रौ ३,
 ११, १; हिश्रौ २, ६, १४;
 फँरुज, > जा ऋप्रा ७, ३३; ३४;
 अरुजत् या २, २४^०.
 फँरुज्ण- -णम् आपश्रौ १२, १५,
 ६; हिश्रौ ८, ४, २१.
 रुज्ण-व(त् >)वी^०- -त्या
 आपश्रौ १२, १५, ५; बौश्रौ ७,
 ७: १०.
 रुज्- रुज: विघ ३८, १.
 रुज^०- -ज: अश्र १६, ३१.
 फँरुजत्- -जत् अश्र १६, ११;
 -जन्त: बौश्रौ ७, ७: १०;
 माश्रौ ५, १, २, १७; या १०,

३०.
 रुजा^०- पाग ३, ३, १०४.
 रुजा (जा-अ)र्थ- -र्थानाम् पा
 २, ३, ५४.
 रुजा-विन्- पावा ५, २, १२२.
 फँरुजा(न >)ना^०- -ना: अप ४८,
 ७६; निघ १, १३; ४, ३; या
 ६, ४४^०.
 रोग- पाग ५, २, ३६; -ग: विघ
 १४, ४; -गम् आश्रौ २, ९,
 १०^०; कौग; -गस्य भागृ १,
 २५: २०^०फँ; अप ७०, १२, १;
 -गा: अप ७, १, ९; वाघ २१,
 २३; -गाणाम् या ४, २१;
 -गात् पा ५, ४, ४९; -गान्
 शंघ ११६: २१; -गाय अप
 ७०^०, १७, ३; -गे पा ५, २,
 ८१; पावा ८, ४, ६१^०; -गेण
 अप ७१, ६, २; शंघ ८३; आपघ
 २, २५, ११; हिघ २, ५, १९०;
 -गेभ्य: कौगृ ४, १, ४; -गेषु
 अप ६६, १, १.
 रोग-घ- -घ: ऋअ २, १, ५०;
 वृदे ३, ११३.
 रोग-चौरा(र-अ)गिन-संभव-
 -वम् अप ७०^३, ११, २८.
 रोग-(द >)दा^०- -दा अप २६,
 २, ८.
 रोग-नाशन^०- पाग ३, १, १३४.
 रोग-निपीडन- -नात् माशि
 १६, १५.
 रोग-परिमाण- -णानि अप १,
 ३३, १.

- a) भाप. । b) वैप १ द्र. । c) विशेष: टि. द्र. । d) लो^० इति पाका. । e) विप. । ल्यु: प्र. ।
 f) = साम-विशेष- । g) विश्वेदेवानामन्यतम- । रोचक: इति शक. । h) = गो-पित्त- । i) = नक्षत्र- ।
 j) = द्यु-लोक- । k) बस. । l) व्यप. । m) = मनु-विशेष- (तु. शक.) । n) या ६, १ परामृष्ट: द्र. ।
 o) = ऋण-विशेष- । p) तु. पागम. । q) पात्रे. वैप १, २६५० g द्र. । r) तु. पाका. । s) उप.
 < √दा [दाने] ।

रोग-प्रद- दाः अप ५२, १५, १.
 रोग-भय- यम् कप्र १, ७, १२.
 रोग-लाम- भाय आज्यो ६, ३.
 रोग-संयुक्त- क्तान् हिध २, १, ६५.
 रोग-संबद्ध- द्धान् आपघ २, ४, १२.
 रोगा(ग-आ)ख्या- ख्यायाम् पा ३, ३, १०९.
 रोगा(ग-आ)तप- पयोः पा ४, ३, १३.
 रोगा(ग-अ)धिप- पम् शंघ ११६ : २१.
 रोगा(ग-अ)न्वित- ताः विध ४५, ३२.
 रोगा(ग-अ)पनुत्ति- त्तिः वृदे ३, ११४.
 रोगा(ग-आ)र्त्ता- र्त्तः द्राश्रौ ६, २, १४; कौष्ट ४, १, १; विध ६९, १६; -र्त्तस्य अशां १७, ३; -र्त्ताम् विध ६९, १५.
 रोगित- पा ५, २, ३६.
 रोगिन्- गिणः विध ५४, ३३; याशि २, १००; -गिणाम् शंघ १३८.
 रोगिणी- णीम् विध ६७, ३९.
 ✓रुद्र^१ पाधा. भ्वा. आत्म. प्रति- घाते^२; चुरा. उभ. भाषायाम्^३.

✓रुद्र ✓रुष् टि. द.
 ✓रुठ पाधा. भ्वा. पर. उपघाते^१.
 ✓रुहट पाधा. भ्वा. पर. गतौ, स्तेये^२.
 रुण्ड^३ पाउना १, १०८; -ण्डानि अप ७०^३, १०, ३.
 रुत- ✓रु द्र.
 ✓रुद्र^४ पाधा. अदा. पर. अशु- विमोचने, ऋरोदात्^५ आपमं १, ४, ७; आग १, १३, ६; पाग १, ५, ११; आम्रिण्य; रोदेत् बौध १, ७, ३०; हिध १, १, ८३.
 रुदिति^६ अप ६८, ३, १३; रुदन्ते ७०^३, ८, ३; रुदन्ति काश्रौ १०, २, २४^७; वाधूश्रौ; बौष्ट १, ६, २६^८.
 ऋरुदति आपमं २, १३, ५; पाग १, १६, २५; आम्रिण्य.
 अरुदत् या १०, ५^९; अरोदीत् वृदे २, ३४; या १०, ५^९; ऋरुदम् आपमं २, १३, ३; ४; आम्रिण्य २, १, ३ : २९; ३१; भाग १, २५ : ७; वाग.
 रुदत्- दत्तः अप ६८, २, १६; -दत्सु अप ७०^३, ८, ५; -दृभ्यः आग १, ६, ८; -दन् वाध १५, १८; आपघ १, ३२, २४; हिध १, ८, ६५; -दन्तः वाधूश्रौ ३, ९४ : २; ७; १०; अप ७०^३, ७, २.
 रुद्री- तीम् आग १, ६, ८; -र्त्तस्य आपमं १, ४, ९; आम्रिण्य

१, ५, २ : ५४; कायु; -त्याम्^१ आग १, ८, ४; कौष्ट १, ९, २.
 रुदन्ती- न्ती बौश्रौ १८, १३ : १०; अप ७०^३, ३, ५; -न्तीम् आपग ३, ११.
 रुदित- तम् हिग १, १६, १७^{११}; याशि २, ५९.
 रुदित्वा वाध ३, ३८.
 रोद- दः बौश्रौ २, ५ : १७.
 रोदन- नाः अप ६८, १, ४३; -ने ७१, १, ४.
 रोदन-गीत-साम-सब्द- द्वाः आपघ १, १०, १९; हिध १, ३, ४६.
 रोदनो(न-उ)क्लोशन- नानि अप ६४, ६, ४.
 रोदितव्य- न्यम् कप्र ३, ३, ९; विध २०, ३०.
 रुद्र- ✓रुष् द्र.
 रुद्र, द्रा^१ पाउ २, २२; पाग ४, ३, ११८; -र्त्तंद्र आश्रौ १, १२, ३४^२; ३८, १; काश्रौ; आपश्रौ ९, २, ९^३; भाश्रौ ९, ४, १^४; माश्रौ १, ७, ७, ४; ३, १, २५^५; वाश्रौ १, ७, ४, ६२^६; हिश्रौ १५, १, ४८^७; -द्रः आश्रौ ४, ११, ५; शाश्रौ ६, ३, ४^८ x x; काश्रौ; अप ऋ४८, ९७^९; १०१^{१०}; साश्र १, १५^{११}; ५९५^{१२}; निघ ३, १६^{१३}; या १०, ५^{१४}; वेयो ३२^{१५}; -द्रम् शाश्रौ ४, १७,

a) पा १, ३, ९१; ३, १, ५५ परामृष्टः द्र. । b) दीशौ इति केचित् इति BPG. । c) ✓रुद्र इति [पक्षे] BPG. । d) ✓रुण्ड, ✓रुहट इति [पक्षे] BPG. । e) = कवन्ध- । f) या १०, ५ पा १, २, ८; ७, २, ७६; ३, ९८; ११ परामृष्टः द्र. । g) पामि. वैप १ रोदात् खि २, ११, १ टि. द्र. । h) = रोदिति । इन्दोदशा रूपम् । i) न्ती इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. शौ १४, १, ४६) । j) सपा. शांष्ट १, १५, २ प्ररुदन्त्याम् इति पामि. । k) पामि. पृ ४२२ j द्र. । l) वैप १ द्र. । m) सपा. शौ ११, २, १५ अस्तु इति पामि. । n) = स्तोत्र- । o) = पर्वत- । p) = अमि- । q) = ऋषि-विशेष- । r) = आर्द्रानक्षत्र-देवता- ।

१; ६, ३, ४[†]; काश्रौ ५, १०, १२[†]; आपश्रौ; -[†]द्रस्य आपश्रौ १, २, ८; बौश्रौ १, १ : १३; भाश्रौ; -[†]द्रा शाश्रौ ६, ६, ६; आपश्रौ १०, २२, ११; बौश्रौ ६, १३ : १; भाश्रौ १०, १५, ६; वैश्रौ १२, १६ : १६; -[†]द्राः कंशाश्रौ ४, २१, ११; १२, १९, २; १४, ३३, ११५; १७, १६, २; काश्रौ; बोध ४, ६, १[†]; पिं ३, ६[†]; -[†]द्राः काश्रौ २५, १३, २६[†]; आपश्रौ १४, २०, ७[†]; माश्रौ; या ११, १५; -[†]द्राणाम् शाश्रौ १, ६, २; ४, २१, २४; ९, २८, १५; आपश्रौ; आपसं २, १०, ९; आश्र १, २४, ३२; पाश्र १, ३, २७; माश्र १, ९, २३; हिश्र १, १३, १२; गोश्र ४, १०, २०; अप ४१, ५, ७; वृदे १, १२७; ५, ४७; शुश्र २, २६१; -[†]द्रान् आपश्रौ ४, १, ८××; बौश्रौ; वैताश्रौ २२, ४^०; शांश्र ३, ११, ६^०; पाश्र ३, ९, ६^०; आपश्र २०, ८^०; काश्र ५९, ४^०; माश्र १, ४, १३^०; -[†]द्राय आश्रौ ३, ११, १[†]; शाश्रौ ३, ४, ८; ५, ६××; काश्रौ; -[†]द्रासः माश्रौ २, ५, ४, २४; ऋश्र ३, २५; -[†]द्रासः शाश्रौ १०, ६, २०; ११, ६, ८; ऋश्र २,

५, ५७; वृदे ५, ४७; या ११, १५; -[†]द्रेण वृदे २, ४; या ७, १०; -[†]द्रेभिः शाश्रौ ६, ११, ११; कौसु १०, १६; १३९, १५; अश्र ४, ३०; अंश्र २ : ३६; -[†]द्रेभ्यः आश्रौ ६, ११, १६; आपश्रौ; वैताश्रौ २२, ४^०; -[†]द्रेषु शाश्रौ १४, ३३, ११; आपश्रौ ६, ९, १[†]; -[†]द्रेः आश्रौ २, ११, १२[†]; शाश्रौ ३, ६, २[†]; आपश्रौ.

रुद्राणी- पा ४, १, ४९; -ण्यः बौश्रौ १९, १० : २५; -ण्याम् भाश्र ३, १३ : ४^०; -[†]ण्यै शाश्रौ ४, १९, ५; पाश्र ३, ८, १०; बौश्र २, ८, १६; माश्र ३, १३ : ४.

रौद्र^१- [†]द्रः काश्रौ १५, १, २६; ३, १२; १६; बौश्रौ; अप ३२, १, १७[†]; आपश्र २, ४, ६[†]; हिश्र २, १, ५९[†]; आज्यो १, ६[†]; -[†]द्रम् आश्रौ ८, १, २०; काश्रौ १, १०, १४××; आपश्रौ; अप २०, ६, ४[†]; ऋश्र २, १, ४३; ११४××; अश्र ४, ३; २८××; -[†]द्रस्य शाश्रौ ६, ११, १०; बौश्रौ १०, ५६ : ११; माश्र २, २, १९; अशां ६, २[†]^०; -[†]द्राः शांश्र ४, १९, ४^०; अंश्र ७१, ३, ३; शुश्र ८, ४०; याशि २, १; -[†]द्राणि आज्यो २, १; -[†]द्रान् काश्रौ ५, १०, १; १६; वैश्रौ;

-[†]द्राभ्याम् अप ३३, ६, १२^०; -[†]द्रे अप ७०^२, १७, १; विध ७८, ११^०; शुश्र; आज्यो २, १^०; -[†]द्रेण कंशाश्रौ ६, १२, ३; १३, १; काश्रौ; -[†]द्रेषु अप २५, १, ८; -[†]द्रेः जैश्रौ १३ : २५; अंश्र २, ४; -[†]द्रौ अप ३३, ६, ३[†].

रौद्री- [†]द्री^१ अप ३१, ८, २; ६२, ५, ५; ७०^२, १०, १; अशां १६, १; ऋश्र; -[†]द्रीभिः हिश्रौ १२, ६, २६; काश्र ५८, ४; -[†]द्रीम् अप ५४, २, ४××; अशां; -[†]द्वयः वृदे ३, १०८; -[†]द्वया आपश्रौ १५, १८, ५; अश्र २, २७; -[†]द्वयाः शाश्रौ १४, ५७, ३; -[†]द्वयाम् अशां १८, ५; १२, ५; -[†]द्वौ बौश्र ४, २, ८; शुश्र १, २२२; अश्र ६, ५५-५७.

रौद्र-गु(लक >) लिका^१-
-काः कौश्र ४, १९^०.

रौद्र-जटिल- [†]लः अप ६८, ५, ९.

रौद्र-मन्त्र- [†]न्त्रैः अप १९^२, ३, ४.

रौद्र-राक्षस-[†]नैर्ऋत-पैतृक-
छेदन-भेदन-खनन-निरसना
(न-अ)वद्राणा(ण-आ)श्माभिम-
शंन- [†]नानि वैश्रौ ४, ७ : ११;
भाश्र ३, १८ : ८.

रौद्र-राक्षस-[†]नैर्ऋत-पैतृक-
छेदन-भेदन-निरसना(न-आ)

a) = एकादश-रुद्रानुवाकाः ।

२ टि. द्र. ।

d) = रुद्र-मन्त्र- ।

वैप १ रुद्रेभिः तै २, १, ११, २ टि. द्र. ।

सूक्त- प्रमु.) । साऽस्यदेवतादयश्च अण प्र. ।

k) = मुहूर्त-विशेष- ।

l) = [रुद्रापर्य-] स्कन्द- ।

गोलकाः <> रौद्रगुलिकाः इति पाशे. ।

= यवादिमय-पिष्ट- ।

b) = एकादशक्षर- ।

e) पाशे. वैप १ रुद्रेभ्यः तै ४, ४, १, २ टि. द्र. ।

g) = [प्रकरणतः] गृहावयव- ।

i) = मन्त्रगण-विशेष- ।

m) = [रुद्रदेवत्य-] आर्द्रा-नक्षत्र- ।

o) = शान्ति-विशेष-, ऋग्-विशेष- ।

c) पाशे. वैप १ रुद्रान् तै ४, ४, १,

f) -पाशे.

h) विप. (चरु-मन्त्र-

j) = [रौद्र-] बलि- ।

n) सपा. रौद्राः

p) उप.

त्सामिर्मशन- -नानि आप्रौ
२४, २, ९.

रौद्र-राक्षस-पैतृक-नैर्ऋत-
छेदन-भेदन-निरसना(न-श्रौ)
त्सामिर्मशन- -नानि आप्रिण
२, ७, ९: ५.

रौद्र-राक्षस-पैशाच- -चान्
अप २३, १३, १.

रौद्र-सूक्त- -क्तैः कौष्ट ४, १,
८.

रौद्र-सौर्यौ(र्थ-श्रौ)षस- -सेषु
वृदे ४, ९९.

रौद्र-होम-स्रपन- -नम् अप
४०, १, ९.

रौद्रा(द्र-आ)मेय- -यम्
अप १८, १, १३.

रौद्रा(द्र-आ)दि- -दिः शाश्रौ
६, १२, ४.

रौद्रा(द्र-आ)ध्याय^४- -यः
शुभ्र २, २४५.

रौद्रक- पा ४, ३, ११८.

रौद्रौ(य>)या^५- -या अश्र १,
१९.

रुद्र-कार्य- -र्याणि आज्यो २, १.

रुद्र-गण- -गः अप ३२, १, १६;
१७; अशां १८, ५; -गान् अश्र
५, ६; -गेन अप १९^३, ३, ५.

रुद्रगण-रौद्रगण- -गयोः अश्रम्
१.

रुद्र-ज- -जम् अप ७०^३, १०, ४.

रुद्र-त्व- -त्वम् या १०, ५^१.

रुद्र-देवता->^६वत्य- -त्याः काग
७०, ५.

रुद्र-देवत्य- -त्यः चाश्र १७: १७;

-त्यम् चव्यू ४: २३; -त्यौ
वैगृ ३, १७: ५.

रुद्र-पत्नी- -न्याः वृदे ५, ४६.

रुद्र-पार्षद- -दान् आप्रिण २, ६,
३: २५^१; शंघ ११६: २६;
बौध २, ५, २०.

रुद्र-पार्षदी- -दीः आप्रिण २, ६,
३: २५; बौध २, ५, २०.

रुद्र-मन्य- -न्यम् वैगृ ३, १७: ५;
४, ९: ५.

रुद्र-मातृ^८- -तरम् वागृ ११, २१^१.

रुद्र-रौद्र- -द्राभ्याम् अप १८^१,
१, २; -द्रौ अप ३३, १, ९.

रुद्ररौद्र-गण- -णौ र्ऋशां २३,
५; २४, २.

रुद्ररौद्र-पर^९- -रैः अप ३३, ६,
११.

रुद्र-लोक- -कम् अप ४०, ५, ५;
-के अप ३१, १०, ४.

रुद्र-वत् निसु ७, १: १९.

रुद्र-वत्- -वतः काश्रौ १०, ७, १३^१;
-वते आश्रौ ५, १, १५^१; शाश्रौ;
-रिवन्तम् आश्रौ ५, ३, १०;

शाश्रौ ६, ९, १३; माश्रौ ५, १,
१०, ६; हिश्रौ २२, ३, २०;

-रिवान् आश्रौ २, ११, ११;
काश्रौ १०, ७, १३.

रुद्रवती- -तीः निसु ६,
१३: ३; -रितीम् आप्रौ ११,
५, १; बौश्रौ १, ११: २६; ६;

२३: ३; माश्रौ २, २, ६; हिश्रौ
१, ६, ९१.

रुद्रवद्-गण^{१०}- -णस्य आप्रौ
१२, २४, ७; बौश्रौ ८, ४: २४;

२६, ८: ७; माश्रौ २, ४, ४, २९;
वैश्रौ १६, ६: १; हिश्रौ ८, २,
२०; -णेन बौश्रौ २६, १५: १०;
१९; २६.

रुद्र-शमन- -नम् चाश्र १७: १६.

रुद्र-संमि(त>)ता- -०ते अशां
१, ५.

रुद्र-सावर्ण^{११}- -र्णम् शंघ ११६:
४६.

रुद्र-सावित्री- -त्रीम् अप ४०, २,
६; ६, ४.

रुद्र-सूक्त- -क्तम् वैगृ ६, २०: ४.

रुद्र-सूनु- -नुन् वृदे ५, ६९.

रुद्र-सेना- -नाभ्यः शाश्रौ ४, १९, ७.

रुद्र-होतृ^{१२}- -तारम् बौश्रौ ९, १९:
२०; बौगृ ३, ४, १३; -त्रे
आप्रौ १५, ११, ७; बौश्रौ.

रुद्रा(द्र-अ)भिमान- -ने काश्रौ २३,
४, १९.

रुद्रा(द्र-अ)वसु(ष्ट>)ष्टा- -ष्टा
माश्रौ २, ३, २, १३^१.

रुद्रा(द्र-अ)हृत्य(ति-अ)न्त- -न्ते
बौगृ ३, १३, ४.

रुद्रिय, या^{१३}- -या आप्रौ ११,
२, ४; बौश्रौ ६, १९: २५; माश्रौ
१२, २, ७; माश्रौ २, २, १, ४६;

वैश्रौ १२, २४: ३; हिश्रौ १०,
३, ३६; -यामिः आश्रौ २, ११,
१२; शाश्रौ ३, ६, २; -याम्यः
काश्रौ २५, ११, २६; आप्रौ
१०, १३, ११; बौश्रौ २८, ९:
२४; -याय मागृ १, १०, १०^{१४}.

रुद्रै(द्र-ए)कादशि(क>)का^{१५}-
-काम् बौध ४, ६, ४.

a) कस. । पृ १२५ सस्थ. अध्यायः इति नेष्टम् । b) सास्यदेवतीयश् छण् प्र. उस्. (पावा ४, २, २८) ।

c) उप. = रमात्- । d) वस. । e) वैप १ द्र. । f) = मनु-विशेष- (तु. शक) । g) वैप १

निर्दिष्टानां समावेशः द्र. । h) पाभे. वैप, १ रोदात् खि २, ११, १ टि. द्र. । i) [= रुद्रसंबन्धित-] एकादश-

सुजाक- । पस. ।

√रुध् पाधा.दिवा.आत्म. कामि; रुधा.
उभ. आवरणे, रुणद्धि आपश्रौ ९,
८,२; रुन्ध्यात् आपश्रौ ८,६,२२;
बौश्रौ ५,७:७; भाश्रौ ८,८, ५;
वैश्रौ ८, १२:३; हिश्रौ ५, २,
४६.
†अरुस्महि हिश्रौ ७,२,८३.
रुध्यते अप ६३,३,१०; रुध्यन्ते
अप ६३,४,२.
रु(द्ध>)द्धा- -द्धा गोष्ट २,३,११.
रुधत्- -धत्: या ५,२†.
†१रोध->°ध-व(क>)का°-
-का: अप ४८,७६; निघ १,१३;
-क्रे अप्रा ३,२,१.
रोधस्°- -ध: या ६,१७†; -धांसि
अप ७१,१२,१.
रोधस्-व(त>)ती°- -त्य: निघ
१,१३†.
√रुध् (=√रुह)>२रोध->रोधा-
(ध-अ)वरोध- -धात् कौसू ९८,
२.
रुधिर°- पाठ १,५१; -रस् वाधूश्रौ
४,६८:७; अप १,२७,२; २७,
१,२; ६७,७,२; ७०†, ११,१३;
७१,८,३; सुध ५०; -रस्य बौश्रौ
२,१०:३२†; -रे अप ६४,८,
६†; -रेण बौश्रौ ९,१८:११†.
रुधिर-प्रकोप- -पा: अप ७०†, ११,
२४.
रुधिर-प्राशन- -ने सुध १८.
रुधिरा(र-अ)गम- -म: अप ६८,
२,१८.
रुधिरा(र-अ)ङ्ग°- -ज्ञान् अप ६८,

१,१५.
रुधिरा(र-अ)म्बु°- -म्बु अप ७१,
१९,५.
रुधिरो(र-उ)पगत-कण्ठ- -ण्ठे
विघ २२,६७.
रुधिरो(र-उ)पल-पांसु-वर्ष- -र्षे
वैध २,१२,३.
√रुष्(वधा.)पाधा.दिवा.पर. विमोहने,
†रुहपाम आपश्रौ ३, १, २;
बौश्रौ १,१७:२८; भाश्रौ.
†रुष्°- रूप: या ६, १७; ऋप्रा २
७५; उसू २,११.
रुमण्->रुमण्-वत्- पा ८,२,१२.
†रुमथा अप ४८,११६†.
रुमा- पाठभो २,२,२४३.
रुम्र- पाठ २,१४.
†रुराल- -ले आमिष्ट २, ४, १:२३.
†रुरु(वप्रा.)°- पाठ ४,१०३; पाग २,
१,५६; ४,३,१६२†; ५,३,१०८†;
-रव: अप ७१, ३,३; -रु: कप्र
३,८,११; अप ६८,५,८; -रुस्
अप ७०†, ५,२.
१रौरव°- पा ४,३,१६२; -वस् पाग
२,५,१८; आमिष्ट १,१,२:४३;
काय ४१, १३; बौष्ट; माय १,
१:७; -वेण आय १,१९, १०;
कौष्ट २,१,३; शांष्ट २,१,४; विघ
८०,७.
रौरव-पार्षत- -तानि कौसू ५७,
११.
रौरु- पा ५,३,१०८.
२रुरु->रौरुक्- पा.) पाग ४, ३,
११८.

३रुरु°->रौरुक्- -विणाम् जैश्रौ
२१.
४रुरु->रुरु-श- पा.) पाग ५,२,
१००†.
रुरुक्°->रौरुक्- -कीणि° द्राश्रौ
४,३,११†; लाश्रौ २,३,१.
रौरुक्-ब्राह्मण- -गम् गोष्ट ३,२,६.
रुवत्-, रुवथ- √ह(वधा.) द्र.
√रुश(वधा.)पाधा.तुदा.पर.हिंसायाम्.
†रुशत्- -शत् निघ ४,३; या ६,
१३†; १४; ऋप्रा १४,४९.
†रुशती- -ती आपमं १,
१७, ८; कौसू १०२, २; या २,
२०; अप्रा ३,४,१.
†रुशत्-पशु°- -शु: काश्रौ ९, ३,
१; आपश्रौ १२,५,१; बौश्रौ.
रुशद्-व(त्स>)त्सा°- -त्सा या
२,२०†.
†रुशाम°- -मेषु आश्रौ ८,३,१०; शांश्रौ
१२,१४,१.
रौशाम°- -म: वृदे ५,३४.
√रुष्° पाधा.भा.दिवा.पर.हिंसायाम्;
चुरा.° पर. रोषे, †रोषाति आश्रौ
६,५,१८; शांश्रौ ९,२०,२६.
रुषति नाशि १,१,६.
रुष(त्>)ती°- -त्य: माय २,७,
१†.
रुषित-, रुष्ट- पा ७,२,२८.
रोष- -ष: आपश १, २३, ५; हिष
१,६,१३; -षाय वाय ४,२४.
रुष°->रुषर-)
रुषङ्कि- -ङ्कि: अप ४८,११६†.
रुष्टि°->रुष्टि-मत्-

a) वैप १ द्र.। b) = नदी-। c) = असृज्-। d) वस-। e) उपमितसमासः। f) विशेषः
टि. द्र.। g) = वृत्त-भेद-। h) तु. पागम-। i) विप. (चर्मन्-।) विकाराद्यै अण् प्र.। j) = ऋषि-विशेष-।
k) = तप्तोक्तशाखाध्यायिन्-। l) = यजुस्-। m) ँरि° इति पाठः? यनि. शोधः (तु. लाश्रौ.)। n) घा.
दीप्तौ वृत्तिः। o) अपत्यार्थे प्र.। p) पा ७, २,४८ परामृष्टः द्र.। q) √रुट् इति [पक्षे] भाण्डा. प्रसू.।
r) अर्थः? = स्वाती- इति ऋ.। s) पृ ७५९ f द्र.। t) पृ १९६९ ङ द्र.।

रूप्य- (> रूप्य-वत्- पा.) पाग ४, २, ८६.

✓रुह् (बधा.)^a पाधा. भवा. पर. बीजजन्मनि प्रादुर्भावे च, रोहति शाश्रौ ११, १४, १३१; १६, १७, १०^३; आपश्रौ; रोहन्ति शाश्रौ ५, १०, ३२१^b; ऋप १०, १, २१; ऋरोहत्तु बौश्रौ ३, २६; ४; हिश्रौ ६, ३, १४; कौष ५, ५, ५; रोहन्तु आश्रौ ४, ७, ४१^b; बौश्रौ १०, २४: १८; वैश्रौ १८, १५: ५; ऋरोह बौश्रौ ११, ११: १४; वैश्रौ १७, १४: ११; हिश्रौ; रोहाणि बौश्रौ १७, ३९: ९; रोहाव काश्रौ १४, ५, ६१^c; बौश्रौ ११, ११: १२^d; वाश्रौ; रोहेत् आश्रौ ८, २, १३; ४, १३; ६, १५; ९, ९, १३; रोहेयम् शाश्रौ १६, १७, ११^e.

रुहात् निसू २, ९: ३१. रुहन्ति अप ७०^३, ७, २४; ऋरोहेयम् आपश्रौ १८, ४, १२; बौश्रौ ११, ७: ३०; हिश्रौ १२, १, ४६; वैताश्रौ २७, ६०^d.

रुह्नु: या ६, ३१; ऋरोहिय अश्र ६, १३९; अश्र २: ६४; ३: ३७, ऋरोक्ष्यामि आपश्रौ १८, ५, १२; बौश्रौ ११, ११: १३; वाश्रौ; ऋरुक्षत् कौसू १२५, २; अप्राय २, ६; ऋरुहम् शाश्रौ १६, १७, ८; वैश्रौ १२, १६: १२; १७: १०.

रोपयन्ति भाय ३, ११: १२;

हिय २, २०, १०; रोपयेत् आमिष्ट १, २, २: ४५; माशि २, ७; नाशि १, ६, ५. रोहयस्व माश्रौ २, ५, ४, २४; ऋरोहेयम् भाश्रौ ५, १, ९; हिश्रौ ३, २, ८.

ऋरुह्- रुह: आश्रौ ४, ७, ४^f; शाश्रौ ५, १०, ३२२^g; अज १३, १. ऋरुह्व- ह्व वैताश्रौ १७, ६; कौसू ११, १२.

ऋरुहाण- णा: बौश्रौ १४, २१: १३; ऋत् ३, ७, २.

रुह- न्ठ: बौश्रौ ४, १: १६; वैश्रौ १०, १: १३; हिश्रौ ४, १, १४; -ठस्य अश्र ६८, २, ५०; -ढाय वाश्रौ ३, २, ७, ३१.

रुह-पर्याय^h- या: लाश्रौ ६, ७, ७.

रुह-प्रत्यवरुह- न्ठम् निसू १०, १२: १८.

रुह-रमश्रुⁱ- श्रु: गौघ ९, ७.

रुह-रमश्रु-नख^j- खानाम् अश्र ६८, २, ४६.

रुहा(ढ-आ)वृत्त- त्तम् निसू ९, १०: २९; १२: २७; -त्तान् निसू १०, ८: २; -त्तौ निसू ९, १२: १३.

रुढि-> रुढि-गत- तम् वृदे २, १०२.

रुढि-शब्दा(ब्द-अ)र्थ- सं- (ज्ञा>)ज्ञ^k- ज्ञा: अप्रा ३, ३, २१.

रोक्ष्यत्- क्ष्यन्त: आश्रौ ११, ३, ७ रोपण- णानि आज्यो ५, ९.

रोपयिष्यु- ष्यु वैताश्रौ १०, १७^l.

रोह^m- पा ३, १, १४०; -ह: शाश्रौ १५, २, २७; २८; ४, ३; निसू २, ८: २३××; या ७, २३; -हम् निसू ४, ६: १७;

-हा: निसू २, ९: ३२; -हाणाम् निसू २, ९: ३१; -हात् वृदे १, १०२; या ७, २३; २४; -हात् आपश्रौ ५, ३, ५; बौश्रौ २, १२: १८; १७, ३९: ९;

माश्रौ ५, १, ९; हिश्रौ ३, २, ८; आमिष्ट १, ३, १: १०; -हेण निसू ९, ३: १३; १०: ११; या ७, २३.

रोह-दर्शन- नम् निसू ६, ३: १३.

रोह-प्रत्यवरुह- न्ठौ निसू ९, १२: ६; १०, ५: २०; ८: ३; १२: ७; १३; १४.

रोहो(ह-उ)पकार- र: निसू ८, ८: ३८.

रोह(या>)णीⁿ- णी कौसू २८, ५^l.

रोहत्- पाग ३, १, १२; -हन्तम् शाश्रौ १६, १७, ११.

✓रोहाय पा ३, १, १२.

रोहन्त- पाठ ३, १, २७.

ऋरोहस्- न्ठ: शाश्रौ ८, २५, ३; -होभ्याम् शाश्रौ ८, २५, ३.

शरोहि- पाठ ४, ११९.

शरोहि(रु>)णी^o- णी अश्र ४, १२^l.

रोहिष्यै बौश्रौ ४, ९: ११^l; पा ३, ४, १०.

a) पा ३, १, ५९, ७, ३, ४३ पराम्छ: द्र. । b) पाषे. वैप १ रोहन्ति मै ४, १२, २ टि. द्र. । c) पाषे. वैप २, ३ खं. रोहेयम् गोवा २, ५, ८ टि. द्र. । d) रोहेयम् इति C. शोध: । e) वैप १ द्र. । f) पाषे. वैप १, २०७८० द्र. । g) = व्याहृति-विशेष- । h) बस. । i) कस. > दस. । j) कस. > पस. > बस. । k) कस. मोर्धे च कृत. । l) पाषे. वैप १ रोहणी श्रौ ४, १२ १ टि. द्र. ।

रुहिन- पाठ ४, ११४.

✓रू (=√लू), ऋराविष्ट आश्रौ ३,
३, १; शाश्रौ ५, १७, ९; माश्रौ
५, २, ८, २३.

ऋरवित्- ता आश्रौ ३, ३, १; शाश्रौ
५, १७, ९^१.

✓रूक्ष पाधा.चुरा.उभ.पारुष्ये.

१रूक्ष,क्षा^१-क्षः द्राश्रौ ३, ४,
२; निसू ८, ४: २८; ३४; ३६;
अप ५१, ३, १; ५२, ५, १;
-क्षा: अप ५२, ३, ३, ४, १; ५८,
१, ७; ६४, २, ४; बौध २, ३,
४०; -क्षाम् वाध २७, ११; -क्षे
अप २२, ३, ४.

रौक्ष्य-क्ष्यम् आशि ८,
२०.

रूक्ष-पेषम् पा ३, ४, २५.

रूक्ष-स्फुटित-दुर्दर्श-शा: अप
६८, १, २९.

रूक्ष-न्ना(व>)वा^१-वा अप
६४, ८, ५.

१रूक्षोभावुक^१ द्राश्रौ ३, ४, २.

२रूक्ष^२-(>रौक्षायणि-पा.) पाग
४, १, १५४.

रूढ- १रूढि-प्रत्य. ✓रूढ द्र.

२रूढि^१->रौढीय^१->प्य-पाणि-
नीय^१- पाग २, २, ३१.

रूढ-(>रौढेय-पा.) पाग ४, १, १२३

✓रूप पाधा.चुरा.उभ. रूपक्रियायाम्.

रूप^१- पाठ ३, २८; पाग ५, २, ९५;
-पम् शाश्रौ ८, १६, ३००;

आपश्रौ १, ६, ११××; १५,
१५, १^{२३}; बौश्रौ; भाश्रौ ११,

१५, २-२८^१; या ३, १३६;

-ऋपसू-पम् कौश्र १, ८, ७;

शाश्र १, १२, ७; कौसू १३५, ९;

अत्र १२, ११; या १०, १७^३१;

-पस्य अप ४८, ७९; विध २०,

२६; निघ ३, ७; -ऋपाणाम्

शाश्रौ ४, १०, १; काश्रौ ५, १३,

१; बौश्रौ; -ऋपाणि आश्रौ २,

६, २; ११, ४; ४, ९, ५; शाश्रौ

३, ७, ४^२××; काश्रौ; बौश्रौ १०,

१५: ४^२; वाश्रौ १, ४, ४,

४१; -ऋपाणि बौश्रौ १२,

१०: २५; ४३; -पात् माश्रौ १,

२, ५, ७^१; निसू ४, १२: १५; ५,

२: २३; वृदे १, २५; मीसू १,

२, ११; -पे वाधुश्रौ ३, २६:

२-४; ४१: १; ६९: ३२; निसू

१०, ४: ७; तैप्रा ४, ११^१;

-पेण आश्रौ २, ११, ३^१; शाश्रौ

१४, २४, ३××; काश्रौ; बौश्रौ

१४, १२: १२^११; या १४, ४;

-पेभ्यः शाश्रौ १५, १४, ४;

आपश्रौ १२, १९, २^१; बौश्रौ

१४, ८: ३०^१; अप ४०, ३, ३;

-पेषु बौश्रौ २३, २: २९; -पै:

आपश्रौ ७, ५, २^१; भाश्रौ ७, ४,

३^१; हिश्रौ ४, १, ६५^१; अप

५७, १, ८; २, ८; ३, ६; या ८,

१४^१.

रूप-काम- मस्य आश्रित् २, ४,

११: २.

रूप-कृत्- कृत् काश्रौ ५, १३, १^१;

वृदे १, ८४.

रूप-ग्रहण- -णम् पावा ६, ३, ४९.

रूप-तस्य (ः) बौश्रौ २८, ७: १.

रूप-धेय- पावा ५, ४, ३६.

रूप-नामन्- म या २, ९; ३, ११;

५, ८; १३; ८, ११; -नामानि

निघ ३, ७; या ३, १३.

रूप-नियम- मः वैश्रौ १५, १: १;

हिश्रौ ८, ५, १४.

रूप-पति- ति: काश्रौ ५, १३, १^१.

रूप-भाज्- -भाक् विध २०, २४.

ऋरूप-भृत्- -भृत् अप १, ३९, २;

अया ९, २.

रूप-यौवन-संप(ज>)ञा- -ञाम्

विध १, २९.

रूप-रश्मि- -श्मयः अप ५२, ४, ३.

रूप-रस-गन्ध-व(त्>)ती- -त्यः

शंघ २३४.

रूप-लिङ्ग- -ङ्गाम्याम् मीसू ६, ८,

४०.

रूप-वत्- पा ५, २, ९५; -वतः

विध ७८, १९; -वाम् वाध १६,

२८; २९, २.

रूपवती- -०ति माण् २,

१४, ३०^१; -ती वृदे २, १०७;

या ५, १३; -तीम् विध २०, ७.

रूपवद्-भा(यां>)र्थ^१-

-र्यः वृदे २, १०७.

रूपवत्-ता- -ताम् वृदे ७, ४५.

रूप-वर्ण-प्रभा-सह-प्रमाणा (ए-आ)

कृति-सङ्गम- नैः अप ५८^१, १,

७.

रूप-विकर्तृ- -र्ता वृदे ३, २५.

रूप-विपर्यय- -यम् विध ९६, २७.

a) =मृत्यु- इति ८.। b) वैप १ द्र । c) बस.। d) पाठः? रूक्षंभावुकः इति शोघः ।

e) तु. पागम.।

f) व्यप.।

g) प्रोक्ताध्ययने ङ्ण प्र. उत्सं. (पा ४, ३, १०२) ।

h) वैप. १ द्र.। पात्र. (५, ३, ६६) =प्रत्यय-।

i) सकृत् साम्राज्यस्य रूपम् इत्यस्य स्थाने हिश्रौ २४, ६, १२

साम्राज्यरूपम् इति पाठे.।

j) णि इति पाठः? यनि. शोघः (तु. ऋ ५, ८१, २) ।

h) पाठे. वैप १

रूपे मा ८, ४८. टि. द्र.।

रूप-विप्रतिषेध- -धात् हिश्रौ १, १, १६.
 रूप-विशेष- -वैः या ११, ५.
 रूप-वीर्य- -र्याणि वृदे ४, १३४.
 रूप-शब्दा(ब्द-अ)विभाग- -नात् मीसू ६, ३, १२.
 ऋरूप-अस् (:) कौसू ११४, २; १२८, २; या १४, १९.
 रूप-संयुत^१- -तम् वेज्यो १३.
 रूप-समुद्- -न्म या १, १६१.
 रूप-संपन्न, श्ना- -न्नम् वृदे ३, १४४; -न्नाः निसू ६, ८ : ३८; १० : ३०; ७, २ : ३; या १, १५; १६; -न्नानि निसू ८, ११; २९; ९, ५ : २३; २७; -न्नम् अप १, ४९, ४; ५०, ३; अशां १३, ३; ४; -न्ने निसू ९, ३ : ४१^३; ५ : १८; २६.
 रूप-सहस्र- -क्षेषु नाशि २, ८, १८८; -क्षैः माशि १६, ३०.
 रूप-सामान्य- -न्यात् पाप्रवा १, १६.
 रूप-सौभाग्य-वत्- -वात् विध ९०, २.
 रूप-स्थानिवद्भाव- -वस्य पावा १, १, ५९.
 रूपा(प-अ)जी(व>)वा^१- -वायाः अप १, ४५, ७.
 रूपा(प-अ)तिदेश- -शाः पावा ७, १, ९६; -शात् पावा ७, १, ९६; ४, ९३.
 रूपा(प-अ)दि- -दिभिः वृदे १, ४७.

रूपान्तरणम् काश्रौसं ४ : १४.
 रूपा(प-अ)न्यत्व- -न्वात् मीसू ६, ८, ४१; -न्वे तैत्रा २२, २.
 रूपा(प-अ)भेद- -दे पावा ६, ४, १२०.
 रूपा(प-अ)वचन- -नात् मीसू २, २, ३.
 रूपा(प-अ)सिद्धि- -द्धिः पावा ७, ४, ८५.
 √रूपि पा ३, १, २५.
 रूपस्^१- > षस्-विन्- > ष्वि- तम- -मः पायू ३, ९, ६^१.
 रूपीय^१- -यः बौश्रौ १५, १ : १४.
 रूपो(प-ऊ)न^१- -नम् वेज्यो २३.
 रूपो(प-उ)पदेश- -शाभ्याम् मीसू ३, २, २५.
 रूपो(प-उ)पमा- -मा या ३, १६.
 रूपो(प-उ)पलब्धि- -ब्धिः मीसू २, १, ३.
 रूपा^१- पा ५, २, १२०; -प्ये विध ९९, १०.
 रौप्य^१- -प्यम् अप ५, २, ५.
 रौप्य-कुम्भ-निभ- -भाः अप ५२, १३, ५.
 रौप्य-खुर^१- -रम् विध ८७, १.
 रौप्यखुरी- -री अप ९, २, १; -रीम् विध ९२, ८.
 रौप्य-द्रव-समा(म-आमा>)म^१- -भेषु अप ६१, १, ५.
 रौप्य-लाङ्गूल-दक्षि(रा>)णा^१- -गा अप ९, २, १.

रूप्य-दान- -नेन विध ९२, १४.
 रूप्य-माष^१- -षम् विध ५०, ४४.
 रूप्य-माष-क^१- -कः विध ४, ११.
 रूप्य-सुवर्ण- -र्णेन शंघ ११६ : ७८.
 रूपा^१- (> रौप्यायणि- पा.) पाग ४, १, १५४.
 ऋरू^१- -राय कौसू ३२, १७; अप ३२, १, ७; अत्र ७, ११६; अर्ष २ : ७२.
 √रूल्ह, रूल्हति निव २, १४१.
 √रूष् पाधा. भ्वा. पर. भूवायाम्.
 रूष्^१- (> रूष्-र-) रूष्य- (> √रूष्य पा.) पाग ३, १, २७.
 रूस्त- पाउना ३, ९३.
 रे पाग १, ४, ५७.
 रे^१ देज्यो १८.
 रे^१-> रे-वत्^१- पावा ६, १, ३७; १७२; -ऋवत् आश्रौ ४, १२, ३; आपश्रौ २२, १२, २०; बौश्रौ; -ऋवतः आश्रौ ८, १, १६; शाश्रौ १०, ८, ७; छुसू २, ११ : १७; -ऋवान् आश्रौ ८, १, १६; शाश्रौ १०, ८, ७xx; आपश्रौ.
 रेवती^१- -ऋंति काश्रौ ६, ५, १०; काठश्रौ ५७; माश्रौ; या १२, ९; -ती गो २, २०^१; -ऋतीः आश्रौ ५, १, १९; ८, १, १६; शाश्रौ; आपश्रौ ३, ६, १ : २३^१; बौपि १, ९ : १^१; हिपि ७ : १२^१; चाअ ४१, ६^१

a) द्रस. > षस. । b) पूष. = एक- । c) परस्परं पाप्मे. । d) विप. > नाप. । e) = रूप- । f) रूपवचनः इति लाघासं. । g) विप. । प्रशंसार्थे छः प्र. उसं. (पा ५, २, १२०) । h) = रजत-दीनार- । i) विकारार्थे प्र. । j) बस. । k) कस. > तुस. > बस. । l) मलो. कस. > बस. । m) उप. = परिमाणवचन- । n) व्यप. ? । o) वैप १ द्र. । p) पृ ७५९ f द्र. । q) = रेवती-नक्षत्र- । r) विप. (रक्षप्-, गो-) । s) पाप्मे. वैप १ रीयते ऋ १६, ५३, ८ टि. द्र. । t) षीम् इति पाठः? (तु. काठ ८, १७ मूको.) यनि. शोधः (तु. ऋ १, ३०, १३) ।

-क०तीः आश्रौ ४, १३, ७;
 ७, ११, ७; शाश्रौ; आप्रश्रौ ७,
 १५, ७; बौश्रौ ४, ६: ३०;
 भाश्रौ ७, १२, ११; वैश्रौ १०,
 १२: ९; हिश्रौ ४, ३, ४७;
 -क०तीभिः काश्रौ २५, ५, २८;
 आण २, ९, ५; माण २, ११, १७.
 रैवत्य^१ - पा ४, ४, १२२;
 -क०त्यम् माश्रौ १, २, १, ११;
 वाश्रौ १, २, ४, ८.
 ररेवती^२ - पा, पाग ४, १,
 ४१; -ति अशां ५, ६;
 -ती बौण १, १, २१; माण २,
 १०, ७; अप १, १, २×४; -क०तीः
 आपमं २, २, ३; ७, २७; आपण
 १२, ८; काण ४१, ५; अप्रा ३,
 ४, १; -तीम् अप १, ८, ८; ४१,
 ६; अशां ५, ६; ११, ६; विध
 २०, २६; -स्या कौण ३, ५, ९;
 शाण ३, १०, १; वाण १५,
 १७; अप १, ३०, २; -त्याम्
 कौण ३, ६, २; शाण; -स्यै शाण
 १, २६, २६; वैण ३, २०: ११;
 अशां १२, ४.
 रैवत- > ०ती-
 -त्याम् अप १८^३, ९, १; १८^३,
 १, २.
 ररेवती- पाग ४, १, १४६;
 पावा ४, ३, ३४.
 रैवतिक- पा ४, १, १४६;
 पाग ४, ३, १३१.
 रैवतिकीय- पा ४, ३,
 १३१.

रेवती-प्रीति- -स्यै विध ९०,
 २६.
 रेवती-युत- -ते विध ९०, २६
 धरेवती^४ - -ती बौश्रौ १३, १४:
 ९; हिश्रौ २२, ३, ३; निसू २,
 १२: ३९; -ती: निसू ४, ४:
 ८×४; -तीनाम् शाश्रौ १२, ६,
 ११; क्षुसू २, १०: २८; ११:
 १८; -तीभ्यः निसू ६, ९: ७;
 -तीषु आपश्रौ २२, ६, १०; हिश्रौ;
 -त्यः द्राश्रौ ६, १, ८; लाश्रौ.
 रेवती-गर्भ^५ - -र्भम् निसू ८,
 २: ३७.
 रेवती-परोक्ष- -क्षम् निसू
 ४, ४: १८.
 रेवती-पृष्ठ- छ. लाश्रौ १०,
 १३, १२.
 रेवती-संशोभ- -गात् निसू
 ६, ६: २३.
 रैवत^६ - -तः आश्रौ ४, १२,
 १; लाश्रौ ७, १, १; -तम् आश्रौ
 ८, १, १६; बौश्रौ; या ७, ११;
 -तस्य शाश्रौ १०, ८, ७; लाश्रौ
 ६, १०, १२; -क०ताय शाश्रौ ९,
 २७, १; बौश्रौ.
 रैवत-गर्भ^५ - -र्भम् शाश्रौ
 १५, ७, ५.
 रैवत-पृष्ठ^६ - -छः वाश्रौ ३,
 २, १, ६१; -छम् शाश्रौ १०, ७, १.
 रैवत-सामन्^७ - -मा^८
 बौश्रौ १६, ४: १३; हिश्रौ १६, ३,
 ३१^९; -मानम् आपश्रौ २१, ७,
 १२६; बौश्रौ १६, ३४: १४.

✓रेक् पाधा. भ्वा. आत्म. शङ्काम्.
 रेक्णस्- प्रथ्. ✓रिक् द्र.
 रेख^१ - (> रैख- पा.) पाग ४, १,
 ११२.
 रेखा- , ✓रेखाय ✓रिक् द्र.
 ✓रेज् (बधा.)^१ पाधा. भ्वा. आत्म. दीप्तौ,
 क०जेते निघ ३, २९; या ३, २१;
 क०जति निघ २, १४^६; या १०,
 ४२^७; रेजन्ते या १४, १९.
 रेजयति या १०, ४२^७.
 ✓रेट् पाधा. भ्वा. उभ. परिभाषो.
 ✓रेट् (क्रोधे), रेठते निघ २, १२^८.
 ररेणु^२ - पाउ ३, ३८; पाग २, ४, ३१;
 -णवः बौध १, ५, ५०; -णुना
 अप ५२, ६, १.
 क०रेणु-कक्राट^३ - -टः आश्रौ ६, १४,
 १८; ९, ५, २; अप ३२, १, १२.
 रेणु-वर्ष^४ - -वैः अप ७०^३ ११, २५.
 ररेणु^५ - -णुः शाश्रौ १५, २६, १;
 ऋअ २, ९, ७०; १०, ८९; साअ
 १, ३३९; ५६०; -णुनाम्^६ आश्रौ
 १२, १४, ६.
 रैणव- -०व आश्रौ १२, १४, ६;
 बौश्रौप्र ३४: २; -वाः बौश्रौप्र
 ३४: १.
 रेणु-वत् बौश्रौप्र ३४: २.
 रेतस्^७ - पाउ ४, २०२; -तः आश्रौ
 २, १६, १९^८; शाश्रौ; आपश्रौ
 ६, ६, १^९; १०, १३, १०;
 बौश्रौ ४, ६: २५^{१०}; १३, ३२:
 १७^{१०}; १८, ९: ३१^{१०}; ४५:
 २१; २८, १: ३०; २:
 ५२; ९: ११; माश्रौ ६, १, ७,

a) वैप १ द्र. । b) = नक्षत्र-विशेष- । c) = पौरुषमासी- । d) = ऋक्, (तत्रस्थत्वात्) सामन्- ।
 वैप १ द्र. । e) वस. । f) विप., नाप. (सामन्-) । मत्वर्थे वा स्वार्थे वा तस्येदमर्थे वा अण् प्र. । g) परस्परं
 पाभे. । h) भ्रान्तम् इति संस्कृतुः शोषः (तु. सप्र. बौश्रौ.) । i) व्यप. । j) तु. BPG. । k) घा. क्तौ
 कृत्तिः । l) उप. = वर्षा- । m) बहु. < रैणव- । n) पाभे; वैप १ रेतस् तै ३, १, ४, ३, टि. द्र. । o) पाभे.
 वैप १, ८७१ b द्र. ।

१६; वाधूश्री ३, १९: २४; ३९:
११; १२; ४२: ४; ४, २४:
३; ४; २८^१: ३; २९: ५-८;
८९: २६; ११६: ३; ११८:
३; ४^२; ७; ८; वैश्री २१, १:
७^३; वैताश्री १२, १; आपमं
१, १२, ८^१क; कौग १,
१२, ६^१क; द्रागृ २, ५, १३;
कौसू २२, ७; अप ३६, ३,
१; ४८, ७^५क^१; आपघ १,
२६, ७; बौध १, ११, ३१; २, १,
२८; ३, ७, २; ४; ४, २, १३;
हिध १, ७, १८; गौध २५, १०;
ऋअ २, १, १६६; वृदे ४, १११;
५, १४९; निघ १, १२^१क^१; या
५, १३; ९, २२; १४, ६^२; -तस:
बौश्री १८, ४५: २६; वाधूश्री ३,
३९: ९; ४, २०: २×४; वैताश्री;
या ३, ४; १४, ६; -नृतसा
आपश्री १३, २१, ३; आमिगृ
३, ८, २: १७; बौपि १, १५:
२७; -नृतसि द्राश्री ७, ३, ४;
लाश्री ३, ३, ४; -नृतसे आपश्री
१६, ३३, १; वैश्री १८, १६:
५७; हिश्री ११, ८, १३;
-नृतसि बौश्री ८, १४: ३८;
जैश्री १९: १८.
रैतस^६-स: सु १७, १.
रैत:पात-नेन आमिगृ २, ७, ५: १.
रैत(स्य>)स्या^१-स्या^१ जैश्री ११:
१३; जैश्रीका १२२; द्राश्री ३,
४, २३; लाश्री १, १२, ८^१; ६,
३, ४; -स्याभि: बौध २, १, २८;

-स्याभ्याम् गौध २३, २०;
-स्याया.^१ लाश्री ७, ११-१२,
३; १३, ७; -स्यायाम्^१ लाश्री
७, ११, ४.
रैतस्या-रथन्तरवर्णा- -र्णे लाश्री
७, ११, २१; निसू २, ७: १७.
रैतस-वत्^१-वते शाश्री २, ५, १६.
नैतस-विन्^१-विनम् बौश्री ५,
४: १७; -वी बौश्री २७, १४:
१३.
रैतस-स्कन्दन-ने बौगृ ४, ११,
१; गौध २३, २०.
रैत-सिच्^१-सिक् बौश्री १०,
३१: १४; ३९: २३×४;
-सिग्भ्याम् माश्री ६, १, ७,
१८; -सिच: आपश्री १६,
२४, ३; १७, १, १६; वैश्री;
-सिचम् आपश्री १७, ४, ३; ७;
बौश्री; -सिचौ काश्री १७, ४,
२२; वाश्री २, २, १, ११.
रैत:सिग्-वेला- -लायाम् काश्री
१७, ४, २१; ६, ३; ८, २; १०, १७;
१२, ६.
रैत:सिक्^१-कम् या ३, ५.
रैत-स्कन्द-न्दे अप ४०, ६, ६.
रैत-स्त्राव-व: वैश्री २०, २५: ३.
रैतो-देवता-> त्य-त्यम् अत्र
६, ११.
रैतो-धस^१-पाउमो २, १, ३४४;
-नृधा: काश्री २३, ३, १;
आपश्री २२, १९, १; बौश्री.
नैरैतो-धा^१-धायै कौसू २४, २०;
अप १८^१, १, ११.

रैतो-धृष्^१-धृक् वागृ १४, १३^१क.
नैरैतो-भृत्-भृत्^१ आपमं १, ३,
१४; बौगृ १, ७, ४२.
रैतो-मूत्र-पुरीष-वाणाम् बौध ४,
६, ७.
रैतो(तस्-अ)वसिक्त-क्ता: बौध ३,
३, ४; ६.
रैतो-विण्-मूत्र-प्राशन-नम् सुधप
८७: ८.
रैतो-विसर्ग-र्ग: बौश्री २७, १:
१८; -र्गे वैध २, ९, ९.
रैतु^१-तु: अप ४८, ८५^१क.
✓रैप् पाधा.भ्वा.आत्म.गतौ.
रैपस्- ✓रिप् द्र.
रैफ-प्रभृ. ✓रिफ् द्र.
✓रैम् पाधा.भ्वा.आत्म.शब्दे.
रैभ^१-पाग ४, १, १०५; -नृभ
शाश्री १२, १४, १; १५, १;
-भ: अप ४८, ९७^१क^१; साअ १,
२६०; २६४×४; अत्र २०, ५४;
५५; निघ ३, १६^१क^१; -नृभम्
अप्राय ६, ९; वैशि २६५;
-भागाम्^१ आश्री १२, १४, ७;
आपश्री २४, १, १५; बौश्रीप्र ४२:
१; हिश्री २१, ३, १३; -भास:
शाश्री १२, १४, १.
१रैभ->रैभी^१-नृभी कौगृ
१, ८, २; शागृ १, १२, ३; वृदे ७,
१२३; -भी: वाधूश्री ४, २९: १९.
२रैभ^१- -भं आपश्री २४,
९, १५; बौश्रीप्र ४२: १.
रैभ्य-पा ४, १, १०५; -भ्य^१
आश्री १२, १४, ७; हिश्री २१,

a) पामे. पृ १४८२ f. १. b) उदक-नामन्. c) विप. > नाप. (अभि-). d) =रैतः शब्दवती-ऋच्- (तैश्चा १, ३० अनुवाकोपलक्षणा- [तु. बौध. संस्कृतः टि.]। e) = [बहिष्पवमानस्य हिष्कृत-ऋच्-। f) 'स्याः इति पाठः १ यनि. शोधः। g) वैप १ द्र.। h) उप. कर्तारि कृत। i) उप. माप.। j) उप. आ. धारणे कृतिः। k) परस्परं पामे.। l) मेधावि-नामन्.। m) बहु. <रैभ-। n) =रैभ्यः। o) परस्परं पामे.।

३, १३; -भ्यस्य अप ५२, ९, ४.
 रेमन्वत् आपश्चौ २४, ९, १५;
 बौश्रीप्र ४२: २; हिश्रौ २१, ३,
 १३.
 रेमन्सुत्- नू ऋग्र २, ९, ९९;
 साज १, ५५०; ५५१; २, ३६६;
 ९८१.

रेमत्- √रिभ् द्र.
 रेभप^१->रैभप- -०प वैध ४, ७, २;
 -पाणाम् वैध ४, ७, २.
 रेभपन्वत् वैध ४, ७, २.
 रेरिवन्- √रि द्र.
 रेरिहत्- √रिह् द्र.
 √रेष् पाधा. भ्वा. आत्म. प्लवगतौ.
 रेवण^१->रैवण- -०ण वैध ४, १, ५.
 रेवणन्वत् वैध ४, १, ५.

रेवत्- रे- द्र.
 रेवत- पाग ४, २, ८०; -तम् शंघ
 ११६: ३५^१.
 रैवतक^१- पा ४, २, ८०.
 १-४रेवती- प्रभृ. रे- द्र.
 रेवन्त- पाउभो २, २, १३८.
 रेदाय- -दारिन्- √रिश् द्र.
 रेदी^१- -शीनाम् वाश्रौ ३, २, ५, ४.
 √रेष् पाधा. भ्वा. आत्म. अव्यक्ते
 शब्दे.
 रेरेष्^१- रेर्द^१ काश्रौ ६, ८, ११; माश्रौ
 १, ८, ५, २४; वाश्रौ १, ६, ७,
 ७; शुष १, ४०३.

रेषण- √रिष् द्र.
 रेहत्. स्^१-(>√रेहाय पा.) पाग ३,
 १, १२.

रेहाण- √रिह् द्र.
 रै^१ पाग १, ४, ५७.
 √रै पाधा भ्वा. पर. शब्दे.
 √रै (भषणे) > रायत्- -यत्सु
 अप ७२, २, २.
 रै^१- पाउ २, ६६; ऋणायः आश्रौ १, ७,
 ८××; ७, ११, ७^१; शाश्रौ; ४,
 १२, ९^२; बौश्रौ ३, २१: १३^२;
 ६, ४: ६^१; १०, १३: ५^१; ११,
 ११: १७^२; हिश्रौ १३, २, ९^२;
 पा ७, २, ८५; ऋणाय काश्रौ
 ९, ६, ९; आपश्चौ १२, १४,
 १२; बौश्रौ; ऋणाय आश्रौ ३,
 ७, ५××; शाश्रौ; वाश्रौ १, ४, ३,
 ३^१; २३^१; या ६, २१^१; १४,
 २६^१.

ऋणयस्-काम- -म्: शाश्रौ १२, ४,
 २४; उस् ३, १, ५, ६.
 रायस्-पोष-> षक- पा.) पाग ४,
 २, ८०.
 रायस्पोष-दा- -दे शुप्रा ५, ६^१.
 रायस्पोष-दावन्- -न्ने बौश्रौ
 ६, १७: ४^१.
 ऋणयस्पोष-वति^१- -नि: आपश्चौ
 ६, ६, ८; बौश्रौ ४, ३: ८; माश्रौ;
 -निम् आपश्चौ १९, ११, ११;
 बौश्रौ ४, ४: ३३; ६, २७:
 ८; १९, २: २०; २३, २: ११;
 जैश्रौ ६: ११; ८: २२-२४.
 रायस्पोषा(ष-आ)दि- -दिषु
 शौच २, ८०.
 रायोवाजीय^१- -यम् लाश्रौ १०,

२, १३; निसू. ३, १०: ६××.
 रैख- रेख- द्र.
 रैणव- रेणु- द्र.
 रैतस- रेतस्- द्र.
 १-२रैम-, रैमी- रेम- द्र.
 रैवण- रेवण- द्र.
 १-२रैवत- रे- द्र.
 रैवैत (वप्रा.)- पाग ४, २, ८०;
 -ऋतः अप ४८, १०१^१; निघ
 १, १०^१; -तम् शंघ ११६:
 ४५^१.

रैवैतक^१- पा ४, २, ८०.
 रैवतिक-, ऋणय- रे- द्र.
 रो^१ वेज्यो १८.
 रोच्यत्- √रुह् द्र.
 रोग- प्रभृ. √रुह् द्र.
 ?रोगीन्^१ आम्रिण ३, ११, १: १०.
 रोच- , ऋण्यु- प्रभृ. √रुह् द्र.
 √रोह् पाधा. भ्वा. पर. उन्मादि.
 रोण- पाउभो २, २, १८४.
 रोणी^१->रौण- पा ४, २, ७८; पावा
 १, १, ७२.
 रोणु- पाउभो २, २, १८४.
 रोद-, रोदन- प्रभृ. √रुह् द्र.
 रोदस्^१->ऋदोसी^१- -सी आश्रौ ३,
 ८, १; ७, ४, ४; शाश्रौ ६, ६, ६;
 आपश्चौ; शुद्धे १, ८३; ११३××;
 कृया ६, १; १०, ४; १०;
 ११, ९; ४९; १२, २६;
 ४६; १३, २; -ऋंसी कृया
 ४, ६; ५, २१; -स्यो:
 बौश्रौ १०, ४: १०^१; माश्रौ;

a) व्यप. । b) = पर्वत-विशेष- इति पागम. । c) वैप १ द्र. । d) पामे. वैप १ मा ६,
 १८ टि. द्र.- । e) पाका. पाठः । f) दाने अनादरे च अव्य. इति पासि. । g) न्युहप्रकारको निर्देशः ।
 h) पामे. वैप १, १९७३ a, १९७४ b द्र. । i) पामे. वैप १ रायः तै १, २, २, १ टि. द्र. । j) पामे. वैप १
 शंघे मा १३, ३५ टि. द्र. । k) वैप २, ३३६ द्र. । l) पर्वत-नामन्. । m) मेघ-नामन्. ।
 n) = मनु-विशेष- । o) = रोहिणी-नक्षत्र- । p) ऋणयः इति शोषः । q) = रोदी [पाम-विशेष-]
 इति वाक्यम्. । r) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र. :

लुप्त ३, १०: ३६; वृदे ६, २;
७, ९.
रोद(स>)सी^०- सी वृदे
५, ११७.
रोद(सी>)सि-प्रा^०-प्राम् या
७, २८१.
रोदितव्य- ✓रुद्र द्र.
श्रोघ- ✓रुद्र द्र.
ररोघ- ✓रुद्र = (✓रुद्र) द्र.
श्रोघ^०- (>रौघ- पा.) पाग ४, १,
११२.
रोघस्- ✓रुद्र द्र.
रोघ(स् >)सी^०- सी अप ४८,
६०१; या ६, १६.
रोघ- पाउमो २, ३, २९.
रोपण- ✓रुद्र द्र.
†रोपणा(क>)का^०- कालु आप्रौ
४, १५, १; भाप्रौ ४, २१, १;
हिप्रौ ६, ४, १८.
रोपमन्यप^०- पानाम^० वैध ४, ६, ४.
रोपमन्यप- ००प वैध ४, ६, ४.
रोपमन्यप-वत् वैध ४, ६, ४.
रोपयिष्यु- ✓रुद्र द्र.
रोमक- (>रौमक-, कीय- पा.
यक्र.) पाग ४, २, ११०; ८०.
श्रोमन्^०- पाउ ४, १५१; पाग ४, २,
८६; ५, २, १००; पावाग ८, २,
१८६; -म, >मा वैश्रौ १०, ६:
२; ऋप्रा ८, २९१; -मभि:
बौगृ ४, ९, ५; -माणि शांश्रौ
१६, २४, २०; कौगृ १, १६, १६;

शांगु; या १४, ७.
रोम-कोटि- द्यय: विध १६, ८८.
रोमण-वत्^०- वन्तौ या ९, २१.
रोम-नख- खानि शांश्रौ ४, १४, ४;
वैश्रौ १, ४: १; अप ११, १, ३;
४६, १, ४.
रोम-वत्- पा ४, २, ८६.
रोम-वपृ- सा वैध ३, १५, २.
रोम-शा, शा^०- पा ५, २, १००;
पाग ४, २, ८०^०; -शा: अप ५२,
५, २; -†शम् शांश्रौ १६, १३,
१०; आपमं १, ११, ११; -शया
वृदे ३, १५५; -शा वृदे २, ७७;
८३; -शाम् बौघ २, १, ५७;
वृदे ३, १५६; -शौ वैश्रौ ८,
११: २.
रौमशीय- पा ४, २, ८०.
रोमा(म-अ)ञ- (>ञ्चित- पा.)
पाग ५, २, ३६.
रोमा(म-अ)न्त- न्ते आगृ १, ७, ५.
श्रोमन्- (>रौमण्य-, रौमायण-,
रौमीय- पा.) पाग ४, २, ८०^१.
रोमन्थ^१- (> ✓रोमन्थाय पा.)
पा ३, १, १५.
रोरवण-, रोहवत्-, रोह्यमाण-
✓रुद्र द्र.
रोष- ✓रुष द्र.
रोषमन्- १२- द्र.
श्रोह- ✓रुद्र द्र.
श्रोह- (>रौहेय- पा.) पाग ४,
२, ८०.

रोहक्षत- (>रौहक्षति-) राहक्षति-
टि. द्र.
श्रोहण- ✓रुद्र द्र.
श्रोहण- पाउमो २, २, १८५.
रोहत्-, रोह-दर्शन- प्रसृ., श्रोहि-
✓रुद्र द्र.
†श्रोहि^१- ही बौश्रौ २६, ३१: १६;
-ह्यो: बौश्रौ २६, ३१: १४; १६.
रोहिण^०- पाउ २, ५५; पावा १,
२, ६४; पाग ४, १, ११०^०;
-गानाम्^१ आश्रौ १२, १४, ४.
श्रोहिण- ००ण आश्रौ १२, १४, ४.
श्रोहिणायन- पा ४, १, ११०;
-न: शुअ ४, १८३.
श्रोहिणी- ✓रुद्र द्र.
श्रोहिणी^०- पाग ४, १, ११०^०; १२३;
श्रोहिणायन- पा ४, १, ११०.
श्रोहिण्य- पा ४, १, १२३; -य:
बौश्रौ १६, २७: २१.
श्रोहिणी- रोहित- द्र.
रोहित^०- पाउ १, ९७; -हित
बौश्रौ २६, ३१: १४^१; वाधूश्रौ
४, ३०: १०; -हित: अप ४८,
९४^१; वृदे ४, १४०^०; निघ १,
१३१^०; १५^०.
रोहिद्-अश्व^०- > रोहिदश्व^०- अश्व:
ऋअ २, १०, १७९.
श्रोहिद्-योजन- न: बौश्रौ २६,
३१: १४^१.
रोहिद्-वत्- वन्तम् बौश्रौ २६,
३१: १६.

a) विप. (ऋञ्-). सास्यदेवतीयः अण प्र. । b) वैप १ द्र. । c) व्यप. । d) = रोदसी ।
e) बहु. <रौपमन्यप- । f) = वाल- । वैप १ द्र. । g) तु. पागम. । h) अर्थः ? । i) = मन्थित-
चर्चण- । व्यु. ? मन्थ- इति उप. मत्वा पूष. <उद्/गृ वा अक्/गृ [निगरणे] वेति पाम. प्रसृ., रोम- (अर्थः ?)
इति अमा., रुञ्- इति P.W. प्रसृ. । ✓रुच् (*मक्षणे) + कर्मणि मन्थः प्र. > *रौकमन्थ- > यन्ति
इति अल्पा सहप्रयुक्तः सच ✓चर इत्यस्य भक्षणे वृत्तिः इति मतम् । j) अर्थः व्यु. च ? । k) तु. पाका. प्रसृ. ।
लोहिणी- इति भाषणाः । l) बहु. <श्रोहिण- । m) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र. । n) = अग्नि-वत् ।
o) श्रौ-नामन्- । p) रुहादरव- > रौहादरव- इति षड्गुणशेषः ।

श्रोहित, ता (बप्रा.)^a- पाठ ३, ९४; पावा १, २, ६४; -तः आपश्रौ ५, १०, १०; २०, १४, ११; बौश्रौ; वाधूश्रौ ४, १९; २९^b; ३०^b; आपसं २, १६, ७^c; अप ४२, २, ११^d; ४८, १४२^e; -तम् शांश्रौ ४, १६, २; बौश्रौ; आमिगृ ३, ७; १: २^f; -ता: याशि २, ३; उनिस् ८: ६; -^gतान् आपश्रौ २०, १४, १३; हिश्रौ १४, ३, १८; -तानाम् अप ४: ३६; -^hताभ्याम् द्राश्रौ १, ४, ५; लाश्रौ १, ४, २; -ताय हिगृ २, १६, ४^f; -ते काश्रौ ४, ८, २x; बौश्रौ; -तेन ⁱआपश्रौ ३, ७, ३; ४, १२, ७; बौश्रौ; -^jतेभ्यः^k अप ४६, १०, २३; अत्र १९, २३; -^lतेषु आपश्रौ १७, ५, ३; वैश्रौ; -^mतैःⁿ कौस् ९२, ४.

श्रोहिणी^o- पाग ४, १, ४१; पावा ४, ३, ३४; पावाग ८, २, १८^p; -^qणि अशां १, ३^f; -^rणी काश्रौ ७, ६, १२; आपश्रौ ५, १८, २^f; २७, ५x; बौश्रौ; अप १, १, २; २-३, १; ११, २^f; १२, १; ३७, २^f; अशां ७, २^f; -^sणी: आपश्रौ २०, २२: ११; गो २, ३२^f; अप १०, १, २०^f; काश्रौ; -^tणीम् शांश्रौ ४, १४, १३; -^uणीषु विष ७८, ९; -^vण्या बौश्रौ २, १२: २०x; आगृ; -^wण्या: अप

५०, ४, २; -^xणाम् आश्रौ २, १, १०; आपश्रौ; -^yणै शांश्रु १, २६, २^f; वैगृ ३, २०: ३; अशां १२, १; -^zण्यौ काश्रौ २२, १, २०.

रोहिणी-कृत्तिका-मृगशिरः- पुनर्वसू (सु-उ)त्तरा (रा-अ)नुराधा- श्रवण-हस्त-विशाखा- -खासु वैश्रौ १, १: २.

रोहिणी-गण- -गम् वैगृ ३, २१: १४.

रोहिणी-प्रभृति- -ति बौश्रौ १०, ४६: १७.

रोहिणी-मृगशिरः-श्रवण- श्रविष्ठो (छा-उ)त्तर- -राणि मागृ १, ७, ५.

रोहिणी-वे (<से)ण- पाग ८, ३, ९८.

रोहित^d-चतुर्थ- -र्थस्य अप ५: ११ⁱ.

रोहित-चर्मन्- -र्म कौस् ७८, १.

रोहित-तूल^l- -लानि माश्रौ ३, ६, ४.

रोहिन-पिपीलिका- -कानाम् कौस् ११६, ३^f.

रोहित-वत्- -^mवः द्राश्रौ १, ४, ७; लाश्रौ १, ४, ४.

ⁿरोहिता (त-अ)ञ्जि^o- -ञ्जि: बौश्रौ १५, २३: ८; २६: १०; २६, ११: ६; वाधूश्रौ ३, ८६: ४.

रोहिता (त-आ)दि- -द्वयः शुभ्र ३, ४२; -^pदीन् काश्रौ २०, ६, ५.

रोहितादि-देवता-> ^qव्य-

-^rयम् अत्र १३, १.

रोहितै (त-ए)त- -ता: बौश्रौ २४: ११: ८.

^sरोहित^k- -^tत शांश्रौ १५, १९, १^u; -^vतः शांश्रौ १५, १८, १^v.

रोहितक^l- पाग ४, ३, १५२^m; -ⁿकः वैश्रौ १०, १: ११; -^oकस्य वाधूश्रौ ४, ६४^o: १०; -^pकेन वाधूश्रौ ४, ६४^o: ९.

रौहितक- पा ४, ३, १५२; -^qकः भाश्रौ ७, १, ५; वाधूश्रौ ४, ६४^o: १०; कागृउ ४०: १७; -^rकम् माश्रौ १, १, ५२; ८, १, ३; -^sका: भाश्रौ १, ५, ७^f; -^tकान् माश्रौ २, ३, १, २; हिश्रौ ८, १, ३२.

रोहितक-स्व- -स्वम् वाधूश्रौ ४, ६४^o: १०.

रोहितिकⁿ- (>रौहितिक- पा.) पाग ४, १, ११२.

रोहिद्-अश्व- प्रम्. रोहित- द्र.

रोहिष्णै ^uरूढ द्र.

रोहीतक^{op}->रौहीतक- पा ४, ३, १५२; -^vकः हिश्रौ ४, १, ११; -^wकम् आपश्रौ ७, १, १६; हिश्रौ ४, १, १२; बौगृ २, ५, १७; २१^f; -^xका: काश्रौ ७; १२०; कागृउ ४६: ६; -^yकान् आपश्रौ १२, २, ८; काश्रौ ६; वैश्रौ १५, २: १४; कागृउ ४१: २.

रौकथ्यⁿ- -^oथ्य वैष ४, १, ५.

रौकथ्य-क- -कनाम् वैष ४, १, ५.

रौकथ्य-वत् वैष ४, १, ५.

a) वैप १ द्र. । b) = बल्य- । c) श्क-नाम्न- । सपा. पाठ १, १६, २४ सोसरः इति, आगृ २, ७: १८ लोहितः इति च पाठे । d) = [अथर्ववेदीय-] त्रयोदश-कारण- । e) = [सूक्त-भाष्य-] देवता- । f) सपा. बौषि १, १७: २ लोहितम् इति पाठे । g) विक्र., नाप. (नक्षत्र-) । h) तु. पागम. । i) रोहिद् इति पाठः ?-अनि. शोभ्य (तु. संस्कृत-वृत्तः) । j) क्व. । k) = हविष्यन्-वृत्त- । l) = वृष-विशेष- । m) तु. पाका. पाणि. १ 'वा' इति भागवत. शोभ्य. । n) व्यप. ।

रौकथ्य^a - ध्यानाम् वैध ४, ३, २.
 रौकम- प्रभृ. ✓रूक् द्र.
 रौक्ष- ररूक्- द्र.
 रौक्षक- रूक्षक- द्र.
 रौक्षायण^a - णाः बौश्रौप्र १: ४;
 -णानाम् बौश्रौप्र १८: १.
 रौक्षायणि- ररूक्ष- द्र.
 रौक्ष्य- ररूक्ष- द्र.
 ररौक्ष्य- ✓रूक् द्र.
 रौचनिक- ✓रूक् द्र.
 रौच्य- ररूचि- द्र.
 ✓रौच पावा. भ्वा. पर. अनादरे.
 रौढि^b (>रौढ्या- पा., पावा.)
 पाग ४, १, ८^c; पावाग ४, १,
 ७९.
 रौढीय- ररूढि- द्र.
 रौण- रोणी- द्र.
 रौदसी- रोदस्- द्र.
 रौदेय- रूद- द्र.
 रौद्र- प्रभृ. रूद- द्र.
 रौघ- ररोघ- द्र.
 रौपमन्यप- रोपमन्यप- द्र.
 रौप्य- प्रभृ. रूप- द्र.
 रौप्यायणि- ररूप्य- द्र.
 रौमक-, ंकीय- रोमक- द्र.
 रौमण्य- ररोमन्- द्र.
 रौमशीय- ररोमन्- द्र.
 रौमायण-, ंमीय- ररोमन्- द्र.
 रौरव- ररूह- द्र.
 ररौरव^d - वम् लाश्रौ ७, २, १; छुस्
 १, २: ७×४.
 रौरव-घौघाजय- न्ये छुस् २,
 ९: ५; गौघ २६, ९.

रौरव^a - वम् विध ४३, ४.
 रौरवक- ररूह- द्र.
 रौरविन्- ररूह- द्र.
 रौरक- ररूह- द्र.
 रौरुकिन्- ररूक- द्र.
 रौशम- रूशम- द्र.
 रौष्ट्यायण^a - नाः बौश्रौप्र ७: १.
 रौहक्षति- रोहक्षत- द्र.
 रौहिण- रोहिण- द्र.
 ररौहिण (बप्रा.)^b - णः अप्र ४८,
 १०१^c; निघ १, १०^c; आज्यो
 १, ९^k; -णम् शाश्रौ १२, १६,
 १^h; सु¹ १३, ५; १४, ३; -णस्य
 सु १५, ४¹; -णे आज्यो २,
 १०¹.
 ररौहिण^m - णम् काश्रौ २६, ४, १६;
 ६, १७; आपश्रौ; -णयोः आपश्रौ
 १५, ५, २०; माश्रौ; -णस्य
 बौश्रौ २, १२: १०; -णाभ्याम्
 दाश्रौ २, २, ३९; लाश्रौ १, ६,
 ३५; -णे जैश्रौ २३: ९; १५;
 जैश्रौका ५५; ६०; -णौ काश्रौ ४,
 ६, १५; २६, ४, ७; १०; आपश्रौ.
 रौहिण-कपाल- खानि माश्रौ ४,
 १, २०; -ले काश्रौ २६, १,
 २०×४; आपश्रौ.
 रौहिण-पिष्ट- -ष्टान् वैश्रौ १३, १६:
 १५; -ष्टानि बौश्रौ ९, ५: ९;
 ६: १२; १३: ३; वैश्रौ १३,
 १७: १०; -ष्टैः बौश्रौ ९, १४:
 १७; १६: ३.
 रौहिणपिष्ट-लेप- -पेन हिश्रौ
 २४, ६, १२.

रौहिणपिष्ट-शेष- -षम् माश्रौ
 ११, १५, २३; -षेण आपश्रौ
 १५, १५, १.
 रौहिण-स्तोम- -मः माश्रौ ४, ३,
 ४५.
 रौहिण-हवनⁿ - ने वाधूश्रौ ३, १००:
 ७.
 रौहिणहवणी^o, नी^e - नी बौश्रौ
 ९, ५: ३; ६: १८; १५:
 ११; १३; -नीभ्याम् बौश्रौ ९,
 ६: १९; -न्यौ काश्रौ २६, २,
 १४; ७, १८; आपश्रौ १५, १५,
 १; माश्रौ ११, १५, ११; वैश्रौ
 १३, ७: १०; १७: ६; हिश्रौ
 २४, २, ५; ६, १२.
 रौहिण-होम- -मात् आपश्रौ १५,
 ११, ८; माश्रौ ११, ११, ९.
 रौहिणक^p - -कम् जैश्रौ २३: १४,
 जैश्रौका ६०.
 रौहिणायन- रोहिण- द्र.
 ररौहिणायन-, ंण्य- ररोहिणी- द्र.
 रौहिणय- -ण्याः बौश्रौप्र ११: १.
 रौहितक- रोहितक- द्र.
 रौहितिक- रोहितिक- द्र.
 रौहिदश्च- रोहित- द्र.
 रौहिष- पाठ १, ४७.
 रौहिष्य^q - न्याः बौश्रौप्र ४९: ४.
 रौहीतक- रोहीतक- द्र.
 रौहेय- ररोह- द्र.

रू

रू^r - लि पा ८, ४, ६०.
 रू-ना(र-अ)न्त- -न्तस्य पा७, ३, ३.

a) व्यप. ।

b) < रूढ- इति पागम. ।

c) तु. पागम. ।

d) = साम-विशेष ।

e) वैप २, ३ख. द्र. ।

f) = नद्रक-विशेष- ।

g) वैप १ द्र. ।

h) विशेषः टि. द्र. ।

i) = फ्यैत-

j) = मेघ- ।

k) = मुहूर्त-विशेष- ।

l) = चन्दन-वृक्ष- ।

m) = पुरोडास-विशेष-

(वैतु. आपश्रौ. सूची विप.) ।

n) = रौहिण-हवनी- ।

o) बौश्रौ ९, ५: ३ हिश्रौ २४, ६, १२ पाठ

p) = १त्त- ।

१ल^१- लम् श्रुप्रा ४, १३; लात्
शैशि ८७; ले श्रुप्रा ४, १३;
शैशि ९७.
१ल-कार-रः ऋप्रा ६, २०; तैप्रा
१४, २६; शौच १, ६४; २,
३५; -रम् तैप्रा ५, २५; शैशि
२८९; -रस्य शौच १, ४६;
पावा १, ३, ३; -रात् ऋप्रा ६,
५; -रे ऋप्रा ४, ८; १४, २७;
तैप्रा २, ४२; शौच २, ३५;
शैशि २८९; माशि ९, ७; -रेण
ऋप्रा १२, ४.
लकार-विदेश- -शात् पावा १,
३, ३.
लकार-पूर्व^१- -र्वं तैप्रा १४, ७.
लकार-भाव- -वे ऋप्रा १३,
३५.
लकार-विसर्जनोय- -यौ शौच
१, ५.
लकार-स्पर्श- -शैः ऋप्रा १२,
१४.
ल-ज- -जयोः शैशि २९१.
ल-तवर्ग- -गौ तैप्रा १४, २१.
ल-पर^१- -रौ तैप्रा ५, २५.
ल-म- -मौ अप्रा ३, २, २८.
ल-श-कार- -रयोः माशि ९, १२;
याशि २, १४.
ल-श-स- -सैः ऋत् ५, ६, १०.
ल-स-तवर्ग- -गांगाम् अप्र ४७,
२, २.
ल-ह-कार- -रयोः माशि ९, १२;
याशि २, १४.
२ल^२- > २ल-कार- -रस्य पावा १,
१, ५; २, ४, ८१; ३, २, १२४.

√लक् √लग् टि. द्र.
लकुच- पाउभो २, २, ७९.
लकुट^१- -रम् अप्र ४०, ३, २; -टैः^२
आपश्रौ १०, २७, ७; भाश्रौ १०,
१८, १४.
लकुड- -डैः हिश्रौ ७, २, ८७.^३
लकुल- (> ल्य- पा.) पाग ४, २,
८०.
√लक्ष् पाधा. नुरा. पर. दर्शनाङ्क-
नयो; आत्म. आलोचने, लक्षेत
अप ५०, १, २.
लक्ष्यते बौध १, ५, ५९; वृदे
१, ८७; २, ५, ५, १५४; ७,
१४०.
लक्ष्येत अप ६८, १, ३७; विध
११, १०; अप्रा ३, १, ३.
†१लक्ष^१^१- -लम् शैशि २९०.
लक्ष-बन्ध- -न्धम् विध ९७, ७.
१लक्षण, पा^१- पाउ ३, ७; -णम्
आश्रौ २, १४, २५; शाश्रौ ३,
२०, ५; काश्रौ; काश्रु १, १२;
१४; ७, २; १५; ३२; आपश्रु १, ३;
१२; २, २; ४, ५; ७, ५, १; १५, ९;
बौश्रु १: १०; १८; १९××;
-णयोः पावा ३, २, १२६;
-णस्य कौसू ६९, १५; बौश्रु १:
२५; पा ६, ३, ११५; -णा शाश्रौ
१, १, १०; -णात् अप ५०, ३,
१; या ४, १०; -णानाम् शाश्रौ
१, १७, १३; बौश्रु ४, २, १५;
-णानि काश्रौ १७, ४, २६; आश्रु
१, ५, ४; काश्रु १४, ३; भाश्रु; -णे
वैताश्रौ ५, १७; गोश्रु ४, २, १९;
कप्र; पा १, ४, ८४; ३, २, ५२;

-णेन आपश्रु १, ४; १२××;
बौश्रु; पा २, १, १४; पावा २, २,
२१; -णेषु आपश्रु १, १२; हिश्रु १,
२२; -णैः अप्र ५५, १, ५; २, १;
३, १; ४, १; ५, १; ६, १; ६२,
४, ५.
लाक्षण^१- -णाः भाश्रु १,
११; १५.
लाक्षणि^१- पा ४, १, १५३.
लाक्षणिक- पावा ४, २, ६०.
लाक्षण्य^१- पा ४, १, १५२.
लक्षण-कर्मन्- -र्मणा आपध २,
२९, १३.
लक्षण-ज्ञ- -ज्ञः अप्र २४, २,
१.
लक्षण-तस्(ः) ऋप्रा १३, ३१.
लक्षण-त्व- -त्वात् मीसू ३, १,
१३; ६, ४, २४.
लक्षण-प्रतिकूल- -लम् कौशि
२३.
लक्षण-प्रतिपदोक्त- -क्तयोः पावा
६, २, २.
लक्षण-प्रशस्त^१- -स्तान् गोश्रु २,
१, २.
लक्षण-मात्र- -त्रम् मीसू ६, ५,
१४.
लक्षण-लक्षित- -त्तम् अप्र ३०^३,
१, १२.
लक्षण-वत्- -वती माश्रौ ४, १,
२०; -वन्तः माश्रु २, १४, १४.
लक्षणवती- -त्यः माश्रु २,
१४, १५; १६; बैश्रु ६७: ८.
लक्षण-संयोग- -गात् मीसू ७,
१, ४.

a) =वर्ण-विशेष-। b) बस.। c) =लिङ्गादि-। d) नाप. (लगुड-। व्यु. ?। e) परस्परं
पासे.। f) =लक्ष्य-। g) वैप १ द्र.। h) नाप. (विह- परिभाषा- लेखा- प्रमृ.)। i) =लक्षण-विद्-।
वृद्धोद्वेग्ये अण्. प्र. (भा. ४, २, ५९.)। j) लक्षणविशिष्टाद् अमत्ये प्र. (तु. पासिबा.)। k) वृत्त. वा बस.
परिभाषितो वा।

लक्षण-संपद्- -पदा वृदे १, ११.
 लक्षण-संपन्न, न्ना- -न्ना कौष्ट १,
 १, ८; शांगृ १, ५, ६; -न्नान् वैश्रौ
 १२, १ : ४; -न्नाम् वैगृ ३, २ : १.
 लक्षण-हेतु- -त्वोः पा, पावा ३,
 २, १२६.
 लक्षण(ण>)णा- -णा पावा १,
 १, ३.
 लक्षणा(ण-ञ्)दि- -दिषु पावा
 २, ३, ८.
 लक्षणा(ण-ञ्)तुपूर्व- -वार्त्
 माश्रौ १, ५, २, १०.
 लक्षणा(ण-ञ्)न्त- -न्तम्
 वैताश्रौ ५, १३.
 लक्षणा(ण-ञ्)न्वित- -ताः विध
 ४५, ३२.
 लक्षणा(ण^b-ञ्)र्थ^c- > र्था(र्थ-
 ञ्)भिसंयोग- -गात् मीसू ११,
 २, २.
 लक्षणा(ण^b-अर्थ>)था^d- -र्था
 मीसू ३, १, २६; ६, ५, ९.
 लक्षणार्थ-त्व- -त्वात् मीसू
 ११, ४, ३०.
 लक्षण(ण^b-आ)वृत्^e- -वृत्त गोष्ट
 १, १, १०; जैगृ १, १ : ३.
 लक्षणिन्^f- -णिना काय १४, ३.
 लक्षणिय- -यः कौष्ट ३, १२, १५.
 लक्षणे(ण-इ)र्थभूताख्यान-भाग-
 वीप्सा- -प्सासु पा १, ४, ९०.
 लक्षणो(ण-उ)पाङ्ग- -ङ्गे अप
 ६५, १, १.
 लक्षणो(ण-उ)पेव- -तम् अप
 ६२, १, ५.

लक्षणो(ण-ऊर>)रू- पा ४,
 १, ७०.
 लक्षण्य^g- -ण्यम् बौश्रौ १७,
 २९ : ११; पाठ ३, १५, २०;
 -ण्यस्य हिश्रौ ३, २, ५०.
 लक्षण्या(ण्य-ञ्)वन्त-
 -न्थस्य वैश्रौ १, ६ : ४.
 लक्षित, ता- -तम् वृदे १, ८६; -ताः
 वृदे ८, ८१.
 लक्ष्म^h- > लक्ष्म्य- -क्ष्म्यम् कौसू
 ४२, १९; अत्र १, १८.
 लक्ष्मणⁱ- -पाठ ३, ७.
 लक्ष्मन्^j- -क्ष्मणि बौश्रौ १५, २९ :
 ३७; -क्ष्मणि गो २, १५;
 वौश्रु ६ : १५.
 लक्ष्मण- > णा^k- -ङ्गाः
 आपश्रौ १७, २२, ५; हिश्रौ १२,
 ६, २६; -णाम् आपश्रौ १६,
 १३, ९; बौश्रौ २६, १८ : ८;
 हिश्रौ ११, ५, २०; बौश्रु ७ : २.
 लक्ष्य- -क्ष्यम् गौघ २२, २.
 लक्ष्य-ज्ञ^l- -ज्ञः शंघ २४४.
 लक्ष्य-लक्षण^m- -णे पापवा १४;
 पावा ४, २, ६०^m.
 लक्ष- √लञ् द्र.
 लक्ष्मⁿ- -क्षः अप ३३, ७, ६; -क्षम्
 अप २६, ५, ८; ३०^o, २, ९; ६५,
 ३, ८; शंघ ४५४^o; -क्षाणि
 विध ९६, ८४; ८८; -क्षान् अप
 ३०, ४, ४; ७०, ४, १; -क्षे अप
 ३०^o, २, १.
 लक्ष-जप- -पात् अप ३६, २७, १.
 लक्ष-जाप- -पात् शंघ ४४१.

लक्षजापो(प-उ)त्तर- -रम् अप
 ३६, २६, १.
 लक्ष-तस्रः (ः) अप ३५, २, ६.
 लक्ष-त्रय- -यम् अप ३६, २२, १;
 विध ९६, ८५.
 लक्ष-त्रितय-वर्धन- -नम् अप ३६,
 २७, १.
 लक्ष-मित- -तम् अप ७०^o, ११, ३६.
 लक्ष-होम- -मः अप ३०^o, १, १, २;
 -मम् अप ३०, १, २; ३०^o, १,
 १; २; ७०, ३, १; -मस्य अप
 ३०, १, १; ३०^o, २, १०; -मान्
 अप ३५, २, ४; -मे अप २५,
 २, ५; ३०, ४, १; ३०^o, १, ४;
 ३१, ५, ४; -मेन शंघ ४४१.
 लक्ष्ण- √लृच् द्र.
 लक्ष्ण^o- (> लाक्षणेय- पा.)
 पागवा ४, १, १२३.
 लक्ष्ण-कर्मन्- -प्रम्. √लृच् द्र.
 लेलक्ष्मण^o-
 लाक्ष्मणि- -णयः बौश्रौ ५१२ : ६.
 लाक्ष्मणेय- पा ४, १, १२३; -याः
 बौश्रौ ५७ : ४.
 लक्ष्मण- १लक्ष्मी- द्र.
 लक्ष्मी(ब.प्रा.)^j- -पाठ ३, १६०;
 पागवा ५, २, १००; पाग ५, ४,
 १५१; -क्ष्मीः आपश्रौ ४, १५,
 ४; बौश्रौः आपमं २, ८, ८;
 कप्र ३, ६, ३; अप ३१, २, ५;
 विध २३, ६१^p; ९९, ४, ७^p; या
 ४, १०; -क्ष्मीम् आपश्रु
 २, ५, ३ : २२; बौगृ ३, ७, १७^p;
 शंघ ११६ : ६५^p, अत्र ७, ११५;

a) बस. । b) = गौणी-वृत्त- । c) षस. । d) = [प्रकरणात् :] भू-संस्कार- (तु. भाष्यम्) ।
 e) षस. उप. < √भा √वृत् । f) = लक्ष्मण- । तद्वद्वेत्यर्थे इति: प्र. उंस. (पा ४, २, ६२) । g) मत्वर्थे
 त्यत् प्र. । h) = लक्ष्मन्- । i) = विह- । j) त्रैप-१-द्र. । k) उप. < √जा । l) उप. = यत्
 म) तु. भाष्या. । n) = संख्या-वक्त्र- । o) व्यस. । तु. पावा. । लेलक्ष्मण- इति भाष्यज. प्रम्. । p) =

-क्ष्म्यम् आपमं १, १, ३^a;
बौध १, १, २४; -क्ष्म्या विध
१, ४३^b; -क्ष्म्यै काठ १७, १;
माण २, १३, ६.

४लक्ष्म-ण- पा ५, २, १००.

१लक्ष्मि-(हृत्>)ङी- ङी आपमं
१, १०, ३; ६; बौध १०, ६, १२;
माण १, १९ : १५.

१लक्ष्मी-पति- -०ते विध ९८, २८.

लक्ष्मी-प्रद- -दः अप २४, ६, १.

२लक्ष्मी^० -> लक्ष्मी-वट्युङ्ग-सहदे-
वी- वीनाम् वैध ३, ९ : १०.

लक्ष्- √लक्ष् द्र.

√लक्ष् पाधा. भ्वा. पर. गतौ.

√लग्^d पाधा. भ्वा. पर. सङ्घे; चुरा.^०
उभ. आस्वादाने, आसादाने.

लग्न- पा ७, २, १८; -ग्नम् बौश्रौ
९, ३ : १६.

लगध^१- -घः वेज्यो ४४.

लगहा-(>लागहि-)लहका- टि. द्र.

लगुड- पाठभो २, २, ११८.

लगुल- पाठभो २, ३, ११०.

लगध- पाठ १, १३५.

१लघि^६ -> लघि-मत्- -मान् कौघ
३, १२, २९.

लघु^h- पाठ १, २९; पाग १, १, ३७^१;

५, १, १२२; पावाग ८, २, १८;

-घवः बौश्रौ २७, ११ : १२;

२९, ८ : २१; -घु बौध ३, ६,

१४^१; ऋप्रा; पा १, ४, १०;

-घुः आपश्रौ २२, ११, ३; बौश्रौ;

-घुवि पा ७, ४, ९३; -घुम् माशि

१०, ११; नाशि २, ६, ३; -घुघु

गोय ३, ३, ३४; द्राण २, ५, ४४^३;

वाघ २२, १५; बौध ३, १०, १७;

४, १, २; २, २; गौध १९, १९;

-घू याशि २, ५४; -घूनि वाघ

२२, १५; बौध ३, १०, १७; ४,

१, १; २, १; गौध १९, १९;

तैप्रा २२, १४; -घोः ऋप्रा २,

३५; पा ६, ४, १६१; ७, २, ७;

४ ९४; पावा ८, २, ८६; -घौ

ऋप्रा ८, ३६; याशि १, ६४.

लाघव- पा ५, १, १२२; -वम्

विध ४२, २.

लाघवा(व-आ)पत्ति- -त्तिः

मीस् ११, ४, ६.

लाघवा(व-अ)र्थ- > ०र्धन्-

-र्थिभिः कप्र ३, ६, १.

लघिमन्- पा ५, १, १२२.

लघिष्ठ- -ष्ठम् निस् ४, २ : २३, ९ :

२; ११; ६, ७ : ९.

लघीयस- -यः कौघ ३, ११, ४५;

ऋप्रा १८, ४४; -यसा लाश्रौ

६, १०, २०.

लघु-कण्टारिका^k- -काः अप १८,

१, १६.

लघु-गीति^१- -तीनि निस् २, ३ : २;

१०; १२.

लघु-चेतस्^१- -तसः याशि १, ७४.

लघु-ता- पा ५, १, १२२; -ता

तैप्रा २४, ५; -ताम् बौश्रौ १८,

४७ : २५.

लघु-स्व- पा ५, १, १२२.

लघु-पुरः-सर^m- -राः कप्र ३, ३,

१०.

१लघुपूर्णभास- -सः अप २०, २,
८.

लघु-पूर्व- -र्वस्य पावा ६, ४, ५६;

-र्वत् पा ५, १, १३१; पा, पावा

६, ४, ५६.

लघु-अयत्न-तर- -रः पा ८, ३, १८.

लघु-मात्र- -त्रात् आश्रौ ८, १४, ४.

लघु-वृत्ति^१- -त्ति ऋप्रा १८, ६१;

-त्ती निस् १, १ : २६.

लघु-शान्ति-गण- -णः अप ३२,

१, २७.

लघु-शान्त्युदक-विधि^m- -धिना अप

६९, ८, ७.

लघु-शास्त्रदोष-तत्त्व-ज्ञ- -ज्ञैः

माशि ११, ४.

लघु-समायुक्त- -क्तम् बौशि २१२.

लघु-हस्त^१- -स्तः शंघ २४४.

ल(घु>)घृ-तर- -रः शैशि २०२;

२०३; याशि २, ५३^१.

लघ्व(घु-अ)क्षर- -रम् ऋप्रा १८,

६१; पावा २, २, ३४; -राणाम्

ऋप्रा १८, ६१.

लघ्व(घु-अ)र्थ- -र्थम् पाप्रा ८, १.

लघ्वा(घु-आ)शिन- -शी शंघ

३७९; ४४३.

१लङ्काङ्गा^० - (> यक. लाङ्कायन-,

लाङ्काकायनि^p-, लाङ्क्य^p- पा.)

पाग ४, १, ९९; १५८.

लङ्क-शान्तमुख- पा, पाग २, ४, ६८.

लङ्कव^{१०} - (> लाङ्कावायनि- पा.)

पाग ४, १, १५४.

२ल(ङ्क>)ङ्गा- पाठभो २, २, ३१;

-ङ्गा जैश्रौका १९५५.

a) सपा. शौ १४, १, ६२ पुत्रिणीम् इति पाभे. । b) = विष्णु-पत्नी- । c) = लता-विशेष- ।

d) या ४, ९; १०; ६, २६ परामृष्टः द्र. । e) √लक्ष् इति [पक्षे] BPG. । f) = आचार्य-विशेष- । g) अर्थः

लघुः न ? । h) वैप १. द्र. । शिक्षाप्राप्तिशाख्ययाशिनीयेषु पारिभाषिक-संज्ञा- । i) तु. पागम. । j) = अल्प- ।

k) = शोषण-विशेष- । l) वसः । m) वसः > उसः । n) कसः > प्रसः । o) व्यप. । p) लङ्काकायनि-

यादिने इति संज्ञः (तु. पागम.) । q) अर्थः ? ।

√लङ्, √लङ्ग^१ पाधा. भ्वा. पर. गतौ.

√लङ् पाधा. भ्वा. आत्म. गतौ, भोजन-निवृत्तावपि; चुरा. उभ. भाषायाम्, लङ्घयेत् अप ६८, २, १; विघ ५, १६८; ६३, ४२; ५०; ७१, ३६.

लङ्क- पाउडु ४, १२.

लङ्घित, ता- -त्म् अप ९, ३, ४; -ता बौध ४, ६, ६.

√लङ् पाधा. भ्वा. पर. लक्षणे.

√लङ् (बधा.) पाधा. भ्वा. पर. मर्जने, भर्त्सने^२; तुदा. आत्म. व्रीडने; चुरा. उभ. प्रकाशने^३ पर. अपवारणे, लज्जति^४ निघ २, १४१.

ल-ज- १ल- द्र.

√लङ्ज^५ = √लङ्

√लङ्ज पाधा. भ्वा. पर. मर्जने; चुरा. उभ. भाषायाम्, हिंसाबलादाननिकेतनेषु प्रकाशने च.

√लट् पाधा. भ्वा. पर. बाल्ये.

लट्वा- पाउ १, १५१.

√लट् पाधा. भ्वा. पर. विलासे^६; चुरा. पर. उपसेवायाम्, आत्म. ईप्सायाम्.

लट्ठुक- पाउभो २, २, २६.

√लण्ड पाधा. भ्वा. पर. जिह्वोन्मथने; चुरा. पर. उक्षेपणे, उभ. भाषायाम्.

√लत् (लम्बने)^७

लता- -ता या ५, २६.

लता(ता-अ)प्र-पल्व- -वः कप्र ३, ६, ६.

लता-पल्व-संज्ञ(त >)वा-

-ता अप २६, ३, ३.

लत^८- (> लातायन- पा.) पाग ४, १, ११०.

ल-तवर्ग- १ल- द्र.

लतु^९- (> लातव्य- पा.) पाग ४, १, १०५.

लत्तिका- पाउ ३, १४७.

√लप् पाधा. भ्वा. पर. व्यक्तायां वाचि.

लापिन्- -पिनः अप ६८, १, ४०.

लाप्य- पा ३, १, १२६.

ल-पर- १ल- द्र.

लपेत^{१०}- -०त पाग १, १६, २४१.

लप्सुद^{११}- > लप्सुदिन्- -दिनः शांश्रौ १५, १, २२.

लव^{१२}- -वः ऋअ २, १०, ११९.

लाव^{१३}- -वम् वृदे ८, ४०.

लव-सूक्त- -क्तम् या ७, २.

लवुक^{१४}- > लवुकायन- -नः मीसू ६, ७, ३८.

√लभ^{१५} पाधा. भ्वा. आत्म. प्राप्ते, लभते आपश्रौ १२, २५, १६;

बौश्रौ २, ७; ७××; लुप्; लभेते निसू ९, ९; १३; १३: २३; अप २९, १, ५; लभन्ते शांश्रौ ७,

२५, १७××; आपश्रौ; लभन्ति अप १, ४३, ४; लभेताम् शंघ २९३; लभस्व शंघ ४५५;

लभेत शांश्रौ १३, २४, १६; आपश्रौ २२, १०, २०; बौश्रौ; लभेत् आमिष्ट २, ७, ६: १०;

१४^{१६}; कप्र; लभेयाताम् निसू ९, १३: २४; लभेरन् बौश्रौ २१, १: १××; द्राश्रौ; ऋलभेमहि गौपि

२, ५, १२; विघ ७३, ३०.

लेभे शांश्रौ १५, १७, १; बौश्रौ १८, ४५: ३; वृदे ६, ६८; ७, ५०;

८, १८; लप्स्यसि माग २, ११, १११; ऋलप्सीय आपश्रौ ८,

१८, ४; माश्रौ ८, २२, १; माश्रौ १, ७, ७, ८; वैश्रौ ९, ११: १०;

हिश्रौ ५, ५, १६१^{१७}; अलप्स्यन्त निसू २, १३: २१, २३.

लभ्यते अप ३१, २, ४; याशि २, ११६; लभ्यते वैश्रौ २०,

३४: ५; कौसू ८९, ३.

लिप्सते बौश्रौ ५, १६: २५; लिप्सन्ते बौश्रौ ५, १६: २२;

वाधुश्रौ ४, १९: ३८; अलिप्सत शांश्रौ १५, २४, ११^{१८}.

लिप्सेत शांश्रौ ८, ८, ७; बौश्रौ २४, १२: ११; ३३: ९; गोष्ट १, ९,

१४; वाघ १०, २१; बौध १, ३, ९; २, १०, ४२; गौध १०, ५७;

२८, २३; लीप्सेत आश्रौ १२, ८, २४.

!लप्स्यन्- -नात् या ४, १०.

लब्ध-ब्धा- -ब्धः बौश्रौ २४, २०: ६; निसू १०, ९: २५; -ब्धम्

काश्रौ ७, ५, २; गौध १०, ३९; -ब्धे वैध ३, ७: २; -ब्धेन

विघ २८, ५०; -ब्धेः वैध १, ७, ५.

लब्ध-का(म >)मा- -मा

विघ २८, ४; १०२.

लब्ध-लक्ष^{१९}- -क्षः विघ १७, ७^{१९}.

a) या ६, २६ परामृष्टः द्र. । b) तु. BPG. । c) √लञ्ज, वण्ट् इत्येके इति भागडा. । d) घा. मत्तौ वृद्धिः । e) या ४, १० परामृष्टः द्र. । f) ईप्सायामिति BPG. । √लल् इति [पक्षे] भागडा. । g) या ५, २६ परामृष्टः द्र. (तु. SBY[७८]) । h) तु. पाम्यम. । i) = बालग्रह-विशेष- । j) वैप १ द्र. । k) व्यप. । l) = लृक्- । मत्तौ पा ७, १, ६४; ६७; ६९; ४, ५४ परामृष्टः द्र. । m) लिं इति पाठः इति. श्लोचः (तु. सपा. कठ [१९, ७] अमृ.) । n) शुक. वैप २, ३ खं. अलप्सत एजा ७, १७ टि. द्र. । p) वस. उप. = १लक्ष- । q) लब्ध लब्धम् इति जीवः ।

लब्ध-संज्ञा > संज्ञा-सम् कश्च
२, १०, ६०.
लब्धा (ब्ध-आ) शिन्- शी
शंघ ४३३^{१०}.
लब्धा (ब्ध-अ) सु^{१०} - सुम् वृदे
७, १०२.

लब्धवत्- वान् अप ३१, ३, ५;
वृदे ५, ६६.

लब्ध- ष्धा पा ४, ४, ८४.

लब्धा वाधुश्री ४, १९: ३९; वैश्री,
निस् ४, २: ३५^{११}.

लभमान- नस्य बौश्री २०, ४:
२७; २४, ३१: ९.

लभ्य- > लभ्या (भ्य-अ) वगध-
-धम् बौश्री १७, ४८: १६^१.

लभ- भः अप ३६, ६, ३; ६८,
२, १७; -भम् आपध १, ३, २५;
हिध १, १, १००; आच्यो ७, ११;
-मात् या ४, १०; -भे अप ४८,
४०; ६८, २, ५६^२; वाध १०,
२२.

लभ-काम- मस्य काश्री ४,
७, ३.

लिप्सत्- प्सन्तः विध ४३, ३७.

लिप्सा- प्सा मीसू ४, १, २;
-प्सावाम् पा ३, ३, ६; ४६;
पावा १, ३, २५.

लिप्सितुम् अप १, ९, २.

लिप्सित्वा द्राश्री १३, ३, ६; लाश्री
५, ३, ९.

लिप्स्यमान- > न-सिद्धि- ष्टौ
पा ३, ३, ७.

लभस- पाठ ३, ११७.

लभ्य- प्रभ्. √ लम् द.

रलभ्य- (> लाभ्य-पा.) लह्व- टि. द.

√ लम् (√ = रम्), ललाम् मु २२, ३.

ल-म- १ ल- द.

लमक^१- पाठ २, ३३^१; पाग २, ४,
६९; ४, १, ९९; -का: १ बौश्रीप्र
२३: १.

लामकायन- पा ४, १, ९९; -नः
द्राश्री १२, १, ३६; लाश्री ४, ९,
२२; ६, ९, १८××; निस् ३, १२:
२८; १३: ३८××; वृदे ३, ४७;
-ना: बौश्रीप्र ३१: ३.

लामकायनिन्- पा ४, ३, १०५;
-निनाम् काठश्री २४.

√ लम्^१ पाधा. भ्वा. आत्म. शब्दे
अवसंसने च, लम्बते वाधुश्री ४,
६४: ६; १०; सु ७, १; लम्बन्ते
वाध १६, ३२.

लम्बयति हिश्री १६, ६, ३३.

लम्ब- स्वम् कप्र १, १, ३.

लम्ब-कर्मन्^१- मणः या ५, २६.

लम्ब-चूडक^१- कः या १, १४.

लम्बो (म्ब-उ) द्र^१ - रः
बौश्रीप्र २२: २; -रम् बौध २,
५, २१^१.

लम्बो (म्ब-ओ) ष्ट^१ - ष्टः शैशि
१६०; पाशि २७; माशि १५,
२; याशि १, २६; नाशि २, ८,
१२.

लम्बन्^१ - > न-स्तन^१ - नान्
आपम २, १३, १२; आग्रिप्र २,
१, ३: २१; भाश १, २३: १३;
हिश २, ३, ७^१.

लम्बमान- नम् सु ७, १; -ना:
विध ४३, ४२.

रलम्ब- > लम्बा-विश्वयस्^१-

लय- √ ली द.

√ लब् पाधा. भ्वा. पर. गतौ.

√ लल्^१ > लालन^१ - ना: अप
६८, १, १०.

ललाट^१- पाग २, ४, ३१; ५, २, ९७;
-टम् शांश्री २, १२, १; ४; काश्री
६, ४, १०; काग; -टात् माशि
१, १२; नाशि १, ५, ६; भास्
३, २३; -टानि वैश्री १७, ११:
६; -टे शांश्री १६, ३, २९;
आपश्री.

लालाटिक- पा ४, ४, ४६.

ललाट-तप- पा ३, २, ३६.

ललाट-प्रमा (रा >) गा^१ - गाम् अप
३०^१, २, २.

ललाट-संमित- तः शांश्री २, १,
२२; पाग २, ५, २८; कप्र ३, ८,
१२; वाध ११, ५६.

ललाट-हृद्-बाहु-कण्ठा (रठ-आ)-
दि- डीन् वैप १, २१: ८.

ललाटां (ट-अं) स-श्रोणि- -णिषु
काश्री ६, ४, २.

ललाटा (ट-अ) क्षि-नाण्ड- ष्ठे विध
९६, ७४.

ललाटा (ट-अ) न्त- > न्तिक-
-कः कौश्र २, १, २२^१.

रललाटा (ट-अ) न्त^१ - न्तः वैप २,
४: ३^१.

ललाटा (ट-अ) भिमर्शन- नात् काग
३६, २.

a) वस. । b) ष्ती: इति षाठः इ यनि. शोचः (तु. ४४३ लब्धासी इति पाठे.) । c) उप. = प्राण- ।
d) षाठः? लब्ध- > ष्धा इति शोचः (तु. संस्कृतुः टि.) । e) तु. पृ २७७ f) मूयान् मूको. पाठः ।
g) व्यय. । h) < √ लम् । i) बहु. > लम्बकायन- । j) या ६, २६ परामुष्टः द्र. । k) कर्तरि कृत. ।
l) = वाक्यह-विधि- । m) लम्बस्त^१ इति षाठः इ यनि. शोचः (तु. आपमं. प्रभ्. संस्कृतुः टि. च) ।
n) पृ १०९२ ज. । o) पृ २०९८ f द्र. । p) वैप १ द्र. । q) परस्परं पाठे. ।

ललाटिक ^३ - कान् आप्रौ ११, ४, १२.	लवण-जल-निधि- -धिम् अप्र ६८, ३, १०.	विध ९२, १८.
लला(ट-क >)टिका- पा ४, ३, ६५.	लवण-तैल-पिण्याक-जीविन्- -वी वैध ३, १४, ६.	३लवण- (>णी ^१ - पा.) पाग ४, १, ४१.
ललाहूल- पावा ५, २, ९७.	लवण-तैल-विश्वेत्- -ता वैध ३, १३, १२.	४लवण-, °न- √लू द्र.
ललाम ^० -मः बौश्रौ १८, ३० : ७; -मम् काश्रौ २०, १, ३१; -मान् माश्रौ ५, २, १०, ४४.	लवण-प्रदान- -नेन विध ९२, १८.	लवल् ^१ - (>ली- पा.) पाग ४, १, ४१.
ललामी ^० -मी बौश्रौ १८, ३० : ७; -मीम् बौश्रौ २३, १८ : ३७.	लवण-मिश्र- -श्रेण आपृ १८, १; -श्रैः अप्र ३५, १, ९.	लवाक- पाउना ४, १४.
लालामिक- पा ४, ४, ४०.	लवण-मृहीची- -चीः कौसू ४७, ४६.	लवाणक- पाठ ३, ८३.
ललाम-गु ^० -गुम् शाश्रौ १२, २४, २; १६, ४, ६; लाश्रौ ९, १०, ६.	लवण-वर्जम् वागृ ४, २४.	लवानक- पाठभो २, २, ३४.
ललामन्- पाठभो २, १, २८५.	लवण-व्यञ्जन- -नानि वाध १४, ३१.	लवि- पाठवृ ४, १३९.
१लव (> लव-स-पा.) पाग ४, २, ८०.	√लवणस्य पा, पावा ७, १, ५१.	लवित्र- √लू द्र.
२लव ^० -वः, -वाः आज्यो १, ४.	लवण-हिङ्गु-लशुन-मधु-मत्स्य- मांस-पूत्यन्ना(ज-अ)म्ल-परस्प- शान-परवाग्-वर्जिन्- -जौ वैध १, ७, ३०.	लव्यावुद ^६ -दः बौश्रौप्र ४९ : २.
लवक- √लू द्र.	लवणा(ए-अक्त >)का- -क्ताम् याशि १, ३८.	ल-श-कार-, ल-श-स- १ल- द्र.
लवङ्ग- पाठ १, १२०.	लवणा(ए-आख्या >)ख्य- -ख्येन नाशि २, ८, ६६.	लशुन- पाठ ३, ५७; पाग २, ४, ३१ ^६ ; -नम् वैध २, १५, ५.
१लवण, पाण ^० - पा ४, ४, २४; पाग १, ४, ७४; पा, पाग ५, २, १२७; -णम् बौश्रौ २, २० : ४; २८, ८ : ४; द्राश्रौ १, १, १२; लाश्रौ; -णस्य कौसू ६८, ११; अप्र ३६, १०, २; ६८, २, ४६; -णाभिः बौध १, ५, १४; -णेन अप्र ३५, १, ११; वाध २, २७.	लवणा(ए-उ)दक ^६ - -कम् शंघ ११६ : ७.	लशुन-गृञ्जन-पलाण्डु-कुम्भीक- श्राद्धसूतका-मधु-मांस-मूत्र- पुरीष-रेतो(तस्-अ)मेध्य- भक्षण- -णे सुध २१ ^१ ; २२ ^१ .
लावणिक- पा ४, ४, ५२.	लवणो(ए-उ)दक-मिश्र- -श्रेण भाग २, ७ : ५; हियृ २, ७, २.	लशुन-पलाण्डु-क्याकु-गृञ्जन-रले- ध्मान्तक-वृक्षनिर्यास-लोहित- व्रश्चन-शकाकावलीड-शूद्रोच्छे- षण-भोजन- -नेषु वाध १४, ३३.
लवण-कृतान्न- -न्नयोः गौध ७, १९.	लवणो(ए-उ)दृष्टत- -तः बौध २, १, ५६.	लशुन-पलाण्डु-गृञ्जनक-कुम्भीका - (क-आ)दि- -दीनाम् सुधप ८७; ८.
लवण-क्रीवा(व-आ)सव-नर्तुसक- कार्पास-रज्जु-निगड-मुक्तकेश - -शान् विध ६३, ३८.	लावण्य- पा ५, १, १२३; -ण्यम्	लशुन-पलाण्डु-गृञ्जन-कूर्म-कुक्कुट- भक्षण- -णे काध २७४ : ३.
लवणं/कृ पा १, ४, ७४.	२लवण ^३ - पाग ५, १, १२३; -णाः अप ६८, १, १०.	लशुन-पलाण्डु-गृञ्जन-छत्राक- नालिक-विड्वराह-ग्रामकुक्कुट- नख-रोम-मांस-भक्षण- -णे शंघ ४१८.

a) विप. (शङ्कु-) । तत्रभवीयः प्र. । b) वैप १ द्र. । c) = काल-वचन- । < √लू इति
अभा. । d) विप., नाप. । e) °पूत्यन्नधान्याम्लपरस्पशानपरपाक° इति c. । f) णाप्येन इति कालिर्ष. ।
g) = समुद्र-विशेष- । बस. । h) = सुन्दर- । i) = ओषधि- इति पागम. । j) तु. पागम. ।
k) व्यप. । l) लशुनं जनपलण्डुकुम्भीकः श्राद्धसूतकाः । न मधु इति पाठः ! यनि. समुदितः शोचः (दुः
सिक्वर्तुः टि. अपराकः) ।

लशुन-पलाण्डु-गृह्य-विड्वराह
 ग्रामकुक्कुट-कुम्भीक-भक्षण-
 -णे शोध ४२१.
 लशुन-पलाण्डु-गृह्यनै (न-ए)तद्वन्धि-
 विड्वराह-ग्रामकुक्कुट-वानर-गो-
 मांस-भक्षण^१-णे विध ५१, ३.
 लशुन-पलाश(?) रडु^२-कुम्भी-नव-
 श्राद्धसूतिका(?)कात्र^३ मधु-मांस-
 मूत्र-रेतो(तस्-अ)मेध्य-भक्षण-
 -णे सुधप ८३ : १.
 √लष्^४ पाधा. भ्वा. उभ. कान्तौ;
 चुरा. ८ उभ. शिल्पयोगे (शिल्पो-
 पयोगे) > लषण- पा ३, २,
 १५०.
 लाषुक- पा ३, २, १५४.
 लष्व- पाठ १, १५३.
 √लस्^५ पाधा. भ्वा. पर. श्लेषणक्रीड-
 नयो: > लालसा- सायाम्
 पावा ७, १, ५१.
 ल-स-तवर्ग- १ल-द्र.
 लसुष- पाठना ४, ७९.
 √लस्ज् पाधा. तुदा. आत्म. व्रीडने.
 लस्पूजनि^६-> ०नि-प्रतिह् (त>)
 ता- तया काश्रौ ८, ४, १८.
 लहका- पाग ४, १, ९६^६; पावाग ७,
 ३, ४५६.
 लाहकि- पा ४, १, ९६.
 ल-ह-कार- १ल-द्र.
 लह्य^७- (> लाह्य- पा.) पाग २, ४,
 ६३^६; ४, १, ११२.
 √ला पाधा. भ्वा. पर. आदाने
 दाने^८ च.

लाक्षण-, ०णि- प्रभृ. √लत् द.
 लाक्षाण्य- २लक्षण- द.
 शलाक्षा^९- पाठभो २, ३, १९१; -क्षया
 वाध २, २७; -क्षाम् अश्र ५, ६;
 -श्रया: शोध ४०५.
 लाक्षा-रक्त- -क्तम् शैशि २२४;
 याशि २, ७६; -क्तेन कौसू ७६, ८.
 लाक्षा-रुधिर-संकाश- -शः अप
 ५०, ६, ५.
 लाक्षा-लि(ङ्)ङ्गा^१-ङ्गाभिः कौसू
 २८, १४.
 लाक्षा-लोहित-वर्ण-त्व- -त्वम्
 अप ६४, ५, ७.
 लाक्षिक- पा ४, २, २; -कम् अश्र
 ५, ५^३.
 रलाक्षा^२- -क्षा वृदे १, १२९; २, ८४.
 लाक्ष^३- -क्षम् वृदे ८, ५१.
 लाक्षमणि-, ०ण्य- ३लक्ष्मण-द्र.
 √लाख् पाधा. भ्वा. पर. शोषणालम-
 र्थयोः.
 लागहि- लगहा-द्र.
 √लाघ् पाधा. भ्वा. आत्म. सामर्थ्ये.
 लाघव- लघु-द्र.
 लाङ्गवायनि- लङ्कव-द्र.
 लाङ्गाकायनि-, लाङ्गायन- १लङ्क-
 द्र.
 लाङ्कि- १लङ्क-टि. द्र.
 लाङ्केय- १लङ्क-द्र.
 शलाङ्गाल^४- पाठ १, १०८; -लम्
 आपश्रौ १६, १८, ६; १९,
 २^५; बौश्रौ; या ६, २६^५कृ;
 -लयोः कौसू ९३, १४; -लानाम्

अप ६४, ३, ६; -ले कौसू १०६,
 १; -लेन बौश्रौ १८, २० : ५;
 -लेभ्यः कौसू २७, १^६.
 लाङ्गल-बन्ध- -न्धम् माश्रौ २, १,
 ४, ५.
 लाङ्गल-योजन- -नम् पाठ २,
 १३, १.
 लाङ्गल-वृत्ति^१- -त्तिः काध २७० : ६.
 लाङ्गल-स्थायिन्- -यी अप ५०, ६, ३.
 लाङ्गल-दल-चक्र-पतन- -ने काध
 २७६ : ११.
 शलाङ्गलिन्- -ली अप ५०, ४, ५;
 ५, १.
 लाङ्गलीषा- पावाग ६, १, ९३.
 लाङ्गले-गृह्य^२
 लाङ्गले(ल-ई)षा- -षा शाश्रौ १४,
 ४०, ८; काश्रौ २२, ३, ४८;
 आपश्रौ २२, ३, ७; लाश्रौ ८, ३,
 ६.
 लाङ्गल्य, ल्या^३- -ल्यम् बौश्रौ १८,
 २० : २; -ल्यस्य बौश्रौ १८,
 २० : २; -ल्याम् बौश्रौ १८,
 २१ : १३; १४.
 लाङ्गलायन^४- -नाः चव्यू ३ : ५.
 लाङ्गलि^५- -लिः अप्राय २, २; ३.
 रलाङ्गलिन्^६-> रलाङ्गल^६- पावा
 ६, ४, १४४.
 लाङ्गुल-> ०ले-गृह्य^७
 लाङ्गुल^८- पाठ ४, ९०; -लम् बौश्रौ
 १६, २० : ११; या ६, २६^५कृ;
 -लेन शाश्रौ १७, ५, १०.
 लाङ्गुल-गृह्य^९ पाग २, १, ७२.

a) 'ग्राम्य' इति जीसं. । b) पाठः 'यनि. शोधः । c) या ४, १० पा ३, १, ७० परामृष्टः द्र. ।
 d) √लस् इति [पत्ते] BPQ. । e) नाप. (बृहत्काष्ठमयी- सूची-) । f) तु. पागम. । g) लगहा- इति
 पागम., हलका- इति पासि. [चौसं.] । h) व्यप. । i) रलय- इति पाका. । j) चन्द्रमतम् (तु. पासि.) ।
 k) वैध १ द्र. । l) नस. । m) साऽयदेवतार्थे ठक् प्र. । n) = [मध्यमस्थानीय-] देवता-विशेष- । o) तस्येद-
 मीयः अश्र प्र. । p) तु. पाका. । लाङ्गुलेगृह्य, लाङ्गुलेगृह्य इति भारुडा. । q) तस्मैहीतीयः यत् प्र. ।
 r) = साखाध्यायिन्- ।

लाङ्गूलवत् या ६, २६.

√लाज्^१ पाधा. भ्वा. पर. भर्जने, भर्त्सने च.

लाज, जा^१ - जा: बौश्रौ १७, ३१ : १४; वाश्रौ ३, २, ७, ३; माश्रु; या ६, ९६; -जान् आपश्रौ १२, ४, १०; १३^१; २०, १०, ५; बौश्रौ; कौश्रु १, ८, २३^१; शाश्रु १, १४, ११^१; बौश्रु १, ४, २६^१; माश्रु १, १६; १५^१; माश्रु १, ११, १२^१; वाश्रु १४, १८^१; हिश्रु १, २०, ४^१; जैश्रु १, २१; २२^१; या ६, ९६; -जानाम् काश्रौ १२, १, १८; बौश्रौ १७, ३१ : १९; गोश्रु; -जेभ्यः आपश्रौ १२, ४, १४; -जेषु कौश्रु १, ८, २२; -जैः आपश्रौ २०, १०, ६; बौश्रु १, ६, १७^१; अप ४४, ३, १०; शंश्रु २१८.

लाज-चूर्ण- -र्णानि काश्रौ १९, १, २७.

लाज-पूरण- -णम् वैश्रु ३, ३ : ११.

लाज-होम- -मः काश्रु २५, ३४; -मम् वैश्रु ३, ४ : २.

लाजा-चर्मन्^१ - -र्मणि बौश्रौ १५, १६ : ३.

लाजा-धा(र>)री^१ - -र्याः माश्रु १, १०, ४; -र्यैः माश्रु १, ११, १०.

लाजा(ज-अ)ञ्जलि- -लिना वैश्रु ३, ३ : १.

लाजा(ज-आ)दि- -दि पाश्रु १, ७, ४.

लाजादि-संभार-वर्जम् आपिश्रु

१, ६, ३ : ५९.

लाजा(ज-अ)नुले(पक>)पिका-

-काः अप १, ३४, ५.

लाजा(ज-अ)र्थ- -र्थम् आपश्रौ १२, ४, ९; हिश्रौ ८, १, ५२; -र्थान् आपश्रौ १२, ४, ५; ८; वैश्रौ १५, ४ : १०; हिश्रौ ८, १, ५१.

लाजा(ज-आ)हुति, ती- -तिम् बौध १, ११, ४; -तीषु वाश्रु १४, ७. ऋजि^१ - -जी ३न् काश्रौ २०, ५, १८; आपश्रौ २०, १६, १९; बौश्रौ.

√लाञ्छ् पाधा. भ्वा. पर. लक्षणे.

लाञ्छन- -नात् या ४, १०.

√लाञ्ज् पाधा. भ्वा. पर. भर्जने भर्त्सने च.

लाद्- (>√लाट्य पा.) पाग ३, १, २७.

लाडि^१- (>लाड्या- पा.) पाग ४, १, ८०; पावाग ४, १, ७९.

लातव्य- लतु- द्र.

लातायन- लत- द्र.

लान्द्र- (>लान्द्रक- पा.) पाग ५, ४, २९.

लापिन्^१, लाप्य- √लप् द्र.

लाव- लव- द्र.

लाबुकायन- लबुक- द्र.

लाभ- प्रभृ. √लभ् द्र.

लाभ्य- रलभ्य- द्र.

लाभ्यस्त्वेस्वेनातमापयति वाश्रौ ३, ४, ३, ४९.

√लाम् पाधा. चुरा. उभ. प्रेरणे.

लामकायन- , णिन्- लमक- द्र.

लाय- √ली द्र.

लालन- √लल् द्र.

लालसा- √लस् द्र.

लाला-> लाला-प्रकोप- -पः वैश्रु ३, १० : २.

लालाटिक- ललाट- द्र.

लालामिक- ललाम- द्र.

लाव^१- पाउभो २, ३, १२७. १लाव-क^१ - -कम् शंश्रु २२३.

रलावक^१- (>कायनि- पा.) पाग ४, १, १५४.

लावणिक- १लवण- द्र.

लावण्य- २लवण- द्र.

लावर्णि^१- -र्णिः बौश्रौ ४९ : २.

लावेरणि^१- (>णीय- पा.) पाग ४, २, १३८.

लाषुक- √लष् द्र.

लाहकि- लहका- द्र.

लाह्य- लह्य- द्र.

लिक्षा(वप्रा)^१- पाउभो २, ३, १७०; पावाग ८, २, १८^१; -क्षा विध ४, २^१.

√लिख् (बधा.) पाधा. तुदा. पर. अक्षरविन्यासे, लिखति काश्रौ ५, ३, २२; ४, १; १७, ३, १०; आपश्रौ १, २५, १४; बौश्रौ; लिखेत् बौपि ३, ९, २; अप १९^२, २, ४; शंश्रु २४३; काश्रु ७, ३८; आपश्रु १६, १०.

लिखेत् बौश्रौ १८, १९ : ६^१; ऋषीः काश्रौ ६, १, १६;

आपश्रौ ७, २, ७; बौश्रौ ४, १ : २३; माश्रौ ७, २, १.

लिखक- पाउना २, ३२.

a) या ६, ९ परामृष्टः द्र. b) वैप १ द्र. c) पाश्रु. पृ ११९० ० द्र. d) उप. = चर्ममय-^१

पुत्र-विशेष- e) उप. कर्तारि <ष्ट। f) व्यप. g) = पक्षि-विशेष-। <√ल इति अभा. h) स्वार्थे क-प्र. i) <लावेरण- <लाव- इति पागम.। सौवेरणि- इत्यन्यः (तु. पागम.)। j) नाम.। वृ. १

<√लि लिङ् इति पाउभो; <√लिङ् इति पाउभु ३, ६६; <√लष् इति अभा.। k) तु. पागम.। l) = [त्रलरेणु-अष्टक] परिमाण-विशेष-। लिख्या इति जीसं.।

लिखत्-खन्तौ माश्रौ २, ४, १, १२.
 लिखित-तम् वाध १६, १०;
 विध ३, ८२; ६, २३; २५; ७, ४; ९
 लिखित-पाठक-कः शैशि
 २०२.
 लिखिता(त-अ)र्थ-थे विध ६,
 २५.
 लिखित^१-तम् शंघ ११६: ४१;
 -ताय वैश २, १२: १४.
 लिखित्वा आपश्रौ १२, ११, ६;
 माश्रौ १, २६, १०; हिश्रौ; कप्र
 १, १, १४^०.
 लिख, खा^१-पाग ३, १, २७; ३,
 १०४; पावाग ८, २, १८^०;
 -खयोः काश्रु १, २; -खाः काश्रौ
 २, ६, २०; आपश्रौ १, २, १४;
 २, २०, ९; १२, ११, ६; १०;
 १४, २; बौश्रौ; हिध २, १, १३^१;
 -खान् माश्रु २, १४, ६; -खानाम्
 माश्रौ १, २, ४, ८; -खाम् माश्रौ
 २, ६, ९; १४; आपश्रौ; द्राश्रु १,
 २, २^६; आपश्रु १८, ८; बौश्रु १:
 १०; हिश्रु ६, १३; -खायाः
 आपश्रौ १२, ११, ६; हिश्रौ २३,
 २, ६; -खायाम् काश्रौ ४, १,
 ११; आपश्रौ १२, १२, १; बौश्रौ;
 -खासु बौश्रौ १, १०: १४;
 माश्रौ १, २, ४, ३; वैश्रौ ४, १०:
 १६; -खे शाश्रौ १७, १०, ४.
 लेखा(खा-आ)धिक-कम् अप

३०^३, १, १४.
 लेखा(खा-अ)धिकार-रः
 आपश्रौ १६, ३४, १; वैश्रौ १८,
 १६: ४५.
 लेखा(खा-अ)न्त-न्तयोः
 आपश्रु २, १; हिश्रु ३, २१; -न्ते
 माश्रौ १, २, ४, ९.
 लेखा(खा-अ)न्तराल-लेषु
 बौश्रौ १२, ३: ३२.
 लेखा-प्रसृति^१-तिभिः द्राश्रु १,
 ४, ३.
 लेखा-अ^१-पा, पाग २, ४, ६९^१;
 ४, १, १२३.
 लेखा-अ^१-(> लैखाम्नेय-पा.)
 पाग ४, १, १२३^६.
 √लेखाय पा ३, १, २७.
 लेखा-संधि-घिषु गोश्रु २, ३,
 ६^१.
 लेखा-समर^१-रम् आपश्रु २,
 १; हिश्रु ३, २१.
 √लेख्य पा ३, १, २७.
 लेख^१-पा ६, ३, ५०.
 लेख-प्रदण-णात् पावा ६, ३,
 ४९.
 लेखक-कः विध ७, १३; -काः
 अप ६३, ४, २; -केन विध ७, ९.
 लेखन^१-नम् कौसू १३७, १२;
 अप ५१, २, ३; -ने अप ५१,
 २, ४; ५, ५.
 लेखन-बेला-लायाम् माश्रौ
 ४, १, २०.

लेखयित्वा शाश्रौ १७, १०, ४.
 लेख्य-०ख्य विध ९८, ६३^०;
 -ख्यम्^१ विध ७, १; १२; १३;
 -ख्येन आश्रिणु ३, १०, २: ३^१.
 लेख्य-प्रत्यय-यः वाध १६,
 १४.
 लेख्या(ख्य-अ)भाव-न्वे विध
 ५, १८७.
 लेख्या(ख्य-अ)संनिधान-ने
 विध ६, २६.
 लिङ्ग-पाउ १, ३६; पाग^१ ४, १, १८;
 ९९; १०५.
 लैगवायन-पा ४, १, ९९.
 लैगव्य-पा ४, १, १०५.
 लैगव्याय(त>)नी-पा ४, १,
 १८.
 √लिङ्ग् पाधा.भवा, पर. गतौ; चुरा.
 उभ. चित्रीकरणे.
 लिङ्ग(वप्रा.)^१-पाग २, ४, ३१;
 -ङ्गम् निसू ९, ७: ५;
 २२; कौसू; अप ३६, २६,
 १^१; बौध २, १, १४^१; वैध
 २, ९: ५^१; गौध २३, ११^१;
 -ङ्गस्य कौसू ६३, १३; अप ७०^३,
 १०, १^१; ७१, १७, १०^१; पावा
 १, २, ६८; मौसू ७, ४;
 ११^१××; -ङ्गात् काश्रौ १,
 ८ ३६; १२, ६, ३३;
 बुदे; -ङ्गानाम् काश्रौ २२, ३,
 १९; -ङ्गानि आश्रौ ५, १, ७;
 अप; -ङ्गे^१ वाध ६, १६; शंघ

a) थै प्रविष्टे > थैप्रविष्टः इति जीसं. । b) = स्मृतिकार-। धा. अर्थः ? । c) लिखिता इति BI. ।
 d) पुं. घनन्तम् । स्त्री. = रेखा-। e) द्र. पागम. । f) पामे. पृ २०७६ h द्र. । g) रेखाम् इति आन. ।
 h) बस. । i) व्यप. । उप. = १ भू. । j) भू- इति पागम. । k) लेखा-अ- इति [पक्षे]
 मासडा. । l) उप. = संभेद-। m) कर्तारि कृत् । n) भावे कुरणे च प्र. । o) = विष्णु- ।
 p) = व्यवस्था-पत्र-। q) = लेखन-साधन-। r) व्यप. । s) प्रायेण = विह-। विशेषः टि. द्र. ।
 मु. < √लिङ्ग् इति प्रामोवाद्. < √लम् इति MW. ? । t) = शिव-लिङ्ग- । u) = सूत्रेन्द्रिय- ।
 v) लिङ्ग-हेतुत्वात् इति जीसं. ।

५३; विध ६०, २५; -ङ्गेन शाश्रौ
 १, १७, ४; हिश्रौ; पावा १, १, १;
 -ङ्गे: शाश्रौ ५, ४, ३; ६, २, ११;
 आपश्रौ.
 ?लिङ्गक- -का: अप ४८, ११६.
 लिङ्गकर्मन्- -र्म मीसू ११, ४, ३३.
 लिङ्ग-क्लृप्त- -से शाश्रौ १४, २२, ५.
 लिङ्ग-क्रम-समाख्यान- -नात् मीसू
 ३, २, १९.
 लिङ्ग-ग्रहण- -णम् लाश्रौ ९, ६, २२.
 लिङ्ग-ज्ञ- -ज्ञा: या १, १७.
 लिङ्ग-तस(ः) आपघ २, २९, ६;
 हिध २, ६, १९; वृदे १, २०; ३,
 ३९^३; ६, ६९.
 लिङ्ग-दर्शन- -नम् मीसू ३, ७,
 ४३××; -नात् मीसू १, १,
 २३××; ७, ३, ८^०.
 लिङ्गदर्शना(न-अ)व्यतिरेक-
 -कात् मीसू ९, २, २८.
 लिङ्ग-पुंवद्भावप्रतिषेधा(ध-अ)र्थ-
 -र्थम् पावा ४, ३, १२७.
 लिङ्ग-प्रतिषेध- -ध: पावा १, ३,
 ६२.
 लिङ्ग-बाधन- -नम् पावा ५, ४, ३०.
 लिङ्ग-भाजू- -भाजा वृदे ३, १११.
 लिङ्ग-भाव- -वात् मीसू ३, २, ३९;
 ८, १, ३०.
 लिङ्ग-भेद- -दात् मीसू २, ३, २.
 लिङ्ग-वचन- -नम् पावा ४, १, ९२;
 -नानि पावा १, २, ७२.
 लिङ्गवचन-भाव- -वात् पावा ४,
 १, ३.
 लिङ्गवचन-सिद्धि- -द्धि: पावा
 १, २, ६४; ५, २, ९४.
 लिङ्गवचना(न-अ)नुपपत्ति- -त्ति:
 पावा २, ३, ५२; ४, २, ३; ५, ३;

६७^३; ७४.
 लिङ्गवचना(न-अ)भाव- -वात्
 पावा ५, ३, ६६.
 लिङ्ग-वत्- -वता वैताश्रौ १, ३.
 लिङ्गवती- -त्य: माश्रौ ५, १, ५,
 २७.
 लिङ्ग-वाक्य- -व्यात् वृदे ५, ९३.
 लिङ्गवाक्य-विकार-तस(ः) वृदे
 ७, १०८.
 लिङ्ग-विरोध- -धात् मीसू ९, १,
 ३२.
 लिङ्ग-विवेचक- -का: याशि २, ७.
 लिङ्ग-विशिष्ट- -ष्टस्य पावा ४, १,
 १; -ष्टात् पावा ५, २, ५२.
 लिङ्गविशिष्ट-ग्रहण- -णात् पावा
 ६, १, ८४; -णे पावा ८, ४, ११.
 लिङ्गविशिष्ट-प्रतिषेधा(ध-अ)
 -र्थ- -र्थम् पावा ७, १, १.
 लिङ्गविशिष्टा(ध-अ)ग्रहण- -णात्
 पावा ७, १, १.
 लिङ्ग-विशेष- -षेण मीसू १०, ३,
 ६२; ६६.
 लिङ्गविशेष-निर्देश- -शात् मीसू
 ३, २, २७; ६, १, ६; ९, १, ४४.
 लिङ्ग-संयोग- -नात् हिश्रौ ९, ८,
 ४६.
 लिङ्ग-संख्यो(ख्या-उ)पचारा(र-
 अ)नुपपत्ति- -त्ति: पावा २,
 २, २४.
 लिङ्ग-संनियोग- -नोन पावा ४, १,
 ३६.
 लिङ्ग-समवाय- -यात् मीसू १, ४,
 २८.
 लिङ्ग-समाख्या- -ख्याभ्यास् मीसू
 ३, २, २४^०.
 लिङ्ग-साधारण्य- -ग्यात् मीसू ८,

१, २७.
 लिङ्ग-सामर्थ्य- -र्थ्यात् मीसू १०,
 ६, ७४.
 लिङ्ग-सिद्धय(द्धि-अ)र्थ- -र्थम् पावा
 ५, ३, ९८.
 लिङ्गा(ङ्ग-अ)तिदेश- -शात् पावा
 १, ३, ६२.
 लिङ्गा(ङ्ग-अ)विकार- -रे पावा ४,
 १, २५.
 लिङ्गा(ङ्ग-अ)नुपपत्ति- -त्ति: पावा
 ४, १, ३.
 लिङ्गा(ङ्ग-अ)न्यत्व- -त्वम् पावा ४,
 १, ९२.
 लिङ्गा(ङ्ग-अ)न्वि(त>)ता- -ताम्
 विध ५, १७२.
 लिङ्गा(ङ्ग-अ)भाव- -वात् पावा १,
 २, ४७; २, ४, ८२; ७, १, ३३;
 मीसू १, ३, १८.
 लिङ्गा(ङ्ग-अ)यतन-चित्र- -त्राणाम्
 अप ७१, १, ४.
 लिङ्गा(ङ्ग-अ)यतन-चैत्य- -त्येषु
 अप ७०^३, ९, २.
 लिङ्गिन्- -ङ्गिन: अप ६८, २, ३५;
 -ङ्गिनाम् विध ९३, १३^०.
 लिङ्गि-नेष- -षेण विध ९३, १३.
 लिङ्ग्यु(ङ्गि-उ)पताप- -प: कौसू
 २५, २.
 लिङ्गे(ङ्ग-ई)प्सु- -प्सु: शाश्रौ १४,
 ५१, ८.
 लिङ्गो(ङ्ग-उ)क, क्का- -क: शुअ ३,
 ४; -क्तम् शुअ १, ४६××;
 -क्का शुअ १, १४१××; साअ;
 -क्का: शुअ १, २७१; २९६; साअ
 १, ४२७; ६४२; २, ३४५××;
 -क्कानि शुअ १, १२५××;
 -क्के शुअ १, ४१××.

a) समाहारे द्रव. । . . b) लिङ्गात् इति जीसं. । . c) ख्यानाभ्याम् इति जीसं. । . d) लिङ्गेन

१ लिङ्गोक्त-देवता- -ता ऋअ
२, ६, ७५; शुअ १, १७०; -ताः
ऋअ २, ६, ४८; ७५; १०, ५९;
शुअ ३, १२४.

लिङ्गोक्त-देवत्व, स्या- -त्यम्
अअ ७, २२; ३७; -त्ये ऋअ
२, १, १३६.

२ लिङ्गोक्त-देवत्व, ता^१ - -तः ऋअ
२, १, ९४; ६, ४७; शुअ १,
३०५; साअ १, ९६; ५९०;
-तम् शुअ १, २७३××; -ता
ऋअ २, २, ३२××; शुअ; -ताः
ऋअ २, ६, ७५; शुअ १, १७३;
२, ४६०; -तानि शुअ १,
४७०××; -ताम् शुअ ४, ३०;
५०; -ते शुअ २, ४२९; -तौ
ऋअ २, १, ११२.

लिङ्गोक्त-देवता^१ - -तः शुअ २,
४६४^१; -तम् ऋअ २, ४, १३;
१०, १८४; वृदे; -ते वृदे ४,
१२९.

लिङ्गोक्त-देवत्व-पा(द>)दा^१-
-दा ऋअ २, १, ३५.

लिङ्गोक्त-बहुदेवता- > °व-
(त्य>)स्या- -त्या शुअ १,
५०६; २, १०६.

लिङ्गो(ङ-उ)द्वार- -रः गौघ १२, २.

लिङ्गो(ङ-उ)पदेश- -शः मीसू १,
२, ५१.

लिङ्गो(ङ-उ)पपत्ति- -त्तिः द्राश्रौ
२, १, ५.

लिट्- (>√ लिख पा.) पाग ३,
१, २७.

लितगुतौ^१ अप ४८, ४३.

√ लिप्, म्प^१ पाधा. तुदा. उभ.
उपदेहे, लिम्पन्ति वैताश्रौ २०,
६; कौसू ८०, २०; लिम्पत्
शाश्रौ ७, ८, १२.

लिप्यते अप ४२, १, ३; ऋबौघ
२, ६, ३२; १०, ८; गौघ १९, २.
लेपथेत् अप १, १०, ३; अशां
२२, ४.

लिपि- पाठ ४, १२०; -प्याम्
पावा ४, १, ४९.

लिपि-कर- पा ३, २, २१.

लिस- पाठ ५, ५५^१; -सानाम्
कप्र १, ८, १४.

लिस-वासित- पाग २, २, ३१.

लिम्प- पा ३, १, १३८.

लेप^१- -पः बौश्रौ २३, ९; २९;
वाश्रौ १, २, ३, २३; वाघ ३, ४०;
विघ २३, ३९; -पम् आपश्रौ
६, १०, १०××; काश्रौसं; बौश्रौ
३, ६; १८; २१××; भाश्रौ
६, १२, ७; ८××; माश्रौ १, १,
२, २०; २९××; वाश्रौ १, २, ३,
२५; ३, १, २९××; वैश्रौ २, ५; १;
२; ६××; हिश्रौ ३, ७, ६७;
७१××; -पयोः आपघ ७, १३;
-पाः आपश्रौ १८, १६, ७; १४^१;
हिश्रौ १३, ५, ३५; ६, ३३; आपघ
१, ५, २३; हिघ १, ४, ८२; -पात्
आपश्रौ ३, २, ७; काठश्रौ १४^१;
भाश्रौ; आपघ २, २, १^१; -पान्
आश्रौ ८, १४, १४; आपश्रौ
१८, ४, १५; ५, १; वाश्रौ;
हिघ २, १, २३; -पेन भाश्रौ
१, २६, ३; माश्रौ १, ३,

३, १०; ५, ८; वाश्रौ; -पेसु
आपश्रौ १५, ११, ७; बौश्रौ
९, ११; १६; भाश्रौ; -पौ
आपश्रौ १९, २१, १९; हिश्रौ
२२, ४, ७.

लेप-गन्ध- -न्धेन वैघ ३, ३, ३^१.

लेपगन्धा(न्ध-अ)पकर्षण-
-णे वाघ ३, ४८; गौघ १,
४८.

लेप-निमार्जन- > °न-शेषाव-
नयनां(न-अ) शुनिधान-वर्जम्
वैश्रौ १५, १४; ९.

लेप-वत् मीसू ९, ४, ३७.

लेपन- > °न-स्तरणो(ण-उ)पस्त-
रण- -णैः आघ २, ३, ३.

लेपनो(न-उ)दक- -कम् वाघ
११, २४.

लिप्सत्- प्रथ. √ लम् द.

लिबि^१- > लिबि-कर- पा ३, २,
२१.

लिबु(ज>)जा^१- -जा अअ ६, ८;
या ६, २८^१; ११, ३४; अप्रा ३,
४, १; दंवि २, २.

लिबि- पाठवृ ४, १२०.

√ लिङ् पाधा. दिवा. आत्म. क्ली-
भावे; तुदा. पर. गतौ > लेश^१-
-शः तैप्रा १०, २३; -शेन ऋप्रा
१४, १७.

लेश-वृत्ति- -त्तिः शौच २, २४.

लिष्व- पाठभो २, ३, १२८.

√ लिह^१ पाधा. अदा. उभ. आस्वादाने,
लिहन्ति वाधूश्रौ ४, ८९; २८;
३०; या १०, ३९; लिह्यात्
वाधूश्रौ ४, ८९; २८.

a) बस.।

b) कस. > बस.।

c) शुसौ इति संस्कृतः टि.।

d) पा ३, १, ५३; ५४;

७, १, ५९ परामृष्टः द.।

e) < √ ली।

f) = [पात्रादि-लान-] घृतादिद्रव्यशेष-। घष् प्र.।

g) पाठः ?

१ पाप् इति शेषः (वृ. विघ. २, १, २३)।

h) लेपगन्धेन शङ्का > तलेपगन्धमनशङ्का इति ०.।

i) = लिपि-।

j) वैघ १ द.।

k) = लुप्तवदुच्चारण-।

l) पा ७, ३, ७२ परामृष्टः द.।

वैघ-१-८२

ली(ढ>)ढा- > लीढा(ढा-अ)
तिलीढ-विद्युत्^१- -द्युत् याशि २,
४९.

लेलिह^२- -हा: सु ११, ५.

लेलिहान- -न: अप २४, ३, ३.

लेह- पा ३, १, १४१.

√ली^० पाधा. दिवा. आत्म., क्र्या. पर.
श्लेषणे; चुरा. उभ. द्रवीकरणे,
लीयते या ६, २८; कौश्रि ८१;
लीयन्ते विध २०, २७.

लय- -यम् अप २, ५, ४.

लय-समत्व- -त्वम् याशि २,
८३.

लाय^१- -यम् वैताश्रौ ३३, १९१.

√लु, लू^० पाधा. क्र्या. उभ. छेदने,
लुनोति आपश्रौ १, ३, १५; ४,
२; बौश्रौ; लुनुयात् बौश्रौ २१,
४: ४.

लुनाति माश्रौ १, १, १, ३६; कौसू
६१, ३९.

लवक- पा, पावा ३, १, १४९.

लवनण- पाग ३, १, १३४.

लवन- -नम् आशि २, ५, १२:
१३; -ने बौश्रौ २०, २: ४२;
हिश्रौ १, १, ४०; पा ६, १, १४०.

लवन-मन्त्र- -न्त्र: हिश्रौ ३, ८,
५३.

लवना(न-अ)र्थ- -र्थे या २, २.

लवित्र- पा ३, २, १८४.

लु^१, लु^२ पाधा आपश्रौ १, ४, ८; हिश्रौ
१, २, ४०; वाश्रौ १, २, १, १८;
कौसू १, २५.

लुत- पा ८, २, ४४; पाग ५, ४, २९;

-नम् बौश्रौ २०, ३: २२; २५;

कागृत् ४१: ५; -नस्य आपश्रौ

७, ६, १; -ना: गोष्ट १, ५, १७;

-नात् कौसू ३५, ७; -ने हिश्रौ

३, ८, ५३; अप २३, ११, ४.

लुत-क- पा ५, ४, २९.

लुत-यव- पाग, पावाग २, १,
१७.

लुतवत्- पा ८, २, ४४.

लुनि- पावा ८, २, ४४.

लुयमान->^०न-यव- पाग, पावाग
२, १, १७.

लुच्^१- लुक् वाध २१, ११.

√लुञ्च्^२ पाधा. भ्वा. पर. अपनयने.

√लुञ्ज् पाधा. चुरा. पर. हिंसाबला-
दाननिकेतनेषु, उभ. भाषायाम् च.

√लुद् (बधा.)^१पाधा. भ्वा^१. पर. विलो-
डने विलोटने^२, आत्म. प्रतिघाते;
तुदा. पर. संश्लेषणे; चुरा. उभ.
भाषायाम्, लोटते निघ २, १४^१.

√लुद्^१ पाधा. भ्वा. पर. उपघाते, आत्म.
प्रतिघाते; दिवा. पर. विलोडने;
तुदा^२. पर. संश्लेषणे, लोटते
निघ २, १४^१.

√लुद्^१
लुडित- -ने ऋत् ५, २, ९.

√लुण्^२ पाधा. भ्वा. पर. स्तेये.
लुण्क- पा ३, २, १५५.

√लुण्^२ पाधा. भ्वा. पर. स्तेये^३, आलस्ये,
प्रतिघाते गतौ च; चुरा. पर. स्तेये.

√लुण्^२

लुत्वा √लु, लू द.

√लुन्थ् पाधा. भ्वा. पर. हिंसासंश्लेषण-
यो:.

√लुप्^२, म् पाधा. दिवा. पर. विमोहने;
तुदा. उभ. छेदने, लुम्पन्ति वाधूश्रौ
४, ७४: ८; ऋप्रा १४, ४०;
४३; ४८; ५०; माशि ७, ३;
नाशि २, १, ३; लुम्पेत् निसू ५,
११: २३; लुम्पेयु: द्राश्रौ ९, ३,
२०; लाश्रौ ३, ७, ७.

लुप्यते आश्रौ १, ५, १२; ४, ८,
८; शाश्रौ १, २, १०; ३, २०, १३;
आपश्रौ; लुप्येते तैप्रा १०, १९;
२२; लुप्यन्ते क्षुसू १, २:
१६××; निसू; लुप्येत आपश्रौ
१, १०, २१; १४, ३२, ६; बौश्रौ;
लुप्येरन् शाश्रौ १३, १, ८.
लोपयति माश्रौ १, ६, १, २२;
लोपयन्ते मागृ २, १, १३^३; ०;
लोपयेत् बौश्रौ २७, ६: २५;
२८, १३: २३; २४; हिश्रौ १५,
३, २६.

लुस, सा- -स: लाश्रौ १०, ५, ५;
-सम् लाश्रौ ७, ११, ६; कप्र ३,
९, १२; अप्रा १, १, २८; -सा
द्राश्रौ १, ४, २; लाश्रौ १, ३, २१;
-सानि बौश्रौ २८, १३: २०;
-से तैप्रा १५, १; १७, ४; शैशि
२३०; याशि २, ७७; पावा १,
१, १९.

लुस-करण^२- -गानि अप्रा १, १,
२४.

a) समाहारे द्वस. । मध्यमपदे छान्दसो ह्रस्वः । b) = सर्प- । कर्त्तरि प्र. । c) या ३, ५ पा १, ३, ७०;
६, १, ५१; ७, ३, ३९; ८० पावा ६, १, ५० परागृष्टः द्र. । d) = २लाय- (तु. वैप १) । e) या ३, ५ पा ७, ३, ८०
; परागृष्टः द्र. । f) आपश्रौ. हिश्रौ. पाठः । g) अर्थः ? = जलौकस्- इति Böh. । h) पा १, २, २४ परागृष्टः द्र. ।
i) पा १, ३, ११; ३, १, ५५ परागृष्टः द्र. । j) √लुड्, √लुञ् इति BFG. । k) तु. BFG. । l) वा. गतौ
आत्म. । m) √लुण् इत्यपि [पक्षे] भाषा. प्रसृ. । n) पा ३, १, २४; ७, १, ५९ पावा ७, ४, ३ परागृष्टः द्र. ।
o) पामे. वैप ३, २६०२ i द्र. । p) वसू. ।

लुप्त-ज(प>)पा^३-पा आश्रौ
२,१९,३.

लुप्त-धर्म^३-मः वीश्रौ २९,८:
१३.

लुप्त-नकार^३-त्व-त्वात् पावा
७,१,५९.

लुप्त-नामकरण^३-णः या ६,
२२.

लुप्त-पर^३-राणि अप्रा १, १,
१५.

लुप्त-प्रत्यय^३-ये अप्रा ३,४,१.

लुप्त-भाग^३-नाम् निसू ३, ६:
३२.

लुप्त-वत्-वत् ऋप्रा १०,३.

लुप्त-शेष-षेण अप्रा २,४,५.

लुप्त-इमश्च-लोम-नख^३-खाय
आमिगु ३,११,२: २.

लुप्ता(स-आ)ख्यात^३-तेषु पावा
२,१,१.

लुप्ता(स-अ)न्त^३-न्तम् ऋप्रा
१०,३.

लुप्ता(स-अ)र्थ-र्थम् कागु
५१,३.

लुप्तो(स-उ)प(मा>)म^३-
मानि या ३,१८.

लुप्त्वा द्राश्रौ १५,४,७; लाश्रौ ५,
१२,१४.

१ लोप-पः काश्रौ १२, ७, ६;
आपश्रौ; पा १,१,६०; ३,९××;

पावा १, १, ६५^२, ३, ९××;
-पम् श्रुप्रा ३,१३६; ४,५; ३८;

९९; -पस्य पावा ५,१,२८; ६,
४, ५२; ७, ४, ६०; ८, २, ३;

-पात् निसू २, ९: २१; ६, ५:
२६; ७, १३: ९; १८; ८,

१०: २९; पावा १, १, २६;
२, ४, ८५; ८, २, २३; -वे

शौच १, ६७; पा ६,१, १३४;
८,१, ४५; पावा १, १, ६२; ३,
९××.

लोप^० पावा १, १, ५७; ४, २;
६,१,१८६.

लोप^० पावा ६, १, १२××.

लोप-पः पा ६,१,१३२××;
-पस्य पावा १,१,४; -वे पावा

१,२,४५××.

लोप-धातु-प्रातिपदिक-प्रत्य-
य-समासान्तोदात्तो (त-उ)दात्त-
निवृत्ति-स्वर-राः पावा ६, १,
९०.

लोप-पुंवद्भाव-वौ पावा
८,१,९.

लोप-पुंवद्भावा (व-अ)न्तो
दात्तत्व-त्वानि पावा ८, १,
११.

लोप-निमित्त^३-त्व-त्वात् पावा
४,१,७८.

लोप-प्रतिषेधा (घ-अ)र्थ-र्थम्
पावा ७,४,६१.

लोप-प्रसङ्ग-ङ्गः पावा ७, ४,
९३.

लोप-बलीयस्-त्व-त्वात् पावा
७,२,३.

लोप-रेफो(फ-रञ्ज)ष्म-भाव-
नम् ऋप्रा १५,१२; -वे ऋप्रा
४,८०.

लोप-वचन-नम् पावा ५, ३,
८३; ७,४,६; ८,३,२०.

लोप-वचन-नम् पावा ४,
१,७८; ६,१,१; ७०; ४, १७४;

८, १, ६७; -नात् पावा ५, २,
१२^३; ७,१,३३.

लोपवचना(न-आ)नर्थक्य-
क्यम् पावा ४, ३, २२; ७,

१,३३.

लोप-विज्ञान-नात् पावा ७,
१,३३.

लोप-संयोगादिलोप-कुत्व-
दीर्घत्व-त्वानि पावा ८, २,
२२.

लोप-संज्ञा-ज्ञायाम् पावा १,
१,६०.

लोपसंज्ञिन्->ज्ञि-त्व-
त्वात् पा १,१,६०; ६२.

लोप-संज्ञेह-हे अप्रा २, २,
२.

लोप-स्थान-नम् लाश्रौ १०,
५,७.

लोप-स्वर-वर्जम् पावा १, १,
५८.

लोपा(प-आ)गम-विकार-राः
तैप्रा २४,५; याशि २,८.

लोपागमविकारा (र-आ)दि-
दि शैशि २४३; ३०४.

लोपा(प-अ)र्थ-र्थम् पावा ३,
१, ३; ६, ४, १७१; ७, १,
२७.

लोपा(प-अ)र्थ-र्थम् पावा ६,
४,१३५.

लोपिन्-पिनः पावा २, ४,
६२; ४,१,८९.

लोपि-प्रतिषेधा (घ-आ)न-
र्थक्य-क्यम् पावा ७,४,२.

लोप्त्र-पाउभो २,३,८१.

लोप्त्र-हस्त-स्तः शंघ
३२८.

लुब्ध-√ लुम् द्र.

लुब्धः निसू ९,६: ७; १०: २५.

√ लुम् (बधा.)^० पाधा. दिवा. पर.
गार्थैः तुदा. पर. विमोहने,
लुलोभ कौसू ४२,१७^३.

लोभयति जैश्रौ ८ : ६^०; लोभ-
यन्ते^० माश्रौ २, २, २, ५^०; कागृ
४५, ८; लोभयन्ति^० माश्रौ १,
२, ५, २२^०; लोभयेत् आश्रौ ९,
१०, १६^०.
लुब्ध- -ब्धः विध ९३, ८; -ब्धम्
या ४, १४^०; -ब्धाः माशि १६,
४; ५.
लुब्ध-योग- -नो पा ५, ४,
१२६.
लोभ- -भः आपध १, २३, ५; विध
३३, ६; हिध १, ६, १३.
लोभ-तस् (ः) विध ६, ४०.
लोभ-नामन्- -म या २, ५.
लोभ-मोहित- -ताः बौध १,
११, २१; काध २८१ : ५.
लोभ-शून्य-त्व- -त्वम् विध २,
१७^०.
लोभन्^०- -नानि माश्रौ १, २, ५, २३;
२, २, २, ७.
लोभयत्- -यन्तः कागृ ४५, ८^०†.
√लुम् पाधा. भ्वा. पर. अदर्शने; चुरा.
पर. अदर्शने.
√लुल्^० > लोल^० > लौल्य-
-व्यात् वृदे ८, ३१.
लोल-जि(ह्वा)>ह्व^०- -ह्वः विध
४५, १६.
लुश^०- -शः ऋअ २, १०, ३५; वृदे
३, ५५; शुअ २, ३२८; ३, १७६;
२१२; -शात् ऋअ २, ६२;
-शे. वृदे २, १२९.
लुषम- पाउ ३, १२४.

√लू √लु द्र.
लूता- पाउमो २, २, १३३.
१लूनि- √लु, लू द्र.
२लूनि- पाउवृ ४, १०५.
√लूष् पाधा. भ्वा. पर. भूषायाम्;
चुरा. पर. हिंसायाम्.
लूष- (>लौषायणि-) अर्क-लूष-
दि. द्र.
१लेक^०- -कः आपश्रौ ५, २९, ११;
बौश्रौ ३, ३ : १६; माश्रौ ५,
२१, ११; वैश्रौ १, २० : १३;
हिश्रौ ३, ६, २७.
१-रलेख- -प्रभृ. √लिख् द्र.
३लेख^०- (>लैख- पा.) पाग ४, १,
११२.
लेखक- -प्रभृ. √लिख् द्र.
लेद्- (>√लेख्य पा.) पाग ३, १, २७.
√लेप् पाधा. भ्वा. आत्म. गतौ.
लेप-, लेपन- -प्रभृ. √लिप् द्र.
लेला- पाग ३, १, २७; >√लेलाय^०
पा ३, १, २७; लेलायति आपश्रौ
२, १९, ११; ६, १०, ३; हिश्रौ ३,
७, ६४; लेलायन्ति वाधुश्रौ ४,
११७ : ३.
लेलायत्- -यत् आपश्रौ ६, ९, २१.
१लेलि- -लिम् शांश्रौ १२, १८, १७†^०.
लेलिह-, हान- √लिह् द्र.
लेश- √लिश् द्र.
लेह- √लिह् द्र.
लैगवायन-, लैगव्य- -प्रभृ. लिगु- द्र.
√लैण^० पाधा. भ्वा. पर. गतिप्रेरण-
श्लेषणेषु.

√लोक पाधा. भ्वा. आत्म. दर्शने;
चुरा. उभ. भाषायाम्.
१लोक(वप्रा.)^० -कः शाश्रौ ४, १४,
३६†^०; १५, १७, ११†^०; १६, २१,
१३†^०; १५†^०; २२, १३†^०; काश्रौ;
आपश्रौ ७, ९, १०†^०; १६, २३,
१०†^०; बौश्रौ ४, ४ : १३†^०; ६,
२७ : २†^०; १६, ११ : २†^०;
माश्रौ ७, ७, १३†^०; १†^०; १०,
८ : ४†^०; १४, १० : १०†^०; १८,
१७ : २८; १†^०; ४, २, ४१†^०;
११, ७, ३१†^०; कौश् १२५,
२†^०; शुअ २, १५५†^०; १५६†^०;
-कम् १आश्रौ ३, ७, ११××;
शांश्रौ २, ६, ७†^०; काश्रौ;
आपमं १, ६, ४†^०; आमिष्ट
३, ८, २ : १९†^०; बौपि
१५ : ३७†^०; मागृ १,
१३, ६†^०; या १२, ८†^०;
२३; ३७†^०; -कयोः १आपश्रौ
४, १०, १; ५, ८, ४; १०,
५, ५; १बौश्रौ; -कस्य आश्रौ
८, १३, १४; १आपश्रौ ५,
१८, २; ६, ९, ४; बौश्रौ; -काः
१आश्रौ २, १४, १२; १०, ९,
५; १शाश्रौ १६, २१, २; २१;
१आपश्रौ ४, ७, २××; बौश्रौ;
माश्रौ ४, १०, १; माश्रौ १,
८, २, ७†^०; वाश्रौ १, ६,
३, १†^०; हिश्रौ ६, २, १७†^०;
आमिष्ट ३, ६, १ : १०†^०; बौपि
१, ८ : ९†^०; हिध २, १,

a) घा. नाशे वृत्तिः। b) सप्र. ंन्ते <> ंन्ति इति पाभे। c) नाप. (व्याघ-)। d) अलोमः इति जीसं.। e) [=प्रकरणात्:] पाद-शंभु- (तु. पूर्व सूत्रम्)। f) पाभे. वैप १, २६०२ i द्र.। g) पृ २१०६ j द्र.। h) =चञ्चल-। घा. गतौ वृत्तिः। i) बस.। j) व्यप.। k) वैष १ द्र.। l) घा. दीप्ति वृत्तिः। m) पाभे. वैप १, २५७१ ० द्र.। n) तु. BPG.। o) विशेषः टि. द्र.। p) =देव-लोक-। q) =वृषिबी-लोक-। r) परस्परं पाभे.। s) [=उपचारात्:] देवता-। t) पाभे. पृ ८४१ h द्र.। u) पाभे. वैप १ लोकम् ऋ १०, ८५, ३० टि. द्र.। v) पाभे. वैप १ लोमम् ऋ १०, १८, १३ टि. द्र.।

१२^a; शुभ्र ४, १८८^b; अन्न १०, १०^c; या ४, १९^d; -काःS:काः माश्रौ ६, १, ६, ११^e; -कात् आश्रौ २, ६, २^f; १२, ९, १८; शांश्रौ ४, ४, २^g; १६, २२, १०; ऋआपश्रौ, १, ८, ७^h; ६, १३, ८; २२, १६, ९; काठश्रौ ५ⁱ; ७^j; बौश्रौ १२, १४:१३; १८, ४८:१७^k; माश्रौ १, ८, ५^l; माश्रौ १, १, २, ८^m; वाश्रुश्रौ ४, ३०: ३०ⁿ; वाश्रौ १, २, ३, १^o; ऋहिश्रौ २, ७, १७^p; जैश्र २, २: ४^q; -कान् शांश्रौ १६, २१, २१; आपश्रौ ४, ८, ४^r; ५, ९, ११^s; ६, १८, ३; ७, १, १; १६, २५, २^t; १२१, ११, ९; १०:२२, ९, १९; १२, १०^u; ऋश्रौ २, १०:८; १४, २१:२३; १६, ११:३; २७:३; १९, १०: ४९; २४, ११:१८; माश्रौ ४, १२, ३^v; माश्रौ १, ५, २, १५^w; २, ५, ५, २२^x; ६, १, ७, ३१; वाश्रुश्रौ; वैश्र ३, १५, १३; हिश्र २, २, ३५^y; ४, ४०: ५, १९६; वृदे २, ३८; ६३; ६, १२१; ७, १२७; शुभ्र ११, १०:या २, २२; शुभ्र ३, १४७^z; तैप्रा ६, १४^{aa}; -कानाम् शांश्रौ १६, २१, १६; ऋश्रौ १३, २८:१२; ४१:१३; जैश्रौ; -काम्याम् निसू ८, ६:१७;

-काय शांश्रौ १३, १४, ६; काश्रौ २५, ७, ४०^{bb}; आपश्रौ; -के आश्रौ १, १३, ४^{cc}; २, १७, १०^{dd}; ११, ३, ७; काश्रौ २०, ६, १५^{ee}; शांश्रौ; आपश्रौ १, १०, १२^{ff}; २२, ८, २^{gg}; ९^{hh}; १३ⁱⁱ; ९, १^{jj}; बौश्रौ ६, २५:१३^{kk}; १४^{ll}; भाश्रौ १, १०, ७^{mm}; ११, १ⁿⁿ; ५, २०, ९^{oo}; माश्रौ २, ५, ५, २२^{pp}; ५, १, २, ८^{qq}; वाश्रौ ३, ४, ४, १५^{rr}; हिश्रौ २, ७, ६२^{ss}; ३, १, ४^{tt}; ९, ८, ३२^{uu}; १७, ३, २६^{vv}; ३१^{ww}; ३२^{xx}; ३४^{yy}; छसू २, १०:१८^{zz}; निसू ३, ३:१२^{aaa}; ५, ४:४; ८^{bbb}, १३: ३७; ४१; ९, १२:१७^{ccc}; १०, २:१८^{ddd}; ऋशांश्र ५, ९, ४^{eee}; बौश्र ४, ४, ९^{fff}; भाश्र १, १२:१३^{ggg}; गौपि २, ६, २१^{hhh}; जैश्र २, २: २७ⁱⁱⁱ; वाश्र १, ३^{jjj}; ६, ६^{kkk}; २८, ७^{lll}; शंश्र २९०^{mmm}; आपश्र २, १, १२ⁿⁿⁿ; गौश्र ८, १^{ooo}; पावा १, १, १; २३; ४४; २, ४५; ३, ११; ६, १, १; ८२; ८३; -ऋकेन वैताश्रौ ३६, ३०; कौश्र; -केभ्यः ऋआपश्रौ २१, ११, ५; ६; २३, ३, १०; बौश्रौ; वैताश्रौ ३६, २०^{ppp}; -केषु आश्रौ १२, ९, १६; शांश्रौ; या १३, ९; -कौ आश्रौ ११, २, ११; ४, ३; आपश्रौ. लौकिक, का^{qqq}- पा ५, १, ४४; -कः काश्रौ १, ३, २८; आपश्रौ

२४, ४, २२; बौश्रौ २, ७:२२; वैश्रौ २०, १५: ७; ८; कप्र २, ९, १८; मीसू ७, ४, २; -कम् काश्रौ ४, ३, ७; ५, ११, ६; आपश्रौ ५, १३, ८:४:४; वैश्रौ; शांश्र ५, १, ७; पावा १, ४, ५६; -काः बौश्रौ २९, ९:१५; हिश्रौ; नाशि १, २, १४; -कानाम् हिश्रौ ५, २, ३३; आपश्र; -कानि वैश्रौ ११, १०:२; हिश्रौ ३, १, २; -के शांश्रौ २, १७, ९^{rrr}; काश्रौ १, १, १४; आपश्रौ; -केन आपश्रौ ८, ५, ३२; हिश्रौ ४, २, ४४; ४५; -केषु हिश्रौ १, १, १६; या १, १६; मीसू ११, ३, ३२.

लौकिकी- क्रीम् वैश्रौ १२, ११:२; हिश्रौ १०, २, ३७; -क्या आपश्र २०, २; आपश्र १, १३, ७; विध १, ४, २१.

लौकिक-त्व- त्वात् बौश्रौ २, ७:२१.

लौकिक-प्रयोग- नो बौश्रौ २९, ८:१७.

लौकिक-विधि- नधम् बौश्रौ २९, ७:१.

लौकिक-वैदिक- केषु पावा १, १, १; ५६; ६, १, ८३; पापवा १; पापवा २, ३.

लौकिक-संभार-भाण्ड- ण्डानि वैश्र ५, ४:३८.

लौकिका(क-अ)धि- धिना कागुड ४२:१८; वैश्र ७, २:४:

a) सपा. आपश्र २, १, १२ लोके इति पाठे. | b) [= उपचारात्] देवता- | c) पाठः ? °कान् इति शोधः (तु. श्रौ १०, ७, १०) | d) [= रिक्त-] स्थान- | e) पाठे. वैप १, २५४९० द्र. | f) [= प्रकरणात्] लोक-अवधार- | g) = प्रथिनी-लोक- | h) = स्वर्ग-लोक- | i) पाठे. वैप १, १८९७० द्र. | j) परस्परं प्राक्के. | k) पाठे. वैप १ लोके मा १९, ४६ टि. द्र. | l) = स्थान- | m) = लोछ- (तु. शब्दसूची) | n) सपा. श्रौ ७, १०४, १, विसे. | o) पाठे. वैप १ लोके शो ६, ११७, ३ टि. द्र. | p) विप., नाप. ([वैदिक-कर्मवर्जित-] कृतानि [यद.]) |

-मौ वैगु ३, १८: ३; ६, १:
 २१×४; वैध ३,८,४.
 लौकिकानि-विसर्जन-
 -नम् वैगु १,२१: १३.
 १लोक्य^१- -क्यम् बौश्रौ १७,
 १८: ११; -क्यानाम् वुदे १,४;
 -क्ये बौश्रौ २७,११: १६; १९.
 लोक-काम- -मः कौसू ५९, २१;
 -मस्य क्षुसु १,४: १७.
 १लोक-कृत- -कृत काश्रौ ३, ६,
 ११; आपश्रौ ५, १६, १;
 बौश्रौ; या ३, २०; -१कृतौ
 आश्रौ ४, १३, ५; बौश्रौ.
 लोक-क्षय-कर- -रम् अप ६१,
 १, १६.
 लोक-ग्रहण- -णे वाध १०, २०.
 लोक-चि (त्य >) >त्या^१ -त्यायै
 वाधुश्रौ ४, ११५: २.
 लोक-जित्- -जित् आपश्रौ २०,
 १५, १३^३।
 लोक-तस (:) वाश्रौ १, १, ७९;
 कौगु ४, ४, २०^२; शांगु ४, १९,
 ५^३; पापवा १०.
 लोक-त्रय-निविष्ट- -ष्टानाम् अप
 ७०, १, २.
 लोक-त्रया(य-आ)त्मक- -का:
 आम्रिगु २, ४, १२: ८.
 लोक-दाम्भिक- -कः विध ९३, ८०.
 लोक-दृष्टि- -ष्टयः निस् ४, २: ११.
 लोक-धा(तृ)त्री^१ - -०त्रि विध ९९,
 ८.
 लोक-धारण- -णम् अप ३१, ४, २.
 लोक-नाशा(श-अ)थे- -थैः अप

७०, ८, ४.
 लोक-प- -पः जैश्रौका १५४.
 लोक-पाल- -लान् अप १८^२, १,
 ४; ३०^३, १, १४; शंघ ११६:
 १५; विध १, १६; -लेभ्यः अप
 १८^२, १, ३.
 लोकपाल-ज- -जम् अप ७०^३,
 १०, ४.
 लोक-पाव(न >)नी^१ -नी वैगु १,
 १४: १३.
 लोक-पितामह^१ - -हः अप ३१, १,
 ३; ७०^३, १, ३; -हम् आज्यो
 १, १.
 लोक-प्रत्यय- -यात् काश्रौ १३, १, ९.
 लोक-बाधिन्- -धीनि बौश्रु ६:
 १४.
 लोक-बृहद्रथन्तर^१ - -राः लाश्रौ
 १०, ४, ९.
 लोक-भूत- -तेषु मीसू ४, १, ६.
 लोक-मय- -यम् वाधुश्रौ २, १६: ५.
 लोक-मातृ^१ - -तरः कप्र १, १, ११^१;
 -तरम् वैगु ७, ४: ५.
 लोक-गु(ण)णा^१ - पावा ६, ३, ६९;
 -णया बौश्रौ १०, ३६: १५××;
 माश्रौ; -णा बौश्रौ १९, ८: २;
 ३; माश्रौ; -णाः काश्रौ १७,
 ६, ५××; आपश्रौ; -णानाम्
 काश्रौ १७, ७, २१; -णाभिः
 काश्रौ १८, ६, ७; आपश्रौ १६,
 १४, ८; ३३, ७; १७, १०, ८;
 बौश्रौ; -णाम् आपश्रौ १६, १४,
 ९; बौश्रौ १०, ३३: १०; वैश्रौ;
 -णायाः वाश्रौ २, २, ५, २०;

२१; मीसू ५, ३, २०; -णासु
 काश्रौ १६, ७, १९; १७, १, १७;
 जैश्रौप १२; द्राश्रौ १४, ४, ७;
 लाश्रौ ५, ८, ७; -णे बौश्रौ १०,
 ३३: १५.
 लोकंपृणा(णा-आ)दि- -दिः
 आपश्रौ १७, १०, १०^३.
 लोक-यात्रा- -त्रा वैगु ४, १३: १;
 -त्राम् वैगु ५, ६: २१;
 लोक-रव^१ - -वात् नाशि २, ८, २६.
 लोक-वत् पावा ६, १, २; मीसू १,
 २, १७: २०××.
 लोक-विज्ञात- -ते पावा ३, २,
 १११; ८, १, १५.
 लोक-विज्ञान- -नम् पावा ६, ३,
 ६०; -नात् पावा १, १,
 २१; ६५; २, ४, २१; ६, २,
 ३६; ७, २, ११७.
 १लोक-विद्^१ - -वित् आपश्रौ ७,
 १६, ७; द्विश्रौ ६, ८, ४; -विदः
 माश्रौ ५, २, १३, १; -विदौ माश्रौ
 ५, २, १३, १.
 लोक-विदितत्व- -त्वात् पावा १,
 ४, ११०.
 लोक-विद्विष्ट- -ष्टम् विध ७१, ८५.
 लोक-वि(ध >)धा^१ - -धाम् निस्
 ८, ५: ३; २०; ६: १६; ८:
 ३८.
 लोक-वेद- -दयोः पाशि १.
 लोक-वेद-वेदाङ्क-विद्^१ - -वित्
 गौघ ८, ५.
 लोक-व्यत्यूह^१ - -हौ वाधुश्रौ ४,
 ११५: २.

a) विप., नाप. (लौकिकानि-). तत्रविदिताद्यर्थेषु ण्यः प्र. उरसं. (पा ४, १, ८५)। b) उप. <√चि
 [चयने]। c) सप्र. मनुः ४, १९५ °दम्भकः इति पाभे। d) = पृथिवी-। उप. <√धा। e) विप. >
 नाप.। f) = ब्रह्मन्-। पस.। g) पूष. = साम-विशेष-। h) उप. = रमातृ-। i) = षोडशमातृकाऽन्यतमा-।
 j) वैगु १ द. १. k) = लोकपाल-। l) उप. <√विद् [ज्ञाने]। m) दस. > उरसं.। n) विप. (अन्त्यादित्य-)
 उप. उप. कतिरि कृत।

लोक-शब्द-पर- -रे भाशि ८६.
लोक-संग्रहणा(ण-अ)र्थ- -र्थम् बौध
१,५,१४; १०,२९.
लोक-स्निग्ध- -नि शाश्रौ ४, १३,
१; आपश्रौ ६, ११, ५; बौश्रौ
३, ७: २; भाश्रौ ४, २२, ४;
वाधुश्रौ २, १६: ३; हिश्रौ ३,
७, ९२; -नि: वैताश्रौ १९, १६.
लोक-संसा- -सा: निसू ५, २: २१^२
लोक-सामन्- -मभि: द्राश्रौ २, १,
१३; लाश्रौ १, ५, १०; -मानि
निसू ८, ५: ४.
लोक-सिद्ध- -द्धम् कागु ४१: ६.
लोक-स्युत्- -स्युते बौश्रौ १५,
२: १०-१२; भाशि ३७.
लोका(क-अ)मिन्- -मनीन् बौश्रौ
२०, २६: ५; ६; २४, ७:
९; ३५: ९; -ग्नीनाम् बौश्रौ
२०, २६: ४; २१, १४: ४; २२,
५: ४; २३, १९: २५.
लोका(क-अ)द्विपति- -तय: वृदे
१, ७३.
लोका(क-अ)धिपति- -तय: वृदे ८,
१२१.
लोका(क-अ)यत्- (>लौकाय-
तिक- पा.) पाग ४, २, ६०.
लोका(क-अ)लोक- >क-पाल-
-लान् शंघ ११६: ६.
लोकालोका(क-आख्या >)
ख्य- -ख्यम् शंघ ११६: ५.
लोके(क-ई)श- -श विध १, ५२.
लोके(क-ई)ष्टका- -का: आपश्रौ १७,
९, ७; वैश्रौ १९, ६: ११.

लोके(क-ई)ष्टि- -ष्टि: आश्रौ २,
१०, १९.
लोको(क-उक्त >)क्ता- -क्ता निसू
१०, १०: १४; -क्ता: निसू ३,
१३: १५.
लोको(क-उ)त्तरपद- -दात् पावा
४, ३, ६०.
लोक्य- -क्य: आगृ ४, ८, ३५;
-क्यम् वाधुश्रौ २, ३: १.
रलोक- >रलौक्य- -क्य: शाश्रौ
१५, १, १२; ऋश्र २, १०, ७२.
लोक-काम- प्रभृ. १लोक- द्र.
लोकाक्ष- >लौकाक्षि- -क्षय:
बौश्रौ ४४: १.
लोकाक्षि- -क्षय: बौश्रौ ४४: ५^२.
लोकेशी- >शी-पल्लव- -वान् अप
३५, २, ७.
लोग- -गम् शाश्रौ ५, १३, ३; कौसू
७५, १४; ७७, ८; -गान् कौसू
८६, ८.
लोगे(ग-इ)ष्टका- -का: काश्रौ १७,
३, ११.
लोगाक्ष- >लौगाक्षि- -क्षि: काश्रौ
१, ६, २४; काठश्रौ १९; २१^२;
४९; १३४; शुश्र ३, ५७; -क्षिणा
चाश्र ४२: २०.
लोगाक्षि- -क्षिणाम् वैध ४, ७, ९.
लुक् पाधा. भ्वा. आत्म. दर्शनै;
चुरा. उभ. भाषायाम् > लोचन्-
>न-युगम- -न्मे शंघ ४५७:
१२.
लोचना (>ना/कृ)
लोद्- (>लुक् पा.) पाग ३, १,

२७.
लोटा- (>लुटाय पा.) पाग ३,
१, २७.
लोडुल- पाउना ५, ८.
लुड् पाधा. भ्वा. पर. उन्मादे.
लौत- पाउ ३, ८६.
लौत्र- पाउवृ ४, १७३.
लौघ- -धम् निघ ४, १; या ४,
१४४.
लोघ- पाउनावृ २, २७; -ध्रम् अप
३०^२, २, ५.
लोप- प्रभृ. लुप् द्र.
रलोप- >लौपायन- -न: साश्र
१, ४४८; २, ४५९; -ना: ऋश्र
२, ५, २४.
लोपामुद्रा- -द्रा वृदे २, ८३; शुश्र २,
२७९; -द्राम् वृदे ४, ५७;
-द्रायाम् ऋश्र २, १, ७९.
लोपाश- -श: या ५, ३१.
लोप्त्र- प्रभृ. लुप् द्र.
लोफण्ट- (>ण्टी-) लोहारड-
टि. द्र.
लोम- प्रभृ. लुप् द्र.
लोमा- -भ्याम् बौश्रौ २, ५: १२१.
लोमात् निसू १०, ६: २०.
श्लोमक- (>लौमकायन- , कीय-
पा.) पाग ४, २, ८०^२.
रलोमक- (>लौमकायनि- पा.)
पाग ४, १, १५४.
लोम-तस् (:) प्रभृ. १लोमन्- द्र.
श्लोमन्- पाउ ४, १५१; पाग
५, २, १००; ३, १०७;
पावाग ८, २, १८०; -म आश्रौ

a) वैप १ द्र. । b) विप. (स्तोम-)। उस. उप. विजन्तम्, पूष. = साम-विशेष- । c) पूष.
= लौकिक- । d) = चार्वाक-शास्त्र- । e) = [सप्तदीपा-] वसुमती-, पर्वत-विशेष- । f) = विष्णु- । g) = [लोकं-
पृष्णा-] इष्टका- । h) = इष्टि-विशेष- । i) हितार्थे वा निमित्तार्थे वा यत् प्र. । j) व्यप. । k) तु.
पाका. [६, २, ३७] । l) = ओषधि-विशेष- । m) = चतुसु- । n) पृ २०८१ d द्र. । o) तु. पागम. ।
p) लुड् इति [१६] BPG. । q) = वृक्ष-विशेष- । r) पृ १०२२ ० द्र. । s) नाप. ।

२,७,६; आपश्रौ १,१०,१; २०,
१९, ९१; बौश्रौ; -मभिः
आपश्रौ १६,१९,११; वैश्रौ १८,
१६ : ७१; हिश्रौ; -मभ्यः
आपश्रौ ११,३,१; हिश्रौ; -मसु
काश्रौ १६,५,१; वाश्रौ ३,४,३,
४५; पा ७, २, २९; -मानि
काश्रौ १९, ५, १०१; आपश्रौ;
-कृञः-ञः आपमं १, १७, ६;
शैशि २९२; -ञा वाधूश्रौ ४,
६५ : ३; १०९ : ४; हिश्रौ २४,
६, १८; -घ्नाम् आपश्रौ १५,
१५, १; भाश्रौ ११, १५, २७;
हिश्रौ १४,४, १९; कौसू १४१,
४; -ञि आश्रिण १,६,३ : ४०;
-ञिऽ-ञि अप १,५०,४.
लौमन- पा ५,३,१०७.

लोम-तस्(ः) माश्रौ १, ५, १,
१७××; माश्रु १,१,१९; १४,७.

लोम-त्वगा(ग्-आ)च्छाद^२- दः
माश्रु १,३,६.

लोम-तख- खानाम् पाश्रु २, १०,
२४; -खानि कौश्रु ५,१, १२;
शाश्रु ३,१,२; जैश्रु १, १८ : ५.

लोम-मणि- णिः कौसू १३,८.
लोम-मिश्र- श्रम् कौसू २६, १४.

लोम-वत्- पा ५,२,१००.
लोम-वर्जम् वाश्रौ २,१,१,३४.

१लोम-श, शा^१- पा ५, २, १००;
पाग २, ४, ३१; -शम् आपश्रौ
९,१९,१५; १४,७,१३; भाश्रौ;
-शाम् बौश्रु २, ६, ११; -शे

आपश्रौ १०,५, १५; वैश्रौ १२,
६ : १०; -शौ आपश्रौ ८,६,
११; भाश्रौ ८, ६, ६; हिश्रौ ५,
२,३९.
लोमश-क^०- कः, -कस्य बौश्रौ
२४,२३ : ५.
लोमश-सक्थ^१- -क्थौ^० आपश्रौ
२०,१३,१२; बौश्रौ १५, २३ :
६; २६ : ७.
लोमश-सक्थि^१- -क्थौ^० हिश्रौ
१४,३,१४^०.
लोम-संहरण- -णम् आपघ २, ५,
१६^१.
लोमा(म-अ)ग्र- -ग्रात् वाध २५,५.
✓लोमि पा ३,१,२५.
लोमि(क>)का^६- -काः अशां
१५,३.

२लोमन्^१- पाग ४,१,९६; ९८.
१लौमायन- पा ४,१,९८.

लौमायन्य- पा ५, ३, ११३;
-न्याः बौश्रौष ४५ : ५.

लौमि- पा ४,१,९६.
२लोमन्- पाग ४,२,७५; ८०^२.

लौम- पा ४,२,७५.
लौमन्य-, २लौमायन- पा ४, २,
८०.

२लोमश- (> लौमशीय- पा.)
पाग ४,२,८०.

लोमश्य^१- श्यम् ऋश्रा १४, २०.
लोल्- ✓लुल् द्र.

✓लोष्ट^१ पाधा. भ्वा. आत्म. संघाते.
लोष्ट,ष्ट^१- पाउ ३,९२; -ष्टः कौसू

१६, ३२; या ६, १; याशि १,
३४; -ष्टम् काश्रौ ७, ४, ३१;
आपश्रौ; माश्रु १, ७, ९; २,
१४, ४; आपघ १, ३०, १९;
शुश्रु १, २५८; २६०; -ष्टस्य
वाधूश्रौ २, २१ : ५; -ष्टान्
आपश्रौ १६, २०, ५; बौश्रौ;
बौपि १, ३ : १६; २३; माश्रु
१, ७, ९; -ष्टानाम् कौसू ३७,
७; -ष्टानि भाश्रौ ४, ३, ४;
-ष्टेन शाश्रौ ४, १५, ८; वाश्रौ
३,३, १, १२; वैताश्रौ १२, ६;
कौश्रु ५, ६, २; कौसू १६, ३१;
-ष्टेषु हिपि २ : १६; -ष्टैः भाश्रौ
१०,१८,१४; हिश्रौ ७,२, ८७;
-ष्टौ बौश्रौ १०, २६ : ५;
वाधूश्रौ २,२१ : २.

लोष्ट-कपाल^६- लम् काश्रौ २०,
३,१७.

लोष्ट-चिति- -तिः आश्रिण ३,८,३;
४६^१; बौपि १,१६ : ३०; ३१.

लोष्ट-मर्दिन्- -र्दी विध ७१,४२.
लोष्टा(ष्ट-आ)दि- -दिः वाश्रौ २,१,
५,१३.

लोष्टे(ष्ट-इ)ष्टका-परिशृष्ट-गुद^१-
-दः विध ६०,२४^२.

१लोह(बप्रा.)^१- पाग २,४,३१; ४,३,
१५२; -ह^२ शाश्रौ १४, १३,
१; १५, १५, २; आपश्रौ १०,
२९,५; बौश्रौ २१,१२ : २९१;
हिश्रौ ७, ३, २१; -हम् भाश्रौ
७,९,७^१; भाश्रौ ३,१,२^०; ५,२,

a) विप. । मलो. कस. > बस. वा उस. वा । b) वैप १ द्र. । c) = पलाश-वैशेष- ।
स्वार्थे कः प्र. । d) बस. उप. वैकल्पिकः समासान्तष् षच् प्र. (पा ५, ४, ११३) । e) परस्परं
पक्षे. । f) पामे. पृ १३७० f द्र. । g) विप. । मत्वशीयष् ठन् प्र. । h) व्यप. ।
i) = ध्वनिदोषविशेष- । j) ष्ट- इति माश्रु. आपघ. बौपि. शुभ. पाठः । k) बस. । l) हस.
> हस > बस. । m) कश्चि परिशृज्य गुदम् इति जीसं. । n) विप. [ताम्रवर्षा] श्वल, ताम्र- ।
o) = ताम्र-धातु- ।

१४, ९; अप १, ६, ३^a; ४८, ११^b; विध ११, ९^c; काथ २७२; १२^a; निघ १, २^b; -हस्य शंघ १६४^a; -हानाम् शंघ १६४^a; -हेन आपध २, १८, १४^d.
 लौह^e - पा ४, ३, १५२; -हम् आपध १, १७, ११; हिध १, ५, ४३; -हा: काश्रौ २०, ७, ४; -हानि वैश्रौ १, ९: ११^f; हिश्रौ ३, ३, ३३; -हे काश्रौ ७, ४, २९; -हेन आपश्रौ ८, ४, १; बौश्रौ २२, १९:३; भाश्रौ ८, ३, २४; हिश्रौ ५, १, ४६; आश्र १, १७, ९; हिध २, ५, ६७^d.
 लौही - हीभि: आपश्रौ २०, १८, ७.
 लौह-राजत-सौवर्णी - र्णीभि: काश्रौ २०, ७, ११^g.
 लोह-कार - रा: अप १, ६, २.
 लोहकारा(र-अ)सि - भ्रौ काथ २७८: ३.
 लोह-क्षुर - रम् काश्रौ ५, २, १७; कौय १, २१, ६; ११; शांय १, २८, ७; १४; पाय २, १, ११.
 लोह-चारक^h - कम् विध ४३, २२.
 लोह-चूर्ण - र्णम् कप्र ३, ९, १८.
 लोह-पण्ड - ण्ड: गौध २२, २७; -ण्डम् विध ५०, ३१; सुघ ३८.
 लोह-घारण - णम् शंघ २६५.
 लोह-पिण्ड - ण्डम् शंघ २६६;

विध ११, ५; ७; १०.
 लोह-बद्ध - ब्द्धम् माशि १६, ११.
 लोह-भाण्ड - ण्डम् विध २३, २.
 लोह-मय - यानि आमिष्ट २, ७, ८: १६; ३, ५, ७: १६; बौपि १, ६: ११; अश्राय ३, ७; -येन आमिष्ट २, ४, १०: १२.
 लोहमयी - यीभि: वाश्रौ ३, ४, ४, १७; हिश्रौ १४, ४, १७.
 लोह-मुखⁱ - खा: अप २, ४, १.
 लोह-वेष्टित - तम् अप २३, २, ३.
 लोह-शकल - खानि आपश्रौ ५, २, ३; वाश्रौ १, ४, २, ८.
 लोह-शङ्कु^j - ङ्कु: विध ४३, १६.
 लोह-शयन^k - न्ने बौध २, १, १२; गौध २३, ९.
 लोहा(ह-अ)दि - दीनाम् अप ६४, ३, ५.
 लोहा(ह-अ)यस^l - सम् काश्रौ १५, ५, २२; हिश्रौ १३, ५, २७; वाय ४, १७^l; -सा: ^m वाधुश्रौ ३, ७६: २९^m; -सान^m बौश्रौ १५, १५: ३; -सै: बौश्रौ १५, २८: १३; ३३: २.
 लौहायस^o - सम् आश्र ४, ३, १९; काय ४०, १२; माय १, २१, ७; -सेन माश्रौ १, ७, २, २३^p.
 लौहायसी - स्याम् वाधुश्रौ ४, २६: १.

लोहायस-त्सह^q - रव: वाधुश्रौ ३, ७६: ३०; -रुन् बौश्रौ १५, १५: ३.
 लोहा(ह-अ)रम-करण - र्जम् बौध ३, ३, १०.
 रलोह^r - (> लौहायन - पा.) पाग ४, १, १९.
 लोहारड^s - (> ण्डी - पा.) पाग ४, १, ४१.
 लोहायन^t - ना: बौश्रौ ४६: १.
 लोहित^u - पाठ ३, ९४; पाग २, ४, ३१; ३, १, १३; ६, ३, ११६^v; पावाग ८, २, १८^w; -त: काश्रौ १५, ३, १९; १०, ५; २२, ३, १४; आपश्रौ २२, ४, १७; हिश्रौ १७, २, २३; आपमं २, १६, ८^x; षंभाय २, ७: १८^y; २१^y; हिष्ट २, ७, २^z; अप ५३, ४, ३××; -तम् काश्रौ ६, ७, १३; २०, ७, ८; ८, १; ८; २५, ६, ८^z; आपश्रौ; -तस्य आपश्रौ १५, १५, १; भाश्रौ ११, १५, २६; हिश्रौ २४, ६, १२; कौसू ४४, ३२; आपध; -ता: अप ५२, ७, २; ६३, ४, ९; गौध १७, ३०; -ताम् वाध १५, १२; शंघ ४२७; विध ५१, ३६; -तानाम् कौसू ४८, ४१; -तानि कौय १, १६, १६; शांय १, २४, ७; -ते

a) = ताम्र-धातु-। b) सुवर्ण-नामन्-। c) पिण्डम् इति जीसं.। d) विप.। सपा. लो <> [स्वार्थे प्र.] लौ इति पाठे.। e) विकारार्थे प्र.। f) लो इति पाठः? यनि. शोघ: (तु. हिश्रौ.)। g) लो इति पाठः? यनि. शोघ: (तु. वीसं.)। h) = नरक-विशेष-। मलो. बस.। i) बस.। j) उप. = शय्या-। k) नाप. (ताम्र-). कस. समासान्तष् टच् प्र. (पा ५, ४, ९४)। l) = [लोहायस-विकार-] क्षुर-। m) = [तद्विकार-] असि-। n) सस्यं. रङ्गणायस- > -सा: इत्यत्र बस. नेष्टः। o) विप. (क्षुर-)। स्वार्थे प्र.। p) वैतु. B.W. M.W. लोहा इति। q) व्यप.। r) लोकाण्ट- इति पाका.। s) विप., नाप. (स्थिर-, धातु-विशेष- प्रसू.)। सिष्टं वैप १ द.। t) = पर्वत-विशेष-। u) तु. प्रागम.। v) = [लोहितवर्ण-] स्वप्नह-विशेष-। w) पाठे. पृ २०९३. ० द.।

आपश्रौ ५, ५, १; १६, २१, २;
 हिश्रौ ४, ४, १५; द्राण ४, २, ६;
 -तेन काश्रौ ६, ६, ८; आपश्रौ;
 गोण ३, ६, ६^०; द्राण ३, १, ४८^०;
 कौसू २३, १४^०; अप १८^३,
 १, ८^०; वाघ २०, १६.
 लोहिनी^० - नीः आपश्रौ
 १६, १३, ७; -नीम् आपश्रौ
 १०, २६, १३; -नीताम् अत्र
 ७, ७४^०; -न्यः आपश्रौ ९,
 २०, ९; वैश्रौ २०, २९ : १०.
 लोहिनी-(क>)का^०-
 -का आपश्रौ ६, ९, १^०.
 लोहितिक- पा ५, ३, ११०.
 लोहित-क^०- पा ५, ४, ३०^०; -केन
 आपध १, २४, १४; हिध १,
 ६, ६३.
 लोहित-नात्र^० - -त्राय अप २०,
 ४, २^०.
 लोहित-मी(वा>)व^० - -वः बौश्रौ
 १५, २८ : १६^०.
 लोहित-र्भ- -भैः वाघ २१, २^०.
 लोहित-दर्शन- -ने गौध २१, २२.
 लोहित-दोह- -हे काश्रौ २५, २, २.
 लोहित-पचन^० - -नान् वैश्रौ १३,
 ५ : १^०; -नैः हिश्रौ ११, १, ६१^०.
 लोहितपचनीय^० - -यैः आपश्रौ
 १५, ३, २०^०; ४, २; १६, ५, ८;
 ९; भाश्रौ ११, ३, १४^०; १६;
 हिश्रौ ११, १, ६२; २४, १, २०^०.
 लोहित-पांसु^० - -सु गोण ४, ७, ६.
 लोहित-पात्र- -त्रेण कौसू २९,

१९.
 रलोहित-पात्र^० - -त्रः गौध २३, १८.
 लोहित-प्रवाण^० - -णानि लाश्रौ ८,
 ६, २०.
 लोहित-बलि- -लीन् काण ५२, ७.
 लोहित-मिश्र- -श्रम् शाश्रौ ४,
 १९, ७.
 लोहित-लवण^० - -णम् कौसू ३१,
 १७.
 लोहित-लिप्त- -सम् पाण ३, ८, १२.
 लोहित-वर्ष^० - -र्षम् कौसू ९४,
 १४^०.
 लोहित-वसन^० - -नाः आपश्रौ १९,
 १६, ६; २२, ४, २३; हिश्रौ
 १७, २, २७; २२, १, ३, २, ११.
 लोहित-वासस^० - -ससः काश्रौ
 २२, ३, १५; बौश्रौ २३, १ : २६;
 लाश्रौ ८, ५, ८; बौध १, ६, ९;
 अश्र १, १७; या ३, ४^०.
 लोहित-शकृत्- -कृतोः मीसू ४, १,
 २७.
 लोहित-शिरस^० - -रसम् कौसू ४७,
 ३९.
 लोहित-श्वेत^० - -तः हिश्रौ ७, ३, २१
 लोहित-सारङ्ग^० - -ङ्गः आपश्रौ १०,
 २९, ५; वैश्रौ १२, २० : १५;
 -ङ्गम् काश्रौ ७, ९, १८.
 लोहित-सूत्र- -त्रेण कौसू ८५, १८.
 लोहिता-(त-अ)क्त- -क्तम् वाश्रौ
 १, ६, ५, २२
 लोहिता-(त-अ)क्ष^० - -क्षः माण २,
 १४, २९^०; विध ३, ९५.

लोहिता-(त-अ)क्षि^० - -क्षौ अप
 ६३, १, ९.
 लोहित>]ता-गिरि- पा ६, ३,
 ११६.
 लोहिता-(त-अ)ग्नि-प्रभा(भ-आ)
 काश- -शम् अप ६४, ६, १०,
 लोहिता-(त-अ)ङ्ग^० - -ङ्गः अप ५२,
 ११, ४; आज्यो ७, ९; -ङ्गस्य
 अप ५२, ३, २.
 लोहिताङ्ग-परिवेष- -षे अप ६३,
 ३, ३.
 लोहिता-(त-अ)ज, जा- -जम् कौसू
 ३९, ३; -जायाः कौसू १९, १०;
 ३६, १९.
 लोहिताजा-पिशित- -तानि
 कौसू ३५, १८.
 लोहिता-(त-अ)न्त^० - -न्तानि काश्रौ
 २२, ४, २२.
 ✓लोहिताय पा ३, १, १३.
 लोहिता-(त-अ)यस^० - -सम् आपश्रौ
 १८, १५, ६; बौश्रौ; -सस्य बौश्रौ
 ५, १ : ४; ४ : २४; ५ : २; ९ :
 २५; १० : २; १७ : १२; १८ : २;
 १७; १५, १२ : ७; १७, ६ : २ : ०;
 -सेन वाघ ५, ७; -सैः बौश्रौ
 १५, ३० : २६.
 लोहिता-(त-अ)लंकृत- -तम् कौसू
 २२, १; ४७, ४०.
 लोहिता-(त-अ)श्वथ^० - -श्वथम्
 कौसू १६, २०.
 लोहिताश्वथ-पलाश- -शेन
 कौसू ४८, ३१.

- a) = [लोहायस-विकार-] स्वधिति- । b) वैप १ द्र. । c) वैप २, ३ खं. द्र. । d) स्वार्थे प्र. ।
 e) = पद्मराय-मण्डि- । f) बस. । g) विप. (लृणकाष्ठादि-] संभार-). उप. करणे कृत् (द्र. भाष्यसु; वैतु.
 अश्र. प्र.सु. कर्मणि प्र. इति) । h) 'भाव इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. पामे.) । i) सपा. 'वान् <> षैः
 <> 'नीषैः इति पामे. । j) स्वार्थे छः प्र. । k) उप. <प्र>वे । l) = सैन्धव- । m) उप. = १ वृष्टि- ।
 n) बस. । o) वैकल्पिकः समासान्तषु षच् प्र. । p) = विनायक-विशेष- । q) विप. > नाप. (मङ्गल-श्रुति-).
 r) उप. = तन्त- । s) = ताम्र- [तद्विकार-] क्षुर-, पात्र- वा । t) = वृक्ष-विशेष- ।

लोहितमन्-मा कप्र १, ९, ३^६;
-मिन् गोय २, ८, १.
लोहिती ✓ भू > लोहिती-भवत्-
-वन् बौश्रौ २०, १: ५, ९.
लोहिते(त-इ)न्द्रधनुर्-नीहार^७-रेषु
गौघ १६, ९.
लोहितो(त-उ)ष्णीष^८-षा: आश्रौ
९, ७, ४; शाश्रौ १४, २२, २०;
काश्रौ २२, ३, १५; आपश्रौ.
२लोहित^९-पाग ४, १, १८; १०५;
-ता: आपश्रौ २४, ९, ७; बौश्रौप्र
३२: १; २; हिश्रौ २१, ३, १२;
-तानाम्^९ वैध ४, १, ७.
लौहित-०त बौश्रौप्र ३२: ३;
वैध ४, १, ७.
लौहित्यं-पा ४, १, १०५.
लौहित्यायान>नी-पा ४,
१, १८.

लोहित-वत् बौश्रौप्र ३२: ४; वैध
४, १: ७.
लोहित-क-प्रमृ. १लोहित-द्र.
लोहिताक्षपक्षिता-सा अ१ ६५,
२, २.
लोहिता(त-अ)क्षि-प्रमृ. १लोहित-
द्र.
लोहितायन-ना: बौश्रौप्र ३: १४;
४१: ७.
लोहिता(त-अ)यस-प्रमृ. १लोहित-
द्र.
लौकाक्षि-लोकाक्ष-द्र.
लौकायतिक-, लौकिक-प्रमृ.,
१लौक्य-१लोक-द्र.
२लौक्य-२लोक-द्र.
लौगाक्षि-लोगाक्ष-द्र.
✓लौड् ✓लोड् टि. द्र.
लौपायन-२लोप-द्र.

लौम-३लोमन्-द्र.
लौमकायन-१लोमक-द्र.
लौमकायनि-२लोमक-द्र.
लौमकीय-१लोमक-द्र.
लौमन-१लोमन्-द्र.
लौमन्य-३लोमन्-द्र.
लौमशीय-२लोमश-द्र.
१लौमायन-२लोमन्-द्र.
२लौमायन-३लोमन्-द्र.
लौमायन्य-२लोमन्-द्र.
लौमि-२लोमन्-द्र.
लौम्य-✓लुल् द्र.
लौषायणि-लूष्-द्र.
लौह-प्रमृ. १लोह-द्र.
लौहायन-२लोह-द्र.
लौहायस-१लोह-द्र.
लौहितीक-१लोहित-द्र.
लौही-१लोह-द्र.

a) लौहित्यम् इति जीसं. । b) द्वस. लोहित- = लोहितवर्णाकार- । c) बस. । d) = ऋषि-
विशेष- । e) बहु. < लौहित- ।

